



बृहत्  
मराठी-हिंदी शब्दकोश

( शब्दसंख्या ८०,००० )

संपादक  
गो. प. नेने  
श्रीपाद जोशी



---

म हा रा ष्ट्र रा ष्ट्र भा षा स भा, पु णे

---

प्रकाशक तथा मुद्रक :  
तच्चिव, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा,  
३८७ नारायण पेठ, पुणे ३०.

प्रथमावृत्ति प्रती ५,०००  
द्विमेवर १९७१

किंमत

## संपादकीय

मराठी शब्दाना हिंदी प्रतिशब्द देणारा हा सर्वांत मोठा कोश होय याची शब्दसंख्या सुमारे ८०,००० आहे

या शब्दकोशाचे संपादन करिताना प्रामुख्याने दोन उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली होती पहिले असे की, ज्याची मातृभाषा मराठी आहे अशा अभ्यासकाना हिंदीत लिहिताना किंवा मराठीतून हिंदीत अनुवाद करिताना, मराठी शब्दासाठी योग्य प्रतिशब्द मिळतील अशी सोय करणे, आणि दुसरे असे की, ज्याची मातृभाषा मराठी नाही अशा अभ्यासकाना हिंदी प्रतिशब्दाच्या साहाय्याने मराठी शब्दाचे अर्थ जाणून घेण्याची सोय उपलब्ध करून देणे अ-मराठी भाषाकारांसाठी प्रामुख्याने हिंदी भाषी लोकांच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन कोशाचे संपादन करण्यात आले असेल तरी उर्दू भाषी अभ्यासकानाही या कोशाचा उपयोग व्हावा, या दृष्टीने मराठी शब्दाना प्रतिशब्द देताना हिंदी प्रमाणेच उर्दू शब्दाचाही शक्य तेथे वापर करण्यात आला आहे जेथे योग्य प्रतिशब्द मिळू शकला नाही तेथे त्या शब्दाचा अर्थ विशद करण्यात आला आहे अर्थनिश्चितीच्या कामी मुख्यत 'बृहत् हिंदी कोश', 'भाषा शब्दकोश', 'लुग्राते सईदी', 'उर्दू-हिंदी शब्दकोश', 'बृहत् अंग्रेजी-हिंदी कोश' वगैरे शब्दकोशांचा उपयोग करण्यात आला आहे अक्षराचा क्रम हिंदीप्रमाणे ठेवण्यात आला आहे म्हणजे असे की 'क्ष' व 'ज्ञ' ही जोडाक्षरे त्यांच्या मूळ स्वरूपात ('क् + प्' व 'ज् + ब्') स्वीकारून जोडा-

क्षराच्या नियमानुसार ती 'क' व 'ज' या अक्षरामध्ये देण्यात आली आहेत तसेच, अनुस्वारयुक्त शब्द प्रथम देऊन त्यानंतर अनुस्वार-रहित शब्द देण्यात आले आहेत वाक्प्रचार (मु०) व म्हणी (कहा०) त्या त्या शब्दाच्या शेवटी देण्यात आल्या आहेत

थोड्या जागेत अधिक शब्द देतां यावेत यासाठी एका शब्दापासून बनलेले अनेक शब्द मूळ शब्दाच्या पोटात दिले आहेत तेथे मूळ शब्दाची पुनरावृत्ति टाळण्यासाठी अपसारण चिह्न (डॅश) आणि पोकळ टिंब याचा वापर करण्यात आला आहे जेथे आधी दिलेल्या शब्दात भर पडून नवीन शब्द, वाक्प्रचार किंवा म्हण बनली असेल तेथे त्या संपूर्ण शब्दासाठी पोकळ टिंब वापरण्यात आले आहे प्रमुख शब्दाच्या पोटातील शब्दाचे वाक्प्रचार वगैरे देताना कसाचा वापर केला आहे याचा अर्थ असा की, तो वाक्प्रचार त्या विशिष्ट पोटशब्दाचा असून मुख्य शब्दाच्या वाक्प्रचाराशी त्याचा संबंध नाही एकाच अर्थाचे परंतु शुद्धलेखनात किंचित् फरक असलेले शब्द एकत्र देण्यात आले आहेत तेथेहि डॅश व कम याचा उपयोग करण्यात आला आहे

संस्कृत, प्राकृत अथवा देशज शब्दाव्यतिरिक्त इतर शब्दाची व्युत्पत्ति देण्यात आली आहे

मराठीचे शुद्धलेखन पूर्वापार चालत आलेलेच ठेवण्यात आले आहे त्याचे कारण एवढेच की जुन्या शुद्धलेखना-नुसार लिहिल्या गेलेल्या शब्दाचा अर्थ शोधण्यासहि अमराठी भाषकाना अडचण पडू नये

# संकेत सूची

\* पद्यात् किवा जुन्या मराठीत वापरला जाणारा शब्द

+ स्थानिक किवा बोली भाषेतील शब्द.

अ अग्रेजी (इंग्रजी)	पुर्त पुर्तगाली (पोर्तुगीज)
अ अरबी	प्र प्रत्यय
अव्य अव्यय	फा फारसी
उदा उदाहरणार्थ	मु मुहावरा (वाक्प्रचार)
उप उपसर्ग	मुसल मुसलमानी
कहा कहावत (म्हण)	यू यूनानी (ग्रीक)
क्रि अ क्रिया अकर्मक	वा वाक्य किंवा वाक्याश
क्रि. स क्रिया सकर्मक	वि विशेषण
क कन्नड	व्य व्यग्य (उपहासार्थाने)
ग गणित	व्या व्याकरण
ग्रा ग्राम्य	सं संस्कृत
तु तुर्की	सर्व सर्वनाम
दे देखिए (पाहा)	स्त्रि स्त्रियोकी बोलचाल (वायकी शब्द)
न नपुसकलिंग (नपुसकलिंगी)	स्त्री. स्त्रीलिंग (स्त्रीलिंगी)
पु. पुल्लिंग (पुल्लिंगी)	हिं हिंदी



# बृहत् मराठी-हिंदी शब्दकोश

अ

अ - मराठी वर्णमाला का प्रथम स्वरवर्ण । हिंदी की तरह ही अभाव, निषेध आदि अर्थों में इस उपसर्ग का प्रयोग होता है ।

अ - मराठी वर्णमाला में यह पंद्रहवाँ अक्षर माना जाता है ।

अऽऽ - अव्य क्या ? जी ? क्या कहा ?

अँ - अव्य ऐं ? क्या कहा ?

अँ - अव्य छी, त्रिलकुल नही, नही चाहिए ।

अक - पु १ अक, सख्या, अदद, सख्या का चिह्न (१, २, ३, आदि), आँकडा । २ चिह्न, छाप । ३ नाटक का एक भाग, अक । ४ गोद, क्रोड । ५ कलक । ६ पत्रपत्रिका की सख्या, अक । - गणित - न अकगणित, हिमाव । - चक्र - न कालगणनाचक्र (ज्यो) । - चालन - न अको की मारणी, तालिका (ज्यो) । - पाश - पु क्रमचय, 'परम्युटेशन' (ग) । - मोडणी - स्त्री १ अको की गिनती । २ अको की लिखने की प्रणाली । ३ उगलियो पर अक गिनना । - लिपी - स्त्री वच्चो को अक, अक्षर आदि सिखाने की पुस्तक, कायदा ।

अकडा-डी - दे 'आकडा-डी' ।

अकण - न अनाज की वालियाँ, भुट्टे, अनाज ।

अकणकडवे - न टेक, गीत का स्थायी पद ।

अकणी - स्त्री दे, 'आकणी' ।

अकणे - क्रि अ स १ आँकना,

निशान लगाना । २ गिनना । ३ रेखाएँ खीचना, नक्शा बनाना । ४ योजना बनाना, सकल्प करना । ५ अँकना, आँका जाना, अकित होना ।

अकन - न १ अकन, चिह्न करना, अक लिखना । २ शरीर-पर गख, चक्र आदि छपवाना ।

अकशा(स)ळ - पु १ सुनार । २ कसौटी का पत्थर ।

अकित - वि १ अकित, चिह्नित । २ सीमित, बताया हुआ । ३ सेवक, गुलाम । ४ अधीन, वशवर्ती, मातहत, आश्रित । - पु सेवक, दास ।

अकिला\* - वि अधीन, आश्रित, दे 'अकित' ।

अकी - वि १ अको-आँकडो-सवधी । २ अको मे लिखित । ३ अको वाला ।

अकु - कू\* - पु १ दे 'अक' । २ शिष्य, सेवक ।

अकुर - पु १ अकुर, अँखुवा, कल्ला, डाम । २ सतति, वगज । ३ नोक । ४. भावी पुरुषार्थ का चिह्न ।

अकुरणे - क्रि अ १ अँकुर- (रा)ना, अँखुआ फूटना, अकुर उगना । २ शरीर पर रोएँ खड़े होना, रोमांचित होना ।

अकुरित - वि १ अकुरित, अकुरयुक्त, प्रस्फुटित । २ वह जो स्पष्ट दिखाई देने लगा हो (यौवन आदि) ।

अकुश - १ अकुश । २ रोक,

दवाव, नियंत्रण । ३ अँकुमी । ४ सिरपेच, तुराँ ।

अकुशी - स्त्री अँकुसी । - रुपया - पु वह रुपया जिस पर अँकुश की मुहर हो ।

अकोल-ळ - पु स्त्री अकोट - ल, टेरा, एक पहाड़ी पेड़ जिस की छाल दवा के काम आती है ।

अख<sup>+</sup> - पु १ अक, आँकडा । २ आँख ।

अखणी-णे - दे 'अकणी-णे' । अखी - वि दे 'अकी' ।

अखोअख<sup>+</sup> - अव्य छपे या लिखे हुए दाम पर, मूल मूल्य पर ।

अग - न १ अग, देह, शरीर । २ अवयव, इंद्रिय । ३ भाग, इकाई, विभाग । ४ वाजू, दिशा । ५ गीण या आश्रित वस्तु । ६ हिस्सा, साझा, शिरकत । ७ गुदा से बाहर आने वाला आँत का भाग । ८ कौशल, जानकारी । ९ प्रकार । - अग - अव्य अलग

अलग, प्रत्येक के अनुसार । - उधार - वि व्यक्तिगत माख पर उधार लिया या दिया हुआ ।

- कवळी - स्त्री आँलिंगन, गले लगाना । - कण्ट - पु शरीरश्रम ।

- कळा - स्त्री शरीर का तेज, स्वास्थ्य की चमक । - काठी - स्त्री अगलेट, शरीर का गठन, काठी ।

- काडू-ढू-ढ्या - वि १ जी चुरानेवाला, कामचोर । २ भगोडा । - चपळाई - स्त्री, -

चापल्य - न शरीर की चपलता, फुर्ती । - चुकाऊ-र-रु, - चोर - वि

कामचोर, जी चुगने वाला । -  
जड़ - वि १ मोटा । २ मद,  
आत्मी । - जूठ - छी कुम्ती,  
मल्लयुद्ध । - जोर - पु शरीर की  
नामर्थ्य, ताकत । - झोक - पु  
शरीर का झुकाव । - ठसा - पु,  
ठाण - न , - ठेवण - छी दे  
'अगकाठी' । - त्राण - न अगत्राण,  
वस्त्र, कवच । - त्वानें, - त्वें -  
अव्य ओरसे, तरफसे, वाम्ते,  
प्रतिनिधि के नाते । - देवता - छी  
१ उपदेवी, उपदेवता । २ मेवक,  
नौकर । - घट - वि घृष्ट, उद्धत,  
अमम्य, मग्जोर । - घ(घि)टाई -  
छी १ केवल शारीरिक बल ।  
२ जुलम, अत्याचार । - घुणें -  
न १ 'म्वियो का नहाना ।  
२ स्नानगृह । - पिळा; - मोड - पु  
अँगडाई, अग का टूटना, तोडना ।  
- मर - अव्य शरीर को ढाँकने के  
लिए पर्याप्त (वस्त्र) । - भूत - वि  
अगभूत, अगस्वरूप बना हुआ,  
अनर्गत । - मस्ती - छी वीणा-  
मुग्नी, शरारत, घृष्टता । -  
मेहनत - छी शरीरश्रम, प्रत्यक्ष  
श्रम । - मेहनती-न्या - वि १  
शरीरश्रम करने के पेट पालने वाला ।  
२ स्वय खेती करने वाला । -  
मोडा - पु १ अँगडाई । २ बुन्दार  
आनेमे पहुँचे शरीर का दर्द करना,  
अग टूटना । - यष्टी, - रचना - छी  
अगलेट । - रम - पु अगरस,  
पत्ती, फ३ आदि का बिना पानी  
टाले निचोटा हुआ रम । - लग -  
वि १ मवची, मवव रखने वाला ।  
२ निकट वा । - पु. रिग्येदार,  
मोही, मवची । २ समागम,  
मेट, मिग्म । ३ आश्रय । - लट -  
छी दे 'अगकाठी' । (मु - ० घणें  
- स्वय अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना ।

- येणे १ घाटा होना, फँस जाना ।  
२ धक्काम धक्का करना । - लेणें -  
न शरीरपर पहनने का गहना,  
अलकार । - वस्त्र - न १ उत्तरीय,  
उपरना, दुपट्टा । २ उपपत्नी,  
रखेली । - वळण - न दे. 'अग-  
लट' (मु - वळणों पहणें - आदत  
पटना, अभ्यास होना ।) - विक्षेप -  
पु अगविक्षेप, हावभाव, अभि-  
नय । - श - अव्य एक एक  
करके, भागश, खडश. । - सग -  
पु १ मिलन, शरीरस्पर्श ।  
२ सभोग, शरीरमग । - सर-  
कती - पु खेत में उत्पन्न होने वाले  
माल के तीन भागों में से स्वय खेती  
करने वाले का भाग प्राप्त करने  
वाला, किसान । अन्य दो भाग खेत  
के मालिक और बैल तथा हल के  
मालिक को मिलते हैं । - स्वभाव -  
पु. जन्मजात या प्राकृतिक स्वभाव ।  
मु - ओढविणें - स्वय अपने ऊपर  
ले लेना, आफत मोल लेना । -  
काढणें, - काढून घेणें - किमी काम से  
अलग होना, सबव तोड देना,  
हाथ खींच लेना । - घालणें -  
१ सहायता करना, ध्यान देना,  
महयोग देना । २ दुख के कारण  
अपने को जमीन पर गिराना । -  
चोरणें - १ जी चुराना, टालम-  
टोल करना । २ अपने शरीर को  
आकुचित करना । - झाडणें - हट  
जाना, मुकर जाना, माफ इन्कार  
करना । - टाकणे - १ दुबला-  
पतला होना, सूख जाना । २ दे  
'अग घालणे' ३ लेटना । -  
टेकणें - मुग्नाना, आश्रय लेना । -  
दाखविणें - किमी काम में कुशलता  
दिखाना । - घरणें - १ वाई  
(वातव्याधि) आदि मे शरीर का  
अकड जाना । २ हृष्टपुष्ट, मांटा,

ताखा होना । - मोडून काम करणे  
- अत्यत परिश्रम करना, स्वय  
कष्ट उठा कर काम करना । -  
मोडून येणें - अग टूटना,  
ज्वर के कारण देह टूटना । -  
येणे - १ दे 'अग वरणें' ।  
२ प्रमव के समय गुह्य अग का  
वाहर निकलना । - राखणे; -  
वाचविणें - जी चुराना, अपने को  
बचाना । - सांवरणे - १ सतुलन  
वनाये रखना, अपने को गिरने  
न देना । २ खोयी हुई शक्ति  
फिरसे प्राप्त करना । - हलके होणें  
- जिम्मेवारी के बोझ से मुक्त  
होना ।

'अगा' मे प्रारम्भ होनेवाले  
मुहावरे -  
- छाद्यावरचे - गहने, अलकार ।  
- खालची; - खालची वायको -  
उपपत्नी, रखेली । - चा खुर्दा  
होणें - बहुत परिश्रम के कारण  
शरीर का दर्द करना । - चा तिळ-  
पापड उडणें, होणें - बहुत अधिक  
क्रोध आना, आग बबूला होना । -  
ची आग, लाही होणें - १ क्रोध  
के कारण सारे शरीर का जल  
उठना, गुस्से मे लाल होना, आग  
बबूला होना । २ कडी बूष के  
कारण शरीर का गर्म होना ।  
- चे कातडें काढून जोडा शिवणें -  
किसी के प्रति अत्यत कृतज्ञता या  
आदर दिखाना । अगात येणे, वारे  
शिरणें - १ अभुआना, भूत  
लगना । २ भूत सवार होना । -  
वरोवर होणे - कपडा ठीक होना ।  
- वाहेर टाकणें - जिम्मेवारी छोड  
देना, काम न करना । - ला लावणें  
- १ शरीर में तेल आदि लगाना ।  
२ जच्चा के शरीर में तेल की  
मालिश करना । - वर काटा उभा

राहणे - रोगटे खड़े होना । -  
 वर काढणे - वीमारी में दवा न  
 लेते हुए वर्दाश्रित किये जाना । -  
 वर घेऊन - अपना समझ कर,  
 जिम्मेवारी के साथ । - वर घेणे -  
 १ वच्चे को स्तनपान कराना ।  
 २ दायित्व लेना । - वर जाणे - दे,  
 'अगावरचे जाणे' । - वर देणे -  
 विना जमानत या वधन के ऋण  
 आदि देना । - वर पडणे - १ मुना-  
 फे की आशा से खरीदा हुआ माल  
 पडा रहना, घाटे में आना, लाभ  
 न होना । २ कोई बात करने को  
 वाध्य होना । - वर पिणे - १ वच्चे  
 का स्तनपान करना । २ बहुत  
 छोटा होना । - वर घेणें, शेकणे -  
 १ दे 'अगावर पडणे' । २ घाटा  
 होना । ३ तोहमत लगना । -  
 वरचे - दूध मुँहा, दूधपीता (वच्चा)  
 - वरचे जाणें - श्वेत प्रदर (सफेद  
 पानी) का रोग होना । - वरचें  
 तोडणे - दूध पीते वच्चे का स्तन-  
 पान बंद कर देना । - वरून वारा  
 जाणें - लकवा मारना । - समुग्या  
 येणे - झुनझुनी आना, ठिठुरना,  
 अकडना । - स येणे - कपडा आदि  
 ठीक बैठना । - स लावणे १ नहाने  
 से पहले शरीर में तेल, हलदी  
 आदि लगाना (स्त्री) २ जच्चा के  
 शरीर में तेल की मालिश करना ।  
 'अर्गी' (अग में, शरीर में) से  
 प्रारंभ होनेवाले मुहावरे -  
 - असणें - पास में होना ।  
 - आणणें - अपने में लाना,  
 आत्मसात् करना । - फुटणे -  
 १ मोटा ताजा होना ।  
 २ किसी रोग का फूट निकलना  
 या साफ दिखाई देना । - मुरणें -  
 १ आदत पडना, २ बुझार  
 आदि का शरीर में घर करना ।

३ अदर ही अदर सोखा जाना,  
 जज्व होना । - लागणे - १ पचना  
 हजम होना । २ मोटा ताजा होना ।

अगचा - वि १ शरीर का,  
 स्वाभाविक, जन्मजात, प्राकृतिक ।  
 २ अपना, अगभूत । - शहाणा  
 - वि स्वभाव-सिद्ध बुद्धिमान् ।  
 अंगचे देऊळ - न पहाड आदि में  
 खोदकर बनाया हुआ मंदिर

अगछा<sup>†</sup> - पु. अँगोछा, गमछा ।  
 अगठा - पु. अँगूठा । मु. दाख-  
 विणे - अँगूठा दिखाना, अवज्ञा-  
 पूर्वक, किसी को तुच्छ समझने का  
 भाव दिखाते हुए, नही या इनकार  
 करना । - घरणे - कमर में झुक-  
 कर पाँवों के अँगूठे हाथों से पकडना ।  
 (पुराने समय में स्कूल के बच्चों को  
 यह सजा दी जाती थी) । -  
 (ठ्या) ची खूण, छाप करणें -  
 अनपढ व्यक्ति से हस्ताक्षर के  
 स्थान पर उसके वाएँ हाथ के अँगूठे  
 का निशान लगवा लेना ।

अगठी - १ अँगूठी, मुंदरी ।  
 २ छिगुनी, कानी उँगली । ३  
 अगुशताना ।

अगडें - न १ अँगरखा, कुर्ता,  
 कमीज । २ वच्चे के पहनने का  
 कपडा, कुर्ता, झगा आदि ।  
 - टोपडें - न वच्चे की पोशाक,  
 कुर्ता और टोपी ।

अगण - न १ आँगन, सहन ।  
 २ मैदान ।

अगत - न अपना, स्वाभाविक ।  
 अगतपगत - दे. 'आगतपगत' ।

अगरखा - पु १ अँगरखा,  
 एक लवा बंददार पहनावा, अगा,  
 चपकन । २ कुर्ता, कमीज ।

अंगलाई - स्त्री [अ 'आग्लो']  
 अग्नेजो का राज, शासनकाल ।

अगला(ळा)ई - स्त्री एक देवी ।

अंगव(वि)णें - क्रि अ १  
 मिलना, प्राप्त होना । २ अनुकूल  
 होना । - क्रि स वश में कर लेना ।

अगाई - स्त्री १ लोरी, लोरी  
 की टेक । २ सोना, निद्रा  
 (वच्चे की बोली) । मु. - करना -  
 सी जाना ।

अंगार - पु १ अगार, अगारा,  
 शोला, दहकता हुआ कोयला । २  
 गुस्तावर, क्रोधी व्यक्ति । - डब्बी -  
 पेटी - स्त्री दियासलाई का बक्स,  
 माचिस । मु. - होणें - अगारा बनना,  
 अगारा हो जाना, क्रोध में लाल  
 हो जाना ।

अंगारकी - स्त्री मंगलवार को  
 आनेवाली चतुर्थी ।

अगारा - पु १ भभूत, भस्म ।  
 २ अगारा । ३ राख । - घुपारा  
 - पु तत्रमत्र, जतर मतर, झाड-  
 फूंक, गडा - तावीज ।

अंगाराम्ल - न 'कार्बनिक  
 अँसिड' ।

अगविणें - क्रि अ. स. १. गले  
 लगाना, लिपट जाना । २ अप-  
 नाना, दायित्व लेना ।

आगिक - वि १ अगसवधी,  
 शारीरिक । २ स्वाभाविक । - न  
 १ शरीर का अवयव, अगुलि ।  
 २ सामर्थ्य, बल । - पण - न  
 स्वभावधर्म । - भाव - पु. १ शरीर  
 का आकार, गठन, ढाँचा । २  
 सामर्थ्य ।

अगी - स्त्री १ लडकियों का  
 पहनावा, पुराने ढग का फाक या  
 स्कर्ट । २ अँगरखा, कुर्ता, कोट,  
 पोशाक ।

अगीकरण - न, अगीकार - पु.  
 अगीकरण, अगीकार, स्वीकार,  
 ग्रहण, स्वीकृति । 'अँडमिशन',  
 'अँकनलैजमेंट' ।



अगीकारणे - क्रि अ स ?  
स्वीकार करना । २ हाथ में लेना ।  
उत्तरदायित्व लेना ।

अगीकृत - वि १ अगीकृत,  
स्वीकृत, लिया हुआ । २ उठाया  
हुआ (काम) ।

अगूर - पु [फा 'अगूर']  
अगूर, दाव, द्राक्षा ।

अगुलि-ली - स्त्री अगुलि,  
अगुली, उंगली । -निर्देश - पु  
१ अगुलिनिरदेश, किमी की ओर  
उंगली उठाना । २ उंगली में इशारा  
करना या बताना ।

अगुष्ठ - पु अगुष्ठ, अंगूठा ।  
-मात्र - वि अगुठे की लवाई या  
आकार का ।

अगुस्तान - न [फा 'अगु-  
स्तान'] अगुस्ताना, अगुलित्राण ।

अगुल - न १ अगुल । २  
वित्ते का वारहवाँ भाग ।

अगूर - दे 'अगूर' ।

अगे\* - अव्य १ स्वयम्,  
खुद । २ पाम, नजदीक ।

अगेज - पु, अगेजणी - स्त्री  
[फा 'अगेज'] १ शूरता,  
पराक्रम । २ विद्रोह ।

अगेजणें - क्रि अ स स्वीकार,  
ग्रहण करना ।

अघुल्ल\* - स्त्री न्नान ।

अघोळ - स्त्री न्नान, गुम्ल,  
नहाना ।

अचवण - न १ भोजन के  
पञ्चान् कुल्ली आदि करना या  
हाथ-मुँह धोना । २ आचमन ।

अचवणे - क्रि अ भोजनो-  
परान्न कुल्ली आदि करना,  
अचवना, अँचवना । २<sup>+</sup> वचित  
होना । - क्रि स १ आचमन  
करना, पीना । २ छोट देना ।  
३ भोजन के बाद कुल्ली आदि

कराना, अचवाना । ४ गँवाना,  
खो बैठना ।

अचळ - पु १ अचल, वस्त्र का  
छोर, आँचल । २ परदा ।  
३ धन, गाय, भैस आदि का स्तन ।

अजन - न १ अजन, काजल,  
मुरमा । २ गुरुकृपा । ३ होश की  
दवा । - हारों पु दुमरो की आँख से  
काजल चुराने वाला, होगियार,  
चालाक चोर, पक्का बदमाश ।

अजारणे-गोंजारणे - क्रि अ स  
१ सहलाना, चुमकारना, पुच-  
कारना । २ समझाना-बुझाना ।

अजि(जी)र - न अजीर,  
गूलर की जातिका एक प्रसिद्ध फल  
और उमका पेड़ ।

अजि(जी)री - वि अजीर के  
रंग का (कपडा आदि) ।

अंड - पु १ अडकोश, फोता ।  
२ अडा, अड । - कुली - स्त्री,  
कुलें - न वृषण, अडकोश, अड ।  
- वृद्धि - स्त्री अडवृद्धि, फोता  
बढ़ने की बीमारी । मु - काढणें,  
बडविणे - खमी करना, बधिया  
करना (पशु को) । अंडास लोपी  
लावणें - खुशामद, चापलूमी  
करना, खुसिया-वरदारी करना ।

अडिल - दे 'अडील' ।

अडोंपिल्लों - न-बहु १ अडे  
और वच्चे । २ बहुत गोपनीय  
वाते, रहस्य, भेद, खूवियाँ,  
कच्चा चिट्ठा । मु -वाहेर काढणे-  
भडा फोडना, कलई खोलना ।

अडी(डे)ल - वि १ अँडुआ,  
आँडू, साँड, जो बधिया न किया  
गया हो । २ विपयासक्त, लपट ।

अडुकली-लें - दे 'अडकुली' ।

अडें - न अडा । मु अडों पिल्लों  
वाहेर काढणें - भडा फोडना,  
कलई खोलना ।

अत, अत\* - अव्य अदर, में ।  
अत.करण - न १ अंत.करण,  
मन, दिल । २ दयाभाव ।

अत प(पा)ट - पु अत पट,  
अँतरोटा ।

अत पाती - वि अदर का,  
अतर्गत, बीच का ।

अत पुर - न १ अत पुर,  
जनानखाना, हरम । २ पत्नी ।  
३ घर के अदर का भाग जहाँ  
स्त्रियाँ बैठती हैं ।

अत प्रकृति - वि कुढ़ने वाला,  
अपने भावो को मन में ही छिपाये  
रखने वाला । [आत्मवोध ।

अत सज्ञा - स्त्री आत्मज्ञान,  
अत स्य - वि १ अत स्य,  
अदर का, भीतर या बीच में स्थित ।  
२ गुप्त, गोपनीय, अप्रकट । -  
न घूस ।

अत - पु १. अत, समाप्ति,  
आखिर, नाश । २. नतीजा,  
परिणाम, फल । ३ मृत्यु, मौत ।  
४ थाह, छोर, अंतिम भाग । ५  
परीक्षा, कमाटी । - काळ - पु  
अतकाल, मृत्यु का क्षण । मु -  
पाहणें - १ परखना, जाँचना, आज-  
माना, कसना । २ कठोर परीक्षा  
करना, बहुत सताना, यत्रणाएँ  
देना । - लागणे - १ पता लगना ।  
२ थाह मिलना ।

अतडी - स्त्री, अतडें - न  
अँतडी, आँत । मु - गळचात  
घालणें - १ बहुत क्रोध करना ।  
२ डाँट पिलाना, खरी-खरी  
सुनाना । ३ पोल खोलना । -  
तुटणें - वित्त का दया से द्रवित  
होना, जी पानी होना, कलेजा  
फटना, दिल भर आना । -  
पिळणें, - (डचा)ला पीळ पडणें -  
आँतो में बल पडना, तिलमिलाना ।

अतरग - न १ मन, अत-  
करण । २ अदर का, भीतर का  
भाग । - (गी)चा-वि १ भीतरी ।  
२ अतिप्रिय, घनिष्ठ, दिली  
(दोस्त) ।

अंतर - न १ अतर, दूरी ।  
२ फर्क । ३ अत करण, मन ।  
४ शेष (ग) ५ त्रुटि, कोताही ।  
६ भूल, गलती । ७ रहस्य,  
मर्म । \*८ अतरिक्ष, आकाश । ९  
वियोग । - फळा - स्त्री अत करण,  
मन । - गृह - न १ मन का  
भीतरी भाग । २ रसोईघर । ३  
अत पुर, जनानखाना । - पाट -  
दे 'अतर्पाट' । - साल - स्त्री  
अतरछाल, छाल के भीतर का  
नरम भाग । मु - देणे - छोड  
देना, त्यागना । - पढणे - मन-  
मुटाव होता ।

अतरणें - क्रि अ स १ वचित  
होना, महरूम होना । २ छोड  
देना । ३ ध्यान न देना । ४ हाथ  
से निकल जाना, छूट जाना । ५  
नष्ट होना, मरना ।

अतरपाट - दे 'अतर्पाट' ।

अतरा - पु १ बीच का अतर  
या काल । २ अतरा, स्थायी या  
टेक को छोड कर गीत के और सब  
चरण । ३ अंतरा, एक दिन के  
अतर मे आने वाला बुझार ।

अतरात्मा - पु अतरात्मा,  
आत्मा, अत करण ।

अतराय - व - पु १ अतराय,  
विघ्न, बाधा, अडचन । २  
वियोग, विछोह । ३ त्रुटि ।

अतराळ - न १ अतराल,  
अतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग या  
आकाश के बीच का स्थान,  
आकाश । २ बीच का स्थान,  
अवकाश ।

अतर्गत - वि १ अतर्गत,  
अदर का २ भीतर समाया हुआ,  
शामिल । [उतरने की बीमारी ।

अतर्गळ - पु अत्रवृद्धि, आँत  
अतर्गोल - वि अवतल,  
जिसका अदर का भाग गोल हो,  
'कॉन्केव' । - भिंग न अवतल  
लेन्स, 'कॉन्केव लेन्स' ।

अतर्ज्ञान - न अतर्ज्ञान, अत-  
र्वोव, अत करण में अपने आप  
उपजने वाला ज्ञान ।

अतर्धान - पु १ अतर्धान,  
अदृश्य, लुप्त हो जाना, अतर्धान  
होना । (क्रि पावणें) । २ आच्छा-  
दन, परदा । - वि अदृश्य,  
गायव, ओझल ।

अतर्पाट - पु अतर्पाट, विवाह  
के समय दूल्हे और दुल्हिन के  
बीच खडा किया जाने वाला या  
तानकर पकडा जाने वाला कपडा ।

अतर्वाह्य - न अदर का और  
वाहर का भाग । - अव्य अदर  
और वाहर, चारो ओर से ।

अतर्भाव - पु अतर्भाव, अभि-  
व्याप्ति, ममावेश, सम्मेल ।

अतर्भूत - वि अतर्भूत, समा-  
विष्ट; सम्मिलित, शामिल,  
भीतर समाया हुआ ।

अतर्भेदी - द्या - वि १ गोप-  
नीय बातों की जानकारी रखने  
वाला, रहस्य जानने वाला,  
राजदाँ । २ घर का भेदिया,  
भेदी, गुप्त बातों को बताने  
वाला ।

अतर्मुख - वि १ अतर्मुख,  
भीतर की ओर मुख वाला । २  
चित्त को भीतर की ओर  
लगाने वाला, अतर्मुखीय,  
अतर्प्रवृत्त्यात्मक ।

अतर्यामि - न १ आत्मा, जीव ।

२ मन, अत करण । ३ अदर की  
वात, रहस्य । - (मीं)चा - वि १  
अत्यंत प्रिय, दिली । २ अकृत्रिम,  
असली, सच्चा । मु - फळवळणे -  
छटपटाना, तिलमिलाना । - (मीं)  
रडणें - मन ही मन शोक करना,  
कुठना, घुलना ।

अतर्यामी - वि १ निकट का,  
हार्दिक, दिली । २ दिल की वात  
जानने वाला । - पु ईश्वर,  
जीवात्मा । -

अतर्वेदी - स्त्री १ दो नदियों  
के बीच का प्रदेश, दुआव - वा,  
दोआव - वा । २ गंगा और  
यमुना के बीच का प्रदेश,  
ब्रह्मावर्त । [गायव ।

अतर्हित - वि अतर्हित, अदृश्य  
अतस्थ - दे 'अतस्थ'

अतिक - वि अतिक, नजदीकी,  
समीपी । - पु सेवक, नौकर ।

अतिम - वि अतिम, आखिरी,  
चरम ।

अती - अव्य १ अत में,  
आखिरकार, परिणामस्वरूप,  
फिर । २ जिसके लिए, के वास्ते ।

अतुरी \* - स्त्री पत्नी, स्त्री ।

अतेवासी - पु अतेवासी, गुरु के  
पास रहने वाला, शिष्य । - वि  
पास या साथ रहने वाला ।

अतेष्टी - स्त्री अत्येष्टि, अत्य-  
कर्म, अत्यक्रिया, दाहकर्म आदि ।

अतौर - न , अतौरी - स्त्री  
स्त्री, पत्नी ।

अत्य - वि अत्य, अत का,  
आखिरी, सब से नीचे या पीछे  
का, वाद का । - कर्म - न , -  
क्रिया - स्त्री अत्यकर्म, अत्यक्रिया,  
दाहकर्म आदि, अत्येष्टि ।

अत्यज - पु अत्यज, शूद्र,  
अछूत ।

अत्रा - पु अतरा, स्थायी या टेक को छोड़कर गीत के अन्य चरण ।

अत्राळीं - अव्य अघर में, अतराल में, ऊपर ही ऊपर ।

अयरणें - क्रि अ स १ विछाना । २ फँलाना, ढाँकना ।

अयरी - स्त्री १ विछावन, विछीना । २ चटाई ।

अयरुण - न विछीना, विस्तर ।  
मु० - धरणें - बीमार हो जाना । -  
पाहून पाय पसरणें - चादर देखकर पाँव फँलाना, वित्त, विसात देखकर खर्च करना ।

अदण - न १ विवाह के अवसर पर कन्या-पक्ष की ओर से वर पक्ष को दहेज के अतिरिक्त दी जाने वाली ज़मीन, पशु, दास-दासियाँ आदि, जहेज, दहेज, दायजा, यौतक, यौतुक । २ चढावा, उपहार, भेंट, नज़राना ।

अंदाज - जा - पु. [ फा 'अदाजा' ] १ अदाजा, अटकल, खयाल । २ अनुमान, तखमीना । -  
पट्टी - स्त्री अदाजपट्टी, कनकूत । -  
पत्रक - न १ आयव्ययक, 'वजट' । २ प्राक्कलन, अनुमान, तखमीना 'एस्टिमेट' ।

अदाजी - वि [ फा 'अदाजा' ] अनुमानित, प्राक्कलित, परिमापित । [ अदाजन, लगभग ।

अदाजें - अव्य [ फा 'अदाजा' ] अदाघुदी - स्त्री गडवडी, अव्यवस्था, गडवडझाला, अघेर ।

अदू - पु १ अदु, साँकल, ज़जीर । २ हाथी के पाँव बाँवने की साँकल । ३ पाँवों में पहनने का गहना, पाजेव, पैरी, नूपुर ।

अदेशा - पु [ फा ] १ विचार, कल्पना, सोच । २ चिन्ता । ३

शका, शक । ४ आशका, खतरा, अदेशा, भय । ५ दुविधा । ६ सलाहमशविरा, विचारविमर्ष, योजना ।

अदोळणे - दे 'आदुळणे' ।

अघ कार - पु अघकार, अँघेरा ।

अघ - वि १ अघ, अवा । २ लापरवाह, उन्मत्त । ३ निर्बुद्धि, विचारहीन । - परपरा - स्त्री भेडिया घमान ।

अघळा - वि १ अघा, दृष्टिहीन । २ अज्ञ, नासमझ, विचारहीन । - कारभार - पु अघेरखाता, अव्यवस्था, गडवड, अघेरनगरी । मु० - (ळ्या) ची काठी - अघे की लकडी, काठी, एक मात्र सहारा । - (ळ्या) ची माळ, माळका - १ अघो की कतार । २ अज्ञ एव मूर्ख लोगों की परपरा या पक्ति । - (ळ्या) सी जन सारे चि आघळे - जैमे हम स्वयं होंगे वैसा ही हमें दिखाई देगा ।

अघळी कोशबोर - स्त्री लुकाछिपी, आँखमिचीनी, वच्चो का एक खेल जिसमें आँखोपर पट्टी बाँधकर दूसरे वच्चो को पकड़ने की चेष्टा की जाती है ।

अघळें - वि दृष्टिहीन, अघा । - नक्षत्र - न १ अश्विनी से लेकर तीन - तीन नक्षत्रों को छोड़कर आनेवाला प्रत्येक चौथा नक्षत्र । २ वह नक्षत्र जिसमें खोयी हुई वस्तु फिर से नहीं मिलती । कहा० - दळतें कुत्रें पीठ खाते - अघी पीसे कुत्ता खाय ।

अघाघुद - घ, अघाघुंदी - घी - स्त्री अव्यवस्था, गडवड, अघेर, अघेरखाता, अघेरनगरी । - वि अघाघुघ, अव्यवस्थित,

अनियमित ।

अंधार - पु १ अँघेरा, अघकार । २ अज्ञान । ३ अघेर, उपद्रव, अव्यवस्था । - कोठडी - स्त्री कालकोठरी, साँसतघर । - खोली - स्त्री १ दे 'अघारकोठडी' । २ 'डार्करूम' । - गडत - प; - गुडुप - पु घना अँघेरा, अँघेरा गुप्प, अँघेरा घुप्प ।

अंधारणे; अघारन येणे - क्रि अ. १ अँघेरा छा जाना । २ आकाश का बादलो में छा जाना ।

अघारी - स्त्री १ काले बादलो के कारण छाया हुआ घना अँघेरा । २ अँघेरी, अँघेटी । ३ आँवों के सामने छा जाने वाला अँघेरा, मृच्छा । - वि स्त्री अँघेरी, अघकारभरी । - रात्र - स्त्री कृष्ण पक्ष की रात ।

अत्रु(घू)क - वि घुँघला, अस्पष्ट । - अव्य कुछ - कुछ; अस्पष्ट-मा, धीमा, मद ।

अघेरी - स्त्री कालकोठरी, साँसतघर ।

अवट - वि १ खट्टा, अम्ल । २ उदास, खिन्न । ३ - ओले - वि कुछ - कुछ गीला । - चिंवट - वि खट्टा, तला हुआ आदि अपध्यकर । - ढाण - वि खट्टाचूक, बहुत खट्टा । - तोड - न खिन्न, निराश मुँह । - शोक, पोक - पु वेढगा शोक । - शोकी, - घोकी - वि अजीव ढग का शोक करने वाला । - वरण - न वह पकी दाल जिसमें डमली (खटाई), गुड आदि डालकर छींक दी हो । - सर - वि कुछ - खट्टा । मु० - तोड करणें - मुँह लटकाना ।

अबटी - दे. 'आमटी' ।

अवणें - क्रि अ १ खटाना,

खट्टा होना । २ अचिक्र परिश्रम के कारण शरीर का दर्द करना, कसमसाना । ३ ऊबना । ४ उव-सना, सडना, खराब होना ।

अंबर-पु, अबरी- छी कीले उखाडने का लुहारो का एक औजार, सँडसी, चिमटी, जवूरा, वाँक ।

अंबर-न १ अवर, वस्त्र, कपडा । २ आकाश । -पु एक सुगंधित वस्तु, अवर । -

अबर-पु [फा, 'अवार'] १ खत्ता, खत्ती, अनाज रखने के लिए दीवार में बनाया हुआ बडा गड्ढा, अनाज का गोदाम, अवार । २ खजाना । -खाना पु. अनाज का भंडार, गोदाम, अवारखाना ।  
अबरवेल-छी अवरवेल, आकासवेल । [अमरस ।

अवरस-पु पके आम का रस, अवररई-छी अमररई, आम का वाग । [जामन, जोडन ।

अवरवण-न १ सानी । २ अवरविणें-क्रि स १ खट्टा बनाना, खटाम पैदा करना । २ खूब पीटना, पिटाई, मरम्मत करना ।

अवसाण-छी खटाई, खट्टी चीज, आम, इमली आदि ।

अवसू(सो)ल-न दे 'अमसूल' ।  
अवा-पु आम, आम का पेड या फल । -छी अवा, देवी, माता ।

अवाडा-पु १ स्थियो के वालो का जूडा । २ एक खट्टा फल ।

अवाडी-छी सन, पटसन ।  
अवारी-छी [अ 'अम्मारी'] अम्मारी, हीदा, महमिल ।

अवीर\*-पु [अ 'अमीर']

अमीर, सरदार ।

अवील-छी १. मँडुए का आटा छछ मे पकाकर बनाया हुआ पतला खाद्य या पेय पदार्थ । २ गदा पानी ।

अवुसणें-क्रि अ दे 'अवणे' ।  
अवूर-पु [तु 'अवुर' या 'अवुरा'] सँडसा, चिमटा ।

अबूस-वि खट्टा, कुछ-खटाई या खटास लिये हुए ।

अवेमोह(हो)र-पु एक खुशबू-दार चावल । इसमें आम के मौर जैसी सुगंध होती है ।

अवेहळद-छी. आँवा-हलदी, आमा-हलदी ।

अवोण-न १ सानी । २ रिश्वत । मु - दाखविणें - रिश्वत देना ।

अवोळी-छी चीला, उलटा, दोसा, चावल और उर्द की दाल को एक साथ पीसकर बनाया हुआ चीला ।

अमल-पु [अ 'अमल'] १ अमल, अधिकार, प्रभाव, शासन, हुकूमत । २ नशा । -दार-पु अधिकारी, शासक । -बजावणी-छी तामील, निष्पादन, कार्यान्विति ।

अमळ-वि थोडा, कुछ । -अव्य थोडी देर के लिए, तनिक ।

अंबडा-पु १. थूक, मुँह में प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाला द्रव पदार्थ जो निगला जाता है । २ क्रोध या दुख के कारण गला भर आना । [इस साल ।

अवदा + -अव्य इस वर्ष,

अश-पु १ अश, भाग, खड । २ हिस्सा । ३ अश, 'डिग्री' । ४ भाज्य अक, भिन्न की लकीर के ऊपर का अक ।

(ग) ।

अशु-पु अशु, किरण । -मापक-पु किरणो को मापने का यंत्र, विकिरणमापी, 'रेडियो-मीटर' । -माळी-पु सूर्य ।

असुढाळ\*-वि १ आँसू बहाने वाला, रोने वाला । २ गदा । ३ अव्यवस्थित, वेढगा । ४ आँसुढाल ।

अँ हँ-अव्य नहीं, नहीं चाहिए, नकारदर्शक उद्गार ।

अ.-मराठी वर्णमाला का अंतिम अर्थात् सोलहवाँ स्वरवर्ण ।

अइसा\*-दे 'असा' ।

अउट, अउटकी-दे. 'औट', 'औटकी' ।

अऊत-दे 'औत' ।

अऊण-णी -वि अऊण, अऊणी, ऋणमुक्त । [पाप ।

अक-न अक, कण्ट, दुख,

अकच्छ-वि १ घोती या साडी पहनने का वह ढग जिसमें काँच या लाँग न खोसी हो, बिना काँच की (घोती) । २ मुसलमान ।

अकटोविकट-वि १ बहुत बडा और वेढगा, भयानक दैत्य जैसा । २ बहुत कम, नही के बराबर ।

अकडतिकड-न १. निरर्थक या वाहियात वाते, वकझक, वेसिर पैर की वात । २ टालम-टोल ।

अकड-छी १ अकड, ऐँठ, रोव, घमड । २ नखरा, शेखी । -बाज-वि अकडबाज, घमडी, शेखीबाज ।

अकडकडवे-न गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है, टेक, स्थायी, ध्रुवक ।

अकडणें-क्रि अ अकडना 'ऐँठना, घमड करना ।

अकणकडवे - दे 'अकडकडवे' ।

अकरकों - न बहु, अकरकी -  
स्त्री ग्यारह से लेकर बीस तक के  
अको को परस्पर गुणा करने से बनने  
वाले पहाडे ।

अकरणरूप - न निषेध या नही  
के अर्थ मे होने वाला क्रिया का रूप  
(व्या) ।

अकरताळचा - वि १ हठी,  
जिद्दी, शरारती, झगडालू, नट-  
खट । २ सिरफिरा, विक्षिप्त,  
सनकी ।

अकरमाशा - वि १ दोगला,  
जारज, दासीपुत्र, अनौरस । २  
कृतघ्न ।

अकरा - वि ग्यारह, ११ ।

अकरावा - वि १ ग्यारहवाँ ।  
२ घनिष्ठ मित्रता रखने वाला ।

अकराळ विकराळ - वि विक-  
राल, भीषण, डरावना, भयकर ।

अकरोत - दे 'अक्रीत' ।

अकरोट - ड - पु अखरोट ।

अकर्ता - वि १ अकर्ता,  
कर्म न करने वाला । २ कर्म से  
अलिप्त, सिद्ध (पुरुष) । अयोग्य,  
निकम्मा, आलसी ।

अकर्मक - वि अकर्मक, वह  
क्रिया जिसके लिए कर्म की अपेक्षा  
न हो । (व्या) ।

अकर्मकर्तरी - वि वह वाक्य  
जिममें क्रिया कर्ता के अनुसार  
चलती है ।

अकल - दे 'अक्कल' ।

अकल्पित - वि १ जिमकी  
कल्पना पहले से न की गयी हो,  
आकस्मिक । २ अकृत्रिम । - अव्य  
अकस्मात्, अचानक ।

अकस - पु स्त्री [ अ 'अकस' ]  
अकस, वैर, द्वेष, ईर्ष्या । - खोर  
वि ईर्ष्यालु, अदावती ।

अकसणे - क्रि अ सिकुडना,  
सिमटना, तनना, खिंचना ।

अकसी - वि [ अ 'अकस' ]  
अकस रखने वाला, ईर्ष्यालु ।

अकस्मात् - अव्य १ अक-  
स्मात्, अचानक, सहसा । २  
त्रिना सोचे - समझे ।

अकळ - वि अगम्य, समझ मे  
न आने वाला, मन या बुद्धि के  
परे, अकल ।

अकाड - वि अचानक या  
असमय होने वाला, अनपेक्षित,  
अकाड । - ताडव - न १ अकाड-  
ताडव, व्यर्थ की बहस, उछलकूद  
आदि । २ गुस्से में आकर दूमरो  
पर बरस पडना ।

अकांत - १ पु आक्रोग, कोला-  
हल, रोना-धोना । २ बडा  
अनर्थ । मु - करणे, - माडणे -  
आक्रन्दन, आक्रोश करना, बावेल  
मचाना ।

अकारण वि १ अकारण,  
विनाकारण, वेमतलव । २ व्यर्थ,  
मिथ्या । [- थ, व्यर्थ, वेकार ।

अकारत - थ - वि अकारत

अकाल - पु १ अकाल, कुस-  
मय, अनवसर, अशुभ काल ।  
२ परमात्मा (मिक्ख) । - मृत्यु  
पु अकालमृत्यु, असामयिक या  
अल्प वय में होने वाली मृत्यु ।

अकाळ - पु अकाल, अयोग्य  
या अनियत काल, कुसमय ।

अकाळया - वि अकालित,  
असामयिक । [यकीन, विठ्ठाम ।

अकीन - पु [ अ 'यकीन' ]  
अकुळी - वि अकुलीन, जिसके  
कुल का पता न हो ।

अकृत्रिम - वि १ अकृत्रिम,  
स्वाभाविक । २ स्वयंभू । ३  
वास्तविक । ४ निष्कपट, सीवा-

सादा, शुद्ध हृदय वाला ।

अकोल - ङ - न अकोल, टेरा,  
ढेरा, एक पहाडी पेड जिमकी  
छाल, बीज, पत्ते आदि दवा के काम  
आते हैं, अकोला ।

अक्कड - दे० 'अकड' ।

अक्कण + - वि चिकना, लस-  
दार (मिट्टी) । [ ताळ्या' ।

अक्करताळा - दे० 'अकर-  
अक्कल - स्त्री [ अ 'अक्कल' ]

१ अक्कल, बुद्धि, समझ । २ बुद्धि-  
मत्ता, होशियारी, चातुर्य, चातुरी,  
चतुराई । - काढा - पु अकरकरा,  
आकरकरहा । - दाढ - स्त्री अक

(कि)ल दाढ; अक्कलका दाँत । -  
वाज, - मंद, - मान, - वत, - वान

- वि १ अक्कलमद, चतुर, बुद्धि-  
मान, चालाक । २ मूर्ख । - हुशारी

- स्त्री मावधानी, होशियारी,  
खुशी, पूरी सहमति । मु - गुग

होणे - अक्कल का चक्कर मे आना,  
अक्कल का काम न करना, अक्कल

गुम होना, अक्कल चकराना ।  
- जाणे - अक्कल गुम होना, अक्कल

जाती रहना । - विकत घेणे -  
नुकसान उठा कर कोई सवक

मीखना । - सागणे - सलाह देना,  
पते की बात कहना । - (ले) चा

कादा, छदक, गड्डा - १ अक्कल  
का पुतला, अक्कल का पूरा । २

वुदू, मूर्ख । - (ले)चे तारे  
तोडणे - वेवकूफी की वाते करना ।

अक्का - स्त्री [ क ] जीजी,  
दीदी ।

अक्काबाई - स्त्री [ क 'अक्का' ]  
१ लक्ष्मी की बटी बहन । २

दरिद्रता, दुर्दैव, दुर्दशा, गामत ।  
३ दुष्ट, झगडालू स्त्री । मु -

आठवणे - दे० 'अवदमा आठवणे' -  
चा फेरा - दुर्दशा, दरिद्रता, दुर्भाग्य

आदि का आगमन । - चे पोर, वाळ - दुर्भाग्य । [ समूचा ।  
 अवखा - वि पूरा, कुल, अवटोवर - पु. [ अ ] अवटोवर ।  
 अकसणें - क्रि अ ऐठना, सिकुडना, कसना, विचन ।  
 अकस्ताळा - दे० 'अकरताळाचा' ।  
 अका, अकावा - दे० 'अकरा', 'अकरावा' । [ विकराळ' ।  
 अकाळविकाळ - दे० 'अकराळ-अक्रीत - अव्य वि १  
 वेगुमार, वेहद, अतिगय, अत्यधिक । २ वाजार - दर से अधिक मूल्य पर लिया या दिया हुआ ।  
 ३ मुफ्त का, विना दाम का ।  
 ४ असभव, अजीव, विचित्र ।  
 ५ न करने योग्य, अकरणीय । -  
 विख्या - वि बहुत ज्यादा कीमत लेकर बेचने वाला । मु० - घेणे, देणें -  
 कोई वस्तु बहुत अधिक कीमत पर खरीदना, बेचना ।  
 अक्रोट - ड - पु अखरोट ।  
 अक्शी + - अव्य विलकुल, पूरी तरह, ठीक - ठीक, हूँ - ब - हूँ ।  
 अक्ष - पु १ अक्ष, खेलने का पामा । २ पासो का खेल, चौसर, घृत । ३ माला की गुरिया, रुद्राक्ष ।  
 ४ आँख, नेत्र । ५ दीर्घ वृत्त का व्याम । - वृत्त - न अक्षवृत्त, अक्षाशदर्शक वृत्त, राशिचक्र ।  
 अक्षई + - अव्य सदैव, हमेशा, वारवार, चिरकाल ।  
 अक्षत - स्त्री १ अक्षत, अखडित चावल, अभिमन्त्रित चावल ।  
 २ यज्ञोपवीत सम्कार या विवाह के अवसरपर भगवान् तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगो को निमन्त्रण देने के लिए जाने वाले लोगो की शोभायात्रा । ३ चावल । मु - घेणें -  
 निमन्त्रण को स्वीकार करना । -

- टाकणें - विवाह कर देना । -  
 देणे - न्योतना । - पडणें - विवाह सपन्न होना । - लावणे - ( घरास, चुलीस ) - घरके सब लोगो को भोजन का निमन्त्रण देना । वाटा-  
 ण्याच्या अक्षता लावणे - साफ इन्कार करना, कुछ भी न देना ।  
 अक्षता - दे 'अक्षत' ।  
 अक्षतिज, अक्षतृतीया - स्त्री  
 अक्षयतृतीया, अखतीज ।

अक्षम - वि १ उतावला ।  
 २ असहिष्णु, ईर्ष्यालु । ३  
 अक्षम, असमर्थ ।

अक्षय - वि अक्षय, अविनाशी, अखूट । - तृतीया - स्त्री  
 अक्षयतृतीया, वैशाख - शुक्ला तृतीया ।

अक्षयीं - अव्य १ सदैव, सतत, हमेशा । २ विलकुल, तनिक भी ।

अक्षर - न १ अक्षर, वर्ण, हर्फ । २ विद्या, विद्वत्ता, ज्ञान ।  
 ३ ब्रह्म । - ओळख - स्त्री १ वर्णपरिचय । २ लिखना - पढना जानना । - जीवी - अक्षरजीवी; लिखने का पेशा करने वाला, लेखक । - शत्रु, - शून्य - अक्षर-शत्रु; अपढ, निरक्षर ।

अक्षरश - अव्य अक्षरश, एक-एक अक्षर, हर्फ - व - हर्फ, मोलहो आने, पूर्णतया ।

अक्षरी - वि १ अक्षरसवधी ।  
 २ अक्षरो मे लिखी हुई (सख्या) ।  
 अक्षाति - स्त्री १ अक्षाति, अधीरता, उतावली । २ असहिष्णुता, ईर्ष्या, डाह, जलन ।

अक्षाश - पु अक्षाश, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण का अंतर । [ व - हू ।

अक्षी - अव्य. विलकुल, हूँ -

अक्षुण्ण - वि १ अक्षुण्ण, अखडित, अभग्न । २ अस्पृष्ट, अभुक्त । - मार्ग - पु. वह मार्ग जिसका प्रयोग न किया गया हो ।

अक्षी - दे 'अक्षयी' ।

अक्षोभ - वि १ बहुत गहग, अथाह । २ स्थिर, शांत ।

अक्सावोक्शां - दे 'ओक्सा-वोक्शी' ।

अखड - वि १ अखड, अवि-कल, अटूट । २ सपूर्ण, समूचा । - अव्य सतत, हमेशा, सर्वदा, निरतर, लगातार । - सौभाग्य - न अखड सौभाग्य, स्त्री का आमरण सौभाग्यवती रहना । -  
 सौभाग्यवती - वि स्त्री सतत सुहागिन रहने वाली, सदा सुहागिन । - स्त्री वेद्या ।

अखडित - वि १ अखडित, अटूट, अवाधित । २ अपार, असीम । - अव्य सतत, हमेशा, सदा, निरतर ।

अखडच - वि अकाट्य, अखडनीय, जिसका खडन न किया जा सके । [ वि अक्षय, अखड ।  
 अखई + - अव्य सदैव, हमेशा ।  
 अखजा-जी + स्त्री अक्षयतृतीया ।  
 अखटा - वि बुरा, खराब, गर्हा, निन्द्य ।

अखडणें - दे 'आखडणे' ।

अखणी, अखणें - दे 'अकणी', 'अकणें' ।

अखत-ता + - दे 'अक्षत - ता' ।

अखत्यार - दे 'अख्त्यार' ।

अखस - \*वि अक्षम, अममर्थ, निर्वल ।

अखय\* - वि अक्षय, अखड ।

अखर - + पु [ अ 'आखिर' ]  
 गाँव के चारो ओर की जगह, गाँव के पशुओ के विश्राम का

स्थान । - अव्य आखिर, आखिर-कार । - नखर - अव्य अत में, अततोगत्वा, आखिरकार । - परव<sup>१</sup> - पु. पितृपक्ष का अंतिम दिन, आश्विन की अमावास्या ।

अखर\* - वि अक्षय, अविनाशी ।

अखरा<sup>१</sup> - पु १ अखाडा । २ शस्त्रागार । - अव्य अत में, आखिरकार ।

अखरोत<sup>१</sup> - दे 'अक्रीत' ।

अखरे - वि जो खरा नहीं है, खोटा (सिक्का) ।

अखवानजी\* - पु. [तु 'आखुद'] अव्यापक, शिक्षक ।

अखसा - वि पूरा, समूचा ।

अखल\* - वि १ अक्षर, शब्द । २ नाम ।

अखा-खें - दे 'अखा' ।

अखाड<sup>१</sup> - पु. आपाठ मास, अमाठ । - सासू - स्त्री नाहक धौम जमानेवाली स्त्री ।

अखाडा - पु १ अखाडा, व्यायामशाला । २ जमात, टोली । ३ किमी विशेष काम के लिए एकत्र आने वाले लोगों के रहने या चर्चा आदि करने का स्थान । ४ सांप्रदायिक साधुओं की मडली, संप्रदाय । ५ साधुओं के रहने का स्थान, मठ । ६ अड्डा । मु अखाडचांत उत्तरणें - अखाडे में आना, उतरना, मुकादले में खडा होना, वाद-प्रतिवाद के लिए तैयार होना ।

अखाडी<sup>१</sup> - वि आपाठ की (एकादशी या अन्य तिथि) । - स्त्री अकाल ।

अखात - न १ अखात, प्राकृतिक झील । २ आखात, खाडी, भूमि में घुसा हुआ समुद्र का भाग ।

अखाद्य - वि १. अखाद्य, न खाने योग्य । २ अभक्ष्य, निषिद्ध ।

अखीती - स्त्री + अक्षयतृतीया ।

अखुड - वि छोटा, तग, संकरा, कम लवा ।

अखुडणें - क्रि अ १ छोटा होना, तग होना, मकीर्ण होना । २ रुकना । - क्रि स छोटा या तग बनाना ।

अखुड - दे 'अखुड' ।

अखेर - स्त्री [अ 'अखीर' ] १ अत, समाप्ति । २ परिणाम, नतीजा । - वि \* १ अंतिम, आखिर का । २ मृत । - अव्य अत में, आखिरकार । - साल - न १ वर्ष का अत । २ हिसाब के साल की समाप्ति ।

अखेरी - स्त्री [अ 'अखीर' ] समाप्ति, आखिर, अत । - स - अव्य अत में, आखिरकार । मु - मारणें, - साधणे - १ पहले विशेष परिश्रम किये बिना अत में जोर लगाकर सफलता प्राप्त करना । २ गजीफा के खेल में आखिरी दांव या हाथ लेना ।

अखोट - वि जिसमें कोई खोट या वुराई न हो, बेऐव, निर्दोष ।

अखला-खलें - वि १ अखड, समूचा, सावुत, पूरा । २ कुल, सब, सब मिलाकर ।

अख्त्यार - पु [अ 'इस्ति-यार' ] १ अधिकार, सत्ता, हक, इस्तियार, वश । २ पसत, रुचि । - पत्र - न प्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाला पत्र ।

अख्त्यारी - स्त्री [अ 'इस्ति-यार' ] अधिकार, सत्ता, इस्ति-यार । - पु १ अधिकार - प्राप्त अधिकारी, प्रतिनिधि । २ व्यवस्थापक, संचालक ।

अग - अव्य अरी, री ।

अगई - अव्य आश्चर्य, आनंद या भयसूचक उद्गार (स्त्रि) अहह, अहा, अहाहा, उफ, ओह, हाय ।

अगग, अगगाई - दे 'अगई' ।

अगटी - दे 'आगटी' ।

अगडत (द, व) गड - न १ क्षुद्र वस्तुएँ, कवाड, अगडम-वगडम । २ वाहि्यात वकझक, वकवास, अगडवगड । ३ मोटा-झोटा खाना । - अव्य किमी तरह, वेढगे तौर-पर ।

अगडधूत - पु १ जोगी, गुर्साई, मावु । २ मोटा-ताजा आदमी । [ मोटा-ताजा ।

अगडवव - वि अगडवत्त-त्ता,

अगणित - वि अगणित, अनगिनत, वेहिमाव ।

अगत - न + दे 'अगत्य' ।

अगतिक - वि १ अगतिक, निरुपाय, निराश्रय, लाचार । २ अनिवार्य । ३ अवरुद्ध, कुठित-गति । - गति - पु. अनाथनाथ, असहाय की सहायता करने वाला, आसरा । - वि अनन्यगतिक ।

अगत्य - न १ आस्था, आत्मीयता, प्रेम । २ अत्यधिक आवश्यकता, अनिवार्यता । - अव्य अवश्य, अवश्यमेव, जरूर । - पूर्वक - अव्य १ अवश्य ही, जरूर २ जानबूझकर, इरादतन् ।

अगद - न १ अगद, औपव, दवा । २ स्वाम्थ्य, आरोग्य । - वि स्वस्थ, तदुरुस्त ।

अगदी-दी - वि १ सर्व, सारा, तमाम, समूचा, कुल, सपूर्ण । २ पूरा, पक्का, निरा, निपट, परले दर्जे का । - अव्य विलकुल, तनिक भी, कतई ।

अगप - दे, 'आगप'

अगवाई - अव्य भीति, आनद, आश्चर्य आदि सूचक उद्गार (स्त्रि), दैया री, उफ, हाय।

अगम - वि १ अगम, न चलने वाला। २ दे 'अगम्य'। - पु. पेड।

अगम्य - वि १. अगम्य, दुर्गम। २ बुद्धि के परे, गूढ।

अगर - पु. न अगर, अग्रह, ऊद। - चदन - न, बत्ती - स्त्री अग्रवत्ती, ऊदवत्ती।

अगर - अव्य [फा.] १ या, अथवा। २ यदि, अगर, जो। - चे - अव्य अगरचे, यद्यपि।

अगरांड<sup>+</sup> - वि १ हठी, जिद्दी। २ लापरवाह।

अगरताळचा - दे 'अकर-ताळचा'।

अगरवादी<sup>+</sup> - पु वादी, मुद्दई।

अगरसाळ<sup>+</sup> - स्त्री अप्रशाला, मंदिर के पास की धर्मशाला।

अगरी - स्त्री अँखुवा, कल्ला। - दे 'आगरी'।

अग्रह - रु न दे 'अगर'।

अगल - ला<sup>+</sup> - वि १ अगला, आगे का। २ श्रेष्ठ, प्रमुख, पहला। - भागला - वि अगला और पिछला।

अगल्याबगल्या - वि आश्रित, अवलंबित, पिटू, चेला - चाँटा।

अगवळ - पु. स्त्री न चौंरी, चोटी बाँधने की डोरी या फीता।

अगस्ता - स्त्या - पु अगस्त्य, अगस्ति, एक पेड जिसके फूलों और फलियों का साग बनता है।

अगळ - पु. स्त्री अर्गल, अर्गला, व्योडा, अगडी, सिट-किनी।

अगळा - दे 'आगळा'।

अगळीक - दे 'आगळीक'।

अगातुक - दे 'आगतुक'।

अगा - अव्य अरे, अजी, हे, ए।

अगा - स्त्री [फा. 'आगाही'] १ ध्यान, ख्याल, कल्पना, अदाजा। २ आशा। ३ दायित्व, जिम्मेदारी।

अगाई - ई - दे 'अगई'।

अगाऊ - वि अगाऊ, अगाऊँ, पेगरी। २ आगे का। ३ अशिष्ट, असम्य, घृष्ट। - अव्य आगे से, पहले से।

अगाजणें - क्रि अ १ बोल-वाला होना। २ ख्याति फैलना।

अगाजा - पु १ शोरगुल, हो हल्ला। २ बोलवाला। ३ ख्याति, कीर्ति।

अगाध - वि अगाध, अथाह, अपार, अमीम। २ अगम्य, अज्ञेय। ३ दुर्वोध, कठिन, गूढ।

अगाप - दे० 'आगप'।

अगापिछा - च्छा - पु १ आगापीछा, अगला-पिछला भाग। २ वालवच्चे, रिश्तेदार, सवधी। मु० - पाहणें - भलीभाँति, सब प्रकार से सोचना। [मंदिर।

अगार - न स्थान, घर, अगाव - वू - दे 'अगाऊ'।

अगाशी - सी - स्त्री १ अटारी, कोठा, छत, छज्जा, अट्टालिका। २ ओसारा।

अगिन<sup>+</sup> - पु अगिन, आग। - गाडी - स्त्री रेलगाडी। - वद - वि न जलनेवाला, अदाह्य।

अगूदर<sup>+</sup> - दे 'अगोदर'।

अगे - अव्य अरी।

अगेरी<sup>+</sup> - स्त्री अगियारी, पारसियों का मंदिर।

अगो<sup>+</sup> - अव्य अरी। - स्त्री

अपनी स्त्री, पत्नी।

अगोचर - वि १ अगोचर, इद्रियातीत, अज्ञात, अगम्य। २ अजीब, विचित्र। ३ उद्दड, उजड्ड, नटखट। ४ वेहद, असीम, अमर्याद।

अगोचरी - स्त्री योगशास्त्र की चौथी मुद्रा, इस मुद्रा में दृष्टि आकाश की ओर रहती है।

अगोट - ठ - स्त्री १ खेती के कामों का प्रारंभ। २ वरसात का प्रारंभ। ३ चौमासा, चातुर्मास्य।

अगोद (घ) र - अव्य पहले, पेशतर। - चा, -(री)ल - वि पहले का, पिछला।

अग्नि - पु १ अग्नि, आग। २ जठराग्नि, भूख-। ३ यज्ञीय देवता। - काळ - न जलती हुई

लकडी, अगारा, आग। (मु० - ० भक्षण करणें - १ अग्निप्रवेश करना, आग में कूदकर मर जाना।

१ स्त्री का पति की चित्ता में प्रवेश करना, सती होना।) - क्रीडा - स्त्री अग्निक्रीडा, आतिशवाजी -

दिव्य - न, - परीक्षा - स्त्री अग्निदिव्य, अग्निपरीक्षा। - वाण पु अग्निवाण, आतिशवाजी का एक प्रकार। - माद्य - न अग्निमाद्य,

अपच की बीमारी, हाज्रमे की खराबी। - यत्र - न १ बद्रूक, तोप। २ आतिशवाजी। - रथ - पु रेलगाडी। - रथविश्रामधाम -

न रेल का स्टेशन।

अग्या - वि पु अगुआ, मुखिया। मु० - घेणें, पत्करणें - नेतृत्व करना।

अग्या - पु १ जुगनू। २ अगिया, एक क्षुप जिसके स्पर्श से शरीर में खुजली या जलन पैदा होती है।



अग्यारी - स्त्री अगियारी, पारसियो का मंदिर।

अग्र - न अगला भाग, नोक, मिरा, गिखर। - वि अगला, पहला, मुख्य, अधिक। - गण्य - वि अग्रगण्य, श्रेष्ठ, मुख्य। - पूजा - स्त्री अग्रपूजा, सर्वप्रथम पूजा, सर्वाधिक पूज्य मानना। - फूल - न चोटी में पहनने का सोने का फूल। - लेख - पु. अग्र-लेख, 'लीडर'। - वादा - पु १ वादी, मुद्दई। २ अपने मत का समर्थन करने वाला। - हार - पु अग्रहार, राज्य की ओर से ब्राह्मण या मंदिर को निर्वाहार्थ मिलने वाला भूमिदान।

अग्रार - + स्त्री दे 'अग्रहार'।  
अग्राह्य - वि अग्राह्य, ग्रहण के अयोग्य, त्याज्य।

अग्रेसर - वि १ अग्रमर, आगे जाने वाला, अग्रगण्य, अगुआ। २ दो मख्याओं में से पहली।

अघटित - वि १, अघटित, अद्भुत, विलक्षण। २ घोर, भयकर, पैशाचिक। - न अद्भुत, अश्रुतपूर्व वात। - घटना - स्त्री आश्चर्यजनक वात, घटना।

अघड - वि अनगड, वेडोल, टेढा-मेढा।

अघवा\* - वि दे 'अवघा'।  
अघळणे<sup>+</sup> - क्रि स खँगालना, अच्छी तरह हिलाकर घोना (वस्त्र, वर्तन, आदि)।

अघळपघळ - वि १ लवा-चौटा, विस्तृत, प्रगस्त, विशाल। २ भोला-भाला। ३ दीग-ढाला, न्चछद। - अव्य खुले दिल से, निम्नकोच, जी खोलकर।

अघाडा - पु चिचडा।

अघाडी - स्त्री १ अगला भाग,

अगाडी। २ सेना का अगला भाग, हरावल, मोरचा। - पिछाडी - स्त्री सेना का अगला और पिछला भाग। - अव्य किसी समय, आगे पीछे। मु - घेणे - आगे बढ़ना, नेतृत्व करना। - मारणे - १ आगे बढ़ना, पहल करना। २ मेना के अगले भाग पर धावा बोल कर उसे नष्ट कर देना। - साधणे - दूसरो से पहले जाकर काम पूरा करना।

अघात - \* पु आघात।

अघोर - वि १ भयकर, घोर, भयावना, पैशाचिक, विक-राल, डरावना, क्रूर, अमगल। २ अघोर, मीम्य। - कर्म - न पैशाचिक, क्रूर, भयकर काम।  
अघोरी - वि १ क्रूर, भय-कर, अमगल काम करनेवाला २ दे 'अघोर', निघ, गर्ह्य, धिनीना, त्याज्य। ३ अघोरपथी। ४ दु स्साहमी।

अचगळ - वि १ कृपण। २ अष्ट, बुरा, खराव।

अचवा - पु अचभा, आश्चर्य, ताज्जुव, विस्मय।

अचवीत - वि चकित, विस्मित, भौचक, हैरान।

अचकट, अचकट विचकट - वि गदा, भदा, वाहियात, अश्लील, वीभत्त। [भदा।

अचकळ - वि वाहियात, अचकाविचका - पु १ गड-बडी, उलझन, उधेडवुन। २ नाग, खराबी, दुर्दशा। ३ अव्य-वस्था, अवावुद। [मुन्ना।

अचडेंवचडे - न प्यारा वच्चा,  
अचपळ - वि १ चचल, नट-खट, चुलबुला, गरारती, गीत।

२ चपल, उत्साही, फुर्तीला। - पण - न चुलबुलापन, शोखी, चचलपन; नटखटी।

अचरट - वि १ वाहियात, भदा। २ वेवकूफ, बुद्धू, अव-पगला। ३ अनुचित, ऊटपटांग; अमबद्ध।

अचल - वि अचल, गति-हीन, स्थिर। दे 'अचळ'।

अचला<sup>+</sup> - पु रुमाल, दम्न-माल।

अचळ - वि १ अचल, स्थिर, अटल। २ अस्पृष्ट, अछूता। ३ बचा हुआ, शेष। - अव्य आहिस्ता, धीरे से। - पु दे 'अचळ'। - पद - न अटल पद, मोक्ष।

अचळोजी, अचळोवा - पु १ आलसी, सुस्त आदमी, गोवर गणेश। २ मोटा आदमी।

अचाट - वि १ अत्यधिक, बहुत बडा, वेहद। २ अद्भुत, अमावारण, अमानुष, अनोखा, अलौकिक। ३ वाहियात, शोख।

अचानक - अव्य १ अचानक, एकाएक, सहमा, औचट मे, यका-यक, अनपेक्षित या असभावित रूप में। २ मीवा, बेरोक-टोक। ३ सहज, अनायास।

अचावचा - वि असबद्ध, निर-र्थक, अगडबगड, अटमट, वाहियात। - अव्य असबद्ध, अव्यवस्थित रूपमें, किसी तरह।

अचित्य - वि अचित्य, अचित-नीय, अप्रत्याशित।

अचिर - अव्य अचिर, शीघ्र, हाल मे, कुछ ही पहले। वि हाल का।

अचुवित - वि १ नया, अच्छा। २ अचुवित, न चूमा हुआ। ३ अद्भुत, अपूर्व। ४

अचूक । ५ अछूता । ६ खालिम, शुद्ध । ७ अगणित, अनगिनत । ८ पूरा, समूचा, मपूर्ण । - अव्य अचानक ।

अचूक - दे 'अचूक' ।

अचूक - वि अचूक, अव्यर्थ, निश्चित । - अव्य निश्चित रूप में, निश्चयपूर्वक, कौशल्यपूर्वक, सफाई से । [जड ।

अचेत - वि अचेत, अचेतन, अचेतन - वि १ अचेतन, निर्जीव, मृत । २ वेहोग, वेसुध ।

अचोज \* - न आश्चर्य, अद्भुत वात ।

अच्छेर - पु आषा मेर ।

अजगर - पु अजगर, अजदहा । वि आलमी, मुस्त । - वृत्ति - स्त्री १ अजगरी, निरुद्यम या भगवान के भरोसे रहने की वृत्ति । २ आलस, सुस्ती, काहिली ।

अजन्मा - वि अजन्मा, जन्म-रहित, अनादि । - पु ईश्वर, परब्रह्म ।

अजप - दे 'अजव' ।

अजव - वि [अ] अजव, अजीव, विचित्र, अनोखा । - खाना - पु अजायवघर, अजाय-वखाना, अद्भुतालय, 'म्यूज़ियम' ।

अजवाई - स्त्री [अ 'अजव'] अचरज, अचभा ।

अजवाव - पु स्त्री [अ 'अस-वाव'] १ वनदीलत, जायदाद । २ सामान, असवाव, सामग्री ।

अजमाव - वा - पु [फा 'आजमाइश'] १ आजमाइश, परीक्षा, जाँच, कसौटी । २ अदाजा, अनुमान ।

अजमावर्ण - क्रि स [फा 'आजमूदन'] १ आजमाना, परीक्षा, जाँच करना, परीक्षार्थ

प्रयोग करना । २ अदाजा करना, लगाना ।

अजमास - पु [फा 'आजमा-इश'] १ अदाजा, अनुमान, अटकल । २ तखमीना, 'वजट' । मु - पचे - अदाजन, अटकल से, लगभग । - पचे दाहोदरशें - अटकल से कही हुई वात । अटकल पचू ।

अजमासी - वि [फा 'आज-माइश'] अदाजा के साथ, अनुमान से वताया हुआ, लगभग ।

अजमासे - अव्य [फा 'आज-माइश'] अदाजन्, अटकल से, लगभग, अनुमानत ।

अजमोदा, अजवान - पु अज-मोदा, अजवायन ।

अजर - वि अजर, जरारहित जो सदा जवान रहे । - पु परब्रह्म, देवता ।

अजस्र - वि बहुत बडा, विशाल, तनावर, भीमकाय, विशालकाय, प्रचंड ।

अजा - स्त्री १ वकरी । २ माया, मोह, भास । - गल - ल वि १ फूहड, मूर्ख, वेढगा, बुद्ध, अव्यवस्थित । २ निरावार, निरर्थक । - गळस्तन - न अजाग-लस्तन, निरर्थक, वेकार, पुष्पार्थ-हीन व्यक्ति, पशु आदि । - पुत्र - पु १ भेमना । २ वेचारा, अस-हाय व्यक्ति । - पुत्र बॉल दद्यात्-गरीव की जोरू सब की भौजाई, गरीव, वेचारे व्यक्ति को ही सब सताते हैं ।

अजा - दे 'आजा' ।

अजागळ - दे 'अजा' में ।

अजाण - वि १. अजान, अनजान, नासमझ, मूर्ख, अनाडी । २ अजात । ३ कृतघ्न । - ता -

अव्य अनजाने, अनजान में । - ता - वि १ अनजान, भोला-भाला । २ मूर्ख - पणा पु अजानपन, नासमझी, अज्ञान ।

अजात - वि अजात, अजन्मा । - शत्रु - वि १ अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो । २ निरीह, गरीब । ३ सौम्य, सरल । - पु युधिष्ठिर ।

अजात<sup>+</sup> - वि १ अज्ञातकुल, अकुलीन । २ वदनाम, लफगा, लुच्चा ।

अजात<sup>+</sup> - वि [फा 'आजाद'] मुक्त, स्वतंत्र । - अव्य धीरे से, आहिस्ता ।

अजातप्रकार - पु वह आचार या पद्धति जिममें जातपात का वधन नहीं होता ।

अजावाद<sup>+</sup> - अव्य १ विल-कुल । २ अचानक, अकस्मान् ।

अजार - पु [फा 'आजार'] १ रोग, बीमारी । २ दुख, मुसीबत ।

अजारी - वि [फा 'आजार'] रोगी, बीमार, अस्वस्थ ।

अजिक्य - वि अजेय, जिसे कोई जीत न सके, अजित । - पत्र न किसीके विजयी होने का स्वीकृति-पत्र, अपनी हार का स्वीकृति-पत्र ।

अजि \* - अव्य १ अजी, अहो, जी । २ आज ।

अजिजी - स्त्री [अ 'आजिजी'] आजिजी, असहायता, मिन्नत, अनुनय, दीनता, विनम्रता, लाचारी, चापलूसी ।

अजिटट, अजिटन - पु [अ 'एडजुट्ट'] अजीटन, एक सहा-यक फौजी अफसर ।

अजित - वि अजित, अप-

राजित, अजेय । - पत्र - न दे  
'अजिक्यपत्र'

अजी - अव्य [फा 'अजी']  
१ विलकुल, कतई, तनिक भी ।  
२ इससे आगे, आइदा ।

अजी - अव्य जी, अजी । -  
मु - अजी करणें - हाँ जी हाँ जी  
करना, खुशामद, चापलूसी करना ।

अजी - दे 'आजी' ।

अजीज - वि [अ 'आजिज']  
१ दीन, नम्र । २ लाचार, तग  
आया हुआ । ३ मुहताज,  
मुखापेक्षी ।

अजीजी - दे 'अजिजी' ।

अजीवाई - स्त्री नानी, दादी,  
बुढ़िया, बूढ़ी माँ ।

अजीवात - द - अव्य [फा  
'अजी वाद'] १ विलकुल, कतई,  
तनिक भी, पूरी तरह । २ इससे  
आगे, आइदा ।

अजीर्ण - न अजीर्ण, अजीरन,  
अपच । - वि जो पचा न हो,  
अजीर्ण ।

अजीहनी \* - अव्य आज से ।

अजु \* - अव्य अभी, अभीतक,  
अवतक ।

अजुनि, अजुनिया \* - अव्य  
[फा 'हनोज'] अवतक,  
अभीतक ।

अजून - नि - नी - अव्य  
[फा 'हनोज'] अवतक, आज-  
तक, अभीतक । - तरी - अव्य  
अव तो, इसके बाद तो ।

अजे - दे 'आजे' ।

अजोन - नी - दे 'अजून' ।

अजीवा, अजीळ - दे  
'आजोवा', 'आजोळ' ।

अज्जी, अज्जीवात - दे  
'अजीवात' । [अज्ञान, अजान ।

अज्ञ - वि अज्ञ, नासमझ,

अज्ञात - वि १ अज्ञात, न  
जाना हुआ, नामालूम, अप्रकट,  
अप्रत्याशित । २ \* दे 'अज्ञ' । -  
पूर्व - वि अज्ञातपूर्व, जो पहले से  
मालूम न हो । - वास - पु. अज्ञात-  
वाम, गुप्तवाम ।

अज्ञान - न १ अज्ञान, ज्ञान  
का अभाव, अनजानपन । २  
निरक्षरता, वेइल्मी । ३ मोह,  
मिथ्या ज्ञान, अविद्या । ४ नास-  
मझी, मूर्खता । - वि १ अनाडी,  
अनपढ, अवृध नासमझ । २ नावा-  
लिंग, अवयस्क, 'माइनर' । -

जन्य - वि अज्ञान के कारण  
उत्पन्न, अज्ञानयुक्त । - घन -  
न अवयस्क या पागल व्यक्ति की  
सपत्ति, जायदाद । - पालक - पु  
नावालिंग व्यक्ति और उमकी जाय-  
दाद की देखभाल करने वाला,  
अभिभावक, 'गार्डियन' । - भुरळ  
- स्त्री भ्रम, भ्राति, मोह ।

अज्ञानी - वि अज्ञानी, अज्ञ,  
अनाडी, अनपढ, नासमझ, मूर्ख ।

अज्ञेय - वि अज्ञेय, जो जाना  
न जान सके, ज्ञानातीत । - वाद -  
पु. अज्ञेयवाद, ईश्वर या परम तत्त्व  
अज्ञेय है, यह मत, 'अॅग्नॉन्टिज्म' ।

अज्ञून - दे 'अजून' ।

अट - स्त्री १ शर्त, पावदी ।  
२ रोक, अडचन, रुकावट,  
अटकाव । ३ ज़िद, हठ । ४  
उलझन । ५ दे 'अट्टी' ।

अटक - स्त्री १ कैद, गिर-  
फ्तारी । २ अटक, अटकाव,  
रोक, प्रतिवध । ३ रोव, घाक,  
दवदवा । ४ इस नाम का एक नगर  
जो पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान)  
में है । - वि \* १ अलम्य,  
प्राप्त न होने वाला, अप्राप्य । २  
कठिन, मुश्किल । ३ असभव ।

मु अटकेवर झेंडे लावगें - बहुत  
बडा काम करना, बडी बहादुरी  
दिखाना, शानदार विजय पाना ।

अटकच (म) टक - स्त्री १  
लीला, नखरा, हावभाव, क्रीडा ।  
२ एक खेल, अटकनवटकन ।

अटकण - दे. 'अडकण' ।

अटकणें - क्रि अ अटकना,  
रुकना, अडना ।

अटकर - वि १ गठीला ।  
२ ठीक - ठाक, अच्छा । ३  
हठी, ज़िदी । - अव्य. कमकर,  
अच्छी तरह ।

अटकविणें - क्रि स १ अट-  
काना, रोकना, देर लगाना । २  
कैद, गिरफ्तार करना ।

अटकळ - स्त्री १ अटकल,  
अदाज़ा, अनुमान, मत, कल्पना ।  
२ गणित या अन्य विज्ञान का  
सिद्धात, पद्धति, ढग । - पंच-  
विशी - स्त्री अटकलपच्चू, अट-  
कलवाजी । - वाज् वि अनुमान-  
कुशल । मु. - वाघणें - अटकल,  
अनुमान लगाना ।

अटकळणें - क्रि अ स १  
जात, मालूम होना । २ अदाज़ा,  
अनुमान लगाना । ३ निश्चित रूप  
से कहना । - क्रि अ दे. 'अड-  
खळणे' ।

अटका - दे 'अडका' ।

अटकाव - वा - पु. १ अट-  
काव, प्रतिवधक, रोक । २ कैद,  
गिरफ्तारी । [काना, रोकना ।

अटकाविणे - क्रि स अट-  
अटकी - दे 'आठकी' ।

अटकें - न अटकाव, रोक,  
प्रतिवध, वावा ।

अटखोर - वि ज़िदी, हठी '  
आग्रही । [धूमना ।

अटण - न अटन, भ्रमण

अटणावळ - ख्री सोना, चांदी  
आदि गलाने की मजदूरी ।

अटणी - ख्री १ कुठाली,  
घरिया । २ वातु का गलना, रस  
होना । ३ सूखना, लुप्त होना ।  
४ रोव-दाव, दवाव, घाक । ५  
श्रम, प्रयत्न । ६ कष्ट । ७ रोक,  
रुकावट, प्रतिवध ।

अटणूक - ख्री १ सूखना,  
शोपण । २ अवनति ।

अटणें - क्रि अ १ सूखना,  
खुश्क होना, गाढा होना, तरी या  
गीलापन कम होना । २ सिकुडना,  
घट जाना, कम होना । ३ हास,  
क्षय, नाश होना, खर्च होना । ४  
भ्रमण या यात्रा करना, घूमना ।  
- क्रि स १ वटना, ऐठना, बल  
देना । २ सताना । ३ गलाना ।

अटन - न अटन, चलना,  
घूमना, भ्रमण ।

अटप - पु. १ निप(व)टारा,  
छोटा, बसका होना । २ मकुचित,  
आकुचित करना, सक्षेप । ३  
रोव, तावा, काव् । ४ बद करना,  
लपेटना, समाप्त करना । दे  
'आटोप' । लपेटना, समाप्त  
करना । दे 'आटोप' ।- शीर -  
वि सुविवाजनक, छोटा - सा  
प्रवधनीय ।

अटपणें - क्रि स १ पूरा  
करना । २ जल्दी करना । ३  
एकत्रित करना, आकुचित करना ।  
४ कब्जा करना, हाथ में लेना,  
जमा करना । ५ पकडना, प्राप्त  
करना । ६ सँभालना । ७ खत्म  
करना ।- क्रि अ १ खत्म होना,  
सूख जाना । २ मर जाना ।

अटपता, अटपशुद्ध, अटपसर-  
वि ठीक, मुआफिक, छोटा - सा,  
नपातुला, ठीक नाप का ।

अटप(फ)ळ-ळें न सुजनी  
या दोहरी चादर का एक-एक  
पल्ला ।

अटपाअटप - ख्री समेटना,  
बटोरना, इकट्ठा करना, तह  
करके रखना ।

अटरणें - क्रि अ १ तग  
होना, सिकुडना । २ रुठना ।

अटरफटर - दे 'सटरफटर' ।

अटवल - दे 'आटवल' ।

अटविणें - दे 'आटविणें' ।

अटवी - ख्री अटवी, जगल,  
अरण्य, वन ।

अटव्य \* - वि घोर; घना  
(जगल) ।- न अरण्य, वन ।

अटस - वि १ छोटा, तग ।  
२ मजदूत, गठीला ।- अव्य.  
कसकर, तग ।

अटळ - वि १ अटल,  
अवग्यभावी । २ निश्चित, स्थिर,  
पक्का । [ काव, रुकावट ।

अटा \* - पु प्रतिवध, अट-  
अटाअट - ख्री १ कमी, तगी,  
त्रुटि । २ सूख जाना, सूखा ।  
३ सरगर्मी, अत्यधिक परिश्रम,  
दौडवूप । [ हुरी । २ सूखापन ।

अटाई - ख्री १ गलाने की मज-  
अटाघाट - पु. दे 'अटापिटा' ।

अटाट - टी - ख्री कष्ट,  
तकलीफ ।

अटाटा - पु वोलवाला, चर्चा ।

अटापिटा - पु., अटापिटी -  
ख्री, अटापीट - ख्री, अटापीटा  
- पु. १ कष्ट, तकलीफ, जजाल,  
अथक परिश्रम । २ यत्रणा । ३  
नाश । ४ थकान, थकावट ।

अटाला - पु १ घर के लोग,  
पशु आदि । २ सेना का सामान-  
असवाव ।

अटाली - ख्री अटारी, कोठा,

अट्टालिका ।

अटी - ख्री १ हठ, जिद । २  
शर्त । ३ कष्ट, श्रम ।- खोर,  
-वाज - वि हठी, अभिमानी ।-  
तटीचा सामना - पु निर्णायक  
प्रतियोगिता, जोरदार सामना ।

अटीचा - वि हठी, जिद्दी,  
हठीला ।

अटीव - वि १ औटाया हुआ,  
औटाकर गाढा किया हुआ, गाढा ।  
२ गलाया हुआ (सोना आदि) ।  
३ गठीला, चुस्त (शरीर) ।  
४ जिसमें बल दिया हो, ऐंठन या  
मरोडवाला ।

अट्टणें - दे 'आट्टणें' ।

अट्टोका - पु शक्ति या सामर्थ्य  
की परिसीमा, क्षमता, काव्,  
हैसियत, बग, बस । अट्टोव्यातील-  
वि बस का, काव् का,  
इस्तियार का ।

अट्टोकाट - वि १ अत्यत,  
वेहद, बहुत बडा, बडा-चडा । २  
पक्का, चालाक ।

अट्टोप, अट्टोपणे, अट्टोपता,  
अट्टोपसर - दे 'अटप', 'अटपणे',  
'अटपता', 'अटपसर' ।

अट्टोपी - वि होशियार,  
कुशल, चपल, चालाक ।

अट्टोफळी - ख्री आठ फलो का  
वायन, आठ ब्राह्मणो को दिया  
जाने वाला चौसठ फलो का दान ।

अट्टोळी - ख्री १ कटहल,  
जामुन, छुहारा आदि फलो का  
बीज, बीया । २ आमकी गुठली ।  
३ अड ।

अट्टल - वि १ पक्का,  
उस्ताद, परले सिरे का, छँटा  
हुआ, घुटा हुआ, चालाक ।  
२ निपुण, होशियार, प्रवीण ।  
३ असली, खरा । ४ स्थिर,

अटल ।

अट्ट(ट्टा)हास - पु १  
हठधर्मी, जिद, हठ । २ अट्टहाम,  
अट्टहास्य, कहकहा, ठहाका । ३  
आक्रोश, जोर की आवाज ।

अट्टी - स्त्री [ क ] १ जूता,  
जूती आदि का तल्ला । २ गोलियाँ  
खेलते समय उँगलियों में जोर लाने  
के लिए जमीनपर टिकाया हुआ  
अँगूठा या वह स्थान जहाँ अँगूठा  
टेका हो । - खोर; - वाज - वि  
हठीला, अडियल, जिद्दी ।

अठगुळ - ट्टा - वि अठवाँसा,  
आठ ही मास में जन्म लेने वाला  
(बच्चा) ।

अठगुळा - पु, अठगुळें - न,  
अठगुळ - न गर्भावान सस्कार  
न हुआ हो तो गर्भ के आठवें महीने  
में किया जाने वाला एक मस्कार,  
अठवाँसा ।

अठप(फ)ळें - दे 'अटपळें' ।

अठफळी - दे 'अटोफळी' ।

अठरणें - दे 'अटरणें' ।

अठरा - वि अठारह, १८, 1-  
कारखाने - पु बहु मराठा शामकी  
के शासन में प्रचलित अठारह  
विभाग । - धान्याचें कडबोळें -  
न १ विभिन्न बातों का बेमेल  
मिश्रण, मिलावट, खोट । २  
अनीरस, अवैध सतान, जारज ।  
३ विभिन्न जातियों का सकर,  
दोगला, मकरज व्यक्ति । - पगड  
(जात - ती) - वि १ अठारह  
जातियों के लोग । (लुहार, सुनार,  
तेली, माली आदि) । २ अव्यव-  
स्थित, मिश्र जनसमूह, अनेक  
वर्गों के लोग । - विश्वे (विसवे)  
दारिद्र्य - न बेहद गरीबी,  
कगाली । [स्मृति ।

अठव - पु स्मरण, याद,

अठवडा - पु आठ दिनों का  
काल, इतवार मे लेकर इतवार  
तक का समय, हफता, सप्ताह ।

अठवण - स्त्री ध्यान, स्मरण,  
धारणा, स्मृति, याद ।

अठवा - दे 'आठवा' ।

अठविणे - दे 'आठविणे' ।

अठवे - न आधा मेर, आधे  
मेर की माप ।

अठळी - स्त्री १ कटहल आदि  
फलों का बीज, बीया । २ आम  
की गुठली । ३ अड ।

अठाग(गु)ळें, अठागुळ - न  
अठवाँसा, गर्भ के आठवें महीनेमें  
होने वाला मस्कार ।

अठायाँ - अव्य १ अस्थान में,  
बेठिकाने, गलन स्थान में । २  
शरीर के नाजुक स्थानपर, खतरे  
की जगह में ।

अठोंठें - अव्य आठ से गुणा  
करनेपर, आठगुना करने में ।

अठो - स्त्री १ शिकन, माथे  
का बल, त्योरी । २ मन की गाँठ,  
मनमुटाव, गुत्थी, प्रतिकूल मत ।  
३ दे 'मिठी' । ४ दे 'अठळी' ।  
मु - घालणे - १ त्योरी चढाना  
या बदलना, पेशानी पर बल  
डालना । २ गले लगाना, चिम-  
टाना, कसना ।

अठोपह(हा)र - अव्य आठो-  
पहर, हर वक्त, सदाव । - वत्तीस  
घड्या - अव्य. आठो पहर चौंसठ  
बड़ी, हर वक्त । [ 'अठळी' ।

अठोळा - पु अठोळी - स्त्री दे  
अठ्ठा - पु १ पामे के खेल में  
आठ का दान या दाँव । २ अट्टा ।

अठ्ठावन - वि अट्टावन, ५८ ।

अठ्ठावीस - वि अट्टाई(ई)स,  
२८ । [अटतालि(ली)स, ४८ ।

अठ्ठेचाळ; अठ्ठेचाळीस - वि

अठ्ठ्याणी, अठ्ठ्याऐंशी - वि  
अट्टामी, अट्टामी, ८८ ।

अठ्ठ्या - पु अट्टा, तान का  
वह पत्ता जिमपर आठ वृष्टियाँ हो ।

अठ्ठ्याणव - वि अट्टानवे,  
अठानवे, ०८ । [अठतर, ७८ ।

अठ्ठ्याहत्तर - वि अठहत्तर,  
अठ - अव्य. न्यूनता, त्रुटि,  
गोणत्व आदि अर्थ प्रकट करने वाता  
उपमर्ग या उपपद । - कया - स्त्री

१ उपकथा, बड़ी कहानी में आने  
वाली छोटी कहानी । २ विषया-  
तर । ३ फालतू या बाहियात बर्तन ।

- गाव - पु न १ छोटा गाँव,  
देहात । २ प्रधान मार्ग नें दूर बना  
हुआ गाँव । - घोडा - पु छोटा  
घोडा, टट्ट । - पचा - पु बहुत  
छोटी बनी, कछनी, नाँचिया ।

अड - स्त्री [ क ] १ अटकाव,  
रुकावट, रोक, प्रतिवध । २ हठ,  
जिद । ३ शर्त, वाजी । - काठी -  
स्त्री रोक, रुकावट, वचन, प्रति-  
वध, मनाही । - काम - न छोटासा  
आनुपगिक, गाँण काम । काम,

- काम्या - वि छोटेमोटे काम  
करने वाला । - खर्च - पु गाँण,  
फुटकर खर्च । - खाणे -, -खाद -  
द्य - न भोजन के अलावा खानेकी  
वस्तुएँ, नाश्ते की चीजें, मिठाई,

चिडवा आदि । - गल्ली - स्त्री.  
छोटी गली, कूचा । - गिन्हाइ (ई)  
क - पु न सीधे दूकानदार से न  
खरीदने वाला, वह जो दूकानदार

न हो । - गिन्हाइकी - वि १ जो  
सीधे दूकानदार से खरीदा न हो,  
जो दूकानदार के वजाय साधारण

व्यक्ति को बेचा हो । २ पुराना,  
वासी, पूर्वप्रयुक्त, अन्यप्रयुक्त,  
'सेकेड हैंड' । - तट्टू - वि पु.

अडियल, मट्टर, हठी, जिद्दी ।

- प्राप्ति - स्त्री दे 'अड मिळ-  
कत' । - मार्ग - दे 'आडवाट' ।  
- मिळकत - स्त्री ऊपर की आम-  
दनी, अतिरिक्त आय । - रान -  
न रास्ते से दूर का स्थान, निर्जन  
स्थान । - वळण - न वह स्थान  
जो राजमार्ग से दूर हो, एकांत  
स्थान । - वळणी - वि जो बड़े  
मार्गपर न हो, दूर का । - अव्य  
एक ओर, सीमा से परे । - सट्टा-  
पु १ अदाजा, अनुमान, अटकल ।  
२ पहुँच, वम । ३ अडचन, मुसी-  
बत । - सर - पु १ अरगल,  
व्योडा । २ रोक, रुकावट,  
वाधा ।

अड - दे 'आड' ।

अडकई - स्त्री छोटा चाँद, एक  
लता जिसकी जड़ सर्पविष की दवा  
मानी जाती है ।

अडकण - न रोकने का साधन,  
अडगा, रुकावट, वाधा ।

अडकणी - स्त्री अडगा, रुका-  
वट, वाधा, रोक ।

अडकणे - क्रि अ अटकना,  
रुकना, फँसना, लटकना, उल-  
झना ।

अडकवण - णी - स्त्री वह वस्तु  
जिससे रुकावट पैदा होती है, अट-  
काव, रोक ।

अडकविणें - क्रि स १ अट-  
काना, रोकना; उलझाना, देर  
करना । २ मनाही करना ।

अडकळणें - दे 'अडखळणे' ।

अडका - पु १ आधी पाई, एक  
सिक्का जो पुराने एक पैसे के छठे  
भाग के बराबर होता था । २  
पैसा, रुपया-पैसा, दाम, संपत्ति ।

अडकाअडकी - स्त्री उलझाव,  
उलझन ।

अडकाव, अडकाविणें - दे  
म हि श कोश . २

'अटकाव', 'अटकाविणे' ।

अडकिता - पु [क 'अड-  
कोत्तु'] १ सरीता । २ धाक,  
दबदबा, दवाव । मु अडकिर्यांत  
घालणे, धरणें - मुक्किल में, वधन  
में डालना, फँसाना, रोक रखना ।  
अडकिर्यात सापडणें - मुसीबत,  
सकट में फँसना । [वाधा ।

अडके - न रोक, अटकाव,  
अडखळ - पु स्त्री अटकाव,  
प्रतिवध, वाधा ।

अडखळण - णी - स्त्री १ रुका-  
वट, वाधा, अटकाव । २ वह  
स्थान या प्रसंग जहाँ आदमी ठोकर  
खाए ।

अडखळणे - क्रि अ १ ठिठ-  
कना, रुकना, झिझकना, गतिरोध  
उत्पन्न होना । २ अटकना, हक-  
लाना, ३ फँसना । ४ लडखडाना ।

अडखळविणें - क्रि स अट-  
काना, ठिठकाना, उलझाना,  
फँसाना ।

अडगळ - स्त्री १ कवाड, अगड-  
खगड, काठ-कवाड, बेकार, रद्दी  
चीजें । २ ऐसी वस्तुएँ जो हररोज  
काम न आएँ । [पढ, वेहूदा ।

अडगा - + वि अनाडी, अत-

अडगुलेंमडगुलें - न [क]  
वच्चो को वहलाने का एक गीत ।  
वच्चे को किसीकी नजर न लगे, इस  
लिए डिठाना लगाते समय यह गीत  
गाया जाता है । - वि 'हँमता-  
खेलता (वच्चा) ।

अडचण - स्त्री १ अडचन,  
दिवकत, रुकावट, कठिनाई,  
वाधा । २ जगहकी तगी, सकोच,  
चौडाईकी कमी । ३ कवाड,  
फालतू चीजें । ४ वृष्टि, अभाव ।  
मु - येणे - १ सूतक या अरौच  
लगना, होना । २ स्त्री का रज-

स्वला होना, कपडो में होना ।  
३ दिक्कत या कठिनाई पैदा  
आना । - सांगणे - १ कठिनाई  
वताना । २ वहाना बनाना, हीला-  
वाजी, टालमटोल करना ।

अडचणें - क्रि अ अडचन,  
भीड, मुश्किल होना, मुसीबत में  
फँसना ।

अडचणूक - स्त्री अडचन,  
असुविधा, परेशानी, दिक्कत ।

अडचणें - क्रि अ १ तग,  
चुस्त होना । २ सकट में आना,  
फँसना । [ढँया ।

अडचें - अव्य. न ढाई वार,  
अडण - स्त्री १. रोक, रुकावट,  
अटकाव । २ अडचन, सकट,  
दिवकत । - वि हठी, जिद्दी,  
मिरफिरा । [व्योटा ।

अडणा - पु अरगल, अर्गला,  
अडणी - स्त्री [क 'अडुणिणे']  
१ दीपक, वर्तन आदि रखने का  
लकड़ी लोहे, पीतल आदि का  
बना आधार, छोटी तिपाई । २  
शख रखने का आधार या आसन ।  
३ अरगल, व्योडा । ४ अडकाव,  
टेकनी, टेकन, थूनी । मु - वरचा, -  
वरचा शख - १ अक्ल का  
दुरुमन, मूर्ख, बुद्धू, वेवकूफ ।  
२. उच्च स्थानपर स्थित मूर्ख  
व्यक्ति ।

अडणूक - स्त्री [क 'अडु']  
१ अडचन, रुकावट, रोक, वाधा ।  
२ हठ, जिद, विरोध । ३ प्रति-  
वध, मनाही ।

अडणे - क्रि अ १ अडना,  
रुकना, अटकना । २. घेरा जाना ।  
३ तग हो जाना । ४ अड जाना,  
हठ, जिद करना, इन्कार करना ।  
५ प्रमव में कठिनाई होना ।  
मु अडला नारायण - सकट में

फँसा हुआ व्यक्ति । (पूरी कहावत इस प्रकार है - अडला नारायण गाढवाचे पाय घरी = वक्त पडे वाँका तो गवे से कहे काका ।) अडला भिडला - कठिनाई में फँसा हुआ, ज़रूरतमद ।

अडत - स्त्री आदत, दलाली, अभिकरण, 'एजन्सी' ।

अडताल - पु. १ एकताल, अपताल, कर्नाटक संगीत में झपाताल (स) । २ दे आड-ताल' ।

अडती - स्त्री प्रतिकार, रोक, प्रतिवध । - पु. दे 'अडत्या' ।  
मु. - घालणें - वाधा डालना ।

अडतीस - वि अडतीस, ३८ ।

अडत्या - पु. आढतिया, दलाल, अभिकर्ता, 'एजट' ।

अडथळणें - क्रि अ अडना, वाधा पाना । - क्रि स अडाना, रोकना, वाधा डालना ।

अडथळा - स्त्री १ वाधा, रूकावट, रोक, अटकाव । २ देरी ।

अडदर - रा - रू<sup>+</sup> - पु. - घाक, डर, भय, भीति, दहशत ।

अडदांड, अडदांडगा - वि उड्ड, उजड्ड, अडदार, अडवग-गा, धोकडा, धीगरा, अनाडी ।

अडनड - डी - दे 'अडनाट - ड' ।

अडनांव - दे. 'आडनाव' ।

अडनाट - ड - वि १ वेढगा, असुविवाजनक । २ हिसाव की दृष्टि से अवूरा, अपूर्ण; बीच की मस्यावाला । ३ अयथार्य, गलत, अनिश्चित । - अव्य. असुविवा-जनक ढग से, अनिश्चित रूप में ।

अडनीट - ड; अटनेड - दे. 'अडनाट' ।

अडपसडप - अव्य १ चोरी

छिपे, लुकछिपकर । २ अनुचित मार्ग से, भलेबुरे उपायो मे । - वि माघारण, अप्रसिद्ध, छोटा, हलका ।

अडपणे<sup>+</sup> - क्रि अ. फँसना, मुश्किल में आना । - क्रि स रोकना, वाधा डालना, फँसाना ।

अडपता दडपता - वि घाक जमाने वाला, देखरेख करने वाला, नियता, नियमन करने वाला, नियत्रण में रखने वाला ।

अडपदडप - स्त्री वाक, रोव, दवदवा, डर ।

अडवंक - ग - गा - वि १ अडवग, अडवगा, टेढा - मेढा, वेढव । २ मूर्ख, बुद्धू । ३. अडि-यल, जिद्दी ।

अडवकी<sup>+</sup> - स्त्री चटकनी, किवाड वद करने की कुडी, सिटकिनी । [ करधनी ।

अडवद - पु. कटि सूत्र,

अडवाजार - पु. वाजार के दिन को छोडकर अन्य दिवसपर लगा वाजार ।

अडमड - स्त्री, अडमडा - पु. वच्चो का चुलवुलापन, नटखटी, चचलपन, शरारत ।

अडमडणें - क्रि अ १ चुल-वुलाना, हस्तक्षेप करना, शरारतें करना । २ टकराना, ठोकर खाना । ३ आसपास चक्कर काटना ।

अडमडचा - वि नटखट, चुल-वुला; शोख, चचल, शरारती ।

अडमाप - न. १ अमली या सच्चे माप से छोटा या बडा माप । २ खोटा माप । - वि जो अनु-पात युक्त न हो । मु. अडमापाने मौजणें - बहुत अधिक का अदाजा लगाना, ज्यादा की आशा रखना ।

अडमुठा - वि. १ अनाडी, उजड्ड, लठ, गँवार । २ मुट्ठी में न ममानेवाला, टेढा - मेढा, बोदा ।

अडमु(म्)ठी - वि मुल्म, महजप्राप्त । - अव्य. अनायाम, आमानी मे ।

अडमूट-ठ-ठा - दे 'अडमुठा' ।  
अडमोरा - अव्य मुँह फेरकर, पीठ फेरकर । दे 'आडमोरा' ।

अडलंड<sup>+</sup> - वि १ ऐन वक्त-पर घोना देने वाला, मकट मे माय छोडने वाला । २ जिद्दी, हठी ।

अडला - दे 'अडणे' में ।

अडली - पु [ अ 'ऑर्डली' ] नाँकर, हरकारा ।

अडलेपण - न १ हठ, जिद । २ मुमीवत में फँसना ।

अडव\* - न १ जगल; अरण्य । २ मकट, आपत्ति । ३ कमाँटी ।

अडवण - स्त्री १ अटकाव, प्रतिवध, रोक, अडचन, रूकावट; २ प्रतिकार ।

अडवणूक - स्त्री १ प्रतिरोव, रोक, रूकावट, तग करना, अडगा डालना । २ वहिष्कार, मत्याग्रह, हडताल ।

अडवणें - दे 'अडविणें' ।

अडवा - वें - वि १. आड़ा, पडा, खडा या सीवा का उलटा । २ चौटा, मोटा । ३ तिरछा, वेंडा । ४ विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा । - अव्य. एक ओर से, आडा । - उभा - वि १ खडा और पडा, आडा और सीवा । २ लवा-चौडा, मोटा-ताजा । - तिडवा - वि आडा - टेढा, तिरछा, उलटा - सीवा, वेढगा; बहुत अधिक । - मु - घणें - १

दोप निकालने की दृष्टि से देखना, शक करना । २ आडे हाथो लेना, खरी खोटी सुनाना । ३ बच्चे को स्तनपान कराना ।— (वें) जाणे — १ रास्ता काटना । २ आपत्ति उठाना, रोकना ।— (वें) नेसणे—, —(वें) लावून घेणे— थोड़ी देर के लिए, स्नान करते या कपडे बदलते समय, छोटी घोंटी पहनना, तौलिया लपेट लेना ।—(वें) पडणे — १ वीच—बचाव करने की चेष्टा करना । २ रोकना, रुकावट डालना, विरोध करना ।— (वें) बोलणे—ताना मारना, व्यग कसना, टेढ़ी बात करना, उल्टी—सीधी बातें कहना, विरोध करना ।—(वें) लावणे— १ विरोध करना । २ उल्टा अर्थ लगाना । ३ दे 'अडवें नेसणे' ।— (वें) होणे— १ लेटना, आराम करना । २ गिरना, हार जाना । ३ आडे आना, बाधक होना । अडव्या अगाचा, काठीचा, बांध्याचा, हाडाचा — मोटा ताजा, स्थूलकाय । अडव्यात शिरणे १ सीधा रास्ता छोड़ कर टेढ़ा मार्ग अपनाना । २ सीधी बात न करना, उल्टी—सीधी बातें बकना ।

अडवाअडव — छी १ रोकना, रुकावट, बाधा । २ सताना ।

अडविणे—क्रि स १ रोकना, जाने से मना करना, बाधा, अडचन डालना । २ सामना करना । ३ छेकना ।

अडवी — छी छोटा अरगल, सिटकिनी, चटखनी ।— वि छी आडी, तिरछी । दे 'अडवा' ।— पालखी — छी रास्ते के दोनों ओर पालकी के डडो को आडा रखकर पालकी ले जाने का सम्मान,

जो शूगेरी के शकराचार्यजी को प्राप्त है ।

अडवें — दे 'अडवा' ।

अडवेळ — छी १ मुख्य समय को छोड़कर अन्य समय, असमय । २ सूर्यास्त से पहले घड़ी-दो—घड़ी का समय, शाम का समय ।

अडशेरी — छी १. ढाई सेर का माप, ढैया २. नौकर को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दैनिक या मासिक वेतन, मजदूरी ।

अडस — वि १ तग, मजबूत, पक्का । २ वारीक, छोटा (सूराख आदि) । ३ ठीक, यथोचित । ४ बाधा डालने वाला ।

अडसटणे +— क्रि स अनुमान लगाना, अदाजा बाँधना ।

अडसणे — क्रि स १. सूप से पछोरना, फटकना । २ बीनना, छांटना, चुनना, साफ करना । ३. काटना, छांटना (टहनियाँ आदि) । ४ कसना ।— क्रि अ १ रुठना, अडना, हठ पकडना । २ छिपना, आड लेना । ३ घमड करना ।

अडसर — पु. १ अरगल, व्योडा । २ बाधा, रुकावट । ३ दे 'आडसर' ।

अडसष्ट — वि अडसठ, ६८ ।

अडसूनखडसून — अव्य साफ साफ, स्पष्टत, ठोक बजाकर, अच्छी तरह जताकर ।

अडाअड — छी बड़ी बाधा, रुकावट, अडचन ।

अडाखा — पु. १ अदाजा, कूत, तखमीना । २ मेल, तालमेल । ३ युक्ति, उपाय, नीति । ४ तलपट, पक्का चिट्ठा । सतुलन-पत्र; तुलन-पत्र ।

अडाडी — छी १ प्रतिबध, अटकाव, रुकावट, रोक । २

उत्कठा, जल्दी, शीघ्रता । ३ मीड ।

अडाण — न बहु गाँवके वे लोग जिनके पास खेती नहीं है या जो खेती नहीं करते, ऐसे देहाती लोग जो किसान नहीं हैं ।— चोट — वि अनाडी, वृद्ध । (ग्रा) ।— मत — न गँवार, अशिष्ट विचार, कल्पना आदि ।

अडाणी — वि १ अनाडी, गँवार, देहाती, अशिष्ट । २ अज्ञान, अकुशल, अनपढ । मु अडाण्याचा गाडा — अनाडी का काम या सपकं । (पूरी कहावत इस प्रकार है अडाण्याचा आला गाडा, वाटेवरच्या वेशी मोडा = अनाडीका छकडा आया, रास्तेपर की कमाने तोड़ दो ।)

अडाव — वा — पु १ लेखा, पक्का चिट्ठा, तुलनपत्र, जायजा । तलपट । २ पुनर्विलोकन, समीक्षा, सिंहावलोकन । ३ खर्चका कच्चा चिट्ठा । [ 'अडशेरी' ।

अडिशेरी, अडिश्री — छी — दे

अडी — छी पाल, फलो के पकाने की एक विधि जिसमें उन्हें पत्तोपर रखकर पुन पत्तो से ही ढँक देते हैं ।— दे 'अडी' ।

अडीच — वि अढाई, ढाई, दो और आधा ।— की—छी ढैया, एक पहाडा जिसमें क्रम से अको की ढाईगुनी सख्या पढ़ी जाती है ।

अडील — वि १ अडियल, हठी, जिद्दी । २ आश्रय में रहने वाला । ३ ओट में छिपा हुआ ।

अडसुष्ट — वि अडसठ, ६८ ।

अडुळासा — पु अडूसा, वासा, अरूसा ।

अडून — अव्य. किसी के पीछे या ओट में छिपकर, आड लेकर ।



२ मारफ़त, द्वारा । मु - गोळी मारणें - स्वयं किमी का नुकमान करने के वजाय दूसरो में वह कराना ।

अडेल - वि अडियल, हठी, जिद्दी । - तट्टू - न अटियल, जिद्दी आदमी ।

अडेरौ - दे 'अडेरौ' ।

अडोसा - पु ओट, पर्दा, आड ।

अड्डा - पु १ अड्डा, मिलने या इकट्ठा होने की जगह, इक्को तांगो आदि के रुकने, ठहरने की जगह, किमी के उठने-बैठने का खास स्थान । २. समूह, सघ । ३ अखाडा, थिएटर आदि स्थान । ४ आलमी, व्यसनी, आदि लोगो के मिलने और गपगप करने की जगह । ५ घमड, गरूर ।

अड्डेकरी - पु अड्डे का मचालक या मालिक ।

अड्डेवाज - वि अड्डे में जाने वाला, अड्डे में पडा रहने वाला ।

अडचाल + - वि इस पार का, इस तरफ का । - अव्य इस पार, इस ओर । - पडचाल - अव्य इस पार उस पार, आर-पार ।

अडळ - वि १ अटल, अचल, स्थिर, दृढ । २ पक्का, खरा । - पु मिलना, प्राप्ति, पता, मुराग । - न अविनाश पद, मोक्ष । - पद - न अटल पद, स्थिर पद, मोक्ष । - पु १ पता, याह, उपलब्धि । २ ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र ।

अडळणें - कि अ दिखाई देना, मिलना, दीख पडना, पाया जाना, ध्यान में आना । [ वा' ।

अडाव - वा - पु दे 'अडाव-

अडावेढा - पु १ लपेट, घुमाव, फेरा; मरोड, ऐंठन ।

२ आनाकानी, घुमाव - फिराव । ३ रुकावट, बाधा, अटकाव ।

अढी - स्त्री [ क ] १ पाल, आम, केला आदि पकाने की एक विधि जिममें उन्हें पत्तोपर रखकर पुन पत्तो में ही ढेक देते हैं । २ कीना, बुगज, द्वेष, वैर, मन-मुटाव, खुनम । ३ एक टांगपर दूसरी टांग रखकर बैठने का ढग । ४ गाँठ, गुथी, उलझाव । ५ थिकन, बल । - खोर वि मन में द्वेष रखने वाला, कीनावर ।

अढें - न १ वेंडेर - रा, बरेडा, छाजन के बीचोबीच लगाया जाने वाला चल्ला जिमपर ठाटका बोज रहता है । २ गर्दन के दोनों ओर का कवेष का भाग (शरीर, कुर्ता, अँगिया आदि का) । मु. एका अडघाखालचा - एक घर या परिवार का ।

अढेवेढे - पु बहु १ उलटी - मीची बातें, झिझक, वावाएँ, हीले - हवाले, आपत्तियाँ । २. वेसुरी और वेढगी तानों के साथ गाया हुआ गाना । ३ उलटी-मीची तरह घिमना । मु - घेणें - आनाकानी करना, वहाने बनाना, झिझकना ।

अणकुची - स्त्री नोक, अनी, वारीक और धारदार सिरा, तीक्ष्ण विदु । - दार वि अनीदार; नोकदार, नुकीला ।

अणखर - वि १ मजदूत, ठोस, पक्का, टिकाऊ । २ कठिन, कठोर । ३ खरा, मुँह-तोड (जवाब) । ४ विलक्षण, अद्भुत ।

अणखी - अव्य १ अविक्त । २ मित्राय, अलावा, अतिरिक्त । ३ फिरसे, पुन । ४ और, तथा, व ।

अणणें, अणणावळ - दे 'आणणे', 'आणणावळ' ।

अणवूज - वि १ पराया, अपरिचित, नया । २ अजीब, विचित्र, विरक्षण ।

अणवट - पु अनवट, एक आभूषण जो पैर के अँगूठे में पहना जाता है ।

अणवाणी - दे 'अनवाणी' ।

अणा - पु आना, चार पैसों का पुराना सिक्का ।

अणि - णी - स्त्री १ अणि, अनी, नोक, धार । २ अकुर, अँवुआ । ३ ऐन वक्त, नकट-कालीन, आपत्कालीन स्थिति । ४ लट्टू की कील । - अव्य १ और, तथा, व । २ अलावा ।

अणिक - ल \* - अव्य और, तथा, व । - वि अन्य, दूसरा; अलग । [ नोकदार, अनीदार ।

अणियाळें \* - वि नुकीला, अणी - दे 'अणि', 'अणि' ।

अणीक - कु \* - दे 'अणिक' ।

अणीकसा + - वि विलक्षण, अद्भुत, असाधारण ।

अणीवाणी - स्त्री १ आपत्कालीन, सकटकालीन स्थिति, हंगामी हालत । २ क्षुब्धता, उत्तेजित, अशान स्थिति । ३ निर्णायक स्थिति, अवस्था ।

अणु - पु १ अणु, परमाणु, 'अॅटम'; 'मोलेक्यूल' । २ काल का एक भाग । ३ सगीत में तीन ताल के काल का चतुर्थांश । - वि अतिसूक्ष्म । - वाँव - पु परमाणु-वम, 'अॅटम वाँव' । - मात्र - वि अणुमात्र, बहुत थोडा, नाम-मात्र, रच भी, तनिक भी । - युद्ध - न परमाणुयुद्ध, आणविक युद्ध, 'अॅटॉमिक वॉर' । - रेणु -

पु अणुरेणु, बहुत छोटे कण - वाद -  
पु अणुवाद ।

अण्णा - पु [क] वडा भाई,  
आदर या प्यार से पुकारने का नाम ।

अतः - अव्य, अत, इसलिए,  
इस कारण । - पर - अव्य फिर  
से, अब से आगे, आइ (य) दा,  
पुन । [ लिए, इसीसे ।

अतएव - अव्य अतएव, इसी-  
अतक्षणौ - अव्य इसी समय,  
इसी क्षण । [ जान ।

अतज्ञ - वि अनभिज्ञ, अन-  
अतत<sup>+</sup> - दे 'अवव' ।

अतताई-थी - वि आततायी,  
गुस्से में आकर कोई क्रूर कर्म कर  
वैठने वाला, जल्दवाज ।

अतथ्य - वि अतथ्य, असत्य,  
झूठा, गलत ।

अतत्याई-थी - दे 'अतताई' ।

अतर्कित - वि अतर्कित, अन-  
सोचा, आकस्मिक ।

अतर्क्य - वि अनर्क्य, अचित्य,  
कल्पनातीत, गूढ ।

अतल - न अतल, सात अधो-  
लोको में से पहला । - वि अथाह,  
बहुत गहरा, तलहीन ।

अतल(ळ)स - पु १ परिमल,  
सुगव । २ स्वाद ।

अतस - स्त्री अतसी, अलसी,  
तीमी । - पुष्प - न अलसी का  
फूल ।

अता - अव्य १ अब, इस  
समय । २ आजकल, फिलहाल ।

अतायत - वि [फा 'ताह-  
यात'] आजन्म, आमरण,  
आजीव ।

अतार-री - पु [फा 'अत्तार']  
१ अत्तार, गधी, सुगवकार, इत्र  
वनाने-वेचने वाग । २ पत्नी,  
रग, गुलाल, अवीर आदि वेचने

वाला ।

अति - अव्य वि अति, बहुत,  
अधिक, अतिशय । - स्त्री अति-  
'शयता; अतिरेक, अधिकता । -  
मु. - करणें - सीमा से, हृद से बढ़  
जाना । कहा. - तेयें माती -  
किसी वात का सीमा से बढ़ जाना  
अच्छा नहीं होता ।

अतिकाल - ङ - पु अतिकाल,  
वेला का वीत जाना, अवेर ।

अतिक्रमण - न १ अतिक्रम,  
अतिक्रमण, सीमा या मर्यादा का  
उल्लंघन । २ अनादर; अमर्यादा,  
अप्रतिष्ठा । ३ घुस - पैठ, अवैध  
प्रवेश । ४ अतिसर्पण, अतिक्रमण,  
'एन्क्रोचमेंट'

अतित<sup>+</sup> - पु अतिथि, मेह-  
मान । - अम्यागत - पु अतिथि,  
अम्यागत ।

अतिथि - पु १ अतिथि,  
अम्यागत । २ अचानक या भोजन  
के समय आया हुआ मेहमान ।  
- काळ - पु, - वेळा स्त्री दो-  
पहर के भोजन का समय ।

अतिपरमाणुविद्युत्कण - पु  
विद्युदणु, 'इलेक्ट्रॉन' ।

अतिपरिचय - पु अतिस्नेह,  
घनिष्ठ मित्रता । २ सीमा से  
अधिक बढ़ी हुई दोस्ती । कहा.  
अतिपरिचयादवज्ञा - बहुत अधिक  
आना-जाना रखने से आदर या  
सम्मान नहीं रहता ।

अतिपाड - पु १ बहुत अधिक  
मूल्य, कीमत । २ बड़ी सीमा  
या मर्यादा ।

अतिपात - पु अतिपात, अति-  
क्रम, नियम या मर्यादा का  
उल्लंघन ।

अतिप्रसंग - पु १ ज्यादाती,  
अमर्यादा, छेड़छाड़, वृष्टता ।

२ अनर्थ, बुरा परिणाम । ३  
अतिप्रसंग, बहुत अधिक सपर्क ।  
४ विषयांतर, अप्रस्तुत, अप्रास-  
गिक, असंबद्ध भाषण ।

अतिबळी - वि अतिबल, अति  
बलवान्, बहुत अधिक शक्ति-  
शाली । [ अधिकता ।

अतिभर\* - पु विपुलता,  
अतिमनुष्य - दे 'अतिमानव' ।  
अतिमान - वि अतिशय,  
बेहद, वेशुमार । [ 'सुपरमॅन' ।

अतिमानव - पु अतिमानव,  
अतिमानवी, अतिमानुष - वि  
१ अतिमानुष, मानवशक्ति के  
वाहर का । २ अलौकिक ।

अतिरथ - थी - पु अतिरथ,  
अतिरथी, अकेले बहुतो से लड़ने  
वाला रथारूढ योद्धा, शूर वीर । -  
(थी) महारथी - पु बहु बड़े बड़े  
वीर, शूर, पराक्रमी पुरुष ।

अतिरिक्त - वि अतिरिक्त,  
नियत परिमाण से अधिक, बढ़ा  
हुआ, फाजिल । - अव्य अतिरिक्त,  
सिवाय, अलावा ।

अतिरेक - पु अतिरेक,  
आधिक्य, फाजिल होना, हृद  
होना, करना ।

अतिवाद - पु १ वितडावाद,  
ज्जत । २ अतिवाद, निंदा,  
कठोर वचन ।

अतिवादी - वि १ अतिवादी,  
खरी वात कहने वाला । २  
हुज्जत करने वाला ।

अतिविख-ष-न, अतिविषा -  
स्त्री अतिविषा, अतीम ।

अतिवृष्टि - स्त्री अतिवृष्टि,  
अत्यधिक वर्षा ।

अतिव्याप्ति - स्त्री अतिव्याप्ति,  
लक्षण में लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य  
वस्तु का भी आ जाना, लक्षण के

तीन दोषों में से एक ।

अतिशय - पु. १ अतिशय, अधिकता, विपुलता । २ अतिरेक, ज्यादाती । ३ अनर्थ । - वि अतिशय, अत्यधिक, बहुत ज्यादा ।

अतिशयित\* - वि अतिशयित, अतिशय, अत्यधिक ।

अतिशयैकरून\* - अव्य वडे आग्रह के साथ ।

अतिशहाणा - वि १ अधिक होशियार, धमडी, बहुत चालाक । २ अव्यावहारिक, मूर्ख । कहा अतिशहाणा त्याचा वेल रिकामा - जो आवश्यकता से अधिक होशियारी दिखाना चाहता है उसे मुँह की खानी पडती है ।

अतिशूद्र - पु. अतिशूद्र, अत्यज, अछूत, चाडाल ।

अतिशो\* - दे 'अतिशय' ।

अतिसार - पु. अतिसार, दस्त या आँव की बीमारी ।

अतिसूक्ष्मदर्शक यत्र न अतिसूक्ष्मदर्शी, 'अल्यूमाइक्रोस्कोप' ।

अतिस्नेह - पु. घनिष्ठ मित्रता, गाढी दोस्ती । कहा. अतिस्नेह पापशकी - जहाँ बहुत अधिक प्रेम होता है वहाँ अनिष्ट की आशका लगी रहती है ।

अतीन्द्रिय - वि + अतीन्द्रिय, इन्द्रियो की पहुँच के बाहर, अगोचर । - विचारसक्रांति - स्त्री, - विचारसक्रमण, - सहस्रवेदन - न पारेन्द्रिय ज्ञान, मन पर्यय, 'टेलिपथी' ।

अती - दे 'अति' ।

अतीत - वि १ अतीत, बीता हुआ । २ मुक्त, परे, पार गया हुआ । - पु १ अतिथि, मेहमान । २ वैरागी, साधु । ३ गाना शुरू हो जाने के बाद ताल प्रारंभ

करना । - अम्यागत - पु अतिथि, अम्यागत; मेहमान ।

अतीतणें\* - क्रि अ. बीतना, हो जाना । [अधिक, अत्यत ।

अतीव - अव्य. अतीव, बहुत अतुटा + - दे 'अतूट' ।

अतुडणें - दे 'आतुडणें' ।

अतुर - दे 'आतुर' ।

अतुर्वंळ\* - न अपार सामर्थ्य, हिम्मत । - वि वलवान्, ताकतवर ।

अतुर्वंळी\* - वि १ अतिवल, अतिवलवान, पराक्रमी । २ वेजोड, बहुत बडा ।

अतुल, अतुलनीय, अतुल्य - वि १ अतुल, असामान्य, अनुपम, अतुल्य, वेजोड । २ असमान, असदृश ।

अतूट - वि १ अटूट, अपार, बहुत, अक्षय । २ अखडित, अप्रतिबद्ध, सतत । ३ अटूट, न टूटनेवाला, दृढ, मजबूत ।

अतृप्त - वि १ अतृप्त, असंतुष्ट । २ भूखा ।

अतेव - दे 'अतएव' ।

अतोनात - वि अव्य अतिशय, विपुल, बहुत, वेहद ।

अत्तर - न [अ 'इत्र'] इत्र, सुगंधसार, फुल्ले, पुष्पसार । - गुलाब - न सभा या समारोह की समाप्तिपर उपस्थितों को इत्र, गुलाबजल, पान आदि देना । - दाणी - स्त्री इत्रदान । मु - जाळणें, अत्तराचे दिवे लावणें - पानी की तरह पैसा बहाकर ऐश करना, रँगरलियाँ मनाना ।

अत्ता - अव्य अभी, इसी क्षण, इस समय, आजकाल ।

अत्तुरी\* - स्त्री पत्नी, स्त्री ।

अत्यत - वि अव्य अत्यत,

बहुत अधिक, हृद से ज्यादा, नितात । [बहुत, वेहद ।

अत्यर्थ - वि अव्य अत्यधिक, अत्यवस्य - वि बहुत अधिक बीमार, मरणोन्मुख, आसन्न मरण । अत्या - दे 'आत्या' ।

अत्याग्रह - पु. १ बहुत अधिक आग्रह । २ जिद, हठ ।

अत्याग्रही - वि १ बहुत अधिक आग्रह करने वाला । २ जिद्दी, हठी ।

अत्याचार - पु. अत्याचार, जुल्म, बलात्कार । २ अनुचित आचरण, अनाचरण, दुराचार, अनाचार, ३ हिंसा ।

अत्याचारी - वि अत्याचारी, अनाचारी, कुचाली, जालिम ।

अत्यादर - पु १ विशेष अधिक आदर, सम्मान । २ विशेष प्रेम, श्रद्धा ।

अत्यावस्य - दे 'अत्यवस्य' । अत्र - त्रें - अव्य. यहाँ, इस जगह ।

अत्रप - ब - वि [अ. 'अत्राफ'] १ आसपास का, पडोस का, पास वाला । २ अधिक, फालतू, खाली, ज्यादा ।

अत्रप - ब - न १ अनिश्चितता । २ असबद्धता । ३ दोमुँहा, मक्कार, धोखेवाज । - अव्य १ असबद्ध ढग से । २ अनिश्चित रूप में । २ मक्कारी से ।

अथ - अव्य. १ अथ, आरंभ तथा मंगल सूचक शब्द, अव, तव, अनतर, इस प्रकार । २ अथवा, या । मु - पासून इतिपर्यंत - अथ से इतितक, आदि से अततक ।

अथवा - अव्य. अथवा, वा, या । [अगाव, अपार ।

अथाग, अथाक - वि अथाह,

अथापि - अव्य फिर भी, वावजूद ।

अथाव - घो \* - वि अथाह, गहरा, अगाध । - पु. १ गहरा पानी । २ गहराई ।

अथिर \* - वि १ अथिर, अस्थिर । २ आदोलक, आदोलन-कर्ता, हलचल करने वाला ।

अथिल - ला \* - वि १ आश्रय किया हुआ । २ योग्य, समर्थ, श्रेष्ठ, भाग्यवान् ।

अथिलेपण \* - न वडप्पन, श्रेष्ठता, सामर्थ्य ।

अद - वि आधा, 'अर्धा' (आधा) का समास में व्यवहृत लघुरूप, अघ ।

अदखणा \* - वि १ असुंदर, भद्दा, कुरूप । २ मत्सरी, ईर्ष्यालु, जलने वाला ।

अदट \* - वि दृढ, निश्चल, धीर, धैर्ययुक्त । २ साहसी, अजेय, पराक्रमी, शक्तिमान्, सामर्थ्य रखने वाला ।

अदत्त<sup>+</sup> - स्त्री [ अ 'आदत्त' ] १ सजा, शासन, सबक । २ आदत्त, स्वभाव, लत ।

अदत्त - वि अदत्त, कजूस, मक्खीचूस । २ जो न दिया गया हो । - शिखामणी, - शिरोमणी - पु. वडा ही कजूस, मक्खीचूस ।

अदपाव - पु. आधा पाव, अघपई ।

अदव - स्त्री [ अ ] अदव, विनय, शिष्टाचार, मर्यादा, वडो का सम्मान, आदर । - शीर - वि १ वडो का सम्मान करने वाला, वाअदव, विनीत, शिष्ट । २ दे 'आटोपशीर' । - अव्य अदव के साथ, विनयपूर्वक । मु - चाल-विणे - सम्मान करना ।

अदव - पु. १ चिंता, कष्ट, तकलीफ (पढणे, पावणे, सोसणे) । २ जरूरत, आवश्यकता (पढणे) ।

अदवणे<sup>+</sup> - क्रि अ १ स्वास्थ्य का गिर जाना, कमजोर होना । २ बेजार होना, थक जाना, हैरान, पेराशान होना । ३ बहुत परिश्रम करना, कष्ट उठाना ।

अदभ्र \* - वि अदभ्र, बहुत वडा; अचिक, प्रचुर ।

अदमण - पु. अदमणी, - स्त्री - आधा मन, आधा मन तौल की वस्तु । - वि आधे मन का ।

अदमास - से - दे 'अज-मास-से' ।

अदमु(मो)रें - न वह दूध जो पूरी तरह न जमा हो, वह दही जो खट्टा न हुआ हो, खट-मीठा दही । - वि खटमिट्टा, खट्टा-मीठा ।

अदम्य - वि अदम्य, जो दवाया न जा सके, उत्कट, प्रबल । [ निर्दय ।

अदय - वि अदय, निष्ठुर, अदरुन<sup>+</sup> - दे 'आदरुन' ।

अदलड मदलंड - दे. 'अघलड मघलड' ।

अदला - वि पहला, आगे का, पहले का । २ गुज्रस्ता, पिछला । - मघला - वि बीच का, जो न पहला हो न अत का ।

अदलाबदल - स्त्री [ अ 'वदल' ] १ अदलवदल; हेर-फेर, परिवर्तन । २ लेन - देन, विनिमय, आदानप्रदान, 'एकस्-चेज' । [ सेरा ।

अदशेर - पु. आधा सेर, अघ-अदळ<sup>+</sup> - वि १ जिसमें गिरी या गूदा कन हो, असार, सीठा । २ कच्चा, हलका, अयोग्य । - पण - न असमर्थता, अयोग्यता ।

अदळ - पु. स्त्री १ छीज, घिसाई । २ भीड, यातायात । ३ आघात, धक्का । - अ(आ) पट, - घोपट, - (ळा)आदळ - स्त्री गुस्से में चीजें पटकना या इधर-उधर फेंकना ।

अदळणें - क्रि अ टकराना, गिरना, ढह जाना, ठोकर खाना । - क्रि. स १ पटकना, गिराना । २ धावा बोलना, हमला करना ।

अदा - पु. [ फा ] १ अदा, हावभाव, नखरा, नाज - अदाज; अगभगी । २ इशारा, संकेत ।

अदा - पु [ अ ] १ देना; चुकाना, वेवाक करना । २ लाभ, मुनाफा, फायदा । ३ सग्रह, पूंजी, सचय । ४ आमदनी, प्राप्ति, आय । मु. - करणें - अदा करना, देना, चुकाना ।

अदाई - स्त्री [ अ फा 'अदा-यगी' ] १ भुगतान, चुकता करना, वेवाकी । २ पूर्ति । ३ आय, आमदनी । - वि चुकाया हुआ, दिया हुआ ।

अदावत - स्त्री [ अ ] १ अदावत, वैर, शत्रुता । २ द्वेष, ईर्ष्या, जलन, डाह । ३ तोहमत, दोषारोप ।

अदावती - त्या - वि [ अ 'अदावत' ] १ अदावत रखने वाला, अदावती । २ तोहमत लगाने वाला, झगडालू ।

अदु खनवमी - स्त्री अदु ख-नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, इस दिन स्त्रियाँ दुख के निवारण के लिए देवी की पूजा करती हैं ।

अदुगर<sup>+</sup> - दे. 'अगोदर' ।

अदृश्य - वि अदृश्य, लप्त, अगोचर, गायब ।

अदृष्ट - वि अदृष्ट, न देखा

हुआ, अदृश्य। - न भाग्य, प्रारब्ध, दैव, नसीब। - खर्च - पु दान आदि में किया जाने वाला खर्च, जिसका फल अगले जन्म में मिलता है। - पूर्व - वि अदृष्ट-पूर्व, जो पहले न देखा गया हो, अद्भुत, विलक्षण। - फल - न अदृष्टफल, पाप-पुण्य का भविष्य में प्राप्त होने वाला फल। - वशात् - वि यदृच्छया, दैवयोग से। - मत न, वाद - पु. अदृष्ट-वाद, प्रारब्धवाद, नियतिवाद।

अदेख - वि १ अदेखी, ईर्ष्यालु, जो दूसरे का सुख-उत्कर्ष न देख सके, डाही। २ जिमका मुंह भी नहीं देखना चाहिए (स्त्रि)।

अदेखणा - वि १ वदसूरत, कुरूप। २ दे 'अदेख'।

अदेखणेपण - न दूसरे का सुख-उत्कर्ष न देखने की वृत्ति, मत्सर, जलन। [जलन, डाह।

अदेखाई - स्त्री शत्रुता, वैर, अदेय - वि १ अदेय, न देने योग्य। २ लेखक की प्रति, 'ऑर्थर्स काँपी'।

अदेव - \* वि हानिकारक, मारात्मक, घातक।

अददल - स्त्री [अ 'अदल'] १ सजा, सवक, दड, शानन, इन्नरत। २ प्रायश्चित्त, ठोकर। मु - घडणे - सजा, दड, सवक मिलना, ठोकर लगना, इगारा, ताकीद मिलना। [दुदेवी।

अद्भागी<sup>+</sup> - वि हतभागी, अद्भुत - वि अद्भुत, विचित्र, अनोखा, अजीब, विस्मयजनक।

- न १ आश्चर्य, अजीब बात, चमत्कार। २ काव्य के नौ रसों में एक जिमका स्थायीभाव विस्मय है। - कौतुक - न चमत्कार,

अद्भुत बात। मु - माडणें - अजीब व गरीब वाते करने लगना।

अद्य - अव्य अद्य, आज, आजकल, अब। - तन - वि अद्यतन, आज से सबव रखने वाला, अद्यतनीय, आधुनिक, नवीनतम, 'अपटुडेट'। - प्रभृति - अव्य आज मे, अब से। - यावत् - अव्य. आजतक। - वि दे 'अद्यतन'। [प्राप्ति, मुनाफ़ा, ज़भ।

अद्या-पु [अ. 'अदा'] आय, अद्याप-पि - अव्य अद्यापि, अभीतक, अवतक, आज भी, अब भी। - (प) पर्यंत - अव्य अभी तक।

अद्यावत् - दे. 'अद्यावत्'।

अद्रुष्ट<sup>+</sup> - न १ अदृष्ट, भाग्य, नसीब। २ माया। (स्त्रि)।

अद्वातद्वा - वि अमगत, अटमट, वाहियात, ऊटपटांग, अडवड, वाहियात, अशिष्ट। - अव्य मनमाने, अमम्य ढग मे।

अद्वितीय - वि अद्वितीय, वेजोड, लामानी, सर्वत्रेण्ड, अद्भुत, अमामान्य, अनोखा।

अद्य पतन - न, अद्य पात - पु अद्य पतन, अद्य पात, अद्योगति, अवनति, पतन।

अद्य प्रमाण - वि मात्रा मे कम, निम्न कोटि का, निम्नमान, 'अडर प्रफ'।

अद्य प्रवाहीचक्र - न जहाँ से पानी गिरता हो वहाँ, लगाया हुआ पहिया, 'अडर शॉट व्हील'।

अद्य स्थळीं - अव्य नीचे, नीचे की ओर। (स्त्रि)। मु - पाहावयास लावणें - नीचा दिखाना, अपमानित करना, लजवाना, पराजित करना। [आठवाँ भाग।

अद्यकोर - पु रोटी आदि का

अद्यचामयचा - दे 'अद्यचामयला'।

अद्यण - दे 'आद्यण'।

अद्यम - वि १ अद्यम, हल्का; कनिष्ठ, क्षुद्र। २ नीच, दुष्ट, निर्लज्ज। ३ बुरा, घटिया।

अद्यर - वि १ अद्यर, नीचे का, नीचा। २ हल्का, नीच, बुरा, घटिया। ३ नीचे का ओंठ, हाँठ। - पान - न अद्यर-पान, हाँठ चूसना, चुवन। - पुट - न दोनो हाँठ। मु - चावणें - ओंठ चवाना, ओंठ को दाँतो तटे दवाना, त्रोध प्रकट करना।

अद्य(घ्य)र - वि १ अजीर, उतावला। २ निराश्रय, अतरिक्ष में रहने वाला। - अव्य १ अद्यर मे, बीच में, ऊपर ही ऊपर। २ धीरे से, आहिस्ता से ३. अचानक। मु. - ठेवणें, - लोबकळत ठेवणे, - लोबविणें - अद्यर में लटकाना, दुविधा में टालना।

अद्यरामृत - न ओठों के चूमने से मिलने वाला अमृत जैसा रस या आनंद। [का ओंठ।

अद्यरोष्ठ - पु अवरोष्ठ, नीचे

अद्यमं - पु अद्यमं; यास्त्र-विरुद्ध कर्म या आचरण। २ पाप, गुनाह; दुष्कर्म।

अद्यलड - वि बीचका, जो किसी एक ओर या ढग का न हो। - मद्यलड - वि बीचका, अद्यूर, कच्चा।

अद्यला - वि पहलेका, पहला। - मद्यला - वि बीच का, कोई एक। [रखेरी, रखेल, उपपत्नी।

अद्यस्वी<sup>+</sup> - स्त्री १ दासी। २ अद्यस्वी - वि पेटू, भुक्खड। अधांतरों, अधात्रीं - अव्य १

अघर में, हवा में, ऊपर, बीच में, आकाश में, अतराल में, अंतरिक्ष में। २ निराधार; न घर का न घाट का। [अकेला।

अघातरी - वि निराधार, अघातुरूप - वि घातुरहित, अघातु, 'नॉनमेटल'।

अघार्मिक - वि अघार्मिक, अघर्मी, पापी, दुष्कर्मी।

अघाशी-सी - वि १ पेटू, भुक्खड, खवैया। २ लालची, लोभी, लोलुप।

अघास - स्त्री १ अधिक खाने की इच्छा। २ लोभ, हवस, लालच।

अघासा - दे 'अवाशी'।

अधिक - वि १ अधिक, ज्यादा, बहुत। २ असाधारण, अतिरिक्त, फाजिल। ३ अप्रिय, जिससे जी ऊव गया हो। - आगळा - वि कुछ अधिक। - उणा - वि कमो वेश, न्यूनाधिक। - उणा शब्द - पु. लगती या चुभती बात, घृष्टता की बात। - प्रसग - पु ज्यादाती, झगडा, अपमान। - महिना, - मास - पु अधिक मास, लौद का महीना, मलमास। मु - होना - १ अपेक्षा से अधिक पैदावार होना। २ कम होना, घटना, खत्म होना। अधिकस्याधिक फलम् - अधिक प्रयत्न करने से अधिक सफलता मिलती है।

अधिकरण - न १ अधिकरण, सातवां, सातवां कारक (व्या)। २ आचार, आश्रय, पाया।

अधिकार्ई\* - स्त्री १ अधिकार्ई, अधिकता, समृद्धि, विपुलता। २ श्रेष्ठता, महत्ता।

अधिकाधिक - वि अव्य

अधिकाधिक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा।

अधिकार - पु १ अधिकार, इस्तिवार, स्थान, सत्ता, प्रभुत्व। २ राज्य, हुकूमत, शासन, कब्जा। ३ हक। ४ पात्रता, क्षमता, योग्यता। ५ प्रकरण, विषय। ६ ज्ञान। - च्युत, - भ्रष्ट - वि पदच्युत, पदभ्रष्ट, अधिकार से वचित। - बाजी - स्त्री अधिकार चलाने का शौक, अफसरी। - स्थ - वि सत्ताधिष्ठित, अधिकार या पद पर रहने वाला।

अधिकारणे\* - क्रि अ किसी को लक्ष्य करके कहना या करना।

अधिकारी - वि १ अधिकारी, ओहदेदार, अधिकार, योग्यता या पात्रता रखने वाला अफसर। २ हकदार, मालिक, शासक। ३ अध्यक्ष, सचालक, व्यवस्थापक, प्रवचक, 'मैनेजर'।

अधिकृत - वि १ अधिकृत, अधिकार-पात्र, 'अथॉराइज्ड'। २ अधिकार रखने वाला, सत्ताधिष्ठित। ३ अधिकार या कब्जे में आया हुआ। ४ आवश्यक योग्यता रखने वाला।

अधिकोत्तर - १ विशेष, अधिक, ज्यादा। २ असामान्य, विलक्षण, लोकोत्तर, असाधारण।

अधिकक्षेप - पु अधिकक्षेप, निदा, दोषारोप, व्यग्य।

अधिगत - वि १ अधिगत, प्राप्त, पहुँचा हुआ। २ ज्ञात, जाना हुआ, मालूम।

अधिगम - पु १ अधिगम, ज्ञान, जानकारी। २ प्राप्ति, घनादि की प्राप्ति, व्यापारिक लाभ।

अधिगम्य - वि प्राप्त होने

जैसा, ज्ञात या मालूम होने लायक।

अधिदेवता - स्त्री, अधिदैव, अधिदैवत - न १ अधिदैव, अधिदैवत, अधिष्ठित, स्थापित देवता। २ इष्ट देव, प्रधान देवता।

अधिप, अधिपति - पु. १ अधिप, अधिपति, स्वामी, मालिक। २ राजा, शासक, हाकिम, सत्तावीश। [कभी-कभी।

अधिर्माधि - अव्य बीच में, अधिराज - पु अधिराज, सम्राट्, अवीश्वर, वादशाह।

अधिराज्य - न अधिराज्य, साम्राज्य। [वैठक, जलसा, 'सेशन'।

अधिवेशन - न अधिवेशन, अधिष्ठण - क्रि अ १ आश्रय करना, रहना, वास करना। २ बैठना। ३ स्वीकार, अगीकार करना।

अधिष्ठाता-त्रा - १ अधिष्ठाता, रहने वाला, निवास करने वाला। २ अध्यक्ष, नियामक, मुखिया, ईश्वर।

अधिष्ठान - न १ अधिष्ठान, रहने का स्थान, रहना, निवास। २ स्थान, मठ, आश्रम। ३ आश्रय, आवार। ४ प्रभुत्व, राज्य, शासन, सत्ता, अधिकार। ५ आसन, सिंहासन।

अधिष्ठित - वि १ अधिष्ठित, स्थित, स्थापित। २ आधृत, आधारित, अवलंबित। ३ निश्चित किया हुआ, नियोजित।

अर्धों - अव्य १ पहले, पूर्व, पेशतर। २ पहले से।\* ३ नीचे। -चा-वि पहले का, पूर्व का। -चे वदीं, -चे विदीं-अव्य सबसे पहले, मवसे आगे -मर्धों - अव्य १ बीच

में, कही भी, अनुचित स्थानपर ।  
२ समय से पहले, वेमौके । दे.  
'अर्वेमर्वे' ।

अघोत - वि १ पढा हुआ  
(विषय) । २ जिसने अध्ययन कर  
लिया हो, पढा-लिखा ।

अघीन - वि अघीन, वश-  
वर्ती, मातहत, आश्रित ।-पण-  
न अघीनता, परवशता ।

अघीर - वि १ अघीर, उता-  
वला, वेताव, वेसन्न । २ चचल,  
अस्थिर-चित्त । ३ उद्विग्न, आकुल ।  
४ डरपोक, कायर, वुजदिल ।  
-पु. १ उतावली, जल्दवाजी,  
वेसत्री, अघीरता । २ वुजदिली,  
कायरता ।

अघील - वि १ पहले का,  
पहला, पेशतर का । २ निचला,  
नीच, क्षुद्र ।-पण-न १ श्रेष्ठता,  
प्रवानता । २ मूल स्वरूप, पूर्ण  
स्वरूप ।-मघील - वि बीच का,  
न पहला न अतिम ।

अघीश, अघीश्वर - पु. अघीश,  
अघीश्वर, मालिक, अध्यक्ष,  
राजा, सर्वोपरि या सार्वभौम नरेश ।

अघुपा-वा<sup>†</sup> - वि विना बोधा  
हुआ ।

अघुरा-वि १ अघूरा, अपूर्ण,  
नातमाम । २ कच्चा, अप्रवीण । ३  
गोपनीय बात को मन में छिपाकर  
न रखने वाला ।-अव्य आघे  
मार्ग में ।

अघुरी - वि १ अघीर, उता-  
वला । २ कच्ची, जी पक्की न हो  
(गांठ आदि) । ३ पेटू, लालची ।

अघू - वि १ अपग, अपाहिज,  
जिसमें कोई त्रुटि, दोष या न्यून  
हो, लूला, विकलाग, न्यूनग ।  
२ अच्छी तरह न चलने वाला ।  
३ कच्चा । ४ भावुक ।

अघेसघे - अव्य बीच में, कही  
भी । मु अध्यांत न मध्यांत -  
ऊवो का लेना न माघो का देना, न  
तीन में न तेरह में ।

अध्यात - दे 'अर्वेमर्वे' ।

अघे\* - पु. अध्याय, प्रकरण ।

अघेन\* - न अध्ययन, पाठ ।

अघेला - पु. १ अघेला, घेला,  
आवा पैसा । २ साझे या वेंटाई में  
खेती करने वाला ।

अघेली - स्त्री १ अघेली,  
अठनी, आधा रुपया । २ घेला,  
आधा पैसा । ३ आघे साझे में  
खेती करने वाला ।

अघोक - वि सुरक्षित, खतरे से  
खाली, जिसमें कोई भय या हानि  
न हो ।-अव्य वेखटके, विना  
हानि या भय के ।

अघोगति - स्त्री १ अघोगति,  
पतन, अवनति, गिरावट, दुर्गति,  
दुर्दशा । २ नरक ।-वि अघो-  
गामी, पतन या अवनति की ओर  
जाने वाला ।

अघोगामी - वि १ अघोगामी,  
दुरे मार्ग पर चलने वाला । २ नरक  
जाने वाला ।

अघोड - वि १ मोटा ताजा,  
मुस्टडा, बहुत खाने वाला । २  
वदसुरत, मोटीताजी और अविवा-  
हित (लडकी) ।-न आघी खाल  
(भैंस, बैल आदि की), कच्चा  
चमडा, अघोडी ।

अघोडी\* - वि कच्ची खाल का  
वना (जूता, पुरवट आदि) । २ मोटा-  
झोटा, वेढगा । ३ लालची, लोभी ।

अघोपरी - वि नया; स्वयं  
वनाया या कमाया हुआ, जो पैतृक  
नहीं है ।-अव्य. बीच में;  
आघे में ।

अघोर्ध-धर्वा\* - अव्य अघोर्ध,

नीचे ऊपर, तले-ऊपर ।

अघोली - स्त्री १ दो सेर की  
माप । २ एक प्रकार की आतिश-  
वाजी । [ ही ऊपर, बीच में ।

अघर - अव्य अवर में, ऊपर

अघा - पु. १ अद्धा, चार  
मात्राओ का एक ताल । २ वीतल  
का आवा, वीतली, एक वीतली  
या एक पाइंट शराव । ३ किमी  
चीज की आधी तौल या नाप ।

अध्यक्ष - पु. अध्यक्ष, अधिष्ठा-  
ता, सभापति, सद्र, नियामक;  
सचालक ।

अध्यवसाय - पु. १ अध्य-  
व्यवसाय, उद्यम, लगातार  
कोशिश । २ आत्मबोध, मनोभाव ।  
३ निश्चय । [ प्रकरण, सर्ग ।

अध्या\* - पु. अध्याय,  
अध्यात्म - न. अध्यात्म, आत्मा-  
परमात्मा सवधी विचार या ज्ञान,  
ब्रह्मज्ञान, वेदात ।-वि आत्मामे  
सवध रखने वाला ।-ज्ञान - न,  
-विद्या - स्त्री, -शास्त्र - न  
परमात्मा या आत्मा सवधी ज्ञान,  
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप, सवध  
आदि का विचार करने वाला  
शास्त्र, ब्रह्मविचार ।-विज्ञान -  
न ब्रह्मविद्या, अध्यात्मवाद,  
'म्पिरिच्युअॅलिज्म' ।

अध्यात्मिक - वि १ अध्या-  
त्मिक, आध्यात्मिक, अध्यात्म-  
सवधी । २ दार्शनिक, ढोगी ।

अध्यापक - पु. १ अध्यापक,  
शिक्षक । २ 'प्रोफेसर' ।

अध्यापन - न अध्यापन,  
पढाना ।-शास्त्र - न शिक्षा-  
शास्त्र, 'पेडैगॉजी' ।

अध्यामध्यात - अव्य. बीच में,  
झझट में । मु अध्यात ना मध्यात -  
न तीन में न तेरह में, ऊवो का

लेना न मावो का देना ।

अध्याय - व \* - पु. अध्याय, खड, पर्व, परिच्छेद ।

अध्यारोप - पु अध्यारोप, एक वस्तु के गुणधर्म का भ्रमवश अन्य वस्तु में आरोप करना, अध्यास, मिथ्या ज्ञान ।

अध्यास - पु. १ अध्यास, मिथ्या ज्ञान, अध्यारोप, भ्रात वारणा, भ्रम । २ पूर्ण चिंतन, निरतर ध्यान ।

अध्याहार - पु. १ अध्याहार, वाक्य में छूटे हुए पद या पदों को अर्थपूर्ति के लिए ऊपर से जोड़ लेना । २ अध्याहृत शब्द ।

अध्याहृत - वि १ अर्थबोध के हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला वह शब्द या वाक्यांश जो मूलवाक्य में न हो । २ पूर्वगृहीत, परिकल्पित ।

अध्वर्यु - पु १ यज्ञ करने वाला, उपाध्याय, चार ऋत्विजो - यज्ञ कराने वालों - में से एक, यजुर्वेदज्ञ ऋत्विक् । २ प्रधान सचालक, अगुवा, नेता ।

अध्यावरचा - वि १ मार्ग का, रास्तेपर का । २ अस्थायी, क्षणिक, ऊपर का ।

अनकपृष्ठ - न पोथी का वह पन्ना जिसपर पृष्ठाक न हो ।

अनग - वि अनग, देहरहित, निराकार । - पु मदन, कामदेव ।

अनत - वि अनत, जिसका अत न हो, असीम, अक्षय, शाश्वत, अपार, असह्य, अनगिनत । - पु १ अनत, परमेश्वर, परब्रह्म, विष्णु, शेषनाग । २ अनत चतुर्दशी । ३ अनत चतुर्दशी के दिन पूजा करके दाहिने हाथ में बांधा जाने वाला चौदह गाँठोवाला रेशम का डोरा या गढ़ा । ४ एक

फूल और उसका पेड़ । ५ कान में पहनने का एक गहना । ६ अगणित सख्या (ग) । ७ जैनों के चौदहवे तीर्थकर । ८ तरह-तरह की विनोदी वाते या हँसी-मजाक । - ख्याल - पु, - ख्याली - वि हँसोड, मजाकिया । - चतुर्दशी - स्त्री, - व्रत - न भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन रखा जाने वाला व्रत ।

अनतत्व - न १ असीमता, ऐसी स्थिति जिसका कोई अत न हो । २ सपूर्णता, अखडता ।

अनतर - वि १. अनतर, अतररहित; सटा या लगा हुआ, आनुक्रमिक । २ निरतर, अखड, सतत । - अव्य. १ अनतर, पश्चात्, बाद में । २ पीछे, फिर ।

अनदक - वि न टिकनेवाला, प्रेतवाधा आदि के कारण जहाँ कोई परिवार नहीं रह सकता (ऐसा मकान आदि) ।

अन - वि अन्य, दूसरा । - अव्य. १ और, तथा, व । २ विना, वगैर, उपसर्ग के तौरपर यह व्यजनादि शब्दों के पूर्व भी लगता है और निषेध, अस्वीकृति, इनकार या नकार का सूचन करता है ।

अनक \* - पु सैनिक ।

अनकूल + - वि अनुकूल ।

अनघटित - वि १ अघटित, असभव । २ अद्भुत । ३ कठिन, मुश्किल ।

अनघड - वि १ अनगढ़, विना गढ़ा हुआ । २ वेडौल, टेढा-मेढा । ३ अप्रबुद्ध, असंस्कृत, उजड्ड ।

अनत्याचारी - वि १ अत्याचाररहित, अहिंसक, सात्त्विक । २ वैध, कानूनी ।

अनधिकारी - वि १ अनधिकारी, अधिकार, पात्रता या

योग्यता न रखने वाला, गैरमुस्तहक, ना अहल, अयोग्य, अपात्र । २ विरासत का हक खोया हुआ ।

अनध्याय - वि अनध्याय, पढाई न होना, पढाई बंद रहने का दिन, छुट्टी ।

अनन + - न अन्न, भोजन ।

अननस - पु [ पुर्त ] अनन्नास ।

अननुभव - वि जिसे अनुभव न हो, अनुभवहीन, कच्चा, नातजुर्वेकार ।

अननुभूत - वि अननुभूत, जिसका अनुभव न किया गया हो, अद्भुत, अलौकिक ।

अनन्य - वि १ अनन्य, एकनिष्ठ, एकाश्रयी, वफादार । २ अभिन्न, एकरूप । ३ एकमेव, अकेला, अद्वितीय, वही । ४ अन्योन्य, परस्पर । ५ एकाकी, अनाथ, जिसके लिए कोई दूसरा तारणहार, उपासनाविषय या आश्रयदाता न हो । ६ स्वकीय, अपना, निजी । ७ अद्वैत, अद्वितीय । ८ एकाग्र, अविभक्त । - गतिक - वि अनन्यगति, अनन्यगतिक, एकनिष्ठ, जिसे दूसरा उपाय या सहारा न हो, लाचार, विवश । - भाव - पु १ अनन्यभाव, एकनिष्ठा, एकनिष्ठ भक्ति या साधना । २ सरल भाव, प्रामाणिकता । - मनस्क, - वृत्ति - वि अनन्य - वृत्ति, एकनिष्ठ मनोवृत्ति-वाला, एकाग्रचित्त । - शरण - वि जिसके लिए दूसरा सहारा या आधार न हो, एक ही आश्रयपर आधारित । - साधारण, - सामान्य - वि दूसरे में या अन्यत्र न मिलने-वाला, असाधारण, अलौकिक ।

अनन्वित - वि १ अनन्वित, असवद्ध, बेलगाव, असगत । २



अनुचित, अयोग्य, शास्त्र और लोकाचार के विरुद्ध । ३ वेहद, असीम, नारकीय, क्रूरतापूर्ण, पैशाचिक, भयकर (अत्याचार आदि) ।

अनपत्य - वि १ अनपत्य, सतानहीन, वाँझ । २ अकेला ।

अनपाय - वि १ अपाय न करने वाला, अविघ्नकारी । २, अनपाय, अविनश्वर, क्षयरहित । -अव्य अपाय किये बिना, तकलीफ दिये बिना ।

अनपेक्ष - वि १ अनपेक्ष, अपेक्षा या इच्छा न रखनेवाला, निरिच्छ । २ लापरवाह, उदासीन ।

अनपेक्षित - वि १ अप्रत्यागित, अनसोचा, आकस्मिक । २ अनिष्ट । ३ अनपेक्षित, अनावश्यक, अनिच्छित । [ विगाड ।

अनवनाव - पु अनवन, झगडा, अनवुज\* - वि अवुझ, नास-मझ, निर्वुद्धि, अज्ञान, अनाडी ।

अनभिज्ञ - वि १ अनभिज्ञ, अपरिचित, न जानने वाला । २ अनजान, अनाडी, मूर्ख, बुद्धिहीन ।

अनभिषिक्त - वि जिसका अभिषेक न हुआ हो, वेताज ।

अनन्यस्त - वि अनन्यस्त, जिमने अभ्यास या मशक न किया हो, जिसे आदत न हो ।

अनमान - पु १ सकोच, तकल्लुफ, आगापीछा, हिचक, पमो-पेश । २ अनादर, उपेक्षा, अवगणना । ३ सशय, शक । ४ दे 'अनुमान' । - घपका - पु अटकल, अदाजा । - घपक्यानें - अव्य अटकलपच्चू, अदाजन् । मु - करणे - १ सकोच करना, परवाह, तकल्लुफ करना, हिचकिकाना । २ ध्यान न देना ।

अनमानणे - क्रि स अवज्ञा, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, नजर - अदाज करना ।

अनमानिक - वि १ अनिश्चित, सदिग्ध । २ जिसमें अनादर, लापरवाही हो । [मदिग्ध, गोलमाल ।

अनमानोत - वि अनिश्चित, अनमोल - वि अनमोल, अमूल्य, बहुमूल्य, वेशकीमत ।

अनरसा - पु अँदरसा, अपूप । अनराह (हा)टी - स्त्री कुमार्ग, कुपथ, बुरा, गलत रास्ता ।

अनर्गल-छ - वि अनर्गल, वेरोक, अनियंत्रित, बाहियात, मनमाना, वेतुका, उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी ।

अनर्थ - पु १ अनर्थ, अनिष्ट घटना । २ सकट, जुल्म, दुख, आपत्ति । ३ असीमता, असाधारणता । ४ उलटा अर्थ, अर्थहानि । ५ शत्रुता, दुश्मनी, वैर ।

अनर्थक - वि १ अनर्थक, अर्थरहित, निरर्थक, निष्प्रयोजन वेमतलव । २ अलाभकर, वेफायदा । अनर्थकारी, हानि या अनिष्ट करने वाला । [ आग ।

अनल छ - पु अनल, अग्नि, अनलस - वि अनलस, आलस्यरहित, परिश्रमी, जागरूक, दक्ष, तत्पर, चुस्त ।

अनव\* - वि पुराना, वृद्ध । अनवच्छि (छि)झ - वि अनवच्छिन्न, अखंडित, अपरिसीमित ।

अनवट-ठ - पु अनवट, एक आभूषण जो पैर के अँगूठे में पहना जाता है । - वि अप्रचलित (राग आदि) ।

अनवधान - न अनवधान, असावधानता, असावधानी, गफलत, वेखवरी । - ता - स्त्री अ-

सावधानता, लापरवाही ।

अनवधानी - वि १ अपने को भूल जाने वाला, असावधान, गाफिल । २ लापरवाह ।

अनवरत - वि अनवरत, अविराम, निरंतर । - अव्य सतत, लगातार ।

अनवस्था - स्त्री १ अनवस्था, अस्थिरता, चंचल स्थिति । २ अव्यवस्था, गडबडी, घपला, झमेला । ३ निरावारता, अमहायता । ४ लापरवाही । - प्रसग - स्त्री १ निरावार स्थिति । २ दुरवस्था, दुर्गति, बुरी हालत ।

अनवाणा - णी - वि अव्य नगे पाँव, पैरो में कुछ पहने बिना । - पायानीं - अव्य नगे पैर, पाँवों में जूते पहने बिना ।

अनवाळ\* - वि उच्छृंखल, निरकुश, आवारा, स्वेच्छाचारी, लापरवाह । [ नटखटी, उपद्रव ।

अनवाळी\* - स्त्री शरारत, अनशन - न अनशन, उपवास, फाका । [ दे 'अन्नशुद्धि' ।

अनशुद्ध, अनशू(सू)द - स्त्री अनशो पोट - न खाली पेट । अनशो पोटों - अव्य. वासी मुँह, नहार मुँह । - वि नहार, जो वासी मुँह हो, जो मवेरे से बिना कुछ खाये हो ।

अनश्रुत\* - वि १ अश्रुत, न सुना हुआ । २ अश्रुतपूर्व, अद्भुत । अनसाईपणा\* - पु १ असहिष्णुता । २ उतावलापन ।

अनसूट - वि १ जिमका स्वाद न चखा हो, जो जूठा न हो, जिसका इस्तेमाल न किया गया हो । २ जिसे उचित हिस्सा न मिला हो । ३ ब्रह्मचारी । ४ जो खसी न किया गया हो, साँड । ५ पूरा, अखड ।

६ शुद्ध, पवित्र । [बुराई ।  
अनहित - न अहित, नुकसान,  
अनाइकी - वि १ अराजकता,  
नायक-हीनता, वदअमली, नेतृत्व  
का अभाव ।

अनागत - वि १ अनागत, न  
आया हुआ । २ आगे आनेवाला,  
भावी । - विघाता - वि अनागत  
- विघाता, दूरदर्शी, भविष्य के  
विषय में सावधान ।

अनागोंदी - न छी कर्नाटक के  
विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन  
राजधानी का नाम । मु - कार-  
खाना, - कारभार - पु अवेर-  
खाता, अवेरनगरी, अव्यवस्था,  
गडवड - झाला ।

अनाघात - अव्य अतिशय,  
वेहद । - पु अनाघात, मगीत का  
एक ताल ।

अनाचार - पु १ अनाचार,  
अयोग्य, भ्रष्ट आचरण । २ दुरा-  
चरण । [ आचारहीन, कुचाली ।

अनाचारी - वि अनाचारी,  
अनाठायी - अव्य १ अनुचित  
स्थान या काम में, बैठिकाने,  
वेमौके । २ व्यर्थ, वेमूद ।

अनाड - वि १ अनाडी,  
अज्ञान । २ आवारा, शरारती । -  
चोट - दे 'अडाणचोट' । (प्रा)

अनाथ - वि अनाथ; असहाय,  
निराश्रय, दीन । - प्रेत - न लावा-  
रिस लाश । - वाणा - णी - वि  
अव्य अनाथ की तरह, दयनीय,  
करुण, दीन, वेवम । [अलग ।

अनान\* - वि अन्यान्य, अलग-  
अनामत\* - छी [अ 'अमा-  
नत' ] १ अमानत, बरोहर,  
थाती । २ पेशगी, बयाना, अग्रिम  
घन । ३ जप्त । - वि. अग्रिम,  
पेशगी । - अव्य खर्च किये बिना,

उपभोग किये बिना, जैसे का तैमा,  
ज्यो का त्यो ।

अनामिक - वि १ अनाम,  
अनामा, बिना नामका, अप्रसिद्ध ।  
२ जिसने अपना नाम छिपाया  
हो, गुमनाम । ३ नाम लेने अयोग्य,  
अस्पृश्य, अछूत । ४ नामरहित  
(ईश्वर) ।

अनामिका - छी अनामिका,  
अनामा, कानी और बिचली उँग-  
लियों के बीच की उँगली ।

अनायास - पु अनायास, आ-  
यास, श्रम, कठिनाई का अभाव ।  
अव्य दे. 'अनायामे' ।

अनायासे - अव्य अनायास,  
योही, बिना प्रयास या परिश्रमके,  
आसानी से ।

अनारसा\* - दे. 'अनरसा' ।

अनारिस - सा\* - वि १ मित्र,  
दूसरा, अलग । २ नया, अद्भूत,  
अपूर्व । [अप्रीति, नापसद ।

अनावड - डी - छी अरुचि,  
अनावरण - वि जिसपर आवरण  
या ढक्कन नहीं है, खुला, पर्दा  
हटाया हुआ । - न अनावरण । -  
समारभ - पु पर्दा हटाने, खुला करने  
का समारोह, अनावरण-समारोह ।

अनावस्था\* - दे 'अनवस्था' ।  
अनाविल - वि अनाविल, शुद्ध,  
पाक । - पु गुजरात के ब्राह्मणों की  
एक उपजाति ।

अनावृत - वि १ अनावृत,  
जो ढका न हो, खुला । २ बेकावू,  
बस के बाहर का । - पत्र - न खुली  
चिट्ठी, ममाचार पत्रों में प्रकाशित  
होने वाला किसी के नाम लिखा  
हुआ पत्र ।

अनावृत - वि अनावृत, जो  
लौटा न हो, जो दोहराया न गया  
हो ।

अनावृष्टि - छी अनावृष्टि,  
अवर्षण, सूखा ।

अनास्था - छी १ अनास्था,  
उदासीनता । २ लापरवाही ।

अनाहूत - वि १ अनाहूत,  
बिन-बुलाया, अनिमंत्रित, बिन-  
मागा । २ अप्रत्यागिन, आकस्मिक ।

अनिदक - वि निदा न करने  
वाला ।

अनिद्य - वि अनिद्य, जो निदा  
के योग्य न हो, निर्दोष, मुदर,  
प्रशसनीय ।

अनिच्छ, अनिच्छुक - वि  
अनिच्छ, अनिच्छुक, इच्छारहित,  
जो राजी न हो ।

अनिच्छा - छी अनिच्छा, इच्छा  
का अभाव, अरुचि ।

अनित्य - वि अनित्य, नश्वर ।  
- न\* अनीति, बुरी बात या  
हेतु, पाप ।

अनिमि(मे)घ - वि अनिमिप,  
अनिमेप, जिसकी पलक न गिरे,  
स्थिर दृष्टि, खुला हुआ, जागरूक ।  
- अव्य बिना पलक गिराये, एक-  
टक । - पु १ देवता । २ मछली ।

अनियंत्रित - वि १ अनिय-  
त्रित, प्रतिबन्धरहित, निरकुश,  
स्वच्छद । २ जालिम, अत्याचारी ।

अनियत - वि अनियत, अनि-  
श्चित, अनियमित, जो वंचा हुआ  
न हो । - कालिक - न ऐसी पत्रिका  
जो नियत समयपर प्रकाशित न  
होती हो ।

अनियमित - वि १ अनियमित,  
वेकायदा, बेजाबिता । २ जो समय  
का पावद न हो, अनिश्चित । ३  
असीम, बेहद ।

अनियच्छ - वि तिरछा, टेढ़ा ।

अनिर्णय - पु अनिर्णय, निर्णय  
का अभाव, अनिश्चय ।

अनिर्णीत - वि अनिर्णीत, अनिश्चित, निलवित, जिसका फंमला न हुआ हो।

अनिर्देश्य - वि जो दिखाया नहीं जा सकता।

अनिर्वचनीय, अनिर्वाच्य - १ अनिर्वचनीय, अनिर्वाच्य, जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके। २ दे 'अर्वाच्य'।

अनिवार - वि १ अतिशय, असीम, वेहद। २ वेकात्रू, निरकुश, अनिवारणीय। ३ अनिवार्य, अटल, लाजिमी।

अनिवार्य - वि अनिवार्य, अटल, अपरिहार्य। [सदिग्व।

अनिश्चित - वि अनिश्चित, अनिष्ट - वि १ अनिष्ट, जो इष्ट न हो, अप्रिय, अवाञ्छित। २ प्रतिकूल, अशुभ, अमगल। - न १ अनिष्ट, हानि, अकल्याण, अमगल। २ अप्रिय, नापसद बात। - सूचक - वि अनिष्ट का सूचन करने वाला; अनिष्टसूचक, अशुभ।

अनिष्ठ - पु अनिल, वायु, पवन, हवा।

अनी - दे. 'अणी'।

अनीकसा + - वि और, दूसरा, भिन्न।

अनीगा \* - स्त्री अपय, कसम।

अनीति - स्त्री १ अनीति, नीति का उलटा, अघर्म, पाप, दुराचार। २ अमम्यता, अशिष्टता, ग्राम्यता। [वाग, लगाम।

अनीन \* - स्त्री [अ 'इनान'] अनीदानी + - दे 'अणीवाणी'।

अनु - उप शब्दों के पहले मिलकर यह पीछे (अनुचर), समान (अनुरूप), साथ (अनुकल्प) बारवार (अनुशीलन), प्रत्येक (अनुदिन) आदि अर्थोंका द्योतन करता है।

\* - वि अन्य, दूसरा। - \* अव्य विलकुल, तनिक भी।

अनुकपनीय - वि दयनीय, दया करने योग्य, काविले रहम।

अनुकंपा - स्त्री अनुकंपा, दया, हमदर्दी, रहम।

अनुकरण - न १ अनुकरण, नकल, किसीकी देखादेखी करना। २, ध्वन्यनुकरण, किमी व्यक्ति या पशुपक्षी की आवाज हूबहू निकालना। - धातु - पु आवाज के अनुकरण से बना धातु, अनुकरणात्मक धातु (व्या), उदा भरना, कुरकुराना, पिनपिनाना, मग्नाना। - शब्द - पु अनुकरणात्मक शब्द, उदा पिलपिला, भुरमुरा आदि।

अनुकरणे - क्रि अ स १ अनुकरण करना, नकल करना। २ उत्पन्न करना, निर्माण, पैदा करना।

अनुकार - पु १ अनुकरण, नकल २ अनुसरण, पीछे चलना। ३ आकार, स्वरूप। ४ सप्रदाय, पय। ५ प्रतिविब।

अनुकारी - वि अनुकारी, नकल या देखादेखी करनेवाला, आज्ञाकारी।

अनुकूल - वि १ अनुकूल, मुआफिक। २ सहायक, हितकारी। ३ मेल रखनेवाला, मेल खानेवाला,। - न अनुकूल परिस्थिति, सुविधा।

अनुकूल(त्वा)ता - स्त्री १ अनुकूलता, सुविधा। २ सम्मति। ३ हैसियत, सामर्थ्य।

अनुकृति - स्त्री १ अनुकरण। २ अनुकृति, नकल, देखादेखी।

अनुक्रम - पु १ अनुक्रम, उचित क्रम, सिलसिला। २ पर-परा। ३ ढग, पद्धति।

अनुक्रमणिका - स्त्री अनुक्रमणिका, अनुक्रम, विषयमूची, विषयानुक्रम, फिहरिस्त।

अनुक्रमणे\* - क्रि स प्रारम्भ करना, हाथ में लेना, शुरू करना।

अनुक्रमे - अव्य. १ क्रमशः, वानरतीव, क्रम से। २. अनुरूप, अनुसार। [प्रतिक्षण, सतत।

अनुक्षण - अव्य अनुक्षण, अनुक्षेत्र - न छोटा क्षेत्र या तीर्थस्थान। - पाठ - पु पडरपुर के श्रीविठ्ठल।

अनुगामी - वि १ अनुगामी, पीछे चलने वाला। २. मत के अनुसार चलने वाला। - पु. अनुयायी, शिष्य, साथी, सेवक।

अनुगृहीत - वि अनुगृहीत, जिसपर अनुग्रह किया गया हो, उपकृत, एहसानमद।

अनुग्रह - पु १. अनुग्रह, कृपा, एहसान। २ वेदमंत्रों का उपदेश, गुरु से प्राप्त उपदेश, प्रसाद।

अनुचर - पु. अनुचर, पीछे चलने वाला, नौकर, टहलुआ, साथी।

अनुचरण - न, अनुचर्या - स्त्री अनुसरण, पीछे पीछे चलना, मेवा, टहल।

अनुचित - वि १. अनुचित, अयोग्य, अशिष्ट, नामुनासिब, बेजा, बुरा। २ नालायक, अपात्र।

अनुज्ञा - स्त्री १ अनुज्ञा, अनुमति, स्वीकृति, आज्ञा, इजाजत। २ एक काव्यालंकार जहाँ अच्छे गुण की लालसा से दोष वाली वस्तु की भी इच्छा की जाय।

अनुज्ञात - वि १ आदिष्ट, आदेश प्राप्त, आज्ञा या हुक्म किय

हुआ । २ अनुमति-प्राप्त ।

अनुज्ञापक - वि १ अनुज्ञापक, इजाजत, अनुमति या आज्ञा देने वाला । २ सिफारिश करने वाला, सिफारिशी, प्रशासकारी, 'रेकमें-डेटरी' ।

अनुत्पत् - वि अनुत्पत्, जिसे पछतावा हुआ हो, रजीदा, खिन्न ।

अनुताप - पु अनुताप, पश्चात्ताप, पछतावा, खेद, रज ।

अनुतापणं\* - क्रि अ पछ-ताना, रजीदा, दुखी होना ।

अनुतापी - वि पछतानेवाला, रजीदा, खिन्न ।

अनुत्तर - न उत्तर का अभाव, अपर्ण या गलत उत्तर । - वि १ निरुत्तर, उत्तर देने में असमर्थ । २ सर्वोत्तम, अद्वितीय, सब से श्रेष्ठ ।

अनुत्तरित - वि अनुत्तरित, जिसका जवाब न दिया गया हो ।

अनुदार - वि अनुदार, सकीर्ण-हृदय, क्षुद्रबुद्धि, कजूस, तगदिल ।

अनुदिन - नों\* - अव्य १ प्रतिदिन, हररोज, । २ लगातार, सतत ।

अनुद्भूत - वि अप्रकट, अनुत्पन्न, गुप्त । - उष्णता - स्त्री गुप्त ऊष्मा, 'लेट्ट हीट' ।

अनुद्वेग - पु अनुद्वेग, सतोष, निर्भयता, आनंद ।

अनुध्यास - पु १ पूर्ण चिंतन, एकाग्र मन से किया हुआ आराधन, मनन । २ चित्त की एकाग्रता ।

अनुनय - पु १ अनुनय, विनय, प्रार्थना, । २ मनावन । ३ गिडगिडाहट । ४ शिक्षा, अनुशासन । ५ प्रियाराधन, परिणय-प्रार्थना, प्रणय की याचना, 'कोटिंग' । ६ ईसाई प्रार्थना,

'रोजेशन' । - आठवडा, - सप्ताह - पु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण से पहले का वह सप्ताह जिसमें सोमवार, मंगल और बुध को ईसाई उपवास रखते हैं, 'रोजेशन वीक' ।

अनुपत्\* - द-न १ प्राप्ति या आय का अभाव । २ आपत्ति, गरीबी । - अव्य व्यर्थ ।

अनुपम, अनुपमेय - वि अनुपम, अजोड, अनुपमेय, अतुलनीय, बेजोड, सर्वोत्तम ।

अनुपयुक्त - वि १ अनुपयुक्त, निरुपयोगी, बेकार, निकम्मा, निरर्थक । २ बेमेल, अशोभन, न फवने वाला ।

अनुपस्थित - वि १ अनुपस्थित, गैरहाज़िर । २ अप्रचलित, नामशेष, अविद्यमान । ३ जो याद न हो, विस्मृत ।

अनुपस्थिति - स्त्री १ अनुपस्थिति, गैरहाज़िरी, गैरमौजूदगी । २ विस्मरण, विस्मृति ।

अनुपात - पु अनुपात, त्रैराशिक (ग०) ।

अनुपान - न १ अनुपान, दवा के साथ या पीछे ली जाने वाली वस्तु । २ दवा लेने के काल में खाने योग्य पदार्थ, परहेज, पथ्य-पदार्थ । ३ उपाय, इलाज । ४ खेती सबधी गौण वाते । [ विवशता, लाचारी ]

अनुपाय - पु उपाय का अभाव, अनुबंध - पु १ अनुबंध, बंधन, पाश । २ आधार, आश्रय, उपाग । ३ अखडता, परपरा, सबध ।

अनुबंधी - वि १ निकट का, सबधी । २ आनुपगिक । ३ आसक्त ।

अनुभव - पु १ अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान, तजरबा, तज्विबा,

तजुर्वा । २ परीक्षा, आजमाइश । ३ आस्वाद, चखना । ४ ईश्वर-विषयक ज्ञान । - गम्य - वि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जानने योग्य । - जन्य - वि अनुभव से प्राप्त । - शीर, - सिद्ध - वि अनुभव कर के देखा हुआ, आजमाया हुआ, परीक्षा - सिद्ध, जाँचा हुआ । मु - घेणे - अनुभव करना । - येणें - अनुभव होना, ज्ञात होना ।

अनुभव(वि)णें - क्रि स १ अनुभव, तजुर्वा करना । २ उपभोग या उपयोग करना ।

अनुभवि(वी)क - १ वि अनुभवसिद्ध, आजमाया हुआ । २ तीखा, चुभने वाला ।<sup>+</sup> ३ अनुभवी अनुभवी - वि १ अनुभवी, अनुभव रखने वाला, तजुर्वेकार । २ जिसने उपभोग या उपयोग किया हो ।

अनुभाव - पु १ अनुभाव, योग्यता, सामर्थ्य, प्रभाव । २ मनोगत भाव की सूचक वाह्य क्रियाएँ (सा) ।

अनुभूत - वि अनुभूत, अनुभव किया हुआ, आजमाया हुआ ।

अनुभूति - स्त्री अनुभूति, अनुभव, सवेदना ।

अनुमति - स्त्री १ अनुमति, स्वीकृति, इजाजत, सम्मति । २ चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा ।

अनुमान - न १ अनुमान, अटकल, अदाजा । २ प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान । ३ सकोच, झिझक, तकल्लुफ । ४ शका, सशय, शक, सदेह । - घष(ब) का - पु अटकल, मोटा अदाजा, स्थूल अनुमान ।

अनुमानणें - क्रि स कल्पना करना, आँकना, कूतना, अदाजा,

अनुमान लगाना, आजमाना ।

अनुमोदक - वि अनुमोदक, अनुमोदन, समर्थन, ताईद करने वाला ।

अनुमोदन - न १ समर्थन, ताईद, पृष्टि । २ अनुमोदन, स्वीकृति, प्रसन्न करना या होना । ३ उत्सव, समारोह ।

अनुमोदित - वि अनुमोदित, समर्थित, स्वीकृत ।

अनुयायी - वि पु १ अनुयायी, पीछे चलने वाला । २ शिष्य, नौकर, मेवक ।

अनुरजन - न अनुरजन, मन-रजन, दिलवहलाव ।

अनुरक्त - वि १ अनुरक्त, अनुरागयुक्त, प्रेमी, आसक्त । २ स्वामिभक्त, राजभक्त, वफादार, प्रसन्न, सत्पुष्ट ।

अनुरणन - न १ अनुरणन, घटा, नूपुर आदि की प्रतिध्वनि, गूँज । २ व्यजना (सा)

अनुरत - वि अनुरक्त, आसक्त, लपट । [आसक्ति, भक्ति ।

अनुराग - पु अनुराग, प्रेम, अनुरूप - वि १ अनुरूप, सदृश, समान । २ योग्य, उप-युक्त । -अव्य अनुसार, मुताविक ।

अनुरोध - पु १ झुकाव, रुख, रुझान, रुझान । २ मान्यता, सम्मति, स्वीकृति । ३ प्रभुत्व, हुकूमत ।

अनुरोधानें - अव्य अनुसार, दिशा में, रक्षान देखकर ।

अनुलक्षण - अव्य (को) लक्ष्य करके, (से) मुखातिव होकर, सर्वोचित करके । [ वजन ' ।

अनुलेख - पु. प्रक्षेप, ' प्रोजे-अनुलेख - पु. अनुलेख, उल्लेख का अभाव, अनिर्देश । मु

अनुल्लेखानें मारणें - दुरी नीयन मे किसी का उल्लेख टालना, जानबूझ कर किसी को उमका उचित श्रेय न देना ।

अनुवर्तणें - क्रि स १ दूसरे की इच्छा के अनुसार आचरण करना, सेवा, आज्ञापालन करना । २ अनुसरण करना, पीछे चलना ।

अनुवर्तन - न अनुवर्तन, अनु-सरण, अनुगमन ।

अनुवाद - पु, अनुवादन - न १ अनुवाद, उलथा, भापातर, तर्जुमा । २ फिर से कहना, व्याख्या या समर्थन रूप में पुनरुक्ति । ३ समर्थन । ४ जनश्रुति, विज्ञापन । ५ सभाषण, वातचीत ।

अनुवादक, अनुवादी - पु. अनु-वादक, अनुवादकर्ता, अनुवाद करने वाला, मुर्तजिम, भापातर-कार ।

अनुवादणें - क्रि स १ अनुवाद भापातर, उलथा या तर्जुमा करना । २ वारवार कहना, पाठ करना, कठ करना । ३ स्पष्ट करना ।

अनुवृत्ति - स्त्री १ परपरा से चला आया सबब, क्रम । २ सेवा, नौकरी, आज्ञापालन । ३ साहचर्य, साथ, सगति । ४ अनु-करण, नकल । - पथ\* - पु सुपुम्ना नाडी ।

अनुशासनें - क्रि स १ निय-मित, सीमित करना, प्रवच रखना, नियमवद्ध करना । २ विवरण, विवेचन, ऊहापोह करना ।

अनुशासन - न १ आदेश, आज्ञा । २ नियम, कानून, विधान, नियंत्रण, शासन । ३ निश्चित, सीमित करने का काम । ४ अनुष्ठान ।

अनुशास्ता - पु. १ अनुशासक,

अनुशास्ता, अनुशासन करने वाला, शासक, हाकिम । २ शिक्षक, उपदेशक ।

अनुशीलन - न १ अनुशीलन, परिशीलन, मतत तथा गभीर अभ्यास, नियमित अध्ययन । २ एकनिष्ठ सेवा ।

अनुश्रोत - दे 'अनश्रोत' ।

अनुश्रुत - वि अनुश्रुत, परपरा से प्राप्त (ज्ञान आदि) ।

अनुपग - पु. १ अनुपग, सबब, लगाव । २ आश्रय ३ मिश्रण, जोड़ ।

अनुपगानें - अव्य मदभ में, प्रमग में, अनुपग से, सबब, लगाव से । [ सबद्ध, प्रमगत प्राप्त ।

अनुपगिक - वि आनुपगिक, अनुपट्ट-प-व-भ - पु अनुपट्ट-प-म्, ३२ अक्षरो का एक प्रसिद्ध छंद ।

अनुपठणें - क्रि स १ विवि-पूर्वक आचरण करना । २ अनु-ष्ठान करना । ३ करना, प्राप्त, सिद्ध, पूर्ण करना ।

अनुपठाता - वि पु. अनुपठाता, अनुष्ठान करने वाला ।

अनुष्ठान - न १ अनुष्ठान, कोई धार्मिक कृत्य । २ फल विशेष के लिए किसी देवता का आराधन । ३ करना, आरभ, पूर्ण करना । ४ बहुत बडा, महान, कठिन कार्य । - पद्धति - स्त्री धार्मिक कृत्य यथाविवि करने की पद्धति, 'ऑर्डर ऑफ अंडमिनिस्ट्रेशन ।'

अनुसंधान - न १ अनुसंधान, योजना, प्रवच, सगति, आयोजन, क्रम से आनेवाली बात । २ ध्यान, अवधान, चित्त । ३ हेतु, लक्ष्य । ४ हरिकथा का आख्यान । ५ मेल, सम्न्वय । ६

प्रस्ताव, प्रस्तावना, भूमिका।  
७ खोज, शोध, जाँच-पडताल।  
८ क्रमप्राप्त वात।

अनुसपोटी<sup>+</sup> - दे 'अनशेंपोटी'।

अनुसरण - न १ अनुसरण,  
अनुकरण, नकल, पीछे चलना।  
२ स्वीकार, अगीकार।

अनुसरणें - क्रि स १ अनु-  
करण, अनुसरण करना, पीछे  
चलना। २ अनुकूल, संमत  
होना। ३ स्वीकार करना। ४  
स्मरण, भजन करना। ५ वरण  
करना।

अनुसार - वि अनुसार, अनु-  
कूल, अनु रूप, मुताविक। - पु  
१ अनुसार, अनुसरण। २ क्रम,  
पद्धति, मार्ग। - अव्य, क्रम मे,  
नीति मे।

अनुस्यूत - वि १ अनुस्यूत,  
ग्रथित, पिरोया हुआ, सिला हुआ,  
सवद्ध। २ नियमित रूप मे, अखड  
रूप मे, सतत, लगातार चलने  
वाला, व्यापक।

अनुस्वार - पु अनुस्वार, अनु-  
स्वार-सूचक विदी।

अनुह(हा)त गजर - पु अना-  
हृत नाद, शब्द, योगियो को  
सुनाई देने वाली एक आत्तरिक  
व्वनि, अतहद नाद, ओम्-व्वनि।

अनूढ - वि अनूढ, अविवाहित।

अनूढा - वि स्त्री अनूढा,  
अविवाहिता स्त्री।

अनूप - वि १ अनूप, उपमा-  
रहित, अनुपम, बेजोड। २  
विलक्षण, अद्भुत, असाधारण।  
- पु १ जलप्राय स्थान या देश।  
२ दलदल, तालाव। - वायु - पु  
पक गैस 'मार्ग गैस'।

अनृण-णी - वि अनृण-णी,  
ऋणमुक्त, उऋण।

म हिं श कोश...३

अनृत - न अनृत, असत्य,  
झूठ। - वि झूठा, अन्यथा,  
उलटा।

अनृत्य \* - दे 'अनृत'।

अनेक - वि अनेक, एक से  
अधिक, कई, बहुत। - छिद्रवारी-  
वि शरीर पर अनेक छिद्र रखने  
वाला, 'पोरीफेरा'। - जिह्वा-  
वि १ अनेक जीभो वाला। २  
झूठ बोलने वाला, अपनी बात  
बदलने वाला। - धा, - विधा,  
- अव्य अनेक प्रकारो मे। - वचन  
- न बहुवचन। - वार - अव्य कई  
वार, वार वार। - श - अव्य  
अनेक प्रकारो से, कई तरह मे।

अनेक \* - दे 'अनेक'।

अनैक्य - न १ अनैक्य, एकता  
का अभाव। २ फूट, मतभेद।

अनोळख\* - वि १ अपरिचित,  
नया, पराया, अजनबी। २  
कृन्धन, वेवफा। - स्त्री अपरिचय।  
- पण - न अपरिचय, परायापन।

अनोळखी - वि अपरिचित,  
अजनबी, पराया, नया।

अनौचित्य - न अनौचित्य,  
अनुचित या नामुनासिव होना।

अनौरस - वि १ अनौरस, जो  
औरस अर्थात् विवाहिता स्त्री मे  
उत्पन्न न हो, अवैव, जारज,  
दोगला। २ गोद लिया हुआ।

अन - दे 'अन'।

अन्न\* - वि अन्य, दूसरा।

अन्न - न १ अन्न, खाने की  
चीज, भोज्य पदार्थ, खाना, पका  
अन्न। २ अनाज। ३ जीविका,  
रोजी, वृत्ति। - कूट - पु अन्नकूट,  
कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को देवता-  
ओ के सामने बनाया जाने वाला  
भात या मिष्टानादि का पहाड या  
ढेर। - कोश - पु अन्नमय कोश,

स्थूल शरीर। - गुरु - पु बहुत  
खाने वाला, पेटू। - छत्र - न  
अन्नसत्र, लगर। - त्याग - पु  
प्रायोपवेशन, अनशनव्रत। - दाता  
- पु अन्नदाता, अन्न, भोजन देने  
वाला, प्रतिपालन करने वाला।  
- दान - न अन्नदान, पका खाना  
वांटना, मुफ्त भोजन देना। - द्वेष  
- पु अन्नद्वेष, भोजन की अरुचि।  
- धान्य - न खाद्यान्न। - नलिका  
- स्त्री दे 'अन्नमार्ग'। - पाणी -  
न अन्नजल, दानापानी, आव-  
दाना। - प्राशन - न अन्नप्राशन,  
चटावन। - ब्रह्म - न अन्न ही  
मानो ब्रह्म या ईश्वर है। - मन्त्री -  
पु खाद्यमन्त्री। - मार्ग - पु अन्न-  
नाली, ग्रासनली, भोजननाली,  
पोपिका, खाद्यनली, अन्ननलिका,  
अन्नवाही स्रोत, मुँह से लेकर  
पक्वाशय तक फैली लवी नली।  
- वस्त्र - न जीविका, अन्न और  
वस्त्र, भरण-पोषण। - व्यवहार -  
पु अन्नव्यवहार, खान-पानसवधी  
नियम या प्रथा। - शुद्ध - द्वि -  
शुद्ध - स्त्री भोजन को शुद्ध बनाने  
के लिए भात पर घी डालना, घी।  
- सतर्पण - न अन्नदान। - सत्र -  
न अन्नसत्र, लगर। मु - अर्गा  
लागणें - १ पचना, हजम होना।  
२ अन्न से फायदा होना। - अन्न  
करणें, कौत फिरणें - अन्न के  
लिए दर-दर घूमना, भीख मांगना।  
- पाणी तुटणे - भोजन की अरुचि  
होना, भूख न लगना। - पाणी  
सोडणे - अन्नजल का त्याग करना,  
भूखा रहना। अन्नाचा किडा -  
पेटू, केवल खाकर पडा रहने  
वाला। अन्नाच्या गारगोट्या -  
बहुत अधिक ठडा भात। अन्नात  
माती कालविणे - किमी की रोजी

छीन लेना, जीवन-निर्वाह के माधन का नाश करना। अन्नावर बाढणे - किसी के सहारे बड़ा होना। अन्नास जाणणे - उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना, किये हुए उपकार का प्रतिफल देना। अन्नास महाग, मोताद - वह जिसे खाने को भी नहीं मिलता, बहुत अधिक गरीब, दाने दाने को मुहताज। अन्नास लावणें - निर्वाह का माधन, रोज़ी दिलाना, नौकरी देना या दिलाना।

अन्नान्नगत, अन्नान्नदशा - खी खाने को न मिलना, वेहद गरीबी, कगाली, घोर दारिद्र। मु - होणे - दाने दाने को तरसना, भूखो मरना। अन्नार्थी - वि १ जिसे अन्न की नितात आवश्यकता हो, अन्न का लोभी। २ जीविका की खोज में भटकने वाला।

अन्नाशय - पु. पेट, जठर,। अन्नोदक - न १ अन्न-जल, दाना-पानी, आवदाना। २ जीविका का साधन।

अन्य - वि १ अन्य, दूसरा। २ गैर, पराया। ३ अविक, अतिरिक्त। - पूर्वा - स्त्री वि १ अन्यपूर्वा, एक में मँगनी होने के बाद दूसरे में व्याही जाने वाली कन्या। २ पुनर्विवाह करने वाली स्त्री। - मनस्क, - मना, - मानस - वि अन्यमनस्क, अन्यमना, अन्यमानस, अनमना, जिमका चित्त कहीं और हो।

अन्यच्च - वि दूसरा, अविक। - अव्य मिवाय, अतिरिक्त, और, फिर।

अन्यत - अव्य अन्यत, दूसरे में, दूसरे की ओर।

अन्यतम - वि १ अन्यतम, बहुते मेंमें कोई एक। २ सर्वश्रेष्ठ।

अन्यत्किञ्चित् - वि १ अन्य, अलग, निराला। २ इस ममय दिखाई न देने वाला, पूर्वजन्माजित।

अन्यत्र - अव्य १ अन्यत्र, दूसरी जगह, और कहीं। २ सिवाय, अगवा, अतिरिक्त। - ठायीं - अव्य अन्यत्र, दूसरी जगह।

अन्यथा - अव्य १ अन्यथा, नहीं तो, वरना। २ अन्य प्रकार में। - वि झूठा, अमत्य, विपरीत, उल्टा, मिय्या।

अन्याय - पु. १ अन्याय, नाइन्साफी, वेइन्माफी। २ अपराध, गुनाह। ३ अनीति; अधर्म। ४ जुल्म, अत्याचार। अन्यायाचा प्रतिवध - पु. न्यायविरुद्ध परिरोध, अवैध अवरोध, 'रांगफुल कन्फाइनमेंट'। अन्यायाची फँद - स्त्री अवैध कारावास, गैरकानूनी हिरासत, 'रांगफुल रिस्ट्रेंट'।

अन्यायी - वि १ अन्यायी, अन्याय करने वाला, वडन्माफ। २ अपराधी, दोषी, गुनहगार। ३ अनीतिमान्, पापी। ४ जालिम, अत्याचारी। ['अन्याय']

अन्याव - वो<sup>+</sup> - पु. दे अन्यो<sup>+</sup> - दे 'अन्याय'।

अन्योक्षित - स्त्री १ अन्योक्ति, ऐसी उक्ति जो साधर्म्य के कारण कथित वस्तु के अतिरिक्त औरोपर भी घटित हो सके। २ अप्रत्यक्ष रूप में कहना। ३ एक अर्थालंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा।

अन्योन्य - अव्य १ अन्योन्य, परस्पर, एक दूसरे को या पर। २ पूर्णतया। - वि पारस्परिक, आपस का। - पु एक अर्थालंकार।

अन्वय - पु. १ अन्वय, सवध, मेल, मयोग। २ वाक्य में पदों का

परस्पर उचित सवध। ३ पद्य की रचना को मरळ, गद्यमय बनाना, ४ हेतु, उद्देश्य, इंगित। ५ कार्य-कारण-सवध। - मुखें - अव्य. प्रत्यक्ष-नया। + मु - लावून बोलणें - १ मोठे डग में बात करना। २ वुमा फिराकर बोलना। ३ काम निकालना, प्रयोजन मिद्ध करना।

अन्वये - अव्य अनुसार, मता-विक।

अन्वयं, अन्वयंक - वि १ ययार्थ, मार्यं। २ वास्तविक, हकीकती। ३ उचित, योग्य।

अन्वित - वि सवद्ध, युक्त, जोडा हुआ। २ अधीन, ग्रस्त।

अन्वेशक - पु. अन्वेषक, अनु-मधाता, 'इनवेस्टिगेटर'।

अन्वेषण - न १ अन्वेषण, खोज, जाँच-पडनाल। २ पीछा करना।

अन्वेषणें - क्रि स १ अन्वेषण करना, खोजना, ढूँढना। २ पता लगाना, सुराग लेना। [वाणी]।

अन्हव(वा)णी\* - दे 'अन-अन्हाड-डो' - वि अनाडी।

अपग - वि अपग, अगहीन, अपाहिज, लगदा-लूला, असमर्थ।

अपगणें\* - क्रि अ स १ मँभालना, परवरिश, पालन-पोषण करना, सहारा देना। २ स्वीकार करना, अपनाना।

अपगिता\* - वि आधार, आश्रय, महारा देने वाला, पालन-पोषण करने वाला, मँभालने वाला। दे 'आपगिता'।

अपगिस्त\* - वि स्वतंत्र, आज्ञाद, जो दूसरेपर निर्भर न हो।

अपडित - वि पु. अपडित, अविद्वान्, अनाडी, मूर्ख, गँवार।

अप - अ एक उपसर्ग जो वैप-

रीत्य, वैरुद्ध्य, वुराई, आधिक्य, निपेच, आदि का घोटन करता है।

अपकर्ष - पु, अपकर्षण - न  
१ अपकर्ष, अपकर्षण, १ नीचे की ओर खीचना या लाना। २ अवनति, पतन, गिरावट ३ ३ क्षय, ह्रास।

अपकर्षणें - क्रि स १ हीनता लाना। २ पीछे खीचना।

अपकार - पु १ अपकार, उपकार का उलटा, वुराई, अहित। २ अन्याय, गुनाह, दोष। ३ नुकसान, हानि, दुख। ४ रोग, बीमारी।

अपकार(री)क, अपकारी-वि  
अपकारक, अपकारी, अपकार करने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला।

अपकीर्त-ति-स्त्री १ अपकीर्ति, अपयश, बदनामी। २ निंदा, अपमान, मानहानि।

अपकृत्य - न १ वुरा काम, नीच कर्म। २ दुष्कृति, अपराध, 'टाँट'।

अपकृष्ट - वि १ नीचे खींचा हुआ, गिराया हुआ। २ घटिया, खराब। ३ मत्र सामर्थ्य से खींचकर लाया हुआ।

अपक्व - वि १ अपक्व, कच्चा, न पका हुआ। २ न पकाया हुआ। ३ अनम्यस्त, अनुभवहीन, अनाडी।

अपक्ष - वि १ अपक्ष, विना पक्ष का। २ निष्पक्ष, नातरफदार। ३ निर्दलीय, आजाद। - ता - स्त्री निष्पक्षता, नातरफदारी।

अपक्षीण - वि जिमका ह्रास हुआ हो, अवनत, गिरा हुआ, कमजोर।

अपक्षेप - पु, अपक्षेपण - न

अपक्षेप, अपक्षेपण, नीचे फेंकना, गिराना। [बदनामी।

अपख्यात-ती - स्त्री अपकीर्ति, अपघात - पु १ दुर्घटना, हादिसा। २ दुर्घटना में हुई मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु।

अपघाती - अव्य १ अचानक, अकस्मात्, यकायक, अनपेक्षित या असंभावित रूप में। २ दुर्घटना में। [अजीर्ण।

अपचन - न अपच, बदहजमी, अपचय - पु १ अपचय, ह्रास, अवनति, क्षय। २ नुकसान, घाटा। ३ नाश।

अपचार - पु १ अपचार, कुपथ्य, बदपरहेजी। २ दुराचार, अनुचित कर्म, कुमार्ग। ३ उपद्रव, पीडा। [हार।

अपजय - पु अपजय, पराजय, अपजाल - छ \* - न तोहमत, झूठा डलजाम।

अपचापट + स्त्री ताश फेंटना।  
अपटणें - क्रि अ १ गिरना, पछाडना। २ टकराना। ३ हारना। - क्रि स १ गिराना। २ टकराना, पीटना, ठोकना। ३ हराना। मु - घोपटणें - वुरी तरह पीटना, मारना, ठोकना।

अपटघोपट - स्त्री वुरी तरह पीटना, ठुकाई।

अपटवार - पु एक किस्म का पटाखा जिसे पटकने में जोर की आवाज निकलती है।

अपटा - पु कचनार, अश्मतक।  
अपटा - आपट - टी, अपटा - घोपट - टी - स्त्री जोर से गिराना, पटकाना, मारना, ठोकना।

अपटी - स्त्री १ पटकनी, पछाड, गिरना, फिमलना। २ ठोकर, धक्का, आघात, टक्कर।

३ अवनति, पतन, गिरावट, घाटा, नुकसान। मु. - खानें - गिरना, ठोकर खाना, मुँह की खाना। - देणें - पछाडना।

अपढगीपणा<sup>+</sup> - पु अयोग्य आचरण, वेहूदापन, कुरीति।

अपण\* - दे. 'आपण'।

अपत्य - न अपत्य, मतान, बालक, वच्चा, बेटा या बेटा।

अपत्रपा\* - स्त्री अपत्रपा, लज्जा, मकोच, गर्म (पावणे, येणें)।

अपथ\* - पु १ अपथ, कुपथ, गलत या वुरी राह। २ पाखंड।

अपथ्य - न १ अपथ्य, प्रतिकूल आहार-विहार, कुपथ्य, बदपरहेजी। २ अहित, अकल्याण, अमगल। - वि अहितकर, स्वास्थ्यनाशक, वर्ज्य।

अपदेवता - स्त्री अपदेवता; दुष्ट देव, दैत्य, राक्षस, पिशाच।

अपघाक<sup>+</sup> - पु १ आकस्मिक भीति, धक्का, मदमा पहुँचना। २ अपना डर, अपने से स्वयं डरना।

अपघाकणें<sup>+</sup> - क्रि अ डरना, मदमा पहुँचना।

अपपाठ - पु. अपपाठ, गलत या सदोष पाठ।

अपप्रयोग - पु शब्दका अशुद्ध प्रयोग, गलत इस्तेमाल।

अपवळ - छें\* - अव्य. स्वयं, खुद होकर।

अपभवन - न विम्यापन, विचलन, विमार्ग - गमन, हटाना, पथच्युति, 'डिपलेक्शन'।

अपभाषण - न अपभाषण, निंदा करना, गाली देना, दुर्वचन, गाली - गलौज।

अपभ्रश - १ अपभ्रश, शब्द का विकृत रूप। २ अशुद्धि,



दोष, विकृति । ३ विकार, नाग, हानि । - स्त्री अपभ्रग, एक प्राकृत भाषा । - वि १ विगाडने वाला, म्रष्ट करने वाला । २ विगडा हुआ ।

अपभ्रष्ट - वि अपभ्रष्ट, विगडा हुआ ।

अपमान - अपमान, मानभग, वेडज्जती, अनादर, अप्रतिष्ठा । मू - गिल्लणें - अपमान या वेडज्जती को वर्दाग्त करना, जह् का घूंट पीकर रह जाना ।

अपमानणे - क्रि स अपमान, वेडज्जती करना ।

अपमृत्यु - पु १ अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, नागहानी मीत । (चुकणें, निवारणें, टलणें, वेणें) । २ माँप काटने, विष खाने, कोर्ट दुर्घटना हो जाने आदि मे होने वाली मृत्यु, अपमृत्यु, वृत्त वडा न्वनग या रोग (जिमसे मनुष्य वच जाय) ।

अपयश - न १ अमफलता, नाकामी, नाकामयावी, गिकम्त, हार । २ अपयश, वदनामी, अपकीर्ति । मू. अपयशाच्चा धनी - जिसे दूसरो की गलती के कारण अमफलता या वदनामी उठानी पडे । अपयशाच्चे खापर फुटणें - दूसरो द्वारा की गयी गलती के कारण मिश्री अमफलता का दोष मन्ये मद्दा जाना ।

अपयशी - वि १ नाकाम, अमफल । २ हमेसा नाकाम रहने वाला, अभागा ।

अपरपार - वि अपरपार, अपार, असीम, वेद्द ।

अपर - वि १ अपर, अन्य, दूसरा । २ अनुलनीय, बेजोड । ३ दूरवर्ती, अगला, पिछला, उम

पार का । ४ पश्चिमी । - पक्ष - पु १ महीने का दूसरा पक्ष, कृष्णपक्ष । २ प्रतिपक्ष, प्रतिवादी पक्ष । ३ पितृपक्ष ।

अपरत्र - अव्य अपरत्र, अन्यत्र, और कहीं ।

अपरमात<sup>†</sup> - पु मिथ्या आरोप, तोहमत ।

अपरमाय\* - स्त्री दूसरी माता, श्रेष्ठ माता ।

अपरव<sup>†</sup> - पु १. जायदाद मन्वधी झगडा । २ झगडा टटा, वखेडा । - वि निर्विवाद, वैशक, विना झगडे-वखेडे का ।

अपरवड-डी\* - स्त्री १ क्रम-भग, वेद्दगापन, रुडि का त्याग । २ अद्भुतता, वैचित्र्य, अनोखापन । ३ अन्याय, कुप्रथा । ४ अपकीर्ति, वदनामी । ५ भटकना, मार्ग छोटकर चला जाना ।

अपरवय - न बुढापा ।

अपरस<sup>†</sup> - दे 'आपरस' ।

अपरगत - पु अपरगत, कोकण, पश्चिमी सीमान, पश्चिमी सीमान का देश या निवासी ।

अपरा - वि स्त्री अपरा, दूसरी, कनिष्ठ श्रेणी की । - वि छोटा, तग, अबूरा । - स्त्री अपरा, अत्र्यान्म विद्या को छोडकर शेष मपूर्ण विद्या, शैकिक विद्या ।

अपराजित - वि अपराजित, जो जीना न गया हो, अजेय ।

अपराजिता - स्त्री १ अपराजिता, दुर्गा । २ शेफालिका, जयन्ती, विष्णुक्राना आदि पाँचे । ३ उत्तरपूर्व दिशा । ४ एक वर्णवृत्त ।

अपराण्ह - पु अपराह, तीसरा पहर ।

अपरात्र - स्त्री अपरात्रि, रात्रि का अन्तिम भाग, पिछली रात ।

अपराध - पु १ अपराध, गुनाह, पाप, गलती । २ दड - योग्य कर्म, जुर्म । मू. - पोटात घालणें - अपराध के लिए क्षमा करना, गुनाह माफ करना ।

अपराधी - वि अपराधी, दोषी, गुनहगार ।

अपरापरी\* - स्त्री १ दुर्दशा, दुर्गत, वन्वादी, तवाही । २ परायामन ।

अपरिग्रह - पु अपरिग्रह, दान का अम्त्रीकार, शरीरस्यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उसमे अधिक पैसा, अन्न आदि न लेना या पान न रखना ।

अपरिचित - वि अपरिचित, अजनबी, अनभिज्ञ ।

अपरिमित - वि अपरिमित, असीम, वेद्द, अन्यधिक, वेद्दिमात्र ।

अपरिहार्य - वि अपरिहार्य, अनिवार्य, लाजिमी ।

अपरूप - व - न - वि १ विचित्र, विलक्षण, अपूर्व, अद्भुत । २ दुर्लभ, दुष्प्राप्य, अमूल्य, कीमती ३ वचित, मुहताज । ४ अपरूप, कुरूप, भद्दा । - मेवा - पु १ दुर्लभ खाद्य । २ मतान, अपना वच्चा ।

अपरूपा(वा, भा, वा)ई - स्त्री १ दुर्लभता, उन्कृष्टता । २ दुर्लभता के कारण प्राप्त महन्व, अपूर्वता । दे 'अपूर्वाई' ।

अपरोक्ष - वि १ अपरोक्ष, प्रत्यक्ष । २ परोक्ष, अप्रत्यक्ष । - अव्य १ परोक्ष में, पीठ पीछे, अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में । २ सामने, मौजूदगी में, अपरोक्ष में । - बोध - पु. प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्षानुभूति ।

अपर्याप्त - वि अपर्याप्त, नाकाफी, असीम।

अपला<sup>+</sup> - दे 'आपला'।

अपलाण - णी वि [फा 'पालान'] (वह घोडा) जिसकी पीठपर पलान, जीन या चार जामा न कसा हो।

अपलाप - पु अपलाप, छिपाना, मुकर जाना, इनकार करना, सत्य का गोपन।

अपवाद - पु १ अपवाद, निंदा, वदनामी, तोहमत, लाछन। २ सामान्य नियम को वाधित या मर्यादित करने वाला विशेष नियम, इस्तिस्ना।

अपवादक, अपवादी - वि १ अपवादक, अपवादी, निंदा, वदनामी, खडन आदि करने वाला। २ अपवाद या नियमन करने वाला, सीमित करने वाला।

अपवित्र - वि अपवित्र, अशुद्ध, नापाक, गदा, मैला।

अपव्यय - पु अपव्यय, फिजूल खर्ची, उडाऊपन।

अपव्ययी - वि अपव्ययी, फिजूलखर्च, उडाऊ।

अपशकुन - पु अपशकुन, अम-गुन, वदशगूनी।

अपशकुनी - वि अशुभसूचक, वदशगून, मनहूस।

अपशब्द - पु १ अपशब्द, दुर्वचन, गाली - गलीज। २ अशुद्ध असाधू शब्द, विगडा हुआ शब्द। ३ अशुभ-सूचक या मनहूस शब्द या स्वर।

अपशाच, अपशी, अपशैच<sup>+</sup> - अव्य अपने आप, सहज, स्वय।

अपसत-द-वि [फा 'पसद'] नापसद, अप्रिय।

अपसद\* - वि १ अपसद,

अनुलोम विवाहसे उत्पन्न (सतान)। २ दुष्ट, अधम, नीच।

अपसमज - पु गलतफहमी, भ्रात धारणा, भ्राति।

अपसया\* - अव्य अपने आप, सहज।

अपसव्य - वि १ अपसव्य, सव्य (वायाँ) का उलट, दाहिना। २ उलटा, विपरीत। ३ जिसका यज्ञोपवीत दाहिन कंधेपर हो।

अपसात<sup>+</sup> - अव्य आपसमें।

अपसा-तुपशी - स्त्री तू-तू मैं-मैं, झगडा।

अपसिद्धात - पु अपसिद्धात, गलत या भ्रमयुक्त निर्णय, विरुद्ध सिद्धात।

अपसु (सू)क-ख - अव्य १ अपने आप, सहज, स्वय। २ अपनी खुशी से, स्वेच्छा से। ३ <sup>+</sup> झख मारकर, लाचार होकर।

अपसूर - पु अपस्वर, बुरा या गलत स्वर (मगीत)। - वि वेसुरा।

अपसुन्या - वि वेसुरा (गायक वाद्य)।

अपस्मार - पु अपस्मार, मृगी रोग, मिरगी। - वि दुष्ट, मृत्यु के समान।

अपहरण - न अपहरण, छीन लेना, उठा ले जाना, इग्वा करना, लूट लेना, गायब करना।

अपहर्ता - वि अपहर्ता, अपहरण करने वाला।

अपहस्तकीं, अपहस्तै - अव्य अपने हाथों।

अपहार - पु अपहार, छीन लेना।

अपलाण<sup>+</sup> - दे - 'अपलाण'।

अपाग - न १ अपाग, नेत्र की कोर। २ चितवन, कटाक्ष,

दृष्टिक्षेप। - वि अपाग, विकलाग, लूला, पगु।

अपागणै\* - क्रि अ १ विघ्न या बाधा आना। २. लूला होना। ३ अडना, रुकना (काम आदि) - क्रि स दे 'आपगणे'।

अपापरी\* - स्त्री अव्यवस्था, दुर्दशा, दुर्गत।

अपा - दे 'अप्पा'।

अपाड-डु-डे\* - वि अव्य १ अतिशय, बहुत, अधिक। २ अप्रतिम, असाधारण। ३ असम्भव। ४ गलत। ५ अपक्व।

अपात्र - वि अपात्र, अयोग्य, नाअहल, नालायक। २ अनधिकारी, दान श्राद्ध आदि में निमंत्रणका अनधिकारी (ब्राह्मण)।

अपाप<sup>+</sup> - अव्य अपने आप, स्वय, सहज। वि अपाप, निर्दोष, पापरहित।

अपापला, अपापा, अपापी - दे 'आपापला', 'आपापा', 'आपापी'।

अपाय - पु विपत्ति, नुकसान, हानि, चोट, नाश, बुराई, खतरा। - यत्र - न अपाय करने वाली युक्ति या काम।

अपार - वि १ असीम, बेहद। २ बहुत, अधिक।

अपारणै\* - क्रि अ १ दूर जाना। २. कम होना, घटना।

अपारू\* - वि दे. 'अपार'।

अपाव-वो\* - दे 'अपाय'।

अपावृत - वि अपावृत, खुला हुआ, प्रकट।

अपुरता, अपुरा - वि १ अपूर्ण, नातनाम, अधूरा, जो पूरा या भला न हो। २ कम, न्यून। ३ अपरिपक्व, कच्चा, बचकाना।

अपुरवाय, अपुरर्वाय - दे 'अपूर्वाय'।

अपुलिया\* - सर्व निज, अपने (को, में आदि) ।

अपूट<sup>+</sup> - वि १ अछूता । २ वचा हुआ, शेष । ३ अद्विपित, अविच्छिन्न, निर्दोष । ४ अगिक्षित । ५ अचूक ।

अपूर\* - स्त्री कमी, त्रुटि ।

अपूर्ण - वि १ अपूर्ण, अचूरा, नातनाम । २ कच्चा । ३ अतृप्त ।

अपूर्व - वि १ अपूर्व, जो या जैसा पहले न हुआ हो । २ अद्भुत, विलक्षण, असाधारण, वेजोड । -न अद्भुत वात ।

अपूर्वाई - स्त्री १ अपूर्वता, अद्भुतता, आश्चर्य । २ असाधारणता, नवीनता, दुर्लभता, उत्कृष्टता । ३ दुर्लभता के कारण प्राप्त महत्त्व । मु - करणे - १ सराहना, प्रशंसा, तारीफ करना । २ बहुत महत्त्व प्रदान करना ।

अपूस - पु [पुर्त 'आल्फासो'] आल्फान्सो जाति का आम जो सब से उत्कृष्ट समझा जाता है । यह कोकण में होता है ।

अपृष्ठवश, अपृष्ठवशीय - पु अपृष्ठवशी, मेरुदडहीन, बेरीड का पशु या प्राणी ।

अपेक्षणें - क्रि अ १ इच्छा, अपेक्षा करना या रखना । २ राह देखना, प्रतीक्षा करना । ३ आवश्यकता होना ।

अपेक्षया\* - अव्यय अपेक्षा, वनिस्वत, तुलना में ।

अपेक्षा - स्त्री १ अपेक्षा, इच्छा, अभिलाषा, आशा, चाह । २ जरूरत, आवश्यकता ।

अपेक्षित - वि १ अपेक्षित, प्रत्याशित, जिसकी चाह, प्रतीक्षा या आवश्यकता हो । २ आवश्यक ।

अपेक्षी - वि १. अपेक्षी,

अपेक्षा करने वाला । २ हाजतमद, मुहताज ।

अपेट<sup>+</sup> - वि १ अडुआ, जो वधिया या खसी न किया गया हो, साड । २ कच्चा, नातजिरवाकार, काम न सीखा हुआ, काम में न लगा हुआ ।

अपेय - वि अपेय, न पीने योग्य । - पान - न शराव आदि निषिद्ध पेयों का सेवन करना ।

अपेश - न १ असफलता, नाकामी, हार । २ अपयश, बदनामी, लाछन ।

अपेशी - वि १ नाकाम, हारा हुआ, पराभूत । २ बदनाम ।

अपेष्टा - स्त्री कष्ट, तकलीफ, झंझट ।

अपैत-तैं\* - वि प्राप्त, वश में किया गया ।

अपोआप<sup>+</sup> - दे 'आपोआप' ।

अपोशन, अपोषण - न, अपोष्णी - स्त्री १ आचमन, भोजन से पहले और अतमे हथेली-पर पानी लेकर पीना । २ त्याग । ३ विवाहमें भोजनसे पहले सास द्वारा पति का नाम ले कर जमाई के हाथ पर धी डाला जाना ।

अपोस - दे. 'अपूस' ।

अपौरुष, अपौरुषेय - वि १ अपौरुष, अपौरुषेय, ईश्वरीय, मनुष्यकृत नहीं, ईश्वरकृत, अलौकिक । २ पुरुषार्थहीन, भीरु, कायर । ३ जो पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि रित्रियों द्वारा बनाया, लिखा गया हो (साहित्य आदि) ।

अप्लपोटा-दे 'अप्लपोटचा' ।

अप्लपोटेपणा - न स्वार्थ-परता, खुदगर्जनी ।

अप्लपोटचा - वि स्वार्थी, मतलबी, खुदगर्ज ।

अप्पा - पु [क अप्प] ? पिता, बडा भाई, आदि बड़ों को आदर के साथ संबोधन करने का शब्द । २ बच्चों को प्यार में बुलाने का संबोधन ।

अप्पाधप्पा - पु बच्चों का एक खेल जिसमें 'अप्पा धप्पा । वेणी गप्पा । आणा दोर । वावा चोर ।' आदि गीत गाते हुए, तालियाँ पीट कर बच्चे नाचते हैं ।

अप्रकट - वि अप्रकट, छिपा हुआ ।

अप्रकाटकथा - स्त्री असंगत भाषण, ऊलजलूल वाते ।

अप्रकृत - वि अप्रकृत, असंगत, ऊलजलूल, वेतुका, ऊट-पटांग, बेसिर पैर का ।

अप्रगल्भ - वि अपक्व, कच्चा, अविकसित ।

अप्रतिबध - वि अप्रतिबध, अप्रतिबद्ध, मुक्त, वै-रोक-टोक, मनमाना । - दाय - पु अप्रतिबद्ध दाय, 'अनऑवस्ट्रुक्टेड हेरिटेज' । - व्यापार - पु मुक्त व्यापार, अवाच व्यापार, 'फ्रीट्रेड' ।

अप्रतिम - वि अप्रतिम, वेजोड, अनुपम; लासानी ।

अप्रतिष्ठा - स्त्री अप्रतिष्ठा, वेद्वज्जती, वेद्वर्मती, मानहानि ।

अप्रतिहत - वि १ अप्रतिहत, अवाधित, अक्षुण्ण । २ स्वैर ।

अप्रत्यक्ष - वि अप्रत्यक्ष, परोक्ष । - कर - पु अप्रत्यक्ष कर, 'इनडाइरेक्ट टैक्स' । - पुरावा - पु परोक्ष साक्ष्य, 'इनडाइरेक्ट एविडन्स' । - प्रतिकार - निष्क्रिय विरोध, शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक विरोध, सत्याग्रह, 'पैसिव रेजिस्टन्स' ।

अप्रत्यक्षपणे - अव्यय अप्रत्यक्ष-

गीति मे, परोक्षरूप से, विल-  
वास्ता ।

अप्रत्यय - पु अविश्वाम,  
भरोसा न होना ।

अप्रबुद्ध - वि १ अनाडी,  
बुद्ध, मूर्ख । २ अप्रीड, कच्चा,  
वचकाना । ३ अपरिचित, जो  
जानकारी न रखता है ।

अप्रमाण - वि १ अप्रमाण,  
विना सबूत का, अनधिकृत । २  
जो प्रमाण न माना जा सके, अ-  
प्रामाणिक ।

अप्रयोजक - वि १ असगत,  
ऊलजलूल, बेजा, अनुचित । २.  
निष्पयोगी, बेकार, निरर्थक ।

अप्रशस्त - वि १ तग, मँकरा,  
जो लवा-चौडा न हो । २ अप्रशस्त,  
अनुचित, अविहित, बेजा । ३  
वेढव ।

अप्रसग - पु १ अस्मय, बेजा  
वक्त या मौका । २ अप्रस्तुत, अनु-  
चित बात ।

अप्रसन्न - वि अप्रसन्न, नाराज,  
असंतुष्ट, नाखुश ।

अप्रसिद्ध - १ अप्रसिद्ध,  
अख्यात, जो मशहूर न हो, गुम-  
नाम । २ अप्रकाशित । ३ अप्रच-  
लित ।

अप्रस्तुत - वि १ अप्रस्तुत,  
अप्रामाणिक, असगत, अनुचित ।  
२<sup>+</sup> जो तैयार न हो ।

अप्राप्त - १ वि अप्राप्त, न  
मिला हुआ । २ अकृतार्थ, जिसे  
ब्रह्मानन्द प्राप्त न हुआ हो ।

अप्राप्य - वि अप्राप्य, न  
मिलने वाला, अलभ्य ।

अप्रामाणिक - वि अप्रामाणिक,  
अविश्वमनीय, बोखेवाज, झूठा,  
नाकाविले एतिवार, नाकाविले  
एतिमाद ।

अप्रासगिक - वि अप्रासगिक,  
प्रस्तुत विषय मे असबद्ध, प्रमग के  
विरुद्ध या वाहर का ।

अप्रिय - वि अप्रिय, अरुचि-  
कर, नापमद ।

अप्रीति - स्त्री अप्रीति, अस-  
तोप, नाराजगी, दुर्भाव ।

अप्रुपा(वा)ई - दे 'अपूर्वाई' ।  
अप्रूप - वि अपूर्व, अद्भुत,  
विलक्षण ।

अप्रोक्ष - दे 'अपरोक्ष' ।

अप्सरा - स्त्री अप्सरा, स्वर्ग-  
लोक-वासिनी वेश्या, परी, देव-  
लोक की नृत्यागना ।

अफरातफर - स्त्री [अ 'इफ्रातो  
तफ्रीत' ] गवन, खयानत, अमा-  
नत की रकम खा जाना, दुवि-  
नियोग, वन का अपहरण ।

अफरातफरी - स्त्री [उर्दू] १  
अफरातफरी, गडबड, गोलमाल,  
बदहवासी, आतक । २ तितरवितर  
होना, परागदा हालत, परागदगी,  
अस्तव्यस्तता । ३ दे 'अफरा-  
तफर' ।

अफल-ल - वि अफल,  
निष्फल, निरर्थक, व्यर्थ ।

अफवा, अफवाई - स्त्री [अ  
'अफवाह' ] अफवाह, किंवदती,  
उडती खबर, गप ।

अफळणें<sup>+</sup> - क्रि अ कच्चा,  
अपक्व रहना, अच्छी तरह न  
पकना । - क्रि स \* गिराना,  
पटकना । - क्रि अ. टकराना,  
गिरना ।

अफाट - वि १ विस्तृत,  
विस्तीर्ण, विद्याल, लवा-चौडा,  
वमीअ । २ बडा, बृहन्, महान् ।  
३ वेहद । ४ प्रबल, ताकतवर ।

अफार<sup>\*</sup> - वि अतृप्त ।

अफारी<sup>+</sup> - वि १ अधिक

ममय तक सतोप न देने वाला । २  
योडी देर तक भूख मिटाने वाला ।

अफिण्या-मी-म्या - वि अफी-  
मची, अफीम खाने का आदी ।

अफीण-म - स्त्री [स 'अहि-  
फेन', अ 'अफ्यून'] अफीमा  
- वाज - वि अफीमची, अफीम  
खाने का आदी ।

अफुट - वि अखड, साबुत,  
विना टूटा हुआ ।

अफू - स्त्री अफीम । - वाज -  
वि अफीमची ।

अवक<sup>+</sup> - स्त्री गुल्ली डंडे के खेल  
में प्रत्युक्त एक शब्द जो एक के अर्थ  
मे बोला जाता है । (अवक = एक ।  
दूवक = दो । . आदि) ।

अवकारी - दे 'आवकारी' ।

अवजब - पु तू-तू मैं-मैं, अवे-  
तवे करना ।

अवदा - स्त्री १ आपत्ति,  
सकट । २ कष्ट, तकलीफ, झझट,  
मुसीबत, आफत ।

अवदागिरी, अवदागीर - स्त्री  
[फा 'आफतावगीर'] आफतावी,  
जातपत्र, छत्र, जरी के काम का  
पत्ता या छाता जिसपर सूर्य का  
चित्र कडा होता है, पान के आकार  
का पत्ता जिस पर सूर्य का चिह्न  
बना रहता है और जो राजाओ या  
वरात के साथ चलता है ।

अवदागिन्या - पु आफतावी  
उठाकर चलने वाला ।

अवव - अव्य. [क 'अव्व,  
अव्वव, अब्बा'] विस्मय सूचक  
उद्गार, अहह, अहा, अहाहा,  
वाप रे, ओहो, ओफ, तोवा ।

अवरगोवर<sup>+</sup> - अव्य अव्यव-  
स्थित ढग से, ढील के साथ,  
भट्टेपन से, फूहडपन से ।

अवरचवर, अवरटचवरट - न

१ निस्सत्व, सीठा, नीरस, रूखा-मूखा, वेमजा अन्न या भोज्य पदार्थ । १ फुजूल या फालतू वार्ते । -अव्य मूर्खता के साथ, फूहड-पन से ।

अवह - दे 'अवू' ।

अवलक-ख - वि [अ 'अलक'] अवलक, चितकवरा, काला और सफेद, सफेद और लाल रंग का (घोडा) ।'

अवला - स्त्री अवला, स्त्री, नारी ।

अवळ - वि अवल, निर्बल, वलहीन, कमजोर । २ अज्ञान, अवीच ।

अवळ - स्त्री दे 'आवाळ' ।

अवा-च्चा - अव्य दे 'अवव' ।

अवा - [अ 'अव' या 'आवा'] १ पिता । २ एक आदर सूचक नाम ।

अवाद, - अवादानी - दे 'आवाद', 'आवादानी' ।

अवाध, अवाधित - वि १ अवाध, वावारहित, बेरोक । २ अवाधित, जो रोकान गया हो, स्वाधीन, मुक्त । ३ अविरोध, निर्विघ्न । ४ अपार, असीम । ५ अविकल, अविकृत, अपरिवर्तित, स्थिर ।

अवावा - अव्य दे 'अवव' । - प्रु आश्चर्य, अचमा । मु. - करणें - आडवर रचाना, हल्ला मचाना । - वाटणें - आश्चर्य होना अवाशाई-ही - वि [अ 'अवासी'] अवासी, अवास के (फूलों के) रंग का, गहरा लाल । - स्त्री लाल रंग का वस्त्र ।

अवुद्धा - अव्य अनजान में, बिना जाने ।

अवूज<sup>+</sup> - वि अवूज, नासमझ,

निर्वुद्धि, अनाटी ।

अवे - अव्य अवे, अरे, क्यों रे । - दवे - स्त्री अवेतवे, तू-तू, मैं-मैं, अपमानजनक ढग से बात करना ।

अवोल-ल्या, अवोलका-णा - वि १ कम बोलने वाला, मित-भाषी । २ न बोलनेवाला, मूक, मौन ।

अवोला - प्रु १ अवोला, न बोलना, रोष या मान के कारण न बोलना, रुठना । २ मौन ।

अवोली - स्त्री लाल फूलोवाला एक छोटा पौधा या उसका फूल, लाल कटमरैया ।

अव्ज - न प्रु सौ करोड की मर्या, अरव ।

अव्जुग - न अचरज, ताज्जुव, अजूवा ।

अव्व-च्चा - दे 'अवव' ।

अव्वाशाई-ही - दे 'अवा-शाई' ।

अव्वाशी - स्त्री १ दे 'अवा-शाही' । २ शेखी, अकड ।

अव्वहण्य - न अव्वहण्य, ब्राह्मण के अयोग्य कर्म, पाप, दुष्कर्म । - वि अव्वहणोचित, ब्राह्मण के अयोग्य । - अव्य हाय! लाहौल! तोवा तोवा! उफ! वडा गज्जव हुआ ।

अवू - स्त्री [फा 'आवरू'] आवरू, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत, मतीत्व; कीर्ति, यश, नेकनामी । - चा, - दार - वि प्रतिष्ठित, मभ्रात, इज्जतदार, माननीय । - नुकसानी - स्त्री मानहानि, वदनामी, तांहीन । - मु. - घेणें - १ तांहीन, मानहानि, वदनामी करना । २ बलात्कार करना, सतीत्व या शील में कलक लगाना ।

- जाणें - वदनाम होना ।

अभग - वि अभग, अशुद्धित, अटूट । - अव्य लगातार, अशुद्धित रूप में । - प्रु चार चरणों वाला मगठी का एक मात्र वृत्त । इसमें प्रत्येक चरण में तीन में लेकर आठ तक अक्षर होते हैं ।

अभट - न वर्तन में कुछ वस्तु तालकर देने से पहले उम वर्तन का वजन करने के लिए तगजू के दूसरे पट्टे में चाट या अन्य वस्तुएं टाटना, पामेंग, पमंगा, पमघा ।

अभड - वि बहुत, अधिक, असीम । २. नटवट; शरारती । ३ चट, चालाक, काडर्या ।

अभक्ष्य - वि अभक्ष्य, न खाने योग्य, जिस के खाने का निषेध हो, जिसका खाना पाप माना गया हो, हराम । - प्रु वह खाद्य पदार्थ जो निषिद्ध हो (मद्य, मांस आदि) । - भक्षण - न निषिद्ध पदार्थों का सेवन खाना ।

अभद्र - वि १ अभद्र, अमंगल, अशुभ, मनहम । २ अशिष्ट, असभ्य, गदा, वीभत्स । - न अहित, बुराई, अकल्याण, मकट । अभयकर - वि जिसमें डर न लगे, सौम्य ।

अभय - न १ सुरक्षितता, निर्भयता का आश्वासन, भय से रक्षा । २ अभय, भय का अभाव, निडरपन । - वि निर्भय, निडर । - दान - न अभयदान, रक्षा का वचन - दान, शरण देना । - पत्र - न, -लेख-प्रु अभय-पत्र, रक्षा का लिखित आश्वासन । - वचन - न अभयवचन, अभयदान ।

अभरवशीं - अव्य. १ आफन में, निराशा में, निराशा के सकट में । २ वैभरोमें, वेवफाई से,

विश्वासघात से, धोखे में।

अभरंवशी - वि धोखेवाज,  
अविश्वसनीय।

अभरवसा - पु भरोसे का  
अभाव, धोखा, निराशा,  
विश्वासघात।

अमर-स्त्री आकठ तृप्ति, पूरा  
सतोप, छकना, अघाना, दिल  
मर जाना। - वि छकाछक, तृप्त।

अभागी, अभाग्यवान - वि  
अभागी, अभागा, बदकिस्मत,  
कमवस्त्र, बदबस्त्र, बदनसीव।

अभाडकुभाड - न तोहमत,  
झूठा इलजाम, मिथ्या आरोप।

अभारण - न सोंपना, भार  
डालना।

अभाव - पु १ अभाव, कमी।  
२ न होना, नेस्ती, अनस्तित्व।  
३ नास्तिकता, नास्तिक्य वृद्धि।

अभाविक - १ अश्रद्ध, श्रद्धा-  
हीन, नास्तिक। २ अभाविक,  
अकल्पित। ३ आकस्मिक, अचानक  
होने वाला, इत्तिफाकी।  
- पणें - अव्य अचानक, अक-  
स्मात्, अनजान में, सहज।

अभावितपणे - अव्य अचानक,  
सहसा, अकस्मात्, हठात्, मयोग-  
वश, इत्तिफाकन्।

अभावी - अव्य. १ अभाव में,  
न होने पर। २ वजाय।

अभाळ - न १ आकाश, आस-  
मान। २ बादल, अम्र, बादलो  
में भरा आकाश। ३ सकट,  
विप्लव। मु. - कोसळणें - आस-  
मान टूटना, अचानक भारी विपद्  
आ पटना, दैव का कोप होना। -  
ठेंगणें होणें, - डोक्यास टेकणें, -  
दोन बोटें उरणें - बहुत अधिक  
गर्व, घमड होना, आममान पर  
चढ़ना। - फाटणें - आममान फटना,

दे 'आकाश कोसळणे'। - येणें -  
१ बादलो का विर आना। -  
अभाळाची सावली - १ अम्र-  
छाया, बादल का साया। २. क्षण-  
भंगुर वात, पानी का बुलबुला।  
अभाळाशीं भाडणें - १ आस-  
मान से वाते करना, आसमान  
छूना, बहुत ऊँचा होना। २ बहुत  
अगडालू होना, वात-वात में  
अगडा करना।

अभिजात-रूप - वि १ अभि-  
जात, उच्च कुल में उत्पन्न,  
कुलीन, सम्भ्रात। २ उच्च कोटि  
का, प्रथम श्रेणी का, क्लायीकी,  
'क्लैसिकल'। - वाडमय - न  
उच्च कोटि का साहित्य।

अभिज्ञ - वि १ अभिज्ञ,  
जानने वाला, जानकार। २  
कुशल, निपुण।

अभिज्ञात - वि अच्छी तरह  
जाना हुआ, ज्ञात, मालूम।

अभिज्ञान - न १ अभिज्ञान,  
जानना, संपूर्ण ज्ञान। २ पहचान,  
निशानी, मुद्रा की छाप, मुहर।

अभिधान - न १ अभिधान,  
नाम। २ कथन, उल्लेख। ३  
शब्दकोश, लुगत।

अभिधायक - वि १ नाम देने,  
कहने या प्रकट करने वाला,  
उल्लेख करने वाला। २ (अर्थ  
विशेष का) वाचक, द्योतक।

अभिनदन - न अभिनदन,  
बधाई, माधुवाद, मुबारकवाद।

अभिनय - पु अभिनय, नकल,  
स्वांग।

अभिनव - वि १ अभिनव,  
विलकुल नया, नूतन। २ अपूर्व,  
अद्भुत, विलक्षण।

अभिनिविष्ट - वि १ अभि-  
निवेशयुक्त, ध्यान देने वाला,

दत्तचित्त। २ निपुण, परिचित,  
घमडी।

अभिनिवेश - पु १ अभि-  
निवेश, जिद, आग्रह, निश्चय,  
उत्कट या दृढ़ अनुराग, पक्की  
लगन। २ एकाग्रता, उत्मुक्तता,  
तल्लीनता। ३ निपुणता। ४. अह-  
कार, अभिमान, घमड।

अभिनिवेशी - वि जिद्दी,  
हठी, मानी।

अभिपट्टी - स्त्री अतिरिक्त कर।

अभिप्राय \* - पु १ अभिप्राय,  
अर्थ, उद्देश्य, मतलब। २ साराण।  
३ मत, राय।

अभिप्रेत - वि १ अभिप्रेत,  
उद्दिष्ट, अभिलपित। २ प्रस्ता-  
वित, सोचा हुआ। ३ इष्ट,  
प्रिय। - न अर्थ, हेतु, उद्देश्य,  
साराण।

अभिभूत - वि १ अभिभूत,  
प्रभावित। २ पराजित, हारा  
हुआ।

अभिमन्त्रण - न १ अभिमन्त्रण,  
मन्त्र द्वारा मस्कार या पवित्र  
करना। २ आवाहन।

अभिमन्त्रणे - क्रि स मन्त्र द्वारा  
मस्कार या पवित्र करना, मन्त्र  
पढ़ना।

अभिमत - वि अभिमत, प्रिय,  
मनचाहा, सम्मत।

अभिमान - पु १ अभिमान,  
स्वाभिमान, गर्व, गरूर। २  
आत्मसम्मान, मान। ३ घमड।  
- घन - वि मानवन, प्रतिष्ठा  
ही जिसका पन हो। - शून्य - वि  
जिसमें आत्मसम्मान की भावन  
न हो।

अभिमानो - वि १ अभिमानो,  
मानी, स्वाभिमानो। २ घमडी,  
मगरूर, दर्पी।

अभिमुख - वि १ अभिमुख, मुखातिव, जो किसी की ओर मुख किये हुए हो। २ प्रवृत्त, उद्यत, तैयार। ३ अनुकूल।

अभियुक्त - वि १ अभियुक्त, मुलजिम, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। २ पूज्य, पवित्र। ३ अभिजात। ४ अवि-कार रखने वाला।

अभियोग - पु. १ अभियोग, अपराध-विशेष का आरोप, नालिज। २ वाद, युद्ध, झगडा। ३ मनन, चिंतन, लगन, अन्य-वसाय।

अभिराम - वि १ अभिराम, मुदर, रमणीय। २ अच्छा लगने वाला, सुखद, आनददायक।

अभिरुचि - स्त्री १ अभिरुचि, चाह, शौक, 'टेस्ट'। २ झुकाव, विशेष रुचि, दिलचस्पी।

अभिरूप - वि १ सदृश, जैसा, कृत्रिम, प्रतिरूप, वनावटी, नकली, 'मॉक'। २ अभिरूप, मुदर, मनोहर। - लोकसभा, - ससद - स्त्री 'मॉक पार्लियामेंट'।

अभिलपित - वि १ अभिल-पित, चाहा हुआ, वाञ्छित। २ इष्ट, प्रिय। - न इष्ट वस्तु, चाही हुई बात।

अभिलाष\* - पु १ अभिलाष, अभिलाषा, प्राप्ति की इच्छा। २ लालच। ३ अपहार, अपहरण की इच्छा।

अभिलाष(ख)णें - \* क्रि स चाहना, अभिलाष करना।

अभिलाषी - वि अभिलाषी, चाहने वाला, इच्छुक, लालची।

अभिवदन - न अभिवदन, प्रणाम, वदन, नमस्कार।

अभिवचन - न अभिवचन,

वादा, आश्रयामन, डकरार।

अभिवृद्धि - स्त्री. अभिवृद्धि, श्रीवृद्धि, अम्युदय, वढती।

अभिव्यंजक - वि अभिव्यजक, प्रकट करने वाला।

अभिव्यक्त - वि अभिव्यक्त, प्रकट, स्पष्ट, जाहिर।

अभिव्यक्ति - स्त्री अभिव्यक्ति, अभिव्यजना, व्यक्त, प्रकट होना या करना।

अभिशाप - पु १ अभिशाप, शाप, किसी का बुरा मनाना। २ मिथ्या आरोप।

अभिषेक - पु १ अभिषेक, जठ छिडकना। २ राज्याभिषेक, राज्यागेहण, गद्दीनथीनी।

अभिषेकणें - क्रि स अभिषेक करना।

अभिसधि - पु अभिसधि, लक्ष्य, उद्देश्य।

अभिसरण - न १ इधर-उधर दौडना, वहना, अपसर्पण, प्रना-रण, विमरण, विमृति, 'डिफ्यू-जन'। २ परिमन्त्रण, परिमचरण, परिवहन, 'सक्युलिशन'। ३ मिलने के लिए जाना, के पाम जाना, पहुँचना।

अभिसार - पु १ अभिसार, प्रिय से मिलने के लिए जाना। २ नकेत-म्यल। ३ दे 'अभिसरण'।

अभिसारिका - स्त्री अभिसा-रिका, प्रिय से मिलने के लिए निद्रिष्ट म्यानपर जाने वाली स्त्री।

अभिस्राट - न [अ 'ऐव-स्ट्रैक्ट'] वेतनपत्र, चिट्ठावही, हिनाव का चिट्ठा, गोगवारा, 'ऐवस्ट्रैक्ट', 'पेविल'।

अभिहत - वि १ वगीभूत, विनीत, नम्र। २ अभिहत, पीटा गया, पराभूत।

अभिहित - वि अभिहित; कहा हुआ, उक्त।

अभीप्सित - वि अभीप्सित, वाञ्छित, चाहा हुआ। - न. १ कल्याण, हित। २ इच्छा, अभि-त्रापा।

अभीष्ट - वि अभीष्ट, चाहा हुआ, प्रिय। - न १ अभिष्टपित वस्तु, मनोरय। २ हित, कल्याण, भलाई। - चितक - वि हित-चिन्तक, हिर्नपी; हितच्छु, शुभ-चिन्तक, खैरवाह। - चितन - न शुभेच्छा, खैरवाही।

अभेद - पु अभेद, भेद का अभाव, एतना, एतम्पता। - वि अभिन्न, भेदरहित, उविभक्त। - भाव - पु, - मत - न जीव और ब्रह्म का अभेद बनाने वाला दर्शन, अद्वैतवाद।

अभेद्य - वि १ अभेद्य, अमग, अटूट। २ जिनमें घुमा न जा सके।

अभोज्य - वि अभोज्य, न खाने योग्य, जिमके खाने का निषेध हो।

अभोज्य\* - वि दुर्वच, अगस्त, कमजोर।

अभ्यग - न १ अभ्यग, लेपन, तेल, उवटन आदि की मालिश। २ चर्चन, 'अंकन' (ईमाई)। - स्नान - न तेल, उवटन आदि मलकर किया हुआ स्नान।

अभ्यतर - न १ अभ्यतर, अतरग, वस्तु का भीतरी भाग। २ अवकाश, भीतर का, बीच का भाग। ३ हृदय, अत करण।

अभ्यर्थना - स्त्री १ अभ्यर्थना, विनती, प्रार्थना। २ दरल्लास्त, अर्जो।

अभ्यस्त - वि १ अभ्यस्त, परिचित, कुशल, मंजा हुआ,

निपुण, पक्का, आदी । २ अच्छी तरह सीखा हुआ, मशक किया हुआ, अधीत ।

अभ्यागत - पु १ अभ्यागत, अतिथि, मेहमान २ \* सत्कार, अगवानी, आतिथ्य, पहुनाई ।

अभ्यास - पु १ अभ्यास, किमी काम को बारबार करना, मशक । २ पढाई, अध्ययन, तालीम । ३ कुशलता, योग्यता । ४ आवृत्ति, पुनरुक्ति ।

अभ्यासणें - क्रि स १ अध्ययन करना, पढना । २ आदत डालना । ३ कठ करना ।

अभ्यासी - सू - वि १ अध्ययनशील, अच्छी तरह पढाई करने वाला, लगन से पढनेवाला । २ अभ्यास करने वाला, सावक, दे 'अभ्यस्त' ।

अभ्युत्थान - न १ अभ्युत्थान, उठना, किमी के सम्मान में उठकर खडा हो जाना । २ उदय, उत्कर्ष ।

अभ्युदय - पु १ अभ्युदय, ऊपर उठना, मूर्य-चद्रादि का उदय । २ समृद्धि, उत्कर्ष, श्रीवृद्धि, वरकत, अफजाइश ।

अभ्युपगम - पु १ अभ्युपगम, पास जाना, पहुँचना । २ मानना, स्वीकार करना । ३ समानता, तुल्यभाव ।

अभ्युपेत्यवाद - पु अभ्युपगम-सिद्धात, परीक्षा के लिए पहले स्वीकार कर पीछे खडन करना ।

अभ्र - न १ अभ्र, बादल । २ बदली, घटा, छाये हुए बादल । ३ आकाश, आसमान । ४ सकट, आफत । - पडल, - पडळ - न बदली, घटा ।

अभ्रक - पु न अभ्रक, अव-रक, भोडर-ल ।

अभ्रा - पु १ गिलाफ, खोल, खोल, आवरण, खोली । २ छाते का कपडा ।

अमगळ - वि अमगळ, अशम, अकल्याण-कर, मनहूस । - न अकल्याण, अनिष्ट, बुराई ।

अमइ\* - अव्य दैया री, मैया री, आश्चर्यसूचक शब्द (स्त्रि) ।

अमका\* - वि अमुक, फलाँ, ऐसा-ऐसा । - डमका, -तमका - वि कोई, कोई खास, फलाँ ।

अमटी - स्त्री खट्टी दाल, वह पकी दाल जिसमें इमली, अमचूर आदि खट्टी चीज पडी हो ।

अमद (दा)नी - स्त्री [ फा 'आमदनी' ] १ कार्यकाल, शासनकाल, हुकूमत, अमलदारी, जमाना । २ आमदनी, आय । ३ उत्कर्षकाल ।

अमनस्क - वि अमनस्क, अनमना, अन्यमनस्क, खोया हुआ, उदास ।

अमर - वि अमर, न मरने वाला, अविनाशी । - पु देवता । - कद - पु अमर वेल का कद, गुडूची । - पट्टा - पु , पत्र - न

अमरता का ताम्रपट या आश्वामन, मृत्यु से मुक्ति की अनुज्ञा । - पण - न अमरता, अमरत्व । - वेल - स्त्री अमरवेल, अकासवेल, आकाश - लता । - साहित्य - न मृत्यु से बचाने वाला साधन, कवच, जिरह, वस्त्र ।

अमराई - स्त्री अमराई, आम का बाग ।

अमर्याद - वि १ अमीम, वेहद, बहुत अधिक । २ अमर्याद, मर्यादा का उल्लघन करने वाला । ३ अनाचारी, स्वेच्छाचारी ।

अमर्यादा - स्त्री १ अमर्यादा, अनादर, उद्दडता, हीनता । २ सीमा या मर्यादा का उल्लघन ।

अमल - वि १ अमल, मल-रहित; स्वच्छ । २ निष्पाप ।

अमल - पु [ अ ] अधिकार, शासन, सत्ता, हुकूमत । २ तामील, कार्यान्विति, अमल करना, (हुकम) बजा लाना । ३ नशा । ४ नशा लानेवाली चीज ।

५ समय, काल, जमाना । - दार - पु अधिकारी, अफसर । - दारी - स्त्री अमलदारी, अधिकार, राज्य, हुकूमत । - वजावणी - स्त्री अमलदरामद, जाप्ता कार-वाई, तामील, कार्यान्विति ।

मु - करणें - अमलपानी करना, नशा करना, भग पीना । - गाज-विणें - अधिकार, हुकूमत चलाना ।

अमलात आणणें - कार्यान्वित करना, कारवाई करना ।

अमला - पु [ अ ] कर्मचारी-वर्ग, कर्मचारी मडल, अधिकारी, क्लर्क आदि, 'स्टाफ' । - फैला - पु १ अमल, अधिकार, कब्जा । २ क्लर्क, कर्मचारी गण, नाँकर-चाकर ।

अमला - पु कान में पहनने का सोने का झुमका ।

अमली - वि [ अ. ] १ जो अधिकार या कब्जे में हो । २ नशा लानेवाला । ३ नशेबाज । - पदार्थ - पु नशा लानेवाली चीज ।

अमवाळ\* - वि खट्टा ।

अमसू(सो)ल - न रातावी, कौकम या कौकव नामक पेड के फल की छाल जो सुखाकर अमचूर की तरह खटाम के लिए भोजन में डाली जाती है ।

अमसूळ - वि कुछ-कुछ खट्टा ।



का।- वि इस लोक का, जीवित।  
- न इहलोक, मृत्युलोक। मु-ना  
परत्र- न इधर न उधर, बीच  
में, अधर में, दुविधा में।

अरवचरव - दे 'अरवट'।

अरवट - वि १ वेम्वाद,  
वेमजा, मीठा, नि मत्त्व। २  
आवारा, गुडा, निर्लज्ज। - न  
वकझक, वकवास, वाहियात  
वाते। - अव्य वेकार, वाहियान  
ढग से, व्यर्थ। - चरवट - वि न  
अव्य दे 'अरवट'। - दाड - वि  
१ जगली, अमम्य। २ वींगन,  
गुडा, मुस्टडा।

अरवी - वि [अ] अरव-  
सवधी। - पु १ अरव निवामी।  
२ अरव का या अरवी नम्लो का  
घोडा या उट। - स्त्री अरव की  
भापा। - तगादा - पु अरव  
सैनिको द्वारा किया जाने वाग  
तकाजा। - पहारा - पु अरव  
मिपाहियो की चौकी, बडी नस्ती  
में दिया जाने वाला पहरा।

अरवु(वू)ज - द - वि १  
उजड्ड, असम्य, गँवार, जगली,  
वीगरा, मुस्टडा। २ चालाक,  
काइयाँ।

अरमार - न दे 'आरमार'।

अरर - अव्य अरर। अरे।  
हाय। उफ।

अरवा - वि १ नाजुक। २  
कुरकुरा, खस्ता। ३ मुलायम।

अरवार - छ - वि १ हल्का,  
कुरकुरा, खस्ता, भुरभुरा। २  
नरम, मुलायम। ३ नाजुक,  
कोमल, सुकुमार। - स्त्री नाजुक  
शय्या, मुलायम सेज।

अरवाळी - स्त्री शरारत, नट-  
खटी। - वि नटखट, शरीर।

अरशी

ऐनक। २ छोटा धीगा, आर्टना,  
आरमी।

अरस - वि १ अरम, रम-  
हीन, नीरम। २ वेमजा, वेम्वाद।

अरसपरस - अव्य. १ आम-  
पाम, नजदीक, चारो ओर। २  
दे 'औरसचौरस'।

अरसा - पु दे 'आरसा'।

अरसिक - वि १ अरमिक,  
काव्य, मगीत आदि का रस लेने  
में अममर्थ, रग्या, रूखे न्वभाव  
का। २ वेमजा, वेम्वाद, नीरम,  
फीका।

अरळ - न [क 'अरळ']  
फूत्र। - वि १ मुलायम, नाजुक,  
नरम। २ खस्ता, जगमा दवाने  
में चूर हो जाने वाग, बहुत  
नरम, कुकुरा। - अव्य. वीरे  
में, आहिस्ता में।

अरळ, अरळतरळ - वि १  
टीला, ढीला-डाला। २ अव्यव-  
स्थित, टेढामेढा। ३ अनिश्चित,  
मदिग्व, गोल-मोल। - अव्य  
ढिलाई में, अव्यवस्थित ढग में,  
मदिग्व रूप से।

अराकस - पु आराकश।

अराखडा - पु १ अदाजा,  
खाका, ढाँचा। २ तखमीना,  
वज्रट। ३ रूपरेखा, वहि रेखा,  
आउट-लाइन'। ४ खगंच।

अराजक - वि अराजक,  
अराजकतावादी, निगजी, 'अना-  
किस्ट'। - न १ राजा या राज-  
मत्ता, शासन आदि का न होना,  
निराज। २ विप्लव, बलवा।  
३ बन्मली, चौपटगाज, अफगा-

- स्त्री दे 'अरा-

एक कैंटीला

झाट, बल्ली मंदिर, बबुरी,  
आगी, जाल बर्बुरक, म्यूकटक।

अराणूक - स्त्री १ विग्राम,  
म्वास्य, फुरमन। २ गानि,  
मतोप। ३ कोशिश, श्रम।

अरावा - स्त्री पु [अ.] १  
तोप लाने की गाठी। २ तोपों म  
गोठे बरमाना, गोठीकाट। ३  
घरा, व्यूह। ४ लवाजिमा, जम्गी  
नामान, उपकरण। ५ ठाठ,  
धाटवग। ६ जझट, गडबडी।  
मु - पिणें - धनु के गोठीकाट  
की परवाह किये बिना उमकी  
फौज में घुमना।

अराम - पु दे 'आगम'।

अराल - वि टेढा, विपरीत।

अराप-स-मी - स्त्री [फा.  
'आराडग'] आराडग, मजावट,  
गोभा, ठाठ।

अरिष्ट - न १ अरिष्ट,  
अनिष्ट, अशुभ, अमगल बात या  
घटना। २ मकट, आफत, बला।  
३ भूकपादि उत्पात। ४ अनर्थ-  
कारी अतिरेक। ५ दवाओं के  
खमीर में बनाया जाने वाला  
मादक अर्क, मद्य। ६ मृत्युचक  
लक्षण। ७ मूतिकागृह, सौरी। -  
वि कठिन, मुश्किल, प्रचंड।

अरी - स्त्री १ आरी, आरा,  
चमडा सीने का सूजा, टेकुरी।

२ अनी, नोक, नोकदार कील।  
अरुद - वि सेंकरा, नग, छोटा।

अरुचि - स्त्री १ अरुचि,  
(किमी वस्तु का) अच्छा न  
लगना, अनिच्छा, विरक्ति। २  
भूख के रहते हुए भी खाने की  
इच्छा न होना। ३ अस्वीकृति,  
अमान्यता।

अरुता \* - अव्य इधर, इम  
ओर।

अयश<sup>+</sup> - दे ' ऐप ' ।

अया-ध्या - पु [ क ' अय्य ' ]

१ महाशय, जनाव । २ लिंगायत संप्रदाय के गुरु, जगम । ३ सज्जन, आदमी, गहस । ४ पुजारी । ५ रमोडया ।

अया-ध्या - स्त्री [ पुर्त ]

आया, बच्चो को दूध पिलाने-वाली स्त्री, बाय ।

अयाचित - वि १. अयाचित, न मांगा हुआ । २ विना मांगे मिला हुआ । - वृत्ति - स्त्री, - व्रत - न अयाचित वृत्ति, अयाचित व्रत, विना मांगे मिलने वाली मीखपर गुजर करने का व्रत, मतोपवृत्ति ।

अयाचित - अव्य अकस्मात्, अचानक । (स्त्रि) ।

अयाळ - स्त्री [ फा ' अयाळ ' ]

अयाळ, घोडे या सिंह की गर्दनपर के बाल ।

अयाळ<sup>+</sup> - स्त्री [ अ ' डयाळ ' ]

विधवा स्त्री का नाम लिखते समय पति के नाम से पहले लिखा जाने वाला शब्द ।

अयुक्त - वि १ अयुक्त, न जोडा हुआ । २ अनुचित, असगत, असवद्ध । - पण - न अलगव, पार्थक्य, चचलता ।

अये - अव्य अये, अयि, हे, ऐ, अरी (सवोधन) ।

अयोग्य - वि १ अयोग्य, अनुचित, नामुनासिब । २ निरूपयोगी, निरर्थक, बेकार । ३ नालायक, अपात्र, निकम्मा ।

अयौतक - न स्त्री वन का एक प्रकार, स्त्री को विवाह के अवसर को छोड़ अन्य अवसरपर मिला हुआ वन ।

अय्या - अव्य १ ओह, ओफ

(स्त्रि) २ दे ' अया ' ।

अरकशी-बरकशी - स्त्री

झगडा, झझट, तू-तू मैं-मैं ।

अरकशी - पु. आराकश ।

अरकस - पु १ आराकश, आरा चलाने वाला । २ आरा । - बरकस - स्त्री १ खराब, सत्त्वहीन अन्न । २ बेकार की बातें, बाहियात बकझक । ३ झगडा ।

अरकाट - न अरकाट, तमिळनाडु राज्य का एक नगर ।

अरकाट - वि १ चालाक, लुच्चा, बदमाश । २ झगडालू ।

अरगडी<sup>+</sup> - स्त्री हलके किस्म की ज्वार, जो जेठ में बोयी जाती है और तीन महीने में तैयार होती है ।

अरगळणें<sup>+</sup> - क्रि अ झंझलाना, अटकना ।

अरगिन - पु मिट्टी के तेल का लटकता हुआ दिया ।

अरड<sup>+</sup> - स्त्री हो हल्ला, शोर-गुल ।

अरडणें<sup>+</sup> - क्रि अ चिल्लाना, रोना-पीटना, हाय तोवा मचाना ।

अरडा<sup>+</sup> - पु हो हल्ला, हाय तोवा, चिल्लाहट, । - ओरड - स्त्री, - ओरडा - पु शोरगुल, हो हल्ला ।

अरडों-दरडों - अव्य गड्ढों में, जगलों में, खतरे में, मु - पडणें - खतरे में फँसना ।

अरडी-दरडी - स्त्री कगार, करारा, पहाडों में खतरे का स्थान ।

अरडचा - वि चिल्लाने वाला, शोरगुल मचाने वाला ।

अरणी - स्त्री १ रणागण, युद्धक्षेत्र । २ \* नेता, मेनापति । ३ सेनाव्यूह ।

अरणी<sup>+</sup> - स्त्री निहाई, आहरन ।

अरणें - क्रि अ १ जमना, गाढा वनना । २ कसना, तग होना ।

अरण्य - न १ अरण्य, वन, जगल । २ परती या वीरान भूमि । - पडित - पु अरण्यपडित, ऐसा मनुष्य जो वन में ही (जहाँ कोई मुनने-टोकने वाला नहीं होता) अपना पांडित्य प्रकट कर सके, मूर्ख । - रुदन, - रुदित, - रोदन, - न अरण्यरुदित, अरण्यरोदन, अरण्यविलाप, ऐसा रोना जिसे कोई मुनने वाला न हो, निष्फल कथन, निवेदन आदि । - वास - पु तपस्या के लिए वस्ती छोड़ कर वन में रहना, वनवास । - सेवन - न अरण्य में जा कर रहना । - सेवी वि अरण्यवासी, अरण्य में रहने वाला ।

अरतणे - परतणें - क्रि स उलटा - सीधा या ऊपर-नीचे करना, पलटना ।

अरतवण - परतवण - न नई वृह का नैहर और मसुराल जाना - आना ।

अर (रु) ता - ती - तें - अव्य १ इधर, यहाँ, इस ओर । २ आजकल । - वि विगेष प्रिय । - परता - अव्य १ इधर - उधर, डमपार - उस पार, दोनों तरफ । २ वहीपर । - वि १ इधर-उधर का, इस तरफ का, उस तरफ का, दोनों ओर का । २ मामूली, साधारण, क्षुद्र ।

अरती - स्त्री १ अरति, विरक्ति, जी ऊवना, उचाट । २ अमतोष ।

अरती<sup>+</sup> - स्त्री दे ' आरती ' । अरत्र - अव्य यहाँ, इस लोक

का।-वि इस लोक का, जीवित।  
-न इहलोक, मृत्युलोक। मु-ना  
परत्र-न डवर न उवर, व्रीच  
मे, अवर में, दुविधा में।

अरवचरव-दे 'अरवट'।

अरवट-वि १ वेस्वाद,  
वेमजा, मीठा, नि मत्त्व। २  
आवारा, गुडा, निर्लज्ज।-न  
वकअक, वकवाम, वाहियात  
वाते।-अव्य वेकार, वाहियात  
दग मे, व्यर्थ।-चरवट-वि न  
अव्य दे 'अरवट'।-दांड-वि  
१ जगली, अमम्य। २ वीगरा,  
गुडा, मुन्टडा।

अरवी-वि [अ] अरव-  
मववी।-पु १ अरव निवामी।  
२ अरव का या अरवी नन्लो का  
घोडा या उट।-स्त्री अरव की  
भापा।-तगादा-पु अरव  
मैनिको द्वारा किया जाने वाला  
तकात्रा।-पहारा-पु अरव  
मिपाहियो की चाँकी, बडी नस्ती  
मे दिया जाने वाला पहरा।

अरवु(वू)ज-द-वि १  
उजड्ड, अमम्य, गँवार, जगली,  
वीगरा, मुन्टडा। २ चालाक,  
काडयाँ।

अरमार-न दे 'आरमार'।

अरर-अव्य अरर। अरे।  
हाय। उफ।

अरवा-वि १ नाजुक। २  
कुरकुरा, खस्ता। ३ मुलायम।

अरवार-ळ-वि १ हलका,  
कुरकुरा, खस्ता, भुरभुरा। २  
नरम, मुलायम। ३ नाजुक,  
कोमल, मुकुमार।-स्त्री नाजूक  
गय्या, मुनायम सेज।

अरवाळी-स्त्री अरारत, नट-  
खटी।-वि नटखट, शरीर।

अरशी-सी-स्त्री १ चग्मा,

ऐनक। २ छोटा मीठा, आईना,  
आरमी।

अरस-वि १ अरम, रम-  
हीन, नीरम। २ वेमजा, वेस्वाद।

अरसपरस-अव्य. १ आम-  
पाम, नजदीक, चारो ओर। २  
दे 'ओरमचौरम'।

अरसा-पु दे 'आरसा'।

अरसिक-वि १ अरसिक,  
काव्य, मगीत आदि का रम लेने  
में अममय, ह्ख्ता, रुखे स्वभाव  
का। २ वेमजा, वेस्वाद, नीरम,  
फीका।

अरळ-न [क 'अरळ']  
फूठ।-वि १ मुलायम, नाजुक,  
नरम। २ खस्ता, जरामा ढवाने  
में चूर हो जाने वाला, बहुत  
नरम, कुकुरा।-अव्य धीरे  
में, आहिस्ता में।

अरळ, अरळतरळ-वि १  
ढीला, ढीला-डाला। २ अव्यव-  
स्थित, टेढामेढा। ३ अनिश्चिन,  
मदिग्व, गोल-मोल।-अव्य  
ढिलाई में, अव्यवस्थित दग मे,  
मदिग्व रूप से।

अराकस-पु आराकस।

अराखडा-पु १ अदाजा,  
खाका, ढाँचा। २ तखमीना,  
वज्रट। ३ रूपरेखा, वहि रेखा,  
आउट-लाइन'। ४ खरोच।

अराजक-वि अराजक,  
अराजकतावादी, निराजी, 'अना-  
किन्ट'।-न १ राजा या राज-  
मत्ता, शासन आदि का न होना,  
निराज। २ विप्लव, बलवा।  
३ बदअमली, चौपटराज, अफग-  
तफगी।

अराजकता-स्त्री दे 'अरा-  
जक'-न।

अराटी-स्त्री एक कँटीला

झाड, वल्ली खदिर, बवुरी,  
आरी, जाल बर्वुरक, म्यूलकटक।

अराणूक-स्त्री १. विश्राम,  
स्वास्थ्य, फुरसत। २ गाति,  
मतोप। ३ कौशिय, श्रम।

अरावा-स्त्री पु [अ] १  
तोप लाने की गाडी। २ तोपों में  
गोले बरमाना, गोलीकाड। ३  
घरा, व्यूह। ४ लवाजिमा, जन्मरी  
मामान, उपकरण। ५ ठाठ,  
आडवर। ६ झगट, गडबडी।  
मु-पिणें-अत्रु के गोलीकाड  
की परवाह किये बिना उसकी  
फौज में घुमना।

अराम-पु दे 'आराम'।

अराल-वि टेढा, विपरीत।

अराष-स-सी-स्त्री [फा  
'आराइग'] आराइग, मजाबट,  
गोभा, ठाठ।

अरिष्ट-न १ अरिष्ट,  
अनिष्ट, अशुभ, अमगल बात या  
घटना। २ सकट, आफत, बला।  
३ भूकपादि उत्पात। ४ अनर्थ-  
कारी अतिरेक। ५ दवात्रो के  
खमीर से बनाया जाने वाला  
मादक अर्क, मद्य। ६ मृत्युसूचक  
लक्षण। ७ मूतिकागृह, मौगी।-  
वि कठिन, मुश्किल, प्रचड।

अरी-स्त्री १ आरी, आरा,  
चमडा सीने का सूजा, टेकुरी।

२ अनी, नोक, नोकदार कील।

अरुद-वि सँकरा, तग, छोटा।

अरुचि-स्त्री १ अरुचि,  
(किमी वस्तु का) अच्छा न  
लगना, अनिच्छा, विरक्ति। २  
भूख के रहते हुए भी खाने की  
इच्छा न होना। ३ अस्वीकृति,  
अमान्यता।

अरुता \* -अव्य डवर, डम  
ओर।

अथता \* - स्त्री १. हक, अधिकार । २. स्थान, योग्यता । ३. आवश्यकता ।

अरुवार \* - वि १. कोमल, नाजुक, मृदु, मुलायम । २. कुर-कुरा; भुरभुरा । ३. हलका । - न मृदु शय्या ।

अरे - अव्य अरे, अवे, वे, छोटे या समवयस्क पुरुषों के लिए व्यवहृत और प्रायः धनिष्ठता या तिरस्कार-सूचक मवीधन, आश्चर्य, आकुलता आदि प्रकट करने वाला उद्गार । - जारे - स्त्री १. धनिष्ठता । २. तुच्छता, तिरस्कार । - तुरे - स्त्री तूतडाक, तू-तू मै-मै । - वापरे - अव्य वापरे, वाप रे वाप, दुख या भय सूचित करने वाला उद्गार । - राव - वि पु. १. दूसरे को 'अरे' कहकर पुकारने वाला, घमडी । २. धीगरा, असम्य, उद्वत । ३. जालिम, अत्याचारी । - रावकी, - रावी - स्त्री १. अन्याय, जुल्म, अत्याचार । २. शेखी, घमड । मु - अरे करणें - मना करना, करने में रोकना । - तुरे करणें - १. तू कहकर पुकारना या बोलना । २. अशिष्टता में बातें करना । - तुरे वर यें - तू-तू मै-मै करना, झगडने पर उतारू होना ।

अरेकस - पु. आराकस ।

अरेरे - अव्य हाय, आह, हरे गम, क्लेश, शोक, वेदना आदि का सूचक उद्गार ।

अरोचक - पु. १. अरुचि, अग्नि-माद्य । २. ऊत्र, उक्ताहट, उचाट । - वि अरोचक, अरुचिकर, अप्रिय ।

अरोळी - स्त्री वाटी, अगा-कडी, लिट्टी, अगारोपर सेकी हुई छोटी, मोटी रोटी ।

अरोळी - स्त्री चीख, पुकार, चिल्लाहट ।

अर्क - पु. [ अ. 'अर्क' ] १. अर्क, सत्वाग, रम, निचोड, सार । २. गूदा, सारभाग । ३. लुच्चा, काइयाँ, वूर्त, चट व्यक्ति ।

अर्कट - वि लुच्चा, चट, वना हुआ, वदमाश, उन्ताद ।

अर्कटी - वि १. लुच्चा, चालाक, चट । २. हठी, जिदी ।

अर्गळ - ङा - स्त्री १. अर्गल, अर्गल, अर्गला, व्योडा, सिट-किनी, चटखनी । २. शृंखला, जजीर । ३. रोक, दमन, प्रतिवध ।

अर्घ्य - न अर्घ्य, देवता या पूजनीय पुरुष (वाह्याण) को सम-र्पित किया जाने वाला जल जिसमें दूध, दूध, चावल आदि डाला होता है । मु. - देणें - १. अर्घ्य अर्पण करना । २. नाश करना, पानी फेरना ।

अर्चणें \* - क्रि स पूजा, उपा-मना, मेवा करना, पूजना ।

अर्चन - न. अर्चन, पूजा, वदन ।

अर्चा - स्त्री १. अर्चा, पूजा । २. मूर्ति की स्थापना । ३. प्रतिमा जिसकी पूजा करनी हो ।

अर्चणें \* - क्रि स पूजा, उपा-सना, सेवा करना ।

अर्ज - पु. [ अ. ] १. अर्ज, अर्जी, निवेदन, प्रार्थना, प्रार्थना-पत्र । २. फरियाद, नालिश । - दार - पु. प्रार्थी, निवेदन, अर्जी पेश करने वाला । - दास्त - स्त्री अर्जदास्त, लिखित प्रार्थना, अर्जी ।

अर्ज (जि)णें - क्रि स १. प्राप्त करना, हासिल करना । २. अर्ज करना, प्रार्थना करना ।

अर्जी - स्त्री [ अ. 'अर्जी' ]

अर्जी, प्रार्थनापत्र, दरस्वास्त । - मर्जी - स्त्री मित्रता, स्नेह ।

अजुन-सादडा - पु. अर्जुन वृक्ष, कौह ।

अर्थ - पु. १. अर्थ, अभिप्राय, मानी, मतलब । २. हेतु, उद्देश । ३. धन, दौलत, संपत्ति, पैसा । ४. ठोस चीज, मत्त्व, दम । - दास वि धन का लोभी, पैसे के लिये चाहे जो करने वाला । - शास्त्र - न अर्थविज्ञान, 'इकॉनॉमिक्स' । मु. यात काय अर्थ आहे ? इस में क्या बरा है ?

अर्थाअर्थी - अव्य किसी भी प्रकार से, दूर का भी, तनिक भी, बिलकुल, कतई ।

अर्थात् - अव्य १. अलवत्ता, वैशक । २. वस्तुतः, वास्तव में, परिणाम स्वरूप ।

अर्थी - अव्य १. अर्थ में । २. कि, लिए । (ज्या अर्थी = जवकि) ।

अथ - अव्य लिए, वास्ते ।

अर्ध - न आधा भाग । - वि अर्ध, आधा, निस्फ । - कच्चा - वि अवकचरा, अपक्व, अधूरा । - पिक्का - वि अधपक्का । - पोटी - अव्य विना भरपेट खाये हुए, भूखो । - मेला - वि अधमरा, अधमुआ । - वट - १. अधूरा, अपूर्ण । २. अधपगला, मिडी, बावला । - अव्य. १. अधूरे ढग में । २. अनमनेपन में, ऊपर-ऊपर । - विराम - पु. १. अर्धविराम । २. अर्धविरामचिह्न । - शिशी - स्त्री आधामीसी, आधे मिर का दर्द । मु. - चद्र देणें - अर्धचद्र देना, गरदनियाँ देना, गरदन नापना, धक्के देकर निकाल बाहर करना । अर्धल-ली-त्या - वि पु. दे 'अर्वल' ।

अर्धांग - न १ अर्धांग, अर्धांग, आधी देह, गोद । २ पत्नी, स्त्री । ३ मित्र । ४ पक्षाघान, फाल्जि । - वायु - पु फाल्जि, लकवा । [सहवर्मिणी ।

अर्धांगी-स्त्री अर्धांगिनी, पत्नी, अर्धा - वि आधा, निस्फ, नीम । - अधिक - वि आवे मे अधिक, आवे मे कुछ ज्यादा । - मुर्धा - वि लगभग आधा, आवे मे कुछ कम या ज्यादा । सु-जीव होणे - १ वीमारी, चिंता, कष्ट आदि के कारण बेजार होना, नाको दम आना, आधा होना, दुबला होना । २ अवीर होना । अर्ध्या हलकुडानें पिवळें होणे - थोडी-मी मफलता या यश मे इत-गना, घमड करना ।

अर्धा - वि स्त्री आधी । - म्हैस - स्त्री १ वह भैम जो चार वार व्यायी हो । २ अवेड या आधी उम्र की भैम ।

अर्ध - न आधा । - वचन - न नुरत फलदायी होने वाला वचन या अधिकार । सु अर्ध्या वचनात अमणे, वागणे - विनयपूर्वक आज्ञाकारी होना, बडी तत्परता के साथ आज्ञा का पालन करना ।

अर्धेल - स्त्री १ आधा हिस्सा, माझा । २ खेती या व्यवसाय में आमदनी का आधा हिस्सा पाना । ३ जमीन के बंदोबस्त की वह व्यवस्था जिमें मालिक को लगान के रूप में पैदावार का आधा भाग मिले । ४ इस व्यवस्था के अनुसार की जाने वाली माझेदारी । - तिर्थेल - स्त्री जमीन की पैदावार का तीमरा हिस्सा ।

अर्धेली-ल्या - वि खेती या व्यवसाय में पैदावार या आमदनी

का आधा हिस्सा पाने वाला, जमीन के मालिक को पैदावार का आधा भाग देने वाला ।

अर्पण - न १ अर्पण, देना, भेंट करना । २ दान करना । - पत्रिका - स्त्री समर्पण, उत्सर्ग, पुस्तिका वह पृष्ठ जिसमें उस व्यक्ति का नाम आदि लिखा हो, जिसे वह समर्पित हो, इस समर्पण में लिखे हुए शब्द ।

अर्प (पि)णे - क्रि स १ अर्पण करना, भेंट करना, दान करना । २ इनाम, पुरस्कार देना ।

अर्बुज - वि अर्बुद, दम करोड ।

अर्बुज - दे 'अरबुज' ।

अर्भक - न १ अर्भक, बालक, बच्चा, शिशु । २ नासमझ, अनाडी व्यक्ति ।

अन्या - पु फज्जीहत, युक्का-फज्जीहत, युडी ।

अर्वाक्-च - वि १ पहले का, नियत समय से पूर्व का । २ दे 'अर्वाच्य' । २ अव्य पहले, पूर्व, पेशतर ।

अर्वाचीन - वि अर्वाचीन, आधुनिक, नया, हाल का ।

अर्वाच्य - वि १ नीच, असभ्य, गदा, गंवार । २ नटखट, शरा-रती, आवारा, बदमाश, पाजी ।

अलंकरण - न अलकरण, सजाना, सजावट, अलकृत करना ।

अलकार - पु १ अलकार, आभूषण, गहना । २ रचनागत विशिष्ट शब्दयोजना या अर्थचमत्कार (सा०) ।

अलकारणें - क्रि अ स आभूषण पहनना, पहनाना, सजाना, अलकृत करना ।

अलकारिक - वि आलकारिक, अलकारयुक्त ।

अलकृत - वि अलकृत, अलकारयुक्त, भूपित, सजाया हुआ ।

अलकटपालकट, अलखटपालखट - ण - न स्त्री पलथी, बैठने का विशिष्ट ढग ।

अलग - वि अलग, जुदा, भिन्न ।

अलग, अलगज - अव्य १ अलग में, स्वनत्र रूप में । २ धीरे में, आहिस्ता में । ३ बिना किसी को स्पर्श किये, मीचे, ठेठ । ४ अवर में, लटकते हुए ।

अलगट - वि १ वाहियात । २ नटखट, शरीर ।

अलगड - स्त्री झंझट, अड-चन, परेशान करने वाली बात ।

अलगणें - क्रि अ लटकना, टेंगना, झूलना । [अव्य ।

अलगत - द - अव्य दे 'अलगज' अलगरजी-जू - वि [अ 'अलगज' ] १ अलगरज, अलगरजी, लापरवाह । २ ढीला, सुस्त । ३ खुदगर्ज, स्वार्थी ।

अलगुर्जे - न, अलगूज - न पु. वांमुरी, अलगोजा ।

अलटापालट - स्त्री उलट-पलट, उलटा - पलटी, उलट - पुलट, हेरफेर, परिवर्तन, बदल - बदल ।

अलता-भलता - वि १ ऐरा-गैरा, ऐसा-वैसा, तुच्छ । २ अजनबी, कोई एक ।

अलवत् - तां - अव्य [अ 'अलवत्' ] १ अलवत्ता, अवश्य, जरूर । २ कम ने कम ।

अलवत्या-गलवत्या - वि पु. कोई भी, इधर-उधर का, मावा-रण व्यक्ति, ऐरा-गैरा, अजनबी, ऐसा - वैसा, तुच्छ, नगण्य, ऐरा-गैरा नत्यू खैरा । [- बहू अलवते-गलवते ]

अलवेल - स्त्री [अ 'अल्ल-वेल'] सब ठीक है, सुव्यवस्था।

अलवेली - वि [हिं] १ हलका, ठीक, ढीला २ कमजोर, साधारण। ३ अलवेली, वांका, मनमौजी। ४ सुदर, अनूठा। ५ ऊपरी, अनिश्चित। [आसानी से।

अलवेली<sup>+</sup> - अव्य सहज, अलवेली - स्त्री [हिं] अलवेली स्त्री, विलासिनी। नखरेवाज, चोचलेवाज, रंगीली, खूबसूरत औरत।

अलम्य - वि १ अलम्य, अप्राप्य, दुर्लभ। २ बहुमूल्य, कमयाव, अनमोल। - लाभ - पु अनपेक्षित लाभ, बहुत दिनों के बाद होनेवाली मुलाकात।

अलम - पु [अ 'आलम'] १ जगत, दुनिया, ससार। २ समय, काल, स्थिति। - वि सारा, समूचा। - गीर - पु आलम-गीर, औरगजेव की उपाधि। - दुनिया - स्त्री सारा ससार, सब लोग। - पन्हा - वि आलम पनाह, ससार को शरण देने वाला।

अलमदड - वि धीगरा, उदत, उजहु।

अलमारी - स्त्री [पुर्त 'अलमारीया'] अलमारी, कई खानो वाला ऊँचा सद्क या आला।

अललल - अव्य अहह, ओहो, ओफ, विस्मयसूचक उद्गार। - डुरं - अव्य मराठी के पौराणिक नाटको में देवो और राक्षसो की लड़ाई में राक्षस 'अललल डुरं' कहकर चिल्लाते थे। इसलिए पौराणिक नाटको को 'अललल डुरंची नाटके' कहने थे।

अलवण-णी - वि विना नमक का, अलोना, त्रेमजा, फीका। - दे म हि श कोश ..४

'अलवान'।

अलवान - स्त्री न [अ] १ एक तरह का ऊनी शाल। २ एक प्रकार का लाल कपडा जिसे अक्मर विघवाएँ पहनती थी।

अलसदा - पु चौलाई या लोविया जैसा एक मोटा दलहन या अनाज।

अलाई-वलाई, अलाय-वलाय - स्त्री [अ 'वला'] १ वलाएँ, वलायें, वलैया। २ बला, कष्ट, आपत्ति। ३ भूत-प्रेत, प्रेतवाधा मु.- घेणें - वलायें लेना।

अलाड - अव्य. इस ओर, इस पार, इधर। - पलाड - अव्य. इस पार, उस पार, इधर-उधर।

अलाद-दि<sup>+</sup> - अव्य. अचानक। दे 'अलगत'।

अलाप, अलापिणें - दे 'आलाप' 'आलापिणे'।

अला-बला दे 'अलाई-वलाई'।

अलावा - पु १ अलाव, कौडा तापनेके लिए जलाई हुई आग। २ मुहर्रम के दिनों में ताबूत के सामने गढा खोदकर उसमें जलायी जाने वाली आग।

अलाहिदा - वि [अ 'अला-हद'] अलाहदा, पृथक्, जुदा, अलग।

अलिकडचा-ला, अलिकडे - दे 'अलीकडचा,' 'अलीकडे'।

अलिखित - वि अलिखित, विना लिखा हुआ, वेलिखा, जवानी, 'अन्रिटन'।

अलिता - पु अलता, स्त्रियो के पैरो में लगाने के काम आने वाला एक प्रकार का लाल रंग।

अलिप्त - वि १ अलिप्त, विना लेप का। २ असलग्न, अलग, अछूता। ३ निर्दोष। -

ता - स्त्री तटस्यता। -० चाद पु तटस्यता की नीति।

अलिशान - वि [अ 'आली-शान'] आलीशान, शानदार, गौरवमय, श्रेष्ठ।

अलीकडचा - ला, अलीकडील - वि १ इधर का, इस ओर का। २ आजकल का, नया, आधुनिक, हाल का।

अलीकडे - अव्य. १ इधर, इस ओर, इम पार। २ आज कल, फिलहाल।

अलीजाहा - वि [अ. 'आली-जाह'] १ आलीजाह, बहुत बड़े रत्नेवाला, महामान्य। २ भव्य, विस्तृत, शानदार।

अलीशान - दे 'अलिशान'।

अलुता - त्या-पु तेली, तमोली, जुलाहा, माली, सुनार आदि वारह प्रकार के लोग जो गाँव वालो के काम आते हैं और काम के बदले में फमल का कुछ भाग पाते हैं, लेहनादार।

अलुतीं - वलुतीं - न बहु अलुतेदार व वलुतेदार लोगो का वह हक उन्हें गाँव वालो की फसल में प्राप्त था।

अलुतेदार - दे 'अलुता'।

अलुवुखार - पु [फा 'आलू-वुखारा'] आलूवुखारा, आलूवे का सुखाया हुआ फल।

अलें - न अदरक। - पाक - पु अदरकी।

अलेंधिक - न [अ 'अत्रिक्स'] अरकगीर, आमुतिपात्र, अरक (अर्क) खीचने का मभका।

अलेंग्या - पु अलहिया, एक राग (म)।

अलोचनें\* - क्रि स १ न देवना। २ वीरे से कहना।

अलोचन जागरण - न विना  
आँख झपकाये रातभर जागते  
रहना, अन्वडित रात्रि - जागरण,  
रतजगा ।

अलोट - वि १ अपार, असीम,  
वेहद । २ न लौटने वाला, अपरि-  
वर्तनीय, अटल । ३ अनिवार्य,  
दुनिवार । ४ अचूक, ठीक,  
सच्चा । ५ निश्चित, दृढ़ । - पु  
निपुणता, कुशलता ।

अलोढणे<sup>+</sup> - क्रि स पूरा  
करना । - क्रि अ होना, बनना ।

अलोढणे\* - क्रि स १  
खोजना, ढूँढना । २ पारगत  
होना, हस्तगत करना । ३ आलो-  
डन करना, मथना, ऊहापोह करना ।

अलोणि\* - वि अलोना,  
विना नमकका, फीका ।

अलोभ - पु प्रेम या स्नेह का  
अभाव ।

अलोलकी\* - स्त्री १ मूल्य,  
महत्त्व । २ जतन, सावधानी,  
हिफाजत । ३ प्यार, प्रेम, चाह ।

अलोलिक\* - न दे 'अलोलकी' ।  
- वि १ अलौकिक, अद्भुत,  
अपूर्व । २ प्यारा, प्रिय । ३  
सुंदर, नाजुक । - तालोलिक - न  
लाडप्यार । - रचना - स्त्री अपूर्व,  
अद्भुत रचना ।

अलौकिक - वि १ अलौकिक,  
अद्भुत, असाधारण । २ इस  
संसार में, लोगो में न रहने वाला,  
अरण्यवामी ।

अल्क पु [अ 'अल्कली']  
क्षार, खार, सज्जी, क्षारक,  
'अल्कली' ।

अल्प - वि १ अल्प, थोडा,  
छोटा । २ तुच्छ, क्षुद्र । मूढ,  
मूर्ख । - जनसत्ताक - वि स्वल्प-  
जन - सत्तात्मक, अल्पतंत्रीय,

'ऑलिंगाचिक' । - मोली - वि  
कम कीमत वाला, अल्पमूल्यक । -  
वयस्क - वि अल्पवयस्क, कम-  
मिन । - सख्यक, -सख्याक - वि  
अल्पसख्य, अल्पमख्यक, अकल्लि  
(ल्ली)यती । - सतुष्ट, -सतोषी,  
-समाधानी - वि अल्पमतोषी,  
थोडे से सतोष कर लेने वाला,  
कनाअतगुजी, माविर । - सत्ताक  
पद्धति - स्त्री अल्पतत्र, स्वल्पतत्र,  
अल्पजनसत्तात्मक राज्य पद्धति,  
'ऑलिंगार्ची' । - स्वल्प - वि  
थोडा-मा, कुछ ।

अल्पविणे\* - क्रि अ स १  
डूबना । २ डुबोना ।

अल्पाक - न [पेरुवियन 'ऐल  
पैका'] अल्पाका, दक्षिणी अमेरिका  
का एक जानवर जिसके बालो का  
बढिया ऊन बनता है, अल्पाके का  
ऊन, अल्पाके का ऊन और रेशम  
या मूत मिलाकर बुना हुआ कपडा ।

अल्पायु; अल्पायुषी - वि १  
अल्पायु, जिसकी आयु थोडी हो ।  
२ छोटी उम्र में मरने वाला ।

अल्पारभ - पु धीरे-धीरे या  
अल्प मात्रा में किया हुआ प्रारभ,  
छोटे पैमाने पर शुरू किया जाना ।

अल्पाहार - पु १ अल्पाहार,  
कम खाना । २ जलपान, नाश्ता ।  
- वि अल्पाहारी, कम खाने  
वाला ।

अल्पोपहार - पु नाश्ता, जल-  
पान, चायपानो ।

अल्वत - दे 'अल्वत' ।

अल्विता - पु [अ 'अल्वि-  
दाय'] १ अल्विदा, विदा । २  
विदाई, रुखमती, रवानगी । ३  
अंतिम प्रणाम ।

अल्याड<sup>+</sup> अव्य इस ओर,  
इस पार, इधर । - पल्याड -

अव्य इधर - उधर, इसपार -  
उसपार, दोनो ओर ।

अल्लख\* - वि अलग, जुदा ।  
अल्लख<sup>+</sup> - वि अलख,  
अलक्ष्य, अगोचर । - पु १ परमे-  
श्वर । २ जोगी भिक्षा मांगते  
समय इसका उच्चारण करते हैं ।  
- निरजन - पु अलख निरजन,  
परमात्मा ।

अल्लड - वि १ अल्लड, वच-  
काना, दुनियादारी न जानने  
वाला, भोला । २ कच्चा, अकु-  
शल । ३ नादान, नासमझ ।

अल्ल(ल्ला)द, अल्ल(ल्ला)द-  
दे 'अलाद' ।

अल्लारशी, अल्लार(ऋ)शी<sup>+</sup>  
- वि १ ढीला-ढाला, अव्यव-  
स्थित, वेढगा, सुस्त । २ कम-  
जोर ।

अल्लाद - पु आल्लाद, आनद,  
खुशी ।

अवकणी\* - स्त्री अटकल,  
अदाजा ।

अवगणे<sup>+</sup> - क्रि अ रुकना,  
प्रतीक्षा करना, राह देखना ।

अवढा - पु १ थूक, मुँह से  
अपने आप छूटता रहने वाला रस ।  
२ सिसकी । मु-गिळणें - १ थूक  
निगलना, आँसू पीना । २ दुख  
की भावना को दवाये रखना ।

अवतण-णें<sup>+</sup> - न आमत्रण,  
निमत्रण, दावत ।

अवतणे<sup>+</sup> - क्रि स आमत्रित  
करना, बुलाना, दावत देना ।

अवंदा<sup>+</sup> - अव्य [फा  
'आइदा'] १ इस वर्ष, इस साल ।  
२ फिलहाल, इस वक्त ।

अवई - दे. 'अवाई' ।

अवकटा\* - अव्य अचानक,  
अकस्मात्, यकायक ।

अवकलणे<sup>†</sup>—क्रि अ अधोगति, अवनति, गिरावट शुरू होना ।

अवकहडाचक्र—न नक्षत्र-चक्र, राशिचक्र, वच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के चार चरण मानकर उन्हें दी गयी सजाओ के आधार पर वच्चे का नाम निश्चित करने के लिये बनाया गया कोष्ठको वाला चक्र ।

अवकळा—स्त्री १ तेजोहीन दशा, निष्प्रभता, निस्तेजता । २ हास, अवनति, दुर्गंत, बुरी हालत, दुर्दशा । ३ अप्रतिष्ठा ।

अवकात—द—स्त्री [अ 'ओकात'] १ शक्ति, सामर्थ्य, हैसियत । २ निर्वाह, गुजारा ।

अवकाश—पु १ अवधि, समय । २ छट्टी, फुरसत । ३ गुजाइश । ४ बीच का स्थान, काल, अंतर । ५ विलंब, देर । ६ शून्य स्थान, आकाश, खला । ७ सुविधा, सुभीता, सहूलियत ।

अवकाळ—पु अकाल, असमय ।  
—स्त्री बुरे दिन, दुर्दशा, दुर्गंत ।  
—वि असमय में आने वाला ।  
—अव्य आजकल, इधर, फिल-हाल ।

अवकाळी—ळ्या—वि असमय का, कुसमय का, बे-वक्त, बे-मौका आने वाला ।

अवकीर्ण—वि १ अवकीर्ण, बिखरा हुआ, फैला हुआ । २ छाया हुआ ।

अवकृपा—स्त्री अकृपा, नाराजी, क्रोध, गुस्सा ।

अवक्षर—दे 'अवाक्षर' ।

अवक्षेप—पु, अवक्षेपण—न १ अवक्षेप, व्याजस्तुति, लाछन, निंदा, आक्षेप, आपत्ति, उज्र । २ अवक्षेपण, पछाडना, नीचे

फेंकना या गिराना ।

अवखद\*—पु वडा गड्ढा या नाला ।

अवखळ—वि १. नटखट, शरारती, शैतान, ऊवमी । २ उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी, निरकुश ।

अवखळा—स्त्री त्रुटि, न्यूनता, कमी ।

अवखात—द—दे. 'अवकात-द' ।

अवगणणे—क्रि स अवगणना, निंदा, तिरस्कार करना ।

अवगणना—स्त्री अवगणना, अवहेलना, नफरत, घृणा, अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार ।

अवगणी\*—स्त्री १ वेश, रूप, स्वांग । २ पहचान ।

अवगणें—क्रि अ १ दीखना, लगना, के समान दिखाई देना । २ मालूम होना, जानना । ३ स्वीकार करना । ४ भेस लेना, स्वांग लेना । ५ वाहियात बनना, उच्छृंखल बनना, मनुष्यता खो बैठना ।

अवगत—वि अवगत, ज्ञात, मालूम ।—पु अवगति, ज्ञान, जानकारी ।

अवगति—स्त्री १ अधोगति, पतन, अवनति, दुर्गति । २ दे 'अवगम' ।

अवगम—पु अवगम, जानना, निश्चयात्मक ज्ञान, बोध ।

अवगमणें\*—क्रि अ लगना, प्रतीत, महसूस होना ।—क्रि अ जानना ।

अवगळणें\*—क्रि स छोडना, डालना ।—क्रि अ १ चिपकना, सटना, गले पडना । २ भूल से रह जाना ।

अवगाहणें\*—क्रि अ अवगाहना, डुवकी लगाना ।

अवगाहन—न अवगाहन, डुवकी, नहाना, जलाशय में स्नान करना । २ किमी शास्त्र या विषय में प्रवेश, याह, खोज, अध्ययन ।

अवगुण—पु १ अवगुण, दोष, ऐव, लत, बुराई । २ विपरीत या अनिष्ट परिणाम, बुरा प्रभाव ।

अवगुणी—वि १ बुरे लक्षणों वाला, असगुनियाँ, अपशकुन करने वाला । २ दुर्गणों वाला, दुराचारी । ३ अनिष्ट, हानिकर ।

अवग्र\*—वि सारा, समूचा, सपूर्ण ।

अवग्रह—पु १ अवग्रह, रुकावट, बाधा । २ परिच्छेद । ३ सधि होनेपर अगले शब्द के प्रारंभ में 'अ' हो तो उसका लोप करके उसके स्थानपर लिखा जाने वाला लुप्ताकार (s) ।

अवघड—वि १ कठिन, मुश्किल । २ दुर्गम, वीहड । ३ तग, सँकरा । ४ नामुमकिन, असंभव । ५, असुविधाजनक, अजीब । ६ टेढा—मेढा । ७ दु—साध्य, अति कठिन, जो आसानी से दूर न किया जा सके ।—न झझट, अडचन, सकट ।—जागा—जाँघ आदि शरीर के गुह्य स्थान । ( कहा० अवघड जागीं दुख आणि जावई वैद्य—गुह्यस्थान की बीमारी और जमाई वैद्य होने से बड़ी मुश्किल हालत होती है । ) मु—वाटणें—दुख होना, सकोच होना, झुंझलाना ।

अवघडणें—क्रि अ १ सकट, झझट, अडचन या मुसीबत में फँसना । २ झुंझलाना, परेशान होना । ३ रोका जाना, फँसना । ४ शरीर आदि का तनना, भारी होना, अकड़ना, ऐँठना, झुनझुनी



जाना । ५ गर्भवती स्त्री का शरीर भारी होना ।

अवघडनाथ-वि पु. ? मोटा-ताजा, स्थूल । २ तोड़ वाला, तोड़ने । ३ मुट्टा ।

अवघडपथ-पु अवघोर पथ ।  
अवघडपथी-वि अवघोरपथी, अवघोर मत का अनुयायी ।

अवघड्या-वि १ मुठ्ठिले डालने वाला, झड़ट पैदा करने वाला, दिक्कतें लाने वाला । २ वुडवुडाने वाला ।

अवघा-वि १ पूरा, समूचा, मारा, कुल । २ हर, प्रत्येक ।-अव्य केवल, सिर्फ, मात्र ।

अवघ्राण-न १. मूँघना । २ सिर, मस्तक, माथा सूँघकर शुभ-चिन्तन करना ।

अवचक-वि अनगिनत, विपुल, बहुत ।

अवचट-वि आकस्मिक, संयोग में प्राप्त ।-न अनपेक्षित, अनिष्ट बात ।-अव्य १ औचक, अचानक, यकायक । २ सहज ।

अवचित-तां-ता-तीं-प्रत्य अक-स्मात्, ट्ठात्, अचानक, महमा, संयोगवश ।

अवचितराव-पु १ ऐसा पुरुष जिसका महत्त्व अचानक बढ़ गया हो, या जिसे संयोगवश बड़ा यश मिला हो । २ अज्ञातपितृक, रामजना पुरुष, ऐसा आदमी जिसके बापका पता न हो । ३ वह जो पालक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना हो ।

अवचिन्न-नह<sup>+</sup>-न दुश्चिह्न, बुरा लक्षण, अपशकुन, असंगुण ।-वि अशुभ, कुलक्षण, कुलच्छेद, मनहूस ।

अवजड-वि १ बहुत बड़ा,

भारी, स्थूल, बोजिल । २ कठिन, मुश्किल ।

अवजार-न [अ. 'आजार'] १ आजार, आला, सावन, उपकरण । २ बड़ा पाल, वादवान । ३ कारीगरो के यंत्र ।

अवज्ञा-स्त्री १ अवज्ञा, अज्ञानभंग, अज्ञा का उल्लंघन, हुकमउदूली । २ अनादर, अपमान, उपेक्षा ।

अवज्ञा<sup>+</sup>-स्त्री गद्दी आंगन, वेध्या ।-वि १ गदा, खराब । २ भारी ।

अवटणें-न १ ऊवना, उकताना । २ घृणा, नफरत ।

अवट(टा)रणें-क्रि अ १ अटकना, ऐँठना । २ छोटा, तग होना । ३ रुठ जाना ।

अवटळणें-क्रि अ स १ गले लगाना, पकडना, लिपट जाना । २ समावेश करना । ३ जमा करना । ४ स्थगित करना ।

अवटी-स्त्री गहनो पर नक्काशी करने का एक औजार, मुहर, छाप ।

अवटी-पु १ अनाज आदि की नापतौल करने वाला । २ ब्राटो, वजनो, नापतौल के मावनों आदि पर देखरेख रखनेवाला अधिकारी ।

अवठाण-न १ सभावना, शक्यता । २ ताकत, जोर, नामर्थ्य ।

अवठवर-न १ आठवर, दिखावा, तउक-भडक, ठाट-बाट । २ आवेश, चमड, शेखी ।

अवड-स्त्री दे 'आवड' ।-गोड-वि प्रिय होने के कारण मीठा या अच्छा लगने वाला ।-चतुर-वि प्रिय बात में चतुराई दिखानेवाला ।

अवडकचवडक-स्त्री बच्चों का एक खेल । २ अव्यवस्था, गडबडी, उलझन ।

अवडचिचड-स्त्री ? वेढो तौरपर मिलाना, मानना, मसलना । २ सानी, ममली हुई चीज ।

अवडणें-दे 'आवडणें' ।-न अरुचि, ऊव, नफरत, घृणा ।  
अवढंगी-वि १ वेढगा । २ कुचाली, दुराचारी ।

अवतरण-न १ अवतरण, नीचे आना या जाना, अवतार । २ अथ पात, अवनति । ३. टीका, व्याख्या, स्पष्टीकरण । ४ उद्वरण, उद्वृत्त अथ ।-चिह्न-न उद्वरण-चिह्न, आवरण-चिह्न, 'इनव्हर्टेड कॉमाज' ।

अवतरणे-क्रि अ १ अवतार, जन्म लेना, प्रकट, उपस्थित, हाजिर होना, उत्पन्न होना । २ नीचे आना, जाना, उतरना । ३. आविष्ट, अभिमूत होना; आवेश होना । ४ आगे बढ़ना ।

अवतरविणें-क्रि स प्रकट करना ।

अवता-भवता-दे 'अवती भवती' ।

अवतार-पु १ अवतार,-दे 'अवतरण' । २ महापापी । ३ उत्पाती, खुराफानी आदमी, नटखट, शरीर लडका । ४ आयु, जीवन, जिंदगी । ५ स्वरूप, वेश, शकल-मूरत । ६ वेढगा रूप या पहनावा । सु.-आटोपणें,-सपणें-१ यथाप्त होना । २ मर जाना ।-सपविणें-१ खात्मा करना । २ मरना ।

अवतारणा-स्त्री १ अवतार । २ आश्रय, आवाग, अवलंबन ।  
अवतारणें-क्रि अ १ अव

तार, जन्म लेना । २ आना, उपस्थित, हाज़िर होना । ३ पागल बनना, स्वेच्छाचारी, स्वैराचारी बनना ।

अवतारी, अवतारीक - वि १ अवतारी, अवतार लेने वाला । २ अत्यंत पवित्र, बुद्धिमान्, दैवी, अलौकिक, महान् ।

अवतीर्ण - वि १ अवतार के रूप में उत्पन्न । २ उतरा हुआ, नीचे आया हुआ । ३ प्रकट, प्रादुर्भूत, उपस्थित ।

अवदशा - सा - स्त्री १ दुर्देव, दुर्भाग्य, कमवस्ती । २ विपत्ति, दरिद्रता । ३ झगडालू स्त्री, कर्कशा । मु - आठवर्ण - कमवस्ती आना, सूझना, शामत आना, शामत सवार होना, ऐसे विचार मन में आना या ऐसा आचरण किया जाना जिससे विपद् पड़े, दुर्देव की प्रेरणा होना । अवदसेचें वाळ - न अभागा, वदनसीव व्यक्ति ।

अवदान - न १ आहुति । २ रिश्वत, गवन । ३ वलि, कुर्वानी ।

अवदिवस, अवदिस - पु १ बुरा दिन, अशुभ दिवस । २ वह दिन जब कोई त्योहार न हो ।

अवदुवर - दे 'औदुवर' ।

अवध\* - स्त्री १ अत, आखिर, समाप्ति । २ अवधि, समय । ३ वीच का अंतर, फासला ।

अवघणा, अवघाण-णा - पु हाय या पैर में फोडा या ज़रम होने पर वगल या जाँघ में आने वाली गाँठ, सूजन ।

अवधान - न १ अवधान, ध्यान, मनोयोग, मन की एकाग्रता । २ उद्देश्य, हेतु ।

अवधानी - वि अवधानी,

ध्यान देने वाला, मनोयोगयुक्त, एक ही समय में अनेक बातों की ओर ध्यान देने वाला या खयाल रखने वाला ।

अवधारण - न , अवधारणा - स्त्री १ अवधारण, निश्चय करना, दृढ निश्चय । २ ध्यान में, स्मरण, याद रखना । ३ सावधानी, सूझ ।

अवधारणें\* - क्रि अ स १ सुनना, ध्यान देना । २ निश्चय करना । ३ मन में, ध्यान में रखना ।

अवधि - पु, अवधी - स्त्री १ अवधि, सीमा, मर्यादा । २ वीच का समय, नियत काल, मीयाद । ३ प्रारंभ या अंत की बात । ४ मूलस्थान, उत्पत्ति-स्थान ।

अवधूत - वि १ विरक्त, विरागी, निर्विषय । २ नग्न, दिगवर । - पु १ श्री दत्तात्रेय का अवतार । २ सन्यासी, नग्न जोगी, नागा साधु । - मूर्ति - वि पु दत्तात्रेय ।

अवध्य - वि १ अवध्य, अवघ, वध के अयोग्य । २ जिसका वध न किया जा सके ।

अवन\* - पु अवन, रक्षण, रक्षा । - वि निर्जल, सूखा ।

अवनत\* - वि १ अवनत, झुका हुआ, गिरा हुआ । २ विनीत, नम्र ।

अवनति - स्त्री १ अवनति, झुकाव, गिराव, अध पतन । २ उतार, नीचे जाना ।

अवनु<sup>+</sup> - अव्य इस वर्ष, इस साल ।

अवभाष<sup>+</sup> - स्त्री दुरस्तर, दुर्वचन, गाली, निंदा ।

अवभूत-थ स्नान-न अवभूत-थ स्नान, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद

किया जाने वाला स्नान ।

अवमान - पु अवमान, अवज्ञा, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार ।

अवमानणें - क्रि अ स १ अपमान, तिरस्कार, अनादर करना । २ सुनना, ध्यान न देना ।

अवमास - वि १ ढीला, अव्यवस्थित । २ उद्धत, उजड़ु, लापरवाह ।

अवयव - पु १ अवयव, शरीर का भाग, अंग, हिस्सा । २ किसी वस्तु का भाग, अंश, टुकड़ा । ३ गुणखंड, 'फैक्टर' । ४ तत्त्व, घटक । - येणे - क्रि अ स्त्री के स्तन आना ।

अवरगावादी - वि १ औरगावाद का । २ चालाक, धूर्त, काड्यार ।

अवर - वि १ इवर का, इस ओर का । २ छोटा, नीचा, मातहत ।

अवरजून - अव्य १ खास तौरपर, जानबूझकर । २ सीधे । ३ स्पष्टतया, साफ-साफ ।

अवरणें - दे 'आवरणें' ।

अवरस, अवरसचवरस - दे 'औरस', 'औरसचौरस' ।

अवरीत\* - स्त्री १ दुराचरण, कुचाल । २ अप्रीति, दुर्भाव, नाराजी ।

अवरुद्ध - वि १ अवरुद्ध, रुका या रोका हुआ, घिरा हुआ । २ रखी हुई (स्त्री), रग्वेल, रखेली ।

अवरोध - पु १ अवरोध, रोक, अटकाव । २ मृतांगीच, मृत्यु का सूतक । ३ अतपुर, जनानखाना ।

अवरोधणें\* - क्रि स रोकना, मना करना, वाधा डालना ।

अवरोह - पु, अवरोहण - न

१ अवरोह, अवरोहण, उतरना, नीचे आना। २ चढना, ऊपर जाना। ३ सगीत में स्वरो के ऊपर मे नीचे आने का क्रम।

अवर्जन - दे 'अवरजून'।

अवर्ण - वि १ विजातीय, दूमरी जाति का। २ वर्ण-वर्म-रहित, निच्य, दूपणीय। ३ दे 'अवर्णनीय'।

अवर्णनीय, अवर्ण्य - वि १ अवर्ण्य, जिमका वर्णन न किया मके, वर्णनातीत, अकथनीय, शब्दातीत। २ अद्भुत, सुदर।

अवर्षण - न १ अवर्षण, वर्षा का न होना, सूखा। २ अकाल।

अवलव - पु १ अवलव, अवलवन, सहाग, आचार, भरोमा। २ लव, 'परपेंडि-क्युलर'।

अवलव(वि)र्ण - क्रि स १ आश्रय, महारा, आचार लेना। २ पकटना, लटकना, चिमटना। ३ उठाना, स्वीकार करना, ले लेना। - क्रि अ आचार रखना, निर्भर रहना, मुनहसिर करना।

अवलवन - न १ अवलवन, महारा, आश्रय, भरोमा। २ ग्रहण, स्वीकार।

अवलवित - वि १ अवलवित, आश्रित, निर्भर, मुनहनिर। २ लटकना हुआ। ३ पकटा हुआ।

अवलवन - अव्य निर्भर, मुनहनिर।

अवल - वि [अ 'अवल'] १ अवल, पहला, प्रथम। २ सर्वश्रेष्ठ, बहुत बड़ा, प्रथम श्रेणी का। - अव्य प्रारंभ मे, शुरू में। - स्त्री पहला या शुरू का भाग, पहल। - कारकून - पु १ प्रधान मुन्गी, मुख्य क्लर्क, बड़ा वाद,

'हेडक्लर्क'। २ दे 'फडणीस'। - पुरावा - पु प्रवान या प्राथमिक साक्ष्य, प्रमाण या गवाही, 'प्राश्मरी एविडन्स'। - रजिस्टर - न वह वही जिसमें गाँव की भूमि की पूरी जानकारी दर्ज हो। - दोड, - द्वाड - वि बटा ही नटगट, शरारती, बदमाश। - साल - न. वर्ष का प्रारंभ।

अवलक्षण - न १ कुलक्षण, कुलच्छन, अनिष्ट - सूचक चिह्न। ३ असगुन, अपगकुन। ३ बुरी आदत, लन। कहा० हात दाख-वन अवलक्षण करणें - जानबूझ कर आफत मोल लेना।

अवलक्षणी - वि १ कुलक्षणी, कुलच्छनी। २ दुर्गुणी, अवगुणी, दोपी, ऐवदार। ३ उत्पाती, खुराफाती 'नटखट'।

अवलाद - स्त्री [अ 'जौलाद'] औलाद, मतान, वेटा वेटी, वश। - वि नटखट, शरारती, बदमाश। अवला(ल्हा)हो\* - पु अनिष्ट-प्राप्ति।

अवलिया - पु [अ 'औलिया'] औलिया, सिद्ध पुरुष, सन, माधु। - वि औला-दौला, मौजी, मन्त, लापरवाह।

अवलि (ली) ला-छा\* - स्त्री १ लीला, खेल। २ करतब। - अव्य महज, आमानी से।

अवली - स्त्री [अ 'अवल'] पहल, उपक्रम, अभिक्रम। (सावण)।

अवलेह - पु अवलेह, चटनी, चाटकर खायी जाने वाली दवा, माजून।

अवलोकणें - क्रि स देखना, अवलोकन करना।

अवलोकन - न अवलोकन,

देखना, निरीक्षण, अनुमान।

अवलोडन - न डुवकिया लगाना।

अवश - वि १ अवश, वेवस, लाचार, परायीन। २. निरकुश, स्वाधीन।

अवशिष्ट - वि अवशिष्ट, वचा हुआ, बाकी, फाजिल।

अवशों, अवशीस - अव्य रात के पहले पहर में, शाम को।

अवशी - स्त्री पूर्वरात्र, रात्रि का पूर्व भाग, मायकाल, रात का पहला पहर।

अवशेष - पु १ अवशेष, वचा हुआ अग या भाग। २ भग्नावशेष, चेंडहर। ३. यादगार, निशान। ४ शेषभाग, बाकी।

अवश्यभावी - वि अवश्य-भावी, अटक, निश्चित।

अवश्य, अवश्यक - वि १ आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य। २ जो वग में न किया जा सके। - अव्य १. अवश्य, जरूर। २ वेगक, जी हाँ।

अवश्यकता - स्त्री आवश्यकता, जरूरत।

अवश्यमेव - अव्य अवश्यमेव, जरूर, निम्सदेह, यकीनन्।

अवस - स्त्री १ अमावास्या। २ दे. 'अवशी'। मु अवसेस पुन-वेस घडणें, घणें - किसी समय, कभी - कमार, लवे अरसे के बाद होना या आना।

अवसर - पु १ अवसर, अव-काश, फुरसत, खाली वक्त। २. समय, वक्त। ३ मौका, उचित समय, मुयोग। ४ भूता-वेश, प्रेतवावा, आवेश।

अवसाद - पु १ अवसाद, थकावट, मुस्ती। २ उदासी,

खिन्नता।

अवसान— न १ अवसान, समाप्ति, अंत, खात्मा। २ मृत्यु, मौत, नाश। ३ आराम, विश्राम।

अवसान—न [अ 'औसान']  
१ हिम्मत, साहस, धीरज, सामर्थ्य, जोश। २ औसान, होश, हवास, सज्ञा, चेत, बुद्धि। ३ कोशिश, चेष्टा, परिश्रम। ४ दम, दिखावा।—घातकी वि ऐन मौके पर हिम्मत हारने वाला, दगावाज, ऐन वक्तपर मुकर जाने वाला। मु.—आणणों—झूठी हिम्मत दिखाना, ऊपर से साहस दिखाना।—तुटणों, —सुटणों—धीरज खोना, हिम्मत हारना, छोड़ना, छूटना।

अवसानी—वि [अ 'औसान']  
१ हिम्मती, साहसी। २ सूझबूझ वाला।

अवसी<sup>+</sup>—दे 'अवशी'  
अवसुती<sup>+</sup>—वि १ खराब, अव्यवस्थित, उलझा हुआ। २ अनुचित। ३ फूहड़, वेढगा।

अवस्ता—स्तू—स्था<sup>+</sup>—अव्य  
१ अचानक, अकस्मात्। २ कुल मिलाकर, पूर्णतया। ३ विलकुल, कतई।

अवस्था—स्त्री १ अवस्था, स्थिति, दशा, हालत। २ उत्कठा, चिंता।

अवस्थापणों—क्रि स रखना।  
अवस्थित—वि १ अवस्थित, ठहरा हुआ, टिका हुआ। २ दृढ, स्थिर, पक्का।—अव्य \* अकस्मात्, अचानक।

अवहेलणों—क्रि स अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा करना।

अवहेलना—स्त्री अवहेलना,

अवहेला, अनादर, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा।

अवळ—वि तग, चुस्त, कसा हुआ।

अवळकठी—टी, अवळकाठी—स्त्री आँवलगट्टा, सुखाये हुए आँवले, सूखा आँवला।

अवळचवळ<sup>+</sup>—अव्य अच्छी तरह न चवाते हुए।

अवळणों—क्रि अ १ छोटा, तग होना। २ कसा जाना। ३ भर जाना।—क्रि स १ कसना, कडा करना। २ जोर से दवाना, पकड़ना। ३ चिमटाना, लिपटाना।

अवळसर—वि: १ कुछ तग—सा, थोडा—सा कसा हुआ, जो ढीला भी न हो और तग भी न हो। २ छोटा, तग।

अवळा—पु आँवला। मु—देऊन कोहळा काढणों—स्वय बहुत कम देकर उसके बदले में बहुत ज्यादा हासिल करना या वैसी चेष्टा करना। अवळचाएवढें पूज्य—पूर्ण अभाव, शून्य, सिफर। अवळचाची मोट—सामयिक लाभ के लिए एकत्र आये हुए लोगों का समुदाय या गुट।—० बाघणों—असभव को सभव बनाने की चेष्टा करना।

अवळी—स्त्री आँवले का पेड।—भोजन—न १ कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को आँवले के पेड के नीचे बैठकर किया जाने वाला भोजन। २ वनभोज।

अवळें—जावळें—दे 'आवळें—जावळें'।

अवाकणों—क्रि अ १ सोचना, चिंतन, मनन करना। २ झिझकना। ३ अदाजा, अनुमान

लगाना।

अवाका—पु १ सामर्थ्य। २ वस, चगुन, कब्जा। ३ अदाजा। ४ अभिप्राय, समझ, कल्पना। ५ विस्तार, आकार।

अवाण—न शरीर का नाजुक भाग, मर्मस्थान।

अवातर—वि १ अन्य, दूसरा। २ गौण, फुटकर, अवातर, साधारण, क्षुद्र। ३ अप्रासंगिक, असवद्ध, असगत।—प्राप्ति—स्त्री ऊपर की आमदानी, अतिरिक्त आय।—खर्च—पु फुटकर खर्च।

अवा—पु १ आवाँ, मिट्टी के वर्तन पकानेका भट्टा। २ मिट्टी के वर्तनो का ढेर।—मु.—लुटणों—मिट्टी के वर्तनो के ढेर की पूजा कर के उन्हें सुहागिनो में बाँट देना।

अवा—स्त्री [क 'अव्व'] १ स्त्री; नारी। २ रखेली, वेश्या, रडी।—जी—स्त्री वाईजी, माताजी।

अवाई—स्त्री १ अफवाह, किंवदन्ती, उडती खबर, गप। २ प्रसिद्धि, ख्याति, शहरत। मु—उठणों,—पडणों,—पसरणों—अफवाह फैलना, खबर प्रचारित होना।

अवाक्—अव्य नीचे, नीचे की ओर।—वि अवाक्, अधोमुख, मौन, चुप, मूक।

अवाकणों<sup>+</sup>—क्रि अ बहुत अधिक पक जाना।

अवाक्षर—न १ गलत अक्षर, भूल, अशुद्ध उच्चारण। २ एक भी अक्षर, वात। ३ अपशब्द, निंदा, गाली-गलौज। मु—न काढणों—चू तक न करना, तनिक

भी उज्ज, एतराज न करना, चुपचाप मान लेना या सुन लेना ।

अवागणें<sup>+</sup> - क्रि अ. विगडना, खराब होना, बुरे मार्गपर चलना, उन्मार्गगामी होना ।

अवाचे (च्चा) सवा - अव्य वेहद, बढ-बढकर, ज्यादा, अवास्तविक ढग से, अनुचित रूप में ।

अवाज - दे 'आवाज' ।

अवाजवी - वि [अ. 'वाजिव'] गैरवाजिव, नामुनासिव, अनुचित ।

अवाड - न घर के चारो ओर की खाली जगह, अहाता, हाता, वाडा ।

अवाडाव - स्त्री १ दुराचार, बुरा आचरण । २ लूटखसोट, नाश, बरबादी । ३ शरारत । ४ बस, बश, सामर्थ्य, पहुँच ।

अवाढव्य - वि बहुत बडा, विशाल, भारी, भव्य, जमीम, अजीमुशान ।

अवार<sup>+</sup> - वि अपार, बहुत बडा ।

अवार - न पु. दे 'आवार' ।

अवारु\* - पु साधन ।

अवारु\* - वि अन्य, दूसरा ।

अवास्तव - वि १ अवास्तव, अवास्तविक, मिथ्या, निराधार । २ अनुचित, आवश्यकतासे अधिक ।

अवास्तविक - वि अवास्तव, मिथ्या, निराधार, झूठ ।

अवाहक - वि अमवाहक, 'नॉन कडक्टर' ।

अवाहन\* - न आमत्रण, आवाहन ।

अवाळु - दे 'आवाळू' ।

अविद-घ - वि अनविद्या, विन-विद्या (मोती, कान आदि) ।

-पु मुमलमान, यवन, म्लेच्छ, अहिदु (जिसके कान हिंदुओं की तरह छेदे हुए नहीं होते) ।

अविकळ - वि १ अविकळ, जो घटाया-बढाया या बदला न गया हो, ज्यो क्या त्यो । २ समूचा, सपूर्ण, अटूट । ३ निर्दोष । ४ विकाररहित, स्थिर, दृढ ।

अविकारी - वि १ अविकार, विकाररहित, न बदलने वाला, जिमका नाश न हो । २ अव्यय - (व्या) ।

अविकृत - वि १ अविकृत, जो बदला या विगडा न हो, ज्यो का त्यो । २ न बदलने वाला ।

अविचल - वि अविचल, अचल, स्थिर ।

अविचार - पु. अविचार, अविवेक, नासमझी, बंवरूपी ।

अविचारी - वि अविचारी, विवेकहीन, नासमझ, उचित - अनुचित का विचार न रखने वाला ।

अविच्छिन्न - वि अविच्छिन्न, अविभक्त, अटूट, समूचा । -अव्य १ लगातार, मतत, बराबर, अखड रूप में । २ ठीक, उचित ढग से ।

अविज्ञ - वि अविज्ञ, अजान, अनाडी ।

अविट - दे 'अवीट' ।

अविदग्ध - वि अविदग्ध, अधकचरा, अपडित, मूर्ख ।

अविद्य - वि अविद्य, अपढ, मूर्ख ।

अविद्यमान - वि १ अविद्यमान, गैरमौजूद, अनुपस्थित । २ असत् ।

अविद्या - स्त्री १ अविद्या,

विद्या या ज्ञान का अभाव; अज्ञान । २ भ्रान्ति, माया । -पमारा - पु. अज्ञान का फैलाव, मायाजाल, जजाल ।

अविधवा - स्त्री गुहागिन, सौभाग्यवती । - नवमी - स्त्री मानूनवमी, भाद्रपद शुक्ला नवमी, जिमका पिता जीवित है ऐसा व्यक्ति अपनी मृत माता का श्राद्ध ७ दिन करता है ।

अविधि - पु अविधि, विधि या विधान का अभाव । - वि अवैध, विधि-विम्ब । - अव्य अवैध रूप से, अव्यवस्थित ढग में ।

अविनय - पु अविनय, विनय या नम्रता का अभाव, अशिष्टता; वृष्टता, घमड, उजड़पन; गुस्ताखी । - वि विनयहीन, अशिष्ट, उद्धत, गुस्ताख ।

अविनाश - पु नाश का अभाव, नित्यत्व, अनश्वरत्व । - पद - न मोक्ष ।

अविनाशित्व - न. अविनाशिता, नित्यत्व, 'कजवैशन' ।

अविनाशी - वि अविनाशी, अक्षय, नित्य, दाइमी, मुन्तकिल ।

अविनीत - वि अविनीत, उद्धत, गुस्ताख, अशिष्ट ।

अविभक्त - वि १ अविभक्त, अविभाजित, माझे का । २ सयुक्त । - कुटुब - न सयुक्त कुटुब, परिवार, सम्मिलित कुटुब, 'जॉइंट फैमिली' । ० - पद्धति - स्त्री सयुक्त परिवार प्रथा, 'जॉइंट फैमिली मिस्टम' ।

अविभाज्य - वि अविभाज्य, अविच्छेद्य, जो बाँटा न जा सके । - अवयव - पु वह राशि या गुणनखंड जिसका किसी भाजक से भाग न किया जा सके ।

अविरल - वि अविरल, मिला, मटा हुआ, घना। - अव्य. लगातार, सतत।

अविलव - पु. शीघ्रता, जल्दी। - अव्य. - झटपट, तुरत।

अविलवें, अविलबँकरून - अव्य. जल्द, शीघ्र, तुरत।

अविवाहित - वि अविवाहित, विनव्याहा, क्वारा।

अविवेक - पु. अविवेक, अविचार, नासमझी।

अविवेकी - वि अविवेकी, अविचारी, नासमझ, मूर्ख।

अविश्रम, अविश्रांत - अव्य. विश्राम या आराम किये बिना, लगातार।

अविश्वसनीय - वि अविश्वसनीय, सदिग्ध, जिसका भरोसा न किया जा सके।

अविश्वास - पु. अविश्वास, वेएतवारी, शका, शक, सदेह। - (सा)चा ठराव - पु. अविश्वास प्रस्ताव।

अविश्वासी - सू - वि १ अविश्वासी, जिमका भरोसा न किया जा सके, अविश्वमनीय, वेएतवार। २ श्रद्धाहीन, विश्वास न करने वाला।

अविष्करण - दे 'आविष्करण'।

अविसाळ \* - न पछी का घोसला, नीड, खोता, आशियाना।

अविज्ञा \* - अव्य. अचानक, अकस्मात्।

अविस्वासणें - क्रि अ विश्वास न रखना, भरोसा न करना।

अविहित - वि अविहित, शास्त्रविरुद्ध, निपिद्ध, हराम।

अवीट - वि १ जो फीका न पडे, जो खराब न हो, पक्का (रग)। २ जिमसे जी न ऊबे।

३ वेहद, विपुल। ४ बहुत समय तक चलने वाला, अटल, अक्षय्य।

५ ढगदार, आकर्षक, दिलचस्प।

अवेक्षण - न १ अवेक्षण, निरीक्षण, खोज। २ ध्यान, अवलोकन, देखरेख। ३ कृपा, मिहरवानी।

अवेळ - स्त्री १ अवेला, अवेर, कुवेला, कुसमय, अनुपयुक्त समय, असमय। २ देर, देरी, विलव। - सवेळ - स्त्री समय-असमय, उचित-अनुचित समय।

अवेळीं - अव्य. वेवक्त, वेमौका, असमय मे।

अवो - अव्य. अजी, अरी।

अवोज \* - पु. १ लापरवाही, ध्यान न देना। २ तेज का अभाव।

अव्यग - वि निर्दोष, अविकलाग, वेऐव।

अव्यक्त - वि १ अव्यक्त, अप्रकट, अदृश्य, निराकार, अज्ञेय। २ अज्ञात, अव्यक्त (बीज गणित में राशि या सख्या)। - गणित - न बीजगणित। - राशि - स्त्री अव्यक्त राशि (बीजगणित)। - साम्य - न अव्यक्त साम्य, अव्यक्त राशियोंका समीकरण।

अव्यभिचार - पु. अव्यभिचार, एकनिष्ठता, एकाग्रता, वफादारी।

अव्यभिचारी - वि १ अव्यभिचारी, एकनिष्ठ, वफादार। २ असाधारण। ३ नित्य, स्थायी। ४ सदाचारी।

अव्यय - न अव्यय, वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। - वि अविकारी, अक्षय, गैर मुतसर्तिफ।

अव्यय - न अव्यय, वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। - वि अविकारी, अक्षय, गैर मुतसर्तिफ।

अव्यय - न अव्यय, वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। - वि अविकारी, अक्षय, गैर मुतसर्तिफ।

अव्यय - न अव्यय, वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। - वि अविकारी, अक्षय, गैर मुतसर्तिफ।

अव्यवस्था - स्त्री अव्यवस्था, वेकायदगी, गडवडी, वदअमली।

अव्यवस्थित - वि अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, वेतरतीव, वेढगा।

अव्यवहार - पु. खोटा व्यवहार, बुरा कर्म, चोरी। - वि दे 'अव्यवहारी'।

अव्यवहारी-यें - वि १ अव्यवहार्य, जो काम में न लाया जा सके। २ अव्यवहारकुशल, जो व्यवहार न जानता हो, अनम्यस्त।

अव्याज - वि अव्याज, बिना छलकपट का, सीधा - सादा, भोला-भाला, मासूम।

अव्यापारेषु व्यापार - पु झझट, झमेला, आफत मोल लेना, ऐसा काम करना जिसके करने की कोई आवश्यकता न हो।

अव्याप्ति - स्त्री अव्याप्ति, अघूरी व्याख्या, लक्षण का लक्ष्यपर घटित न होना।

अव्याहत - वि अव्याहत, अवाधित, अखडित, अप्रतिहत। - अव्य. सतत, लगातार।

अव्लाद, अव्लिया, अव्वल, अव्वा - दे 'अवलाद', 'अव्लिया', 'अवल', 'अवा'।

अव्हाट\* - स्त्री १ वाममार्ग। २ लीक, पगडडी, चोर रास्ता।

अव्हाटणें<sup>+</sup> - क्रि अ १ मुख्य मार्ग छोडकर चलना, वाम मार्ग को अपनाना। २ रास्ता छोडना, रास्ते से हटना।

अव्हेर - पु १ अस्वीकार, त्याग, इन्कार। २ अनादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवज्ञा।

अव्हेरणें - क्रि स १ इनकार करना, त्याग करना, अस्वीकार करना। २ अपमान, अवहेलना, अवज्ञा, अनादर करना, झिडकना।

अशक्त - वि १ अशक्त, कम-  
जोर, शक्तिहीन, असमर्थ। २  
अयोग्य, नालायक। - नी दुर्जन -  
वि दुर्बल होते हुए भी द्रुष्ट बुद्धि  
रखने वाला, कगाल होते हुए भी  
घमड करने वाला।

अशक्त्य - वि अशक्त्य, असभव,  
नामुमकिन।

अशन\* - न १ अशन,  
भोजन। २ भोज्य पदार्थ, अन्न।

अशना - स्त्री भूख, क्षुधा।

अशनि - पु अशनि, वज्र,  
विजली।

अशात - वि १ अशात,  
शातिरहित, वैचैन। २ क्षुब्ध,  
उत्तेजित।

अशाश्वत - वि नश्वर,  
अनित्य, क्षणभंगुर, फानी।

अशाश्वती - स्त्री अनिश्चितता,  
क्षणभंगुरता, नश्वरता। - वि दे.  
'अशाश्वत' (स्त्रि)।

अशास्त्रीय - वि १ अवैज्ञा-  
निक। २ अशास्त्रीय, शास्त्र-  
विरुद्ध, अविहित।

अशिक्षित - वि अशिक्षित,  
अनपढ़, अपढ़, गँवार।

अशिष्ट - वि अशिष्ट,  
असभ्य, गदा, उजड़ु।

अशी\* - स्त्री आशीर्वाद,  
आशिष, अमीस।

अशी - वि 'असा' का स्त्री,  
ऐसी। - अव्य इस स्थिति में,  
ऐसी हालत में। - तशी - वि स्त्री  
मामूली, साधारण, क्षुद्र। मु  
- राहणे - विधवा होनेपर बिना  
वपन (केग - मुडन) किये रहना।  
- होणे - विधवा होना।

अशील - न पु [अ 'असील']  
मृवकिकल, असामी, अभि-  
योगार्थी, वादाथी।

अशुद्धा(दृढा)ळ - वि १ गदा।  
२ अव्यवस्थित, वेढगा। ३ गल-  
तियों से भरा हुआ। ४ उनीदा,  
ऊँचता हुआ, निद्रालु, शयालु,  
सुस्त, आलसी।

अशुद्ध - वि १ अशुद्ध, गलत,  
सदोष। २ अपवित्र, नापाक।

\* - न रक्त, लहू, खून।

अशुष्क्या<sup>+</sup> - वि हमेशा गल-  
तियाँ करने वाला।

अशुभ - वि अशुभ, अमगल-  
कारी, मनहूस। - न १ अमगल;  
नहूसत। २ पाप। ३ दुर्भाग्य।  
- वर्तमान - न वुरी खबर,  
अमगल ममाचार।

अशै<sup>+</sup> - वि ऐसा, इम  
प्रकार का। - अव्य ऐमे, इस  
प्रकार।

अशोक - पु अशोक, एक पेड़।  
- वनिका न्याय - पु अशोकवनिका  
न्याय, वस्तुविशेष को तरजीह देने  
का कारण न बताया जा सकना।

अशोचित - वि १ अशोचित,  
साफ न किया हुआ, जिमका  
शोचन या सस्कार न हुआ हो।  
२ अज्ञात, जिसे खोज न लिया  
हो।

अशौच - न १ अशौच, मृतक  
का सूतक, जन्म-मरण के कारण  
कुटुंबियों और सर्पिड जनो को लगने  
वाली छूत। २ अपवित्रता, मलि-  
नता, नापाकी।

अश्मतक - पु अश्मतक, कच-  
नार।

अश्म - पु अश्म, पापाण,  
पत्थर। - धातु युग - न पापाण -  
धातु युग। - युग - न पापाण  
युग।

अश्मा - पु १ अश्मा, पापाण,  
पत्थर। २ उत्तरक्रिया (पिंड-

दानादि) के ममय जिसपर तिला-  
जलि दी जाती है वह पत्थर।

अश्रद्ध - वि अश्रद्ध, श्रद्धा-  
हीन, अविश्वासी।

अश्रफी - स्त्री [अ 'अश्रफी']  
अशरफी, मोने का सिक्का; स्वर्ण-  
मुद्रा, मुहर, अशफी।

अश्राप - फ - वि [अ  
'अश्राप'] १ शरीफ लोग, भले  
और प्रतिष्ठित लोग। २ मासूम,  
निरीह, गरीब। - गाय - वि  
निष्पाप, सरल, गरीब (व्यक्ति)।

अश्रु - पु अश्रु, आँसू, अश्क।  
- पात - पु अश्रुपात, आँसू  
गिराना, रोना, अश्करेजी,  
अश्कफिशानी। मु - ढाळणें - आँसू  
वहाना, रोना, आँसू गिराना।

अश्रुत - वि १ अश्रुत, न  
सुना हुआ। २ अशिक्षित। ३  
अवैदिक। - पूर्व - वि अश्रुतपूर्व,  
पहले न सुना हुआ, अद्भुत।

अश्लील - वि अश्लील, भद्दा,  
ग्राम्य, गदा।

अश्व - पु अश्व, घोड़ा। -  
खाद्य - न चना। - शक्ति - स्त्री  
अश्वशक्ति, अश्ववल, तुरगमान,  
'हॉर्म - पाँवर'।

अश्वत्थ - पु अश्वत्थ, पीपल।  
- नारायण - पु देवता रूप माना  
गया पीपलका पेड़।

अश्वि(खी)न - पु आश्विन,  
क्वार।

अषाढ - पु अषाढ, असाढ।

अष्ट - वि अष्ट, आठ। - क -  
न १ अष्टक, आठ वस्तुओं का  
समूह या योग। २ आठ श्लोको  
का समूह। - कोण-णी, - कोन-  
नी - वि अष्टकोण, अठकोना,  
अठपहल। - पदरी - वि अठ-  
पहला। - पदी - स्त्री १ आठ पदी

का समूह । २ अष्टपदी, आठ चरणो वाला एक प्रकार का गीत, एक छंद । - पुत्रा सौभाग्यवती भव - सुहागिन स्त्री को दिया जाने वाला आशीर्वाद । इसमें यह शुभेच्छा प्रकट की जाती है कि उस स्त्री के आठ पुत्र हो और उसका सुहाग बना रहे । - पुत्री - विवाह के समय वधू को पहनायी जाने वाली सफेद धोती जिसमें हलदी लगी होती है । - पैलू - वि १ अठपहला, आठ पहलुओं वाला २ निपुण, कुशल, सर्व - कार्य-कुशल, हरफन मौला ।

अष्टाक्षरी - स्त्री आठ अक्षरो वाला एक छंद । - वि अष्टाक्षर । - मत्र - पु अष्टाक्षर मत्र, 'ॐ नमो नारायणाय' । २ 'क्या कहें कैसे कहें?' यह चिंता, बहुत गरीबी या बड़ा मकट आनेपर आदमी के मुँह से ये शब्द निकलते हैं ।

अष्टावधानी - वि एक साथ आठ या अनेक बातों की ओर ध्यान देने वाला, एक साथ अनेक बातोंका खयाल रखने वाला ।

अष्टोदरशौ - वि एक मी आठ, १०८ ।

अष्टीप्रहर - अव्य आठो पहर, रात दिन, हर वक्त, सतत ।

असख्य, असख्याक-त - वि असख्य, असख्यक, असख्यात, अनगिनत, बेशुमार, बेहिसाब ।

असग - पु सगत या साथ का अभाव । - वि १ अनासक्त, विरक्त । २ निर्लसित, अकेला । ३ मग, साथ, मैत्री के अयोग्य, निर्लज्ज, जिनके साथ नहीं रहना चाहिए । कहा० असगाशों संग आणि प्राणाशों गाठ - बुरे आदमी के

साथ रहने से जान खतरे में पड़ सकती है ।

असगत - वि १ असगत, अमवद्ध, वेमेल । २ अयुक्त, अयोग्य, विपरीत ।

असत\* - वि असथ, अस्थिर ।

असत\* - वि १ अविद्यमान, गैरमीजुद । २ असत, असाधु, खल, नास्तिक । - पण - न १ नास्तिकता । २ बुराई, झूठ ।

असतुष्ट - वि. १ असतुष्ट, अतृप्त । २ अप्रसन्न, नाराज ।

असतोष - पु १ असतोष, नाराजगी, अप्रसन्नता । २ अतृप्ति । ३ अशांति, विक्षोभ, बेचैनी, 'अनरेस्ट' ।

असतोषी - वि १ अमतोपी, सतुष्ट न होने वाला, लोभी । २ हमेशा नाबुज, नाराज रहने वाला ।

असदिग्ध - वि असदिग्ध, निश्चित, पक्का ।

असवद्ध - वि १ असवद्ध, अमगत । २ अलग, वेमेल, बेलगाव । ३ वेतुका, वेढगा, अजीव ।

असभव - पु. १ असभव, असभावना, मुमकिन न होना । २ असगति । - वि असभव, नामुमकिन ।

असभ(भा)वनीय - वि असभव, नामुमकिन ।

असभावित - वि १ असभावित, असभव, नामुमकिन । २ असगत, वेतुका । ३ अमम्य, नीच, अशिष्ट ।

असभाव्य - वि १ असभाव्य, असभवनीय, नामुमकिन । २ असीम, बेहद ।

असमत - वि १ असम्मत्, अमान्य । २ अस्वीकृत, नामजूर । ३. त्याज्य, निषिद्ध ।

असंयुक्त - वि अम्युक्त, अलग, विलग, जुदा, 'अन्कवा-इड' ।

असस्कृत - वि १ असस्कृत, सस्कारहीन । २ असम्य, गँवार, अशिष्ट, गैरमुहजब ।

असकट\* - अव्य वि १ वार-वार । २ वारीक, महीन ।

असका<sup>+</sup> - वि अकेला ।

असका - कं\* - अव्य. वि १ सारा, समूचा, कुल । २ सबसे एक, सब एक साथ ।

असडणे - क्रि स १ झटके के साथ खीचना । २ पछोरना, फटकना । ३ कसकर लगाना, मारना (कोडा, चादुक आदि) ।

असडा - पु. १ झटका, धक्का । २. कसक, पीडा । ३ अचानक आयी हुई विपत्ति ।

असडा - डी, असडोक - वि १. अनकूटा, विना पॉलिश का (चावल) । २ अशिक्षित, असम्य, अशिष्ट ।

असणें - क्रि अ १ होना, वजूद में होना, जीवित रहना । २ रहना, निवास, मुकाम करना । कहा० असून अडचण नसून खोळवा - ऐसा व्यक्ति जिसके रहने से परेशानी हो और न रहने से काम में रुकावट पड़े, दोनों तरफ से हानिकर ।

असत - न १ असत्यता, झूठाई । २ अविनाशी पदार्थ ।

असता - अव्य पर, वाद, होने पर, होते हुए, वावजूद ।

असता - वि १ होने वाला, रहने वाला, रखने वाला । २ जिसके पाम कुछ सपत्ति हो, धनी । ३. समर्थ, सक्षम, लायक, काम का ।



क्षणिक, अस्थिर ।

अस्थि - स्त्री १ अस्थि, हड्डी । २ अस्थि - अवशेष, फूल । - गतप्राण - वि मरणोन्मुख । - पजर - पु अस्थिपजर, हड्डि-योका ढाँचा, ककाल । - मेद - पु अस्थिमज्जा, हड्डी के अंदर की चरबी, मज्जा, 'बोनमैरो' । - सचय - पु अस्थिसचय, गव-दाह के बाद गंगा आदि में प्रवाह के लिए हड्डियाँ या राख एकत्र करना । - समर्पण - न अस्थिसम-र्पण, मचित अस्थियो को गंगा आदि में फेंकना ।

अस्थिर - वि अस्थिर, डाँवा-डोल, चंचल, अनिश्चित । - तेले - न बहु उड जानेवाले तेल, 'व्हीलटार्डल' ।

अस्थैर्य - न अस्थैर्य, अस्थिरता, चंचलता ।

अस्पृश - वि १ अस्पृश्य, स्पर्श के अयोग्य, न छूने लायक, अपवित्र, नापाक, गदा । २ सूतक लगा हुआ । ३ रजस्वला, ऋनु-मती ।

अस्पष्ट - वि अस्पष्ट, धुँधला, सदिग्ध ।

अस्पृश्य - वि अस्पृश्य, न छूने लायक, दे 'अस्पृश' । - पु अछूत, हरिजन ।

अस्पृश्यता - स्त्री अस्पृश्यता, अछूतपन । - निवारण - न, अस्पृश्योद्धार - पु अस्पृश्यता-निवारण, अछूतोद्धार, छुआछूत मिटाना ।

अस्फुट - र - वि अस्फुट, अस्पष्ट, अप्रकट ।

अस्मत् - सर्व हम, मैं ।

अस्मदीय - सर्व हमारा, मेरा ।

अस्माक - सर्व हम, हमारा ।  
अस्मादिक - सर्व हम, हम-  
युद, अपने राम ।

अस्मान - न [फा 'आस्मान']  
१ आसमान, आकाश । २ स्वर्ग ।  
- गिरी - स्त्री १ चँदवा,  
चँदोवा । २ मडप । ३ छप्पर । -  
चपेटा - पु आसमानी गजव,  
दैवकोप । - ची परी - स्त्री  
अप्सरा, मुदरी । - तारा - पु १  
आकाश में चमकने वाला सितारा ।  
२ सुंदर घोडा । ३ वढिया गायक  
लेखक आदि । मु. - जमिनीची  
तफावत - जमीन और आसमान  
का फर्क, आकाश-पाताल का  
अंतर । - ठँगणे होंगे - बहुत  
अधिक घमड होना, धरतीपर पाव  
न रखना ।

अस्मानो - वि [फा 'आस्मान']  
१ आसमानी, आकाशका,  
दैवी । २ हलका नीला । -  
स्त्री दैवकोप, आममानी गजव । -  
रग - पु हलका नीला रग । -  
सुलतानी - स्त्री १ दैवी तथा  
राजकीय आपत्ति, ईश्वर एव राजा  
का कोप होने से आने वाले सकट ।  
२ बहुत बडा जुल्म, अत्याचार ।  
३ अचानक होने वाली हानि ।

अस्त्राप - दे 'अथाप' ।

अस्वल - पु न १ रीछ,  
भालू । २ बडे वालो वाला  
कमला । [- स्त्री अस्वली] ।  
कहा० अस्वला आधी आरोळी -  
अपने खिलाफ दूसरो द्वारा शिकायत  
किये जाने से पहले स्वय ही  
चिल्लाना शुरू कर देना ।

अस्वस्थ - वि १ अशांत,  
वेचैन, अनमना । २ अस्वस्थ,  
वीमार ।

अस्वस्थता - स्त्री १ अमतोप,

वेचैनी । २ विद्रोह, विप्लव;  
'अनरेस्ट' । ३ अस्वाम्य,  
वीमारी ।

अस्स<sup>+</sup> - अव्य अच्छा !, ऐमी  
वात है ? मचमुच ?

अस्सल - वि [अ 'अस्स']  
१ अमली, पह्ला, अच्छा,  
मौलिक, खालिम, खग, सच्चा ।  
२ प्रधान, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट,  
वढिया । ३ औरस, वैध,  
जायज । - प्रत - स्त्री मूल प्रति ।  
वरहुकूम नक्कल - स्त्री पक्की  
नकल, सही प्रतिलिपि ।

अहं - सर्व मैं, स्वय । - पु  
अहकार, खुदी, घमड ।

अहकार - पु अहकार, घमट,  
गर्व, गरूर ।

अहकारण - क्रि अ गर्व,  
घमड करना ।

अहकारी - वि अहकारी,  
घमडी, मगरूर ।

अहता - स्त्री १ अहता,  
घमड, गर्व । २ आत्माभिमान,  
स्वाभिमान, आत्मसम्मान, खुदी ।  
अहपण - न; अहपणा - पु दे  
'अहकार' ।

अहभाव - पु दे 'अहकार' ।

अहमहमिका - स्त्री अहमह-  
मिका, चढाऊपरी, होड, प्रति-  
योगिता ।

अहर्निश - शौं - अव्य अहर्निश,  
रातदिन, आठो पहर ।

अहवाल - पु [अ 'अह-  
वाल'] १ हाल, समाचार । २  
वृत्तात, विवरण, प्रतिवेदन,  
'रिपोर्ट' ।

अहह - अव्य अहह, अरेरे,  
हाय, दुख-क्लेश-सूचक उद्गार ।

अहर्लीव - न हालिम, हालो,  
चसुर ।

अहा; अहाहा - अव्य अहा, अहाहा, हर्ष तथा विस्मय-मूचक उद्गार ।

अहाटणें - क्रि स १ पकी दाल आदि को कलछी से घोटना, रगडना । २ बहुत सताना, पीछे पडना । ३ मिलाना ।

अहार - पु १ दे 'आहार' । २ अजगर । ३ अगारा, आग । ४ इस्तिरी ।

अहारणें - क्रि अ १ बहुत खाने से सुस्ताना । २ निकलना, बाहर आना । ३ गिरना, घेंसना ।

अहारोळी - दे 'अरोळी' ।

अहाळगें\* - क्रि अ १ आग या वूप मे झुलसना, जलना । २ नाश होना । ३ बहुत दुःखी होना ।

अहाळवहाळ - वि १ बहुत, अधिक, ज्यादा । २ सपूर्ण, विस्तृत ।

अहाळीव - दे 'अहळीव' ।

अहिसक - वि १ अहिसक, हिंसा न करने वाला । २ जिसमें हिंसा न की गयी हो । (अहिसक काडडे=मुरदार चमडा) ।

अहिंसा - स्त्री अहिंसा, हिंसा न करना, अदमे तशद्दुद ।

अहि - पु अहि, साँप । - नकुलन्याय - पु १ अहिनकुलिका, साँप और नेवले का सहज वैर । २ जानी दुश्मनी, जन्म-जात वैर ।

अहित - न अहित, हानि, अपकार । - पु शत्रु, वैरी, दुश्मन । - वि अहितकर, विरोधी ।

अहिरण - स्त्री दे 'ऐरण' ।

अहिरण<sup>+</sup> - स्त्री १ अहीरी, ग्वालिन । २. दे 'अहिराणी' ।

अहिरा - पु १ आँखका

एक रोग, अर्जुन । २ जकीक, लाल रंग का एक बहुमूल्य पत्थर ।

अहिराणी - स्त्री खानदेश (महाराष्ट्र) मे बोली जाने वाली मराठी की एक क्षेत्रीय भाषा या बोली ।

अहिरी - स्त्री व्याह के समय विवाह-वेदी के चारो कोनोपर रचे जाने वाले रगीन मटके ।

अहिवा - वि स्त्री अहिवाती, सौभाग्यवती, सधवा । - नवमी - स्त्री दे 'अविघवानवमी' ।

अहिस्ता - पु [फा 'आहिस्ता'] क्वायद में दिया जाने वाला हुक्म, आहिस्ता या धीरे चलो, 'स्टेप-शॉर्ट' ।

अहीर - पु १ अहीर, ग्वाल । २ आभीर । ३ अजगर ।

अहेतुक - वि अहे (है)तुक, अकारण, हेतुरहित । - अव्य अकारण, वेमतलव, विना जाने ।

अहेर - पु नेग, भेंट, सौगात, उपहार, उपायन ।

अहेरण - दे 'ऐरण' ।

अहेव - स्त्री १ अहिवाती, सुहागिन, सधवा । २ अहिवात, सुहाग, सौभाग्य । - ततु, -दोरा - पु सौभाग्यसूत्र, मंगलसूत्र । - पण - न अहिवात, सुहाग । - मरण - न पति के जीवित रहते स्त्री का मरना ।

अहो - अव्य १ अजी, जी, आदरसूचक संबोधन । २ हर्ष या विस्मयसूचक उद्गार । - जाहो - अव्य आदर के साथ बुलाना या वाते करना । मु - रूप अहो ध्वनि - अहोरूपमहो ध्वनि, परस्परप्रशंसा ।

अहोदिवस - अव्य दिनभर, दिनरात ।

अहोराती, \* अहोरात्र - अव्य.

अहोरात्र, दिनरात, आठो पहर ।

अळकरण, अळकार - दे 'अलकरण, अलकार' आदि ।

अळटळ - न टालमटूल, हीला-हवाला । [मुत्ता ।

अळवें-भें - न छत्रक, कुकुर-अळकुडी - स्त्री अरवी, घुङ्ग्याँ ।

अळण - न १ वेसन की कढी । २ आलन, वेसन, साग मे मिलाया जाने वाला वेसन ।

अळणट - वि कुछ फीका, अलोना ।

अळणी - वि १ अलोना, विना नमक का, फीका । २ वेमजा, वेजायका । ३ हलका, साधारण, मामूली ।

अळणे - क्रि अ १ गाढा होना, जमना, ठोस होना । २ सूखना । ३ औटाया जाना । - क्रि स १ औटना, औटाना । २ गाढा बनाना ।

अळता - पु १ अलता, स्त्रियो के पैरो में लगाने के काम आने वाला एक प्रकार का लाल रंग जो लाख से बनाया जाता है । २ इस रंग में भिगीयी हुई रुई ।

अळमळित - दे 'गुळमुळित' ।

अळमाळु - दे 'अळुमाळु' ।

अळमें - दे 'अळवे' ।

अळवडी - स्त्री अरवी के पत्ते में वेसन लगाकर बनायी हुई बडी या टिकिया ।

अळवण - दे 'अळण' ।

अळवण-णी - दे 'आळवणी' ।

अळवणी - दे 'अळणी' ।

अळविणें - क्रि स १ सम-ज्ञाना, मनाना । २ मनुहार करना, मित्रते करना । ३ प्रार्थना करना, दुआ करना । ४ बुलाना, पुकारना, ५. गाना, अलापना ।

अळशी-सी - खी अळमी,  
तीसी, 'लिनमिड' ।

अळशी, अळसावणे - दे  
'आळशी', 'आळसावणे' ।

अळसुदा - पु., अळसुंदी - खी  
चांलाई, लोविया, चवला, एक  
मोटा अनाज ।

अळापिळा - पु. १ मरोड,  
मरोडा, ऐठन । २ दे 'पिळा' ।

३ अंगटाई ।

अळिता - दे 'अळता' ।

अळीव - वि १ गाढा, ठोस  
वनाया हुआ । २ प्रौढ, वयस्क ।

अळी - खी कीडा, पिल्लू,  
मूंडी ।

अळी - खी १ गली, मुहल्ला ।

२ तग रास्ता । - कर - वि  
अपनी गली में रहने वाला,  
पडोमी । ३ दे 'अळें' ।

अळीमिळी गुपचिळी - खी चुप  
रहना, खामोशी । मु - घालणें  
चुप रहने की कसम दिलाना,  
न बोलने की ताकीद करना ।

अळीव<sup>+</sup> - दे. 'अहळीव' ।

अळ<sup>+</sup> - वि थोडा, कुछ ।

अळुमाळ - लु\* - वि अव्य १  
थोडा - थोडा, अल्प, कतई,  
विलकुल, तनिक । २ छोटा-सा ।  
कम । ३ थोड़ी देरके लिए । ४  
धीरे, आहिस्ता । ५ परिपूर्ण,  
भरा हुआ । ६ विस्तार के माय ।

अळ - न अरबी, एक मज्जी ।

## आ

आ - मराठी वर्णमाला का  
दूसरा स्वरवर्ण या अक्षर । सस्कृत  
शब्दों में जब यह उपसर्ग के रूप  
में व्यवहृत होता है तब 'मे लेकर'  
(आजन्म=जन्म से लेकर) 'तक'  
(आमरण=मृत्यु तक) आदि  
अनेक अर्थों को प्रकट करता है ।

आ - अव्य आँ ?, जी, क्या  
कहा ?, विस्मयमूचक शब्द । -  
प्रत्य \* का, की, के । (डोळे आ  
= आँखों का) । [ दे. 'आख' ।

आक - पु. १ दे 'अंक' । २

आकडा - पु. १ आँकडा,  
अक, सख्या । २ कँटिया, 'हुक' ।  
३ विच्छू या केकडे का डक,  
काँटा । ४ लवी और बडी मिर्च  
या इमली । ५ नोक, सिरा ।

आंकडी - खी १ दे 'आकडा'  
२ अँकडी, टेढी कँटिया, लगी ।  
३ वच्चों के पेट का एक रोग-  
इससे हाथों पाँवों में झटके आते हैं ।

आंकडेपत्रक - न सांख्यिकीय  
लेखा, 'स्टैटिस्टिकल रिटर्न' ।

आकड शास्त्र - न सांख्यिकी,  
'स्टैटिस्टिक्स' ।

आंकण-णा - पु., आकणें\* -  
न १ पाँवों में पहनने का तोडा,  
पराक्रमसूत्रक पादभूषण । २  
अलकार, भूषण । ३ यगचिह्न,  
टेक, वाना ।

आकण कडवें - न १ गानेकी  
टेक । २ रटन, रट, रटत ।  
३ तकिया कलाम ।

आकणा - ना\* - वि पु.  
तावेदार, आज्ञाकारी ।

आकणी - खी १ अकन,  
चिह्न करना । २ पटरी, रेखक,  
मापक, 'रूल' । ३ रेखाएँ  
खीचना । ४ योजना, परियोजना,  
'प्लान', 'स्कीम' । ५ रेखा-  
चित्र, मानचित्र, नक्शा ।

आकणें - क्रि स आँकना,

- वडी - खी दे 'अळवडी' ।  
मु अळवावरचे पाणी-क्षणभगुर,  
अशाश्वत, अम्यिर वात, ओम के  
मोती ।

अळ - पु. आडू जैसा एक फल ।  
अळें - न क्यारी, थाला;  
आलवाल ।

अळें - न विकारी, मन, मेर  
रूपये आदि के चिह्नरूप टेढी पाई ।

अळेंवळें - अव्य किमी तरह,  
जवर्दस्ती, अनिच्छा में, मुश्किल से ।

अळेपिळे, अळोखेपिळोखे -  
पु. बहु., अळ्यापिळ्या - खी बहु  
अँगडाई, देह का टूटना, अंगों  
को तानना । मु - देणे - अँग-  
डाई लेना ।

रेखाएँ खीचना, चित्र या चिह्न  
वनाना, नापना, मापना ।

आकपट्टी - खी १ कपडे के  
थानपर लगी पर्ची जिसपर दाम  
आदि लिखा होता है । २ सूची,  
फर्द । ३. दे 'आकणी' ।

आख - पु. १ अक, आँकडा,  
मख्या । २ मूल्य का आँकडा ।  
३ कपडा, थान । - पट्टी - खी  
दे 'आकपट्टी' ।

आखणे - दे 'आकणे' ।

आखोआख - अव्य चिट्ठी या  
पुर्जेपर लिखे हुए दाम के अनुसार,  
लागत दामपर ।

आग - दे. 'अग' ।

आंगचें - न १ किसी देवता  
या भूत-पिशाच का आवेश, प्रेत-  
वाचा । २ गुदा में बाहर आने-  
वाली आँत । दे 'अगचा' ।

आगठा; आगठी, आगण - दे  
'अगठा', 'अगठी', 'अगण' ।

आगत पगत - स्त्री वच्चो के सहभोजन का एक प्रकार जिसमे वे अपने-अपने घर से भोजन ला कर आपस में बाँट लेते हैं।

आंगर(रा)खा - पु. अँगरखा, एक लवा बदनदार मर्दाना पहनावा, अगा, चपकन।

आगले - दे 'अगडें'।

आगा<sup>+</sup> - पु. अँगरखा, अगा।

आगाथिणे\* - क्रि अ स १ पुष्ट होना। २ अगीकार, स्वीकार करना।

आगारा - दे 'अगारा'।

आगुळ - दे 'अगुळ'।

आगें\* - अव्य स्वय, खुद।

आग्ल - वि [अ] अँगरेजी, अँगरेज या अँगरेजी - संवधी, 'इंग्लिश', 'ऐंग्लो'। - भाषा - स्त्री अँगरेजी, अंग्रेजी, 'इंग्लिश'।

आग्लो इडियन - वि [अ] ऐंग्लो इडियन, यूरेशियन।

आघोळ - दे 'अघोळ'।

आच - स्त्री १ आंच, गरमी। २ आग, लपट, ताव। ३ चिंता, फिक्र। ४ डर, खटका। ५ क्षति, हानि, घाटा। मु - बसणे, -लागणें - १ जलना। २ आंच आना, हानि होना, कष्ट, क्षति, आघात पहुँचना।

आचका - पु १ बक्का, झटका, धक्का। २ तनाव, मरोड, ऐंठन। ३ उलटी साँस चलना, दम उखडना।

आंचवणे - दे 'अचवणे'।

आचळ - दे 'अचळ'।

आजन - पु न दे 'अजन'।

पु - हनुमान्, हनुमान्।

आजारणें - गोजारणे - दे 'अजारणे गोजारणे'।

आठ(ठो)ळ - ठी - दे म हिं ग कोश .५

'अठोळी'।

आठी - दे 'अठी', 'अठळी'।

आठोळी - दे 'अठळी'।

आड - दे 'अड'। [ में।

आडकुली, आडकूळ - दे 'अड' आडील, आडुकली - दे 'अडील', 'अडुकली'।

आडू गाडू - वि [या] गाँडू, कमजोर, निकम्मा।

आडें - दे 'अडें'।

आत - अव्य १ अदर, भीतर, में, बीच में। २ निश्चित समय में पहले, पेशतर। दे 'आतला', - मध्य - अव्य अदर। मु - बाहेर करणे, पाहणे - झिझकना, पूरी तरह मोच-विचार करना। - घेणे - अवनति, घाटा होना।

आत - न आंत, अँतडी।

आंतउता - ती\* - अव्य अदर, भीतर।

आतडी - स्त्री, आतडें - न आँन, अत्र, अँतडी। मु आत-डचाला पीळ पडणे, बसणें - जी को लगना, चोट पहुँचना, दिल पिघलना।

आतबट्टा - पु १ बट्टा, दस्तूरी, दलाली। २ घाटा, नुकसान। मु आत बट्ट्यात घेणे - घाटा होना, घाटे में रहना, लेने के देने पडना। आत बट्ट्याचा व्यवहार - घाटे का कारोबार या काम।

आतर - वि अदर का, बीच का। - त्वचा - स्त्री अतरछाल। - राष्ट्रीय - वि अतर राष्ट्रीय, जताराष्ट्रि(ष्ट्री)य, 'डटर नैशनल'। - विवर - न रिक्तका, धानी, रसधानी, 'वैक्युओल'।

आतरास्तर - न अव स्तर,

उपरुह, उपाकुर, 'हाईपोक्लास्ट'।

आतर्भाव - पु १ प्रीति, प्रेम। २ ध्यान।

आतला - वि अदरका, भीतरवाला, बीच का। [ वि स्त्री 'आतली' ] - आवाज - पु अतरात्मा की आवाज, अत प्रेरणा, 'इनर व्हॉइस'। आतली खूणगांठ - स्त्री मन में छिपा हेतु, उद्देश्य, मतलब। आतल्या आंत - अव्य १ अदर ही अदर, भीतर ही भीतर। २ छुपे तीरपर, चुपचाप। ३ आपस में। मन ही मन। आतल्या कडेस, घडेस - अव्य. अदर की ओर, भीतर से। मु. आतल्या गाठीचा - जिसके मन की बात दूसरों को मालूम न हो सके, घाघ, काइयाँ, चालवाज।

आतील - वि १ अदरका, भीतरका, भीतरी। १ गुप्त, छिपा हुआ। - मजकूर - पु १ पत्र में लिखा हुआ मजमून, बातें। २ मन की बात।

आतुल-ला-ली-लू-लें\* - वि अदरका, भीतरी, बीच का।

आतू\* - अव्य अदर, में, बीचमें।

आतून - अव्य अदर से, भीतरमें, छिपे तीर पर विरोध या प्रतिश्रव करना, अडगा डालना।

आत्र - न आँत्र, अत्र। - वि आत्र, आँतमें सबव रखनेवाला। - कलाधमनी - स्त्री आत्रयोजनी धमनी, 'मेमेटेरिक आर्टेरी'। - वेष्टण - न उदर्या, 'पेरिटोनियम'।

आथर - पु चटाई, सीतलपाटी।

आथरणे - दे 'अथरणे'।

आथरी - स्त्री चटाई, सीतलपाटी।

आंयरूण - दे 'अयरूण' ।

आदण - दे 'अदण' ।

आदु-दु-दे 'अदू' ।

आदुळण\* - क्रि अ १

झूलना, हिलना । २ डोलना, ऊपर-नीचे होना । -क्रि स वच्चे को झूले या पालने मे रग्व कर हिलाना, झुलाना ।

आंदोल(ळ)णे - क्रि अ झूलना, हिलना । - क्रि स झुलाना, हिलाना ।

आदोलन- न १ झोका, हिलोरा, झकोरा । २ आदोलन, तहरीक, 'एजिटेशन' ।

आदोळणे\* - दे 'आदुळणे', 'आदोळणे' । [झकोरा, हिलोरा ।

आदोळी - स्त्री झोका,

आघळा - आघळी कीर्शिबीर-दे 'अघळा', 'अघळी कीर्शिबीर' ।

आधार, आवारी, आघेर - दे 'अधार', 'अधारी', 'अघेर' ।

आव - स्त्री १ चने के पांघो-पर शाम को कपडा विछा देते है और सुवह उमे निचोट लेते है । उससे ओम के साथ चने के पत्ता की खटाई मिल जाती है । उमे आव कहते है । यह दवा के तौर-पर इस्तेमाल की जाती है । २ खटाई, खटाम, तुर्गी, खट्टापन ।

आवकटी, आवकाठी - स्त्री अमचूर, अमहर, कच्चे आम की सुखायी हुई फाँक ।

आवट - दे 'अवट' ।

आंवटाण\* - स्त्री इमली, छिलका निकालकर सुखायी हुई इमली ।

आवणें, आवराई, आववण, आंवविणें, आवसाण, आवा, आवाडा, आवील, आवूस, आवे-मोहर, आवेहळद, आवोण,

आवोळी - दे 'अवणे', 'अव-राई', 'अववण', 'अवविणे', 'अवमाण', 'अवा', 'अवाडा', 'अवील', 'अवूस', 'अवेमोहर', 'अवेहळद', 'अवोण', 'अवोळी' ।

आवुले\* - पु बहु झुमके, झुमक, करनफूल ।

आव - स्त्री आव, आमानि-सार, पेचिग की बीमारी जिममे मल के साथ मफेद आव आता है । -रवत-न वह आव जिममें मल के साथ खून आता है, रकन आमानि-मार, रक्तातिमार ।

आवकणें - क्रि अ झिझकना,

आवडा - डा - दे 'अवडा' ।

आवणी - दे 'आवणी' ।

आवय\* - अव्य १ छि ।

२ दे 'इच्छ' ।

आवळ, आवळकाठी, आवळणें, आवळा, आवळी, आवळीभोजन, दे 'अवळ', 'अवळकटी', 'अव-ळणे', 'अवळा', 'अवळी', 'अवळीभोजन' ।

आवि(वीं)स\* - न १ आमिप ।

२ लालच, लोभ ।

आविसाळें\* - न पछीका घोसला, आश्रयस्थान ।

आस - पु अक्ष, बुरी, पहिये का घुरा, धरती की बुरी ।

आसड - पु गाय, भेंस, आदि का थन । [२ पछोरना ।

आसडणें\* - क्रि स १ कूटना ।

आसुढाळ - दे 'असुढाळ' ।

आसू - न आंसू, अश्रु, अश्रक ।

आ - पु मुंह खोलना, खुला हुआ मुंह । मु - वासणे - १ मुंह खोलना, वाना । २ जम्हाई लेना ।

३ खाने के लिए मुंह वाना, फैलाना । ४ सहायता माँगना ।

आ - पु पत्रव्यवहार आदि में

आगीवाद के लिए प्रयुक्त अक्षर ।

आ - अव्य १ कबूतर, मोर आदि को बुलाने का शब्द । २ जी हाँ, हाँ ।

आइकणें\* - दे 'ऐकणे' ।

आइका\* - क्रि म. सुनो, सुनिए ।

आइकीजे\* - क्रि स सुनिए ।

आइकीव\* - दे. 'ऐकीव' ।

आइकं\* - क्रि स सुन, सुनो ।

आइकीनि\* - अव्य सुनकर ।

आइतवार\* - पु इनवार, रविवार ।

आइता - ती - तें - वि १ वना-वनाया, तैयार, अनायाम प्राप्त, आमानी में मिला हुआ । २ स्वतंत्र, स्वाधीन स्वयंपूर्ण, स्वतन्त्र । - अव्य अनायाम, महज, आसानी में ।

आइतोजी - वा - वि मुफतखोर, टुकडगोर, किमी काम को पूरा करने में कष्ट न उठाकर केवल उममें मिलने वाला लाभ उठाने वाला ।

आई - स्त्री १ माँ, माता । २ देवी, जगदन्ना । ३ माता; गीतज्ञ, चित्रक । - फाळी - स्त्री खेती की जमीन, भूमि । - पाढर - स्त्री गोटवस्ती, वह भूमि जिनपर वस्ती बसी हो । - बाई - स्त्री १ माँ जैमी स्त्री । २ पडोमिन, कोई भी स्त्री । (मु - ० करणे - खुशामद करना ।) - वाप - पु माता - पिता, माँवाप । (मु - ० उद्धरणें - माँ वाप में सवधित गदी गालियाँ देना । - माई - स्त्री माँ जैमी स्त्री; कोई भी स्त्री । (मु - ० उद्धरणें - माँ सवधी गदी गालियाँ देना । मु - ० करणें - मनुहार, खुशामद करना ।) - आईचान - माँ की

कमम, मचमुच । कहा, आईजीच्या  
जिवावर वाईजी उदार - अडे मेवे  
कोई, वच्चे लेवे कोई । [ विशेष ।

आईन - पु अमन - ना, वृक्ष  
आउक - क्ष - ख<sup>+</sup> - न<sup>+</sup> १  
आयु, जीवन, जीवनकाल । २  
वडी उम्र, दीर्घायु । - वत - वि  
आयुष्मान्, लवी उम्र वाला ।

आउत<sup>+</sup> - दे 'औत' ।  
आउले<sup>+</sup> - वि अलग, जुदा,  
आऊ - खी १ दे 'अवा' ।  
२ माताजी, बहनजी, आदर  
सूचक संबोधन । ३ स्त्री । ४  
वाईजी, बाजारू औरत । ५ मातृ-  
स्तन ।

आऊ<sup>+</sup> - न १ कराहना, आह  
- आह करना । २ हिचकिचाना ।  
आऊट - दे 'औट' ।  
आऊत - दे 'औत' ।  
आओ\* - पु आकृति, शकल,  
आकार । [ लवालव, छक कर ।  
आकठ - अव्य गले तक,  
आकठणे<sup>+</sup> - क्रि स पकडना ।  
आकडसासू<sup>+</sup> - खी बडीसाली,  
पत्नी की बडी बहन ।

आकडा - दे 'आकडा' ।  
आकडी - वि १ खालिम,  
शुद्ध । २ गर्म न किया हुआ,  
कच्चा (दूध) ।

आकण<sup>+</sup> - न १ एक बार  
दँवरी किये हुए ज्वार, वाजरे आदि  
के भुट्टे । २ दँवरी हो जाने के बाद  
बचा हुआ अनाज जिसमें ककड  
और मिट्टी मिली हो । मु -  
निघणें - बहुत थक जाना, थक कर  
चूर होना, निढाल होना ।

आकवंद - वि पूरा, समूचा,  
संपूर्ण तैयार ।

आकर - पु आकर, खान,  
भंडार । - ग्रथ - पु शब्दकोश,

विशकोश जैसे बडे ग्रथ, सदभं  
ग्रथ, 'बुक ऑफ रेफरेन्स' ।

आकरणे\* - क्रि अ १  
आकार मिलना । २ उत्पन्न होना ।  
- क्रि स आकार देना, बनाना ।  
आकरताळी - दे 'अकर-  
ताळ्या' ।

आकरसणे - क्रि अ खिचना,  
तनना, ऐंठना, सिकुडना । - क्रि  
स खीचना, कसकर वाँघना ।  
आकरा<sup>+</sup> - दे 'अकरा' ।  
आकरीत\* - वि १ बहुत,  
अतिशय, ज्यादा । २ चालाक,  
वृत्त, काइयाँ ।

आकर्षक - वि १ आकर्षक,  
खीचने वाला । २ दिलकश,  
चित्ताकर्षक, सुंदर ।

आकर्षण - न १ आकर्षण,  
खिचाव, कशिश । २ खीच लेने की  
शक्ति । - शक्ति - खी आकर्षण-  
शक्ति ।

आकर्षणें - क्रि स खीच लेना,  
आकर्षित करना । - क्रि अ विम-  
टना, सिकुडना ।

आकर्षित - वि आकर्षित,  
आकृष्ट, खीचा हुआ ।

आकलन - न १ बोध,  
समझ, ग्रहण, विवेकबुद्धि,  
जानकारी । २ बचन, तावा ।

आकस - दे 'अकस' ।  
आकस्मिक - वि आकस्मिक,  
अचानक होने वाला, इत्तिफाकी ।

आकळ, आकळण - दे 'आक-  
लन' ।

आकळणें\* - क्रि अ १  
खीचना, वाँघना, बश या ताबेमें  
रखना । २ जानना, समझना,  
बोध होना, समझ में आना । ३  
मिलना, प्राप्त होना । ४ व्याप्त  
होना । ५ पाम लेना, पुचकारना,

चूमना ।

आकाक्षा - खी १ आकाक्षा,  
इच्छा, चाह, अभिलाषा । २  
माँग, आवश्यकता । ३\* शका,  
शक, मदेह । ४ आक्षेप, आपत्ति,  
उज्र ।

आकात - दे 'अकात' ।  
आकातणें - क्रि अ १ रोना  
- बोना, विलाप करना । २ घबडा  
जाना ।

आकावाई - दे 'अक्कावाई' ।  
आकार - पु १ आकार, रूप,  
कद, शकल, गढन, आकृति,  
बनावट । २ लवाई - चौडाई,  
फैलाव । ३ लगान, महसूल,  
किराया । ४ कूत, अदाजा,  
तखमीना, अनुमान । ५ चिह्न,  
निशान । ६ मूल्य, दाम । ७  
आयाम, परिमा, परिमाण,  
'व्हाल्यूम' । ८ आकृति, बाह्य  
आकार, 'फिगर' । - मान - न  
विस्तार का परिमाण, आयाम । मु  
आकारास येणें - १ कोई रूप या  
आकार ग्रहण करना, बनना । २  
साकार बनना, दृष्टिगोचर होना ।  
३ मफल बनना ।

आकारणो - खी १ निर्धारण,  
कर-निर्धारण, आगणन, 'ऐसे-  
समेट' । २ लगान, जमावदी,  
महसूल । ३ कूत, अनुमान,  
अदाजा, तखमीना । ४ हिसाब ।  
५ गुल्क, चदा ।

आकारणें - क्रि अ बनना,  
कोई रूप या आकार ग्रहण करना ।  
- क्रि स १ लगाना, कर-निर्धारण  
करना, लागू करना । २ आगणन  
करना, कूतना, आँकना । ३\*  
बुलाना, पुकारना, आवाहन  
करना ।

आकाश - न १ आकाश,

आममान । २ अवकाश, खिला, शून्य स्थान । ३ शून्य । - कुसुम-  
न आकाश-कुसुम, आममानका  
फूल, अनहोनी वात । - गगा,  
- नदी - स्त्री आकाशगगा,  
मदाकिनी । - दिवा - पु आकाश-  
दीप, आकाशदिया । - यान -  
न वायुयान, हवाई जहाज । -  
वाणी - आकाशवाणी, आसमान  
में आने वाली आवाज, देववाणी,  
वही । - खेल - स्त्री ? आकाश-  
वल्ली, अमरवेल । २ वाँदा,  
परगाछा । मु - पाताळ एक  
करणे - ? आकाश पाताल एक  
करना, भारी प्रयास करना । २  
हलचल मचाना, शोरगुल मचाना,  
हो हल्ला करना । - पाताळ एक  
होणे - वडे जोर की वारिज होना,  
मुसलावार या मुमलवार मेंह  
वरसना । - पाताळाचा भेद -  
जमीन - आसमान का फर्क,  
आकाश - पाताल का अंतर ।  
- फाटणे - आममान फटना, सब  
ओरसे एक साथ सकटो का आना ।  
आकाशातला वाप - ईसाइयो का  
ईश्वर । आकाशाची कुऱ्हाड पडणे -  
आसमान टूटना, देवकोप होना,  
अचानक भारी विपद् आ पडना ।  
आकाशाची चौघडी करणे - असभव  
कर दिखाना, बहुत बडा काम  
करना । आकाशाची दोरी तुटणे -  
दे ' आकाशाची कुऱ्हाड पडणे ' ।  
आकाशाची साल काढणे - निष्फल  
प्रयत्न करना, बेकार कोशिश  
करना । आकाशाला गवसणी  
घालणे - आकाश को गिलाफ में  
बद करना, असभव वात कर  
दिखाने की चेष्टा करना ।  
आकाशाला घेरा घालणे, देणे -  
? आकाश को घेर लेना, बहुत

बडा पगक्रम कर दिखाना । २  
अनहोनी वात करना । आकाशाला  
ठिगळ लावणे - आममान में  
थिगली या थूनी लगाना, कठिन,  
अनहोनी वात करना । आकाशाला  
शिड्या लावणे - अपनी ताकद में  
बाहर का काम करना ।

आकुचणे - क्रि अ सिकुडना,  
मिमिटना, सकोच करना ।

आकुचन - न ? आकुचन,  
मिमिटना, सिकुडना । २ तग  
होना, कसना । ३ कम करना,  
मक्षेप करना । ४ जमा करना ।  
५ झुकना, टेढा होना ।

आकुचित - वि ? आकुचित,  
सिकुडा हुआ, टेढा, झुका हुआ ।  
२ मकीर्ण, तग ।

आकुल-ळ - वि ? आकुल;  
व्याकुल, उद्विग्न, परेशान, बेचैन ।  
२ भरा हुआ, अभिभूत ।

आकृति - स्त्री ? आकृति,  
आकार, रूप, शकल । २ प्रतिमा,  
मूर्ति । ३ शरीर, देह । ४  
व्यक्ति, मनुष्य, शख्स । ५ रेखाओं  
द्वारा घिरी हुई आकृति, ' फिगर ' ।  
- लेख-पु, -लेखन - न प्रारूप,  
रेखाकृति, रूपरेखा, ढाँचा,  
खाका, ' स्केच ' । - लेखक -  
पु सर्वमाप-लिख, प्रतिलेख यत्र,  
' पैटोग्राफ ' ।

आकृष्ट - वि आकृष्ट, आक-  
षित, खींचा हुआ ।

आक्का, आक्कावाई - दे  
' अक्का ' , ' अक्कावाई ' ।

आँक्टोवर - पु [अ] अक्तूवर ।

आक्कदणे - क्रि अ जोर-जोर  
से रोना, आक्रोश, विलाप करना,  
ढाँहें मारना ।

आक्कदन - न आक्कद, विलाप,  
रोना - चिल्लाना, कुहराम,

बावैला ।

आक्कमक - वि आक्कमक ।

आक्कमण - न ? आक्कमण,  
हमला, धावा, चढाई । २ पग-  
भव, बढ जाना, मात करना ।

आक्कमणे - क्रि अ ? आक्कमण  
करना, धावा बोलना । २ तय  
करना (फामला, मार्ग), लौंघना ।

आक्कसणे - दे, ' अक्कमणे ' ।

आक्कात - वि ? आक्कात,  
जिमपर आक्कमण किया गया हो ।  
२ पराभूत, जिसपर कब्जा किया  
गया हो । पु दे ' अक्कात ' ।

आक्काळविक्राळ - दे ' अक्काळ-  
विक्राळ ' ।

आक्कोश - पु ? विलाप, रोना-  
धोना, बावैला, कुहराम । २  
आक्कोश, कोसना, शाप, निंदा ।  
३ जिद, हठ । [ बोक्मी ' ।

आक्कसावोक्की - दे ' ओक्सा-  
आक्षिप्त - वि ? आक्षिप्त,

जिमपर आपत्ति या आक्षेप किया  
गया हो, जिममें अटगा डाला गया  
हो । २ अम्बीकृत, नामजूर ।

आक्षेप - पु ? आक्षेप,  
आपत्ति, हर्ज, एतराज, उज्र ।  
२ अपवाद, लाछन, निंदा । ३  
फेंकना, उछालना । ४ मोह लेना,  
व्हीचना । मु० - घेणे - ? आपत्ति  
उठाना, एतराज करना । २ दोष,  
तुहमत लगाना ।

आक्षेपक - वि आक्षेपक,  
आक्षेप करने वाला, उज्रदार ।  
- पु - आक्षेपक, एक वात रोग,  
ऐठ, ऐंठन, ' कनवल्लन ' ।

आक्षेपार्ह - वि आपत्तिजनक,  
बेजा, नाजायज, नामुनासिब,  
काविले एतराज । [ हमेशा ।

आक्षे\* - अव्य अक्षय रूप में,  
आख - पु ? आख । २ कन-

पटी । ३ अक्ष, घुरा, घुरी ।

आखडणे - क्रि अ १ सिंचना, मिकुडना, छोटा या तग होना । २ रुकना, वद होना । ३ रुठना, अकडना । - क्रि स १ खीच लेना, तग या रुम करना । २ रोक रखना ।

आखण-णी-णे, आखपट्टी - दे 'आकण-णी-णे, ' 'आकपट्टी' ।

आखता\* - स्त्री अक्षत, चावल ।  
आखबद - वि पूरा, समूचा, सावत । - डोष्याचा - वि होशियार, चालाक, हिमावी ।

आखर<sup>+</sup> - वि अक्षय, अक्षय्य ।  
- पु स्त्री २ गांव की सीमापर का खेत, गांव की सीमा । २ गोपद, वह स्थान जहाँ दिन में ढोंग विश्राम करते हैं । - न अक्षर । - अव्य [अ 'आखिर'] अंत में, आखिरकार ।

आखला - पु [गु] माँट ।

आखा - दे 'अख्वा' ।

आखाड<sup>+</sup> - पु आपाड, असाट । - झड - स्त्री १ असाड की झटी, लगातार वर्षा । २ नीरम, उकताने वाला भाषण । - पाटी - स्त्री व्याह के बाद आने वाले प्रथम असाड के अँवरे पाख में बहू के मायके में वर के पास भेजी जाने वाली सांगात । - सासरा - पु १ घौम देने वाला, डाँटने वाला पुरुष । २ अधिकार न होने पर भी रोव जमाने वाला व्यक्ति । दे 'अखाड' ।

आखाडा - दे 'अखाटा' ।

आखाडी - वि अमाडी, असाड का । - स्त्री १ असाडी, असाड की पूर्णिमा । २. अमाड की जोरदार वाग्नि । ३ कमी, अकाल, अभाव । ४ असाड की शुल्का

एकादशी । ५ अमाड के महीने में होने वाली पशुओं की एक वीमारी ।

आखात - पु. आखात, उपसागर । दे 'अखात' ।

आखु(खू) ड, आखुडणे - दे 'अखुड, ' 'अखुडणे' ।

आखेर - दे 'अखेर' ।

आखोटा<sup>+</sup> - पु जहाजका वार्षिक किराया ।

आख्वा - दे 'अख्वा' ।

आख्या - स्त्री १ ग्याति, गृहरत, कीर्ति । २ लोकापवाद, वदनामी । ३ अफवाह । ४ अनुश्रुति, कहानी । ५ उपाधि, पदवी । [पौराणिक कथा ।

आरयान - न कथा, कहानी, आख्यायिका - स्त्री १ आख्यायिका, कथा, कहानी । २ अनुश्रुति, किंवदन्ती, जनश्रुति ।

आगतुक - वि १ आगतुक, अचानक आने या होने वाला । २ विना बुलाये आने वाला या आया हुआ, अजनबी, अपरिचित, मुमाफिर, भूला-भटका । ३ भोजन के समय बिना निमंत्रण के आया हुआ । ४ प्रक्षिप्त, बाह्य, विजातीय । - अव्य अकस्मात्, अचानक । - खर्च - पु अनपेक्षित खर्च, अप्रत्याशित व्यय । - गुण-पु ऐसे गुण जो मूल स्वभाव में न हों, पर जो अभ्यास से प्राप्त किये जा सकते हों । - लाभ - पु १ आकस्मिक लाभ २ ऊपरकी आमदनी । - वृत्ति - स्त्री विना बुलाये जाने की या भोजन का निमंत्रण न मिलने पर भी जाकर भोजन करने की आदत ।

आगतुकी - दे 'आगतुक वृत्ति' ।

आग - स्त्री १ आग, अग्नि । २ जलन, डाह । ३ क्रोध,

गुम्मा । ४ तैश, आवेश । ५. खाज, खुजली । - काडी - स्त्री दियामलाई । - डब्बी - स्त्री दिया सलाई की डिविया, 'माचिस' । - जाळी-ळ्या - वि १ आग लगाने वाला । २ फसाद कराने वाला । ३ क्रोधी, गुस्सावर । ४ दुष्ट, कीनावर । ५ गदा । - डोव - पु १ आग की ज्वाला या लपट । २ भागी सकट । ३ बहुत तीखा या तेज । - पाणी - न १ नाइट्रिक अम्ल, 'नाइट्रिक ऐसिड' । २ सल्फ्यूरिक अम्ल, शुल्वारिक अम्ल, गवक का तेजाव, 'सल्फ्यूरिक ऐसिड' । - पेटी - स्त्री दे 'आगडब्बी' । - पेण, -पेण-स्त्री अगियासन, एक चर्मरोग जिसमें गर्मी के कारण चमड़ेपर फफोले पड जाते हैं, जिनसे बड़ी जलन होती है । - बब - पु आग बुझाने का बवा, दमकल । - बोट - स्त्री अगिनबोट, धुआँकश, 'स्टीमर' । - लाव्या - वि आग लगाने वाला, झगडा कराने वाला । - वाला - पु एजिन में कोयला डालने वाला, 'फायर मैन' । मु - असणे - १ किमी वात की तीव्र इच्छा या अभिलाषा होना । २ बहुत तेज मिजाज होना । - उठणे - बहुत भूख लगना; अति कुलबुलाना । - ओतणे - अगारे उगलना, जली-कटी सुनाना । - घालणे - आग लगाना । - झाडणे, - पाखडणे - अगारे उगलना, जलीकटी सुनाना, आग बरमाना । - लागणे - १ आग लगाना, किमी वस्तु का बहुत महंगा हो जाना । २ नष्ट होना । (आग लागणे = मृत्यानाश हो जाय) - लावणे - आग लगाना, झगडा



कराना, चुगली खाना, क्रोध या ईर्ष्या भडकाना । आगीत उड़ी घेणे, घालणे, टाकणे - आग में कूदना, अपने ऊपर विपत्ति लेना । आगीत तेल ओतणे - आग में घी छोडना या डालना, क्रोध भडकाना, झगडा वढाना । आगीतून निघून फु(फो)फाट्यात पडणे - एक विपत्ति में से निकलकर दूसरी विपत्ति में फँसना । आगीवाचून घूर निघत नाही - वास्तव में कोई बात होती है तभी उसके सवध में अफवाह फैलती है ।

आगटी - स्त्री १ अलाव, कीडा । २. सुनार की अँगीठी या मट्ठी । ३ थोडी-सी आग । मू - पेटविणे - झगडा लगाना ।

आगत - वि आगत, आया हवा । - स्वागत - न आगत-स्वागत, आवभगत ।

आगप - वि जल्द तैयार होने-वाली (फमल) ।

आगम - पु १ वेद, श्रुति । २ दर्शन । ३ धर्मशास्त्र । ४ तन्त्र-शास्त्र । ५ आय, प्राप्त, आम-दनी । ६ प्रारंभ । ७ आना, अवाई । ८ जाप्तवाक्य । ९ साक्षि-पत्र, दस्तावेज । १० उपपद, प्रत्यय । - निरपेक्ष - वि आगम-निरपेक्ष, साक्षिपत्र की अपेक्षा न रखने वाला । - निर्गम - पु १ आना-जाना । २ कारोवार । -रहित, -विरहित - वि आगम-रहित, जिम्मे के पास साक्षिपत्र न हो ।

आगमन - न जागमन, आना, मांजूदगी । [प्रतापता, ठिक्काना । आगसाग - पु पता, सुराग; आगर - न १ नाग्यत्र, मुपारी आदि का वाग, वगिया, वागान ।

२ घर के अहाते में सागसब्जी उगाने का स्थान । ३ नमकसार । ४ आगर, आकर, खान, ढेर, खजाना । ५ \*नोक, अग्र, सिरा । - पु अगर, ऊद ।

आगरवत्ती - स्त्री अगरवत्ती । आगरवाल - ला - पु अग्रवाल, अगरवाला ।

आगरी - पु १ सुपारी के वाग लगाने वाले किसानों की एक जाति, कुनवी, कुर्मी । २ मल्लाहों की एक जाति । ३ नमकसार में काम करने वाला मजदूर ।

आगल - वि अगला, पहला । - स्त्री हल में जोते हुए बैलों की आगे की जोड़ी ।

आगवळ - दे 'अगवळ' ।

आगशी - दे 'अगाशी' ।

आँगस्ट - पु [अ] अगस्त ।

आगस - दे 'आगप' ।

आगसणे - क्रि अ समय से पहले पकना या तैयार होना ।

आगस्कर\* - वि पु अपराधी, गुनहगार ।

आगळा - वि १ अलग; निराला, विरला, भिन्न । २ अधिक, ज्यादा, ऊपर का । ३ कीमती, श्रेष्ठ, बडा । ४ उद्धत, उद्दाम, निरकुश । - स्त्री अर्गल, व्योटा ।

आगळि(ळी)क - स्त्री १ छेड, छेडखानी, छेडछाड । २ खुराफत, वखेडा । ३ अतिक्रमण, अनधिकार प्रवेश, अवैध प्रवेश । ४ अधिकता, वृद्धि । [तुक - की' ।

आगातुक - की - दे 'आग-आगा - १ आगा, आगे का हिम्सा । २ अँगरखे आदि में आगे का पल्ला या टुकडा । - पिछा - पु आगापीछा, आगे-पीछे की

वाते । दे 'अगा-पिछा' ।

आगाऊ - दे 'अगाऊ' ।

आगाप - दे 'आगप' ।

आगामी - वि आगामी, आने वाला, भावी ।

आगार - न १ आगार, घर, स्थान । २ भडार, खान ।

आगाव - दे 'अगाऊ' ।

आगाशी - स्त्री - दे 'अगाशी - स्त्री' ।

आगिनगाडी - स्त्री रेलगाडी । आगीदुगी\* - स्त्री १ झड्डट, झमेला, वखेडा । २ चुगली ।

आगीन - \* स्त्री आग, अग्नि ।

आगे - अव्य आगे, सामने - मागे - अव्य आगे-पीछे, इधर - उधर, जल्दी या देर से ।

आगे - अव्य अरी, री ।

आगेवान - वि अगुधा, नेता ।

आगोटी - टी - ठ - स्त्री वर-सात का प्रारंभ ।

आगोदर - दे 'अगोदर' ।

आग्नेय - यी - वि आग्नेयी, पूर्व-दक्षिण की दिशा, दक्षिण-पूर्व ।

आग्घा - पु १ अगिया, एक जगली पीघा जिसके पत्तों ओर डठलों में विपैले काँटे या रोयें - से होते हैं, जिनसे बडी जलन होती है । २ जुगनू । ३ जगली मधु-मक्खी । - वि १ जलन पैदा करने वाला । २ बहुत क्रोधी, गुस्सैल । - मोहोळ - न जगली मधुमक्खियों का छत्ता । - वेताळ - पु १ अगिया वैताळ, मुँह में आग उगलने वाला प्रेत । २ बहुत क्रोधी ।

आग्रह - पु १ आग्रह, अनु-रोध, इमरार । २ हठ, जिद । ३ प्रार्थना, विनती ।

आग्रही - वि १ आग्रही, आग्रह, इमरार, अनुरोध करने

वाला । २ हठी, जिद्दी ।

आघवा - वि मारा, पूरा, समूचा, कुल ।

आघळ-पुखी अर्गल, व्योडा ।

आघळपघळ-दे 'अघळपघळ' ।

आघाडा - दे 'अघाडा' ।

आघात - पु १ आघात, चोट, प्रहार, घाव । २ घक्का । ३ वध-स्थान । [ हुआ ।

आघात - वि आघात, सूँधा आचद्रार्क - अव्य जवतक आकाश में सूर्य और चंद्र विद्यमान है, हमेशा के लिए, चिरकाल ।

आचवा - दे 'अचवा' ।

आचकट विचकट - दे 'अचकट विचकट' ।

आचपळ - दे 'अचपळ' ।

आचमन - न आचमन, पूजन आदि के पहले शुद्धि के लिए हथेली पर जल लेकर पीना, इस प्रकार पीने का जल ।

आचरट - दे 'अचरट' ।

आचरण - न १ आचरण, बरताव, वर्ताव, मलूक, व्यवहार । २ व्रत, नियम । ३ चरित्र, चाल - चलन ।

आचरणे - क्रि स १ आचरण, व्यवहार, बरताव करना । २ चलाना, करना ।

आचरित - वि आचार किया हुआ, (व्रत आदि) रखा हुआ, किया हुआ । - न १ आचार, आचरण, व्यवहार । २ ऋणी के स्त्रीपुत्रादि लेकर या उनके दरवाजेपर घरना देकर अपना पावना वसूल करना ।

आचव(वि) णे - दे 'अचवणे' ।

आचार - पु १ आचार, आचरण, बरताव, व्यवहार, चाल -

चलन । २ शास्त्रोक्त आचरण, अच्छा चाल-चलन । ३ रिवाजी या रूढ व्यवहार (लोकाचार, कुलाचार) । - भ्रष्ट - ष्टी - वि शास्त्रोक्त कर्म न करने वाला, जिसका आचार - व्यवहार विगड गया हो, पतित । - विचार पु आचार - विचार, रहन - महन । - शील - वि शुद्धाचारी, मदाचारी । - हीन - वि दे 'आचार-भ्रष्ट' । [ राज ।

आचारी - पु. रसोइया, महा-आचार\* - दे 'आचार' ।

आचार्य - पु १ आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपनयन करने और वेद पढानेवाला गुरु । २ पुरोहित, उपाध्याय । ३ वार्मिक मतप्रवर्तक । ४ महाविद्यालय का प्रधान अध्यापक, प्राध्यापक, पंडित, 'प्रोफेसर', प्राचार्य, 'प्रिन्सिपल' । (आ) । ५ श्रीमन् आद्य शंकराचार्य । ६ दे. 'आचारी' ।

आचावाचा\* - दे 'अचावाचा' ।

आच (चू) ळ<sup>+</sup> - दे 'अचळ' ।

आचोज\* - न आश्चर्य, अजूबा ।

आच्छा - अव्य अच्छा, हाँ, खैर, ठीक है, विदा, अलविदा ।

आच्छादक - वि १ आच्छादक, ढकने वाला । २ छिपाने वाला ।

आच्छादणे - क्रि स १ ढाँकना, ढकना, आच्छादित करना । २ छिपाना ।

आच्छादन - न १ आच्छादन, ढकना, छिपाना । २ ढक्कन, ढोल । ३ वस्त्र, पहनावा । ४ छाजन ।

आच्यावाच्या - दे 'अचावचा' ।

आज - अव्य आज, इस रोज,

वर्तमान दिन में, इस दिन । - पु. आज, वर्तमान, बीतना हुआ दिन । - उद्या - अव्य आज या कल, निकट भविष्य में । (मु०-०करणे-टालमटूल करना) । - काल - अव्य आजकल, इन दिनों, फिलहाल, इधर । - तागाई(य)त; - पर्यंत - अव्य आजतक, अबतक । - ला - अव्य १ आज, आज के दिन । २ आज के लिए । ३ अब तक, आज तक । - वर-री, वेरी - अव्य आज तक, अब तक ।

आजन्म - अव्य १ आजन्म, जन्म से, जन्म से लेकर । २ जन्मभर, आजीवन ।

आजन्मात - अव्य जन्म से लेकर अब तक, जिंदगी में, आजीवन ।

आजमावणे, आजमास - दे 'अजमावणे', 'अजमास' ।

आजा - पु. १ आजा, दादा, पिनामह । २ नाना । - गुरु - पु. आजगुरु, गुरु का गुरु । कहा० आजाला नातू शिकवितो - नानी के आगे ननिहाल की बातें । दे 'आजोवा' ।

आजानुवाहु - वि आजानुवाहु, जिसकी बाँहे घुटने तक पहुँचती हो ।

आजार - पु [फा] १ आजार, रोग, बीमारी । २ कष्ट; पीडा, मुनीवत ।

आजारणे - क्रि अ [फा] 'आजार' बीमार हो जाना, खराब, नाडुम्न होना ।

आजारी - वि [फा. 'आजार'] रोगी, बीमार, रूग्ण ।

आजि\* - दे 'आज' ।

आजिजी - दे 'अजिजी' ।

आजी - स्त्री १ दादी, पिता-मही । २ नानी, मानामही । -

वाई - स्त्री, दादी माँ, नानी  
अम्मा, बूढ़ी माँ, बुढ़िया ।

आजी\* - अव्य आज । - वि  
आज का, वर्तमान ।

आजीआजी - अव्य हाँजीहाँजी ।  
मु०-करणे - हाँजी हाँजी करना,  
चापलूसी, खुशामद करना ।

आजीज - पु. [ अ 'आजिज' ]  
दीन, निराश्रय, वेवम, लाचार,  
असहाय ।

आजीव - अव्य आजीवन,  
जिदगीभर, जीवनपर्यंत । - सभा-  
सद - पु आजीवन सदस्य,  
'लाइफ मेंबर' ।

आजीविका - स्त्री आजीविका,  
रोजी, रोजगार, वधा ।

आजूबाजू - स्त्री [ फा 'बाजू' ]  
आसपाम की जगह, इतराफ ।  
-स, -ला, -अव्य आसपास,  
अगल - वगल, पाम में, पास  
-पडोस में; चारो ओर ।

आजे - वि आज्ञासवधी, दादा  
या नाना से सवधित । - गुरु - पु  
आजागुरु, गुरु का गुरु । - सासरा  
- पु. ददिया समुर, ननिया ससुर,  
सास या ससुर का पिता, पति या  
पत्नी का दादा या नाना । - सासू -  
स्त्री ददिया सास, ननिया सास,  
ससुर की माता, सास की सास,  
पति या पत्नी की नानी या दादी ।

आजोवा - पु १ दादा, नाना ।  
२ वडे - बूढो के लिए आदर  
सूचक सबोधन, बूढे मियाँ,  
नानाजी, दादाजी । कहा आजो-  
वाला नातू शिकवतो - अडा  
सिखावे बच्चेको, ची ची मत कर ।  
दे 'आजा' ।

आजोळ - न ननिहाळ,  
ननमार, नाना का घर ।

आज्ञप्त - वि आज्ञप्त,

आदिष्ट, जिसे हुकम दिया गया हो ।

आज्ञप्ति - स्त्री आज्ञप्ति,  
आज्ञा, आदेश ।

आज्ञा - स्त्री १ आज्ञा, हुकम ।  
२ अनुमति, इजाजत । ३ जी हाँ ।  
- दशक - न दस आज्ञाएँ, 'टेन  
कमांडमेंटम्' । - धारक - वि  
आज्ञाकारी, आज्ञापालक, फरमाँ-  
वरदार । - पत्र - न आज्ञापत्र,  
हुकमनामा । मु - करणे - हुकम  
देना, आज्ञा करना, फरमाना । -  
देणे - १ इजाजत, अनुमति देना ।  
२ नौकरी में हटा देना, वरतरफ  
करना । ३ विदा करना । - मागणें -  
जाने की इजाजत माँगना ।

आज्ञापक - वि हुकम या आज्ञा  
देने वाला ।

आज्ञाप(पि)णे - क्रि स  
आज्ञा, हुकम देना, ताकीद करना ।

आज्ञापन - न आज्ञापन, हुकम  
देना, जताना ।

आज्ञार्थ - पु आज्ञार्थ, अत्रे-  
हाल । (व्या) ।

आज्ञार्थक, आज्ञार्थी - वि आज्ञा-  
वाचक, आदेशात्मक ।

आज्ञाद - वि [ फा 'आज्ञाद' ]  
आज्ञाद, स्वतंत्र, स्वाधीन ।

आज्ञादी - स्त्री [ फा 'आज्ञादी' ]  
आज्ञादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता ।

आज्ञुणी, आझू, आझूण - न  
- नि, आझूनि - दे 'अजून' ।

आट - स्त्री १ दे 'अट' । २  
हठ, जिद । ३ घमड, रोव । ४  
ऐठन, बल । ५ मुश्किल जगह ।  
६ दे 'आडवाट' । - पु. १  
औटाया हुआ, गाढा बनाया हुआ  
पदार्थ । २ नाश, अत ।

आटक - दे 'अटक' ।

आटकमाटक - पु स्त्री [ क  
'अटिंगेमटिंगे ] बच्चों का एक खेल ।

आटकळणे - दे 'अटकळणे';  
'अडखळणे' ।

आटफी - स्त्री १ आठ आठ-  
मियों का समूह । २ आठ मन का  
बोझ ।

आटकें - न १ आवा सेर की  
माप, अघसेग । २ आठ वस्तुओं  
का समूह ।

आटखोर, आटणी, आटणें,  
आटप, आटपणे, आटपता,  
आटपसार, आटपळ, आटपा-  
आटप - दे 'अटखोर', 'अटणी',  
'अटणे', 'अटप', 'अटपणे',  
'अटपता'; 'अटपसार', 'अट-  
पळ', 'अटपाआटप' ।

आटण - न प्रवास, घूमना,  
यात्रा ।

आटणे, आटप - दे 'अटणे',  
'अटप', 'आटोप' ।

आटपाट नगर - न १ कोई  
भी एक नगर, शहर । २ आठ  
पंढो या मार्गों वाला बड़ा शहर ।

आटव(वि)णे - क्रि स १  
औंटाना, औंटना, उवालकर या  
आँच देकर गाढा बनाना । २  
गलाना (सोना, चाँदी आदि) ।  
३ \* मार डालना । ४ कम  
करना । [ बहुत पतला भात ।

आटवल - न माँट, पमाव,  
आटा - पु १ पंच, पंच ।  
२ लपेट, चक्कर, फिराव, फेर,  
मरोड़ी, मरोड । [ गेहूँ, पिसान ।  
आटा - पु आटा, पिमा हुआ  
आटा - पु. [ क 'आट' ] खेल,  
नाटक ।

आटाआट - टी - स्त्री १ परि-  
श्रम, दौडघूप, कोशिश । २  
झझट, झमेला, जजाल ।

आटाघाट, आटापि(पी)टा  
- दे 'अटाघाट', 'अटापिटा' ।

आटाट - टी - दे 'अटाट - टी' ।

आटी - छी १ परिश्रम, कोशिश, दौंडधूप । २ आलिंगन, लपेट, पकड ।

आटीचा, आटीबाज, आटीव, आटोका, आटोकाट - 'अटीचा', 'अटीबाज', 'अटीव', 'अटोका', 'अटोकाट' ।

आटुळणे<sup>+</sup> - क्रि अ १ वँधना, सिकुटना, घट जाना । २ रुठना, अड जाना । - क्रि स वाँधना ।

आटोप - पु १ सामर्थ्य, आवेश । २ फैलाव, व्याप । ३ व्यवस्था, अनुशासन, नियंत्रण । ४ गर्व, अभिमान । ५ जोर, प्रभाव । ६ दे 'अटप' । - शीर - वि सुविधाजनक, प्रवधनीय; हलका-सा, दस्तकी, सरल ।

आटोपणे - क्रि स १ दे 'अटपणे' । २ छोटा या कम करना । ३ खीच लेना, लपेटना, समाप्त करना । - क्रि अ मरना ।

आट्यापाट्या - छी महा-राष्ट्र का एक विशेष सामूहिक खेल ।

आठ - वि आठ, ८ । - नहाण, - न्हाण - न विवाह के बाद आठवे दिन वरकन्या को नहलाने की एक रस्म । कहा - हात लाकूड नरु हात डलपी - बढाचढाकर बातें करना, अतिशयोक्ति, अतिरजन ।

आठका - वि आठ से बना हुआ, आठ व्यक्तियों से हो सकने वाला । - पु. आठ मनो का एक परिमाण ।

आठकी - छी १ दे 'आठका' । २ आठ बँलों के पीछे चुगी में दी जाने वाली छूट या रिआयत । ३ लडकियों के खेल

में आठ गोलियाँ हाथ में लेकर नौवीं गोलियों को लोकना ।

आठके - न १ आवा सेर । २ दे 'अटके' ।

आठगुळ - दे 'अठागुळें' ।

आठरा - द 'अठरा' ।

आठव - पु स्मरण, याद । दे 'आठवण' । - क्रि स याद करो, स्मरण करके देखो ।

आठवडा - पु सप्ताह, हफ्ता । दे 'अठवडा' ।

आठवण - छी १ स्मरण, याद, स्मृति । २ स्मारक, स्मृति-चिह्न, यादगार, यादगारी ।

आठवणीचा - वि अच्छी स्मरणशक्ति रखने वाला । मु - खदक - भुलकड, विस्मरण-शील । - घड - स्मरणशील, अच्छी याददास्तवाला ।

आठवणे - क्रि अ याद आना, स्मरण हो आना, खयाल आना । - क्रि स याद, स्मरण करना ।

आठवा - वि आठवाँ ।

आठी - दे 'अठी' ।

आठोळी - छी १ आठवे महीने में प्रसूत होने वाली स्त्री । २ दे 'अठळी' ।

आठ्ठावन्न, आठ्ठावीस, आठ्ठेचाळीस, आठ्ठ्याशी, आठ्ठ्याणव, आठ्ठ्याहत्तर, - दे 'अठ्ठावन्न', 'अठ्ठावीस', 'अठ्ठाचाळीस', 'अठ्ठ्याशी', 'अठ्ठ्याणव', 'अठ्ठ्याहत्तर' ।

आड - पु कुआँ । कहा इकडे आड तिकडे विहीर - दोनों ओर एक जैसे बड़े सकट, दो बड़ी मुमीबतों में फसना, कहीं से भी छुटकारे का उपाय न सूझना । आडत नाहीं तर पोहण्यात कोठून येणार ? - कुएँ में न हो तो घडे

में कहीं से आये ?, हीज भरे तो फव्वारा छूटे ।

आड<sup>+</sup> - छी १ विरोध, रुकावट, अटकाव । २ जिद, हठ । ३ आड, ओट ।

आड - अव्य १ एक ओर, एक तरफ, दूर, हटकर । २ पीछे ओट में । ३ बीच में । ४ एक छोड़कर । मु - पडणे, - लावून घेणे - दे 'अडवा' में । [यौगिक शब्दों के लिए देखिए 'अड']

आडकणी, आडकणे, आडकथा, आडका, आडकाठी, आडकित्ता; आडखर्च, आडखाद, आडगिन्हाईक - दे 'अडकणे', 'अडकथा', 'अडका', 'अडकाठी', 'अडकित्ता', 'अडखर्च', 'अडखाद', 'अडगिन्हाईक' ।

आडगा<sup>+</sup> - वि अनाडी, उजड्ड । [उठाईगीरा ।

आडचोर - वि उचक्का, आडजाळ<sup>+</sup> - पु अप्रत्यागित सकट । [एक भाग ।

आडजीभ<sup>+</sup> - छी जीभ का आडणा, आडणी, आडणूक, आडणे, आडत - दे 'अडणा', 'अडणी', 'अडणूक', 'अडणे', 'अडत' ।

आडताल - पु १ किसी भी ताल का डेवडा । २ दे 'अडताल' ।

आडत्या, आडथळणे, आडथळा - दे 'आडत्या', 'अडथळणे', 'अडथळा' ।

आडदाड - पु दे 'अडकाठी' - वि दे 'अडदाड' ।

आडदावा - पु कीना, द्वेष, वैर, वृज ।

आडदिवस, आडदि (दी)स - पु १ जिस दिन कोई धार्मिक

कृत्य या आचार - सस्कार न हो  
ऐसा दिवस । २ बीच का दिन,  
वह दिन जब छुट्टी न हो । ३  
अयोग्य दिन ।

आडनाव - पु १ अल्ल, वण  
या कुल का नाम । २ उपनाम  
आडनाड, आडनीट-ड, आड-  
नेड - दे 'अडनीट-ड', 'अडनेड'  
'अडनाट-ड' ।

आडपडदा - पु १ आड, ओट,  
परदा । २ छिपाव, ढकना, गोपन ।  
३ मर्यादा, लज्जा, विनय ।

आडफाटा - पु १ वावा, रुका-  
वट । २ मकट, विघ्न ।

आडफाट्या - वि १ वावा  
डालने याला, अडगेवाज । २  
सनकी ।

आडवाजू - स्त्री वह भाग जो  
मुख्य मार्ग से हटकर हो । - अव्य  
एक ओर, एक तरफ, दूर,  
ओझल, ओट में ।

आडभिंत - स्त्री छोटी दीवार ।

आडमाप - दे 'अडमाप'

आडमार्ग - पु १ वह मार्ग  
जो मुख्य रास्ते में हटकर हो,  
दूर का मार्ग, उपमार्ग, छोटी  
सडक, पगडडी । २ बुरा मार्ग,  
अनीति का रास्ता ।

आडमिळकत - दे 'अड-  
मिळकत' ।

आडमुठा - दे 'अडमुठा'

आडमुद्दा - पु १ आपत्ति,  
उज्र । २ अमवद्ध विषय ।

आडमोड - स्त्री १ काटछाँट,  
कतरव्योत । २ तोडना, नाश ।

आडमोरा - वि एक तरफका,  
जो सामने न हो, जो रास्तेपर  
न हो ।

आडमोरी - अव्य १ आड में,  
ओट में, लुक-छिपकर । २ एक

तरफ, कोने में ।

आडरात - स्त्री आधी रात ।

आडरान - न १ जगल । २  
दे 'आडवाट' । मु - घेणें - १  
टेढी वाते करना । २ गलत सम-  
झना । - आडरानात शिरणें - १  
जानते हुए अनजान वनना, न सम-  
झने का वहाना करना । २ उलटी-  
सीवी वाते करना, झगडे पर उतार  
होना ।

आडला - दे 'अडला' ।

आडवा - दे 'अडवा' ।

आडवाट - स्त्री १ मुख्य मार्ग से  
हटकर जाने वाली राह, पगडडी,  
उपमार्ग, छोटी सडक । २ बुरा  
मार्ग, वाममार्ग ।

आडवार - पु किसी निश्चित  
दिन के अतिरिक्त का दिन, बीच  
का दिन, इतवार को छोड़ अन्य  
दिन, कोई दिन, 'वीक डे' ।

आडवारा - पु रुकावट, प्रति-  
वव, अडगा ।

आडवी - वि स्त्री आडी ।  
- काडी - स्त्री रुकावट, रोक,  
वावा ।

आडवें, आडवेळ, आडसणें,  
आडसर - दे 'अडवे', 'अड-  
वेळ', 'अडसणे', 'अडसर' ।

आडसर - पु न १ कच्चा  
नारियल जिममें गरी कम और  
पानी अधिक होता है । २ पहाडी  
रास्ता । ३ धीगरा, मोटाताजा,  
उजहु आदमी । - वि तग, कसा  
हुआ ।

आडसाल - न १ एक वर्ष  
छोडकर आने वाला वर्ष । २ जिम  
भूमि में पहले वर्ष एक फमल बोयी  
हो उसमें दूसरे वर्ष दूसरी किम्म की  
फमल बोते हैं । इस दूसरे वर्ष को  
आडसाल कहते हैं । आडसाल्या ऊस

- पु अठारह महीनो के वाद तैयार  
होने वाला गन्ना ।

आडा - पु [क 'अड्ड'] १  
घेरा, अहाता, वाडा । २ दे  
'अडसर' ।

आडा - पु बगुले की एक जाति ।

आडाआडी - स्त्री कोशिय,  
दाँडवूप, परिश्रम ।

आडाखा, आडाणचोट,  
आडाणी, - दे 'अडाखा', 'अडाण-  
चोट', 'अडाणी' ।

आडास - स्त्री भूमि में एक वार  
सीवा हल चलानेपर उमीमें फिर  
आडा हल चलाना ।

आडासन - न कमर ।

आडी, आडीसरी, आडुळसा,  
आडून - दे 'अडी', 'अडगेरी',  
'अडुळसा', 'अडून' ।

आडें - न १ दे 'अडे' । २  
दहलीज, देहली । ३ दो आदमियों-  
द्वारा चलाया जाने वाला आरा ।

आडोरा<sup>†</sup> - पु व्यभिचार,  
बलात्कार ।

आडळ; आडळणे, आडावा,  
आडी, आडें, आडेवेडे - दे  
'अडळ', 'अडळणे', 'अडावा',  
'अडी', 'अडे', 'अडेवेडे' ।

आडचता - स्त्री १ घमड,  
गर्व, शेखी, शान, अकड । २  
अमीरी । ३ त्याति, वदनामी ।  
- खोर - वि घमडी, शेखीवाज ।

आण - स्त्री शपथ, कसम,  
माँगद । - भाक - स्त्री कौल-  
करार, परस्पर-प्रतिज्ञा, कसम  
खा कर किया जाने वाला इकरार ।

आण\* - अव्य और, तथा,  
एव, व । - वि अव्य दूसरा ।

आण - क्रि स [आणणे का  
आज्ञार्थ] ला, लाओ ।

आणखी, आणखीन् - अव्य.

१ और, तथा, एव, व । २ अतिरिक्त, अलावा - वि अधिक, ज्यादा ।

आणणावळ - स्त्री लाने की उजरत या मजदूरी; हुलाई ।

आणणे - क्रि अ स १ लाना, ले आना । २ लगभग पूरा होना या करना । [ उदा० किल्ला वावीत आणला होना = किला लगभग बन चुका था या पूरा होने को आया था । ]

आण ने - स्त्री १ लाना-ले जाना, यातायात । २ झझट, परेशानी ।

आणा - पु १ आना, रुपये का मोल्हवाँ भाग । २ एकडका ६४० वाँ भाग । - क्रि स ले आइए, लाओ । - आण - स्त्री लगातार लाते रहना, सामान अस-वाव का प्रवव । - आणेवारी - स्त्री कनकूत, कनहाई । मु - मागें लागणे - १ माँग या तकाजा लगा रहना । २ शादी होना, गृहस्थी के झझट में फँसना । आणे पैचा हिशेब - विलकुल ठीक हिसाब, कौटी पाई का लेखा ।

आणि, आणिक - अव्य और, तथा, एव, व । - वि अधिक, अलग । [ कनखी, कटाक्ष ।

आणियाळी दृष्टि\* - स्त्री आणियाळें\* - वि पँना, तीक्ष्ण, अनीदार, धारदार ।

आणी - स्त्री आना, डकत्री ।

आणीक - अव्य और, तथा, व, एव । - वि दूसरा, अन्य ।

आतक - पु १ डर, भय, दहशत । २ रोग, ज्वर । - निग्रह - पु व्याधिनाश, रोग-हृण । [ २ मामी, माम ।

आत - स्त्री १ बुआ, फूफी ।

आतणे\* - क्रि अ स १ होना । २ दवाना । ३ देना । ४ भर देना, व्याप्त करना । ५ स्पर्श करना, छूना ।

आतता (त्या) ई-यी - वि १ अपराधी, गुनहगार । २ आत-तायी, वधोद्यत, अत्याचारी, हत्यारा, खूनी । ३ दु माहसी, जल्दवाज, जिद्दी । - पणा - पु १ दु साहस । २ जल्दवाजी ।

आतर\* - पु उतराई, नदी के पार उतारने का भाडा, खेवा ।

आतश - ष - स - पु [ फा 'आतश' ] आग । - खाना - पु तोपखाना । - वाज - वि आतश-वाज, आतिशवाजी बनाने या जानने वाला । - वाजी - स्त्री १ वारुद भरकर बनाये हुए खिलौने या उनके जलाने का दृश्य । २ ऐश, विलास ।

आतळणे\* - क्रि अ स १ स्पर्श होना, करना । २ मिलना, प्राप्त करना, होना । ३ प्रसन्न होना ।

आता - अव्य १ अब, इस समय, फिलहाल, इस वक्त । २ अब से, आइदा, भविष्य में ।

आताशीं - सा - अव्य इस समय, आजकल, इधर, अभी-अभी ।

आतिथ्य - न आतिथ्य, अतिथि-मत्कार, आवभगत, पहुनाई ।

आतिसो\* - दे 'अतिशय' ।

आती<sup>+</sup> - दे 'आत्या' ।

आतुडणे\* - क्रि अ १ मिटना, पकडा जाना, प्राप्त होना । २ समझ में आना । ३ मवव या मपर्क में आना ।

आतुणे\* - क्रि स देना, प्रदान करना ।

आतुर - वि १ आतुर, उत्सुक, अचीर, वेसन्न । २ पीडित, बीमार, दुःखकातर, आर्त । - सन्यास - पु आतुर-सन्यास, ऐसे रोगी द्वारा लिया हुआ सन्यास जिम्के वचने की आशा न रह गयी हो ।

आतुरता - स्त्री आतुरता, अचीरता, उत्सुकता, उतावली, वेचैनी ।

आतू<sup>+</sup> - दे 'आत्या' ।

आते - वि फूफी में मववित, फुफेरा । - बहीण - स्त्री फुफेरी वहन । - भाऊ - पु फुफेरा भाई । - सासरा - पु ससुर का फुफेरा भाई, मसुर का साला । - सासू - स्त्री ससुर की वहन, पति या पत्नी की बुआ ।

आतोनात - दे 'अतोनात' ।

आत्ता - अव्य १ अभी, इसी वक्त । २ दे. 'आता' ।

आत्ती - दे 'आत्या' ।

आत्म - वि १ आत्मसववी । २ अपना, निजी । - कथा - स्त्री आत्मकथा, आपवीती, अपनी जीवन - कहानी । - कार्य - न आत्मकार्य, निजी काम । - घात - पु १ आत्मघात, आत्महत्या, खुदकुशी । २ अपना नुकसान । - चरित्र - न आत्मचरित - न, आत्मकथा, आपवीती । - ज्ञान - न आत्मज्ञान, अपने को जानना । - निवेदन - न १ आत्मनिवेदन, नववा भक्तिका एक अंग । अपना तन-मन-धन अपने आराध्य देव को अर्पित कर देना । २ अपनी कैफियत । - निष्ठ - वि १ आत्म-निष्ठ, आत्मलक्षी, आत्मपरक, 'मवजेक्टिव' । २ आत्मा में निष्ठा रखनेवाला, आत्ममाचन

में निरत । -प्रची (ती) ति - स्त्री  
 आत्मज्ञान, आत्मवीच । -प्रशसा -  
 स्त्री आत्मप्रशसा, अपने मुंह अपनी  
 तारीफ करना । - यज्ञ - पु  
 आत्मोत्सर्ग, दूसरे के लिए अपना  
 जीवन अर्पित कर देना, गहादत,  
 वलिदान । - रक्षण - न. आत्म-  
 रक्षा, अपना बचाव । - लिंग - न  
 १ आत्मस्वरूप । २ शिवजी का  
 मुख्य लिंग । - वचना - स्त्री  
 आत्मवचना, अपने को घोखा  
 देना । - वत् - अव्य अपने जैसा ।  
 - विद्या - स्त्री आत्मविद्या,  
 अध्यात्मतत्त्व । - विश्वास - पु  
 आत्मविश्वास, अपनी ताकत पर या  
 अपने आप पर भरोसा, आत्म-  
 प्रत्यय । - विस्मृति - स्त्री आत्म-  
 विस्मृति, अपने को भूल जाना,  
 सुघ-बुघ खोना, वेखुदी । -  
 वृत्तात - पु. आत्मवृत्तात, आत्म-  
 कथा । - शुद्धि - स्त्री चित्तशुद्धि,  
 अपने दिल को पाक बनाना । २  
 अपने जीवन को शुद्ध बनाना । -  
 श्लाघा - स्त्री आत्मश्लाघा, आत्म-  
 प्रशसा । - सतुष्ट, - सतोपी -  
 वि १ आत्मतुष्ट, आत्मसतुष्ट,  
 आत्मसतोपी । २ अहमानी,  
 स्वार्थी । - सयमी - वि आत्म-  
 निग्रही, अपने पर काबू रखने  
 वाला । - समर्पण - न अपने को  
 समर्पित करना । - साक्षात्कार -  
 पु आत्मसाक्षात्कार, आत्मा का  
 अपरोक्ष ज्ञान, अपने सबब में  
 सच्चा ज्ञान । - स्तुति - स्त्री  
 आत्मस्तुति, आत्मप्रशसा । - हत्या  
 - स्त्री आत्महत्या, आत्मघात,  
 खुदकुशी । मु - सात् करने - १  
 आत्मसात् करना, अपने अधिकार  
 में करना, काबू पाना । २ अपने  
 में लाना, प्राप्त करना । ३ मिला

लेना, पत्र जाना, 'ऐसीमिलेट' ।  
 आत्मा - पु १ आत्मा, रूह ।  
 २ जीव, जीवनतत्त्व, परमात्म  
 तत्त्व, चेतन-तत्त्व, जीवात्मा ।  
 ३ अत करण, मन, बुद्धि,  
 स्वभाव । ४ धुनकी या चर्खे में  
 लगा चमड़े का टुकड़ा ।

आत्मानद - पु आत्मानद,  
 आत्मसाक्षात्कार या ब्रह्मज्ञान से  
 मिलने वाला आनंद ।

आत्मानुभव - पु १ आत्मज्ञान,  
 ब्रह्मज्ञान । २ आत्मानुभव, अपना  
 तजर्वा ।

आत्मानुसंधान - न १. आत्म-  
 ज्ञान की ओर लगा हुआ ध्यान ।  
 २ खदगरजी, स्वार्थपरता ।

आत्माराम - पु १ आत्माराम,  
 आत्मज्ञान का प्रयासी योगी । २  
 आत्मा, जीव, अत करण । ३ परमे-  
 श्वर, परब्रह्म । ४ अपने राम ।

आत्मार्पण - न आत्मार्पण,  
 आत्मनिवेदन, अपने को अर्पित  
 कर देना । [- पु. स्वजन ।

आत्मीय - वि आत्मीय, अपना ।  
 आत्मीयता - स्त्री आत्मीयता,  
 अपनायत, अपनापन, मैत्री ।

आत्मोद्धार - पु १ आत्मोद्धार,  
 अपना उद्धार । २ अपने ही प्रयत्न  
 से अपनी मुक्ति या छुटकारा ।

आत्मोन्नति - स्त्री अपनी  
 उन्नति, तरक्की, उत्कर्ष ।

आत्मौपम्यबुद्धि - स्त्री आत्मौ-  
 पम्य, सबको अपने जैसा मानना ।

आत्यतिक - वि १ अतिगय,  
 बहुत अधिक, नितात, चरम, परले  
 सिरे का । २ घोर, प्रचंड, कडा,  
 सख्त । ३ अतिम, आखिरी ।

आत्या - स्त्री फूफी, बुआ ।  
 -बाई - स्त्री १ बुआजी, फूफीजी ।  
 २ सास । कहा. आत्याबाईला

मिशा असत्या तर काका मूटले  
 असते - फूफी के मूँछें होती तो उसे  
 चाचा कहते, जिसका होना सभव  
 न हो ऐसी बात की अपेक्षा रखना  
 या वादा करना ।

आत्रेय - पु. 'यिट्रियम' ।

आथडणें - क्रि अ स १ टक-  
 राना, पहुँचना, रकना । २ खींच  
 लेना, पकड़ना, हथिया लेना ।

आथि - थी \* - क्रि अ १  
 है । २ थी । - ला - क्रि अ हुआ,  
 या । - लें - क्रि अ हुआ, आया ।  
 - ले पण - न अस्तित्व, हस्ती ।

आथिला - \* वि १ खुगकिस्मत,  
 भाग्यवान्, वडा । २ मपन्न ।

आथिलेपण\* - न मपन्नता,  
 वडप्पन, भाग्य ।

आद - वि आवा, 'अर्वा'  
 का समास में व्यवहृत रूप, अव ।  
 - पाव, - मण, - मुरे - इ 'दे'  
 'अदपाव', 'अदमण', 'अदमुरे' इ ।  
 आद + - स्त्री १ आदि,  
 प्रारंभ, मूल कारण । २ वश की  
 जानकारी, वश - तालिका ।

आदखणा - दे 'अदखणा' ।

आदव, आदवशीर, आदमास  
 - से, आदमुरें - दे 'अदव', 'अदव-  
 शीर', 'अजमाम-से', 'अदमुरे' ।

आदर - पु १ आदर, श्रद्धा,  
 इज्जत, पूज्यभाव, सम्मान । २  
 स्वीकार, सकारना (हुडी) ।  
 ३ सत्कार, आवभगत ।

आदरातिथ्य - न आदरसत्कार,  
 आवभगत, मेहमानदारी, अतिथि-  
 सत्कार । [ सम्मान्य ।

आदरणीय - वि आदरणीय,  
 आदरणें - क्रि स १ आदर,  
 इज्जत, सम्मान करना । २ स्वीकार  
 करना, मानना । ३ ले लेना, हाथ  
 में लेना, अपनाना ।

आदरुन - अव्य १ दिल से, मन पूर्वक । २ निश्चय के साथ । ३ जानबूझकर, इरादतन् ।

आदर्श - पु. १ आदर्ग, नमूना, अनुकरणीय वस्तु । २ आईना । ३ टीका, व्याख्या, भाष्य ।

आदळ, आदळ-आपट, आदळणें - दे 'अदळ' 'अदळ-आपट,' 'अदळणें' ।

आदा - पु [अ 'अदा'] १ आय, प्राप्ति । २ दे 'अदा' । - पावती - स्त्री १ महाजन को कुछ नकद और कुछ हवाला (गारटी) देकर चुकायी हुई रकम की रसीद । २ भुगतान की रसीद ।

आदाय - पु मुनाफा, प्राप्ति । आदावत-ती-त्या - दे 'अदावत - ती - त्या' ।

आदि - स्त्री १ आदि, आरम्भ । २ उत्पत्ति, मूल कारण । ३ खान, सोता । ४ वय, चरित्र । - वि १ प्रथम, पहला, मूल । २ प्रधान । - करुन - अव्य इत्यादि, वगैरह, आदि । - पीठ - न १ मूल पीठ, आद्यस्थान । - पुरुष - पु १ परमेश्वर । २ मूल पुरुष, कुल का प्रथम पुरुष । - बीज - न १ मूल कारण, तत्व । २ परमेश्वर, प्रणव, ओंकार ।

आदिक - वि अधिक, ज्यादा । - अव्य आदि, वगैरह । [ वार ।

आदितवार - पु इतवार, रवि-आदित्य - पु १ मूर्य । २ अदिति के वारह पुत्रों में से कोई, जो सभी मूर्य माने जाते हैं । - वार - पु इतवार, रविवार । आदि-त्याची छत्री - स्त्री कुकुरमुत्ता ।

आदिष्ट - स्त्री आदिष्ट, आदेश-प्राप्त, कथित । - पदार्थ - पु प्रतिस्थापन-उत्पाद, प्रतिस्थापन-

पदार्थ, 'सक्लिष्टचूगन प्रॉडक्ट' ।

आदी - अव्य पहले, प्रथम, पेश्तर । - वि पहले का, पिछला ।

आदेश - पु १ आदेश, आज्ञा, हुक्म । २ हिदायत, मलाह, उपदेश । ३ एक अक्षर के स्थानपर दूसरे अक्षर का आना (व्या) । ४ प्रादेश, 'मंडेट' । - प्रधान - वि जिममें शब्दों के रूप बदलते हैं ऐसी (भाषा), स्वरभामजस्यात्मक, 'इन्प्लेक्शनल' । - प्रकरण - न ध्वनिशास्त्र, ध्वनिविज्ञान, स्वर-शास्त्र, 'फोनेटिक्स' ।

आद्यत - अव्य आद्यत, आदि से अत तक, शुरु मे आखिर तक । - पु आदि - अत ।

आद्य - वि १ आद्य, आदि का, पहला, प्रवान । २ प्रधान । आद्या - पु मुनाफा, आय, प्राप्ति ।

आघ\* - अव्य नीचे ।

आघडा\* - वि मूर्ख, अनाडी ।

आघण - न १ उफान, उवाल, जोश । २ खीलने वाला पानी, उवालने के लिए आग पर रखा हुआ पानी या गन्ने का रस आदि ।

आघणणे - क्रि अ उवलना, उफनना, जोश खाना, खीलना ।

आघमण - दे 'अदमण' ।

आघला - वि पहला, पहले का, पेश्तर का, गुज्रता ।

आघातरी - दे 'अघातरी' ।

आघार - पु १ आघार, महारा, आलवन, वल । २ सहायता । ३ अविष्ठान । ४ मवूत, प्रमाण । - विदु - पु आलव, टेक, 'फलक्रम' । - स्तभ - पु आघारस्तभ, मुख्य आघार ।

आधि - पु स्त्री १ आधि,

मानमिक दुख, चिंता, शोक आदि से होने वाली पीडा, फिक्र । २ झझट । ३ उत्कठा । - व्याधि - स्त्री आविव्याधि, मन और शरीर की पीडा ।

आधिक्य - न १ आधिक्य, अविकता, बहुतायत, प्राधान्य । २ ज्यादाती, अति, अविकता, अतिरेक ।

आधिदैविक - वि १ आधि-दैविक, इन्द्रियो के अविष्ठाता, देवताओं मे सबध रखने वाला । २ दैवकृत या भूतप्रेतकृत (क्लेशादि) ।

आधिपत्य - न १ आधिपत्य, प्रभुत्व, स्वामित्व, अधिकार । २ प्रतिष्ठा, महत्त्व, गौरव ।

आधिभौतिक - वि १ आधि-भौतिक, प्राणियो या पचमहा-भूतो से सबद्ध । २ भौतिक, पार्थिव, जड, स्थूल, 'मेटै-रियल, फिजिकल' ।

आधिला\* - वि आधा ।

आधिला\* - वि पहला, पहले का ।

आर्षी - अव्य पहले, प्रारभमें, पेश्तर, मूल मे । कहा आर्षीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास-पहले से जिस बात मे दिलचस्पी हो उसमें प्रोत्साहन मिलने जैसी परिस्थिति पैदा होना, मूल स्वभाव को बढ़ावा मिलना । आर्षीच मर्कट तशातहि मद्य प्याला - एक तो करेला, दूसरा नीम चढा । आर्षी जाते वृद्धि, मग जातें भाडवल - मनुष्य को बुरी दशा प्राप्त होने से पहले बुरी बात करने की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है । आर्षी पोढोवा मग चिठोवा - भूवे भजन न होय गु(गो)पाला ।



आधी - दे 'आधि' ।

आधीन - वि अधीन, वश-वर्ती, मातहत । -अव्य कच्चे में, तावे में ।

आधुनिक - वि आधुनिक, नये जमाने का, जदीद, नया, आजकल का ।

आध्यात्मिक वि १ आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा से सबब रखने वाला, रूहानी । २ धार्मिक । ३ मानसिक, बौद्धिक ।

आनद - पु आनद, हर्ष, खुशी । - वन - न आनदवन, कागी । - वनभुवन - न महाराष्ट्र । मु आनदाचे भरते येणे - बहुत अधिक आनद होना, खुशी में दिल भर आना ।

आनदणे - क्रि अ आनदित, खुश होना ।

आनदित - वि आनदित, खुश, प्रसन्न ।

आनदी - वि आनदी, प्रसन्न, हँसमुख, रँगोला ।

आनदीआनद - पु [ आनद + हि + आनद ] पूर्णानद, चारो ओर फैली हुई या भरी हुई प्रसन्नता, खुशी ।

आन + - वि १ अन्य, दूसरा । २ विचित्र, अजीब । -अव्य १ और, तथा, व । २ ऐन, वेहद । - स्त्री दे 'आण'

आनन - न १ आनन, मुँह । २ चेहरा, सूरत ।

आनरसा - दे. 'अनरसा' ।

आनसा\* - वि अन्य, दूसरा ।

आनान\* - वि विभिन्न, अलग-अलग प्रकार का ।

आनु\* - वि १ अन्य, दूसरा, भिन्न । २ थोडा, अल्प । -अव्य और अधिक ।

आनुकूल्य - न १ आनुकूल्य, अनुकूलता । २ कृपा ।

आनुपूर्वी - स्त्री, आनुपूर्व्य - न आनुपूर्व - व्यं, आनुपूर्वी, एक के बाद एक होना, मिलमिला, क्रम ।

आनुभविक - वि जिमका अनुभव हुआ हो, अनुभवमिद, आजमाया हुआ ।

आनुमानिक - वि आनुमानिक, अनुमान, अटकलपर आश्रित, कयामी ।

आनुवशिक - वि आनुवशिक, पैतृक, वशपरपग में प्राप्त, पुश्तैनी ।

आनुवशिकता - स्त्री आनुवशिकता, वशपरपरा, 'हेरेडिटी' ।

आनुपगिक - वि १ आनुपगिक, सबद्ध, सयुक्त । २ अनिवार्य । ३ गौण । ४ मदृश, आनुपातिक ।

आने\* - वि अन्य, दूसरा ।

-आन - वि १ अन्य, दूसरा । २ जलग, भिन्न । -अव्य १ अन्य प्रकार से । २ परस्पर ।

आन्हिक - दे 'आहिक' ।

आपगणें - क्रि स १ आश्रय आधार, सहारा देना । २ स्वीकार करना ।

आपगिता - वि आश्रयदाता, सहारा देने वाला । - स्त्री आधार, महारा ।

आप - सर्व आप, खुद, स्वय । - वि अपना, निजी । २ स्वाधीन ।

-अव्य अपने आप, आप ही आप । - खुशी-धी - स्त्री अपनी खुशी, मर्जी, इच्छा । - गरजी - वि खुदगर्ज, स्वार्थी । - घर - न १ अपना घर । २ पतिका घर । - ढग - पु स्वेच्छाचार । - ढगी - वि स्वेच्छाचारी । - तत्री - वि

स्वतंत्र, स्वैर । - पर - वि अपना पगया । - परभाव - पु द्वैतभाव, गैर, पराया ममझना, दुई । - वळ - न अपना वल, मामर्थ्य । - मतलवी - वि खुजगर्ज, स्वार्थी, मतलवी । - मती - वि अपनी बुद्धि में चलने वाला । - मुत्तयार - वि स्वतंत्र, स्वाधीन, खुद मुह्तार । - रस पु फलो या पत्तो का बिना पाणी डाले निचोडा हुआ रस, नाग्यिल की गरी को पीमकर निकाला हुआ दूब । - रूपी - वि जिमका चेहरा न माँ के चहेरे जैसा हो न बाप के ही । - सुक-ख - दे 'अपमुक' ।

- स्वार्थी - वि आपन्वार्थी, खुजगर्ज, मतलवी । - हस्ते-अव्य अपने हाथों, अपनी मामर्थ्य में । कहा० आप सुखी जग सुखी - स्वय अपने को सुख हो तो सारा ससार सुखी है । आप मेले जग वुडाले - आप मुवे पीछे डूब गयी दुनिया - कवीर ।

आपजणे\* - क्रि अ उत्पन्न होना, पैदा होना, हो जाना ।

आपटणें, आपटा, आपटी - दे 'अपटणे', 'अपटा', 'अपटी' ।

आपण - सर्व १ आप । २ मैं, हम, हम सब । ३ स्वय, खद । - पया, - पा, - पें, - पेया\* - सर्व अपने को, स्वय, हमें । - होऊन - अव्य स्वय, खुद होकर । कहा० आपणावत्तन जग ओळखावे - अपने अनुभवों पर से दूसरों के भावों को जानना चाहिए । आपण चागलें तर जग चागलें - आप भला तो जग भला ।

आपत् - स्त्री आपद्, आपदा, विपत्ति; मुसीबत, कष्ट । - काळ - पु आपत्काल, मुसीबत, कठिनाई के दिन ।

आपत्ति - स्त्री आपत्ति, मुसी-  
वत, सकट ।

आपदणे\* - क्रि अ आपत्ति,  
मुसीवत में फँसना ।

आपदा - स्त्री आपदा, विपद्,  
मुसीवत, आफत ।

आपद्धर्म - पु आपद्धर्म, वह  
आचरण, वृत्ति आदि जिमकी इजा-  
जत केवल आपत्काल के लिए हो ।

आपनेया\* - सर्व अपने को,  
खुदको ।

आपन्न - वि १ आपन्न,  
मुसीवतज्जदा, आपद्ग्रस्त । २  
प्राप्त, व्याप्त ।

आपलपोट्या - वि स्वार्थी,  
खुदगर्ज ।

आपला - सर्व. १ अपना,  
मेरा, हमारा । २ आपका । ३  
निजी । - ला - सर्व अपना -  
अपना । मु - सा करणे - आत्ममान्  
करना, अपनाना ।

आपलेपणा - पु १ आत्मीयता,  
अपनापन, स्नेह । २ अहंकार ।  
३ स्वाभिमान ।

आपवणे\* - क्रि स बुलाना,  
आमंत्रित करना ।

आपसात, आपसामर्घ्य - अव्य.  
आपस में, परम्पर, एक दूसरे के  
साथ ।

आपसु(सु) क - ख - अव्य  
१ अपने आप । २ अपनी  
खुशी से ।

आपा - प्या - पु [क 'अप्प']  
१ पिता, बड़े भाई आदि को  
पुकारने का शब्द । २ कोई व्यक्ति ।  
+ ३ जार, यार । कहा० सोनार,  
शिंपी, कुलकरणी आप्या यांची  
सगत नको रे बापा - मुनार, दर्जी  
और पटवारी बड़े खतरनाक होते  
हैं, उनमें किसी का पाया न पड़े ।

आपातत - अव्य आपातत,  
पहली निगाह में, ऊपर में देखने  
में, तत्क्षण, तुरत, अकम्मात् ।

आपाद - अव्य पैर में लेकर,  
पैरतक । - मस्तक - अव्य मिर  
से पैरतक ।

आपाप - पा - दे 'अपाप' ।  
आपापला - वि अपना - अपना ।  
आपुलकी - स्त्री आत्मीयता,  
स्नेह, अपनापन ।

आपुला\* - वि अपना, निजी ।  
आपुलि(ले)या\* - वि अपने ।  
(आपुलिया बळें - अपने बल में )  
आपूस - दे 'अपूस' ।

आपें\* - अव्य १ खुद,  
स्वय, अपने आप । २ सट्ज,  
स्वभावत ।

आपेंता, आपेंतिया, आपेंती,  
आपेंते\* - वि १ स्वाधीन । २  
अनुकूल, अधीन । ३ प्राप्त । ४  
अपने आप ।

आपेंस - सा - सी - से\* - अव्य  
अपने आप, सहज । - वि अधीन,  
मातहत, वगीभूत ।

आपोआप - अव्य अपने आप,  
सहज, आसानी से, अनायाम,  
कुदगती तौरपर ।

आपोषण - पु, आपोष्णी -  
स्त्री दे 'अपोष्णी' ।

आप्त - वि पु १ आप्त,  
विश्वस्त व्यक्ति । २ सवधी, मित्र,  
रिश्तेदार । ३ शब्द-प्रमाण । - वि  
१ हिनचितक, खैररवाह । २  
प्राप्त । ३ विश्वसनीय, प्रामाणिक  
। - मित्र - पु बहु मित्रमडली,  
गिश्तेदार, सवधी, मित्र आदि ।  
- वचन - न विश्वमनीय,  
प्रमाणयुक्त कथन । २ बड़ों का  
कहना । ३ आत्मवचन, आप्त-  
वाक्य, श्रुति, स्मृति, इतिहास,

पुराण आदि, प्रमादादि शून्य  
वचन । - विषय - पु. १ आत्म-  
वर्ग, मित्रमडली । २ गिश्ता,  
सवध ।

आप्पा - दे 'आपा' ।

आफळणें\* - क्रि अ गिरना;  
टकराना । - क्रि स १ गिराना,  
पटकना, दे मारना । २ छुना ।  
आफीण, आफू - स्त्री अफीम ।  
दे 'अफीण' ।

आव - पु न [फा] १ पानी ।  
२ आव, चमक, काति । ३.  
इज्जत, प्रतिष्ठा । ४ शान ।  
मु आवात - अव्य बड़ी शान के  
साथ, आसानी से ।

आवकारी - स्त्री [फा] १ आव-  
कारी, मद्य या मादक वस्तुओं का  
व्यवसाय या उनपर लगने वाला  
कर । २ आवकारी महकमा, उत्पाद  
शुल्क विभाग, नगीली चीजों के  
उत्पादन, विक्रय आदि का नियमन  
करनेवाला विभाग, 'एक्साइज  
डिपार्टमेंट' । - वि आवकारी  
सवधी ।

आवडधावड - दे 'ओवड-  
वोवड' ।

आवताव - पु स्त्री [फा] १  
तेज, चमक, काति, आव ।  
२ प्रतिष्ठा, इज्जत ।

आवदा<sup>+</sup> - स्त्री आपत्ति, मुसी-  
वत, आफत ।

आवदागिरी, आवदागीर - दे  
'अवदागिरी' ।

आवदाव - पु स्त्री दे 'आव-  
ताव' । आवदावानें - अव्य  
इज्जत व प्रतिष्ठा के साथ, शान से ।

आवदार<sup>+</sup> - अव्य बीरे में,  
आहिस्ता में ।

आवळ-ळा - दे 'आवाळ' ।  
आवळागोवाळा\* - वि सव ओर

फैला हुआ, चारो दिशाओ में व्याप्त। - अव्य कुल मिलाकर, सब मिलाकर।

आवा - दे 'अवा'।

आवाद - वि [फा] १ आवाद, मपन्न, खुशहाल, फलता-फूलता। २ सुरक्षित, रखा हुआ। - स्त्री समृद्धि, खुशहाली।

आवावानी - स्त्री [फा] १ शांति, समृद्धि, खुशहाली। २ ऐसा शासन या राज जिममें मुख-शांति हो।

आवादी - स्त्री [फा] १ आवादी, खुशहाली, समृद्धि। २ लगान। - आवाद - स्त्री अभ्युदय, सुख-शांति, अमन-चैन, समृद्धि।

आवालवृद्ध - अव्य - पु. बहु १ वच्चो मे लेकर बूटोतक। २ सब लोग, छोटे-बड़े सभी, जनता।

आवाशाई, आवाशी - दे 'अवाशाई'।

आवाळ-ळी - स्त्री १ उपेक्षा, लापरवाही। २ कुप्रवध। ३ दुर्दशा, दुर्गत।

आवाळणे - क्रि स ध्यान न देना, उपेक्षा करना।

आबोली - स्त्री लाल कटमरैया। आबोलें - न लाल कटमरैया का फूल।

आबू - दे 'अबू'।

आभरण - न १ आभरण, आभूषण, गहना। २ शोभा, शृंगार।

आभरणे - \*क्रि अ १ मजना, शृंगार करना। २ तृप्त होना।

आभा - स्त्री आभा, चमक, तेज।

आभार - पु आभार, वन्यवाद,

शुक्रिया। सु - मानणे - वन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना।

आभारी - वि आभारी, एहसानमद, कृतज्ञ, ऋणी।

आभास - पु १ आभास, मिथ्या प्रतीति, धोखा, वहम। २ झलक। ३ अदाजा, अटकल, अनुमान। ४ मादृश्य, प्रतिबिंब, परछाईं।

आभाळ - न १ आकाश, आममान। २ वादल, घटा। दे 'अभाळ'।

आभीर - पु १ आभीर, अहीर। २ एक प्राचीन जनपद या उसका निवासी।

आभ्यतर - वि आभ्यतर, अदर का, अदरनी।

आम - वि [अ] आम, मार्व-जनिक, मावारण। - खास - अव्य आम तौरपर। - दार - पु विधायक, राज्य - विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिपद का मदस्य। - दारकी - स्त्री विधान-सभा या विधान परिपद की मदस्यता।

आमचा - ची - चें - सर्व हमारा-री। सु आमच्या इथलीं माणसे, आमच्या इथें, आमच्या घरात - पति के सबब मे जब पत्नी वात करती है तब इन शब्दों का प्रयोग पति के अर्थ मे किया जाता है।

आमटी - स्त्री वह पकी दाल जिसमें इमली (खटाई), गुड आदि डाढ़कर छोक दी हो, सावार।

आमदानी - दे 'अमदानी'। आमरण - अव्य आमरण, मृत्युतक, जिंदगीभर। [रस।

आमरस - पु पके आमों का

आमराई - स्त्री अमराई, आम का वाग।

आमाश - पु १ आम, अपक्व आहार का अण। २ अपच; अजीर्ण। ३ आंव।

आमा<sup>+</sup> - पु स्नन, मानृस्नन। आमाशय - पु आमाशय, मेदा, पाचन-मन्था का वह रैलीनुमा भाग जिनमें आहार इकट्ठा होकर पचता है।

आमिष - न १ आमिष, मांस। २ प्रत्योमन, लुभावनी वस्तु, लालच, बूस। ३ मछली पकटते समय अँकुमी में लगाया जाने वाला पदार्थ, चारा। ४. अंतरज में एक पैदल जो कर बटे मोहरेपर आक्रमण करने की चार, 'गैविट'।

आमुचा\* - सर्व हमारा।

आमुतें\* - सर्व. हमें, हमको।

आमेन - अव्य [हिब्रू] आमीन, ईश्वर ऐसा करे, तथास्तु।

आमोद - पु १ आमोद, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। २ सुगंध, खुशबू।

आम्ही - सर्व हम, हम लोग।

आय - पु आय; आमदनी। २ लाभ, मुनाफा। ३ जन्मकुडली मे ग्यारहवाँ स्थान। ४ दे 'आटोप' 'आटोका'। ५ अस्तित्व। ६ आकार, स्वरूप। सु आया येणे - ममझ में आना।

आय<sup>+</sup> - स्त्री माँ, माता।

आयणी<sup>+</sup> - स्त्री १ इच्छा, हेतु, वासना। २ मत। ३ मन, बुद्धि। ४ कहावत।

आयत - वि आयत, लत्रा, विन्तृत। पु आयत, ममकोण चतुर्भुज, 'रेक्टैंगल'।

आयता - अव्य १ अनायास, विना प्रयास-परिश्रम के, आसानी

से। २ विना बुलाये। - वि वना-  
वनाया, तैयार। मु. आयत्या वेळीं  
- अव्य ऐन वक्त पर मु. आयत्या  
पिठावर रेघा ओढणे - पराये माल-  
पर झीगुर नाचे, पैतूक या अना-  
यास मिली सपत्ति से ऐश करना।  
आयत्या विळावर नागोवा - विना  
परिश्रम के मिली जायदाद पर  
कब्जा करके बैठना, टुकडखोर।

आयतोजी-बा - वि मुफतखोर,  
आयतोळा - वि १ विना-  
सायास, मुफत में मिला हुआ। २  
पुर्नविवाहित स्त्री (विधवा) का  
पहले पति से उत्पन्न बच्चा। (यह  
दूसरे पति को अनायास मिला  
होता है।)

आयब - दे 'अयव'।  
आयला - अव्य. माँ को, माँ  
की (गाली) (ग्रा)।  
आया - स्त्री [पुर्त] आया,  
बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री,  
घाय।

आया - स्त्री बहु 'आई' का  
बहु माताएँ। - वहिणी - स्त्री  
बहु माँवहनें।

आयात - वि आयात, दरामद,  
आया हुआ, देसावर से आया हुआ  
(माल)। - स्त्री आयात, दरामद,  
देसावर से माल आना या मँगाना,  
'इपोर्ट'। - जकात - स्त्री आयात-  
कर।

आयाबाया - स्त्री बहु १  
सावारण स्त्रियाँ, पास-पडोस की  
स्त्रियाँ, पडौसिने, ऐसी स्त्रियाँ जो  
रिश्तेदार न हो। २ कायर, बुझ-  
दिल, कमजोर, दरिद्र पुरुष।

आयास - पु १ आयास; यत्न,  
कड़ी कोशिश; श्रम। २ थकावट,  
मानसिक पीडा। - प्रयास; -  
सायास - पु बहु अनेक दुख,  
म हिं ग कोश ... ६

परिश्रम, कोशिशें।

आयासी - वि १ आयासी,  
आयास, श्रम करने वाला। २  
थका हुआ। ३ दुखी।

आयाळ - स्त्री [फा 'अयाळ']  
अयाळ। दे 'अयाळ'।

आयिता - दे 'आयता'।

आयु - स्त्री आयु, जीवन,  
जिन्दगी।

आयुध - न १ आयुध, हथियार  
। २ औजार, आला, उपकरण।

आयुरारोग्य - न दीर्घायु और  
अच्छा स्वास्थ्य, बड़ी उम्र और  
अच्छी मेहत। [काल।

आयुर्दाय - पु आयुर्दाय, जीवन-  
आयुर्भाव<sup>†</sup> - पु अभिनय, हाव-  
भाव। दे 'आविर्भाव'। २  
जीवन का अनुभव।

आयुर्मर्यादा - स्त्री जीवन-  
सीमा, जीवितव्य, जिन्दगी की  
हद।

आयुष्य - न १ जीवन,  
जिन्दगी, आयु। २ उम्र, वय,  
अवस्था। - क्रम - पु जीवन-क्रम,  
रहन-सहन का ढग, हररोज की  
वाते। आयुष्याची दोरी - स्त्री  
आयु, जीवन, जिन्दगी। (मु.-  
०नुटणे - मर जाना। - ०बळकट  
असणे - दीर्घायु होना, जल्दी या  
आसानी से न मरना।)

आरघें<sup>†</sup> - न सतान के अभाव  
में होने वाला दुख।

आरंवलणे\* - क्रि अ १ जोर-  
जोर से रोना, आक्रदन, विलाप  
करना। २ जलना।

आरभ - पु १ आरभ, प्रारभ,  
शुरुआत, इन्तिदा, आगाज।  
२ शुरू का हिस्सा। ३ उत्पत्ति।  
- शूर - वि किसी काम के प्रारभ  
में बड़ा उत्साह दिखा कर उसे धींच

में ही छोड़ देने वाला। कहा०  
आरभ शूरा खलु दाक्षिणात्या -  
दक्षिण (महाराष्ट्र) के लोग किसी  
काम को शुरू करने में तो बड़े शूर  
होते हैं पर उसे पूरा नहीं करते।

आरभणे - क्रि स आरभ  
करना, शुरू करना। - क्रि अ  
शुरू होना।

आर - स्त्री १ आर, दे 'अरी'।  
२ अरुरत, जल्दी। ३ अकुर,  
अँखुआ। ३. चिंता, फिक्र, चुभन,  
कसक, टीस। ४. आरी, पने की  
नोक में खुंसी कील, सोटे या पहिये  
में लगी कील। ५ अभिमान, गर्व,  
घमड। ६ आरा, पहिये की  
गडारी और पुट्टी के बीच की  
पटरी। ७ शरीरपर के बालों का  
गुच्छा या भौंरी, चक्राकार में उगे  
हुए बाल या रोयें। - बाज - वि  
घमडी।

आर - पु १ अजगर। २ सुस्त  
या आलसी आदमी।

आर - पु. [क 'आर'] गुल्ली-  
डंडे के खेल में गिनती की छठी  
सख्या, छ।

आर - पु सामर्थ्य, वश, वस,  
रसाई, पहुँच। आरातला - वि  
वस का, जिसे आसानी से कावू में  
किया जा सके, पहुँच के भीतर का।

आर<sup>†</sup> - अव्य अरे, आँ।

आरगिन, आरड; आरडणे,  
आरडा, आरडाओरड, आरडचा -  
दे. 'अरगिन', 'अरड',  
'अरडणे', 'अरडा', 'अरडा-  
ओरड', 'अरडचा'।

आरण\* - स्त्री अपेक्षा, इच्छा।

आरण-णी - स्त्री १ दे  
'अरणी'।<sup>†</sup> २ युद्धभूमि। ३  
युद्ध का आदेश, हमले का हुक्म।  
४ शस्त्र, हथियार। [आराम।

आरणूक - स्त्री विश्राम,  
आरणे - क्रि अ १ दे.  
'आरवणे' । २ उत्सुक होना । ३  
दे. 'अरणे' ।

आरत - न १ इच्छा, चाह ।  
+२ आरती । - अण्व्. इधर, इस  
ओर ।

आरता - ती - दे 'अरता' ।  
आरती - स्त्री १ आरती,  
पूजन - अभिनदन आदि में देवता  
या अभिनदनीय व्यक्ति के मुख के  
सब ओर कपूर-दीपक घुमाना ।  
२ वह पात्र जिसमें कपूर या दीपक  
रखा जाय । ३. उम समय पढा  
जाने वाला स्तोत्र । ४ प्रशंसा,  
स्तुति, सम्मान ।

आरतें, आरते परतें, आरत्र -  
दे 'अरता', 'अरत्र' ।

आरधेली - दे 'अर्धेली' ।  
आरधणे<sup>+</sup> - क्रि अ. नाश होना ।  
आरपार - अण्व् आरपार, इस  
छोर से उस छोर तक, बीच में  
से होकर, पूरी तरह; इधर ये  
उधर तक ।

आरधळणे<sup>+</sup> - क्रि अ १ दम  
घुटना । २ डर जाना । ३ क्षीण  
होना ।

आरवी<sup>+</sup> - दे 'अरवी' ।  
आरभटी\* - स्त्री खीचातानी,  
गडवडी ।

आरमार - न [स्पैनिश  
'आरमाडा'] १ युद्ध पोतो का  
वेडा; जगी वेडा, 'आर्मोडा' । २  
नौसेना, जलसेना, नौदल, बहरी  
फौज ।

आरमारी - वि नौदलसवधी,  
बहरी ।

आरव - घृ १ आरव, ध्वनि,  
आवाज । २ आहट । ३ कुकड़कूं,  
वांग, मुर्गे की आवाज, चिल्लाहट ।

४ \* वृक्ष, पेड़ । ५ वाग । ६  
अरण्य, जंगल ।

आरवणें - क्रि अ चिल्लाना,  
वांग देना (मुर्गे का) कुकड़कूं  
करना ।

आरवार, आरवाळी; आरशी  
- दे 'अरवार', 'अरवाळी'  
'अरशी' ।

आरसपान - घृ मगममर ।  
आरसपानी - वि १ मगममर  
का बना । २. शीशे जडा हुआ ।

आरसा - घृ शीशा, दर्पण,  
आईना ।

आरसी - स्त्री १. चदमा,  
ऐनक । २ छोटा शीशा, आईना ।

आरसेमहाल घृ [अ. 'आदर्श'  
+ अ 'महल'] शीशमहल ।

आरळ\* - वि १ नाजूक, मृदु,  
मुलायम; सुदर । २ दे 'अरळ' ।

आरा - घृ १ बीस-पचीस  
हाय लबी और चार-पांच हाय  
चौडी जमीन, एक हल से जोती  
जा सके, इतनी भूमि । २ घास  
क्री गेंडुरी । ३ साधन, द्रव्य । ४  
फसल की कटाई । ५ अकडीपर  
खीची कटाई । ६ लकडीपर खीची  
हुई रेखा ।

आराइणे\* - क्रि स १.  
पकडना, धारण करना । २. समर्पित  
करना । ३ रोकना, बंद करना । -  
क्रि अ १ अनुकूल होना । २ उत्पन्न  
होना । ३ रुकना । ४. ऊत्रना ।

आराखडा - दे. 'अराखडा' ।  
आराजी - स्त्री [अ. 'अराजी']  
१ खेती, भूमि । २ खेत का  
रकवा, क्षेत्रफल । ३ प्रवच,  
व्यवस्था ।

आराटी - दे 'अराटी' ।  
आराणु(णू)क - दे. 'आरणूक' ।  
आरातणे\* - क्रि अ १ पास

आना । २ उत्पन्न होना ।

आराध\* घृ प्रयत्न, कोशिश,  
परिश्रम ।

आराधक - वि आराधक,  
उपासक, आराधना, पूजा करने  
वाला ।

आराधणूक - स्त्री आराधना,  
प्रार्थना, पूजा-सेवा ।

आराधणें - क्रि स १ पूजा,  
आराधना, उपासना, मनुहार,  
खुशामद करना । २ प्राप्त करना ।

आराधन - न, आराधना - स्त्री  
१ आराधन, आराधना, पूजा,  
उपासना; सेवा । २ मनुहार,  
विनती, खुशामद । ३ तुष्ट, प्रसन्न  
करना ।

आराधना - स्त्री १ ब्राह्मण-  
भोज । २ मन्थामी की बरसी  
(पुण्यतिथि) का समारोह ।

आराध्य - वि आराध्य; पूज्य ।  
- न १ वह वस्तु जिसकी प्राप्ति  
कर लेनी हो, उद्देश्य, लक्ष्य ।  
२ दे. 'आराध्यदेवता' । - देवता  
स्त्री, - देवता - न १ कुलदेवता  
, कुलदेव । २ वह व्यक्ति जिसकी  
भक्ति या आराधना बड़ी निष्ठा से  
की जाय ।

आराम - घृ १ आराम, सुख ।  
२ बगीचा, उद्यान, उपवन ।

आराम - घृ [फा] १ आराम,  
विश्राम । २ सुख, चैन । ३  
स्वास्थ्य, आरोग्य । - खुर्ची - स्त्री  
आराम - कुरसी, 'ईजीचेयर' । -  
शौर - वि आरामदेह, आराम  
पहुँचाने वाला, सुखदायी ।

आरास्ट - न घृ [अ] अरा-  
स्ट, आरारोट, एक पौधा, इसकी  
जड़ से निकलने वाला सत जो  
तीखुर जैसा होता है और प्रायः  
बीमारो को दिया जाता है ।

आराव\* - दे 'आरव' ।

आरास - दे 'अरास' ।

आरिसा - दे. 'आरसा' ।

आरी - स्त्री १ आरा, चमड़ा सीने का सूजा, आरी । २ आरा, पहिये की गडारी और पुट्टी के बीच की पटरी । ३ आरी, आरा, लकड़ी चीरने का एक दाँतीदार औजार । ४ दे. 'अराटी' । ५ सितार, आदि में तारों के टिकाने के लिए रखी जानेवाली हाथीदाँत की पट्टी ।

आरीदोरी\* - स्त्री वेर, बबूल जैसे कँटीले और गधहीन फूलों वाले पेड़ ।

आरुता\* - स्त्री योग्यता ।

आरुता-ती-तें\* १ इधर, इस तरफ, इस ओर । २ पास, नजदीक । ३ पहले, पेशतर ।

आरुवार - दे. 'अरुवार' ।

आरूढ - वि आरूढ, सवार, आसीन, ऊपर चढ़कर, जमकर बैठ गया ।

आरूढणें - क्रि स १ आरूढ होना, ऊपर चढ़ना, बैठना, सवार होना । २ बात का फैलना, लोगों की ज़वानपर होना ।

आरे\* - अव्य अरे, रे, अवे ।

आरेकस - दे 'अरकस' ।

आरेख - पु १ आरूप, प्रारूप, रेखाकृति, स्थूल चित्र, ढाँचा, खाका । सामान्य रूपरेखा । २. धाक, रोव, तावा ।

आरेखणे - क्रि स १ आलेखन करना, दे 'आरेखन' । २ तावे में, कब्जे में रखना ।

आरेखन - न स्थूल चित्र बनाना, रेखाचित्र खींचना, स्थूल रूप में अंकित करना या आँकना ।

आरोगण\* - न [क. 'आरो-

गण'] भोजन खाना ।

आरोगणे\* - क्रि स [क. 'आरोगण'] भोजन करना, खाना ।

आरोग्य - न आरोग्य, स्वास्थ्य, तदुत्तरी । - विज्ञान, - शास्त्र - न स्वास्थ्यविज्ञान, आरोग्यशास्त्र, 'हाइजिन' ।

आरोप - पु १ अभियोग, इलज़ाम । २ आरोप, लगाना, न्यास, एक पदार्थ में दूसरे के गुण-धर्म की कल्पना । ३ धर्म, गुण । मु. - करणे, - ठेवणे - अभियोग, इलज़ाम लगाना ।

आरोपण - न १ आरोपण, रोपना, लगाना । २ दे. 'आरोप' । ३ झूठी कल्पना, भ्रम ।

आरोपणे\* - क्रि स १ रोपना; लगाना, दोना । २ इलज़ाम लगाना । ३ एक वस्तु में दूसरी के गुण-धर्म की कल्पना करना, थोपना ।

आरोपित - वि १ आरोपित, आरोप किया हुआ । २ रोपा, लगाया हुआ । ३ दे 'आरोपी' ।

आरोपी - वि १ अभियुक्त, मुलज़िम । २ दोगी, झूठा, बनावटी । ३ गुनहगार, अपराधी ।

आरोशापारोशानें - अव्य विना नहाये, विना स्नान किये, विना धोये ।

आरोह - पु सगीत में स्वरो का चढ़ाव, ऊपर की ओर, पडज निषाद की ओर जाना ।

आरोह - पु, आरोहण - न १ आरोह, आरोहण, चढ़ना, ऊपरको जाना, सवार होना । २ प्रगति, तरक्की । ३ प्रारभ, आरभ ।

आरोही वर्ण - पु ऊपर जाने

वाला स्वर (सगीत) ।

आरोळी - स्त्री १ चीख, पुकार, चिल्लाहट । २ ललकार, गर्जन । ३ वाटी, अगाकडी, दे 'अरोळी' ।

आरौजें\* - अव्य. १ पहले, पेशतर । २ इधर, इस तरफ । ३ विना, सिवाय । - वि अवचूरा, कम ।

आर्जव - न आर्जव, ऋजुता, सीधापन, नम्रता ।

आर्जव - न [फा 'आर्जू'] १ मनुहार, मिन्नत, खुशामद, चापलूसी । २ आजिजी, गिड-गिडाहट ।

आर्जविणे - क्रि स [फा 'आर्जू'] १ मिन्नत, खुशामद करना । २ मनाना ।

आर्जवी - वि [फा 'आर्जू'] १ आजिज, नम्र । २ खुशामदी ।

आर्त - वि १ आर्त, पीड़ित, दुखकातर, किसी कष्टपीडा से वेचैन । २ बीमार । ३ आतुर, उतावला । स्त्री उत्कठा, आतुरता । - वधु, - साधु - वि पु आर्तवधु, आर्तसाधु, पीड़ितों की सहायता करने वाला व्यक्ति । - वत - वि उत्मुक, आतुर । - स्वर - पु आर्तनाद, आर्तस्वर, दुखियाकी पुकार, दर्दभरी ऊँची आवाज़ ।

आर्थिक - वि आर्थिक, अर्थ-सवधी, माली । - स्थिति - स्त्री आर्थिक अवस्था, माली हालत ।

आर्द्र - वि १ आर्द्र, गीला, तर, नम । २ द्रवित, पिघला हुआ (स्नेहार्द्र, करुणार्द्र) ।

आर्द्रता - स्त्री आर्द्रता, नमी, तरी, गीलापन, सील, 'हचुमि-डिटी' । - दर्शक - पु आर्द्रतादर्शी, 'हाइप्रोस्कोप' । - सापक - पु

आर्द्रतामापी, 'हाइग्रोमीटर'।

आर्य - पु आर्य। - वि १ आर्य जाति का। २ आदरणीय, भद्र, श्रेष्ठ, कुलीन। ३ आर्य के योग्य। - पुत्र - पु. १ आर्यपुत्र, आचार्य का पुत्र। २ राजकुमार, पति आदि का सवोधन। - भाषा - स्त्री १ आर्यों की भाषा। २ संस्कृत।

आर्या - स्त्री २ आर्या, भद्र महिला, श्रेष्ठ स्त्री। २ एक वृत्त जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में १२-१२ और द्वितीय-चतुर्थ में १५-१५ मात्राएँ होती हैं।

आलवेल्ला - वि अलवेल्ला, सुंदर, अनूठा, वांका, मनमौजी। आलमारी - दे 'अलमारी'। आलय - न. १ आलय, घर, मकान, निवासस्थान, आश्रयस्थान। २ खजाना, भंडार।

आलवण - दे 'अलवान'।

आला - क्रि अ [येणें का भूत] आया। - गेला - वि १ आने वाला, जाने वाला। २ मेहमान, अतिथि,। - दिवस - अव्य आये दिन, हर रोज़। मु० आल्यागेल्याचे घर - ऐसा घर जहाँ अक्सर मेहमान आते-जाते रहते हैं।

आलाप - फ - पु १ आलाप, कथन, वातचीत, सभापण। २ संगीत के सातों स्वर। ३ स्वरों का साधन। ४ गाने का तान जैसा एक अंग जिसमें स्वर तानकी तरह द्रुत न होकर विलंबित होते हैं। - चारी - स्त्री १ आलाप। २ स्वरों की साधना।

आलाप - (पि-फ)णें - क्रि आलापना, अलापना, आलाप लेना, गाना, गाने में आलाप का प्रयोग करना।

आलापाला - पु. साग-पात,

कदमूल, सूखा-सूया भोजन।

आलापी - स्त्री १ आलाप। २ दे 'आलापचारी'।

आलावा - दे 'अलावा'।

आलिंगणें - क्रि स लिपटाना, गले लगाना, आलिंगन करना, भेंटना, अक में भर लेना।

आलिंगन - न आलिंगन, गले लगाना। मु - देणें - (का) आलिंगन करना, (को) गले लगाना।

आलिशान - दे 'अलिशान'।

आली - क्रि अ ['येणें' का भूत] आयी। - गेली - स्त्री नफानुकसान, लाभ-हानि, जमा-खर्च, जय-पराजय।

आलुबुखार - दे 'अलुबुखार'।

आलें - न अदरक, आर्द्रक। दे 'अलें'।

आलें - क्रि अ न आया। - पण - न आनेकी स्थिति, आना।

आलेख - पु. १ आलेख, लिखावट, लिखाई। २ रेखाचित्र, लेखाचित्र, सारणी, 'चार्ट'।

आलेखन - पु आलेखन, चित्राकन, तसवीर बनाना।

आलेख्य - न १ चित्र, लेख। २ दे 'आलेखन'।

आलोक - पु १ आलोक; प्रकाश। २ देखना। ३ दृश्य, रूप, आकार। ४ विचार। - शब्द - पु राजा के चलते समय या राजसभा में उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चौबदारों द्वारा बोले जाने वाले शब्द, पुकार।

आलोच\* - पु. विचार, मन की बात। [सोचना। २ वताना।

आलोचणें\* - क्रि स १ देखना, आलोचन - न, आलोचना - स्त्री १ आलोचन, आलोचना, परख, समीक्षा, गुणदोषका विवे-

चन। २ दे 'अलोचन जागरण'।

आलोड (ड) णें\* - क्रि अ न १ मथना; विलोना, इधर-उधर करना। २ छानबीन, ऊहा-पोह करना, वार-वार मोचना।

आलोडन - न १. आलोडन, मथना, विलोना। २ गहरा अव्ययन, छान-बीन, ऊहापोह करना।

आल्याड\* - अव्य इस पार, इधर, इम तरफ।

आल्यापावलों - अव्य. उल्टे पाँव, तुरत, उसी समय।

आल्हाद - दे 'आह्लाद', 'अल्लाद'।

आवदा - दे. 'अवदा'।

आव - पु. १ दम, दिखावा, गीदडभवकी। २ डौल, डब, टग, डाँचा, गठन, रूपरेखा। ३ ठाठ, रोव; प्रतिष्ठा, दवदवा, महत्त्व। ४ हिम्मत, वीरज। ५ पैतरा, चाल। ६. आय, आमदनी, लाम।

आव - क्रि अ [हि 'आओ'] आओ, आ। - जाव - स्त्री १ आओ और जाओ। २ आना-जाना, आमद-रफ्त। कहा० आव-जाव घर तुम्हारा - सब के लिए बुला स्थान, दानी व्यक्ति क-घर।

आवई - दे. 'अवाई'।

आवक - वि आया हुआ, प्राप्त, आयात हुआ। - स्त्री १. आय, प्राप्ति, आमदनी। २ आये हुए पत्र आदि, आवक। ३ आयात, दरामद। ४, आवक रजिस्टर। - जावक - स्त्री १ आयात-निर्यात, दरामद-वरामद। २ आयव्यय, जमाखर्च। ३ आवक-जावक रजिस्टर। - बारनिशी - स्त्री आवक रजिस्टर, वह वही जिसमें

आये हुए पत्र दर्ज किये जाते हैं ।

आवडा-डा - दे 'अवडा' ।

आवकर्णे - क्रि अ झिझकना, ठिठकना ।

आवगणे - क्रि अ वहकना, वुरे मार्गपर चलना, दुराचारी बनना, पयभ्रष्ट होना । \* - क्रि स. स्वीकार करना ।

आवचट - दे 'अवचट' ।

आवजा-झा\* - वि भार, बोझ, आलबन ।

आवटचावट - अव्य वि उलटा-सीधा, वेढगा ।

आवट(टा)रणें, आवट(टा)-ळणे - दे 'अवट ( टा ) रणें', 'अवट(टा)ळणें' ।

आवड - स्त्री १ रुचि, दिल-चस्पी, चाव । २ चाह, इच्छा, शोक, प्रेम । ३. पसद । - नावड, -निवड-स्त्री १ रुचि-अरुचि, पसदनापसद । २ द्वैत, दुई ।

आवडकचवडक - दे 'औडक-चौडक' ।

आवडणें - क्रि अ भाना, प्रिय, अच्छा लगना, पसद आना । \* - क्रि अ. दिखाई देना, लगना, देखना ।

आवडता - वि १ प्रिय, प्यारा, चहेता; मनभाता । २ चाहे जो ।

आवडी\* - स्त्री १ दे 'आवड' । २ प्यार, प्रेम । - अव्य. प्रेम से, प्यार से ।

आवण - न १. चारुक, 'वेय-रिंग' । २ गाडी के पहिये के सूराख में डाला गया लोहे का गोल छल्ला । ३ धान का खेत ।

आवणी - स्त्री १ रोपाई, रोपनी । २ खेत का वह हिस्सा जिनमे धान रोपा जाता है ।

आवतणें - न १. दावत, भोजन

का निमंत्रण । २ बुलावा, निमंत्रण ।

आवतणे - क्रि स दावत देना, भोज आदि के लिए निमंत्रित करना ।

आवतींभोवतीं - अव्य आम-पास, चारोओर, इर्दगिर्द, घेरेमें । आवय<sup>+</sup> - स्त्री मां, माता । -त्रापुय-पु बहु मांवाप, माता-पिता ।

आवर - पु १ रोक, नियंत्रण, तावा, कब्जा । २ समेटना, जमा करना, ठीक करना, दे 'आटोप', 'आटोका' । - आटोप - पु, -शक्ति - स्त्री निवटाने, पूरा करने की क्षमता ।

आवरण - न १ आवरण, ढकना, ढकन । २ वेठन । ३ तावा, निब्रमन, नियंत्रण, अधिकार, व्यवस्था । ४ भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को रात में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बड़ा भोजन । इसके दूसरे दिन हरितालिका का अनशन व्रत रखा जाता है ।

आवरणे - क्रि स १ समेटना, लपेटना, जमा करना । २ पूरा करना । ३ रोकना, खीचना । ४ ढकना, छिपाना, घेरना । ५ नियंत्रण रखना । ६ मसोसना, ज्वत् करना । (दिल) । ७ \* रक्षा करना, आश्रय, शरण देना । ८ पालन - पोषण, परवरिश करना । - न १ सुनारकी हथौडी । २ दे 'आवरण' ।

आवरदा - वि [फा 'आवर्द'] आया हुआ । - पु १ आयात माल । २ आमदनी । - जमा - स्त्री आयात कर की आय ।

आवरसावर, आवरासावर स्त्री समेटना, लपेटना, बाँधना,

वटोरना, व्यवस्थित, ठीक करना, तह करके रखना ।

आवर्जणें\* - क्रि स त्यागना, छोड़ना, त्याग देना ।

आवर्जन - अव्य अनुरोधपूर्वक, प्रेम और आग्रह के साथ, आस्था-पूर्वक ।

आवर्त - पु १ आवर्त, घुमाव, चक्कर । २ भँवर । ३. चक्रवात, वात्याचक्र, बवडर, चक्करदार आँवी, अघड, तूफान । ४ घोड़ेकी भँवरी । ५ किसी बात को बार-बार सोचना - विचारना ।

आवर्तन - न १ आवर्तन, घूमना, चक्कर खाना, मथन, आलोडन । २ अभ्यास, बार-बार, फिर-फिर रटना या करना; आवृत्ति, पाठ, सथा, पारायण । ३ लीटना, घूम - फिर कर आना ।

आवर्दा - पु. स्त्री आयु; जितनी, जीवन ।

आवशी<sup>+</sup> - स्त्री १ पूर्वरात्र, रात्रि का पूर्व भाग, रात का पहला प्रहर । २ माँ, माता ।

आवस - स्त्री अमावस, अमा-वास्या ।

आवसा - पु अस्थायी मकान, झोंपडी आदि ।

आवस्ता\* - अव्य. अकारण, नाहक ।

आवळ, आवळकाठी, आवळणे, आवळसर; आवळा; आवळी, - दे 'अवळ', 'अवळकाठी', 'अवळ-काठी', 'अवळणे', 'अवळसर', 'अवळा', 'अवळी' ।

आवळा जावळा - वि जुडवाँ, जुडे हुए, यमल ।

आवळें जावळें - न जुडवाँ, एक साथ पैदा हुए दो वच्चे । [- बहु आवळीं - जावळीं ]



आवळचा जावळचा - वि श्री  
बहु एक साथ पैदा हुई दो लड-  
कियाँ।

आवाका, आवातर - दे.  
'अवाका,' 'अवातर'।

आवा - पु. १ आवाँ, मिट्टीके  
वरतन पकाने का भट्ठा। २  
मटको का ढेर। दे 'अवा - पु'

आवा - छी दे 'अवा - छी'  
आवाई - दे 'अवाई'।

आवाज - पु [फा] १ आवाज,  
स्वर, शब्द, ध्वनि, नाद। २  
वोली। ३. कठ, गला, खर,र,  
मवाद। ४ गडवडी। - दार - वि  
अच्छी आवाजवाला, सुरीला,  
सुस्वर। - दारों - छी सुरीलापन,  
सुस्वरता। मु० - काढणें - १  
आवाज निकालना, बोलना। २  
आवाज उठाना, विरोध करना,  
चींचपड करना, चू व चरा करना।  
- देणें - आवाज देना, पुकारना।

आवाजावा<sup>†</sup> - छी आना-  
जाना, आवागमन, यातायात।

आवाजी - छी [फा 'आवाज']  
सुरीली आवाज। दे 'आवाज'।  
- वि आवाज का। - मतदान -  
न च्वनिमत।

आवाड, आवाडाव, आवातणें-  
न - दे 'अवाड,' 'अवाडाव,'  
'आवातणें'।

आवार - पु. न १ अहाता,  
इहाता; घेरा, चार-दीवारी। २  
चहार दीवारीसे घेरी हुई जगह,  
सहन, आँगन। ३ आवरण।

आवास - पु. १ आवास, वास-  
स्थान, घर, कमरा। २ निवाम,  
मुकाम।

आवाहणें\* - क्रि स आवाहन  
करना, बुलाना, आमत्रित करना।

आवाहन - न १ आवाहन,

बुलाना, आमत्रण। २ पूजन मे  
किमी देवता को मंत्रद्वारा बुलाना।  
- पत्र - न निमत्रणपत्र।

आवाळू - न १ मम्मा, मसा,  
इल्ला, अर्बुद। २ ओठ, हाँठ।  
३. जवडा, कल्ला। ४ गटस्यत्र,  
कनपटी। ५ सिर।

आविर्भवणें\* - क्रि अ प्रकट,  
उत्पन्न होना, जाहिर होना। २  
दिखाई देना।

आविर्भाव - पु. १ आविर्भाव,  
प्रकट होना, अभिव्यक्ति। २  
उत्पत्ति। ३ भाव, हाव-भाव। दे  
'आव'।

आविर्भूत - वि १ आविर्भूत,  
प्रकटित। २ अभिव्यक्त। ३ अव-  
तीर्ण। ४ उत्पन्न। [प्रकट करना।

आविष्करण न आविष्करण,  
आविष्करणें\* - क्रि अ १  
प्रकट होना, स्फुरित होना। २  
मान, गर्व करना।

आविष्कार - पु. अभिव्यक्ति,  
प्रकट करना, दिखाना।

आविष्कृत - वि आविष्कृत,  
व्यक्त, प्रकट किया हुआ।

आविष्ट - वि १ आविष्ट,  
प्रेतादि मे ग्रस्त। २ अभिभूत,  
[क्रोधाविष्ट]।

आवृत - वि १ आवृत, ढका,  
छिपा, लपेटा हुआ। २ व्याप्त,  
घेरा हुआ।

आवृत्त - वि १ आवृत्त;  
बुमाया; फिराया। २. लौटाया,  
दुहराया, पढा हुआ।

आवृत्ति - छी १ आवृत्ति,  
संस्करण, 'एडियन'। २  
अभ्यास, दुहराना। ३ घूमना,  
लौटना।

आवेग - पु. १ आवेग, जोर,  
वेग, गति। २ प्रबल मनोवेग।

३ प्रबलता, प्रचंडता। ४ जल्दी।  
आवेदन - न १ आवेदन,  
निवेदन, अर्ज, प्रार्थना। २  
नालिय; फरियाद।

आवेव\* - दे 'अवयव'।  
आवेश - पु. १ आवेश, जोश।  
२ आवेग, उमग, प्रबल मनोवेग।  
३ तेज, गुम्मा, क्रोध। ४ तेजी।  
फुर्ती, जल्दी।

आवेशणें\* - क्रि अ. १. आवेश-  
युक्त होना, जोश में आना।  
२ गुस्सा होना। ३ प्रवेश करना,  
व्याप्त होना।

आवेशी - वि आवेगयुक्त,  
उत्साही, जोगिला।

आवै<sup>†</sup> - छी माँ, माता।  
आवो - अव्य अहो, अरी,  
अजी। \* - पु. १ प्राप्ति। २  
प्रतिष्ठा। ३ ठाठ।

आव्हाट, आव्हाटणें, आव्हात  
आव्हेर, आव्हेरणें - दे 'अव्हाट,  
'अव्हाटणें,' आव्हात, 'अव्हेर,  
'अव्हेरणें'।

आशकणें<sup>†</sup> - क्रि अ १  
शक्ति होना, शक होना। २  
डरना। ३ शका के कारण प्रग्न  
पूछना।

आशका - छी १ आशका,  
भय, डर, भीति, खतरे, अनिष्ट  
की संभावना। २ शका, सदेह,  
अविश्वास।

आशकित - वि १ डरा हुआ,  
नशक। २ आशका करने वाला।

आश - पु. आश, चम्मच मे  
खाने का लपथी जैसा पतला पदार्थ,  
भोजन, आहार [अभिलाषा।

आश - छी आशा, इच्छा,  
आशक - दे 'आपक'।

आशय - पु. १ आशय, तात्पर्य,  
अभिप्राय, हेतु, उद्देश्य। २ स्थान,

घर, अधिष्ठान, आश्रय, आधार।

आशा - स्त्री १. आशा; उम्मीद।  
२ अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा।  
३ आसरा, भरोसा। ४ प्रेम, चाह, प्रीति। -जनक, -वायक - वि आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला। -वाद - पु. आशावाद, आशावादिता, 'ऑप्टिमिज्म'। -वादी - वि आशावादी, 'ऑप्टिमिस्ट'।

आशावर्ण - क्रि स आशा, इच्छा करना।

आशाविणे - क्रि स. आशा उत्पन्न करना, उम्मीद बाँधना।  
आशाळ, आशाळभूत, आशाळ - वि १ लालची, लोभी, लोलुप। २ पेटू।

आशिष - पु. आशिष, असीस, आशीर्वाद। [चारो ओर।

आशीर्पाशीं<sup>+</sup> - अव्य. आसपास, आशीर्वचन न, आशीर्वाद - पु. आशीर्वचन, आशीर्वाद, असीस, आशिष, दुआ।

आशीर्वादन - क्रि स असीसना; आशीर्वाद देना।

आशीष - पु. आशीर्वाद, आशिष, असीस।

आशु - वि आशु, तेज, द्रुत। -अव्य तेजी से, फौरन।

आशीच - न १ आशीच, अशुद्धि, अपवित्रता। २ अशीच, जन्म - मरण के कारण कुटुंबियों और सपिंड जनो को लगने वाली छूत।

आश्चर्य - न १ आश्चर्य, अचरज, अचम्भा, ताज्जुब, विस्मय। २ अद्भुत बात, चमत्कार। [विस्मित होना।

आश्चर्यण - क्रि अ चकित, आश्चर्य - पु १ आश्चर्य। २.

कुटी, मठ, तपोवन।

आश्रय - पु. १. आश्रय, सहारा, आधार। २ शरण, सहायता, संरक्षण। ३. सान्निध्य, सामीप्य।

आश्रयण - क्रि स १ आश्रय, सहारा लेना। २ स्वीकार करना।

आश्राप - व - दे 'अश्राप'।

आश्रित - वि १ आश्रित, (किसी के सहारे) ठहरा, टिका हुआ। २ अवलंबित, अधीन।

-पु. १ वह जो भरण - पोषण के लिए किसीपर अवलंबित हो। २ स्त्री - वच्चे, नौकर - चाकर।

आश्लेषण - क्रि स गले लगाना, आलिंगन करना।

आश्लेषा - स्त्री आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र। [ढाढस, दिलासा

आश्वास - पु. आश्वास, आश्वासण - क्रि स १ आश्वासन देना। २ ढाढस, धीरज बाँधाना। ३ बुलाना, पुकारना।

आश्वासन - न १ आश्वासन, भरोसा, यकीन, खातिरजमा। २ ढाढस, दिलासा। ३ रक्षा या अभय का वचन। ४ प्रोत्साहन।

आश्विन - पु. आश्विन, क्वार।

आषक - वि [अ 'आशिक'] आशिक; प्रेमी, अनुरागी, अनुरक्त, आसक्त। [महीना।

आषाढ - पु. आषाढ, असाढ का आषाढी - स्त्री १ आषाढ की शुक्ला एकादशी। इस दिन पठरपुर में बड़ा मेला लगता है। २ पठरपुर की यात्रा।

आस - स्त्री १ आस, आशा, उम्मीद। २ भरोसा, सहारा। ३ आकांक्षा, अभिलाषा। - पु. दे 'आस'। - तुटी \* - वि आशाभंग करने वाला, निराश करने वाला।

आसकड - न दुर्गम स्थान,

मुश्किल जगह, ऐसा स्थान जहाँ बहुत से झंझट - झंझट या घास उगी हो।

आसका - के \* - अव्य वि सपूर्ण; समूचा, सारा।

आसक्त - वि १ आसक्त, अनुरक्त। २ लपट; लोभी।

आसक्ति - स्त्री आसक्ति; अनु- राग, लगन। २. लालच, लोभ।

आसखा \* - वि सारा, समूचा, सब।

आसडा - पु. जोर का झटका।

आसणी - स्त्री दही मथने की रई की रस्सी।

आसन - न १ आसन, बैठक। २ वह चीज जिसपर बैठ जाय। ३ बैठने का ढग, योगासन, रतिक्रिया की कोई विधि।

मु - घालणें, - ठोकणें - आसन जमाना, जमकर, अडिग भाव से बैठना। - उल्लमळणें - आसन डिगना, आसन डोलना; अस्थिर, विचलित हो जाना। - वसविणें - आसन जमाना, स्थिर होकर बैठना।

आसनी - स्त्री आसनी, छोटा आसन, बैठने भर का विछावन।

आसनी<sup>+</sup> - स्त्री आश्विन की पूर्णमासी को सबसे बड़े बेटे को आरती उतारने की विधि।

आसन्न - वि आसन्न, पास आया हुआ, नजदीकी। - मरण - वि आसन्नमरण, आसन्नमृत्यु, जिसकी मृत्यु पास आ गयी हो, कुछ ही देर का मेहमान।

आसपास - अव्य आसपास, इर्दगिर्द, अगलबगल, चारो ओर, करीब, पास में। - पु. जिल्दसाजी में किताब के दोनो ओर लगाया जाने वाला कोरा कागज, 'साईड-पेपर'।

आत्ममत - पु आत्मपान का नाग, ट्याऊ, अतराफ। दे 'आत्मतात्'।

आत्ममतांत, आत्मतात् - अव्य. आत्मपान, चारों ओर, सब तरफ़ में, इदंदिर्दं।

आत्मतात् + अव्य १ आत्मपान, चारों ओर, सब तरफ़। २. बहुत अधिक। ३ कभी भी।

आत्तर - पु [ अ 'अमर' ] अत्तर, प्रभाव, परिणाम, तामीर।

आत्तरा - स्त्री १. जलदेवी, वनदेवी। २. प्रसव - देवी।

आत्तरा - पु. १ आमरा, महारा, भरोना। २ आश्रयस्थान। ३ गरण, रक्षा।

आत्सव - न पु. १ आमव, मद्य, रत्न, पुष्परत्न। २ फल आदि के समीर से तैयार किया हुआ अर्क, 'टिचर'।

आत्तामी - दे 'अत्तामी'।  
आत्तवर्णे\* - क्रि अ आशा करना, आश्रयित होना।

आत्तुड - पु. चावुक, कोडा।  
आत्तुडणे - क्रि स. १ पछो-डना; मूष में फटकना। २ नीचना, झटका देना। ३ लूटना।

आत्तुरी - वि १ आसुर, असुर का, असुरमवधी। २ शैतानी, भयकर, घोर, दुष्ट।

उपाय - पु दानवीय, पेशात्रिक चिकित्सा; रोगी के घरीरको दापने, वाटने आदि प्रकार की चिकित्सा। -

चिकित्सा - स्त्री आत्तुरी चिकित्सा, अन्य चिकित्सा, 'सर्जनी'। -

नपत्ति - स्त्री आत्तुरी नपत्ति, वुरे नरीने में प्राप्त किया हुआ वन।

आत्तुड, आत्तुड - दे 'अत्तुड,' 'अत्तुड'। [ अव्ययगण्य।

आत्तुड - पु अत्तुड,

आस्तिक-वि आस्तिक, ईश्वर और परलोक को मानने वाला, वर्मनिष्ठ। - पु आस्तिक, एक ऋषि जिनकी सिफारिश में जनमेजय ने अपने मर्षसत्र में तक्षक नाग को जान बटश दी थी। मोते समय नाग में रक्षा पाने के लिए 'आस्तिक-आस्तिक' कहा जाता है।

आस्तिक्य - न, अस्तिक्यवृद्धि-स्त्री आस्तिकता, आस्तिक्य, ईश्वर आदि में विश्वास, धार्मिकता।

आत्तुरी - दे 'अत्तुरी'।

आस्ते - अव्य. [ 'फा आहिस्त' ] आहिस्ता, धीरे-धीरे, धीरे में। - कदम - अव्य. धीरे-धीरे, धीरे में चलो।

आत्स्या - स्त्री १ आत्मीयता, अपनापन, लगन, दिलचस्पी, अनुराग। २ आत्स्या, आदर, विश्वास, श्रद्धा। ३ आशा। ४ नरकता, निष्कपटता, निश्चलता।

आत्स्यान - न १ आत्स्यान, स्थान। २ नमागृह, दरवार।

आत्स्येवाहिक - वि १ आत्स्या, दिलचस्पी, आत्मीयता रखने वाला। २. उत्सुक। ३ निश्चल, निर्व्याज, खरा, बेलाग।

आत्मान - दे 'अत्मान'।

आत्त्वाद - पु. १. आत्त्वाद, न्वाद, रमानुभव। २ मज्जा। ३ इच्छा, अमिलापा।

आत्त्वादणे - क्रि स १ रस, न्वाद, लेना, चबना, खाना। २ मज्जा लेना।

आत्त्वाणे\* - क्रि अ. जलना।

आत्त्वा, आत्त्वाहा - अव्य. आत्त्वा, अत्त्वाहा।

आत्त्वाणा\* - वि १ आत्म-घातक, आत्मघाती। २ हानि,

नाश करने वाला। - पु. कहावत; लोकोक्ति।

आहार - पु. १ आहार, भोजन, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु। २ खाना, भोजन करना। ३ भोजन या खाने की मात्रा, खुराक। - योजनाशास्त्र, -शास्त्र - न आहार विज्ञान। - विहार - पु. आहार-विहार, भोजन, शयन, श्रम आदि। मु. आहारों जाणे - तावे में, कब्जे में जाना, वशीभूत, अभिभूत होना, शिकार होना।

आहारणें - क्रि स खा जाना, निगल जाना। - क्रि अ दे 'आरणे', 'अरणे'।

आहाळणें\* क्रि अ. १ जलना। २ हिलना। दे 'अहाळणे'। - न ताप, दुःख, तकलीफ।

आहाळवाहाळ, आहाळीव - दे 'अहाळवाहाळ', 'अहाळीव'।

आहिताग्नि - पु. आहिताग्नि, अग्नि की स्थापना कर उसे रखने वाला अग्निहोत्री।

आहुति - ती - स्त्री आहुति, यज्ञ या हवन में हवन-सामग्री अग्नि में डालना। २ वलि, कुर्बानी। मु. - देणे - १ आहुति देना, वलि चढाना। २ नाश करना।

आहे - क्रि अ हूँ।

आहे - क्रि अ है। - पण - न, - पणा - पु १ अस्तित्व। २ तथ्य, मन्य। मु. आहे आहे नाहीं नाहीं - जिमका अस्तित्व नगण्य है उसके लिए हमका प्रयोग किया जाता है। आहे काय नि नाहीं काय - बिलकुल मामूली, तुच्छ वान है।

आहेर, आहेव, आहेो - दे 'अहेर', 'अहेव', 'अहेो'।

आह्निक - न आह्निक, नित्य-

कर्म, दैनिक उपासना ।

आह्लाद - पु आह्लाद, आनन्द, सतोष, हर्ष, खुशी ।

आह्लादक - वि आह्लादक, मनोरम, सुखद, सुखकारी, रमणीय ।

आह्लादणे \* क्रि अ १ आन-दित, खुश होना । २ सतुष्ट होना ।

आह्लादित - आह्लादित, आन-दित ।

आह्वान - न १ आह्वान, ललकार, चुनौती । २ पुकारना, बुलाना, पुकार, बुलावा, आवा-हन । ३ नाम, सज्ञा । मु - देणे - ललकारना, चुनौती देना, आह्वान करना ।

आह्वणणे \* - क्रि अ आर्लि-गन करना, गले लगाना ।

आह्व - पु १ मिथ्या आरोप, लछन, तोहमत । २ बाह्य स्वरूप, स्वांग । ३ आमाम । मु - घेणे - तोहमत लगाना, मिथ्या आरोप करना, लछन लगाना । - घेणे - तोहमत लगाना, लछन लगाना ।

आह्व - स्त्री १ इच्छा, हवस, आकाक्षा । २ गली । - यु. मजदूर । - न दे 'अळे' ।

आह्वई - दे 'अळी' ।

आळण, आळणी, आळणे, आळता, आळमाळ - दे 'अळण', 'अळणी', 'अळणे', 'अळता', 'अळमाळ' ।

आळवण - स्त्री - स्त्री १ मनु-हार, मिन्नत, प्रार्थना । २ पुकार, बुलाना ।

आळवण; आळव(वि)णें - दे 'अळवण', 'अळविणे' ।

आळवाळ - न आलवाल, थाला ।

आळशी - स्त्री अलसी, तीसी ।

आळशी - वि आलसी, मुस्त, काहिल, निकम्मा, वेकार, काम चोर । कहा० - आळशाला गगा दूर व पाण्याला पढरपूर - आलसी के द्वार पर गगा आये और पापी के पास ही पढरपूर (तीर्थस्थान) हो, तो भी उससे वे लाभ नहीं उठाते । आळशावर गगा घेणे - किसी अपात्र मनुष्य को विना परि-श्रम, सम्मान या सपत्ति प्राप्त होना ।

आळस - पु. १ आलस्य, सुस्ती, काहिली । २ ढिलाई, टालमटोल । मु. - देणे - अँगडाना, अँगडाई लेना ।

आळसट - वि आलमी, मुस्त,

काहिल ।

आळसणे - क्रि अ १ अल-सना, अलसाना, थकावट या सुस्ती मालूम होना । २ मुरझाना, कुम्हलाना, खिन्न होना ।

आळसावणे - क्रि अ अलमाना, थकावट या सुस्ती मालूम होना ।

आळसुदा - दे 'अळसदा' ।

आळा - पु १ रोक, वचन, प्रतिवध । २ निरोव, अवरोव, अकुश, नियत्रण, सयम । मु. - घालणे - अवरोधन करना, निय-त्रण करना, दवाव में रखना, रोकना, अटकाना । - बसणे - कावू में आना, रोका जाना ।

आळाटाळी - स्त्री 'अळटळ' ।

आळीव; आळी - दे 'अह-ळीव', 'अळी', ।

आळीपाळीनें - अव्य वारी - वारीसे, अदल - बदल कर ।

आळू - न दे 'अळू' । १. अरवी । २ आडू, एक जगली फळ । - स्त्री गन्ने में लगने वाला कीडा ।

आळें; आळेपिळे, आळोखे पिळोखे - दे 'अळें', 'अळेपिळे', 'अळोखे-पिळोखे' ।

## इ

इ - मराठी वर्णमाला का तीसरा स्वरवर्ण या अक्षर ।

इंगणे - \* क्रि अ चिंता, परि-श्रम, बीमारी आदि से थक जाना, परेशान होना ।

इंगरेज\* - यु. [पुर्त 'इंगलेज'] अँगरेज, इंग्लैंड देश का रहने वाला, 'इंग्लिशमन' ।

इंगरेजी\* - स्त्री [पुर्त 'इंग-

लेजी' ] अँगरेजी, अँगरेजों की भाषा, 'इंग्लिश' । - वि अँग-रेज-सवधी, अँगरेजों का ।

इंगळ-ळा - पु अगार, अगारा, दहकता हुआ कोयला या लकड़ी । मु. इंगळासारखा लाल होणें - गुस्से से लाल पीला होना । अगारा बनना । [ चीटा या मकोडा ।

इंगळा - पु एक किस्म का

इंगळी - स्त्री १ वडा, काला और जहरीला विच्छू । २ चिन-गारी, अगारा । ३ सुनार की सँडसी ।

इंगा - पु चमार का एक औजार जिससे चमड़ा साफ और मुलायम बनाया जाता है । मु. - दाखविणे - मज्जा चखाना, सबक सिखाना, दड देना । - फिरणे -

घमड टूटना, आँखें खुलना ।

इगित - न १ मर्म, रहस्य, राज । २ इगित, सकेत, इशारा । ३ मन का भाव, अभिप्राय । ४ मन का भाव बताने वाली अगचेष्टा, हावभाव ।

इगोळ - दे 'इगळ' ।

इग्र (ग्रे) ज, इग्र (ग्रे) जी - दे 'इगरेज,' 'इगरेजी' ।

इच - पु. [अ] फुट का बार-हवाँ भाग, तीन जो की लबाई, 'इच' ।

इच्चू-चू - दे 'विचू' ।

इजन - न [अ 'एजिन'] कल, यत्र, 'इजन' । [की हवा ।

इजनवारा \* - पु पखा, पखे

इजनेर - पु [अ एजिनियर] यत्रविशेषज्ञ, 'इजनीयर' ।

इजाई - वि १ दीखने मे सुदर, चमकदार, जगमगाने वाला । २ भडकदार, भडकीला । ३ दिखावटी ।

इजायली - वि [अ 'इजाल'] हलकी, मामूली, साधारण, जगली लकड़ी का बना हुआ ।

इटर, इटरक्लास - पु [अ] १ कालेज की पढाई का दूसरा दर्जा । २ रेल में दूसरे और तीसरे दरजे के बीच का दरजा, डचोडा दरजा, 'इटरमीडियेट क्लास' ।

इदुरी - वि इदौर का, इदौर सबधी ।

इंदूर - न इदौर (शहर) ।

इद्र - पु. १ इद्र, देवराज । २ वर्षा का देवता, मेघ । ३ राजा, अधिपति । -कीट, - गोप - पु इद्र-गोप, वीर बहूटी । - चाप - पु इद्रचाप, इद्रधनुष । - जव - पु इद्रजौ, कुटज का बीज, इद्रयवा । - जाल - न इद्रजाल, जादू, नजर-

वदी के काम, वाजीगरी । - धनुष्य न - इद्रधनुष । - ध्वज पु इद्रध्वज, इद्र की पताका, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को फहरायी जाने वाली पताका, दे 'गुडी' । - नील - ल - पु इद्रनील, नीलकात मणि । - लोक पु इद्रलोक, स्वर्ग । - वशा - छी इद्रवशा, एक वर्णवृत्त । - वारुणी - छी, वारुण - न इद्रवारुणी, इद्रायन । क० इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा - आश्रयी के साथ आश्रयदाता का भी नाश (होना या करना) मु० इद्राची रंभा - अत्यंत रूपवती स्त्री ।

इद्रायण - न इद्रायन, एक लता जिसका फल कडुआ होता है और दवा के काम आता है ।

इद्रायणी - छी १ इद्रायणी, इद्रकी पत्नी । २ एक नदी । इसके किनारे आलदी है, जहाँ श्री सत ज्ञानेश्वर की समाधि है ।

इद्रावण - न दे 'इद्रायण' ।

इद्रिय - न १ इद्रिय, शरीर के ज्ञान और कर्म के साधनरूप अंग । २ पुरुष की जननेंद्रिय, लिंगेंद्रिय । - गम्य वि इद्रियगोचर, इद्रियग्राह्य । - ग्राम - पु इद्रियग्राम, पाँचो ज्ञानेंद्रियो की समष्टि । - दमन - न इद्रियनिग्रह, इद्रियो, भोगेच्छाओ को वश मे या अकुश मे रखना । - विज्ञानशास्त्र - न शरीरविज्ञान, 'फिजिऑलाजी' मु - हातीं धरणों - बहुत अधिक विषयासक्त होना ।

इघक - पु 'ईथर' ।

इधन - न इंधन, जलावन । इ० - अव्य इत्यादि, आदि, वगैरह ।

इकडचा - वि [क 'ईकडे'] १ यहाँ का, इधर का, इस ओर का, इस तरफ का । २ पति का

(पत्नी द्वारा प्रयुक्त) । मु - डोंगर तिकडे करणे - बडा मारी और मुश्किल काम करना । - तिकडचा १ इधर-उधर का, साधारण । २ इधर-उधर की; सुनी-सुनायी; वाजारी, अप्रामाणिक (वात, खबर) ।

इकडला, इकडील - दे 'इकडचा' ।

इकडून अव्य [क 'ईकडे'] इधर से, इस ओर से, इस तरफ से । मु - तिकडून १ इधर-उधर से, आस-पास से, यहाँ-वहाँ से । २ किसी तरह, मामूली ढग से ।

इकडे अव्य [क 'ईकडे'] १ इधर, इम ओर, तरफ । २ यहाँ, इस जगह । - पु वे (पति के लिये पत्नी द्वारा प्रयुक्त) । - तिकडे अव्य इधर-उधर, यहाँ-वहाँ, आसपाम । - छी टालमटूल, टालमटोल, वहाना । क० - आड तिकडे विहीर - साँप छछूंदर की गति, द्विविधा की स्थिति, दोनो ओर खतरा रहना ।

इकुडचा-ला - दे 'इकडचा' ।

इषता + - वि इतना ।

इक्षु - पु. इक्षु, ईख, गन्ना । - काड, - वड - पु ईख का टुकडा या डठल ।

इख - न पु विप, जहर ।

इग(गु)त\* - छी युक्ति, उपाय, तरकीब ।

इगरजा, इगर्ज, इग्रज, इग्रेज - छी [पुर्त 'इगर्ज'] गिरजा, गिरजा घर, ईसाइयो का उपासना-गृह, 'चर्च' ।

इचकटणे, इचकणे, इचका - दे 'विचकटणे,' 'विचकणे,' 'विचका' ।

इचा - ची - सर्व इसका-की

[ 'ही' (यह-स्त्री) का सबध कारक रूप ] इच्चीभन - अव्य. (शा) १ इसकी वहन (गाली) । २ आश्चर्य, विस्मय, तिरस्कार आदि का सूचक उद्गार ।

इच्चार, इच्चारणे<sup>+</sup> - दे 'विच्चार,' 'विच्चारणे' ।

इच्चु - चू<sup>+</sup> - दे 'विच्चू' ।

इच्छा - स्त्री इच्छा, चाह, कामना, स्वाहिस । - दान - न इच्छादान, इच्छा की पूर्ति करना । - फल - न त्रैरागिक में चौथी अज्ञात राशि, उत्तर (ग०) । - भोजन - न इच्छा - भोजन, अपनी रचि, पसंद का भोजन । - मरणी - वि अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब मर सकने वाला । - शक्ति - स्त्री इच्छाशक्ति, सकल्प-शक्ति । [ अनुसार चलने वाला ।

इच्छाधीन - वि इच्छा के इच्छानधीन - वि इच्छा के अनुसार न चलने वाला, स्वतंत्र । इच्छिणें - क्रि स १ इच्छा करना चाहना । २ आकाक्षा, अभिलाषा रखना ।

इच्छित - वि इच्छित, चाहा हुआ, अभिलषित । [ उम्मीदवार ।

इच्छुक - वि पु चाहने वाला, इच्छा\* - दे 'इच्छा' ।

इजट - न [ क ? ] ऊदविलाव ।

इजा - स्त्री [ अ 'ईजा' ] कष्ट, पीडा, यातना, तकलीफ, चोट ।

इजा, विजा, तिजा - अव्य १ लगातार तीनवार, जब कोई बात दो वार हो जाती है तब ऐसा माना जाता है कि वह तिसरी वार अवश्य होकर रहेगी । २ वारवार ।

इजार - स्त्री [ फा ] इजार, पाजामा, मुयना । कहा० जो इजार

शिवील तो भोक ठेवील - जो इजार सीएगा वह पेगाव के लिए उसमे सूराख जरूर रखेगा । जो मुख्य वस्तु बनाता है वह उसकी आनुपगिक बातें जरूर प्रस्तुत करता है ।

इजारत - स्त्री दे 'इजारा' ।

इजारदार - वि पु [ अ 'इजारा' + फा 'दार' ] ठेकेदार, एकाधिकारी ।

इजारपट्टा - पु [ अ 'इजारा' ] १ इजारेदार, पट्टेदार की सनद । २ गाँव के खेतों की सूची । ३ गाँव के पटवारी को दिया हुआ वार्षिक वसूल का हिसाब, जमा-खर्च ।

इजारा - पु [ अ. ] १ ठेका, पट्टा, एकाधिकार । २ उत्तर-दायित्व; जिम्मेवारी ।

इज्जत - स्त्री [ अ ] इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, बडाई, आदर । - दार - वि इज्जतदार, प्रतिष्ठित । मु० - घेणे - इज्जत उतारना, विगाडना, लेना ।

इट - स्त्री, इटक (कू) र<sup>+</sup> - न दे 'वीट,' 'विटकर' ।

इटकुली - मिटकुली - वि स्त्री छोटी - सी, नन्ही - सी । [ साँग ।

इट्टा - पु भाला, बरछी, इट्टी, इट्टीदाडू - दे 'विटी', 'विटीदाडू' । [ बलैया ।

इट्टीमिट्टी - ठी - स्त्री बलायें, इट्टुकली - मिट्टुकली - वि स्त्री छोटी - सी, नन्ही - सी ।

इट्टीनबू - दे 'ईट्टीनबू' ।

इट्टली - स्त्री [ क 'इट्टली' ] उरद और चावल को एकसाथ पीस कर उस आटे से भाप पर बनाया जाने वाला पकवान ।

इट्टापिडा - स्त्री सकट, दुख,

बलायें, अलाय - बलाय, अलैया - बलैया । मु० इट्टापिडा - टट्टी - दुख-सकट दूर हो जायें ।

इट्टी - दे 'विटी' ।

इत पर - अव्य अत परम्, अव से आगे, आइदा, भविष्य में ।

इतउप(प्प)र - अव्य १ दे 'इत पर' । २ इसके वावजूद ।

इतका, इतकाला - वि इतना, इस मात्रा का ।

इतकासा - वि इतना - सा, जरा - सा, छोटा - सा ।

इतके - अव्य इतना, इस कदर, इस मात्रा, भिकदार में ।

इतक्यात - अव्य इतने में, इस बीच या अरसे में, तब तक ।

इतपत - अव्य. इतना, इस मात्रा में, इतना ही, बहुत कम ।

इतमाम - पु [ अ 'इहति-माम' ] १ प्रवध, आयोजन, निगरानी । २ प्रतिष्ठा, पद, स्थान, गौरव, मर्यादा, रुतवा, हैसियत ।

इतर - वि इतर, अन्य, दूसरा, और । २ साधारण, हीन ।

इतरत्र - अव्य अन्यत्र, दूसरी जगह, और कहीं ।

इतराजी - स्त्री [ अ 'एति-राज' ] नाराजगी, नाराज्जी, अप्रसन्नता, रोप, अक्रुपा ।

इतरेजन - पु बहु अन्य लोग, ऐसे लोग जो रिश्तेदार न हो, पराये लोग ।

इतरेतर - अव्य परस्पर, एक - दूसरे को या से ।

इतस्तत - अव्य १ इत-स्ततः, इधरउधर, यहाँ - वहाँ ।

इति - अव्य १ इति, समाप्ति-सूचक शब्द । २ इस प्रकार, इस तरह । - स्त्री इति, समाप्ति,

अंत, पूर्णता । - कर्तव्यता - स्त्री  
 १ कर्तव्य की परिपूर्ति, समाप्ति,  
 सफलता । २ इतिकर्तव्यता, किसी  
 कार्य का आवश्यक या कर्तव्य होना ।  
 -वृत्त-न १ विवरण, प्रतिवेदन,  
 'रिपोर्ट' । २ इतिवृत्त, घटना ।  
 -श्री - स्त्री १ समाप्ति, अंत ।  
 २ मृत्यु ।

इतिहास - पु १ इतिहास,  
 तारीख । २ दे ' इतिवृत्त ' ।  
 -कार - पु इतिहासकार, इति-  
 हासलेखक, मुवरिख ।

इतुका - ला \* - दे ' इतका ' ।  
 इत्यंभूत - वि इत्यंभूत, इस  
 प्रकार घटित, मविस्तार, तफ-  
 सील के साथ कहा गया ।

इत्यर्थ - पु साराण, तात्पर्य,  
 मतलब ।

इत्यादि, इत्यादिक - अव्य वि  
 इत्यादि, इत्यादिक, आदि,  
 वगैरह । [ लापा ।

इत्सा \* - स्त्री इच्छा, अभि-  
 इथचा - ला, इथपर्यंत; इथ-  
 पावेतो, इथवर, इथून, इथे - दे  
 ' एथचा - ला, ' ' एथपर्यंत, '  
 ' एथपावेतो, ' ' एथवर, ' ' एथून, '  
 ' एथे ' ।

इदगा - पु [ अ ' ईद ' + फा  
 ' गाह ' ] ईदगाह, ईद की नमाज  
 पढ़ने का स्थान ।

इदमपि - अव्य. यह भी ।

इनमीनतीन - दे ' इनमीन-  
 तीन ' ।

इनाम - न [ अ ' इन्नाम ' ]  
 १ इनाम, पुरस्कार, वस्त्रिय ।  
 २ माफी जमीन, वह भूमि जिसकी  
 मालगुजारी या लगान माफ हो,  
 जागीर । - दार - पु इनामदार,  
 माफीदार, जिके पास माफी  
 जमीन हो ।

इनामत - स्त्री [ अ. ' इन्नाम ' ]  
 इनाम, पुरस्कार, वस्त्रिय ।

इनामती, इनामी - वि इनाम-  
 मववी, माफ, इनाम में पाया  
 हुआ ।

इन्फटी - स्त्री [ अ ' इन्फट ' ]  
 वालवर्ग, पाठगाला में पहली श्रेणी  
 से पूर्व का दर्जा ।

इपरीत, इप्रित - दे ' विप-  
 रीत ' । [ नाण, वरवादी ।

इबाड + - पु खुरावी,  
 इब्लिस - पु [ अ ' इब्लिस ' ]

गैतान; दत्य । - वि शरारती,  
 नटखट, पाजी, बदमाश । - पणा  
 - पु शरारत, बदमाशी ।

इभ्रत - स्त्री [ अ ' इभ्रत ' ]  
 १. प्रतिष्ठा, इरजत, वडप्पन ।  
 २ रोव, दवदवा ।

इमला - पु [ अ ' इम्ला ' ]  
 इमारत, पक्का, बड़ा मकान,  
 घर, मंदिर, भवन । मु० -  
 ढासलणे - १ काम विगडना,  
 दाँव उलटना । २ मत्र उमगो पर  
 पानी फिरना ।

इमान - न [ अ ' ईमान ' ] १  
 ईमान, सच्चाई, खरापन, दयानत,  
 नीयत । २ श्रद्धा, विश्वास ।  
 - दार - वि ईमानदार, सच्चा,  
 विश्वसनीय, दयानतदार । मु०  
 - घरणे; इमानास जागणे - ईमान-  
 पर दृढ रहना, नीयत में खामी न  
 आने देना ।

इमानतदार, इमानी - दे  
 ' इमानदार ' ।

इमानेइतवारें - अव्य [ अ  
 ईमान + एतिवार ] प्रामाणिकता से,  
 ईमान मे, सचाई से, ईमानदारी  
 के साथ ।

इमाम - पु [ अ ] १ मुसलमानो  
 का धर्मगुरु, धर्म के कार्यों में नेतृत्व

करनेवाला (मुसल०) । २ ठुड्डीपर  
 रखी जानेवाली दाढी । - दांडगा -  
 वि मुस्टडा, वीगरा, गुडा,  
 बदमाग ।

इमारत - स्त्री [ अ. ] १  
 इमारत, मकान, पक्का, बड़ा  
 मकान, ' विल्डिंग ' । २ अग्लेट,  
 शरीर का गठन या ढाँचा ।

इयत्ता - स्त्री कक्षा, श्रेणी,  
 दर्जा, ' क्लास ', ' स्टैंडर्ड ' । २  
 इयत्ता, परिमाण, सीमा ।

इया \* - सर्व यह, इस ।  
 इये \* सर्व इस ।

इरकली - वि इलकल (कर्ना-  
 टक) शहर में बनी हुई (साड़ी) ।

इरजि(जी)क - स्त्री [ अ  
 ' इर्जा ' ] १ खेती का काम करने  
 के लिए मजदूरों को दिन में तीस  
 वार दिया जाने वाला नाश्ता,  
 भोजन और बड़ा भोज । २ साईं,  
 किसानों की आपस की सहायता,  
 खेती के काम में किसानों द्वारा  
 किया जाने वाला परस्पर सहयोग ।

इरलें - न छतना, पत्ते जोड़-  
 कर बनाया हुआ छता ।

इरसाल - वि [ अ ' इर्साल ' ]  
 छँटा, हुआ, चट, पक्का, चुनिदा ।  
 पु. १ प्रेषण, भेजना । २ सरकारी  
 खजाने में जमा करने की रकम ।

इराक(ख, ग)त + - स्त्री [ अ  
 ' इराक ', ' इराकत ' ] पेगाव, मूत्र ।

इराण - पु. [ फा ' ईरान ' ]  
 ईरान, फारस ।

इराणी - वि [ फा ' ईरानी ' ]  
 १ ईरानी, ईरान का निवासी ।  
 २ पारसी ।

इरेस घालणे, पडणे - दे ' ईर ' में ।  
 इर्साल - दे. ' इरसाल '

इलम - पु स्त्री [ अ ' इल्म ' ]  
 १ ज्ञान, विज्ञान । २ उपाय,

युक्ति । ३ जादू, टोना, जतर  
मतर । - बाज, इलमी - वि १  
इल्म जानने वाला, जादूगर । २.  
वुद्धिमान्, होशियार ।

इलाखा - पु [अ 'इलाक']  
१ इलाका, प्रदेश, क्षेत्र । २ तावा,  
सत्ता । ३ परिवार, पत्नी आदि ।  
४. सवध ।

इल्लम - दे 'इलम' ।

इल्ला - पु. [क] अभाव । -  
अव्य. नहीं । मु. - बिल्ला करणें -  
इनकार करना, मुकरना, नाही  
करना ।

इवला, इवलासा - वि १  
थोडा, थोडा-सा । २ नन्हा-मा,  
नन्हा मुन्ना, छोटा-सा ।

इवाई - + पु समधी ।

इशारत - खी [अ] १  
इशारा, सकेत, इगित । २ सूचना,  
खबर ।

इशारा - पु [अ] १  
इशारा, सकेत, इगित । २  
सूचना, खबर । ३ ताकीद ।

इशी - खी १, गदगी, मल,  
विष्ठा, छी (बच्चो और स्त्रियोकी  
बोल-चाल) । २ निषेध या  
अस्वीकृति-सूचक शब्द । मु -करणे  
शौच करना, पाखाना फिरना ।

इशश - अव्य लज्जा, अम्बी-  
कृति, नापसदगी, घृणा, अरुचि आदि  
सूचक उद्गार । (स्त्रि )

इशशी - दे 'इशी' ।

इश्क - पु [अ 'इश्क']  
१ इश्क, प्रेम, अनुराग, मुह्व्वत ।  
२. प्रणय, शृगार, विलास । ३  
शौक । - बाज - वि इश्कबाज,  
शौकीन, कामी, लपट । - बाजी -  
खी १ इश्कबाजी, विलास,

लपटता । २ रडीवाजी ।

इष्ट - वि १ इष्ट, चाहा,  
अभिलषित, वाछनीय । २ शुभ,  
हितप्रद, कल्याणप्रद । - पु मित्र,  
स्नेही । - देवता - खी, - दैवत-  
न इष्टदेव, इष्टदेवता, आराध्य-  
देव, कुलदेवता । - मित्र - पु  
अव्य प्रिय व्यक्ति, स्नेही ।

इष्टांक - पु इष्ट मख्या, इष्ट  
राशि (ग) । [मगल-अमगल ।

इष्टानिष्ट - वि प्रिय-अप्रिय,  
इष्टापत्ति - खी १ इष्टा-  
पत्ति, ऐसी आपत्ति या दुर्घटना  
जिससे अततोत्पत्ता लाभ हो । २  
आपत्ति के वजाय अनुकूल वात  
या इच्छित घटना का होना ।

इष्टिका - खी इष्टका,  
इष्टिका, ईंट ।

इसव - पु प्रपामा, विसर्प,  
उकवत, उकवय, 'एकजीमा' ।

इसवगोल - पु [फा 'अस्प-  
गोल] इसवगोल, ईमवगोल,  
ईमरगोल, एक लुआवदार दाना  
जो अतिसार आदि रोगो मे दिया  
जाना है ।

इसम - पु [अ 'इस्म'] १  
व्यक्ति, आदमी, असामी । २  
नाम, सज्ञा । - न मद, विभाग  
(हिसाव में) । - वार - अव्य  
नामो के क्रम से, नाम आदि के-  
साथ । - वारी - सनामावली,  
उपस्थिति - नामावली, हाजिरी  
की किताब, 'मस्टररोल' ।

इसवी - वि [अ 'ईसवी']  
ईसवी, हज़रत ईसा मसीह से सव-  
धित । - सन - पु इसवी सन्, ईसा  
के जन्मकाल से चला हुआ मन् ।

इसळ-ळा-ळी - दे 'इसाळ' ।

इसा<sup>+</sup> - खी बहु बीस, बीसी,  
कोडी । [ 'इशारा' ।

इसार-रा - दे 'विसार',  
इसाळ-ळा - पु १. होड, प्रति-  
योगिता, चढाऊपरी । २ ईर्ष्या,  
जलन । ३ घृणा, नफरत । ४.  
खुजली, तीव्र इच्छा ।

इस्टेट - खी [अ] अचल  
सपत्ति, भूमपत्ति, जागीर,  
जायदाद ।

इस्तरी - खी दे 'इस्त्री' ।

इस्तारी<sup>+</sup> - खी पत्तल, पत्तो  
का पात्र ।

इस्तु - स्तू, इस्तूव<sup>+</sup> पु आग,  
अगारा ।

इस्त्री - खी इस्तिरी, इस्तरी ।  
मु०-करणें; - मारणें - लोहा  
करना, देना, इस्तरी करना ।

इस्पिक - पु [अ 'स्पेड']  
काला पान, हुकुम, हुकुम के  
पत्ते (ताश) ।

इस्पिट - न [अ 'स्पेड']  
ताश, ताश का खेल, ताश के पत्ते ।

इस्पितळ - न [अ 'हॉस्पि-  
टल'] १ चिकित्सालय, अस्प-  
ताल । २ पागलखाना, मानसिक  
चिकित्सालय ।

इस्वास - दे 'विश्वास' ।

इह - अव्य. यहाँ, इस लोक  
में । - जन्मीं - अव्य इस जन्म  
में, इस लोक में । - लोक - पु  
इहलोक, यह ससार । - वृत्त-  
न स्थानीय समाचार ।

इळ<sup>+</sup> - पु समय, दिन । - भर  
- अव्य सारा दिन, देर तक ।

इळा, इळी, इळीमिळी - दे-  
'विळा', 'विळी', 'अळी-मिळी' ।



ई

ई- मराठी वर्णमाला का चौथा स्वरवर्ण ।

ई<sup>+</sup> - सर्व यह (स्त्री) ।

ई- अव्य. आश्चर्य, भय, उप-हास आदि सूचक उद्गार । (स्त्रि.)

ई- प्रत्य [ 'आई' का संक्षेप ] आदरसूचक प्रत्यय । उदा जिजाई, ताराई आदि ।

ईक्षणें \* - क्रि स देखना ।

ईड, ईडॉनिवू, ईडॉलवू - न [ क 'ईळे' ] १ जँवीरी नीवू, नीवू का एक भेद जो कागज़ी से आकार में बड़ा और अविक्त खट्टा होता है ।

ईनमीनतीन-सवा(साडे) तीन - वि सन्ध्या में बहुत कम, थोड़े-से

(लोग), इनेगिने ।

ईप्सिणें - क्रि स चाहना, इच्छा करना ।

ईप्सित - वि ईप्सित, चाहा हुआ । -न इच्छा, अभिलाषा, लक्ष्य ।

ईर - स्त्री १ ईर्ष्या । २ जिद, हठ । ३ होड, चढा-ऊपरी । ४ वाधा, आपत्ति, रोक । - मोड पु दे 'हिरमोड' । मु इरेस घालणे - १ अपनी रक्षा के लिए दूसरे को आगे बढ़ाना । २ वहकना, भडकाना इरेस पडणें - जिद करना, अड जाना, चुनौती देना ।

ईर्षा, ईर्ष्या - स्त्री १ ईर्षा,

ईर्ष्या, टाह, जलन । २. होड, चढा-ऊपरी, प्रतियोगिता । ३ उत्साह, अभिमान ।

ईशान्य - स्त्री ईशान, उत्तर-पूर्व का कोना, उत्तर-पूर्व ।

ईश्वर - पु १ ईश्वर, परमेश्वर, खुदा । २ स्वामी, राजा, वनी या बडा व्यक्ति । - दत्त - वि ईश्वरदत्त, खुदादाद ।

ईश्वरी - वि १ ईश्वरसवधी, ईश्वरीय, खुदाई । २ भव्य, उदात्त, अद्वितीय, विपुल । - देणगी - स्त्री १ भगवान की देन । २ जन्मजात गुण ।

उ

उ - मराठी वर्णमाला का पाँचवाँ स्वरवर्ण । - उप क्रिया में 'उ' लगने से विरोध, अभाव, अपकर्ष आदि अर्थ प्रकट होते हैं । उदा० उसवणें, उलगडणे, उबळणे, आदि ।

उँ - अव्य उँ, प्रश्न, क्रोध, आश्चर्य आदि का सूचक उद्गार ।

उ - स्त्री जूँ ।

उच - वि १ ऊँचा, लवा । २ उच्च, बडा, श्रेष्ठ । ३ वुलद । ४ तार (स्वर) । ५ तुग, उन्नत, चढाई वाला । ६ कीमती, मूल्यवान । - अव्य १ ऊपर । - नाक - न प्रतिष्ठा, इज्जत । - नाक करून अव्य १ बडी इज्जत, सम्मान के साथ । २ वेशमीं से । - नीच - वि अव्य १ ऊबड - खावड, ऊँचा-नीचा । २ छोटा-बडा, अमीर-गरीब । - सखल - वि ऊँचा-नीचा,

नाहमवार, असमतल ।

उचट - वि १ ऊँचा, उठता हुआ । २ कुछ-कुछ ऊँचा, ऊँचोहा ।

उचवट - वि कुछ ऊँचा, ऊँचा - सा ।

उचवटा - पु १ टीला, ढूह, भीटा, ऊँची ज़मीन । २ उभरा हुआ भाग, गुमटा ।

उचवणें - क्रि अ ऊँचा होना ।

उचा - वि १ ऊँचा, श्रेष्ठ, उच्च । २ कीमती, महँगा । - पुरा वि ऊँचा, लवा, लमतडग, लवा-तगडा, ग्राडील ।

उचाड - पु टीला, ढूह, भीटा । - वि ऊँचा, तुग, भव्य ।

उचावणी - स्त्री १ ऊँचा करना, उठाना । २ सिर उठाना, विद्रोह करना ।

उचावणें - क्रि अ १ ऊँचा होना, ऊपर उठाना । २ बढना,

फूलना । ३ उडाना, उडुयन करना । ४ अच्छी स्थिति आना, उन्नति होना । - क्रि स १ ऊँचा करना, ऊपर उठाना । २ बडा बनाना ।

उची - स्त्री ऊँचाई, लवाई, वुलदी । - वि बहुमूल्य, कीमती, बढिया, श्रेष्ठ, अधिक, अच्छा ।

उचून - अव्य ऊपर से, ऊँची जगह पर से ।

उचेला - वि ऊँचा, लवा ।

उट - पु ऊँट, उष्ट्र । - मान्या - वि ऊँट के जैसी लत्री गर्दनवाला । - वान - पु ऊँटवान, ऊँट चलाने वाला । उटाचे पिलू - बहुत लवा व्यक्ति । उटावरचा शहाणा, उंटा-वरील - वि मूर्खता पूर्ण परामर्श देने वाला, मूर्ख, भोदू, बुद्दू । मु० उटावरून शेळ्या हाकर्णें - स्वय कष्ट न उठाकर केवल दूसरो को मलाह देना, स्वय कुछ न करके

दूसरो से किसी काम की अपेक्षा रखना।

उटकटारी - स्त्री उँटकटारा, ऊँटकटीग, एक कँटीली झाड़ी जिसे ऊँट बड़े चाव से खाते हैं।

उटाड - वि ऊँट जैसा ऊँचा या लवा, बदनमा।

उटीण - स्त्री ऊँटनी, साँडनी।

उँडगणें - क्रि.अ. [क 'उडिगे'] आवारा गर्दी करना, बेकार घूमना, भटकना।

उडगळ, उडगा - वि [क 'उडिगे'] आवारा, आवारा गर्द, बेकार घूमने वाला, भटकता रहने वाला। [स्त्री 'उडगी']

उडण, उडणी - स्त्री १ कीडी। २ पुन्नाग, एक प्रकार का चपा।

उडरणें - क्रि अ. [क 'उडिगे'] १ मस्तीपर आना। २ शरारत, शैतानी सूझना।

उडल-ळ - स्त्री सुलताना चपा, पुन्नाग।

उडा - पु. [क 'उडे'] १ लोदा, लोई। २ उरद और चावल के आटे से बना एक पकवान। ३ गोला।

उडारणें - क्रि अ. १ मस्ताना, मस्तीपर आना। २ आवारा गर्दी करना, बेकार भटकना, घूमना। ३ स्वैराचारी, स्वेच्छाचारी बनना।

उडी - स्त्री १. पुन्नाग, सुलताना चपा। २ लोदा, लोई। ३ बलि, भोग, नैवेद। ४ भात का गोला, पिंड।

उडीण - दे 'उडण'।

उदरी - स्त्री १ चुहिया, मादा चूहा। २ चाँई, बालखोरा, सिर का एक रोग जिसमें बाल गिरते हैं।

उदिरकानी; उदिरकिनी - दे 'उदीरकानी'।

उदीर - पु चूहा, मूसा, उदुर। - कानी - स्त्री मूसा-कानी, मूपाकर्णी, एक लता जो दवा के काम आती है। कहा० उद-रास माजर साक्ष - चहे की गवाह विल्ली, चोर के भाई गिरहकट, ऐसी गवाही अविश्वसनीय होती है जिममें डर या लालच हो। उोगर पोखरून उदीर काडणे - खोदा पहाड निकली चुहिया।

उवर - न १ गूलर (फल), उडुवर। २ कटहल के कोये से बनने वाला एक पकवान। पु गूलर का पेड, उदुवर। मु० उबराचें फूल - गूलर का फूल, ऐसी चीज जो कभी देखने में न आये, अलम्य वस्तु।

उंवर - दे 'उमर'।

उवरठा - पु १ देहरी, देहली, दहलीज। २ चौखट या दहलीज के आसपास का भाग। मु० - चढणें - दहलीज झाँकना। किसी के पास किसी काम के लिए जाना। - म्निजविणें - दहलीज की मिट्टी ले डालना, बहुत से फेरे करना, वार - वार जाना।

उवरा - पु. १ दहलीज, देहली, चौखट की नीचे वाली लकड़ी जो जमीन से सटी रहती है २ मकान, मकानों की संख्या, वस्ती। मु० - चढणें, म्निज - विणें - दे 'उवरठा' में।

उवन्या - वि गूलर के रंग का, लाल (घोडा)।

उवाळ\* - पु [क 'उव्वर'] विस्तार, फैलना, बढ़ जाना।

उवाळा -+ पु १ फेन, झाग। २ दे 'उमाळा'।

उवी - स्त्री अनाज की हरी बाल।

उहु, उहु - अव्य ऊहु, नही, कदापि नही।

उ.शाप - पु शापनिवृत्ति, शाप से मुक्ति, शापमुक्ति, शाप-मोक्ष, शाप से छुटकारा दिलाने वाला वर, आशीर्वाद। [का सक्षेप।

उ।। - उमर (आयु, उम्र)

उकटणे+ - क्रि अ १ कूटना, चक्की में टांकी से दाँता निकालना। २ उलटना, पलटना। ३ खोलना। - क्रि अ मुँहपर चेचक के दाग होना।

उटकाई+ - स्त्री कूटने, चक्की में टांकी से दाँते निकालने का काम या उसकी उरजत। [मुक्त।

उकृण - वि उकृण, कृण-उकटी - स्त्री १ चक्की में टांकी से दाँते निकालने के बाद पीसा जाने वाला मुट्ठीभर अनाज। २ टांकी।

उकड - स्त्री महाराष्ट्रीय ढग के मोदक आदि पकवान बनाने के लिए उवालकर पकाया हुआ चावल आदि का आटा। - वि उवाला हुआ, पकाया हुआ। - आवा - पु. अवपके आम (कोपर) को उवालकर बनाया हुआ अचार।

-हडी - स्त्री १ मिट्टी की हाँडी में सेम, लोविया, मूंगफली आदि की हरी फलियाँ भरकर हाँडी को ढाँधा रखकर उन्हें भूनते हैं। इसे उकड हडी कहते हैं। २ अत्यधिक गरमी के कारण होने वाली बेचैनी या छटपटी।

उकडणें - क्रि अ १ उबलना, खोलना, उफनना, जोग खाना। २ गर्म होना, गरमी महसूस होना, उमसना, ऊमस होना। - क्रि स उवालना, पकाना।

उकडवा, उकडा - दे 'उकि.

उवा' ।

उकडा - वि उवाला हुआ, वगैर नमक - मिर्च के उवाला हुआ । - तांदूळ - पु. उवाले हुए वान में वना चावल ।

उकर - पु. खोदकर निकाली गयी मिट्टी आदि ।

उकरडा - पु. १ घूरा, कूड़ा-खाना, कतवारखाना । २ कूड़े - करकट का ढेर । मु. - फुकणे - १ बहुत दरिद्र होकर दर दर भटकना । २ वेव्यागमन करना ।

उकरणे - क्रि स १ खोदना, गड्ढा करना, खुरचना, कुरेदना । २ उखाडना । ३ गडे मुदे उखाडना । - क्रि अ उखडना, उचडना, निकलना, हट जाना ।

उकराई - ख्री खुदाई, खोदाई । खोदने की क्रिया या उजरत ।

उकल - पु १ हल, ममाधान, विलय, विलयन । २ स्पष्टीकरण । ३ सुलझन, सुलझाव ।

उकलणे - क्रि स १ खोलना, सुलझाना । २ अलग करना, ढीला करना । ३ खोलकर दिखाना, स्पष्टीकरण देना । ४ खुला, मुक्त करना । - क्रि अ १ खुलना, सुलझना । २ स्पष्ट, समाधान, हल होना, निकलना, साफ होना । ३ मुक्त होना । ४ खिलना । ५ फटना, दरारें पडना । ६ उचडना, उखडना, उचडना ।

उकसावूकशी, उकल - दे. 'ओकसावोक्सी', 'उकळी' ।

उकळणे - क्रि अ खोलना, उवलना, जोश खाना । - क्रि स १ उवालना, खोलना, औटाना, जोश देना । २ छीनना, ऐंठना, उड़ाना, लूटना ।

उकळी - ख्री १ उवाल,

उफान, जोश । २ उत्कट इच्छा, अभिलाषा । ३ प्रेम, दुख, क्रोध आदि का भडक उठना ।

उकळीत<sup>†</sup> - ख्री न १ उगाही, वसूली, चदा, लगाना । २ भीख मागकर प्राप्त की हुई वस्तु ।

उकळेंगिरी - ख्री १ लूट, लूट-खसोट । २ डाका ।

उकाडा - पु. वधेज, वधान, रातिव, नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाने वाला (दूध, तरकारी आदि का) सभरण ।

उकाडा - पु. गरमी, ऊमस ।

उकाळा - पु १ दे 'उकळी' । २ काढा, क्वाथ । ३ उगाही, वसूली । ४ लगान ।

उकिडवा - वि अव्य उकडूं, घुटने मोडकर बैठने की एक मुद्रा जिसमें दोनों तलवे जमीनपर पूरे पूरे बैठते हैं और चूतड एडियोमे लगे रहते हैं ।

उकिरडा - पु १ घूरा, कूड़ा-खाना, कतवारखाना । २ कूड़े-करकट का ढेर, कतवारखाने की राख (खाद) । मु - फुकणे - १ कगाल बनकर क्षुद्र लाभ के लिए दर - दर भटकना । २ वेव्यागमन करना ।

उकीर - पु १ खोदकर निकाली हुई मिट्टी ( चूहो आदि द्वारा ), खोदी हुई मिट्टी का ढेर । २ घर या आंगन की वह जमीन जिसमें छोटे - बड़े गड्ढे पड़े हो । ३ आंख का कीचड । ४ दे 'उकिरडा' ।

उक्ता - क्ती - क्ते - अव्य वि १ थोक, नाप - तौल के बिना केवल राशि देखकर (की जाने वाली खरीद - विक्री) २ ठीके पर दिया गया । ३ कुल मिलाकर, सब ।

उक्ति - ख्री १ उक्ति, कथन, वाक्य, कवित्वमय वचन । २ कहावत । ३ \* युक्ति ।

उक्षण - न उक्षण, जल छिडकना, सीचना ।

उखडंपट्टी<sup>†</sup> - ख्री १. निकाल देना, भगा देना । २ लानत - मलामत, भर्त्सना, फटकार, आडे हाथो लेना ।

उखडणे - क्रि स १ उखाडना, खोदना । २ निकाल देना, भगाना । - क्रि अ. १ उखडना । २ झल्लाना, विगड जाना, नाराज, गुस्सा होना ।

उखणणे - क्रि स उखाडना, खोदना । - क्रि अ उखडना, खुदना ।

उखर - वि ख्री ऊसर, वह जमीन जिसमें रेह हो और कुछ पैदा न हो ।

उखरणे - दे. 'उकरणे' ।

उखर (रा) वाखर वि ऊंचा - नीचा, ऊबड खावड ।

उखळ - न ऊखली, ओखली, ऊखल, पत्थर या काठका वह पात्र जिसमें अन्नादि कूटते हैं । - मु - पाढरें होणें - भाग खुलना, पांचो उँगलियाँ धीमें होना, बहुत धन मिलना । उखळात डोके घालणें, देणें - ओखली में सिर देना, कण्ट, हानि सहने को तैयार होना । कहा उखळात शिर दिल्यावर मुसळाचे काय भय - ओखली में सर दिया तो मूसलो से क्या डर ?

उखळणे - क्रि स १ पहली बार खेत में हल चलाना, जोतना । २ खोलना, निकालना । ३ खोदना, उखाडना । ४ हराना, निकाल देना । - क्रि अ १ खुल जाना, ढीला होना । २. खुदना,

खोदा जाना ।

उखली - खी १. ओखली । २ भँवर, भँवरी, जल का चक्कर, जलावर्त । ३. चूल । ४ वह गढा या कूंडी जिममें कोल्हू या चरखे का जाठ विठाय़ा होता है ।

उखाणा - पु. १. पहेली, बुझी-वल । २ तुकवदी के साथ पति या पत्नी का नाम लेने का एक ढग । ३ ताना, व्यग्य, गाली (विवाहादि में गाया जाने वाला अदलील गीत) मु - घेणें - तुकवदी के साथ पति या पत्नी का नाम लेना ।

-घालणें - पहेली बुझाना ।

उखाळी, उखाळीपाखाळी - खी व्यग्य, मर्म, दोष, त्रुटि । मु उखाळचापाखाळचा काढणें - गडे मुदें उखाडना, जले फफोले फोडना ।

उखी<sup>+</sup> - खी १ मुदेंनी, निर्जीवता । २ नाश । -वि झूठा, मिथ्या, असत्य ।

उगड-डा-डू\* - पु उद्धार, छुटकारा ।

उगटिलें<sup>+</sup> - वि भली भाँति खिला, खुला हुआ, साफ किया हुआ ।

उगणें - क्रि अ १ उगना, उदय होना । २ निकलना, जमना, उपजना । ३. खिलना । ४ चुप रहना, चुप हो जाना ।

उगम - पु. १ उद्गम, सोता, सरचश्मा, उत्पत्ति, उत्पत्तिस्थान, निकास । २ ब्रह्म, आदितत्त्व ।

उगराणी - खी उगाही, वसूली ।

उगला\* - अव्य. १ चुपचाप । २ व्यर्थ, नाहक ।

उगव - पु, उगवण - खी १ उद्गम, प्रारम्भ । २ हल, म हिं श को ७

फँसला ।

उगवण - णी - खी १. उगाही, वसूली । २ वसूल हुआ पैसा ।

उगवणें - क्रि अ १ उगना, उदय होना, निकलना, ऊपर आना । २ अंकुरना, अँखुआ फँकना, जमना, अँखुआ फूटना, अँकुरना, अँकुराना । ३ उपजना, पैदा होना । ४ दिखाई देना, नज़र आना । ५ हल होना । ६ \* चुप होना, हक्का वक्का रहना । - दे 'उगविणे' ।

उगवत-ती - खी पूर्व दिशा, पूरव । - अव्य पूर्व में; पूरव की तरफ ।

उगविणें - क्रि स. १ लेना, वसूल करना । (मु. सूड उगविणें - बदला लेना, प्रतिशोध लेना) । २ खोलना, सुलझाना, स्पष्टीकरण करना । ३ सकट दूर करना । - क्रि अ १ ऊपर आना, निकलना । दे 'उगवणे' ।

उगळ - खी १ उगाल, वमन, उलटी, कै । २ जुगाली के लिए जानवरो द्वारा पेट से मुँह में लाया जानेवाला चारा । मु. - टाकणें - उगलना, थूक देना, कै, उलटी करना ।

उगळणें - क्रि स १ घिसना, रगडना । २ अनुशासन द्वारा मीचे रास्तेपर लाना, (पशुओं को) नम्र बनाना । - क्रि अ १ घिस जाना, छीजना । २ चकनाचूर होना ।

उगळणें - क्रि स १ उगलना, थूकना, कै करना । २ छोडना; त्यागना । ३ अपहृत. (छीनी या चुरायी हुई) सपत्ति लौटा देना । ४ गोपनीय बात को जाहिर

करना । ५ जुगाली करना ।

उगळा<sup>+</sup> - पु वरवादी, तवाही, नाश ।

उगा - अव्य. १ चुपचाप, चुप, मौन, खामोश । २ बेकार, विना कोई परिश्रम, रोज़गार या चेष्टा करते हुए । ३ नाहक, अकारण, बेसबब । ४. व्यर्थ, बेफायदा, निरर्थक ।

उगाच - अव्य. दे 'उगा' । १ निष्कारण, योही, व्यर्थ, नाहक । २ चुपचाप, विना ची चपड किये ।

उगाणणें\* - क्रि स १ खोल कर के बताना, विगद, स्पष्ट करना, विवरण देना । २ उपदेश करना, देना । ३ हिसाब देना । ४. समर्पित करना, सौपना । ५ मुक्त करना, छोडना, छुडाना । ६ लूटना । - क्रि अ. शून्य होना, समाप्त, खत्म होना ।

उगाणा-ना\* - पु बयाना, साई, पेशगी । २ गणना, हिसाब । ३ स्वाद, रुचि, अनुभव । ४ नाश । मु. - काढणें - कोई वस्तु ऊखली में कूटते समय नीचे का अश ऊपर और ऊपर का नीचे करना (स्त्रि) ।

उगारणी - दे 'उगराणी' ।

उगारणें - क्रि स (मारने के लिए हाथ, लकड़ी आदि) ऊपर उठाना, घमकाना, तानना, सँभालना । २ पैसे वसूल करना, उगाहना । ३ फँकना, मारना । ४ धावा बोलना ।

उगाल (ळ) दान - न उगाल-दान, पीकदान ।

उगाळ - पु १ उगाल, थूक, खखार, पीक । २ मिश्रण, खिचडी । ३. फँलाव, प्रपच,

चीजोका तितर-वितर, विखरा हुआ होना ।

उगाळणें - क्रि स १ घिसना, रगडना । २ कष्ट उठाना, देह को तकलीफ देना । ३ बार-बार कहना, रटना, उकटना, उघटना । - क्रि अ कैं करना, थूकना ।

उगाळा - लू - पु १ उगाल, थूक, खखार । २ घिसी हुई चीज ।

उगिया - वि १ व्यर्थ, निरर्थक; वेकार । २ मुप्त का । दे. 'उगा' ।

उगी - अव्य चुप, चुपचाप, खामोश । मु. - करणें - रोते हुए को चुप करना या कराना । - राहणें, - होणें - चुप हो जाना ।

उगीच - अव्य. १ नाहक; निष्कारण, अकारण; वेकार; व्यर्थ । २ चुपचाप, विना बोले, चुपके से, गुपचुप ।

उगें, उगेंच \* - अव्य १ चुपचाप; चुप । २ व्यर्थ, नाहक ।

उगेले\* - अव्य. १ चुपचाप, शांति के साथ, चुपके से । २ अनायास, सहज ।

उग्र - वि १ उग्र, भयानक, क्रूर । २ तीव्र, उत्कट, तीखा, तेज । ३ क्रुद्ध, कोपनशील, गुस्सावर । - पु १ शिव, रुद्र । २. क्षत्रिय पिता और शूद्रा माता से उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति ।

उग्रट - वि उग्र, तेज, कडी गधवाला, असह्य (गध) ।

उग्रम<sup>+</sup> - पु १ उद्गम, प्रारंभ, उत्पत्ति । २ जोर, आवेश, क्षोभ ।

उघटणें\* - क्रि अ प्रस्तुत किया जाना । दे 'उखडणे' ।

उघड - वि १ स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट । २ साफ, जाहिर, मश-

हूर । - स्त्री दे 'उघीक' । - अव्य. साफ, स्पष्टतया, साफ तौरपर । - उघड - अव्य. साफ-साफ, खुल्लम खुल्ला । - झाक, - झांप - स्त्री बार - बार खोलना और बंद करना, । खुलना और बंद होना । - माथ्यानें - अव्य. १. साफ तौर पर, खुल्लम खुल्ला । २ वेशमीं के साथ ।

उघडकी - स्त्री खुला होना, खुलापन । मु - स आणणें - प्रकट, जाहिर करना, खोल देना, भडा फोड़ना । - स येणे - वात खुल जाना, भडा फूटना, भेद खुलना, कलई खुलना ।

उघडणें - क्रि अ १ खुलना । २ थमना; रुकना (वारिश) । ३ छँटना (वादल) । ४ जगना (भाग्य) । - क्रि स १ खोलना । २ प्रकट, जाहिर करना । ३ आरंभ करना; चलाना, स्थापित करना; कार्यारंभ करना ।

उघडा - वि १ खुला, अनावृत्त, जो ढका - छिपा न हो । २ केवल घोती या निकर आदि पहना हुआ । ३ स्पष्ट, प्रकट, जाहिर । ४ जो तग, धिरा हुआ न हो, लवा - चौडा, जहाँ काफी हवा, रोशनी आये । ५ नगा, खुले, नगे बदन, विवस्त्र । ६ अनाथ, यतीम । - नागडा, - वंच - वि नग घडग, नगा वुगा, नगावुच्चा । - बोडका - वि जिसने शरीर और सिरपर कुछ न पहना हो; केवल कमर के नीचे का हिस्सा ढँका हुआ । - माथा - पु १ ऐसा व्यक्ति जिसके कोई शर्म या सकोच न हो, निर्भय, नि सकोच व्यक्ति । २. निरापराध, निर्दोष होना । - वाघडा - वि नगा,

नग - घडग । - हिशेव - पु साफ खुली वात । - उघडघा माथ्यानें - अव्य खुले आम, खुल्लम खुल्ला । मु - करणें - निराधार, असहाय बनाना । - पाडणें - १ अरक्षित रूप में छोड़ना, खतरे में डालना; भाग्यपर छोड़ देना । २ बदनाम करना, भडा फोड़ना । उघडघा डोळघानीं प्राण जात नाहीं - अनिष्ट या बुरी वात को होते देखकर चुपचाप बैठा नहीं जाता ।

उघडी - वि. स्त्री खुली, साफ; स्पष्ट । - मराठी, - मन्हाटी - स्त्री १ खुले दिल से की हुई वात । २ ईमानदारी का व्यवहार या लेनदेन । मु - मांडी करणें, टाकणें - बेहया, वेशर्म बनाना, असम्य व्यवहार करना ।

उघडीक - प - स्त्री १ वारिश का थमना, रुक जाना, वादलो का छँटना । २. फँल जाना, प्रसिद्धि; ख्याति ।

उघड्यावर - अव्य. १ बाहर, खुली जगह में, मैदान में । २ खुल्लम खुल्ला ।

उघळ<sup>+</sup> - स्त्री १. चक्की में पिसाई के बाद बच रहने वाला थोडा-सा अनाज । २ नये जाँते में पहले-पहल पीसा जाने वाला मुट्ठीभर अनाज ।

उघळणें<sup>+</sup> क्रि स पीसना ।

उघाड-डी-स्त्री १ वरसात के दिनों में कुछ समय के लिए वर्षा का रुक जाना । २ खुली जगह । ३ प्रकटता । [उमड ।

उचवळ-स्त्री छलक, छलकन, उचवळणें - क्रि अ १ छलकना, उमडना, उछलना । २ जी मतलाना । [२ हर्ष, आनंद । उचंबळा-पु. १ छलक, उमड ।

उच्चकटणे - क्रि स १ उखाडना, उखाडना; गडी, जमी, वैठायी हुई चीज को अपनी जगह से हटा देना । २ निकालना, खोलना, ऊपर लाना । ३ तितर-वितर कर देना, रग, प्रभाव आदि न जमने देना ।

उच्चकटा-उच्चकट- स्त्री उखाड-पछाड, विखेरना, तितर-वितर करना ।

उच्चकणें - क्रि. स. १ ऊपर उठाना । २. चुराना, उठाईगीरी, हथलपकी करना, उठा लेना । ३. उडा लेना, ठगना । ४ खा जाने के इरादे से किसी से रकम उधार लेना । ५. उखाडना, उखाड फेंकना ।

उच्चकाउच्चक - स्त्री १ दे. 'उच्चकटा-उच्चकट' । २ चुराना, उठाईगीरी करना ।

उच्चकी - स्त्री हिचकी; हिक्का । मु-लागणें १ हिचकी बँध जाना, हिचकी लगना । २ हिचकियाँ लगना (प्राणात के समय) ।

उच्चक्या - वि १ उच्चक्का, उठाईगीर-रा । २. अपनी विसात से अधिक पैसा उधार लेने वाला ।

उच्चटणें - क्रि अ उच्चटना, उच्चडना, उखडना । - क्रि स उखाडना, उखाडना ।

उच्चटणें - न डोई, कलछी, करोनी, खुरचनी । [ वळणे ' ।

उच्चमणें, उच्चमळणें - दे ' उच्च उच्चल - स्त्री १ सिर उठाना, धावा, हमला । २ ऊपर उठाना । ३ पेशगी, अग्रिम धन । ४ उधार । ५ आदोलन, विद्रोह ।

उच्चलणे - क्रि स. १ उठाना, नीचे से ऊपर ले जाना । ३ अगी-कार करना, उठा लेना । ३ चुराना;

उठाईगीरी करना । ४ समर्थन करना, उत्तेजित करना, भडकाना । - क्रि अ उठना, ऊपर की ओर आना, जाना । २ बढना । मु उच्चलून घरणे - १ समर्थन करना, प्रोत्साहित करना । २ सताना, धरना देना । कहा उच्चलली जोभ लावली टाळघाला-विना मोचे वोलना, बकवास करना, बकना ।

उच्चलतगडी, उच्चलवागडी-स्त्री १ हाथ - पाँव पकडकर ऊपर उठाना, ज़बर्दस्ती ले जाना । १. उच्चाटन, हटाना, निकालना, उखाडना ।

उच्चलाउच्चल - स्त्री १ उठाना, हटाना, स्थानांतर करना । २ तितर-वितर करना, विखेरना, छितराना ।

उच्चलेगिरी - स्त्री उच्चक्कापन, उठाईगीरी, हथलपकी ।

उच्चल्या - पु. उच्चक्का, उठाईगीर-रा, गिरहकट, पाकिट-मार । - वि अधिक समय तक एक स्थानपर न रहने वाला ।

उच्चाट - पु १ उचाट, विरक्ति, उदासी, जी न लगना । २. लगन, उत्कठा, उत्सुकता, कुतूहल । ३ नीलाम से की जाने वाली विक्री ।

उच्चाटणें - क्रि अ उचाटना, जी न लगना, ऊबना ।

उच्चाटा - पु १ मूर्ति बनाने का साँचा । २ मुद्राक्षर-घरण, 'मैट्रिक्स' ।

उच्चापत - स्त्री १ उचापत, दुकानदार से उधार का लेन-देन । २. उधार लिया हुआ माल । ३ उधार ली हुई रकम । ४ झझट, निरर्थक व्यवहार, झमेला । - स्त्राऊ

- वि उधारपर जीविका चलाने वाला ।

उच्चापत्या - वि १ झझट खडा करने वाला, झमेलिया, झझटी, बखेडिया । २ चलता-पुरजा ।

उचित - वि उचित, योग्य, मूनासिब, ठीक, अच्छा । \* - न १ योग्यता । २ पारितोषिक, ईनाम ।

उच्च - वि १ उच्च, ऊँचा, लवा, बडा, कुलीन, श्रेष्ठ । २ शुभ, जोरदार, दूसरोपर प्रभाव डालने योग्य स्थानपर बैठा हुआ । - नीच भाव - पु भेदभाव, एक को बडा और दूसरे को छोटा मानना । - पदस्थ - वि उच्च पदस्थ, उच्च पदासीन, उच्चाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, जो उँचे स्थान, पद या ओहदेपर हो । - शिक्षण - न उच्च शिक्षा । - स्वर - पु ऊँची आवाज ।

उच्चलन - न १ ऊपर उठाना, ऊँचा करना । २ उच्चाटन, हटाना, निकालना ।

उच्चाट - दे ' उचाट', ' उच्चल्या ' ।

उच्चाटण-न-न १ उच्चाटन, हटाना, निकालना; उखाडना । २ किसी के चित्त को मत्र से विरक्त कर देना । ३ जादू-टोना, जतर-मतर ।

उच्चाटणें - क्रि स उचाटना, उच्चाटन करना ।

उच्चार - पु; उच्चारण - न उच्चारण, तलफुज ।

उच्चारणें - क्रि स उच्चारण करना, बोलना, कहना ।

उच्चारित - वि उच्चारित, कहा, बोला हुआ ।

उच्चालक - पु उत्तोलक,  
'लीवर'।

उच्चावच - वि उच्चावच,  
ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा।

उच्ची - स्त्री १ उच्चता,  
ऊँचाई। २ + -किसीकी झूठी प्रशंसा  
करके उसे बनाना। - चा - वि  
ऊँचा, शुभ, जोरदार (ग्रह आदि)।  
मु. उच्चोत्त असणे, येणे - १ किसीकी  
किस्मत का मितारा बुलदीपर होना।  
२ + फूलना, बनना।

उच्छव+ - पु. उत्सव।

उच्छाद - पु १ उपद्रव,  
ऊधम, उत्पात, झमेला, गडबड,  
सताना, परेशानी। २ जुलम,  
डाकाजनी। मु - काढणे - कष्ट  
उठाना, वर्दाश्त करना। - माडणें -  
ऊधम मचाना, शोरगुल करना,  
परेशान करना। - येणे - ऊत्र  
जाना, परेशान होना, तग आना।

उच्छाव+ - पु. उत्सव, समा-  
रोह।

उच्छिष्ट - वि १ उच्छिष्ट,  
खाने से बचा, जूठा, खाकर छोड़ा  
हुआ। २ उपभुक्त, काम में  
लाया हुआ, पहना हुआ। - न  
जूठन, जूठा अन्न। - कल्पना - स्त्री  
ऐसी कल्पना, विचार या बात जो  
पहले ही दूसरो द्वारा कही जा  
चुकी हो। - चाडाळी - स्त्री  
उच्छिष्ट चाडालिनी, मातंगी देवी  
(तंत्र)। - भाषण, - वाक्य - न  
ऐसा कथना जो पहले ही दूसरो  
द्वारा किया जा चुका हो।

उच्छिष्टणे\* - क्रि. स जूठा  
करना, जुठारना, जुठालना।

उच्छृखल - वि १ उच्छृखल,  
निरकुश, स्वेच्छाचारी, उद्दड।  
२ उतावला, अविचारी।

उच्छेद - पु. १ उच्छेद,

उच्छेदन, उन्मूलन, नाग, जड  
उखाडना। २ दे 'उच्छाद'। -  
मु - आणणे, - माडणें - सताना;  
परेशान, तग करना।

उच्छेदण - क्रि स नाग  
करना, जड उखाडना, काटना।

उच्छ्वास - पु १ उच्छ्वास,  
नाक से बाहर छोड़ी जानेवाली  
माँस, आह। २ हवा खींचने या  
फूंकने के निमित्त बनी हुई नलिका।  
३ पानी का नल, नहर, ऊँचे  
स्थान से लाये हुए पानीकी सतह  
को बनाये रखने के लिए बीच-बीच  
में बनाये गये हीज।

उच्छ्वासन - न उच्छ्वासन,  
साँस छोडना, साँस बाहर निका-  
लना। [ उत्सव। २ उत्पाह।

उछह, उछाव-ह\* - पु १  
उच्छिष्ट\* - न उच्छिष्ट,  
जूठन। [ 'उच्छेदणे'।

उछेद, उछेदणें - दे 'उछेद',  
उजग+ - पु. अच्छी हालत,  
सुस्थिति, अम्युदय।

उजगरा; उजगारा; उजगिरा  
- पु. १ जागरण, रतजगा। २  
दुख, कष्ट, पीडा। ३ स्मरण,  
याद। [ अम्युदय।

उजगारी+ - स्त्री उत्कर्ष,  
उजड; उजडणें - दे 'उजेड',  
'उजेडणे'।

उजदार - न अगला दरवाजा,  
घर के अगवाडे का द्वार। + - वि  
प्रकाशमान।

उजरणें\* - क्रि स १ चम-  
काना, साफ बनाना। २ मरम्मत  
करना। ३ रटना। - क्रि अ १  
उत्कर्ष, अम्युदय होना। २ खोयी  
हुई शक्ति प्राप्त करना, स्वास्थ्य  
का सुधरना। ३ बुद्धि की प्रगति,  
विकास होना।

उजरिया\* - पु. स्पष्टीकरण,  
विवेचन; उपपत्ति।

उजरी\* - स्त्री १ प्रकाश, तेज,  
प्रभा। २ स्पष्टता, स्वच्छता,  
विवरण। ३ उत्कर्ष, उदय,  
अम्युदय। ४ अनुशासन, ढग।  
५ सहायता, आश्रय। - वि १  
स्पष्ट। २ सीधा, सरल।

उजवर - स्त्री उजला, गोरा।

उजवण - स्त्री १ समापन,  
ममाप्ति अत, आखिर। २ सफ-  
लता। ३ विवाह, यज्ञोपवीत आदि  
सस्कारों का मपन्न होना, करना।

उजवणें - क्रि अ. १ सपन्न,  
पूरा होना। २ धार्मिक नियमों के  
अनुसार पूरा होना। ३ अपना  
विवाह आदि होना। ४ आपत्ति,  
रोग आदि से बच जाना। ५  
अच्छा बन जाना। - क्रि स दे  
'उजविणे'।

उजवा - वि १. दाहिना,  
दायाँ। २ अविक अच्छा, प्रशस्त-  
तर, श्रेष्ठतर, बेहतर। - हात -  
पु विश्वस्त सहयोगी, मुख्य सहा-  
यक।

उजवाड+ - पु. प्रकाश, रोशनी।

उजविणें - क्रि स १ समा-  
पन करना, सपन्न, पूरा, समाप्त  
करना, उद्यापन करना, व्रतादि  
की समाप्ति करना। २ व्याहना,  
व्याह करना (बेटे या बेटो का)।  
३ विवाह आदि धार्मिक सस्कार  
करना। ४ उन्नति, प्रगति करना।  
२ सजाना। मु. दोहो अंगों उज-  
विणें - विवाह में दोनों ओर का  
खर्च करके व्याह कर देना।

उजबी - वि स्त्री दाहिनी।  
मु - घालणें - दाहिनी देना,  
दाहिनी लाना, प्रदक्षिणा, परि-  
क्रमा करना। - डावी देणें - स्पष्ट

रूप से हाँ या ना कहना । - देणें -  
१ दाहिनी ओर से जाने देना ।  
२ अनुकूल मत, समति, अनुमति  
देना । - बाजू - छाँ १ राजसभा  
में दाहिनी ओर बैठने वाले महत्त्व-  
पूर्ण दरवारी । २ विश्वस्त एव  
सम्मानित व्यक्ति । ३ भोजन में  
साग-सब्जी, थाली में साग, तर-  
कारी परोसने का स्थान ।

उजळ - वि १ उजला, सफेद,  
श्वेत, गोरा । २ साफ, स्वच्छ,  
धुला हुआ, चमकदार । ३ सदा-  
चारी, शुद्ध, पवित्र आचरण वाला ।  
मु - तोड (माया) होणें - उजला  
मुंह होना, कलक मिटना, दोष-  
मुक्त होना । - माथ्यानें वावरणें,  
हिंडणें - सिर ऊँचा करके फिरना,  
नि सकोच घूमना ।

उजळणी, उजळणूक - छाँ  
१. आवृत्ति, दुहराना, अम्यास,  
वार-वार पढना, मश्क । २ पहाडे  
ककहरा आदि रटना या दुहराना ।  
३ चमकाना, साफ करना, चमक-  
दार बनाना । ४ गालियाँ बकना ।  
उजळणीचें पुस्तक - न वाल-  
पोथी, वर्णमाला पुस्तक, फायदा,  
पहली वालपाटी, वालबोध ।

उजळणे - क्रि अ १ उजला,  
गोरा बनना, रंग निखरना । २  
चमकना, साफ होना । ३ प्रका-  
शित होना, प्रकाशमान बनना ।  
- क्रि स १ चमकाना, चमकदार  
बनाना, निखारना । २ दीप आदि  
जलाना । ३ प्रकाशित करना,  
रोशनी करना । ४ साफ, सुलभ  
बनाना ।

उजळा - पु १ चमक,  
निखार । २ ओष, काति, जिला,  
'पालिश' । ३ चमकदार बनाने  
वाली चीज ।

उजळाई - छाँ चमकाने, जिला  
करने, ओपने का काम या उजरत ।

उजागर-रा - वि १ निर्भय,  
निडर । २. सम्य, शरीफ । - अव्य  
खुल्लम खुल्ला, जाहिरातीरपर ।  
- पु १ जागरण, रतजगा । २  
निर्भयता, निर्दोषता । ३ साव-  
धानी । ४ स्मरण ।

उजागरी; उजागिरी - छाँ १  
निर्भयता । २ प्रकटता, प्राकट्य ।  
३ वृष्टता, निर्लज्जता, वेशर्मी ।  
४ प्रसिद्धि, ख्याति, किसी बात का  
फैल जाना । ५ वदनामी । मु.  
- स आणणें - प्रकट, जाहिर करना ।  
- स येणें - प्रकट, जाहिर होना,  
खुल जाना, फैल जाना ।

उजागीर - वि १ निर्लज्ज,  
वेशर्म । २ ढीठ, वृष्ट, गुस्ताख ।  
३ निर्भय, निडर । ४ जिसे कोई  
बात खुल्लम खुल्ला करने की छूट  
मिली हो । ५ खुला, प्रकट ।

उजाड - वि उजाड, वीरान,  
उजडा हुआ, जनशून्य ।

उजाडणें - दे 'उजेडणे' ।

उजाडी - छाँ वीरानी, जन-  
शून्यता ।

उजाळ-छू - पु, उजाळें\* - न  
१. तेज, प्रकाश, रोशनी, उजाला ।  
२ उजलापन, सफेदी । ३ ख्याति,  
गौरव । - वि उजला, सफेद,  
साफ ।

उजिडणें\* - क्रि अ अलग  
होना ।

उजिवडणें\* - क्रि अ १  
उजाला होना, रोशनी फैलना ।  
२ लगना, प्रतीत होना ।

उजु, उजू - वि १ ऋजु,  
सीधा, सरल । २ उचित, अनुकूल,  
अच्छा । ३ ठीक, सतुलित । ४  
कुटिलतारहित । ५. हितकर । ६

उचित, न्याय्य । - अव्य सामने,  
ओर, तरफ ।

उजूर - पु. [ अ. 'उज्र' ] १  
उज्र, आपत्ति । २. वहाना ।

उजेड - पु १ प्रकाश, उजाला,  
रोशनी । २ प्रकाश, रोशनी देने-  
वाली वस्तु, दीप । मु. - पडणे -  
१ रोशनी होना । २ बहुत बड़ी  
बात होना ( व्य ), वदनामी होना ।  
- पाडणें - १ कोई बड़ी बात  
करना, तीर मारना ( व्य. ) । २  
वदनामी का काम करना ।

उजेडणें - क्रि अ १ उजाला  
होना, सवेरा होना । २ दिल निक-  
लना, सूर्योदय होना । ३ अनुकूल  
समय प्राप्त होना । ४ स्पष्ट, साफ  
होना ।

उजेडता - अव्य मुंह अँधेरे,  
मुंह उजाले, बहुत सवेरे, तडके ।

उजो<sup>+</sup> - पु आग, अगारा ।

उज्जीवन - न १ उज्जीवन;  
नया जीवन मिलना, पुन प्राण-  
मचार होना । २ जाग्रति । ३  
प्रकटता । ४ उत्तेजन, प्रोत्साहन ।

उज्ज्वल; उज्वल - वि १  
उज्ज्वल, चमकता हुआ । २  
उजला, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र ।  
उज्ज्वलन, उज्वलन - न  
१ उज्ज्वलन, जलना । २  
चमकाना ।

उदगर-छ - न १ टीला;  
ढूह, भीटा । २ मस्मा, अर्बुद ।  
३ किसी भारी बोझ को ठेलकर  
ले जाते समय उसके नीचे रखा  
जाने वाला पत्थर । - वि १  
ऊँचा-नीचा, ऊबड-खाबड । २  
लडखडाता ।

उटकणें\* - क्रि अ १ उच्चाटन  
होना, अलग होना । - क्रि स  
उच्चाटन करना, अलग, दूर करना ।



उटकर-ळ - छी दे 'उठकळ' ।  
- वि हिलने वाला, उगमगाने वाला, लडखडाता हुआ ।

उटक्कर - वि गुस्सावर, डीठ, वेअदव, मगरूर, घमडी ।

उटज - न उटज, झोपडी, पर्णशाला, कुटी ।

उटणें - न १ उवटन, अरगजा, चंदन, केसर आदि मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक सुगंधी लेप । २ उवटन लगाना, उवटन आदि की मालिश ।

उटणें - क्रि स १. उवटना, उवटन, अरगजा आदि लगाना, मालिश करना । २. मांजना, रगडकर साफ करना, रगडकर चमकाना । ३. धोना ।

उटारुटी<sup>+</sup> - अव्य तुरत, झट ।

उटारेटी - यु; उटारेटी - छी १ झझट; झमेला, दखल, माथा-पच्ची । २ चुलबुलापन, चचलपन, नटखटी, शोखी । ३ गपोडे-वाजी ।

उटारेटीं - अव्य आलस में, फालतू बातों में । कहा० दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी-दिन तो फालतू बातों में गँवा दिया और अब दिये की रोशनी में काम करने बैठी है ।

उटाळा - यु १. उत्तोलक, 'लीवर' । २ आलव, टेक, 'फ्लकम' । ३. ढकेलना, धक्का देना । ४ स्पष्टीकरण, व्याख्या ।

उटाळें - न पहियों को रोकने के लिए उसके नीचे लगाया जाने वाला पत्थर ।

उटी - छी १ उवटन, अरगजा । २ उवटन का लेप । ३ तेज, महानता, बडप्पन ।

उटें; उट्टें - न १ बदला, प्रति-

शोध । २ परिशोध, भुगतान । मु.-उगवणें; - काढणें; - घेणें - बदला लेना, सवक मिखाना ।

उठकळ-ळा - छी १ उठने का कारण, उठनेकी हाजत । २ उच्चाटन, पराभव, हार । ३ स्थानांतर, स्थलांतर करना, तवादला, तितर वितर हो जाना । मु - येणें - तवादले का हुकम मिलना, एक स्थान से दूसरे स्थानपर जाने को कहना ।

उठकळें \* - न पराभव, हार, निकाल देना, खदेडना ।

उठणे - क्रि अ. १ लेटे हुए का बैठना, बैठे का खडा होना । २ ऊपर की ओर जाना, ऊँचाई में बढ़ना । ३ जागाना, होश में आना । ४ स्वगित या समाप्त होना । ५ तैयार, आमादा होना । ६ विद्रोह करना, धावा बोलना । ७ उचटना । ८ उभरना ( छपने में अक्षर आदि का ) । ९ निकलना, दिखाई देना, सूजना । १० दर्द करना, ठनकना । ११ तरीताजा होना, खिलना । १२ तोहमत लगाना । १३ प्रकाश पडना, चमकना । १४ पूरा होना । १५ उठ जाना, उजडना । १६ उपजना, उत्पन्न होना । १७ बढना । १८ अचानक उपस्थित होना, फल जाना । १९ मर्यादा का भंग करना । २०. मन में आना, लगना ।

उठत वसत - अव्य. उठते-बैठते, किसी तरह; धीरे धीरे ।

उठता वसतां; उठल्या वसल्या, उठल्यासुटल्या - अव्य. उठते - बैठते, हरदम, हरघडी, हरवक्त, हमेशा । - रोज उठून - अव्य प्रतिदिन, हररोज,

रोजरोज । मु. उठून दिसणें - साफ दिखाई देना, प्रभाव डालना, ध्यान आकर्षित करना । माणसातून उठणे - १. मर्यादा का त्याग करना, अनीति की राहपर चलना । २ परपुरुष के साथ भाग जाना ।

उठपळ - छी १ वार वार भाग जाना । २ उठा - वैठी, हैरानी, परेशानी । ६ अस्थिरता, चंचलता, उतावली । - अव्य वार वार, हमेशा ।

उठवशी, उठवस, उठवस; - छी १. उठा वैठी, उठना - बैठना । २ झझट; परेशानी, हैरानी । ३ उठने - बैठने की कसरत, बैठक, बैठकी । मु उठवस करणें - आव भगत करना ।

उठवण, उठवणूक - छी १ ऐसी स्थिति जिसमें एक वार बैठने-पर फिर उठा नहीं जाता और उठने के लिए दूसरो से नहायता लेनी पडती है । २ वह स्थिति जब उठने की सामर्थ्य नहीं होती । ३ दैन्य, कगाली, दुर्बलता । - मु उठवणीस येणें - बहुत अधिक थक जाना, दुर्बल हो जाना, आसन्न - मरण होना ।

उठवणें - क्रि अ. उठा जाना । ( माझ्याने उठवत नाहीं = मुझ से उठा नहीं जाता ) । दे, उठविणे ' ।

उठवळ - वि १ आलसी, कामचोर, काम से जी चुराने-वाला । २ स्वेच्छाचारी, स्वैरा-चारी । ३ स्वैरिणी, कुलटा ( स्त्री ) । ४ लापरवाह ।

उठविणें - क्रि स १ उठाना, नीचे से उपर ले जाना । २ जगाना । ३ लेटे हुए को

वैठाना । ४ उकसाना, उत्तेजित करना । ५ खाना ( सिर ), शोर मचाना । ६ उडाना ( गप ), अफवाह फैलाना । ७ उत्पन्न, पैदा करना, बनाना । ८ पूरा करना, कार्यान्वित करना । ९ चुराना । १० कर्जा या उधार लेना । मु. धरातून उठविणें - अपने जाल में फँसाकर भगा ले जाना । जन्मांतून उठविणे - जीवन को बरवाद करना । [ झट, जलदी से ।

उठाउठी - अव्य. तुरत,  
उठाठेव - स्त्री १ उठावैठी,

झझट, झमेला, पचडा, माथा-पन्ची । २ दखल, नाहक किया जानेवाला हस्तक्षेप । ३ परेशानी, हैरानी । ४ बदनामी, अफवाह । ५ आवभगत, सत्कार । - कहा-विषवेला ( चोडकीला ) कुक्काची उठाठेव फशाला - विषवा की सिद्धरसे क्या लेना - देना, नाहक की पूछताछ करने से क्या फायदा ?

उठाणू - न फोडा ।

उठावशी - स्त्री वैठक, उठने-वैठने की कसरत । [ टी' ।

उठारेठा-ठी - दे ' उठारेठा-उठाव - पु. १ उठाव, उठा, उभरा हुआ भाग, उभार, उठान । २ देह की गठन, काठी । ३ विद्रोह, हमला । ४ खर्च । ५ उद्धृत चित्र, ऊर्ध्वकित शिल्प, उभडी हुई नक्काशी, 'रिलीफ' । ६ खपत, विक्री । - दार - वि उभाडदार, साफ, आकर्षक, प्रभावशाली । - अनकाशा - पु. प्राकृतिक मानचित्र, उभाडदार नक्शा ।

उठावणो - स्त्री दे ' उठविणे' ।

१ उकसाहट, उत्तेजना, भडकाना । २ विद्रोह, सिर उठाना,

हमला । ३ आमादा होना । ४ जागृति । ५ कूच, रवानगी । ऊपर उठाना । ६ उठीनी, मृतक-सवधी एक रीति ।

उठावणें - क्रि अ १ आगे बढ़ना । २ तैयार, आमादा होना । ३ धावा बोलना, हमला करना ।

उठावा - पु दे ' उठाव', ' उठावणी' । १. कूच करना, रवानगी । २ बाहर निकलना, प्रकट होना । ३ उत्कर्ष, उन्नति । ४ विस्तार, वृद्धि । ५ आवेश, जोश, वेग ।

उठी - स्त्री १ उठान । २. उठने या जाने की इच्छा, जरूरत ।

उडणें - क्रि अ १ उडना, पख के सहारे हवा में चलना-फिरना । २ ऊपर जाना, हवा के साथ डोलना - फिरना (पत्ता, धूल आदि का) । ३ उछलकर लाँघ जाना, उछलना । ४ छलाँग भरना, कूदना । ५ नष्ट, दूर, गायब, लुप्त होना । ६ फीका पडना, कुम्हलाना । ७ विखरना, फैलना । ८ विकना, खर्च होना । ९ जी ऊबना, दिल उचटना । १० दुवार पशु का ठाँठ हो जाना । ११ छूटना, दगना, बटुक, तोप आदि का चलाया जाना । १२ ठनना, छिडना (लडाई आदि) । १३ शुरू होना, बढ़ना । १४ सभोग के हेतु नर का मादापर सवार होना । १५ इतराना, गर्व, घमंड करना, अकडना । १६ बहुत तेजी से जाना, भागना, हवा से वाते करना, उड चलना । १७ निकल जाना, छूट जाना । १८ फहराना, लहराना । २० वाष्पीभूत होना, वाष्प बन जाना, हवा हो जाना । मु. उडत जाणे - भाड

में जाना, अपनी बला से जाना ।

उडतउडत - अव्य. १ उछलते कूदते । २ अनिश्चित रूप में; अस्पष्ट रूप में । ३. सक्षेप में । ४ बीच-बीच में । - ऐकलेली गोण्ट, बातमी - स्त्री उडती खवर, अफवाह, सुनी-सुनायी खवर ।

उडतवातमी - स्त्री उडती खवर, अफवाह ।

उडतें पाखळं - न १ उडता हुआ पछी । २ चचल, अस्थिर व्यक्ति । कहा० उडत्या पांखराची पित्ते (शेटें) मोजणारा - उडते पछी के पर (वाल) गिननेवाला, बडा ही चालाक, धूर्त, काइयाँ ।

उडदामेथी - स्त्री उर्द और मेथी से बनी नारियल की कढ़ी ।

उडदावळ - स्त्री १. उरद का खेत । २ उरद के रग की साडी ।

उडदो - वि उरद के रग का । - लुगडें - न सफेद चौखूँटे खानो वाली काली साडी ।

उडहू - स्त्री [ तु ' उर्दू' ] उर्दू भाषा या लिपि ।

उडलटप्पू - दे ' उडाणटप्पू' ।

उडवणी - स्त्री १ फेंकना; फैलाना । २ अवहेला, अवज्ञा, तिरस्कार । ३ निरास, खडन, विरोध ।

उडवणें - दे ' उडविणे' ।

उडवा - पु. उडवी - स्त्री १ अनाज का ढेर, राशि, अटाला । २ कडवी, उपले आदि का बडा अटाला ।

उडवाउडव - स्त्री, उडवा-उडवी - स्त्री १ टालमटोल, हीला, वहाना, बात उडा देना । २ अप-व्यय, फूजूलखर्ची । ३ तितर-वितर करना, छितराना । ४. निरास, खडन करना ।

उडविणें - क्रि स १. उडाना, उडने की क्रिया कराना । २ फेंकना, छितराना, तितरवितर करना, फैलाना, विखेरना । ३ खर्च करना, अपव्यय करना । ४ टालना, छोड़ देना । ५ झिडकना फटकारना । ६ गायब करना । ७ सफाई से चुराना । ८ (चिडियो आदि को) भगा देना । ९ मारना, आघात करना । १० भाग ले जाना । ११ पूरा, समाप्त, खत्म करना । १२ नष्ट, ध्वस्त कर देना (वारुद, गोले आदि से) । १३ वैवकूफ बनाना, मजाक उडाना ।

उडव्या - वि १ उडाऊ, फुजूलखर्च । २ टालमटोल करने वाला ।

उडाणटप्पू - वि १ आवारा, निठल्ला, आवारा गर्द । २ छैला, वांका, रंगीला । ३ अस्थायी, आरखी ।

उडाळ - वि अस्थिर, चचल ।  
उडिद - दे 'उडीद' ।

उडी - स्त्री १ कुदान, फलांग, छलांग, उडान । २ आशा, आकाक्षा, इच्छा, सकल्प की सीमा । ३ पहुँच, हैसियत, सामर्थ्य । मु. उडचा पडणें - भीड लगाना, बहुत अधिक माँग होना, हीड लगना, क्षपटना, टूटना । उडचा भारणें - १ कूदना, उछलना, उछलकूद करना, हर्ष या क्रोध की अतिशयता से उझकना, अधीरतासूचक चेष्टाएँ करना । २ इतराना, शेखी बघारना । ३ छोड़ देना । ४ ऐश करना । ५ दूसरे के बलपर वडी-वडी वाते करना । [ उर्द, माग ।

उडीद - पु उरद, उडद,

उडु - न. उडु; नक्षत्र । - गण - पु नक्षत्रों का समूह, तारका-पुज । [ उडान, परवाज ।

उड्डाण - न उड्डयन,  
उडधा - वि १ कूदने वाग ।  
२ होशियार, चालाक । - स्त्री बहु दे 'उडी' में ।

उणत्तुण, उणत्तूण - + स्त्री १ हेतु, मतलब २ रहस्य, राज ।  
३. अनुभव । ४ लक्षण, चिह्न ।

उणवट - वि सस्ता, हलका, कम मूल्य का, कम कीमत वाला ।

उणा - वि १ कम, ऊन, ऊना, न्यून, थोडा । २ अधूरा, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, मदीप । ३ हलका, घटिया । ४ अनुचित, मानहानिकारक । ५ नपुसक । ६ अनुपस्थित, गैरहाजिर, गैर-मौजूद । - दुणा - वि अपमानजनक, मर्मभेदी, दिल को लगने वाला । - पुरा - वि लगभग, न्यूनाधिक, कुछ कम या ज्यादा ।

उणाक, उणाख - वि हलका, घटिया । - न घटिया क्रिस्म का कपडा ।

उणावणें - क्रि अ १ कम होना, घटना । २ शिथिल होना । ३ नीचे आना, क्षीण होना, अवनति होना ।

उणीव - स्त्री १ ऊनता, कमी, न्यूनता । २ घटियापन; दोष, त्रुटि, खराबी ।

उणें - न कमी, त्रुटि, न्यूनता, सदीपता । - उत्तर - न अपमान-जनक उत्तर । - दुणें - वि अपमानजनक, दिलखराश, दिल दुखाने वाला । - पणा - पु ऊनता, त्रुटि, दोष । - पाणें - न दोष, भूल, गलती । - पुरें - वि लगभग, कम या अधिक, कमी-

वेश, कम ज्यादा । मु. - आणणें - लजाना, लज्जित, धर्मिदा करना । - काडणें; - पाहणें - ऐव दूँटना, छिद्रान्वेषण करना; मुचड निकालना ।

उत\* - अव्य या, अयवा ।

उतटणें - क्रि अ १ तडकना, चटकना, चिटकना, बाल आना, पडना, उवडना, खुलना, टूटना । २ कसना, तग होना । ३ छलकना, उमडना । - क्रि. स उधा-उना, उघेडना, तोड़ना ।

उतणणें - क्रि. स. १. घास निकालना । २ घाम-फूसका छप्पर निकाल देना । - क्रि अ इतराना, फूलना ।

उतणे - क्रि अ. १ उफनना, उवलना, जोश खाना । २ आँखों से कीचड निकलना । ३ शरीरपर फोडे-फुत्सियाँ निकलना । ४ भिलावाँ आदि के लग जाने से देहपर फोडे निकलना या छाले पडना । ५ उमडना । ६ घमड करना, इतराना । ७ फूल जाना, झाग आना । ८ जोरो से बढ़ना । ९ लहलहाना, समृद्ध होना । मु उतू जाणें - १. बहुत अधिक होना, बढ़ना । २ घाटा, खर्च होना । ३ उडना । उतू येणें - उफनना, जोश खाना ।

उतरड - स्त्री भंडोली, शकु के आकार में बरतनो को एक के ऊपर एक रखने का ढग, नीचे बडा और उसपर क्रम से छोटे बरतन रखने का तरीका । २ ढाल, ढलान, उतार ।

उतरण - स्त्री १ ढाल, ढलान, उतार । २ ढालू भूमि, रास्ता । ३ उत्तर-पवन । ४. अवनति, झुकाव, गिराव, ह्रास । ५ पकाने के लिए पेड से उतारे हुए

आम । ६ दे 'उतार' ।

उतरणे - क्रि अ १ उतरना, ऊपर से या किसी सवारी से नीचे आना । २ टिकना, ठहरना । ३ सिद्ध होना, सही निकलना । ४ कम होना, घटना, हटना, दूर होना (ज्वर, क्रोध, घीरज आदि का) । ५ कुम्हलाना, सूखना, हलका, फीका पडना । ६ ढलना । ७ फल आदि का अधिक पकना । ८. पकती हुई चीज का तैयार होना । ९ ठीक ढग से बनना, तैयार होना । १० बच निकलना, सेहत, स्वास्थ्य पाना । ११ परीक्षा में उत्तीर्ण होना । १२ पार होना । १३ प्रवेश करना, चला जाना । १४. आँवो से, नजरो से उतरना, अनुग्रह, कृपा से वचित होना । १५ प्रिय लगना, पसंद आना । १६ ढीला होना, मोती आदि का मूराख बडा होना । १७ छूटना (बच्चो के खेल में) । १८ हास, विगाड की ओर जाना । १९ कुशती के लिए अखाडे में आना । २० नकल होना । २१ जन्म, अवतार लेना । मु. उतरून टाकणें - १ निछावर करना । २ निकाल देना, नीचे ले लेना ।

उतरणे - क्रि स १. उतारना, ऊपर से नीचे लाना । २ नीचे रखना, निकाल लेना । ३ उतरने, नीचे आने में मदद देना । ४ नकल करना । ५ घटाना, कम करना । ६ टिकाना, ठहरने का प्रवध करना । ७ न्योछावर करना । ८ पहनी हुई चीज को अलग करना । ९ मन्नादि पढकर प्रभाव दूर या कम करना । १० काट डालना, काटकर जुदा कर देना । ११ पार पहुँचाना । १२ ढालवाँ छप्पर,

छाजन आदि बनाना । १३. निकाल देना । १४ ताग के खेल में पत्ता चलना, खेलने वालो के सामने कोई पत्ता फेंकना । १५. पेडो से फल आदि निकालना ।

उतरता - वि १ ढालवाँ, ढालुआँ, ढालू, जो आगे की ओर क्रमश नीचा होता गया हो । २ अवोगामी, निम्नगामी, पतनशील, अपकर्षशील । ३ ढलता हुआ, अस्ताचल की ओर जाता हुआ । दे 'उतरती' ।

उतरती - स्त्री अवनति, ह्रास, गिरावट, अधोगति । - वि स्त्री उतरती हुई, ढलती हुई, गिरती हुई । - कमान - स्त्री १ गिरावट, पतन । २ ढलती हुई स्थिति, दुरे दिन । - कळा; - पायरी - स्त्री ह्रास, अध पात, दुरी हालत । - भाजणी - स्त्री परिमाण का अवरोही क्रम । (उदा. रूपयो के पैसे बनाना) । - श्रेढी - स्त्री अवरोही क्रम, श्रेणी ।

उतरवट - वि १ कुछ-कुछ ढालवाँ । २ पतनशील ।

उतरवटा - पु ढालवाँ जमीन ।

उतरवाट - स्त्री ऐसा रास्ता जिसमें उतार हो ।

उतरविणे - क्रि स. १ उतरवाना । २ नकल करवाना । दे 'उतरणें' 'क्रि स' ।

उतरा - पु उतरने, गिरने आदि की क्रिया, गिरना ।

उतराई - स्त्री ऋणमुक्त, उऋण । २ उतारने की उजरत, उतराई । मु० - होणें - उऋण होना, उपकार का ऋण चुकाना ।

उतवणें<sup>+</sup> - क्रि अ खौलना, उवलना ।

उतळपातळ - स्त्री गप, शेखी ।

- वि अधूरा, अपूर्ण, थोडा; पतला, कम ।

उताट, उताटकी - स्त्री १ छलक, उमड, उद्वेलन, उत्तटता । २ उतावली, जल्दवाजी, अस्थिरता, चंचलता ।

उताणणें<sup>+</sup> - क्रि अ वर्णन करना, बखानना, मशहूर करना ।

उताणा - वि १ चित्त, सीधा, उत्तान, पीठके बल लेटा हुआ, जिसका मुँह - पेट ऊपरकी ओर हो । २ सुस्त, आलसी, बेकार ।

- पाताणा - अव्य ऊपर-नीचे; चित्त - पट, आँधा - सीधा । मु० - चालणे - इतराना, घमड के साथ चलना । - पडणे - १ पीठ के बल लेटना । २ मुँह की खाना । ३ कगाल बनना । ४ बीमार होना । ५ खाली रहना । ६ हार खाना, पछाडा जाना, चित्त होना ।

उतान - दे 'उताणा' ।

उताप \* - वि जो घूप में हो, जिसमें छाँव न हो ।

उतापती<sup>+</sup> - स्त्री प्रत्याक्रमण, उलट कर किया हुआ हमला । - काटेमारी - स्त्री भारी कल्ल, मारकाट ।

उतार - पु १ उतार, वह जगह जहाँसे नदी हलकर पार की जा सके । २ (विष, मत्र आदि का) प्रभाव दूर करने वाली दवा, किसी दवा की तीव्रता को कम करने वाली दवा । ३ चढाव का उलटा, ढाल, दे 'उतरण' । ४ उतारन, पहना हुआ कपडा आदि इनाम के तौरपर किसी को देना । ५ कमी, घटाव, भाटा । ६ उतराई, नदी के पार उतारने का भाडा, खेवा । ७ नकल, प्रतिलिपि । ८ आराम (बीमारी

में) । १ उद्वरण, दे 'उतारा' ।  
 १०. फकं, परिवर्तन । - वि १  
 ढलती उम्र का, बूढा । २ हलका,  
 घटिया । ३ अधोगामी, पतन या  
 अवनति की ओर जाने वाला ।  
 - करी, - करू - वि पु. १ मुसा-  
 फिर, यात्री, अस्थायी निवास  
 करने वाला । २ भाडा देकर नदी  
 के पार जाने वाला । - घाट - पु.  
 वह घाट जहाँ से नदी पार  
 की जाय । - चढ - स्त्री  
 १ उतार चढाव, ऊँचाई-निचाई ।  
 २ उन्नति-अवनति; उत्कर्ष-अप-  
 कर्ष । ३ हानि - लाभ । ४ घटाव  
 वढाव । - चावडी - स्त्री १.  
 डाक बँगला, घमंशाळा । २  
 अतिथिगृह । - तळ - पु. उतरने का  
 स्थान, अड्डा, तांगो, इक्को आदि  
 के रकने, ठहरने की जगह ।  
 - पातार - पु. १ साधारण मार्ग -  
 व्यय । २ नदी के पार उतारने का  
 भाडा, खेवा, उतराई । ३ चुगी,  
 नदी या पुल का महसूल । - पान-  
 न १ ताश के खेल में चलने का  
 या चला हुआ पत्ता । २ वही में  
 हिसाब को आगे ले जाने का पृष्ठ ।  
 - पेठ - स्त्री १ वह शहर या  
 बदरगाह जहाँ अनेक स्थानों से  
 क्रय - विक्रय के लिए बड़े पैमाने  
 पर माल आता रहता है, बडी  
 पैठ । २ दे 'उतारतळ' । - मान-  
 पु. १ अपमान, अप्रतिष्ठा । २  
 बुढापा । - वि अपमानित,  
 निरादृत । - वय - न ढलती उम्र,  
 बुढापा । - वस्त्र - न उतारन,  
 उतरन - पुतरन, उतारा हुआ  
 पुराना कपडा । - वेळ - स्त्री सध्या  
 समय, दिन का तीसरा प्रहर ।

उतारा - पु. १ उद्वरण, अवत-  
 रण, पुन्तक, लेख आदि का अंश ।

२ उतारा, रोग या प्रेतवाधा की  
 निवृत्ति के लिए पीडित व्यक्तिपर  
 कोई चीज वारकर चौराहे आदि-  
 पर घर देना । ३ निचोड, निचो-  
 डने, गलानेपर निकाली हुई वस्तु,  
 निष्पत्ति, परिपाक । (वारा शेर  
 लोणी कढविले त्याचा दहा शेर  
 उतारा आला = वारह शेर  
 मक्खन को गलानेपर दस शेर घी  
 मिला) । ४ नकल, प्रतिलिपि ।  
 ५ उतार, वह जगह जहाँसे नदी  
 हलकर पार की जा सके । ६ उत-  
 राई, खेवा । ७ फल आदि उतारने  
 की उजरत । ८ वह वही जिसमें  
 हुडियो आदि की नकले दर्ज की  
 जायें । ९ वरतरफी, नौकरी से  
 अलहदगी । १० उतारन, उतारे  
 हुए पुराने कपडे, पहना हुआ  
 पुराना कपडा आदि जो नौकर,  
 भिक्षु आदि को दे दिया जाय ।

उतारी - स्त्री १ चाल, ताश  
 में पत्ते को चलना । २ गजीफा में  
 तुरप के सारे पत्ते को एक साथ  
 चलना । ३ अधोगति, गिरावट ।  
 ४ ओझा, झाड फूंक करने वाला ।  
 ५ यात्री, पथिक, मुसाफिर ।  
 ६ पार ले जाने वाला, खेवैया ।  
 उतारू - वि यात्री, मुसा-  
 फिर, पथिक । - पातारू - वि  
 यात्री आदि ।

उतान्या - वि १ खेवया,  
 नाव खे कर पार ले जाने वाला ।  
 २ पेड से आम उतारने वाला ।

उतावळ - स्त्री १ उतावली,  
 जल्दी, जल्दवाजी । २ अधीरता ।

उतावळा, उताविळा - वि  
 उतावला, अधीर, जल्दवाज,  
 वेसत्र । कहा उतावळा नवरा  
 आणि गुडघ्याला वाशिंग - उता-  
 वला दूल्हा और घुटने में मोर

( या सेहरा ); जल्दवाज को कुछ  
 नहीं मूझता ।

उतावीळ - स्त्री दे. 'उतावळ' ।  
 - वि दे 'उतावळा' ।

उतूं जाणें, येणें - दे 'उतणे' में ।  
 उत्कंठा - स्त्री उत्कठा;  
 उत्कट इच्छा, विलव न सह सकने  
 वाली इच्छा, वेचनी, वेसत्री ।

उत्कंठित - वि उत्कंठित,  
 उकठायुक्त, उत्सुक, अधीर;  
 वेसत्र ।

उत्कट - वि १ उत्कट, तीव्र,  
 उग्र, प्रबल । २ अच्छा, बढ़िया;  
 श्रेष्ठ ।

उत्कर्ष - पु. उदागार, उदका-  
 र्वन, 'हायड्रोकार्वन' । - नमाम्ल  
 - न 'हायड्रोसायनिक अम्ल' ।

उत्कर्ष - पु. १. उत्कर्ष, उन्नति,  
 श्रेष्ठता, तरक्की । २. ममृद्धि,  
 इफरात ।

उत्कीलन - न १ खोलना,  
 सुलझाना । २ मुक्त, रिहा करना ।  
 ३ खिलना, फूलना, फैलाना ।

उत्कृष्ट - वि उत्कृष्ट,  
 बढ़िया, बेहतरीन, उत्तम, श्रेष्ठ ।

उत्क्रम - पु. १ उत्क्रम, क्रम-  
 भग, उलटा क्रम । २ अव्यवस्था,  
 गडबडी ।

उत्क्रमण - न उत्क्रमण; नीचे  
 से ऊपर जाना, चढना, क्रमोन्नति ।

उत्क्रात - वि उत्क्रात, ऊपर  
 गया, चढा हुआ । - मति - वि  
 व्यापक बुद्धि रखने वाला, ज्ञानी ।

उत्क्रांति - स्त्री १ उत्क्राति,  
 उद्विकाम, क्रमिक उन्नति या  
 विकास, 'इन्टेल्यूशन' । - वाद  
 पु. उद्विकासवाद, विकास -  
 सिद्धांत, परिणामवाद ।

उत्कथनाक - पु. क्वथनाक,  
 'वॉर्डिंग पॉइंट' ।

उत्क्षेपणें - क्रि स. ऊपर फेंकना, उछालना ।

ऊत्खनन - न. उत्खनन, खुदाई, खोदाई ।

उत्तप्त - वि १ उत्तप्त, बहुत ज्यादा गरम । २ दुखी, कुठता हुआ ।

उत्तम - वि १ उत्तम, सबसे अच्छा; बढ़िया, बेहतर। २. प्रथम, मुख्य, श्रेष्ठ । - गति - स्त्री १ मोक्ष, निर्वाणपद-प्राप्ति । २ अच्छी मृत्यु, शुभ समय और स्थान में आयी हुई मृत्यु । ३ अच्छी प्रगति । - पुरुष - पु १ अच्छा, श्रेष्ठ पुरुष, परमेश्वर । २ उत्तम पुरुष, बोलने वाला सूचक सर्वनाम ( मैं, हम ) ( व्या० ) ।

उत्तमाग - न उत्तमाग, सिर ।

उत्तमोत्तम - वि. उत्तमोत्तम, अच्छे से अच्छा; सर्वश्रेष्ठ । - वि बहु अच्छे - अच्छे, बढ़िया ।

उत्तर - न १ उत्तर, जवाब । २ वाक्य, भाषण, शब्द ३ निष्कर्ष । ४ शेष; बाकी ( ग ) । ५ बचाव, वाद का जवाब । - स्त्री उत्तर दिशा; दक्षिण की उलटी दिशा, शुमाल । - पु एक अर्थालंकार जिसमें उत्तर सुनकर प्रश्न का अनुमान लगा लिया जाय । - वि १ उत्तर, उत्तर दिशासंबंधी । २ ऊपर वाला, ऊँचा । ३ पीछे आने वाला, पिछला, वाद का । ४ श्रेष्ठ । ५ से अधिक । ६ अतीत । - अव्य. उत्तर, पीछे, वाद । - कथा - स्त्री किसी कहानी या घटना का आखिरी अंश । - कार्य - न दे 'उत्तरक्रिया' । - काल - पु उत्तर काल, आने वाला काल, भविष्यत् काल ।

- क्रिया - स्त्री उत्तरक्रिया, अत्येष्टि, पिंडदानादि मृतककर्म ।

- गति - स्त्री १ छुटकारा, रिहाई । २ मोक्ष । - गोलार्ध - पु पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, विषुवत् रेखा का उत्तरी भाग ।

- ध्रुव - पु उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव । - पथ - पु गृहस्थी से

विरक्त होकर परलोक प्राप्ति की इच्छा से तीर्थयात्रा, अरण्यवास

आदि को अपनाना । - पक्ष - पु १ उत्तर पक्ष, वाद या बहस का

जवाब । २ प्रतिवादी । ३ कृष्ण-

पक्ष, वद्यपक्ष । - पद - न उत्तर

पद, समास का अंतिम पद ( व्या )

- पूजा - स्त्री १ पूजा का अंतिम

भाग । २ विसर्जन - विधि ।

- प्रत्युत्तर - न उत्तर-प्रत्युत्तर,

सवाल-जवाब, बहस - हुज्जत ।

- रात्र - स्त्री मध्यरात्रि (आधी

रात) के वाद का समय, पिछला

प्रहर । - वय - न उत्तर वय,

बुढ़ापा । - वयस्क - वि बूढ़ा ।

- वादी - पु उत्तर वादी, प्रति-

वादी, मुद्दालेह । - साक्षी - पु

उत्तर साक्षी, प्रतिवादी पक्ष का

गवाह । - हीन - वि निरुत्तर,

चुप, जिसके पास कोई उत्तर

न हो । [होना, उतरना ।

उत्तरण - न उत्तरण, पार

उत्तरणें - क्रि अ उत्तर देना,

जवाब देना ।

उत्तराधिकार - पु उत्तरा-

धिकार, वरासत, विरासत,

दायाधिकार । [कारी, वारिस ।

उत्तराधिकारी - वि उत्तराधि-

उत्तरार्ध - पु उत्तरार्ध, उत्त-

रार्ध, पिछला, अत की ओर का

आवा भाग ।

उत्तरोत्तर - अव्य १ धीरे

धीरे, क्रमश । २. उत्तरोत्तर, अधिकाधिक ।

उत्तान - वि १ उत्तान, पीठ के बल लेटा हुआ; चित । २ धृष्ट, गुस्ताख, मगरूर, उद्दाम । ३ छिछला । ४ स्पष्ट, साफ ।

उत्तीर्ण - वि १ उत्तीर्ण, परीक्षा में 'पास' । २ पार पहुँचा हुआ । ३ ऋणमुक्त, कर्तव्य से मुक्त । [ऊँचा, गगनस्पर्शी ।

उत्तुग - वि उत्तुग, बहुत

उत्तेजक - वि १. उत्तेजक;

चेतनावर्धक, प्रोत्साहक । २

उकसाने वाला, भडकाने वाला ।

- पदार्थ - पु. उत्तेजक पदार्थ,

खाद्य या पेय ।

उत्तेजन - न १ उत्तेजन,

प्रोत्साहन; बढ़ावा, प्रेरणा । २

उत्तेजना, भडकाव, उभाड़ ।

उत्तेजित - वि जिसे उत्तेजन,

प्रोत्साहन दिया गया हो ।

उत्थान - न १ उत्थान,

उठना, उठाना । २ उदय । ३

बढ़ती, बल-वैभव की वृद्धि ।

उत्थापक - वि उत्थापक,

उठाने, जगाने, उभारने वाला ।

उत्थापणें -<sup>+</sup> क्रि स हटाना,

निकाल देना, स्थानभ्रष्ट करना ।

उत्थापन - अ १ उत्थापन,

उठाना । २ उन्नति करना, बड़ा

बनाना । ३ उभारना, प्रेरित

करना । ४ विसर्जन करना । ५

स्वागत के लिए उठकर खड़ा होना ।

६ स्थानभ्रष्ट करना, त्याग करना ।

७ एक पद के बजाय दूसरा पद

या अक्षर के स्थानपर अक्षर लिखना

( ग ) ।

उत्थित - वि १ उपस्थित, उठा

हुआ, उठता हुआ । २ बल - वैभव

में बढ़ा हुआ, उद्धार किया हुआ ।

उत्पत्ति - स्त्री १. उत्पत्ति, जन्म, उद्गम, पैदाइश। २. उत्पादन, उपज, आरम्भ। ३. उदय ४ उद्गम।

उत्पन्न - वि १ उत्पन्न, पैदा, जनमा हुआ। २ बना हुआ, बनाया हुआ। - न १ आय, आमदनी। २ लाभ, मुनाफा। - भक्षी - वि उत्पन्नभक्षी, जो खानेभर को ही कमा सके।

उत्पन्नणं \* - क्रि अ १ उत्पन्न, पैदा होना। २, निकलना, उदय होना।

उत्पल - ल-न १ उत्पल, कमल, नील कमल। २ नीलम, इद्रनील, नीलमणि।

उत्पाटणे \* - क्रि स १. उखाडना। २ जड - मूल से नाश करना।

उत्पाटन - न १ उत्पाटन, उखाडना, उच्चाटन। २ जडमूल से नाश करना।

उत्पात - पु १ उत्पात, विपत्सूचक आकस्मिक घटना, भय-सूचक चिन्ह। २ विपद् - रूप भौतिक घटना, अनर्थ, सकट। ३ खुराफात, उपद्रव, ऊधम।

उत्पाती - वि १ उत्पाती, खुराफाती, शरारती। २ साहसी, हिम्मती, पुरुषार्थी।

उत्पादक - वि १ उत्पादक, पैदा करने वाला। २ मृजनात्मक। - पु १ पिता, निर्माता। २ सस्थापक, नीव डालने वाला।

उत्पादणे \* - क्रि स १ पैदा, उत्पन्न करना, उपजाना, जनम देना, बनाना। २ प्रकट करना।

उत्पादन - न १ उत्पादन, पैदा करना। २ पैदावार, खेती की उपज। - क्षमता - स्त्री

उत्पादनक्षमता।

उत्पादित - वि उत्पादित, उत्पन्न, पैदा किया हुआ।

उत्प्रेक्षण - न उत्प्रेक्षण, तुलना करना, मिसाल, उदाहरण देना।

उत्प्रेक्षा - स्त्री उत्प्रेक्षा, तश-वीह, उपमा, तुलना। [अक।

उत्सर्ग - पु उत्सर्ग, गोद, उत्सर्ग - पु १ उत्सर्ग, अलग

करना, छोड़ना, त्यागना, बलि। २ नियम, विधि। ३ दान, समर्पण।

उत्सर्जन - न १ उत्सर्जन, उत्सर्ग करना, त्याग, दान करना। २ एक वैदिक कर्म जो साल में दो बार किया जाता है, वेदाध्ययन स्थगित करना, वेदाध्ययन स्थगित करते समय किया जाने वाला कर्म, यज्ञोपवीत धारण करते समय किया जानेवाला एक कर्म।

उत्सव - पु १ उत्सव, आनंद, प्रसन्नता। २ आनंदजनक कार्य, समारोह, उछाव-वधाव (मनाना), त्योहार। ३ जलसा, नाच-गाना। ४ दे 'उत्साह'। - मूर्ति - स्त्री १ समारोह के समय घुमाने, जुलूस के साथ ले जाने की मूर्ति। २ दिखावटी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो केवल नाम के लिए हो। ३ हमेशा सजवज कर, बनठन कर रहने वाला।

उत्सादन - न १ उत्सादन, नाश करना। २ ऊपर चढ़ाना, उठाना। ३ खेत की दूसरी जोताई करना। ४ पतंग उड़ाना, लड़ाना।

उत्साव - दे 'उत्सव'।

उत्साह - पु १ उत्साह, हौसला, उमग। २ आनंद, सतोप, खुशी। ३ त्योहार, उत्सव, समारोह। ४ हिम्मत, धीरज,

अध्यवसाय, उद्यम, चेष्टा; दृढ सकल्प। ५ वेग; जोर, आवेश, जोश। - भंग - पु. हौसला पस्त करना या होना, निरुत्साह करना या होना। - मूर्ति - स्त्री दे 'उत्सवमूर्ति'। - वि उत्साह के साथ किसी काम में हमेशा रहने वाला। - वर्धक - वि हौसला बढ़ानेवाला, शक्ति की वृद्धि करने वाला।

उत्साहित - वि १ जिसका उत्साह, हौसला बढ़ा या बढ़ाया गया हो। ३ खुश, प्रसन्न, आनंदित।

उत्साही - वि १ उत्साही, हौसलामद। २ तत्पर, उद्यमी, अध्यवसायी।

उत्सुक - वि १ उत्सुक, उत्कण्ठित, अत्यधिक इच्छुक। २ बेचैन, अवीर, उतावला।

उत्सेदणं \* - क्रि स तोडना, नाश करना, ध्वस्त करना।

उथव \* - स्त्री ज्वार, बाढ।

उथळ - वि १ उथला, छिछला, कम गहरा। २ भोला-भाला। - पातळ - अव्य थोडा-थोडा। - वट - वि कुछ - कुछ उथला, छिछला-ना। कहा. उथळ पाण्याला खळखळाट फार - अव-जल गगरी छलकत जाय।

उथळणे \* - क्रि अ उछलना, उमडना, छलकना।

उथाण \* - न १ ऊमस, हवा न चलने से मालूम होने वाली गरमी। २ भादो की धूप या गरमी।

उदड - वि अव्य बहुत, अधिक; अनेक, अनगिनत, पर्याप्त, काफी।

उदत \* - पु १ उदत, समा-चार, सारी खबर। २ सज्जन,

शुद्ध हृदय का व्यक्ति । ३ व्यापार यज्ञ आदि के सहारे जीविका प्राप्त करने वाला व्यक्ति ।

उदईक - अव्य कल, आने-वाला दिन, दूसरे दिन ।

उदक - न उदक, पानी, जल । - क्रिया - स्त्री उदकक्रिया, उदककर्म, पितरो को जल देना, पितृतर्पण । - दान - न १ दे 'उदकक्रिया' । २ कुएँ, तालाब आदि बनवाकर पानी का मुफ्त प्रवध करना । - शात, - शाति - स्त्री उदकशाति, रोग, विघ्न आदि दूर करने के लिए अभिमंत्रित जल छिड़कना । मु - ग्रैणें-आंसू आना, दुख होना । - सोडणें - १ छोड़ देना, त्यागना । २ सकल्प-पूर्वक जल गिराकर भोजन शुरू करना ।

उदक प्रक्रिया - स्त्री जलविश्लेषण, जलीय विश्लेषण, 'हाइड्रॉलिसिस' । [ अगरवत्ती ।

उदकाडी - स्त्री ऊदवत्ती, उदधि - पु. उदधि, समुद्र, सागर ।

उदफाळणे - क्रि स चीरना, फाडना, ब्वस्त करना ।

उदवत्ती - स्त्री [ अ 'ऊद' + हिं. वत्ती ] ऊदवत्ती, अगरवत्ती ।

उदमी - पु १ व्यापारी, व्यवसायी, पेगावर । २ उद्यमी, मेहनती, उद्योगी । ३ उद्यमकर्ता ।

उदम्ल - न अँनाँक्सी अम्ल, 'हाइड्रॉसिड' ।

उदय - पु १ उदय, (सूर्यादि का) उगना, निकलना । २ दिखाई देना, प्रकट होना । ३ उत्पन्न, पैदा होना, ऊपर आना, उद्गम, उद्भव । ४ बढ़ती, चढती, उन्नति, तरक्की । - गिरि पु. दे 'उदयाचल' । म्. उदयास

येणे - १ उदय होना, निकलना । २ मगहूर होना, प्रगति, उन्नति होना ।

उदयाचल, उदयाचळ - पु उदयगिरि, उदयाचल, पूर्व का एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उगना माना जाता है ।

उदयीक - अव्य कल, आने वाले दिन, दूसरे दिन ।

उदरभर, उदरभरी - वि १ उदरभर, उदरभरि, अपना ही पेट पालने वाला, स्वार्थी । २ पेटू ।

उदर - न १ उदर, पेट, कोठा, जठर । २ वस्तु का भीतरी भाग, मध्यभाग । ३ पेट का एक रोग, विजातीय द्रव्य एकत्र होने या जलोदर आदि के कारण पेट का बढना । - निर्वाह - पु निर्वाह, गुजारा । - पिशाच - पु उदरपिशाच, पेटू, पिशाच की तरह खाने वाला व्यक्ति ।

- भरण - न १ पेट भरना, भोजन, खाना । २ निर्वाह, गुजारा । - वृत्ति - स्त्री जीविका, आजीविका, रोजी । उदराची खाच - पेट । म्. उदरीं येणे - आराम के साथ खाने - पीने को मिलना, बिना तकलीफ के जीवन वीतना । (व्य) । उदरीं शनी येणे - गति का जन्म राशि में आना, अच्छी स्थिति प्राप्त होना ।

उदरणें \* - क्रि अ थोकना, कै, वमन करना ।

उदरी - वि १ उदर-रोग मे पीडित । २ उदरी, बड़ी तोद वाला, तुदिल, स्थूलकाय ।

उदर्या - स्त्री बहु विगाखा नक्षत्र, इस नक्षत्र मे होने वाली वर्षा । - माज्या - स्त्री बहु विशाखा एव अनुरावा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में होने वाली वर्षा ।

उदवणें, उदविणे \* - क्रि स ऊद या अगर के धुएँ मे सुगंधित करना, ऊद जलाना ।

उदात्त - वि १ उदात्त, ऊँचा, महान्, उदार । २ स्पष्ट, साफ, ऊँचे स्वर में उच्चरित ।

उदान - पु. १. उदान, पाँच प्राणवायुओं में से एक, साँस । २ ऊपर को चढी हुई या उलटी चलने वाली साँस, आसन्न मृत्यु की साँस, फूली हुई साँस ।

उदार - वि १ उदार, ऊँचे दिल वाला, दयालू, भला । २ दानशील, सखी, दिल खोल कर खर्च करने वाला । ३ विस्तृत, विशाल । - कर्ण - वि १. कर्ण जैसा अत्यंत उदार, दानशील । २ कजूस, मक्खीचूस । - पक्ष - पु. उदार दल, 'लिवरल पार्टी' । - मतवादी - वि उदार दल का, उदारतावादी, 'लिवरल' ।

उदावादा \* - पु. १ पूर्णत्व । २ प्रकटता । - अव्य खुल्लम खुल्ला, भली भाँति ।

उदास - वि १ उदास, खिन्न, दुःखी, गमगीन । २ लापरवाह । ३ उदासीन, विरक्त, तटस्थ, निस्पृह । ४ व्यर्थ, निरर्थक, खाली, निष्फल ।

उदासणें - क्रि अ उदास, खिन्न होना ।

उदासी - वि १ उदास, निराश, खिन्न, दुःखी, रजीदा । २ लापरवाह । दे 'उदास' । - पु १ उदासी, सन्यासी, विरागी २ नाहकशाही साधु ।

उदासीन - वि १ उदासीन, उदास, खिन्न । २ तटस्थ, निष्पक्ष । ३ लापरवाह ।

उदासीनता - स्त्री १ उदासीनता, उदासी, खिन्नता, रजी.



दगी। २ विरक्ति, तटस्थता, निरपेक्षिता।

उदाहरण - न १ उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल। २ नमूना, वानगी, आदर्श। ३ हिसाब, गणित का सवाल (ग), गणित, उदाहरणरूप समस्या या प्रयोग।

उदाहरणार्थ - अव्यय उदाहरण के लिए, मसलन्, मिसाल के तौरपर।

उदाळणें \* - क्रि अ उछलना, छलकना, उमडना।

उदित - वि १ उदित, उगा हुआ। २ फूला हुआ। ३ खुला हुआ, प्रकट, प्रकाशित। ४ उत्पन्न, पैदा हुआ। ५ उद्यत; आमदा, तैयार। ६ कथित, कहा हुआ। - काळ - पु. भाग्योदयकाल, उत्कर्ष, समृद्धि, श्रीवृद्धि का काल।

उदिदिन - न 'वैज्योदिन'।  
उदिन - न धूपी, 'बेन-चाइन'।

उदिपणें \* - क्रि अ उदय होना, निकलना, उगना, उत्पन्न होना। [वनिया।

उदिमदार - पु. व्यापारी, उदिमी - दे 'उदमी'।

उदिया \* - अव्यय आने वाला कल, आने वाले दिन।

उदी - वि [अ. 'ऊद']  
ऊदी, ऊद के रग का, स्याही मायल, पिंगल, खाकी, भूरा, वैगनी, खैरा। - स्त्री १ ऊद की राख, किसी मजार में जलाये गये ऊद की राख, जो प्रसाद के तौरपर ली जाती है। २ ऊदी रग का कपडा। ३ धूपदान।

उदीची - स्त्री उदीची, उत्तर दिशा। [का।

उदीच्य - वि उदीच्य, उत्तर

उदीत \* - वि उद्यत, तैयार, आमदा।

उदीम - पु १ व्यापार, कारोवार, उद्यम, घधा। २ उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार। ३ झझट। - पट्टी - स्त्री व्यवसाय-कर। मु. - करणें - १ कारोवार-व्यापार करना। २ कारोवार, में घाटा होना।

उदीमी - पु व्यापारी, वनिया। - वि व्यापार सवधी।

उदेउदे \* - अव्यय जय हो, जिंदावाद।

उदेग \* - दे 'उद्देश'।

उदेजणें \* - क्रि अ १ उदय होना, उगना, निकलना। २. उत्पन्न होना।

उदेणें \* - क्रि.अ १ उदय होना, निकलना। २. उगना, उत्पन्न होना। ३. भाग, तकदीर खुलना, भाग्योदय होना।

उदै \* - अव्यय. कल, आने वाले दिन।

उदैजणें, उदैणें \* - दे. 'उदे-जणे, 'उदेणे'।

उदो - पु. १ उदो, उदय। २ उत्पत्ति, पैदाइश। ३ विजय। - अव्यय जय हो, जागो, जिंदा-वाद। मु. - उदो करणें - १. उका बजाना, ढहोरा पीटना। २ खुशामद, चापलूसी करना। ३ जय बोलना।

उदो \* - पु. नाश, ध्वंस।

उद्गदणें \* - क्रि अ उमडना, उछलना, जोश में आना।

उद्गम - पु. १ उद्गम, जन्म; उत्पत्ति; उत्पत्तिस्थान, सरचश्मा, सोता। २ ऊपर आना; उठना।

उद्गाता - पु. उद्गाता, यश

में सामगान करने वाला श्रुतिक।  
- वि यश गाने वाला।

उद्गार - पु. १. उद्गार, उच्चारण, बोलना, शब्द। २ विस्मयोद्गार, दिल में भरी हुई, बात का बाहर निकलना, हर्ष शोक आदि के सूचक शब्द। ३ ढकार, वमन। - वाचक, - वाची - वि विस्मयादि बोधक (अव्यय)।

उद्गारणे - क्रि अ. १ बोलना; कहना। २ बोल उठना, चीखना, चीख उठना; चिल्लाकर कहना।

उद्घाटण; उद्घाटन - न. १ उद्घाटन, खोलना, इफिताह, प्रकट करना। २. समारंभ, किसी सम्मेलन या समारोह का आरंभ किया जाना। ३ स्पष्ट करना, विवरण करना।

उद्घोष - पु. १ उद्घोष, घोषणा; नारा। २ रटना, वार-वार कहना। ३ मुनादी। ४. खबर, अफवाह।

उद्दड - वि १. उद्दड, अक्कड, सरकश। २ दे 'आडदाड'।

उद्दाम - वि १ उद्दाम, साहसी। २ ढीठ, गुस्ताख, अशिष्ट, घमडी। ३. प्रचंड, भय-कर, उग्र। ४ विशाल, बहुत बडा, असाधारण, असीम। - पणा पु गुस्ताखी, ढिठाई, अशिष्टता, बेअदबी।

उद्दिष्ट - न उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन; मकसद। - वि १ उद्दिष्ट, अभिप्रेत, चाहा, सोचा हुआ। २ विवक्षित, अपेक्षित, निदिष्ट।

उद्दीपक - वि १ उद्दीपक, उद्दीपन करने वाला, प्रज्वलित करने वाला, जलानेवाला, भड-

काने वाला । २ स्फूर्तिप्रद, उत्तेजक, प्रोत्साहक, चेतनावर्धक ।

उद्दीपणें - क्रि अ १ उद्दीपित होना, भडक उठना । २ चमक उठना, प्रकाशित होना । ३ चेतना, प्रवर्तन होना ।

उद्दीपन - न १ उद्दीपन, प्रज्वलन, भडकना, भडकाव । २ प्रकाशन, प्रकाश, रोशनी । ३ प्रवर्तन करना, जागृत करना, जगाना । ३ प्ररोचना, उद्दीपना, उत्तेजना, प्रेरणा, रस का पोषण - वर्द्धन करने वाली वस्तु ।

उद्देश - पु १ उद्देश, उद्देश्य, प्रयोजन, हेतु, लक्ष्य, अभिप्राय, मतलब । २ वर्णन, उदाहरण, स्पष्टीकरण । ३ सारांश । - कारण - न प्रयोजक कारण, 'फाइनल कॉज' ।

उद्देशणे - क्रि अ १ सोचना, सकल्प करना । २ प्रयोजन, हेतु रहना । - क्रि स सवोधन करना, लक्ष्य करना, मुखातिव होना ।

उद्देशून - अव्य सवोधित, लक्ष्य करके, मुखातिव होकर ।

उद्देश्य - न १ उद्देश्य, हेतु, मतलब, लक्ष्य, प्रयोजन । २ जिसके विषय में कुछ कहा जाय (व्या) । - वाचक - पु कर्तृ-वाचक, कर्ता को बताने वाला (व्या) ।

उद्धट - वि उद्धत, उजड़, अक्वड, गुस्ताख, अविनीत, ढीठ; वेअदव । - पणा - पु गुस्ताखी, ढिठाई, मगरूरी, लापरवाही, अशिष्टता, वेअदवी ।

उद्धटाई - स्त्री - गुस्ताखी, ढिठाई । २ मगरूरी, घमड, लापरवाही ।

उद्धरण - न १ उद्धरण, ऊपर उठाना, बाहर निकालना । २ उद्धार होना या करना, मुक्ति, रिहाई, छुटकारा । ३ अवतरण, किसी उक्ति या लेख का दूसरी जगह अविकल रखा जाना । ४ मंदिर आदि की मरम्मत, सुधार ।

उद्धरणी - स्त्री उद्धरणी, पढे हुए पाठ को दुहराना, आमोखता ।

उद्धरणें - क्रि स १ उद्धार करना, ऊपर उठना, छुड़ाना, उवारना, रिहा करना, बाहर निकालना (विपत्ति आदि से) । २ मोक्ष, मुक्ति दिलाना या प्रदान करना । ३ कोसना, गालियाँ देना (व्य) । मु. पितर उद्धरणें - माँ बाप को लक्ष्य करके गालियाँ देना ।

उद्धराम्ल - न नमक का तेजाव; 'हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड' ।

उद्धार - पु १ उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा (जन्म-मरण के बधन से) । २ पुनर्जन्म, पुनरन्म्युदय । ३ अवतरण, उद्धरण । मु - करणें - १ उद्धार करना, उवारना । २ गालियाँ देना, खरी - खोटी सुनाना ।

उद्धारक - वि उद्धारक, उद्धार करने वाला ।

उद्धारगत - स्त्री १ मुक्ति, रिहाई, छुटकारा, उद्धार । २ उन्नति, अच्छी स्थिति प्राप्त होना ।

उद्धारणें - द्वे. 'उद्धरणें' ।

उद्धृत - १ उद्धृत, अन्य रचना से (अवतरण रूप में) लिया हुआ । ३ ऊपर उठाया हुआ, उवारा, बचाया हुआ ।

उद्बोधक - वि १ सूचक, द्योतक । २ शिक्षाप्रद, बोधक ।

३ उद्बोधक, जगाने, उठाने वाला उद्दीपक ।

उद्बोधन - न १ उद्बोधन, जगाना, जगाना, चेतना । २ बोध, शिक्षा, सबक । ३ सूचना । ४ ज्ञान, जानकारी ।

उद्भट - वि १. उद्भट, ज्वरदस्त, प्रचंड । २ शूर, साहसी । ३ श्रेष्ठ, असाधारण । ४ द्वे 'उद्घट' ।

उद्भव - पु १. उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश । २ प्रारंभ, आगाज । ३ प्रकट होना, जाहिर होना ।

उद्भवणें - क्रि अ. १ उपजना, उत्पन्न होना, पैदा होना, खडा होना, छिडना (क्षगडा) । २ मन में उठना; सूक्ष्णता । ३ प्रकट होना ।

उद्भावन - न १ उद्भावन, उद्भावना; खयाल, कल्पना करना । २ उत्पादन, उत्पत्ति, जन्म । ३ प्रकट करना । ४ अनास्था, अनवधान, असावधानता ।

उद्भिज; उद्भिज्ज, उद्भिद-न उद्भिज्ज, पेढ-पीधे, वन-स्पति । - वि उद्भिज्ज, उद्भिद, उगने, निकलने वाला ।

उद्भूत - वि १ उद्भूत, उत्पन्न । २ निकला हुआ, प्रकट, व्यक्त ।

उद्यत - वि १ उद्यत, तैयार, आमामादा । २ उगा हुआ, निकला हुआ ।

उद्यम - पु १ उद्योग । २ धधा, कारोवार । ३ परिश्रम, मेहनत । - शील - वि उद्यमी, मेहनती ।

उद्यमी - वि उद्यमी, उद्योगी,

परिश्रमी, मेहनती ।

उद्या - अव्य कल, आने वाले दिन, दूसरे दिन । - पु कल, आने वाला दूसरा दिन । - कडे - अव्य कल, कलतक, आज या कल ।

उद्यान - न उद्यान, बगीचा, उपवन, वाग । - भोजन - न १ उद्यान-गोष्ठी, उद्यान-भोज, २ वन - भोज, 'पिकनिक' ।

उद्यापन - न १ उद्यापन, व्रतादि की समाप्ति, व्रत की समाप्तिपर किया जाने वाला हवन-नादि । २ हानि, आपत्ति, सकट ।

उद्युक्त - वि १ तैयार, आमादा । २ उद्युक्त, काम में लगा हुआ ।

उद्योग - पु १ उद्योग, काम; कार्य । २ धधा, व्यवसाय, 'इंडस्ट्री' । ३ अध्यवसाय, यत्न, परिश्रम । कहा उद्योगाच्या धरों ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी - उद्योग या परिश्रम करने वाले को धन, यश, आदि की प्राप्ति होती है ।

उद्योगी - १. उद्योगी, काम में लगा रहने वाला, परिश्रमी, मेहनती । २ झझट, बखेडा खडा करने वाला ।

उद्रेक - पु १ आकस्मिक प्ररणा, उत्स, सोता, निकलना, फूट पडना, उमग । २ आवेग, टीम, कसक, यत्रणा, मरोड, एठन । ३ उद्रेक, बढती, इफरात ।

उद्वर्तन - न १ उद्वर्तन, उद्वटन लगाना, लेपन, प्रक्षालन । २ उच्चाटन, नौकरी से निकाल देना, पदच्युत करना ।

उद्विग्न - वि उद्विग्न; खिन्न;

परेशान, चिंतित ।

उद्वेग - पु उद्वेग, परेशानी, खिन्नता, चिंता, चित्त की अस्थिरता, क्षोभ ।

उद्वेगणें \* - क्रि अ उद्विग्न, खिन्न, चिंतित, परेशान होना ।

उघई - स्त्री दीमक, एक तरह की सफेद चीटी ।

उघडणें - क्रि अ उघडना, खुलना, टूटना (सीवन, टांका), उखडना, अलग होना । - क्रि स १ उघेडना, खोलना, तोडना, उखाडना; फाडना । २ निकाल देना, भगाना ।

उघवणें - क्रि अ १ उछलना, ऊपर उठना । २ बढना । ३ उत्पन्न होना । ४ फैलना ।

उघळ - स्त्री १ उडाऊपन, फुजूल खर्ची । २ नाहक या फुजूल किया जानेवाला खर्च, बरवादी । - खोर - वि उडाऊ, फुजूलखर्च । - पट्टी - स्त्री उडाऊपन, फुजूल-खर्ची । - माघळ - स्त्री उडाऊपन, बरवादी, फुजूलखर्ची ।

उघळणें - क्रि स १ उडाना, विखेरना, फैलाना । २ भगाना, तितर-बतर कर देना । ३ बहुत अधिक खर्च करना । - क्रि अ १ तितर बितर होना, विखरना । २ डरकर भाग जाना । ३ नष्ट, समाप्त होना । ४ भटकना ।

उघळा, उघळचा - वि उडाऊ, पैसा बरवाद करने वाला, फुजूल खर्च । [होना ।

उघाडणे \* - क्रि अ प्रकट उघाण; उघान - न १ अमावास्या और पूर्णिमा को सागर में आने वाला पूरा ज्वार । २ जोश, उमग, आवेश, मस्तीपर आना । ३ श्रीवृद्धि,

उन्नति, उत्कर्ष ।

उघानणें - क्रि अ १ मस्तीपर आना, कामोत्तेजना में होना । २ ज्वार आना ।

उघार पु १ उघार, नकद पैसा दिये बिना माख पर कोई वस्तु खरीदना या बेचना, इम प्रकार खरीदी या बेची हुई वस्तु । २ बिना व्याज का कर्ज, मंगनी, मांगकर, काम हो जानेपर लौटा देनेका बचन देकर ली हुई चीज । - अव्य उघार । - पाघार - पु उघार का लेनदेन । - बोलणें - न ऊपरी बातें ।

उघारा + - दे 'उताणा' ।

उघारी - स्त्री उघार का व्यवहार, उघार माल बेचना या खरीदना, ऋण; कर्ज ।

उघावणें \* - क्रि अ. १ उत्पन्न, पैदा होना । २ बढना ।

उघ्वस्त - वि १ घ्वस्त, तहस-नहस । २ विखरा हुआ, छिनरा हुआ ।

उनाड - वि १ आवारा, आवारागर्द, स्वेच्छाचारी, बेकार घूमने वाला, भटकता रहने वाला, ऊठल्लू । २ जगली । ३ स्वैरिणी, व्यभिचारिणी । - अव्य मनमाने ढंग से, स्वेच्छया । - चाळा - पु आवारा गर्दी । - मना - स्त्री स्वैरिणी स्त्री ।

उनाडकी - स्त्री आवारागर्दी, बेकार भटकना, निठल्लापन ।

उनाडणें - क्रि अ बेकार घूमना, भटकना, आवारागर्दी करना ।

उन्नत - वि १ उन्नत, उठा हुआ, ऊँचा । २ उच्च, श्रेष्ठ ।

उन्नति - स्त्री १ उन्नति, ऊँचाई । २ बढती, तरक्की,

प्रगति । ३ श्रृंखला, वडप्पन ।

४. उदय । ५ वृद्धि, उत्कर्ष ।

उन्नयन - 'न' १ उन्नयन, ऊपर उठाना । २ उत्थापन, उत्तोलन, उत्कर्ष ।

उन्मत्त - 'वि' १ घमडी, मगरूर, शेखीवाज । २ उन्मत्त, जो नशे में हो, मतवाला, पागल ।

उन्मनी - 'स्त्री' उन्मनी, जागृति, म्दप्न, सुपुष्टि और तुरीया से परे पाँचवी अवस्था, हठ योग की पाँच मुद्राओं में से एक ।

उन्मळणें - 'क्रि' अ १ उखडना, जड - मूल से निकलना । २. दिल भर आना । ३ जी मतलाना । ४ खिलना । - 'क्रि' स उखाडना, जड-मूल से नष्ट करना, जड खोदना ।

उन्माद - 'पु' १ घमड, दर्प, शेखी, मगरूरी, मस्ती । २ उन्माद, पागलपन, सनक । ३ वेहोशी; नशा, कैफ ।

उन्मादक - 'वि' उन्मादक, नशा लाने वाला, उन्मत्त करने वाला ।

उन्मादणें - 'क्रि' अ ऊपर उठना, छलकना ।

उन्मीलन - 'न' १ उन्मीलन, खुलना (आँख का) । २ खिलना, विकसित होना । ३ खोलना, प्रकट, व्यक्त करना ।

उन्मीलित - 'वि' १. उन्मीलित, खिला हुआ । २. खुला हुआ ।

उन्मुख - 'वि' उन्मुख, उद्यत, तैयार, प्रवृत्त, की ओर जाता हुआ (पतनोन्मुख), उत्कठित, उत्सुक ।

उन्मूलन - 'न' उन्मूलन, जड उखाड देना, जड मूल से नाश करना ।

उन्मूळणें\* - 'क्रि' स जड उखाड म हिं श कोश ८

देना, जड मूल से नष्ट करना ।

उन्मेख - 'दे' 'उन्मेप' ।

उन्मेखून<sup>+</sup> - 'अव्य' जानवूझ-कर; इरादतन् । [खुल्लम खुल्ला ।

उन्मेखें\* - 'अव्य' स्पष्टतया,

उन्मेप - 'पु' १ उन्मेप, खुलना (आँख का) । २ खिलना, विकसित होना । ३ बुद्धि का विकास, स्फुरण, ज्ञानप्राप्ति । ४ ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश । ५ दीप्ति, चमक, तेज । ६ प्रकटता । - लता - 'स्त्री' ज्ञानलता ।

उन्ह - 'दे' 'ऊन्ह' ।

उन्हवणी - 'स्त्री' १ गरम पानी । २ घूप में गरम किया हुआ पानी ।

उन्हातान्हात, उन्हातान्हाचा - 'अव्य' कडी घूप में, ऐन दोपहर को ।

उन्हाळणें<sup>+</sup> - 'क्रि' अ १ घूप से तकलीफ होना । २ घूप से फटना (लकड़ी आदि) । ३ गरमी के कारण पेशाब की एक बीमारी होना । -

उन्हाळा - 'पु' १ ग्रीष्म, ग्रीष्म-काल, गरमी का मौसम । २ गरमी, ऊमम । ३. बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना (एक रोग) । ४ अभाव, कमी, नाश । ५ यतीमी, अनाथता, मातृपितृहीनता । मु.- फरणें - उजाड देना, नष्ट, बरबाद करना ।

उन्हाळी - 'स्त्री' १ गरमी, ऊसम, गर्म हवा । २ एक मूत्र रोग जिसमें बार-बार पेशाब करने की इच्छा होती है । ३ जगली तिल का पीषा । - पावसाळी - 'स्त्री' सिकके या ठीकरे को उछालकर किसी बात का फैसला करना, चितपट, 'टाँस' ।

उन्हाळें - 'न' गर्म सोता या झरना ।

उन्हाळे - 'पु' बहु एक मूत्ररोग, (दे 'उन्हाळा') ।

उप - 'उप' एक उपसर्ग, यह शब्दों के पूर्व आ कर अधिकता (उप परावर्ष), अनुगमन (उपदेश), समीपता (उपनयन), आरभ (उपक्रम), सामर्थ्य (उपकार), छुटाई, गौणता (उपमन्त्री, उप-पुराण), आदर (उपचर्या), साम्य (उपघातु), अत, नाश (उपरति), स्वीकार (उपाकर्म) आदि का द्योतन करता है ।

उपकस - 'पु' छोटा कोष्ठक, 'ब्रैकेट', कोष्ठक के अदर का कोष्ठक ।

उपकरण - 'न' १ उपकरण, साधन, औजार । २ सामग्री, यत्र । ३ पूजा के बर्तन । ४ राजाओं के छत्र, चँवर आदि । ५ वैज्ञानिक यन्त्रादि सामान, 'ऐपैरेटस' । [करना, सेवा करना ।

उपकरणें\* - 'क्रि' अ उपकार

उपकर्ता - 'वि' उपकर्ता, उपकार करने वाला ।

उपकार - 'पु' १ उपकार, भलाई, सहायता, एहसान । २ कृपा, दया, मेहरवानी । ३. हित, कल्याण, लाभ । मु - मानणें, - स्मरणें - उपकार मानना, एहसान मानना, कृतज्ञता - प्रकाश करना ।

उपकारक - 'वि' १ उपकारक, भलाई करने वाला, सहायक । २ लाभदायक, अनुकूल ।

उपकारी - 'वि' १ उपकारी, उपकार करने वाला, उपकारक । २ लाभदायक । ३ आभारी, एहसानमद, कृतज्ञ ।

उपकृत - 'वि' उपकृत, जिसका उपकार किया गया हो, एहसान-मद ।

उपक्रम - पु १ उपक्रम, प्रारम्भ, आरम्भ। २. प्रवेश। ३. सदमर्भ। ४ कार्य, उद्योग, व्यवसाय।

उपक्रमणें\* - क्रि स उपक्रम, आरम्भ करना।

उपखड - न उपमहाद्वीप।

उपखणें\* - क्रि अ १ नाश होना, क्षय, खर्च होना। २ व्यर्थ होना।

उपखा\* - स्त्री १ उपेक्षा, त्रुटि। २ खड, खडित होना। - पु १ श्रम, मेहनत। २ क्षय, नाश, खर्च। ३ निवास, वस्ती।

उपगणें+ - दे 'उबगणें'।

उपग्रह - पु उपग्रह, छोटा ग्रह, 'सैटेलाइट'।

उपचार - पु १ उपचार, इलाज, चिकित्सा। २ प्रयत्न, उपाय, श्रम। ३ विधान, पूजा-नुष्ठान, पूजा के अंग या द्रव्य। ४ शिष्टाचार, दिखाऊ, रस्मी व्यवहार, तकल्लुफ। ५ गौरव, आदर - सत्कार, सेवा, आव-भगत। ६ रूढि, रिवाज, प्रथा। ७ सामग्री, साधन।

उपधारिक नाम - न उपनाम, गौणनाम, पुकारने का नाम।

उपज - पु १ उपज, उत्पत्ति, पैदावार। २ आय, प्राप्ति, मुनाफ़ा। ३ गाने में कोई नवीनता पैदा करना, नयी तान लगाना, लेना (सगीत)। ४ सूझ, नयी बात निकालना।

उपजणें - क्रि अ १ उपजना, उत्पन्न होना। २ जन्म लेना, पैदा होना। ३ उगना, निकलना। ४ मिलना, प्राप्त होना।

उपजत - वि स्वाभाविक, जन्मगत, जन्म से प्राप्त, पैदाइशी। - ध्व्य जन्म से, जन्मत,

जन्मना।

उपजविणें - क्रि स उपजाना, उत्पन्न करना, जन्म देना, पैदा करना। [ ज़रखेज।

उपजाऊ - वि उपजाऊ,

उपजाति - स्त्री १. उपजाति, इद्रवज्जा शौर उपेंद्रवज्जा के मेल से बनने वाला एक वर्णवृत्त। २. उपजाति, किसी बड़ी जाति के अत-र्गत छोटी जाति।

उपजीविका - स्त्री १ निर्वाह, गुजारा। २ उपजीविका, रोजी, आजीविका, जीविका, जीविका-साधन। ३ आश्रय, आधार, भरण-पोषण।

उपज्ञा - स्त्री उपज्ञा, अत-करण में अपने आप उपजा हुआ, अनुपदिष्ट ज्ञान, आद्य ज्ञान।

उपट - स्त्री १ अन्न की समृद्धि। २ ऊव, जी भर जाना। ३. सिर उठाना, पुनस्त्यान। ४ ऊपर उठना, उछाल, उछलना। मु-खणें- १ पलटी खाना, फिरसे आना या बढना। २ दोबारा धावा बोलना। ३ उछलना।

उपटणें - क्रि स १ उखा-डना, गडी, जमी, वैठायी हुई चीज को उसकी जगह से हटा देना। २. कपट से छीन लेना, उडाना, चुराना। ३ पछाडकर, पटककर मारना। - क्रि अ १ उखडना, जडसे निकलना, बाहर आना। २. प्रकट होना, टपक पडना। ३ शुरू होना। ४ उछलना। ५ नाराज, क्रुद्ध होना, वरस पडना।

उपटसुव्या; उपटसुभ - वि १ आवारा, उठल्लू, निठल्ला, निकम्मा, बेकार। २ अस्थायी, बाहरी। ३ जिसने अधिकार न रहते हुए किमी स्थानपर कब्ज़ा

किया हो, पाखडी, छद्मवेपी, दगुला भगत, रंगा सियार, झूठा दावेदार। ४ अनव्याहा, अवि-वाहित।

उपटसूळ - वि १ आकस्मिक, क्रमरहित, बेसिलसिला, बेतरतीब। २ झगडालू; छिछोरा, आवारा-गर्द, हस्तक्षेप करने वाला। ३ दे 'उपटसुभ'। - पु. मूंगफली की एक किस्म जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। मु.-खाद्यावर घेणें-वेव-कूपी से झझट मोल लेना। कहा -घे खाद्यावर - आ दला, गले पड।

उपटा - पु घोखा देकर पैसा हासिल करना, ठगना, कोई चीज छीनकर, उठाकर भाग जाना। - उपट, उपटी - स्त्री उठाईगीरी, उचक्कापन।

उपटी\* - स्त्री प्रहार, आघात।

उपटचा - वि उचक्का, उठाई-गीरा, जेवकतरा। [ 'उपटणे'।

उपडणें - क्रि अ स दे

उपडा - वि औंधा, जिसका मुंह नीचे की ओर हो, उलटा, नीचा। - तांग्या - पु औंधा लोटा, स्त्री के रजस्वला होने का द्योतक। कहा. उपड्या घागरीवर पाणी व बहिन्याजवळ कहाणी - औंधे घडे पर पानी डालना और बहरे को कहानी सुनाना बेकार है।

उपणणी - स्त्री ओसाई, मांडे हुए अनाज को हवा में उडाकर दाने को भूसे आदि से अलग करने का काम।

उपणणें - क्रि स ओसाना, मांडे हुए अनाज को हवा में उडाकर दाने को भूसे आदि से अलग करना। \* - क्रि अ उत्पन्न होना।

उपतिष्ठणें\* - क्रि स १ मन-पर अकित होना, असर, प्रभाव

पडना । २ उपस्थित होना । ३ प्राप्त होना, फल मिलना ।

उपदेश-पु उपदेश, आतशक, गरमी की बीमारी । [ अतर्दिशा ।

उपदिशा - स्त्री उपदिशा, उपदिष्ट - वि । १ उपदिष्ट, उपदेश किया हुआ, सिखाया हुआ । २ जिसे उपदेश किया गया हो, दीक्षाप्राप्त । - न सिखाया हुआ ज्ञान, उपदेश किया हुआ मंत्र ।

उपदेव - पु, उपदेवता - स्त्री उपदेव, उपदेवता, गौण-देवता, छोटा देवता (यक्ष, गवर्ष आदि) ।

उपदेश - ष १ उपदेश, शिक्षा, सीख । २ नसीहत, नेक सलाह, परामर्श । ३ गुरुमंत्र, दीक्षा ।

उपदेशक - वि पु उपदेशक, उपदेश करने वाला, सीख देने वाला, वाइज, नासेह, 'प्रीचर' ।

उपदेशणें, उपदेशिणें - क्रि स उपदेश, शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, मंत्र देना ।

उपद्रव - पु १ तकलीफ, कष्ट, पीडा । २ उत्पात, ऊधम, दगा-फसाद, गडबड, झमेला । ३ रोग, बीमारी । ४ प्रेतवाधा, भूतावेश । मु०-वेणें - सताना, परेशान, तग करना ।

उपद्रवी, उपद्रवीक - वि १ उपद्रवी, उपद्रव करने वाला, उत्पाती, परेशान, तग करने वाला ।

उपद्वीप - न प्रायद्वीप, छोटा द्वीप ।

उपद्व्याप - पु १ झझट, झमेला, तकलीफ । २ अत्यधिक कष्ट, परिश्रम । ३ बला, आफत ४ शरारत, ऊधम ।

उपद्व्यापी - वि १ शरारती,

ऊधमी, नटखट । २. मेहनती, परिश्रमी ।

उपनगर - न उपनगर, शाखा-नगर, मुफत्सल, 'सर्व' ।

उपनणें \* - क्रि अ १ जन्म लेना, उत्पन्न, पैदा होना । २ गिरना, टूट पडना । दे 'उपणणें' ।

उपनयन - न १ उपनयन, यज्ञोपवीत सस्कार । २ पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना ।

उपनाव, उपनाम - न १ अल्ल, वश, कुल या गोत्र का नाम । २ उपनाम, गौणनाम, पुकारने का नाम । ३ लेख-कविता आदि में व्यवहृत नाम, तखल्लुस ।

उपनियम - पु उपनियम, उप-विधि, 'वाइ लॉ' । [ ऐनक ।

उपनेत्र - पु बहु चश्मा, उपन्यास - पु १ भूमिका, प्रस्तावना, आरभ, प्राक्कथन ।

२ सामने रखना, पेश करना, प्रतिपादन, स्पष्टीकरण करना, भूमिका वाँचना । [ जार ।

उपपत्ति - पु उपपत्ति, यार,

उपपत्ति - स्त्री १ प्रमाण, कार्य-कारण-भाव, सपर्क, सबध । २ उपपत्ति, सिद्धात, युक्ति, तर्क, प्रमेयसिद्धि, प्रतिपादन, सिद्धि में युक्तिप्रमाण देना । ३ समाधान, सिद्ध वात । ४ स्पष्टीकरण, विवेचन । ५ साधन, सामग्री । ६ अनुभव, प्रतीति । [ रखेली ।

उपपत्नी - स्त्री उपपत्नी,

उपपद - न १ उपपद, पहले कहा, आया हुआ शब्द । २ समास का पहला शब्द । ३ उपाधि, पदवी । ४ अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त 'ए', 'ऐन' और 'दि' शब्द (व्या) -तत्पुरुष, -पु उपपद समास, कृदत के साथ हुआ नाम (सज्ञा) का

समास (कुभकार, गृहस्य आदि) - धारी-वि उपाधिधारी । -समास-पु शब्द की द्विरावृत्ति करके या कोई अन्य शब्द लेकर बनाया जाने वाला समास (उदा चिट्ठीपत्री, कामवाम) ।

उपपादणें\* - क्रि स १ उप-पादन, प्रतिपादन करना, युक्ति देकर सिद्ध करना । २ पेश करना, सिखाना, विवेचन करना ।

उपप्रश्न - पु उपप्रश्न, गौण प्रश्न, प्रश्न के अदर या सदर्थ में पैदा या उपस्थित होने वाला प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न ।

उपभोक्ता - पु १. उपभोक्ता, उपभोग, खपत करने वाला, ग्राहक, बरतने वाला, इस्तेमाल करने वाला । २ अनुभव करने वाला, अपने अनुभव से जानने वाला ।

उपभोग-१ उपभोग, भोगना, सुख, स्वाद लेना । २ अनुभव । ३ विषय-सुख, समोग, रति । ४ माल की खपत ।

उपभोगणें - क्रि स १ उप-भोगना, सुख, स्वाद लेना, बरतना, व्यवहार, इस्तेमाल करना । २ अनुभव करना । ३ समोग, स्त्री-सहवास करना ।

उपभोग्य - वि उपभोग्य, भोगने योग्य, उपभोज्य । - वस्तु - स्त्री उपभोज्य सामग्री, खपत की चीज । [ निंदा, मानहानि ।

उपमर्द - पु उपमर्द, अपमान, उपमर्दणें - क्रि स १ अप-मान करना, मानहानि करना । २ दवाना, मसलना, रगडना । ३ सताना, तग करना, कुचलना ।

उपमा - स्त्री १. उपमा, तशा-वीह । २ दृष्टात, मिसाल, उदा-हरण, तुलना । ३ सादृश्य,

समानता ।

उपमाता - स्त्री १ उपमाता, धाय । २ सौतेली माँ । ३ मातृ-तुल्य सवोधिनी - मीसी, चाची आदि ।

उपमान - न १ उपमान, वह वस्तु जिमसे किसीकी तुलना की जाय । २ सादृश्य, साम्यानुमान, 'अनालाँजी' ।

उपमीजणें\* - क्रि स उपमा देना; सदृश, समान, ममझना, तुलना करना ।

उपमेय - न उपमेय, वह वस्तु जिसकी किसीसे तुलना की जाय ।

उपयुक्त - वि उपयुक्त, उप-योगी, काम का, कारआमद, ठीक, मौजूं, योग्य, अनुकूल, लाभदायक ।

उपयोग - पु १ उपयोग, प्रयोग, सेवन, व्यवहार, वर्तवि, इस्तेमाल । २ उद्देश्य, प्रयोजन, लाभ, फायदा, मतलब, काम । ३ आवश्यकता, जरूरत ।

उपयोगी - वि १ उपयोगी, उपयुक्त, काम का, कारआमद, लाभजनक । २ जरूरी, आवश्यक ।

उपयोजणें, उपयोजिणें - क्रि अ. स उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल करना, काम में लाना ।

उपर\* - अव्य १. वाद में, अनंतर, पीछे, उपरात । २ ऊपर । ३ वावजूद । - पु श्रेष्ठता, प्रभुत्व, तरजीह, फज्रीलत ।

उपरणे - न उपरना, दुपट्टा, उत्तरीय, चादर । मु - झाड़ून निघणे - वि सवध तोडकर चले जाना, नाराज होकर चले जाना ।

उपरता - वि अव्य १ उलटा, विपरीत । २ ऊपरी, ऊपर का ।

उपरति - स्त्री १ उपरति,

विराग, विषय-भोग मे विरक्ति, उदासीनता । २ रुकना, बंद होना । ३ पछतावा, पश्चात्ताप ।

उपरदवडा\* - पु १ लोभ, लालच । २ अधिकार, सत्ता, प्रभुत्व ।

उपरमणे\* - क्रि अ १ रुकना, बंद होना । २ खुश, आनंदित होना, तरोताजा होना । ३ आराम करना, मुस्ताना । ४ मरना, देहात होना ।

उपरात - अव्य १ उपरात, अनंतर, वाद । २ अलावा, वावजूद ।

उपरा - वि १ बाहरी, पराया, अनधिकारी । २ अनभिजात, छिछोरा, आवारा ।

उपराउपरी - अव्य तुरत, शीघ्र, झटसे, फौरन ।

उपराठा - दे 'उफराठा' ।

उपराळा - पु १ दोनो तरफ के बोज को बराबर करने के लिए ( पशु की पीठपर ) एक ओर डाला जाने वाला ( लकड़ी आदि का ) भार । २ आवश्यकता से अधिक सामग्री या सामान । ३ अधिकता, प्रावत्य, श्रेष्ठता । ४ खरीदे हुए मालपर अधिक मिलने वाला मुफ्त का माल । ५ क्षतिपूर्ति । ६ आरोग्य, डलजाम, तोहमत । ७ बखेडा, शरारत । ८ मदत, सहायता ।

उपरि - अव्य १ ऊपर । २ उपरात, वाद । ३ अलावा ।

उपरी - वि १ अस्थायी निवासी, अपना मकान या खेत न हो । दे 'उपरा' । २ काश्त-कार, असामी, पट्टेदार । ३ ऊपरी, ऊपरका, उच्च, प्रधान । - अव्य उपरात, वाद, आगे

चलकर । - स्त्री अटारी, बाला-खाना, कोठा । - पु टीला ।

उपरोध - पु १ व्याजोक्ति, छलपूर्ण वात, व्यग्य, ताना । २ उपरोध, रोक, बाधा । ३. सकोच, शका । ४ आग्रह, हठ ।

उपरोधक, उपरोधिक, उपरोधी - वि. व्यग्यपूर्ण, व्यग्यात्मक, बक्रोक्तिपूर्ण, तजिया, ताना - आमेज ।

उपलक्षण - न १. उपलक्षण, बोधक चिह्न, विशेष लक्षण, पहचान, मकेत । २ शब्द की वह शक्ति जिमसे निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त उस तरह की और वस्तुओं का भी बोध हो ।

उपलब्ध - वि १ उपलब्ध, मयम्सर, हासिल, मिला हुआ, प्राप्त । २ ज्ञात ।

उपलाण, उपलाणा - वि वह (घोडा) जिसपर खोगीर या जीन न हो । [पराया ।

उपलाणी - वि ऊपरी, बाहरी, उपवक्ता - वि गीण वक्ता, प्रधान वक्ता के वाद भाषण देने वाला । [उद्यान ।

उपवन - न उपवन, बगीचा, उपवर - वि १ विवाह के योग्य, परिणय, सयानी, परिणया । २ ऋतुप्राप्ता । ३. सभोगक्षम ।

उपवहन्न - न १ उत्तरीय, दुपट्टा, उपरना । २ रखेली ।

उपवास - पु उपवाम, फाका, उपोषण; लघन, भोजन का त्याग या अप्राप्ति, व्रतरूप में भोजन का त्याग ।

उपवासी - वि १ उपवामी, उपवाम करने वाला । २. दे 'उपाशी' ।

उपशम - पु १ उपशम, शांत

होना । २ तृष्णा, वामना का नाश, इद्रियनिग्रह । ३ विश्रान्ति, निवृत्ति ।

उपशमणें - क्रि अ १ शांत होना । २ नाश होना ।

उपशीर्षक - न उपशीर्षक, छोटा शीर्षक, 'सर्वहेडिंग' ।

उपसपादक - पु उपसपादक, सहायक सपादक, 'सर्व-एडिटर' ।

उपसहरणें\* - क्रि अ १ शांत होना । २ समाप्त, खत्म होना । ३ नाश होना ।

उपसहार - पु १ उपसहार, समाप्ति । २ समेटना, बटोरना, साराश, निचोड़ । ३ लेख आदि के अंत में दिया जाने वाला खुलासा, साराश, पुस्तक का अंतिम अध्याय ।

उपसर्ग - क्रि स १ बाहर निकालना । २ उलीचना ।

उपसमिति - स्त्री उपसमिति, छोटी समिति, 'सर्व-कमिटी' ।

उपसर्ग - पु १ उपसर्ग, उपपद, वह अव्यय जो धातु या धातु से बने नाम (सज्ञा) के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है । २ तकलीफ, पीडा, भौतिक या दैवी उपद्रव । ३ मृत्युमूचक चिह्न ।

उपसर्वे\* - अव्य पास, निकट ।

उपसळा - वि शरारती, नटखट ।

उपसा - पु उत्सारण, निकास, जलोत्सारण, जल-निष्कासन ।

उपसागर - पु उपसागर, उप-समुद्र, चौड़े मुँहकी खाड़ी, छोटा सागर ।

उपसावणें, उपसाहणें - क्रि स महना, बर्दाश्त करना, क्षमा, माफ करना । [तरमीम ।

३ माजित, साफ, जो मैला न हुआ हो ।

उपस्थिति - स्त्री १ उपस्थिति, हाजिरी, विद्यमानता, मौजूदगी । २ याद, स्मरणशक्ति ।

उपहार - पु १ उपाहार, जल-पान, नाश्ता । २ उपहार, भेंट, सौगात ।

उपहास - पु उपहास, खिल्ली, निंदासूचक, बनानेवाली हँसी, मजाक ।

उपहासास्पद - वि उपहासा-स्पद, उपहास्य, हँसने, खिल्ली उड़ाने योग्य, हास्यास्पद; मजाकिया, बेतुका, बेढगा, बे-सिरपैरका ।

उपहृदये\* - क्रि अ नींद से जागना, जाग उठना ।

उपल - पु उपल, पत्थर ।

उपल, उपलण - स्त्री १ अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि से स्थान । स्थान-पर सोते फूट निकलना । २ दे 'घुपणी' । ३ जोर के साथ निकलना, फूट पडना । [सारिवा ।

उपलसरी - स्त्री अनतमूल, उपाग - न १ उपाग, छोटा अग, अग का विभाग । २ पूरक, सहायक वस्तु ।

उपात्य - वि उपात्य, अत के पास का, आखिरी से पहले का, अपात्य, 'सेमी फाइनल' ।

उपाइणें\* - क्रि अ १ आरंभ होना, शुरू होना । २ उत्पन्न होना । ३ मिलना, प्राप्त होना । - क्रि स १ शुरू करना । २ विस्तार करना, फैलाना ।

उपाइलें\* - वि १ उत्कृष्ट, बढ़िया, प्रिय । २ बडा, विगाल ।

उपाओ\* - पु उपाय, इलाज, उपचार ।

उपाख्यान - न उपाख्यान, बडी कहानी के अंदर की छोटी कथा या कहानी ।

उपाट - अव्य लवालव, मुँह या किनारे तक (भरा हुआ) ।

उपाडा\* - पु पराभव, हार, शिकस्त ।

उपादान - न १ उपादान, ग्रहण, स्वीकार । २ प्राप्ति । ३ कारण, वह द्रव्य जिससे कोई वस्तु बने। - कारण - न उपादान कारण, समवायी कारण ।

उपादेय - वि उपादेय, ग्रहण करने योग्य, प्रशस्त, उत्कृष्ट ।

उपाघ\* - स्त्री उपाधि, पीडा, झंझट ।

उपाघपण - न १ उपाध्याय का काम, पुरोहिताई । २ पुरोहित को मिली हुई भूमि, वेतन आदि ।

उपाधि - स्त्री १ झंझट, तकलीफ, कष्ट । २ प्रयोजन, निमित्त । ३ उपाधि, पदवी । ३ विशेष लक्षण, अवच्छेदक गुणवर्म, चिह्न । ४ ससार, माया । ५ विचार, विकार । ६ आदोलन, चेष्टा ।

उपाध्यक्ष - पु उपाध्यक्ष, उपसभापति, 'डिप्टीस्पीकर, 'डिप्टीचेयरमैन' ।

उपाध्या - पु दे १ 'उपाध्याय' । २ लुच्चा, शोहदा, उचक्का, चाँदियाँ । मु - भेदणे - चोरी हो जाना ।

उपाध्याय - पु १ उपाध्याय, पुरोहित, पाधा, धार्मिक कृत्य करने वाला । २ शिक्षक, अध्यापक, वेद-वेदांग पढने वाला ।

उपाध्येपण - न , उपाध्येपणा - पु पुरोहिताई, पुरोहिती, पुरोहित का पेशा ।



उपाय - पु १ उपाय, युक्ति, तदवीर, इलाज । २ शत्रुपर विजय प्राप्त करने की चार युक्तियों - साम, दाम भेद और दड-में से कोई । मु उपायों में - १ पिछली टांगों के बल खड़ा होना, अलफ होना । २ झगड़े या मारपीट पर उतारू होना, चरम सीमा तक पहुँच जाना ।

उपायन - न १ उपायन, भेंट, उपहार, सौगात । २ वायन, वायन, वैना ।

उपाजन - न उपाजन, कमाना, हासिल, प्राप्त करना ।

उपाजित - वि उपाजित, कमाया हुआ, बटोरा हुआ ।

उपाव, उपावो\* - दे 'उपाय' ।

उपाशी - वि १ भूखा, क्षुधित । २ उपासा, निराहार । - अव्य भूखा, खाली पेट । - तापाशी - वि भूखा । - पोटी - अव्य भूखा, खाली पेट, दिना कुछ खाये-पिये ।

उपास - पु उपवास, उपोषण, लघन, फाका । - तापास - पु शरीर-दड, शरीर को कष्ट देना ।

उपासक - वि पु उपासक, उपासना करने वाला, आराधक, भक्त ।

उपासणें - क्रि स उपासक, आराधना, प्रार्थना, पूजा, भक्ति करना । [ आराधना, भक्ति ।

उपासना - स्त्री उपासना, मेवा, उपासमार - स्त्री १ मुखमरी, फाकाकशी, भूखी मरने की स्थिति । २ मानसिक या आध्यात्मिक अभाव का अनुभव करना ।

उपासी - वि १ उपासा, जिसने उपास किया हो, निराहार । २ दे. 'उपाशी' ।

उपास्य - न वह देवता जिसकी उपासना, आराधना की जाती हो, पूजा, आराधना करने या किये जाने योग्य । - दैवत - न १ उपास्य, पूजनीय देवता । २ पूज्य व्यक्ति ।

उपाहार - पु उपाहार, जलपान, नाश्ता । [ एक छद ।

उपेंद्रवज्रा - स्त्री उपेंद्रवज्रा, उपेक्षणीय - वि उपेक्षणीय, उपेक्षा करने योग्य, नगण्य, तुच्छ ।

उपेक्षणें - क्रि स १ उपेक्षा करना, ध्यान न देना, लापरवाही करना । २ त्यागना, छोड़ देना ।

उपेक्षा - स्त्री १ उपेक्षा, उदासीनता, ध्यान न देना अवहेलना, लापरवाही । २ त्याग ।

उपेक्षिणें - दे 'उपेक्षणे' उपेक्षित - वि १ उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गयी हो । २ त्यक्त, जिसका त्याग किया गया हो । [ उपेक्षा करना ।

उपेखणे\* - क्रि अ उपेखना, उपेण\* - पु उपयोग; प्रयोजन ।

उपेणी\* - स्त्री १ वस्ती, निवास, निवासस्थान । २ पास जाना, आना ।

उपोद्घात - पु १ उपोद्घात, आरम्भ । २ प्रस्तावना, भूमिका । ३ उदाहरण, दृष्टांत । ४ विश्लेषण, स्पष्टीकरण ।

उपोषण - न उपोषण, फाका, उपवास, लघन ।

उपर - अव्य ऊपर, उपरात, वावजूद । - माडी - स्त्री १ ऊपरी मञ्जिल, दूसरा तल्ला । २ दो मञ्जिला मकान । [ अनतर, बाद ।

उप्रात\* - अव्य उपरात, उफणणे - क्रि स दे 'उपणणे' । - क्रि अ १ तेजी से

बढ़ना, ऊपर आना । २ निकलना - (फुत्सियाँ आदि) । ३ मडना, गलना । ४ फूलना ।

उफराटणें - क्रि अ १ उलटना, पलटना, आँधा होना । २ आँखें उलट जाना, आँखें पथराना ।

उफराटा - वि अव्य १ विपरीत । २ गलत । - सुफराटा - वि उलटा-सीवा, अडवड । उफराटी बाहुली - स्त्री बहुत ही कम दिखाई देना, घुंघुं । उफराटघा काळजाचा - वि निर्दय, निष्ठुर, क्रूर, जालिम; कृतघ्न ।

उफळणें - क्रि अ १ जोर के साथ ऊपर आना, उफनना, उछलना, फूट निकलना; जोश खाना, सीवा उडना छूटना । २ हल में जमीन का तोड़ा जाना ।

उफाडा - पु १ जोर, आवेग, तेजी । २ उभार, उठान ।

उफाड्याचा - वि १ शीघ्र बढ़ने वाला या बढ़ता हुआ, जोरदार । २ हट्टाकट्टा, हट्टपुष्ट, मोटाताजा । ३ उभारदार ।

उफाळ - वि अधिक; अतिरिक्त, फाजिल । - पु १ उफान, उवाल । २ ऊपर उठना, फूट निकलना, जोश खाना । ३ शेष, बाकी, वृद्धि ।

उफाळणें - क्रि अ १ दे 'उफळणे' ; 'उपणणे' । २ उवलना, जोश खाना । ३ फूलना । ४ जोतना, हल चलाना । ५ दौडना, भागना ।

उफाळा - दे 'उफाळ' ।

उबग - पु १ ऊब, ऊबने का भाव, नफरत, अरुचि; घिन, उकताना । २ ओकाई, ओक, उवकाई, मिचली ।

उबगणें - क्रि अ ऊबना,

उकता जाना, घवराना, जी मच-  
लना । - क्रि स १ उपेक्षा  
करना, नफरत, घृणा करना ।  
२. छोड़ना, त्यागना । ३. खोजना,  
पहचानना ।

उबजरणें + - क्रि अ. खोयी  
हुई शक्ति का फिर से प्राप्त होना,  
नया उत्साह आना, लहलहाना,  
फिर से स्वास्थ्यलाभ करना ।

उबजळणें + - क्रि अ  
ऊवना, उकता जाना । [ ताहट ।

उबजळा + - यु. ऊव, उक-  
उबट - वि १ [ क 'उब्वे' ]  
कुनकुना, थोड़ा गरम । २. वदवू-  
दार, सडियल, सडायेंघ वाला ।

उबटणें - क्रि अ [ क 'उब्वे' ]  
१ सडना, गलना, वदवू निक-  
लना । २. पकने से पहले सड  
जाना ।

उबटाळण \* - खी १ वदवू,  
सडायेंघ । २. गर्म, सीले और वद  
स्थान में पैदा होने वाली वदवू ।

उबडणें + - क्रि अ १  
उत्पन्न, पैदा होना । २. प्रकाश-  
मान होना, उजाला होना ।

उबडा - दे 'उपडा' ।

उबणें - क्रि अ [ क 'उब्वे' ]  
१ गरम होना, ऊमस होना । २.  
दम घुटना । ३. परेझान होना ।  
४. गरमी और नमी के कारण  
सहना । ५. पकना । मु. उबत  
ठेवणें - १ पकाने के लिए गरम  
स्थान में रखना । २. रख छोड़ना ।

उबदार - वि १ गर्म, गरम ।  
२. ऊनी (कपडा) ।

उबवणें, उबविणें - क्रि स  
[ क 'उब्वे' ] १ गरम करना,  
गरमी पहुँचाना । २. पालमें रखना  
(फल आदि), पकाना । ३. सेना,  
मादा चिडियाका गर्मी पहुँचानेको

अडो पर बैठना । ४. दम घोटना ।

उबळ - खी [ क 'उब्वळ' ]  
१ ढाँस, गले या श्वासनाली  
में होने वाली सुरसुराहट, खाँसी  
या दमेका दौरा, खाँसनेकी इच्छा ।  
२. प्रवल इच्छा ।

उबळणें - क्रि अ अत्यधिक  
गरमी के कारण सड जाना । २.  
गर्मपात होना, गर्म का गिर जाना ।

उबारणें - क्रि स १ सेना  
(अडे) । २. पकाना (फल) । ३.  
दे 'उभारणे' ।

उबारा - यु. [ क 'उब्वे' ] १  
गरमी, ऊमस । २. धन, सपत्ति,  
माल, जायदाद । ३. पराक्रम,  
तेज । ४. आश्चर्य, आघार;  
सहारा ।

उबारा \* - यु [ क 'उब्वर' ]  
आविक्य, अविकता, समृद्धि ।

उवाल, उबाला - दे 'उबाल' ।

उवावणें - क्रि अ [ ' क  
उब्वे' ] १ गरमी, ऊमस होना ।  
२. गरमीकी अविकता से सड  
जाना ।

उबाल - दे 'उवळ' ।

उबालणें - क्रि अ १ उव-  
लना, सीझना, पकना, गलना ।  
२. गरमी के कारण सड जाना ।

उबाला - यु. [ क 'उब्वे',  
हि 'उवाल' ] १ उवाल,  
उफान, जोश । २. दे 'उभाळा' ।

उबेजणें, उबेणें\* - क्रि अ  
ऊमस होना, गरम होना ।

उबो + - वि १ खडा । २.  
खडा तिलक करने वाला अर्थात्  
वैष्णव । [ 'उभड' ]

उभड - दे 'उभट',

उभउभ्या - दे 'उभाउभी' ।

उभजणे\* - क्रि अ ऊवना,  
परेझान होना, पछताना ।

उभट - वि १ खडा, सीधा ।  
२. लवा - सा, कुछ ऊँचा, लवो-  
तरा । ३. खुला, स्पष्ट ।

उभड - यु. १ आवेग, आवेश,  
जोश । २. ऊपर से नीचे उछलकर  
आनेवाला प्रवाह, पानी का रेला ।

उभडणें \* - क्रि अ १  
उत्पन्न, पैदा होना । २. उभडना,  
ऊपर उठना, बढ़ना ।

उभणें - क्रि अ १ खडा  
होना, वनाया जाना । २. रुकना,  
कम होना । - क्रि स दे  
'उभविणें' ।

उभय - वि उभय, दोनो, दो  
में से प्रत्येक । - कुल - न दोनों  
खान्दान, समुराल और मायका ।

-पक्षीं - अव्य. दोनो तरफ से,  
दोनो ओर से । - मुखी - वि खी  
उभयतो मुखी, व्याती हुई (गाय)  
- विधी - वि उभयविध, दोनो  
प्रकार का ।

उभयत. - अव्य उभयत,  
दोनो ओर से, दोनो प्रकार से । -  
वि दे 'उभयता' ।

उभयता - वि दो, दोनो ।

उभयत्र - अव्य. दोनो ओर,  
दोनो ओर से ।

उभयान्वयी - वि दोनो को  
जोड़नेवाला, दोनो तरफ का,  
दोनो पक्षो से सर्वंघ या निष्ठा  
रखनेवाला । - अव्य न समु-  
च्चय - अव्यय, समुच्चयवोवक  
अव्यय ।

उभयान्वित - वि १ दोनो ओर  
से जुडा हुआ, दोनो पक्षो से  
सबद्ध । २. दे 'उभयान्वयी' ।

उभयार्थ - वि १ उभयार्थ,  
द्व्यर्थी । २. अस्पष्ट, अनिश्चित ।

उभराउभरी \* - खी १ भीड,  
भीडभडका । २. पक्ति, कतार ।

उमला - पु., उमलें - न दह-  
लीज, देहली । [अगो का कसाव ।

उमवट - स्त्री गठन, वनावट,  
उमवणी - स्त्री १ रचना,  
निर्माण, खडा करना, बनाना ।  
२ मुक्ति, छुटकारा । ३ उत्थान,  
बल-वैभव की वृद्धि । दे 'उभा-  
रणी' ।

उभवणे - क्रि अ १ खडा  
होना, स्थापित होना । २ ऊपर  
उठना, आना, स्वास्थ्य लाभ  
करना । ३ बढ़ना, रकना । -  
क्रि स दे 'उमविणें' ।

उमविणें - क्रि स १ खडा  
करना, बनाना, स्थापित करना ।  
२ रोकना । ३ स्थानपर रखना ।  
४ उधेडना, विखेरना ।

उभा - वि १ खडा, जो आडा  
या झुका न हो, लवरूप, सीधा  
ऊपर को उठा हुआ, जो वैठान  
हो । २ सीधा । ३ स्थिर, ठहरा,  
रका हुआ । ४ चलता हुआ, लगा-  
तार चलने वाला । ५ तैयार, उप-  
स्थित । ६ जो काटा न गया हो,  
खेत में मौजूद ( उभें पीकखडी  
फसल ) । ७ सतत चलने वाला,  
पक्का, तीव्र । ८ समूचा, सावित,  
संपूर्ण । ९ प्रतीक्षा में ठहरा हुआ ।  
-दावा - पु. जानी दुश्मनी, हमेशा  
का वैर । -दौरा - पु. लगर,  
कच्ची सिलाई । -पहारा - पु. १  
सजग, खडा पहरा, बडी जाग-  
रुकता के साथ दिया जाने वाला  
पहरा । २ सतत खडा रहना,  
विश्राम न मिलना । - बाजार -  
१ समूचा बाजार, सारी पैठ । २.  
पैठ या बाजार का मध्यभाग । -  
मार्ग - पु. १ राजपथ, राजमार्ग ।  
२ सीधा रास्ता । ३ समूचा रास्ता ।  
४. सीधा व्यवहार । - माल - पु.

तैयार माल, खडी फसल । - सोट  
वि विलकुल सीधा और खडा ।  
मु - करणें - १ खडा करना,  
बनाना । २. रोकना । ३ बढ़  
करना । ४ गाडना । ५ चुनाव में  
उम्मीदवार बनाना । - धरणें -  
१ कडे अनुगासनमें रखना ।  
२ सताना । - ठाकणे -  
आ वमकना, अचानक  
उपस्थित होना । - राहणें - १.  
रकना । २ खडा होना । ३ मदद  
में आ जाना । ४ मिलना, वसूल,  
प्राप्त होना । ५ उपस्थित होना,  
सामने आना । ६ उत्पन्न, पैदा  
होना । ७ अनुकूल होना ।

उभाउमी - अव्य खडे-खडे,  
जल्दी, तुरत, थोडी देर के लिए ।

उभाड, उभाड्याचा - दे  
'उफाड्याचा' ।

उभार - स्त्री १ उभार, उठान ।  
२. कुछ ऊँचा या लवा आकार ।  
३ रचना, निर्माण । - पु. १  
उत्साह । २ गर्व; धमड । - वि  
१ उभारदार, उभरा हुआ । २  
सीधा, खडा । ३ गदरा, गदराया  
हुआ ।

उभारणी - स्त्री १ रचना,  
निर्माण, वनावट, गठन,  
विस्तार, फैलाव । २ खडा करना,  
होना ।

उभारणें - क्रि स १ खडा  
करना, बनाना, रचना, निर्माण  
करना । २ ऊपर उठाना, आगे  
वढाना । ३ चलाना, शुरू करना ।  
-क्रि अ. १ खडा होना, सीधा  
होना । २ ऊपर उठना, निक-  
लना, उत्पन्न होना ।

उभारा - पु. १ दे 'उभा-  
रणी' । २ स्थिति, अस्तित्व । ३  
गठन । ४ गीदड भवकी, दिखाऊ

वमकी । ५ ठाठ, शान, दिखावा ।  
६ फैलाव, विस्तार, प्रसार ।

उभारा-पु. १ इच्छा, प्रवृत्ति,  
उमग । २ उत्साह । दे 'उभारी' ।  
उभारी - स्त्री उत्साह, जोर,  
जोश ।

उभावणें - दे 'उमविणें' ।  
उभों\* - अव्य. जल्दी - जल्दी,  
खडे - खडे ।

उभी - वि स्त्री खडी, सीवी ।  
- चाकरी - स्त्री ऐसी नौकरी  
जिसमें बहुत तकलीफ हो । -  
चढण - स्त्री खडी चढाई । -  
चतुर्यी, - चौय - स्त्री कृष्णपक्ष  
की चतुर्यी, मकट ( ष्ट ) चतुर्यी ।  
- दुपार - स्त्री ऐन दुपहरी ।  
- पैठ - स्त्री दे 'उभा बाजार' ।  
- रास - स्त्री १ विना नाप-तौल  
का अनाज का ढेर । २ कुल  
जायदाद ।

उभें - न १ दे 'उभारणी' ।  
२ किसी तरह लपेटी हुई साडी  
( स्त्रि ) । - काम - न ज़रूरी  
काम । - पीक - न खडी फसल ।  
- वैर - न दे 'उभा दावा' ।  
मु - घेणे, - नेसणे, - लावणे,  
- लावून घेणें - स्नान से पहले  
किमी तरह साडी लपेट लेना ।

उभ्यांउभ्या - अव्य खडे -  
खडे, जल्दी, तुरत, थोडी देर के  
लिए ।

उभ्या जन्मांत - अव्य सारी  
जिंदगी में, सारे, पूरे जीवन में ।

उभ्याणें - अव्य १ खडे -  
खडे, खडा रहते हुए । २ गर्व,  
धमड के साथ ।

उमडणें\* - क्रि अ १ उत्पन्न  
होना । २ मिलना । दे 'उमटणे' ।

उमग - पु. १ ज्ञान, जान-  
कारी, बोध, पता । २ समझ ।

उमगाणें—क्रि अ दिखाई देना, ज्ञात, मालूम होना, मिलना, पता चलना ।—क्रि स १ खोजना, ढूँढना, २ पहचानना, पाना, जानना, समझना ।

उमज—पु स्त्री १ समझ, ज्ञान, अक्ल, बौध । २ आकलन—क्षमता, ग्रहणशीलता, समझने का गुण, सामर्थ्य । मु—पहणें—समझ में आना ।

उमजणें—क्रि अ १ जान पडना, समझ में, ध्यान में आना, समझना, बूझना, मालूम होना । २ स्वास्थलाभ करना । ३ जागना, होश में आना ।

उमजोक—वि १ समझदार, झट समझ जाने वाला । २ होशियार, चतुर ।

उमट—पु स्त्री १ पता, जानकारी, निश्चित ज्ञान । २ छाप, छापा, निशान, ठप्पा । ३ दे 'उवळ' ।

उमटणें—क्रि अ १ अकित होना, निशान, ठप्पा, मुहर लगना, छपना । २ दिखाई देना, स्पष्ट, साफ, प्रकट होना । ३ उभरना, ऊपर उठना । ४ उत्पन्न, पैदा होना, बाहर आना, निकलना । ५ मुनाई देना, गूँजना ।

उमदा—वि [अ 'उम्द'] १ उम्दा, बढ़िया, श्रेष्ठ, मुदर, उदार, विग्वसनीय । २ शूर, पराक्रमी ।

उमप—दे 'उमाप' ।

उमर—स्त्री [अ 'उम्र'] उम्र, वयस, अवस्था, आयु ।

उमरठा, उमरा—दे 'उवरा' ।

उमराव—पु [अ 'अमीर'] का बहु 'उमरा' उमरा, घनिक, सरदार, सामंत, दरवारी ।—जादा

—पु अमीरजादा, घनिक-पुत्र । [स्त्री 'उमरावजादी' ।]

उमलणें—क्रि अ १ खिलना, विकसित होना, चटकना । २ फटना, तडकना, दरार पडना । ३ फूलना । ४ प्रसन्न, प्रफुल्ल, खुश होना । ५ प्रकट, उत्पन्न होना ।—क्रि स खोलना, ढीला करना ।

उमस—पु १ साँस, दम (फूलना) । २ विश्राम, स्वास्थ्य । ३ उत्साह, स्फूर्ति । ४ दे 'उमज' ।

उमसणे\*—क्रि स बताना, खोलना, प्रकट करना ।—क्रि अ प्रकट, ज्ञात, मालूम होना ।

उमळ—स्त्री १ मतली, मिचकली, कै, ओकाई । २ दे 'उमाळा' । ३ दे 'उपळ' ।

उमळणें—क्रि अ १ उखडना, जह मूल से निकलना । २ गर्भ का गिरना । ३ जी मिचलाना, मतली आना । ४ दे 'उमलणें' ।

उमाठा—पु १ टीला, पहाडी । २. पहाडकी चोटी या सिरा । ३ क्षितिज । ४ द्वार, दहलीज । ५ ख्याति, कुख्याति, बदनामी । उमाडा +—पु दे 'उमाळा' । 'उवळ' ।

उमाणाणें—क्रि स १ मापना, तौलना, नापना । २ हिसाब करना, लगाना । ३ जाँचना, तुलना करना ।

उमाणा—पु १ नाप, माप । २ दे 'उखाणा' ।

उमानणे—दे 'उमाणणे' ।

उमाप—वि अमाप, अपरिमित, बहुत अधिक, बेहद ।

उमास, उमासा—पु १ मतली, मिचली, ओकाई । २ दे 'उमाळा', 'उवळ' । ३

श्वास, साँस, आह, उच्छ्वास । ४ आराम, विश्राम । ५ बेहोशी, चक्कर ।

उमाळ+—वि अव्य प्रचुर मात्रा में, अमाप, अत्यधिक, बेहद ।

उमाळा—पु १ कै, मतली, मचली, वमन का उसवाम । २ सिसकी । ३ आवेग, प्रबल मनोवेग, अत प्रेरणा, झोक, लहर, जोश, उमग । ४ उवाल-उछाल, ५ छुटकारा, मुक्ति । ६ प्रवाह, रेला, सोता, उद्गम । ७ हमला, धावा । ८ जोर, प्रभाव । ९ ज्वाला, लपट, ली ।

उमेठा\*—पु समुदाय, समूह, भीड, मेला ।—वि १ सामूहिक । २ बहुत अधिक ।

उमेद—स्त्री [फा 'उम्मीद'] १ उम्मीद, आशा; आम । २ भरोसा, सहारा, आसरा । ३ विश्वास, यकीन । ४ हिम्मत, धीरज, वैर्य, उत्साह । ५ जवानी, यौवन ।—वार—वि पु १ उम्मीदवार, इच्छुक, नौकरी या पद-विशेष का प्रार्थी, चुनाव के लिए खडा होने वाला । २ साहसी, धीर । ३ परीक्षार्थी । ४ शिक्षु, प्रशिक्षु, नौकरी की आशा से बिना वेतन काम करने वाला, यागिर्द, 'अप्रेंटिस' । ५ नौसिखुवा । ६ जवान, बालिग, पूरी तरह विकसित ।—वारी स्त्री १ आशा, विश्राम, यकीन, हिम्मत । २ जवानी । ३ उम्मीदवारी, अभ्यर्थिता । ३ उम्मीदवार बनकर की जाने वाली नौकरी, शिक्षुता, प्रशिक्षुता, 'अप्रेंटिसी' ।

उमेदी—स्त्री [फा 'उम्मीद'] जवानी का नशा, मस्ती । मु—स

येणें - १ मस्तीपर, जवानीपर आना। २ श्रीवृद्धि होना। ३ बहारपर आना, होना।

उमोप - दे 'उमाप'।

उम्मस - पु. १ विश्राम, आराम। २ दे 'उमास'।

उम्हळणें, उम्हाळा - दे 'उमळणें', 'उमाळा'।

उरक - पु. १. कार्यक्षमता, किसी काम को जल्दी या उचित समय में पूरा करने की सामर्थ्य, योग्यता, कुशलता, ढंग। २ उत्साह, जोश। ३ उत्कर्ष।

उरकणें - क्रि स १ पूरा, समाप्त करना, पार करना। - क्रि अ १ पूरा होना, पार पाना। २ मरना।

उरका - दे 'उरक'।

उरकाउरक - श्री १ जल्दी से किसी काम को पूरा करना। २ दे 'आवराआवर'।

उरणें - क्रि अ १ वचना, शेष रहना। २ अत्रिक, ज्यादा होना, बढना। ३ समभव होना, पुसाना, पूरा पडना।

उरता - श्री १. शेष, बाकी, अवशेष, वकाया। २ सकोच; शील, मुरीवत। ३ बहाना, सबव। मु - करणें - वकाया रखना; अशत चुकाना। - न धरणें - १ मर्यादा का पालन न करना। २. सकोच न करना। ३ प्रतीक्षा न करना।

उरफाटा - दे 'उफराटा'।

उरफोड - श्री अत्याधिक परिश्रम, शरीरक्लेश, माथापच्ची, मेहनत।

उरमट, उरमठ - दे 'उर्मट'।

उरलासुरला - वि वचाखुचा, शेष।

उरवणें, उरविणें - क्रि स वचाना, वाकी रखना, खर्च न करना, अलग रखना।

उरवळी - श्री चॅंगेरी, छोटी टोकरी जिसमें चावल आदि डालकर बोते हैं।

उरस्फोड - श्री १ अत्यधिक परिश्रम, माथापच्ची, तनदिही, जी जान से कोई काम करना। २. गिडगिडाहट। मु - करून घणें - १ बहुत अधिक परिश्रम करना, जान तोड कर काम करना। २ वार-वार कहना, लाख कहना।

उराउरी - अव्य १ छाती से छाती लगाकर। २ अट, तुरत, फौरन। मु - भेटणे - छाती से लगाना, गले लगाना।

उरी \* - श्री शेष, वाकी, वकाया। २ आश्रय, आवार, सहारा। ३ सकोच, लिहाज, मुरीवत। ४ खैर, निवाह, टिक सकना। ५ इच्छा; हेतु।

उरूस - पु. [अ 'उर्म'] १ उर्स, किसी मुसलमान मावू - महात्मा की निघन-तिथि को मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव। २ व्याह का खाना।

उरोगामी - वि पु १. रोगने वाला, पेट या छाती के बल चलने, सरकने वाला प्राणी (साँप आदि)। २ ऐसे प्राणियों का वर्ग।

उरोज - पु. उरोज; स्तन, कुच।

उरोध - दे. 'उपरोव'।

उरोमुरो - वि वचाखुचा (स्त्रि)। [उरोमुरो बाळापोटी दूव जिरो = वचाखुचा दूध मेरे वच्चे के पेट में हज्रम हो जाय।] - न गवन, अपहरण, अपहार।

उरोळी - श्री १ खेतकी

सीमा वताने वाळा मिट्टी का बेरा; मॅट, डांड। २ चॅंगेरी।

उर्फ - अव्य न [अ. 'उर्फ'] उपनाम, अधिक प्रचलित या प्रसिद्ध नाम।

उर्मट - वि उद्धत, गुस्ताख, उजड्ड, अक्खड, उदड, असम्य, अशिष्ट, वेअदव। - पणा - पु उजड्डपन, गुस्ताखी, वेअदवी, उदडता, अशिष्टता।

उर्मी - श्री ऊर्मि, लहर, तरंग, मनोवेग। [वचा हुआ।

उर्वरित - वि शेष, वाकी, उलडणे - क्रि अ १ डुलकना, लुडकना, गिरना। २ उखडना, जडमूल मे उखडना। ३ छलकना। ४ लवालव भरना। ५ लेटना। - क्रि स १ उडेलना उडेलना, ढालना, गिराना। २ छोडना, त्यागना। ३ लाँघना।

उलगडणें - क्रि स १ खोलना सुलझाना। २ उवेडना, बिखेरना, अलग करना। ३ पूरा करना, हल करना, उलक्षण, पेचीदगी दूर करना। ४ फैलाना। - क्रि अ १. खुलना, सुलझना। २ अलग होना, बिखरना। ३ पूरा, खत्म होना। ४ फैलना।

उलगडा - पु. १ खुलना, स्पष्ट, जाहिर होना; स्पष्टीकरण, सफाई। २ हिमाव का चुकता हो जाना। ३ निर्णय, व्यवस्था, फैसला, अत। ४ छुटकारा, मुक्ति।

उलगणें - क्रि अ. पूरा होना, समाप्त, खत्म होना, उठ जाना। - क्रि स १ खोलना, खाली करना। २ खत्म, समाप्त, पूरा करना।

उलघाल - श्री १ वचनी,

असतोप, उद्विग्नता, घबराहट, परेशानी। २ झझट, तिकडम-बाजी, छल योजना, चालाकी।

उलट - पु. स्त्री १ लौट, पलटा, लौटना, उलटना, पलटना, घुमाव। २ भाटा, उतार। ३ पुनरुत्थान, फिरसे उठ खड़ा होना। ४ पुनरागमन, फिरसे आना। ५ मुकरना, कही हुई बात से हटना। ६ त्याग। ७ वमन, कै, उलटी। ८ वापस देना, लेना, फेरना। - वि उलटा, विपरीत, औघा, विरुद्ध, वरअक्स। - अव्य - उलटे, विपरीत, वरअक्स। - उत्तर - न १ प्रत्युत्तर, जवाब, उत्तर का उत्तर। २ गुस्ताखी से बोलना, बढ़बढ़कर वाते करना। - तपासणी - स्त्री १. जिरह, प्रतिपृच्छा। २ पुनर्निरीक्षण, फिर मे जाँचना। - पालट - स्त्री दे 'उलटापालट'। - पुलट - स्त्री उलट-पुलट, उलट-पलट, अदल-वदल, गडवड। - भेट - स्त्री अपनी मुलाकात के लिए आये हुए व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर जाना, प्रतिभेंट। - सुलट - वि उलटा-सीधा, सही-गलत, अच्छा-बुरा।

उलटणें - क्रि अ १ उलटना, सीधे का औघा होना। २ पलटना, पलटा खाना, घूमना, मुडना। ३ फिरसे सिर उठाना, टूट पडना। ४ खत्म होना। ५ बदल जाना। ६ कै होना। - क्रि स १ उलटना, नीचे का ऊपर कर देना। २ पलटना। ३ दुहराना। ४ पूरा, खत्म करना। ५ खोलना, हल करना। ६ फेरना, बदल देना।

उलटा - वि १ उलटा, औघा, विपरीत। २ वे ठीक, बढगा,

विरुद्ध, वरअक्स। - अव्य. उलटा, उलटे, विपरीत, वरअक्स। - पु तोड, जवाब, कुजी। - पहारा - पु. उलटा जमाना, अघेर का काल। - पालट - स्त्री उलटपुलट, उलटा-पलटी, अदल-वदल, परिवर्तन, तब्दीली, हेरफेर। - पालटा - वि १ परिवर्तित, औघा, क्रमविरुद्ध, विपरीतक्रम। २ उलटा-सीधा, उलटा-पलटा, अडवड, बेसिर-पैर का।

उलटी - स्त्री १ उलटी, कै, वमन। २ उलटी गति, प्रत्यावर्तन। ३. कुलॉट, कलावाजी, ढेंकली, कलैया। ४ वचनभग, वादाशिकनी। - अवारी - स्त्री भीख की झोली। (मु० उलटघा अवारीत बसणें - कगाल बनना।) - उडी - स्त्री कुलॉट, कलावाजी। - दुनिया - स्त्री अराजकता, अव्यवस्था, उलटा जमाना। - पूजा - स्त्री अपमान, मानहानि। - बाहुली - स्त्री १ आँख का एक दोप, पास का दिखाई न देना। २ सब कुछ उलटा दिखाई देना। - सुलटी, - सुलटी हजामत - स्त्री १ वालो की उलटी दिशा में की जाने वाली हजामत। २ खरी खरी सुनाना, उलटी - सीधी सुनाना, डाँट पिलाना।

उलटून - अव्य. १ उलटकर, पलटकर। २ गुस्ताखी से, बे-अदबी से।

उलटें - वि दे 'उलट', 'उलटा', 'उलटी'। - दर्शन - न दे 'परत भेट'। - शहाणपण - न मूर्खता, बेवकूफी से भरी सलाह।

उलणे - क्रि अ. १ फटना, दरकना, चिरना, कटना। २.

सोता फूट निकलना, उमडना, गदगद होना।

उलथ - स्त्री दे 'उलथी'। - वि १ स्पष्ट। दे 'उलथा'। - पु. स्त्री किसी गाँव या पहाड़ी का दूर का हिस्सा, सिरा।

उलथणो - स्त्री दे 'उलथ', 'उलथी'।

उलथणें - न १ डोई, कलछी, करोनी, चपटा, बडा चम्मच, खुरचनी। २ चमार का एक औजार जिससे जूते की नोक ठीक की जाती है।

उलथणें - क्रि अ १ उलटना, सीधे का औघा या औघे का सीधा होना, एक से दूसरे रख होना, उलटा हो जाना। २ लौटना, पलटना। ३ अचानक मर जाना। ४ उठना, जागना। ५ चले जाना, मुँह काला करना। - क्रि स १ उलटना, नीचे का ऊपर कर देना, चित्त करना। २ फेरना, अदर का हिस्सा वाहर करना। ३ पूरा करना, अच्छा प्रबध करना। ४ ऊपर-नीचे करना, उलटना-पलटना। ५ उत्पन्न, पैदा करना। ६ फिर से करना। ७ ढूँढना, खोजना।

उलथा - वि चित्त, जिमका मुँह - पेट ऊपर की ओर हो, सीधा। पु - १ दे 'उलथणे' - न। २ छाप, सस्कार। ३ विपरीत स्थिति, वात। - पालथा - वि उलट - पुलट, सीधा, परिवर्तित, ऊपर-नीचे किया हुआ।

उलथापालथ - स्त्री परिवर्तन, तब्दीली, उलट-पुलट, अदला-वदल, गडवड, अस्तव्यस्तता।

उलथी - स्त्री १ परिवर्तन, उलटपुलट, परिवर्तन। २ कुलॉट,

कलावाजी ।

उलपा, उलफा - पु [ अ 'उलूफ' ] १ सीधा, भोजन की कच्ची सामग्री जो ब्राह्मण आदि को दानरूप में दी जाय । २ खुराक, भोजन, खाद्य पदार्थ ।

उलसा - वि थोडा - सा, जरा-सा ।

उलाडणें\* - क्रि स लांघना, उस पार जाना ।

उलाघाल - स्त्री दे 'उल-घाल', 'उलाढाल' ।

उलाघाल्या - दे 'उलाढाल्या' ।

उलाट - पु उलटी, वमन, कै । २ कुदान, छलांग ।

उलाटयत्र - न तोप ।

उलाड - वि उलार, पीछे की ओर ( अतिक बोझ से ) झुका हुआ ।

उलाढाल - स्त्री १ उथल - पुथल, बडा परिवर्तन, क्रांति, उलट-पलट, उलट - फेर । २ झझट, झमेला । ३ कारोवार, लेनदेन ।

उलाढाल्या - वि १ उथल-पुथल, आदोलन, झझट, झमेला खडा करने वाला, चलता-पुरजा । २ बहुत परिश्रम, कोशिश करने वाला ।

उलाळ\* - पु जोर की आवाज । - अव्य ऊपर, ऊंचा । न छलांग, कुदान, फलांग ।

उलाळणें\* - क्रि अ कूदना, उछलना ।

उल्लिग; उल्लिगें\* - न [ क 'ऊल्लिग' ] १ नियमित रूप में किया जाने वाला काम, सेवा, नौकरी । २ वेगार । - वि नियमित, नियत ।

उल्लिगवाडी\* - स्त्री [ क

'उल्लि' ] चोरी, डकैती ।

उल्लिगी\* - पु [ क 'उल्लिग' ] नौकर, मेवक ।

उल्लिसा, उल्लुसा - वि थोडा-सा, जरा-सा, नन्हा-मा ।

उल्लू, उल्लूक - पु उल्लूक, उल्लू पक्षी, धुग्धू । [ ओखली ।

उल्लूखल - न उल्लूखल, उलेमा - पु [ अ 'उल्लमा' ]

उल्लमा, 'आलिम' का बहु, आलिम लोग, विद्वज्जन ।

उल्लका - स्त्री १ उल्लका गन में आकाश में टूटकर गिरने वाला प्रकाशमय पिंड या तारा । २ दे 'पल्लिता' । - पात - पु १ उल्लका-पान, आकाश में जलते पिंड का टूटकर गिरना । २ अनर्थ, सकट ।

उल्लवण, उल्लवाण - न १ उल्लवण, उल्लवण, वात - पित्तादि का अत्यधिक क्षोभ । २ अनर्थ, सकट, आपत्ति ।

उल्लघ, उल्लघन - न १ उल्लघन, लांघना, नांघना, पार करना । २ अतिक्रमण, विरुद्धाचरण, नियम-भंग ।

उल्लंघणें - क्रि स १ लांघना; डांक जाना, पार करना । २ मर्यादा का त्याग या उल्लघन करना, विरुद्धाचरण करना, (आजा, नियम आदि को) तोडना ।

उल्लसणें - क्रि अ १ उल्लसित होना, खुश होना । २ चमकना, जगमगाना, प्रकट होना ।

उल्लसित - वि उल्लसित, हर्षयुक्त, मुदिन ।

उल्लास - पु १ उल्लास, तृप, आह्लाद । शौक, रुचि, दिलचस्पी, उत्साह । कहा आधींच उल्लास त्यांत फाल्गुन मास - पहले ही गाली-गलौज का शौक, तिम पर आयी

होली । [ होना, खुश होना ।

उल्लामणें - क्रि अ उल्लसित उल्लासी - वि उल्लामयुक्त, उत्साही, प्रसन्न, खुशमिजाज ।

उल्लाळ; उल्लाळा\* - पु १ कुदान, छलांग । २ ऊर्मि, लहर, तरंग । ३ आनंद, उत्साह ।

उल्लाळणें\* - क्रि अ १ कूदना, उछलना, नाचना । २ खुश होना । - क्रि स लगाना, लेप करना, पोतना, चुपटना ।

उल्लिग - वि नगा, नग्न ।

उल्लू - न उल्लू, उल्लूक, धुग्धू । - वि १ उल्लू, मूर्ख, नाममज्ञ, पागल । २. मनवाला, नशे में चूर । ३ उतावला, बेमन्न । - पणा - पु. मूर्खता, बेवकूफी । - भाई मशालजी; - मशालजी - वि उतावला, बेमन्न, पागल । मु. - वनणें - पागल हो जाना, मूर्ख बनना ।

उल्लेख - पु १ उल्लेख, जिक्र, चर्चा । २ निर्देश, संकेत, समावेश ।

उल्लाटयत्र, उल्लास, उल्लासणें; उल्लासी, उल्लाळ - दे 'उलाटयत्र', 'उल्लाम', 'उल्लासणें', 'उल्लासी', 'उल्लाळ' ।

उवणें\* - क्रि अ उगना, उत्पन्न, पैदा होना । [ हुआ ।

उवला - वि जूंओ से भरा उवळ<sup>+</sup> - वि जिसमें अच्छा वल (एँठन, मरोड) न हो, ढीला ।

उवळणें<sup>+</sup> - क्रि अ वल, एँठन, मरोड खुलना, ढीला होना । २ गरमी के कारण पकने से पहले सडने लगना । ३ पिघलना, सोता, झरना फूट निकलना ।

उवाइणें\* - क्रि अ १ प्रसन्न, खुश होना । २ शांत होना । ३

विस्तारके साथ बताना । ४ प्रस्था-  
पना करना ।

उवाइला\* - पु अभिप्राय, मत-  
लव; कहना ।-वि बड़ा, विगाल,  
विस्तृत ।

उवाय, उवाव - पु १ आनद,  
उत्साह, सुख । २ उत्कर्ष,  
विकास, विस्तार । ३ सामर्थ्य ।

उवेडा, उवेढा - पु १ घेरा उठा  
देना । २ खोल देना ।

उशागति - स्त्री सिरहाना,  
उसीसा, खाट का वह हिस्सा जिधर  
सिर रहता है । २ खेत या मैदान  
का उभरा हुआ सिरा । [वाली पर ।

उशागतीं - अव्य मिरहाने,  
उशिटणें\* - क्रि अ जूठा  
होना ।-क्रि स. जुठारना, जुठा-  
लना, जूठा कर देना ।

उशिता\* - वि जूठा, उच्छिष्ट ।  
उशिरा - अव्य. देरी से, देर  
में, विलव करके ।

उशिशी - दे 'उशी' ।

उशी - स्त्री १ तकिया,  
उसीस । २ उसीसा, सिरहाना ।  
- म. उशापायतीं असणें, उभें  
राहणें - १ सदैव पास में रहना ।  
२ रक्षा करना, सेवा में तत्पर  
रहना । ३ सताना, परेशान  
करना ।

उशी - स्त्री उछाल ।

उशीर - पु १ विलव, देर,  
देरी । २ अवेर, अतिकाल । ३  
अवधि, जमाना, समय, वक्त ।

उशमा<sup>†</sup> - स्त्री १ पृच्छा,  
पूछना, प्रश्न, प्रत्युत्तर । २ माँग,  
याचना ।-पु १ विश्राम । २  
मांस, उसांस ।

उशाप; उशपा-दे 'उ शाप' ।

उश्वास - पु १ दे 'उच्छ-  
वास' २ उसांस, आह ।

उष'काल - पु उप काल,  
भोर, तडका ।

उष पान - न उप पान, हठ-  
योग की एक क्रिया जिसमें तडके  
नाक से पानी खीचकर मुँह से  
निकालते या पीते हैं ।

उषा - स्त्री १ ऊषा, भोर,  
तडका । २ भोर का उजाला या  
लाली ।

उष्टणें<sup>†</sup> - क्रि स अलग  
करना, छुड़ाना, बाहर निकालना,  
खोलना, उघेडना ।

उष्टर - पु [स 'उष्ट्र', फा  
'उस्तुर'] उष्ट्र, ऊँट ।-खाना -  
पु उष्ट्रशाला, ऊँटों का बाड़ा या  
सेना-विभाग ।

उष्टवण - दे 'उष्टावण' ।

उष्टवणी - न जूठा पानी,  
वह पानी जिसमें जूठे वर्तन धोये  
जाते हैं, वासी, गदा पानी ।

उष्टा - वि जूठा, उच्छिष्ट,  
खाने से बचा, खाकर छोड़ा  
हुआ । २ परित्यक्त । ३ जिसके  
मुँह में जूठन लगी हो । ४ काम में  
लाया हुआ, इस्तेमाल किया  
हुआ, जिसका प्रयोग औरों द्वारा  
पहले किया जा चुका हो ।

- नवरा - पु दे 'विजवर' ।  
- माष्टा - वि जूठा और गदा ।  
कहा उष्टधा हातानें फावळा न  
हाकणें - जूठे हाथ से कुत्ता न  
मारना, पक्का मक्खीचूस होना ।

उष्टावण - न १ चटावन,  
अन्नप्राशन -संस्कार; बच्चों को  
पहली बार अन्न खिलाने या चटाने  
की रस्म । २ जूठन खाना ।

उष्टावणें - क्रि स जुठा-  
रना, जुठालना; जूठा कर देना,  
जूठा करके छोड़ देना ।-क्रि अ  
छूत लग जाना, जूठा होना ।

उष्टावण - स्त्री जूठन,  
खाकर छोड़ा हुआ भोजन,  
उच्छिष्ट ।

उष्टी - वि स्त्री जूठी ।  
- कल्पना - स्त्री दूसरों द्वारा  
पहले ही निकाली हुई बात,  
कल्पना ।- पत्रावळ - स्त्री जूठी  
पत्तल, ऐसी स्त्री जिसका उपभोग  
अनेक पुरुषोंद्वारा किया गया हो,  
व्यभिचारिणी, वेश्या ।- हळद -  
स्त्री विवाह में कन्या को लगाने के  
वाद बची हलदी जो वर के शरीर  
में मली जाती है ।

उष्टें - न १ जूठन, खाकर  
छोड़ा हुआ भोजन । २ जूठा  
वर्तन या पत्तल ।- खरकटें -  
न जूठन, जूठे वर्तन । मु - ०  
करणें - चौका - वरतन करना,  
भोजन के बाद जूठे वरतन आदि  
उठाकर उस स्थान को गोबर या  
मिट्टी से लीपकर साफ करना ।

उष्ण - वि १ गरम, तप्त,  
तपा हुआ, जो ठंडा न हुआ हो ।  
२ क्रोधी, गुस्सैल, गुस्सावर । ३  
तीखा, तीक्ष्ण, जिसमें बहुत  
अधिक मिर्च पडी हो । ४ गरम  
तासीरवाला ।- न १ घूप,  
गरमी । २ दाह, जलन ।  
- फटिवघ - पु उष्ट कटिवघ,  
पृथ्वी का कर्क और मकर रेखाओं  
के बीच का, अधिक गरम, भाग ।  
- वीर्य - वि उष्ण - वीर्य,  
गरम तामीर वाला ।

उष्णता - स्त्री उष्णता,  
गरमी ।- गतिशास्त्र - न  
उष्मागतिकी, तापगतिविज्ञान ।  
'थर्मो ड्राइनेमिक्स' । उष्णतेचें  
यात्रिकसममूल्य - न उष्मा  
का यात्रिकीय तुल्याक, 'मेकॅ-  
निकल इक्विवॅलेंट ऑफ हीट' ।



- जन्यविद्युत् - छी तापविद्युत्,  
'थर्मो इलेक्ट्रिसिटी'। - द्रव -  
न 'कैलोरिक फ्लुइड'। - मान -  
न तापमान, तापमात्रा, दर्जा  
हगरत, 'टॅपरेचर'। - मापक -  
न उष्णता - मापक यंत्र, उष्मा-  
मापी, 'कैलोरी मीटर'। - यंत्र -  
न उष्मा इंजन, 'हीट इंजिन'।  
- वहन - न तापमवहन, ताप-  
मंवाहन, 'कंडक्शन'। - विसर्जन  
- न विकिरण, 'रेडिएशन'।

उष्णावणें - क्रि अ गरम  
होना। [पगटी।

उष्णीय - न उष्णीय, साफा,  
उष्मा - पु १ उष्णता, गरमी।  
२ कमस।

उसंग\* - छी उत्सग, गोद।  
उसत - छी १ फुरसत, अव-  
काश, खाली वक्त। २ आराम,  
विश्राम।

उसंतणें - क्रि अ. स १  
आराम करना, सुप्ताना। २  
रुकना। ३ आश्रय, सहारा लेना।  
३ आक्रमण, उल्लंघन करना। ५  
दूर करना। ६ पूरा करना

उस - अव्य दुख, पीडा आदि  
का मूचक उद्गार, हाय, आह,  
उफ, हा।

उसकटणें - क्रि स १ विखे-  
रेना, तितर-वितर करना, फेंकना,  
अस्तव्यस्त कर देना। २ खोलना,  
ठखाडना, उघेडना। - क्रि अ.  
खुलना, उखटना, उघटना।

उसकटाउसकट - छी अव्य-  
वस्था, तितर-वितर-कर देना,  
खराबी, तोड-फोड।

उसकणें\* - क्रि स तितर-  
वितर कर देना, विखेरना,  
फलाना।

उसण - छी कसक, टीस, साल,

हूक। मु० - भरणें - कसकना,  
टीसना, सालना।

उसण, उसणवार, उसणवारी,  
उसणा, उसणें - दे 'उमना',  
'उसनवार', 'उमनवारी',  
'उसना', 'उसणें'।

उसणाघाई\* - अव्य. आमने-  
सामने खडे होकर, ईंट का जवाब  
पत्यर से देकर, कुछ शेष न रखते  
हुए।

उसनयट, उसनवार, उसनवारी  
- वि उवार का, मँगनी का,  
माँगकर लाया हुआ। - अव्य  
उघार, माँगकर।

उसनवट, उसनवाटी - छी  
उवार, कर्ज, मँगनी। - वि उघार  
लिया हुआ, माँगकर लाया हुआ।

उसना - वि १. मँगनी का,  
उघार, उघार का, माँगकर, काम  
हो जानेपर लौटा देने का वचन  
देकर लाया हुआ। २ कर्ज का।  
३ दिखावटी, दिखाऊ। ४  
लापरवाह।

उसणें - न १ उघार। २  
प्रतिशोध, बदला। - पासणें - न  
उघार, मँगनी की चीज। - अव-  
सान - गौदड भभकी। मु० -  
उगधिणें; - घणें, - फेडणें - प्रतिशोध,  
बदला लेना।

उसपण; उसपणी - छी १  
वाहर निकालना, उलीचना,  
२ खाली करना। ३ खुला करना,  
खीचना (म्यान से तलवार आदि)।

उसपणें - क्रि स १ वाहर  
निकालना, उलीचना, निकाल कर  
वाहर फेंकना। २ खीचना।

उसपाउसपी - छी एकदम जोर  
से वाहर निकालना, खीचना।

उसपाभर - छी १ उलीचना  
और भरना, निकालना और

डालना। २ नाहक का झमेला;  
झंझट, मायापञ्ची।

उसर, उसरी\* - छी १. मुखायी  
हुई तरकारी, अमहर, अमचूर।  
२ कृश, दुबला-पतला शरीर। -  
मु० - करणें - मुगाना, लापरवाही  
ने या तकलीफ देकर दुबला-पतला  
बनाना। [वणी।

उसवण - दे 'उसण', 'उस-  
उसवणी - छी उघेड, उघेडना,  
उघाटना, अलग करना, तोडना  
(सीवन, टाँका आदि)।

उसवणें, उसविणें - क्रि स  
१ उघेडना, उघाडना, खोलना,  
तोडना, अलग करना। २. छतपर  
की घाम निकाल डालना। - क्रि अ  
उघडना, खुलना, उघडना। - कहां  
उसवल्यास दौरा घालना येतो, पण  
निसवल्यास उपाय काय? - सीवन  
उघडी हो तो गिलाई की जा सकती  
है पर कपडे के धागे निकले हो तो  
क्या किया जा सकता है? , निर्लज्ज  
व्यक्तिपर उपदेश का प्रभाव नहीं  
पडता।

उसवास\* - दे 'उच्छ्वास'।  
उससणें\* - क्रि अ १ साँम  
छोडना, आह भरना। २ बढन,  
उत्पन्न होना, प्रकट होना।

उसळ - छी धुंधनी, धुधरी;  
धुधुरी, चने, मूंग, मटर आदि  
का माग।

उसळणी - छी १ ज्वारी की  
रोटी के लिए आटा गूँघते समय  
उममें डाला जाने वाला उबलता  
हुआ पानी। २ दे 'उमळणे',  
'उमळी'।

उसळणें - क्रि अ १ उछलना,  
तेजी के नीचे मे ऊपर उठना। २  
उझकना, कूदना। ३ गुम्मे मे  
उबल पडना, आपे से वाहर हो

जाना। ४ तेजी से बढ़ना। ५ अचानक ऊपर या बाहर आ जाना। ६ गेंद आदि का जमीनपर टिप्पा खाकर एकवारगी उछलना। ७ उवलना, जोश खाना।

उसळी - स्त्री १ उछाल। २ किसी बघन से झटके के साथ निकल जाने की क्रिया। ३ गेंद आदि का जमीनपर टिप्पा खाकर एकवारगी उछलना। ४ आवेग, लहर।

उसाभर - स्त्री झझट, झमेला, काम-काज। मु० - करणे - प्रवध, व्यवस्था करना।

उसास - दे 'उसासा'।

उसासणें - क्रि अ १ मांस, दीर्घ निश्वास छोडना, ठडी सांस लेना, आह भरना। २ उछलना, ऊपर उठना। ३ उभरना। \* - क्रि स छोडना, त्यागना।

उसासा - पु १ उच्छ्वास, उसास, लवी सांस, दीर्घ निश्वास, आह, गहरी सांस। २ विश्राम, आराम। ३. पानी की नली में हवा के आने के लिए रखा हुआ सूराख।

ऊ - मराठी वर्णमाला का छठा स्वरवर्ण।

ऊ - अव्य १ ऐं, क्या, यह कैसे? अच्छी तरह न सुनी या समझी हुई बात फिर से कहलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। २ नहीं, जी नहीं ३. छि।

ऊ - स्त्री दे. 'ऊ'।

ऊस - पु १ गन्ना, ईख, ऊख। २ गन्ने का खेत, गन्ने की खेती। कहा ऊस गोड लागला

उसाळणे<sup>+</sup> - क्रि स हलसाना, आनदित करना। [आवेग, जोश।

उसाळा<sup>+</sup> - पु उल्लास, उत्साह, उसाळी - दे 'उसळी'।

उसिटे - दे 'उप्टें'।

उसिणें\* - दे 'उसने'।

उसीर, उसीर<sup>+</sup> - दे 'उशीर'।

उसीसें - न १ सांस, स्वास, आह। २ दमा।

उसें - न १ उसीस, सिर-हाना। २ तकिया। ३ सोने की स्थिति में रखा हुआ सिर।

उस्करणे<sup>+</sup> - दे 'उस्तरणे'।

उस्तरणे - क्रि स १ छप्पर पर से घास या खपडे आदि निकालना। २ अलग करना, उघेडना, उखाडना, तोडना।

उस्तवारी - स्त्री [फा 'उस्तु-वारी'] १ मरम्मत, दुरुस्ती, सुवार, मजबूती, दृढता। २ उप-चार, शुश्रूषा, इलाज, सेवा। ३ सँभाल, देखभाल, खेती में किये जाने वाले कठोर परिश्रम, मेहनत-मशक्कत, खेतीवाडी, जोताई, कृषिकर्म।

उस्ताव, उस्तावगिरी, उस्तावी

- दे 'वस्ताद', 'वस्तादगिरी', 'वस्तादी'।

उस्मरणें<sup>+</sup> - क्रि अ १ आह भरना, ठडी सांस लेना। २ सिम-कना। ३ हाँफना। - क्रि स १ याद करना। २. वताना, उल्लेख करना।

उस्मरा<sup>+</sup> - पु १ विश्राम; उसामी, छनभर सुस्ताने, दम लेने की सहूलत। २ आह, लवी सांस।

उस्माप<sup>+</sup> - दे 'उशाप'।

उहापोह - दे 'ऊहापोह'।

उहू<sup>+</sup> - पु १ व्यूह, युक्ति, तरकीब। २ प्रथम उल्लेख, भूमिका, प्रारभ।

उळबणें\* - क्रि अ प्राप्त होना। - क्रि स आश्रय करना, अपनाना।

उळा - पु होला, भूना हुआ हरा चना, मटर, चने आदि की आगपर भूनी हुई अघपकी फलियाँ, होलक।

उळिग, उळीग - स्त्री<sup>+</sup> [क 'ऊळिग'] १ सेवा, नौकरी। २ काम, कारोवार। ३ वेगार। ४ उपकार का बोझ।

## ऊ

म्हणून मुळासकट खावा काय? - कोई बात अच्छी लगे तो क्या उसे जडमूल से हडप करना उचित है? किसी भले व्यक्ति की सज्जनता से अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है।

ऊहू - अव्य ऊँहूँ, नहीं, कदापि नहीं।

ऊ - स्त्री जूँ, मैल और पसीना भरने से सिर के बालों में पैदा हो जाने वाला एक नन्हा कीडा, चिल्लड।

ऊट - स्त्री १ गाडी के पहिय को रोकने के लिए रखा जाने वाला पत्थर। २ गाडी के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा। ३. दराज। मु - उतरणे - १ घमट तोडना, गर्व का नाश करना। २ मटियामेट कर देना।

ऊठ - क्रि अ ऊठ, खडा हो जा, हट जा।

ऊठवस - स्त्री १ उठना-बैठना, माथ, मेलजोल। दे 'उठावशी'।

ऊठवंस - स्त्री १ दे 'उठवस'।  
२ अस्थिरता, चञ्चलता।

ऊट - \*स्त्री माया, कपट,  
बोखा।

ऊणखण - स्त्री १ मर्म, रहस्य,  
राज। २ प्रतीति, अनुभव।  
३ चर्चा।

ऊत - पु १ उफान, उवाल,  
लोग। २ उन्माद, मस्ती। ३  
अधिकता, विपुलता, उत्कर्ष,  
वृद्धि। ४ उछाल। ५ ज्वार।  
६ नशा। - मात - पु १ उन्माद,  
नशा, मस्ती। २ अपव्यय। ३  
लापरवाही, उद्धतता, मगहरी।  
मु - घेणें - बहुत बढ़ जाना, ज्वार  
आना।

ऊद - पु [ अ ] ऊद, अगर,  
अगर, लोवान, धूप। - काडी -,  
- बत्ती - ऊदवत्ती, अगरवत्ती।

ऊद - न ऊदविलाव।

ऊदाईन - न वूपी, 'वेन-  
जाइन'।

ऊदाम्ल - न लोहवान युक्त  
अम्ल, 'वैजोडक एमिड'।

ऊदिन - न धूपेन्य, 'वेनजीन'।

ऊन - वि ऊन, न्यून, थोडा,  
छोटा, घटिया।

ऊन; ऊह - न धूप, घाम।  
२ गरमी। - वि गर्म, गरम,  
तप्त। - ऊन - वि १ बहुत गर्म,  
जलता हुआ। २ ताजा। - पाऊस  
- पु धूप और वर्षा, वूप और  
वारिश का एक साथ होना। मु -  
खणें - धूप नाना, सेंकना, तापना।  
- तहान न पाहाणें, म्हणणें -  
किसी भी सकट या कष्ट की पर-  
वाह किये बिना काम करते जाना।  
- परतणें - दिन का ढलना, धूप  
का कम हो जाना।

ऊव - स्त्री [ क 'उव्वे' ]

१ गरमी, गरमाहट, उष्णता।  
२ भाप। ३ घमड, गर्व। ४  
भरोसा, विश्वास, यकीन। ५  
सुख, माधन, आधार। मु -  
जिरविणे - घमड तोडना, गर्व का  
नाश करना।

ऊर - पु १ उर, सीना,  
छाती। २ वक्ष। - दुखी - स्त्री  
१ उर की व्यथा। २ ईर्ष्या,  
डाह, जलन। - फोड - स्त्री दे  
'उरस्फोड'। - भेट - स्त्री छाती  
में लगाना, गले लगाना। मु -  
उलणे - छाती फटना, बहुत अधिक  
दुख होना। - काढून चालणें -  
छाती निकाल कर चलना, सीना  
तान कर, अकड कर चलना।  
- दडपणे, - दवणें - हिम्मत  
हारना, डरना, निराग होना।  
- दाटणें - दिल भर आना। - पिकणें -  
१ कफ के बढ़ जाने से गला बैठ  
जाना। २ तकलीफ, कष्ट होना।  
- पिकविणें - मताना, परेगान  
करना। - फाटणे - छाती फटना,  
हृदय विदीर्ण होना। - फुटणे - १  
स्त्रियो का स्तन निकलने की उम्र  
का होना। २ छाती फटना,  
दिल का दौरा पडना। ३ शोक,  
चिंता आदि से व्याकुल होना।  
- बडविणें - छाती पीटना, मातम  
मनाना। उरस्फोड करणे -  
उतना अधिक परिश्रम करना कि  
उससे छाती फट जाय। उराचा  
पिजरा - छाती की निकली हुई  
हड्डियाँ, पसलियाँ। उरापोटावर  
उचलणे, उरापोटीं करणे, घरणे -  
१. बहुत अधिक परिश्रम करना,  
अपनी मामर्थ्य से अधिक मेहनत  
करना। २ छाती में चिमटाना,  
लगाना। उराला हात लावणे -  
दे 'उरावर हात ठेवणें'। उरावर

असणें - मिर पर सवार होना,  
अधिकार चलाना। उरावर घालणें  
- डछा न रहते हुए भी किसी को  
दे देना, छाती पर दे मारन  
(गाली)। उरावर घेणें - १ अति-  
शय कठिन काम को उठाना।  
२ पुरुष से सम्भोग कराना (गाली)।  
उरावर घोंडा ठेवणें - १ अपने  
दुख या विरोध को दवा लेना, अपनी  
इच्छा के विरुद्ध किसी काम के  
लिए तैयार हो जाना। २ जुल्म  
बाना, अत्याचार करना या  
कराना। उरावर वसणें - १ छाती  
पर बैठना। २ ऐसा काम या पड़ना  
जिसे टाला न जा सके। ३ जब-  
दस्ती किसीसे कोई काम करवा  
लेना। ४ पुरुष द्वारा किसी स्त्री  
के साथ बलात्कार या सम्भोग किया  
जाना। उरावर हात ठेवणें,  
उरावर हात ठेवून सागणें - छाती  
ठोककर कहना, कोई कठिन कार्य  
करने की प्रतिज्ञा करना, विश्वास  
दिलाना। उरागों घरणें - १ छाती  
से लगाना, गले लगाना। २ कोई  
कार्य करने का निश्चय करना।  
३ स्वीकार करना। उरीं डोगर  
घेणे - बड़े कष्ट का काम उठाना,  
बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करना।  
उरीं पोटीं फरणें - बहुत अधिक  
परिश्रम करना। उरीं फुटणें -  
छाती फटना, छाती फटकर मरना।  
उरीं भरणें - १ थक जाना २  
स्त्रियो के स्तनो का उमर आना।  
ऊर - स्त्री १ शेष, बाकी,  
बची हुई चीज। २ घाटा, कमी।  
- पूर - स्त्री पर्याप्त से अधिक  
नामग्री, अधिकता। - सूर - स्त्री  
बची-खुची वस्तुएँ। - वि वचा-  
खुचा, गेप।

ऊजित - न उत्कर्ष का काल,

श्रीवृद्धि । -वि ऊर्जित, शक्ति-  
शाली, समृद्ध ।- कळा - छी ,  
-काल-पु. उत्कर्ष, समृद्धि, श्रीवृद्धि  
का काल ।

ऊर्ध्व - दे ' ऊर्ध्व ' ।

ऊर्ध्व - वि ऊर्ध्व, ऊंचा,  
सीधा, खड़ा, लवमान, लवरूप,  
उठाया हुआ, ऊपर फेंका हुआ ।-  
अव्य. ऊपर, ऊपर की ओर,  
आगे, बाद ।-पु. १ ऊर्ध्व श्वास,  
उलटी साँस । २ दमा (एक श्वास  
रोग) । ३ खमव्य, खस्वस्तिक ।  
- गति - छी १ ऊर्ध्वगति, ऊपर  
की ओर जाना । २ मोक्ष ।- वि  
ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने  
वाला ।- दृष्टि - छी १ ऊर्ध्व-  
दृष्टि, ऊपर को देखने वाला ।

२ महत्वाकाक्षी । ३ उच्च,  
उदात्त हेतु रखने वाला, उदार ।  
- देहिक - न दे ' और्ध्वदेहिक ' ।  
- पंथ - पु. ऊपर का मार्ग, स्वर्ग  
का रास्ता ।- पातन - न आसवन,  
अभिस्रावण, ' हिस्टिलेशन ' ।  
- पान - न शराव पीना, नशा-  
पानी करना । -पुड - पु. ऊर्ध्वपुड,  
खड़ा तिलक । - मुख - वि  
ऊर्ध्वमुख, जिसका मुँह ऊपर की  
ओर हो । - रेतस्क, -रेता - वि  
ऊर्ध्वरेता, वीर्यपात न होने देने  
वाला, नैष्ठिक ब्रह्मचारी । -पु. १  
हनुमान, भीष्म आदि । -लोक -  
पु. ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, इद्रलोक ।  
ऊर्ध्व - वि. [ अ ' उर्ध्व ' ]  
ऊर्ध्व, उपनाम वाला, नाम से

प्रसिद्ध ।

ऊर्मि, ऊर्मो - छी १ ऊर्मि,  
लहर, तरंग । २ प्रवाह, वेग ।  
३ आकस्मिक उत्कठा, प्रबल  
इच्छा ।

ऊष्म - वि ऊष्म, गरम । - वणं  
- पु. ऊष्मवर्ण, रू, प, स, ह ।

ऊष्मा - पु. १. ऊष्मा, ऊमस,  
गरमी । २ ग्रीष्मकाल, गरमी का  
मौसम ।

ऊत्स - दे ' ऊत्स ' ।

ऊह - पु. १ ऊह, अनुमान,  
तर्क-वितर्क । २ परिवर्तन, सुधार ।

ऊहापोह - पु. ऊहापोह, तर्क-  
पूर्ण विचार या विवेचन, चर्चा ।

ऊहापोहणं\* - क्रि. स चर्चा  
करना, वातचीत करना ।

## ऋ

ऋ - मराठी वर्णमाला का  
सातवाँ अक्षर ।

ऋक् - पु. ऋक्, ऋग्वेद ।- छी  
ऋचा, ऋग्वेद का मन्त्र, वेदमन्त्र ।  
- संहिता - छी ऋक्संहिता,  
ऋग्वेद के मन्त्रों का संग्रह ।

ऋक्ष - पु. ऋक्ष, रीछ, भाल् ।

ऋग्वेद - पु. ऋग्वेद, चारों वेदों  
में से एक जो पहला और प्रधान  
माना जाता है ।

ऋग्वेदी - वि ऋग्वेदी, जिसके  
संस्कार ऋग्वेद के अनुसार होते हों,  
ऋग्वेद का अनुयायी, ब्राह्मणों की  
एक शाखा का अनुयायी ।

ऋचा - छी १ ऋचा, वेदमन्त्र ।  
२ ऋग्वेद का मन्त्र ।

ऋजु - वि १ ऋजु, सीधा,  
मरल । २ कुटिलतारहित, मच्चा,  
निष्कपट ।

ऋजुता - छी ऋजुता, मर-  
म हिंसा को . . ९

लता, सीधापन, सिधार्थ, सच्चाई ।

ऋण - न १ ऋण, कर्ज, देना,  
उधार ली हुई रकम । २ उपकार,  
एहसान का बोझ । ३ घटा या  
वाकी का चिह्न या राशि, सख्या  
( ग ) । ४ अभाव । - वि १  
ऋणरूप, ' निगेटिव ' । २ भाग  
जाने वाला । - करी - वि १  
ऋण, कर्ज देने वाला । २ कर्ज  
लेने वाला, ऋणकर्ता । ३ ऐसा  
व्यक्ति जिससे कोई लाभ न होनेपर  
भी उसका पालन-पोषण करना  
पड रहा हो । - प्रस्त - वि ऋण-  
ग्रस्त, कर्ज में फँसा हुआ, मकरुज ।  
- त्रय - न ऋणत्रय, देव-ऋण,  
ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण ।  
- मुक्त - वि ऋणमुक्त, जिसने  
ऋण चुका दिया हो, उऋण ।  
- मुषित - छी ऋणमुषित, कर्ज  
की अदायगी । - विद्युत् - छी ऋण-

विद्युत्; विकर्षण करने वाली  
विजली । मु० - करणें; - काठणें -  
ऋण, कर्ज लेना । - फिटणें - कर्ज  
का अदा होना, ऋण उतरना ।  
- फेडणें - ऋण उतारना, कर्ज  
अदा करना, ऋण चुकाना ।

ऋणको - वि पु. ऋण-कर्ता,  
कर्ज लेने वाला, कर्जदार ।

ऋणार्थित - वि पु. ऋण देने  
वाला, महाजन । २ ऋणकर्ता,  
कर्ज लेने वाला । ३ ऐसा व्यक्ति  
जिसे नाहक पालना-पोसना पडता  
हो ।

ऋणानुवध - पु. वर्तमान सुख-  
दुखों का पूर्व जन्म के साथ सवध,  
पूर्व सवध, सयोग । २ मित्रता,  
स्नेहवधन ।

ऋणी - वि १ ऋणी, कर्ज-  
दार । २. एहसानमद, उपकृत ।

ऋत - न ऋत; मत्स्य, सृष्टि

का आदि और धारक तत्त्व ।

ऋतु - पु. १ ऋतु, मौसम, किसी चीज के होने का नियतकाल । २ स्त्रियो का रज स्राव । ३ गर्भधारणा के अनुकूल काल । - काल - पु. १ ऋतुकाल, गर्भधारण के अनुकूल काल । २ उपयुक्त काल, मौसम । - त्रय - न तीन ऋतुएँ - गरमी, वर्षा और जाड़ा । - दर्शन - न रजोदर्शन, ऋतुप्राप्ति । - दान - न ऋतुदान, ऋतुस्नाता पत्नी के साथ सतान-कामना से सभोग करना । - पति - पु. ऋतुपति, वसत । - प्राप्ति - स्त्री ऋतुप्राप्ति, रजोदर्शन, रजस्वला होना । - मती - वि स्त्री १ ऋतु-

मती, ऋतुप्राप्ता, रजस्वला स्त्री । २ ऋतुस्नाता स्त्री । - शांति - स्त्री ऋतुदान की धार्मिक विधि, गर्भाधान - सस्कार । - स्नाता - वि स्त्री १ ऋतुस्नाता, रजोदर्शन के बाद चौथे दिन किया जाने वाला स्नान करके शुद्ध हुई स्त्री । २ मभोग-योग्य ।

ऋत्विज - पु ऋत्विक्, ऋत्विज्, यज्ञ कराने वाला ।

ऋद्धि - स्त्री ऋद्धि, सपन्नता, वृद्धि, बढती, उत्कर्ष, गौरव, लक्ष्मी । २ ऐश्वर्य, उत्कर्ष का काल । - सिद्धि - स्त्री बहु १ ऋद्धिसिद्धि, गणेश की दो दासियाँ, अनुचरियाँ । २ धनदौलत

## ए

ए - मराठी वर्णमाला का ग्यारहवाँ, ऋ, लृ, लृ को छोड़नेपर आठवाँ स्वरवर्ण ।

ए - (अं) प्र करण कारक अर्थात् तृतीया विभक्ति का एक-वचन का चिह्न या प्रत्यय । (उदा ज्ञाने = ज्ञान से । पाणि अं = पानी से) । [सक्षेप ।

ए॥ - एकूण (कुल) का ए - अव्य ए, अरे, ओ ।\* - सर्व १ यह । २ इस ।\* - क्रि अ ये (आओ), येते (आती है), येतो (आता है), येवो (आए), येऊन (आकर) आदि के लिए ए, एते, एतो, एओ, एओनी आदि रूप भी पुरानी मराठी में पाये जाते हैं ।

एअर - स्त्री [अं] हवा, वायु, वात, पवन । - कडिर्शांनिग- न वातानुकूलन, वातानुकूलित बनाना । - गन - स्त्री वायुचलित

बडूक । - टाइट - वि हवाबद, वायुरुद्ध । - पप - पु वायुपप ।

एउतें\* - अव्य इघर ।

एकं, एकस्थान - न १ सख्या में प्रथम स्थान, पहला अंक, इकाई । २ मानक, प्रमाप; 'स्टैंडर्ड' । ३ एकाक, इकाई, 'यूनिट' ।

एककार - पु १ रचना, जोड़ाई । २ भीड़, गड्ढमड्ढ, खल्लमल्ल ।

एकवर - वि १ एकत्रित, इकठ्ठा किया हुआ । २ थोक । - अव्य कुल, कुल मिला कर । २ विलकुल, कतई ।

एकदरींत, एकदरीनें - अव्य १ कुल मिला कर । २ अंत में, आखिरकार । ३ साराश, मतलब यह कि ।

एक - वि १ एक, पहले अंक या इकाई से सूचित । २ अकेला,

और सफलता ।

ऋषभ - पु १. ऋषभ, बैल, नर, जानवर । २ सगीत के सात स्वरों में से दूसरा । - वि उत्तम, श्रेष्ठ ।

ऋपि - पु. १ ऋपि, मंत्र-द्रष्टा । २ बहुत बड़ा तपस्वी, मुनि । - पचमी - स्त्री ऋपिपचमी, मादो सुदी पचमी । कहा. नदीचें मूळ व ऋषीचें कूळ शोघू (पाहू) नये - नदी का उद्गम और ऋपि का खान्दान नहीं खोजना चाहिए (क्यों कि कई ऐसी बातों का पता चल सकता है जो हमें प्रिय न लगेँ) किसी बात की गहराई में नाहक नहीं उतरना चाहिए ।

अद्वितीय, वेजोड । ३ कोई, कोई भी । ४ वही, एकमेव, अपरिवर्तित । ५ सतत चलने वाला । ६ लगभग । ७ अलग, दूसरा, भिन्न । - एक - वि १ एक एक, हर एक, प्रत्येक । २ कोई-कोई, जो भी देखो । ३ अलग-अलग । - अव्य एक के बाद एक, वारीवारी से । - एकटा - वि अकेला, अलग-अलग । - कतार - अव्य क्रवायद का एक हुकम, 'पक्ति मे खडे हो जाओ' ('फॉल इन') । - कर-पद्धति - स्त्री एक-कर, 'सिंगल टैक्स' । - कल्ली - वि १ सनकी, जिद्दी, हठी, सकीर्ण दृष्टि वाला । २ एकगा, एकतरफा । - कामी - वि एक ही काम करने की क्षमता रखने वाला । - कालिक, - कालीन - वि एककालिक, एककालीन, एक द्वार का; समकालीन । - खाबी -

वि १ एकचोवा, एक ही खभे-पर खडा किया जाने वाला (तबू, मकान आदि) । २ एक ही व्यक्ति के आवार पर टिका हुआ (परिवार आदि) । - गट, - गट्ट, - गट्टा - अव्य. १ एकसाथ, सब मिलाकर, इकट्ठा । २ समूह के रूपमें, सग-ठित, सघटित रूप से । - गोत्री - वि सगोती, एक ही गोत्र के (लोग) । - च एक - वि एकमात्र, एकमेव, केवल एक, एक ही । - चाकी गाडी - छी एकचक्री, एक पहिये की गाडी । - चित्त - वि १ एक-चित्त, एकाग्र, तल्लीन । २ एक मन, विचार के । - न १ किसी विषय पर मन की एकाग्रता, ऐक-मत्य । २ बड़े भोज मे सबका भोजन हो जाने की सूचना । - छत्री - वि एकच्छत्र, जिसमे दूमरे का अधिकार, प्रभुत्व न हो, एकतत्र (राज्य) । - ०राज्य - न एकतत्र राज्य, एकहत्थी हुकूमत । २ एक एक ही व्यक्तिका सर्वा-धिकार । - जथा - पु एकता, ऐक्य । - अव्य एक साथ । - जरा - अव्य तनिक भी, थोडा भी । - जात - वि १ एक ही जाति या वश का, एकजाति, एक ही नमूने का । २ बढिया, वेमेल, खालिस । - अव्य केवल, कुल, सारे के सारे, समूचे तौर पर । - जातीय - वि एक ही किस्म या प्रकार का, एकजाति, सजाति, सजातीय । - जिनसी - वि एक ही प्रकार, नमूने का, खालिस, वेमेल, एक जैसा । - जीव - वि एकजीव, एक-रूप, अभिन्न । - जूट - छी एका, एकता, इत्तिहाद । - अव्य एक साथ मिलाकर । - टक - अव्य एकटक, अनिमेघ, विना पलक गिरे

या गिराये, सतत, लगातार । - टाकी - वि १ एक ही आकार, रंग या रूप का । २ एक ही मनुष्य का एक लेखनी से लिखा, एक जैसा (अक्षर या लिखावट) । ३ जिसमें एक ही टांका हो । - टाग्या - वि १ एकटगा, एक टांगवाला, लंगडा । २ दे 'एककल्ली' । - ठोक - अव्य थोक, राशिशत, एकदम, थोक के हिसाब से, बडे पैमाने पर । - डोळा - पु १ एक आँख । २ एकलौता वेदा । - वि एकाक्ष, एक आँख वाला । - तत<sup>+</sup> - अव्य सतत, लगातार । - तत्र - अव्य एकदम, एक - साथ, एक - सूत्र । - वि एकतत्र, एकहत्था । - तत्री - वि एकतत्र, एकहत्था, जिसमें सब शक्ति, अधिकार एक आदमी के हाथ में हो, एक व्यक्ति द्वारा, एक के प्रवध से परिचालित । - ०राज्यव्यवस्था - छी एकतत्र शासनप्रणाली, एक हत्थी हुकूमत । - तत्त्ववाद - पु अद्वैतवाद । - तत्त्वों - अव्य एक बात में, एक बात पर । - तरफा - वि १ एक मालिक, राजा का (प्रदेश) । २ एक तरफा, एक पक्षीय । - अव्य १ एक तरफ, एक ओर । २ दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में । - तरफी, - तफी - वि एक तरफा, एक पक्षीय, जिसमें दूसरे पक्ष का विचार न किया गया हो । - ०निकाल - पु एक तरफा फैसला, प्रतिवादी पक्ष का जवाब सुने बिना (उसकी अनुपस्थिति के कारण) किया गया फैसला । - तन्हेचा - वि एक प्रकार का; अलग किस्म का, अजीव । - ताटी; - ताट्या - वि १ एक ही थाली में भोजन करने वाले । २ एक ही जाति या धर्म के । (मु

- ताटीं जेवणें - १ एक ही थाली में भोजन करना । २ गाढी मित्रता होना । कहा एकताटीं जेवणें आणि घास मोजणें - एक थाली में भोजन करते हुए दूसरे के कौर गिनना, ऊपर से स्नेह दिखा कर अदर से डाह करना । ) - तान - वि एकतान, एकचित्त, तल्लीन, एक ही विषय का ध्यान करने वाला । - तानता - छी, - तानपणा - पु एकाग्रता, तल्लीनता, अनन्य-भाव । - तार, - तारा, - तारी - वि १ एकतार, एक - सा, एक रगरूप का । २ इकहरे धागे का । ३ नीरस, उवाने वाला, उकताने वाला । - तारा - पु, तारी - छी एकतारा, इकतारा, एक तरह का तैबूरा जिसमें एक ही तार होता है । - ताल - पु एकताला, सगीत का एक ताल । - तीस - वि इकतीस, एकतीस, ३१ । - तुक - वि अकेला, एकाकी । - तुका - वि समान, सदृश । - तोंडी - वि एकमुंहा, एक मुंहा वाला । - वि अव्य एक तरफा, एकागी, एक पक्षीय, एक ओरसे । - थाट - पु एक ही ढग का प्रवध या रचना । - दम - अव्य. १ एकदम, अचानक, तुरत । २ एकवारगी, एक-मुशत, इकट्ठा । ३ एक साथ । ४ विलकुल । - दाणी - छी एकावलि, एक लडी की माला या एकलरा हार जिसमें सोने की लगभग चालीस गुरियाँ या मोती होते हैं । - देशित्व - न सकीर्णता । - देशी; - देशीय - वि १ एकदेशी, एकदेशीय, एक ही देश का । २ जो किमी विशेष स्थल या अवस्था में ही लगे, सर्वत्र न लगे । ३ एक तरफा, एक पक्षीय । - धारी -

वि इकधारा, एकघाग (अस्त्र) ।  
 - घोरणी - वि एक ही हेतु, उद्देश्य रखने वाला । - नाड; - नाडी -  
 स्त्री जिन स्त्री-पुरुषों की नाडियाँ ममान होने के कारण उनमें विवाह - सवध नहीं हो मकता उनके सवध में कहा जाता है कि उनमें एकनाड या एकनाडी है (ज्यो) । - नाळ - वि १ एक ही नालेवाले, जुडवाँ (वच्चे) ।  
 २ एक ही प्रकार का मत या दिलचस्पी रखने वाले । - निश्चय -  
 पु. दृढनिश्चय, पक्का इरादा । -  
 निष्ठ - वि १ एकनिष्ठ, अनन्यो-  
 पासक, वफादार । २ पक्का, पूरा । - निष्ठता -, निष्ठा - स्त्री  
 एकनिष्ठता, एकनिष्ठा, वफादारी ।  
 -पट - वि एकगुना, एक वार का ।  
 -पणा - पु. एका, एकता । -पत्नी -  
 वि एक ही पत्नी वाला । -० व्रत -  
 न एकपत्नीव्रत, विवाहित पत्नी के सिवा और किसी स्त्री से सवध न रखने का व्रत । -पथी - वि  
 एक ही मार्गपर चलने वाला, सीधा । - पदरी - वि १ इकहरा,  
 एकहरा, एक परत का । २ एक लडी का, एकलरा । ३ एक वचन में प्रयुक्त, तिरस्कारसूचक (संबोधन) । (मु०-वर येणें-अवे-  
 तवे करना) - पक्षी, - पक्षीय -  
 वि एकपक्षी, एकपक्षीय, एक तरफा । - अव्य एक दृष्टि से,  
 एक तरह से । - पाखी - वि एक-  
 पलिया, (वह छाजन) जिसकी ढाल एक ही ओर हो, बीच में बँडेर न हो । - घर - न एक पलिया मकान, 'पेंट हाऊस' ।  
 -पाठी - वि १ एकपाठी, जिसे एक ही वार पढ़ने या सुनने से पाठ याद हो जाय । २ बडा बुद्धि-

मान, अच्छी स्मरण शक्ति वाला ।  
 -पिकी - वि एक-फसला, जिस (खेत या जमीन) में साल में एक ही फसल उपजे । - पुती - वि स्त्री जिसके एक ही बेटा हो, काक-  
 वध्या, एकवाँज । (कहा० एक पुती रडे आणि सातपुती हि रडे -  
 वह स्त्री भी रोती है जिसके एक बेटा हो और वह भी जिसके सात बेटे हो, ससार में ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी स्थिति में दुखी ही रहते हैं, ससार में सुखी कोई नहीं ।) - पेडी - वि १ एक परत वाली (वेणी) । २ एक-  
 हरा, एकलरा (हार) । - वारी -  
 वि एक ही वार आवाज देने वाला (पटाखा, बडूक) । २ (वह बडूक) जिसमें एक वार में एक ही गोली छूटे । ३ मालमर में एक ही वार फलने फूलने वाला (पेड) । - बेक-  
 वि सम-विपम । - वेरजी - स्त्री १ जमाखर्च की पहली टिप्पणी ।  
 २ मव राशियों का कुल जोड । -  
 वि इस प्रकार रखा हुआ हिसाब । -  
 बोटी गध - न उँगली से लगाया हुआ तिलक । - भाव - पु १ मन की एकाग्रता, निश्चित मत । २ एक दर, निश्चित मूल्य, 'फिक्स्ड रेट' । - भुक्त - वि एक-  
 भुक्त, दिन-रात में एक ही वार भोजन करने वाला । - न एक-  
 भुक्त, एक वार भोजन करने का व्रत । - मजली - वि एक मजिला, एकतल्ला । - मत - न मतैक्य,  
 एकमतता, ऐकमत्य, एकवाक्यता, एकराय । - वि एकमत, हम-  
 राय, एक या समान मत रखने वाले । - मार्गी - वि १ एक ही मार्गपर चलने वाला, सीधा-सावा ।  
 २ एकपक्षीय, एक तरफा, एक-

रुखा । - मुखी - वि १ एक मुँह, एक मुँहवाला । २ सर्व-  
 सम्मत, सर्वसम्मति, एक राय से निश्चित या निर्धारित । ३ एक-  
 तत्र, एकहत्या । ४ दे 'एक जातीय' । - मुठी - वि १ एक ही सत्ता, शासन के मातहत । २ एक ही विचार, मत के । - अव्य  
 एक मुश्त, इकट्ठा, एक वार में । - मेळ - पु. १ एकता, एका,  
 इत्तिहाद । २ एकमूयता । -  
 रकमी - अव्य. एकमुश्त, इकट्ठा, एक वार में । - रगी - वि १.  
 एकरग, एकरगा, एक रग वाला,  
 २ एकरूप - रस - वि एक-  
 रस, एकदिल, समरस । - पु.  
 एकात्मता । - राजक - न एका-  
 धिपत्य, 'ऑटोकामी' । - वि  
 निरकुश । - राज्य - न. एकछत्र  
 राज्य । - राष्ट्रीयत्व - न राष्ट्री-  
 यता, राष्ट्रभावना । - रूप - वि  
 एकरूप, समान रूप वाली,  
 अभिन्न । - वचन - न १ एक  
 वचन, एक का वाचक वचन या शब्द (व्या०) । २ अटल वचन,  
 वात । (मु० एकवचनात बोलणें -  
 अवे-तवे करना, अपमान जनक ढग से वात करना) । - वचनी -  
 वि १ एक वचनात, एक वचन की विभक्तिवाला । २ अपनी वात पर दृढ रहने वाला । - बळा - पु.  
 १ एकता, एका । २ मिश्रता,  
 स्नेह । - वाक्यता - स्त्री एक-  
 वाक्यता, ऐकमत्य, एकराय होना, एकता । - वार - अव्य.  
 एक वार । - विचार - पु. एकमत,  
 एकराय होना, ऐकमत्य । - विष  
 - वि १ एकविव, एक ही प्रकार का । २ एकनिष्ठ । -  
 विधा भक्ति - स्त्री एक ही देवता

की भक्ति या उपासना । - बीस -  
वि इक्कीस, २१।-बैल, -बैला -  
अव्य १ एकवार, एक दफा ।  
२ एक साथ, एक ही समय में ।  
- शय्या - छी १ एक ही विस्तर  
पर सोना; हम विस्तरी । २  
घनिष्ठ मित्रता । - सघ, - सघी  
- वि अखड, अविकल । - सडी -  
वि. एक ही बार कूटा हुआ  
(चावल) । - सत्ताक - वि एक  
सत्ताक, एकतत्र, एकहत्या, निर-  
कुश । - समयावच्छेदकरून - अव्य.  
एकसाथ, युगपत्, साथ ही साथ,  
एक ही समय में । - सर - पु. एका-  
वली, मटरमाला, इकलरा हार ।  
- सर, - सर्री - अव्य. १ एक कतार  
में, क्रम में । २ अचानक, एकाएक ।  
- सष्ट - वि एकमठ, इकसठ,  
६१ । - सष्टी - छी माठ वर्ष पूरे  
हो जाने पर किया जाने वाला  
समारोह, हीरक जयती । - सांज  
- अव्य एक वार, एक जून । -  
सा - वि एकसाँ, समान, सदृश ।  
- अव्य सतत, लगातार । -  
सारखा - वि एकसाँ, समान,  
सदृश । - अव्य १ सतत, लगा-  
तार । २ एक ही क्रम से, एक-  
सर । - साली - वि एकसाला,  
एक वर्ष का, एक साल की मुहत्त  
वाला (पट्टा) । - सुती - वि एक  
सूती, जिसके ताने और वाने में  
इकहरा सूत लगा हो । - अव्य  
एक ही ढग से, लगातार, सतत ।  
- सुरा - वि अकेला, खाना-  
बदोश, बे-वरवार का । सुरी, -  
सर - वि एकस्वर, नीरस,  
उवाने वाला, उकता देने वाला ।  
- हाती - वि एकतत्र, एकहत्या,  
एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया गया ।  
म०-असर्ण - एका, इत्तिहाद होना ।

- करता बेक होणें - उलटा-सीधा  
हो जाना । - धरून बसर्णें -  
अडना, ज़िद पकडना । - नार्हीं  
दोन नार्हीं - १ चुप्पी साधना । २  
न तीन में न तेरह में । एका मालेचे  
सणी - एक माला के मनके, एक  
ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही  
जाति या किस्म के लोग ।

एकटर्णें - क्रि स. १ एकत्र  
करना । २ चुनना, जमा करना ।  
- क्रि अ भीड होना ।

एकट्टुकट - वि अकेला । -  
अव्य अकेले ।

एकटा - अकेला, इक्का । -  
दुकटा - वि इक्का-दुक्का, अकेला-  
दुकेला । - प्राणी - पु. अकेलादम,  
अकेली जान, तन-तनहा व्यक्ति ।

एकता - छी एकता, एका,  
मेल, इत्तिहाद ।

एकत्र - अव्य १ एकत्र, इक-  
ट्ठा, यकजा । २. एक ओर, एक  
तरफ । - वि सयुक्त, अविभक्त,  
साझे का । - कट्टब - न अवि-  
भक्त, सयुक्त परिवार । - ० पद्धती  
- छी सयुक्त परिवारप्रथा ।

एकदा, एकदा - अव्य. १  
एक वार, एक दफा । २ एकदम ।  
३ किसी समय, एक ज़माने मे ।

एकदाचा - अव्य किसी तरह,  
खुदाखुदा - करके, बडी मुश्किल  
से ।

एकमात्र - वि एकमात्र, एक  
ही, केवल एक, वाहिद, एकमेव ।

एकमेक - अव्य अन्योन्य,  
परस्पर, एक दूसरे को । - वि  
पारस्परिक, आपम का ।

एकमेकात, एकमेकाशी - अव्य.  
आपस में, परस्पर, एक दूसरे  
को ।

एकमेव - वि एकमेव, केवल

एक, वाहिद, एक ही, एक मात्र ।

एकर - पु. [अ.] एकड, एक  
नाप जो ३२ विस्वे के करीव  
होती है ।

एकल - वि अकेला । - कोंडा  
- वि एकांतप्रिय, एकातवासी,  
लोगो से दूर रहने वाला, मित्र-  
हीन ।

एकला<sup>+</sup> - वि अकेला ।

एकवट - अव्य. १ एकत्र,  
इकट्ठा, यकजा । २ कुल मिला  
कर ।

एकवटर्णें - क्रि अ एकत्रित  
होना, सगठित होना, जमा होना,  
एक मे मिलना । - क्रि स जमा  
करना, एकत्रित करना, मिलाना,  
सगठित करना ।

एकवटा - पु. १ एका, एकता ।  
२. सयुक्त अवस्था ।

एकसरर्णें - क्रि अ १ अनुसरण  
करना, निष्ठा रखना । २ एक-  
त्रित होना ।

एकाकिका - छी एकाकी,  
एक अक वाला नाटक ।

एकाग - न एक अग, अव-  
यव । - वि एकाग, एक अग वाला ।

एकागी - वि १ एकागी, एक  
पक्षीय, एक तरफा । २ जिममें एक  
ही तरफ रग, नक्काशी आदि हो ।

एकाडा - वि १ अकेला,  
किसी दल मे शामिल न होकर  
अकेले लडने वाला (सिपाही),  
एक्का, अखड, साहसी । २  
किसीके सहयोग के बिना काम  
करने वाला । - शिलेदार - पु. वि  
१ अकेला, औरो से सहयोग की  
अपेक्षा न रखने वाला । २ इक्का,  
एक्का, अकेले कठिन काम कर  
सकने वाला सिपाही ।

एकाडेपणा - पु. - १ अलगाव,



अलगोज्ञा, विलगाव, अलहदगी ।  
२. सकीर्णता । ३. सनक, खव्ती-  
पन ।

एकाड्या - दे 'एकाडा' ।

एकात - पु १ एकात, सूना  
स्थान, तनहाई । \* २ निश्चित  
स्थान । ३ गुप्त बात, मंत्रणा । -  
वि अकेला, अलग । - ऋठी -  
छी बाल कोठरी । मु० - करणें -  
१ मंत्रणा करना, अकेले में बात-  
चीत करना । २ अकेले में एक  
साथ रहना, एकात स्थान में  
एकत्र रहना ।

एकातिक - वि १ एकातिक,  
पक्का । २ परब्रह्म में लीन । ३  
चरम पथी, अतिवादी, परले सिरे  
का । दे 'एकागी' ।

एकार्ती - अव्य एकात मे,  
अकेले में, छुपकर । - लोकार्ती -  
अव्य गुप्त एव प्रकट रूप में,  
बातिनी तौरपर और जाहिरा  
तौरपर । [कुछ हद तक ।

एकार्शी - अव्य एक तरह से,  
एका - पु १ एक्का, एक्की,  
एक बूटी वाला ताश । २ नेता,  
अगुआ, श्रेष्ठ व्यक्ति । ३ एक  
प्रकार का ताल, ठेका । ४ एकता ।  
५ सत एकनाथ ।

एकाएकी - अव्य एकाएक,  
अचानक, सहमा, यक-व-यक ।

एकाएकी\* - वि एक, भेद-  
रहित ।

एकाकार - पु १ मिश्रण,  
खिचडी, मिलावट । २ भीड,  
मेला, बाजार । ३ एकता । - वि  
१ एकाकार, एकरूप, मिला-  
जुला । २ एक ही आकार या वना-  
वट का । ३ एकाग्र, स्थिरचित्त,  
अचचल । [अकस्मात्, एकाएक ।

एकाकी - अव्य अचानक,

एकाकी - वि एकाकी, अकेला ।  
२ असयुक्त, खालिम, 'सिपल' ।  
- पदार्थ - पु मूलतत्त्व, घटक,  
'एलेमेंट' ।

एकाक्ष - वि एकाक्ष, एक  
आंखवाला, काना । - पु १  
कौवा । २ शुक्राचार्य ।

एकाक्षर, एकाक्षरी - वि एका-  
क्षर, एकाक्षरी, एक अक्षर वाला ।

एकाग्र - वि एकाग्र, जिसका  
ध्यान एक ही ओर, एक ही वस्तु  
में लगा हो, अचचल, स्थिर । -  
ता - छी एकाग्रता, स्थिरता ।

एकात्मता - छी एकात्मता,  
अभिन्नता, एकरूपता, एकता ।

एकाद, एकादा - दे 'एखाद',  
'एखादा' ।

एकादशी - छी एकादशी,  
ग्यारस । कहा० एकादशीच्या घरीं  
शिवरात्र - एक न शुद दो शुद,  
कगाल से भीख मांगे भिखारी ।

एकाधिपत्य - न एकाधिपत्य,  
एकाधिकार । [से, एक दृष्टि से ।

एका पक्षी - अव्य एक तरह  
एकामी, एकामें\* - अव्य १  
अविश्रात, लगातार, तुरत । २  
एक ही बार में । ३ एकमाथ,  
युगपत् ।

एकायतन - न १ एक स्थान,  
अधिष्ठान, आश्रयस्थान । २.  
ब्रह्म ।

एकारणे - क्रि अ १ (बोझ  
के बढ जाने से) एक ओर झुकना,  
लुढकना । २ उलझना । ३ एक  
तरफ फूलना, लटकना, बढना । -  
क्रि स एकत्र करना, जमा  
करना, समेटना ।

एकारती - छी एक वत्ती या  
दीप की आरती या नीराजन ।

एकावन, एकावन्न - वि एक्या-

वन, इक्क्यावन, ५१ ।

एकावली - छी १ एकावलि,  
अर्थालंकार का एक भेद । २ एक  
लडी ही माला या एकलरा हार ।

एकावली - छी एकावली,  
एक लडी की माला या एकलरा  
हार । [इकहत्तर; ७१ ।

एकाहत्तर - वि एकहत्तर,  
एकीं - अव्य एक से गुणा  
करके, करने पर ।

एकी - छी १ एका, एकता,  
मेल, इत्तिफाक; मित्रता, स्नेह ।  
२ अभेद, अद्वैत । ३ पेशाव,  
छात्रोद्धार पेशाव के लिए बाहर  
जाने की इजाजत मांगते समय  
एक उंगली दिखाकर यह सूचित  
किया जाता है ।

एकीकड्या, एकीकडील - वि  
एक ओर का, एक तरफ का ।

एकीकडून - अव्य १ एक ओर  
से, एक तरफ से । २ कुल मिला-  
कर ।

एकीकडे, एकीकडेस - अव्य  
१ एक ओर, एक तरफ । २ बडी  
सडक या वस्ती मे दूर ।

एकीकरण - न १ एकीकरण,  
मिश्रण, एक करना । २ अभेद,  
अद्वैत ।

एकीबेकी - छी १ वच्चो का  
एक खेल जिसमे मुट्ठी में छिपाई  
हुई वस्तुओ की सम-विपम सत्या  
पूछी और बतायी जाती है । २  
एकता और फूट ।

एकीभवन - न एकीभवन,  
एकीभाव, मिल कर एक हो जाना ।

एकुण - अव्य कुल । दे  
'एकूण' । - एक - वि सबके  
मत्र, कुल । - ऐशीं - वि उनासी,  
उन्नासी, ७९ । - चाळीस - वि  
उनतालीस, उतालीस, ३९ । -

तीस - वि उनतीस, २९। -  
 नव्वद - वि नवासी, ८९। -  
 पन्नास - वि उचास, उनचास,  
 ४९। - बीस - वि उन्नीस, १९।  
 - सत्तर - वि उनहत्तर, ६९। -  
 साठ - वि उनसठ, ५९।

एकुणात - स्त्री १ शेष,  
 बाकी, कुल जमा, जोड। २  
 साराश, तात्वर्थ।

एकुणीस - दे 'एकुणवीस'।

एकुलता, एकुलता एक - वि  
 इकलीता, अपने माँ-बाप का  
 अकेला, एकलीता, एकमात्र।

एकूण - अव्य १ कुल, कुल  
 मिलाकर। २ साराश, मतलब  
 यह कि, खँर। - एक - अव्य वि  
 मव के सब, सभी, हर कोई। -  
 एकच - अव्य, मतलब एक ही  
 हुआ। - जमा, - बेरोज - स्त्री  
 कुल जमा, जोड, कुल राशि।

एकँ - अव्य एकवार, एक  
 वार गुणा करने से, करने पर।

एकेक - दे 'एकएक'।

एकेचाळ, एकेचाळीस - वि  
 एकतालीस, इकतालीस, ४१।

एकेरी - वि १ इकहरा, एक-  
 हरा, एक परत का। २. पतला,  
 बारीक, दुबला। ३ एकवचन का,  
 एक वचनात, 'तू' करके सवो-  
 वित किया गया। ४ अलग-अलग।  
 मु० - वर येणे - १ तुकारना,  
 तू-तू करके सवोवित करना। २  
 तू-तू मैं-मैं करना, झगडेपर उतारू  
 होना।

एकोत्तरा, एकोत्रा - पु. एको-  
 तरा, प्रतिमास रुपये सैकडे व्याज,  
 बारह प्रतिशत के हिसाब से लिया  
 जाने वाला व्याज।

एकोत्री - स्त्री; एकोत्रें - न  
 ग्यारह से बीस तक की सख्याओ

को ग्यारह से बीस तक की सख्याओ  
 से गुणा करने से बनने वाले पहाडे।

एकोदरशें - वि एकोतर सौ,  
 एक सौ एक, १०१।

एकोपा - पु. एका, एकता,  
 मेल, इतिफाक, इत्तिहाद।

एककलकोडा - दे 'एकल-  
 कोडा'।

एक्का - पु. १ एक्का, इक्का,  
 ताश, गजीफे का वह पत्ता जिस पर  
 एक ही बूटी हो, एककी। २  
 अकेला, बेजोड व्यक्ति। ३. एक्का,  
 इक्का; एक बँल की गाडी, दो  
 पहियो की गाडी जिसमे एक ही  
 बँल (या घोडा) जोता जाता है।

एक्याएँशी, एक्यायशी - वि  
 एक्यासी, इक्कासी, इक्यासी,  
 ८१।

एक्याण्णव - वि एक्यानवे,  
 इक्यानवे, ९१।

एक्या माळेंचे मणी - दे 'एका  
 माळेंचे मणी'।

एखाद, एखादा - वि एक-  
 आव, एकाध, एक-दो, दो-एक,  
 कोई, कोई-कोई। - अव्य. कही,  
 कही ऐसा न हो। - दुसरा - वि  
 एक-दो, दो-एक, एकाध।

एडका - पु. भेडा, भेंडा, मेडा,  
 एडक, बनैला बकरा।

एणें \* - सर्व. १ इनसे। २  
 इस। (एणेंकरून = इस प्रकार)

एतद्देशीय - वि १ एतद्देशीय,  
 इस देश का। २ आदिवासी,  
 अविवासी, 'नेटिव'।

एतावता - अव्य. १. इसलिये,  
 अत, कुल मिलाकर। २ तथापि,  
 फिर भी।

एतुला \* - वि इतना, ऐसा।

एथचा, एथील - वि यहाँ का,  
 इस प्रदेश, इलाके का।

एथपर्यंत, एथपावेतो, एथवर,  
 एथवरी - अव्य यहाँ तक, अब  
 तक। [जगह का।

एथील - वि यहाँ का, इम  
 एथून - अव्य यहाँ से, अब  
 से आगे। [जगह। २ स्थान में।

एथें - अव्य १ यहाँ, इस  
 एनकन प्रकारें, एनकेन प्रका-  
 रेण - अव्य. येनकेन प्रकारेण,  
 जिस किसी भी तरह से, किसी  
 तरह, खुदा खुदा करके।

एनिमा - पु [अ] वस्ति,  
 पिचकारी, 'एनिमा'।

एप्रिल - पु [अ] अप्रैल,  
 ईसवी साल का चौथा महीना,  
 'एप्रिल'।

एरड - पु एरड, अरड, रेड।  
 कहा उच वादला एरड तरि का  
 होईल इक्षुवड - एरड चाहे  
 जितना बडा हो जाय फिर भी  
 उसका गन्ना नहीं बन सकता,  
 जिस व्यक्ति में स्वभावगत वडप्पन  
 न हो उसके केवल वड जाने से  
 उसे श्रेष्ठत्व नहीं मिल सकता।  
 एरडाचें गुन्हाळ - निरर्थक वाते,  
 व्यर्थ की बकवास।

एरडी - स्त्री रेंडी, एरडवीज।

एरडेल - न एरड या रेंडी  
 का तेल।

एर \* - सर्व वह, यह।

एरवीं, एरव्हीं - अव्य १ यो,  
 यो ही, ऐसे ही, निष्प्रयोजन। २  
 आसानी से, सहज ही, अचानक।  
 ३ वरना, अन्यथा। ४ अन्य  
 वातो में।

एरू \* - सर्व यह, वह।

एलगार पु [तु 'यल्गार']  
 यल्गार, आक्रमण, चढाई,  
 घावा, हमला।

एलची - स्त्री., एलदोडा - पु.,

एला - छी एला, इलायची ।

एवं - अव्य एव; इस प्रकार, ऐसे । - गुणविशिष्ट - वि एव गुण, ऐसे गुणो वाला, ऐसा । - च - अव्य साराश, मतलब यह कि, कुल मिलाकर ।

एवढा - वि इतना, इतना बड़ा, इस क्रद् । - वेळ - अव्य अव तक, इस समय तक ।

एवों तेवों - अव्य वैसे भी, यो भी, किसी भी प्रकार, किसी भी हालत में ।

एव्हडा - दे 'एवढा' ।

एव्हा - अव्य अव, इस समय, इसी समय । [समयतक ।

एव्हाना - अव्य अव तक, इस एव्हार्शो - अव्य अव, इस समय, इतने में, अभी ।

एशेल - न मीठा तेल, खाने का तेल ।

एळकोट - पु. [क 'एळु']  
१ श्री खडोवा देवता के भक्तों का नारा । २. मिलकर किया गया प्रयत्न, बड़ी कोशिश । ३ गड-बडी, अव्यवस्था । - मल्हार - पु. नाश, उच्चाटन ।

## ऐ

ऐ - मराठी वर्णमाला का बार-हवाँ स्वर ।

ऐंद्र - वि ऐंद्र, इद्रसबधी । - पु. १ सत्ताईस योगों में से छब्बीसवाँ योग (ज्यो) । २ घनातु, 'इरीडियम' । - जाल - न ऐंद्र-जाल, जादूगरी, वाजीगरी । - जालिक - वि ऐंद्रजालिक, इद्रजाल, जादू या नजरबंदी का (काम) । - पु. इद्रजाल करने वाला, जादूगर, वाजीगर ।

ऐंद्रिय - वि ऐंद्रिय, इद्रिय-सबधी; इद्रियग्राह्य ।

ऐंशी - वि अस्सी, ८० ।

ऐ - अव्य हाय, उफ, ओह, दु खसूचक शब्द ।

ऐकणा - वि सुनने वाला ।

ऐकणें - क्रि स १ सुनना; श्रवण करना, श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण करना, कानों से आवाज मालूम करना । २ ध्यान देना । ३. स्वीकार करना, मानना । ४ आज्ञा का पालन करना, हुक्म बजालाना । कहा ऐकावें जनाचें करावें मनाचें-सुनिये सब की, करिये मन की ।

ऐकमत्य - न ऐकमत्य, एक-राय होना, एका, सहमति ।

ऐकवणे, ऐकविणें - क्रि स सुनाना, दूसरे को श्रवण कराना ।

२ खरी-खोटी कहना; फटकारना ।  
ऐकीव - वि १. सुना-सुनाया, दूसरों के मुँह से सुना हुआ । २ जो आँखों से देखा न हो, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण न हो ।

ऐक्य - न १. ऐक्य, एकता, एका । २ मिलाप । ३ एकरूपता । ४ ब्रह्म, अद्वैत । - ता - छी एकता, एका ।

ऐच्छिक - वि १ ऐच्छिक, अपनी इच्छा या मर्जी पर अवलंबित, इस्तियारी, वैकल्पिक । २. इच्छित, इष्ट, चाहा हुआ । ३ उच्छृंखल, निरकुश, स्वेच्छाचारी । ४ अवैज्ञानिक । ५ जानबूझ कर किया हुआ ।

ऐट - छी १ ऐंट, अकड़, शान, ठसक । २ नखरा । ३ जोश, उमग । - बाज - वि १ अकड़बाज, घमडी, शोख । २ गानदार, नखरेबाज । - बाजी - छी १ शान, नखरा । २ शोखी ।

ऐटी - छी दे 'ऐट' । वि दे 'ऐटबाज' ।

ऐतखाळ - वि मुफ्तखोर, टुकड़खोर ।

ऐतवार + पु. - इतवार, रविवार ।

ऐता - दे 'आयता' ।

ऐतिह्य - न. १ ऐतिह्य, परंपराप्राप्त उपदेश या प्रमाण । २ लोककथा, दंतकथा ।

ऐतिहासिक - वि ऐतिहासिक, तारीखी, इतिहाससबधी ।

ऐतुलें - \* वि इतना ।

ऐदी - वि [अ 'अहदी']  
१ आलसी, सुस्त । २ ऐयाश, विलासी । [वृक्ष ।

ऐन - पु. अयस, अगुरु नामक  
ऐन - अव्य ऐन, हूबहू, ज्यो का त्यो । - वि १ यथार्थ, वास्तविक, ठीक, असल । २ बहुत, परम । ३. प्रधान, मुख्य, मूल-भूत । - न मूलवन, पूंजी । - जिनसी, - जिन्नसी - वि १ प्रत्यक्ष माल या अनाज के रूप में दिया जाने वाला (लगान आदि) । २ उसी प्रकार का । - अव्य कार्य करते हुए (पकड़े जाना), (चोरी आदि के) माल के साथ । - वेळ-छी ऐन वक्त, ठीक वक्त, ठीक मौका । - वेळीं - अव्य ऐन वक्त पर, ठीक समय पर, ठीक मौके पर ।

ऐना - पु. [ फा. ' आईन ' ]  
आईना, दर्पण, शीशा ।

ऐनेमहाल - पु. [ फा. ' आईन : ' ]  
अ ' महल ' ] शीशमहाल, वह  
कमरा या भवन जिसमे हर तरफ  
शीशे जडे हो ।

ऐपत - स्त्री [ अ ' आफियत ' ]  
१ आर्थिक सामर्थ्य, हैसियत,  
माली हालत । २ सपन्नता, धन -  
दौलत, मालमता । ३ प्रतिष्ठा । -  
दार - वि हैसियत दार, हैसियत  
वाला, जिसके पाम पसा या जाय-  
दाद हो, प्रतिष्ठित ।

ऐपती - दे ऐपतदार ।

ऐय्या - दे ' अय्या ' ।

ऐरण - स्त्री अहरण, निहाई ।

ऐरावण - पु ऐरावण, इंद्र का  
हाथी, ऐरावत ।

ऐरावत - पु ऐरावत, इंद्र का  
हाथी । कहा० कोठें इंद्राचा ऐरावत,  
कोठें शामभटाची तटाणी - कहाँ  
राजा भोज, कहाँ गनू तेली ।

ऐल - वि इवरका, इस ओरका,  
इस पार्श्वका । - अव्य १ इस

तरफ, इवर । २ पहले, पेशतर ।  
-काठ-पु, -तोर-न, -थड - न  
इधर का किनारा, आग । - पैल-  
अव्य. आरपार, इधर-उवर, इस  
पार्श्व से उस पार्श्व तक । - पु. ओर-  
छोर । - वि अन्य, फुटकर

ऐलीकडचा - वि इवर का,  
दे ' अलीकडील ' ।

ऐवज - पु [ अ ' एवज ' ] १  
सपत्ति, जायदाद, माल-मता,  
धन-दौलत । २ अच्छी स्थिति,  
खुशहाली । ३ दृढता, सामर्थ्य,  
उत्साह । ४ मूल्य, कीमत । ५  
नकद जमा, आय ।

ऐवजीं - अव्य [ अ ' एवज ' ]  
बजाय, बदले, स्थान मे, स्थान  
पर ।

ऐश - पु [ अ ] ऐश, सुख,  
आराम, विलास । -आराम पु. - ऐश  
व आराम, ऐश व इशरत, सुख-  
चैन, भोगविलाम । - आरामी -  
वि ऐयाश, विलासी, आराम-  
पसद, आरामतलव ।

ऐशी - वि अस्ती, ८० ।

ऐशी - अव्य प्रशंसा या आनंद  
सूचक उदगार, वाह, वाहवाह,  
क्या कहना है । - वि १ ऐसी;  
इस तरहकी । २ बहुत, अधिक ।

ऐश्वर्य - न १ ऐश्वर्य, धन-  
वैभव, समृद्धि, अमीरी, प्रतिष्ठा ।  
२ प्रभुत्व, सत्ता, आविपत्य । ३  
ईश्वरता, ईश्वरीय अश, गुण,  
सामर्थ्य । - वान - वि १ ऐश्वर्य-  
शाली, प्रतिष्ठित । २ धनी,  
अमीर । ३ भाग्यवान, खुश-  
किस्मत ।

ऐव, एवआराम - दे. ' ऐश ',  
' ऐश आराम ' ।

ऐसपैस - वि विस्तीर्ण, लवा-  
चौडा, प्रशस्त, खुला । - प्रत्य  
आसपास, इर्दगिर्द ।

ऐसा, ऐसे\* - वि १, ऐसा, इस  
तरह का । २ जैसा, सरीखा । -  
अव्य ऐसे, इस प्रकार ।

ऐसेनी\* - अव्य इस प्रकार ।

ऐहिक - वि ऐहिक, सामा-  
रिक, इस लोक से मवव रखने  
वाला ।

## ओ

ओ - मराठी वर्णमाला का  
तेहरवाँ स्वरवर्ण ।

ॐ - पु १ ॐ, ओम्, मन्त्रों के  
आदि में तथा वेदपाठ के पहले  
और पीछे कहा जाने वाला पवित्र  
शब्द । २ प्राचीन मराठी साहित्यमें  
' ओ ' या ' वो ' के वजाय ' ॐ '  
लिखने का रिवाज था । - भवति -  
स्त्री भीख माँगना, याचना । - ०  
पक्ष - पु भीक माँगने का पेशा,  
भिक्षावृत्ति । मु० - फस होणें -  
टाँय टाँय फिस होना, कोई मतलब  
न निकलना, बेकार होना, धूम -

घाम से काम शुरू करना, पर अत  
में कुछ न होना ।

ओकारेश्वर - पु १ ओकारे-  
श्वर, शकर, वारह ज्योतिर्लिंगों  
में से एक जो मध्य प्रदेश में है । २  
पूना में ब्राह्मणों के श्मशान के पास  
का शिवमंदिर, मरघट, श्मशान ।  
कहा० ओकारेश्वरावर गोवच्या  
जाणें - आसन्नमरण होना ।

ओगण - न ओगण, गाडी की  
घुरी में दिया जाने वाला तेल ।  
स्नेहक तेल, चिकनाई ।

ओंगळ - वि १. गदा,

घिनौना, घृणित । २ अमगल,  
मनहूस । - वाणा वि - १  
घिनौना । २ अशुभ ।

ओचा - पु १ आँचल, दामन,  
पल्ला । २ कोछ । ३ घोती या  
नी गज वाली साडी के छोर को  
खास ढग से कमर में खोसने से दो  
जाँघों में बनने वाली थैली या  
तह ।

ओजळ - स्त्री अजलि, अजली,  
अँजुली, अजलिपुट । मु०  
(एखाद्याच्या) ओजळीने पाणी  
पिणें - (किसी के) वगवर्ती,

अधीन रहना, (किसीका) मुहताज, मुखापेक्षी बनना।

ओंझळ - दे० 'ओजळ'।

ओंठ - पु कुंदरु, विवाफल, ओंठी।

ओटा - दे० ओचा'।

ओटी - स्त्री १ अयन, खीरी, ऊघ, थनका वह भाग जिसमें दूध रहता है। २ पेडू। - पोट - न पेडू, शरीर का नाभि और उपस्थ के बीच का भाग।

ओटी - स्त्री १ आंचल, कोछ, घोती या साडी के आंचल का गहराई वाला हिस्सा, दे० 'ओचा'। २ कोछ में डाली गयी चावल, सुपारी आदि वस्तुएँ। - भरण - न गर्भावान - सस्कार। २. अठवांसा। मु० भरणें - कोछ भरना, सौभाग्यवाती स्त्री के आंचल में नारियल, चावल, हलदी आदि डालना। ओंटीत घालणे - १ गोद देना, दत्तक देना। २ सौंपना, रक्षा के लिए हवाले करना। ओंटीत घेणें - १ गोद लेना, दत्तक लेना, गोद विठाना। २ अपना बनाना। भरल्या ओटीतें - १ सुकुशल प्रमूता होकर वच्चे के साथ। २ मुहाग के साथ।

ओठ - पु. ओठ, होठ, ओठ। मु० - चावणें - ओठ चवाना, ओठो को दाँतो तले दवाना, क्रोध प्रकट करना। - फुटणे - ओठ पपडाना, ओठो पर के चमड़े का सूख जाना या फटना। ओठाचा जार (जर) न वाळणें - अभी वच्चा होना, जवानी के आने से पहले की स्थिति, मसँ न भीजना। ओठापर्यंत घेणें - ओठो पर आना, जवान पर प्रकट होने के निकट होना। ओठाबाहेर काढणें - कह

डालना। कहा० ओंठ पिळला तर दूध निघेल - अभी तो वच्चा है।

ओडक - वि [क 'ओडू'] गहरा। - पणा - पु. गहराई।

ओडका - पु., ओडकें - न, ओंडा - पु. [क 'ओडे'] १ लट्ठा, कुदा, लक्कड। २ पेड का तना, ठूठ। ३ ठीहा। ४ मूख, बुद्ध, मूढ व्यक्ति।

ओडाक - पु. [क 'ओडिकटू'] पानी का रेला, प्रवाह।

ओंढा - दे 'ओडका', 'ओडा'। ओवकळणें, ओंवट, ओवण, ओंवळणें - दे 'लोवकाळणे', 'कोवट', 'ओवण', 'खळवळणे'। [गरम।

ओंवट - वि कुनकुना, थोडा ओवळणें - क्रि स खँगालना, धीरे-धीरे धोना।

ओवी - स्त्री गेहूँ आदि की बाल, वाली, खोशा, जी, गेहूँ आदि का वह भाग जिसमें दाने लगे होते हैं।

ओवण - स्त्री १ गुफन, गुंघाई, गुंथना, पिरोना। २ सिलाई, सीना। [वस्तु, माला।

ओवणी - स्त्री पिरोई हुई ओवणे - क्रि स गुंथना। गुंथना, गुंघना, पिरोना। २ सूई में धागा डालना। ३ टाँकना, सीना।

ओवळा - वि अमगल, अशुद्ध, अपवित्र, अच्छूत, जो नहा धो कर पवित्र न हुआ हो, जिसे अपवित्र व्यक्ति ने छुआ हो।

ओवाळणी - स्त्री १ आरती उतारना, देवता या किसी व्यक्ति के मुख के सब ओर दीपक, हाथ आदि धुमाना २ आरती की तश्तरी में डाले गये पैसे। ३ उतारा, निछा-

वर, उत्सर्ग, नेग, इनाम। ४. भैया दूज के अवसर पर भाई की ओरमे बहन को दी जाने वाली भेंट, उपहार। ५ परछन।

ओवाळणें - क्रि स १ आरती उतारना, मिर या चेहरे के चारो ओर घुमाना। २ उतारा करना, वारना, निछावर, न्योछावर करना। ३ परछना। ४ तुच्छ ममझना, निछावर करना, सद्के उतारना, करना, वारना।

ओवाळलेला, ओवाळून टाकलेला - वि सद्के का, वारा हुआ, तुच्छ, नगण्य, खराब, बेकार।

ओंवी - स्त्री १ मराठी पद्य में प्रचलित एक छंद जिसमें चार चरण होते हैं। २ कविता, स्त्री गीत, चक्की के गीत। मु० ओव्या गाणें - बहुत अधिक बखान करना; गुण गाना, प्रशंसा के पुल बाँधना। कहा० जात्यावर बसलें म्हणजे ओंवी आठवते - चक्की पर बैठने पर गीत याद आ जाता है, किसी काम को शुरू करने पर उसकी जानकारी अपने आप होने लगती है।

ओ - अव्य किसीके पुकारने पर उत्तरमे बोला जाने वाला शब्द, जी, हाँ। - स्त्री उत्तर। मु० - देणें - १. किमीके पुकारने पर 'जी' या 'हाँ' कहना, जवाब, उत्तर देना। २ सहायता के लिए क्षट आ जाना।

ओ - स्त्री ओक, ओकाई, मिचली। मु० - येईपर्यंत खाणें - अफरना, इतना खाना कि कँ करने की इच्छा हो।

ओ - पु. ओ का अपभ्रष्ट रूप, शिक्षा का प्रारंभ। मु० ओ कां ठो, ओ म्हणता ठो - (धेत नाहीं) -

विलकुल, तनिक भी, कतई (नही आता)। ओ च्या नावानें पूज्य - काला अक्षर मँस वरावर।

ओक - छी ओक, ओकाई, कै, वमन, मिचली। [घिनौना।

ओकटा\* - वि बुरा, गंदा, ओकटें\* - न १ झझट। २. उल्लू। ३ अरथी। ४ भूत, पिशाच। ५. कोई भी अशुभ वस्तु।

ओकर्णे - क्रि अ ओकना, कै, उलटी करना। - क्रि स १ बाहर निकालना, मुंह से निकालना। २ दिल की बात बताना देना। ३ ऐंठा हुआ धन, रिश्वत आदि लौटा देना।

ओकती - छी [क 'ओगत'] ठँकली, सिचाई के लिये पानी निकालने का यंत्र।

ओकसा-बोकशौं - अव्य फूट-फूटकर, ढाढ़ें मारकर (रोना)। ओका - वि सूना, खाली, नगा। - बोका - वि नगावूचा, नगामुगा।

ओकारी - छी १ ओकाई, ओक, मिचली। २ घिन, घृणा, फरत।

ओखट\* - वि गदा, खराब, घिनौना। - वाणा - वि घिनौना।

ओखटा\* - दे. 'ओखट'।

ओखटें\* - दे. 'ओकटे'।

ओखट + - न औपच, दवा।

ओगराळें - न कलछी, कलछा, गोल कटोरी वाला चम्मच।

ओघ - पु १ ओघ, धारा, प्रवाह, वहाव। २ परपरा। ३ समूह, भीड। ओघा ओघानें - अव्य क्रमश, सिलसिले में।

ओघळ - पु १ छोटा प्रवाह, वहाव। २ नाला, झरना। ३. तेल, पानी आदि के बहने से पडा

दाग।

ओघळणें - क्रि अ १ छूटना, निकलना, गिरना, विखरना, खिसकना, हटना, सरकना। २ झरना, बहना। - क्रि स. छितराना, विखेरना।

ओचकारणें, ओचकारा - दे. 'वोचकारणे', 'वोचकारा'।

ओचा - दे. 'ओचा'।

ओज - पु १ ओज, काति, तेज। २ उत्साह, चैतन्य। ३ जिला, पानी, आव, चमक, ओप, 'पालिश'। ४ रचना का वह गुण जिससे पढने - सुनने वाले के हृदय में उत्साह या जोश पैदा हो।

ओज + - छी [क 'ओजे'] १ सावधानी के साथ किया हुआ उपचार या सस्कार। २ सार-सँभाल। ३ अच्छी तरह पूरा करना। ४ रचना, बनावट।

ओजणें + - क्रि अ ठीक तरह से सार-सँभाल होना।

ओझर - पु १. धारा, प्रवाह। २ झरना।

ओझरणे - क्रि अ १. झरना, चूना, टपकना। २ कम होना। ३ बहना।

ओझरता - वि घुंवला, अधूरा, सरसरी, अस्पष्ट।

ओझरतें दर्शन - न झलक, झलकी, अधूरा दर्शन।

ओझें - न १ भार, बोझ, वजन, भारी लगने वाली चीज, गठरी, गट्ठा। २ उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, कार्यभार। ३ उतना भार या सामान जितना एक आदमी, बैल आदि एक बार में उठा सके, खेप। ४ भारी लगने वाला काम। - करी, -वाला - वि

पु. वोज डोने वाला, भारवाहक, मोटिया, कुली।

ओटा - पु. [क 'ओट्ट'] १ चबूतरा। २ वरामदा, ओसारा। ३ मुंडेरा, पुस्ता; मुंडेर। ४ दे 'ओटा'।

ओटी - छी १ वरामदा, ओसारा। २ दे 'ओटी'।

ओठगण, ओठगणें - न ओठगन, आधार, सहारा।

ओठगणे - क्रि अ ओठगना, किसी चीज का सहारा लेकर बैठना, सुस्ताने के लिए लेटना। २ निर्भर रहना।

ओठ - दे 'ओठ'।

ओड, ओडगस्त, ओडणे, ओडाळ - दे 'ओड', 'ओड-गस्त', 'ओडणें', 'ओडाळ'।

ओड - छी १ खिचाव, आकर्षण, घसीट। २ तनाव, दबाव, जोर। ३. खीचने, ऊपर उठाने की वस्तु या साधन। ४ तगी, तगदस्ती, पैसे की कमी। ५ झुकाव, प्रवृत्ति, रुजूहान, रुचि। ६ प्यास। - गस्त; - घस्त - वि तगहाल, विपदग्रस्त, तगदस्त। छी दे 'ओडगस्ती', 'ओडघस्ती'। - गस्ती, - घस्ती - छी तगी, तगदस्ती, अर्थकष्ट, पैसे की कमी।

ओढण - छी १ पिछले हिसाब की वाकी नये खाते पर चढाना। २ परपरा से चली आयी प्रथा। ३ अडगा। - न १ खीचने की रस्सी या रस्ता। २ खीचने में होने वाला कष्ट।

ओढणी - छी १ ओढनी, स्त्रियों के ओढने का छोटा दुपट्टा। २ झटका, खिचाव, तनाव। ३ खीचने की रस्सी, डोरी।

ओढणें - क्रि स १ खीचना, ऐंचना, घसीटना, अपनी ओर आकृष्ट करना। २ लकीर खींचना। ३ सूंचना (नास)। ४ दम, कश लगाना, पीना (वीडी)। ५ खीचातानी करना, घसीटना। ६. तानना। ७ बाहर निकालना। ८ चूसना। ९ \* ओढना। क्रि अ १ सूखना, दुबला होना। २. खिचना। ३ जिद पकडना। ४ सिकुडना। ५ भावताव करना मु० ओढून घेणें - १ अपने ऊपर लेना, (आफत) मोल लेना। २ अपना बनाना। - ओढून घरणें - १ अडे रहना, जिद पकडना। २ बाघाएँ ढालना। ओढून बळकट करणें - जान बूझ कर या अपनी जिद के कारण सकट मोल लेना।

ओढवणें - क्रि अ. १ गुज्ररना, वीतना, आ पडना। २ अचानक आ जाना। ३. मुडना, जाना, प्रवृत्त होना।

ओढा - पु १ नाला। २ आकर्षण, रुजहान, झुकाव, तनाव, दे - 'ओढ'। ३ लेप, मरहम।

ओढाओढ, ओढाओढी, ओढा-ताण - छी १ खीचातानी, खीचाखीची, खीचतान, ऐंचा-तानी, खीचातान। २ भावताव, मोलतोल। ३ झझट, झगडा। ४ उलझन, पसोपेश। [मर्यादा।

ओढावारा - पु. प्रतिवध, ओढाळ - वि १ आवारा, भटकैया, जो वेकार घूमता-फिरता, भटकता रहे। २ चचल, स्वैर, स्वेच्छाचारी। ३ वधन से छूटकर भाग जाने वाला, भग्गू, भगोडा।

ओढाळकी, ओढाळगिरी, ओढाळी - छी आवारागर्दी, वेकार घूमना, भटकना।

ओढिस्त - वि १ तग, दे. 'ओढगस्त'। २ आफत में फँसा हुआ, परेशान।

ओढी - छी दे 'ओढ'।

ओढीक - वि १ वोझ को अच्छी तरह खीचने वाला। २ दे 'ओढप्रस्त'। ३ हठी, जिद्दी, अपनी बात पर अडा रहने वाला। ४ कजूस।

ओढून - अव्य. खीचकर, घसीटकर। - ताणून - अव्य. १ खीचखांच कर, किसी तरह। २ बडी मुश्किल से। - ० चंद्रबळ - दे 'ओढून चंद्रबळ आणणे'। मु - चंद्रबळ आणणें - १ नखरे करना, दिखावटी तौरपर इन्कार करना, तकल्लुफ करना, मन मे भावे मूंड हिलावे। २ नाहक डर दिखाना। ३ खींच खांच कर अर्थ लगाना। ४ अदर से डरते हुए ऊपर से हिम्मत दिखाना, गीदड भवकी।

ओढें<sup>+</sup> - न बदला, प्रतिशोध।

ओणवणें - क्रि अ १ कमर मे झुकना, निहुरना, ओनवना। २ बुढापे या कमजोरी के कारण शरीर का झुक जाना।

ओणवा - वि कमर मे झुका हुआ, निहुरा। \* - पु दे 'वणवा'।

ओत - पु १. उवाल, जोश। २ नाले मे से भूमि मे धुसने वाला नदी की वाढका पानी।

ओत - पु वाने का सूत, ताने में भरा जाने वाला आडा सूत। - प्रोत - वि ओतप्रोत, ताने वाने की तरह बुना या गुंया हुआ,

भरा हुआ, विलकुल मिला हुआ। - अव्य. पूरी तरह, मव ओर से, लवालव।

ओतकाम - न ढलाई; ढालना; ढालन, पिघली हुई घातु का किसी आकार मे ढाला जाना, ढालने का काम।

ओतणी - छी १ ढालने या ऊपर से गिराने का काम। २ सांचा।

ओतणें - क्रि स १ उडेलना, उडेलना, तरल पदार्थ को एक वर्तन से दूसरे वर्तन में डालना या जमीन पर गिराना। २ ढालना, पिघली हुई घातु आदि को सांचे द्वारा विशेष रूप देना। - क्रि अ. १. जोर की वर्षा होना, वरसना। २ दे 'ऊन येणे'।

ओतशाळा - छी कुप्यशाला, ढलाई-घर, ढलाई का कारखाना, 'फाउड्री'।

ओतारी - पु १ ढलाई - मिस्तरी, ढलाई का काम करने वाला। २ घातु की मूर्तियां, वर्तन आदि गढने वाला, ढालिया, गढ़ैया।

ओतीव - वि १ ढला हुआ, सांचे में ढालकर बनाया हुआ, ढलवां, ढाला हुआ। २ खालिम, शुद्ध, असली। ३ मुदर, बढ़िया। - लोखड - न कामती लोहा, ढला हुआ लोहा, 'कास्ट आर्यन'।

ओयंबणें - क्रि अ १ गरा-वोर होना, लवालव भर आना, छलकना, छलछलाना, रसमसा होना। २ फलों के वोझ से झुकना, झूलना, लटकना। ३ आधार पाना, ऊपर चढना।

ओयंबा - पु १ पेड या बेल को सहारा देने के लिए गाड़ा हुआ

खमा । २ आधार, सहारा । ३. शोका, हिलोरा ।

ओनामा, ओनामासोध - पु. [ 'ॐ नमः सिद्धम्' का विगडा हुआ रूप ] १ ओनामासी, अक्षरारम्भ, आरम्भ । २ मूल सिद्धात ।

ओनाम्या - वि १ नौसिखुवा, नौसिखिया । २ प्रारम्भिक पाठ देने वाला अध्यापक ।

ओप - छी पु १ ओप, चमक, काति, आव । २ जिला, 'पालिश' । ३ घोना, साफ करना, सफेदी, सफाई । ४ भाप, भाफ, वाष्प ।

ओपर्णे - क्रि स १ सौंपना, हवाले करना । २ देना, समर्पित करना । ३ वेचना, वेच देना । ४ + ओपना, मांजना, घोना, साफ करना । [ जिला ।

ओपा - पु ओप, चमक, ओवडघोवड - वि ऊवड-खावड टेढामेढा, अपरिष्कृत, भोडा, मोटा-शोटा, मामूली, खुर-दरा, वेढव, म्हा, घटिया ।

ओप - अव्य आह, उफ, हाय, दुःखसूचक शब्द ।

ओपरा + - पु एक दिन के भोजन के लिए निकाल कर रखा हुआ चावल, दाल आदि का सीघा ।

ओरखडणें - क्रि अ छिलना; खरोच आना, छिल जाना । - क्रि स खरोचना, खुरचना, छीलना, कुरेदना, नोचना । २ घसीटना, घसीट लिखावट लिखना, उलटी-सीधी लकीरे खीचना । ३ जमीन में सरसरी तौर पर हल चलाना ।

ओरखडा - पु खरोच, खोच; खराश, खरोट ।

ओरखाडणें - दे 'ओरखडणें' । ओरड - छी १ शोर, शोर-

गुल, हो हल्ला, चीख - पुकार, हल्ला-गुल्ला, चिल्लाहट । २ शिकायत, गिला ।

ओरडणें - क्रि अ १ चिल्लाना, शोर मचाना, हल्ला-गुल्ला करना, मचाना । २ पुकारना । ३ रोना-पीटना ।

ओरडा - पु, ओरडा ओरड-छी दे 'ओरड' ।

ओरपणें - क्रि स १ सुड-कना, किसी तरल पदार्थ को आवाज के साथ मुंह में लेकर निगल जाना, चढाना, पी जाना, उदरस्थ करना । दे 'ओरवडणे' । ३ लूटना । ४ दागना ।

ओरवडणें, ओरवाडणें - क्रि स १ खरोचना, छीलना । २. नोचना, क्षटके से उखाडना या तोडना । दे 'ओरखडणे' ।

ओरवडा, ओरवाडा - दे 'ओर-खडा' ।

ओरस - पु १ भाटा, घटाव, उतार, कमी । २ उत्साह का उत्कर्ष, अत्यानद । ३ पेन्हाना, स्तनो में दूध उतर आना ।

ओरी - दे 'ओवरी' । ओलडणें - दे ओलाडणे' ।

ओल - छी १ सील, नमी, तरी; आद्रता, गीलापन; दलदल । २. सुलभता, मिलने की आशा, सभावना । ३ दयाद्रता, दयालुता । मु. - घरणें - १ वर्षा का पानी सूख जाने से पहले जमीन में हल चलाना । २ जमीन का गीला रहना ।

ओल - छी ओल, सशरीर प्रतिभू, शरीर वधक, किसी बात की जमानत में रखी या रोक रखी गयी चीज या आदमी, जमानत । मु. ओलीस ठेवणें - ओल-

वदी करना, ओल रखना; जमानत में रखना, यरगमाल के तौर पर रखना ।

ओलट - + वि गीला-सा, नम । - छी गीली लकडियाँ ।

ओलवट - दे 'ओलट' ।

ओलवण - न, ओलवणी - छी १ गीला या तर बनाने का साधन, वस्तु, पानी, दूध, दही, छाछ आदि । २ सालन, शोरवादार तरकारी, साथ को, वह जिससे लगाकर रोटी खायी जाय ।

ओलवणें + - क्रि स गीला करना ।

ओलवा - दे 'ओलावा' ।

ओलवाहू - वि १ जलप्रस्त, जलाक्रात, सेमवाली (भूमि) । २ नहरी, तरी वाली ।

ओलसर - वि नम, तर, सीला, भीना, गीला - सा । - छी दे 'ओलावा' ।

ओलाडणें - क्रि स १ लांघना, डाँक जाना, नांघना, पार करना । २ उल्लघन करना, हदसे बढ़ जाना ।

ओला - वि १ गीला, भीना, तर, नम, सीला । २ ताजा, हराभरा । ३. पक्का, पका, रस-भीना । ४ पैसेवाला, अमीर । ५. लाभदायक, फायदेमद । - चिब - वि बहुत अधिक गीला, शराबोर । - दुष्काळ - पु अतिवृष्टि से पडने वाला अकाल । - मसाला - पु ताजा मसाला जो हर रोज पीस कर बनाया जाता है ।

ओलाणी - छी अलगनी, कपड़े टाँगने या सुखाने के लिए बांधी हुई रस्मी या वाँस ।

ओलावा - पु १ नमी, तरी, गीलापन, सील, तरावट, सीलन ।



२ लाभ, मुनाफा, लाभ की आशा, सभावना । ३ दयार्द्रता, स्नेह, सहानुभूति । ओलाव्याचा - वि १ गीला, मर्द, नम । २ मुनाफे का ।

ओली - वि स्त्री गीली, मीनी, दे 'ओला' । - आग - स्त्री दे. 'ओला दुष्काळ' । - कूस - स्त्री प्रसूति के बाद स्त्री का गर्भाशय । - कोरडी भाकर - स्त्री रुखा-सूखा भोजन, मोटा-झोटा खाना, साधारण अन्न । - खरूज - स्त्री १ पूयस्त्रावी, पीव वाली खुजली, नासूर । २ सतत परेशान करने वाली बात, झझट । - भिक्षा - स्त्री कच्ची रसोई की भिक्षा । मु० - सुकी करणें - सिक्के को उछालकर किमी बात का फैसला करना, चितपट खेलना, 'टाँस' ।

ओलें - वि दे 'ओला' । - न १ गीला वस्त्र । २ हरा चारा । - अंग - न सद्य प्रसूता स्त्री का शरीर । - पाले - न हरा चारा । - वि गीला, मीना । मु० - जाळणे - बड़ा जुलूम ढाना ।

ओलेता - वि पु, ओलेती - वि - स्त्री जिसके शरीर पर गीले कपड़े हो, जिसने गीले कपड़े पहने हों ।

ओवण, ओवणी, ओवणें - दे. 'ओवण', 'ओवणी', ओवणे ।

ओवरी - स्त्री १. मंदिर के चारों ओर की चौड़ी दीवार में पुजारियों, यात्रियों, साधुओं आदि के ठहरने के लिए बनाया हुआ कमरा । २ ओसारा, वरामदा ।

ओवळा - दे 'ओवळा' ।

ओवा - पु अजवायन, अजवाइन, अजमोदा ।

ओवाळणी, ओवाळणे, ओवाळलेला, ओवाळून टाकलेला, ओवी - दे 'ओवाळणी', 'ओवाळणे'; 'ओवाळलेला', 'ओवाळून टाकलेला', 'ओवी' ।

ओशट - वि १ चिकना, तेलिया, स्निग्ध, तेल या घी में सना हुआ । २ तिल्लाळा, तेल के-से स्वाद वाला । - न १ चिकना-हट, चिकनाई, स्निग्धता । २ कोई भी चिकनी चीज, तेल या घी से सनी चीज ३ गोस्त, मास ।

ओशाळ, ओशाळगत - स्त्री १ झेंप, सकोच, लजीलापन, लज्जा, गर्मिदगी, गर्म । २ दव्वपन ।

ओशाळणे - क्रि अ १ झेंपना, लजाना, गर्मिदा होना । २ दवना, लाचार हो जाना ।

ओशाळवाणा, ओशाळा - वि गर्मिदा, लज्जित, झेंपू, दव्वू, दवैल, उपकार के बोझ से दवा हुआ ।

ओष्ठच - वि ओष्ठच, ओठ से सवद्ध, ओठ से उच्चारित । - वर्ण - पु ओष्ठचवर्ण, उ, ऊ, ए, ए, वू, वू, मू, मू ।

ओसग\* - पु उत्सग, गोद, अक । मु० ओसगी असणें, राहणें - सहारा लेना, पनाह में होना, रहना । ओसंगी घालणें, देणें - किसी के हवाले करना, शरण, आश्रय में रखना, सौंपना ।

ओसडणें - स्त्री अ छलकना, उमडना, उछलना, बढकर फैलना, बह चलना । - क्रि स \* वाहर फेंक देना, त्यागना ।

ओस - वि १ निर्जन, वीरान, उजडा हुआ, जनहीन । ३ तवाह,

वरवाद । ३ वजर; ऊमर, पडती, परती । ४ सूना, सुनमान ।

ओसणणे \* - क्रि अ १ वराना, सपना देखते हुए आदमी का बोलना । २ बकना, बड़बडाना ।

ओसर - पु स्त्री १ एक तरफ हो कर दूसरे को जाने के लिए दिया हुआ मार्ग । २ पानी का बटाव, उतार ।

ओसरणे - क्रि अ १ घटना, कम होना, हल्का पडना, उतरना, दूर होना, हटना, नीचे चला जाना, नाश होना, ढीला होना, ढलना । २ खाली होना ।

ओसरी - स्त्री उसारा, ओमारा, सायवान, वरामदा । कहां भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसररी - उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना, दिया हाथ, खाने लगा साथ ।

ओसाडणें - दे 'ओसडणें' । ओसाड - वि वीरान, उजाड, उजडा हुआ, जनशून्य, दे 'ओस' ।

ओसाडी - स्त्री १ वीरानी, जनशून्यता । २ वीरान, जनशून्य स्थान, उजाड । मु - चा लाडगा-जहाँ रक्षा का कोई साधन न हो वहाँ घात में बैठे हुए क्रूर व्यक्ति ।

ओसावणे \* - क्रि अ १ कम होना, घटना । २ कमजोर हो जाना ।

ओहट - पु दे 'ओहटी' । ओहटणे - क्रि अ घटना, कम होना, भाटा आना, पीछे हटना ।

ओहटी - स्त्री १ भाटा, उतार, घटाव । २ स्थगन, इस्तवा, स्थगित, मुलतवी होना ।

मु - लागणें - पतनोन्मुख होना, ह्रास होना, घटने लगना।

ओहरणे<sup>+</sup> - क्रि अ भर जाना, पट जाना, पाटा जाना। दे 'होरणे'। - क्रि स १ पाटना, भर देना। २ मढना, गहनो से लादना।

ओहळ - पु १ नाला, पानी का छोटा प्रवाह, बहाव, धारा। २ झरना, निर्झर, पहाड से नीचे गिरने वाला सोता।

ओहळणें - क्रि अ १ बहना, झरना। २ मूराख का बढ जाना, ढीला हो जाना। ३ दे 'ओघ-ळणे'।

ओही - अव्य ओही, हर्ष या आश्चर्यसूचक शब्द।

ओहोट, ओहोटणें, ओहोटी, ओहोळ - दे 'ओहट', 'ओह-टणें', 'ओहटी', 'ओहळ'।

ओळगणे\* - क्रि अ स १ झूलना, लटकना। २ आघार, सहारा लेना। ३ शरण में जाना, सेवा करना। ४ प्रसन्न, वश होना। ५. गले लगाना, चिमटना।

ओळगा<sup>+</sup> - पु आश्रय, आघार, सहारा।

ओळबणें<sup>+</sup> - क्रि अ लट कना, झूलना, झुकना।

ओळबा - पु साहुल, सहावल, लटकन (दीवार की सिवाई नापने का साधन)।

ओळ - स्त्री १ पवित, कतार। २ श्रेणी, क्रम। ३ लकीर, रेखा, धारी। ४ मार्ग, पद्धति, रिवाज, प्रथा, अनुशासन, ढग।

ओळकबणें<sup>+</sup> - दे 'लोवकळणें'।

ओळख - स्त्री १ परिचय, ज्ञान, शनाखत, शिनाखत, जान-कारी, पहचान, जान-पहचान,

तअर्हफ। २ स्मरण, याद। ३ निशान, चिह्न। ४ जमानत। - देख, -पाळख, -भेंट - स्त्री जान-पहचान, मित्रता, स्नेह। मु०-देणे, -पटविणें - शनाखत कराना, जमानत देना।

ओळखण - स्त्री १ चिह्न, निशान, शनाखत, २ परिचय के लिए दी हुई वस्तु।

ओळखणें - क्रि स जानना, पहचानना, भांपना, ताडना।

ओळखीचा - वि १ परिचित, जान-पहचान वाला, वाकिफ। २ रिश्तेदार, मित्र, स्नेही।

ओळगणें - दे 'ओळगणें'।

ओळणें\* - क्रि अ १ खिचना, मुडना, २ अनुकूल होना। ३ कृपा, अनुग्रह करना। ४ झरना, बहना। - दे 'वोळणें'।

## औ

औ - मराठी वर्णमाला का चौदहवां स्वरवर्ण।

औदा<sup>+</sup> - अव्य [फा 'आइदा'] इस साल, इस वर्ष।

औक्ष<sup>+</sup> - न आयु, जिदगी, उम्र। - वत, - वान, वि आयुष्य-मान्, लवी उम्र वाला, चिरायु, चिरजीवि। [परछन।

औक्षण - न आरती उतारना, औखळ, औचट, औचित - दे 'अवखळ', 'अवचट', 'अवचित'।

औचित - वि उचित, योग्य। औचित्य - न औचित्य, उचित होना, मुनासिबत, उपयुक्तता।

औजड, औजार - दे 'अवजड', 'अवजार'।

औट - वि अहुठ, साढे तीन।

मु० - घटकेचें (घटकाचें) राज्य - बहुत थोडे समय तक रहने वाली सत्ता या अधिकार, क्षणभंगुर सुख, वैभव आदि, पानी का बुल-बुला।

औटकी - स्त्री, औटके - न हूँठा, साढे तीन का पहाडा।

औटी - स्त्री १ लकडी का छेद या दरार जिस मे पन्चार ठोका जाता है। २ ठप्पा, बाहरी चूडी-कट, 'डाइ'।

औडक चौडक - पु. वच्चो का एक खेल।

औत - न १ हल, लागल, खेती का औजार। २ एक हल से जोती जानेवाली जमीन। ३ खेती के काम में आनेवाली बैलो की

जोडी। - करी - पु किसान; हलवाह, हलवाहा। - काठी - स्त्री खेती के औजार। मु.-घरणें - हल चलाना। - सुटणें - हल चलाने का काम बंद होना। - सोडणें - हल चलाना बंद करना।

औतण, औतणे\* - न आम-घ्रण, निमघ्रण।

औत्या - पु १ किसान, हल-वाहा। २ चाकर, नौकर। [कता।

औत्सुक्य - न औत्सुक्य, उत्सु-औदड\* - वि विपुल, बहुत अधिक।

औदार्य - न औदार्य, उदारता, सखावत, फैयाजी।

औदासीन्य - न १ औदासीन्य, उदासीनता, वैराग्य। २

लापरवाही।

औदुंबर - पु. उदुंबर, गूलर ( पेड और फल )।

औद्वत्य - न औद्वत्य, उद्व-तता, उजड़डपन।

औद्योगिक - वि औद्योगिक, उद्योगसवधी, 'इंडस्ट्रियल'।

-उन्नति-स्त्री औद्योगिक उन्नति।

-वराति-स्त्री औद्योगिक क्राति, उद्योग-क्राति। -शिक्षण - न औद्योगिक शिक्षा, उद्योगशिक्षा।

औपचारिक - वि १ औपचारिक, रस्मी, शिष्टाचार के अनुकूल। २ बाहरी, दिखाऊ, गौण। ३ आलंकारिक, रूपकात्मक।

औपरोधिक - वि उपरोधयुक्त, व्यग्यात्मक, वक्रोक्तिपूर्ण, व्यग्यापूर्ण।

और - वि १ और, दूसरा, अन्य। २ अजीब, विचित्र। ३ वद्विया, सुदर।

औरत - स्त्री [ अ ] १ औरत, स्त्री, पत्नी। २ रखेल, रखेली, रखनी, उपपत्नी।

औरस - वि औरस, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, वैध, जायज।

औरस-चौरस - अव्य १ चारो ओर, आसपास। २ लवाई और चौड़ाई में। - वि चौकोना, चौकोर।

और्ध्वदेहिक - वि और्ध्वदेहिक, मृत व्यक्ति से सवद्ध या उसके निमित्त किया गया। - न अत्येष्टि; मृतककर्म।

औलाद, औलिया - दे 'अवलाद', 'अवलिया'।

## क

क - मराठी वर्णमाला का १७ वां वर्ण और क वर्ग का पहला व्यंजन।

कक - पु. १ कक, वगुला; कौंच, करंजकुल। २ क्षत्रिय। ३ युधिष्ठिर का एक नाम जो उन्होंने विराट नगर में धारण किया था। - पत्नी, - पिच्छ - पु. वाण जिसमें कक का पर लगा हो।

ककण - न ककण; कगन; चूडी। २ यज्ञ के समय यजमान के हाथ में बाँधा जाने वाला पीला धागा। ३ विवाह के पहले वर-कन्या के हाथ में बाँधा जाने वाला पीला धागा जिसमें हलदी की गाँठ और दूब बँधी होती है। ४ कडा, वलय, छन्ना। मु. हातात ककण बाधणें - १ बीडा उठाना, किसी काम का भार उठाना, किसी

कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा करना। २ स्त्रीकृत बात पर गर्व करना।

ककणाकृति - वि ककण या कगन के आकर का, छल्लेदार; वलयाकार, गोल। - ग्रहण - न वलयाकार ग्रहण, 'ऐनुलर एक्लिप्ट'।

कंकर, ककरा - पु. १ कंकड, ककर। २. रेत; बालू। ३ ढोल आदि का तममा, चमड़े की पट्टी, चमडा। [वबूल, सोनकीकर।

कंकर, ककरी - स्त्री कीकर, ककरी - स्त्री बटे हुए रेशम की लडी।

कंकाल, कंकाल - पु. १ कंकाल, हड्डियों का ढाँचा, ठठरी। २ पिशाच, भूत।

औपघ - न १ औपघ, दवा, औपधि, जडी-बूटी। २ कार्य-मिद्वि का साधन, उपाय, इलाज। ३ बाह्यद। - पाणी - न दवा - दरपन, दवा - दारू, इलाज, चिकित्सा, उपचार। मु. औपघाला नसणे - बिलकुल अभाव होना, थोडा-सा भी न होना, कहने भर को भी न होना।

औपघी - वि दवासवधी, दवा के उपयुक्त, औपधीय, जडीबूटियों से बनी। - स्त्री १ औपघी, दवा। २ जडी-बूटी। - शास्त्र - न औपघ शास्त्र

औपघोपचार - पु. औपघोपचार, दवा-दारू, इलाज।

औष्णिक - वि उष्मीय, तापीय, 'थर्मल'।

ककाळा-ळी - वि क्रूर, पैशाचिक, जगली। - स्त्री राक्षनी, पिशाचिनी, एक क्षुद्र देवी।

कंकोल - ल - पु. कंकोल, एक तरहकी शीतल चीनी, कवाव चीनी।

कगण - न पु., कगणी - स्त्री १ दे 'ककण। २ सिरपेच, मिरपेच। ३ कगूरा, किनारा। ४. हाशिया, गोटा। ५ कधी। - दार - वि १ ( ऐसी पगडी ) जिसमें आगेकी तरफ बल दिया हुआ हाशिया हो। २ सुदर, नक्काशी वाला।

कगवा - पु. कघा, कधी।

कगाल - वि १ कगाल, गरीब, निर्बन, भुक्खड, मुहताज। २ ( ऐसी भूमि ) जहाँ

कोई फ़सल न होती हो। ३. लुटेरा  
-पोतें - न १ भीख की झोली।  
२ ढीला-डाला कुर्ता, अँगिया  
आदि। - वत - वि बहुत गरीब,  
भुक्खड। [गरीबी, निर्धनता।

कगाली - छी कगाली,  
कगुमगु - छी टालमटोल।  
-वि हीलेवाज, वहाने बनाने-  
वाला।

कगूरा, कगोरा - पु [फा  
'कुगुर']। १ कगूरा, गुवद, बुर्ज।  
२ किनारा, कोर, कोना,  
हाशिया। ३ कगर, कँगनी,  
कगार, 'कारनिम'।

कचन - न पु. १ कचन,  
सोना २. कचनार, कचनार से  
मिलता-जुलता एक वृक्ष। -छी  
कचन, एक जाति जिसकी स्त्रियाँ  
प्राय वेद्याकर्म करती हैं।

कचनी - छी कचनी, तवा-  
इफ, नर्तकी, नचनी, नटनी,  
वेद्या।

कचा - सर्व कौन-सा।

कचुक - पु १ कचुक, जामा,  
अँगरखा, चोली, अँगिया। २  
वस्तर, कवच। ३ केचुल,  
केचुली। ४ छाल, भूमी। ५  
\*आवरण, आच्छादन।

कचुकी - छी १ कचुकी,  
चोली, अँगिया। २ फूल का  
आच्छादन या कटोरी। - पु  
कचुकी, रनिवाम का रक्षक,  
अत पुराध्यक्ष, द्वारपाल, स्वाजा-  
सरा।

कजर - पु. कजड, एक खाना-  
बदोश जाति। इस जाति के स्त्री  
-पुरुष छीके बुनने, रस्सियाँ बटने  
और रस्सियों की चीजें बनाने का  
काम करते हैं।

कजार, कजारभट, कजारी -  
म हि ष को .१०

पु दे 'कजर'।

कजारीण - छी १ कजडिन,  
कजड जाति की स्त्री। ये स्त्रियाँ  
तालियाँ पीटकर और गदे गीत-  
गाकर भीख माँगती हैं। २ विखरे  
वालोवाली स्त्री, डाइन, भुतनी,  
डरावनी आकृति वाली स्त्री।

कजुषी - छी कजूसी,  
कृपणता।

कजुष, कजूष - वि कजूस,  
सूम, कृपण, मक्खीचूस।

कजूषी - दे 'कजुषी'।

कटक - पु. १ कटक, काँटा।  
२ व्याधि, पीडा, छोटा शत्रु,  
वैरी, वह जो परेशान करे। ३  
कजूस। ४ वाधा; रुकावट। ५.  
नोक। - वि दे 'काटक'।

कटाळ - पु. दे 'कटाळा'।

-खोर - वि कामचोर, आलसी।

-वाणा - वि उकतानेवाला,  
भारी, नागवार, उवानेवाला,  
थकाने वाला, उचाटने वाला।

कटाळणें - क्रि अ १ ऊवना,  
उकताना, थकना, तग आना,  
परेगान होना। २ सुस्ती आना।  
३ नफरत, घृणा होना।

कटाळा - पु १ ऊव, उक-  
ताना, उचाट, नफरत, घृणा,  
अरुचि। २ थकान, थकावट,  
श्राति। ३ सुस्ती। ४ त्रास, भय।

कंटाळघा - वि बहुत जल्दी  
उवाने वाला, उकताने वाला।

कठ - पु. १ कठ, गला,  
हलक। २ स्वर, आवाज। ३.  
घडे आदिका गला। ४ तोते  
आदि के गले पर की रगीन वृत्ता-  
कार लकीर, कठा, गडा। - गत  
- वि १ गले का (गहना आदि)।  
२. कठ, कठस्य, याद, वर-  
जवान्। ३. कठगत, गले में आया,

बटका हुआ। - ० प्राण - आसन्न-  
मरण। - नाळ - छी गर्दन।

( मु ० - ० चिरणें - गला रेतना,  
गरदन मारना। ) - शोष - पु  
१ कठशोष, प्यास के कारण गले  
का सूखना। २ वेकार की वक-  
वास, नाहक चिल्लाना। - स्य -  
वि कठस्य, दे 'कठगत'।

-स्नान - न. १ गरदन मारना,  
गला काटना, सिर उठाना। २  
गलेसे नीचेका स्नान ( विशेषत  
स्त्रियोंका )। मु ० - दाटणें -

गला भर आना, गद्गद होना।  
-फुटणें - १ कठ फूटना,  
आवाज निकलना। २. जवानी  
आनेपर आवाज का बदलना। ३  
तोते आदिका कठा निकलना।

-बसणें - कठ बैठना, गला  
बैठना, वेसुरा होना। -मरुन घेणे  
- दे 'कठ दाटणे'। - मोकळा  
करुन रडणें - जोर जोरसे रोना;  
फूट फूटकर रोना। कठास प्राण

येणें - १ आसन्नमरण होना। २  
दुख या भूख से प्राणो का गले  
तक आना। कठास लावणें -  
गले लगाना, आलिंगन करना।  
कंठीं धारण करणें - १ गले में  
पहनना। २ गले का हार बनाना।  
कंठीं प्राण उरणें, येणें - दे  
'कठास प्राण येणे'।

कठणें - क्रि अ १ कट्ट  
के साथ गुञारना, किसी तरह  
विताना। २ काटना, तै करना।  
३. सहना, वर्दाशत करना।

कंठा - पु कठा, मोते या  
मोतियों का हार, बडे मनकों की  
माला जो गले से मटी रहती है।

कठाळ, कठाळी - छी १ गोन,  
गोनी, बँड पर अनाज आदि  
लादनेका दोनों ओर लटकने वाला

थैला । २ चूँ चूँ का मुरब्बा, तरह तरह की वेमेल चीजों का योग । - वि (ऐसा प्रस्ताव) जिसमें अनेक विषय ठूसकर भरे हो । मु-लादणें - १ वैल या घोड़े पर भारी बोझ लादना । २ किसीपर जबरदस्ती कोई बात लादना । कहा० आम्ही तुम्ही एक आणि कठालीला मेख - ऊपरी मित्रता, झूठी दोस्ती ।

कठालघा - वि १ लटुआ, लटुवा, लट्टू, बोझ होनेवाला (पशु) । २ लट्टव, बूट्टू, मोटी अवलवाला, सुस्त, काहिल ।

कंठी - स्त्री १ कठी, छोटे मन-को का कठा, सोने या मोतियों का तीन या चार लड्डियोवाला हार । कठहार, । कठश्री, कठसिरी; कठहार । २ कठी, तुलसी के छोटे दानों की छोटी माला जो वैष्णवत्व का प्रथान चिह्न है । ३ कठा, कुरते का गले पर रहनेवाला अर्द्ध-चद्राकार भाग ।

कठथ - वि कठथ, कठ - सवधी, कठ से उच्चारित । - वर्ण पु. कठथ - वर्ण, वह वर्ण जिसका उच्चारण कठ से होता है । (अ, आ, क, ख ग घ, ह और विमर्ग) - स्वर - पु. अ और आ ।

कड - पु. स्त्री १ कडू, कडू; खाज, खारिश । २ खुजली । ३ तीव्र इच्छा, किसी काम के लिए वैचन होना । [लट्ठा, कुदा ।

कडका<sup>+</sup> - पु १ टुकड़ा । २. कडा<sup>+</sup> - पु १ ऐसी रस्सी जिसपर चाँदी का पत्तर चढ़ाया हो । २ मात, हार ।

कडारणें<sup>+</sup> - क्लि अ १ मोटा - ताजा, हृष्टपुष्ट होना । २ गदराना, भरना । ३ काटना, कुतरना ।

कडारणें<sup>+</sup> - न १ किसान के चावुक का दस्ता । २ ठेंगा, डडा, लट्ठ । ३ कडा, छल्ला । ४ सुनारों का एक औजार । ५ नाई की नहरनी ।

कडाली - दे 'कडी' ।

कडी - स्त्री १ अफवाह, गप, उडती खबर, भनक । २ तुहमत, मिथ्या आरोप, लाछन । ३ दे 'करडी', पहाड़ों में मनुष्यों को रख कर ढोने की टोकरी ।

कडू - पु. स्त्री १ कड, कडू, खाज, खुजली, खारिश । २ तीव्र इच्छा, जोग । ३ मस्ती, घमड, काम, सभोगेच्छा की प्रवलता, मतवालापन, जवानी का नशा ।

कत<sup>+</sup> - पु. पति, प्यारा ।

कतान - [अ 'कत्तान'] १ कतान, सन का एक वारीक कपडा । २ किरमिच, विलायती टाट, 'कैनवस' ।

कत्राट - न [अ 'कट्रैट'] ठेका, ठीका । - दार - पु ठीके-दार, ठेकेदार ।

कथ<sup>\*</sup> - पु. कात, पति ।

कथा - स्त्री १ कथा, गुदडी, कथरी । २ जोगियों का उत्तरीय, चादर । - धारी - पु १ कथा-धारी, योगी । २ गुदडी ओढ़ने वाला ।

कद - पु १ कद, गाँठदार या गूदेदार जड, गाँठ । २ शकरकद । ३ मूल, उद्गम, उत्पत्तिस्थान, निधान, सग्रह, खजाना । - मूळ - न खानेके योग्य कद, कदमूल ।

कदन - न १ नाश, महार, कुचल डालना, कत्ल । २ युद्ध, लडाई ।

कदर - न, कदरा - स्त्री १ कदर, कदरा, गुफा, घाटी । २

हृदय, अत करण ।

कदर्प - पु. १ कदर्प, कामदेव, मदन । २ प्याज ।

कदर्पांचे घर - न कदर्पकूप, योनि ।

कदी - वि कद के रगका, भूरा, मटमैला । - पेढा - पु एक किस्म का पेढा जो फीका होता है और वढिया समझा जाता है ।

कदी<sup>+</sup> - अव्य कद, कभी ।

कंदील - पु. [अ 'किदील', फा 'कदील', अ 'कैडल'] १. लालटेन, हाथ में लटकाने लायक चिमनीदार लैंप, फानूस । २ कदील, लटकाने लायक पीतल या शीशे का दिया ।

कदुक - पु. कदुक, गेंद ।

कदुरी, कदोरी - स्त्री [फा 'कदूरी'] १ हजरत फातिमा के सम्मान में दिया जाने वाला भोज (मुसल) । २ उत्सव, समारोह का भोज । ३ वकरे का गोश्त, मांस का नैवेद्य । ४ कदूरी, खाना खानेका कपडा, दस्तरखान ।

कदुल<sup>\*</sup> - पु काचन का फूल ।

कंप - पु १ कप, कपन, कैंपकैंपी, मिहरन । २ डर, घाक, दहशत ।

कंप - पु. [अ 'कैंप'] १ कप, डेरा, पडाव । २ छावनी, 'कैंटोनमेंट' । [कैंपकैंपी, सिहरन । कपन - न कपन, कैंपना, कंपारी स्त्री कैंपकैंपी, सिहरन । कपास - पु. [अ ] १ परकार; 'कपास' । २ दिग्दर्शक यंत्र, कुतुवनुमा ।

कपू - पु. [अ 'कैंप'] १ अड्डा, गुट, दल, चौकडी । २ मेना का एक विभाग, कपनी । ३ कप, कपू, फौजकी छावनी,

पडाव, खेमा, फीज, 'कैप'।

कवक्ती - छी [फा 'कम-वस्ती'] शामत, मुसीवत, दुर्भाग्य, कमवस्ती।

कंबर - छी [फा 'कमर'] कमर, कटि। दे 'कमर'।

कबळी - छी कवल, फटा-पुराना कवल।

कबंटाळ - न १ टोना, टोटका, मारण। २ तोहमत, तुहमत, झूठा इलजाम। ३ झझट, पड्यत्र।

कवचाळ - न घेरा, लोगो का गोलाकार में बैठना।

कंबची - छी २ दे 'कपची'। २. अडे का छिलका। ३ खोपडी, माया, कपाल।

कवट - न मुर्गी का अडा। मु० - गाळणें - घवडाना, बहुत अधिक डर जाना।

कवटाळणे - क्रि स १ गले लगाना, लिपटना, बाँहो में कस लेना। २ घेरना। ३ अदर लेना, स्वीकार करना। ४ कब्जा करना। - क्रि अ १ समझना, जानना। २ अदर आना, होना।

कवटाळी - छी १ आर्लिंगन। २ पकड। - वि दे 'कवटाळी-ळ्या'।

कवटाळी - लघा - वि १. टोना-टोटका करने वाला। २ तोहमत लगाने वाला।

कवटाळीण - छी जादूगरनी, डाकिनी, डाइन, खूसट औरत।

कवठ - न १ कैथ, कैया, कपित्थ (फल)। २ मुर्गीका अडा। - छी कैथ, कैया (पेड)।

कंबठी - छी कैथे का पेड।

कवडल - छी न इद्रायण, एक लता जिसका फल कडुआ

होता है।

कवसाल - न १ तोहमत, झूठा इलजाम। २ पड्यत्र। ३ जादू।

कस - पु कस, श्रीकृष्ण के मामा।

कस - पु [अ 'कौस'] कोष्ठक, वधनी, अभिवार, 'ब्रैकेट'।

क पदार्थे वि तुच्छ, क्षुद्र, हेच। [सक्षेप।

क। - पु 'कसवा' शब्दका कइ \* - अव्य. कव।

कइचा \* - दे 'कैचा'।

कई, कई \* - अव्य १ कव। २ कहाँ।

कईक + - दे 'कैक'।

कईपक्षी - \* वि पु समर्थक, हिमायती, तरफदार।

ककु - \* छी १ गलेके अदरकी घटी, कौआ, घांटी। २ गर्दन का अगला भाग।

कक्ष - पु १ कक्ष, काँख। २ वगल, वाजू।

कक्षा - छी १ कक्षा, परिधि, दायरा, ग्रहोका भ्रमण - पथ। २ कमरा।

कचवणे + - दे 'कचमणे'।

कच - छी १. आफत, बुरी दशा, सकट, झझट। २ दब जाना, घँस जाना, दबाव, चाँप। ३ ककरी, रेत, बालू के कण। ४ छोटी ककडी, ककरीट के उपयुक्त ककड। ५ कँकरीलापन। ६ हार, हथियार डालना। - पु छेद, कटाव, धाव, गडबा। मु - खाणें - हिम्मत हारना, दब जाना, डर जाना।

कच - पु कच, बाल। - पाश - पु १ केशपाश, सिरके लबे बाल,

केशसमूह, लटकती हुई लटें। २ बालो का पाश, फाँस, लटो का फदा।

कचक + - छी १ मारपीट, झगडा। २ दे 'कच'। ३ टीस, कसक। ४ दहशत, डर। - वि बहुत बडा, प्रचंड।

कचकच - छी १ रेत, बालू, ककर आदि के कण, करदा, विक्री के अनाज आदिमें मिला हुआ कूडा-करकट। २ ककरीलापन, किरकिराहट। ३ किचकिच, झगडा, तकरार, हुज्जत। ४ भीड, घिचपिच। ५ उल्लू, कराँकुल आदि का बोलना।

कचकचणें - क्रि अ कचकचाना, किचकिचाना, दाँत पीसना।

कचकचाट - पु १ हल्ला-गुल्ला, शोर, कोलाहल। २ झगडा।

कचकचा - अव्य किचकिचा कर, दाँत पीसते हुए, कचकच की आवाज करते हुए।

कचकचीत - वि १ कच्चा, कडा। २ साफ, ठोस, मोटा। ३ किचकिच वाला। ४ जिसमें बालू के कण हो। - अव्य १ नकद, ठोक-बजाकर। २ पूरी तरह, अच्छी तरह।

कचकडा - पु १ 'सेल्युलाइड', 'सेल्यूलॉयड'। २ कचकड, कचकडा, कछुए का खोपडा। ३ अरना भैसे का सींग आदि जिससे कधियाँ बनाते हैं।

कचकणें - क्रि अ १ हिम्मत हारना, पस्त होना, पीछे हटना। २ दबना, खिसकना। ३ दरकना, खिंचाव या दबाव से फटना। ४ निराश होना। - क्रि स

खीचना, झटके के साथ खींच लेना ।

कचकन - अव्य [क 'कचकनु' ] तडाक से, जोर के साथ, झटके के साथ ।

कचका - पु. १ तलवार या लकड़ी का वार, आघात । २ झटका, घचका । ३ जोर, जोश । ४ झपट्टा, झपेटा, हमला ।

कचकावणें-क्रि स १. पीटना, आड़े हाथों लेना, बुरा-भला कहना, डाँट पिलाना । २ जकडना; कम कर बाँधना, खीचना, घसीटना । ३ ठूसना, भरना ।

कचकावून, कचकून - अव्य [क 'कचकनु' ] पूरी ताकद लगा कर, तडाक से, बड़ी कोशिश कर के, जोर से ।

कचक्या - वि १ जोरदार, साहसी, पक्का, प्रचंड, उग्र, उस्ताद । २ तेज, फुर्तीला, वेगवान् ।

कचदिशीं - दे 'कचकन' ।

कचमच, कचमचा-अव्य वालू के कणों के रहते हुए, जोर जोर से चवाकर ।

कचमणें, कचमळणें-क्रि स १ हिलाना, आलोडित-करना, गदा करना । २ मसलना, गीजना । - क्रि अ मिचलाना, मतली आना ।

कचरणें - क्रि अ १ शिक्षकना, डरना । २ हट जाना, हार खाना ।

कचरा - पु. १ कचरा, कूड़ा-करकट, कतवार, झाडन, वेकार चीजें । २ कतवारखाना । ३. सेना के साथ रहने वाले वे लोग जो स्वयं नहीं लड़ते ।

कचरा - पु. कचूर, हलदी की जाति का एक पौधा जो दवा के

काम आता है ।

कचरी - दे 'काचरी' ।

कचाकच, कचाकचा - अव्य १ झटके के साथ, खट से, झट से । २ कचकच की आवाज के साथ ।

कचाकची - स्त्री छीनाझपटी, मारपीट, मुठमेड, झगडा, तू-तू मैं-मैं ।

कचाट - टा - पु. न १ युक्ति, तरकीब, कारस्तानी, साजिश । २ साहस, मुश्किल काम । ३ झंझट, झमेला, वखेडा । ४ तुहमत । दे 'कचाटी' ।

कचाटी - स्त्री सकट की स्थिति, आफत, झंझट, झमेला । मु० कचाटीत धरणें, पकडणें-फँसाना, उलझाना । कचाटीत सांपडणें-चंगुल में फँसाना, पकड में आना ।

कचैरी - स्त्री १ दफ्तर, कार्यालय । २ कचहरी, इजलाम, अदालत, दरवार । ३ दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी, अमला ।

कचौरा-ला-पु, कचौरी-स्त्री कचूर, हलदी की जाति का एक पौधा जो दवा के काम आता है ।

कचौरी-स्त्री कचौड़ी, कचौरी । कचौळ-ळे-न, कचौळा-पु [फा 'कचकोल' ] एक पूजापात्र जिस में तीन खाने और ऊपर एक प्याली होती है, पचामृत-पात्र, गवाक्षत-पात्र ।

कच्चा - वि १ कच्चा, अनपका, अपक्व, हरा । २. आँच में न तपाया हुआ । ३ अधकचरा, जिसके पकने में कसर हो, अनसिझा । ४ साफ न किया हुआ । ५ ऊबड़-खावड़, ऊँचा-नीचा, खुरदरा, खरखरा । ६ अवूरा, अपरिष्कृत, असंस्कृत । ७ प्रामाणिक तौल-मापसे कम । ८, जिसमें काट-

छाँट, रद-बदल हो मके । १ अम्यायी, जो नियमित रूप में, वाकायदा न हो । १० अधिक दिन न टिकने वाला । ११ अपरिपक्व । १२ जिममें घँस, दृढता न हो, कमजोर, बेहिम्मत । १३ गौण, छोटा । १४. सकीर्ण, तग । - खर्च - पु. १ कच्चा हिसाब । २ अस्यायी खर्च । ३ फुटकर खर्च । - खर्डा - पु. १ मसीदा, खर्डा । २ आयव्ययक, 'वजट' । ३ तखमीना, 'एस्टिमेट' । - डाक, - डाग - पु. कच्चा जोट या टाँका, कम ताप में पिघलने वाला राँगेका जोड । - दोरा, - धागा - पु. कच्चा तागा, वे-बँटा धागा । - पाड - पु. वह (फल आदि) जिसके पकने में काफी देर हो । - पाडा-पु. १ जवानी वार्ते, कच्चा विवरण । - माल - पु. कच्चा माल, वह वस्तु जिससे (शिल्प द्वारा) कोई चीज बनायी जाय । - शेर - पु. पद्रह तोले का वाट ।

कच्ची - वि स्त्री दे 'कच्चा' । - स्त्री १ कच्ची गोटी, चौसर की वह गोटी जिमने आधा या अधिक रास्ता पार न कर लिया हो । २ हरी या काली गोटी । ३ फजीहत, दुर्गति, फकडी । - असामी - स्त्री ऐसा महाजन, कर्जदार या पट्टेदार जिसका दीवाला निकल गया हो या जिसके पास पर्याप्त साधन न हो । - कैद - स्त्री १ हवालात, हिरासत । २ नजर-बंदी । ३ मादी कैद । - मिती - स्त्री कच्ची मिती, निश्चित समय से पहले की मिती, जिस दिन कर्ज दिया गया हो उससे पूर्व के दिन उसे दर्ज करना । - हुंडी - स्त्री वह हुंडी जो मकारी न

गयी हो।

**कच्चे** - वि न दे 'कच्चा' -  
अडे - न ताजा अडा - अक्षर - न  
खराब लिखावट। - कातडे - न  
कच्चा चमडा, कच्ची खाल। -  
खाते - न अस्थायी खाता,  
हिसाब। - बच्चे - न बालबच्चा,  
छोटा बच्चा। [ बहु कच्चीं  
बच्चीं = कच्चे-बच्चे ]। - मडके -  
न १ कच्चा घडा, न पका हुआ  
घडा। २ सीखने की उम्र का,  
संस्कार ग्रहण करने योग्य व्यक्ति।  
३ अनाडी, अपरिणतप्रज्ञ। -  
रेशीम - न कच्चा वाना।

**कच्छ** - पु १ कच्छ, घोतीकी  
काष्ठ या लांग। २ किनारे की  
भूमि, कछार। ३ अनूप देश,  
दलदल भूमि। ४ कछुआ। ५  
विष्णु के दस अवतारों में से एक।  
६ तुन का पेड़। ७. नौका का भाग-  
विशेष।

**कच्छप** पु - १ कच्छप,  
कछुआ। २ घोती की काष्ठ या  
लांग। दे 'कच्छ'। मु - कच्छपीं  
लागणे - १. किसीके पीछे लगना,  
किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए  
किसी का आश्रय लेना, किसी के  
पीछे पागल होना, किसी कार्य की  
सिद्धि के लिए किसी के पीछे-पीछे  
करना, किसी अप्रिय या हानिकर  
वस्तु का पीछा न छोड़ना।  
२ पीछे पडना, सताना, परेशान  
करना।

**कच्छी** - वि कच्छी, कच्छ देश  
का (निवासी, घोडा आदि)।

**कछवा** - स्त्री एक प्रकार का  
मितार।

**कजाख**, **कजाग** - वि [ तु  
'कज्जाक' ] १ दुष्ट, झगडालू,  
जिद्दी, हठी। २ क्रूर, जगली।

**कज्जा** - पु [ अ 'कजीय' ]  
१ कजिया, झगडा, टटा। २  
नालिश, फरियाद, अभियोग।  
- कफालत - स्त्री, - खोकला - पु  
झगडा, फसाद, टटा, बखेडा,  
नालिश।

**कज्जेखोर** - वि [ अ 'कजीय'  
+ फा 'खोर' ] झगडालू। दे  
'कज्जे दलाल'।

**कज्जेदलाल** - वि [ अ 'कजीय'  
+ अ 'दलाल' ] कजिया-दलाल,  
झगडा लगाने वाला, झगडा लगा-  
कर उससे पैसा कमाने वाला।

**कज्जेदलाली** - स्त्री [ दे 'कज्जे-  
दलाल' ] कजिया-दलाली, झगडा  
लगाना, झगडा लगा कर उससे पैसा  
कमाना।

**कटंजन** - न १ जगला, कठ-  
घरा, 'रेलिंग'। २. चवूतरा।  
३ प्रदक्षिणा-मार्ग।

**कट** - पु [ क 'कट्टिकोळू' ]  
१ षड्यंत्र, साजिश, दुरभिसवि,  
कुचक्र। २ सेना की विशेष रचना,  
ब्यूह।

**कट** - पु [ क 'कट्टु' ]  
१ चने की दाल को उवालकर  
निकाला हुआ पानी जिसका  
सालन बनाते हैं। २ कपाय,  
क्वाथ, काढा।

**कट \*** - स्त्री कटि, कमर।

**कट** - पु १. गुट, गुट्ट, दल,  
समूह। २ बटूक का कडा। ३  
मैल की परत। ४ चौपड (चौसर)  
की विसात में × ऐसे निशान वाला  
खाना जहाँ पहुँचने पर गोटी  
नहीं मरती। ५ हाथी का गड-  
स्थल। ६ कण्ट, तकलीफ। ७  
पहेली। ८ मनाही।

**कट** - पु [ अ ] १ काट,  
तराश, 'कट'। २ घाव, वार।

- पीस - पु नये कपटो के टुकडे।

**कटक** - न १ कटक, सेना।  
२ फौज का पडाव, छावनी। ३  
राजधानी।

**कटकट** - स्त्री १ झगडा, टटा,  
तकरार। २ झझट, झमेला,  
माथापच्ची। ३ किचकिच, किट-  
किट। ४ कुडबुडाना, बुडबुडाना,  
बडबडना। ५ पिनपिन, रें रें।  
६ हल्लागुल्ला, शोरगुल। ७  
भावताव। दे 'किटकीट'। मु.  
- मिटविणे - पीछा छुडाना, फँसला  
करना।

**कटकटा \*** - अव्य हाय, हाय  
री किस्मत।

**कटकटघा** - वि किचकिच या  
किटकिट करने वाला, झगडालू,  
सिर खानेवाला।] [ से।

**कटकन** - अव्य खट से, तडाक  
**कटका** - पु टुकडा।

**कटणें** - क्रि अ १ चलते  
वनना, चले जाना, हट जाना।  
२ ऊचना, परेशान होना। ३  
कटना, गुजारना, वीतना। ४  
टुकडे होना, काटा जाना, कतरा  
जाना।

**कटतें व्याज** - न कटवां व्याज,  
वह सूद जो कुछ मूल धन चुकता  
हो जाने पर शेष पर लगे।

**कटदोरा \*** - दे 'कडदोरा'।

**कटमिती** - स्त्री कटवां व्याज  
की पद्धति। दे 'कटते व्याज'।

**कटवणी** - स्त्री [ क 'कट्टिगे' ]  
१ बढइयोका एक औजार जिससे  
वे कीले उखाडते हैं। २ सग-  
तराशो का रभा (संवर) जिससे  
वे पत्थर तोडते हैं।

**कटवणी** - न १ उवाली हुई  
चने की दाल का पानी। २ गदा  
पानी।



कटवणें, कटविणें—क्रि स  
१ निकाल देना, पिंड छुडाना,  
पीछा छुडाना, हटाना । २ हँसी  
उडाना । ३ काटना, पतंग की  
डोर काटना । ४ उडा देना ।

कटा—दे 'कटकटा', 'कट्टा' ।

कटाकटी—स्त्री १ काटछाँट,  
कतरव्योत, कटौती । २ कटाकटी,  
झगडा, दे 'कटकट' । कटाकटीनें  
—अव्य किसी तरह, बडी मुश्किल  
से, ज्यादाह से ज्यादाह ।

कटाक्ष—पु १ कटाक्ष, तिरछी  
निगाह । २ आक्षेप, चोट, तनज,  
ताना । ३ दुश्मनी, वैर, कीना,  
द्वेष, बुगज । ४ जोर, बल,  
नहत्त्व । ५. रजहान, झुकाव,  
प्रवृत्ति ।

कटाप—वि पु [ अं 'कट  
ऑफ' ] अभाव, खात्मा ।—अव्य  
खत्म, समाप्त । मु—करणें—खत्म  
करना, तान के खेल में किसी एक  
रग का एक भी पत्ता हाथ में न  
रखना ।

कटार—दे 'कटचार' ।

कटाव—पु १ कटाव, काट ।  
२ अच्छी रचना, ठाट, ढग,  
शोभा । ३ तरतीब, मिलसिला । ४  
एका, यूथ । ५ एक छद । ६  
कल्ल, हत्या । [ 'कटवणी' ]

कटावणी—दे 'कटमिती',

कटास<sup>+</sup>—पु कट, तकलीफ,  
सकट ।

कटिंग—न [ अ ] १ कर्तन,  
कटाई, कतराई । २ बाल काटना  
या कटवाना । ३ समाचार पत्र  
का कर्तन, कतरन ।

कटि—स्त्री १ कटि, कमर ।  
२ गोद ।—तट—पु न कटितट,  
कमर, चूतड ।—बध—पु १  
कटिवध, कमरबद । २ सरदी—

गरमी की कमी—बेशी के विचार  
से किये गये पृथ्वी के विपुवनरेखा  
के गमानातर पाच विभागों में से  
एक ।—बद्ध—वि कटिवद्ध, कमर-  
बस्ता, तैयार; आमादा ।—शूल-  
पु कामजायना की अधिकता,  
विषयामयित ।—स्नान—न पाँवों में  
ले कर कमर तक के शरीर को पानी  
में रखना या धोना ।

कटी—दे 'कटि' ।

कट्ट—वि १ कट्ट; कट्टवा ।  
२ तीग्या, चरपग । ३ अप्रिय,  
बुरा लगने वाला । ४ नेज, उग्र;  
गमं ।—भाषी—वि कट्टभाषी,  
कट्टी बात बोलने वाला ।

कट्टता—स्त्री कट्टता; कट्ट-  
वाहट, कट्टवापन ।

कट्टर—वि १ कट्टर; दुग-  
ग्रही, हठी, जिद्दी; अमहिम्नु;  
अनुदार विचार वाला । २ पुगण-  
पथी, दकियानुमी । ३ पक्का,  
दृढ़, चुम्न ।

कट्टा—वि १ कट्टा, तगटा,  
गोटा—ताजा । २ होशियार, चतुर,  
निपुण, चालाक । ३ दूर,  
माहसी । ४ कजाके का, जोरदार ।  
५ बहुत बडा, विगाल, मजबूत ।  
६ दृढ़, मजबूत, पक्का । ६  
समूचा ।

कट्टा—पु [ क 'कट्टे' ] १  
चबूतरा । दे 'ओटा' । २ कटरा,  
छोटा चौकोर बाजार ।

कट्टी—स्त्री चौपड (चोसर)  
की विसात में × ऐसे निशान  
वाला खाना जहाँ पहुँचने पर गोटी  
नहीं मरती । मु—घरणें,—ला बसणें—  
ऐसे स्थान पर होना जहाँ कोई डर  
या खतरा न हो ।

कट्टी—स्त्री काट, तराश,  
काटछाँट । मु—करणें—कुट्टी

करना, मित्रता नग करना ।

कट्टार—स्त्री १ बटार,  
गजर । २. डर, दहमत; कसर,  
पीडा । मु—लागणें—बहुन दुग  
होना, दिल पक जाना, बिना  
लगी रहना ।—सावणें—दिर  
दुगाना, चुननी हुई बात बहना ।

कट्टा—पु १. (दगदी,  
छोगडी) जगग, बेरिका,  
'रेलिंग' । (लाफ्टी) कठपारा;  
कठहरा, कटहरा । २ वीथी,  
वीथिया, चालागाना, छज्जा,  
'गंठरी' ।

कट्टाण; कट्टाणमठाण—न  
मंग, उग्र, अग्र आदि दलहन ।

कठिण, कठीण—वि १  
कठिन, मुश्किल, दुष्कर, कष्ट-  
माध्य, दुम्माध्य । २ कडा, मज्ज,  
करा, करास । ३ कष्टकर, नर-  
लीक देने वाला, नकटपूर्ण, दुग ।  
४ पचीदा । ५ दूर, बेरहम,  
कठोर, निष्पूर । ६ जो आजाती  
समझ में न आ सके । मु—वाटणें—  
१ मुश्किल लगना । २ दुग होना ।

कठोर—वि १ कठोर,  
निष्पूर, बेरहम । २ कडा, सल ।  
३ तीक्ष्ण, चुननेवाला । ४ कर्को ।  
—वणें—पु क वर्गादि पाँच वर्गों  
में से प्रत्येक के शुरु के दो और प,  
प, स वर्ण ।

कडग—वि १ सूखा हुआ,  
कडकडाता; कलफदार । २ दे  
'कडकडीत' ।

कडगणे—क्रि अ १. सूचकर  
कडा बनना । २ अधिक गमं होने  
या कूटनेमे चूरा होना ।

कड—स्त्री कमर, गोद । कडे  
वर—अव्य गोदमें ।

कड—स्त्री पु [ क 'कडे' ] १  
पल, तरफदारी, हिमायत । २

ओर, तरफ, सिरा, किनारा, छोर, बाजू। ३ दिशा, प्रदेश, विभाग। ४ सीमा, अंत, हृद। ५ नतीजा, खात्मा। ६ दे 'कड'। मु. - घेणें - पक्ष लेना, तरफ-दारी, हिमायत करना। - लावणें - पूरा करना। कडचा - विमिरे का, अंत का, एक तरफ का।

कडक - वि १ कडा, सख्त, कठिन, कठोर, जो नरम या लचीला न हो। २ तेज, महंगा। ३ कडकडाता, कलफदार। ४ कसा हुआ, ठोस। ५ रियायत न करनेवाला, दृढचित्त, अनुशासन-प्रिय, तेजमिज्राज, उग्र। ६ दुष्कर। ७ न दबने, न डरने-वाला, तीव्र, सूखा हुआ। ८ कडी, चिलचिलाती (धूप)। ९ पानीदार, आवदार, तेजस्वी, प्रतापी। १० जोरदार, तीव्र। ११ तीखा, तीक्ष्ण। १२ कर्कश, कर्णकटु। - अव्य तेजीसे, झटसे। - बिजली - छी १ तेज, उग्र, चपल, गुस्सैल व्यक्ति (स्त्री, घोडा, घोडी आदि)। २ तेजीसे आग उगलनेवाली तोप। - लक्ष्मी - छी १ लक्ष्मी (देवी) के उग्र स्वरूप का स्वांग भरकर भीख मांगने वाला भिखारी, जिसके हाथ में कडकडानेवाला कोडा होता है। २ तेज व तरार व्यक्ति।

कडक; कडका - पु. कडखा। - भार - पु. भाटो, कडखँतो का समुदाय।

कडकड - पु. कडकड, कडी चीज के टूटने, ताशे के बजने आदि की आवाज, कडकडाहट।

कडकडणें - क्रि अ १ कडकडाना, 'कडकड' शब्द करना। २ पानी, घी, तेल आदि का इतना

गरम हो जाना कि उममें से 'कडकड' की आवाज निकले। ३ कडकना, गरजना। ४ डाँटते हुए जोर से बोलना, गुस्सा होना। ४ तूफान आ जाना। ५ किसी चीज का तेज आवाज के साथ फटना-टूटना।

कडकडा - अव्य १ जोर से, कडाके के साथ। २ किटकिटा कर, दाँतो को पीसते हुए। ३ कसकर। मु. - दात खाणे - दाँत पीसना, भीचना, बजाना।

कडकडाट - पु १ कडकडाहट, कडाका। २ गर्जना, गर्जन, गडगडाहट। ३ कडक, बिजली चमकने के बाद होनेवाली आवाज। ४ गूँज (तालियोकी)। ५ कठोरता। ६ गर्जन-तर्जन, आक्रोश।

कडकडाटणें - क्रि अ कडकना, गरजना।

कडकडी - छी १ कडक, कडकड। २ कँपकँपी, सिहरी, सिहरन।

कडकडीत - वि १ कडकडाता, कलफदार। २ तेज, चिलचिलाती (धूप)। ३ ताज्जा, बहुत गरम। ४ साफ; स्पष्ट। ५ कट्टर, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, नैष्ठिक, निष्ठावाला, किसी व्रत के अनुष्ठान में लगा हुआ। ६ सच्चा। ७ जागरूक। ८ सूखा। ९ खुरदरा। १० कठोर, दृढ, कडा। ११ सख्त, पूरा, जोरदार।

कडकडून - अव्य १ कसकर, जोरसे, दृढता के साथ। २ गुस्से के साथ, किटकिटाकर, दाँत पीसते हुए। मु. - चावणें - गुस्से के साथ, जोर में काट खाना।

कडकणी - छी, कडकणें - न.

१ नवरात्र के दिनों में देवी के नैवेद्य के लिए बनाये हुए बड़े या पूरियाँ। २ देवी के मंदिर में छत में टांगे हुए कागज के गोल टुकड़े।

कडकणे - क्रि अ १ सूखना, सूखकर कडकडाता बनना। २ तडकना, दरकना, आँच पा कर 'तड' की आवाज के साथ फटना या टूटना। ३ सिकुडना। ४ कडकना, गरजना। ५ कर्कश स्वर में बोलना, आड़े हाथों लेना, डाँट पिलाना। ६ भावों का बढ़ जाना, तेजी, महंगी होना।

कडका - पु १ अधिकता, अतिशयता, अतिरेक, तीव्रता। २ अचानक होने वाली वेदना, व्यथा। ३ कडक, गडगडाहट, गर्जन। ४ धोप, नामकीर्तन। ५ शोर, हल्लागुल्ला, शिकायत। ६ ठाठ, शान। [वार।

कडकावणी - छी आघात, कडकावणें - क्रि अ १ डाँट पिलाना, फटकारना, खरी-खरी सुनाना। २ कडकना, गरजना, डाँटते हुए जोर से बोलना। - क्रि स १ जड देना, कमना, मारना, लगाना। २ साफ-साफ कह देना, जवानी सुनाना।

कडकावून - अव्य १ कसकर, मजबूती से, जोर से। २. झट से, तुरत।

कडकी - त्री १ गरमी, जीर्ण-ज्वर। २. उष्णता, हरास्त, ताप, जलन, दाह।

कडगुल्ले<sup>+</sup> - न कगन, कडा।

कडचा - वि १ ओर का, किनारे का, तरफ का। २ पक्ष का, तरफदार; हिमायती, समर्थक। - आदितवार - पु. आखिरी

इतवार (जो कभी नहीं आता)। -  
पोहणारा - पु. वि १ नदी के किनारे के पास, उथले पानी में तैरने वाला। २ बहुत अधिक सावधानी रखने वाला। ३ स्वयं कष्ट न उठाकर दूर से मदद करने वाला।

कडण - दे 'कडण'। [से।

कडने\* - अव्य ओर से, तरफ

कडतर - न १ पुरानी, टूटी - फूटी टोकरी, चटाई। २ फटा पुराना वस्त्र।

कडतरण\* - क्रि अ १ शरीर में समा जाना, भिदना। २ एक तरफ रह जाना, स्थगित होना।

कडता + - पु घलुआ, घाता, घाल, ग्राहक को तौल या गिनती के ऊपर दी जाने वाली चीज। (एक मन घी, गुड और तेल पर फी मन डेढ सेर का घाल दिया जाता था।)। [दलहन, दालें।

कडदण, कडदाण - न  
कडदोरा - पु करवनी, सूत या रेशम की बनी हुई मेखला।

कडनिकड - स्त्री १ दौड-घूप, भाग-दौड, कदोकाविश, परिश्रम, कोशिश। २ अत, समाप्ति, खात्मा, नतीजा।

कडवा - पु १ कडवी, कडवी, जुआर के डठल जो चारे के काम में लाये जायें, घास, चारा। २ कचरा, फूस, निस्सार, तुच्छ वस्तु।

कडवाड - न अनाज का डठल; कडवी।

कडवू - पु [क 'कडवू'] १ पूरनपूरी, वह पूरी जिसमें उवाली हुई चने की दाल का पूरन भरा हो। २ तुच्छ, फालतू, निकम्मा आदमी।

कडबोलें - न अनेक प्रकार के

अनाजो और दालो को एक साथ पीसकर उस आटे से तलकर बनायी हुई मिठाई जो अक्सर नमकीन होती है, सतनजा।

कडमड - स्त्री १ बुखार आने से पहले या वाद में होनेवाली कोंपकंपी, सिहरन। २ वीमारी के वाद आने वाली कमजोरी। ३. कसक, वेदना। ४ + ऊषम, उत्पात।

कडमडण - क्रि अ १ बुखार आने से पहले अंग का टूटना, कस-मसाना। २ दुखना, दर्द करना। ३ दे 'अडमडणे'।

कडलग - \* न कडा, बलय।

कडवट - वि कुछ कडवा, कटु, कसैला।

कडवर - अव्य अत तक, आखिर तक, इम छोर से उस छोर तक। [२ दे 'कवडसा'।

कडवसा - + पु १ अँवैरा।

कडवळ - न १ गर्मियों में उगाया जाने वाला हरा चारा। २ मकई के डठल।

कडवा - वि १ कडवा, कडुआ, कटु। २ गुस्सैल, गुस्सावर, क्रोधी। ३ उग्र, कडा, सख्त, जोरदार, घनघोर, जवर्दस्त। ४ जगली, उजड्ड। ५ क्रूर, कठोर। ६ शूर, साहसी। ७ अनौरस, जारज, अवैध। - पु १ सेम या लोविया की एक किस्म जो कडवी होती है। २ अनौरस, अवैध सतान।

कडवें - न कडी, शीत का एक पद।

कडस - अव्य कसकर, जोर के साथ।]

कडसणी\* - स्त्री १ जाँच, पूछताछ, विचार, चुनाव। २

नाडा, रस्सी। ३ मयन। ४ भेद, भेदभाव। ५ वॉम। ६ ढग। ७ दे 'कडोमरी'।

कडसणें - क्रि स १ जाँचना, कमना, परखना। २ चुनना। ३ आँच देना, उवालना; तपाना, खोलाना। ४ शोषना, शुद्ध करना। - क्रि अ सूखना, कम-जोर होना।

कडसर - वि १ कुछ कडवा, कसैला। २ उतार, ढलान।

कडसरणें - + क्रि अ १ हट जाना, एक ओर जाना। २ निवृत्त होना।

कडसरी - स्त्री १. टोकरी आदि की किनारी, हाशिया। २. पहाडो और घाटियों का डलाक़ा। ३ दे, 'कडोसरी'। मु-सत यणें-मुश्किल काम करते समय थक जाना या परेशान होना।

कडा - पु. ढलवाँ चट्टान, खड़ी चट्टान, खडा टीला, कगार, करारा, पहाड की नुकीली चोटी।

कडाकड, कडाकडां - अव्य कडककर, कडकडाहट के साथ; तडाक से। दे. 'कडकडा'।

कडाका - दे. 'कडका', 'कडाखा'।

कडाकूट - पु. स्त्री १ किसी बात को साबित या प्रमाणित करने के लिए की जानेवाली अथक चेष्टा, बडी कोशिश, आयास, कठोर परिश्रम। २ सूक्ष्म खोज, अन्वेषण। ३ पिष्टपेपण, एक ही बात को बार-बार कहना, निरर्थक श्रम। ४ अतिशयता, अधिकता, समृद्धि, विपुलता। ५ जोर, जोश। - अव्य १ जोरजोर से, बहुत अधिक मात्रा में। २ पूर्णतया, समूचा, सब के सब।

कडाकोट - दे. 'कडाकूट',  
'कडेकोट'।

कडाकयाचा - वि जोरदार;  
कडाके का, तेज, सख्त, जोर का।

कडाखा - पु १ कडाका, कड-  
कडाहट। २ दे 'तडाखा'।  
३ कमी, महेगी। ४ ठाठ, रोव।  
५ जोर, जोश, पराक्रम।

कडाड - पु १ कडकडाहट,  
कडक। २ धक्का, आघात,  
प्रहार। ३ आफत, मुसीबत,  
अकाल। ४ जोर, जोश। - \*वि  
ज्ञानी, जानकार।

कडाडणे - क्रि अ १ कड-  
कना, गरजना, कौंधना। २  
घम से, घडाम से गिरना, अरराना,  
भहराना, टूटना, फटना, दर-  
कना। ३ गरजना, चिल्लाना,  
गुस्से के साथ, डाँटते हुए जोर से  
बोलना, कडकना।

कडाडां; कडाडून - अव्य  
कडककर, कडकडाहट के साथ,  
जोर से, कसकर।

कडावीन - स्त्री [तु 'करा-  
वीन'] करावीन, कडावीन, एक  
प्रकार की तोडेदार छोटी बूक जो  
घुसवारो के उपयुक्त होती थी।

कडालोट - दे 'कडेलोट'।

कडासणे+ - क्रि स कसकर  
बाँधना।

कडासन\* - न घास या पशु  
की खाल का बना आसन।

कडिया - दे 'कडवा'।

कडियाळ-ळें - न १ सांकल,  
जजीर, लडी, कडी, छल्ला।  
२ लगाम। ३ घेरा। ४ माला,  
हार, जाली, जालीदार अंगरखा।

कडिये, कडियेला\* - अव्य  
गोद में। [खट्टा मुंह।

कडियळपण\* - न कडवा,

कडी - स्त्री १ कुडी, दरवाजे  
की जजीर या सांकल। २ कडी,  
जजीर का एक छल्ला। ३ मात,  
वढ जाना। ४ छोटी घरन या  
शहतीर, कडी। - पाट - दे 'कडे-  
पाट'। मु - करणें - मात करना,  
वढ जाना, सवकत ले जाना,  
फौकियत रखना। - कुलूप करणें -  
ताला लगा कर वद कर देना।

कडीकोट - पु १ ऐसा किला  
जिसमें बहुत सी कगारें या खडी  
चट्टानें हो। २ सुरक्षितता;  
मजबूती, पक्का बंदोबस्त। - वि  
१ भारी, ज़बर्दस्त, पक्का। २  
तैयार, लैस। - अव्य पूरी तरह,  
भली भाँति।

कडील - वि [क 'कडे'] ओर  
का, तरफ का।

कडुसा - पु दे 'कडूसे'।

कडू - वि १ कडवा, कडुआ,  
कटु। २ अप्रिय, नागवार। ३  
स्वादहीन, वेमज़ा, फीका, अरुचि-  
कर। ४ जारज, अवैध (सतान)।  
५ कठिन, सख्त, कडा। ६  
निर्दय, कठोर, क्रूर। ७ ऊसर  
(भूमि)। ८ झालदार, तीखा,  
चरपरा। - न १ अफीम। २  
केचुली। ३ मृताशौच। - स्त्री  
आँखो का दर्द। - पु. अवैध सतान।  
- इंद्रायण - न १ इंद्रायन, इदा-  
रुन। २ मानवद्वेषी, गैरमिलन-  
सार। - कारलें - न १ करेला।  
२ बहुत बुरे स्वभाव का व्यक्ति,  
जिसमें सुधार की सभावना न हो।  
कहा० कडू कारले तुपात तळले,  
साखरेंत घोळलें तरी कडू तें कडूच -  
लाख जतन करनेपर भी करेला  
अपना कडवापन नहीं छोडता,  
खर को गंग न्हुवाइये तळ न छोडे  
छार। - जहर, - जार - वि वेहद

कडवा। - निब - पु. नीम।  
- भोपळा - पु. १ कडवा कद्दू,  
तूँवा। २ दासीपुत्र, अवैध सतान।  
३ हलकी जाति का, जातिच्युत।  
- वृदावन - न दे 'कडू इद्रा-  
यण'।

कडून - अव्य. [क 'कडे']  
से, तरफ से, द्वारा, ओर से।

कडूसे - + न सधिप्रकाश,  
धुंदलका, शफक, शाम का झुट-  
पुटा, द्वाभा, सव्यालोक।

कडें - न १ कडा, कगन। २  
घेरा, मुहासरा। ३ कुएँ के तल  
में डाला जाने वाला लकडी का  
स्तर। ४ डफली, खँजरी। ५  
बेडी। ६ दे 'कड'। ७ कनफटो  
या योगियो का धातु का कडा।

कडे - अव्य [क] १ ओर,  
तरफ, दिशा में। २ पास, कब्जे  
में, तावे में। ३ में, सबध में। ४  
मातहत, नीचे, हवाले। ५ को।  
६ पक्ष में।

कडे - अव्य गोद में, कमर-  
पर। - वर - अव्य गोद में।

कडेकपाट - र - न स्त्री १  
पहाडी गुफाएँ, ढलवाँ चट्टान और  
गुफा, गिरिगुहा, गह्वर, कदरा।  
२ दुर्गम स्थान।

कडेकाठ - पु १ ओर, छोर,  
तरफ। २ दूर का स्थान, दूर  
दराज।

कडेकोट - वि पक्का, पूरा-  
लैस। - पु १ ऐसा सुरक्षित स्थान  
जिसके चारो ओर मजबूत चहार-  
दीवारी या खडे टीले हो। २ सांकल  
और ताला लगाकर अच्छी तरह  
वद करना। ३ नाकावदी, नाके-  
पर सिपाहियो की तैनाती, घेरा,  
अवरोध। ४. घेर लेना, छा जाना।

कडेपाट - पु पटाव, पटान;

धानक, 'प्लाट' । २ वर्णन, हाल, विवरण । [कथील ।

कथील - न कथीर, रांगा, कथेकरी - पु कथक, पुराण वांचने वाला, कथक्कड, कीर्तनकार, कीर्तननिया, कथावाचक ।

कदड\* - पु घोर, कठोर दड, मजा ।

कदविनी - छी १ सखी, म्त्री । २ कदव का फूल ।

कद - पु. रेशम की बोती जो धर्म-कृत्य के समय पहनी जाती है ।

कद - छी [अ 'कद'] १ कीमत, मूल्य, योग्यता, महत्त्व । २ कद, डील, आकार, देह की ऊँचाई - लवाई, डील - डोल । ३ मोटाई, ठोसपन । मु ० - जिरविणे - घमड चूर करना । - पाहणे - परखना, मोल करना ।

कदन - दे 'कदन' ।

कदन्न - न कदन्न, खराब, मोटा अन्न, हलका, निस्सत्व भोजन ।

कदम - पु [अ 'कदम'] १ कदम, पाँव, पग, डग । २. प्रवेश, पहुँच । - खोल - पु कवायद मे एक हुक्म, 'स्टैंड ऐट ईज' ।

कदर - छी [अ 'कदर'] १ कदर, वडाई, परख, मूल्य, प्रभाव, इच्छत, दरजा, मरतवा । २. प्रकृति, स्वभाव । ३ अधिकार । ४. रोव, धाक, दबदवा ।

कदरणें - क्रि अ झुंझलाना, परेशान होना, नाराज होना ।

कदर्थणें\* - क्रि स सताना, परेशान करना, आफत मे फँसना । - क्रि अ दुवी, परेशान होना ।

कदर्य-यूँ - वि कदर्य, कृपण, कजूस, तुच्छ, क्षुद्र । - न दे 'कदन्न' ।

कदाचित् - दे 'कदाचित्' ।

कदा - अव्य १ कदा, कव, किस समय । २ कभी, कभी भी । - काळीं - अव्य पुराने समय मे, किसी समय, कभी ।

कदाचित् - अव्य कदाचित्; कदाच, शायद, कभी, हो सकता है, भूल से ।

कदानकाळीं<sup>+</sup> - दे 'कदाकाळीं' ।

कदान्न - दे 'कदन्न' ।

कदापि - अव्य. १ कदापि, हर्गिज, बिलकुल । २ \* कभी-कभी ।

कद्वीं - अव्य कभी, कभी भी, हरगिज ।

कद्रू - वि १ कजूस, कृपण, मक्खीचूस । २ क्षुद्र, हलके मन का ।

कधीं - अव्य १ कव, किसी समय, बहुत पुराने जमाने मे । - च-अव्य. १ बहुत पहले, बहुत दिन बीते । २ कभी भी, हरगिज । - चा-वि १ पुराने समय का, कभी का; बहुत पहले का । २ कव का, किस समय का । - अव्य - अरसे से, कव से, बडी देर से । - तरी-अव्य किसी समय, कभी न कभी । - नवहत - अव्य भूले भटके, इत्त-फाक से, एक अरसे के बाद । - ना कधीं - अव्य कभी न कभी, एक-न-एक दिन, किसी-न-किसी समय । - मधीं - अव्य कभी-कभी, बीच-बीच मे, जब-तब, यदा-तदा । [क्षट से ।

कन-न-अव्य से । [क्षटकन = कनक - न १ कनक, सोना । २ घतूरा । - वि पीला, सुनहरा । कनक-खा<sup>+</sup> - पु १ उग्र स्वभाव, क्रोध, कडाई, गुस्ता । २ कडाका, तेजी, सख्ती । ३. आघात, धक्का ।

कनकावळा<sup>+</sup> - पु १ कनकौआ, बडी पतग, गुड्डी । २ एक आतिश -

वाजी, अग्निवाण, हवाई वान; 'राकेट' ।

कनपटणें - क्रि स कनपटीपर चपत जमाना, चाँटा जडना ।

कनव - दे 'कणव' ।

कनवट-टी - छी दे 'कडो-सरी' ।

कनवाळु-ळू - वि दयालु, रहम-दिल, कृपालु ।

कनात - छी [तु 'कनात'] कनात, मोटे कपडे की दीवार जो खेमे या किसी खुले स्थान के चारो ओर खडी की जाती है, मोटे कपडे का पर्दा जिमकी दीवार खडी की जाती है ।

कॅनाल - पु [अ ] नहर, सिंचाई के निमित्त बनी हुई नाली ।

कनिष्ठ - वि कनिष्ठ, छोटा, उग्र म सब से छोटा । ३ हलका, घटिया दर्जे का । ३ विलकुल निचली श्रेणी का । - पक्ष - पु अवाछनीय स्थिति । - अव्य कम से कम । [छिगुनी ।

कनिष्ठिका - छी कनिष्ठिका, कनी - दे 'किनई' ।

कनौजा - वि पु कनौजिया, कान्यकुब्ज ।

कनौजी - वि कनौज का ।

कन्यका - छी कन्यका, कन्या, लडकी ।

कन्या - १ कन्या, लडकी, क्वारी लडकी । २ वारह राशियो में छठी । ३. शिष्या । - गत - पु न वह काल जब कन्या राशि में सूर्य या गुरु का आगमन होता है । - दान - न कन्यादान, विवाह में वर को कन्याका दान । - धन - न कन्यादान, विवाह में कन्या के पिता द्वारा वर लिया जाने वाला दहेज, दायज, कन्याशुल्क । - रत्न - न

कन्या, लडकी । - हरण - न कन्याहरण, कन्या को (विवाहार्यं) पकड़, उडा ले जाना । कहा कन्या ही रास संकटाची - कन्या सकटो की राशि होती है, लडकी मानो वडी आफत होती है ।

कन्हणे - दे 'कन्हणे' ।

कन्हव - छी प्रार्थना, दया की याचना, गिडगिडाहट ।

कन्हवळा, कन्हवाळा - पु दया, अनुकपा, तरस, रहम ।

कन्हवाळू - वि दयालु, रहम-दिल ।

कन्हेर - दे. 'कणेर' ।

कप - पु. [अ] १ प्याला, प्याली, 'कप' । २ प्याली भर दूध, चाय आदि । - वशी - प्याली और तश्तरी, रकावी, 'प्लेट,' 'साँसर' ।

कप - पु. [अ. 'कफ'] कफ, कमीज, कुरते आदि की आस्तीन का वह दुहरा भाग जिसमें बटन लगते हैं । [ढक्कन ।

कप - छी [अ 'कैप'] टोपी,

कपचा - पु, कपची - छी चिप्पड, चिप्पी, लकडी, धातु आदि का छोटा चिपटा टुकडा, कतला, कत्तल, पत्यर गढने मे निकलने वाला छोटा टुकडा ।

कपट - न १ कपट, वनावटी व्यवहार, छद्म, छल, धोखा । २ असत्य, झूठ । ३ मन के भाव को छिपाना, दुराव । ४ जाल, ठगी, ठगपना । - नाटक - न कपट नाटक, कपट व्यवहार; ठगने, धोखा देने का काम । - वैष - पु. कपटवेश, वनावटी भेस । - वि वनावटी भेसवाला ।

कपटा - पु. टुकडा, घज्जी ।

कपटाई - छी १ धोखेवाजी,

कापट्य, छलछद्म । २ डाह, ईर्ष्या ।

कपटी - वि १ कपटी, फरेवी, छलकपट करने वाला, धोखेवाज, छलिया, वचक । २ जलने वाला, डाह, ईर्ष्या करने वाला, जिद्दी ।

कपडा - पु. कपडा, वस्त्र, पहनावा । - लत्ता - पु कपडा-लत्ता, पहनने का सामान । मु कपडे करणें - १ कपडे पहनना । २ कपडे सिलवाना ।

कपरा-री - दे 'कपचा-ची' ।

कपर्दक - पु, कर्पिका - छी, कपर्दीक - पु १ कपर्द, कपर्दक, कपर्दिका, कौडी । २ कानी कौडी, फूटी कौडी ।

कपाट - न [अ 'कपवोर्ड'] अलमारी, आधरण, फलक ।

कपाट - न १ कपाट, किवाड, दरवाजा । २ गुहा, गुफा । मु - देणें - किवाड लगाना, बंद करना ।

कपात - छी कर्ताती, काट-छाँट, घटाव, काटना, कमी, कतर-ब्योत ।

कपार - छी कोटर, खोडर, खोडरा, कदर; कदरा ।

कपाल - दे 'कपाळ' ।

कपाशी - छी कपास, रुई ।

कपाळ न १ कपाल, मस्तक, माथा, मस्था, ललाट, पेशानी । २. खोपडी, सर, सिर । ३ खप्पर, घडे का टुकडा, मिट्टी का मिक्षा-पात्र । ४ नसीब, भाग्य, भाग्य-लेख, किस्मत । - अव्य. - कुछ नही, खाक, क्या बताएँ, अमभव, गलत आदि अर्थों के लिए 'माझें कपाळ' 'तुझें कपाळ', जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है । - करटा - वि अभागा, बंद नसीब, भाग्य-

हीन । - क्रिया - छी १ कपाल-क्रिया, शवदाह मे मुर्दे की खोपडी को बाँस से फोडने की क्रिया । २ सन्यासियों की मृत्युपर उन्हें समाधि देने से पहले उनके मस्तक पर शख मारकर खोपडी को फोडने की क्रिया । - दुखी - छी 'कपाळशूल' । - पट्टी - छी १ माथा, ललाटपटल, माथे का तल । २ टोपी आदि का माथे पर आने वाला भाग । ३ दरवाजे की चौखट की ऊपर वाली लकडी । ४ भाग्यलेख । - फुटका - वि दे 'कपाळकरटा' - मोक्ष - पु १ दे 'कपालक्रिया' । २ सिर का फूटना । ३ नाश । - शूल, - सूळ - पु. सिरदर्द, सरदर्द, व्यथा, कष्ट, झझट । मु. - उठणें, - चढणें - सिर दुखना, मिरमें बर्द होना, परेशान होना । - फुटणें - १ सिर फूटना, किस्मत का फूटना । २ वैधव्य आना, पति का मर जाना । - मोक्ष करणें - १ बहुत पीटना, मार डालना । २ पूरी तरह बरवाद करना । कपाळाची रेघ उमटणें, उघडणें - किस्मत का खुलना, अचानक धन प्राप्त होना । कपाळाचें फातडें नेणें - अभागा बनाना, आपत्ति में फँसाना । कपाळाला आठचा घालणें - त्योरी चढाना या बदलना, शोध या असतोप व्यक्त करने के लिए पेशानी पर बल डालना । कपाळाला आठचा पडणें - त्योरी चढना, नाराजी प्रकट होना, शोध से माथे में बल पडना । कपाळाला हात लावणें - १ माथा कूटना, सिर पीटना । २ आश्चर्य, दुःख, निराशा प्रकट करना । ३ नाउम्मीद, निराशा होना । कपाळीं येणें -

भाग्य में वदा होना, किस्मत में होना ।

कपि - पु १ कपि, वदर । २ हनुमान । ३ मव मे वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति । [वादामी ।

कपिल - वि कपिल, भूरा, कपिला - स्त्री १ कामधेनु । २ किसी एक रग की गाय, भूरे या सफेद रग की गाय । ३ गाय ।

- षष्ठी - स्त्री भाद्रपद कृष्ण पष्ठी को मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और सूर्यनक्षत्र हस्त हो तो उसे कपिला पष्ठी कहते हैं ।

यह एक अपूर्व एव पुण्यकारक योग माना जाता है । लगभग साठ वरस में एक बार ऐसा योग होता है ।

- ०चा योग - पु १ बहुत कम पायी जाने वाली शुभ वात, दुर्लभ सुयोग । २ अमभव वात ।

कपी - दे 'कप्पी' ।

कपोत - ता - पु. कपोत, कवूतर ।

कपोल - ल - पु १ कपोल, गाल । २ दे. 'कपाळ' । ३ कनपटी, गडस्थल । - कल्पना - स्त्री कपोल कल्पना, मन से गढी हुई वात । - कल्पित - वि कपोल-कल्पित, मनगढ़त ।

कप्तान - पु [अ 'कैप्टेन'] १ कप्तान, जलस्थल सेना वा एक अफसर । २ दलनायक, नेता ।

कप्पा - पु १ खाना, दराज । २ गट्टा, झावा, टोकरा । ३ 'कप्पी' ।

कप्पी - स्त्री [ते] घिरनी, घिरीं, चरखी, गरारी ।

कफ - पु १ कफ, शरीर की तीन धातुओं (वात, पित्त, कफ) में से एक । २ बलगम, श्लेष्मा । ३ क्षाण, फेन । ४ दे 'कफ' ।

- फारक - वि कफकारक, कफ पैदा करने वाला, कफकर, - छन - वि कफघ्न, कफनाशक । - ज्वर - पु. कफज्वर, कफ के सचय और प्रकोप से होने वाला बुखार । - प्रकृति - स्त्री ऐसी प्रकृति जिसमें कफ की, कफ या कफजन्य दोषों की प्रधानता होती है ।

कफनी - स्त्री [अ 'कफन', फा 'कफनी'] १ कफनी, साधु-फकीरो का विना बांह का पहनने का ढीलाढाला कुरता । २ जाकिट ।

कफल्ल, कफल्लक - वि कगाल, बहुत अधिक गरीब, निर्बन, दारिद्र, भुक्खड, मुह-ताज ।

कवघ - न पु. १. कवघ, सिरकटा या विना सिर का बड । २ सिर के कट जानेपर भी हिलने-डोलने या चलनवलन करने वाला शरीर ।

कवज - न [अ 'कवज'] १ लिखित रसीद, पहुँच । २ लेनदार (महाजन) को देने के लिए ज्वत किया हुआ माल । ३ कवजा, पकड, अधिकार, दे 'कवजा' । ४ कोष्ठबद्धता, अवरोध ।

कवजा - पु [अ 'कवज'] १ कवजा, दखल, अधिकार, पकड, कावू, बस । २ दस्ता, मूठ । ३ वाजू, लोहे या पीतल का पुरजा जिसमें किवाड आदि चौखट से जोड़ने पर घूमते हैं ।

कवजा - पु [फा 'कवाच'] जाकिट, विना आस्तीन की कुर्ती ।

कवजी - पु. कवि जी, छत्रपति समाजी के परमशंदाता कलुशा का उपनाम ।

कबजी - वि [अ 'कवज']

जो कवजे में, तावे में हो ।

कवजेगहाण - न [अ 'कवजः', म 'गहाण'] भोगवधक, फलभोग वधक, 'यूसफक्टरी मॉर्टगेज' ।

कवर - स्त्री [अ 'कवर'] कवर, वह गड्ढा जिसमें मुर्दा गाडा जाय (मुसल) । - स्तान, - स्यान - न कव्रिस्तान, मुसलमानों का श्मशान ।

कवर - री - स्त्री कवर, कवरी, कवरी, बंधी हुई चोटी, बेंनी ।

कवरा - वि १ कवरा, जिसमें दूसरे रग के दाग - बच्चे हो, चितकवरा । २ भूरा । - वाडा - वि जिसमें अनेक रग हो, रग-विरगा ।

कवलायत - दे 'कबुलायत' ।

कवाड - न इतना बोझ जिसे एक घोडा या ऊँट अपनी पीठ पर ले जा सके, चारा, कडवी, ईंधन आदि का बोझ । - कष्ट - पु वह दे 'कावाडकष्ट' । - हाट - पु चारा, ईंधन आदि का बाजार ।

कवाडी, कवाडचा - वि १ बोझ ढोने वाला (आदमी, बैल, घोडा आदि) । २ परिश्रम करने वाला, नाहक तकलीफ उठाने वाला । ३ मोटा, साधारण काम करने वाला । ४ क्षुद्र, हल्का घटिया आदमी ।

कवाब - पु [अ] कवाब, कुटे या वारीक कटे हुए मास की गोली या टिकिया जो सीखचे में गोदकर आग पर सुखं की गयी हो । - वि भुना हुआ, जला भुना, सूखा हुआ । - स्त्री १ लौकी या मूली को छीलकर बनाया हुआ मूखा साग । २ सूखे या गर्म मसाले से बनायी हुई तरकारी ।

कबिला पु [अ. 'कवील'] १ कवीला, परिवार, खान्दान। २ पत्नी, जोरु।

कबिलेदार-वि [अ 'कवील' + फा 'दार'] 'वालवच्चेवाला, गृहस्थ।

कबूतर न [फा 'कबूतर'] कबूतर, कपोत। - खाना - पु २ कबूतरखाना, कबूतर रखने का दरवा या कावुक। २ कबूतरो को पालने, रखने का अहाता या वाडा। - बाज - वि कबूतरबाज, कबूतर पालने, उडाने, लडानेवाला।

कबूलात, कबूलायत - छी [अ 'कबूलियत'] १ कबूलियत, स्वीकृति, मकानदार या जमीनदार की तरफ से पट्टे या किराये की तसदीक की तहरीर, वह दस्तावेज जो पट्टा लेने वाला देनेवाले को लिखकर उसकी शर्तों की स्वीकृति के रूप में देता है। २ इकरारनामा, अनुबध-पत्र, समझौता, ठहराव।

कबूली - छी [अ 'कबूल'] १ स्वीकृति, अगीकार, स्वीकार, मजूरी। २ दोषस्वीकृति, इकवाल। - जवाव - पु अपने अपराध की लिखित स्वीकारोक्ति, इकरारे जुर्म, इकवाले दावा।

कबूल - वि [अ 'कबूल'] १ कबूल, स्वीकृत, मजूर, पसद। २ अनुकूल।

कब्जा, कब्जी - दे 'कवजा', 'कवजी'।

कमडलु - पु न कमडलु, साधु - सन्यासियो का दरियाई नारियल, तूँबी आदि का बना जलपात्र।

कम - वि [फा] १ कम, थोडा, अल्प, छोटा। २ न्यून,

ऊन, घटिया, बुरा, खराव। - अक्कल - वि कम अक्कल, मूर्ख, निर्बुद्धि। - अस्सल - वि १ हलका, घटिया। २ कमअसल, दोगला, कमीना, नीच। - इञ्जत छी वेइञ्जती, अप्रतिष्ठा। - कस - वि कम उपजाऊ, हलकी, घटिया (जमीन)। - कुचत - वि कमजोर, दुर्बल, दुबला, हलका, घटिया। - ०पणा - पु कमजोरी, दुर्बलता, अशक्तता। - जात - वि हलकी, नीच जाति का, दोगला, कमीना। - जास्त - छी वि कमज्यादा, कमोवेश, थोडा - बहुत। - न छी घट-बढ, कमी - वेशी। - जोर - वि कमजोर, दुर्बल। - जोरी - छी कमजोरी, दुर्बलता। - तर - वि कमतर, अधिक छोटा, लघुतर; अल्पतर। - तरता - छी कमी, अभाव, न्यूनता, त्रुटि, कोताही। - तरीन - वि १ कमतरीन, छोटे से छोटा, लघुतम। २ घटिया, हलका, क्षुद्र। - नशिबी - वि कमनसीब, वदनसीब, अभागा। - नशीब - न कमनसीबी, दुर्भाग्य, वद-किस्मती। - वक्त, वखत - वि १ कमवखत, हतभाग्य। २ घूर्त, चालाक, काइयाँ। - ववती - छी शामत, आफत, दे कववती'। - हिमत - छी कायरता, बुजदिली, डरपोकपन।

कमताई - छी [फा 'कम'] त्रुटि, कमी, न्यूनता।

कमतावणें - कि अ [फा 'कम'] कम, हलका होना, धीरे-धीरे घटते जाना।

कमतावा - पु [फा 'कम'], वट्टा, वह रकम जो रुपये, तोट, हुडी आदि भुनाने, बदलने या बेचने

पर उसके मूल्य में से काट ली जाय।

कमती - छी [फा 'कम'] कमी, त्रुटि, न्यूनता। - वि कम, अल्प। - वहतो - छी कमी - वेशी, घट-बढ। [सुदर।

कमनीय - वि कमनीय, कमर - छी [फा] कमर, कटि; मध्यभाग। - पट्टा - पु १

कमरवद, पेटी, पटुका। २ कमर में पहना जाने वाला सीने या चाँदी का पट्टा, स्त्रियो का एक गहना, कमरकस। - वद - पु १ कमर-वद, करघनी। २ कमर वाँघने का एक दुपट्टा, पेटी। ३ कमर में वाँघने की पेटी जिस में तलवार लटकायी जाती है। ४ कमरपट्टी, अँगरखे आदि में कमर के ऊपर लगायी जानेवाली पट्टी या वद।

५ 'कमरपट्टा' - वि कमरवद, कटिवद्ध, तैयार। मु - कसणें - कमर कमना, (किमी काम के लिए) तैयार, आमादा होना, पक्का इरादा करना। - खचणें - कमर टूटना, हिमत पस्त होना, दिल बैठ जाना, कुछ करने का दम न रह जाना। - घरणें - कमर में दर्द करना कसक होना। - वाघणें - कमर वाँघना, दे 'कमर कसणें'।

- मोडणें - १ दे 'कमर खचणें'। २ कूल्हे मटकाना, इठलाकर चलना, ठुमकना। - वाकणें - १ कमर झुकना, कमजोर होना। २ कूवड निकल आना। कमरेचा फाटा हिले होंगें, कमरेचे टाके हिले होंगे - कमर बैठ जाना, बहुत थक जाना। ['कमळ']।

कमल - न कमल, दे कमविणे - कि स १ कमना, श्रम - उद्योग से पैसा पैदा, प्राप्त



करना । २ सिझाना, पकाना (चमडा) । ३. वस्तु को श्रम-द्वारा सुधारना, काम लेने लायक बनाना (खेत, चमडा इ) । ४ उपजाऊ बनाना ।

कमल - न कमल, पद्म, अवुज । - कळा - स्त्री कमल का तेज, सुदरता, शोभा । - काकडी - स्त्री कँवल - गट्टा, कमल का बीज ।

कमलण - स्त्री कमलिनी, कमल का पीचा, लता या डंडी ।

कमळा - स्त्री १ कमला, लक्ष्मी । २ सुदर स्त्री । - पति - पु कमलापति, विष्णु ।

कमाई - स्त्री १ कमाई, प्राप्ति, आय, मुनाफा, उपार्जित धन, श्रमफल, मजदूरी । ३ पुण्य, पुण्याई, पूर्वजन्म में प्राप्त की हुई बात । ४ परिश्रम, काम । ५ आटा आदि गूंधना । ६ सिझाने, पकाने का काम या उसकी मजदूरी । [वाला, कामसुत ।

कमाऊ - वि कामाऊ, कमाने-कमान - स्त्री [फा] १ कमान, मेहराव, 'आर्च' । २ वनुष् । ३ कमानी, 'स्प्रिंग' । ४ इद्रधनुष् । ५ टप, फिटन, टमटम आदि का सायवान या छतरी । - दार - वि १. कमान-दार, मेहरावदार । २. वनुष्-दार, तीरदाज ।

कमाल - स्त्री [अ] कमाल, पूर्णता, हृद, पराकाष्ठा । २ कुल जमा, लगान । - वि अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा । मु-करणे - कमाल करना, अद्भूत कुशलता, योग्यता का परिचय देना, हृद कर देना । - हीणे - हृद होना ।

कमालखानी हार - पु घुटनो तक लबा और दो से आठ तक लडो

वाला फूलो का बडा हार ।

कमावणे - दे 'कमविणे' ।

कमावणी - स्त्री खेती, कृषि-कर्म, खेतकी जोताई आदि ।

कमावता - वि १ कामामुत; कमानेवाला, कामाऊ । २ परिवार - प्रमुख ।

कमाविणे - 'कमविणे' ।

कमाविशी - स्त्री १ सरकारी लगान की कुल वसूली । २ लगान वसूल करना । ३. प्रवध, देखरेख । ४ लाभ, मुनाफा ।

कमाविसदार - वि पु १ लगान वसूल करने वाग प्रमुख अधिकारी, समाहर्ता, 'कलक्टर' । २ ठीके पर लगान वसूल करने वाला ।

कमी - वि [फा 'कम'] १ कम, थोडा, अल्प । २ छोटा, तग । - पणा - पु १ कमी; श्रुटि, न्यूनता । २ हलकापन, दुराई, मानहानि ।

कमीन - वि [फा] १ कमीन, कमीना, नीच, क्षुद्र, खोटा । २ मै, स्वय । ३ वदा, सेवक ।

कमोद - पु १. कमोद, एक किस्म का खुशबूदार चावल । २ कामोद, एक राग (सगीत) । - न कुमुद, कुई, रक्तकमल ।

कया<sup>+</sup> - स्त्री १ चमक, तेज; शोभा । २ स्वास्थ्य । दे 'कळा' ।

कयार \* - वि लुब्ध, लपट ।

कयास - पु [अ 'कियास'] १ कयास, अनुमान, अटकल, अदाजा । २ खयाल, विचार । ३ मत, अभिप्राय, निर्णय, फंसला । - नामा - लिखित निर्णय, फंसला ।

करगळी - स्त्री छिगुनी, कानी उंगली, कनिष्ठिका । कहा०

करंगळी सुजली म्हणून डोंगरा-एवढी होईल काय ? छिगुनी फूल जायेगी तो क्या वह पहाड बन जायेगी ? हर एक बात के बढने की भी हृद होती है ।

करंज - पु करज, करजा, कजा (एक झाड) ।

करंजी - स्त्री १. गुझिया, मैदे की कुसली में गरी (खोपरा), गुड या चीनी, खोया आदि भरकर बनायी हुई एक मिठाई । २ गुच्छी, करज, कजा की फली ।

करजेल - न करज के बीजो-का तेल जो कडवा होता है ।

करट - दे 'करट' ।

करंटा - वि १ अभागा, वदनसीव । २ कगाल, दरिद्र । ३ वीरान, ऊसर । ४ नास्तिक ।

करटी - दे 'करटी' ।

करड - पु १ करड, करडक; वांस की बनी टोकरी या पिटारी, डाली, चंगेरी । २ सिंदोरा, सिंधोरा, कुकुम, सिंदूर आदि रखने की लकड़ी हाथी दाँत, पीतल आदि की बनी डिविया ।

करंडणे - दे 'कुरतडणे' ।

करडा - पु सिंदोरा, सिंधोरा, डिव्वा, दे 'करड' ।

करडी - स्त्री १ छोटी टोकरी, चंगेरी । २ देवमूर्तियाँ रखने की वांस आदि की ढक्कन वाली टोकरी या डिव्वा ।

करंबट - स्त्री एक प्रकार की चटनी, जो बदरक, हींग और नमक को पीसकर और उसमें दही डालकर बनायी जाती है । [और फल] ।

करबळ - न कमरख (पेड कर - पु १ कर, हाथ । २ किरण । ३ हाथी की सूंड ४ कर, राजस्व, मालगुजारी, चुगी,

लगान, महसूल, ' टैक्स '। -  
ग्रहण - न करग्रहण, पाणिग्रहण,  
विवाह । - तल - पु. करतल;  
हथेली । - तलामलक, - तलामल-  
कवत्-अव्य वि १ माफ, स्पष्ट ।  
२ अत्यंत सुलभ, आसान । -  
ताल-ली - स्त्री १ करताल,  
ताली । - पल्लवी - स्त्री कर-  
पल्लवी, उँगलियों के संकेत से  
शब्दों के घोटन की विद्या । २  
हाथ से बजाने का एक वाजा, कर-  
ताल । - भाग, - भार - पु. कर-  
भार, कर का बोझ । माडलिक  
राजा द्वारा सार्वभौम राजा को  
दिया जाने वाला कर, खिराज,  
निष्कृतिघन, निस्तार-घन ।

कर - स्त्री ग्रहण, सक्राति, होली  
आदि का दूसरा दिन जो अशुभ  
माना जाता है ।

कर - वि १ कर; करने वाला  
(मुखकर, दुखकर) । २ रहने  
वाला, निवामी (काशीकर =  
काशी का रहने वाला) - अव्य मे  
(झटकर = झटसे) - पु. करना,  
काम । मवध । कहा० ज्याला कर  
नाहीं त्याला डर कशाला - जिसने  
कुछ (बुरा काम) किया नहीं है,  
उसे डर किस बात का ?

करकचणें - क्रि स कस कर  
वाँधना, जोर से पकड़ना ।

करकक्षा - पु. १ कसकरवाँधने  
में पडा निशान, घट्टा । २  
खराश, खरोच ।

करकचून - अव्य कस कर,  
जोर से ।

करकर - स्त्री १ द 'कट-  
कट' । २ क्विक्विच, क्विक्विट,  
कर्कश आवाज । ३ दे 'कुरकुर' ।  
४ चरमर, चरहिट ।

करकरणें - क्रि अ १ (कोवे  
म हि श को ११

का) काँव-काँव करना । २ चरना  
चिडचिडाना, चरमराना । ३  
कठोर, अप्रिय बातें कहना ।

करकरा - अव्य करकर की  
आवाज के साथ, क्विक्विटाने हुए,  
जोर-जोर से ।

करकरीत - वि १ कोरा,  
विलकुल नया, न बरता हुआ । ३  
चरमरा । ३ दे 'कुरकुरीत' ।  
तिनो (न्ही) साजा - स्त्री बहु  
ऐन शाम का वक्त, सई साज ।

करकरून - अव्य कम कर,  
रगड़ कर, जोर से ।

करकन्या - वि १ चरमरा,  
करकर आवाज करने वाला । २  
पिनपिनहाँ, पिनपिन, रें रे करने  
वाला ।

करकोचा पु १ करँकुल,  
कौच । २ दे 'करकचा' ।

करगोटा - पु करवनी, कर-  
गता, एक गहना जो कमर में  
पहना जाता है, सूत या रेशम की  
वनी हुई मेखला ।

करज - दे 'कर्ज' ।

करट - न एक बहुत कड़वा  
फल, करवट, जसूँद । २ बहुत  
जलने वाला पीडादायक फोडा,  
पीव या मवाद भरी कडी फुडिया ।

करटा - दे 'करटा' ।

करटी - स्त्री १ खोपड़ी,  
करोट, करोटी । २ नारियल की  
खोपड़ी, खाल । ३ खपडा, खप्पर ।  
४ पीव या मवाद भरी कडी  
फुडिया ।

करटुलें, करटोलें - न खेवसा,  
ककोडा, ककोडी ।

करड - स्त्री [ क ' करडु' ]  
अधकुटा चावल जिसमें धान के दाने  
हो, अधकुटी वाल जिसमें दाने हो,  
गैरकुटा, अनफटका चावल । मु०-

काढणें - किसी तरह, जल्दी में,  
लापरवाही में किसी काम को पूरा  
करना ।

करडई - स्त्री घमोय, भड-  
भाँड, कुमुम । (करडई के पत्तों की  
सब्जी बनती है, फूल में कुसुमा  
(रग) निकलता है और बीजों में  
तेल निकाल कर खाया जाता है ।)

करडकागोणी - स्त्री माल  
कौंगनी ।

करडणें - क्रि अ भूरा, मट-  
मैला बनना । [ काटना ।

करडणें - क्रि स कुतरना,  
करडा - वि १ भूरा, मट-  
मैला, खाकी । २ म्याह और  
मफेद मिला हुआ, खिचडी (वाल) ।

करडा - वि [ क ' करडु' ]  
१ कडा, सख्त, निष्ठुर, कठोर ।  
२ रुखा, नीरस, शुष्क, खुरदरा ।  
३ दे 'करड' । - अम्मल - पु  
कठोर शासन, जालिम हुकूमत ।

करडी - स्त्री दे 'करडई' । -  
वि कठोर, कडी, सख्त, निष्ठुर ।  
- नजर - स्त्री १ कडी नजर,  
निगाह, रोपसूचक दृष्टि, सख्त  
निगरानी । २ वक्र दृष्टि, टेढी  
निगाह, अकृपा, नाराजी ।

करडू-डें - न मेमना, भेड या  
वकरी का वच्चा । [ कोचा' ।

करडोक, करडोक - दे 'कर-  
करण - पु १ करण, करना ।  
२ क्रिया विशेष के लिए अनिवार्य  
आवश्यक साधन, औजार । ३  
इन्द्रिय । ४ तृतीय, साधन वतानेवाला  
कारक (व्या) । ५ कर्ण, त्रिभुज  
के समकोण के सामने की भुजा । -  
रूप - न किसी घातु का अस्ति वाचक  
रूप (उदा० मैं हूँ, तुम हो) ।

करणा - पु [ स ' कर्ण' ,  
अ ' कर्ना' ] तुरही, करनाई,

सिंगा, फूंक कर वजाया जाने वाला एक वाजा । मु - फुकणे - गाँव के सभी लोगो को भोज का निमन्त्रण देना, भोज का मार्बजनिक् न्योत्ता देना ।

करणावळ - श्री कराई, किसी काम के करने की उजरत या मजदूरी ।

करणिक - पु १ पटवारी । २ श्रीकरणाधिपति के कार्यालय का लिपिक । ३ कायस्थो का एक अल्ल ।

करणी - श्री १ कार्य, काम, करवत, करनी, वरताव, आचरण । २ लीला, माया, अद्भुत कार्य । ३ विवाह में कन्यापक्ष की ओर से वर पक्ष के लोगो को दहेज के अतिरिक्त सम्मान के रूप में दी जाने वाली वस्त्रो, गहनो आदि की भेंट । ४ जारण-मारण, जादू टोना । ५ पराक्रम, बहुत बडा काम । ६ करणी, वह सख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकल सके । ७ करनी, कत्री, राजो का एक औजार । -चा- वि कृत्रिम, वनावटी । कहा ० करणी कसावाची, ढेलणों मानभावाची - काम कम्साव का और वातें सावु की । ईश्वराची करणी, नारळात पाणी- भगवान की माया देखो कि उसने नारियल के अदर पानी भर दिया है । [योग्य ।

करणीय - वि करणीय, करने करणें - क्रि स १ करना, अजाम देना, पूरा करना, बनाना । २ भाडेपर लेना (इक्का, तांगा आदि) । ३ पति या पत्नी के रूप में ग्रहण करना । - न करनी, करना, काम । - अव्य + तक । मु करून चुकणे - कर चुकना । करून टाकणे - कर डालना, पूरा

करना ।

करदनकाळ - वि भयानक, डरावना, अत्यत क्रूर, निष्ठुर, कठोर, जालिम । - पु वडा भयावना व्यक्ति या पशु ।

करता - अव्य १ दे ' करिता' । २ करते हुए, करते समय ।

करवळ - श्री कदली, केले की जाति का एक पौधा जिसमें रगविरगे फूल लगते हैं ।

करवा - पु [ स ' करदा', फा ' कर्द ' ] १ काश्तकार, हलवाहा, किसान । २ रैयत, पट्टेदार ।

करदोटा - पु करधनी, सूत या रेथम की वनी हुई मेखला ।

कर न करी, कर न कन्या - वि १ (ऐसा व्यक्ति) जो करने योग्य काम न करे और न करने योग्य करे, उलटी खोपडी का, उलटी अक्लवाला । २. हठी, जिद्दी, झगडालू ।

करनाटक - दे ' कर्नाटक' ।

करपट - वि १ जला हुआ, झुलसा हुआ, २ किसी चीज के जलने की (गघ) । ३ अजीर्ण के कारण आने वाली खट्टी (डकार) । - न चीयडा ।

करपणें - क्रि अ १ झुलसना, जलना, इतना जलना कि सतह स्याह हो जाय, अधजला होना । २ धूप, लू या पाले से पाँधो आदि का सूखना, मुरझाना, पाला मार जाना । ३ निस्तेज, कातिहीन होना । ४ दु ख या वीमारी से सूख जाना । ५ दुखी होना ।

करपविणे - क्रि स जलाना, झुलमाना ।

करपा - वि दे ' करपट' । - पु जला हुआ, झुलसा हुआ टुकडा ।

करपुतळी - श्री कंसि की थाली में काजल पौन कर उसमें वत्ती की रोगनी में शकुन या भविष्य देखने का तरीका ।

करवड - श्री पशुओ के खाने के वाद पडा रहने वाला कडवी का कचरा ।

करवदो - श्री लगानवदी; लगान या कर न देना, लगान न देने का आदोलन, ' नो टैक्म मुवमेंट' ।

करंम - पु करंम, एक क्रिस्म का खेल जो चौकोर तख्तेपर उन्नीस गोल टिकिकयो से खेला जाता है । कलकत्ता की ' कार और महल-नोविम' कपनी द्वारा प्रचारित होने के कारण उनके आद्याक्षरो पर से इमे यह नाम प्राप्त हुआ ।

करमणूक - श्री १ मनरजन, दिल बहलाव, मौज; मनोविनोद, मनोरजन । २ खेल; श्रीडा ।

करमणें - क्रि अ जी, दिल लगना, बहलना, मनोरजन करना, दिल खुग करना ।

करमर - ल - ठ - न कमरख ।

करवटी - श्री नारियली, नारियल की करोटी, खोपडी, खोपडा । मु - हातात घेणें - भीख माँगना, बहुत बुरी हालत होना ।

करवद - न करौदा (फल) ।

करवद - श्री करौदा (पेड) ।

करवत - श्री आरा, आरी, करोत । - काठी - वि ददानेदार किनारी वाली (घोती) ।

करवतणें - क्रि स आरे से चीरना, काटना ।

करवती - श्री छोटी आरी । - काठ - पु घोती आदि की ऐसी किनारी जिसपर आरे के ददानो

जैमी नक्काशी हो। [ भाई । ]

करवला - पु कन्या या वर का करवली - स्त्री विवाह के समय कन्या और वर के पीछे कलश लेकर खड़ी रहने वाली कन्या और वर की वहन।

करवा - पु १ गंडेरी, ईख या गन्ने का छोटा टुकड़ा। २ दे 'कर-कवा'। ३ मोती पर पडी हुई रेवा। [ लाना, खीझना।

करवादणें - + क्रि अ झुंझ-करवी - अव्य से, द्वाग, तरफ से, ओर मे, मारफत।

करवीर - पु १ करवीर, कनेर (पेड और फूल)। २ कोल्हा-पुर (शहर)।

करळ - पु वलुआ पत्यर, रेतीली जमीन। - स्त्री सूराख, छेद। - न १ भूसा, छिलका। २ आवे में डाली हुई अधजली घास-फूस। - वि ढलवाँ, ढालू।

करागळी, करागुळी - दे 'करगळी'। [ स कीजिए, करो।

करा - पु दे 'कन्हा'। - क्रि कराकरा - अव्य दे 'करकरा'।

कराज - पु [ अ 'कर्ज' ] ऋण, कर्जा।

कराड - पु १ झटका, आवेग। २ क्षोभ, झुंझलाहट। - स्त्री कगार।

कराडी - स्त्री १ शक्ति, सामर्थ्य, जोर। २ परिश्रम, कष्ट, मेहनत।

करामत - स्त्री [ अ ] १ करामत, चमत्कार, करामात, अचरजभरी बात। २ खूबी, चतुराई, कौशल। ३ पेन्दीदा, उलझन भरी बात, यत्र।

करामती - वि [ अ 'करा-मत' ] करामाती, करामात

दिखाने वाला, चमत्कारी, चतुर, कुशल।

करार - पु [ अ 'करार' ]

१ करार, ठहराव, वचन, प्रतिज्ञा, इकरार। २ निश्चय।

३ प्रसविदा, गिरमिट, सवि, इकरारनामा, वधपत्र, अनुवध-

पत्र। - दाद - पु करारदाद, ठहराव। - नामा - पु इकरार-

नामा, प्रसविदा। - मदार - पु वचन, परस्परप्रतिज्ञा, यकीन,

शपथ, कसमा-कसमी।

करार - पु [ अ 'करार' ] प्रतिज्ञापत्र, नियमपत्र, वसीयत

(ई)। जुना करार - पु वाइ-विल की पुरानी पोथी, तौरे (रै)

त, तौरात, 'ओल्ड टेस्टामेंट'। नवा करार - पु वाइविल की नई

पोथी, इजील, 'न्यू टेस्टामेंट'।

करारी - वि [ अ 'करार,' हिं 'करारा' ] १ स्वाभिमानी,

कट्टर, दृढप्रतिज्ञ, आग्रही, निश्चयी, तेजस्वी, धुन का पक्का।

२ करारा, कडा, तेज, सख्त। ३ पक्का, मजबूत। - पणा - स्त्री दृढता, कट्टरता, स्वाभिमान।

कराल - ल - वि कराल, डरावना, भयानक।

करिता - अव्य १ के लिए, के वास्ते, के कारण। २ की

अपेक्षा, से (अधिक या ज्यादा)। करी \* - अव्य से, के कारण,

के लिए। करी - प्र १ मालिक, स्वामी, अधिकारी। (मानकरी =

सम्मान का अधिकारी)। २ निवासी (गावकरी = गाँव का रहने

वाला)। ३ कोई काम करने वाला, से जीविका चलाने वाला

(भिक्षेकरी = भीख माँगने वाला,

शेतकरी = खेती करने वाला)।

करीर - पु न करील (एक कँटीला झाड़ और उसका फल)।

करुण - वि १ करुण, दय-नीय, करुणा उत्पन्न करने वाला,

दयालु। करुणा - स्त्री करुणा, दया, अनुकपा, रहम, तरस। मु०

- भाकणे - दया, कृपा की याचना करना, गिडगिडाना।

करुणाळा \* - वि करुणा करने वाला, दयालु, कृपालु।

करू - क्रि स करें, करेंगे। करू - प्र करने वाला। (यात्रेकरू = यात्रा करने वाला)।

करून - अव्य १ कर के, करने के बाद। २ से द्वारा, के कारण, की वजह से।

करेल - पु [ पुर्व 'कैरेरा' ] कलमी आम की एक किस्म।

करो - क्रि स करे। करोटी - दे 'करवटी'।

करोडगिरी - स्त्री करोडगिरी, चुगी विभाग।

करोडा - पु १, चुगी विभाग का अधिकारी। २ कमिशनर या उसके समकक्ष अधिकारी।

करोल - ल - पु [ तु 'करा-कल' ] सैनिक, वदुक वाला घुडसवार।

कर्क - पु १ कर्क, केकडा। २ बारह राशियों में से चौथी। - वृत्त - न. कर्क रेखा।

कर्कश - वि १ कर्कश, कठोर, परुष, कडा, चुभने वाला। २ क्रूर, निर्दय। ३ चिडचिडा, रूखा, वदमिजाज।

कर्कशा - वि स्त्री १ कर्कशा, लडाकी, झगडालू, कटुभाषिणी स्त्री। २ ऐसी स्त्री जिसकी आवाज

वडी करस्त हो। - पु. झगडा।

कर्ज - न [अ 'कर्ज']  
कर्ज, कर्जा, ऋण, देना,  
उधार। - करी - वि पु १ कर्ज  
लेने वाला, कर्जदार, ऋणी। २  
कर्ज देने वाला, महाजन। ३ कर्ज  
की वस्तु के लिए तकाजा करने-  
वाला। - खत - न ऋणपत्र,  
तमस्सुक। - दार - वि दे  
'कर्जकरी'। - पाणी - न कर्ज  
आदि। - बाजारी - वि ऋण-  
ग्रस्त, मकरुज, कर्ज में बुरी तरह  
फँसा हुआ। - रोखा - पु ऋणपत्र,  
तमस्सुक। मु० - फेडणे - ऋण  
चुकाना, कर्ज अदा करना। -  
लागणे - कर्जदार बनना, मकरुज  
होना।

कर्जाऊ - वि [अ 'कर्ज']  
उधार या कर्ज के तौरपर लिया  
हुआ।

कर्ण - पु १. कर्ण, कान।  
२ कर्ण के समान दानी, उदार  
पुरुष। ३ नाव की पतवार।  
४ त्रिभुज के समकोण के सामने  
की भुजा। - कट्टु - वि १  
कर्णकट्टु, कानो को अप्रिय लगने-  
वाला। २ कर्कश, कठोर, करस्त।  
- धार - पु १ कर्णधार, पतवार  
पकड़ने वाला, माँझी। २ नेता,  
कप्तान, 'लीडर', 'कैप्टन'।  
- पथ - पु कर्णपथ, श्रवण - सीमा,  
कान। - पाली - स्त्री कर्णपाली,  
कान की लौ, वाली। - पिशाच -  
पु न १ मत्रो से साध्य होने वाला  
एक पिशाच जो भूत - भविष्य -  
वर्तमान का हाल बताता है। २  
भविष्यकथन। ३ गुप्त, गोपनीय  
वाते बताने वाला व्यक्ति।  
- पिशाची - पु भविष्य कथन करने  
वाला ज्योतिषी। - फूल, - भूषण

न कर्णभूषण, कान का गहना,  
कर्णफूल, कान की वाली, झुमका,  
करनफूल, काँप। - मधुर - वि  
कानो को प्रिय लगने वाला,  
मीठा, सुरीला। - न मंथुन -  
कानाफूसी, चुगली। मु० कर्णाचा  
अवतार - १ बडा दानी, महा  
उदार। २ बहुत कजूस, मक्खीचूस।  
कर्णाचा पहारा - सूर्योदय से लेकर  
तीन घंटे तक का समय, अत्यंत  
पवित्र वेला।

कर्णिका - स्त्री १ कर्णिका,  
विचली उँगली। २ कमल की  
कली या पंखुडी। ४ करनफूल।

कर्णी - दे 'करणी'।

कर्णोपकर्णी - अव्य कानोकान,  
इस कान से उस कान तक, एक  
से दूसरे कान में (पहुँचने वाली  
वात), कर्णपरपरा के द्वारा।

कर्तक - वि १ कर्तक, काटने  
वाला। २ कपड़े की काँट - छाँट  
आदि करने वाला, दर्जी।

कर्तन - न १ कर्तन,  
काटना, कतरना। २ कपड़े की  
काट - छाँट, 'कर्टिंग'। ३  
कातना।

कर्तव - न [हिं 'करतव']  
१ करतव, काम, हुनर, गुण,  
कौशल, चतुराई। २ गायन मे  
तान आदि की प्रवीणता। - गार -  
वि पुरुषार्थी, वाकमाल, करत-  
विया, करतवी, गुणी। - गारी -  
स्त्री पुरुषार्थ, शौर्य, कौशल,  
प्रवीणता। दे० 'कर्तव'।

कर्तरि - वि कर्तृप्रधान,  
कर्तृवाचक, 'ऐक्टिव'। (व्या)  
प्रयोग - पु कर्तृवाच्य, क्रिया  
का वह रूप जिम में कर्ता  
की प्रधानता हो, 'ऐक्टिव वॉइस'।

कर्तव्य - न कर्तव्य, अवश्य-

कर्म, फर्ज। - वि कर्तव्य,  
करणीय, जिसे करना उचित या  
आवश्यक हो। - ता - स्त्री दे  
'कर्तव्य'। - भूमिति - स्त्री  
प्रयोगात्मक ज्यामिति, रेखागणित,  
'प्रेक्टिकल जॉमेट्री'। - शून्य -  
वि अपना कर्तव्य न करनेवाला  
गैर - जिम्मेदार।

कर्ता - पु १ कर्ता, करने वाला  
व्यक्ति, बनाने वाला। २ कर्ता,  
क्रिया के करने वाले का बोधक  
कारक (व्या)। ३ प्रवधक,  
कुटुंबप्रमुख, परिवार का मुखिया,  
कर्ता। - हर्ता - वि बनाने वाला,  
और तोड़ने वाला, कर्तावर्ता। -  
पु परमेश्वर।

कर्तृक - की + - स्त्री १  
कर्तृत्व, पुरुषार्थ। २ जादू-टोना।

कर्तृमकर्ता - वि पु कुशल,  
दक्ष, होशियार। भु कर्तृम-  
कर्तृमन्यथा कर्तुं समर्थ - चाहे जो,  
सब कुछ करने में समर्थ, सर्वसर्वा।

कर्तृक - वि कर्तृक, करने-  
वाला, - का किया हुआ।

कर्तृत्व - न १ कर्तृत्व, कार्य,  
काम। २ कुशलता, निपुणता,  
पुरुषार्थ। - शक्ति - स्त्री कार्य-  
क्षमता, योग्यता, कार्यकुशलता,  
दक्षता, निपुणता। - वान् - वि  
पुरुषार्थी, पराक्रमी।

कर्तृवाचक - पु वातु से बन  
विशेषण, कर्तृवाचक मज्ञा  
करणे (करना) से करणाग  
(करनेवाला)।

कर्मकाळ - वि क्रूर, भया-  
वना, डरावना, प्रचंड, घोर,  
दिल दहलाने वाला।

कर्म - पु १ कर्म, कीचड।  
२ कतवारखाना, कूडाकरकट,  
कवाड। ३ वर्णसंकर, पवित्र और

अपवित्र का मिश्रण । - वायु - पु पकगैस, ' माशगैस ' ।

कर्बल - ली, कर्वा - दे ' कर-दल - ली ', ' करदा ' ।

कर्नाटक - पु. करनाटक, कर्नाट, वह प्रदेश जहाँ कन्नड भाषा बोली जाती है ।

कर्नाटकी - वि करनाटक सबधी, करनाटक का निवासी, कन्नड (भाषा), - संगीत - न दक्षिण भारत में प्रचलित विशेष संगीत ।

कर्पट - टे ' करपट ' ।

कर्ब - पु प्रागार, ' कार्वन ' ।

कर्म - न १ कर्म, काम, कार्य ।

२ शास्त्रविहित नित्यनैमित्तिक आदि कर्म । ३ घघा, आचरण, व्यवसाय । ४ वह पूर्वकृत कर्म जिसका फल इस जन्म में मिल रहा हो, भाग्य, किस्मत, नसीब ।

५ कर्म, वह जिसपर क्रिया का फल पड़े (व्या) । ६ मैथुन, सयोग । - कचाट - न , - कटकट -

खी १ बला, दुर्भाग्य, वदकिस्मती ।

२ मायापच्ची, झझट । ३ झगडा । - कथा, - कहाणी - खी

रामकहानी, दुखभरी या बड़ी कथा, दुखडा । - काड - न १ कर्मकाड,

वेद का वह विभाग जिसमें नित्य - नैमित्तिक आदि कर्मों का विधान है । २ धर्मकर्म, रस्मरिवाज,

आडवर । ३ टे ' कर्मकहाणी ' । - गति - खी देव, नसीब का चक्कर । - चाडाळ - पु १ कर्म-

चाडाल । २ दुरात्मा, क्रूर, निष्ठुर व्यक्ति । ३ स्वेच्छाचारी, वदचलन

आदमी । - दरिद्री - वि अभागा दुर्देवी, वदकिस्मत । - घर्म - न

पु आचरण, वर्ताव । - ० सयोग - पु १ मजोग, सयोग, इत्तिफाक ।

२ अपने देव और सत्कर्म का मेल ।

- ० सयोगाने - अव्य. अचानक, सयोग से, इत्तिफाकन । - धारय -

पु कर्मधारय, तत्पुरुष समास का एक भेद जिसमें विशेष और विशेषण

समाधिकरण हो (व्या) । - निष्ठ - वि कर्मनिष्ठ, शास्त्रविहित कर्मों

में आस्था रखने, उन्हें श्रद्धापूर्वक करने वाला, दे ' कर्मठ ' । - फल - ल

- न कर्मफल, पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों का फल (सुख-दुख) ।

- भूमि - खी १ कर्मभूमि, इहलोक, समार । २ आर्यावर्त, भारत । ३

कर्मक्षेत्र, कार्यक्षेत्र । - भोग - पु कर्मभोग, कर्मफल, कर्मफल के रूप

में प्राप्त दुख । - मार्गी - वि १ विहित कर्म करने वाला । २ कर्म-

निष्ठ, कर्मठ । - योग - पु १ कर्म-योग, कर्ममार्ग की साधना । २

सयोग, देव, प्रारब्ध । ३ सतत कार्य करते रहने का सिद्धान्त,

क्रियाशीलता, कर्मठता । - वाचक धातुसाधित - न धातु में ' ला '

या ' लेला ' प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द (उदा० ' करणे '

से, ' केलेला ' (किया हुआ), ' ठेवणे ' से, ' ठेविलेला ' (रखा हुआ) (व्या.) । - वाद - पु

कर्मवाद, प्रारब्धवाद, कर्म का फल अवश्य होता है और भोगना

पडता है, यह मत । - विपाक - पु १ कर्मविपाक, पिछले जन्मों में

किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल । २ किस पाप का कौन-सा दुख

है, यह बताने वाला शास्त्र । - वीर - पु वि कर्मवीर, पुरुषार्थी,

लोकहित के कर्म में वीर, विघ्न बाधाओं से भिडते हुए कर्तव्यपालन

करने वाला पुरुष । - सन्यास - पु कर्मसन्यास, कर्मत्याग । मु - आड

येणें - आफत आना । देवद्वारा मार्ग रोका जाना । - आठवणें - सकट, आफत आना । कहा कर्मणो गहना गति - देवगति, भाग्य का फेर कोई नहीं जानता ।

कर्मठ - वि १ कर्मठ, शास्त्र-विहित कर्मों में लगा रहने वाला ।

२ कर्मकाडी, विशुद्धिवादी, कट्टरतावादी, कट्टरपथी, रुढि-

निष्ठ, परपरानिष्ठ । - पण - न - पणा - पु कट्टरपन, रुढिनिष्ठता,

परपरानिष्ठता ।

कर्मणि - वि कर्मसबधी, कर्म-वाच्य (व्या) । - प्रयोग - पु कर्मवाच्य, क्रिया का वह रूप

जिसमें कर्म की प्रधानता हो, 'पैसिव वॉइस' (व्या) ।

कर्मांतर - न अत्येष्टि, अत्य-क्रिया, दाहकर्म आदि ।

कर्मद्रिय - न १ कर्मद्रिय, वह इन्द्रिय जिससे कोई काम किया जाय

(हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और उपस्थ) । २ शिशन, पुरुष की

जननेन्द्रिय । [कर ।

कन्या<sup>+</sup> - वि कडा, सख्त, भय-कन्हा - पु, कन्हें - न - १

विवाह के समय दूल्हें और दुलहिन की बहने हाथ में पानी से भरा

लोटा लेकर खडी रहती है । उस लोटे को कन्हा कहते हैं । उस-

पर आम की टहनी और नारियल रखा होता है । २. मटका, मिट्टी का

घडा । ३ मगल अवसरपर आरती उतारने का दीप ।

कन्हाडा - पु महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की एक उपजाति । माना जाता है कि ये लोग कन्हाड नगर के मार्ग से कोकण में उतरे थे ।

कलक - पु १ कलक, घघ्रा, दाग । २ लाछन, वदनामी । ३

दोष । ४ लोहे आदि का मोरचा, जग, घातु का मैल ।

कलकित; कलंकी - वि १ कलकित, कलकी, कलकयुक्त, वदनाम । २ अपवित्र, नापाक । ३ मोरचा लगा हुआ ।

कलंकी - पु १ कल्कि, विष्णु-का दसवाँ और अंतिम अवतार जो पुराणों के अनुसार कलियुग के अंत में सभल (मुरादावाद) में होगा । २ झगडा, कलह ।

कलगड - डा - दे ' कलिंगड - डा ' ।

कलडणे - क्रि अ १ झुकना । २ लुडकना । ३. लेटना । - क्रि स १ झुकाना । २ लुडकाना ।

कलडता, कलडा - वि झुका हुआ, लुडकता हुआ, ढालू, ढालवाँ ।

कलदर - पु १ कलदर, एक वर्णसंकर जाति, उस जाति का व्यक्ति । २ ऊदविलाव, वनविलाव ।

कलदर - पु [ फा ' कलदर ' ] कलदर, मुसलमान मावू, फकीर । - वि फक्कड, मनमाजी, मस्त ।

कलधर - दे. ' कलदर ' ।

कल - पु १ झुकाव, रुज्-हान, रुझान, प्रवृत्ति, रुचि, आकर्षण । २ ढाल, ढलान, घटाव, उतार । ३. तिरछापन । मु. - पाहन वागणे - किसीकी मर्जी के अनुसार आचरण करना ।

कल - वि कल, अस्पष्ट मधुर, मद मधुर, सुहावना, कोमल (स्वर) ।

कलकन - दे ' खळकन् ' ।

कलकल - पु स्त्री कोलाहल, शोर, हो-हल्ला, गुलगपाडा, हगामा, किचकिच, कितकित, चिल्लपो, चिल्लाहट, चीख -

पुकार, शोरगुल ।

कलकलणें - क्रि अ १ कस-मसाना, वेचन, व्याकुल होना, घबडाना । २ घूप आदि के कारण सिर में दर्द होना ।

कलकलाट - पु १ दे ' कल-कल ' । २ शोरगुल के कारण होने वाला सिरदर्द । ३ घूप का बहुत बढ जाना ।

कलगी - स्त्री [ फा ' कलगी ' ] १ कलगी, कलंगी, टोपी, पगडी में लगाया जाने वाला तुरी, फुंदना । २ मोर या मुर्गे के सिरपर की चोटी । ३ घोडो के माथेपर वाँवने का परो का तुरी, चँवर । ४ शृंगार-युक्त लावनी का एक प्रकार या तर्ज । - तुरा - पु लावनी के दो पक्षों में होने वाली प्रतियोगिता ।

कलचर्ड मोती - न [ अ + स ] जापान में बनने वाला एक क्रिस्म का कृत्रिम मोती ।

कलणें - क्रि अ १ झुकना, लटकना, टेढा होना । २ घटना, ढलना । ३ प्रवृत्त होना, लगना ।

कलता - वि झुका हुआ, ढालवाँ, टेढा, ढालू ।

कलतान - दे ' कतान ' ।

कलत्र - न कलत्र, पत्नी, भार्या ।

कलथणें - क्रि अ १ आँघना, उलट जाना, आँधा होना । २ घूमना । - क्रि स १ आँघाना । आँधा, उलटा या नीचा करना । २ घुमाना ।

कलथा - वि दे ' कलता ' । - स्त्री मुक्का, चाँटा । - पु दे ' उलथणें ' ।

कलदार - वि [ तु + फा ] १ कलदार, कल से ढला हुआ सिक्का, रुपया । २ ऐसा सिक्का जिस पर

राजा आदि का सिर या चेहरा हो ।

कल्प - पु [ अ ' कलफ ' ] १ कलफ, घुले कपडे में कडाई, चिकनाई लाने के लिए लगायी हुई लेई या माँडी । २ खिजाव, केशकल्प ।

कल्पणें - क्रि अ १ कल्पना, दु ख पाना, कुडना । २ छटपटाना । ३ हाँफना । - क्रि स १ मोचना, मानना, कल्पना करना । २ दूसरे का बुरा चाहना ।

कलवू (भू)त-द - पु [ फा ' काल्वुद ' ] १ कलवूत, ढाँचा, साँचा, कालिव । २ ठिंगना और मजबूत आदमी, ठोस चीज ।

कलभं (भा)ड - वि झगडालू, कलहप्रिय ।

कलम - न [ अ ' कलम ' ] १ धारा, दफा, अनुच्छेद, परिच्छेद । २ मद्, मद, वावत । ३ कलम, किसी पेड-पाँवे की टहनी जो नया पेड तैयार करने के लिए काटकर लगायी जाती है, ऐसी टहनी से लगाया हुआ पाँधा । ४ लेखनी ।

५ चित्र बनाने या रंग भरने की कूंची, बुरुग, ' ब्रश ' । ६ - काटना, काटछाँट । ७ स्तभ, ' कालम ' । - कसाई - वि कलमकसाई, लेखनी द्वारा दूसरो का नुकसान करने वाला, लिखकर दूसरो को फाँसने वाला । - दान - न, - दानी - स्त्री १ कलमदान । २ एक प्रकार का पटाखा । - बहाद्दर - वि लिखने में चतुर, चालाक लेखनिक ।

- वार - अव्य प्रकरणश एक एक मद लेकर, खड्ग, क्रमश ।

कलमी - वि [ अ ' कलम ' ] कलमी, काटकर लगाया हुआ (पेड), बढिया किम्म का (फल) । २ लिखित । - सोरा - पु कलमी

शोरा, लवे रवेवाला और अधिक साफ शोरा। [युग।

कलयुग - न कलजुग, कलि-कलरव - पु कलरव, कोमल, मधुर ध्वनि। [हम।

कलहस - पु कलहम, राज-कलह-हो - पु कलह, झगडा, तकरार।

कला - स्त्री १ कला, हुनर, गुण। २ खूबी, युक्ति, तरकीब। ३ मुदर रचना या उसकी रीति, कारीगरी। ४ चद्रमडल का सोल-हवां भाग। ५ अश, छोटा भाग। ६ तेज; आव, चमक, छटा, शोभा। ७ मात्रा (छद)। -कौशल्य - न कलाकौशल, कला-विशेष मे निपुणता, हुनर, कारी-गरी। - कुसर - स्त्री कारीगरी, हुनर, नक्काशी। - निधि - पु १ कलानिधि, चद्र। २ कला-विद्।

कलाक - पु [अ 'क्लाक'] घटा, साठ मिनट या ढाई घडी का काल-मान।

कलागत - स्त्री १ झगडा, कलह, तकरार। २ चुगली।

कलागतीखोर, कलागत्या - वि झगडा कराने वाला, चुगल-खोर।

कलाटणी - स्त्री १ परिवर्तन, मोड, पलटा, घुमाव। २ दे० 'कोलाटी'

कलाप - पु १ कलाप, समु-दाय, समूह। २ मोर की पूंछ।

कलावतु - तु, कलावत - पु [फा 'कलावतुन'] कलावत्, रेगम के धागे पर लपेटा हुआ सोने या चाँदी का तार, सोन-चाँदी का तार, मलमा, बादला।

कलाल - पु कलाल, कलवार,

शराव बनाने-बैचने का पेशा करने वाला। - भट्टी-स्त्री १ शराव की भट्ठी, आसवनी। २ मद्य-कर, मादक कर, आवकारी कर।

कलाली - स्त्री १ कलाल, कल-वार का काम या पेशा। २ आव-कारी कर। - वि १ कपटी, फरेवी। २ क्रूर, भयकर।

कलाली - स्त्री कलरव, चहक, चहचहाहट, चहचहा।

कलावत - वि १ कलावत, कलाकार, 'आर्टिस्ट'। २ गाने - वजाने का पेशा करने वाली एक जाति।

कलावतीण - स्त्री कलावती, गायिका, नर्तकी, नटनी, वेश्या, तवाइफ, देवदासी।

कलावा - पु पशु के पाँवों मे बाँधी जाने वाली रस्सी।

कालिगड - न तरबूज, मतीरा, कलीद, कलीदा।

कालिदर - दे० 'कलदर'।

कलि - पु १ कलि, कलि-युग, चार युगों में मे चौथा। २ कलह, झगडा, युद्ध। ३ कलियुग का अविष्ठाता देवता या असुर। ४ मत्सर, पापवृद्धि, पाप। -काल - पु कलिकाल, कलियुग, अज्ञान और सकटों से भरा काल। -पुरुष - पु १ झगडालू, दुष्ट पुरुष। २ दुर्जन, खल, शैतान। -मल - पु कलिमल, पाप, बुरी वासना। -माहात्म्य - न कलियुग का अगुभ, अनिष्ट प्रभाव। -युग - न कलियुग। मु -संचारणें-शैतान मवार हो जाना, मन में झगडे की इच्छा पैदा होना।

कलिका - स्त्री कलिका, कली।

कलिजा - पु १ कलेजा, यकृत, जिगर। २ अतिप्रिय व्यक्ति

या वस्तु।

कलिदा - दे 'कलिजा'।

कलिवर - दे 'कलेवर'

कली - पु दे 'कलि'।

कलुपित - वि १ कलुपित, मलिन, गँदला, गदा, मला। २ दूषित, प्रतिकूल, पूर्वग्रहमय।

कलेंडर - न [अ] अंग्रेजी तिथिपत्र, 'कैलंडर', 'कैलेंडर'।

कलेक्टर - पु [अ] जिला-धीश, जिला अफसर, 'कलक्टर'। - कचेरी - स्त्री कलक्टरी, कलक्टर की कचहरी।

कलेवर - न १ कलेवर, देह, शरीर। २ मृतदेह, शव, लाश।

कल्की - दे 'कलकी'।

कल्प - पु १ कल्प, ब्रह्मा का एक दिन, चार अरब वत्तीस करोड मानव - वर्ष। २ धार्मिक कर्तव्यों का विधि - विधान। ३. वेद के नौ अंगों में से वह जिसमें यज्ञों, स्स्कारों आदि की विधियाँ बतायी गयी हैं। ४ विहित विकल्प। ५ निश्चय, उद्देश्य। - वि लग-भग बराबर, जरा-सा कम, जैसा। -तर्ष, -द्रुम, -वृक्ष - पु १ कल्प-तर्ष, कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष, नदन-कानन का एक वृक्ष जो समुद्रमथन मे निकले १४ रत्नों में और जो कुछ भी मागिये उसे देने वाला माना जाता है। २ बहुत मूल्यवान् तथा सुंदर फल देने वाला वृक्ष। ३ अति उदार पुरुष। ४ नारियल का पेड। - वर - अव्य कल्प के अत तक, मसार के अत तक।

कल्पक - वि कल्पना-चतुर, नयी सूझ वाला, आविष्कारकुशल, मेधावी, प्रतिभासपन्न।

कल्पणें - दे 'कल्पणे'।

कल्पना - स्त्री १ कल्पना,



विचार, उद्भावना, कोई नयी बात सोचना । २ इस तरह सोची हुई बात, उपज, युक्ति, तरकीब । ३ अनुमान, अदाजा । ४ सशय, शका, शक । ५ मान लेना, फर्ज करना । ६ रचना । ७ उमग ।  
-वाद-पु. कल्पनावाद, 'आइडिया-लिजम' । -शक्ति - स्त्री कल्पना-शक्ति, उद्भावना - शक्ति, सूझ, कोई नयी बात सोचने की शक्ति ।  
-सृष्टि - स्त्री कल्पनासृष्टि कल्पना की रचना, ख्याली पुलाव, मनोराज्य ।

कल्पात - पु. १ कल्पात, प्रलय, सृष्टि का अंत । २ असीम दुख, बड़ी आफत, ह्म्र वरपा होना ।

कल्पातरौं, कल्पांतवरीं, कल्पातीं - अव्य १ मसार के अंत तक, हमेशा । २ कभी भी, हरगिज ।

कल्पिणें - क्रि स १ कल्पना करना, सोचना, मान लेना, फर्ज करना । २ सोचकर बताना, तैयार करना । ३ योजना बनाना ।

कल्पित - वि कल्पित, सोचा, माना हुआ, मनगढत, फर्जी । न मनगढत बात ।

कल्याण - न १ कल्याण, मंगल, सुखमौभाग्य, भलाई, अम्युदय । २ क्षेम, कुशल, खैरियत । ३ एक राग (संगीत) । ४ श्रीसमर्थ रामदास के प्रमुख शिष्य ।

कल्ला - पु [फा 'कल्ल ' ] १ गलमुच्छा, गलमुच्छा, गालो पर दोनो ओर मूँछ की सीध में रखे हुए बाल । २ मुँगों का तुर्रा, कलगी । [गुल, हो हल्ला ।

कल्ला - पु. कोलाहल, शोर-

कल्लोल - पु १ कल्लोल, कुछ ऊँची और आवाज करने वाली लहर, माँज । २ कोलाहल, शोर - गुल, हल्ला - गुल्ला । ३ आग की लपट । ४ अधिकता, इफरात ।

कलहई - स्त्री [अ 'कलई ' ] १ कलई, राँगों का मुलम्मा जो ताँवे - पीतल के बरतनों पर किया जाता है । २ लप; मुलम्मा । -कर, -गर, -गार - वि पु कलईगर, कलई करनेवाला । मु. करणे - १ कलई करना । २ लीपापोती करना, बुरी बात को छिपाना । ३ बेकार की बातें करना ।

कल्हातणे \* - क्रि अ लुडकना, गिरना । क्रि स. लुडकाना, गिराना । [कमल । २ हृदय कमल ।

कल्हार - पु न १ सफेद फल्होळ - दे ' कल्लोल ' । कल्होळणें - क्रि अ चिल्लाना, रोना घोना ।

कव - स्त्री १ बाहुपाश, भुजपाश, भुजबधन, गलबहियाँ, गलवाही । २ झपट्टा, छलाँग, उडान । मु - घालणें - १ गले लगाना, लिपटाना, बाँहो में लेना । २ झपट्टा मारना । ३ आशा करना, आम लगाना ।

कवच - न १ कवच, बख्तर । २ छिलका, कडा आवरण, मोटी छाल । ३ आवरण, आवे-पटन, रक्षा का साधन, खोल । ४. पत्थर की मूर्तियों पर सिंदूर लगाने से बनने वाली तह । मु - टाकणें - १ साँप का केचुली छोडना । २ पुनस्त्यान होना, वीमारी से अच्छा होना । ३ मूर्तिपर से सिंदूर की तह का गिर

पडना ।

कवडल कवचाळ, कवची, कवट, कवटाळ, कवटाळणे, कव-टाळी, कवटाळीण, कवठ, - दे 'कवडल', 'कवचाळ'; 'कवची', 'कवट', 'कवटाळ', 'कव-टाळणे', 'कवटाळी', 'कव-टाळीण' 'कवठ' ।

कवटी - स्त्री १ चोपडी, कपाल । २ करोट, करोटी, नारियल का छिलका । ३ अडे का छिलका ।

कवडसा - पु. १ छत, त्रिडकी, दरवाजे आदि से अदर आने वाली प्रकाशकिरण । २ रात में दिग्वाई देने वाली परछाईं ।

कवडा - पु पडुक, कपोत, परेवा, कवूतर की जाति का एक हलके कथई रंग का पक्षी ।

कवडा - पु. १ कौडा, बडी कौडी । २ आँख का जाला, घुंघ; मोतियाविद । ३ दही या फटे हुअे दूध का गाढा टुकडा, लच्छा ।

कवडी - स्त्री १ कौडी, कपर्दिका, वराटिका, बहुत थोडा धन, पैसा । २ नाखूनो पर दिखाई देने वाला सफेद दाग । ३ आँख का जाला, घुघ, मोतियाविद । ४ दही या फटे हुअे दूध का गाढा टुकडा, लच्छा । ५ साँप के शरीर-पर के सफेद दाग । ६ आँख का कोया, डेला । ७ डाढी का वह हिस्सा जो हमेशा बना रहता है, अर्थात् जो नही काटा जाता (मुसल) । - किमतीचा - वि कौडी का, मूल्यरहित, घटिया, तुच्छ, हैय । - चा माल - पु. १ बहुत कम दाम का माल । २ तुच्छ, बेकार की चीज । - चुंबक-वि कजूस, मकवीचूम । - मोल -

वि कीडी का, तुच्छ, बहुत कम दाम का। मु० - उलटी पडणे - पासा पलटना, हार का दांव पडना। - कवडी सांठविणें - कोडी-कोडी जोडना, कजूसी के साथ पैसा जमा करना।

कवड्या - वि जिसपर कोडी जैसे दाग हो। - ऊद - पु एक किस्म का ऊद या लोवान। - घोणस - पु साँप की एक विपैली जाति। - साय - पु एक किस्म का साँप।

कवण\* - सर्वे १ कौन, कौन-सा, कोई भी। २ क्या।

कवणियाचा - सर्वे वि किसका। [किघर, कही भी।

कवणीकडे\* - अव्य, कहां,

कवणीया\* - सर्वे वि किस।

कवणु\* - सर्वे कौन।

कवणें\* - क्रि स १ रचना,

बनाना, लिखना (कविता, भाषण, ग्रंथ आदि)। २ जमा करना।

३ गले लगाना, बाँहों में कमना।

कवणें\* - सर्वे किसने।

कवण्या\* - सर्वे वि किस, कौनसे। - गुणें - अव्य क्यो, किस लिए, किस कारण से।

कवति(ती) क, कवतु(तू)क - टे\* - 'कौतुक'।

कवन - न १ कविता, काव्य, पद्य, गीत, गाना। २ मनगढ़त बात।

कवयित्री - स्त्री कवयित्री, काव्यरचना करने वाली स्त्री।

कवल - टे० 'कवळ'।

कवलारू - टे० 'कौलारू'।

कवळ - पु १ कवल, कौर, ग्रास, निवाला। २ मुट्ठी भर वस्तु।

- स्त्री १ आलिंगन, गलवाँही।

२ चगुल। - न - न्वेती की भूमि में

धान बोने से पहले जलाने के लिए जमा की जाने वाली पैडों की टहनियाँ आदि।

कवळ\* - स्त्री कामला, पीलिया (रोग)।

कवळणें - क्रि स १ दे, 'कवटाळणे'। २ जमा करना। ३ मुँह में पकडना, निगलना। ४. व्याप्त करना। ५ आकलन करना। [निवाला।

कवळा - पु कौर, ग्रास,

कवळा\* - वि कच्चा, कोमल।

कवळी - स्त्री १ दत्तपक्ति,

दत्तावली, बनावटी दाँत। २

२ मुट्ठी, मुट्ठी भर वस्तु।

३ ढोली, पाँच सौ पानों की

गड्डी। ४ कौर, निवाला। ५

कामला, पीलिया (रोग)।

- वि, स्त्री कोमल, नाजुक,

नयी।

कवळु\* - पु स्पर्श।

कवा\* - अव्य कव।

कवाइती-दी-वि [अ 'कवाइद']

१ कवायदसवधी, सैनिकी। २

चतुर, चालाक, सैनिकी दाँव-पेच

में प्रवीण।

कवाइत-द-स्त्री [अ 'कवाइद']

कवायद, सेना या पुलिस के

सिपाहियों का युद्धकला का अभ्यास

करना, सैन्यप्रदर्शन, सैन्यशिक्षा,

'परेड'।

कवाड - न १ किवाड,

दरवाजा। २ कपाट, दरवाजे का

पल्ला। [ईत', 'कवाइती'।

कवायत, कवायती - टे 'कवा-

कवाली - स्त्री [अ 'कवाली']

कवाली, कौवाली, सूफियाना

गज़ल या गीत।

कवि - पु १ कवि, कविता

करने वाला, शायर। २ ऋषि,

पंडित, जानी। - राज - पु कविराज, कविश्रेष्ठ। - सकेत, -समय - पु कविसमय, वे मान्यताएँ जिनका कवि लोग प्राचीन काल से वर्णन करते आ रहे हैं।

कविता - स्त्री १ कविता, शायरी, नज्म, रमात्मक छंदोवद्ध रचना। २ प्रतिभायुक्त (गद्य या पद्य) रचना।

कवित्व - न १ कवित्व, काव्यरचना की शक्ति, काव्य का गुण, रस। २ कविता का प्रभाव, असर। ३ अप्रिय या गद्दी घटना का अमर जो देर तक बना रहे।

कविलास\* - पु कैलास।

कवीठ - टे 'कवठ'।

कव्हण\* - सर्वे कौन।

कव्हणी - अव्य कही भी।

- सर्वे किस, किसी। [किम।

कव्हणें\* - सर्वे कौन-से,

कशाचा - सर्वे वि किस बात,

वस्तु, प्रकार का, काहे का।

कशाला - स - अव्य किस

लिए, क्यो, किम वास्ते, किस

बात के लिए।

कशीदा - पु [फा 'कशीदा']

कशीदा, कसीदा, वेलवूटे का

काम, गुलकारी, सूई - घागे से

कपडे पर बनाया हुआ वेलवूटा।

मु - काढणें - काढना, सूई से वेल-

वूटे बनाना।

कशी - सर्वे वि कैसी, किस

प्रकार की। - अव्य. कैमे, किस

तरह। [कोई एक।

कश्चित् - सर्वे कश्चित्, कोई,

कश्मल - ल - न १ कश्मल,

गदगी, कचरा। २ पाप, दोष। -

वि मलिन, गदा।

कपाय - पु १ कपाय, क्वाय,

काढा, जोशांदा । २ गेरुआ रग ।  
-वि १ तीखा, तेज, चरपरा ।  
२ कडुवा, कसैला । ३ गरुके रग  
का । ४ अनुचित, गदा ।

कष्ट - पु १ श्रम, परिश्रम,  
प्रयत्न, चेष्टा, मेहनत, कोशिश ।  
२ कष्ट, तकलीफ, मुसीबत,  
कठिनाई । ३ पीडा, व्यथा,  
थकावट । -करी -वि पु श्रमिक,  
मजदूर । -कारक, -दायक - वि  
कष्टकारक, कष्टकर, कष्ट देने  
वाला, तकलीफदेह । -साध्य -वि  
कष्टसाध्य, जो कठिनाई से किया  
जा सके, बड़े परिश्रम से प्राप्त  
किया जा सकने वाला ।

कष्टणें - क्रि अ १ बहुत  
परिश्रम के कारण थक जाना ।  
२ दुखी होना । ३ कष्ट उठाना,  
परिश्रम करना ।

कष्टार्जित - वि कष्टार्जित,  
कष्ट, श्रम से कमाया हुआ ।

कष्टालू - वि मेहनती, परि-  
श्रमी, उद्यमी ।

कष्टी - वि १ दुखी, उदास,  
मायूस । २ थका हुआ । ३ कष्टी,  
कष्ट पाने वाला । ४ परिश्रमी,  
मेहनती ।

कस - पु १ कस, जोर, बल,  
सामर्थ्य, दृढता, मजबूती । २  
कसौटी, परीक्षा । ३ फलप्राप्ति,  
फायदा, मुनाफा । ४ लचक,  
टीस, कमक । ५ अर्क, सार,  
सत्त्व । - वि सत्त्वयुक्त, सारगर्भ,  
सामर्थ्य प्रदान करने वाला, ठोस,  
ताकतदार ।

कसकस - स्त्री १ अग टूटना,  
ज्वर के पहले देह टूटना, बदन  
का दर्द करना । २ कसक, पीडा,  
टीस । ३ दुख, भय, चिंता ।  
४ कैपकैपी, सिहरी, मिहरन ।

कसकसणे - क्रि अ १ अग  
टूटना, बदन का दर्द करना । २  
मिहरना ।

कसकसा - अव्य कंसे, किस  
प्रकार । [ प्रकार का ।

कसचा - वि कंसा, किस  
कसणी - स्त्री १ कमनी, वह  
रस्ती जिस से वस्तु कसी जाय,  
वेठन, पाण, वधन । २ दे 'कसा' ।  
३ वरमा चलाने की रस्ती । ४  
कसनी, कसांटी, जाँच ।

कसणे - क्रि स १ कसना,  
वधन या तनाव को कडा करना,  
खींचकर बाँधना, जकडना । २  
(चुस्त वैठने वाली चीज को)  
पहनना, (वर्दी, चपरास आदि)  
बाँधना । ३ खेती करना, खेत  
की जोताई, वोवाई आदि करना ।  
४ परखना, जाँचना । ५ बड़े  
परिश्रम से प्राप्त करना । -क्रि अ  
१ मजबूत, सहिष्णु, अभ्यस्त  
बनना । २ दे 'कसकसणे' ।

कसपट - न छिलका, तिनका,  
मूसा, कचरा । मु० कसपटाप्रमाणें  
मानणें, लेखणें - तुच्छ समझना ।

कसब - न [ अ 'कस्व' ]  
१. हुनर, कला । २ चतुराई,  
चालाकी, होशियारी, निपुणता ।  
३ कसब, वेश्यावृत्ति । ४ दे  
'कलावतु' ।

कसवा - पु [ अ 'कस्व' ]  
१ कसवा, छोटा शहर, पुरानी  
वस्ती । २ तहसील का सदर  
मुकाम ।

कसवी - वि [ अ 'कस्व' ]  
चतुर, होशियार, हुनरमद, कला-  
कार, कारीगर ।

कसवीण - स्त्री [ अ 'कस्व' ]  
कसवी, वेश्या, कचनी ।

कसमस, कसमसाहट - स्त्री १

कसमस, कसमसाहट । २ जोर ।  
३ भीड । ४ जगमगाहट ।

कसर - स्त्री [ अ 'कस्र' ]  
१ कसर, कमी, न्यूनता, अचूरा-  
पन, गलती । २ अश, भाग,  
हिस्सा, शेष, बाक़ी । ३ अवि-  
कता, मुनाफा, फायदा । ४  
हलका बुखार, दे 'कणकण' । ५  
घटाव, बचत, काटछाँट, कजूसी ।  
६ रिश्वत, अनुचित मार्ग मे  
कमाया हुआ धन, बेजा मुनाफा ।  
७ दीमक, एक तरह की सफेद  
चीटी जो कागज, लकड़ी आदिके  
लिए बहुत हानिकर होती है । ८  
कटवाँ व्याज । ९ कामचोरी,  
कोताही । - कुसर - स्त्री न्यूनता,  
कमी, घाटा । - पट्टी - स्त्री १  
अतिरिक्त लगान । २ नुकसान की  
पूर्ति करने के लिए लगाया गया  
कर । मु० - काढणे - १ कसर  
निकालना, घाटा या कमी पूरी  
करना । २ बदला लेना । - येणे  
- कनकनाना, रोमांचित होना,  
कैपकैपी आना, जूडी बुखार,  
हलका बुखार आना । - लागणें -  
दीमक लगना ।

कसरणे + - क्रि अ १ एक  
तरफ लुठकना, फिसलना, रपटना ।  
२ घटना, कम होना ।

कसरत - स्त्री [ अ 'कस्रत' ]  
१ कसरत, मेहनत, व्यायाम,  
वर्जिश । २ कलावाजी, खेल ।

कसरती - वि [ अ 'कस्रत' ]  
१ कसरती, कसरत, व्यायाम,  
वर्जिश करने वाला । २ जिसको  
आदत पड गयी हो । ३ टेढा-मेढा ।

कसला - वि कंसा, किस  
प्रकार का ।

कसवट - टी - स्त्री १  
कसौटी, एक काला पत्थर जिसपर

सोना घिस कर परखा जाता है।  
२ परख, जाँच। ३ खेत को उप-  
जाऊ बनाने के लिए कोशिश करना,  
खेत की जोताई - बोवाई आदि  
करना। - वि कर्माँटी, परख,  
जाँच करने वाला।

कसा - वि कैसा, किस प्रकार  
का। - अव्य कैसे, किम तरह, किस  
लिए, तो, तो मही (जा कसा  
= जाओ तो)।

कसा - पु १ कोथली, हिम-  
यानी, भाँजी, बसनी, टाँची, रूपये  
रखने की थैली जो कमर में बाँधी  
जाती है, बटुआ। २ तनी, बंद।

कसाई - पु [अ 'कस्व' वरुन  
उर्दू 'कसाई'] १ कसाई,  
कस्साव, बूचड, मामविक्रेता। २  
वेरहम, बदर्द, निष्ठुर व्यक्ति। ३  
हलाकू, बधिक, घातक। - खाना-  
पु कमाई - खाना, बूचड - खाना,  
कस्साव खाना। कहा कसायाला  
गाय धार्जिणी - दुष्ट और सर-  
जोर आदमी के सामने ही लोग  
झुकते हैं। [बाँधना, कसना।

कसाई - + छी कस कर  
कसाकसा; कसाकाय - वि  
अव्य कैसे, कैसा, किस प्रकार।  
कसाचसा - वि अजीब,  
अजीबोगरीब, विचित्र, ऊटपटाग।  
कसातरी - अव्य किसी तरह,  
बड़ी कोशिशों के बाद।

कसाव - पु [अ 'कस्साव']  
कस्साव, कसाई, बूचड, दे  
'कसाई'। - करणी - छी वेरहमी,  
निष्ठुरता की बात, काम।

कसाबसा - अव्य किसी तरह,  
बड़ी कठिनाई से, मुश्किल से,  
खुदा-खुदा कर के।

कसाबी - छी [अ 'कस्साव']  
१ कस्साव का काम, पशा। २.

वेरहमी, क्रूरता।

कसाला - पु [अ 'कमा-  
लत'] १ कसाला, कठिन, कष्ट-  
कर श्रम, कष्ट, परिश्रम। २  
सताना, हैरान करना। ३ पीडा,  
सकट, आफत।

कसि (सी) दा, कसुवा - दे  
'कशिदा'।

कसुदी + - छी १ लाल मिर्च  
की बुकनी। २ कच्चे आम को  
छील कर बनाया हुआ अचार।

कसूर - छी [अ 'कुसूर']  
१ कसूर, कुसूर, दोष, अपराध,  
जुर्म। २ त्रुटि, गलती, कोताही,  
टालमटूल। ३ न्यूनता, कमी।  
- दार - कुसूरवार, दोषी, अप-  
राधी। मु० - करणे - त्रुटि  
रखना, जी चुराना।

कसे - वि कैसा। - अव्य  
कैसे, किस तरह। - तरी, - बसे  
- अव्य १ किसी तरह, बड़ी  
मुश्किल से। २ जैसे-तैसे, नाम के  
लिए, नाम को, कहनेभर को।  
- हि (ही) करून - अव्य हर  
हालत में।

कसेसे, कसेसेच - अव्य  
अजीब, विचित्र, जो कहा न जा  
सके। मु० - वाटणे; - होणे - १  
वेचैन होना। २ जी मचलाना।

कसोटा - पु दे 'कसोटी'।

कसोटी - छी १ कसोटी,  
एक काला पत्थर जिस पर सोना  
घिसकर परखा जाता है। २  
परख, जाँच। मु - स उतरणे -  
कसोटीपर खरा उतरना, सच्चा  
सिद्ध होना, परीक्षा में उत्तीर्ण  
होना।

कसोशी - छी [फा  
'कोशिश'] १ बड़ी कोशिश,  
प्रयास, चेष्टा। २ मेहनत, परि-

श्रम, कष्ट। ३ छानवीन, परख,  
जाँच, वारीकी, सूक्ष्मता। ४  
सावधानी, दक्षता।

कस्त + - छी १. खराबी, नुक-  
सान, घाटा। २ न्यूनता, कमी,  
त्रुटि। ३ तकलीफ, परिश्रम,  
कष्ट। दे 'खस्त'।

कस्तर - पु न १ टाँका,  
जोड, धातु जोड़ने का मसाला।  
- पु २ धातु जोड़ने का काम। ३  
कस्तीर, टीन।

कस्तरणे - क्रि स टाँका  
लगाना, जोडना, टाँके से जोडना,  
झालना।

कस्ता-स्ती - वि १ झुका  
हुआ, खिसका हुआ। २ हलका,  
घटिया। ३ जो वजन में कम हो।  
मु कस्तें घेणे - १ एक तरफ हो  
जाना, खिसकना। २ पीछे हटना।

कस्ती - वि बहुत परिश्रम  
करने वाला, कष्ट उठानेवाला,  
मेहनती। - छी मेहनत, परिश्रम।

कस्तुरी - छी कस्तूरी। - मृग-  
पु कस्तूरी मृग, वह हिरन जिसकी  
नाभि के पास की गाँठ (नाफा)  
में कस्तूरी पैदा होती है।

कस्तूर - पु न दे 'कस्तर'।

कस्तूरी - छी १ कस्तूरी।  
२ माथेपर लाल चदन के बीच  
लगाया जाने वाला काला तिलक।  
कस्पट, कस्वीण; कस्तत, कस्ता,  
दे 'कसपट' 'कसवीण,' 'कसरत,'  
'कसा'।

कस्ताच; कस्ता म्हणून कस्ता-  
अव्य विलकुल, किसी तरह भी।  
कहड; कहडणे - दे 'कड',  
'कडणे'।

कहर - पु [अ 'कहर']  
१ हद, अतिशयता, अतिरेक। २.  
कहर, अनर्थ, गजब, बला,

आफत । ३ जुलम, अत्याचार ।  
४ कहर - ड्लाहीं, खुदाई गजब,  
दैवी मकट । मु - करणें - कहर  
करना, हद करना, गजब कर  
देना ।

कहरी - न्या-वि [अ कहर]  
१ कहर करने वाला, जालिम,  
क्रूर, अत्याचारी । २ बला का,  
बहुत - जहरीला, प्राणघातक ।  
३ प्रचड, प्रखर; बहुत- अधिक,  
वेहद । [ 'काढणी,' 'काढणें' ]  
कहाडणी, कहाडणें - दे  
कहाणी - खी १ कहानी,  
कथा, वृत्तांत, पौराणिक कथा,  
आख्यायिका, लोककथा । २ राम-  
कहानी, दुखडा, दुखगाथा । ३  
उपदेश, सिखावन । ४ किसी  
व्रत की कहानी ।

कहार - पु दे 'कहर' । मु-  
-माडणे - आफत मचाना, परेशान  
करना ।

कहाली - खी दे 'काहिली' ।  
कहचा - पु [हि 'कहा'] कहा,  
कथन, कहना, मलाह, आदेश ।  
मु. कहचात असणे - अधीन, तावे में  
होना, मलाह मानना, (किमीके)  
कहने के मुताबिक चलना ।

कळक - दे 'कलक' ।  
कळकी - दे 'कळकी' ।  
कळव - पु. कदव (पेट और  
फूल) ।

कळवें - न कुकुरमुत्ता, छत्रक ।  
कळमा\* - पु. झगडा, टटा ।  
कळ - खी १ टीम, कमक, हक,  
वर्द, पीडा, माल । २ चैन,  
आगम, याति । मु - काढणे -  
महना, वदधित करना ।

कळ - खी १ चाभी, चावी;  
कुजी । २ तरकीब, युक्ति,  
खूबी, रहस्य, मर्म । ३ कळ,

यत्र, पंच - पुग्जा । ४ तराजू की  
डांडी में बीचो-बीच लगी सुई,  
कांटा । मु. - दावणे - १ मर्म को  
छूना । २ कल ऐंठना, घुमाना ।

कळ - खी १ झगडा, टटा,  
छेट-छाड, तरारार, बखेडा ।  
२ खुराफात, झगडा खडा करने  
वाली बात । - लावी - खी कलि-  
हारी, कलियारी, एक पीघा जिगकी  
जड या गाठ में विप होता है । -  
वि झगडा कराने वाली । - लाव्या -  
वि झगडा कराने वाला, उपद्रवी,  
चुगलखोर । मु - काढणे - खग-  
फात करना, झगडा खडा करना,  
उकसाना, छेडना । - लावणे -  
झगडा कराना, लडाना, झगडे,  
कलह में लगाना, चुगली खाना,  
आग लगाना ।

कळक - पु १ एक किस्म का  
वांस जो बहुत मोटा और लंबा  
होता है । २ दे 'कलक' ।

कळकट - वि १ गदा, मैला-  
कुचैला । २ मोरचा लगा हुआ,  
खराब, दूषित । - न दे कलक ।

कळकटणे - क्रि अ १ मोरचा,  
जग लगना । २ मैला, गदा होना ।

कळकणे - क्रि अ मोरचा, जग  
लगना, खराब होना, सडना,  
उबसना, कसाना, वातु का कमाव  
उतर आने से विगडना ।

कळकन - दे 'खळकन' ।

कळकळ - खी १ लगन,  
आस्था, निश्चलता, मचाई ।  
२ दया, तरस, रहम ।

कळकळ - खी किचकिच,  
झगडे का शोरगुल, कचर-पचर ।

कळकळणे - क्रि अ १ तपना,  
गर्म होना । २ हिलना, कुल-  
बुलाना, घूमना । ३ उबलना ।  
४. दुखी, बेचैन होना, क्षुब्ध

होना । ५ जी मचलना । ६. तरस  
आना । ७ कचकचाना । ८ बहुत  
भूख लगना, आँतें कुलबुलाना ।

कळकुटा + - वि ? झगडा  
लगाने वाला । २ दे 'कळकट' ।

कळकड\* - पु बहुत छोटा  
टुकडा, सूक्ष्म भाग ।

कळगा, कळगोटा - वि झगडा  
कराने वाला ।

कळण - दे 'कडण' ।

कळणा - पु चुन्नी, चूनी,  
अरहर, चने आदि की दाल के  
छोटे-छोटे टुकडे । - कोंडा - पु  
१ चूनी-भूसी, चुन्नी और भूसी  
या चोकर । २ मोटा - झोटा  
अन्न, रूखी-सूखी रोटी, गरीब-  
का भोजन । ३ दलने-पीमने का  
पेशा ।

कळणें - क्रि अ मालूम होना,  
ज्ञात होना, जानना, ममझ में  
आना, समझना ।

कळत - अव्य जानकर, जानते  
हुअे, जानवूस कर । - नफळत -  
अव्य १ जाने - अनजाने, जान-  
कर या - विना जाने । २ गळती  
में । - वि थोडा । - मूर्ख वि  
जानकर अनजान बनने वाला ।

कळत्र - न दे 'कलत्र' ।

कळप - पु १ झुड, ममूह,  
ममुदाय, गल्ला, रेवड, लहड -  
डा - डी । २ पथ, मप्रदाय ।

कळपा - पु १ छिलका,  
छाल । २ चिप्पड, कतला,  
चिप्पी । [ का उमवाम ]

कळमळ - खी मचली, वमन  
कळमळणे - क्रि अ १ मच-  
लाना, मतली मालूम होना । २  
दिल पिबलना, तरस आना ।

कळयुग - दे. 'कलियुग' ।

कळवतीण - दे. 'कळवतीण' ।

कळषळणे - क्रि अ १. तरस, रहम आना, दिल पिघलना। २ तडपना, तिलमिलाना, दुखी, वेचैन होना।

कळषळा - पु. १ तरस, दया, रहम। २ प्यार, आस्था, आत्मीयता। ३ लगन। ४ वेचैनी।

कळषा - पु [क 'कळिक'] पावद, पिछाडी, पशुओ के पाँवों में बाँधने की रस्सी, शिकजा।

कळषाकळष - छी खबर फैलाना, सब को सूचित करना।

कळषिणें - क्रि स १ सूचित करना, खबर देना, मालूम कराना। २. समझाना। [छोटा घडा।

कळशी - छी कलसी, गगरी, कळस - न १ कलश, कलसा, मंदिर आदि का शिखर, चोटी, कँगूरा। २ गुमटी। ३ हृद, चरम सीमा, पराकाष्ठा। ४ अत, समाप्ति, खात्मा। ५ छोटा घडा। मु.-होणें - हृद होना, बहुत बढ़ जाना। कळसास येणें - खत्म, पूरा हो जाना।

कळसा - पु घडा। कहा काँसेत कळसा, गावाला वळसा - गोद में लडका, शहर में ढिंढोरा।

कळसूत्र - न सूत्र, कठपुतली नचाने की डोरी। २ प्रधान भाग, कल्पना; कील, खूँटी, मुख्य आधार, चूल।

कळसूत्री - वि कठपुतली नचाने की डोरीसवची। - छी स्यी क्राति। - बाहुलें - न १ कठपुतली, काठ की पुतली या गुडिया जिसे तार या सूत हिलाकर नचाते हैं। २ दूसरे के आदेश या इशारे पर काम करने वाला व्यक्ति।

कळा - पु वडी कली। २ केले का फूल।

कळा - छी दे 'कला' - मु.- जाणे - चमक जाना, फीका पडना, बेरौनक होना।

कळा - छी बहु व्ययाएँ, पीडाएँ। दे 'कळ'।

कळावा - दे 'कळवा'।

कळावे - अव्य ज्ञात हो, इति (पत्रसमाप्ति - सूचक शब्द)।

कळास; कळासू \* - वि सुघड, सुडील, डीलदार। - पु. कुशलता, चतुराई।

कळासणे, कळासिणें \* - क्रि स १ सवि जोडना, जोड लगाना। २ कसना, बाँधना। ३ निग्रह करना, रोकना, निरोध करना।

कळि - पु. दे 'कलि'।

कळिका - छी १ कलिका, कली। ३ दीपक की लौ, ज्योति।

कळिकाळ - पु १ कलिकाल, कलियुग। २ अनिष्टकाल, आपत्ति का समय।

कळिता \* - वि १ खाने-वाला, निगलने वाला। २ कल चलाने वाला, नियता, मचालक।

कळी - छी १ कली पुष्प-कलिका, गुचा, भुँह वैघा फूल, बोडी। २ बूँदिया, बूँदी, बूँदीके लड्डू का दाना। ३ कली, चूने के फूँके हुए पत्थर या नमक का छोटा टुकडा। ४ कली, कुर्ते आदि में लगने वाला त्रिकोना कपडा।

- चा चुना - पु पत्थर आदि का फूँका हुआ टुकडा जिमसे चूना बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया हुआ खाने का चूना। - चें काम - न ऊवड-खावड पत्थरो की चुनाई या जोडाई, 'रैडम रवल'। - चें पान, - बार पान - न कली के आकार का लवा और नोकदार

पान जो बढिया समझा जाता है। मु - उमलणे - कली खिलना। - खुलणें - १ खुग होना। २ मौन छोडकर खुशी में खिल उठना या बोलने लगना।

कळी - छी १ झगडा, टटा, वखेडा। २ कलियुग, कलि। - चा नारद - पु झगडा कराने-वाला, आग लगाने वाला, चुगली खाने वाला। मु - बाँचून काटा निघणे - झगडे या झझोट के बिना अपने आप परेशानी दूर हो जाना। [झगडा।

कळो, कळ्हो \* - पु कलह, का - अव्य १ क्यो, किम-लिए। २ या, अथवा, किवा। - को - अव्य इसलिए कि, क्योकि, अत। - जें - अव्य क्यो, इसलिए कि। - वा - अव्य. क्यो, क्योकि। [क्या, कितना।

काँइ - \* सर्व कुछ। - अव्य काइसा - सी - मे - वि कैसा; कहाँका, किस बात का। - अव्य किसलिए, क्यो।

काँई \* - अव्य १ क्या। २ कैसे। - सर्व क्या, कुछ।

काकड - न पु खरपत, एक पेड और उसका फल।

काकड \* - पु १ ककड, काँकर। २ न सीझने वाला दाना। - वि कच्चा (भात)।

काकडा - पु १ पलीता, मशाल, मोटी बत्ती। २ दे 'आकडा'। ३ चमडे के चावुक का छोर या तस्मा।

काँकडी - छी ककडी, खीरा। कहा. कोल्हा काकडीला राजी - साधारण व्यक्ति छोटी-सी बातपर राजी हो जाता है।

काँकण - न ककण, कगन;

चूड़ी, कँगना । - भर - वि थोड़ा अधिक, कुछ ज्यादा । - वाला - पु. चुट्टिहारा । मु - घालणे, - भरणे १ चूड़ियाँ पहनना । २ नामर्द, कायर बनना । - फुटणे - विववा बनना । - वाढणे, - वाढविणे - चूड़ियाँ टूटना । कहा हातच्या कांकणाला आरसा कशाला ? हायकगन को आरसी क्या ?

कांकर - पु. १ तस्मा, चमड़े की पट्टी । २ बगल का हिस्सा ।

कांकरणें - क्रि अ हिच-किचाना, टालमटूल करना ।

कांकरी - स्त्री रेशम की लड़ी ।

कांकू - न स्त्री १ टालमटूल, झिझक, वहाना, हिचकिचाहट, हीलाहवाला । २ कराहना । मु. - करणें - झिझकना, हिचकना, टालमटूल करना ।

कांकीट - न [ अ ] ककरीट ।

काक्षणें\* - क्रि स काक्षा इच्छा करना । अपेक्षा करना, चाहना ।

काक्षा - स्त्री १ काक्षा, इच्छा, चाह । २ झुकाव, प्रवृत्ति । ३ शका; अवेसा । ४. कल्पना, विचार हुआ ।

काक्षित - वि काक्षित, चाहा ।

काक्षेखोर - वि १ आनाकानी करने वाला, हिचकिचाने वाला । २ शक्की । ३ मनकी, जिद्दी ।

कांख - स्त्री कांख, बगल, पहलू, गोद । - विलाई, - विल्ली, - भिलाई, - माजरी - स्त्री बगलका फोडा, कांखमें होनेवाला फोडा, कँखवारी, कँखौरी । मु काखा बर करणें - १ दिवालिया होने की सूचना देना । २ हाथ खींच लेना, मुकर जाना । कांखा वाजविणे बगले बजाना, अति प्रसन्नता प्रकट

करना । कांखेंत, काखेंस मारणें - १ बगल में दवाना, दावना, कोई चीज चुरा कर भाग जाना । २ कब्जे में करना । कहा काखेंत कळसा गांवाला बळसा - गोद में लडका, गहर में ढिंढोरा ।

कागणी - दे 'कागुणी' ।

कांगारू - न [ अ ] कगारू, कांगरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी आदि देशों में पाया जाने वाला एक जानवर ।

कागाव - पु. दे. 'कागावा' - खोर - वि झूठी शिकायत करने वाला, नाहक चिल्लाने वाला, ढोंगी ।

कागावा - पु. झूठी शिकायत, वात का बतगड, कागारोल, नाहक का शोरगुल ।

कागुणी, कागोणी - स्त्री १. कगुनी, एक कदम । २ मालकगनी, ज्योतिष्मति, एक शाड जिमके दानों का तेल दवा के काम आता है ।

काच - पु. १ कपट, पीडा, तकलीफ, यत्रणा । २ दुख, व्यथा, वेदना ।

कांच - स्त्री दे 'काच' ।

काचणी - स्त्री १ कमकर वांछने में पडने वाला दाग या निशान । २ धर्षण, कमन, रगड । ३ चिना, फ़िक्र । ४ क्लेश, दुख, पीडा, तकलीफ ।

काचणे - क्रि अ १ घिसना, रगडना । २ छीजना, घटना । ३ डरना । - क्रि न सताना, परेशान करना, यत्रणाएँ देना ।

काचन - न काचन, मोना, वन । [ (पंड और फूल) ] ।

काचन - पु. काचनार, कचनार कांचरणें - दे 'काचणे' ।

काचा - पु. दे. 'काचा' ।

काचारी - दे. 'काचारी' ।

काचौळी - स्त्री चोली, अंगिया, कचुकी ।

काजणी - दे 'काजिणी' ।

काजिणी - स्त्री मोतीझिरा, छोटे दानों की चेचक । ( इमका प्रयोग हमेशा बहु में किया जाता है : 'काजिण्या' )

काजिण्या - स्त्री बहु मोती-झिरा, छोटे दानों की चेचक की वीमारी ।

काजी - स्त्री १ काजी; मांड, राईके घोल, सिरके आदि में ज़ीरा, नमक आदि डालकर बनाया जाने वाला एक खट्टा पेय, लपमी । २ लेई ।

काटा - पु. १ कांटा, कटक । २ रोमाच, गंगटा, पुलक । ३ छोटी फुमी, फुडिया । ४ अग-सिहरी, जड़िया बखार के पहले की कपकपी, जूडी । ५ डक । ६ रीढ, कमर, गर्दन आदि की खाम हडडी । ७ ताला, घडी आदि की सूई । ८ तराजू, मोनाचांदी तौलने का कांटदार तराजू । ९ वह क्रिया जिससे हिसाब के सही-गलत होने की जांच की जाय । ( ग ) १० चुभने वाली सुई जैसी पैनी नोक वाली चीज । ११ तराजू की डांडी में बीचोबीच लगी सुई । १२ अंकुमी, कंटिया, हुक, कील । मु - काढणें - १ बदला लेना; मरम्मत करना । २ शत्रु आदि का खात्मा करना, रास्ते में से हटा देना । - मारणें - जड़िया बखार के पहले कपकपी आना । - मोडणें - पानी आदि को कुनकुना करना, कुछ गर्म होना । काटचाचा नायटा होणें - छोटी सी बात का बडा और

वुरा नतीजा होना, वात का वत-गड होना, तिलका ताड बनना । काटघाणें काटा काळणें - एक वुरे व्यक्ति के द्वारा दूसरे वुरे व्यक्ति को सजा दिलाना, कांटे से कांटा निकालना । काटघाप्रमाणें सलणे-कांटे की तरह चुभना, सालना, खटकना ।

काटाळणें - दे 'कटाळणे' ।

काटाळा - पु १ कांटा, रोमाच । २ तराजू । ३ डर ।

काटाळें - न १ कांटा, तराजू । २ वजन, तील ।

काटी - स्त्री १ कंटीला झाड । २ कंटीली झाडी, कांटे - वांस आदि का घेरा, झाडवदी ।

काटे - पु बहु कांटे । -रुणग - न करज । -कोर - वि १ यथार्थ, अच्छूक, ठीक । २ कडा, सख्त । ३ वारीक, सूक्ष्म । -अव्य. ठीक - ठीक, उचित मात्रा में । - तोल - वि १ कांटेकी तोल, विलकुल ठीक, न कम, न अधिक । २ नाजुक । - धोत्रा - पु पीला धतूरा, 'यलो स्टमोनियम' । -रिंगणी - स्त्री भटकटैया । -लगाम - पु दांतेदार, कंटीला लगाम ।

काटेरो - वि कंटीला, कांटेदार । - तार - स्त्री कंटीला तार ।

काठ - पु १ किनारा, तट, तीर । २ कोर, सजाफ, गोट, हाशिया । ३ छोर । ४. वगल, मुंह, गला, पहलू । ५ हथियार की धार । ६ कगार, करारा । -मोरा - पु. टूटे हुए वर्तन का ऊपरी भाग हिस्सा । काठोकाठ - अव्य गले तक, लवालव, मुंह या किनारे तक (भरा हुआ) ।

काठाळी - स्त्री १ कान का परदा । २ कपडे का छोर । मु - बसणे - दे 'कानठळ्या बसणें' ।

काठोकाठ - दे. 'काठ मे' ।

काड - न काड, ईख, नरकुल उगली आदि की पोर, उंगली की दो गाँठों के बीच का भाग । २ पेड का तना । ३ वेद का काड, ग्रथ का विभाग, अध्याय, परिच्छेद । ४ गेहूँ, चना आदिका डठल । - मु काडात काडणे - बहुत पीटना, कचूमर निकालना, पीट कर वेदम कर देना ।

काडका - पु, काडकें - न लकडी का टुकडा, लट्ठा, कुदा ।

काडण - न १ कुटाई, कुटने का काम । २ कूटने की उजरत । ३ कूटने के लिए लिया हुआ अनाज ।

काडणावळ - स्त्री कुटाई, कूटने की उजरत, मजदूरी ।

काडणी - स्त्री कूटना, कुटाई ।

काडणें - क्रि स कूटना, कांडना, कुचलना, मूसल, मुंगरी से किसी चीज को लगातार पीटना ।

काडपीण - स्त्री कुटनहारी, वान कूटने वाली स्त्री ।

काडर - पु. न जहरीले साँप की एक जाति ।

काडारी - पु कर्णधार, माँझी ।

काडी - स्त्री १ सलाख, सलाई, छडी, लकडी या धातु की छोटी छड । २ पोर । ३ गाँठ (अदरक, हलदी आदि की) ४ वलिना, धागे की रील, लकडी का टुकडा जिस पर वुनाई के लिए मूत लपेटा जाता है, 'वाँविन' ५. कपोजिग की चोत्र । जादूची, यक्षिणीची काडी - स्त्री जादूकी छडी ।

मु - फिरविणें - जादू करना, चमत्कार कर के दिखाना ।

काडें - न १ पोर, उँगली की गाँठ, उंगली की दो गाँठों के बीच का भाग, ईख, वाँम आदि मे दो गाँठों के बीच का भाग । २ पेड का तना । ३ ईख आदि का टुकडा । ४ वाण, तीर । - चोर - पु ऊद, वनविलाव ।

काडोकाड - अव्य उंगली के हर पोरपर । [खुजलाना ।

काडोळणे - क्रि स खुजाना, कात - स्त्री काति, चमक, दीप्ति, मौदर्य । - वि कान, प्रिय, मनोरम । [व्यक्ति ।

कात - पु. कात, पति, प्रिय

कात - पु लकडी, हाथीदाँत आदि को खरादते समय निकलने वाला भूसा, वुरादा, चूरा । - काम - न खरादने का काम । - यत्र - न खराद, खरादने का आला, चरख, 'लेय' ।

कातण - स्त्री एक तरह की मकडी जिसका घर मफेद झिल्ली का होता है । कटे हुए भाग पर यह झिल्ली लगाने से खन बहना रुक जाता है ।

कातणे - क्रि स १ कातना, चरखे या तकली पर रुई या ऊनसे धागा निकालना, सन से मुतली बनाना । २ खरादना, चरखेपर चढाकर लकडी या धातु को चिकना, सुडील करना, छील-छाल कर दुरुस्त, मुडील बनाना । ३ गुझिया (एक मिठाई) को ददाने-दार बनाने के लिए उमके किनारे को खास ढग से काटना । ४ सताना, परेशान करना । ५ दे. 'खवणे' । - क्रि अ १ परेशान होना । २ कुत्ते का पागल होना ।



मु० कातून काढणे - बहुत परिश्रम से तैयार करना।

कातणें - न १ गुश्निया आदि मिठाइयो को ददानेदार बनाने का औजार। [चमकदार, सफेद।

कातळा\* - वि कातिमान, काता - स्त्री १ काता, सुदरी, प्रिया। २ पत्नी।

कातार - न १ कातार, गहन वन, घना जंगल। २ दुर्गम पथ। [का काम करने वाला।

कातारी - पु खरादी, खराद कातावणें - दे 'कातावणे'।

काताविणे - दे 'काताविणे'। काति-ती - स्त्री १ काति, तेज, चमक, सौंदर्य, दीप्ति। २ देह, काया।

कातिया - पु, काती - स्त्री ताटी निकालने का एक औजार, गोंडासा, हंसिया।

कातीण - दे 'कातण'।

कातीव - वि १ खरादपर चढाकर बनाया हुआ। २ सुडौल, नक्काशीदार।

कांदा - पु १ प्याज। २ कद, कांदा, गांठ, गांठदार या गूदेदार जड़। ३ बीच का, अदर का मुख्य भाग। ४ शहद के छत्ते में शहद वाला हिस्सा। ५ मूर्ख, वृद्ध।

कांप - पु १ कप, कपन, कांपना, सिहरन, कांपकंपी। २ मीति, डर।

कापणें - क्रि अ कांपना, लरजना, हिलना, थराना।

कांपरा - पु, कांपरी - स्त्री कांपरें - स्त्री १ कप, कपन, कांपना, सिहरन, कांपकंपी। २ डर, भय। - वि कांपने वाला, हिलने वाला, लरजा।

कांपविणें - क्रि स कांपना;

डराना, दहलाना, लरजाना।

काव - स्त्री [क 'कवि'] १ कमची, तीली, पतली, लचकने वाली छडी, वांस आदि की पतली टहनी। २ छड।

कावट - टी - स्त्री [क 'कवि'] १ कमची, तीली। २ छड। दे 'काव'।

कांबरणे<sup>+</sup> - क्रि स ओढना, दे 'पाघरणे'। [ओढने की चीज।

कावरूण<sup>+</sup> - न ओढना, कावळ - स्त्री, कांवळा - पु, कावळें - न १ कवल,

ऊतका बना हुआ जोढने का कपडा। २ गल-कवल, गाय वल के गले में नीचे लटकने वाली खाल। भिजत कावळें - दे 'भिजत घोगडें'। मु कावळघावर काढणे - आसन्नमरण होना।

कांबळघा - वि कवली, कवल वाला।

काबी - स्त्री [क 'कवि'] १ दे 'काव'। २ वनुप् की कमची, धनुर्दंड।

काबीट - स्त्री न [क 'कवि'] १ कमची, दे 'कावट'। २ कलाई की हड्डी। ३ वनुप् की कमची।

कांभरूण<sup>+</sup> - न ओढना, ओढने का वस्त्र।

कास - स्त्री १ काछ, लांग। २ आश्रय, आधार, महारा। ३ दे 'कास'। मु -

कसणें, - घालणे, - बाधणे - १ काछना, लांग को पीछे ले जा कर खोमना। २ कमर कसना, तैयार हो जाना। - धरणें - किसी वलिष्ठ व्यक्ति का सहारा लेना। कांसिस लावणें - आधार देना।

कांसणें - क्रि स १ कसना,

वांधना, काछना। २ कमर पकडना। - क्रि अ १ छीजना। २ घिसना, रगडना।

कासव - न पु १ कछुआ, कछुवा, कच्छप। २ छाला। -वृष्टि - स्त्री दयादृष्टि, कृपादृष्टि। कांसवाचें तूप - न कछुए का घी, असभव वात।

कासार - पु कमेरा, ठठेरा, कांसागर, कांसे, पीतल, ताँवे आदि के वरतन बनाने वाला, कास्यकार।

कासाळू - न बड़े पत्तो वाली अरबी।

कासोटा - पु काछ, लांग, थोती का छोर जिसे जाँघों के बीच से ले जा कर पीछे खांसते हैं। मु. कासोटघाचा खबरदार, बळकट - लॅगोट का सच्चा, जो म्यी-सहवास या व्यभिचार में बचा रहे। कांसोटघाचा हलका - लॅगोट का ढीला, लपट, कामी।

कासोटी - स्त्री १ काछ, लांग। २ लॅगोट, लगोटी।

काहीं - वि १ कुछ, थोडा, अल्प, छोटा। २ कई। ३ कम या ज्यादा। ४ अवर्णनीय। - अव्य १ विलकुल, हरगिज। २ कोई। ३ उलटे। ४ किसी तरह। - एक-वि कुछ - एक, थोडा - सा। - अव्य विलकुल, तनिक शी। -

काहीं - वि कुछ-कुछ, थोडा-सा। - अव्य कुछ-कुछ, थोडा, किसी कदर। - च्या वाहींच - वि उलटा - मीघा, और का और, अट - मट, कुछ का कुछ, अजीब। - तरी - वि चाहे जो, अड - बड, बाहियात; ऊटपटांग। ७ थोडा - सा, कुछ। - सा - वि कुछ-कुछ, तनिक, थोडा -

सा । - अव्य कुछ, कुछ अशो मे ।  
- असो - कुछ भी हो, चाहे जो हो ।  
मु - न चालणे - कुछ न चलना ।  
- विचारू नका - कुछ न पूछिये,  
कहने की बात नहीं, क्या बात है,  
क्या कहना । - हरकत नाहीं - कोई  
हर्ज नहीं, खैर, कुछ परवाह  
नहीं ।

का - अव्य १ क्या । २ न,  
ना । ( तू जातोस का = क्या तुम  
जाओगे ? तुम जाओगे ना ? )

का, काँ - पु काँ काँ, काँय-  
काँय, काँव काँव, काँवे का शब्द ।

काइ - दे 'काइ' ।

काइरस - पु ( क 'कायि')  
कच्चे आम, ककडी आदि का इमली  
और गुड डाल कर बनाया हुआ  
पतला रायता ।

काइसेन - नि - \* अव्य. कैसे,  
किस प्रकार, किस मार्ग से ।

काई-ई\* - टे 'काई' ।

काईल - छी कडाहा ।

काउ - दे 'काऊ' ।

काऊ - पु कौआ, कोको  
(वच्चो के साथ बोलने में प्रयुक्त  
शब्द) । - काऊ - अव्य काँव-  
काँव, काँय-काँय, । - चिऊच्या-  
गोष्ठी - छी वच्चो को सुनायी  
जानेवाली पछियो और जानवरो  
की कहानियाँ ।

काऊ - छी गेरु । [ लिए ।

काऊन + - अव्य क्यो, किस-

काक - पु १ काक, कौआ ।

२ अति घृष्ट, नीच व्यक्ति । -  
तालीय न्याय - पु काक -  
तालीय न्याय, किसी घटना  
का केवल सयोगवश होना ।  
-दृष्टि - वि १ तीक्ष्णदृष्टि,  
तीखी नजरवाला २ छिद्रान्वेषी,  
दूसरे के दोष, ऐव ढूँढ़ने वाला,  
म हिं श को १२

खुचड निकालने वाला । - छी  
तीखी नजर, सूक्ष्म दृष्टि ।

- पक्ष - पु काकपक्ष, कनपटियो-  
पर लटकने वाले वालोके पट्टे,  
जुल्फ । - पद - पु १ काकपद -

छूटे हुए शब्द के लिये पक्ति के नीचे  
बनाया जाने वाला चिह्न ( ^ ) ।

२ हीरे का एक दोष । - बलि -

पु, बळ-ळी - पु काकबलि, श्राद्ध  
आदि मे कौए के लिए निकाला  
जाने वाला अन्न । - वध्या - छी

काकवध्या, काकवध्या, एक  
वच्चा जनकर वध्या हो जाने वाली  
स्त्री । - स्नान - न जल्दी

जल्दी किया जानेवाला स्नान,  
कौए की तरह सिर्फ सिर डुवाकर  
स्नान करना । [ रना, सिहरन ।

काकड - छी कँपकँपी, ठिठु-  
काकडभारती - छी वडे तडके  
पलीते से उतारी जाने वाली भगवान  
की आर ी ।

काकडणें - छी अ ठिठुरना,  
सर्दी से सिकुड जाना ।

काकडडिगी - छी काकडा-  
सीगी, ककंटशृगी ।

काकडा - पु १ दे 'काकडा' ।

२ कडाके का जाडा ।

काकर - छी पानी पर ठीकरी  
चलाने के खेल में बनने वाला  
चक्कर । - पु दे 'काकर' ।

काकरी - छी १ हल का एक  
चक्कर । २ चिता । ३ काँकरी,  
छोटा ककड ।

काकवी - छी [ क 'काकवि' ]  
राव, सीरा, शीरा ।

काकळूत - दे 'काकुळत' ।

काका - अव्य काँय-काँय,  
काँव-काँव ।

काका - पु [ तु ] काका,  
चचा, चाचा । - मामा - पु कोई

भी रिश्तेदार । मु०-करणें - खुशा-  
मद, मिन्नतें करना ।

काकाकुवा - पु [ हि 'काका-  
कौआ' ] काकाकौआ, काकातुआ ;  
एक तरह का उजला, बडा तोता  
जिस के सिर पर चोटी होती है ।

काकी - छी [ तु 'काका' ]  
काकी, चची, चाची ।

काकु - छी काकु, वक्रोक्ति  
अलकार का एक भेद जिसमें  
ध्वनिभेद से, कहने का ढग बदलने  
से अर्थ बदल जाता है ।

काकुळत; काकुळती - छी  
[ क 'ककलाति' ] १ गिडगिडा-  
हट, आजिजी, दया के लिए  
प्रार्थना । २ करुणा, दया, रहम ।  
मु. काकुळतीस येणे - गिडगिडाना,  
चिरीरी करना, दीनभाव से प्रार्थना  
करना, आजिजी करना ।

काकू - छी [ तु 'काका' ]  
काकी, चची, चाची ।

काख - दे 'काख' ।

काखाटणें - क्रि अ. स दे  
'काखा वर करणे, ' 'काखेस  
मारणे' । [ 'काख' ।

काखाटी, काखाटी - दे

काग - पु काग, कौआ ।

- बळ - छी दे 'काकबलि' ।

कागद - पु [ अ 'कागज,'  
फा 'कागद' ] १ कागज ।

२ पत्र, चिट्ठी, खत । ३ लिखी  
हुई चीज, लेख, लिखित प्रमाण,  
दस्तावेज, मसविदा, स्वका, ऋण-  
पत्र । - पत्र - न कागजपत्र,  
कागजात, चिट्ठियाँ, दस्तावेज,  
लिखित प्रमाण, सबूत ।

कागदी - वि [ दे 'कागद' ]  
१ कागजी, कागजका बना । २  
पतला, हलका, घटिया, बहुत  
जल्द टूटने वाला । ३ लिखित ।

४. पतले छिलके वाला । ५ हर-कारा, डाकिया । - आवा - पु कागजी आम । - वदाम - पु कागजी वादाम । - लिबू - पु - लिबू - पु कागजी नीबू । मु - घोड़े नाचविणें - १ कागज के घोड़े दौडाना, लवी लिखापढी, पत्रव्यवहार करना । २ कोई ठोस काम करने के वजाय केवल कागजी कार्रवाई या लिखापढी करना ।

कागदोपत्रीं - अव्य [ दे 'कागद' ] लिखित रूप में, पत्रव्यवहार के रूप में ।

कागाळखोर - वि चुगलखोर, शिकायती ।

कागाळी - स्त्री १ शिकायत, शिकवा, गिला । २ चुगली ।

कागुद<sup>+</sup> - दे 'कागद' ।

काच - स्त्री १ काच, कांच, शीशा । २ काच, आँख की एक वीमारी । ३ स्फटिक, विल्लार, चकमाक । ४ खारी मिट्टी, काला नमक । - कागद - पु रेगमार, रेगमाल, लकडी पर पालिश करनेका बालू लगा हुआ कागज, 'मैडपेपर' । - विदु - पु मोतिया-विद, आँख का एक रोग । - मणी - पु काचमणी, शीशे की गुरिया, गोली, स्फटिक । - मिना - पु मीना, मीनाकारी, 'एनेमल' । मु. - मारणें - शीशे से तराशना या पालिश करना ।

काच - पु दे 'काज' ।

काचकुच - स्त्री टालमटूल, वहानेवाजी, हीला-हवाला ।

काचकुरी, काचकुसरी - दे 'खाजकुसली' ।

काचणी; काचणे - दे 'काचणी, काचणे' ।

काचरी - स्त्री १ कतला, कतरा, किसी खाद्य वस्तु का कटा हुआ पतला टुकड़ा, कचरी । २ मिकुडन, झुरीं । ३ बूढी स्त्री के सूखे हुए स्तन ।

काचळ - दे 'कातळ' ।

काचा\* - वि १ कच्चा, अपक्व । २ अज्ञ, नाममज्ञ । ३ डरपोक ।

काचा-च्या - पु १ काछ, लाँग, घोंती का छोर जिसे जाँघ के बीच से ले जा कर पीछे खोसते हैं, कच्छ । २ जाँघिया, एक तरह का लंगोट । मु - घालणें, - मारणें - काछना, लाँग को पीछे ले जा कर खोसना ।

काचारी - वि पु कंचेग, काँचका काम करने वाला, शीशागर ।

काचावणें - क्रि अ १ वीमारी चिंता आदि से मूव जाना, क्षीण होना । २ डरसे पीछे हटना, लडखडाना ।

काची - पु [ हि 'काछी' ] काछी, कुंजडा, तरकारी और फल ब्रेचने वाला ।

काचोळी - दे 'काचोळी' ।

काचोळे - न १ फल या फूल के डठल के पास का भाग । २ छिलका, भूसा । ३. चदन, अक्षत, हलदी, कुकुम आदि पाँच वस्तुएँ रखने का पाँच पात्रों का समाहार, पंचपात्र ।

काज - न १ काज, काम, कार्य, घषा । २ कारण, प्रयोजन । ३ हेतु, उद्देश्य । - कीर्द - स्त्री दे 'कारकीर्द' ।

काज - न पु [ पुर्व 'कासा' ] काज, बटन फँसाने का छेद या धर, हलका ।

काज - स्त्री दे 'काच' ।

काज - स्त्री [ दे 'काजु' ] काजू का पेड़ और फल ।

काजरा - पु कुचला, एक पेड़ और उमका बीज जो विप है और दवा के काम आता है; कुपीलु, कारस्कर, किपाक ।

काजवा - पु जुगनु, खद्योत । मु. काजवे घमकणें - आँखों के आगे चिनगारी छूटना, चोट आदि के कारण चकाचौंध होना, आँखों के तारे छूटना ।

काजळ - न काजल, अजन । - कुंकू - न कधी-चोटी, वनाव-मिगार । - तीज - स्त्री कजली तीज । मु काजळाचा डोंगर - बहुत ही काला आदमी । काजळाची कोठडी - काजल की कोठरी, मर-कारी खजाना या पैसे के लेन-देन की कोठी ।

काजळणे - क्रि अ कजलाना, स्याह पडना ।

काजळी - स्त्री १ कजली, कालिख । २ गुल, बत्तीका मिरा जो विलकुल जल गया हो । ३ ज्वार का एक रोग । ४ कजराँटा, कज-लाँटा, काजल पारने की डिविया या ढक्कन । ५ चिंता, दुःख । - कागद - पु 'कार्वन पेपर' ।

काजू - पु [ पुर्व 'अकाजू', अ 'कैंगु' ] काजू, एक पेड़ और उसका फल । - गर - पु काजू के बीज की गिरी जो भेवे के तीर पर खायी जाती है ।

काजी - पु [ अ 'कजी' ] १. काजी, मुसलमान न्यायाधीश । २ निकाह पढाने वाला मौलवी ।

काट - पु स्त्री १. काट, (ताग के खेल में) काटना, कुछ-अस निकाल लेना । २ कटौती,

काटछाँट, घटाव । ३ फुलिया, काँटा, काट देना । ४ तराश, काटने का ढग । ५ चोट, घाव । - छाट - छी काट-छाँट, कटौती, कतर-व्योत, घटाव-वढाव, शोधन, परिवर्तन । - देणें, - मारणे - काट देना, रद्द करना ।

काट - पु १ पड्यत्र । २ युक्ति, तरकीब । ३ द्वेष ।

काट\* - पु १ गाढा कीचड़ । २ कपडे पर पडा हुआ दाग या धब्बा ।

काट+ - न श्मशान, जहन्नुम ।

काटक - वि मज्रवूत, परिश्रमी, कष्टसहिष्णु, तगडा, कष्ट उठाने वाला । - पणा - पु मज्रवूती, तगडापन, कष्ट-महिष्णुता ।

काटकसर - छी [ हिं. 'काटना' + अ 'कस' ] १ कमबर्ची, मितव्ययिता, किफायतशिआरी । २ काटछाँट, कतरव्योत ।

काटकसरी - या - वि [ दे 'काटकसर' ] मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, किफायत-शिआर ।

काटकाई+ - छी १ डकैनी, डाकुओं का उपद्रव । २ क्रूरता, जगलीपन । ३ दे 'काटकपणा' ।

काटकी - छी लकड़ी का छोटा टुकड़ा, कुटका, छोटी टहनी, तिनका, चिप्पी, चिप्पट ।

काटकुळा - वि पतला, छहरा, दुबलापतला, इकहरा ।

काटकूट - छी १ काटकूट, काटछाँट । २ दे. 'काटकी' । ३ दे 'काथ्याकूट' ।

काटकोण - न - पु १ समकोण, कायमा, लवकोण, नव्वे अंग का कोण, 'राइट एंगल' ।

२ गोनिया । - चौकोन - पु समकोन चतुष्कोण । - त्रिकोण - पु समकोणत्रिभुज, 'राइट एंगल ट्राइगल' ।

काटकोना- न्या - पु गोनिया, दीवार आदि की मीघ नापने का एक औजार ।

काटक्याकुटक्या - छी बहु घास-फूस, लकड़ी के छोटे टुकड़े, सूखी टहनियाँ ।

काटणे - क्रि स १ काटना, कुछ अंश निकाल लेना (ताश आदि में) । २ किमी तरह विताना, गुजारना ।

काटवट - छी कठौता, काठ (लकड़ी) का परात जैसा वह छिछला वरतन जिममे आटा गूंधते हैं ।

काटशह - पु १ गह या किशत का एक प्रकार (शतरज) । २ काटपेंचा, काटफाँस, दाँव-पेंच, जोडतोड ।

काटा - दे 'काट' ।

काटाकाट-टो, काटाकूट - छी १ काटकूट, मारकाट, काटछाँट, कटौती, कतरव्योत, शोधन । २ किफायतशिआरी, मितव्यय ।

काटाळू - वि कौटीला ।

काटी - दे. 'काटी' ।

काटे - दे 'काटे' ।

काटेरी - दे 'काटेरी' ।

काठ - दे 'काठ' ।

काठण - न दलहन, वह अन्न जिससे दाल तैयार की जाय ।

काठवट - दे 'काठवट' ।

काठा - पु दे 'काठ' ।

मु-वाघणें - रसोई के समय किसी वर्तनपर रखे ढक्कन को सब तरफ से गीले आटे से बंद कर देना, ताकि उसके अंदर पकने वाले

पदार्थ की भाफ बाहर न निकलन पावे । [ वाजू, रख ।

काठाड - न चेहरे की एक काठिण्य - न १ काठिन्य, कडापन । २ दृढता । ३ मल्ली । ४ निष्ठुरता ।

काठी - छी १ लकड़ी, डडा, छडी, लाठी, सोटा । २ निशान; ध्वज का डडा । ३ जहाज का मस्तूल । ४ खेत, जमीन नापने का एक मान या साधन, कच-वाँमी । ५ काठी, देह की गठन, कद । ६ शिशन । ७ ईंधन, जलाने की लकड़ी । - वाला - पु ग्रामरक्षक जो अक्सर अछूत होता ।

काठेवाड - न पु काठिया-वाड, सौराष्ट्र ।

काठोकाठ - दे 'काठ' में ।

काड - छी न अनाज, दलहन आदि का भूसा । २ अरहर आदि का सूखा डठल, रहठा, कडवी, काँडी । - वात - छी तुलसी आदि की लकड़ी पर रुई लपेट कर बनायी जानेवाली बस्ती ।

काडकन्, काडदिशीं - अन्य चट से, खट से, कडाके के साथ ।

काडतुस, काडतूस - न [ अ 'कार्टरिज' ] कारतूस, पीतल, दपती आदि की बनी खोली जिममे बडूक, तमचे आदि के एक फँर-भर के लिए गोली, वारूद भरी रहती है ।

काडाकूट - दे 'काथ्याकूट' ।

काडी - छी १ तिनका, तृण, घास का टुकड़ा । २ सलाई, छड । ३ चिप्पड । ४ धारी, किनारी । ५ चमोटी, पतली छडी । ६ घास, चारा । ७ नाक की कील । - चा - वि अन्य तनिक भी, बहुत कम,

खाक, तुच्छ । - भर, - मात्र - अव्य वि बहुत कम, विलकुल ।  
- मोड - छी १ तलाक, विवाह-विच्छेद । २ सवध-विच्छेद, नाता तोड देना । मु - मोडणे, - मोडून देणें - तलाक देना, विवाह-विच्छेद करना, सवध, नाता तोड देना । - लागणें - जल जाना, नष्ट होणे । - लावणें - जला देना, नाश करना । - काड्या घालणें - उखाड - पछाड करना, चुगली खाना, उकसाना, उभारना, भडकाना, मीनमेख निकालना ।

काठेचिरार्ईत - न पुचिरायता, कडवे स्वाद का एक छोटा पौधा जो दवा के काम आता है ।

काड्या - छी बहु तिनके, लकडियाँ । दे 'काडी' ।

काड्याल - छी कोई चीज बारवार रखना और निकालना, वेकार का काम ।

काडणी - छी १ फसल की कटाई, लुनाई । २ लवी और मजवूत रस्सी, रस्सा ।

काडणे - क्रि स १ बाहर निकालना, ऊपर खीचना । २ लिखना । ३ बुनना, बनाना । ४ खोज निकालना, पता लगाना, आविष्कार करना । ५ पैदा करना, उपजाना, हासिल करना, प्राप्त करना, कमाना । ६ लेना, उधार या कर्ज लेना । ७ छेडना, शुरू करना (वात) । ८ वित्ताना, गुजारना । ९ शश्रूषा, तीमारदारी करना । १० हटाना, दूर करना, निकाल देना । ११ नसीब चमकाना, यश, सफलता प्राप्त करना । - क्रि अ + उतरना, घटना, कम होना, रकना, थमना । - न कुएं से पानी निकालने का साधन (रस्सी,

घडा आदि) ।

काढता पाय - पु पीछे हटना, अपसरण, पलायन । मु - घेणे - पीछे हटना, भाग जाना, मोरचा छोडना ।

काढा - पु १ काढा, क्वाथ, कषाय, अर्क, दवाओ को पानी में औटाकर बनाया हुआ पेय । २ कडवा रस । ३ घाल, घाता, घलुभा, ग्राहक को तौल या गिनती के ऊपर दी जाने वाली चीज ।

काढाकाढी - छी जल्दी-जल्दी निकालना, खीचना । - अव्य जल्दी मे, झटपट, जल्द, शीघ्र ।

काढावा - पु खोज, जांच, तलाश ।

काढीव - वि १. खास तीर से बनवाया गया । २ शरारती, नटखट, बदमाश ।

काढू-ढ्या - वि निकालने वाला, ऐठने वाला (पैसा आदि), बरवाद करने वाला (समय आदि) ।

काणकूण - छी १ भनक, धीमी, अस्पष्ट ध्वनि, अफवाह । २ पिनपिन, रेरें । ३ टालमटोल ।

काणा - वि १ काना, एकाक्ष । २ ऐंचाताना, भेंगा, टेर । ३ तिरछा, टेढा । - डोळा - पु १ व्यान न देना, ढील देना । २ इशारा, इगित । मु - डोळा करणे - ध्यान न देना ; सुनी अनसुनी करना, कान न घरना ।

काणी\* - छी खिन्नता, उदामी, क्लेश ।

काणी+ - छी कहानी ।

काणोसा - दे 'कानोसा' ।

कात - पु. १. कत्या, खैर की लकडी का सत जो पान में खाया जाता है । २ बहुत थोडा पदार्थ, नगण्य चीज । - कडी-री - पु. १

कत्या बनाने वाली एक जाति । - गोळी - छी कत्ये की गोली । - बोळ - पु. कत्ये और वोलका मिश्रण जो प्रसूता के लिए फायदेमद होता है । - वड - पु. दे कातकरी । - वडी - छी कत्येकी चपटी और पतली टिकिया, वडी । - वाडी - छी कातकरी लोगो की वस्ती । मु. काय कात होणार ? - क्या खाक होगा ?

कात - छी केंचुल, केंचुली, सांप की त्वचा जो जाडे में सूखकर अपने आप खोल की गकलमें गिर जाती है । मु० - टाकणें - १ सांप का केंचुली छोडना, केंचुली बदलना, झाडना । २ फिर से तरो-ताजा या जवान बनना । कातीला येणे - १. केंचुली छोडने को होना । २ बूढा होना । ३. पिटने पर आमामदा होना ।

कात+ - छी कता हुआ रेशम । कातकरी - पु एक आदिम जाति या उसका व्यक्ति ।

कातडी - छी १ चमडी, त्वचा, खाल । २ छाल । - वि चमडे का ।

कातडें - न १ चमडा, चमडी, त्वचा, खाल । २ पक्का चमडा, पकाया, कमाया हुआ चमडा । मु० - पाघरणे - १ खाल ओढना । २ वहाना बनाना, घोखा देना, ठगना । डोळपांवर कातडें ओढणे - जान बूझकर नज़रअदाज करना, ध्यान न देना ।

कातणें - दे 'कातणे' ।

कातयत्र - न खराद, चरख, 'लेय' ।

कातर - वि १ कातर, डरा हुआ, डरपोक । २ कामचोर । - वेळ - छी ऐन शाम का वक्त,

सई सांझ, शाम, सध्या; साय-  
काल, झुटपुटा ।

कातर - खी १ बडी कँची,  
कँचा, कात; भेडो के बाल काट-  
नेकी कँची । २ कतरनी, कँची ।  
३ कँची, दो लकडियाँ जो कँची  
की शकल में बाँधी या जडी हो । ४  
दो नदियो या रास्तो के मिलने से  
बनने वाला तिकोना भाग । ५.  
शिकजा, आफत, मुमीबत । मु०-  
लावणें - कम करना, कटौती  
करना, घटाना ।

कातरणें - क्रि स १ कतरना,  
कँची या सरौते से काटना । २  
भेडो के बाल काटना । - क्रि अ  
डरना, कतराना, हट जाना ।

कातरता - वि तिरछा, कत-  
रवा, आंरेबदार । - अव्य तिरछे  
दंग से ।

कातरा - पु. १ कतरना;  
काटना । २ कतला, काट,  
तराव । ३ फाँक । - वि तिरछा,  
दे 'कातरता' ।

कातरी - खी दे 'कातर' ।  
२. कँची, कुश्ती का एक पेंच ।  
- वि कतरा हुआ, काटा हुआ ।  
मु० - चालविणें - कतरना, काटना,  
कटौती करना ।

कातली - डी<sup>+</sup> - खी कच्चे  
नारियल की गरी की पतली फाँक ।

कातवणें - क्रि अ झल्लाना,  
चिठना, परेशान होना ।

कातघळ - दे 'कातळ' ।

कातविणें - क्रि स सताना,  
चिठाना, परेशान करना ।

कातळ - पु.न चट्टान, बहुत  
बडा पत्थर, पथरीली जमीन,  
कत्तल । - वट - वि पथरीला ।

कातारी - दे 'कातारी' ।

कातावणे - क्रि अ चिठना,

झुंझलाना, विगड़ना; परेशान  
होना ।

कातावणे - क्रि स चिठाना,  
झुंझला देना, परेशान करना ।

कातिया, काती - दे  
'कातिया, 'काती' ।

कातीण - दे 'कातण' ।

कातीव - दे 'कातीव' ।

कातोडी - दे 'कातकरी' ।

कात्यायन - पु. कात्यायन, एक  
ऋषि । न कत्ल करना, मार  
डालना ।

कात्री - खी कँची, दे '  
'कातर' । म. कात्रीत धरणें -  
कँची में पकाटना, आफत में  
फँसाना ।

काप, कापाट, कापा,  
कापोट, कापोडी - दे 'कात',  
'कातवट', 'काप्या', 'काट-  
वट', 'कातोडी' ।

काप्या - पु. १ नारियल की  
जटा, नारियल के छिलके का रेशा ।  
२ इम रेशा की रस्सी । - फूट -  
स्त्री वेकार की ब्रह्म, पिष्टपेपण,  
निरर्थक काम ।

काववरी - खी १ उपन्यास,  
'नावेल' । २ कादवरी, वाण-  
भट्टरचित प्रसिद्ध गद्यकाव्य और  
उमकी नायिका ।

कान - पु. १ कान, कर्ण,  
शब्दबोधकी इन्द्रिय । २. बरतन का  
दम्ता । ३ गहना पहनने के लिए  
कान में बनाया गया सूराख ।

- उघाडणी - खी कडीचेतावनी,  
कान उमेठना, ऐठना, दड या चेता-  
वनी देनेके लिए कान मरोडना ।

- कूण - खी १ मनक, अफ-  
वाह । २ कानाफूसी । ३ शिका-  
यत = कोडा - पु. कान का मूल ।

धि लडिजत, कनावडा, कनौडा ।

- कोरणी - खी, - कोरणें -  
खी कनखोदनी; लोहे, ताँवे  
आदिका बना कान खुजलाने और  
उसका मूल निकालने का एक  
औजार । - गोष्ट - खी १ कन-  
वतिया, कानावाती । - टोपी -  
खी कनटोप । - ठळी, - ठळी -  
खी, - ठळघा बसणें - कानके  
फरदे फटना । - पट - खी कनपट;  
कनपटी । - फड - खी १ कन-  
पटी । २ गाल । - फाटघा - वि  
१ कनफटा । २ बदनाम ।  
- फुटी - खी १ एक लता जो  
दवा के काम आती है, कनफोडा ।  
२ कानके बहने की बीमारी ।  
- मत्र - पु. १ कान में कही हुई  
वात, सलाह । २ कान फूँकना,  
दीक्षा देना । ३. कान भरना ।  
- यसा - पु. दे 'कानोसा' ।  
- शील - न १ कनपटी, कन-  
पट, कान और आँख के बीच का  
स्थान । २ गाल, गलफडा । काना  
कोपरा - पु. कोना अंतरा, कोना-  
कोना, चप्पा-चप्पा । कानाचा  
तिखट - वि जिसे हलकी-सी  
आवाज भी मुनाई दे, मव कुछ  
सुननेवाला । कानाचा हलका - वि  
दुसरो की कही बातों का झट  
विश्वास करनेवाला, कान का  
कच्चा । म. - उघडणे - १ कान  
खुलना, सजग होना । २ कान  
खोलना, सावध कर देना । - उप-  
टणे - कान उमेठना, कान ऐठना;  
दड या चेतावनी देनेके लिए कान  
मरोडना । - कापणे, कापून हातावर  
देणें - कान कतरना, कानकाटना,  
बड जाना, नीचा दिखाना, मात  
करना; धोखा देना, बनाना ।  
- फिटणे - कान पकना । - फिटविणे -  
कान खाना, देर तक बकते रहना ।

सुनते सुनते ऊब जाना । - झाड़णे - साफ मुकर जाना, कानोपर हाथ धरना, साफ इनकार करना । - टक्कारणें - कान उठाना, कान खडे करना, कान देना, सचेत, चौकन्ना होना । - टयकारून ऐकणें - कान देकर सुनना, कान खडे करके सुनना, चौकन्ना हो कर ध्यानसे सुनना । - टोचणें - १ कान छेदना । २ फुसलाना, वहकाना । (सोनाराने) - टोचणें - अधिकारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कान खोल दिया जाना, सावधान कर दिया जाना । - देणें - कान देना, कान धरना, ध्यान से सुनना, ध्यान देना । - धरणें - कान उमेठना, ऐंठना, मरोडना । - निवणें - अच्छी या प्रिय बात सुन कर प्रसन्नता होना । - पिळणें - कान उमेठना, ऐंठना, मरोडना । - पिळून घेणें - कान पकडना, तोबा करना, अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य मे वैसी बात न करने की प्रतिज्ञा करना । - पूर ओस पडणें - बहरा हो जाना । - फुकणें - १ कान फूंकना, दीक्षा देना । २ कान भरना, किमी के विषय मे किमी की धारणा विगाड देना, बदगुमान कर देना, चुगली खाना । - फुटणें - १ कान बहना । २ बहरा हो जाना । - भरणें - कान भरना, दे 'कान फुकणें' । - लावणें - गवा बनना, बुट्टू बनना । कानाचा चावाघेणें - दे 'कान फुकणें' । कानाचे किडे झाडणें - १ गलतफहमी दूर करना । २ खरी - खरी सुनाना । कानात खुट्या मारणें - बहग बनना या बनाना । (या) कानाचें त्या कानाला न फळणें - कानो कान

खबर न होना, किसी को भी पता न होना । कानात तुळशी घालून वसणें - १ सुनते हुए भी न सुनने का वहाना करना, बनाना । २ विरक्ति का ढोंग रचना । ३ कान मे तेल डालना, कान बहरे कर लेना । कानात तेल घालून निजणें - कान मे तेल डालना, विलकुल ध्यान न देना, लापरवाह बनना । कानात वोटें घालणें - १ अप्रिय बात सुनने से इन्कार करना । २ दे 'कानावर हात ठेवणें' । कानात भरणें - दे 'कान फुकणें' । कानात वारें भरणें, शिरणें - उच्छृ-खल, स्वेच्छाचारी बनना, कोई वधन न मानना । (या) कानानें ऐकणें, त्या कानानें सोडणें - सुनी अनसुनी करना, विलकुल ध्यान न देना, मन मे बुरा भाव न रखना । कानापाठीमार्गे टाकणें - कानोपर जूँ न रेगना, विलकुल ध्यान न देना । कानाला खडा लावणें - कान पकडना, अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य मे वैसी बात न करने की प्रतिज्ञा करना, तोबा करना, आगे के लिए सचेत हो जाना । कानावर येणें - सुनना, सुनाई देना, मनक पडना । - कानावर हात ठेवणें - १ कानो पर हाथ धरना, अनभिज्ञता प्रकट करना, अनजान बनना, साफ इनकार करना । २ किसी अप्रिय बात को न सुनने के डरादे मे कानो मे उँगलियाँ डालना । कानावरून जाणें - सुना हुआ होना, सुनाई देना । कानांशीं लागणें - कान लगना, कान से सटकर वीरे वीरे कुछ कहना, चुपके चुपके कान भरना । कानास कोन न फळू ( न लाग ) देणें - कानो कान

खबर न होना, बहुत गोपनीय रखना । कानास दट्टे (दडे) वसणें - कान बंद या बहरे हो जाना । कानो कपाळीं ओरडणें सतत चेतावनी देते रहना, सावधान करने के लिए बार-बार कहते रहना । कानो सात खडे (बाळघा) असणें (वच्चोका) १ सुनी अनसुनी करना, होना । २ कानो कान खबर न होना । ३ कानो पर हाथ धरना ।

कानगो - पु. [अ 'कानून' + फा. 'गो'] कानूनगो, माल महकमे का एक कर्मचारी जिसका काम पटवारियों के कागजात की जाँच करना होता था । - ई - छी कानूनगो का काम उसके लिए दी जानेवाली भूमि आदि ।

कानडा - पु. कान्हडा, एक राग (सगीत) ।

कानडा - पु. बहरा ।

कानडा - वि [क 'कन्नड'] १ कन्नड, कर्नाटकसवधी, २ टेढा-मेढा, मुश्किल, दुर्बोध, विलिष्ट, गूढ । ३ घूर्त, चालाक, नटखट ।

कानडी - वि [क. 'कन्नड'] १ कन्नड, कर्नाटकसवधी । २ अनाडी, ऊटपटांग, टेढा-मेढा । - छी कन्नड भाषा ।

कानबला - पु. गुहिया (एक मिठाई) ।

कानशी, कानस - छी १ रेती, लोहे का एक अजीबार जिमसे रगडकर कोई वस्तु काटी या चिकनी की जाती है । २ आरा, आरी ।

कानसणे - क्रि. स. १ रेतना, रेती से रगडकर काटना या चिकना करना । २ आरे से चीरना, काटना ।

काना - पु १ कान, तोप या बंदूक में रजक (वारुद) रखने का स्थान, रजक दानी। २ रजक, बंदूक या तोप की वारुद की प्याली।

काना - पु अक्षरों में 'आ'कार की खड़ी पाई (ऱ)। - मात्रा - स्त्री अक्षर में लगायी जाने वाली स्वर-मूचक रेखाएँ, अनुस्वार आदि।

काना - वि काना, एकाक्ष। दे 'काणा'। - डोळा - दे 'काणाडोळा'।

काना - पु कोना। - कोपरा - पु कोना-कोना, कोना - कछोला।

कानाडी - अव्य कानोतक, आकर्ण। - स्त्री कानतक खीची हुई धनुष की डोरी।

कानारी - स्त्री [पुर्त] १. कोकणी भाषा। २ कन्नड भाषा। - वि कोकण या करनाटकमन्त्री।

कानी - स्त्री १ गराँव का तुकमा या फदा। २ रस्ती।

कानीन - वि पु कानीन, बिन-व्याही स्त्री का वेटा, बवारिपन में पैदा पुत्र, व्यास, कर्ण।

कानुगो - दे 'कानगो'।

कानुडा - वि चालाक, चतुर, धूर्त, मक्कार। दे 'कानडा'।

कानुडा\* - पु श्रीकृष्ण, कन्हैया।

कानू - स्त्री पु [अ 'कानून'] १ कानून, राजनियम, विधि, आईन, विधान। २ नियम, शर्त, ठहराव। ३ हक, अधिकार।

कानोकान - नी - अव्य कानो कान, एक से दूसरे कान तक, कर्णपरंपरा के द्वारा।

कानोला - पु गुझिया (मिठाई)।

कानोसा - पु कनमुई, टोह, आहट, सुराग, छिपकर सुनना, टोह लेना।

कान्हा - पु, कान्हाई - स्त्री १

कन्हैया, कान्हा; कृष्ण। २ दूध-मुँहा बच्चा, छोटा बालक।

कान्होवा - पु १ कन्हैया, श्रीकृष्ण। २ कानिफनाथ।

कान्होला - पु गुझिया (मिठाई)।

काप - पु स्त्री १ फाँक, फल आदि का चाकू आदि से लवाई में तराशा हुआ टुकड़ा। २ कतला, मिठाई का टुकड़ा।

काप - पु वह [अ 'कोपु'] काँप, कान में पहनने का एक गहना, झूमक। कहा० - गेले, भोके राहिलीं - काँप चले गये और सूरख रह गये, वैभव के दिन वीत गये, स्मृतियाँ शेष रह गयीं।

काप - पु [अ 'कैप'] कप, कपू, छावनी।

कापटथ - न कापटथ, कपट, दुष्टता, छलछद्म।

कापड - न कपडा, वस्त्र।

-चोपड - न कपडा-लत्ता, कपडा और अन्य वस्तुएँ।

कापडी - वि कपडेका।

कापडी - पु कार्पेटिक, यात्री, यात्रियों का समूह, गंगा आदि नदियों का जल वेच कर जीविका चलाने वाला। [की मजदूरी।

कापणावळ - स्त्री कटाई, काटने

कापणी - स्त्री कटाई, काटनेका काम, फसल की लुनाई।

कापणें - क्रि स १ काटना, चीरना, तराशना, फाँक उतारना, छीलना। २ कम कर देना, कटौती करना, घटाना। ३ बाल काटना, हजामत बनाना। कहा० कापल्या फिरगळीवर न भुतणे - किसीके भी काम न आना, सहज में किसीका काम होता हो तो भी उसमें महयोग न देना।

कापविणे - क्रि स कटाना, कटवाना, छिलवाना।

कापशा - वि १ मोटा, फूला हुआ। २ हलका।

कापशी - स्त्री १ कपास, रईका पीघा। २ रई।

कापशीण - स्त्री कपास।

कापा - वि काटकर खाने के योग्य, कटाऊ, काटे जाने लायक (आम, कटहल आदि)।

कापाकापी - स्त्री काटकूट, काटछाँट, मारकाट।

कापाँव - वि १ कटा हुआ, तराशा हुआ। २ दे 'कापा'।

कापुसणें - क्रि अ १ किसी पदार्थ का फफूँदी आदि से भर जाना। २ किसी फल में गरी की जगह रई या रेशे बन जाना। ३ मोटा और हलका बन जाना।

कापूर - पु कपूर, काफूर, स्फटिक के रंग-रूप का एक गंधद्रव्य जो रखने से कुछ दिनों में उड़ जाता है। - आरती - स्त्री १ कपूर जला कर उससे उतारी जानेवाली आरती। २ काफूरदानी, कपूर जलाने का पात्र। - कचरी, - काचरी स्त्री कपूरकचरी। - गौरी - स्त्री वि कपूरगौर, कपूर जैसी गोरी; सफेद।

कापूस - पु १ रई, रई। २ कोश का भीतरी घूभा, रेशा। ३ किमी फल के खराब ही जान-पर अदर बनने वाला रई जैसा पदार्थ।

काफर - वि पु [अ 'काफिर', फारसीवाले काफर भी लिखते हैं] १ काफिर, नास्तिक, विधर्मी, पगवर्म का अनुयायी, धर्मभ्रष्ट। २ बदमाश, हरामखोर। ३ अफरीका की एक हथ्सी जाति।



-शाई- ख्री काफिरो का शासन, हुकूमत ।

काफरी - पु [ दे 'काफर' ] हल्की ।

काफला - पु [ अ 'काफिल' ]  
१ काफिला, यात्रियों का समूह, यात्री-दल । २ जहाजों का समूह, वेडा, जलसेना ।

काफिर, काफिला - दे 'काफर' 'काफला' ।

काफी, काँफी - ख्री [ अ ]  
काफी, कहवा ।

काफी - पु काफी, संगीत का एक राग ।

कावजात - दे 'कावीजात' ।  
कावरा - वि कावर, चित्तक-वरा ।

कावली - ख्री [ फा 'कावुल' ]  
१ कावुली मटर । २. भूने हुए कावुली या मादे मटर के दाने ।  
-वि कावुली, कावुलका, कावुल-मवधी । -वाला - पु भूने हुए कावुली मटर के दाने बेचनेवाला ।

कावाड - दे 'कवाड' । -कष्ट-पु. वह मूल मेहनत, परिश्रम का काम, बहुत अधिक परिश्रम, मग-वक्त, कठिन परिश्रम, हलका काम ।

कावाडी - पु मजदूर, सख्त मेहनत करने वाला, दे 'कवाडी' ।

कावाड्या - वि मेहनती, परिश्रम, सख्त मेहनत करने वाला ।

काविजात - दे - दे 'कावी-जात-द' ।

कावीज - वि [ अ 'काविज' ]  
१ काविज, कब्जा करने, रखने वाला, जिसका अधिकार हो ।  
२. कब्जा किया हुआ, तावे, अधीन, फतह किया हुआ । मु - करणे - कब्जा करना, जीत लेना ।

-होणे - कब्जा होना, जीता जाना ।

कावीजात - दे - ख्री पु [ अ. 'काविज' का बहु ] कब्जा किया इलाका, जीता हुआ प्रदेश । गोवा में पुर्तगालियों ने जो प्रदेश पहले जीता था वह 'जूनी कावीजात' (पुरानी कावीजात) कहलाता था और बाद में जीता हुआ 'नवी कावीजात' ।

कावीजाती - ख्री [ अ 'काविज' ] कब्जा, अधिकार ।

कावील - वि [ अ 'काविल' ]  
१ काविल, योग्य, लायक, विद्वान् । २ मजबूत, ताकतवर ।

कावू - पु ख्री [ तु 'कावू' ]  
१ कावू, कब्जा, अधिकार, वस, नियंत्रण । २ मीका, अवसर । -वि १ मजबूत । २ घूर्त, चालाक । -कार, -यार, -वर - वि घूर्त, चालाक, चोखेवाज ।

काम - न १ काम, कार्य, कर्म । २ घवा, रोजगार, व्यवसाय । ३ प्रयोजन, मतलब, शरज । ४ उपयोग । - करी - पु मजदूर, नौकर, श्रमिक, कर्मचारी । - काज - न कामकाज, कामधवा, कारवार । - गत - ख्री उद्योग, काम । - गार - पु १ मजदूर, श्रमिक । २ सरकारी नौकर, कर्मचारी । ३ कार्यकर्ता ।

- गारी - ख्री १ काम । २ कारीगरी । - गिरी - ख्री १ विशेष कार्य । २ वहादुरी । ३ कारीगरी । - चलाऊ - वि काम-चलाऊ, अस्यायी, जिनसे फिल-हाल काम निकल जाय, आवश्यकता की पूर्ति हो जाय । - चुफार - वि कामचोर, काम में जी चुरानेवाला, आलसी । - ०पणा - पु काम से जी चुराना । - दार - वि नरकारी नौकर,

कर्मचारी । - घदा - पु कामकाज, काम-धाम । - वाली - ख्री नौक-गनी, कमेरी, महेरी । - माधू - वि मतलबी, अवसरवादी । कामाचा - वि काम का, जिसमें काम निकले, उपयोगी । मु - काडणे - १ काम हाथ में होना । २ मतलब रखना । ३ सताना, परेशान-करना । ४ मार डालना । कामा-तून जाणे - बेकार होना, निव्य-योगी होना, किसी कामका न रहना । कामा नये\* - कोई उप-योग नहीं, किसी काम का नहीं । कामाम येणे - १ काम आना, इस्तेमाल होना, काम में आना । २ युद्ध में मारा जाना । कामी येणे - १ काम आना, युद्ध में मारा जाना । २ दे 'कामाम येणे' । कामी लावणे - काम में लाना, इस्तेमाल करना । फहा० कामापुरता मामा, ताकापुरती मामी - अपना काम निकलने तक ही मरोकार रखना, प्रयोजन मिट्ट हो जाने पर भूल जाना ।

काम - पु १ काम, इच्छा, कामना, चाह, इद्रिय या विषय-सुख की इच्छा, नभोग की इच्छा । २ कामदेव, मदन । - कळा - ख्री १ कामकला, रतिमुखवर्धन करने-वाली कला । २ कामशास्त्र, कोकशान्त्र । - गूह - न भग, योनि । - प्रस्त - वि कामानुर । - चेष्टा - ख्री मभोगकी इच्छा उत्पन्न करने वाले हावभाव, काम-केली, रतिश्रीडा । - ज्वर - पु कामज्वर, कामवामना का आवेग । - देव - पु कामदेव, काम का देवता, रतिपति, मदन । - घेनु - ख्री १ कामधेनु, स्वर्ग की गाय जो सब कामनाओं की पूर्ति करने

वाली मानी जाती है। २. हमेशा काम आनेवाला व्यक्ति, पेड़ आदि।  
-पिसा - वि काममूढ़, कामा-  
तुर। - शास्त्र - न कामशास्त्र,  
रतिशास्त्र, कोकशास्त्र।

कामट - टी - ठी - छी दे  
'कावीट'।

कामदानी - वि न काम-  
दानी, वह सूती या रेशमी कपडा  
जिसपर जरी की बूटियाँ बनी हो,  
सलमे-सितारे आदि का काम।

कामना - छी कामना, इच्छा,  
चाह।

कामला - ल - छी कामला;  
पीलिया रोग।

कामविणे\* - क्रि स १  
कमाना। २ काम मे लाना, इस्ते-  
माल करना। ३ पैदा करना,  
वनाना।

कामळ-ळी - छी, कामळें न  
कवल, कमली। दे 'कावळा'।

कामाटी - छी १ काम,  
कार्य। २ घधा, व्यवसाय।

कामाठी - पु [क 'कामाट']  
१ आद्य प्रदेश की एक जाति और  
उस जाति का व्यक्ति। २ घरेलू  
काम करने वाला नौकर। ३ सेना  
मे काम करने वाले मजदूर, कुली।

कामाठी\* - छी १ काम।  
२ आवागमन।

कामावणे - क्रि स कमाना,  
वनाना।

कामिनी - छी १ कामिनी,  
कामवेग का अनुभव करनेवाली  
स्त्री, सुदरी स्त्री। २ स्त्री,  
महिला।

कामी - वि १ कामी, काम-  
नायुक्त, विषयासक्त। २ चाह  
रखनेवाला।

कामी - वि १ उपयुक्त;

काम आनेवाला, कामका। २  
उद्योगी, तत्पर।

कामीण - न - छी कामला,  
पीलिया रोग।

कामुक - वि १ कामुक,  
कामी, जिस मे कामवेग की प्रव-  
लता हो, विषयासक्त। २ चाहने  
वाला, लोभी।

कामोद - पु कामोद, एक  
राग (सगीत)।

काम्य - वि १ काम्य, आनद-  
दायी, चाहने योग्य। २ उद्देश्य-  
विशेष से किया हुआ। - न हेतु,  
अभिलाषा, इष्ट वस्तु। - कर्म - न  
काम्यकर्म, फलकामना से अथवा  
उद्देश्यविशेष से किया जानेवाला  
कर्म। - दान - न १ काम्यदान,  
आनददायी देन। २ फलकामना  
से किया जाने वाला दान। - मरण  
- न १ काम्यमरण, अपनी  
इच्छा से प्राणत्याग करना। २ दे  
'इच्छामरण'। - व्रत - न फल-  
कामना से अथवा उद्देश्यविशेष से  
किया जाने वाला व्रत। [शरीर।

काय - पु काय, काया,  
काय - सर्व अव्य. १ क्या,  
प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय।  
२ जो, जो कुछ। ३ कितना,  
कितना बड़ा। ४ कुछ भी, विल-  
कुल। ५ भला। - की - अव्य  
न जाने, न मालूम, कौन जाने।  
- जाणे - कौन जाने। - तो - वि  
तुच्छ, क्या ही। अव्य केवल।  
- बाय - वि बहुत - सा, बहुतेरा।  
- म्हणून - अव्य किसलिए। - लें -  
अव्य किसलिए, क्यों। - सा -  
वि १ कोई - सा, कुछ तो भी। २  
कैसा। ३ किमलिए। - से - सर्व  
कुछ, कोई - सा। - होय - अव्य  
१ क्या परवाह। २ क्या फायदा।

कायदा - पु [अ 'काइद']  
१ कानून, आर्इत, राजनियम,  
विधि, विधान। २ कायदा,  
नियम, ढग, व्यवहार, धर्मशास्त्र।  
कायदे कौन्सिल - न व्यवस्था-  
पिका सभा; विधान सभा,  
विधान परिषद। कायदे पंडित - पु  
कानूनदा, विधिज्ञ। कायदेवाज - वि  
कानून का जानकार, कानूनिया,  
विधि - विधान मे प्रवीण, कानून  
की वारीकियाँ जानने वाला।  
कायदे भग - पु कानूनशिकनी,  
नियमभग, कानून तोडना,  
सविनय अवज्ञा, सिविल नाफर-  
मानी। कायदे मडळ - न १ दे  
'कायदे कौन्सिल'। २ विधा-  
यिका, कानून बनाने वाली सभा,  
परिषद्। कायदेशीर - वि वैधा-  
निक, सर्वधानिक, वैध, कानूनी।  
- ० चळवळ - छी वैधानिक,  
वैध आंदोलन। [छाल।

कायपत्री - छी कायफल की  
कायफळ - न कायफल, एक  
पेड़ जिसकी छाल और बीज दवा  
के काम आते हैं।

कायम - वि [अ 'काइम']  
कायम, स्थायी, स्थिर। - अव्य  
हमेशा के लिए, स्थायी तौरपर।

कायरस - पु [क 'कायि']  
किसी भी कच्चे फल का रायता।

कायलोठी - दे 'आवोळी'।

काया - छी १ काया, देह,  
शरीर। २ रूप, आकार। - कल्प  
- पु कायाकल्प, शरीर का नया  
या जवान हो जाना, चोला बदल  
जाना। - पालट - पु कायापालट,  
क्रांतिकारी परिवर्तन। - वाचामनें-  
करून - अव्य तनमन से, जी  
जान लगाकर। म - झाकणें -  
शरीर का ढाँकना, लाज रखना,

आवृत्त वचाना।

कायिक - वि कायिक, देह-सवधी, शारीरिक।

कायी\* - अव्य क्या, कौन-सा।

काये\* - अव्य १ क्या। २ कुछ। - सी - वि कैसी, किस बात की।

कारजें - न फौआरा, फांवारा, फव्वारा, फुहारा, हज्जारा।

कार - पु ज्वार की एक किस्म।

कार - पु १ कार, (समास के अंत में) करने वाला, कर्ता (ग्रथकार, चित्रकार इ)। २ वर्ण के अंत में उसके उच्चारण के अर्थ में ('अकार' 'चकार' इ)। ३ कहार।

कार<sup>+</sup> - दे 'कहर', 'करार'।

कारक - वि कारक, करने-वाला। - न १ कारक, सजा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका सबंध प्रकट होता है। २ सजा का क्रिया के साथ सबंध।

कारकीर्द - स्त्री [फा 'कार-कदंगी'] अमल, शासनकाल, कार्यकाल।

कारकुडा - पु 'कारकून' का तिरस्कारसूचक रूप। दे 'कारकून'।

कारकुनी - स्त्री [फा 'कार-कुन'] १ मुन्गी का काम, मुशी-गिरी, मुहूरिरी, क्लर्की, किरानी-गिरी। २ मुन्गीका वेतन। ३ मितव्यय। - वि मुशी या क्लर्क-मवधी। - कावा - पु मुशी की चालाकी, दावपेंच, बोखाघडी, छलकपट। - पेशा - पु क्लर्की, मुन्गी का पेशा।

कारकून - पु [फा 'कार-कुन'] १ क्लर्क, दावू, लिपिक, मुशी, मुहूरिरी, किरानी। २

चालाक, धूर्त व्यक्ति।

कारखानदार - वि [फा 'कारखान दार'] कारखाने-दार, कारखाने का मालिक, उद्योगपति।

कारखाना - पु [फा 'कार-खान'] १ कारखाना, वह जगह जहाँ कोई विक्री की चीज बनायी जाय, निर्माणी, निर्माणशाला, 'फैक्ट्री'। २ कारचार, मामला, घटना।

कारटा - पु १ श्मशान में अत्येष्टि या मृतक कर्म कराने वाला ब्राह्मण। २ निघ जीवन विताने वाला। ३ दुष्ट, बदमाश, नटखट, शरारती लडका, कपूत, नालायक बेटा। [- स्त्री: 'कारटी']

कारण - न १ कारण, वजह, सबब, किसी बात के होने का हेतु, वह जिससे कार्य की उत्पत्ति हो, निमित्त। २ प्रमाण, आवार, साधन। ३ प्रयोजन, हेतु। ४ आवश्यकता, जरूरत। ५ काम, कार्य। ६ विवाह आदि मंगल कार्य या समारोह। ७ परामर्श, विचार, मशविरा। ८ आद्य तत्त्व, इष्ट वस्तु। ९ लक्ष्य, साध्य। १० उपयोग। - परत्वे - अव्य आवश्यकता के अनुसार, जरूरत पडने पर, कारण के अनुसार। - शरीर - न कारणशरीर, अविद्यारूप शरीर, आनदमय कोश। कारणों लावणे - काम में लगाना, खपा देना, इस्तेमाल करना, लाभ उठाना।

कारणिक, कारणीक - वि १ उपयुक्त, ममुचित। २ बनाने वाला, प्रवधक। ३ किमी कारण से बना हुआ। - पु कारणिक, किसी राज्य का मुख्य मंत्री,

प्रवधक, कारिदा।

कारणें\* - अव्य १ के लिए, के वास्ते, को। २ के काममें; में। ३ की ओर, तरफ।

कारतु (तू) स - दे 'काडतुस'।

कारवाज - वि [फारसी में 'कार' (कार्य) और 'अदाज' (चलाने वाला) शब्द तो हैं, पर उनसे कारदाज 'शब्द नहीं बना है। संभवत यह मराठी में ही बनाया गया हो।] १ काविल, लायक। २ कूटनीतिज्ञ, पड्यत्र रचनेवाला। दे 'कारस्थानी'।

कारवाजी - स्त्री [दे 'कार-दाज'] १ कूटनीतिज्ञता, होशियारी, चालाकी। २ पड्यत्र रचना।

कारभार - पु [फा 'कारो-वार'] १ कारवार, कारोवार, कामकाज, रोजगार, व्यापार। २ प्रवध, प्रशासन, कार्यभार, व्यवस्था। ३ झझट, परेशानी, ऊधम।

कारभारी - पु [फा 'कारो-वार'] १ प्रवधक, प्रशासक, व्यवस्थापक। २ कित्ती राजा का प्रधान मंत्री या दीवान। ३ पति, शौहर। ४ नाहक हस्तक्षेप करने वाला।

कारभारीण - स्त्री [दे 'कार-भारी'] १ प्रवधकर्त्री, प्रशासिका। २ प्रवधक, प्रशासक, दीवान आदि की पत्नी। ३ पत्नी, घरवाली।

कारली - स्त्री करेले की बेल।

कारले - न १ करेला (एक तरकारी)। २ करेले के आकार का एक गहना। ३. करेल, एक तरह का बड़ा मुगदर।

कारवाई - स्त्री [फा 'कार-

वाई'] १ कारवाई, कार्यवाही, काम, २ हरकत, चाल, चालाकी, पड्यत्र। ३ होशियारी, अच्छा प्रवध। दे 'कारस्थान'।

**कारवाव** - पु कारस्तानी; साजिश; चालवाजी। [साजिशी।

**कारवादी** - वि चालवाज, कारवान - पु न [फा 'कारवाँ'] १ घोड़े बेचने वाले अरबों का झुंड, टोली, कबीला। २ कबीले का व्यक्ति। ३ चाकू, कची आदि बेचने वाली एक खानावदोश जाति जो ईरानियों से मिलती-जुलती होती है।

**कारवानी** - स्त्री [फा 'कारवाँ'] घोड़े या चाकू-कैची बेचने का व्यवसाय। - वि १ कारवानसवधी। २ चालाक, काँइयाँ।

**कारवी** - स्त्री सफेदा या नरकट जैसा एक पौधा जिसकी टहनियाँ वाड बनाने के काम आती हैं।

**कारस्थान** - न [फा. 'कारस्तानी'] १. कारस्तानी, कुचक्र, साजिश, चालवाजी, पड्यत्र, करतूत। २ मितव्यय। ३ प्रवध, वदोवस्त।

**कारस्थानी** - वि [फा 'कारस्तानी'] १ चालवाज; कुचक्री, चालाक, काँइयाँ, पड्यत्र रचने वाला। २ मितव्ययी।

**कारळें** - न १ काला तिल। २ एक मोटा, काला तिलहन जो खाने और तेलके काम आता है, काला जीरा। ३ कडवा जीरा।

**कारा** - स्त्री १ कारा, कैद, कैदखाना। २ पीडादायक काम। - गृह - न कारागृह, कैदखाना।

**कारागिरी** - स्त्री [फा 'कारीगरी'] १ कारीगरी, शिल्प,

दस्तकारी, हुनर, हुनरमदी। २ होशियारी, चालाकी। ३ दे 'कर्तवगारी'।

**कारागीर** - वि पु [फा 'कारीगर'] १ कारीगर, शिल्पी, दस्तकार, हुनरमद। २ दक्ष, कुशल, होशियार। २ नाई, हजाम। ४ दे 'कारभारी'।

**कारिंट** - न खीरे जैसा एक कडवा फल और उसकी वल।

**कारिंदा** - पु एक कद और उस का पेड़।

**कारिवणा** - ना - पु ब्राह्मी (प्रसिद्ध वूटी)। [वाला।

**कारी** - वि करनेवाला, वचाने कार - रु - पु १ कार, शिल्पी, कारीगर। २ गाँवके कारीगर, नाई, धोबी आदि लेहनादार। - नारु - पु. दे 'अलुतेदार' और 'वलुतेदार'।

**कारण्य** - न कारण्य, दया, करुणा।

**कारेती** - स्त्री करेले की वेल।

**कारटा** - दे 'कारटा'।

**कार्तिक, कार्तिक** - पु कार्तिक, कार्तिक, आश्विन के बाद का महीना। - स्वामी - पु देवताओं के सेनापति, पडानन, कार्तिकेय, सुब्रह्मण्यम्।

**कार्तिकी** - स्त्री कार्तिक की शुक्ला एकादशी। - वि कार्तिक - सवधी।

**कार्पण्य** - न कार्पण्य, कृपणता, कजूसी।

**कार्य** - न १ कार्य, काम, उद्योग, घधा, व्यवसाय। २ धार्मिक कृत्य, विवाह आदि मंगल कार्य, समारोह, उत्सव। ३ परिणाम, क्रिया, योग। ४ कारण का विकार (व्या)। ५ मुकदमा,

नालिश। ६ प्रयोजन, हेतु। - कर्ता - वि पु कार्यकर्ता, कर्मचारी, काम करनेवाला। - कारण-

भाव - पु कार्यकारणभाव, कार्य और कारणका सवध। - कारी - वि कार्य करने वाला। - कुशल - वि कार्यकुशल, काम में होशियार, दक्ष। - क्रम - पु कार्यक्रम, योजना, कार्यसूची, 'प्रोग्राम'। -

०पत्रिका - स्त्री कार्यमूची, 'अजेंडा'। - क्षम - वि समर्थ, कुशल, प्रवीण। - भाग - पु १ कार्य, काम, हेतु, लक्ष्य। २ काम का हिस्सा। - भार - कार्य-

भार, काम का बोझ, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। - वाह - कार्य-वाह, प्रवधक, व्यवस्थापक। मु.

- उठणे - कामका पूरा होना। - उरकणें - १ कामको पूरा करना। २. काम का पूरा होना। ३ मभोग करना।

**काल** - न केलेके पेड़ का गूदा।

**काल** - न पु बीता हुआ कल, पिछला दिन। - अव्य कल, पिछले दिन।

**काल** - पु दे 'काळ'। १ काल, समय, वक्त, २ अवसर, मौका, मौमम। ३ अत, मृत्यु। ४ मकट का समय, आफत। ५ महाकाल, यम। ६ भूत, भविष्य, वर्तमान आदि काल। ७ ताल (सगीत)। - कूट - न १ कालकूट, एक भयानक विप, हलाहल विप।

२ जहर, विप। ३ द्वेष, नफरत। - क्रमण - न, क्रमणा - स्त्री १ समय बिताना, वक्त गुजारना। २ मनरजन, दिलवहलाव। - गति - स्त्री १ देव की गति, किस्मतका चक्कर। - क्षेप - पु १ कालक्षेप, समय बिताना, दिन

काटना । २ जीवन-निर्वाह । ३ कालचक्र, समय की गति, जमाना । - ग्रस्त - वि १ आसन्नमरण । २ आपत्तियों में फँसा हुआ । ३ पुराना, वीते जमाने का । - चक्र - न १ कालचक्र, किस्मत का चक्कर, भाग्य परिवर्तन, समय का चक्र । २ समय का कोई विभाग । - त्रय - न कालत्रय, तीनों काल भूत, भविष्य और वर्तमान । - त्रयी - अव्य किसी भी समय, कभी भी, हरगिज़ । - दशा - स्त्री १ अच्छे या बुरे दिन, किस्मत । २ बुरे दिन । - धर्म - पु. काल की महिमा, काल की सत्ता, सामर्थ्य, प्रभाव । - निर्वाह - पु १ जीविका, आजीविका । २. समय विताना । - परत्वे - अव्य काल, समय के अनुसार । २ कभी कभी । ३ विशेष अवसरपर । - पाश - पु. कालपाश, यम का फंदा, फाँसी । - पुरुष - १ काल-पुरुष, यमराज, यमदूत । २ कालरूप ईश्वर, काल । ३ कोई भयावना क्रूर, डरावना पुरुष । - महिमा - पु. - महात्म्य - न काल की महिमा, वक्त का तकाजा, जमाने का चक्कर । - मान - न १ कालमान, काल की मात्रा, माप । २ समय की गतिविधि । ३ मौका, अवसर । - यातना - स्त्री बहुत बड़ी यत्रणा, मृत्यु के समय का क्लेश । - रात्र - स्त्री कालरात्रि, अँधेरी, डरवानी रात, प्रलय की रात, माँत की रात । - रात्री - स्त्री १ कालरात्री, हर आदमी के ७७ वें वर्ष के ७ वें मास की ७ वी रात । २ दे 'कालरात्र' । - हरण - न १ समय विताना । २ काल-क्षेप, कालातिपात, विलव, देरी,

टाल-मटोल । मु. - साधने - मौके से लाभ उठाना, अवसर न चूकना ।

कालव - न षो, शख की जाति का समुद्र में पाया जाने वाला एक कीड़ा जो सीपियों में रहता है ।

कालवड - डी - स्त्री बछिया, कलोर, कलोरि, जवान गाय जो व्यायी या गाभिन न हो ।

कालवण - न १ सालन, साथ को, शोरवादार तरकारी, दाल, कढ़ी आदि जिससे लगाकर रोटी खायी जाय । २ छाँछ, दही आदि जिमसे सानकर चावल खाया जाय । ३ मिलाना, सानना, मिश्रण, मिलावट ।

कालवणे - क्रि स मिलाना, सानना, धोलना । - क्रि अ जी मतलाना, मिचलाना । २ तरस आना । मु० जीव कालवणे - १ जी घबहाना । २ तरस आना । विटाळ कालवणे - छूत-छात या स्पर्शजनित अशुचिता फैलाना ।

कालवा - पु. नहर, यातायात या सिंचाई के लिए किसी नदी या जलाशय में से निकाला गया जलमार्ग ।

कालवा - पु १ मिश्रण, रोटी, चावल आदि में सालन मिलाकर बनाया हुआ मिश्रण । २ शोरगुल, भीड़-भाड़ । - कालव - स्त्री १. मिश्रण, मिलावट । २ जी मतलाना, मिचलाना । ३ झञ्झट । ४ परेशानी, उद्विग्नता ।

कालविणे - दे 'कालवणे' ।

कालातराने - अव्य आगे चलकर, बाद में ।

काला - पु. १ मिश्रण, मिलावट । २ दही, चिउडा आदि मिलाकर बनाया हुआ प्रसाद । ३ गारा । ४ पुट, हलका मेल ।

कालापकर्ष, कालापव्यय - पु. समय का नाश, वक्त बरबाद करना ।

कालावधि - पु. कालावधि, नियत काल, मुद्दत, कुछ समय । कालाष्टमी - स्त्री १ कार्तिक वदि अष्टमी । २ प्रत्येक महीने के वच पक्ष की अष्टमी ।

कालिगडा - पु. एक राग (सगीत) कालिमा - पु. स्त्री १ कालिमा, कालापन, कलौस । २ कालिख; कलक । ३ बीमारी, थकावट आदि के कारण आनेवाला कालापन, प्रभाहीनता, तेजोहीनता ।

कालिया - पु. कालिय; यमुना में रहने वाला एक नाग जिसका दमन श्रीकृष्ण ने किया था । - मर्दन - न कालिय का दमन । - डोह - पु. कालिय - दह, कालिय - हृद ।

कालीन - वि कालीन, कालका, कालमवधी ।

कालीफास - न [अ. 'कैल्सियम फॉस्फेट'] होमियोपैथी में एक दवा का नाम ।

कालीमूर - न [अ. ?] होमियोपैथी में एक दवा का नाम ।

कालीसल्फ - न. [अ. ?] होमियोपैथी में एक दवा का नाम ।

कालें - न केले के तने का अदरुनी हिस्सा जो बहुत ठंडा, मफेद और चिकना होता है ।

काल्पनिक - वि काल्पनिक, मनगढत, अवास्तविक, फर्जी ]

काव - स्त्री [क 'कावि'] गेरू, खानो में निकलने वाली एक तरह की लाल मिट्टी जो रँगने और दवा के भी काम आती है ।

काव - स्त्री १ झुञ्जलाहट, ऊत्र जाना । २ छल-कपट ।

कावकाव - स्त्री १ काँय-काँय, काँव-काँव, कीवे का गब्द । २ शोरगुल, चिल्लाहट, कागारोल, कौवारोर ।

कावड - डी - स्त्री १ काँवर, वहँगी, वाँस का मोटा फट्ठा जिमे कवे पर रख कर और छोरो पर बँधे छीको पर चीजें रखकर ढोते हैं । २ वह डडा जिसके छोरो पर टोकरियाँ बाँधते और उनमे गगाजल आदि रखकर ले जाते हैं ।

कावडी - पु दे 'कापडी', 'कावड्या' ।

कावड्या - वि पु काँवरिया, काँवर लेकर चलने वाला, काँवाँरथी, काँवर से पानी भरनेवाला, काँवर ले कर तीर्थयात्रा करने वाला ।

कावणें - क्रि अ १ झल्लाना, झुझला उठना, तनतनाना, बहुत विगड जाना; चिढना । २ ऊबना, परेशान होना । ३ तिलमिलाना, छटपटाना । ४. वरस पडना, बहुत क्रुद्ध होकर डाँटना, फटकारना, वकझक करना ।

कावरा, कावरावावरा - वि [क 'कावु' + 'वेवरु'] भौचक, भौचक्का, हक्कावक्का, हैरान, डरा हुआ, भय या आश्चर्य से हतवृद्धि ।

कावरुख - न बाँदा, परगाछा ।  
कावर - न [दे 'कावरा']  
अम, पागलपन, उन्माद । - वि १ पागल । २ अमाम्मक, आभासात्मक ।

कावळा - पु १ कौआ; कौवा, टे 'काक' । २ केले के फूलमे होनेवाला एक किस्म का कडा रेशा जो सीझता नहीं है । ३ दाल, कढी आदि परोसने का एक

विशिष्ट वतन । मु० - शिवणें - १ अत्येष्टिके दसवे दिन मृतक के नाम से बनाये गये पिंड को कौए का छूना । २ स्त्री का कपडो से होना । पोटात कावळें ओरडणें, कोकलणें - बहुत भूख लगना, आँतें कुलबुलाना । कावळ्याचे आयुष्य असणें - सौ वरस की अर्थात् लवी आयु प्राप्त होना । कहा० कावळ्याच्या शापानें गाय मरत नाही - कौए के शाप से गाय नहीं मरती, क्षुद्र व्यक्ति के कोसने से बडे आदमी का कुछ नहीं विगडता ।

कावळी - १ कौए की मादी । २ मेढासिंगी (एक झाड) । ३ मालकैंगनी ।

कावा - पु [फा 'कावकाव' से उर्दू 'कावा'] १ चालाकी, बदमाशी, चाल, दाँव, चालवाजी । २ कावा, घोडेको वृत्त या दायरे मे चक्कर देना, चक्कर । ३. षड्यत्र । ४ हार, पीछे हटना ।

काविरें \* - न १ भ्रम, भ्राति, पागलपन, सनक, उन्माद । ३ अँघेरा ।

कावीळ - स्त्री कामला, कामली, पीलिया रोग ।

कावेबाज - वि [दे 'कावा'] चालाक, धूर्त, काँडर्याँ, बदमाश, षड्यत्रकारी ।

काव्य - न काव्य, कविता, नज्म, शेर, पद्यरचना । - पु दैत्यगुरु शुक्राचार्य । - कथा - स्त्री प्रबन्धकाव्य । - कळा - स्त्री काव्य - कौशल, कविता लिखने का प्राविण्य । - चोर - वि पु. काव्यचोर, दूसरे के काव्य को अपना कह कर प्रसिद्ध करने वाला ।

काशा \* - अव्य किसलिए, क्यों । - स्त्री १ कास (घास) की जडे, दूब की जडें । २ कडवी की जडें ।

काशाचा - ची-चे\* - वि अ किमका, किम वातका, कैसा ।

काशानशीं \* - अव्य क्यों, किसलिए ।

काशानें-ला-स \* - वि अव्य किससे, किसने, किसलिए, क्यों ।

काशी - स्त्री काशी, वाराणसी, बनारस । - फर - वि पु १ काशी का निवासी । २ वह जिसने काशीकी यात्रा की हो ।

४ काँडर्याँ, धूर्त, लुच्चा, बदमाश । [ कहा० शंभर काशीकर एक नाशिककर - एक नाशिककर

सौ काशीकरो के बराबर होता है । काशी - निवासी की अपेक्षा

नासिक - निवासी अधिक लुच्चा होता है । - चा कोतवाल - पु काशी का कालभैरव । - चा सोदा

वि पु पक्का बदमाश, लुच्चा । - फळ - न काशीफल, कुम्हडा ।

मु० - ची वाट दाखविणे - छोटे वच्चोके कान पकडकर उन्हें ऊपर उठाना । - रामेश्वराचें अतर -

बहुत बडा फर्क, जमीन - आस्मान का अतर । कहा० फाशीस जावे,

नित्य वदावे - काशीयात्रा की वात सदैव करें, अच्छी वात का

चितन सतत करते रहने से उसकी प्राप्ति हो जाती है ।

काशीद - पु [अ 'कासिद'] पत्रवाहक, हरकारा, दूत, एल्ची ।

काष्टा - दे 'कामोटा' ।

काष्टी + स्त्री - लँगोटी ।

काष्ठ - न काष्ठ, काठ, लकडी, ईंधन । - पु लवा और

पतला आदमी । - घटा - स्त्री

अडगोडा। - ततु - १ लकडीके भीतर का रेशा। २ दे 'कच-कडा'। - तरग - पु एक किस्म का लकडी का वाद्य। - पुतळी - छी कठपुतली। - माळा - छी कठी, तुलमी के छोटे दानो की माला। - यत्र - न काठ, काठ की वेडी, शिकजा। - युद्ध - न शतरज का खेल। - वत् - वि काठ जैसा अचेत या सुन्न। मु० - वळणे, - होणे - सूख कर बहुत दुबला - पतला हो जाना। काष्ठे खाणे - चिता मे कूद कर मर जाना। काष्ठा - छी १ काष्ठा, सीमा, चरम, अंतिम सीमा। २ दिशा। ३ काल का एक मान, कला का ३० वां भाग।

काष्ठौषध - न , काष्ठौषधि - छी वनीषधि, दवा के काम आनेवाली जडी-वृटियाँ, पेड-पीधे आदि।

काष्ठौषधी - पु जडीवृटियाँ वेचने वाला।

कासडी - छी दुधहँडी, दुधहाँडी, दुधौडी।

कास - छी १ गाय, भैम आदि का स्तनकोष, ऊध, , अयन, खीरी, ऐन, थन का वह भाग जिममे दूध रहता है। २ दे 'काम'। मु - घालणे - गाय, भैम आदि के व्याने ने पहले उनके अयन मे दूध बनने से उमका बडा हो जाना।

कास - छी १ खेती की भूमि, जमीन। २ काग, काम, एक लवरी धाम।

कास - पु काम, खाँसी।

कासया\* - अव्य क्यो, किम-लिए। - चा - वि किम वातका।

- ला - अव्य क्यो, किसलिए।

कासरा - पु १ बैल की रास,

लगाम। २ लवी रस्सी, रस्मा। मु. कासराभर दिवस किवा सूर्य येणे - दिन चढना, सूरज निकलकर एक या दो घटे का समय हो जाना।

कासरी - दे. 'काचरी'।

कासव - दे 'कामव'।

कासविवा - पु कसौजा, कसौदा।

कासार - पु १ चुडिहारा, चूडियाँ बनाने, वेचने और पहनाने वाला। २ दे 'कासार'।

कासार - न कामार, तालाव, ताल; झील।

कासाविसी - छी व्याकुलता, वेचनी, छटपटाहट, धवडाहट।

कासावीस - वि वेचन, व्याकुल, तडपता, छटपटाता हुआ, धवडाया हुआ। - छी दे 'कासा-विसी'। [क्यो।

कासिया - \* अव्य किसलिए, कासुदा - पु कसौजा, कसौदा। कासे - न कास्य, काँमा, फूल, कसकुट, ताँवे ओर जम्मे के मेल से वनी एक धातु।

कासे - न काँस, एक लवी धास, काश।

कासेन - नी\* - अव्य किससे, कैसे, किस कारण। [- टी'।

कासोटा - टी - दे 'कासोटा कास्तकार - पु [फा 'कास्त-कार'] कास्तकार, किसान, खेतिहर, खेती करने वाला।

काहवणे\* - क्रि अ झुंझलाना, परेशान होना।

काहवा\* - पु शोरगुल, गड-वडी, चिल्लाहट, होहल्ला।

काहविणें\* - क्रि स मताना, परेशान करना।

काहार पु [अ 'कहर'] कहर, बला, आफत, जुल्म।

काहार - पु कहार।

काहाले\* - अव्य क्यो, किम-लिए।

काहाळ\* - न काहला, फौजी ढोल, नगाडा।

काहिल-ली - छी कडाहा, कटाह। गन्ने का रस औटाने का बडा कडाहा।

काहिली - छी [अ] १ काहिली, सुस्ती, आलस्य, ढिलाई। २ ऊमम; गरमी, बुखार या गरमी के कारण होनेवाली वेचनी, छटपटी, परेशानी।

काही - दे 'काही'।

काहील - छी १ कडाहा। २ चीला या उलटा बनाने का खास ढगका तवा।

काहर - न [अ 'कहर'] १ अँधेरा घुप्प, निबिड अघकार, घनाघकार। २ घनघोर घटा। ३ कलक, कालिख, कालिमा। ४ कहर, आफत; बहुत बडा सकट। ५. तोहमत, झूठा डल-जाम। ६ वेचनी, व्याकुलता, छटपटी। मु - माजणे - १ वेचन हो जाना, विचारो की भीड हो जाना। २ शोर मचना, हो हल्ला होना।

काह्यला\* - अव्य किसलिए, क्यो।

काळ - पु. दे 'काल'। १ काल, ममय। २ यम। ३ अत, मृत्यु, नाश। ४ नाश करनेवाला, खा जानेवाला व्यक्ति। - कटक - पु १ बहुत बडा सकट, आफत। २ झगडालू, सतानेवाला व्यक्ति। - गत - छी १ दे 'कालगति'। २ समय का अव्यय। - जवर - पु आत्रजवर (टाडफाइड) जैमा खतरनाक बुखार। - क्षोप - छी

१ आखिरी नीद, मृत्यु के समय की निद्रा । २ मृत्यु । ३ ऐसी नीद जब कोई बड़ी आपत्ति आ जाती है । - टोला - पु मौत, मृत्यु । - तिथि - स्त्री मृत्युतिथि, पुण्यतिथि, मरने का दिन । - घाट - स्त्री अचानक आनेवाली आपत्ति, कहरे इलाही । - निद्रा, - नीज - स्त्री दे 'काळज्ञोप' । - पुरुष - पु १ यम, यमदूत । २ क्रूर, डरावना आदमी । - पुच्छी - स्त्री जहरवाद, एक तरह का जहरीला और कष्टनायक फोडा । - भैरव - पु. कालभैरव, काशी में शिव के मुख्य गण । - भैरवाचा सोटा - पु. पुलिस का डडा, कोतवालका काम । - रात्र - स्त्री काल रात्रि, अंधेरी, डरावनी, प्रलय की रात, मौत की रात । - वेळ - स्त्री १ समय-कुसमय । २ बुरे दिन । काळाचा फेरा - पु. १ जमाने का चक्कर । २ यमराज का चक्कर । ३ महामारी का प्रकोप । चालता काळ - पु. चलता जमाना, अनुकूल समय काळें करून - अव्य आगे चलकर, कुछ समय के बाद । मु - कठणें - समय विताना, गुजारना । - फिरणें - जमाना उलटना, बदलना, बुरे दिन आना । काळाच्या तोंडों देणें - मार डालना । काळाच्या तोंडों पडणे - १ मरना । २ आफत में फँसना । कहा काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती - मृत्यु आयी थी, पर समय नहीं आया था, वाल-वाल बच गया । खायला काळ, भूमोला भार, खाण्याला काळ भुईला भार - मुपतखोर, किसी तरह का काम न करके मुफ्त खाने वाला ।

काळगेला - वि कलौम, कल-झाँवा, कलझाँवा, काला-मा, जो कालापन लिये हो, साँवला ।

काळजाचें पाणी होणे, काळ-जाला घरें पडणें, इ - दे 'काळीज' मे ।

काळजिभ्या - वि १ कल-जिभ्या, काली जीभ (जवान) वाला, जिसकी कही हुई अमगल वाते सत्य हो जायें । २ गदी वाते करने वाला, गालियाँ बकने वाला ।

काळजी - स्त्री [ दे 'काळीज' ] १ चिंता, फिक्र । २ सावधानी, आस्था, लगन । ३ जतन, यत्न ।

काळतोड्या - वि १ कलमुँहा, काले मुँहवाला, कलकित, बदनाम । २ मनहूस, अभागा, अशुभ, अशुभसूचक ।

काळमुखी - वि दे 'काळ-तोड्या' ।

काळवडणें - क्रि अ १ काला, स्याह पडना, रग फक होना । २ कालिख, कलक लगना ।

काळवख - खा\* - पु अंधेरा ।

काळवट - वि १ काला-सा, कलौस, कालापन लिये हुए । २ काला, काली (जमीन) ।

काळवीट - पु करसायल, काला हिरन, कृष्णमृग, बारह-सिंघा ।

काळसर - वि साँवला, कुछ काला-सा, कलझाँवा, कालापन लिये हुए, कलौस ।

काळा - वि १ काला, स्याह, कोयले के रंगका, कृष्णवर्ण । २ कपटी, फरेवी, दुष्ट, छल-कपट करने वाला । - पु १ श्रीकृष्ण । २ श्री विठ्ठल । ३ भिलाँवा; भल्लातक । ४ काला, काला-

माँप । - आजार - पु काला ज्वर, कालाजार, काला बुखार । - कभिन्न-काला भुजग, उलटा तवा, - करदा -

किट्ट, - कुट्ट, - कुळकुळीत - वि

१ कालाकलूटा, काला भुजग,

उलटा तवा, बहुत काला । २

डरावना, खौफनाक । ३ गहरा

(अंधेरा) । - गोरा - वि १

काला-गोरा । २ खरा - खोटा,

भला-बुरा । - जहर, - ठिक्कर,

- दोण - वि दे 'काळाकभिन्न' ।

- दाणा - पु काला दाना, एक लता

जिसके बीज दवा के काम आते हैं ।

- निळा - वि १ साँवला । २

नीला-पीला । - फत्तर - पु १ काला

पत्थर । २ अनाडी, बूढ़ा आदमी । -

वाळा - वि चितकवग, जिमपर

काले और सफेद धब्बे या चित्तियाँ

हो । - वेंदरा, - वेंद्रा, - वेरा - वि

काला और कुरूप, बदसूरत,

भोडा, बदशकल, वेडौल । -

भिल्ल, - माग - वि जल्लाद,

निर्दय, वेरहम । - सावळा, -

सावळा - वि साँवला, कलझाँवा,

कलझाँवा । मु काळचाचे पाढरे

होणें - वाल पकना, सफेद होना, बूढा

होना । काळघावर पाढरे करणें -

कागज पर म्याही से लिखना,

लिख डालना, लिख मारना ।

कहा० काळचा दगडावरची रेघ -

पत्थरकी लकीर, न मिटने वाली

वस्तु, अटल वान, सदा बनी

रहनेवाली वस्तु ।

काळाई - स्त्री १ एक देवी,

काली । २ भूमि, काली जमीन ।

काळापात - पु १ बदमाजी,

धोखेवाजी । २ गवन ।

काळिमा - पु १ कालिमा,

कालापन । २ कलक, धब्बा ।

३ कालिख ।



काळिया नाग - पु कालिय ।  
दे 'कालिया' ।

काळी - वि स्त्री काली, काले-  
रंगकी । दे 'काला' 'काळा' ।  
-स्त्री १ भूमि, खेती के योग्य  
अच्छी भूमि, जमीन । २ भैस ।  
-काव - स्त्री १ काली घटा,  
काले रंग के घने बादलो का  
समूह । २ काला और मजबूत  
व्यक्ति । - चद्रकळा - स्त्री गहरे  
काले रंगकी साडी । - जिरी -  
स्त्री काली जीरी । - तुळस - स्त्री  
काले पत्तोवाली तुलसी । - रात्र  
- स्त्री कालरात्रि, अँघेरी, डरा-  
वनी रात । - साळ - स्त्री काले  
रंग का धान जो बढिया समझा  
जाता है ।

काळीज - न [स 'यकृत',  
हिं 'कलेजा'] १ कलेजा,  
जिगर । २ छाती, दिल, हृदय ।  
३ साहस, हिम्मत । ४ अतिप्रिय  
व्यक्ति या वस्तु । उफराटघा,  
उलटघा काळजाचा - वि जालिम,  
शूर, जल्लाद, शैतान । मु० -  
काढून देणे - कलेजा निकालकर  
धर या रख देना, अति प्रिय वस्तु  
अर्पण कर देना । - खार्णे - कलेजा  
खाना, सताना, पीडा देना । - फाटणे  
- कलेजा फट जाना, किसी के  
दु खसे हृदय विदीर्ण, द्रवित होना ।  
- फुटणे - कलेजा टूटना, जी टूटना,  
हौसला पस्त होना । काळजाचें  
पाणी होणे - कलेजा धकधक  
करना, कलेजा बडकना, दिल  
दहलना, कलेजा कांपना । काळ-  
जाला घरे, भोके पडणे - कलेजा  
छिदना, कलेजा विघना, कडी  
वात से जी दुखना । काळजाला  
लागणे - कलेजे मे तीर लगना,  
कलेजे मे पैठना, दिल मे गहरी

चोट लगना ।

काळुवरा, काळुव्रा - वि काला  
कलूटा, बहुत काला, घिनावना,  
घिनीना ।

काळें - वि न काला; काले  
रंग का । - न १ दाग, घब्बा ।  
२ कलक, बदनामी, कालिख ।  
- दे 'काला,' 'काळा' । -  
अक्षर - न काला अक्षर, वह जो  
कागजपर लिखा हो । - कृत्य -  
न काली करतूत, कृष्णकर्म,  
पाप-  
कर्म, अशुभ या बुरा काम । -  
जिरे - न काला जीरा, स्याह  
रंग का जीरा । - तोंड - न काला  
मुँह, मुँह जिसमे बदनामी की  
कालिख लगी हो । - पाणी - न १  
काला पानी, आजीवन कैद की  
सजा, डामल । २ महासागर । -  
बेरे - न दाल मे काला, छिपा हुआ  
दोष, बुरी नीयत, गडबडी,  
गोलमाल । - भिरे - न काली  
मिर्च । मु० - करणे - मुँह काला  
करना, दूर होना, फिर मुँह न  
दिखाना । काळें तोड घेऊन जाणे  
- भाग जाना, फरार होना ।  
काळेला - ली - ले - दे 'काळ-  
सर' ।

काळोख - पु १ अँघेरा, अध-  
कार, तारीकी । २ अँघेर, अँघेर-  
खाता, अव्यवस्था । ३ नैराश्य,  
उदासी । ४ छाया, अँघेरा  
(काळोख काढ = अँघेरा छोडो) ।  
कहा० काळोखात केलेले केव्हां तरी  
उजेडात घेतें - अँघेरे मे की हुई  
वात कभी न कभी प्रकाश मे आ  
जाती है, पाप हमेशा छिपा नही  
रहता ।

काळोखी - स्त्री १ अँघियारी,  
अँघेरा गुप्प, घुप्प, गहरा अँघेरा,  
घोर अधकार । २ घनघोर घटा ।

३. कालिख, कलक । - वि  
अँघेरी, अधकारभरी । - रात्र -  
स्त्री अँघेरी रात ।

काळधामाळधा - पु. बहु १  
१ दोनो हाथो को फैला कर अपने  
चारो ओर लट्टू की तरह चक्रा-  
कार घूमने का बच्चो का एक  
खेल । २ एक ही स्थान मे चक्कर  
काटना ।

कि - सर्व किम्, कौन, क्या ।  
- अव्य क्यो, कैसे, कहाँसे ।  
- अव्य \* किवा, अथवा ।

किंकर - पु किंकर, सेवक,  
टहलू ।

किंकारी - स्त्री दासी, नौकरानी ।  
किंकरें - न १ बरमा,  
गिरमिट । २ गिरगिरी (खिलौना) ।

किंकाळणें - क्रि अ १  
चीखना, चिल्लाना । २ चिघाडना,  
चीत्कार करना, गरजना ।

किंकाळी - स्त्री १ चीख,  
चिल्लाहट । २ चीत्कार, चिघाड ।

किंकिणी - स्त्री १ किंकिणी,  
करघनी । २ घुँघरू ।

किंक्रात - स्त्री मकर सक्राति  
या कर्क सक्राति का दूसरा दिन जो  
अशुभ माना जाता है ।

किंगरी - स्त्री किंगरी, छोटा  
चिकारा ।

किंच\* - अव्य फिरसे,  
अलावा, सिवाय ।

किंचाळणें - क्रि अ चीखना,  
चिल्लाना, चिकरना, चिघाडना,  
किंचाळी - स्त्री चीख, चिघाड,  
चीखपुकार, शोरगुल ।

किंचित् - वि अव्य किंचित्,  
थोडा - सा, कुछ । - न - वि  
अल्पज्ञ, थोडा जाननेवाला, मूर्ख ।  
- ज्ञान - न १ मामूली जानकारी,  
थोडा-सा ज्ञान । २ नासमझी ।

किजळ - पु. एक बडा वृक्ष जिसकी इमारती लकड़ी अच्छी समझी जाती है।

कित\* - पु. १ सगय, गका।  
२ उकताहट, ऊचना।

कितान - न [ अ. 'कितान' ]  
टाट, सन या पटसन का मोटा कपडा जो विछाने या सवेष्टन (पर्किंग) के काम आता है।

कितु - तु - पु. शका, आशका, शिक्षक, शक, अदेशा।

किपुरुष - पु. किपुरुष, किन्नर, नीच पुरुष।

किबहुना - अव्य. वल्कि, वरन्, प्रत्युत्, अपितु, कितु, अच्छा हो कि, इतना ही नहीं वल्कि।

कीमत - स्त्री [ अ. 'कीमत' ]  
१ कीमत, मूल्य, भाव, दर, दाम। २ योग्यता, लियाकत, प्रतिष्ठा, कद्र, श्रेष्ठता; उच्चता, बडाई। - दार - वि मूल्यवान्, कीमती। - वार - वि अव्य. कीमत के मुताबिक, मूल्य के अनुसार।

किवदती - स्त्री किवदती, जनरव, अफवाह।

किवा - अव्य. किवा, अथवा, या, या तो।

किचकट - वि १ उकताने वाला, पेचीदा, झझटभरा। २ दुबता - पतला, मरियल। ३ गिचपिच, अस्पष्ट, बहुत वारीक।

किचकिच - स्त्री १ चिकनाई, चिकनाहट। २ किचकिच, झगडा। ३. खाते समय दाँत के नीचे ककड़ी पडनेसे होनेवाली आवाज। दे- 'कचकच'।

किचकिचणें - क्रि अ १ किचकिचाना, दाँत पीसना। २

वदरोका बोलना, किक्कियाना, चिचियाना।

किचर; किचरट - दे 'किचकट'।

किचाट - ड-पु [ क. 'किचु' ]  
१ दे 'कचाट'। २ शोर-गुल।

किचाटी - स्त्री [ क. 'किचु' ]  
भीड।

किजविज, किजबिजणें - दे.  
'किलविल', 'किलविलणें'।

किजविड, किजविडीत - वि  
१ 'विच', पाम - पाम लिखा हुआ, अस्पष्ट, उलझा हुआ,

घसीटा, जल्दी-जल्दी लिखा हुआ।  
२ ऊबड-खावड, अडबड।

किटकिट - स्त्री किटकिट,  
किचकिच, पिनपिन।

किटकिटचा - वि किटकिट,  
किचपिच, पिनपिन करनेवाला।

किटण - न १ किट्ट, तल-छट की तरह वैठा हुआ, जमा हुआ मैल। २ कीट, धातु का मैल। ३ गरम लोहा पीटने से उडनेवाली चिनगारियाँ या वारीक टुकडे।

किटणें - क्रि अ १ मैल जमना, खराब हो जाना। २ जग, मोरचा लगना। ३ उकताना, ऊचना, कान पक जाना।

किटली - स्त्री [ अ. 'केटिल' ]  
केतली, चायदानी।

किटळ, किटाळ - न [ क. 'किडि' ]  
१ चिनगारी। २ तोहमत, झूठा इलजाम, दोषारोप। ३ सकट, विपत्ति, आफत।

किट्ट - न किट्ट, मैल, गदगी।  
दे 'किटण'।

किडका - वि किनहा, जिसमें कीडा लगा हो, जिसमें कीडे पड गये हो।

किडकिडीत - वि छरहरा,

इकहरे वदन का, दुबला-पतला।

किडकें - न सँपोला, साँपका वच्चा। - वि दे 'किडका'।

किडणें - क्रि अ कीडा लगाना, घुनना, घुन लगाना, झडना।

किडविड, किडविडीत - दे 'किजविड', 'किजविडीत'।

किडमिडा - वि अस्पष्ट, सदिग्ध। [डुगी]

किडमिडे - न डुगी, डुग-किडा - पु कीडा, सुद्र जतु, कीट, कृमि। - मुगी - स्त्री कीडा - मकोडा। मु० किडे पडणें - १ सडना। २ अपवित्र, भ्रष्ट होना।

किडाल-ळ - न दे 'किटाळ'।  
१ लोहे का मैल, जंग। २ खराब लोहा। - वि खराब, मिलावटी; घटिया।

किडकमिडुक - न १ छोटे और मामली गहने। २ टूटी फूटी और पुरानी वस्तुएँ। ३ फुटकर चीजें, गहने।

किडेला - दे 'किडका'।

किणकिण - स्त्री खनक, चूडियो आदिके वजने की आवाज, खनकार।

किणकिणणें - क्रि अ खनकना, 'खनखन' करके वजना।

किणा - पु १ घट्टा। २ जखम। - वि सडा हुआ, किनहा।

किणण - अव्य. वि १ गहरी, अँधेरी, घनी (रात)। २ झीगुर की आवाज की तरह।

कितका - वि कितना।

कितपत - अव्य. कितना, किस मात्रा मे, कहाँ तक, किस हद तक।

कितवा - वि कितना; किस गिनती या क्रम का, कौन-सा, क्या।

किताब - न ख्री [अ] किताब, पुस्तक। - खाना - पु १ किताबखाना, पुस्तकालय। २ किताबें बेचने की दुकान, पुस्तक भंडार।

किताब - पु [अ 'खिताब'] खिताब, पदवी, उपाधि, सरकार की ओर से मिली हुई सम्मानदर्शक उपाधि।

किताबत - ती ख्री [अ 'खिताब' 'किताब'] १. बात, कहानी, इतिहास। २ उपाधि, पदवी।

किति, कितिएक - दे 'कित्ती', 'कित्येक'।

कित्ती - वि १ कितना, किस मात्रा या गिनती का, किस दरजे का। २ थोडा-सा, बहुत कम। - अव्य किस मात्रा में, कहाँ तक, बहुत कम मात्रा में। - एक - वि १. कुछ एक, थोडा-सा। २ अनेक। - केले तरी - अव्य १ आखिरकार, चाहे जो करने पर भी, अततो गत्वा। २. वास्तव में, हर हालत में, असल में। - तरी - वि बहुत, अनेक, कितने ही। - अव्य कितना ही, बहुत ज्यादा मात्रा में। - दा - अव्य कई बार, अनेक बार, बार-बार। - शीक; - सक, - साक - वि कितना - सा, कितना। - अव्य कितनी बार। - हि, - ही - अव्य चाहे जितना, कितना भी।

कितुकें \* - वि कितना।

कितुला \* - वि कितना, कितना बडा।

किर्ते<sup>+</sup> - अव्य क्या, कुछ।

किता - पु. [अ 'कत्अ'] १ सुलेखन का नमूना, 'कापी स्लिप', 'कापी बुक'। २ आदर्श,

नमूना। ३ मद्, विभाग, खाता। - अव्य यथोपरि, ऐजन, उप-युक्त, जैसे ऊपर, 'डिट्टो'। मु० - गिरविणे - नकल करना, आदर्श सामने रखकर उसके अनुसार चलना। - घालून देणें - नमूना पेश करना, आदर्श प्रस्तुत करना। - वळविणे - नकल करना, आदत डालने के लिये लिखे या छपे अक्षरो पर क्रम से लिखना।

कित्ती<sup>+</sup> - वि अव्य दे 'कित्ती'। - कित्ती - वि - अ बहुत अधिक, वेहद।

कित्यांक<sup>+</sup> - अव्य क्यो, किसलिए। [कुछ, चद।

कित्येक - वि कई, अनेक, किनई - अव्य कमसे कम, देखो जी, सुनो तो (स्त्रि)।

किनखाप - ब - [फा 'कम-खाव'] १ कमखाव, एक प्रकार का बहुमूल्य रेशमी कपडा जिसपर सोने-चाँदी के तारों का काम होता है। २ साटन, 'सैटिन'।

किनरा - वि १ वारीक और ऊँची (आवाज़)। २ नकियाने से (नाक से बोलने पर) निकलने वाली (आवाज़), नकनकाती (वाणी), सानुस्वार, सानुनासिक। ३. नकियाकर, नाक से बोलने वाला।

किनरी - ख्री १ किगरी, छोटा चिकारा। २ गाने में तार-स्वर।

किनार-री - ख्री [फा 'किनार'] १ किनारी, हाशिया, गोटा। २ किनारा।

किनारा - पु [फा 'किनार'] १ किनारा, तट, तीर। २ छोर, बगल, पहलू। ३ हाशिया, गोटा।

किन्नर - पु किन्नर, देवताओं

की एक योनि जिनका मुँह घोंडे के जैसा होना माना जाता है, स्वर्ग के गायक।

किन्नर - पु. [अ 'क्लीनर'] मोटर गाडी साफ करनेवाला, 'क्लीनर'।

किप्रिमित्त - अव्य किसलिए, किस वास्ते, किस कारण।

किफाइती; किफाईत - दे 'किफायती', 'किफायत'।

किफायत - ख्री [अ 'किफायत'] किफायत, बचत, लाभ, मुनाफा, फायदा। - शीर - वि. किफायती, लाभदायक; फायदे-मद।

किफायती - वि [अ 'किफायत'] लाभदायक, जिस में खर्च कम हो, बचत वाला।

कीमती - वि [अ. 'कीमती'] कीमती, बहुमूल्य, दामी।

किमपि - अव्य विलकुल, तनिक भी, हरगिज।

किमया - ख्री [अ 'कीमिया'] १. कीमिया, रसायन, रसायन-विद्या। २ ताँबे आदि धातुओं से सोना बनाने की गूढ विद्या, चमत्कार, करामात, कार्यसाधक युक्ति। ३. लाभदायक व्यवसाय। - गार - पु. कीमियागर, करामाती।

किमर्थ - अव्य किसलिए, क्यो ?

किमान - अव्य कमसे कम, कम-अज-कम, इतना तो। - वि न्यूनतम, अल्पतम। - पक्ष, - पक्षों - अव्य कम से कम। - मर्यादा - ख्री न्यूनतम सीमा। - अव्य कम से कम।

किर - रू\* - अव्य सचमुच, निश्चय ही।

किरकणें - क्रि अ १

चिघाडना, १ २ गिडगिडाना ।  
३ शिकायत करना ।  
किरकिर - स्त्री १ पिनपिन,  
नकिया कर और रुकरुक कर रोना ।  
२ दे 'कटकट' । ३ माथापन्ची,  
अक्षत । ४ रेती से रगडते समय  
निकलने वाली आवाज ।

किरकिरणे - क्रि अ. पिन-  
पिनाना, शिकायत करना ।

किरकिरा - वि १ पिन-  
पिनहाँ, 'पिनपिन' करनेवाला,  
जो सदा पिनपिनाया करे । २  
हमेशा शिकायत करने वाला,  
झीकने वाला ।

किरकिरीत - वि पिनपिनहाँ,  
झीकने वाला । दे० 'किरं' ।

किरकिरें - न गिरगिरी  
(खिलौना) । वि दे 'किरकिरा' ।

किरकिर्या - दे 'किरकिरा' ।  
किरकीर - दे 'किरकिर' ।

किरकोळ - वि १ फुटकर,  
फुटकल, खुर्दा । २ दुबला-  
पतला, इकहरे बदन का । ३  
मामूली, साधारण, विना महत्त्व  
का । ४ अनिश्चित । -प्राप्ति -  
स्त्री अतिरिक्त आय, ऊपर की  
आमदनी । - व्यापारी - पु खुर्दा  
फरोश, फुटकल बेचने वाला,  
विसाती ।

किरटा - वि १ वारीक और  
अस्पष्ट (लिखावट) । २ दुबला-  
पतला, कमजोर । ३ नाटा,  
ठिगना । ४ कजूस ।

किरड - डू - न १ सेंपोला,  
साँप का वच्चा । २ कीटक,  
कीडा ।

किरण - पु न १ किरण,  
किरन, शुभाश, प्रकाश रेखा ।  
२ धूप, सूरज की रोशनी ।

किरण - न १ निशाना,

लक्ष्य । २ अचूक छलाँग । मु.  
-साधणें - १ निशाना मारना,  
लगाना, लक्ष्यभेद करना । २  
ठीक निशाने पर कूद पडना ।

किरणें\* - क्रि स फैलाना,  
विखेरना ।

किरमाणी ओवा - पु [फा.  
'किर्मान'] किर्मान की अजवायन,  
किरमाला, अमलतास ।

किरमिजी - वि [अ किर्मिज']  
किर्मिज के रगका, लाल, सुर्ख,  
मटमैला लाल ।

किरमीज; किरमेज - न [अ  
'किर्मिज'] किरमिज, एक  
प्रकार के छोटे-छोटे लाल कीड़े  
जिन्हें सुखाकर उससे रेगम  
रंगते हैं ।

किरळ - ली\* - स्त्री १. ज्वार  
की नई पौध में लगनेवाला एक  
कीडा जिसे खाने से जानवर मर  
जाता है । २. ज्वार, बाजरे आदि  
की खुत्थी जो फसल काटने के  
बाद खेत में रह जाय, खूँटी,  
ठूँठी । ३. अगूर, भरते हुए घाव  
के लाल दाने । [चिराईत'] ।

किराईत - न दे. 'काडे-  
किराण' - न १ कुदान,  
फलाँग, छलाँग । २ लक्ष्य;  
निशाना ।

किराणा - पु किराना;  
केराना, पसारी की दुकान से मिलने  
वाली चीजें - मिर्च, मसाला आदि ।

किरिस्ताव - पु [पुर्त.  
'क्रिस्तावो', अ 'क्रिश्चियन']  
ईसाई, क्रिस्तान, ख्रिष्टान ।

किरी\* - स्त्री १ तपेदिक,  
यक्ष्मा, क्षय रोग । २ कीडा ।

किरू\* - अव्य निश्चय ही;  
यकीनन ।

किर्द - स्त्री [फा 'कर्द'] १.

रोजनामचा, वह वही जिस में  
रोज का हिसाब लिखा जाय,  
कच्ची वही । २ वह किताब  
जिस में दैनिक विवरण लिखा  
जाय, 'डायरी' ।

किर्मीर - वि किर्मीर, रग-  
विरगा, चित्रविचित्र ।

किर् - वि १. घना (जगल),  
निविड, गहरा । २ कर्कश;  
कठोर, थर्रा देने वाला, जिस से  
रोएँ खडे हो जायें । ३ थका  
हुआ ।

किलकिल - स्त्री १ चहक,  
कलरव, चहचहा, चहचहाट ।  
२ शोर-गुल, कोलाहल ।

किलकिलणे - क्रि. अ १.  
चहकना, चहचहाना, कलरव  
करना । २ शोर मचाना ।

किलकिला - वि १ अघखुला,  
आधा या कुछ खुला हुआ,  
अर्द्धोन्मीलित । २ अघखिला,  
अर्द्धविकसित ।

किलकिलाट - पु १. चहक,  
चहचहाट, कलरव । २. शोर-गुल,  
कोलाहल, किचकिचाहट ।

किलकिले - दे 'किलकिला'  
किलविल - स्त्री; किलविलाट -  
पु दे 'किलकिल', 'किलकिलाट'  
किलवर - दे. 'किलावर' ।

किलवाणा - दे 'केविलवाणा' ।

किलाण\* - न कुदान, छलाँग,  
फलाँग । २ उछल-कूद, कूद-  
फाँद ।

किलावर - पु [अ. 'क्लव']  
चिडिया का पत्ता (ताश के खेल में  
फूल का रग)

किली - टे 'किल्ली' ।

किल्कारी - स्त्री १ किलकारी,  
चीख । २ चीत्कार, गर्जना ।

किल्बिष, किल्मिष - न १

किल्बिष, पाप, दोष । २ गदगी, मैल । ३ मन का मैल, कुदूरत, कीना, द्वेष, वृज ।

किल्ला - पु [ अ 'कल् अ ] किला, दुर्ग, गढ, कोट । किल्ले-कोट - पु गढ, कोट, दुर्ग आदि । किल्लेदार - पु किलेदार, दुर्ग-रक्षक; गढपति, गढवई, गढ-वाल । मु० किल्ल्यावर षडविणे - पहाडी किले में कंद कर के रखना ।

किल्ली - छी [ फा 'किलीद' ] १ कुजी, ताली, चावी, चाभी । २ किसी कठिन या मुश्किल बातका स्पष्टीकरण, हल । ३ कल, मर्म; रहस्य, पेच पुरजा, युक्ति, तरकीब । मु० - देणे - चावी देना, कुजी घुमाकर घडी आदि की कमानी को कम देना, शुरु करना । - फिरविणे - कल ऐंठना, कल घुमाना, किसी के मन को अभीष्ट दिशा में मोड़ देना, पट्टी पढाना, उभाडना, उकमाना, भडकना ।

किल्लेदार - दे 'किल्ला' में ।  
किल्लेवाणा - दे 'केविल-वाणा' ।

किशोर - पु किशोर; ११ से १५ वर्ष तक की उम्र वाला लडका, बेटा । [ छी किशोरी ]

किसगणती - दे 'खिज-गणती' ।

किसणी - छी कद्दूकश, कद्दू, कुम्हडा, नारियल आदि रेतने का आला, धियाकश ।

किसणें - क्रि स कद्दूकश से छीलना, रेतना, रगडना, खरो-चना, पीसना, खुरचना, करो-दना ।

किसमिस - न छी [ फा 'किदिमश' ] १ किगमिश,

मुखाया हुआ छोटा अगूर जिस में बीज नहीं होते । २ किचकिच, झझट ।

किळस - छी घिन, धृणा, नफरत । - वाणा - वि घिनीना, गदा, घिन उपजाने वाला ।

किळावा-वो - \* पु तेज, चमक, आभा ।

की - अव्य १ अथवा; किवा, या । २ एक योजक शब्द, कि । ३ जरूर, अवश्य । [ मी जातों की = मैं जरूर जाता हूँ, मैं जा तो रहा हूँ । ] ४ क्या, न, ना ।

कीव - छी १ तरम, रहम । २ गिटगिडाना, दुखडा । मु० - करणें - तरस खाना, रहम करना, दया करना । - येणें - तरम आना, दिल पिघलना ।

कीजत - \* क्रि स करते थे, होता था, किया जाता था ।

कीजे - \* क्रि स कीजिए, करे, किया जाय । [ करो ।

कीजो - \* क्रि स कीजिए, कीट - न १ मैल, मोरचा, किट्ट, कीट । २ गदगी, तलछट ।

३ मिट्टी का बडा डेला । ४ चिनगागी । ५ जली हुई घातु, लोहा आदि । ६ मोना जिम में खोट हो ।

कीट, कीटक - पु कीट, कीटक, कीडा, कृमि ।

कीटण - दे 'किटण' ।

कीड - छी १ कीडा, कीटक, कृमि, घुन । २ कीडी । ३ मैल, जग, मोरचा । - मुंगी - छी कीडा-मकोडा, चीटी, कीडी, दीमक । मु - पडणें - कीडा-पडना, किसी चीज में सडने से कीडा पैदा हो जाना, सडना, विगड जाना । - लागणें - १ कीडा लगना, घुन

लगना । २ अवनति, अवपतन होना । - वि खोटा, खराब ।

कीर - पु कीर, तोता ।

कीर\* - अव्य पराजयदर्शक शब्द, ची । मु - करणें - सताना । - म्हणणें - ची बोलना, हार मान लेना । [ ही, सचमुच ।

कीर - श\* - अव्य निश्चय कीर्तणें\* - क्रि स गुणगान, बखान, गुणवर्णन करना, तारीफ करना ।

कीर्तन - न १ कीर्तन, कथा, राम, कृष्ण आदि की कथा गाते - वजाते हुए कहना । २ भजन, कीर्तिवर्णन, यगोगान । - कार - पु कीर्तनकार, कीर्तनिया ।

कीर्ति, कीर्ती - छी कीर्ति, यश, ख्याति, शुहरत । - मान्, - बान्, - बत - वि कीर्तिमान्, ख्यातनाम, यशस्वी, नामवर । - स्तभ - पु कीर्तिस्तभ, किसी के स्मारकरूप में बनाया गया स्तभ, लाट ।

कीर्द - दे 'किर्द' ।

कीव - दे 'कीव' ।

कीम - पु १ कद्दूकश में रेत-कर निकाला हुआ चूरा, बुरादा । २ लोहकिट्ट, रेतनी के रगडने में निकले हुए कण । ३ कुनाई, चूर । मु - काढणें - वाल की बाल खींचना, निकालना, बहुत छानबीन करना । [ आभा ।

कीळ - न तेज, चमक, कुकुम - न पु १ कुकुम,

केसर, रोली । २ केमर । - पत्रिका - छी विवाह, यज्ञोपवीत-सस्कार आदि की निमंत्रण पत्रिका ।

कुक् - न १ कुकुम, रोली, केसर । कुक्वाचा-ला बनी - पु नामधारी, केवल नाम का पति,

पीरुपहीन पति । मु-अधिक होणें - कुकुमका मिट जाना । - जाणें - वैधव्य प्राप्त होना । - बळकट असणें - सुहाग का अधिक दिन बने रहना । - वाढणे - कुकुम का मिट जाना ।

कुचडें - न १ चौतनी, बच्चो या जच्चा की चौगोशी टोपी । २ तग और असुविधाजनक मकान ।

कुचणी - दे 'कुचली' ।

कुंचला - पु, कुंचली - स्त्री १ कूंचा, कूंची, तूलिका, नशा, । २ दे 'कुचा' ।

कुंचा - पु १ मोरछल, मोर की पूंछ के परो का चँवर । २ झाड़ू, बढनी, बुहारी । ३ दे 'कुचला' ।

कुचो - स्त्री १ चौतनी, बच्चो की चौगोशी टोपी जिसका पिछला हिस्सा लवा होता है । २ दे 'कुचली' ।

कुजीर, कुजुह - पु १ कुजर, हायी । २ एक सब्जी की बेल जिसके पत्तो की भाजी बनायी जाती है ।

कुटण - स्त्री कुटनी, कुटनी, किसी स्त्री को बहका-फुसला कर परपुरुष से मिलाने वाली स्त्री । - कौ - स्त्री १ कुटनपन, कुटनी का काम, पेशा । २ चुगली, बदनामी । - खाना - पु. वह स्थान जहाँ वेश्या-व्यवसाय चलता है, चकला, वेश्यागृह । - गिरी - स्त्री कुटनपन, कुटन पेशा । - मावशी - स्त्री कुटनी, झगडा लगाने वाली, चुगली खाने वाली स्त्री ।

कुटीण - स्त्री कुटनी, कुटनी, दे 'कुटण' ।

कुठणें - क्रि अ रुकना, अवरुद्ध होना, वद होना ।

कुठविणें - क्रि स रोकना, अवरुद्ध करना ।

कुठित - वि १ रुका हुआ, रोका हुआ, अवरुद्ध । २ निरुत्तर; हक्कावक्का, भौचक । ३ कुठित, कुद या भोथरा किया हुआ ।

कुड - न १ कुड, पानीका हाँज, छोटा कुआँ या तालाव, । २. कुडा, मटका, बटलोई । ३ अग्निकुड ।

कुंडल - न १ कुडल, कान में पहनने का बाला । २ कडा, बलय ।

कुंडली - स्त्री १ कुडली, जन्मकुडली । २ कुडलिनी । - पु. साँप । - वि कुडलघारी ।

कुडा - पु १. बडा गमला, नाँद । २ बडा मटका जो ताडी निकालने के लिए पेड में लटकाया जाता है ।

कुडी - १ गमला । २ कुडी, पथरी । ३ नाँद । ४ कूडाखाना ।

कुतल - पु कुतल, मिरके बाल ।

कुती - स्त्री कुती, पाडवोकी माता । - पु. भालावरदार, भाला चलाने वाला, बरछैत ।

कुंथणें - क्रि अ १. काँखना । मलत्याग में जोर लगाने या भारी बोझ उठाने आदि से गलेसे खाँसनेकी-सी आवाज निकलना । २ कूँथना, दबी आवाज से कराहना । ३ पछताना, हाथ मलना । ४ किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाना ।

कुया कुथी - स्त्री परिश्रम, बडी कोशिश, कदो काविश, भाग-दौड, दौड-धूप ।

कुद - पु १ कुद, एक पौधा जिसके फूल दाँतो के उपमान माने गये हैं । २ एक प्रकार की घास ।

कुद - वि [ फा ] १ रुद्ध, अवरुद्ध, चारो ओरसे वद । २ दम घोटने वाला, हवा और रोशनी की कमी वाला ।

कुदा - पु १ एक प्रकार की वास जो दूब की तरह होती है । २ कुद का फूल और उसका पौवा । ३ कुदी, दे 'ठेचा' । ४ खुरचन (एक मिठाई) । मु० - काढणें - १ पीटना, कुदी करना, मरम्मत करना । २ घास खोदना ।

कुदा - पु कुडा, कुडी; पत्थर का बना गोल, गहरा पात्र जिस मे भाँग घोटी जाती है, पथरी ।

कुदा - पु. [ फा 'कुद ' ] कुदा, बहूक का काठ का बना वह भाग जिसमे घोडा और नली जडी होती है, दस्ता ।

कुदी - स्त्री १ कुदी, कपडे की सिलवट दूर करने और चमक लाने के लिए उसे मुंगरी से पीटना । २ पिटाई, दुर्गंत, मरम्मत ।

कुप - पु; कुंपण - न १ वाड, फसल की रक्षा के लिए बनाया हुआ काँटे, वाँस आदि का घेरा, झाडवदी, टट्टी । २ वाडा, अहाता, इहाता, एहाता, घेरा । मु. कुपणानें शेत खाल्लें - वाड ने ही खेत खाया, रक्षक ही भक्षक बन गया । कहा० सरडधाचो घांव कुपणापर्यंत - गिरगिट की दौड वाड तक, साधारण व्यक्ति का पुरुषार्थ बहुत सीमित होता है ।

कुपणी - स्त्री [ अ 'कपनी' ] प्रमडल, व्यावसायिक मडली, 'कपनी' । - सरकार - न ईस्ट इंडिया कपनी ।

कुभ - पु १ कुभ; घडा । २ कुभ राशि । - कार - पु कुभकार, कुम्हार ।

कुभक - पु कुभक, प्राणायाम के अतर्गत नाक-मुँह वद करके श्वास रोक रखने की क्रिया ।

कुभा - पु १ कुभा, नागदती । २. धतूरा । ३ गूमा, द्रोणपुष्पी । ४ कुम्भिका, कुभी ।

कुम्हार - पु कुम्हार, कुम्हार । - क्री - स्त्री कुम्हारका काम, पेशा । - डा - पु वि कुम्हार का निदान्यजक रूप । - वाडा - पु कुम्हारो की वस्ती, मुहल्ला । कहा० कुम्हाराची सून कर्षी तरी उकिरडघावर येणारच - कुम्हार की वह कभी न कभी कतवारखाने के पास आयेगी ही, जो बात अवश्यभावी हो वह होकर ही रहती है ।

कुम्हारीण - स्त्री १ कुम्हारिन, कुम्हारकी स्त्री । २ अजनहारी, बिलनी, भौरी, भृगी (कीडा) ।

कुम्भिनी\* - स्त्री पृथ्वी ।

कुभी पाक - पु कुभी पाक, एक नरक ।

कुवळ - दे 'कोळ' ।

कुवार - वि १ कुमार, कुंआरा, अविवाहित । २ दस-वारह साल से कम उम्र का और भविवाहित (लडका) ।

कु - अव्य. कु, वद, हीनता, नीचता, दुष्टता, अल्पता, कुत्मा आदि के अर्थ देने वाला अव्यय ।

कुहरी - स्त्री १ सिंदौरा, कुकुम, सिंदूर आदि रखने की डिंविया । इसकी शकल अँविया जैसी होती है । २ अँविया, टिकोरा, छोटा कच्चा आम जिसमें जाली न पडी हो । ३ खुजली पैदा करने वाली एक वनस्पति, केर्नाच ।

कुई - स्त्री १ गीदड या मियार

की बोली । २ कागारोल, शोर-गुल, कोलाहल ।

कुकडी - स्त्री, कुकडे - न कुकडी, कच्चे सूत का लच्छा ।

कुकरी - स्त्री कुकडी, खुखडी, नेपाली कटार । [आवाज ।

कुकुचकू - न वांग, मुर्गे की कुकुवाळ - न दूधपीता, दूध-मुँहा, दुधमुँहा वच्चा, बहुत छोटा वच्चा, नन्हा ।

कुकुला-ली-लें - वि छोटा, दूधपीता, दूधमुँहा (वच्चा) ।

कुक्षि-क्षी - स्त्री १. कुक्षि, कोख, गर्भाशय । २ पेट । ३ म्यान ।

कुग्राम - न पु. १ ऐसा गाँव जहाँ कोई सुविधा न हो । २ वुरा गाँव ।

कुचवणा - स्त्री १ दुविधा, परेशानी, असुविधा, अडचन, वाधा । २ कष्ट, वुरी हालत ।

कुचवणे - क्रि अ १ झझट में फंसना, दुविधा या परेशानी होना, वाधा पडना । २ वुरी हालत होना । ३ लाचार होना । ४ मुरझाना ।

कुचकट, कुचका - दे 'कुजका' ।

कुचकामाचा - वि [हिं 'कुछ कामका'] वेकार, निठल्ला, निकम्मा ।

कुचकूच - स्त्री १. कानाफूसी, कानावाती, फुसफुस । २ अफवाह ।

कुचकूचणे - क्रि अ १ फुस-फुसाना, खसुरफुसुर करना । २ छिपकली का वोलना ।

कुचडें - दे 'कुचडें' ।

कुचनिंदा - स्त्री निंदा, हँसी; मजाक, खिल्ली ।

कुचर - वि १ कमचोर । २. कीना, द्वेष, वृग्ज रखनेवाला । ३.

न प्रकने, सीझनेवाला । ४ सताने वाला । पु. न ऐसा दाना जो पक या सीझ न सके ।

कुचराई - स्त्री टालमटोल, ढिलार्ई, ढीलापन, जी चुराना ।

कुचलणे - क्रि स १ कुचलना, मसलना, रौंदना । २ पीटना, कचूर निकालना ।

कुचला - पु कुचला, एक पेड और उसका बीज जो विप है और दवा के काम आता है ।

कुचाळ, कुचाळखोर - वि निंदा, वदनामी, मजाक करने वाला, शरारती, पाजी, चुगलखोर ।

कुचाळकी-त्री, कुचाळा-पु, कुचाळी - स्त्री १ वुराई, वदनामी, निंदा, चुगली । २ कुचाल, दुराचार । [- दे 'कुचाळ' ।

कुचिद, कुचिदखोर, कुचिधा कुची\* - वि स्त्री कुचाली, दुष्ट, खोटी ।

कुचेष्टा - स्त्री हँसी, मजाक, ठट्ठा, दिल्लगी ।

कुचेष्टेखोर - वि दिल्लगीवाज, मजाकिया, ठट्ठेवाज ।

कुजकट - वि १ सडा, सडा-गला, गदा, खराव । ५ गदे विचारो वाला, वुरी नीयत वाला, सडियल ।

कुजका - वि १ सडा, सडा-गला, गदा । २ खोटा, कपटी, बोखेवाज ।

कुजट - दे 'कुजकट', 'कुजका' ।

कुजणे - क्रि अ १ सडना, विगडना, खराव होना । २ चौसर आदि के खेल में जिच, गतिरोध पैदा होना ।

कुजबुज - स्त्री १ कानाफूसी, खसुरफुसुर, फुसफुस, फुसफुसाहट,

कानाकानी। २ अफवाह, किंवदन्ती।

**कुजबुजर्णे** - क्रि अ १ काना-फूमी करना, फुसफुसाना, फिस-फिसाना, कान में कहना, चुपके से कहना। २ चुगली करना, बदगोई करना।

**कुजविणे** - क्रि स १ सडाना, गलाना। २ गतिरोध पैदा करना।

**कुजा** - दे 'खुजा'।

**कुटका** - पु. कुटका, छोटा टुकड़ा। मृ० - तोड़ने देणे - साफ इनकार करना, दो टूक जबाब देना।

**कुटकी** - स्त्री १ कुटकी, एक पीषा जिसकी जड़ दवा के काम आती है। २ टुकड़ा, दे 'काटकी'।

**कुटकुटीत** - वि १ अघपका, कच्चा। २ दे. 'गुटगुटीत'।

**कुटण** - न कुटत, पिटाई; मार पडना।

**कुटणे** - क्रि स १ कूटना, मूसल-मुंगरी से किसी चीज को लगातार पीटना। २ कुचलना, पीसना, मसलना, रौंदना। ३ मारना-पीटना। ४ छान-बीन करना। ५ बजाना (झांझ)।

**कुटा** - पु. १ कुट, बुकनी। २ कूटकर बनायी हुई चटनी। दे 'कूट'।

**कुटाई** - स्त्री कुटाई, कूटने का काम, कूटने की उजरत।

**कुटाकुटी, कुटाकूट** - स्त्री १. मार-पीट, मरम्मत, पिटाई। २. बहस, बाल की खाल खींचना।

**कुटाळ** - वि निदक, बदगो, दूसरो की बुराई, बदनामी करने वाला, पाजी, कुटिल; बदमाश।

- को - स्त्री निंदा, बदनामी, बद-

गोई। - खोर - वि दे 'कुटाळ'।

**कुटाळी** - दे 'कुटाळकी'।

**कुटिल** - वि १ कुटिल, टेढा। २ छली, चालवाज, दुष्ट, खोटा। ३. धुंधराले (वाल)।

**कुटी** - स्त्री कुटी, कुटिया, झोपडी।

**कुटी** - स्त्री निंदा, बदनामी, झूठा डलजाम। - वि कपटी, छली।

**कुटी** - वि १ बुकनी, चूर, चूरा, चूर्ण। २ सूखी मछली का चूरा। ३ कुटाई, पिटाई, मरम्मत।

**कुटीव** - वि कूटा हुआ।

**कुटुब** - न १ कुटुब, परिवार, कुनबा। २ पत्नी, घरवाली। - कलह - पु. कुटुबकलह, गृह-कलह। - वत्सल - वि १ कुटुबी, कुनवे, बालबच्चे वाला। २ अपने परिवार के लोगो पर प्रेम करने वाला।

**कुटुबी** - पु १ कुटुबी, गृहस्थ, कुनवे, बालबच्चे वाला। २ कुटुब, परिवार का व्यक्ति।

**कुट्टा, कुट्ट्या** - पु १ तिलकुट; तिलका चूर्ण, चटनी। २ कुटाई, पिटाई, मरम्मत। ३ रटत, रटाई, रटन।

**कुठचा** - ला - वि कहाँका, किस गाँव, शहर या स्थान का।

**कुठपर्यंत, कुठपावेतो, कुठवर-** अव्य कहाँ तक, कितनी दूर, किस हद तक।

**कुठार** - पु स्त्री कुठार, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी, परशु।

**कुठील** - वि कहाँ का।

**कुठून** - अव्य कहाँ में।

**कुठें** - अव्य कहाँ, किम जगह। २ कही।

**कुड** - पु टट्टी, पल्ले की दीवार, वाँस की फट्टियो की दीवार जिसे मिट्टी और गोबर से पोत दिया जाता है। [कपटी।

**कुड** - वि खोटा, बुरा;

**कुडका** - पु कुटका, टुकड़ा।

**कुडकी** - स्त्री कर्णभूषण, कान में पहनने का पुरुष का एक गहना।

**कुडकुड** - स्त्री १ दाँत के नीचे ककडी या कोई कडी चीज पडने से होने वाली आवाज। २ किचकिचाहट, दाँत बजना, ठडके मारे दाँतो का किटकिटाना। ३ दे 'कुरकुर'।

**कुडकुडणे** - क्रि अ १ ठिठुरना, सर्दों से सिकुड जाना, दाँत बजना। २ पेट का गुडगुडाना। ३ दे. 'कुरकुरणे'।

**कुडकुडा** - उधा - वि पिन-पिनहाँ, हमेशा शिकवा-शिकायत करने वाला। २ दुखी, कपटी।

**कुडकुडीत** - दे 'कुरकुरीत'।

**कुडण** - दे 'कुपण'।

**कुडणे** - क्रि स. १ वाड, टट्टी, अहाता बनाना। २ वाँस की दीवार बनाना। ३ बद करना। ४ कैद करना। ५ रोकना, दवाना। ६ दे 'कुडणे'।

**कुडता** - पु. [तु 'कुर्त'] कुरता, कमीज के ढग का एक पहनावा।

**कुडती** - स्त्री [तु 'कुर्त'] कुरती, जाकिट, 'जैकेट'।

**कुडतें** - न दे 'कुडता'।

**कुडपणे** - क्रि अ मुडना, सूखना। - क्रि स १ छोडना, फेंक देना। २ पीटना, मरम्मत करना।

**कुडबुड** - स्त्री 'कुडबुड' की आवाज, कुन्बुल, कुलबुलगाहट।



कुडबुडणें - क्रि स १.  
'कुडबुड' की आवाज निकालना ।  
२ कुडबुडाना, बुडबुडाना ।  
कुडबुडा - दे 'कुडबुड्या' ।  
कुडबुडें - न डुग्गी, डुगडुग्गी ।  
कुडबुड्या, कुडबुड्या जोशी -  
पु. अडडपोपो, हस्तरेखाविद्,  
डकौत, डकौतिया, सामुद्रिक,  
ज्योतिष आदि की जानकारी का  
स्वांग रचने वाला, यह कार्य-  
करने वाली एक जाति, आडवर  
फैलाने वाला, सगुनिया ।  
कुडव - न पु १ अन्न की  
एक माप जो आठ सेर के बराबर  
होती है । २ पौआ, मिट्टी, घातु,  
लकड़ी आदि का वह बरतन जिस  
मे पावभर दूध, पानी, आदि अँटे ।  
कुडा - पु कुटज, कुरैया,  
इद्रजौ, एक जगली पेड जिस के  
पत्तो की वीडियाँ बनाते हैं और  
वीज तथा जड दवा के काम आते हैं ।  
कुडा - वि १ दुष्ट, पापी,  
कपटी, घोखेवाज । २ खोटा । ३.  
मिथ्या, झूठा ।  
कुडावा\* - पु १ रक्षा,  
सहारा । २ दे 'कुड' ।  
कुडी - खी १ कुडी,  
झोपडी, कुटी । २ शरीर, देह ।  
३ गाँठ ( लहसून आदिकी ),  
छोटा टुकडा, फाँक । ४ दे  
'ढलपा' । [ उदास, नाराज ।  
कुडूकवाणा\* - वि खिन्न,  
कुडे - न १ दे. 'कुडी' ।  
२ द्वेष, मत्सर, सशय, कपट ।  
३ झझट । [कमल ।  
कुड्मुळ\* - पु. १ कली । २  
कुडणें - क्रि अ कुडना,  
मन ही मन खिन्न होना, भीतर ही  
भीतर चलना, खीझना, दुखी  
होना ।

कुडा - दे 'कुड्या' ।  
कुडापा - पु. १ कुडन, खीझ ।  
२ मत्सर, द्वेष, जलन ।  
कुडावणी\* - खी विवेचन,  
स्पष्टीकरण ।  
कुड्या - वि १. मन ही मन  
दुखी होने वाला, कुडने वाला ।  
२ भीतर ही भीतर जलने वाला ।  
कुणकुण - खी १ भनक,  
खुसुरफुसुर, कानाफूसी, धीमी,  
अस्पष्ट ध्वनि । अफवाह ।  
कुणकुणणे - क्रि अ १ फुस-  
फुसाना, कानाफूसी, खुसुरफुसुर,  
फुसफुस करना । २ गिडगिडाना ।  
कुणगा - पु [क 'कुगु']  
१ गुप्तरूप से जमा किया हुआ  
घन । २ दे 'कासोटा' । ३ खेत  
का छोटा-सा टुकडा । [खी  
'कुणगी'] [२ शव, मुर्दा ।  
कुणप\* - न १ देह, शरीर ।  
कुणवट - पु १ किसान;  
कुनवी । २ 'कुणवी' शब्द का  
निदान्यजक रूप ।  
कुणवाळ - वि १ किसान का,  
ग्राम्य, गँवार । २ हलका ।  
कुणवावा - पु. १ किसान का  
काम, खेती । २ खेती करने के  
लिए प्राप्त की हुई भूमि ।  
कुणबी - पु. कुनबी, कुर्मी,  
एक कृषिजीवी अन्नाहण जाति,  
किसान, खेतिहर । - माळी - पु.  
कृषिजीवी माघारण लोग ।  
कुणबीण - खी १ कुनवी की  
स्त्री । २ दासी, नौकरानी ।  
कुणी - खी खूँटी, लकड़ी की  
मेख ।  
कुणी - सर्व कोई, कोई भी ।  
- तरी - सर्व कोई, कोई न  
कोई ।  
कुण्णी - सर्व कोई भी ।

कुतर - 'कुत्रा' (कुत्ता) का  
समासगत रूप । - ओढ - खी  
अनेक जिम्मेदारियों के एक साथ  
आ पडने से होनेवाली दौडधूप,  
परेशानी, खीचतान । - घाई - खी  
जल्दी, उतावली । [-त्रें' ।  
कुतरा-री-रें-दे 'कुत्रा-त्री  
कुतर्क - पु. १ कुतर्क, दूषित,  
असगत तर्क, वितडा । २ बुरा  
विचार, कुचाल, खोटाई ।  
कुतर्की - वि कुतर्की, कुतर्क  
करने वाला, कठहृज्जती ।  
कुतुक\* - न कुतुक, कुतूहल,  
उत्तुकता । [कता, अचभा ।  
कुतूहल - न कुतूहल, उत्तु-  
कुत्रा - पु. १. कुत्ता, श्वान,  
कुकुर । २ तुच्छ, क्षुद्र जन, पेट  
का गुलाम । कुत्र्याची छत्री - खी  
कुकुरमुत्ता, छत्रक, खुमी । कुत्र्याची  
झोप - खी कुत्ते की नीद, ऐसी  
नीद जो जरासे खटके से खुल जाय ।  
कुत्र्याचें जिणें - न बडी घृणित  
वदतर जिदगी । कुत्र्याचे पाय,  
माजराचे पाय - पु बहु. गिचपिच,  
टेढीमेढी लिखावट । मु - हाल  
खाईना - दाने-दाने को तरसने  
लगा, बडी गुंत हो गयी ।  
कुत्र्याच्या मोतीनें मरणे - कुत्ते की  
मौत भरना, बडी दुर्दशा के साथ  
मरना । कहा० कुत्र्याचे शेषूट वाकडें  
तें वाकडें - कुत्ते की दुम कभी सीधी  
नही होती, प्रकृतिगत खुटाई पर  
समझाने - बुझाने का कोई असर  
नही होता ।  
कुत्रो - खी कुतिया, कुत्ते की  
मादा । मु - शिवणें - कपडो से  
होना, रजस्वला होना ।  
कुत्रें - न १ कुत्ता । २ झग-  
डालू और क्षुद्र आदमी । ३ सिट-  
कनी । ४ लपटाई, लपटाई,

लपटोबाँ घास; एक तरह की घास जिसकी बाल कपडे से चिपक जाती है।

**कुत्सित** - वि १ कुत्सित, नीच, गहिल, बुरा, खराब, गहंणीय, घृणित, धिनौना, गदा। २ अधम, जघन्य, कमीना, क्षुद्र, हलका। ३ कपटी, बोखे-वाज्र।

**कुयणें** - दे 'कुयणे'।

**कुदकर्णें** - क्रि स बुरी तरह पीटना, रौंदना, पिटाई करना, मरम्मत करना।

**कुवणें** - क्रि अ १ कूदना, खेलना, उछलना। २ फुदकना, खुशी मनाना।

**कुदळ** - ङी - स्त्री कुदाल, कुदाली, गैती। - वि झगडालू, ऊवमी।

**कुनी<sup>+</sup>** - दे 'कुणी'।

**कुप** - पु. न [क 'कुपे'] कुप, डेर, जगल की लकटी की राशि।

**कुप** - दे 'कुपण', 'कूप'।

**कुपथ्य** - न कुपथ्य, अस्वास्थ्य कर आहार-विहार, वदपरहेजी।

**कुपा** - दे 'कृप्पा'।

**कुपात्र** - वि कुपात्र, अनधिकारी, अयोग्य। - न बुरा, खराब बरतन।

**कुपी** - दे 'कृप्पी'।

**कृप्पा** - पु. १ कृप्पा, बडी वोटल, शीगा, काँचकी सुराही। २ चकमाक की किस्म का एक पत्थर।

**कृप्पी** - स्त्री कृप्पी, छोटी वोटल, शीशी।

**कुफराड, कुफराण** - न [अ 'कुफ्र'] १ कुफ्र, अधर्म, वद-माशी, झूठापन। २ तोहमत, झूठा इलजाम।

**कुफराडी** - ड्या, कुफराणा-  
**ग्या** - वि [अ 'कुफ्र'] तोहमत लगाने वाला, झगडालू।

**कुबट** - वि १ सडियल, वदबूदार, दुर्गंधयुक्त। २ हलका, क्षुद्र मन वाला। - वास - पु. सडा-येंघ।

**कुबड** - कूबड, कुब्ज, पीठ की हड्डी का इस तरह निकल आना कि वह टेढी हो जाय।

**कुबडा** - वि कुबडा, कूवर, जिस की पीठ टेढी हो गई हो।

**कुबडी** - स्त्री साखी, वह लाठी जिसे टेक कर लँगडे चलते हैं, कुबडी, वह छडी जो सिरेपर या बीच से टेढी हो।

**कुबणें** - क्रि अ सडना, गलना, वदबू देना, निकलना।

**कुबलणें** - क्रि स पीटना, मरम्मत करना, कुचलना, ममलना, रौंदना।

**कुबोल** - पु. कुबोल, कटु, कठोर या अमगल वचन।

**कुभाड** - न १ तुहमत; तोहमत, झूठा इलजाम, झूठी वदनामी। २ षड्यत्र, कपट। ३ छलकपट करने वाला, साजिश करने वाला। मु० - रचणें - षड्यत्र रचना, तोहमत लगाना।

**कुभाव** - पु. कुभाव, बुरी नीयत, द्वेषभाव।

**कुमक** - स्त्री [तु 'कुमुक'] १ कुमक, सहायता, मदद। २ किसी सेना के सहायतार्थ भेजी हुई सेना। ३ रसद।

**कुमकणे** - क्रि स पीटना, ठोकना, मरम्मत करना।

**कुमर\*** - पु १ कुमार, बेटा, पाँच वर्ष से कम उम्र का लडका। २ राजपुत्र। [स्त्री 'कुमरी']

**कुमार** - पु १ कुमार, बेटा। २ राजपुत्र।

**कुमारिका** - स्त्री कुमारिका, कुमारी, कुँआरी लडकी। दे 'कुमारी'।

**कुमारी** - स्त्री १ कुमारी, १० से १२ वरसतक की कन्या, कुँआरी लडकी। २ धीकुआर। - आसव - न धीकुआर के रम से बनाया हुआ आसव।

**कुमार्ग** - पु कुमार्ग, कुपथ, बुरा रास्ता।

**कुमार्गी** - वि कुमार्गी, कुमार्ग-गामी, कुचाली, अनीति की राहपर जाने वाला।

**कुयरी** - दे 'कुइरी'।

**कुयोग** - पु. कुयोग, अशुभ योग, कुसाइत।

**कुरग** - पु कुरग, हिरन, तामडे रग का हिरन। - नयना, - नयनी; - नंना - वि स्त्री कुरग-नयना, कुरगनयनी, हिरन की-सी आँखो वाली।

**कुरकळणी<sup>+</sup>** - दे 'कुळकरणी'।

**कुरकुर** - स्त्री १ पनपिन, झीख, भुनभुन, नाराजगी, शिकवा-शिकायत। २ कुरकुर, कुरकुगी या खरी चीजो के दक्कर टूटने का शब्द।

**कुरकुरणें** - क्रि अ १ कुड-बुडाना, बुडबुडाना, झीखना, भुनभुनाना, पिनपिनाना, शिकायत करना। २ कुरकुराना, 'कुरकुर' की आवाज करना। ३ पेट का गुडगुडाना।

**कुरकुरा** - पु कुडकुडी, पेट का गुडगुडाना।

**कुरकुरीत** - वि कुरकुरा, जिसे तोडने या चवाने से 'कुरकुर' आवाज निकले, चुरमुरा, करारा।

कुरकुन्या - वि चिडचिडा, तुनक मिजाज, पिनपिनहाँ, हमेशा शिकायत करने वाला।

कुरकुली + - खी कुरई, नाँस की छोटी चेंगरी, डलिया, टोकरी, सूप आदि।

कुरघोडी - खी १ चड्डी, पीठ की सवारी। २ एक वच्चे द्वारा दूमरे वच्चे की पीठ पर सवार होने का खेल। ३ मात, सबकत, बढ जाना। मु० - करणे - १ चड्डी गाँठना, सवारी करना। २ मात देना, हावी होना, हराना, चढ बैठना, दवा लेना।

कुरटा - दे 'खुरटा'।

कुरडई - खी चावल के आटे को पका कर बनाया हुआ एक नमकीन खाद्य पदार्थ, जो पापड की तरह तलकर खाया जाता है।

कुरड - पु १ स्त्रियों का कान में पहनने का एक गहना। २ एक पीघा जिमके पत्ते का साग खाया जाता है।

कुरण - न १ चरती, चरान, चरागाह, पशुओं के चरने-चराने की जगह, घास का मैदान, कछार। २ लाभदायक म्यान, विभाग, वस्तु।

कुरतडणें - क्रि स १ कुत-रना, दाँतो या नखों से किसी चीज का कुछ अंश काट लेना। २ बहुत थोड़ा खाना।

कुरनिसात - पु खी [तु 'कोरनिश'] कोरनिश, झुककर सलाम करना, प्रणाम।

कुरबुर - खी १ अतवन, झगडा, किटकिट, किचकिच, मतमुटाव। २ पिनपिन, भुनभुन, झीख, शिकवा-शिकायत।

कुरबुरणें - क्रि अ १ भुन-

भुनाना, झीखना, झल्लाना, नाराज होना, शिकायत करना। २ गुडगुडाना, पेट में 'गुडगुड' की आवाज होना।

कुरमुर, कुरमुरणें - दे 'कुर-बुर', कुरबुरणें।

कुरमुरा - पु, कुरमुरे - पु बहु मुरमुरा, भुने हुअे चावल, लाई आदि, भुना हुआ चिडवा। मु० कुरमुरे खाणें - चुपचाप बैठना, हाथ मलते रहना।

कुरवडणें - क्रि स आरती उतारना, न्योछावर करना।

कुरवडी - खी १ आरती। २ निछावर, न्योछावर, किसी वस्तु को किसी के सिर या थरीर के ऊपर से घुमाकर दान कर देने या कहीं रखने, छोड़ने आदि का एक टोटका।

कुरवाळणें - क्रि स सहलाना, प्यार करना, प्यार में धीरे-धीरे हाथ फेरना, पुचकारना, चूमकारना। [क्रिया, प्यार।

कुरवाळा - पु सहलाने की कुरळ-ळा, कुरळित - वि १ धुंधराला, छल्लेदार (केश), बल खाया हुआ, कुचित। २ सुदर। (बहुवचनमें ही प्रयुक्त - कुरळे केम = धुंधराले वाल)।

कुराड - दे 'कुन्हाड'।

कुराण - न [अ 'कुर्आन'] कुरान, मुसलमानों का धर्मग्रंथ।

कुरापत - खी [अ 'खुरा-फात'] १ खुराफात, शरारत, झगडा खडा करने वाली बात, वखेडा। २ दोष, व्यग्य, खामी।

कुरापती - वि [अ 'खुरा-फाती'] खुराफाती, खुराफात करनेवाला, झगडा शुरू करने वाला।

कुरी - खी १ अकरी, अनाज बोने का औजार, हल में लगा हुआ चोगा जिमसे बीज गिराते हैं। २ टोटका। ३ आवे वीघे की नाप।

कुरीत - खी कुरीति, बुरा ढग, निदनीय प्रथा, बुराचार।

कुरव - पु कुरड, कुरविद, मानिकरेत, एक तरह का कडा पत्थर जिससे सान, चक्की आदि बनाये जाते हैं।

कुरवी - वि कुरडका।

कुरप - न दे 'कुरूप-न'।

कुरपणें\* - क्रि अ कुन्व होना, बढना, फैलना।

कुरूप - वि कुरूप, बदसूरत, भद्दा, बेढगी शक्लावाला। - पु बदसूरत शकल, चेहरा।

कुरूप - न [क ?] गोमरु, ककड या काँटा चुभ जाने से हथेली या तलवे में पडने वाला घट्ठा, किन, किण।

कुरनिसात - दे 'कुरनिसात'।

कुरा - पु [अ 'कुर्आ'] १ अकड, गर्व, घमड, नाज, नखरा। २ द्वेष, मत्सर।

कुरबाज - वि [अ 'कुर्आ'] १ अकडवाज, घमडी, नखरे-वाज। २ होशियार, बुद्धिमान्।

कुन्हाड - खी १ कुल्हाडी, कुल्हाडा, लकडी चीरने, काटने का एक औजार। २ परशु। ३ बहुत बडा आघात, आफत। आकाशाची कुन्हाड - खी देवी सकट, आस-मानी गजब। कहा० कुन्हाडीचा दाडा गोतास फाळ - कुल्हाडी का दस्ता अपने गोत (पेड) का नाश करता है, काठ का बैरी काठ।

कुलगडें - न १ झसट, घपला, झमेला, गडबडझाल। २ चाल, साजिश।

कुलगा - गी - गें - वि [फा 'कुलग'] १ छोटा और गुदगुदा । २ ठिगना और मजबूत ।- कुत्रें - न एक किस्म का कुत्ता जो कद में छोटा होता है और जिसके बाल बड़े लंबे होते हैं ।

कुल - वि [अ] कुल, सब, तमाम ।- कारभारी, -मुख्त्यार - पु मर्वाधिकारी, मुखतारे कुल ।

कुल - न १ कुल, वंश, गोत्र, कुटुंब, परिवार, खान्दान । २ एक जातिवालों का समूह, समुदाय । ३ किनारा । दे 'कूळ' ।

-कटक - वि कुलकटक, अपने बुरे कार्यों से कुल के लोगों को दुखी करने वाला ।-कलक - वि पु

१ कुलकलक, कुल में दाग लगाने वाला, कुल की मानप्रतिष्ठा का नाश करने वाला ।-क्षय - पु कुलक्षय,

कुलनाश । २ कुल में लगा हुआ दाग ।-गुरु - पु १ कुलगुरु,

वंश का पुरोहित । २. उपकुलपति, 'वाइस चांसलर' ।-दीपक - पु

कुलदीपक, कुलभूषण, वह जिससे कुल का नाम उजागर हो ।

-देवता - स्त्री कुल की देवी ।-दैवत - न कुलदेव, कुलदेवता, वह देवता

जिसकी पूजा कुलविशेष में पीढी-दर-पीढी होती आ रही हो । -

धर्म - पु कुलधर्म, कुल का क्रमागत धर्म, कुलरीति ।-पति - पु

१ कुलपति, कुलका मुखिया । २ कुलपति, विश्वविद्यालय या

विद्यापीठ का मुख्याधिष्ठाता, 'चांसलर' ।-परपरा - स्त्री कुल-

परपरा, वंशपरपरा ।-पुरुष - पु कुलपुरुष, पूर्वज ।-मर्वादा - स्त्री

कुत्रमर्वादा, कुल की प्रतिष्ठा, कुल की परपरागत रीति-नीति ।

-रीति - स्त्री कुलाचार, कुल की

रीति - नीति ।- वत - वि दे कुलवान् ।-वधू - स्त्री कुलवधू, भले घर की स्त्री ।-वान - कुलज, ऊँचे कुल में उत्पन्न, कुलीन ।-स्वामिनी - स्त्री, - स्वामी - पु दे 'कुलदेवता,' 'कुलदैवत' ।

कुलकर्णी - पु पटवारी, गाँव की ज़मीन और उसकी मालगुजारी का लेखा रखने वाला एक सरकारी कर्मचारी ।

कुलकुलाट - दे 'कलकलाट' ।

कुलक्षण - वि न कुलक्षण, कुलच्छन, बुरा लक्षण, अनिष्ट-सूचक चिह्न ।

कुलक्षणी - वि कुलक्षण, कुल-च्छन, बुरे लक्षण वाला, अशुभ-कारक, अनिष्टता सूचक ।

कुलटा - वि स्त्री कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री ।

कुलपी - स्त्री - वि [अ 'कुपल'] बद किया हुआ, ताला लगा हुआ ।-स्त्री १ कुलफी, वह

नली जैसा साँचा जिसमें दूध, मलाई आदि भरकर बरफ से जमाते हैं ।

२ उक्त साँचे में भरकर जमायी हुई चीज़ । ३ तश्तरी जैसी चीनी मिट्टी का एक बर्तन ।-गोळा -

पु तोप का गोला जिसमें कीले, छुरी के फल आदि भरे होते हैं ।

-विडा - पु दस-बारह पानी का बड़ा बीडा, बड़ी गिलौरी ।

कुलांगार - पु कुलागार, कुल का नाश करने वाला, कुल-कलक ।

कुला - दे 'कुल्ला' ।

कुलाचार - पु कुलाचार, कुल की रीति-नीति, कुलधर्म ।

कुलाचारी - वि कुलाचार का पालन करने वाला ।

कुलाचार्य - पु कुल का आचार्य, परिवार का उपाध्याय ।

कुलाबा - पु [अ 'कुल्लाब'] १ कुलाबा, किवाड को चौखटे से जकड़ने का काँटा । २ अतरीप, भूमि का नुकीला भाग जो समुद्र में दूरतक चला गया हो । ३ आरे का टेढ़ा दस्ता ।

कुलाभिमान - पु अपने ऊँचे कुल का अभिमान, गर्व ।

कुलावतस - पु कुल या जाति का भूषण, अलंकार ।

कुलिजन - दे 'कोळजन' ।

कुली - पु [तु 'कुली'] कुली, मजदूर, मोटिया ।

कुलीन - वि कुलीन, ऊँचे खान्दान में जनमा हुआ ।

कुलुगी - दे 'कुलगा' ।

कुलूप - न [अ 'कुपल'] कुपल, ताला ।

कुल्फी - दे कुलपी ।

कुल्ला - पु कूल्हा, चूतड़, नितब । मु० कुल्ले थोपटणें, बड-

विणें - चूतड़ पीटना, वजाना, बहुत खुश होना । कुल्ल्याला पाय लावणें -

चूतड़ दिखाना, माग जाना ।

कुवत - स्त्री [अ 'कुव्वत'] कुव्वत, कूवत, शक्ति, सामर्थ्य, बल ।

कुवाड-डें - न १ कूट प्रश्न, पहेली । २ जादू-टोना ।

कुवार - दे 'कुवार' ।

कुवारीण - वि स्त्री कुंवारी, कुमारी, अविवाहिता ।

कुवेळ - स्त्री पु कुवेला, कुसु-मय, अशुभ काल ।

कुशल - वि १ कुशल, चतुर, होशियार, निपुण, चतुर । २ स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल । न क्षेम, मगल, खैरियत, मलामती । -क्षेम - न कुशल-क्षेम, सुख-स्वास्थ्य, खैरी आफियत ।-प्रश्न-

पु कुशल-प्रश्न, कुशल-मगल,  
खैरियत पूछना ।

कुशाग्र - वि कुशाग्र, कुश  
की नोक जैसा तीक्ष्ण, तेज ।  
-वृद्धि - वि कुशाग्रवृद्धि, पैनी,  
तीक्ष्ण वृद्धि वाला, होशियार ।  
-ध्वी तीक्ष्ण वृद्धि, होशियारी ।

कुशी - ध्वी १ करवट, कोख ।  
२ पेट । ३ गोद ।

कुश्चल, कुश्चील\* - वि १.  
कुचाली, दुराचारी, दुष्ट, खोटा ।  
२ गदा, घिनौना ।

कुष्ठ-ष्ठ - न १ कुष्ठ,  
कोढ़ । २ कुलजन, कुलीजन,  
(एक पाँधा) ।

कुष्माड - पु, १ कुष्माड,  
कुम्हडा । २ दे 'कुभाड' ।

कुसग - पु, कुसगति - ध्वी  
कुसग, कुसगति, बुरी सोहबत,  
बुरे का सग ।

कुसतान - न बुरी सतान,  
नालायक वेटा या वेटी, कुल का  
नाम डुवोने वाला पुत्र या पुत्री ।  
कहा० कुसतानापेक्षा निसतान बरें-  
बुरी सतान में निस्सतान  
(सतानहीन) होना अच्छा ।

कुसवा-धी - दे 'कुमुवा-धी' ।  
कुस - वि बहुत थोडा,  
चुटकीभर । [२ भूसा ।

कुसकट - वि १ दे 'कुजका' ।  
कुसकर-रा - पु गेटी आदिका  
चूरा, चूर ।

कुसकरणें - क्रि स १ मस-  
लना, रौंदना, कुचलना, पीसना ।  
२ चूरा बनाना ।

कुसपट - दे 'खुसपट' ।

कसमुस - ध्वी १ कुडन,  
जलन । २ व्यर्थ के परिश्रम ।

कुसमुसणें - क्रि अ १ कुडना,  
शिकायत करना, कसमसाना,

बेचैन होना । २ मिसकना ।

कुसर - ध्वी कौशल, हुनर,  
कला ।

कुसरी - ध्वी १ कौशल,  
सुदरता, श्रेष्ठता । २ चतुर,  
होशियार स्त्री । ३ चालाक  
स्त्री, जादूगरनी । -वि १ कुगल ।  
२ कपटी । - चे काम - न  
नक्काशी, कला का काम ।

कुसरुड - पु कमला, मूडी,  
खजोहरा, एक तरह का रोयेंदार  
कीडा जिसके स्पर्श से खुजली पैदा  
होती है ।

कुसबा - पु कोख, गर्भाशय ।

कुसळ - न १ किरिच,  
नुकीला तिनका, तृणाग्र, परेग,  
छोटा कांटा । २ कचरे का  
बहुत छोटा टुकडा, फिरका,  
किरकिरी ।

कुसळी - वि जिममें किरिच  
या छोटे कांटे हो (घास) ।

कुसीव - न कुमीद, कर्ज,  
ऋण, सूद पर लिया हुआ कर्ज ।

कुसुव-वा पु - १ कुसुभ, कुसुम  
का फूल । २ कुसुम, एक पौधा  
जिसके फूल लाल, गुलाबी, पीले  
आदि रंग के होते हैं । ३ कुसुभा,  
कुसुम का रंग । ४ अफीम या  
पोस्ते के ढोढ का काढा, अर्क ।  
५ भाँग । [रगका ।

कुसुंबी - वि कुसुभी, कुसुमके  
कुसुम - न १ कुसुम, फूल ।  
२ स्त्री का रज ।

कुसू - न १ चूल, लकड़ी,  
बाँस आदि का पतला सिरा जो  
दूसरी लकड़ी, बाँस आदि के छेद  
में ठोका जाय, पुराने ढग के  
किवाड का नीचे ऊपर का गोल  
लबोतरा भाग जिसपर वह घूमा  
करता है । २ अहाता, वाड,

घेरा, चहारदीवारी ।

कुसूर - पु ध्वी १ [अ.  
'कुमूर'] १ कुमूर, जुमें, अप-  
राध, भूल - चूक, कोताही,  
दोष । २ झगडा । दे 'कमूर' ।

कुस्करणें - दे 'कुसकरणे' ।

कुस्करी - ध्वी झगडा, अन-  
वन, मनमूटाव । कहा० मस्करीभी  
कुस्करी होते - हँसी - मजाक हृद  
में बढ़ जाय तो झगडा हो जाता है ।

कुस्कट - न मूखी और बेकार  
चाम, तिनका, कँटीली घाम,  
कचरा ।

कुस्ती - ध्वी [फा 'कुस्ती']  
कुस्ती, वाहुयुद्ध, मल्लयुद्ध, दो  
आदमियों का एक दूसरे को पछा-  
डने के लिए गुथकर लडना,  
हाथापाई, उठा - पटक ।

कुस्पट - दे 'खुमपट' ।

कुहक - \* वि कुहक, कपटी,  
ठग, वचक ।

कुहणे - \* क्रि अ सडना,  
खराब होना । [आडवर ।

कुहना - \* ध्वी दभ, दोग,  
कुहर - न १ कुहर, गफा ।  
२ गढा, छेद, सूराब । ३ भडार,  
आगर । ४ कुहरा ।

कुहजणे - \* क्रि अ १  
सडना । २ ऊवना, यकना ।

कुहिट, कुहीट - \* वि १  
खराब, बदवृदार, वासी । २ बुरे  
स्वभाव का । [की कूक ।

कुहु - क्रि कुहु, कुहुक, कोयल  
कुहु - ध्वी १. कुहु, अमा-  
वस्या । २ दे 'कुहु' ।

कुहेडें - \* न कूट प्रश्न,  
पहेली ।

कुळबट, कुळबी, 'कुळवीण' -  
दे 'कुणवट'; 'कुणवी', कुण-  
वीण' ।

कुल - दे. 'कुल', 'कूल'।  
 कुलक - \* स्त्री इच्छा; हेतु।  
 कुलकरणो, कुलकर्णी - दे  
 'कुलकर्णी'।

कुलकुळीत - वि १ कलूटा,  
 बहुत काल। २ मोटा-ताजा।  
 कुलवत - वि कुलीन, ऊँचे  
 कुल में जनमा हुआ।

कुलव - पु. न हँगा, पटेला,  
 रखार, सरावन, जोती हुई ज़मीन  
 को बराबर करने का पटरा।

कुलवणी - स्त्री जोती हुई  
 ज़मीन को बराबर करने का काम।

कुलवती - स्त्री भले घर की  
 स्त्री, ऊँचे कुल में जन्मी हुई।

कुलवाडी - पु. १ किसान,  
 खेतिहर। २ कुनबी; शूद्र। - स्त्री  
 १ खेती, खेती का व्यवसाय। २  
 २. देखरेख।

कुलवान् - वि दे. 'कुलवत'।  
 कुलविणो - क्रि स हँगा, पटेला  
 चलाना, जोती हुई ज़मीन को  
 बराबर करना।

कुलागर - न १ सुपारी,  
 नारियल आदि का वाग। २. घर  
 का पिछवाडा या वहाँ का वाग।

कुलिपु\* - पु. कुल को पावन  
 करनेवाला, कुलीन। [ दीये।

कुलिपा\* - पु. बहु दीपक,  
 कुळी - स्त्री कुल, घराना,  
 खानदान।

कुळीय - पु. कुलय; कुलयी;  
 उरद की जातिका एक मोटा अन्न।

कू - अव्य हाय, आह।  
 कूस - दे 'कुसू'। [वोली।  
 कूक - स्त्री वाँग, मुर्गेकी  
 कूकर्णे - क्रि अ मुर्गे का  
 बोलना, वाँग देना।

कूच - पु. [ फा ] १. कूच,  
 प्रस्थान, रवानगी, सेना का

प्रस्थान। २ मृत्यु, मौत। - दर-  
 कूच - अव्य कूच-व-कूच, कूच पर  
 कूच बोलते, मजिल पर मजिल तै  
 करते हुए। कुचाचा नगारा वाज-  
 विणो - कूच का डका या नक्कारा  
 वजाना, रवानगी का हुकम देना,  
 प्रस्थान करना।

कूट - न १ अचार आदि के  
 लिए कूट कर बनाया हुआ मसाला।  
 २ बुकनी, चूर, चूरा, भूसा।  
 ३ नाश। मु - काढणे - पिटाई  
 करना, मरम्मत करना।

कूट - स्त्री कूट, छल, धोखा,  
 कपट, बनावट।

कूट - न १ कूट, जटिलप्रश्न,  
 पहेली। २ पड़्यत्र, साजिग। -  
 वि १ जटिल, पेचीदा। २  
 बनावटी, असत्य। - प्रश्न - पु  
 कूट प्रश्न, पहेली।

कूट - न कूट, पर्वत-शिखर,  
 पहाड की चोटी।

कूड - पु. १ टट्टी, बाँस  
 आदि की दीवार जो मिट्टी गोबरसे  
 पोत दी जाती है। २ बाड, झाड-  
 पट्टी। कहा० रिकामा न्हावी कुडाला  
 तुंबडभा लावी - ठाला बनिया क्या  
 करे, इस कोठी का धन उस कोठी  
 में धरे।

कूड - स्त्री १ शरीर, देह।  
 २ शव।

कूड - न असत्य, कपट, छल,  
 धोखा। - वि धोखेवाज, खोटा,  
 असत्य।

कूप - पु. १ कूप, गड्ढा,  
 छेद। २ कुआँ। - कच्छप; - मडूक -  
 पु कूप-कच्छप, कूप-मडूक, कुएँ  
 का कछुआ या मेढक, वह जिस के  
 ज्ञान की सीमा बहुत सकुचित हो।

कूप - दे 'कूपण'।  
 कूर्म - पु. १ कूर्म, कछुआ।

२ विष्णु के दम अवतारो में से  
 दूसरा, कच्छपावतार। ३ पाँच  
 उपप्राणो में से एक, वह प्राण या  
 वायु जिससे पलके खुलती - मुँदती  
 है। - गति - वि धीमा, बहुत धीरे  
 चलनेवाला। - स्त्री धीमी गति।  
 - दृष्टि - स्त्री कृपा, कृपादृष्टि।  
 कूल - पु. कूल, किनारा, तट।  
 - न दे 'कल'।

कूस - स्त्री १ वगल, करवट।  
 २ कोख, गर्भगिय। ३ शरीर की  
 एक वाजू, पहलू। ४ गोद,  
 अँकवार। ५ स्थान, अवसर;  
 मौका। ६ लाभ की समावना,  
 बढ़ती, वेशी, वचत। मु. या  
 कुशीवरून त्या कुशीवर होंगे - कर-  
 वट बदलना।

कूस - न नोक, रोयाँ, रोगटा,  
 दे 'कुसळ'। मु. - वाकडें न होंगे -  
 रोयाँ टेढा न होना, कोई क्षति न  
 होना, बाल बाँका न होना।

कूळ - न १ कुल, परिवार,  
 घराना, खानदान। २ गोत्र, वंश,  
 जाति। दे 'कुल'। ३ रैयत, पट्टे-  
 दार, काश्तकार। ४ महाजन के  
 लिए कर्जदार, वैद्य के लिए रुण  
 (पेगट), वकील के लिए गुवकिल  
 आदि कूळ होते हैं। ५ असामी,  
 आदमी, ग्राहक। - कथा - स्त्री राम-  
 कहानी, उवानेवाली बातें। - करटा  
 - वि कुलकलक, कुलवोरन, कुल का  
 नाम डुवाने वाला। - पट्टा - पु  
 लगान का पट्टा, डकरार - नामा।  
 - बुडव्या - वि दे 'कूळकरटा'।  
 - वत, - वान - वि कुलीन,  
 ऊँचे खानदान में जनमा हुआ। -  
 शीळ - न कुल की मर्यादा, कुल  
 की परंपरागत रीति-नीति।

कृच्छ - न १ कृच्छ, सातपन  
 प्रायश्चित्त। २ कष्ट, दु ख,

कठिनाई। ३. मूत्रकृच्छ्र रोग। ४ एक व्रत। - वि कृच्छ्र, कष्टमय, कष्टसाध्य, कष्टकर।

कृत - कृत, कृतयुग। - वि कृत, किया हुआ। - कार्य - वि कृतकार्य, जो अपना कार्य या अभीष्ट मिट्ट कर चुका हो, सफल-मनोरथ। - कृत्य - वि कृत-कृत्य, कृतार्थ, सफट-मनोरथ। - न मुश्किल काम, बहुत बड़ा काम। - कृत्यता - स्त्री कृतार्थता, सफल मनोरथ होना, बहुत बड़ा काम करना। - निश्चय - वि कृत-निश्चय, जिसने किसी बात का पक्का इगदा किया हो, दृढनिश्चय। - युग - न कृतयुग, सतयुग, चारों युगों में से पहला। - सकल्प - वि कृतमकल्प, जिमने कोई मकल्प, निश्चय किया है। - यु- दृढ निश्चय, पक्का इरादा।

कृतघ्न - वि कृतघ्न, एहसान-फरामोश, नाशुक्रा, नेकी, उपकार न मानन वाला।

कृतज्ञ - वि कृतज्ञ, एहसान-मद, शुक्रगुजार, नकी, उपकार मानने वाला।

कृतात - पु १ कृतात, यम, मृत्यु। २ दैव, नसीब, किस्मत। ३ मिद्धात, निर्णय।

कृताकृत - वि १ कृताकृत, किया और न किया हुआ, अगत किया हुआ। २ लापरवाह, उदासीन। - न होने या न होने की मभावना।

कृतार्थ - वि १ कृतार्थ, कृत-कार्य। २ जिसने सब कुछ पा लिया हो, जिमके लिए कोई करना शेष न रहा हो, सतुष्ट।

कृति - स्त्री १ कृति, कर्म, काम, कार्य। २ क्रिया, पद्धति,

ढग, रचना, युक्ति; उपाय। ३ श्याति, पराक्रम। ४ दो समान अकोका घात (ग०)।

कृत्तिका - स्त्री कृत्तिका, सत्ताईस नक्षत्रों में से तीसरा।

कृत्य - न १ कृत्य, कर्तव्य, कर्म, कार्य, काम, शास्त्रविहित कर्म (पूजन, हवन आदि)। २ निर्मय, 'प्राक्लेम' (रेखा ग०)

कृत्या - स्त्री १ कृत्या, एक शक्ति या देवी जो अभिचार द्वारा किसी को मारने के लिए अनुष्ठान विशेष से उत्पन्न की जाती है। २ कर्कशा स्त्री।

कृत्रिम - वि १ कृत्रिम, वनावटी, नकली। २ अप्राकृतिक, मानव-निर्मित। - न झूठ, असत्य, धोखा।

कृवत - न कृवत, धातु में कृत् प्रत्यय लगाने में बना हुआ शब्द।

कृपण - वि १ कृपण, कजूम, सूम। २ गरीब, निर्बन, दीन।

कृपा - स्त्री कृपा, दया, अनुग्रह, मेहरवानी। - कटाक्ष - पु - दृष्टि - स्त्री कृपादृष्टि, मेहरवानी की निगाह, कृपाभाव। - पात्र - वि कृपापात्र, जो कृपाके योग्य हो, अनुग्रहभाजन। - वत, वान - वि कृपालु, दयालु, मेहरवान।

कृपाण - न १ कृपाण, तलवार। २ छुरी, कटारी।

कृमि - पु १. कृमि, कीटा, कीटाणु। २ केंचुआ, कद्दूदाना। - घ्न, - नाशक - वि कृमिघ्न, कीटाणुनाशक, कीड़ों का नाश करने वाला।

कृमी - वि जिमके पेट में केंचुए पैदा हुए हो।

कृश - वि १ कृश, दुबला-

पतला। २ कमजोर। ३ नाजूक। कृपक; कृषीवल - पु. कृपक, कृषीवल, किसान, खेतिहर।

कृषि-पी - स्त्री कृषि, खेती, खेती-वाड़ी, जोतना-वीना।

कृष्ण - पु. कृष्ण, विष्णु के आठवे अवतार। - वि १ काला, माँवला। २ दुष्ट, कपटी। - कृत्य - न कृष्ण-कर्म, काली करतूत, बग काम। - पक्ष - पु १ कृष्ण-पक्ष, अँधेरा पाख। २ बुरे दिन, हाम, धय।

कृष्णागर-र - पु. कालागुरु, एक प्रकार का काला अग्ररु।

कृष्णाची गाय - स्त्री इद्रगोप, वीरवहटी।

कृष्णाजिन - न कृष्णाजिन, काले मृग का चर्म।

कृष्णार्पण - न १ कृष्ण के नाम से ब्राह्मण को भूमि का दान करना। २ छोड़ देना, त्याग देना।

कृष्ण - स्त्री १ युक्ति, तरकीब, खोज। २ चतुराई, चालाकी, चालवाजी।

कं, के\* - अव्य. कैने। - सर्व क्या।

कंकलं - दे 'कोकल'।

कङ्कण\* - क्रि स १ रोकना, प्रतिवध लगाना, मना करना। २ डलजाम लगाना, बुरा-मला कहना, निंदा करना। ३ दुत-कारना, धिक्कारना।

केंद्र - न १ केंद्र, वृत्त का मध्य बिंदु, मर्कज, नामि, 'फोकस'। २ मध्यवर्ती स्थान, मुख्य स्थान। ३ किमी वस्तु के उत्पादन, वितरण, प्रसार का स्थान, 'भेटर'। ४ जन्मकुडली में लगन से पहला, चौथा, सातवाँ और दसवाँ स्थान। - श्रुति - स्त्री

केद्र तक का अंतर (ज्यो०) । -  
पराङ्मुख - वि केद्र मे दूर  
जाने वाला, केद्रापसारी । - सर-  
कार - न केद्रीय सरकार ।

केंद्राभिमुख - वि केद्राभिमुख,  
केद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति वाला,  
'कॉनवर्जिंग' ।

केंद्रीकरण - न केद्रीकरण,  
मर्कजियत, केद्रित करना, एक,  
हाथ में, एक व्यवस्था में लाना,  
'सेट्रलाइजेशन' ।

केंद्रीय - वि केद्रीय, मर्कजी,  
केद्रसवधी, मुख्य, प्रधान ।

केंद्रोत्सारक - वि केद्रापनारी,  
'सेट्रिफ्युगल' ।

केंचळ - पु न, केंचळी - स्त्री  
१ मकान या झोपडी के छप्पर पर  
डाली गयी फूस, घास, पताई आदि  
छानना । २ दीवारो पर और  
छप्पर से लटकने वाले मकडी के  
जाले, कचरा आदि । ३ बुड्डी  
औरत (गाली) (स्त्रि) ।

केंस - दे 'केस' ।

केंहो\* - अव्य कहां ।

केउता-ती - तें\* - अव्य. वि  
१ कहां, किस जगह । २ कहां  
का । ३ क्यो, किसलिए । ४  
कैसा, कैसे । ५ कौन-सा । ६  
कव ।

केउलवाणा - दे 'केविलवाणा' ।

केकटणें, केकणे - दे 'केका-  
टणें' । [ 'केतकी' ]

केकत - न टे 'केकती',

केकताड - पु १ रामबांस;  
केतकी या केवडे की जाति का एक  
पौधा जिसके पत्तो के रेशो से  
रस्सियां बनायी जाती हैं । २  
ताड की एक जाति ।

केकती - स्त्री रामबांस का  
पौधा और फूल । टे 'केकताड' ।

केकसणे - दे 'खेंकसणे' ।

केकसा, केकसा मावशी - स्त्री  
कर्कशा स्त्री, लडाकी, वदजवान,  
वदसूरत धिनीनी औरत ।

केका - स्त्री केका, मोर की  
वोली ।

केकाटणें - क्रि अ १ चीखना,  
किकियाना, रोना - चिल्लाना । २  
भूंकना, कुत्तेका भौ-भौ करना ।

केकावली - स्त्री मराठी के  
एक श्रेष्ठ कवि श्री मोरोपत की  
लिखी १२१ कविताओ की माला,  
जिसमे ईश्वर को रक्षा के लिए  
पुकारा गया है ।

केजे<sup>+</sup> - न १. किसी वस्तु के  
मूल्यस्वरूप दिया हुआ अनाज  
आदि । २ वस्तुविनिमय, केना ।

केढवळ, केढोळ<sup>+</sup> - पु बहुत  
समय, बडी देर । - अव्य बडी  
देर तक ।

केणा - पु, केणी - स्त्री केना  
नामका हलका साग । - कुरडूची  
भाजी - स्त्री घाम - पात का या  
हलका साग ।

केणी - स्त्री, केणें - न १  
पण्य, विक्रेय वस्तु, बाजार मे  
विक्री के लिए लाया गया अनाज,  
सब्जी, फल आदि । २ चुगी,  
बाजारमे विक्री के लिए आये हुए  
माल पर लगने वाला मरकारी कर ।  
३ पैसा, माल, वन ।

केतक - न केतक, केवडा,  
केवडे का फूल । - पान - न  
सिर के वालो मे पहनने का एक  
गहना । [का पेड ।

केतकी - स्त्री केवडा, केवडे  
केतुका\* - ला - वि कितना,  
कैसा ।

केदार - न पु १ केदार,  
धान का खेत । २ कियारी,

क्यारी, थाला । ३ केदारा, एक  
राग (स) ।

केदार - रा - पु केदार;  
केदारा, एक राग (सर्गीत)

केधवा\* - अव्य कव, किस  
ममय ।

केप - न स्त्री [अ 'कैप'] ।  
१ टोपी, घातु का गहरा ढक्कन  
जिसपर बटुक के घोडे के गिरने से  
आग लगती है । २ बच्चो की  
बटुक (खिलोना) मे दागी जाने  
वाली कागज की टिकिया जिसमे  
वाखूद भरी होती है ।

केमटा - वि कजूस, मक्की-  
चूस । [ भुजवद ।

केयूर - न पु केयूर, विजायठ,

केर - पु १ कचरा, कूडा-  
करकट, राख, धूल आदि, बूहारन ।  
२ रद्दी, निकम्मी चीजे । ३  
तिनका, बारीक टुकडा । - कचरा

- पु कचरा, कूडा - करकट,  
रद्दी, निकम्मी चीजे, कतवार ।

- पट्टी - स्त्री कूडा ले जाने के लिए  
लगाया गया कर । - पाणी, - पोतेरें

- न झाड - बूहार, सफाई, झाडू  
देना, पानी भरना, जमीन लीपना  
आदि काम । - वारा - पु १  
झाडू-बूहार, सफाई । २ घर के  
विभिन्न काम । - सुणी - झाडू,  
बूहारी, बढनी ।

केरवा - पु १ कहरवा, तबले का  
एक बोल या ताल । २ नृत्य का एक  
प्रकार । ३ चूडियो का एक ढग ।  
४ चीनी मिट्टी का एक वर्तन ।

केली - स्त्री केली, क्रीडा,  
हँमी-मजाक । - क्रि स भू की ।

केले - क्रि स भू किया, कर  
दिया । - न कार्य, काम, किया ।  
मु० - न केलेसे करणे - लापरवाही  
के साथ कोई काम करना, ध्यान न



देना । फहा० आर्षीं केलें मग सांगितलें - पहले किया और फिर दूसरो से करने को कहा ।

फेवटा-वि १ कजूस, मक्खी-चूस । २ छोटा दुकानदार ।

केवडा-पु १. केवडा, केतकी, केवडे का फूल । (सफेद किस्म के केवडे को केवडा और पीले केवडे को केतकी कहते हैं) ।

२ स्त्रियो की वेनी में पहनने का सोने का फल । केवड्याचें कपोस - न केवडेका फूल ।

केवडा - वि कितना, कितना बडा या छोटा, किस कदर ।

केवल - वि १ केवल, शुद्ध, अमिश्र । २ अकेला, असग । - अव्य १ केवल, सिर्फ, मात्र । २ बिलकुल, हरगिज । - प्रयोगी-वि विस्मयादि बोवक (अव्यय)

केवळ - टे 'केवल' ।

केवा\* - पु १ सग्रह, पूंजी । २ नकद रकम । ३ महत्त्व, हैसियत, सामर्थ्य, शान ।

केवि-त्री-वू\* - अव्य कैसे, किस प्रकार, किस ढग से ।

केव्हडा - टे 'केवडा' ।

केव्हा - अव्य १ कव, किस समय । २ कभी भी, बिलकुल, हरगिज । ३ कभी-कभी, बीच-बीच में । - केव्हा - अव्य कभी-कभी । - छ - अव्य तुरत, उसी क्षण, बहुत देर पहले । - चा - वि अव्य कव का, कव से, बहुत देर मे । - तरी - अव्य किसी समय, कभी न कभी । - ना केव्हा - कभी न कभी, एक न एक दिन, किसी न किसी समय । - शीक, - सक, - साक - अव्य १ कव । २ कभी । ३ कव का ।

केश - पु केश, बाल, सिर के

वाल । टे 'केम' । - पाश - पु १ केगपाश, केगसमूह, लटकती हुई लट्टें । २ लटो का फदा, केगरूपी पाश । - वपन - न. केशवपन, बाल कटवाना या मुंडवाना (विशेषत विघ्नोका) । - वाहिनी - स्त्री केगिका, केगनाल । - सबाहन - न वालो को साफ करना ।

केशर - न केसर, जाफरान ।

केशरी - वि १ केसरिया, केसर के रगका, केसर में रंगा हुआ, केसर मिला हुआ, जाफरानी । २ केसरिया बाना पहनकर प्राणो की वाजी लगाने वाला । - भात - पु मीठा चावल, मीठा पुलाव, चीनी, केसर, बादाम आदि डालकर बनाया हुआ चावल ।

केशव - पु केशव, विष्णु, परमेश्वर । - करणी - स्त्री १ विष्णु का पराक्रम । २ ईश्वर की माया । - राव - पु बाल (व्य)

केशाकर्षण - न केगिका-कर्षण ।

केशाकेशी - स्त्री केशाकेशि, दो आदमियो का झगडे ने एक दूसरे के सिरके बाल पकडकर खीचना, नोचना ।

केत - पु केश, बाल, रोआं । टे 'केश' । - करीण - स्त्री ऐमी विधवा जिस के बाल न काटे गये हो । - तूड - न, - तोड - पु बालतोड, बाल टूट जाने से होने वाला फोडा । - भर - अव्य वि १ बाल बराबर, बहुत बारीक, जरा-सा, रतीभर, बालबाल । २ बिलकुल, तनिक भी, हरगिज । मु० - काढणें - बाल काटना या कटवाना । - विचरणे - कधी करना, बाल संवारना । केसानें

गळा कापर्णे - मीठी छुरी चराना, दोस्ती के परदे मे गला काटना, दगा करना । केसाला धक्का लागू न देणें - बाल बांका न होने देना । किसी प्रकार की हानि न होने देना । कहा० केस काढल्यानें मडें हलकें होत नाहीं - बाल मूंडने मे शत्रु का बांध कम नही होता, थोडी-सी मदद मे कोई लाभ नही होता ।

केस - स्त्री [म] १ केस, मामला, मुकदमा । २ लकडी की खानेदार किन्ती जिसमे छापे के टाइप ग्वे जाते हैं । ३ बीमार, रोगी, रुग्ण । ४ किमी चाम रोग से होन वाली मृत्यु ।

केसर - पु न १ केसर, फूल के बीच का मीका या रेशा । ३ मिह या घोडे को गर्दनपर का बाल, अयाल । ४ मौर, वौर, मजरी ।

केसरी - पु केसरी, मिह ।

केसरी - वि १ दे 'केसरी' । २ रेखेदार, रेशे वाला ।

केसाळ - वि घने बालो वाला, झवग, लवे और मव ओर विखरे हुए बालो वाला ।

केहरवा\* - दे 'केरवा' ।

केळ - स्त्री केले का पेड । - न नौ गज की साडी पहनते समय पेडू के पाम बनायी जाने वाली केले के आकार की गांठ । दे 'केळें' । - फूल - न केले का फूल जो घोंद के छोर पर रहता है ।

केळवण - न [क 'केलवु'] ब्याह से पहले कन्या और वर को मित्रो या रिश्तेदारो द्वारा दिया जानेवाला प्रीतिभोज और उपहार, दे 'गडगनेर' ।

केळवणें\* - क्रि स १ विवाह

के पहले कन्या-वर को प्रीतिभोज देना। दे केळवण'। २ सजना, वस्त्राभूषण से अलकृत होना।

केळवली - स्त्री वह वधू जिसे विवाह से पहले प्रीतिभोज दिया जा चुका हो।

केळा<sup>+</sup> - पु. मिट्टी का घडा, मटका।

केळावणें - दे 'केळवणें'।

केळी<sup>+</sup> - स्त्री गगरी, धातु या मिट्टी का छोटा घडा।

केळी - स्त्री केले का पेड।

केळें - न केला (फल)। दे 'केळ'। मु० केळीं खावयास जाण - पु प बैठना, कोई प्रतिकार न करना।

कै - \* १ कव। २ कहाँ। - वि अनक, कई।

कैचा\* - वि १ कौल-सा। २ कहाँ का। ३ कैसा।

कैची - दे. 'कैची'।

कैवार दे 'कैवार'।

कैसा\* - टे 'कैसा'।

कै\* - अव्य १ कव। २ कहाँ। - वि कई, अनेक।

कक - वि कई, अनेक, कितने ही।

कैकाडी - पु १ एक खाना-वदोश जाति, इस जाति के लोग वाँस के टोकरे आदि बनाते हैं। २ साँमी, एक जरायमपेशा जाति, इस जाति के लोग भीख माँगते और चोरी-डकैती करते हैं। ३ मदारी, वदर-भालू नचाने वाला।

कैकाडीण - स्त्री १ 'कैकाडी' की पत्नी, दे 'कैका'। २ कर्कशा स्त्री, डाइन, चुडैल।

कैचा - टे 'कैचा'।

कैची - स्त्री [तु 'कैची']

म हिं श को १४

१ कैची, कतरनी। २ दो लड-कियाँ जो कैची की शकल में वैधी या जड़ी हो। ३ कुश्ती का एक पेंच। मु कैचीत घरणें, पकडणे - जाल में फँसाना, कठिनाइयों में डालना, पकड में लाना।

कैतव - न कैतव, कपट, धोखा, छल।

कैद - स्त्री [अ 'कैद'] १ कैद, वधन, प्रतिवध। २ कारावास। ३ अनुशासन। ४ नियंत्रण। - वि वंधुआ, वदी, कैदी, कैद की सजा भोगने वाला। - खाना - पु कैदखाना, वदीगृह, जेल-खाना।

कैदाशीण, कैदासीण - स्त्री [अ 'कैद'] कर्कशा स्त्री, डाइन, चुडैल।

कैदी - वि [अ 'कैदी'] कैदी, वदी, कैद की सजा भोगने वाला, वंधुआ।

कैपक्ष - पु १ हिमायत, समर्थन, पक्षपात, तरफदारी। २ पक्ष। [दार, हिमायती।

कैप १ - वि समर्थक, तरफ-

कैफ - पु [अ 'कैफ'] १ कैफ, नशा, मस्ती। २ भाँग, अफीम आदि नशीली चीजें। ३ नशा लाने का गुण।

कैफियत - स्त्री [अ 'कैफी-यत'] १ कैफियत, कैफीयत, लिखित जवाब। २ मामले का विवरण, हाल। ३ मामला, मुकदमा। ४ मुकदमे में प्रतिवादी का उत्तर, मुद्दालेह का जवाब। ५ असली दस्तावेज, अधिकार-पत्र। ६ वर्णन, व्योरा।

कैफी - वि [अ 'कैफी'] १ नशेवाज, नशाखोर। २ नशीला, नशा लाने वाला।

कैरा - वि १ कैरा, भूरा। २ भरी आँखों वाला, कजा। ३ काना, भेंगा, ऐँचाताना, टेरा।

कैरी - स्त्री अँविया, टिकोरा, कच्चा आम।

कैलास - पु कैलास; हिमालय की एक चोटी जो पुराणों में शिव और कुबेर का वासस्थान मानी गयी है। - वासी - वि स्वर्गीय, मृत, मरहूम। मु - उतरणें, - मिळणे, - येणें - बहुत बड़ा लाम होना। कैलासाला डोकें लागणें - आसमान छूना, घमडसे फूल उठना।

कैवर्त, कैवर्तक - पु १ कैवर्त, कैवर्तक, केवट। २ मछुआ; मछली-मार।

कैवल्य - न १ कैवल्य, सायुज्य, मोक्ष। २ केवलता, असग, अकेलापन। - दानी - वि पु मोक्ष देनेवाला, ईश्वर। - धाम, - निधान - न मोक्ष का स्थान, परमेश्वर। २ मुक्ति - सदन, मोक्ष। - पद - न १ सायुज्य मुक्ति। २ दे 'कैवल्य-धाम'।

कैवाड\* - न १ पड्यत्र, कुचक्र। २ तोहमत, झूठा इल-जाम। ३ दे 'कैवार'।

कैवाडी - वि १ धूर्त, चालाक, काँइयाँ। २ कुचक्री। २ दे 'कैवारी'।

कैवार - पु [क] १ समर्थन, तरफदारी, पक्षपात, हिमायत। २ परकार, 'कपास'।

कैवारी - [क 'कवार'] समर्थक, हिमायती, तरफदार, पक्षपाती, सहायक।

कैसा - वि \* कैसा, किस प्रकार का। - अव्य कैसे, किम् तरह।

कंमेनि-नी\* - अव्य कंमे,  
किससे।

कोंकण - न [क 'कुगु']  
कोकण, सह्याद्रि के पश्चिम का  
प्रदेश जो महाराष्ट्र का भाग है।-  
पट्टी - स्त्री कोकण का प्रदेश।-  
स्थ - वि कोकणस्थ, कोकण में रहने  
वाला।- पु महाराष्ट्र ब्राह्मणों की  
एक जाति। मु बँल कोंकणात  
जाणे - दुबल, बूढा, नपुसक हो  
जाना।

कोकणा - वि पु १ कोकण  
का निवासी। २ हिंदू।

कोकणी - स्त्री कोकण की  
भाषा जो मराठी की बोली है।-  
वि कोकण का, दे 'कोकण्या'।

कोकणें - क्रि अ १ भूंकना।  
२ चिल्लाना, चीखना। ३  
किकियाना। ४. कूकना। ५ मुर्गे  
का बोलना, वांग देना।

कोकण्या - वि १ कोकण-  
सवधी। २ कोकण का निवासी  
३ दे 'कोकणस्थ'। [वच्चा।

कोकरू - न मेमना, भेड का  
कोका - दे 'कोका'।

कोकाट - दे 'गोगाट'।

कोक्या - वि कोकणस्थ के  
लिए निदाव्यजक शब्द। दे  
'कोकणस्थ'।

कोग - न [क] १ ढोग,  
स्वांग। २ कूवड।

कोगा - वि [क 'कोग']  
१ मूर्ख, बुद्धू। २ चिडचिडा।  
३ वीमार। ४ कुवडा।

कोगाडा-डी-ड्या - वि [क  
'कोग'] १ ढोगी। २ वहरूपिया,  
स्वांगी, तमाशिया, जो अनेक रूप  
घर कर दिखाता है।

कोगी-ग्या - दे 'कोगा';  
'कोगाडा'।

कोच - स्त्री [हिं 'कोचना']  
१ नोक। २ चोच, नोकदार भाग,  
टोट, ठोर। ३ कोचा, नोकदार  
हथियार का घाव जो पार न हुआ  
हो, हलका ज़ख्म।

कोचणें - क्रि स १ कोचना,  
कोई नुकीली चीज चुभोना। २  
ठूसना। ३ चुटकी काटना, भरना,  
लेना, काटना।

कोचाळें - न [क 'कोचे']?  
१ घेरा, दायरा। २ लट्टू जैसा  
एक खिलौना।

कोजट - दे 'कोझट'।

कोजा, कोझट-डा, कोझा\* -  
वि १ जिसकी आँखें घँसी हुई हो।  
२ घँसी हुई (आँख)। ३ चिड-  
चिडा, रुखा, झक्की, सनकी।  
४ दे 'कोदट'।

कोडणी - स्त्री धिर जाने या  
घेरने की अवस्था, फँसाना, घेरना।

कोडणे - क्रि स. १ घेरना,  
वद करना, फँसाना। २ निकलने  
का मौका न देना, लाचार बनाना,  
असमजस में डालना।- क्रि अ  
घिरना, फँसना।

कोडमारा - पु १. घेर कर  
लाचार बना देना, फँसाना। २  
फँसना। ३ दम घुटना या घोटना,  
दमघुटी। ४ झझट, उलझन।  
५ जिच, मजबूरी, विवशता,  
गतिरोध।

कोडवाडा - पु १ काजीहाउस,  
मवेगीखाना, वह वाडा जिसमें  
दूमरे का खेत आदि खाने वाले या  
लावारिस चौपाये वद किये जाते हैं  
और कुछ दड लेकर छोडे या  
नीलाम किये जाते हैं। २ वांधनी-  
पौरि, पशुशाला।

कोडळें - दे 'कोडळें'।

कोडा - पु १ भूसा, भूसी,

चोकर, घान, चने, मटर आदि का  
छिलका। गेहूँ, जी, ज्वार आदि का  
छिलका जो आटे को छानने से  
छलनी में रह जाता है। २ वालो  
की जडो और शरीर की त्वचा  
पर से निकलने वाली भूसे जैमी  
चीज। ३ खुरड, खुट्टी, पपडी।  
- पाणी - न अन्न-जल। मु०  
कोडचाचा माडा करणें - १ बुरी  
हालत में भी अच्छा काम कर  
दिखाना। २ अपर्याप्त सावनों के  
बावजूद लजीज खाद्यपदार्थ बनाना।  
३ सूखी-रुखी रोटी में खुश रहना।

कोंडा - दे 'कोयडा'।  
कोंडाळणे - क्रि अ १ धूमना,  
चक्कर लगाना, इधर-उधर दौडना।  
२ चक्कर काटते हुए वहना, भँवर  
बनाते हुए जाना (पानी का)।  
३ धिर जाना।

कोंडाळें - न १ घेरा, चक्कर।  
२ थाला, आलवाल। मु० -  
करणें - चारो ओर से घेर कर बैठ  
जाना।

कोंडी - स्त्री १ घेरा, उप-  
रोध, वधन, गतिरोध, जिच,  
मुहासरा। २ धिरी हुई जगह,  
काजी हाउस। ३ घेरने, रोकने का  
स्थान। मु - करणे - घेर लेना,  
गतिरोध पैदा करना।

कोडीव - वि घेरा हुआ, रोका  
हुआ, वद किया हुआ।

कोडणें, कोडवाडा - दे  
'कोडणे', 'कोडवाडा'।

कोत - दे 'कोत'।

कोदट - वि तग ओर गदा,  
दम घोटने वाला, जिसमें बाहर से  
हवा या रोशनी न आती है।

कोदण - न सकोटर, सपुट,  
खाना; घर, 'साकेट'।

कोदणें - क्रि स ठूसना,

ठूसना, दवा-दवाकर भरना, जोर से घुसाना।— क्रि अ भर जाना, वद होना।

कोदाकोदी — छी भीड़, ठसा-ठस, खचाखच, भरा होना, भीड़-भाड़, भीड़ — भडक्का।

कोप — छी, कोपट — न, कोपी — छी [क 'कोप्ये'] १ झोपड़ी, घर, मकान। २ शरीर। ३ मडप, मठपी, मडई, मटैया।

कोपर — दे 'कोपर'।

कोपरा — दे 'कोपरा'।

कोपरी — दे 'कोपरी'।

कोंव — पु [क 'कोवे'] अकुर, अँखुआ, कोपल, कल्ला।  
कोवट — वि कुनकुना, थोडा गरम, गुनगुना।

कोवडसादपहाट — छी तडका; भीर, सुवह का वह समय जब मुर्गा वांग देता है।

कोवडा — पु [दे 'कोव+डा'] १ मुर्गा, कुक्कुट, मुरगा। २ काँसा (एक घास), मुर्गे की कलगी के रग का एक फूल। मु दाणें टाकून कोवडे झुजचिणें — दाना फेंककर मुर्गे को लडाना, अपना पैसा खर्च करके झगडा लगाना। कहा० कोवडा झाकला म्हणून उजाडावयाचें राहात नाही — मुर्गे को छुपाने से भवेरा नहीं रुकता, जो बात अटल है उसे मामूली स्कावटो से रोका नहीं जा सकता।

कोवडी — छी [दे 'कोवडा'] मुर्गी, मुरगी, मुरगेकी मादा, कुक्कुरी।

कोवडें — न [दे 'कोवडा'] १ दे 'कोवडा'। २ मुर्गी का वच्चा, चूजा।

कोंवणें — क्रि स १ ठूसना,

ठूसना, दवा-दवाकर भरना। २ जोर से घुमाना, घुसेडना। ३ पीटना, मरम्मत करना।— क्रि अ कुम्हलाना।

कोवा, कोवारा — दे 'कोव'।

कोंवी — छी अकुर, अँखुआ।

कोभ — पु १ दे 'कोव'। २ स्तभ, खमा।

कोभणें — क्रि अ अँखुआना, अँखुआ फेंकना, अकुर निकलना। — क्रि स दे 'कोवणे'।

कोवसा \* — पु १ आधार, आश्रय। २ ममर्थक।

कोंवळा — वि १ कोमल; नाजुक, सुकुमार, मुलायम, नरम। २ कच्चा, छोटा, हरा, अपक्व। ३ अप्रीठ, अघूरा, अपूर्ण। ४ नया, ताजा। — किरळा — वि छोटा और नाजुक, नन्हा-सा।

कोंवळीक — छी १ नजाकत, सुकुमारता। २ नयापन, ताजगी। ३ मृदुता, नरमी, मुलायमता, कोमलता।

कोइडा — दे 'कोयडा'।

कोई + — दे 'कोय', 'कोवी'।

कोकव, कोकवेल — दे 'कोकम', 'कोकम-तेल'।

कोक — न [क 'कोकके'] १ कूवड। २ कुवडा आदमी।

कोक — पु १ कोक, चकवा, चक्रवाक। २ कोकदेव, कामशास्त्र के एक प्रसिद्ध आचार्य। — न कामशास्त्र। — शास्त्र — न कोकशास्त्र, कामशास्त्र। — शाळा — दे 'नाटक शाळा'।

कोकटहोळी — छी होली से एक दिन पहले बच्चो द्वारा खेली जाने वाली होली।

कोकड — दे 'खोकड'।

कोकम — पु [तु 'कूक' +

'आवा'] कोकण में पाया जाने वाला एक पेड़। इसके फल को 'कोकव' या 'रातावा' कहते हैं। यह लीची की तरह खटमीठा और गुलाबी रंगका होता है। इसकी छाल को सुखाकर अमचूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसे 'अमसोल' कहते हैं। — तेल — कोकव के बीजो का तेल। — साल, — सोल — छी सुखाये हुए कोकव की छाल।

कोकलणें क्रि अ १ चिल्लाना, चीखना। २ रोना-वोना, किकियाना। ३ कोसना, शिकायत करना, वुरा-भला कहना। — क्रि स कुचलना, रौंदना, पीटना।

कोका — पु १ केले का फूल, सुपारी का फूल। २ किकरी, छोटा चिकारा। ३ वगुला। ४ पगडी की नोक, चोच।

कोकाटघा — वि चीखने-चिल्लाने वाला।

कोकिला — छी कोकिला, कोयल। — व्रत — न आपाठ के मलमास में कोयल का शब्द सुनने पर भोजन करने का महिलाओ का एक व्रत।

कोकिल — पु कोकिल, कोयल। — कठी — वि कोकिलकठी, कोयल के से गले, आवाजवाला-ली।

कोकिल्ला — दे 'कोकिला'।

कोकी — छी पगडी आदि की, चोच।

कोको — पु [अ] कोको, चाय जैसा एक पेय, इसी नामका एक पेड़ और उसके फलो (बीजो) का चूर।

कोच — पु [अ] १ कोच, गहेदार पलग, कुरसी या बेंच। २ एक तरह की बग्घी, घोडागाडी। ३ रेल का डिब्बा। — मन, —

मिल, - मीन - पु कोचवान, घोडागाडी हाँकने वाला ।

कोच - स्त्री दे 'कोच' ।

कोचाट; कोचा - वि तग, सँकरा ।

कोचणें - दे 'कोचणे' ।

कोचा - पु कोचनी, कोचने का साधन ।

कोचाळें - दे 'कोचाळें' ।

कोची - स्त्री दे 'कोच' ।

कोजागर - पु, कोजागरी - स्त्री, कोजागिरी - स्त्री कोजागर, शरत्पूर्णिमा, शरत्पूर्णिमा को होने वाला एक त्योहार ।

कोटवा<sup>+</sup> - पु १ श्री खडोवा नामक देवता के भक्त का भिक्षापात्र जो लकड़ी का होता है, कजकोल । २ लकड़ी की नाँद, कठीता ।

कोट - पु १ कोट, गढ, दुर्ग, किला । २ चहारदीवारी, परकोटा । ३ ताश के खेल में लगातार सात हाथ लेना । - गिरी - स्त्री घेरा, मुहासिरा ।

कोट - वि कोटि, करोड ।

- कल्याण - न बहुत बडा लाम, कल्याण, मगल ।

कोट - पु [अ] कोट, अग्रेजी ढग का एक पहनावा । - पाटलोण - स्त्री कोट - पतलून, युरोपीय पहनावा, साहवी पोशाक ।

कोटगा - दे 'कोडगा' ।

कोटणीस - दे 'कोठनीस' ।

कोटर - न कोटर, पेड के तने का खोखला भाग ।

कोटि - स्त्री १ करोड की सख्या । २ श्रेणी, दर्जा; वर्ग । ३ श्लेष, शब्दक्रीडा, अनेकार्थक शब्द, नमोक्ति, रसिकोक्ति; सूझ । ४ समकोण त्रिभुज की खडी

रेखा, १० अङ्के चाप के दो समान भागो मे से एक । ५ वनुप की नोक, मिरा । ६ विचार, कल्पना; वात । - क्रम - पु १ युक्ति, दलील, खूबी । २ श्लेष, शब्दक्रीडा, नमोक्ति । - ज्या - स्त्री कोटिज्या, कोज्या । - श - वि अव्य कोटिश, करोडो, करोडो वार या तरह से । मु० - उभविणें - झडा गाडना, खडा करना । - क्रम लढविणे - दलीले देना, तरकीब करना । - ध्वज लावणें - करोडपती बनना ।

कोटी - स्त्री दे 'कोटि' । - बाज - वि नर्मभाषी, ठठोल, शब्दक्रीडा करने वाला ।

कोटघघीश; कोटघाघीश - वि करोडपती ।

कोटघवधी, कोटघावधी - वि करोडो; अनेक, अनगिनत ।

कोठचा - वि १ कहाँका । २ कौन-सा, कैसा ।

कोठडो - स्त्री कोठरी, छोटा कमरा ।

कोठनीस - पु [म 'कोठी' फा 'नवीस'] कोठारी, भडारी, कोठीवाला, भडार का सचालक या अधिकारी ।

कोठपर्यंत, कोठपावेतो, कोठवर - अव्य कहातक, किस हद तक, कव तक ।

कोठला - वि १ कहाँका । २ कौन-सा, कैसा ।

कोठवळा - दे 'कोठावळा' ।

कोठा - पु १ कोठा, कोठार, भडार, वखार । २ पेट, आमाशय, भेदा । ३ खाना, घर; कोष्ठक । ४ सिलाई के कपडे का पीठ और छाती पर का हिस्सा ।

५ घोसला, नीड । ६ कोठी, बढूक की वह जगह जहाँ वारूद रहती है । ७ फौवारे का वह भाग जिस मे पानी रहता है । ८ नीला रग बनाते समय नील के पीसो को भिगोने की नाँद । ९<sup>+</sup> अग, वटिताश, नियत परिमाण, 'कोटा' । कोठार - न १ कोठार, भडार, वखार । २ पछी का घोसला, नीड ।

कोठारी - पु कोठारी, भडारी ।

कोठावळा - पु कोठारी, भडारी । फहा० खरचणान्याचें खरचणें व कोठावळघाचें पोट दुखतें - खर्च करनेवाले का खर्च हो जाता है, पर कोठारी का पेट दर्द करता है । मालिक तो खुशी से देता है, मगर नौकर अडगा लगाता है ।

कोठी - स्त्री १ कोठा, वखार, कोठार, खजाना, भडार । २ कोठी, हवेली, अमीर या रईस का आवास । ३ कारखाना; थोक विक्री की दुकान, वह मकान जहाँ लेन-देन या बडे पमानेपर कोई कारखार हो । ४ हीज, पीपा । ५ बढूक की वह जगह जहाँ वारूद रहती है । ६ शरीर का एक भाग (जिनकी सख्या ७२ है) । - वाला - पु १ कोठीवाल, लेन-देन करने वाला महाजन । २ दे 'कोठावळा' ।

कोठील - वि कहाँका ।

कोठून - अव्य कहाँसे ।

कोठें - अव्य १. कहाँ, किस जगह । २ कही भी, किसी जगह । ३ कव । - कोठें - अव्य कही कही । फहा० - इद्राचा ऐरावत, कोठें शामभटाची तट्टणी - कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ।

कोड - पु न १ कोड, कुष्ठ ।  
२ श्वेत कुष्ठ, सफेद कोड ।

कोड - न १ प्यार, दुलार,  
लाड । २ शौक, आनंद, मौज । -  
कौतुक - न लाड-प्यार, लाड-  
चाव, प्यार - दुलार । मु. - पुरविणों  
- लाड लडाना, प्यार से देना ।

कोड - न [ अ ] 'कोड',  
नियम-संग्रह, कानून की किताब ।  
कोडगा - वि [ क 'कोडग' ]  
१ निलज्ज, वेशर्म, बेह्या,  
निगोडा । २ पिटा हुआ, लत-  
खोरा ।

कोडत - न [ अ 'कोर्ट' ]  
न्यायालय, अदालत, 'कोर्ट' ।

कोडवळें, कोडवुळें, कोडवोळें  
- न [ अ 'कोडु' + 'वल्लि' ]  
चने की दाल, चावल, ज्वार,  
आदि चार पांच प्रकार के  
अनाजों को भूनकर उनके आटे को  
तलकर बनायी हुई जलेबी के  
आकार की एक नमकीन मिठाई,  
सतनजा ।

कोडिसवाणा\* - वि सुदर,  
मनोहर, दिलकश, खूब सूरत ।

कोडी - स्त्री १ कोडी, बीस  
का समूह, बीसी । २ कोटि,  
करोड (सख्या) । ३ अनेक  
पक्तिर्यां । ४ ढग, तरह, तरीका ।  
५ ऊचाई, गहराई (ज्या)

कोडी - वि कोठी, कुष्ठ-  
रोगसे पीडित । - खाना - पु. कोठी  
घर, कुष्ठालय ।

कोडे - न १ पहेली, बुझी-  
बल, समस्या । २ कूट, जटिल  
प्रश्न । ३ जिच, गतिगेष, सकट ।  
४ जादू, टोना । मु. - उलगडणे -  
कोई बात समझ मे आना, समस्या  
का हल होना । - घालणे - पहेली  
बुझाना ।

कोडघा - ढघा - वि कोठी,  
कुष्ठ से पीडित ।

कोण - सर्व १ प्रश्नवाचक  
सर्वनाम, कौन, कौन - सा । २  
कितना । ३ क्या । - वि अव्य.  
अत्यधिक, बहुत ही । - एक -  
सर्व कोई । - पदार्य - वि तुच्छ,  
क्षुद्र । - सा - वि कोई, फर्ला ।  
मु - जाणे - न मालूम, भगवान्  
जाने, क्या जाने, कौन जाने ।  
कोणाचा कोण - किसका कौन,  
बहुत दूरका (रिश्तेदार),  
जिसका कोई सवध न हो,  
तुच्छ, क्षुद्र । कहा कोणाचा कोण,  
पितळेचा होण, साडला (सापडला)  
तर शोधतो कोण - कौन किसका,  
पीतल का सिक्का, खो जाय तो  
खोजे कौन ? (मिल जाय तो उसके  
मालिक को खोजे कौन ?) । तुच्छ  
व्यक्ति की कौन परवाह करता है ।  
कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात  
नाहीं - बडी अव्यवस्था, गडबडी  
या अँधेरे होना ।

कोण - पु. कोण, कौन ।

कोणाचा, कोणता - वि १  
कौन, कौन-सा । २ चाहे जो । -  
का - वि चाहे जो, कोई भी ।  
मु कोणत्या झाडाचा पाला - किस  
पेड (झाड) की पत्ती, किस  
चिडियाका नाम, बहुत तुच्छ  
व्यक्ति या बात । कोणत्या तोंडानें -  
किस मुँहसे, कौन-सा मुँह लेकर,  
विना झिझक या शर्म के ।

कोणी - सर्व. १ कोई, कौन,  
अज्ञात, अनिदिष्ट वस्तु या व्यक्ति ।  
२ चाहे जो एक । ३ किसने ।  
- एक - वि कोई, कोई भी । -  
कडून - अ १. कहाँ से,  
कही से । २ किसी तरह । - कडे -  
किधर, किस ओर, तरफ, कहाँ ।

- का - सर्व. चाहे जो, कोई भी । -  
कोणी - सर्व कोई-कोई; कुछ  
लोग । - तरी - सर्व कोई भी,  
चाहे जो । - वि साधारण;  
मामूली, क्षुद्र, ऐरा - गरा । -  
ना कोणी - सर्व कोई न कोई,  
चाहे जो एक ।

कोणे एके काळीं - अव्य किसी  
समय, पुराने जमाने में, बहुत वरस  
बीते ।

कोण्या\* - सर्व किस, किसी,  
कोणही\* - दे. 'कोणी' ।

कोत\* - पु. १. भाला, बरछी,  
भाले का फल । २ वाँस का अकुर ।  
- काती - स्त्री भाला । - कार -  
पु. बरछत, भालावरदार ।

कोतमीर\* - दे 'कोथिवीर' ।

कोतवाल - पु. १. कोतवाल,  
ज़िले के मुख्य नगर का पुलिस  
अफसर जिसके मातहत वहाँ के  
सब थानेदार और थाने होते हैं ।  
दारोगा, फौजदार, पुलिस-  
सुपरिंटेंडेंट । २ कोतल, जुलूस आदि  
के साथ सजासजाया, खाली चलने  
वाला घोडा । ३ ऐसे वस्त्र, अलकार  
आदि जो खास मीक्रोपर ही काम  
में लाये जायें । - चावडी - स्त्री  
कोतवाली, कोतवाल का दफ्तर,  
नगर का केंद्रीय थाना ।

कोता - वि [ फा 'कोताई' ]  
कोताह, तग, अधूरा, त्रुटिपूर्ण,  
कम, छोटा, थोडा, सकीर्ण,  
सकुचित ।

कोताई - स्त्री [ फा 'कोताही' ]  
कोताही, तगी, सकीर्णता, त्रुटि,  
खामी, न्यूनता ।

कोथवरी, कोथिवीरी, कोथ-  
मीर - दे 'कोथिवीर' ।

कोथळा - पु. १ नोथला, बडा  
थैला, बोरा । २ पेट, कोठा,

मेदा, आंत, ओझर, आमाशय ।  
कोथळी - छी १ कोथली,  
बोरी । २ दे 'कोथळा' । ३ छ  
मन का गोन । ४ + महालक्ष्मी का  
मुखौटा विठाने के लिए वनायी हुई  
मिट्टी की बैठक ।

कोथिवरी, कोथिविरी, कोथि-  
बीर - छी घनिया, हरी घनिया,  
घनिया का पीघा ।

कोदड - न १ कोदड, धनुष् ।  
२ भौंह । ३ बहुत बडा सकट,  
आफत । - वि उद्धत, झगडालू ।

कोदा - पु हलका और गदा  
काम, ऐसा काम जिस मे बहुत  
और तकलीफ उठानी पडे ।

कोद्रव, कोद्रू - पु कोदो,  
कोदो, सांवे की जाति का एक  
मोटा अन्न ।

कोन - पु १ कोन, कोना । २  
प्रसूति, प्रसव । ३ प्रसूता, जच्चा  
के कपडे, खटिया, वर्तन आदि ।  
४ कोण, कोना । दे 'कोना' । -  
विट्टु - पु शीर्ष, मूर्वा, 'वर्टेक्स' ।  
- मापक - पु कोणमापक, चाँदा ।  
- शिला - छी कोणशिला, कोने  
का पत्थर, अनिवार्य आधार ।

कोना - पु १ कोना, कोण,  
गोशा । २ खूंट, कोना, मकान  
के बाहरी कोने में लगाया जाने  
वाला पत्थर, कोणशिला, कोने  
का पत्थर । - रोपरा - पु १.  
कोना-अंतरा, घर का कोना -  
कछोला । २ उभरा हुआ भाग ।  
- कोपन्याचा, - कोपन्यातील -  
वि इधर उधर पडा हुआ, क्षुद्र,  
वेकार, मामूली ।

कोनाडा - पु ताक, ताखा,  
आला ।

कोप - पु १ कोप, क्रोध,  
नाराजी, रोप, गुस्सा । २ दे

'प्रकोप' । मु० कोपास चढणे -  
गुस्सा होना, नाराज होना ।

कोप - पी - छी, कोपट - न  
[ क 'कोप्पे' ] १ झोपडी, घर,  
मकान । २ मडप, मडई, मडैया ।  
३ शरीर ।

कोपट - दे 'कोपिष्ट' ।  
कोपणे - क्रि अ कोपना,  
कुपित होना, नाराज होना, कोप  
करना, क्रुद्ध होना ।

कोपर - पु कुहनी, कोहनी,  
बाहु और भुजा का जोड । -  
खळी - छी १ टहोका, कुहनी  
से दिया जानेवाला घक्का । २  
ताना, व्यग, चुटकी । मु०  
कोपरापासून नमस्कार - दूर से  
दडवत, खुदा की पनाह, ईश्वर  
वचाये । कोपरापासून हात जोडणे -  
१ बडी नम्रता से प्रणाम करना ।  
२ दूर रहना या दूर रहने की  
प्रार्थना करना, दूर रखना ।

कोपरा - पु १ कोन, कोना,  
गोशा, वह स्थान जहाँ दीवारें  
मिलती हो । २ खूंट, कोना, मकान  
के कोने पर लगाया जाने वाला  
पत्थर । ३ नुक्कड, नाका । मु०  
- धरणे - १ कोने में बैठ जाना,  
रूठना । २ कपडो से होना ।  
(स्त्रि) ।

कोपरी - छी आधी बाँह की  
कुर्ती, ीम - आस्तीन ।

कोपिष्ट - वि गुस्सैल, गुस्सा-  
वर, क्रोधी, जिसे जल्द गुस्सा आ  
जाय ।

कोपी - छी दे 'कोप' । - वि  
दे 'कोपिष्ट' ।

कोवा - पु [ फा 'कोव' ]  
गच, छत बनाने का ममाला,  
चूना, गारा, ईंट के टुकडे, ककड  
आदि का मिश्रण ।

कोवी - पु [ पुतं 'कोजवे',  
अ 'कैवेज' ] गोभी; गाँठ गोभी,  
करमकल्ला । - चा गड्डा - पु करम-  
कल्ला, बदगोभी ।

कोम - छी [ अ 'कौम' ]  
१ जीजा, पत्नी, स्त्री । - अव्य  
जीजए । लिखापट्टी मे इस शब्द का  
प्रयोग विधवा स्त्री के नाम के  
आगे और उसके पति के नाम से  
पहले किया जाना है । उदा० सीता-  
वाई कोम रामचंद्र गोखले अर्थात्  
रामचंद्र गोखले की पत्नी सीता-  
वाई । इस शब्द का प्रयोग ऐसी  
जातियो मे होता है जिनमे  
विधवा - विवाह निषिद्ध है, अत  
खास करके ब्राह्मणो में इसका  
इस्तेमाल किया जाता है । अन्य  
जातियो मे 'जवज' (जीजए) का  
प्रयोग होता है । इधर इन शब्दो का  
रिवाज कम हो गया है । २ क्रौम,  
जाति ।

कोमजणे - दे 'कोमेजणे' ।  
कोमट - दे 'कोवट' ।  
कोमटी - पु [ क 'कोमटि' ]  
१ आद्य - कर्नाटक की एक वैश्य  
जाति और उस जाति का व्यक्ति ।  
२ अर्धामिक, नास्तिक ।

कोमडा-डी-डें, कोमणें - दे  
'कोमडा-डी-डें', 'कोवणे' ।

कोमल - छ - वि १ कोमल,  
नाजुक । २ नरम, मुलायम,  
मृदु । ३ मधुर । ४ अपरिपक्व,  
कच्चा । ५ मनोहर । ६ दयार्द्र,  
रहमदिल, नरम दिल वाला ।  
- स्वर - पु शुद्ध स्वरो की अपेक्षा  
निचली ध्वनि का स्वर, गान के  
तीन प्रकार के स्वरो में से एक ।

कोमलणें, कोमाइणें, कोमा-  
यणें, कोमाचणें - दे 'कोमेजणें' ।  
कोमेजणें - क्रि अ १ मु-  
-

ज्ञाना, कुम्हलाना, ताजगी, प्रफुल्लता का न रहना, सूखने लगना । २ पिघलना, पसीजना । दया से आर्द्र होना ।

कोयडा - पु १ कोडा, लोहे, पीतल आदि का छल्ला जिसमें ज़ीर या कोई चीज़ अटकायी जाय । २ सिटकनी, चटखनी ।

कोय - स्त्री १ गुठली, कुसली, (आम, जामुन आदि) फल का कडा और कुछ बडा बीज । २ अडकोप, फोता ।

कोयता - पु [क 'कोयित'] कत्ता, वांका, हँसिया, गँडासा, बंसफोरो का वांस काटने का एक अर्धचन्द्राकार औज़ार ।

कोयती - स्त्री [दे 'कोयता'] छोटा कत्ता या वांका, हँसिया, गँडासा ।

कोयनेल - न [अ 'क्विनाइन'] कुर्नन, एक कडवा सत जो प्राय मलेरिया के ज्वर में दिया जाता है ।

कोयरी - दे 'कुइरी' ।

कोया<sup>+</sup> - पु १ एक पक्षी । २ इस पक्षी की दर्दभरी चीख - पुकार । मु० - करीत हिंछणें - दरदर भीख माँगना, गिडगिडाते हुए धूमना ।

कोयाळ\* - स्त्री कायल, कोकिला ।

कोर - स्त्री १ कोर, किनारा, हाशिया । २ वार, धारा, धारी । ३ लेखा, रेखा, (उदा० चद्राची कोर = चद्रलेखा) । ४ दे 'चतकोर' । ५ मीमा, हृद । ६ कोर, निवाला । - दार - वि कगूरेदार । - दृष्टि - स्त्री तिरछी नज़र । - भर - वि एक चौथाई (टुकडा), बहुत थोडा ।

कोरट - न [अ 'कोर्ट'] अदालत, न्यायालय, 'कोर्ट' । - फचेरी - स्त्री अदालतवाजी, मुकदमेवाजी ।

कोरड - स्त्री [क. 'कोरद'] १ कठगोप, ढुकास, गले का सूखना । २ खुश्की, सूखापन, रूखापन । - वट, - वाहू - वि वारानी, वर्षापर अवलवित, मीची न जा मकनेवाली (फसल, जमीन), शुष्क (भूमि) । मु० - पडणे - गला सूखना, गला खुश्क होना ।

कोरडणें\* - क्रि अ [दे 'कोरड'] सूखना, खुश्क हो जाना ।

कोरडवट, कोरडवाव-वू, कोरडवाही-हू - दे 'कोरड' में ।

कोरडा - वि [दे 'कोरड'] १ सूखा, शुष्क, खुश्क । २ रूखा, जिस के साथ और कुछ न हो, खाली (तनरूखाह, रोटी) ३ औपचारिक, दिखावटी, ऊपरी, निरर्थक, बेकार । - अव्य व्यर्थ, नाहक । - अधिकार - पु नाममात्र का अधिकार, अवैतनिक नौकरी या ओहदा । - अभिमान - पु खोखला गर्व, अज्ञानयुक्त अहकार । - आग्रह - पु ऊपरी, दिखावटी आग्रह । - खडक - पु दे 'कोरडा पाषाण' । - पगार - पु नकद तनरूखाह (भोजन आदि न दे कर केवल पैसे देना) । - पाषाण - पु १ मजबूत, कडा पत्थर । २ ऐसा व्यक्ति जिम पर उपदेश का कोई असर नहीं होता, केवल दूसरो को उपदेश देने वाला । (कहा० लोका सागें ब्रह्मज्ञान । आपण कोरडे पाषाण - औरो को तो ज्ञान की बातें बताता है, पर स्वयं उनसे

कोसो दूर रहता है) । - मान - पु औपचारिक, दिखावटी सम्मान । दे 'कोरडी', 'कोरडें' ।

कोरडा - पु [क 'कोरडु', हि 'कोडा'] १ कोडा, चाबुक । २ मार, आघात । मु० - ओढणें - कोडा लगाना, मारना ।

कोरडी - वि स्त्री [दे 'कोरड'] सूखी, खुश्क, दे 'कोरडा' । - आग - स्त्री बहुत बडी आग, सूखा, । कहा० कोरडी आग पुरवते पण ओली आग पुरवत नाहीं - आग वर्दाश्त की जा सकती है, पर अतिवृष्टि से पडने वाला अकाल वर्दाश्त नहीं किया जा सकता । - ओकारी - स्त्री मतली मालूम होना, पर वमन न होना । - चाकरी - स्त्री १ भोजन आदि न ले कर केवल वेतन ले कर की जाने वाली नौकरी । २ अवैतनिक सेवा । - दाहू - स्त्री वारूद । - प्रतिष्ठा - स्त्री दे 'कोरडा मान' । - भिक्षा - स्त्री चावल, गेहूँ आदि अनाजो के रूप में दी जानेवाली भिक्षा । - ममता, - माया - स्त्री दिखावटी प्रेम, ऊपरी स्नेह । - मेजवाती - स्त्री मिठाई, फल आदि का भोजन । ऐसा भोज जिस में कच्ची रसोई न हो ।

कोरडें - वि न [दे 'कोरड'] सूखा, खुश्क, दे 'कोरडा-डी' । - न १ ऐसा काम जिसमें पानी का सबब न हो । २ मामूली काम । ३ दे 'कोरडी चाकरी' । - खाणे - न सूखी खाद्य वस्तुएँ, भोजन के पदार्थों को छोड कर अन्य पदार्थ । - बोलणे - न ऊपरी, दिखावटी बातें । मु० - खाणें - आवश्यक वस्तुओ का अभाव महसूस करना । कहा० कोरडघावरोवर



ओलेंहि जळतें - गेहूँ के साथ घुन भी पिसते है ।

कोरणी - छी , कोरणे - न  
१ खोदनी, खोदने का औजार ।  
२ खोदना, खोदने का काम ।

कोरणे - क्रि स [ क  
'कोरि-रे' ] १ खोदना, खुर-  
चना, कुरेदना । २ लकड़ी आदि  
को कुरेद कर चित्र उरेहना, बनाना,  
नक्काशी करना । ३ कान, दाँत  
आदि के अदर का मँल निकालना ।  
मु० दात कोरून पोट भरणें - थूको  
सत्तू सानना, बहुत कजूसी से काम  
चलाना । कहा० दात कोरून पोट  
भरत नसतें, नाहीं - ओस चाटे  
प्यास नहीं वृक्षती, थूक से सत्तू  
नहीं सनता ।

कोरफड - छी धीकुआर,  
धीकुवार, ग्वारपाठा ।

कोरवू - पु. [ क 'कुरुव' ]  
गाँव के लेहनादारो मे मे एक, ये  
गडरिये होते है । यात्रियो का बोझ  
ढोना, उनके रहने का प्रवध करना,  
लगान वसूल करना आदि काम ये  
करते है । [ 'कोरम' ]

कोरम - पु [ अ ] गणपूर्ति,  
कोरळ<sup>+</sup> - पु पीला कचनार ।  
कोराटी - छी कटसरैया ।

कोरा - वि १ कोरा, ताजा;  
नया, न वरता हुआ, जो घुला  
न हो, जिस पर पानी पडा न हो ।  
२ अपढ, अनभिज्ञ, मूर्ख, नौसि-  
खुवा । ३ जिस पर कोई असर न  
हुआ हो, सस्कारहीन । ४  
खालिम, शुद्ध, वेमेल । ५ (ऐसी  
चाय) जिममें चीनी या दूव न  
पडा हो । - करकरीत - वि विलकुल  
कोरा, माँडीदार (कपडा) ।

कोरान्न - न १ भोजन की  
अमिद्ध, कच्ची सामग्री (चावल,

दाल, आटा आदि) । २ ऐसी  
कच्ची सामग्री जो भिक्षा के रूपमे  
दी जाय, सीधा ।

कोरीव - वि [ क 'कोरिन्ट' ]  
खुदा हुआ, कुरेदा हुआ, सुदर,  
वढिया । - ठोकळा - पु. ठप्पा,  
'व्लाक' ।

कोरी - वि छी कोरी, दे  
'कोरा' । - छी खराव जमीन ।  
- सवाशीण - छी ऐसी सुहागिन  
जो अभी ऋतुप्राप्ता न हुई हो ।

कोर्ट - न [ अ ] १ अदालत,  
न्यायालय, 'कोर्ट' । २ न्याया-  
धीश । - कचेरी - छी १ अदा-  
लत । २ सगडा, नालिश ।

कोन्हाटी - दे 'कोराटी' ।  
कोलची - छी एक जाति की  
मछली । [ 'कोली' ]

कोल, कोलण - णी - दे  
कोलणें - क्रि स [ क 'कोलु' ]  
१ गुन्ची पर गुल्ली रखकर उसे  
डडे मे उछालना । २ अपनी जिम्मे-  
दारी को दूसरो पर डालना,  
टालमटोल करना । ३. इनकार  
करना, निकाल देना, हटाना,  
भगाना । ४ हराना ।

कोलती - दे 'कोलीत' ।  
कोलदाडा - पु [ क 'कोलु' +  
स 'ड' ] १ अडगोडा । २  
सजा का एक तरीका । ३ अडगा,  
वाधा, रकावट । मु - घालणे -  
अडगा डालना, लगाना ।

कोलनवाटर - न [ अ ] वासव-  
सलिल, एक प्रकार का इत्र,  
'कोलोन वाटर' ।

कोलमडणें - क्रि अ [ क  
'कोले' ] गिरना, ढहना,  
लडखडाना । - क्रि स. गिराना,  
ढहाना ।

कोलवणें - दे 'कोलणे' ।

कोलवाकोलव - छी [ क  
'कोलु' ] १ टालमटोल, लापर-  
वाही । २ वार-वार एक जगह से  
दूसरी जगह ले जाना ।

कोलांटी - छी [ क 'कोलु' ]  
कलावाजी, लीटनिर्या, कलैया । -  
उडी - छी कलावाजी, कलैया ।  
मु० - नारणें - कलावाजी, कलैया  
भारना, खाना ।

कोला<sup>+</sup> - दे 'कोल्हा' ।  
कोलाटी - दे 'कोल्हाटी' ।  
कोलाहल - पु कोलाहल, शोर-  
गुल, हगामा, हल्ला ।

कोली - छी [ क 'कोलु' ]  
गुन्ची, गुल्ली डडा खेलने के लिए  
जमीन में बना हुआ बहुत छोटा  
गढा ।

कोल्हा - पु सियार, गीदड,  
स्यार, शृगाल । - वि धूर्त,  
चालाक । मु० कोल्हाचें तोड  
वधणें - शुभशकुन होना, अचा-  
नक लाभ होना । कहा. कोल्हा  
काकडीला राजी - गीदड ककडी  
पर राजी हो जाता है । क्षुद्र  
व्यक्ति छोटी-सी वस्तु पा कर खुश  
हो जाता है । कोल्हा - कोल्हीचें  
लग्न - जव धूप और वर्षा एक-  
साथ हो उस समय ऐसा कहा  
जाता है कि गीदड - गीदडीकी  
शादी हो रही है ।

कोल्हाट, कोल्हाट - न. [ क  
'कोलु' ] नटविद्या, नटो का  
खेल, कलावाजी ।

कोल्हाटी, कोल्हाटी - पु. १  
नट, कलावाज, गा-वजाकर या  
तरह तरह की कसरते या खेल -  
तमाजे आदि दिखा कर जीवनयापन  
करने वाली एक जाति । २ मदारी,  
वाजीगर ।

कोल्हाटीण, कोल्हाटीण - छी

नटनी, नट जाति की स्त्री ।

कोल्हापुरी - वि कोल्हापुर शहर या जिले का । - माप - न. बहुत बड़ा माप, बड़ा जूता, चप्पल आदि ।

कोल्हार\* - पु कुम्हार । - न १ गुहा, गुफा । २ किवाड़ ।

कोल्हाळ\* - दे 'कोलाहल' ।  
कोल्ही - स्त्री गीदडी, शृगाली । - वि गीदड के रंग की भेड़ ।

कोल्हे - न सियार, स्यार, गीदड । दे 'कोल्हेकुई' ।

कोल्हेकुई - स्त्री हुआँ, गीदड का बोलना ।

कोल्हेरी\* - वि १. कुम्हार सबधी । २. मिट्टी का ( चित्र आदि ), कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी ।

कोवसा - दे 'कोवसा' ।  
कोवळा - दे 'कोवळा' ।  
कोवळीक - दे 'कोवळीक' ।  
कोविद - वि कोविद, पंडित, विद्वान्, प्रवीण, आल्लिम ।

कोश - पु कोश, खजाना, वनागार, मग्नह, निधि, मचित धन, तिजोरी, खान । २ म्यान, खोल, आवरण, वेदात्त में माने हुए जीवात्मा के पाँच (अन्नमय, प्राणमय आदि) आवरण । ३ शब्दकोश, लुगत । ४ रेगम का कोया । ५ अडकोश । ६ कली, गुठली । ७ दे 'कोस' । - कार - पु १ कोशकार, शब्द-कोश बनाने वाला । २ रेगम का कीडा । - कीट, - कीटक - पु १ कोश - कीट, रेगम का कीडा । - गृह - न भडार, भाडार । - पान - न कोशपान, देवता का तीर्थ पीना, अभियुक्त के अपराधी या निरपराध होने की जाँच की एक प्राचीन विधि ।

कोशा - पु १ कोमा, एक तरह का रेशमी कपडा । २ सिर में बाँधने का रेशमी फेंटा या साफा ।

कोशागार - पु १. कोशागार, खजाना, तिजोरी । २ तोशाखाना ।

कोशाध्यक्ष - पु कोशाध्यक्ष, खजानाची ।

कोशिक - न दे० 'कोश' ।

कोशिक - पु कोसम, एक पेड़ जिमकी लकड़ी हल आदि बनाने और वीज दवा के काम आते हैं ।

कोशिकीर - स्त्री कचूमर, रायता, कच्चे फलो को दही में कुचलकर बनायी हुई चटनी ।

कोशीस - स्त्री [फा 'कोशिस'] कोशिस, प्रयत्न, श्रम, उद्योग, चेष्टा ।

कोशेडा - रा - पु १ कोश, रेगम का कोया, कटहल आदि का कोया । २ पपड़ी, खुरड । ३ मकड़ी का जाला ।

कोष - पु कोप, दे 'कोश' । - वृद्धि - स्त्री कोषवृद्धि, अजवृद्धि का रोग ।

कोष्ठक - न कोष्ठक, लकीरो से बनाया हुआ खाना, कई खानो वाला चक्र, सारणी, 'टेबुल', 'कालम' ।

कोष्ठी - पु १ कोरी, हिंदु जुलाहा, वुनकर । २ दे 'कोळी' ।

कोष्ठ - पु १ कोष्ठ, आमा-शय, पेट, कोठा, मेदा । २ घर का भीतरी भाग, कमरा । ३ अनाज का भडार । - क - न दे 'कोष्ठक' । - बद्धता - स्त्री कोष्ठ-बद्धता, कब्ज । - शुद्धि - स्त्री कोष्ठशुद्धि, पेट की सफाई, आँत का मलरहित हो जाना ।

कोष्ठ, कोष्ठकोष्ठ(ळि)जन - न बडा कुलजन ( एक पीघा ) ।

कोस - पु कोस, दूरी की एक नाप जो लगभग दो मील के बराबर होती है ।

कोस - पु [क 'कोसर'] कमी-वेशी, वृद्धि, कपडा, जमीन, दीवार आदि में कुछ हिस्सा आगे निकल आना ।

कोसला - पु १ कोश-कीट, रेगम का कीडा । २ कोश, रेगम का कोया ।

कोसळणें - क्रि अ १ गिर पडना, ढहना । २ अरराना, भहराना, टूटकर गिरना । ३ तेजी के साथ नीचे आना । ४ टूट पडना ।

कोह; कोहकार - पु 'मैं कौन हूँ' की आवाज, बच्चा जन्म से पहले सोइह (मैं वही हूँ) कहता है, पर जन्म लेनेपर 'कोइह' कहता है । अर्थात् गर्भ में बाहर निकलने पर वह अज्ञानरूप अघ-कार में भटकने लगता है ।

कोहळा, कोहाळा - पु पेठा, सफेद कुम्हडा । कहा० आवळा देऊन कोहळा काढणें - दे 'अवळा' ।

कोहळेपाक - पु सफेद कुम्हडे का मुरब्बा, पेठा, पेठे की मिठाई ।

कोळजन - दे 'कोष्ठकोळजन' ।

कोळ - पु [क 'कोळु'] १ घोल, इमली, आम आदि पानी में घोलकर बनायी हुई चीज । २ इमली को पानी में घोलने के बाद बचा हुआ फोक या फुजला ।

कोळ - पु १ जला हुआ पदार्थ । २ जल भुन कर खाक होने की अवस्था । मु० वालून कोळ पडणे - पूरी तरह सूख जाना, कुम्हलाना, सूखना ।

कोळ - न तिलेती, वीज निकाल लेने पर वचने वाले तिल के पीघे, तिल के सूखे डठल ।

कोळणें - क्रि स [क 'कोळु'] धोलना, पानी में डाल कर मसलना, गीजना, सत निकालना ।

कोळपणी - स्त्री [क 'कुळि'] गोडना, कोडना, बोये हुए खेत में से घास खोदना ।

कोळपणें - क्रि अ [क 'कोळि'] १ जलना, झुलसना, भुनना; धूप से काला पड जाना । २ अगारो पर राख जम जाना । ३ अदर ही अदर जलते रहना ।

कोळपणें - क्रि स [क 'कुळि'] गोडना, निराना, कोडना, घाम खोदना ।

कोळपा - पु, कोळपें - न [क 'कुळि'] फमल जब एक वालिखत की हो जाती है तब उसमें से घास आदि निकाल कर मिट्टी को नरम और भुरभुरी बनाने का आजार; गोडने का आजार ।

कोळवी - स्त्री बीगा (मछली) ।  
कोळवण - न कोकण का उत्तरी भाग, कोळी जाति का निवास-स्थान ।

कोळवाडा - पु मछियारो की वस्ती ।

कोळवें - न अवपई, आवे पाव की माप ।

कोळशी + - 'दे काजळी' ।  
कोळमंडणें - क्रि अ वाहर से जल कर काला हो जाना ।

कोळसा - पु कोयला, बुझा हुआ अगार । मु कोळशांतोल माणिक - बहुत ही काला आदमी, काला कलूटा । कहा० - कितीहि उगाळला तरी काळा तो काळाच - कोयला होय

न उजला सौ मन मान्न होय, अप्रिय वानो दी चर्चा करने से कुछ हामिल नहीं होता, बुरे व्यक्ति के दोष इतने अधिक होते हैं कि उनके गिनते रहने पर वे बढ़ते ही जाते हैं । कोळशाच्या दलालीत हात काळे - कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरे काम से बदनामी ी हाथ लगती है ।

कोळसुदा - पु १ विल्ली की जाति का एक वन्यपशु । २ एक कँटीला क्षुप । ३ बदक की मक्खी ।

कोळिगा - पु भ्रमर, भौरा ।

कोळिष्टक - न मकड़ी का जाला ।

कोळी - पु १ मछुआ, मछुवा, मछियारा, मछुवाहा । २ धीवर, मल्लाह, केवट, माँझी । ३ मकडा, मकड़ी । - वाडा - पु मछियारो की वस्ती ।

कौस - पु [अ 'कौस'] कोष्ठक, 'ब्रैकेट' । दे 'कस' ।

कौस(सा)ल - दे 'कौस(मा)ल' ।

कौसल; कौसिल - न [अ] विधानमंडल, विधानपरिषद्, मन्त्रिमंडल ।

कौटाळ, कौटाळीण - दे. 'कवटाळ', 'कवटाळीण' ।

कौटिल्य - न १ कौटिल्य, कुटिलता, टेढापन । २ फरेब, कपट, योग्यता, वेईमानी । ३ चालाकी, होधियारी, कूटनीति । - पु कौटिल्य, अर्थशास्त्र के कर्ता और कूटनीति के आचार्य चाणक्य ।

कौठ - दे 'कवठ' ।

कौतिक - दे 'कौतुक' ।

कौटुविक - वि कौटुविक, कुटुबमववी, पारिवारिक, घरेलू ।

कौतुक - न १ कौतुक,

कुतूहल, उत्पुक्ता, अचभा; आश्चर्य, जिज्ञासा । २ लाड, प्यार, दुलार । ३ आनंद, हास्य-विनोद, मनरजन, हँसी-मजाक । ४ सराहना । ५ गर्व, नाज ।

कौतुकी - वि कौतुकी, खेल तमाशा करने या देखने वाला, विनोदी, हँसोड ।

कौतुकें, कौतुकेंकहन - अम्य महज, आसानी से, लीलया, न्वेल में ।

कोपीन - स्त्री न १ कांपीन, लँगोटी । २ कफनी । - चारी - वि पु सन्यासी ।

कौमार, कौमार्य - न कौमार, कुमार (जन्म से पाँच वरस तक या पाँच से दस वरस तक की) अवस्था, कुंवारापन ।

कौमुदी - स्त्री १ कौमुदी, चांदनी । २ भट्टोजी दीक्षित का 'सिद्धान्त कौमुदी' नामक व्याकरण-ग्रंथ ।

कौल - न खपडा, खपरा, खपडैल; खपरैल ।

कौल - पु [अ 'कौल'] १ कौल, वचन, उक्ति, आश्वासन, प्रतिज्ञा, इकरार । २ जमीन आदि का पट्टा, इकरारनामा । ३ परवाना; आज्ञापत्र । ४ ईश्वरीय आज्ञा, वचन । ५ शकुन, सगुन । - नामा - पु इकरार-नामा, पट्टा । मु - लावणें - देवता की मूर्ति पर फूल आदि लगा कर शकुन विचारना, ईश्वरीय आज्ञा प्राप्त करना; अनुकूलता या प्रतिकूलता का अंदाजा लगाना ।

कौलार - न खपरैल, खपडे से छाया हुआ छप्पर ।

कौलारु - वि खपरैल वाला, खपडे में छाया हुआ ।

कौलिक - वि १ कुलसंबंधी ।  
२ पैतृक, कुलपरंपरागत, पुत्रैनी,  
वशरुमागत, आनुवंशिक ।

कौलिक - पु वि १ कौलिक,  
शाक्त । २ वाममार्गी, ढोगी,  
पाखंडी, तांत्रिक, मांत्रिक ।

कौलिक\* - पु व्याघ्र, बहेलिया,  
चिडीमार ।

कौली - वि स्त्री सरकार से  
पट्टे पर ले कर पहली बार जोती हुई  
जमीन । - वि पट्टे पर ली हुई ।

कौशल, कौशल्य - न १  
कौशल, कुशलता, दक्षता,  
महारत, हुनरमदी, होशियारी,  
निपुणता, चालाकी । २ मगल,  
कल्याण, सुरक्षितता ।

कौस (सा)ल\* - न कपट,  
पट्यत्र, चाल । - वि १ कुशल,  
हुनरमद । २ कपटी, धोखेवाज,  
चालवाज ।

कौसल्या - स्त्री कौसल्या,  
कौशल्य, राम की माता ।

क्याट - पु [अ 'काड']  
ताश की गद्दी, ताश के पूरे पत्ते ।

क्याटलाग - पु [अ  
'कैटलौग'] १ तालिका, सूची,  
सूचीपत्र । २ उपस्थितिपत्री,  
हाजिरी - रजिस्टर ।

क्याप - दे, 'कैप' ।

क्रम - पु १ क्रम, तरतीब,  
सिलसिला । २ नियमित व्यवस्था,  
ढग । ३ आगे बढ़ना, प्रगति ।  
४ विधि, नियम । ५ परंपरा,  
मंत्रदाय । - प्राप्त - वि दे  
'क्रमागत' । - बद्ध - वि क्रमबद्ध,  
क्रमयुक्त, सिलसिलेवार, वा-  
तरतीब । - रहित - वि क्रमरहित,  
वेतरतीब । - सख्या - स्त्री क्रम-  
सख्या, क्रमांक, सिलसिले का नंबर ।

क्रमणें - क्रि स १ विताना,

गुजारना । २ तै करना  
(रास्ता), काटना, आगे बढ़ना,  
आक्रमण करना । - क्रि अ १  
मरना । २ दे 'करमणे' ।

क्रमश - अव्य क्रमश,  
यथाक्रम, सिलसिले से ।

क्रमाक - पु क्रमाक, क्रम-  
सख्या, सिलसिले का नंबर ।

क्रमाक्रमानें - अव्य क्रमश,  
क्रम में, सिलसिलेवार ।

क्रमागत - वि १ क्रमागत  
क्रमप्राप्त, तरतीब या सिलसिले  
से आया हुआ । २ कुलक्रमागत,  
पुत्रैनी, बाप-दादा से चला आता  
हुआ ।

क्रमानें - अव्य क्रमश,  
सिलसिले से ।

क्रमिक - वि १ दर्सी, पाठ  
विषयक, पाठ्य (पुस्तक) । २  
क्रमिक, क्रमागत । - पुस्तक -  
न पाठ्यपुस्तक, कोर्स की,  
दर्सी किताब ।

क्रय - पु क्रय, मोल लेना,  
खरीद । - विक्रय - पु क्रय -  
विक्रय, खरीद - फरोस्त, लेवा -  
वेची ।

क्रात - वि १ क्रात, लांघा  
हुआ । २ आक्रात, हमला किया  
हुआ । ३ व्याकुल, बेचैन । -  
स्त्री दे 'क्राति' । - दर्सी - वि  
क्रातदर्सी, सर्वज्ञ, भूत - भविष्य,  
अतीन्द्रिय विषयो को जानने वाला ।

क्रातणें - क्रि स काटना  
(रास्ता), चलना, पादाक्रात  
करना । - क्रि अ व्याकुल  
होना ।

क्राति - स्त्री १ क्राति,  
इनकिलाब, स्थिति में भारी  
उलटफेर, नडा, पूर्ण परिवर्तन,  
राज्यक्राति, धर्मक्राति, वगावत ।

२ क्रमण, गति, जाना । ३  
सूर्य का भ्रमण मार्ग । - कारक -  
वि क्रातिकारी, इनकिलाबी,  
स्थिति, अवस्था में भारी उलटफेर  
कर देने वाला । - पु. क्रातिकारी,  
राज्यक्राति का प्रयासी, इन-  
किलाबी, वागी । - पात - पु.  
क्रातिपात, वह विदु जहाँ क्रातिवलय  
विपुवत् रेखा से मिलता है । -  
मडल, - वलय, - वृत्त - न -  
क्रातिमडल, क्रातिवलय, क्राति-  
वृत्त, सूर्य का भ्रमण - मार्ग ।

क्रॉप - पु [अ] वालो की  
अंग्रेजी ढग की तराश ।

क्रॉस - पु [अ.] क्रूस,  
सलीव, क्रूस का चिह्न ।

क्रिमि, क्रिमो - पु क्रिमि,  
कीडा ।

क्रिया - स्त्री १ क्रिया; कुछ  
किया जाना, काम, कार्य, कर्म ।  
२ अत्येष्टि । ३ धार्मिक विधि,  
संस्कार । ४ शपथ, गवाही, सबूत,  
प्रमाण । ५ परिणाम, असर,  
प्रभाव । ६ क्रिया-वाचक शब्द  
(व्या०) । - कर्म, - कर्मांतर -  
न क्रियाकर्म, मृतक - क्रिया,  
अत्येष्टि । - कलाप - न क्रिया-  
कलाप, किसी भी व्यवसाय की  
विशेष बातें, संपूर्ण शास्त्र - विहित  
कर्म । - द्वेषी - वि क्रियाद्वेषी,  
साक्षी का एक प्रकार, मुकदमे में  
जिमकी गवाही हानिकर हो । -  
नष्ट - वि १ कृतघ्न । २ झूठा,  
अपने वचन का पालन न करने-  
वाला । - पद - न क्रियापद,  
क्रिया, फेल, क्रियावाचक शब्द  
(व्या०) । - बाल - वि १ ना-  
बालिग । २ असमर्थ । - भ्रष्ट -  
वि १ वादाधिकन, वादो को  
तोड़नेवाला । २ कृतघ्न, बेवफा ।

३ धार्मिक नित्यनैमित्तिक कर्मों को न करने वाला, धर्मभ्रष्ट । - वत - दे 'क्रियावान्' । - वाचक वि क्रियावाचक, क्रिया का अर्थ देने वाला । - वान् - वि १ कार्य करने वाला, कर्मनिष्ठ, कर्मी ।

२ कर्मठ, शास्त्र विहित कर्मों में लगा रहनेवाला । - विशेषण - न क्रियाविशेषण, अव्यय, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताये । - शील - वि क्रियाशील, कर्म-निष्ठ, सक्रिय । - शून्य - वि क्रियाशून्य, कर्महीन ।

क्रियात्मक - वि क्रियात्मक, अमली ।

क्रीडणे\* - क्रि अ क्रीडा करना, खेलना, खेलना-कूदना ।

क्रीडांगण - न खेल का मैदान ।

क्रीडा - स्त्री १ क्रीडा, खेल-कूद, किलोल, हास्य-विनोद । २ रतिकेलि, मभोग । - कलह - पु झूठमूठ का झगडा, लूठना । - कौतुक - न क्रीडाकौतुक, खेल-कूद, आमोद - प्रमोद । - गृह, - मन्दिर - न क्रीडागृह, क्रीडा-मन्दिर, खेलकूद का मकान, केलि-गृह । - स्थान - पु १ खेल का मैदान । २ केलिगृह ।

क्रीत - वि क्रीत, खरीदा हुआ । - दास - पु पूरा गुलाम ।

क्रुद्ध - वि क्रुद्ध, गुस्से से भरा, नाराज ।

क्रूञ्चर - न [ अ ] हलका और द्रुतगामी जगो जहाज, क्रूञ्चर ।

क्रूर - वि १ क्रूर, निदय, वेरहम, सगदिल । २ भयकर, प्रचड, डरावना । ३ हिंस्र, जगली ।

क्रूस - पु [ अ 'क्राँस' ] १ क्रूम, सलीव, सूली । २ ईसाइयों का धर्मचिह्न जो सूली से मिलते -

जुलते आकार का होता है ।

क्रैन - स्त्री [ अ ] भारोत्तोलन यत्र, दमकला ( भारी बोझ उठाने का यत्र ), 'क्रैन' ।

क्रैप - न [ अ ] करेव, बारीक और क्षीनी बुनावट वाला एक रेशमी कपडा ।

क्रोटन - न [ अ ] करोटन, वनस्पति का एक वर्ग जिसके पौधों के पत्ते सुदर और रंग-विरंगे होते हैं ।

क्रोड - न पु १ क्रोड, छाती; वक्षस्थल । २ सूअर । - पत्र न क्रोडपत्र, परिशिष्ट, पूरक, जमीमा ।

क्रोडो - अव्य करोडो ।

क्रोध - पु क्रोध, गुस्सा, नाराजी, कोप ।

क्रोधणं, क्रोधावणे - क्रि अ क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, करना ।

क्रोधाग्नि - पु बहुत अधिक गुस्सा, क्रोध की आग । मि भरा ।

क्रोधायमान - वि क्रुद्ध, गुस्मे क्रोधिष्ट, क्रोधी - वि क्रोधी, गुस्सावर, जिसे जल्द गुस्सा आ जाय ।

क्रौंच - पु क्रौंच, कराँकुल ।

क्रौर्य - न क्रौर्य, क्रूरता, वेरहमी ।

क्लव - पु [ अ ] १ मघ, मेला, मडली, 'क्लव' २ चिडी (ताश) ।

क्लांत - वि क्लात, थका हुआ, मुरझाया हुआ । [ वट ।

क्लाति - स्त्री क्लाति, थका-क्लार्क - पु [ अ ] लिपिक, मुशी, करणिक, किरानी, 'क्लार्क' ।

क्लास - पु [ अ ] दरजा, श्रेणी, वर्ग, कक्षा, 'क्लास' ।

क्लिष्ट - वि क्लिष्ट, दुर्बोध, कठिन, मुश्किल ।

क्लेश - पु क्लेश, कष्ट, दुःख, पीडा, तकलीफ । - फारक, - दायक - वि क्लेशकर, क्लेश देने वाला, तकलीफदेह ।

क्वचित् - अव्य. क्वचित्, कही-कही, शायद, बहुत कम, कभी ।

क्वार्टीन - न [ अ 'क्वार्-टाइन्' ] छुतहे रोगों से पीडित मुसाफिरो आदि को रोककर कुछ दिन अलग रखने का प्रवध, छुतहा अस्पताल ।

क्विनाईन, क्विनिन - न स्त्री [ अ ] कुनैन । [ महिष्णु ।

क्षता - वि क्षता, अमाशील,

क्षण - पु १. क्षण, छन, लमहा । २ बहुत थोडा समय, सूक्ष्म काल । ३ श्राद्ध का भोजन या उमका निमन्त्रण । ४ श्राद्ध के आमन्त्रण के तौर पर ब्राह्मण के हाथों पर रखने के दर्भ । - जीवी - वि क्षणिक, क्षणभर में नष्ट होने वाला । - भगुर - वि क्षण-भगुर, छनभरमें, थोडी ही देर में मिट जाने वाला, क्षणिक, नापायदार । - भर, - भरि\* - अव्य क्षणभर, छनभर, क्षणमात्र ।

क्षणावधि - पु एक क्षण, छन, पल । - अव्य क्षणभर, एक क्षण में ।

क्षणिक - वि क्षणिक, क्षण-स्थायी, नापायदार । - वृद्धि - वि चचल ।

क्षणोक्षणो - अव्य. क्षण-क्षण, प्रतिक्षण, हर वक्त । [ फोडा ।

क्षत - न क्षत, घाव, जन्म, क्षति-ती - स्त्री १ क्षति, हानि, नुकसान । २ घाटा ।

३ चोट, आघात, घाव, जख्म ।  
 ४ परवाह, फिक्र ।  
 क्षत्र - पु. १ क्षत्र, क्षत्रिय ।  
 २ योद्धा, वीरपुरुष । - न क्षत्रिय जाति । - प - पु. क्षत्रप, प्राता-धिपति, माडलिक, राज्यपाल, 'गवर्नर' । [ जाति, लडाका ।  
 क्षत्रिय - पु. क्षत्रिय, योद्धा क्षत्रियांतक - पु. क्षत्रातक, परशुराम । [ या जैन सन्यामी ।  
 क्षपणक - पु. क्षपणक, बौद्ध क्षमण\* - क्रि अ सकना, समर्थ होना । - क्रि स क्षमा करना, माफ करना ।  
 क्षमता - स्त्री क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, लियाकत ।  
 क्षमस्व - वा क्षमा करो, माफ करो ।  
 क्षमा - स्त्री १ क्षमा, माफी, दरगुजर । २ सहनशीलता । ३ धरती, पृथ्वी । - वंत, - वान्, - शील - वि क्षमाशील, सहनशील, माफ करने वाला ।  
 क्षमापन - न १ क्षमापन । २ सात्वना । [ शील । २ समर्थ ।  
 क्षमी - वि १ क्षमी, क्षमाक्षम्य - वि क्षम्य, क्षमा करने योग्य, जिसे माफ किया जा सके ।  
 क्षय - पु. १ क्षय, छीजन, ह्याम, अपचय, अवनति, नाश, लोप । २ घटा, अर्थ-हानि, मूल्यादि का गिरना । ३ तपेदिक, यक्ष्मा रोग । ४ ऋणराशि । ५ तिथिक्षय । - तियि - स्त्री १ क्षयतिथि, वह तिथि जो सूर्योदय के समय न होने से व्यवहार में लुप्त मानी जाय । २ मृत व्यक्ति का मासिक या वार्षिक श्राद्धदिन । - पक्ष - पु. क्षयपक्ष, कृष्णपक्ष । - मास - क्षयमास, दो सप्तातिथो

वाला चाद्र माम, हीन मास । - रोग - पु. क्षयरोग, राजयक्ष्मा, तपेदिक । - रोगी - वि क्षयरोगी, क्षयी, तपेदिक का मरीज ।  
 क्षयिष्णु - वि क्षयिष्णु, क्षय होने वाला, छीजने वाला, नश्वर ।  
 क्षयी - वि १ क्षयी, दे 'क्षयिष्णु' । २ क्षयरोगी ।  
 क्षर - पु. १ ससार की प्रत्येक नश्वर वस्तु । २ सबूत । - वि १ चूने वाला, टपकने वाला । २ क्षर, चल, नाशमान ।  
 क्षरण - न १ क्षरण, चूना, रसना, टपकना । २ धीरे धीरे होने वाला ह्रास या नाश ।  
 क्षरणे - क्रि अ १ चूना, रमना, टपकना । २ नाश होना ।  
 क्षात - वि १ क्षात, क्षमा, माफ किया हुआ । २ क्षमाशील, सहनशील ।  
 क्षाति - स्त्री १ क्षाति, क्षमा, सहिष्णुता । २ शाति ।  
 क्षात्र - वि क्षात्र, क्षत्रिय-सवधी, क्षत्रियोचित । - तेज - न क्षात्रतेज, क्षत्रियोचित तेज, पराक्रम । - धर्म - पु. - वृत्ति - स्त्री १ क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रियत्व । २ शौर्य, पराक्रम जादि गुण ।  
 क्षार - पु. १ क्षार, नमक, खार । २ शोरा, रेह, सज्जी, 'अलकन्नी', 'पोटाश' । ३ सुहागा, काला नमक, जवाखार, राख, भम्म । [ साफ करना ।  
 क्षालन - न क्षालन, धोना, क्षालणे\* - क्रि स धोना, माफ करना ।  
 क्षिणणे\* - क्रि अ १ छीजना, घिशना । २ कमजोर, खराब होना ।

क्षिति - स्त्री १ क्षिति, पृथ्वी ।  
 २ चिंता, फिक्र, परवाह । ३ नाश, ह्रास ।  
 क्षितिज - न क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उफुक ।  
 क्षिप्र - वि तेज, गीघ्रगामी । - अव्य जल्द, तेजी से, तत्काल ।  
 क्षीण - वि १ क्षीण, दुबला-पतला, कमजोर, । २ घटा हुआ, क्षतिप्राप्त, क्षयप्राप्त । ३ मृत, नष्ट, समाप्त ।  
 क्षीर - न १ क्षीर, दूध । २ पानी । ३ पेड़ों से निकलने वाला दुग्धरूप रस, लामा, चेष । - स्त्री स्वीर ।  
 क्षुण्ण - वि १ क्षुण्ण, चूर किया हुआ, पिसा हुआ, खडित । २ अम्यस्त, रूढ, परिचित ।  
 क्षुत् - स्त्री क्षुवा, मूख, । - क्षाम - वि भूख से व्याकुल, आहार न मिलने में दुर्बल, क्षुवा-क्षीण ।  
 क्षुद्र - न न्यूनता, कमी, खामी । - वि क्षुद्र, छोटा, कमीना, ओछा, हलका, तुच्छ, नाचीज, नीच । - घटिका - स्त्री क्षुद्रघटिका, घुंघरु, एक तरह की करघनी जिसमें घँटियाँ या घुंघरु लगे रहते हैं । - बुद्धि - स्त्री ओछी बुद्धि, तग खयाली । वि क्षुद्रबुद्धि, ओछे - विचार वाला, तग खयाल ।  
 क्षुद्रता - स्त्री क्षुद्रता, छोटाई, नीचता, ओछापन ।  
 क्षुधा - स्त्री क्षुधा, भूख ।  
 क्षुधाक्रांत, क्षुधातुर, क्षुधार्त - वि क्षुधातुर, क्षुधानं, भूवा, भूख में पीडित ।  
 क्षुब्ध, क्षुभित - वि क्षुब्ध, क्षुभित, क्षोभयुक्त, उत्तेजित,

खफा, क्रुद्ध, अगान ।

क्षुर-पु १ क्षुर, छुरा, उस्तुरा । २ खुर ।

क्षुल्लक-वि १ क्षुल्लक, क्षुद्र, मामूली, थोडा, छोटा । २ हलका, नाचीज़, छिछोरा ।

क्षेत्र-न १ क्षेत्र, खेत, जमीन । २ सिद्धस्थान, तीर्थ-स्थान । ३ स्थान, जगह । ४ मानव-शरीर, देह । ५ पत्नी, स्त्री । ६ मैदान । ७ युद्धभूमि, रणागण । - गणित - न क्षेत्र-गणित, भूमिति, रेखागणित । - जीवी - वि पु १ खेती से जीविका चलाने वाला, किमान ।

२ पडा । - फळ - न क्षेत्रफल, रक्वा । - सन्यास - पु क्षेत्र-सन्यास, स्थानविशेष की भीमा के अंदर ही रहने का व्रत ।

क्षेत्रोपाध्याय - पु किसी तीर्थ-स्थान का उपाध्याय, पडा ।

क्षेपक - वि क्षेपक, फेंकने वाला । - पु क्षेपक, (पुस्तकादि में) पीछे से मिलाया, बढ़ाया हुआ अंश । [ २ भोजना ।

क्षेपण - न १ क्षेपण, फेंकना । क्षेपणास्त्र - न प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र, 'मिसाइल' ।

क्षेमकर - वि क्षेमकर, क्षेम, भगल करने वाला ।

## ख

ख - मराठी वर्णमाला के क-वर्ग का दूसरा व्यंजन ।

खफ - ख - वि १ कगाल, गरीब, निर्धन, भुक्खड । २ खख, छूँछा, खाली, । ३ क्रूर, वेरहम । ४ कजूस, मक्खीचूम । ५ जोशीला, गुस्सावर । ६ कम-जोर ।

खकारणे - क्रि अ १. खँखारना, खखारना, खखार निकालना, खाँसना । २ दे 'खिकाळणे' । ३ सकेत रूप में खाँसना ।

खकाळ - वि दे 'खकाळा' । - तट्टू - वि दे 'अडेलट्टू' । - भवानी - स्त्री चुडैल, डाइन, कर्कशा ।

खकाळणे - दे 'खिकाळणे' ।

खकाळा - लघा - वि १ दुष्ट, उग्र, जालिम । २ झक्की, सनकी, खँवती । ३ चालाक, तेज़, फुर्तीला ।

खक्या - वि १ लापरवाह, उद्दाम । २ मरजोर ।

खग - पु १ न्यूनता, त्रुटि, कमी, खामी । २ बाधा, रोक ।

खगणें - क्रि अ १ दुर्बल होना, कृश होना, सूखकर काँटा होना । २ गरीब, कगाल बनना ।

खगर, खगार - पु [ अ. 'खाक' ] जली हुई ईटें ।

खगार - ल - वि १ क्षीण, दुर्बल, कमजोर । २ खराब, घटिया ।

खगाळणे - क्रि म खँगालना, मंजे-घुले वरतन की पूरी मफाई के लिए फिर से धोना, साफ करना ।

खंज\* - वि खँज, लंगडा ।

खजन - पु खजन, खजरीट, एक छोटी चिडिया जो माहित्य में चंचल आँख का उपमान मानी गयी है ।

खजरी, खजिरी - स्त्री खँजडी, खँजरी, डफली के ढगका, आकार में उससे छोटा, एक बाजा ।

क्षेम - न १ क्षेम, कुशल; भगल, कल्याण, खँरियत । २ स्नेहालिंगन, भेंट ।

क्षोणि, क्षोणी - स्त्री क्षोणि, क्षोणी, घरती, पृथ्वी । - पति - पु राजा ।

क्षोभ - पु १ क्षोभ, क्रोध, गुस्मा । २ हलचल, खलवली, व्याकुलता ।

क्षोभणें\* - क्रि अ १ क्रुद्ध होना । २ व्याकुल होना ।

क्षौर - पु १ क्षौर, हजामत बनाना । २ पितृकर्म में सिर आदि के बाल मुंडवाना । - कर्म - न क्षौरकर्म, हजामत बनाना ।

खंजोर - पु [ अ 'खजर' ] खजर, छुरी, मुजाली, कटार, बडा चाकू, पेगकच्छ ।

खड - पु [ क 'कडिमु' ] १ भूमि-कर, लगान, खिराज । २ जुर्माना, दड । ३ पट्टा, ठहराव, इकरार, फैसला । - करी - पु रैयत, पट्टेदार, काश्त-कार । - चिट्ठी - स्त्री पट्टा ।

खड - पु १ रुकावट, बाधा, व्यवधान, खलल, अडचन, अन-व्याय । २ खड, टुकडा, भाग । ३ अव्याय, ग्रथ का विभाग । ४ महाद्वीप, वरें आज़म । ५ प्रदेश प्रात, ज़िला । ६ दे 'खडकाव्य' । - काव्य - न खडकाव्य, प्रबंध-काव्य, वह काव्य जिमसे महा-काव्य के पूरे लक्षण न हो । - ज्ञान - न १ खडग, क्रमश, मिला या दिया हुआ ज्ञान । २ अधूरा ज्ञान । ३ नश्वर वस्तु का ज्ञान । - विखड - पु खड-खड,

टुकडे-टुकडे।

[ देवी।

खडजाई<sup>+</sup> - स्त्री एक क्षुद्र

खडण - न १ खडन, काटना,

तोडना। २ किसी बात को गलत बताना, रद करना, तरदीद, दूसरे के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण। ३ नाश, अत, भग। ४ वाधा, रुकावट। - मडण - न खडन-मडन, वहस, विवाद।

खडणी - स्त्री १ कर, खिराज।

२ खडनी, मालगुजारो की किस्त।

३ निष्कृतिघन, निस्तार-घन,

मूल्य, वदी का उद्धार-मूल्य। ४

मुक्तिजुरमाना, दड। - दार -

वि करदाता, खिराज देने वाला।

खडणूक - स्त्री १ ठीका, ठेका,

इजारा; पट्टा। २ मूल्याकन,

कीमत, शर्तें आदि तै करना,

ठहराव।

खडणें - क्रि स १ खडित

करना, तोड डालना, टुकडे

करना। २ नाश करना। ३ किसी

की बात को गलत बताना, रद

करना, काटना, खडन करना,

निस्तार करना। - क्रि अ १ टूटना,

खडित होना। २ नाश होना।

खडणे - क्रि अ १ ठीका

लेना या देना, इकरार करना,

जिम्मा लेना। २ मूल्य निश्चित

करना, शर्तें तै करना। ३ कर्ज

आदि चुकाना, शर्तें पूरी करना। ४

जरमाना लगाना। ५ कर, मह-

सूत्र, जुरमाना वसूल करना।

खडन - न खडन, दे

'खडण'।

खडवा - पु. नदी का सूखा पाट।

खडा - पु तलवार, खाँडा। -

ईत - वि खड्गधर, तलवार

धारण करने वाला।

खडा - पु दाँव, जीत।

खडित - वि १ पट्टे पर, इजारे पर लिया या दिया हुआ। २ नकद, थोक।

खडित - वि १ खडित, टूटा हुआ, भग्न। २ स्थगित, मुलतवी। ३ गलत ठहराया हुआ।

खडी - स्त्री [ क 'खडगा' ]

१ वीम मन का बोझ, आठ मौ

सेर का वजन। २ बहुत बडी

राशि। ३ वीस की मख्या। -

भर - वि बहुत सारा, चाहे

जितना।

खडोगणती - वि १ बहुत,

बेहद, अनेक। २ वीसो मन।

खडचा - पु कौडिल्ला, पानी

के किनारे रहने वाला मछलियाँ

आदि खाने वाला एक जलपक्षी।

खत - १ खेद, दुख, रज,

हसरत, अफसोस, उदासी,

ग्लानि। २ पछतावा।

खतावणे - क्रि अ १ ऊवना,

घिन, नफरत होना। २ चिंता,

फिकर होना।

खती - स्त्री १ वेचैनी,

अशांति, व्याकुलता। २ चिंता,

डर। ३ खेद, अफसोस। ४ घिन,

नफरत। - वि १ खिन्न, परे-

शान, उदास। २ चिंतित।

खदक - [ अ 'खदक' ] १

खदक, दुर्ग आदि के चारो ओर

का गहरा गढा। २ खाई, गहरा

गड्ढा। ३ खोखला (दिमाग

आदि)। [ २ अपमानित करना।

खदणे - क्रि स १ खोदना।

खदळाखदळ - स्त्री गडबडी,

कुचलना, रौदना।

खदा - वि [ फा 'खद' ]

१ मजबूत, तगडा। २ साहसी,

पराक्रमी। ३ तेज (घोडा)। ४

बढ़िया, मँजा हुआ। ५ ज्ञानी,

बुद्धिमान्।

खविरौ - स्त्री १ मजबूती, दृढता। २ पक्का बदीवस्त। ३ स्थायी, निश्चित होने का भाव।

खबीर - वि १ मजबूत, तगडा, दृढ, पक्का। २ निश्चित, स्थायी। ३ बडा, भारी, व्यापक।

खबीर - दे. 'खमीर'।

खवचट - वि १ सडियल, सडायँधवाला, खराब, बदबूदार। २ खुजली पैदा करने वाला। ३ चिडचिडा, रूखा, अकलखुरा। ४

व्यगपूर्ण, चुभता हुआ।

खवट - वि १ सडियल,

सडायँध वाला, बदबूदार, खराब।

२ उग्र गध वाला, तेज वूरखने

वाला। ३ कडवा, चुभने वाला,

व्यगपूर्ण।

ख - न १. ख, आकाश। २

शून्य, शून्य स्थान, खला,

अतरिक्ष। - ग - पु १ खग, पक्षी।

२ आकाशस्थ प्रकाश - पुज (सूर्य,

चंद्र, ग्रह आदि)। - ० नायक, -

० पति - पु. खगनाथ, खगपति,

गरुड। - गोल पु. १ खगोल,

आकाशमडल। २ भूमडल या

आकाशमडल का मानचित्र, भूमि-

गोल, धरती का गोला। - ०

विद्या - खगोल-विद्या, खगोल

विज्ञान, ज्योतिष। - ग्रास वि १

खग्रास, सर्वग्रास (ग्रहण)। २

पेटू। ३ घाटेका। - पु नाश। -

घोत - पु खघोत, जुगनू। -

पुष्प - न खपुष्प, आकाशकुसुम,

असभव कल्पना। - मध्य - पु. न,

स्वस्तिक - न खमध्य, आकाश

का मध्य, सिर के ऊपर का विंदु,

मुर्विंदु, शीर्षविंदु, खस्वस्तिक।

खकाण - न - वि [ अ 'खाक' ]

गदा, खराब।



खकाण-न, खकाणा-ना - पु.  
[अ 'खाक'] १ धूल, गर्द, कचरा।  
२ घाँस, तवाकू, लाल मिर्च आदि  
की वृकनी और उसकी खाँसी लाने  
वाली तेज गध, उस गध से उठने  
वाली खाँसी।

खग्राशा-स्या - वि १ गवन  
करने वाला, अमानत की रकम  
खा जाने वाला। २ पेटू, उडाळ।  
३ घाटे का (काम)।

खग्रास - वि खग्रास, सर्वग्रास,  
(ग्रहण)।

खच - पु ढेर, रागि, अटाला।  
- स्त्री भीड, भीड-भडक्का।

खचका - दे 'कचका'।

खचणे - क्रि अ १ घँसना,  
गडना, भीतर घुसना, बैठ जाना।  
२ ढहना, गिरना। ३ नष्ट होना।  
४ हिम्मत पस्त होना, हारना,  
निराश होना। ५ थक जाना। ६  
विफल, नाकाम होना। ७ मरना।  
- क्रि स १. जडना, एक वस्तु को  
दूसरी में बैठना, जमाना, पच्ची  
करना। २ खचाखच, ठमाठस भर  
देना, ठोकना, मारना।

खचरट - वि तकलीफदेह,  
कष्टकर, जिस में झझट, परेशानी  
हो।

खचाटणे - क्रि स १ झटके के  
नाथ काटना, खटाखट काटना।  
२ जोरसे खीचना, घमीटना।

खचित - वि खचित, जडा हुआ,  
जडाळ।

खचित - अव्य मचमुच,  
निश्चित रूप से, अवश्य, यकीनन्।

खचितार्थ - पु निश्चित वात,  
अंतिम निष्कर्ष, पक्का फैसला।

खचिती - स्त्री निश्चितता,  
यकीन।

खची, खचीत - दे 'खच्ची'

'खचित'। [ 'खच्चून'।

खच्च - अव्य खचाखच। दे

खच्ची - स्त्री [अ 'खम्मी']

काट-छाँट, वधिया, खस्ती, खसी।

२ काटना, खसी करना। - वि

१ खसी, अच्छी तरह बढने के लिए

काटा हुआ (पेड)। - करणे - १

खसी करना, अडुआना, वधिया

करना। २ काटना। ३ कमजोर

वनाना, तोड डालना।

खच्चून - अव्य. कसकर, खचा-

खच, बहुत अधिक, ठमाठस,

विलकुल (भरा हुआ)।

खजाळ - वि खुराफाती, झग-

डालू, शरारती। २ लपट,

विपयासक्त।

खजाळी - स्त्री खुराफात,

झगडा, शरारत। - वि खुरा-

फाती, शरारती।

खजिनदार - पु [अ 'खजान',

+ फा 'दार'] खजाची, खजा-

नची, कोपाध्यक्ष।

खजिना - पु [अ 'खजान']

१ खजाना, कोप, कोश, घना-

गार। २ भंडार। ३ राजस्व,

सरकारी लगान। ४ फव्वारे का

हौज। ५ नमक बनाने के लिए इक-

ट्ठा किया हुआ पानी। ६ बडूक में

वारुद रहने का स्थान।

खजील - वि [अ 'खजिल']

लज्जित, गर्मिदा, पश्चात्तापी।

खजुरा - री - वि अनेक धागो

(रेशो) या लडो वाला, वटा हुआ

(डोरा)।

खजुरी - स्त्री खजूर का पेड,

ताड की इस जाति का रस ताडी

की तरह पिया जाता है और उमसे

गुड-शकर भी बनाते है।

खजूर - पु. खजूर, पिंडखजूर,

छूहारा। - छडी - स्त्री खजूर-

छडी, एक रेशमी कपडा जिसपर  
खजूर की पत्तियो की-सी धागियाँ  
हो। [माग।

खज्जाळी - वि नीच, वद-

खट - वि १ नटखट, शरा-

रती, ऊधमी, दुष्ट, गठ, धूर्त,

छली। २ निर्लज्ज। - स्त्री झझट,

झमेला। [ - स्त्री घट्ठा।

खट - न क्षत, धाव, जहम।

खटकन - अव्य खट से, झट

में, तुरत।

खटकणे - क्रि अ १ खट-

कना, चुभना; गडना। २ घुरा

लगना, अनुचित जान पडना।

खटका - पु १ खटका, 'खट-

खट' की आवाज। २ झगडा, टंटा,

खटपट, अनवन। ३ आघात। ४

सिटकिनी। ५ आगका, सदेह, डर।

खटकूळ - न १ कर्ज अदा

करने या लगान देने में आनाकानी,

टालामटल करने वाला व्यक्ति। २

कजूस, मक्खीचूस।

खटखट - स्त्री १ खटखट,

झझट, माथापच्ची, झमेला, खट-

राग, झगडा, किचकिच। २

पिनपिन, वडवड, बुडबुडाना।

खटखटणें - क्रि स १ खट-

खटाना, 'खटखट' की आवाज

निकालना। २ सताना, परेशान

करना।

खटखटा - अव्य. खटखटाकर,

'खट-खट' की आवाज के साथ।

खटखटीत - वि १ सूखा,

कोरा। २ साफ, स्पष्ट। दे

'खुटखुटीत'; 'खडखडीत'।

खटखटे - पु १ खटखटा,

पक्षियो के भगाने के लिए वृक्षो

में बाँधा जाने वाला बाँस का

टुकडा। २ जीवनयापन का साधन,

रोजगार, व्यवसाय।

खटखटघा - वि १ खटपटिया, झगडालू, उपद्रवी। २ झगडा लगाने वाला। ३ एक पक्षी।

खटणे - क्रि अ. १ रुकना, रुठना, बाधा पडना। २ थकना, मुलतवी होना। ३ ज़िद पकडना, अडना।

खटनट - स्त्री १ चिंता, फिक्र, झझट, झमेला। २ झगडा। - वि १ खराब, सभियल; रद्दी। २ लुच्चा, चाई, बदमाश। कहा० खटनट त्याला गिन्हार्ईक भट - रद्दी चीजें पुरोहित को दान में दी जाती हैं, मरियल गाय ब्राह्मण को दान।

खटनटघा - वि झगडालू, भावताव करने वाला।

खटपट - स्त्री १ कोशिश, यत्न, चेष्टा। २ परिश्रम, मेहनत, कष्ट, उद्योग, परेशानी। ३ खटपट, अनवन, झगडा। ४ ऐमा काम जिस में बहुत तकलीफ उठानी पडे। [झगडा करना।

खटपटणें - क्रि स झगडना, खटपटघा - वि १ परिश्रमी, मेहनती। २ चलता पुरजा, चालाक। - पु. रसोइया के मातहत काम करनेवाला सावारण नीकर।

खटला - पु [क 'कट्ले'] १ नालिश, मुकदमा, फरियाद, अभियोग। २ झगडा, अनवन, खटपट। ३ ज़मीन, जायदाद, ढोर। ४ खटला, खाट आदि वस्तुएँ, कुनवा, परिवार, बाल-वच्चे। ५ पत्नी, घरवाली। ६ उद्योग, व्यवसाय। ७ झझट, झमेला।

खटलें - न [क 'कट्ले'] १ खटला, खाट आदि वस्तुएँ, सामान - अमबाव। २ बाल-म हि श को ... १५

वच्चे, परिवार, पत्नी। ३ झझट, झमेला। ४ ज़मीन - जायदाद।

खटलेखोर - वि [क 'कट्ले' + फा 'खोर'] १ झगडालू, कज़ियादलाल। २ होशियार, चालाक, चलता पुरजा।

खटलेवार्ईक - वि [क 'कट्ले'] बालवच्चो वाला, गृहस्थ।

खटाटोप - पु १ कडी मेहनत, परिश्रम, दौडधूप, चेष्टा, कोशिश। २ आठवर, झझट, झमेला। ३ शान, ठाठ, दिखावा। ४ शोर, शोरगुल। ५. फैलाव, विस्तार। कहा० खटाटोपो भयकर. - ढोल के भीतर पोल, बाहर से बडी किंतु अंदर से खोखली बात, व्यर्थ परिश्रम।

खटाटोपी - प्या - वि १ दौडधूप, कडी मेहनत करने वाला, परिश्रमी। २ दिखावा, आठवर करने वाला।

खटारा - पु १ गाडा, छकडा, बैलगाडी, लडा, लडिया। २ ढांचा, बहिराकार। ३ रद्दी, पुरानी गाडी (मोटर, वम, ट्रक आदि)। ४ बेकार, भारी चीज। - वि बूढा, मरियल, कमजोर, निरुपयोगी (आदमी, जानवर)।

खट्टा - पु १ कमर की हड्डी, रीढ की हड्डी। २ धमड, शान। मु० - मोडणे - १ कमर टूटना, तोडना। २ धमड उतारना।

खट्टू - वि विफलमनोरथ, हताश, निराश, मायूस, नाखुश।

खटघाळ - वि १ नटखट, शरीर, शरारती, दुष्ट। २ ज़िद्दी।

खडक - पु १ चट्टान, बडा पत्थर, पापाण। २ शिला-समूह। ३ सगदिल आदमी। - वि १ कडा, सूखा। २ चमकदार, साफ।

३ दे 'कडक'। मु० - लागणें - पानी की आशा से खोदने पर पत्थर मिलना, निराशा होना। खडकाला पाप्पर फुटणें - सगदिल आदमी का पसीजना। कहा० खडकावर पेरलें ब्यर्थ गेलें - चट्टान पर अनाज बोने से वह नही उगता, व्यर्थ परिश्रम।

खडकणे - क्रि अ १ सूख जाना, सूखकर कडा बनना। २ भौचक रह जाना।

खडकावणे, खडकाविणे - क्रि स १ रोकना। २ चकित कर देना। ३ डांटना, फटकारना।

खडकाळ - वि १ पथरीला, ककडीला, ककरीला। २ कठिन, मुश्किल। ३ खडविडा, ऊबड - खाबड। - स्त्री १ पथरीली, कक - रीली ज़मीन। २ चटियल ज़मीन, मैदान का माथा।

खडकी - वि पत्थर या पथरीली ज़मीन सबधी। - मीठ - न पहाडी नमक, लाहीरी नमक।

खडक्या - वि निडर, साफ-गो, स्पष्टवादी, दो टूक बात करने वाला।

खडखड - अव्य १ 'खडखड' की आवाज के साथ। २. साफ, दो टूक। ३ तेज़ी से, जल्दी। - स्त्री खडखडाहट, खडखड की आवाज, खडवड।

खडखडणें - क्रि अ खडखडाना, 'खटखट' की आवाज होना, निकलना।

खडखडविणे - क्रि स खडखडाना, खटखटाना, 'खड-खड' की आवाज पैदा करना।

खडखडाट - पु १ खडखडाहट, 'खडखड' की आवाज, खटखट, 'खट-खट' की आवाज। २ साली वर्तन की आवाज, बडा

अभाव, दुर्भिक्ष्य, अकाल ।

खडखडीत - वि कडा, जो सूखकर कडा हुआ हो, सूखा, कोरा । २ स्वस्थ, तदुस्त, मज-वूत, तगडा । ३ साफ - गो, स्पष्टवादी, दो टूक बात करने-वाला । ४ साफ, खुल्लम खुल्ला ।

खडगळ, खडगूळ - दे 'खड-काळ', 'खट्याळ' । [ टपकना ।

खडणें - क्रि अ गिरना, खडतर - वि १ कठिन, मुश्किल । २ उग्र, घोर, तीव्र, अमोघ । ३ शरारती, दुष्ट । - औषध - न अमोघ औषध, रामबाण दवा । - दैव, - नशीब, - प्रारब्ध - न दुर्भाग्य, दुर्दैव । - दैवत - न दुराराध्य देवता ।

खडतरणे - क्रि अ १ खड-खडाना, 'खड-खड' की आवाज होना । २ चौंककर जाग जाना, झटसे उठ बैठना, हडबडाना । ३ चुभना, गडना ।

खडप - पु १ चट्टान, दे 'खडक' । २ ढेर, अटाला ।

खडपा - पु १ बडी चट्टान, दे 'खडक' । २ कगार, कगर, करारा ।

खडवड - स्त्री १ खडवड, खडखडाहट । २ झंझट, गडवड, गोलमाल । ३ झगडा, किचकिच । ४ कवाड, अटाला, टूटी फूटी चीजें, रद्दी सामान । ५ खड-विडापन, ऊबड-खावडपन ।

खडवडणें - क्रि अ १ 'खड-वड' की आवाज करना । २ खड-वडाना, घवराना, हडबडाना, अस्तव्यस्त हो जाना ।

खडवडाट - पु १ खडखडाहट, खडखडाहट, 'खडखड' या 'खड-वड' की आवाज । २ खलवली,

गोलमाल ।

खडखडीत - वि १ खडविडा, ऊबड-खावड । २ खुरदरा ।

खडवडून - अव्य १ हडबडा-कर, चौंककर, खडखडाहट की आवाज सुनकर । २ झंझोडकर ।

खडवुडणें - क्रि अ १. खड-वडाना, डरना, घबडाना । २ खडखडाना, 'खड-खड' की आवाज होना, खडकना । [ चट्टान ।

खडवा\* - पु पहाड, पर्वत, खडस\* - वि मजबूत, स्वस्थ, तगडा (बूढा आदमी) ।

खडस, खडसपट्टी - दे 'खरड-पट्टी' ।

खडसणी - स्त्री १ काट, काट-छांट । २ दे 'खरडपट्टी' ।

खडसणे - क्रि स [ क 'कटियु' ] १ टहनियां काटना । २ वेढगे तौरपर काट डालना । ३ डांटना, फटकारना । ४ जता देना, खवरदार करना, ताकीद करना ।

खडसा - दे 'खडस' ।

खडसाविणे - क्रि स १ डांटना, फटकारना, घुडकना, खरी-खरी सुनाना । २ जता देना, खवरदार करना ।

खडसून - अव्य ठोक वजा कर, कडाई के साथ, साफ-साफ ।

खडा - पु. १ ककड, ककर, पत्थर का छोटा टुकडा । २ टुकडा, चूने का पत्थर । ३ गिटुक (चिलम के छेद पर रखने की ककडी) । ४ डला, डली (नमक, मिसरी, हींग आदि का टुकडा) । ५ गोली, गोटी, टिकिया, बट्टी । ६ गुड की छोटी भेली । ७ पत्थर, हीरा, जवाहर आदि । - न खडा - अव्य अक्षर-अक्षर, हर्फ-हर्फ,

पूरी तरह, विलकुल वारीकी के साथ । मु० - टाकून पाहणें - थाह लेना, अदाजा लगाना, जांच करना । खडे चारणें - १ हैरान, परेशान करना, सताना । २ ची वोलनेपर मजबूर करना, हराना, परास्त करना । खडे फोडणें ( एखाचाच्या नावाने ) - पानी पी-कर कोसना, भला-बुरा कहना । खड्यासारखा निवडून दूर टाकणे, फेंकणे - चुनचुन कर निकाल डालना, जान बूझ कर अलग, दूर रखना, हटा देना । खड्यासारखा बाहेर पडणे - अलग पड जाना ।

खडा - वि १ खडा, सीधा । २ स्थायी, हमेशा का । ३ ठहरा हुआ, रुका हुआ, कच्चा (हिमाव) । - घाट - पु खडी चढाई, सीवी, बहुत कम ढाल वाली चढाई का घाट । - पहारा - पु स्थायी पहारा ।

खडाखड - डा - अव्य १ विना रुके, अस्खलित रूपसे । २ खटाखट, 'खडखट' की आवाज के साथ । [ वक्त । २ झट, तुरत ।

खडाखड - डी - अव्य १ उसी खडाजगी - स्त्री [ हि 'खडा' + फा 'जग' ] १ जोर की लडाई, मारकाट, मारका, हगामा । २ कडाके का झगडा, तू-तू मै-मै ।

खडावा - स्त्री बहु खडाऊं, काठ की बनी खूंटीदार, खुली पादुका ।

खडापटक - न १ वैर, अन-वन, मनमुटाव, जानी दुश्मनी; वडा झगडा । २ पडपटक, एक योग (ज्यो.) ।

खडी - स्त्री १ खडी, खडिया, खडिया मिट्टी, सफेद मुलायम

मिट्टी, या एक तरह के चूने का पत्थर जो लिखने और सफेदी आदि के काम में आता है। २ उत्तू, कपडे पर वेलवूटे या चूनट के निशान डालने का औजार, वेल-वूटे का काम जो इस औजार के जरिये किया जाय। ३ ओझाई, मत्र तत्र। ४ ककडी, गिट्टी। ५<sup>+</sup> टीला, पहाडी। मु० - काढणे - उत्तू का काम करना।

खडी - वि खी १ खडी, दे 'खडा'। २ खरी, सच्ची। ३ साफ, बेलाग। - किमत - न स्थायी, थोक मूल्य। - चाकरी - खी ऐसी नौकरी जिस में विश्राम न मिले। - ताजीम - खी किसी के सम्मान में उठ खडा होना। - रुपार - खी ऐन मध्याह्न का समय। - हुडी - खी खडी हुडी, वह हुडी जिसका रुपया चुकाया न गया हो। खडीसाखर - खी मिश्री, मिसरी, मिस्री।

खडुळ<sup>+</sup> - दे 'गडुळ'। खडुळणे<sup>+</sup> - क्रि अ गँदला होना। - क्रि स गँदला करना। खडू - पु खडिया, 'चाक'। - खी खरिया मिट्टी, रामखली, सिलखडी, सेलखडी। - वि गँदला।

खड्डा - पु गड्डा, गडा, गडहा, गर्त, गार, खड्ड, खड्डा, चह्यच्चा, खत्ता।

खड्ड्या - पु झालने या टाँका लगाने का हथौडी जैसा एक औजार, धातु की चादर जोड़ने के काम आने वाला काँटा।

खड्ड्यानाग - पु १ कौडियाला, एक जहरीला साँप। २ वच जैसी एक जहरीली वनस्पति।

खड्ड्यावाघ - पु चीता - पु।

खडघाळ - दे 'खटघाळ'।

खण - पु १ खड, एक चोली के लिए पर्याप्त कपडा। २ खड, मकान में दो खभो या कडियो (घरनों) के बीच का हिस्सा। इसकी चौडाई पाँच या छ फीट होती है। ३ खाना, अलमारी, मेज़, मट्क आदि का दराज़। ४. स्थान, भूमि। ५ तल्ला, मखिला। ६ मकरसक्रांति के दिन सुहागिनो को दिया जाने वाला मटकियो का दान। ७ दे 'खाण'।

खणकरी - पु खनक, खुदाई का काम करने वाला।

खणका - पु खनक, 'खनखन' की आवाज़। २ झगडा, गोर-गुल, कोलाहल। ३ दे 'खण-खणाट'।

खणकाविणें - क्रि स डाँटना, धौमना, घमकाना, चिल्लाना।

खणक्या - दे 'खमक्या'।

खणखण - खी १ दे 'खण-खणाट'। २ खनक।

खणखण - णा - अव्य 'खन-खन' की आवाज़ के साथ, खनक कर, झन्ना कर।

खणखणणें - क्रि अ खनकना, खनखनाना।

खणखणाट - पु झन्नाहट, झनझनाहट, 'झनझन' की आवाज़।

खणखणीत - वि १ झनझना, खनखना, घनकारा, गरजने वाला, जोरदार आवाज़ का। २ स्वस्थ, तदुरुस्त, तगडा, चगा। ३ साफ-माफ, मुंहतोड। ४ दे 'खडग्वडीत'।

खणणें - क्रि स १ खोदना, खनना, गड्डा करना। २ खोदकर उखाडना, ढहाना। ३ झगडा

खडा करना। ४ ऐठना, जवदंस्ती ले लेना।

खणती - खी १ खुदाई, खोदाई, खोदने की क्रिया। २ चुभन, कसक।

खणपट - खी ज़िद, आग्रह, हठ। मु० खणपटीस वसणें, घणें, लागणें - ज़िद पकडना, ठानना, पीछे पडना।

खणाखण - अव्य. 'खनखन' की आवाज़ के साथ, झनाझन।

खणाखणी - खी १ बडे जोर की लडाई, झगडा। २ दाँता - किटकिट, तू - तू - मैं - मैं। ३ दे 'खडाजगी'।

खत - न खाद, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाली, पेड-पौधो के लिए खाद्यरूप वस्तु।

खत - न [अ 'खत'] १ दस्तावेज़, लेख, तहरीर। २ लकीर, रेखा, चिह्न। ३ खत, दाढी-मूँछोके वाल।

खत - वि क्षत, घाव, ज़रम।

खतखत - १ खदवद, किमी तरल वस्तु के पकते या उबलते समय उसमेंसे निकलने वाली आवाज़। २ चिंता, उत्कठा।

खतखतणें - क्रि अ खद-खदाना, खदवदाना, किसी चीज़ का उबलते समय 'खदवद' शब्द करना।

खतखतें - न १ अनेक माग-मन्त्रियो को मिलाकर बनायी हुई तरकारी। २ छाछ में फिर से पकाया हुआ वासी भात।

खतावणी - खी [अ 'खत'] १ खतौनी, वही ग्याता, प्रपजी, खाता - वही। २ खाते में लिखने की क्रिया। ३ बडई का लकड़ी पर निशान बनाने का औजार।

खतावणे - क्रि स [अ 'खत'] खतियाना, खातेमे चढाना, लिखना।

खतेला - वि १ भरा हुआ, लिप्त, सना हुआ, व्याप्त। २ गदा, मलिन।

खत्रड - दे. 'खत्रूड'।

खत्री - पु. खत्री, वुनकरो की एक जाति, ये लोग रेशम का कपडा बुनते हैं।

खत्रूड - वि १ दुष्ट, परेशान करने वाला, सताने वाला। २ मरियल, कृश, नामर्द। ३ नादान, नालायक।

खदखद - स्त्री १ 'खदखद' या 'खदवद' की आवाज जो किसी चीज के उबलते समय निकलती है। २ जोश, आवेश। अव्य दे 'खदखदा'।

खदखदणे - क्रि अ खदखदाना, खदवदाना, किसी चीज का उबलने समय 'खदवद' शब्द करना।

खदखदा - अव्य १ ठहाका मारकर, अट्टहास करते हुए। २ खदवदाकर।

खदलवदल - स्त्री अदलवदल, अदलावदली, विनिमय।

खदिर - पु खैर का पेड़। - सार - पु खदिरसार, कत्था।

खदिरागार - पु १. खैर का अगारा जो बड़ा तेज होता है। २ बहुत उग्र, क्रोधी व्यक्ति।

खनपट - दे 'खणपट', 'कानफट'।

खनवादी - वि मात्रिक, ओझा।

खनाळ\* - न १ गुहा, गुफा। २ एकांत स्थान।

खनिज - पु न खनिज, खान से निकला हुआ पदार्थ, 'मिनरल'। - वि 'खनिज, खान से

निकाला हुआ।

खनित्र - न खनित्र; खता, फावडा।

खप - पु १ खपत, विक्री, व्यय, खर्च। २ मेहनत, परिश्रम।

खपणे - क्रि अ. १ खपना, विकना। २ खर्च होना, लगना। ३ कष्ट उठाना, काम, परिश्रम करना। ४ सहन होना, वर्दाश्त होना। ५ मरना।

खपरी - दे. 'कपरी', 'खापरी'।

खपरैल - न १ खपरैल, खपडा। २ खपडे से छाया हुआ घर।

खपला - पु १ खपचा, टुकडा, छिलका। २ दे 'खपली'।

खपली - स्त्री १ खुरड, खुट्ठी, सूखते हुए घाव के ऊपर जमने वाली पपडी। २. झिल्ली। ३. सरहना, चौई, मछली के शरीर के खुरड जैसे छोटे-छोटे गोल टुकडे। ४ छोटा टुकडा। ५ खपली, कफली, एक प्रकार का गेहूँ। मु० - काढणें - १ गडे मुर्दे उखाडना। २ पुराना दुख ताजा करना। - घरणें - अगूर वेंचना या भरना, घाव का भरने लगाना। - पडणे - अगूर तडकना या फटना, भरते घावपर की झिल्ली का फट जाना।

खपवणे, खपविणे - क्रि स १ खपाना, वेचना, खत्म करना, कम करना, काम मे लाना। २ मार डालना।

खपा - दे 'खपा'।

खपाट - न १ खाली पेट, घँसा हुआ पेट। २ खोखला, खोखली जगह, कोटर, गढा।

दे 'खणपट'। मु० - बळणें, खपाटीस जाणे - पेट में अन्न न होनेसे उसका घँस जाना।

खपी - दे 'खप्पी'।

खप्पड - वि १ पिचका हुआ, पिचचट, सूखा हुआ, दवा, घँसा हुआ। २ क्षीण; दुबला - पतला, वूढा।

खप्पा - वि [अ 'खफा']। १ खफा, क्रुद्ध, रुष्ट, नाराज। २ ऊवा हुआ, परेशान।

खप्पी, खप्पीवास - वि. १. परिश्रमी, मेहनती। २ होशियार, चतुर, निपुण। ३ चालाक, काइयाँ, उस्ताद, धूर्त। ४ निडर।

खप्पा - वि बहुत परिश्रम करने वाला, हमेशा काम मे व्यस्त रहने वाला।

खबदड, खबदाड - न स्त्री १ ऊबडखावड गढा, गुफा, गुहा। २ खोह, दर्रा।

खबर - स्त्री [अ 'खवर'] १ खबर, समाचार, संदेश। २ जानकारी, पता। - दार - १. खबरदार, सावधान, सजग, चौकन्ना। २ चतुर, निपुण। - अव्य याद रखो, चुप रहो, माववान, होशियार रहो। - दारी - स्त्री १ खबरदारी, सावधानी, होशियारी। २ निश्चय, ज़िद। ३ मजबूती, दृढता। - बात - स्त्री हाल, खबर। मु. - घणें - खबर लेना, डाँटना, फटकारना, वदला लेना।

खबरा - स्त्री बहु [दे 'खवर'] खबरे, अफवाहें, गपें।

खबन्या - वि [अ 'खवर'] १ खबररसाँ, समाचार देने वाला, पहुँचाने वाला। २ गप्पी, गपोडिया। ३ मखदिर।

खबुतर, खबुतरखाना - दे  
'कबुतर' में ।

खमग - वि १ चटपटा, चर-  
परा, मिचम - सालेदार, मज्जेदार;  
स्वादिष्ट, जायकेदार । २ चट,  
चालाक, उस्ताद । - फाकडी - छी  
खीरे का चरपरा कचूमर ।

खमगाई - छी चरचरापन,  
जायका ।

खमवया - वि १ मज्जवूत;  
पक्का । २ चालाक, चट,  
उस्ताद । ३ होशियार, चतुर । ४  
तेज, जोरदार ।

खमगकाकडी - दे. 'खमग-  
काकडी' ।

खमणें - क्रि अ. १ वदाश्त  
करना, सहना । २ गायब होना ।

खमीर - पु. [अ. 'खमीर']  
१ खमीर, गुंघे आटे में सोडा और  
नमक डाल कर बनाया हुआ खट्टा  
आटा । २ ओपघियो में पानी  
डालकर सड़ाया हुआ अरक । ३  
प्रकिण्व; मद्यफेन, सुरामड,  
'यीस्ट' ।

खमीस - पु. [अ. 'कमीस']  
कमीज; कमीस, कफ और कालर-  
दार कुर्ता, 'शर्ट' । [२ जिद ।

खय<sup>+</sup> - छी १ गर्व, घमड ।

खर - पु. खर, गधा ।

खर - छी १ कोयले का  
चूरा, बुकनी । २ कचरा, गदगी,  
मैल । ३ श्वेतप्रदर रोग में स्त्रियों  
के गर्भाशय से बहने वाला सफेद  
पानी, मूत्रशुक्र रोग में पेशाब के  
साथ निकलने वाले वीर्यकण । ४.  
आकाश में फैले हुए सफेद बादल ।  
५ खेती की जमीन को जलाने के  
नाम आनेवाली घास-फूस, सूखी  
टहनियाँ, उपले, कड़े आदि । ६  
ककड़ी, बजरी । ७ नदी की तह

में रहने वाली बालू, कचरा आदि ।  
८. सोने चाँदी को गलाते समय  
राख या मिट्टी में गिरने वाले  
उनके कण ।

खर - वि १ खर, कडा;  
तेज, तीक्ष्ण, तीव्र । २ निष्ठुर,  
वेरहम, चुभने वाला ।

खरकटणे - क्रि स १. घसी-  
टना, जल्दी - जल्दी, लापरवाही  
से लिखना, घसीट लिखावट  
लिखना, लिख डालना, मारना ।  
२ जल्दी - जल्दी पोछना, पोतना,  
रगडना । - क्रि अ १. रेंगना । २  
दे. 'खुरटणे' ।

खरकटा - वि १ कच्ची रसोई  
का, पानी में पकाया हुआ (अन्न) ।  
२ कच्ची रसोई का अन्न लगा  
हुआ । ३<sup>+</sup> जूठन लगा हुआ,  
जूठा ।

खरकटें - न १ कच्ची रसोई  
का शेष अश, पानी में पकाये  
हुए अन्न का अश । २.<sup>+</sup> जूठन,  
खा कर छोड़ा हुआ भोजन ।  
३ झझट, झमेला, अचूरा और  
परेशान करने वाला काम । मु०  
खरकटघा हाताने कावळा न  
हाकणें - जूठे हाथ से कुत्ता न  
मारना, पक्का मक्खीचूस होना ।

खरकन - अव्य १ खर की  
आवाज के साथ । २ झटसे, तुरत,  
जल्द ।

खरका - पु. १ खर्चा, खुजली,  
खसरा, खारिश । २ खुरखुरापन,  
खुरदरापन । ३ घाटा, नुकसान ।  
४ खटका, सभय, डर ।

खरखर - छी १ खरखराहट;  
'खरखर' या 'घरघर' की  
आवाज । २ घरघराहट, गले में  
रफ होनेपर साँम लेते समय होने  
वाली आवाज । ३ आँख की किर-

किरी । ४. किरकिराहट; ककडीला-  
पन । ५ पछलावा, अफमोस ।

खरखर - अव्य. १ 'खरखर'  
या 'घरघर' की आवाज के साथ ।  
२ खुरदरेपन में, घसीट कर,  
खीच-खाँच कर ।

खरखरणे - क्रि अ १ किर-  
किराता, खडकना, 'खरखर'  
की आवाज निकलना, खड-  
खडाना । २ घरघराना, 'घर-  
घर' की आवाज निकलना । ३  
दर्द करना, टीसना; मालना ।

खरखरमुडा - पु. १ मुँडचिरा,  
मुस्लिम भिखारियों का एक वर्ग  
जो अपनी दाढ़ी, सिर, भुजा आदि  
पर अपने हाथोंसे घाव करके भीख  
माँगते हैं । २ कगाल, निर्धन,  
भुक्कड ।

खरखरा - पु १ दे 'खरखर' ।  
२ कसौटी (पत्थर) । ३ आँपकी  
किरकिरी, कसक । ४ चिंता;  
फिक्र । ५ असतोप, नाराजी ।  
६ तिलमिलाहट । ७ साज;  
खुजली । ८ घरघराहट । ९ डर,  
खटका ।

खरखरीत - वि खुरदरा, खुर-  
खुरा, जिसकी सतह चिकनी,  
हमवार न हो, दानेदार ।

खरखा - पु १ फुन्नियाँ । २  
खुजली । ३. दे. 'खरका' ।

खरचटणें - क्रि अ छिलना,  
चमड़े या छिलके का कटकर अलग  
हो जाना या रगडने से उधड  
जाना । [ 'खर्ज' ।

खरचणें, खरज - दे 'खर्जण',  
खरजूला - वि खारिगी,  
खारिश्ती, जिसे खुजली का रोग  
हो, खुजली का मरीज ।

खरड - प्री १ घसीट, जल्दी  
में लिखे हुए अक्षर । २ नगोदा,

खर्चा । ३ भर्त्सना, डांट, फटकार । ४ लकीरे, आडी-टेढी रेखाएँ ।-घाशा - वि १ लिक्खाड ( व्यग मे ), साधारण कोटि का लेखक, क्लर्क । २ अकुशल कारीगर । घाशी - स्त्री तुच्छ कोटि की किरानीगिरी ।-पट्टी - स्त्री डांट, फटकार, भर्त्सना, लानत-मलामत । मु० - काढणे - फटकारना, आडे हाथो लेना, डांट पिलाना, खरी-खरी सुनाना ।

खरडणे - क्रि स १ घसीटना, जल्दी-जल्दी घसीट लिखावट लिखना, किसी तरह लिख मारना । २ छीलना, खुरचना, कुरेदना । ३ दे 'खरडपट्टी काढणे' । ४ पूरी तरह उखाड डालना, नाश करना । ५ भट्टे ढग से मूँडना, सरसरी तौरपर हजामत बनाना । - क्रि अ घसीटना ।

खरडा - पु १ खुरच कर निकाला हुआ, वचा-खुचा अन्न । २ हरी मिर्च की चटनी । ३ वह कागज जिसपर सुलेखन का अभ्यास किया हो, कापी लिखने का कागज । ४ खर्चा, कच्चा मसौदा, प्रारूप, टिप्पणी की काँपी, हिसाब लिखने की वही । ५ अभाव, कमी । ६ छोटी घास । खरडे-घाशी - स्त्री मामूली क्लर्की, दे 'खरड' मे । [ 'खरडघाशा' । खरडी, खरडघा - दे 'खरड', खरनखर - अव्य आखिरकार, अंत मे ।

खरपट-ड - न १ चट्टान । २ अभाव, अकाल । ३ चीख-पुकार ।

खरपुडी - स्त्री १ पपडी; जले हुए भात की परत । २ खुरड, खुट्ठी । ३ झिल्ली, पपडा ।

खरपूस - वि १ खरा, अच्छी तरह सिका या तला हुआ । २ चरपरा, चटपटा । ३ कडा, करारा । ४ पक्का, पुख्ता । ५ तीक्ष्ण, चुभने वाला ।

खरबुजी - वि [ दे० 'खरबूज' ] खरबूजे के रंग या आकार का । - चेहेरा - पु चेचकरू, ऐसा चेहरा जिसपर चेचक के दाग हो ।

खरबूज - न [ फा 'खरबूज' ] खरबूजा, सर्दा, कचरा ।

खरमरा - वि १ खुरदरा, कठोर, कडा । २ प्रखर, उग्र, तेज । ३ होशियार, चालाक ।

खरमरीत - वि कडा, करारा, तीखा, साफ, स्पष्ट, खरा, मुँह-तोड, चुभने वाला ।

खरवड - स्त्री १ खुरचन, कडाही आदि मे नीचे जमा हुआ दूध जो खुरच कर निकाला जाय, कडाही से सूखी और खुरच कर निकाली हुई मलाई की परत, कडाही से खुरचकर निकाला हुआ गुड आदि । २ दे० 'खरडपट्टी' । ३ वची खुची चीज, शेष अंश । ४ तलछट ।

खरवडणें - न खुरचनी, खुरचने का आला । - क्रि स खुरचना, कुरेदना, छीलना ।

खरवस - पु इन्नर, इंदर, पेउसी, पेवस, पेवसी, गाय-भैंस का व्याने के दिन से सात दिनों तक का दूध औट कर बनायी जाने वाली एक मिठाई ।

खरस - स्त्री बहुत अधिक थक जाने पर मुँह मे आने वाला ज्ञाग । मु० - तोड़ीं थेंगे - बहुत थक जाना ।

खरांटा - दे० 'खराटा' ।

खरा - वि १. सच्चा, सत्य । २ सही, ठीक । ३ असली, खालिस, वेमेल, खरा, चोखा, विशुद्ध । ४ अच्छा, बढ़िया । ५ ईमानदार । ६ पक्का, निश्चित, स्थायी । ७ पूरा, समूचा । - अव्य सही, खैर । [ एक तर खरा = सुनो तो सही । ] - खुरा वि वास्तविक, सच्चा, असली । मु० - करून देणें - किसी बात की सचाई या चोखापन सावित करना । कहा० खन्याला मरण नसतें - साँच को आँच नहीं ।

खरा - पु १ गाँठ (हलदी आदि की) । २ खरोच । ३ दाँता, ददाना । ४ ककड ।

खराई + - स्त्री दे० 'खरेपणा' । खराखरां - अव्य. 'खरखर' की आवाज के साथ, घसीटते हुए ।

खराटा - पु १ खरहरा, नारियल के पत्ते की सीको, अरहर के उठलो आदि की वनी झाड़ू । २ बहुत इस्तेमाल से घिमी हुई तीलियो की वुहारी । ३ ठूठ, विना डालपात का सूखा पेड, ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते झड गये हो । ४ अभाव, अकाल ।

खराडी - स्त्री गराडी, चरखी, धिरनी ।

खराव - वि [ अ 'खराव' ] १ खराव, गंदा, बुरा, निकुष्ट, नीच, विगडा हुआ । २ वीरान, निर्जन, उजडा हुआ ।

खरावा - पु [ फा 'खराव' ] १ खरावा, उजडी हुई, वीरान, ऊमर भूमि । २ नुकसान, घाटा ।

खरावी - स्त्री [ अ 'खरावी' ] १ खरावी, हानि, नुकसान, घाटा । २ दोष, बुराई, तवाही, वरवादी ।

खरारा - पु खरहरा, लोहे की कई दंतपक्तियों वाली चौकोर कधी जिससे घोड़े के वदन की गर्द साफ की जाती है। मु. - करणे - खरहरना, खरहरेसे बहारना।

खरिदी, खरीद - दी - दे 'खरेदी'।

खरीदणे - ख्री [फा 'खरीद'] खरीदना, मोल लेना, दाम दे कर लेना।

खरीफ - फ - न वि [अ 'खरीफ'] खरीफ, कार्तिक की फसल, वह फसल जो असाठ - सावन में बोयी और कार्तिक-अगहन में काट ली जाय-धान, मकई, बाजरे आदि की फसल।

खरूज - ख्री खुजली, खारिश की बीमारी। मु. खाजवून खरूज काढणे - खुजलाकर खुजली पैदा करना, जानवून कर आफत मोल लेना, झगडा खडा करना।

खरें - वि सच्चा, वास्तविक, असली, दे 'खरा'। - च - अव्य सचमुच, वास्तव में, असल में।

खरेदी - ख्री [फा 'खरीद'] १ खरीद, क्रय, खरीदारी, मोल लेने की क्रिया या भाव। २ मोल ली हुई वस्तु, खरीद की हुई चीज। - खत - न दे 'खरेदीपत्र'। - दार - वि खरीदार, ग्राहक, मोल लेने वाला। - पत्र - न क्रयलेख्य-पत्र, वनामा, कवाला, क्रय - लेख्य। - विक्री - ख्री खरीद - फरोखत क्रय - विक्रय, लेवा - बेची, खरीदना - बेचना।

खरोखर - रीं - अव्य सचमुच, निश्चित रूप में, वास्तव में, असल में, नि सदेह, वैशक।

खर्च - [फा 'खर्च'] १ खर्च, व्यय, सर्फ। २ लागत। ३ इस्ते-

माल, उपभोग। ४ मर जाना, काम आना। - वेच - पु कुल खर्च, लागत और अन्य खर्च। मु. खर्चीं घालणें, टाकणें - खर्च के मद में डालना, किसी के नाम लिखना। खर्चीं पडणें - १ खर्च हो जाना। २ खर्च के मद में लिखा जाना। खर्चीं पाडणें - १ दे 'इरेस घालणें'। २ किसी से अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना।

खर्चणारा - वि [फा 'खर्च'] खरचने वाला, खर्च करने वाला कहा० खर्चणाग्याचे खर्चेंतें, कोठा-वळ्याचे पोट दुखतें - तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले।

खर्चणें - क्रि स [फा 'खर्च'] १ खरचना, खर्च करना, व्यय करना। २ काम में लाना, इस्तेमाल करना।

खर्चाळ, खर्चाळू - वि [फा 'खर्च'] १ खर्चीला, बडी लागत का, जिस में बहुत अधिक व्यय होता हो। २ दे 'खर्चीक'।

खर्चीक - दे 'खर्चीक'।

खर्चीं घालणें, टाकणें, पडणें, पाडणे - दे 'खर्च' में।

खर्चीं - ख्री [फा. 'खर्च'] १ मार्गव्यय, सफर-खर्च। २ पेशगी, अगीडी, अग्रिमघन, अग्रिम। ३ खर्च की रकम, जीविका, जीवन-यापन के लिए दी जाने वाली रकम।

खर्चीक - वि [फा 'खर्च'] १ खर्चीला, खर्चाच, बहुत खर्च करनेवाला, उडाऊ। २ उदार, दाता। ३ दे 'खर्चाळ'।

खर्ज - पु १ सगीत में निचला या पहला स्वर सप्तक। २ मोटी, भराई हुई आवाज। ३. षड्ज, खरज।

खर्डा - दे. 'खरडा'।

खर्व - वि १ खर्व, खर्व, खरव, दस अरव। २ नाटा, ठिगना। ३ अनाडी। - पु दस अरव, एक हजार करोड की संख्या।

खल - पु १ खल, खरल, खल्ल, पत्थर या लोहे की कूंडी जिसमें दवाएँ कूटते, घोटते हैं। २ मंत्रणा, परामर्श, चर्चा, वहम, सोच-विचार, ऊहापोह। ३ खलियान। [पापी।

खल - वि खल, दुष्ट, नीच, खलक - वि १ दगावाज, छली, फरेवी, कुचक्री, कुचाली। २ नीच, हलकी जाति का, कगाल। खलक - पु [अ 'खल्क'] खलक, लोग, जीव-समष्टि, लोकसमूह, जगत्।

खलणे - क्रि स १ खलना, खरल में घोटना, कूटना, पीसना। २ सोचविचार करना, मंत्रणा करना।

खलवत - न [अ 'खलवत'] १ मंत्रणा, गुप्त वातचीत। २ कुचक, षड्यंत्र। - खाना - पु खलवतखाना, एकांत स्थान।

खलवत्ता - पु. खल-वट्टा, खरल और वट्टा, हावनदस्ता।

खलवल, खलवलणे - दे 'खळ-वळ', 'खळवळणे'।

खलाटी - ख्री १ निचली भूमि, निम्नदेश। २ सगवारा, गाँव के पास की उससे सबद्ध भूमि।

खलाशी - पु. १ माँझी, मल्लाह, नाविक। २ खलासी, जहाज, तोपखाने आदि में छोटे-मोटे काम करने वाला मजदूर।

खलास - वि [अ 'खलास'] १ खत्म, समाप्त। २ मपूर्ण, पूरा। ३. खलास, मुक्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ।



खलिता - पु [ अ 'खरीत ' ]  
 १ खरीता, थैली। २ बड़ा लिफाफा जिसमें सरकारी आदेश भेजे जाते हैं। ३ हम प्रकार प्रेषित सरकारी आदेश, पत्र, राजपत्र, आज्ञापत्र।

खलिपा - फा - पु [ अ 'खलीफ' ]  
 १ खलीफा, हजरत मुहम्मद पैगवर साहब का उत्तराधिकारी, नेता। २ उस्ताद (कुश्ती का)। ३ वजिनियों, वजत्रियों का मुखिया।  
 खलेल - स्त्री [ अ 'खलल' ]  
 १ खलल, दावा, अटवन, रोक। २ शरारत, धिगाईं। ३ जिद। ४ बदमाशी। - वि १ शरारती, ऊधमी, दुष्ट। २ उद्धत, जिद्दी, अटियल।

खल्लक - वि १ कगाल, भुक्खड। २ मरियल, कृश।

खल्लाड - वि मरियल, क्षीण, झुर्रियां पडी हुई (खाल, चेहरा)।

खल्लाळ - दे 'खळखळाट'।

खल्लाट - वि खल्लाट, गजा। - न गजापन, गजी खोपडी। कहा खल्लाटो निर्धन क्वचित् - गजा आदमी शायद ही कगाल होता है।

खवदळणे - दे 'खवळणे'।

खवखव - स्त्री १ खुजलाने वाले पदार्थ के खाने से मुँह में होनेवाली खुजलाहट। २ आँत कुलबुलाना, भूख से होनेवाली वेचनी। ३. दोषा - भावना, अपराध-चेतना। ४ तीव्र वासना, इच्छा (विनापत सभोगकी), मस्ती। ५ लालच। ६ दे 'खुमखुमी'।

खवखवणें - क्रि अ १ खुजलाना, खुजली मालूम होना। २ पछताना, खटकना, चुभना, अपराधी होने की भावना द्वारा

सताया जाना। ३ जलना; जल उठना। ४ अगविशेष वा किसी काम के लिए वेचन होना, फडकना, तीव्र इच्छा होना। फहा खाई त्याला खवपवे - चोर की दाढी में तिनका, जिनने काई अपराध किया हो उसे उसका दिठ ही सताता रहता है।

खवचट - दे 'खवचट'।

खवट - दे 'खवट'।

खवडा - पु १ बालखोरा, खींग, सिर में होने वाला खुजली का फोडा। २ बाल झडने का रोग। मु० - करणे - लज्जित करना, गिल्ली उडाना, पानी - पानी करना।

खवणें - क्रि स. खुरचना, कुरेदना, खरोचना, छीलना, तरागना, करोना। दे 'खवणें'।

खवणा - पु, खवणी - स्त्री खुरचनी, करोनी, नारियल आदि खरोचने का आला, आजार।

खवणा - प्या - पु १ दिगवर जैन यति। २ नगा आदमी। ३ भूत, पिशाच, शैतान।

खवणे - क्रि स नारियल से गरी (खोपरा) खुरचना, कुरेदना, छीलना, तरागना, करोना। - क्रि अ मुँह या जीभ खुजलाना, खुजली मालूम होना।

खवदळणें - दे 'खवळणें'।

खवल - न शरीफे (मीताफल) के छिलके पर के गोल और उभरे हुए छोटे-छोटे, नक्काशीदार खड। २ दे 'खवला'।

खवला - पु १ सरहना, मछली की चोई, मछली के शरीर के खुरड जैसे छोटे छोटे गोल टुकडे। २ साँप की खुरदरी त्वचा या उसपर पाये जाने वाले

धव्वे, केंचुली। ३ दे 'खपली', 'खवणी'। ४ दाग, धव्वा।

खवळणे - क्रि अ १ धुव्व होना, गुम्सा होना, वेकावू होना। २ खीलना, उवलना; उमडना, जोग खाना। ३ पिता उवलना या खीलना।

खवा - पु खोया, खोवा, मावा, भीटाकर लुगदी - मा बनाया हुआ दूध। [ कवा, भुजमूल।

खवा, खवाट - टा - पु खवा, खवीस - पु [ अ 'खवीम' ]  
 १ खवीस, भूतप्रेत। २ शैतान, नापाक, दुष्ट, क्रूर, बदमाश आदमी। ३ बहुत गुस्सावर व्यक्ति।

खष्ट - दे 'खाष्ट'।

खसकन, खसदिशों - अव्य झटके के साथ, 'खस' की आवाज के साथ, गुस्से से।

खसका - दे 'कचका'।

खसखशीत - वि १ खुरदरा। २ साफ, निश्चित। ३ सीधा।

खसखस - स्त्री खसखस, पोस्ते का दाना, खगखाग।

खसखस - स्त्री हँसी की आवाज, कहकहा। मु० - पिकणे - कहकहा लगाना, हँसी की आवाज निकलना।

खसखसणे - क्रि अ 'खसखस' की आवाज करना, होना।

खसखसां - अव्य 'खसखस' की आवाज के साथ, जल्दी से, झटके के साथ।

खसखसाट - पु १ 'खसखस' की आवाज (घास काटने आदि की)। २ अभाव, अकाल।

खसखसून - अव्य १ जोर से, कस कर। २ झट से, जल्दी से। ३ झटके के साथ।

खसबसा - अव्य गर्राकर,

वेदगोपन से, अपमानजनक ढंग से।

खसाखस - अव्य. खटाखट, 'खसखस' की आवाज करते हुए, कचकचा कर।

खस्त - वि [फा 'खस्त']  
१ कल किया हुआ, ध्वस्त, मटियामेट, दुर्दशाग्रस्त। २ भग्न, नाउम्मीद, निराश। - न १ गदगी, कीचड़। २ नुकसान, घाटा। - खी कष्ट, तकलीफ।

खस्ता - खी बहु [फा 'खस्त'] १ चिंता; फिकर। २ कष्ट, तकलीफ, परेशानी। मु० - खाणे - कष्ट उठाना, मुसीबतें झेलना। ['खलक']

खल, खलक - दे 'खल',  
खल - खी १ लेई, लपसी, चिपकाने के काम के लिए घोल कर पकाया हुआ आटा। २ मांडी; मांड, पकाये हुए चावलो का पानी, मड; पसाव, कपड़े या सूत पर दिया जाने वाला कलफ।

खल - पु १ खड, रुकावट; खलल; बाधा। २ देर, देरी।

खल - खी ज़िद, हठ।

खल - वि खल, दुर्जन, दुष्ट, नीच।

खलकन, खलदिशी - अव्य खनक कर, खनकार के साथ, झन्न कर के, 'झनझन' की ध्वनि के साथ।

खलखल - खी १ कलकल, खलखल, झरने या नदी के प्रवाह की ध्वनि। २ झनक, झन्नाहट, झनकार। ३ भावताव, खीचातानी, चखचख, आनाकानी, हुज्जत, तकरार, टालमटूल। ४. वकवास, बकझक। दे. 'खलखळाट'। मु. - करणें - आनाकानी करना, हुज्जत करना।

खलखल - अव्य. कलकल निनाद करते हुए; 'खलखल' की ध्वनि के साथ, जोर से, बड़ी मात्रा में; खुल कर।

खलखलणें - क्रि अ १. खनकना (चूड़ियों का)। २ झनझनाना। ३ खडकना (पत्तों का)। ४ 'कलकल' ध्वनि के साथ बहना (पानी का)।

खलखलणे - क्रि स १ खंगालना; पानी से साफ करना, उरसना, बोये हुए कपड़े को पानी में ऊपर-नीचे करना। २ झनझन की आवाज करते हुए गिराना।

खलखळा - अव्य दे 'खलखल' - अव्य।

खलखळाट - पु १ पानी के प्रवाह की जोर की आवाज, खलखल, तरल पदार्थ को दोतल आदि से उँडेलने या खिलखिला कर हँसने की आवाज। २ नाला, प्रवाह। कहा उथळ पाण्याला खलखळाट फार - थोथा चना बाजे घना, अवजल गगरी छलकत जाय।

खलखळीत - वि १ जिससे 'खलखल' की आवाज निकले। २ सूखा, (ऐसा भात) जिसके चावल अलग - अलग हो। ३ साफ, स्वच्छ। ४ पतला, जिसमें बहुत पानी हो।

खलगा - पु १ गड्ढा, गढा, गर्त, गार। २ दे 'खळी'।

खलगी - खी १ छोटा गढा। २ पेट।

खलणे - क्रि अ. १ रुकना, थमना, खलल, बाधा पडना। २ वीर्यपात, शुक्रपात होना।

खलवळ - खी १ खलवली, खलभली, हलचल, बेचैनी, गडबडी। २ हडकप; तहलका,

आतक। ३ धूम। ४. सनसनी; सनसनाहट।

खलवळणें - क्रि स १ खंगालना, मँजे - धुले वरतन को पूरी सफाई के लिए फिर से धोना। २ उरसना, धुले कपड़े को पानी में फिर से हिलाहिला कर धोना। - क्रि अ १ खलवलाना, क्षुब्ध, बेचैन होना। २ दे 'खलखळणे'। ३ गुडगुडाना।

खलवळा - अव्य. झँझोड कर, झकझोर कर, जोर के साथ।

खलवळा - पु. १ खलवली, खलभली। २ विद्रोह, विप्लव। ३. जोर की हलचल।

खलवळाट - पु, खलवळी - खी, खलवली, खलभली, गडबडी, बेचैनी। दे 'खलखळाट'।

खलवळीत - वि खुले दिल का, अनौपचारिक, धरेलू (आदमी, बातचीत)।

खलमळ - पु. १ नये कपड़े का कलफ, लेई। २ गदगी, मँल, कचरा। २ मन का पाप, किल्बिष।

खलवाद - पु वितडा, हुज्जत, ज़िद।

खलवादी - धा - वि वितटावादी, हुज्जती, जिद्दी, झगडालू।

खळाळ, खळाळां - दे. 'खलखळाट', 'खलखळा'।

खळाळी - खी १ खलखल, कलकल, प्रपात के गिरने की आवाज, दे 'खलखळाट'। २ कलकल निदाद करने वाला नाला। ३ दे 'खलवळ'।

खळी - खी १ गड्ढा, गढा, गुल, हँसते समय भरे हुए गालों में पडने वाला गड्ढा। २. नाला। ३ दे 'खळ'।

खळें - न १ खलियान, खलि-

हान, वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी और मांडी जाय। २ घेरा, हाला, मडल, कुडल (चद्र - सूर्य का)। मु० - पडणें - घेरा, मडल, हाला पडना।

खळया - वि जिद्दी, हठी।

खांक - दे 'काख'।

खाकमाजरी - छी कँखवारी, कँखोरी, काँख का फोडा।

खाकर - वि वूढा, जीर्ण-शीर्ण। - न ठूँठ, ठुठ,।

खाकर - रा - पु गाँकर, लिट्टी, वाटी,

खाकरणें - क्रि अ १ खँखा-रना, खखारना, खखार निकालना, थूकना, खरखराहट के साथ गले में चिपका हुआ कफ निकालना। २ सकेत रूप में खाँसना।

खांकरा - पु खखार, वल-गम, खखारने से निकलने वाला गाढा, लसदार कफ।

खाकोटी - दे 'काखोटी'।

खाखरणें दे 'खाकरणें'।

खाच - छी [क 'कच्चु'] १ पाछ, चीरा, काट। २ छोटा गड्ढा। ३ घाटा, हानि। - खळगा - पु गड्ढा, गढा; कठिनाई, रुकावट, दिक्कत। - खोंच छी १ खूबी, वारीकी, मर्म, रहस्य, गूढार्थ। २ चढावउतार, विपमता, अँचनीचपन। ३ घटाव-वढाव।

खाचणें - क्रि स [क 'कच्चु'] १. पाछना, चीरा लगाना। २ काटना, खडन करना। ३ घटाना।

खाचर - न [क 'कच्चु'] १ गड्ढा, गढा। २ नाला। ३ धान आदि का नीचा खेत, अरबी

आदि की ब्यारी जिस में काफी पानी रह सकता है।

खाचा - पु १. पाछ, गढा, चीरा। २ कगूरा।

खांटोळी<sup>+</sup> - छी चावल के रवे से बनाया हुआ एक मीठा पकवान जो कतलो की शकल में होता है।

खांड - न १ खड, टुकडा। २ रेवड, झुड, भेडो का समूह, गल्ला। ३ अनाज का टूटा हुआ दाना। - छी १ दरार, चीरा, दरज। २ दाँता, ददाना। ३ खाँड, कच्ची चीनी। - वि १ घना। २ फटा हुआ, जिसमें दरार पडी हो। - गळी, -गाळी (शिबी) - वि सुहागिन को राँड या वेवा कहकर दी हुई गाली।

खाड<sup>+</sup> - न दाढी और गल-मुच्छा। २ दाढी बनाना, दाढी की हजामत। - मिशा - छी बहु दाढी और मूँछें। [तलवार।

खाड - पु खाँडा, खड्ग; खाडके - न गन्ने का टुकडा।

खांडणें - क्रि स १ तोडना, फाडना, टुकडे - टुकडे करना। २ खोदना। ३ चवाना, कुतरना। ४ निरसन, खडन करना। ५ रोकना। ६ अलग, पृथक् करना।

खांडा - पु, खाडे - न खाँडा, खड्ग, सीधी और कुछ चौडी तलवार।

खाडा - पु १ शस्त्र या हथियार के फल में पडा हुआ गढा, ददाना। २ गड्ढा, गढा।

खाडाईत - वि खड्गधारी, तलवार धारण करने वाला।

खाडी - छी दे 'खाड', 'खाडा', 'खिड'।

खांडुक, खाडूक - न १ फोडा, जखम, नासूर। २ दे 'खवडा'।

खाडेकर - री - पु खड्गवारी, तलवार धारण करने वाला।

खाडेनवमी - छी वाश्विन शुक्ला नवमी। इस दिन शस्त्रो और औजारो की पूजा की जाती है।

खाडोळें - न टुकडा, वोटी। मु० खाडोळीं करणें - वोटी - वोटी करना, काटना, गरीर को काट कर टुकडे - टुकडे करना। [शाखा।

खाद-दो<sup>+</sup> - छी टहनी, डाली, खाद - १ कघा, स्कंध, शाना, मोढा। २ आदत, अभ्यास। ३ होट, स्पर्द्धा। ४ बोझ ढोने से या जुए की रगड से कघे में हुआ घाव या पडा घट्टा। ५ आधार, आश्रय। - की - वि कघा देने वाला, अरथी ढोने में कघा देने या लगाने वाला मु० - पाडणे - आदत डालना।

खादणे - क्रि स खोदना।

खादा - १ कघा, शाना, मोढा, स्कंध। २ वैल या भँसे की गरदन के ऊपर का भाग जिसपर जुआ रखा जाता है। ३ पेड का वह भाग जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं। मु० - टाकणे - कघा डाल देना, वैल का कघेपर जुआ न लेना। - देणें - कघा देना, अरथी ढोने में कघा लगाना। - येणें - कघा लगाना, जुए की रगड से कघे में घाव या सूजन होना।

खांदाड - न १ बडी टहनी या शाखा। २ मोटा कघा, गरदन।

खादाडणे - क्रि स १ कघे पर बोझ चठाना। २ जिम्मेदारी लेना।

खादाडी - छी १ कघा। २ खुरजी, कघेपर डालने की थैली।

खादी - छी १ टहनी, डाल, डाली, शाखा। २ दे खादा।

खादेकरी - पु. १ कधा देने वाला, अरथी ढोने में कधा लगाने वाला । २ कवेपर बोझ ढोने वाला मजदूर, कुली ।

खादेपालट - स्त्री १ बोझ को एक कवे पर से दूसरे कवे पर लेना । २ एक की जिम्मेदारी का दूसरे द्वारा उठाया जाना ।

खाद्या - टे 'खादेकरी' ।

खाप - १ ढेर, राशि, गड्डी, ढोली । २ फाँक, टुकड़ा, कतला ।

खाव - पु. १ खभा, स्तभ, सतून । २ केले आदि का तना । ३ आधार, सहारा, टेक । ४ घर या समाज का नेता, आधार-स्तभ । - सूत्र - न कठपुतली का नाच दिखाने वाला, सूत्र-सचालक । [छोटा खभा, टे 'खाव' ।

खावला - पु, खावली - स्त्री - खासणे - क्रि अ खाँसना ।

खाई - स्त्री १ खाई, खदक, किले परकोटे आदि के चारो ओर रक्षार्थ खोदी हुई नहर, गड्ढा, गढा । २ सती होने के लिए बनायी हुई खाई, अगारो से भरा हुआ गढा ।

खाई - स्त्री क्षय, नाश, ह्रास ।

खाई - वि खाने वाला, जो खाता है । - क्रि स खाता है । कहा० खाई त्याला खवखवे - चोर की दाढी में तिनका ।

खाऊ - पु १ खाने की चीज, मिठाई, खाजा (वच्चो को बोली) । २ घस, रिश्वत । - वि १ खाने वाला, खारू, बहुत खाने वाला, घूस लेने वाला । २ वर्दाश्त करने वाला ।

खाक - टे 'काख' ।

खाक - स्त्री ['फा खाक'] खाक, धूल, मिट्टी, राख । - वि

जला हुआ, जलकर खाक हुआ ।

खाकर, खाकरणे, खाकरा - टे. 'खाकर,' 'खाकरणे,' 'खाकरा' ।

खाकरी - स्त्री खखार, खखा-रने की क्रिया, मचली ।

खाका - पु. टे 'खाक्या' । - स्त्री बहु वगले, काँखें । मु० - वर करणें - वगले झाँकना, इनकार करना ।

खाकी - वि [फा 'खाकी'] मिट्टी के रगका, मटियाला । - स्त्री हीनता । ['काखोटी' ।

खाकोटी, खाखोटी - टे खाक्या - पु [फा 'खाकः'] ढग, तर्ज, तरीका, रिवाज, प्रथा ।

खाखा - स्त्री १ खाने की तीव्र इच्छा, बडी भूख । २ पेटपुन, भुक्खडपन । मु० - सुटणे - बहुत खाने की इच्छा होना ।

खागे - \* न १ अतिम स्थान, लक्ष्य । २ खाद्य, खाने की वस्तु ।

खाच, खाचणे; खाचर; खाचा - टे 'खाच', 'खाचणे', 'खाचर', 'खाचा' ।

खाज - स्त्री १ खाज, खुजली, खारिश, सुरसुराहट । २ प्रवल मनोवेग, आवेग, तीव्र इच्छा । - कुइली, - कोयरी - ली - स्त्री केवाँच, कौँच ।

खाजगत, खाजगी - टे 'खामगत', 'खासगी' ।

खाजण - न १ खाडी का वह भाग जिस में भाटे के समय बहुत कम पानी रहता है । २ कीचड वाली खारी जमीन जिस में धान की खेती की जाती है । ३ नमक बनाने की क्यारी ।

खाजणें - क्रि अ. खुजलाना,

खुजली मालूम होना, चुनचुनाना । खाजरा - री - रें - वि चुन-चुना, चुनचुनाहट, खुजली या खुजलाहट पैदा करने वाला ।

खाजव - टे 'खाज' ।

खाजवाखाजव - स्त्री १ खुजली, खुजलाहट, ग्राज । २ चुगलखोरी, झगडा लगाना । ३ चिढ, क्षोभ ।

खाजविणें - क्रि स १ खुजलाना, खुजाना, खुजली मिटाने के लिए त्वचा को मलना, रगडना, नाखून से खरोचना । २ सताना, परेशान करना, झगडा लगाना । मु० खाजवून खरूज काढणें - झगडा लगाना, खडा करना, मोल लेना, गडे मुर्दे उखाडना ।

खाजाळू - वि १ झगडाळू । २ खुजली पैदा करने वाला । ३ कामुक, विषयामक्त ।

खाजें - न १ 'ख' से आरभ होनेवाले पाँच खाद्य पदार्थ - खारीक (छुहारा), खोवरे (खोपडा), खसखस, खिसमिस (किशमिश) और खडी साखर (मिसरी) । २ परचून । ३ खाजा (मिठाई) । ४ प्रिय खाद्य । - वि प्रिय, बढ़िया मीठा (भोजन) ।

खाट - पु. घाँस, मिर्च, तवाक आदि की गव से उठने वाली खाँसी ।

खाट - स्त्री खाट, खटिया, चारपाई । - खटलें - न खाट-खटोला, वोरिया - वधना । -

खिळ्या - वि खाट से लगा हुआ, हमेगा वीमार रहने वाला । - मार - पु. खटिया से बाँधकर कोडे लगाना । मु० खाटेवर चढणें - कृतघ्न बनना ।

खाट क - की - टे 'खाटीक'

खाटले - न १ खाट, खटिया; चारपाई। २ सप्तर्षि-मडल, सात ताराओ का एक मडल। ३ खाट-खटोला, बोरिया - बघना। ४ वैलगाडी। दे 'खाट'।

खाटिक, खाटीक - पु कसाई, कस्साव, बूचड, पशुओ को काटकर उनका मास बेचने वाला। - वि बेरहम, वेदर्द, निर्दय क्रूर,। - खाना - पु कसाईखाना, बूचड-खाना।

खाडकी - छी मकान बनाने के काम आने वाला काला बडा पत्थर।

खाडकन्, खाडकिशी - अव्य. खट से, तडाक से, फट से, चट से, चटाक - पटाक, चटाख - पटाख।

खाडखाड - अव्य १ 'खाड खाड' की आवाज के साथ। २ बिना रुके, साफ - साफ, अचूक।

खाडा - पु १ नागा, अज्ञा, अनुपस्थिति, गैरहाजिरी। २ खलल, वाधा, रुकावट। ३ गड्ढा, गढा। दे 'खड्डा'।

खाडी - छी १ खाडी, खलीज, समुद्रका वह भाग जो तीन ओर खुशकी से घिरा हो। २ नदी का वह भाग जिस में समुद्र के ज्वार का पानी पहुँचता है।

खाडू - वि १ शरारती, दुष्ट, ऊधमी। २ जिसके मूँछें न हो। ३ हिजडा, नपुसक। ४ बुद्धू।

खाण - छी १ खान, खानि, कान, खदान। २ स्रोत, आकर, भंडार, खजाना। ३ स्थान, निवास। - न दे 'खाणें'। - करी - पु खानक, खान खोदने वाला। कहा० खाण तशी माती - जैसी खदान वैसी मिट्टी, जैसी माँ-वाप

होगे वैसे ही बच्चे भी होंगे।

खाणणें - दे. 'खणणे'।

खाणाखुणा - छी बहु १. निशान, चिह्न, हुलिया। २ पता, सुराग, अतापता।

खाणावळ - छी ढावा, वासा, भोजनालय, 'होटल'।

खाणी - छी १ दे 'खाण'। २ योनि, जन्म। ३ उत्पत्तिस्थान, उद्गम।

खाणें - क्रि स १ खाना, भक्षण करना, भोजन करना। २ निगलना, चूसना, चवाना (पान, गँडेरियाँ), चाट जाना (कीडो आदि का)। ३. रिश्वत लेना। ४ खर्च करना, नष्ट करना। ५ सहना, वर्दाश्त करना। ६ लगने, पडने देना, अदर लेना (घूप, हवा आदि)। ७ हडपना, गवन करना। ८ लेना (कसम)। ९ छोड देना। १० खटकना, चुभाना, काटना। मु० जीव, प्राण खाणें - सिर खाना, सताना, व्यर्थ की बातों से परेशान करना। डोकें खाणें - सिर खाना, व्यर्थ की माथापच्ची करना, बकझक करना। दातओठ खाणें - दाँत पीसना, दाँत चवाना। कहा० खाई प्याला खवखवे - दे 'खाई'।

खाईन तर तुपाशीं नाहीं तर उपाशी - खायेंगे तो घी के साथ, वरना भूखों रहेंगे, अगर सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाय तो स्वीकार करेंगे, वरना कुछ भी नहीं लेंगे। खायला आधीं, निजायला मधीं, कामाला फधीं - मधीं - खाने को सब से आगे, सोने को बीच में और काम को शायद कभी - कभी। खायला काळ आणि भुईला भार - केवल खा-पीकर

जीवन-विताने वाला; मुफ्तखोर, निकम्मा।

खाणें - न खाना, खाद्य, खाने की चीज; भोजन। - पिणें - न १ खाना - पीना, भोजन - पान। २ खानेपीने का सुख भोगना।

खातर - छी [अ 'खातिर'] १ परवाह, चिंता, फिर। २ विश्वास, यकीन। ३. खातिर, मर्जी, इच्छा। ४ खयाल, विचार। ५. लिहाज, आदर, सत्कार। - अव्य. खातिर, वास्ते, लिए। - जमा - छी खातिरजमा, इत-मीनान, विश्वास, यकीन, दिल-जमई। - वि निश्चित, बेफिक्र।

खातरा - पु १. खाद, कचरा। २ गड्ढा, गढा।

खातरी - छी [अ 'खातिर'] १ दे 'खातिर'। २ जमानत। - चा - वि भरोसे का, विश्वसनीय। - दार - वि पु १ जामिन, जमानत करने वाला। २ दे. 'खातरीचा'। - लायक - वि भरोसे का, विश्वसनीय।

खाता - वि खाने वाला। - पीता - वि खुशहाल; जिसके लिए खाने - पीने की कमी न हो।

खातीर - दे 'खातर'।

खातें - न [अ. 'खत'] १ खाता, लेखा, हिसाब। २ मद्द, विभाग। ३, वह वही जिसमें हर एक ग्राहक, असामी आदि का अलग अलग हिसाब लिखा जाय। ४ महकमा, विभाग, सरिश्ता, शोवा, शाखा। ५ उवार का व्यवहार या लेन-देन। - दार - पु १ वह ग्राहक जिसके साथ उवार का व्यवहार चलता हो। २ न्यासकर्ता, नक्षेपक, बैंक में पैसा जमा

करने वाला, वह जिसका किमी बैंक में खाता हो। ३ जमीनदार, भस्वामी। - पोतें - न लेन-देन, जमा-खर्च। - मिळवणी - छी लेखा - समजन, समजक टीप, 'अॅडजस्टमेंट ऑफ अकाउंटस,' 'अॅडजस्टिंग एन्ट्री'। - वही - छी खाता, प्रपजी, वही-खाता, लेखा वही। मु० - ठेवणे - हिमाव खोलना, लेन - देन का व्यवहार रखना। - पोतें बरोबर होणें - १ जमा और खर्च बराबर होना। २ लेखा पूरा या साफ होना, हिसाव चुकता होना। ३ सबकुछ छिन लिया जाना।

खातेरें - न १ गड्ढा, गढा, दे 'खाचर'। २ कूडा - खाना, कतवारखाना।

खान्नी - टे 'खातरी'।

खाद्य - छी १ खाद्य, खाने की चीज, खाना, आहार, भक्षण। २ अच्छा खाना - पीना, पोष्टिक आहार। ३ हडपना, रिश्वत, शवन। ४ लालच के साथ खाना। ५ कुतरना, दांतों से काटना।

खाद<sup>+</sup> - दे 'खाज'।

खादणे - क्रि स. खाना, भक्षण करना।

खादाड - वि पेटू, खाऊ, घम्मर, भकोसू, बहुत अधिक खाने वाला। - मावशी - छी पेटू स्त्री।

खादी - छी १ खादी, खद्दर, हाथ का कता-बुना कपडा, गञ्जी। २ दे 'खाद'।

खाद्य - पु खाद्य, खाने की चीज, भोजन। - वि खाद्य, खाने योग्य।

खाद्या - वि खानेवाला, पेटू।

खान\* - न १ खान,

खोदना। २. नकवजनी, सेघ लगाना, मेव मार कर की हुई चोरी। [२ थाली।

खान - न १ खान, खाना।

खानदान - न पु छी [फा 'खानदान'] उच्च कुल, गरीफ घराना, ऊँचा खानदान। - वि कुलीन, ऊँचे कुल में जनमा हुआ।

खानदानी - छी [फा 'खानदान'] दे. 'खानदान'। - वि खानदानी, कुलीन, ऊँचे कुल का। - चा - वि ऊँचे कुल में जनमा हुआ।

खानेशुमारी - छी [फा. 'खानशुमारी'] १ जनगणना, मर्दुमशुमारी। २ खानाशुमारी, (किसी गाँव, नगर के) घरों की गिनती।

खाप - दे 'खाप'।

खापर - न १ खपडा, खपरा, खप्पर, ठीकरा, मिट्टी के टूटे हुए बरतन का टुकडा। २ खपरैल। ३ नालायक व्यक्ति, मुरदार, नाकारा आदमी (स्त्रि)।

४ खोपडी। ५ असफलता, अपयश। - तोड्या - वि अभागा, नाकारा, निकम्मा। - पणजा - पु. परदादा के दादा, परताना के नाना, चालू पीढी से पूर्व छठा पुरुष। - पणतू - पु परपोते का पोता, परनाती का नाती। - पोळी - छी मिट्टी के खपडे पर सेकी हुई चावल के आटे की रोटी। मु० - फुटणे - मत्थे मढा जाना, असफलता की जिम्मेदारी आ पडना। - फोडणे - (सिरपर) ठीकरा फोडना, मत्थे मढना, सिर थोपना, किसी दूमरे के दोष या अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराना।

खोदना। २. नकवजनी, सेघ लगाना, मेव मार कर की हुई चोरी। [२ थाली।

खापरी - छी १ खप्पड, खपडा, ठीकरा, मिट्टी के टूटे हुए बरतन का टुकडा। २ खपरैल। [हवशी, नीग्रो।

खापरी<sup>+</sup> - पु. [पुर्त 'काफ्रे']

खापलणे - क्रि स १ काटना।

२ खात्मा करना।

खाबू - वि १ खाऊ, पेटू, लालची। २ घूसखोर, रिश्वत-खोर। - गिरी - छी घूसखोरी, रिश्वतसितानी।

खायखाय - छी पेटूपन, बहुत अधिक खाते रहने की इच्छा।

खार - पु १ खार, क्षार, नमक। २ क्षारगुण, खारापन। ३ अचार का रस। - छी १ रेह, लोना, सज्जी। २ खारी जमीन, समुद्र को पीछे हटा कर बनायी गयी जमीन। ३ नुकसान, घाटा।

- न सुखायी हुई खारी मछली। - वि खारा, नमकीन। - जमीन-छी खारी भूमि, ऐसी जमीन जिसमें लोना हो। - वणी - छी खारा पानी। मु० - खारणें - खार खाना, जलना, द्वेष करना। - लाबून घेणे - नुकसान उठाना, घाटा सहना। - लागणें - १ घाटा होना। २ कालिख लगना, बट्टा लगना।

खार - छी गिलहरी, पेड़ों पर रहने वाला चूहे जैसा एक छोटा जंतु, गिलाई, चिखुरी।

खारद - वि खारा, नमकीन। - घोट - वि बहुत खारा। - तुरद - वि खारा - कसैला, खट - मीठा, खट्टा - मीठा।

खारवणे - क्रि स खारा, नमकीन बनाना। - क्रि अ खारा, नमकीन बनना।

खारवा - पु खारवा, खारवा,

खारवा - पु खारवा, खारवा,

खारवा - पु खारवा, खारवा,

एक तरह का गहरे लाल रंग का कपडा।

खारवा-वी - पु. २ मल्लाह; माँझी। २ मछली - मार, मछुआ।

खारा - वि १ खारा, खारी, नमकीन। २ खारे पानी की (मछली)। ३ खारी (हवा)। - वारा - पु. दिन में समुद्र की तरफ से ज़मीन की ओर वहने वाली हवा।

खाराणी\* - स्त्री ऐमा कपडा जो पेशाव लग जाने के कारण गदा हो गया हो या जिसपर पेशाव किया गया हो।

खारावर्णे - क्रि अ १ खारा, नमकीन बनना। २ खारी हवा के लग जाने से आँखों का लाल हो जाना। - क्रि स खारा, नमकीन बनाना।

खारीक - स्त्री [फा 'खारक'] छुहारा, छुवारा, खुरमा, सूखा खजूर।

खारीमाती - स्त्री खारी मिट्टी, लोनी, शोरा या नमक निकालने की मिट्टी।

खारें मीठ - न खारी नमक, लोना मिट्टी या खान से निकाला हुआ नमक।

खाल\* - स्त्री १ खाल, चमडा। २ छिलका। ३ खोल, गिलाफ।

खाल<sup>+</sup> - अव्य दे 'खाली'। खालचा - वि १ नीचे का, निचला। २ मातहत, आज्ञाधीन। ३ हलका, निम्न स्तर या श्रेणी का। मु० खालच्या मानेचा - विनीत, नम्र।

खालता\* - दे 'खाली'। खालतीं - अव्य नीचे। मु० - येणें - १ गिर जाना, ढहना।

२ घाटा होना।

खालमान्या - वि गर्दन नीचे झुकाकर, मासूम बन कर, शरारते करने वाला।

खालला - वि नीचेका।

खालसा - वि [अ. 'खालिम'] १ खालिसा, जो राज्य के प्रति-वध में, राज्य की मपत्ति हो। २ जो देशी नरेशों के नहीं, अग्रेजों के कब्जे में हो। ३ ज्वत्, कुर्क, राज्यसात् किया हुआ। पु. १ खालमा, वह सरकारी ज़मीन या इलाका जिसका प्रवध सरकार खुद करे और जो किसी की जागीर, जमीनदारी न हो। २ वह इलाका जो देशी नरेशों के नहीं, अग्रेजों के कब्जे में था। ३ सिखों का एक प्रमुख संप्रदाय।

खाला<sup>+</sup> - अव्य. नीचे।

खालाट - न, खालाटी - स्त्री दे 'खलाटी'।

खालावर्णे - क्रि अ १ घट जाना, कम होना। २ खराब हो जाना, बुरी हालत होना। ३ गिर जाना। ४ हास, अपकर्ष, क्षय, पतन, विगाड, गिरावट, अव-नति होना।

खालाविणें\* - क्रि स गिराना, ढहाना, अपमानित करना, नीचा दिवाना।

खालीं - अव्य १ नीचे, तले, तल में, अधोभाग में। २ मातहत, अधीनता में। ३ के नाम से, के वहाने। ४ सीमा, हद के अंदर। - वर - अव्य नीचे-ऊपर, उलटा-सीधा। मु-येणे - गिरना, बुरी हालत होना, दे 'खालावणे'। - वर पाहणें - चारों तरफ ध्यान से देखना। - वर हीणें - बहुत चिंतित होना, दिल धडकना, कलेजा

धकधक करना। कहा० खाली मुंडी पाताळ घुडी - वगल में छुरी और मुँह में रामनाम।

खाली - वि [अ 'खाली'] १ खाली, रिक्त; रीता, रहित; जिसमें कुछ बरा-भरा न हो, जिममें कोई रहता न हो। २ बेकार, निकम्मा। - अव्य १ खाली, केवल। २ व्यर्थ, नाहक। - पिली - अव्य नाहक, व्यर्थ, अकारण, वैमतलव।

खालील - वि १ नीचे का। २ निम्नलिखित। ३. मातहत। खालून - अव्य. नीचे से, नीचे की तरफ से।

खाले-ले<sup>+</sup> - अव्य नीचे। खालोखाल - अव्य कुछ कम; अन्तर, दूसरे नवर पर।

खाल्ला, खाल्लेला - वि खाना हुआ। खाल्ल्या घरचे वाने मोज-णारा - वि कृतघ्न, नमक हराम। मु खाल्ल्या घरचे वासे मोजणें - जिस पत्तल में खाना उभीमें छेद करना।

खाल्वटी - स्त्री १ खान-पान, भोजन। २ अन्नमग्रह, वरसात के दिनों के लिए अलग रखा हुआ अनाज। ३ दे 'पोटणी'।

खाल्वणी-नी\* - स्त्री १. मनो-भाव, मनोवृत्ति, इच्छा। २ हेतु, उद्देश्य।

खाल्वद, खाल्विद - पु. [फा 'खाल्वद' - 'खुदावद' का लघु०] १ खाल्विद, स्वामी, सरकार, महाराज, मालिक। २ पति।

खालशा - अव्य दे 'खाली', 'खालसा'। - निशी - अव्य स्वयं, खुद।

खालशी - अव्य [अ 'खालसा'] वाहवाह! बहुत अच्छा! क्या

खूब ! क्या कहना है ।

खाशी - वि [अ 'खास']  
खास, विशिष्ट, चुनिंदा, बढ़िया ।  
-पगत - खी विशिष्ट, चुने हुए  
लोगों या मालिकों का भोजन या  
पगत । - मंडळी - खी विशिष्ट  
जन, चुने हुए, प्रमुख लोग । -  
स्वारी - खी १ स्वामी, मालिक,  
राजा । २ विशिष्ट लोगों का  
जुलूस । ३ (मजाक में) मैं, अपने  
राम ।

खाष्ट - वि १ वदमाश, दुष्ट,  
गरारती, सताने वाला । २ चिड-  
चिडा, तुनक मिजाज । ३  
मुश्किल, कठिन ।

खास - वि [अ 'खास']  
१ खास, मुख्य, विशेष । २  
चुनिंदा, चुना हुआ, बढ़िया ।  
३ राजा या राज्यसवधी । ४.  
व्यक्ति विशेष से सवध रखने  
वाला, निज का, निजी । ५  
असली, शुद्ध, खालिस । - अव्य  
१ निश्चय ही, यकीनन्, निश्चित  
रूप से । २ ठीक, त्रिलकुल,  
ठेठ । ३ स्वयं, खुद । - कहन -  
अव्य खाम कर, विशेषत, खाम  
तौर से । - खवर - खी १ विश्व-  
मनीय समाचार । २ सरकारी  
समाचार । - खेल - पु. सेनापति । -  
गत - वि खानगी, निजी,  
जाती । - दार - पु १. ससद -  
मदस्य, विधानपरिषद् का मदस्य ।  
२ अगारक्षक । ३ सार्ईम । -  
दारकी, - दारी - खी मसद  
मदस्यता । - नवीस, - नीस - पु.  
खासनवीस, खास कलम, निज का  
मुशी, निजी सचिव, 'प्राइवेट  
सेक्रेटरी' - निशी - खी १ वह  
पगत जिनमे राजा या यजमान  
(मेजवान) भोजन करता है । २

चुने हुए लोग, ऊँची जाति के,  
शिष्ट लोग । - स्वारी - खी १  
स्वयं राजा या सरदार । २ राजा  
या सरदार का दलवल या साज-  
सामान ।

खासगी - वि [अ फा  
'खासगी'] खानगी, निजी,  
जाती, घरेलू । - खी किसी राजा  
या व्यक्ति की निजी जायदाद या  
कारोवार । - चा - वि निजी,  
जाती । - वाला - ले - पु. निजी  
सचिव, खास दीवान ।

खासा - वि [अ 'खास']  
१ खासा, चुनिंदा, अच्छा,  
बढ़िया, ऊँचा, सुंदर, श्रेष्ठ । २  
राजा, मरदार, अमीर आदि  
सवधी । ३ मुख्य, प्रधान । ४  
वैद्य, औरस, जायज । - पु १  
मालिक, सरकार । २ पति,  
शीहर ।

खास्त - ती + - खी [अ  
'खिस्त'] १ जलन, द्वेष ।  
२ कुहन, भीतर ही भीतर दुख  
करना ।

खास्तार - पु [अ 'खास']  
१ दे 'खामदार' । २ सार्ईस,  
सार्ईस ।

खाळ - पु नाली, मोरी, गदे  
पानी की नाली, 'गटर' । -  
कुवा - पु गदे पानी का होज,  
पाखाने की मोरी, हौदी, मल-कुड,  
गूथकूप, 'सेस-पूल' ।

खिकाळणें - क्रि अ १ हीसना,  
(घोडे का) हिनहिनाना । २  
खिल-खिलाना, कहकहा लगाना,  
अट्टहास करना । - न हीस,  
हिनहिनाहट ।

खिड - खी १ घाटी, दर्रा ।  
२ दरार, बहुत बड़ा सुराख ।  
३ खाली जगह, छूटा या छोडा

हुआ अग । मु. खिडोंत गाठणें -  
ऐन मुसीबत के वक्त पकडना ।

खिडार - न १ बहुत बडा  
छेद, दीवार आदि मे पडा हुआ  
बडा सुराख । २ खंडहर, ढूह,  
गिरा, ढहा हुआ मकान ।

खिडी - दे 'खिड' ।

खिखि - खी खिलखिलाहट,  
खिलखिला कर हँसने की आवाज । -  
अव्य खिलखिला कर ।

खिचडा - पु १ खिचडा, गेहूँ  
और कई तरह की दाले मिला कर  
पकायी हुई खिचडी जो प्राय मुह-  
रंम में वांटी जाती है । २ अनाज  
को मोटा पीस कर और पका कर  
ढोरो को दिया जाने वाला खाना ।  
३ दे 'खिचडी' ।

खिचडी - खी १ खिचडी,  
मिला हुआ या मिलाकर पकाया  
हुआ दाल-चावल । २ दो या  
अधिक चीजों की मिलावट । ३.  
भीड, भीड-भडक्का । - वि.  
खिचडी, मिला-जुला, खल्ल-  
मल्ल ।

खिजगणती - खी [हिं 'किस  
गिनती'] गिनती, परवाह । मु.  
खिजगणतींत नसणें - गिनती में  
न होना, किसी मूल्य, महत्त्व  
का न होना ।

खिजणे - क्रि अ १ खीजना,  
खीझना, झुंझलाना, क्रुद्ध होना ।  
२ शर्मिदा, लज्जित होना ।

खिजमत, खिजमतगार - दे  
'खिदमत', 'खिदमतगार' ।

खिजवणी - खी खीज, झुंच-  
लाहट, खीझ, कुहन ।

खिजविणें - क्रि स १  
खिजाना, खिझाना, चिढाना,  
छेडना । २ शर्मिदा, लज्जित  
करना ।



खिजाणा - वि १ दुखी; निराश। २ नाराज। ३ खिसि-याना, लज्जित।

खिटखिट, खिटखिटणें - दे 'किटकिट', 'किटकिटणे'।

खिटो - छी १ सिटकिनी, खटका, चटखनी। २ अडगा, बावा, रोडा।

खिडकी - छी १ खिडकी, गवाक्ष, गोखा, गौखा, झरोखा, वातायन। २ वहाना, टालमटोल।

खिडुकमिडुक - दे 'किडुक-मिडुक'।

खिण \* - पु. क्षण, छन।

खितपणें, खितपत पडणे - क्रि अ १ लवी वीमारी में मुत्तला होना, वुरी हालत में फँसना, कमजोर होते जाना। २ रगडना, जहाँ का तहाँ रहना। ३ छीजना, क्षीण होना, घटना।

खिदडणें + - क्रि अ शोर मचाना, धीगा - मुस्नी करना, हुडदग मचाना। - क्रि स भगा देना।

खिदमत - छी [अ 'खिद-मत'] १ खिदमत, सेवा, टहल, चाकरी, नौकरी, काम। २ खुशामद, मिन्नत। - गार - पु सेवक, टहलू, नौकर।

खिदळणे - क्रि अ १ खिल-खिलाना, ठहाका मारना, कह-कहा लगाना। २ दे 'खिदडणे'।

खिन \* - पु क्षण, पल, लमहा।

खिन्न - वि १ खिन्न, दुखी, उदास, अनमना, मायूस, चिंतित। २ थकामांदा। [भात।

खिमट + - न नरम, पतला

खिमा - पु [फा 'कीम'] कीमा, छोटे - छोटे टुकडों में कटा

हुआ मास जिमके कोपते या कवाव वनाते हैं। मु० - करणे - कीमा करना, बहुत छोटे-छोटे टुकडे, रेजा-रेजा करना। ['खुरटणें']।

खिरगटणें, खिरटणे - दे खिरटा - वि १ नाटा, ठिंगना, वौना। २. वारीक, छोटा।

खिरडणें \* - क्रि अ १ पीछे हटना, हार जाना, जीता जाना। २ दे 'खुरडणे'।

खिरणी - छी खिरनी, एक फलवृक्ष और उसका फल।

खिरा - पु खीरा, ककडी की जाति का एक फल।

खिरापत - छी १ प्रसादी, प्रसाद, पुराणादि की कथा के वाद प्रसाद के तौर पर वांटी जाने वाली मिठाई। २ अपव्यय, उडाऊपन। ३ उदारता के साथ दी गयी वस्तु।

खिलाडू - वि १ खिलाडी, खेलने वाला, किसी खाम खेल में कुशल। २ विनोदी, हँसोड, प्रफुल्ल, हँसमुख, क्रीडाप्रिय, मजाकिया, खुशमिजाज। - पणा - पु खिलाडीपन, खुशमिजाजी।

खिलार, खिल्लार - न रेवड, झुड (पशुओं का), गल्ला।

खिलारी, खिल्लारी - पु १ ग्वाला, गोप, चरवाहा। २ पशुओं का क्रय-विक्रय करने वाला। - वि गायो-वैलो की एक अच्छी नसल।

खिसगणती - दे. 'खिजगणती'। खिसणी, खिसणें - दे 'किसणी'; 'किसणे'।

खिसणे - क्रि अ १ खिस-कना, हटना, सरकना, चुपके से चल देना। २ दाँत दिखाना, ओठ चवाना, क्रोध प्रकट करना। ३ खीजना, झुंझलाना।

खिसमीस - न छी [फा 'किश्मिश'] किश्मिश, सुखाया हुआ छोटा अंगूर जिसमें बीज नहीं होते।

खिसा - पु [अ 'कीस'] १. कीसा, जेव, पाकेट। पाकिट, खीसा। २ खाना, विभाग, हिस्सा। मु - कातरणें - जेव काटना, कतरना, गाँठ काटना, जेव काट कर रुपया-पैसा निकाल लेना। - गरम करणें - १ बहुत धन कमाना। २ रिश्वत लेना, रिश्वत देना।

खिसेकातर, खिसेकापू - वि [अ 'कीस'] जेवकट, जेव कतरा, पाकिटमार, गिरहकट।

खिस्त - छी [अ 'किस्त'] १. किस्त, अदायगी का एक अंश, भाग, देना या लगान। २ देन, मालगुजारी आदि के अंश विशेष के चुकाने का नियत समय। ३ काम का अंश, हिस्सा। ४ मद, विभाग। - बंदी - छी किस्त-वदी, किस्त वाँचना।

खिस्तक, खिस्ताक - न छी [अ 'खिस्तक'] कपडे का वह टुकडा जो पाजामे के दो पायँचों को जाँघ में जोडता है।

खिस्ती - वि पु [अ. 'किम्त'] १ महाजन, साहूकार, किस्त पर कर्जा देने वाला। २ तकलीफदेह, कष्टदायक (वात)। - छी महाजनी।

खिळ - पु. दे 'खीळ'। खिळखिळा, खिळखिळीत - वि ढीला, शिथिल, डगमगाने वाला, लडखडाता हुआ।

खिळणें - क्रि अ १ गडना, जमना, स्थिर होना, ठहरना, गाडा जाना। २ लगा रहना, पथराना। ३ किलना, कीला जाना। - क्रि स दे. 'खिळविणें'।

खिळविणें—क्रि स १ कीलना, कील ठोकना, खूँटी गाडना । २ रोक रखना, वाँधना । ३ वग में करना ।

खिळा—पु १ कील, कीला, लोहे का काँटा, मेख, खूँटी । २ ठप्पा, छाप, मुद्र, मुद्रणाक्षर, टक, 'टाइप' ।

खिळी—दे 'खिटी' ।

खीज—खी १ खीज, खीज्र, झुंझलाहट, गुस्ता, कुहन ।

खीर—खी खीर, दूध में मीठा डालकर पकाया हुआ चावल, सूजी, सागुदाना आदि ।

खीळ—खी १ सिटकिनी, चटखनी, खटका, व्योडा, व्यौडा, अगल । २ कील, कीला, काँटा, खूँटी । ३ मुँहासे, फुमी आदि को दवाने से निकलने वाली कडी पीव । ४ अडगा, वाघा, रोडा । मु०—घालणें—रोडे अटकाना, अडगा डालना ।—बसणें—रुकावट पडना ।

खुट—पु १ खूँटी, खुत्य, खुत्यी, झुडी, ठूँठी, ठूँठ, तना । २ खूँट, कोना । ३ खूँटा, मेख । ४ चौराहा, अड्डा । ५ केले का छोटा पौधा । ६ जाँते या चक्की की किल्ली । ७ बाल की जड जो उस्तरे से मूँडने के बाद रह जाय, खूँटी । ८ आवारस्तभ । ९ खभा, टेक, थनी ।—वि तना हुआ, मजवूत, सीधा । खुटावरचा कावळा—वि जिसके कोई घरबार या बालबच्चे न हो और जो एक स्थानपर न रहता हो ।

खुटणे—क्रि अ १ रुकना, अडना, थमना, गतिरोध होना । २ निरुत्तर होना । ३ दब जाना । ४ अड जाना, जिद पकडना । ५ घटना, कम होना । ६ टूटना ।

म हि श को १६

—क्रि स दे 'खुडणे' ।

खुटविणे—क्रि स रोकना, गतिरोध करना, खलल डालना ।

खुटा—पु १ खूँटा, लकडी या बाँस की मेख जिसे गाडकर गाय, बैल आदि को बाँधते हैं । २ चक्की घुमाने की मुठिया । मु०—गाडणें,—रोवणें—खूँटा गाडना, अड्डा बना लेना, जम जाना ।—हलवून वळकट करणें—१ किसी अनिश्चित बात को पक्का कर लेना । २ ऐसी बात को पक्का कर लेना जो अपने विरोध में हो ।

खुटाळें—न अरगनी, कपडे टांगने का एक आला जिसमें कई खूँटियाँ होती हैं ।

खुटी—खी १ खूँटी, छोटी मेख । २ घोडिया, कपडे टांगने की खूँटी; लकडी की मेख जो कपडे आदि टांगने के लिए दीवार में गाडी जाय । ३ सितार, सारगी, खडाळें आदि में जडी छोटी मेख ।

४ दे 'खुट', 'खुटा' ।—आवळणें, पिरगाळणें, पिळणें—१ खूँटी कसना, सितार, सारगी आदि के तार कसना । २ कल ऐँठना, घुमाना, किसी के मनको अभीष्ट दिशा में मोड देना, पट्टी पढाना । ३ झगडा लगाना । ४ पहले से सावधानी रखना ।—मारणें—पच्चर मारना, होते हुए काम में बाधा डालना, । बने हुए खेल को विगाड देना । खुटीस अडकणें, खुंडीस गाठोडें लागणें—खटाई में पडना, स्थगित हो जाना, लटकते रहना । खुटीस अडकविणे, खुटीम गाठोडें टागणें—१ स्थगित कर देना, लटकाये रखना, खटाई में डालना । २. पहुँच जाना, अड्डा जमाना ।

खुडळणें—क्रि स १ पीटना, मरमत करना, ज़वरदस्ती करना । २ रौंदना, कुलचना । ३ झक-झोरना ।

खुजाट—वि कुछ नाटा, छोटे कद का; ठिगना, कम ऊँचा ।

खुजा—वि नाटा, छोटे कद का, ठिगना, कम ऊँचा ।

खुजा—पु [फा 'कूज'] सुराही, पानी रखने का एक विशेष प्रकार का मिट्टी का पात्र, कूजा, कुल्हड ।

खुटखुट—खी १ 'खटखट', 'खुटखुट' या 'कुडकुड' की आवाज़ । २ कुडकुडी, पेट का गुडगुडाना, पेट का दर्द ।

खुटखटणें—क्रि अ १ 'खुटखट' की आवाज़ होना । २ पेट में दर्द होना ।

खुटखुटीत—वि १ छोटा और मजबूत, गठीला, टनमना, स्वस्थ, चगा । २ कुरकुरा ।

खुटरुटु—अव्य बहुत धीरे—धीरे, बड़ी मुश्किल से, किसी तरह, खुदा—खुदा करके, बहुत छोटे पैमाने पर ।

खुट्ट—न खट, तेज और मोटी आवाज़, हलकी और मामली आवाज़ । [खुटकना ।

खुड—खी कटाई, खोटना; खुडखुडणें, खुडखुडीत,—दे 'कुडकुडणे', 'खुटखुटीत' ।

खुडणी—खी कटाई, अनाज की बाले काटना, खोटना, खुटकना ।

खुडणे—क्रि स खुटकना; खोटना, किसी पीवे की फुनगी या ऊपर का भाग धीरे से नोच लेना, काटना ।

खुडवूड—खी वरतनो आदि में

चूहा के कूदने से निकलने वाली आवाज़, खडखडाहट, टे 'कुडकुड'।

खुडा - पु. १ गड्ढा, गढा।  
२ फुनगी। ३ कटाई।

खुडुक - दे 'खुडूक'।

खुडुकणें - क्रि अ १ फँसना।  
२ कुडुक वोलना, बेकार जाना।

खुडूक - स्त्री १ मुर्गी के अडे सेने का समय और कार्य। २ कुडुक, अडा न देने वाली मुर्गी। - अव्य १ अडे सेने के वाद। २. टाँगो को पेट से लगाकर उन्हे वाहुओ मे बाँधकर। - वि १ अडा न देने वाली। २ जिसका अडे देना वद हो गया है। ३ व्यर्थ, खाली। - न ठूँठ, ठुठ, विना डाल - पात का सूखा पेड या उसका तना। मु० - बसणें - न १ अडे सेना। २ घर मे बैठे रहना। ३ कुडुक वोलना, बेकार जाना, अडे देना वद करना।

खुण-णा, - दे 'खूण'।

खुणविणें; खुणावणें, खुणा= विणे - क्रि स १ इशारा करना। २ आँखो से सकेत करना, आँख मारना। ३ सकेत देना।

खुतखुत, खुतखुतणें, खुतखुता - दे 'खतखत', 'खतखतणे', 'खतखते'।

खुदकन् - अव्य किलक कर, वरवम (हँसना), 'खुत्' की आवाज़ के साथ (मुसकराना)।

खुदडणें - दे 'खुदळणे'।

खुदरापादरा - वि १ वद-चलन, कामुक, विपयासक्त। २ गदा, खराव। ३ निंदक, वदनामी करने वाला।

खुडुखुडु - अव्य खिलखिला कर, फुसफुसा कर।

खुद - अव्य [फा. 'खुद']  
खुद, स्वय, आप, स्वत, अपने आप। - वि १ अपना, खुद का, निजी। २ खास। (मी खुद कोल्हापूरचा राहणारा आहे = मैं खास कोल्हापूर का निवासी हूँ)। ३ राजा का, सरकार। - पु पति, शौहर (स्त्रि)। - खाते - न हिंसाव लिखनेवाले का अपना अलग खाता।

खुनशी - वि [अ 'खन्स']  
विद्वेषी, कीनावर, किसी के प्रति हृदय मे द्वेष रखने वाला, जो मुँह पर तो कुछ न कहे, परतु समय पडने पर पूरी शत्रुता दिखाये, प्रतिहिंसक, वदला चाहने वाला।

खुनस - पु स्त्री [अ 'खन्स']  
१ खुनस, रोष, क्रोध। २ कीना, द्वेष, वैर, वुज्र।

खुनी - वि [फा 'खूनी']  
१ खूनी, खून करने वाला, कातिल, वधिक। २ ज़ालिम, क्रूर, हत्यारा, घातक। ३ हत्या-संघी, खून का। [खटक।

खुपणी - स्त्री चुभन, दर्द,

खुपणें - क्रि अ १ चुभना, धँसना, नुकीली चीज़ का भीतर घुसना, गडना, मन में धँसना, खटकना। २ सालना, कसक होना, किरकिराना। ३ खलना, वुरा लगना, १४ पछताना। - क्रि स १ चुमाना, गडाना, घँसाना। २ दुख देना, सताना।

खुपरा - पु. आँखो की कसक, आँख की किरकिरी। - वि दर्द करने वाली, सालने वाली, कसकने वाली (आँख)।

खुपरी - स्त्री, खुपन्या - स्त्री बहु. रोहुआ, अक्षिकण - शोथ, रोहे, कुकरे, आँख का एक रोग

जिसमे पलको के नीचे लाल फुन्सियाँ होने मे बहुत दर्द होता है, 'ट्रकोमा', 'ट्रैकोमा'। खुपन्या पडणे, वाढणें - आँखो मे रोहे पडना।

खुपसणें - क्रि स १ घुसे-डना, घँसाना, ठँसना। २ चुभाना, गडना, धोपना, भोकना। [मुरत - ती'।

खुपसुरत - ती - दे 'खुव-खुवड - न १ जोड, सवि, सविस्थान, गाँठ। २ कूवड। ३ पीठ की हड्डी, रीढ की हड्डी। मु० - मोडणें - १ गर्दन की नसें चढना, गर्दन का अकड जाना। २ परेशान करना, हैरान करना।

खुवलणे - दे 'कुवलणे'।

खुवसुरत - स्त्री [फा 'खूव' + अ 'सूरत'] खूवमूरत, हसीन, सुदर, रूपवान।

खुवसुरती, खुवसुती - स्त्री [फा + अ 'खूवसूरती'] खूवसूरती, सुदरता।

खुवा - पु १ शरीर का उभरा हुआ हिस्सा - खास कर के कंधे का या कमर का जोड आदि। २ गुवा, गुलाम, टीला, हूह।

खुबी - स्त्री [फा 'खूबी']  
खूबी, खास गुण, विशेषता, खासियत। २ अच्छाई, भलाई, उत्तमता, उम्दगी। ३ रहस्य, राज, मर्म। - दार - वि १ उम्दा, बढिया, मजेदार, सुदर। २ जिसमें कोई रहस्य राज, मर्म हो।

खुमखुमी - स्त्री १ सुरसुरी, झगडे की तीव्र इच्छा। २ मस्ती। ३ हिम्मत। ४ खुजली, खाज, खारिश।

खुमारी - स्त्री [अ 'ख मार']

१ खुमार, खुमारी। २ लज्जत, स्वाद, मजा, आकर्षण, सुदरता। ३ खूबी, मर्म।

खुर - पु. १ खुर, सुम, टाप। २ टांग; पैर। ३. चारपाई के पाये का एक हिस्सा। - मांडी - स्त्री घुटनो के बल बैठने का एक आसन, घुटने मोड़ कर बैठना। - मुडी - स्त्री घुटनो मे मिर डालकर बैठना या सोना।

खुरचाफा - पु. सफेद चपा, गुलचीन।

खुरची - दे० 'खुर्ची'।

खुरट - वि १ ठिगना, नाटा, वीना। २ जो बढतान हो, जिमका विकास रुक गया हो।

खुरटणें - क्रि अ १ न बढना, प्रतिहत, अवरुद्ध होना। २ रेगना।

खुरडणे - क्रि अ रेगना, घसीटना, चूतडो के बल घसितना।

खुरदा - दे० 'खुर्दा'।

खुरपणी - स्त्री १ खुरपे से घास छीलना, काटना। २ गो आई।

खुरपणें - क्रि. स १ खुरपे से घास छीलना, काटना। २ गोडना, कोडना, खोदना।

खुरपें - न १ खुरपा, खुरपी, घास काटने - छीलने का एक औजार। २ शस्त्र, हथियार। ३ फावडा। ४ चमा के का चमडा चीचने का एक औजार।

खुरा - पु. १ एक प्रकार की निहाई, अग्रेजी 'टी' (T) के आकार का फौलादी टुकडा जो जमीन या लकडी मे गाढा जाता है। २ जूते की एडी।

खुराक - पु [फा 'खुराक'] १ पौष्टिक, पुष्टिकर, शक्तिवर्धक आहार, ताकत बढाने वाली खुराक। २ रातिव, नियमित रूप से दिया

जाने वाला आहार।

खुराट - दे० 'खुट', 'खराटा'।

खुराड - डें - न १ दडवा, दरवा, कजूतरो के रहने के काम का लकडी का खानेदार मट्टक, घोसला, अड्डा। २ छोटा गोठ, वाडा (बछडो का)। ३ छोटा घर। ४ मन्जी - तरकारी रखने की छोटी टोकरी।

खुरासणी, खुरासाणी - नी - [फा 'खुरासानी'] रामतिल, काला तिल, काला जीरा, (यह काला और लबोतरा होता है)। - ओवा - पु ख रासानी अजवायन।

खुरी - स्त्री १ खुर का अगला भाग जो नाखुनो की तरह बढता है। २ फटे हुए खुर का एक भाग। ३ जानवरो का एक रोग। ४. पेडपर से फल-फूल निकालने की जालीदार लकडी।

खुरूप - न दे 'कुरुप'।

खुर्ची - स्त्री [अ 'कुर्सी'] १ कुर्सी, कुरसी, आसदी, 'चेयर'। २ पुराने जमाने मे स्कूल के बच्चो को दी जानेवाली एक किस्म की सजा, जिसमे बच्चो को कुर्सी की तरह घुटने मोडकर खडा रहना पडता था। ३ खभो के नीचे दिया जानेवाला आधार।

खुर्द - वि [फा 'खुर्द'] १ खुर्द, छोटा, (जव एक ही नाम के दो गाँव होते हैं तो छोटे गाँव को खुर्द और बडे को बुद्रुक कहते हैं)। २ उन्न मे छोटा, अल्प-वयस्क।

खुर्दा - पु [फा 'खुर्द'] १. खूर्दा, रेजगी, भाँज, रेजगारी, छट्टा, नोट को रूपयो या किसी बडे सिक्के को छोटे सिक्को मे बदलना। २ टुकडे, रेजे, टटी फूटी चीजें।

३ छोटी-मोटी चीजें, बहुत कम महत्व का सामान। मु० - उडविणें टुकडे-टुकडे कर देना, तितर-वितर कर देना। - करणे - १ खुर्दा करना, रूपया भुनाना। २ दे 'खुर्दा उडविणे'।

खुलणें - क्रि अ दे 'उघडणे'। १ खुलना, रोक, आवरण हटना। २ खिलना, कली का विकसित होना। ३ खुश, प्रसन्न होना। ४ फवना, भला लगना। ५ जगना (भाग्य)। ६ साफ होना (रग)। ७ रुकना (वारिस)।

खुलविणें - क्रि स १ खुश, प्रसन्न, राजी करना। २ खुलवाना।

खुला - वि [हि] १ खुला; जो बँधा या बंद न हो। २ जो तग, धिरा हुआ न हो। ३ खाली। ४ खुले दिल का, उदार, साफ-दिल। ५ मुक्त, अनियंत्रित। ६ प्रकट, जाहिर। - व्यापार - पु मुक्त व्यापार, 'फ्री ट्रेड'। - हिशेब - पु ऐसा हिसाब (जमाखर्च) जिसमे चोरी का मामला या अनैतिक वाते न हो। [चमक, खुलना।

खुलावट - स्त्री सजावट, गोभा, खुलास - वि [अ 'खलास' या 'खुलूस'] १ खुला, मुक्त। २ निष्कपट, निश्चल।

खुलासा - पु [अ 'खुलास'] १ स्पष्टीकरण, विवरण, व्याख्या, विवृति। २. सफाई, जवाबतलबी, कैफियत। ३ अर्थ, मतलब, आशय। ४ निर्णय, फैसला। ५ खुलासा, निचोड, मार, सक्षेप।

खुश, खुशकी - दे 'खुप', 'खुप्की'।

खुशामत - दे - स्त्री [फा 'खुशामद'] खुशामद, चापलूमी, चाटु-

कारिता, मित्रत-समाजत। -खोर  
वि खुशामदी, खुशामद करने  
वाला, चापलूस, चाटुकार। मु०  
-करणे - खुशामद करना, अँगूठा  
चूमना।

खुशामती - त्या - वि [फा  
'खुशामदी'] खुशामदी, चाप-  
लूस, चाटुकार, जीहुचूर, खुशा-  
मदी टट्टू।

खुशाल - वि [फा अ 'खुश-  
हाल'] १ खुशहाल, सपन्न,  
समृद्ध, मालदार। २ क्षेम,  
कुशल, सुखी, चगा, स्वस्थ,  
निश्चित, वास्तरियत। - अव्य  
सुख से, सुखेन, वेक्षिञ्जक, शोक  
से, वेखट के, निश्चित होकर। -  
चद, - चेंडू, - टेकडा - वि  
ऐयाश, छैला, वाँका, रंगीला,  
आवारा, उडाळ।

खुशाली - खी [फा अ  
'खुशहाली'] १ क्षेम, कुशल,  
खैरियत। २ सतोप, सुख,  
स्वास्थ्य। ३ चैन, मौज, ऐग।

खुशी, खुशकी - दे 'खुपी',  
'खुष्की'।

खुष - वि [फा 'खुश']  
प्रसन्न; मुदित, सतुष्ट, सुखी,  
प्रफुल्ल। - खबर - खी खुश-  
खबरी, अच्छा, गुभ समाचार,  
आनदप्रद संवाद। - खरेदी - खी  
खुशी का सौदा, राजी-खुशी से  
किया हुआ - खरीद-फरोस्त का  
व्यवहार। - वू; -वो, -वोय - खी  
खुशू, सुगध। - मस्कन्या - वि  
१ खुशामदी टट्टू, चापलूस। २  
मसखरा, चुहलवाज, विनोदी,  
हँसोड।

खुपी - खी [फा 'खुशी']  
१ खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। २  
मर्जी, इच्छा। - वि १ खुश,

राजी। २ तयार। - चा सौदा - पु  
खुशी का मौदा, वह काम जिसे  
करना न करना अपनी मरजी की  
वात हो। मु. खुपीत गाजरे खाणें -  
खुशी से फूल उठना, क्षुद्र मन से  
खुशी मनाना।

खुष्की - खी [फा 'खुशकी']  
१ खुशकी, मूग्नापन, मूखी भूमि।  
२ जमीन, भूमि। ३ स्थलमार्ग।  
- चा मार्ग - पु स्थलमार्ग। -  
च्या मार्गनि - अव्य खुशकी की  
राह, स्थल मार्ग मे।

खुसकन - दे. 'खुदकन'।  
खुसशुशीत - वि १ खस्ता,  
भुरभुरा, जग-सा दवानेमे चूर  
हो जानेवाला, बहुत नरम। २.  
कुरकुरा, करारा, खूब सिका  
हुआ, खरा। ३ मज्जेदार, हँमाने  
वाला।

खुसपट - न १ ऐव, दोप,  
नुक्स, पख। २ छिद्रान्वेपण,  
खुचड, खुचर, क्षुद्र, सदिग्ध  
आलोचना। ३ तिनका। ४.  
वावा, अडगा। ५ झगडे के लिए  
निकाला हुआ वहाना। मु काढणें-  
मीनमेव निकालना, छिद्रान्वेपण  
करना, दोप निकालना, दिखाना,  
पख, नक्स, खुचड निकालना।

खुसपट्या - वि छिद्रान्वेपी,  
दूमरे के दोप, ऐव हँडने वाला,  
खुचड निकालने वाला।

खुसपणे - दे 'खुसपणे'।  
खुळ - न पागलपन, दे  
'खुळ'। - चट, - सट - वि  
पागल, पगला, वावला।

खुळखुळ - ङा - अव्य. १  
'खुळखुळ' (झनझन) की  
आवाज के साथ, झनझनाहट, झन-  
कार के साथ। २ 'कलकल,'  
'कुचकुच' की आवाज के साथ;

'गरगर' की आवाज के साथ  
(कुल्ली करना)।

खुळखुळणे - क्रि अ १ छन-  
छनाना, झनझनाना, कुलकुलाना।  
२ कुल्ली करना, गरारा करना।  
गले में पानी लेकर 'गरगर'  
आवाज के साथ कुल्ली करना। ३  
मिक्की की छनछन होना, पाम में  
पैमा लेना।

खुळखुळा - पु १. धुनधुना,  
झुनझुना, काठ, टिन बादि का  
बना खिलीना जो हिलाने से 'झुन-  
झुन' बजता है। २ वनमनई  
(पेड)।

खुळा - वि १ पागल, पगला,  
वेवकूफ, वावला। २ अपग,  
लँगडा - लूला।

खुळावणे - क्रि अ पागल,  
वावला बनना।

खूट - खी १ कमी, त्रुटि,  
घट, घटी, घटावा। २ दे  
'खुट'।

खूड - खी खोटना, कटाई।

खूण - खी १ चिह्न, निशाना,  
लक्षण, पहचान। २ इशारा,  
मैन, छिपी, अस्पष्ट सूचना। ३  
मर्म, रहस्य, गूढार्थ। - गांठ -  
खी १. किसी बात की याद के  
लिए कपडे के छोर मे लगायी हुई  
गिरह, गांठ। २ पक्की बात,  
यकीन, विश्वास। मु० - करणे -  
इशारा करना, सनकारना। -  
गांठ बाधणे - गांठ बांधना, गिरह  
में बांधना, (किसी बात को)  
अच्छी तरह याद कर लेना कि भूल  
जाने का डर न रहे।

खून - पु [फा 'खून'] १  
खून, वध, कल्ल, हत्या। २  
रक्त, खिर, लोह। मु० - चढणे -  
खून सिर पर चढना, खून सिर पर

सवार होना, किसीका खून करने पर आमादा होना, खूनी के चेहरे, चेष्टा आदि से भय, धवराहट प्रकट होने लगना, खूनी का पागल हो जाना ।

खूप - वि [फा 'खूब'] बहुत, काफी, अत्यधिक । - अव्य १ खूब, अच्छी तरह, पूरी तरह । बड़ी मात्रा में, काफी मिकदार में ।

खूर - पु १ खुर, सुम । २ चारपाई के पाये का एक हिस्सा, पाया, चारपाई, कुरसी, तट्टे आदि के उन डडो के आकार के निचले अगो में से कोई एक जिनके बल वे स्थिर रहते हैं, पावा, गोडा । ३. चूल्हे के ऊपर वाले उभरे हुए हिस्से । दे 'खुर' ।

खूश - प - दे 'खुप' ।

खूळ - न १ पागलपन, दीवानापन, खत्त, उन्माद । २ ढकोमला, झूठा दिखावा, पाखड । ३ झक, सनक, धुन, सनकीपन, झककीपन । ४ उपद्रव, झगडा, विद्रोह, विप्लव । मु० - माजविणे ढकोसलेवाजी करना, आडवर रचना । - लागणें - पागल होना, बनना । - लावणें - दीवाना बनाना, मोह लेना ।

खेकटें - न १ झझट, झमेला, झगडा-बखेडा, कठिनाई, परेशानी । १ तोहमत, झूठा डलजाम । ३ दौडबूप; परिश्रम, युक्ति, उपाय, रोजगार, जीविका, धनसंचय का काम, व्यवसाय । - खोर - वि दे 'खेकट्या' ।

खेकट्या - वि झमेलिया, झझटी, झगडालू, बखेडिया ।

खेकडा - पु केकडा, कर्क, कर्कटक, एक गोलाकार क्षुद्र

जलजतु जिसके आठ टांगे होती हैं । - वि १ बूढा । २ चिडचिडा । खेकड्याची चाल - स्त्री केकडे की चाल, टेडी-तिरछी चाल ।

खेकणे - क्रि अ १ दाँत पीमना, किचकिचाना, किटकिटाना । २ घोडे का फुरफुराना । ३ दे 'खेकसणे', 'खेकणे' ।

खेकसणें - क्रि अ झल्लाना, वरस पडना, विगड जाना, क्रोध से चिल्लाना ।

खेकाळणे - दे 'खिकाळणें' ।

खेचकाम - न 'केसवर्क' (छपाई) ।

खेचणें - क्रि स खीचना, घसीटना, ऐंचना, तानना, कसना । मु खेचून घरणे - १ जिद पकडना, हठ करना [ २ कसकर रोक रखना ।

खेचर - न खच्चर, घोडे से मिलता जुलता एक जानवर जो घोडे और गधी की मिश्र सतति है ।

खेचाखेच स्त्री १ खीचातानी, खीचाखीची, खीचतान । २ भीड, भीड - भाड, धक्कम धक्का, गिचगिच, खचाखच, ठमाठम भरा हुआ होना ।

खेव - \* स्त्री १ आलिंगन, गले लगाना । २ क्षम, कुशल । ३ घमीट, रगड ।

खेत - न पु खेस, एक तरह की मोटे सूत की बुनी चादर ।

खे-दे 'खरेदी', 'खेरीज' ।

खेकटें, खेकट्या, खेकडा,

खेकणें, खेकसणे, खेचणें - दे 'खेकटें', 'खेकट्या', 'खेकडा', 'खेकणे', 'खेकसणे', 'खेचणे' ।

खेचर - वि खेचर, आकाश में चलने वाला । - न पक्षी, ग्रह,

विमान, देवता, भूत-प्रेत आदि । दे 'खेचर' ।

खेटणे - क्रि अ [क. 'केट्ट'] १ सटना, चिपकना, मिडना, लगना । २ सट कर बैठना । ३ विलकुल पास पहुँच जाना । - क्रि स १ लाँघना । २ हट जाना ।

खेटर - न १ जूता, जूती, पादत्राण, पापोश । २ पाँव, लात । ३ अत्यंत तुच्छ वस्तु । - खाऊ - वि जूताखोर, लतखोर, वेहया, निलज्ज । म. अडलय खेटर - (मेरी) बला से, जूती की नोक से, कुछ परवाह नहीं ।

खेटवणें, खेटविणें - क्रि स सटाना, मिडाना, लगाना ।

खेदा - पु १ चक्कर, फेरा, वार-वार आना जाना । २ भीड, धक्कमधक्का । - खेट - स्त्री भीड-भडक्का, रेला । मु० खेट घालणें - चक्कर लगाना, वार-वार आना - जाना । [खेती करना ।

खेडणे - क्रि स जोतना, खेडवळ - वि १ देहाती, गाँव का । २ गँवार, उजड्ड, अनाडी, अनपढ, असभ्य ।

खेडहक्क - पु जमीन जोतने का अधिकार, काश्तकारी का हक ।

खेडें - न गाँव, देहात, ग्राम, खेडा । - गाँव - न देहात, गाँव । - पाडें - न गाँव, गँवई । खेडो-खेडों, खेडोपाडों - अव्य गाँव-गाँव में, सभी देहातो में ।

खेद - पु १ खेद, दुःख, रज, अफसोस, हसरत । २ उदासी, ग्लानि । ३ यकावट । ४ पछतावा । ५ व्यथा । - जनक वि खेदजनक, शोचनीय, अफसोसनाक । मु० - मानणें - दुःख, अफसोस, पछतावा करना ।

खेप - ख्री १ चक्कर, आना-जाना, फेरा। २ खेप, एक वार का बोझ। ३ वार, दफा, वारी, पारी। ४ नाहक, व्यर्थ का चक्कर। [उलटा-सीधा।

खेवडा - वि आडा-टेढा, खेम - ख्री आलिंगन, गले लगाना। - न क्षेम, कल्याण, कुशल, खैरियत।

खेमा - पु [अ 'खेम'] खेमा, रावटी, डेरा, तबू।

खेरीज - वि [अ 'खारिज'] १. ज्यादा, अधिक। २ अलग, भिन्न। ३ अन्य, अवातर। - अव्य १ अलावा, सिवा, अति-रिक्त। २ विना, बिना, वगैर, छोड़ कर।

खेव-वो - + पु १ सकट, विघ्न; आपत्ति, अवनति, झझट, तकलीफ। २ क्षण।

खेवण-णें - \* दे 'कोदण'।

खेवा - पु आलिंगन, पकड़। खेवों-वों - + अव्य तुरत, उमी क्षण।

खेळ - पु १ खेल, क्रीडा। २ खेलने का सामान या माधन (ताश, गतरज, चौसर आदि)। ३ तमाशा, देखने-मुनने की बात। ४ मनरजन, दिलवहलाव। ५ नाटक, अभिनय, 'शो'। ६ अध्ययन, अभ्यास, मेहनत। ७ वारी, पारी। ८ वाज्री, करतब। ९ चाल, करतूत। १० लीला, कृपा। ११ लडाई, युद्ध। - कर वि - १ खिलाडी, खेलने वाला, क्रीडाशील। २ विनोदी, हँसोड़, मजाकिया। ३ हँसमुख, ललन, हँसता-खेलता। - करी - पु खेल करने (दिगाने) वाला, वाज्रीगर, करतब दिखाने वाला। - खडोवा

- पु १ खिलवाड, खेलवाट। २ विगाट, खराबी। ३ नाथ, दुर्दशा, बुरीहालत, दुर्गत। - गडी - ख्री खिलाडी, खेल का साथी, गुड्याँ। मु० करणे, - माडणे - १ खेल करना, खिलवाड करना, तमाशा बनाना। २ खेल खेलना, शुरू करना। ३ उडा देना, व्यर्थ खर्च करना।

खेळणे - क्रि. अ १ खेलना, क्रीडा करना। २ टालमटोल, हीला-हवाला करना, समय गंवाना, वक्त बरबाद करना। ३ हिलना, उछलना-कूदना। ४ दाँव लगाना।

खेळणें - न. १ खिलौना, खेलने की चीज, साधन, मन-वहलाव की चीज। २ काठ, मिट्टी आदि का बना हुआ हाथी, घोड़ा, आदि। ३ आमानी से मिलने वाली चीज।

खेळी - ख्री १ खेल। २ खेलने की वारी, चाल, दाँव।

खेळीमेळी - ख्री १ घनिष्ठ परिचय, गाढी दोस्ती। २ खेल-कूद, मीज। - चा - वि घनिष्ठ, निकट का परिचय रखने वाला, निष्कपट, हार्दिक, स्नेहपूर्ण। - नें - अव्य मिलजुल कर, प्रेम-प्यार में, हँसते-खेलते, हँसी-मजाक में।

खैर - पु. खैर, खदिर, बबूल की जाति का एक पेड़ जिसकी लकड़ी उवालकर कत्या बनाते हैं।

खैर - ख्री [अ 'खैर'] खैर, खैरियत, क्षेम, कुशल, सलामती। मु० - असणें - खैरियत, कुशल, क्षेम होना।

खैरा - वि १ खरा, कत्यई। २ चितकवरा। ३ रगधिरगा।

खैरात - ख्री [अ खैरात] १ खैरात, दानधर्म, भिक्षा, भोग। २ मुफ्त में बाँटना। ३ निछावर।

खोक - ख्री १ नुकीली चीज से होने वाला जखम, घाव, चोट। २ खाँसी।

खोकर-रें - \* वि १ टूटा-फूटा, नश्वर। २ बहुत बूढ़ा।

खोंच - ख्री १ दे 'खोंक'। २ नोक। ३ घाटा, नुकसान। ४ अमंतोप। ५ खूबी। ६ व्यग, व्यग्य, ताना। - खाच - ख्री खूबी, वारीकी, व्यंग। मु० - मारणें - व्यग कसना।

खोचण - ख्री न स्त्रियों की साड़ी का कमर में खोसा हुआ भाग, खोमना। २ चुभन।

खोचणी - ख्री खोमना।

खोचणें - क्रि. अ. १ खोमना, अटकाना, कोछना, फंमाना। २ चुभाना, घुसाना, भोकना, गठाना, घुसेडना। ३ लगाना, रोपना, जमाना। ४ ताना मारना, व्यग कसना। - क्रि. अ. चुभना।

खोचा - पु १ कोछ, आँचल का कोना, घोती का खोमने का भाग, काछ। २ खोच, कपड़े की चीर या छेद जो किसी नुकीली चीज से उलझकर हो जाय। ३ बछड़े के मुँह पर लगायी जाने वाली लकड़ी (जिससे कि वह गाय का दूध न पी सके)। ४ नोक, चुभन।

खोची - ख्री १ दे० 'खोच' 'खाच'। २ छोटी खाड़ी।

खोड - पु बछड़ा, माँड।

खोप, खोपा - दे० 'खोप', 'खोपा'।

खो - पु. १ 'खो खो' के खेल में बैठे हुए (या खड़े) माथी को भगाने का इशारा करने के लिए बोला जाने वाला शब्द। २ आपत्ति, नाश, उत्पात, बाधा, रुकावट, अडगा। मु० - घालणें, - देणें - १. बाधा डालना। २ हटाना, भगाना।

खोक - दे० 'खोक'।

खोकड - खी न १ लोमड़ी, गीदड, कटास। २ बूढा, वदसूरत मरियल आदमी। ३ ऊगर जमीन।

खोकणें - क्रि अ खांमना।

खोकर - रे - दे० 'खोकर-रे'।

खोकला - पु. खांसी, काम, खांसने की क्रिया। मु० - विकत घणें - आफत मोल लेना।

खोका - खा - पु. १ खोखा, चुकायी हुई हुडी। २ देवदार आदि का पिटारा जिसमें ढक्कन नहीं होता और जो फल आदि भेजने के काम आता है।

खोकें - न दे० 'खोका'।

खो खो - पु. एक खेल का नाम।

खोगीर - न [ फा खोगीर ] खोगीर, खुगीर, घोडे का पालान, घोडे की पीठ का नम्दा, जिन, जिन की भरती। - भरती - खी गोशीर (खुगीर) की भरती; गद्दी, निकम्मी चीजें। मु० - चढविणें १ घोडे आदि की पीठ पर जिन कमना। २ कपडे पहनना।

खोच, खोचणे, खोचा - दे. 'खोच', 'खोचणे', 'खोचा'।

खोजा - पु. [ तु 'खवाज' ] १ स्वाजा, कुलीन मुसलमान। २ खोजा, हिजडा, हिजडा सेवक जो मुसलमान वादशाहों के हरम में रखा जाता था। ३ एक तिजारत-

पेशा मुसलमान जाति।

खोट - खी १ घाटा, नुकसान, हानि। २ घातु का गोला या ईंट। ३ खोट, दोष, बुराई, खता ४ एड, एडी। ५ खुटाई, खोटापन, गलत, असत्य होना।

खोटा - वि १ असत्य, झूठा, गलत, मिथ्या। २ बेईमान, धोखे-वाज। ३ खोटा, जाली, न चलने वाला (सिक्का)। ४ मदोष, बुरा, घटिया, मिलावट वाला। ५ खल, [दुरात्मा] - नाटा - वि १ पूर्णतया झूठा, सफेद झूठ। २ खराब, बुरा। कहा० खोट्याच्या कपाळीं गोटा - झूठे का मुंह काला।

खोटारडा - वि १ झूठा, झूठो का वादशाह। २ शरारती, वदमाश।

खोटी - खी १ देरी, विलव। २ बाधा, रुकावट, खलल।

खोटें - वि १ दे 'खोटा', झूठा, असत्य। २ दुष्ट, बुरा। ३ खराब। - न असत्य, झूठ। - पणा - पु खोटाई, खुटाई, झूठापन। मु० - ठरणें; - पडणें - झूठा सावित होना। - पाडणें - झुठलाना, झूठा सावित करना।

खोड - न १ तना (पेड का), घड, टुठ। २ चदन आदि लकड़ी का टुकडा। ३ बूढी और न व्याने वाली गाय, भैस आदि। ४ ऐसा पुराना पेड जिसमें फूल या फल न लगते हो। ५ बहुत बूढा और मजबूत व्यक्ति, खुरांट।

खोड - खी १ लत, बुरी आदत। २ इल्लत, ऐव, दोष, बुराई। ३ कमी, त्रुटि, गलती। ४ तबियत, मिजाज। - कर-वि १ नटवट, चुलबुला, ऊबमी,

शरारती। २ ऐवदार। - साळ - वि १ दे. 'खोडकर'। २ झूठा, दुष्ट, शरारती, उपद्रवी, विद्वेषपूर्ण। ३ अडियल। मु० - काढणें - १ खिझाना, चिढाना, छेडना। २ उपद्रव देना, सताना। ३ ऐव निकालना। - मोडणे - सीधा करना, सबक सिखाना, गहर, घमड तोडना। कहा० जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही - जीते की आदत मरे बिना नहीं छूटती, आदमी आदत से लाचार है।

खोडकी - खी दे 'खोड', दोष, बुराई। मु० - जिरणे-सीधा होना, ऐव का दूर किया जाना। - जिरविणें-सीधा करना, घमड तोडना।

खोडणे - क्रि स १ काट देना, रद करना, मिटाना, छेकना। २ दागना।

खोडवा - पु., खोडवें - न १ गन्ने का खुत्थ, गन्ना काटनेपर खेत में रह जाने वाली उसकी खूंटी। २ गन्ने के खुत्थ से दीवारा ली जाने वाली फसल, रटून। ३ मिट्टी का वर्तन, सकोरा, कसोरा।

खोडा - पु. १ शिकजा, यत्रणा देने का यत्र जिसमें पुराने जमाने में अपराधियों के हाथ-पाँव दे कर दवा दिये जाते थे। २ अडगोडा। ३ झझट, झमेला, यत्रणा। ४ कुश्तीका एक पेच। मु० - घालणे - अडगा लगाना, बाधा डालना।

खोडाखोड-डी-खी काटकूट, काट-छांट, लिखावट में शोधन, परिवर्तन।

खोडी - खी १ दे 'खोड'। २ शरारत, छेड-छाड, ऊधम, उपद्रव। मु० - काढणें - छेडना,



छेड-छाड करना।

खोत - पु १ जमीनदार, माल-गुजार, गाँव का मुखतार, चौधरी। २ सरकारी लगान की वसूली का ठेका लेने वाला, इञ्चारेदार। ३ कोकण के ब्राह्मणों की एक जाति।

खोती - स्त्री १ खोत का काम या अधिकार, मालगुजारी, जमीन-दारी। २ इञ्जारा, पट्टा।

खोदकाम - न १ खुदाई, खोदाई, खोदने की क्रिया। २ नक्काशी, सगतराशी।

खोदणावळ - स्त्री खुदाई; खोदने की उजरत।

खोदणी - स्त्री १ खुदाई, खोदाई, खोदना, कुरेदना। २ खोदनी, खोदने, कुरेदने का औजार।

खोदणे - क्रि स १ खोदना, कुरेदना, खुरचना, गड्ढा करना। २ झगडा खडा करना, उकसाना, उभारना। ३ लकड़ी आदि को कुरेदकर चित्र उरेहना, उभारना, बनाना, नक्काशी करना। मु० खोदखोदून विचारणें, पुसणें - खोद-खोद कर पूछना, एक-एक बात पर शका-प्रश्न करते हुए पूछना।

खोदीव - वि खोदा, कुरेदा हुआ, नक्काशीदार।

खोप - स्त्री [क 'कोप्पे'] १ झोपडी, कुटिया, मडैया। १ घोसला। ३ पेट। ४ गुहा, गुफा। [मडैया।

खोपट-टें - न छोटी झोपडी, खोपडी - स्त्री, खोपडें - न १ खोपडी, कपाल, सिर। २ टें 'खोप'।

खोपा - पु [क 'कोप्पु'] १ खोपा, खोपा, जूडा बेंधी हुई चोटी, केशविन्यास का एक भेद।

२ घोसला। २ कोटर, खोडर।

खोवण-णी - स्त्री १ खाँच, खाँचा, सूरस, खात, गढा, गर्त। २ छेद जिममें चूल बिठायी जाती है।

खोवरी, खोवण्या - वि नारियल के खोपडे का, खोपडे का स्वाद वाला।

खोवरें - न [क 'कोव्वरि'] १ नारियलकी गरी, खोपडा। २ सुपारी आदि के अंदर का सफेद भाग। ३ नाग, बरवादी। मु०-होणें - नाग होना।

खोवरेल - न [क 'कोव्वरि'] नारियल का तेल, नारियल की गरी का तेल।

खोरें - न फावडा, वेलचा। मु० खोन्याने पैसा ओढणें - चाँदी कटना, चाँदी होना, गहरी आय होना, खूब पसा कमाना।

खोरें - न उपत्यका, घाटी, वादी, पेटा, उतनी धरती जितनी से होकर नदी बहती है।

खोल - वि १ गहरा, उथला का उलटा। २ गभीर। ३ काँइयाँ, घाघ। ४ गहन, कठिन, दुर्वोध, मुश्किल, गहन, दुर्गम, दुर्लभ। - गट - वि १ कुछ गहरा। २ ढालू, ढालवाँ। मु०-पाण्यात शिरणें - गहरे पानी में पैठना, गहराई में उतरना, तफसील के साथ जानकारी प्राप्त करना।

खोलणी - \* स्त्री आगे जाना, बढ़ना। - वि आगे-आगे चलने वाला।

खोलणें - क्रि स १ खोलना, आवरण हटाना। २ कार्यारंभ करना। ३ चीरना, उधेडना। ४ गहरा बनाना। ५ म्पट कर देना। ६ \* आगे बढ़ना।

खोली - स्त्री १ गहराई, गहरापन। २ कमरा; कोठरी। ३ थाह, गहराई की मीमा।

खोवणे - क्रि स १ मोसना; अटकाना, फेंमाना। २ घुमेडना, ब्रेमाना। ३ रोपना, लगाना, जमाना, बोना। ['खोवणें']

खोसणें - दे 'खोचणे', खोळवणें - क्रि अ [क 'कोळव'] १. रचना, ठहरना, अटकना। २. देरी होना। ३ राह देखना।

खोळवविणें - क्रि स [क 'कोळव'] १ रोक रचना, प्रतीक्षा कराना। २ देर लगाना।

खोळवा - पु [क 'कोळव'] १. देर, देरी, विलंब। २ बाबा, रुकावट। - वि वेकार, ठाल।

खोळ - स्त्री १ खोल, गलाफ, आवरण। २ थैला, थैली। ३ गढा। ४ घुगी, घुग्घी, कवल की घोधी, खोई, झोपा, पछोडी। ५ केचुली। ६. तूणीर, तरकश। ['खोळ']

खोळा - पु; खोळी - स्त्री दे ख्यात - वि ख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर। - स्त्री दे 'ख्याति'।

ख्याति - ती - १ ख्याति, प्रसिद्धि, ज्ञापन, नाम, शूहरत। २ प्रशंसा, वर्णन। ३ पराक्रम। ४ बात, विवरण।

ख्याल - पु [अ 'खयाल'] खयाल, एक विशेष गान-पद्धति (सगीत)। २ विचार, कल्पना।

ख्यालिया - वि पु [अ 'ख्याल'] खयालिया, खयालिया, खयाल, खयाल गाने वाला।

ख्याली - वि [अ 'खयाली'] १ रगीला, मौजी, विनोदी। २ खयाली या खयाल सबधी। -

खुशाली - ख्री ऐश व इशरत, रगरली, मौंज, विलास, चैन ।

खिशचन - पु [अ 'क्रिश्चियन'] क्रिन्तानी, ईसाई,

खिस्तान, क्रिश्चियन । - वि खिष्ठीय, खरीष्टमवधी, क्रिस्तानी, ईसाई ।

खिस्त - पु (यू 'क्रिस्तोस')

खरीष्ट, काइस्ट, ईसा । ईसामसीह ।

खिस्मस - पु [अ 'क्रिस्मस'] वडा दिन, क्रिसमस ।

ग

ग - मराठी वर्णमाला के क वर्ग का तीसरा व्यजन ।

गगयड - ख्री गोदावरी नदी का किनारा या किनारे का प्रदेश ।

गगयडी - वि गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश सवधी, गोदावरी नदी के किनारे का (निवासी) ।

गगा - ख्री १ गगा, भागीरथी । २ गोदावरी, कृष्णा आदि । ३ पवित्र नदी । ४ पवित्र जल ।

- जमनी, - जम्नी - वि १ गगाजमुनी, दोरगा । २ वेमेल । - जळी - ख्री १ गगाजली, गगा

या अन्य पवित्र नदी का पानी रखने का पात्र । २ आरक्षन निधि, अतिरिक्त सचय, स्थायी कोष, 'रिजर्व फंड' । ३ पाँट पावना ।

४ स्वर्णप्रारक्षण, 'गोल्ड रिजर्व' । - तीर - न गोदावरी नदी के किनारे का प्रदेश । - भागीरथी -

ख्री वि विघवा स्त्री के नाम से पहले लगाया जाने वाला आदर सूचक शब्द (सुहागिन स्त्री के नाम के पूर्व जोडा जाने वाला शब्द 'मौभाग्यवती' है) । - सागर -

पु. गगासागर, वह तीर्थस्थान जहाँ गगा समुद्र से मिलती है । मु०- उचलणें, - घेणें - गगा उठाना,

गगाजलले कर कसम खाना । - यमुना वाहणें - दोनो आँखो से आँसू वहना, आँसुओ की झडी लगना ।

- आळशावर गगा लोटणें - विना परिश्रम के कोई लाभ होने का

अवसर प्राप्त होना । गगेंत घोडे नहणें - बहुत बडा काम पूरा हो

जाना, बडे परिश्रम के बाद कृत-कृत्य होना । वाहत्या गगेंत हात घुबून घेणें - बहती गगा में हाथ

बोना, ऐसी चीज से फायदा उठाना जिससे दूसरे भी उठा रहे हो,

दूसरे के बडे काम में अपना छोटा काम कर लेना, सामने आये हुए अवसर से लाभ उठाना । कहा०

वाहिली ती गगा, राहले ते तीर्थ - वह गयी सो गगा, वच गया सो तीर्थ, जो हुआ मो हुआ, आयदा सावधानी रखी जाय ।

गगावन - न नील गाय (या स्त्री) के लबे वालो की लडी जो बेनी में गूथी जाती है । छोटे वालो को लवा दिखाने के लिए स्त्रियाँ

अक्सर इसका प्रयोग करती हैं । गाल - न गगाल, कडाल, नाँद, ताँबे, पीतल आदिका गोल,

गहरा और चौडे मुँह का बडा जलपात्र । गज - पु [फा 'गज'] १ गज, राशि, ढेर । २ पेटी, सटूक, बक्स, किमवत ।

गज - पु [फा 'जग'] जग, मोरचा, ठड, और तरी से धातुओ में लगने वाला मँल, कसाव । २ कलक, दाग ।

गज - पु. बटलोई, खडी पतेली । [मुहल्ला, मडी] गज - पु [फा 'गज'] पैठ,

गजणें - क्रि अ [फा 'जग'] मोरचा लगना । गजिफा - पु [फा 'गजिफ']

गजीफा, ताश जैसा एक खेल जिसमें पत्ते गोल और मख्या में ९६ या १२० होते हैं । यह ताश से पहले प्रचलित था ।

गजी - ख्री [फा 'गज'] गज, गजी, ढेर, राशि, घास आदि की टाल, पुआल आदि का अटाला ।

गजी - ख्री काजी । गजीफरास, गजीफ्राँक - पु. [अ ?] गजी, वनियायन, वन-

याइन, बुनी हुई छोटी कुरती या बडी जो शरीर में चिपकी रहती है । गजीफा - दे 'गजिफा' ।

गठी छोड - टे 'गट्टे छोड' । गड - पु १ गड, गाल, कन-

पटी । २ गडस्थल, हाथी की कनपटी । ३ एक अनिष्ट योग (जो०) । ४ जौर, उग्रता, वेग,

झपट्टा । ५ गर्व, अहकार । ६ ग्रथि, मनोग्रथि, भावग्रथि । [अहगड - पु अहभावना, महद्भाव ग्रथि । हीनगड - पु. हीनमन्यता, आत्महीनता]

७ दे 'गडातर' - स्थळ - न गडस्थल, हाथी की कनपटी । गडमाला - ख्री बहु गडमाला,

कठमाला, गले का एक रोग जिसमें लगातार बहुत से फोडे निकलते हैं ।

गंडरी - दे 'गंडेरी' ।

गंडविणें - क्रि स घोन्ना देना, फँसाना, लूटना, घाटे में डालना ।

गडातर - न १ गडान, अनिष्ट काठ, कुयोग । २ बहुत बडा खना, आफन, मकट, अपमृत्यु ।

गडा - पु १ गटा, मत्र पढ कर गाँठ लगाया हुआ धागा जो जनर-तावीज की तरह पहना जाय, तावीज । २ गटा, चार का समूह (काँडी, पैना), चार कौडियों का एक गटा होता था । ३ उम्तादो द्वारा उनके शिष्यों की दाहिनी कलाई (या गले) में बाँधा जाने वाला धागा । - दोग - पु गडा - तावीज, जनर-मतर, झाड-फूंक । मु० - घालणें - ठगना, ऐँठना, फँसाना । - बाघणें - दाँधिन होना या बनाना, शिष्यत्व स्वीकार करना या शिष्य बनाना, चेला मूँडना, चेला बनाना ।

गंडेरी - स्त्री १ गँडेरी, ईज या गन्ने को छीलकर काटा हुआ उब्रांतरा टुकड़ा । २ नाटी की एक किस्म की किनारी । ३ छोटा लवोन्ग टुकड़ा । [ जाना ।

गतव्य - न गमन, भाग गदलकी - स्त्री, गदवल, गदवाल - न १ ढकड़ी के पीडे का पाया, खुर । २ क्वाड के पल्के में मजबूती के लिए लगायी जाने वाली आड़ी लकड़ी ।

गघ - पु १ गघ, वाम, वाम, वू । २ मुगघ, नुगवू । - न निलक, घिना हुआ चदन, चदन, केमर आदिका त्रय । - वार्ता - स्त्री भनक, धीमी, अस्पष्ट ध्वनि, उलनी हुई खबर । मु० - फूल करणे - १ पूजा करना । २ डोंट पियाना, आटे हाथो लेना । -

वार्ता नसणे - तनिक भी खबर न होना, कानोकान खबर न होना ।

गघक - पु गघक, एक तीक्ष्ण गघयुक्त पीतवर्ण खनिज पदार्थ जो दवा, वारुद आदि बनाने के काम आता है ।

गघकाम्ल - न गघकाम्ल, गघक का तेजाब, 'मल्पयुरिक ऐसिड' ।

गंधर्व - पु १ गंधर्व, देवताओं का एक भेद जो देवलोक के गायक माने जाते हैं । २ श्रेष्ठ गायक । ३ अदृष्य पुरुष । ४ विधवा-विवाह, स्त्री का पुनर्विवाह । - नगर - न गंधर्व नगर, दृष्टि दोष से आकाश में दिखाई देने वाला मिथ्या आभास, रूपनगर, कल्पित नगर । - लगन - न, - विवाह - पु १ गंधर्व-विवाह, मनुस्मृति में जायज माने हुए आठ प्रकार के विवाहों में से एक विवाह जिसे वर-कन्या परम्पर प्रेम से प्रेरित होकर माता-पिता की अनुमति लिए बिना ही करें । २ स्त्री का पुनर्विवाह, विप्रवा-विवाह । - विद्या - स्त्री, - वेद - पु गंधर्व-विद्या, गंधर्व वेद, गानविद्या, मगीनशास्त्र ।

गघाविरुजा; गघावेरोजा - [ फा. 'गद वगेजा ' ] गघा-विरोजा, चीड नामक पेड का गोंद, गल ।

गघी - स्त्री दुर्गंध, बदबू, कुनाम । - पु १ गघी, ड्र-फरोंग, अत्तार । २ धोपय - विक्रेता, पन्मारी ।

गभीर - वि १. गभीर, अथाह, गहरा । २ ऊँची और भारी (आवाज), मठ (ध्वनि) । ३ गान, महिष्णु, मोच-विचार

कर बोलने, काम करने वाला, कम बोलने और हँसी मजाक से दूर रहने वाला, सजीदा । ४ गहन, गूढ, दुर्वोध ।

गमत - स्त्री १ मजा, खेल, श्रीडा, कौतुक, तमाशा, खेल-कूद । २ प्रहसन, विनोद, हँसी-मजाक; दिल्ली ।

ग - अव्य बरी, री, स्त्रियों के लिए व्यवहृत सर्वोधन । गई - दे. 'गय' ।

गळवाडा - पु १ गोष्ठ, वाडा । २ ग्वालो की वस्ती ।

गगन - न गगन, आकाश, आममान । - चुंबी - वि गगन-चुंबी, आकाश को छूने वाला, बहुत ऊँचा । - पुष्प - न गगन - कुसुम, आकाश - कुसुम, अमभव वान । - मडल - न गगनमडल, आकाशमडल, खगोल । - स्पर्शी - वि दे 'गगनचुंबी' । गगना-एवढा, गगनासारखा - वि बहुत बडा, बहुत ऊँचा, प्रचड । - मु० - कापणें, - थरारणें - ऐसा भयंकर कार्य करना, जिससे आकाश भी धर्रा उठे । गगनाला गवसणी घालणें - आकाश पर खोल चढाना, आसमान के तारे तोड लाना, दुसाव्य, अनहोनी बात कर डालना । गगनाला भिडणें - आसमान छूना, आममान से बातें करना, बहुत ऊँचा होना ।

गचकन - अव्य. गच मे, खट मे, ऐमी आवाज के साथ, जो किमी नरम चीज में कडी, पैनी चीज के बँसने, घुसने से पैदा होनी है ।

गचकण - क्रि अ १ झटका, बचका लगना २ मरना ।

गचका - पु १ गच, गचका ।  
२ घचका, धक्का, झटका । ३  
आघात, ठोकर ।

गचकी - स्त्री १ दे. 'गचका' ।  
२ हिचकी ।

गचाडी - स्त्री गरदनियाँ,  
गरदनी, अर्धचंद्र, निकाल बाहर  
करने के लिए किसीकी गरदनपर  
लगाया जाने वाला घस्सा । - मु०  
- देणें - गरदनियाँ देना, निकाल  
बाहर करना ।

गचाळ - वि १ रद्दी, खराब,  
दा । २. भोडा, गावदी, घामड ।

गच्च - अव्य कसकर, पक्का,  
लवालव, खचाखच; ठसाठस ।  
- वि १. कसा हुआ, पक्का,  
तग । २ घना ।

गच्ची - स्त्री [फा 'गच']  
१ गच, चूने की टीप, चूने से  
पक्की की हुई जगह, पक्का फर्श ।  
२. पक्की छत, अटारी, कोठा ।

गच्छती - स्त्री १ गमन,  
जाना, भाग जाना । २ समाप्ति,  
नाश, मृत्यु, खात्मा । ३ पराजय,  
हार ।

गज - पु [फा 'गज'] १ गज,  
लोहे का छड, सीख, सीखचा । २  
लवाई का एक मान जो १६ गिरह  
या ३६ इंच का होता है, इस नाप  
की लकड़ी या लोहे का छड जिससे  
बढ़क भरी जाती है, ठूसनी । ४  
गज, सारंगी आदि वजाने की  
कमानी । ५ सामर्थ्य, बल-बूता ।  
६ गज से नापा हुआ वस्त्र आदि ।

गज - पु गज, हाथी । - गति  
- स्त्री गजगति, हाथी की - सी  
मद गौरवभरी चाल । - वि गज-  
गति, गजगामी । - गामिनी -  
वि स्त्री गजगामिनी, हाथी की-  
सी मद, गौरवभरी चाल वाली । -

गौर-री - स्त्री हाथी पर रखकर  
पूजी हुई पार्वती की मूर्ति ।  
- गौरीव्रत - न भाद्रपद महीने में  
किया जाने वाला स्त्रियो का एक  
व्रत । - घटा - स्त्री १ हाथी के  
गले की घटी । २ कर्कशा, कटु-  
भाषिणी, जोर से बोलन वाली  
स्त्री । - पिपळी - स्त्री गज-  
पिप्पली, गजपीपल, चव्या,  
चव्य - फल । - वदन - पु गज-  
वदन, गणेश जी । - स्नान - न  
गजस्नान, हाथी का नहाना,  
निरर्थक कार्य (हाथी नहाने के  
वाद अपनी देह पर कीचड, घूल  
डाल लेता है) ।

गजकर्ण - न दाद, द्रद्रु, एक  
प्रमिद्ध चर्मरोग ।

गजकर्णी - स्त्री दद्रुघ्न, दाद-  
मर्दन, चकवंड, चक्रमर्द ।

गजगज - स्त्री १ शोर - गुल,  
गडबडी, भीड । २ चहचह ।

गजगा - पु [क 'गजुगे' या  
'गज्जे'] करजुवा, करज, करजक  
या कजा का फल । (गोटियों की  
तरह लडकियाँ इमसे खेलती हैं) ।

गजवज - स्त्री शोर - गुल,  
कोलाहल, हो - हल्ला । २ भीड-  
भडक्का । ३ वेचनी । ४ गडबडी,  
अव्यवस्था ।

गजवजणे - क्रि अ १ भीड  
होना, ठठ लगाना, आदमियो  
आदि से भर जाना, फूल जाना ।  
२ धूम वाम होना, शोर मचना ।  
गजवजलेलें, गजवजीत - वि  
१ भरा हुआ, भीड लगा हुआ,  
फूला हुआ । २ कलकूजित, गुजित,  
निनादित ।

गजर - पु १ गजर, घडी की  
घटी की आवाज, पहर - पहर पर  
वजने वाला घटा, भोर का घटा,

जगाने की घटी । २ अनेक वाद्यो  
का एक साथ होने वाला घोप ।  
३ हरिकथा में होने वाला जय-  
घोप, नामघोप । ४ जोर की  
आवाज । ५ ढिठोरा ।

गजरा - पु १ गजरा, फूलो  
की माला, हारा २ कलाईपर  
पहनने का एक गहना ।

गजात लक्ष्मी - स्त्री १ बहुत  
मालदार होना, इतनी बडी अमीरी  
कि दरवाजे के सामने हाथी बंधे  
हो । २ बहुत गरीब होना,  
कगाली ।

गँझेट - न [अ 'गँझेट'] १  
अखवार, समाचारपत्र । २ सर-  
कारी अखवार, गजट, वह सामयिक  
पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएँ  
प्रकाशित हो ।

गटगळी - स्त्री १ डुबकी,  
डुब्बी, गोता । २ जी  
तोडकर की गयी कोशिश । ३  
शुरू किये हुए काम में भय आदि  
से अवरुद्ध हो जाने की अवस्था ।

गट - पु १ गुट, गुट्ट,  
मडली, गिरोह, दल, यूथ । २  
समूह, वर्ग । ३ गलाका, गुल्ली,  
डला, पटिया, दड, छड ।  
- वाजो - स्त्री गुटवदी, दलवदी,  
गरोह - वदी । - चार, - चारिने -  
अव्य अनुभागश, वर्गीकरण कर  
के ।

गट - अव्य गट, किसी तरह  
पदार्थ को जल्दी से निगलने या  
घोटने में होने वाली आवाज । दे  
'गट्टा' । - फन, - दिशों - अव्य  
गट गट, गटा गट, 'गट गट'  
की आवाज के साथ, जल्दी -  
जल्दी । - कळों - स्त्री दे 'गट-  
गळी' । - गट, - गटा - अव्य दे  
'गटकन' ।

गटकावणे - क्रि स १ गट-कना, निगलना, उदरस्थ करना । २ हडप करना, दूमरे का माल खा जाना ।

गटणे - क्रि अ फँसना; धोखा खाना, ठगा जाना ।

गटपट - पु ख्री १ गटपट; गडवडी, गडवड्ड, गड्डमड्ड । २ शेखी बधारना । ३ बहानेवाजी ।

गटर - दे 'गटार' ।

गटवणे, गटविणे - क्रि स गाँठना, मनचाही बात करने को तैयार कर लेना, फँसाना, उल्लू बनाना ।

गटागळी - दे 'गटगळी' ।

गटागट - टा - अव्य गटागट, गटगट, जल्दी - जल्दी, 'गटगट' की आवाज के साथ ।

गटाणा - दे 'घाटाणा' ।

गटापर्चा - पु [मलायी] गटा-पारचा, एक तरह का गोद जो रबड की तरह काम में लाया जाता है ।

गटार - न [अ 'गटर'] १ परनाला, पनाला, पनाली, मोरी, नाली, नावदान, गद्दी नाली । २ छपाई में दो पृष्ठों के बीच छोडा हुआ अंतर । - वातमी - अफवाह । - यंत्र - न १ अफवाहें फलाने वाला । २ दूसरो की बदनामी करने वालो का अड्डा ।

गटोळा - दे 'वाटोळा' ।

गट्ट - वि गट, दे 'गट' । मु - करणे - १ गटकना, निगलना । २ हडपना, खा जाना ।

गट्टी - ख्री [क 'गट्टि'] गाढी दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता, गठौत, गठौती । - सोड - वि दे 'गट्टे छोड' । मु - फू करणें - कुट्टी करना, लडको का किसी

साथी में मित्रता भंग करना ।

गट्टू - पु १ गोला, गुल्ली, लकडी आदि का गोला या चौकोर टुकडा, तवले आदि में लगाया जाने वाला, लकडी का लवोतरा टुकडा । २ गुलथी, गुठली जैसा शोथ, सूजन, अर्बुद, गिलटी । - वि नाटा और गठीला, मजवूत (आदमी) ।

गट्टे छोड - वि १ गट्टर में ने म ल चुगाने वाला । २ उचक्का, उठाईगीरा, बडा चालाक चोर । ३ कजूम, मक्खीचूस ।

गठडी - ख्री, गठडें - न १ गठरी, पोटली, बुक्का । २ गट्टर, गट्टा । ३ सचित वन, जमा, माल । ४ तैराकी आदि में घुटनो को छाती से लगाने और दोनो हाथों से बाँध देने की मुद्रा । मु - आवळणें, - वाघणें - १ घुटनो को छाती से लगाकर दोनो हाथों के साथ बाँध देना या लेना । २ चकग देना, असमजन में डालना । ३ मत्रवल से हतवल बनाना । - वळणें - १ सिट्टी गुम होना, सिटपिटा जाना । २ गठरी में बाँधा जाना । ३ मर जाना । [गाँठना ।

गठणे - क्रि स लपेटना, गठविणे - दे 'गटविणे, 'गाठविणे' ।

गठीछोड - दे 'गट्टे छोड' ।

गट्टा - पु १ गट्टा, गट्टर, बडी गठरी, बोझ । २ ढेर, समूह । ३ गूट, गुट्ट । ४ पूंजी, सचित वन । ५ तवले, पखवाज आदि में लगाया जाने वाला लकडीका लवोतरा टुकडा । मु - मारणे - गट्टर साधना, तैराक का गठरी बाँधकर ऊँचाई से कूदना ।

गठ्ठी - ख्री दे 'गट्टी', 'गट्टा' । - चोर - वि गठरी मारने वाला, चुगाने वाला, चालाक चोर, पक्का बदमाश । - जोट - वि गाँठ में पैसा जमा करने वाला, कजूस, मक्खीचूस । गठ्ठू - दे 'गट्टू' ।

गठघा - पु १ कौटियों के खेल में फेकने की बडी कौडी । २ दे 'गट्टा' । ३ पुरुष की जननेद्रिय, गिघ्न । - गोंघळ - पु १ व्यभिचार । २ गडबडझाल ।

गड - ख्री अडचण, झझट, उपद्रव, दे 'गडवड' । - सद, - घ - ख्री १ आपत्कालीन स्थिति, हगामी हालत । २ तकाजा, जल्दी ।

गड - पु गड, किला, दुर्ग, कोट । - फरी - पु १ गडवाल, गडपति; किलेदार, दुर्गरक्षक । २ किले में रह कर उसकी रक्षा आदि का काम करने वाला कर्मचारी ।

गडगंच - अव्य खचाखच, ठूसठूसकर । - वि ख्री दे 'गडगज' ।

गडगंज - ख्री १ विपुलता । २ भीड । - वि १ बहुत, विपुल, अनगिनत, अपार, असीम, बेहद । २ गुजान, घना, गहन । ३ ठोस, गफ, गाढा । ४ गहरा ।

गडगड - ख्री १ गरज, गर्जन । २ कुडकुडी, गुडगुड । - अव्य दे 'गडगडा' ।

गडगडणें - क्रि अ १ गरजना, गडगडाना, घहरना, कडकना । २ गुडगुडाना, 'गुडगुड' की आवाज होना । ३ दहाडना, चीखना, चिल्लाना । ४ लुडकना, लडखडा कर गिर जाना, स्थानभ्रष्ट होना । ५ मर जाना ।

गडगडा - अव्य १ कुडकुड या गुडगुड की आवाज के साथ, कडककर, बड़े जोर की आवाज के साथ । २ दे 'गडवडा' ।

गडगडाट-पु गडगडाहट, गरज, गर्जन-तर्जन । २ दे 'गडगडा' ।

गडगणेर - न विवाह से पहले नाते-रिश्तेदारों द्वारा (या उन्हें) दिया जाने वाला प्रीतिभोज । दे 'केळवण' ।

गडगा-घा - पु<sup>+</sup> १ पत्थरो को विना गारे के केवल एक के ऊपर एक रख कर बनायी हुई बाड़ जैसी दीवार, पत्थरो का ढेर । २ वाँघ । ३ चवतरा ।

गडणें - अ क्रि १ गडना, चुभना, धँसना । २ मग्न, मगगूल होना ।

गडद - वि [फा 'गर्द'] १ गहरा, गाढा, भडकीला । २ घना, घनघोर, घटाटोप । ३ बडा, लगातार बरसने वाला । ४ काला ।

गडप - वि १ गायब, लापता, अदृश्य, लापता, गुम, गायबगुल्ला । २ हडप । मु - करणें - १ हडपना, किमी का माल लेकर हजम कर जाना । २ निगलना, खा जाना ।

गडवड - स्त्री १ गडवड, गडवडी, अव्यवस्था, झमेला, घपला, गोलमाल, बदाबली । २ उपद्रव, हुल्लाह, शोर, हो-हुल्ला, दगा । ३ उतावली, जल्दी, हडवडी । ४ घूमघाम, चहल-पहल । -गुडा-पु १ घपला, गडवडझाला, झमेला, गोलमाल । २ लुठकना, लोटना-पोटना । ३ व्यभिचार । ४ हडवडी ।

गडवडणें - क्रि अ १ गडवडाना, गडवडा जाना, घवडाना,

हडवडाना, चकरा जाना । २ लोटना, लोटना-पोटना । ३ खो जाना, गुम होना । ४ काम, मामला विगड जाना ।

गडवडा - अव्य वेचैनी से, लोट-पोटकर, तेजी से लुठक कर ।

गडवडाध्याय - पु घपला, झमेला ।

गडवडाट - पु १ गडवडी, दौडवूप । २ झमेला, घपला ।

गडवडी - स्त्री गडवडी, दे 'गडवड' ।

गडवड्या - वि १ गडवडिया, घपलेवाज, उपद्रवी, गडवड करने वाला । २ चचल, उतावला । ३ दौडवूप, कोशिश करने वाला ।

गडवा - पु लोटा, गडुआ, गडुवा, गडुई ।

गडी - पु १ नौकर, चाकर, टहलू, टहलुवा । २ आदमी, पुरुष । ३ गुइयाँ, खेल का साथी, साझी । ४ साथी, सहयोगी, मित्र । -माणूस - पु न नौकर-चाकर ।

गडी - दे 'गडडी' ।

गडू - पु बहुत छोटा लोटा, गडुई ।

गडे - अव्य अरी, ऐ सत्रि, ऐ साजन । प्यार से अपनी सहेली या पति को सवोधित करने का शब्द (स्त्रि) ।

गड्डा - पु [क 'गडडे'] १ गाँठदार जड, कद, रहसुन की गाँठ । २ गोला, ढेला । ३ सग्रह ।

गड्डी - स्त्री [क 'गडडे'] १ दे 'गडडा' । २ पुलिदा, पूला, मुटठा । ३ गड्ड, गड्डी, ताश के पत्तों, कागजों आदि का एक पर एक जमा कर रखा हुआ ढेर ।

गड्या - अव्य ऐ दोस्त, यार ।

गडी - स्त्री गडी, किले जैसा बडा और मजबूत मकान, छोटा किला, कोट, स्थल दुर्ग ।

गडुळणें - क्रि अ १ गँदला, खराब होना । २ शक पैदा होना । - क्रि. स १ गँदला, गदा, खराब करना । २ भडकाना, उभाडना ।

गडूळ - वि १ गँदला, गदा, खराब, मैला, जिसमें कीचड भरा हो । २ मटमैला । ३ क्षुब्ध, वेचैन । ४ आचार-भ्रष्ट, धर्म-भ्रष्ट ।

गडूळणे - दे 'गडूळणे' ।

गणग - पु १ ठुरी, वह दाना जो भूनने पर खिला न हो, वह दाना जो पकानेपर न गले । २ मूखं, बुडू, भोडू आदमी ।

गण - पु १ गण, समूह, गिरोह । २ पथ, जाति, संप्रदाय, वर्ग, विभाग, वर्ण । ३ फलित-ज्योतिष में एक सज्ञा (देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण) । ४ समान उद्देश्य वाले मनुष्यों का समूह, सघ । ५ अनुचर या अनुयायि-वर्ग । ६ लोकनाट्य के प्रारंभमे गाया जानेवाला विशिष्ट गीत । ७ छंद शास्त्र में तीन वर्णों का समूह (भगण, यगण आदि) । ८ मर्या, राशि, जमा (ग) । ९ समान लोप, आगम आदि वाले शब्दों, धातुओं का वर्ग (व्या) । १० सेवक, अनुचर । ११ कोटि, श्रेणी, वर्ग । १२ गणेश । १३ गणपूर्ति, 'कोरम' । - गीत - न परिवार, नाते-रिश्ते के लोग, रिश्तेदार । - राज्य न गणराज्य, 'रिपब्लिक' । - वेश - प - पु वर्दी, बरदी, समपरिवान, मम-वेश, किमी विभाग के कर्मचारियों

का विशेष प्रकार का वस्त्र ।

गणणे - क्रि स १ गिनना, गिनती करना, हिसाव लगाना । २ जानना, ममज्ञाना, लिहाज, परवाह करना ।

गणती - स्त्री १ गणना, गिनती, हिसाव, लेखा । २ योग्यता । ३ मीमा, हृद ।

गणना - स्त्री १ गणना, गिनती, हिसाव । २ मान, लिहाज, योग्यता । [वेश्या ।

गणिका - स्त्री गणिका, गणित - न १ गणित, अक-शास्त्र, हिसाव । २ गिनती । - वि गणित, गिना हुआ, जोडा हुआ । - शास्त्र - न गणितविद्या । - श्रेढी - स्त्री सख्या आदि की नियमित वृद्धि या ह्रास ।

गणेश - पु गणेश, गणपति । - चतुर्थी - स्त्री गणेश चतुर्थी । - टोपी - स्त्री किसी को पीटने से पहले उसके मुंह पर लपेटा जाने वाला कपडा । - पट्टी - स्त्री मकान के सामने वाले दरवाजे के चौखटे की ऊपर वाली लकड़ी जिसपर बीच में गणेशजी की मूर्ति खोदी हुई होती है । मु - टोपी घालणे - १ बुद्ध बनाना । २ धोखा देना ।

गणोवा - पु १ गणेशजी । २ बडी तोद वाला आदमी । ३ गोवर गणेश ।

गण्यागणप्या - पु ऐरापुरा नत्थू खैरा, साधारण, तुच्छ, नगण्य जन ।

गत - स्त्री १. गत, गति, स्थिति, दशा, हालत । २ मुक्ति, छुटकारा, उपाय, चारा, इलाज । ३ टग, रूप । ४ गत, सितार आदि पर बजाया जानेवाला सर-गम । ५ नतीजा, परिणाम, अत ।

६ तरह, प्रकार, भांति । - वि १ गत, गया हुआ, बीता हुआ । २ जैसा, तरह का, प्रकार का । - अव्य तरह, जैमे, भांति । - गोष्ट - स्त्री बीती हुई कहानी, पुरानी घटना, आपबीती । - घवा - वि स्त्री विधवा, वेवा । - प्राण - वि गतप्राण, मृत, व्रैजान । - भर्तृका - स्त्री गतभर्तृका, विधवा । - वर्षी, - साली - अव्य पिछले वरस, पारसाल ।

गतका - पु १ पमीन मे तर होना । २ ऊमम । ३ मीझना, पकना । ४ उवाल । ५ मिसकी । ६ दे 'गदगा' ।

गतानुगतिक - वि गतानु-गतिक, अघानुयायी, आंख मूंद-कर दूसरो के पीछे चलने वाला । - त्व - न भेडिया बसान ।

गतायुषी - ष्य - वि १ गतायु, जिमकी आयु ममाप्त हो चली हो, वृद्धा । २ मृत ।

गति - ती - स्त्री १ गति, जाना, गमन, चाल, रफ्तार, हरकत । २ वरताव, आचरण । ३ स्थिति, दशा, अवस्था, हालत । ४ पहुँच, प्रवेश, रमाई । ५ मृत्यु के बाद जीवात्मा की भली - बुरी दशा, मोक्ष, सद्गति । ६ दैव, नमीव, किस्मत । ७ ग्रहोकी चाल । ८ प्रकार, किस्म । ९ मच्चा स्वरूप, मर्म । १० उपाय, अवलव, सहारा । ११ नतीजा, परिणाम । १२ दे 'गत' । - चक्र - न गतिपाल पहिया, प्रचक्र, 'फ्लाइव्हील' । - भग - पु गतिभग, छद, गान आदि में पढने, गाने की लय का टूट जाना । - मान - वि गतिमान, गतिशील । - शास्त्र - न गतिशास्त्र, गति-

विज्ञान, 'डायनेमिक्स' । मु. - असणे - प्रवेश, पहुँच होना । - मिळणे, - होणे - प्रवेश, पहुँच होना, समझ में आना ।

गतोत्साह - वि निराग, उदाम, निरुत्साह ।

गत्यतर - न अन्य उपाय, चारा, इलाज, आचार, सहारा ।

गदका - दे 'गतका', 'गदगा' ।

गदगद - स्त्री १. उवाल, जोश । २ गरमी । ३. खुजली । ४ हँसी, हँसी की आवाज । - अव्य दे 'गदगदा' ।

गदगदणे - क्रि अ १ उव-लना, उफनना, जोश खाना, खौलना । २ गदगद होना, गला भर आना । ३ दिल घुट जाना, साँस फूलना, ऊमम से परेशान होना ।

गदगदां - अव्य १ जोर जोर से, झकझोर कर, हचक कर । २ जोश खाते हुए, उवलते, उफनते हुए । ३ खिल-खिला कर । ४ सिसक कर ।

गदगा - पु गतका, लकड़ी का डेढ - दो हाथ लवा, चमडा चढा, मुठियादार डडा जिममे गतका - फरी का खेल खेला जाता है ।

गदरणे - + क्रि अ १ गद-राना, पकनेपर होना । २ पसीने से तर - वतर होना ।

गदळ - न १ गदगी, मैल, कीचड, कूडा - कचरा । २ नल-छट । ३ किमी वस्तु के अदर का वेकार भाग । ४ वेकार बढी हुई घाम-फूस । - पु अव्यवस्था, गडबडी । - वि १ गदा, गंदला, मलिन, मैला । २ जिसमे गडबडी हो ।

गदच्छे - क्रि अ गदा, गँदला होना, खराव होना, कीचड से भर जाना। - क्रि स १ गँदला, गदा, मला कर देना। २ गड-वडी करना, धाँवली मचाना।

गदा - छी १ गदा, गर्ज। २ मकट, आफत।

गदारोळ - पु १ कागारोळ, शोरगुल, हो हल्ला। २ लडाई, जोरदार हमला। ३ चेप्टा, परिश्रम, कोशिश। ४ निरूपण, पाडित्य।

गद्धा - पु गदहा, गधा। - वि मूर्ख, वेवकूफ, अहमक।

गद्धपचविशी - छी गदह-पचीसी, १६ से २५ वरस तक की अवस्था, मस्ती और नासमझी के दिन।

गद्य - न १ गद्य। २ साधारण रचना। - वि नीरस, कलात्मक अभिश्चि-रहित। - काव्य न गद्यकाव्य, गद्य में की गयी काव्यगुणों से युक्त रचना।

गधडा - दे 'गद्धा'।

गनिम, गनीम - पु [अ 'गनीम'] १ गनीम, शत्रु, दुश्मन। २ डाकू, लुटेरा।

गनिमत, गनीमत - छी [अ 'गनीमत'] गनीमत, बडी बात, मतोष करने योग्य बात।

गनिमी, गनीमी - छी [अ 'गनीम'] शत्रुता, दुश्मनी। - वि कूट, छापामार, बोखे का। - कावा - पु कूटनीति। - फौज - छी छापामार दस्ता। - युद्ध न कट युद्ध, छापामार युद्ध।

गप - वि चुप, मौन, खामोश। - अव्य गायब, लुप्त, अदृश्य। - कन, - दिशीं - अव्य अचानक, तुरत, झट, जल्दी - जल्दी,

गटक कर, हडप कर, गपक कर। - गप - अव्य. दे 'गपागप'। - गार - अव्य वि चुपचाप, शात। - चिप, चूप - अव्य वि चुपके से, चुपचाप, खामोश। मु० - करणे - गपकना, हडपना, गटकना, निगलना, खा जाना, झट से खाना।

गप - छी [फा] १ गप, इधर-उधर की बातें, बेकार की बातें, वकवाम, वकवाद, निष्प्रयोजन बातें। २ मन बहलाव के लिए की जाने वाली बातचीत। ३ अफवाह, उडती खबर, झूठी खबर। ४ झूठी बात, डींग, शेखी। - छप, - सप - छी गप-अप, इधर-उधर की बातचीत।

गपागप - अव्य. १ उतावली के साथ, तेजी से, जल्दी-जल्दी, झट से। २ गपक कर, गटक कर, हडप कर।

गपापा - अव्य. दे 'गपागप'। कहा. अपापाचा माल गपापा - अनुचित ढंग से कमाया हुआ धन वैसे ही चला जाता है, उठाऊ का माल बटाऊ में।

गप्प - दे 'गप'।

गप्पा-छी बहु गपें, दे 'गप'। - गोष्ठी - छी गपें, गपअप। २ बातें, कहानियाँ। ३ वकवास। - टप्पा - छी बहु गपशप। मु - मारणें - गप मारना, गप हाँकना, डींग मारना, वकवास करना।

गप्पाष्टक - न गपे, गपशप, वकवाद, वकवास।

गप्पिष्ट, गप्पीदास - वि गपोड, गपोडिया, गप्पी, गप मारने वाला, गपअप करने वाला, गप हाँकने वाला।

गफलत - छी [अ 'गपलत']

१ गफलत, असाव धानी, बे-खवरी। २ लापरवाही, बेपर्वाई, उपेक्षा। ३ भूल, चूक। ४ आलस्य, काहिली।

गवगवणे - क्रि अ १ सर्दी से परेशान होना। २ आँखें डबडबाना। ३ मोटा-ताजा होना। ४ खुशी से फूल उठना।

गवगवीत - दे 'गुवगुवीत'।

गवदुल, गवदूल - वि ठिगना और गठीला, मजबूत, मोटा - ताजा।

गवर - वि अमीर, मालदार।

गवरु - पु [हिं] १ गवरु, रूपवान और मालदार आदमी, पट्टा। २ अमीर आदमी।

गवाळ - वि बेकार, निरूपयोगी। २ अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त, फटीचर। - न अस्तव्यस्त, बिखरी हुई चीजें। दे 'गवाळ'। - ग्रथी - वि १ फटीचर। २ अस्तव्यस्त, लापरवाह।

गवाळें - दे 'गवाळे', 'चवूगवाळें'। 'गवाळ'।

गवाळ्या - दे 'गवाळग्रथी'। गव्वर, गव्वू, गव्वू - दे 'गवर', 'गवदुल', 'गवरु'। गभीर - दे 'गभीर'।

गम - पु छी [अ 'गम'] १ सयम, ध्यान न देना, नजर-अदाज करना। २ रुकना, विराम, ठहराव। मु - खाणे - गम खाना, क्षमा करना, सह लेना।

गमक - न १ प्रमाण, सबूत। २ चिह्न। ३ आश्वासन, आश्रय। - छी गमक, गाने में एक श्रुति से दूसरी श्रुति पर जाने की एक रीति। - वि गमक, बोधक, सूचक। - पु. गान, नखरा, ठाठ।

गमजा - छी बहु [अ 'गम्ज']



१ अकड, ऐठ गर्व, शान। २ गमजा, नाज, नखरा, चुहलवाजी, नाजोभदा, चोचला, चोचला, हावभाव। ३ ठाठ। ४ डिठाई, वष्टता। मु० - करणें - १ ऐठ दिखाना, गर्व करना, इतराना। २ चोचले करना। - चालणे - धृष्टता का वर्दाग्नि किया जाना। - न चालू देणे - एक न चलने देना, धृष्टता को वर्दाग्नि न करना।

गमणें - क्रि अ १ देर करना, देरी लगाना। २ मुस्ताना, मुस्ती के साथ आराम में काम करना, टालमटूल, हीला हवाला करना। ३ रमना, चैन करना, आवारा-गर्दी करना, मटरगव्ती करना। ४ सोहना, शोभा देना। ५ पसद आना, प्रिय लगना। ६ लगना, प्रतीत होना। ७ दिल लगना, मन बहलना, चैन आना, पडना। कहां० तुझे माझे पटेना नि तुझ्या-विना गमेना - तेरे साथ मेरी नहीं बननी, मगर तेरे बिना मुझे चैन भी नहीं पडता।

गमत-छी दे 'गमत'। - अव्य चैन से, आराम से, मजे में। - रमत - अव्य हैमते - खेलते, मजे से, धीरे - धीरे।

गमती - त्या - वि हँसोड, जिंदादिल, तिनोदी, मजाकिया, दितलगीवाज।

गमवणें, गमविणें; गमावणे, गमाविणें - क्रि स १ गंवाना, खोना। २ जाया करना, व्यर्थ, नष्ट करना, आलम, बेल आदि में वेकार समय काटना। - क्रि अ १ खो जाना। २ नष्ट होना, मरना।

गमाळ - वू - वि खो देने वाला, गंवाने वाला।

गममत - दे 'गमत'।

गम्य - वि १. गम्य, गमन करने, जाने योग्य, मुलभ। २ प्राप्य, मिलने योग्य। ३ जानने योग्य, समझ में आने वाला। - न पहुँच, प्रवेश, रमाई, जान, जानकारी।

गया - छी गया (प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान जो बिहार में है)। - वळ - पु १ गयावाल, गया का पडा। २ आचारविचार - हीन, भ्रष्ट व्यक्ति, मलिन धर्मभ्रष्ट पडा। ३ मक्खीचूम, कजूस। ४ गोवर गणेश, गावदी, वावला, भापू, बुद्धू। कहां० बुवा गयावळ आणि वाई चंद्रावळ - बुद्धू या मीघा मादा पति और सुंदर या चोचलेवाज (नखरेवाज) पत्नी।

गयावया - अव्य दीन भाव में, गिडगिडा कर।

गयावया - छी गिडगिडाहट, क्षमायाचना, मनुहार, मिन्नत-ममाजत। मु० - करणें - गिड-गिडाना, आजिजी, चिरौरी करना, धिधियाना।

गयाळ - ली - वि १ लावारिस। २ पटती, वीरान (जमीन)। ३ लापरवाह। ४ गोवर गणेश, गावदी, मोदू, बुद्धू। ५ बहुत मीघा, दीन, डरपोक, कायर। ६ गदा, खगव।

गर - पु गिरी, मीगी, गृदा, मगज, फल या बीज के भीतर का हिस्सा।

गरक - दे 'गरक'।

गरकणें - क्रि अ १ जल्दी से भीतर जाना, सोखना (पानी)। २ डरना, भडकना।

गरकन - दे 'गिरकन'।

गरका - पु [अ 'गरक']

१ प्रेग, अवरोध, मुहामरा। २ चक्कर। ३ झंझट, झमेला।

गरगट - टें - न १ पतला, शोरखेदार (रमेदार) मक्खी या तरकारी, पतला मालन जिममें माग पडा हो, गाढी दाल। २ पतला भात। ३ बहुत-मी चीजों की मिलावट, ग्विचडी।

गरगटणें - क्रि स १ खलना, घोटना; पीमना। २ लीपना, पीमना। ३ आडी-टेडी लकीरें खींचना। ४ हिलाना। दे 'गिर-गिटणे'।

गरगर - अव्य १ चक्र की तरह, धुमा कर, मटलाकार, गोल, चारो ओर, चक्कर खाते हुए। २ जल्दी में, तुरत।

गरगरणें - क्रि अ १ घूमना, चकराना, चक्कर काटना, गोलार्ड में घूमना। २ मिर का घूमना, चक्कर खाना। ३ तेजी में बडना; गदराना। ४ गुडगुडाना, पेट में 'गुडगुड' की आवाज होना। मु० गरगरावयास लागणें - चकराना, मिर का घूमना।

गरगरा - दे 'गरागर'।

गरगरा - पु १ चक्कर, भंवर। २ गिरगिरी, लट्ट, भौरा। ३ झमेला, झंझट।

गरगरीत - वि १ गोल, गोश, वृत्ताकार, गोलार्ड वाला। ० मोटा ताजा।

गरगशा - वि छी दे 'करकशा'। - पु १ शोरगुल, हो हल्ला। २ उपद्रव, अव्यवस्था, झंझट, झमेला।

गरज - छी [अ 'गरज'] १ जरूरत, आवश्यकता। २ गरज, मतलब, प्रयोजन। ३ परवाह। ४ अभाव, कमी, खामी।

-बत - वि १. गरजमद, जिसे जरूरत हो, गरज रखने वाला, अर्थी। २ कगाल, भूखा। -साधू - वि गरज का आशाना; मतलब का दोस्त। मु - करणें - १ चला लेना, दर-गुजर करना। २ जरूरत को पूरा करना। -काठणें - जरूरत के समय मदद करना। -लागणें - जरूरत पडना, आवश्यकता होना। कहा० - सरो वैध मरो-अपना काम हो जाय तो फिर उसे करने वाला जिये या मरे, उससे हमें क्या? काज रहे तो काजी, न रहे तो पाजी। गरज-वताला अक्कल नसते - गरज बावली होती है।

गरजणें - क्रि अ १ गरजना, वादलो का गडगडाना। २ शेर का दहाडना। ३ गर्जन-तर्जन करना, डांटना, धमकाना। ४. चीखना, चिल्लाना। कहा० बोलेल तो करील काय, गरजेल तो पडेल (धवेल) काय - जो गरजता है वह बरसता नहीं।

गरत-ती - स्त्री पतिव्रता, कुलीन, सभ्रात कुल की स्त्री, सती।

गरद - दे 'गडद'।

गरदा - पु तवाकू, गांजा, आदि की सूखी पत्तियों का चूर्ण।

गरनळा - पु, गरनाळ - स्त्री [पुर्त 'गानेल', हिं 'गरनाल'] चौडे मुंह की तोप।

गरवा - भा - पु [पु 'गरवो'] गरवा, गुजराती स्त्रियों का एक तरह का सामुदायिक नृत्य।

गरम - वि [फा 'गर्म'] १ गरम, गर्म, तप्त, उष्ण। २ तीव्र, तेज। ३ क्रुद्ध, कुपित। ४ शीघ्र, जल्द उत्तेजित हो जाने म हिं श को ... १७

वाला। ५ लनी (कपरा)। -मसाला-पु गरम मसाला: धनिया, मिर्च, लौंग, एलायची इत्यादि, या इनका चूर्ण। मु० - होणे - गरम होना; क्रुद्ध होना।

गरमा - पु [फा 'गर्मा'] गरमी, ऊमस।

गरमाई - स्त्री [फा 'गर्म'] झगडा, अनबन।

गरमागरम - वि [फा. 'गर्म'] १ गरमागरम, गर्मागर्म, तुरत का पका हुआ, तत्ता। २. जिसमें गरमी या उत्तेजना हो।

गरमागरमी - स्त्री [फा. 'गर्मा-गर्मी'] १. गर्मी, उष्णता। २. गर्मागर्मी, क्रोध, गुस्सा। ३. जोश, सरगर्मी, दो पक्षो या आद-मियों का उत्तेजित हो जाना, वातचीत में तेजी, मीखिक युद्ध, वाग्युद्ध। ४ धूमधाम, जोर-शोर।

गरमी - स्त्री [फा 'गर्मी'] १ गरमी, गर्मी, उष्णता, हरा-रत, तेजी। २ गर्मी का रोग, उपदश, आतशक। ३ क्रोध, गुस्सा।

गरवा - वि देरी से तैयार होनेवाला (धान, फसल)।

गरवार - वि गर्भिणी, गर्भवती, हामिला।

गरवारशी - वि स्त्री दे 'गरवार'।

गरसळी, गरसुळी, गरसोळी - स्त्री गलमिरी, गले का एक गहना, कठथी। २ मगलसून (स्त्रियों का)।

गरळ - न गरल, जहर विष। - म्यी १ मांप, ७ आदि की जहरीली लार। ३ आस्था।

गरला - पु १. किसी दवा को पान के पीड़े में भजा कर भिनात्म हुआ एस (बचलो को पितामो के लिए)। २. रिवात।

गरा - पु १. कोया; कोया; पके फटाफट का धीजकोप। २. गँड़ेरी। [भोजनकार।

गरागरा - शब्द, भ्रमकार;

गराडा - पु १. घेरा; गुहा-सारा। २. आताता; माड़ा; बाड़ा; पहार - धीयारी। ३. घेरा झालना।

गराडी - स्त्री १. गराडी; रग-डरो पथी हुई गाड़ी की छापीर। २ गराडी; गरथी; गिरथी।

गरारणें - क्रि. अ. १. सभा-कार घूमना; सभाकार पारटना। २. फूल उठना; रोषी से अफुर निकालना। ३. गदराना।

गरारां - दे. 'गरराग'।

गरिबी - स्त्री [अ. 'गरीबी'] १. गरीबी, निर्भंगता, गुणारिणी। २ दीनता, नम्रता, सारियका वृत्ति; जात स्वभाय।

गरीव - वि. [अ. 'गरीव'] १ गरीव, निर्धन, कगाल, गुण-लिस। २ दीन-हीन। ३. शान स्वभाव का, निरुपद्रव, मामूम।

-गाय - वि अल्लाह निर्गं की गाय, सीवा; मोला, दिन कुरे-पजे का। - गुरीब हि. स्त्री - गुरवा, दीन - दंडि।

गरीबी - दे 'गरीबी'

गरुड - पु १. गरुड = उकाव, गिट। - गरुड जैसी तेज गंड - वेल - स्त्री गिरुड - गरुड - स्त्री गिरुड - गरुड - स्त्री गिरुड - गरुड - स्त्री गिरुड

गरीब - स्त्री गरीबी - गरीब - स्त्री गरीबी - गरीब - स्त्री गरीबी - गरीब - स्त्री गरीबी

गर्क - वि [अ गर्क] १ गरक, गर्क, लीन, तन्मय। २ डूबा हुआ, निमग्न। ३ गहरा, गाढा। ४ नष्ट, मृत। मु० - होणे १ तल्लीन, तन्मय होना। २ उलझना, फँसना।

गर्गशा - पु. झगडा, शोरगुल, गडवडझाला, उपद्रव। - स्त्री दे 'कर्कशा'।

गर्जणे - दे 'गरजणे'।

गर्जन - न, गर्जना - स्त्री, गर्जित - न १ गर्जन, गर्जना, हुकार, दहाड। २ वादलो की गडगडाहट।

गर्त - स्त्री १ गर्त, गढा, खड्ड, खड्डा। २. आँख का गढा।

गर्द - वि [फा] गहरा, गाढा, पक्का (रंग)। २ घना, गुजान, ठस, घनघोर (जगल)। ३ नष्ट, वरवाद। - स्त्री गर्द, धूल, गर्दा।

गर्दन - स्त्री [फा] गर्दन, गरदन, गला, ग्रीवा। - बाजी - स्त्री जाँबाजी, जानवाजी, साहस, वीरता, जान को खतरे में डालना, जान पर खेलना।

गर्दी - स्त्री [फा 'गर्द'] १ भीड, जमघट, जमघटा, मजमा, आदमियों का जमाव, ठट, ठठ। २ विपुलता, अधिकता, इफरात। ३ शोरगुल, कोलाहल। ४ उपद्रव। ५ नाश, तवाही, वरवादी।

गर्भ - पु. १ गर्भ, हमल। २ गिरी, मीगी, गूदा, मग्न। ३ साराग, निचोड। ४ किसी वस्तु का भीतरी, मध्यवर्ती भाग। ५ गर्भाशय, कोख। ६ मंदिर का गर्भगृह। - कोश - ष-पु. गर्भकोष, गर्भाशय, वच्चादानी। - गळित,

- गळीत - वि १ जिसका गर्भ गिर गया हो। २ बहुत डरा हुआ, त्रस्त। - गृह - न १ गर्भगृह, मंदिर की वह कोठरी जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा हो। २ घर के बीचोबीच का कमरा, घर का मध्यभाग। - द्वार - न गर्भाग्य का मुँह। - धारण - न, - धारणा - स्त्री गर्भधारण, गर्भवती होना, हमल रहना। - पात - पु. गभपात, गर्भ का गिर जाना, इस्काते हमल। - वास - पु. १ गर्भवास, (वच्चे का) गर्भ के भीतर रहना। २ आवागमन, जन्म-मरण का चक्र या वधन, ससृति। - श्रीमत - वि पैदाइशी अमीर, धनी परिवार में जिसका जन्म हुआ हो। - सुती - वि (ऐसा वस्त्र) जिसके ताने में सूतका और वानेमें रेशम का धागा हो। मु० - गळित होणे - होश उड जाना, छक्के छूटना, हिम्मत हारना, हाँसला पस्त होना।

गर्भा - दे 'गरवा'।

गर्भागार - पु. दे 'गर्भगृह'।

गर्भाघान - न १ गर्भाघान, गर्भधारण, हमल, गर्भ रहना। २ सोलह सस्कारों में से एक।

गर्भार, गर्भारशी - स्त्री गर्भवती, गर्भिणी, हामिला।

गर्भाशय - न गर्भाशय, वच्चादानी।

गर्भित - वि ध्वनित, व्यजित, सकेतित, व्यग, गूढ, छिपा हुआ।

गर्भितार्थ - पु. गुह्यार्थ, ध्वन्यर्थ, छिपा हुआ मतलब।

गर्भ, गर्भगिमी, गर्मी - दे 'गरमा', 'गरमागरमी', 'गरमी'।

गर्व - पु. १ गर्व, घमड,

गरूर, ठसक, अकड, ऐंठ, शान, अहकार। २ अभिमान, फहर। मु.-फरणे - इतराना, इठलाना। - गर्वाने दोलणे - वढ-वढकर वाते करना। कहा. गर्वाचें घर खाली - वडे दोल का सिर नीचा, मगरूर का सिर नीचा।

गर्विष्ठ - वि गर्वित, घमडी, मगरूर; गरवीला, गरवगहेला।

गर्हणीय, गर्ह्य - वि गर्हणीय, गर्ह्य, निघ, घृणित, निंदा करने योग्य।

गल - स्त्री [क 'अगळु'] गुच्ची, गुल्ली आदि खेलने के लिए जमीन में बना हुआ बहुत छोटा गढा।

गलका-गा - पु. शोर, कोलाहल, शोरगुल, हो-हल्ला, हगामा, चीख-पुकार।

गलतान, गलथान - वि १ फटीचर, अस्तव्यस्त, लापरवाह, वोदा, सुस्त। २ नालायक, अयोग्य, मूर्ख, गावदी। ३ वेसुर।

गलबत - न [पुर्त 'गळलत'] जहाज, नौका, जलयान, जलपोत, पालदार नाव।

गलबल - स्त्री दे 'गलवला'।

गलबलणे - क्रि अ १ डर जाना, घबडाना। २ खो जाना, गुम होना, अस्तव्यस्त, तितर-वितर हो जाना। ३ बेचैन होना, जी टंगा रहना। ४ गद्गद होना।

गलबला, गलबलाट - पु. १ शोर, शोरगुल, हो-हल्ला, कोलाहल, चिल्लाहट, चीख-पुकार। २ डर जाना। ३ गडवडी, हडबोग। ४ हुल्लड, हगामा।

गलबल्या - वि ऊधमी, उपद्रवी, शोर मचाने वाला।

गँलरी - स्त्री [ अं ] १ छज्जा, वीथिका, वालाखाना, दीर्घा, वरामदा, 'गँलरी'। २ चित्र-कक्ष, चित्रशाला, चित्रप्रदर्शनी का कक्ष या कमरा।

गलास - पु. [ अ 'ग्लास' ] प्याला, गिलास।

गलिचा - दे 'गालिचा'।

गलिच्छ - वि [ अ 'गलीज' ] गदा, मलिन; मैला, धिनौना।

गलित - वि १ गलित, चुआ, गिरा हुआ। २ गला हुआ, पिघला हुआ। ३ जीर्ण, क्षय-पात्र। - काय; - गात्र - वि १ क्षीण, सूखा हुआ, मरियल। २ डरा हुआ। - कुष्ठ - न पु. गलित कुष्ठ, वह कोठ जिसमें हाथ-पाँव की उँगलियाँ आदि गल कर गिर जाती हैं। - यौवन - वि वूढा, जिसकी जवानी ढल गयी हो, ढलती उम्र वाला।

गलिम, गलीम - दे 'गनीम'।

गँली - स्त्री [ अ ] छापे के अक्षर जमाकर बैठाने का पटल या तख्ता, पट्टी, टाइप बैठाने की दीर्घा, गेली; 'गँली'। - प्रुफ - न गेलीप्रूफ, कपोज किये हुए मँटर का पहला या पेज के रूप में कसे जाने के पहले का उठाया गया प्रूफ।

गलेफ - पु [ अ 'गिलाफ' ] १ गलेफ, गिलाफ, गिलेफ, तकिये आदि का खोल। २ कन्नपूर चढायी जाने वाली चादर, कफन।

गलेलट्ट - वि १ मोटाताजा, तगडा, हूष्टपुष्ट, सडमुसड। २. मुस्टडा, गावदी, लठमार।

गल्लत - स्त्री [ अ 'गलत' ] १ गड्डवड्ड, गड्डमड्ड, गड-बडी, अव्यवस्था, गडवड्डशाला,

खिचडी, वेढगी मिलावट, खल्लत - मल्लत। २ नाश। ३ ताशके पत्तो को फँटना, गड्डमड्ड करना।

गल्ला - पु. [ अ 'गल्ल' , फा 'गल्ल' ] १ गल्ला, अनाज। २ अनाज का सग्रह। ३ फसल। ४ गल्ला, रोज की विक्री की आमदनी। ५ गोलक, नकदी का सडूकचा, नकदी-ववस, 'कँश-वाँक्स'। ६ नकद।

गल्ली - स्त्री १ गली, गल्लियारा, गल्लियारी, सँकरा, सडक से कम चौडा रास्ता जिसके दोनो ओर मकानो की कतार हो। २ टोला, मुहल्ला। - कुची - स्त्री गली - कचा, गल्लियारा।

गवडी - पु राज, राजगीर, थवई, मकान आदि बनानेवाला।

गव - स्त्री १ पकड, गिरपत, घपची। २ आलिंगन। ३ मौका, ऐन अवसर। ४ फुरसत। ५ साख, इक्कत। ६ ताकत, सामर्थ्य।

गवई - पु गायक, गवैया, गाने वाला।

गवगव - स्त्री , गवगवा - पु १ शोर, कोलाहल, हल्ला - गुल्ला। २ सनसनी, चर्चा। मु० - होणे - वात फैल जाना, चर्चा होना।

गवणें - \* दे 'गवसणें'।

गवत - न घास, तृण, चारा। - काडी - स्त्री घास - पात, चारा। - काप्या - पु १ घसियारा, घसखुदा, घास काटने वाला। २ अनाडी हजाम, सिपाही आदि। - चराई - स्त्री चराई, घास चराने का काम, उजरत, कर आदि। - विकणारा - पु घसियारा, घास खोदने, बेचने वाला।

गवताळ - वि (ऐसी जमीन)

जिसमें केवल घास ही बडी मात्रा में उगती हो।

गवती - वि घास का, घास सवधी। - चहा - पु नीली चाय, अगिन घास, अगिया घास। - जमीन - स्त्री चरागाह, चरी, वह भूमि जिसमें केवल घास उगती है।

गवर - री - दे 'गौर - री', 'गोवर', 'गोवरी'।

गवशा - वि १ मुप्त में मिला हुआ, उठाया हुआ। २ रखेल, रखनी। ३ मिला, पाया हुआ।

गवसणी - स्त्री १ खोल, गिलाफ, आवरण, वेठन। २ व्याप्ति, समावेश। मु० - घालणें - गिलाफ, आवरण डालना, लपेटना। आकाशाला, गगनाला गवसणी घालणें - आसमान को बाँधना, आसमान छूना, बहुत बडी बात करना।

गवसणें - क्रि अ १ मिलना, पाया जाना, हासिल होना। २ मन मे आने योग्य होना। ३ चगुल में फँसना, पकडा जाना। - क्रि स १ खोजना, हूँडना। २ जमा करना, लपेटना। ३ \* ढाँकना, छाना। ४ गले लपेटना। ५ कव्जे में करना।

गवळण - स्त्री १ ग्वालिन, गोपी, अहीरिन। २ गुजरिया, गूजरी (एक पक्षी)। ३ एक गीत - प्रकार जिसमें श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रीति होती है। [की वस्ती।

गवळवाडा - पु ग्वालो, अहीरो गवळा - वि चित्तकवरा, जिमकी खाल पर सफेद चित्तियाँ हो (वैल)

गवळी - पु १ ग्वाला, गोप, अहीर। २. गूजर। ३ चरवाहा।

गवळीण - दे 'गवळण'।

गवादी<sup>+</sup> - स्त्री १ अन्नसत्र, लगर। २. मिश्रण, मिलावट, योग, जोड़।

गवा-पु अरना भैंसा, गवल, जगली भैंसा। २ गवय, नील गाय का नर।

गवाण - दे 'गव्हाण'।

गवादी - स्त्री दे 'गवादी'। २ अरना, जगली भैंसे का सीग।

गवार - री - स्त्री ग्वार, ग्वार फली (तरकारी)।

गवाळें - न १ मुटका, पाट-बर, देवप्रतिमा आदि को लपेट कर रखने का ऊनी वस्त्र या थैली। २ गठरी, थोडा-सा सामान, असवाव। मु. - आढोपणें, - आबरणें - भाग जाना, नौ दो ग्यारह होना, चपत होना। २ नौकरी से हटा दिया जाना।

गवहर - स्त्री १ गवहर, गुफा; कदरा, विल, अंधेरी, छिपने लायक जगह। २ दिल की बात, मतलब, अभिप्राय। - वि गंवार।

गवहला - पु सिवई, सेवई, सेवई। [ बह. गवहले - पु सिव-इयाँ ]

गवहला, गवहलाफचरा - पु गधफला, प्रियगु, कुटकी, गध-फली।

गव्हाण - णी - स्त्री चारे की नाँद या बक्स, चरही, चरई, चरनी, गवादनी, घासद्रोणी। कहा० गव्हाणीतला कुत्रा - नाँद का कुत्ता, जो न किसी वस्तु को स्वयं ले और न उठाने दे।

गव्हाळ - ङा - ङी - वि १ गेहूँ, गहुमी, गेहूँ के रग का, गेहूँ रग का, दबती गोराई वाला।

गँस - पु. [ अ ] वायुरूप सुक्ष्म और चाहे जितना फैल सकने वाला

द्रव्य, 'गँस'। - चा दिवा - पु. - वत्ती - स्त्री 'गँसलाइट', 'गँसलैम्प'।

गस्त - स्त्री [ फा 'गस्त' ] १ गस्त, पुलिस कर्मचारी या ग्राम-रक्षक का पहरे के लिए रात में घूमना, रौद, रात का पहरा, रखवाली। २ फिरना, भ्रमण; चक्कर। - करी - वि गश्ती, गस्त करने वाला। मु. - घालणें - गस्त करना, पहरा देना।

गहजब - पु [ अ 'गजब' ] १ गजब, जुल्म, सितम, अन्याय, अधेरा, आफत। २ कडी अलो-चना। मु. - करणें - बरस पडना, गजब ढाना।

गहन - वि १ गहन, निविड, दुर्गम, अमेघ, कठिन। २ गहरा, घना। ३ मुश्किल। ४. सहान्, श्रेष्ठ। - न \* १ सकट, विपद्। २ अरण्य, जगल।

गहाण - न [ हि 'गहना' ] गिरवी, वधक, रेहन, गहना, न्यास, निक्षप, प्राधि। - खत, - पत्र - न गिरवीनामा, रेहननामा, न्यासपत्र, वधकपत्र। - दार - पु गिरवीदार, रेहनदार, वधक रखने वाला, न्यासग्राही। - वट - वि गिरवी रखी हुई (चीज), वधक। - स्त्री गिरवीगाँठा, वधक।

गहाळ - वि १ लापता, खोया हुआ, गुम, गुमशुदा। २ नष्ट। ३ गाफिल, असावधान, लापरवा। दे 'अजागळ'।

गहाळणें - क्रि स गंवाना, खोना, गुम करना। - क्रि अ १ गुम होना। २ भटकना, रास्ता भूलना।

गहिवर - पु गद्गद होना,

दिल भर आना, हर्ष, प्रेम, शोक आदि के अतिरेक से गला भर आना, सिसकी, शीत्कार।

गहिवरणें - क्रि अ गद्गद होना, गला भर आना।

गहिरा - वि १ गहरा, घना। २ पक्का। ३. बड़ा।

गहिरा - वि स्त्री गहरी, गभीर, तीखी। - नजर - स्त्री तीखी नजर, दिल को छूने वाली नजर।

गहूला - दे 'गव्हला'।

गहू - पु गेहूँ, गहुम। कहा० गव्हाबरोबर किडे रगडले जातात - गेहूँ के साथ धुन भी पिस जाता है।

गळ - पु. १ कँटिया, मछली फँसाने की वसी, काँटा। २. अँकुसी, विलाई, कुएँ में पडी हुई चीजे निकालने का काँटा, अँकुसो का समूह। ३ फाँस, फदा, पाश। - स्त्री १ गला। २ आप्रह। ३ अँकुसी। मु-टाकून पाहणें - १ थाह लेना, अदाजा लगाना, २ प्रयत्न, कोशिश करना। मु - घालणें - १ गले पडना, बहुत आप्रह करना। २ ज़बर्दस्ती करना।

गळ - दे 'गळती'।

गळ - 'गळा' का समास में व्यवहृत रूप। - गुड - न १ गल-गड, दे 'गडमाळा'। २ गल-कवल, गाय वैल के गले का नीचे लटकने वाला भाग। - पट्टा - पु गुलूवद, सरदी से बचने के लिए गले में लपेटी जाने वाली पट्टी। २ पट्टा, पट्टी। - पट्टी - स्त्री कालर, गलावद, गरेवान, गिरेवाँ, कपडे की इकहरी या दुहरी पट्टी जो कोट - कमीज आदि में लगा कर या अलग से गले में पहनी जाती है। - फास - पु गल

फांसी, गले की फांसी, फदा, जजाल। (मु. - घेणें - गले में फांसी लगवा लेना, आत्मघात करना।) - सरी - छी गलसिरी, कठथ्री, गले का हार।

गळका - वि गलने, चूने, टपकने वाला, टूटाफूटा।

गळगळा - अव्य गिडगिडाता हुआ; रोवासा हो कर।

गळणें - क्रि अ १. चूना, टपकना, वूंद - वूंद करके नीचे गिरना। २ गिरना, पके या सूखे फल का झड पडना। ३ थक जाना, निडाल होना; थककर चूर, शिथिल, पस्त होना। ४ खो जाना, नष्ट होना, गायब होना, पीछे रह, छूट जाना। ५ घट जाना, कम होना। ६ हिम्मत हारना, हिम्मत पस्त होना। ७ मुकर जाना। मु. गळून जाणें - निडाल हो जाना, हाथ-पांव ढीले पडना।

गळती - स्त्री १ चूना, टपकना, क्षरण, टपक, टपका, टपका - टपकी। २ जलहरी, जलवरी, गर्मी के दिनों में शिवांग के ऊपर लटकाया जाने वाला जलपूर्ण घडा जिसके पेंदे में एक छेद होता है। ३ अभिपेक। ४ अपव्यय, क्षय, छीजन। दे 'गळतें'।

गळतें - न (छत आदि में) वह सूराख जिसमें से पानी टपकता हो। मु. - काढणे - सूराख वद करके चूने को रोकना।

गळफटणें - क्रि अ १ उलझना, फँसना। २ खो जाना, गुम होना। - क्रि स १ उलझाना, फँसाना। २ खो देना, गुम करना।

गळा - अव्य गले में, गर्दन में। दे 'गळा'।

गळा - पु १ गला, कठ,

हलक। २ सुर, आवाज। ३ अँगरखे आदि का गरेवान। ४ गरदन। ५ घडे, लोटे आदि का मुँह के नीचे का तग भाग। मु० - काढणे - जोर जोरसे रोना। - कापणे - १ गला काटना; गरदन मारना, वध करना। २ धोखा देना, फँसाना। ३ (दर्जी का) गरेवान काटना। (केसाने) - कापणें - ऊपर से मित्रता दिखा कर दगावाजी करना। - गुतणे - गला फँसाना, मुसीबत में डालना। - तापणें - गला खुलना, गले का माफ होकर गाने लायक बनना। - दाटणें - गला भर आना, गद्गद होना। - घरणे - १ गला पडना, गला बैठना। २ गला पकडना। ३ रोकना, बाधा डालना। ४ कब्जा करना। - पडणें - दे 'गळा घरणे'। - फुटणें - १ कठ फूटना, जवानी आने पर आवाज का बदलना। २ कठ खुलना, आवाज निकलना। - वसणें - कठ बैठना, गला बैठना, वेसुरा होना, साफ आवाज न निकलना, (शोथ, बहुत बोलने, गाने आदि से) स्वर का विकृत हो जाना। - भरणे, - भरून येणें - गला भर आना, गद्गद होना। - मोठा करून रडणें - जोर से रोना। - लागणें - साफ, अच्छी आवाज निकलना (गाने में)। - सोडविणें - गला छुडाना, पीछा छुडाना। 'गळा' या 'गळों' से प्रारभ होनेवाले मुहावरे - - उतरणें - गले उतरना, जँचना, गले के नीचे उतरना। - पडणें - १ गले लगना, आलिंगन करना। २ दायित्व आ जाना, गले पडना, मत्ये मडा जाना, अनचाही, अ-

चिकर वस्तु की प्राप्ति होना, उसके ग्रहण के लिए विवश होना। जवर्दस्ती थोप देना, मत्ये मडना। ४ बहुत आग्रह करना। - बाधणें - १ मत्ये मडना, जवर्दस्ती दे देना। २ अन्याय से दोषारोप करना; सिर थोपना। गळघाखालीं उतरणें - १ गले के नीचे उतरना, घोटा, निगला जाना। २ समझ में आना, ठीक लगना, जँचना। गळघाची शपथ - (मेरी या तेरी) कसम। 'गळघात' से प्रारभ होनेवाले मुहावरे - गळा घालणें - गले लगाना, बगलगीर होना, भेंटना, बहुत मित्रता या स्नेह दिखाना, गले मिलना। - घोगडें, तंगडघा येणें - आफत में फँसना, आँते गले में या मुँह में आना, तग होना। - घोड बाधणें - आफत में फँसाना, गले बाँधना। - पडणें - दे 'गळी' पडणे। - पाय येणें - दे. 'गळघात घोगडें येणे'। - बाधणें - गले मडना, सिर थोपना; गला पकड कर कोई चीज देना, जवर्दस्ती कोई काम सौपना, लेने को बाध्य करना, गले बाँधना। - माळ घालणें - कन्याद्वारा वर के गले में माला पहनायी जाना, वरणमाला पहनाना, वरण, पति का चुनाव करना। - येणे - गले पडना, वीतना, मत्ये मडा जाना, आफत में फँसना। - हात घालणे - गले लगाना, स्नेह, मित्रता दिखाना। गळघाला तात लागणे - १ गला फँसना, विवश होना। २ बहुत अधिक चिंतित होना, आफत में पडना। गळघांतील ताईत - गले का हार, अति-प्रिय। गळघाला नख लावणें - १ मार डालना, गला रेतना। २

मार डालने की धमकी देना; खतरे में डालना। गळचावर गाणें—सुरीली आवाज में गाना।—गळचावर सुरी ठेवणें—गले पर छुरी फेरना, भारी अहित, अन्याय करना, गला काटना। गळचाशी येंणें—जान पर आ वनना, भारी सकट में पडना, बहुत अधिक घाटा, नुकसान होना। कहा० गाता गळा, शिपतां मळा—गाने से गला और पानी देने से वाग अच्छा रहता है। गळचांत गळा आणि नळघांत नळा—घनिष्ठ मित्रता। गळाठणें—क्रि अ १. गडवडी, अवेर, अफरातफरी फैलना। २ खो जाना, गुम होना। ३ थक जाना, ढीला पडना, निढाल, कमजोर हो जाना।

गळाठा—यु. १. कूडा—करकट, रद्दी चीज, पशुओं द्वारा खा चुकने के बाद घास आदि का बचा खुचा अंश, तलछट। २ गडवडी, झझट, झमेला, अव्यवस्था। ३ दुर्दशा, बुरी हालत।

गळित, गळीत—न १ तिलहन, फसल के रूप में बोये जाने वाले तेल के पीवे। ऐसा पदार्थ जिससे रस निकले (गन्ना आदि)। ३ गलत, चूना, क्षरण। ४ पेरने से मिलने वाली चीज (तेल गुड आदि)।—वि १. गलित, गला हुआ; पिघला हुआ। २. गिरा हुआ, टपका हुआ। ३ फटा हुआ, जीर्ण, क्षयप्राप्त।

गळूं—यु. फोडा, नामूर, वाल तोड।

गळेकापू—प्या—वि. गला काटने वाला, विगवासवाती, दगावाज, कपटी।

गळेपडू—वि १ गले पटने

वाला, पिछलग्गू; पिछलग्गा २. तोहमत लगाने वाला; तोहमती, तुहमती।

गळेवाज—वि गलेवाज, अच्छे गले वाला, सुरीला (गवैया)।

गळेलठ, गळेसर—री, गळेस्त्री—दे 'गलेलठ्ठ', 'गळ-सरी'।

गळोटी—स्त्री कठवध, नकटाई, 'नेकटाई'।

गळ्हाटणे, गळ्हाटा—दे 'गळाठणे', 'गळाठा'।

गागरणें—क्रि अ मकपकाना, घवडाना, हडवडाना।

गांजणूक—स्त्री १ यत्रणा, पीडा, तकलीफ, सताना। २. सताये जाने से होने वाला दुख।

गाजणें—क्रि स १ मताना, परेशान, तग करना, कष्ट पहुँचाना, यत्रणा देना, हैरान करना। २ तक्राजा करना, पीछे पडना।—क्रि अ सताया जाना, तग आना, होना।

गाजा—यु. गाँजा, नाँग की जाति का एक पीवा जिसकी पत्तियाँ नशे के लिए तंबाकू की तरह पीते हैं।

गांजेकस—वि गँजेडी, गाँजा पीने वाला।

गांठ—स्त्री १ गाँठ, गिरह, ग्रथि, गुत्थी, उलझन, गाँस, गडा, फदा। २ अंटी, टेंट, बोती की कमर के ऊपर की लपेट, मुरी। ३ कँगली, हाथ—पाँव आदि के जोड़, ईख, वाँस आदि के पोरों की जड। ४ गाँठ की शकल की जड। ५ गुमटा, गुमडा। ६ भेंट, मुलाकात, सामना। ७ मवव, वास्ता; साविका, मरोकार। ८ मछली (पिंडली

या भुजा में उमरने वाली)। ९ कच्चा फोडा, मूजन, वाल—तोड। १० सयोग; इत्तफाक। ११ मेल, मगति; एकमत। १२ कोयली, रुपये रखने की थैली जो कमर में बाँधी जाती है। १३ अनवन, मनमुटाव, वैर, वुग्ज, कीना। १४ बंधन; ज़जीर, वेडी। १५ गट्टर, गट्ठा।—चा,—ची,—चे—वि गाँठ का, पास का, जो अपने पास हो, निजी। म०—घालणें—१ मिलना, भेंटना। २ मिलाना, परिचय, भेंट करवाना। ३ ध्यान रखना, मकमद रखना। ४ मामना, मुकाबला करना।—घेणें—मिलना, मुलाकात करना।—पडणें—मिलना, भेंट, मुलाकात होना, वास्ता, साविका पडना।—वसणें—गाँठ पडना।—मारणें—गिरह लगाना, गाँठ लगाना। गाठीस असणें—१ पाम होना, अपने कब्जे में होना। २ वचाया हुआ होना। गाँठीस करणें—जमा करना, वचाना (पैसा)। जन्माची गांठ—विवाह मवव, स्यायी मवव। कहा० गाठ पडे ठकाठका—ठग से ठग मिले, एक बदमाश से दूसरे बदमाश का साविका पडनेपर यह कहा जाता है। आपण करील तें काम, गाठीं असेल तो वाम—काम तभी होता है जब हम स्वयं उसे करते हैं और जो पैसा हमारे पास नरूद हो, वही हमारा है। गाठचे द्यावें पण जामीन न व्हावें—अपने पास का पैसा दूसरे को हम दें, पर किसीके लिए जमानत दे दें। खोटा तरी गांठचा, वेडा तरी पोटाचा—खोटा होने पर भी अपना पैसा और

पागल होने पर भी अपना वेटा प्यारा ही होता है।

गांठण - स्त्री १ गांठना, जोड़, सिलाई। २ बुनावट, बुनाई। ३ छवाई, छाने का काम।

गांठणें - क्रि स १ पकड़ना, धरना, भिड़ना। २ भेंट, मुलाकात करना, पिरोना, बांधना, गांथना। ३ हाथ में कब्जे में कर लेना, मनचाही बात करने को तैयार कर लेना। ४ प्राप्त करना, हासिल कर लेना। ५ पूरा करना।

गांठले - न १ स्त्रियो और बच्चों के गलेका एक अलंकार। २ मगलसूत्र। ३ चीनी के पदको की माला।

गांठविणें - १ गांठना, गिरह लगाना, जोड़ना। २ गूँथना, पिरोना। दे 'गांठणें'।

गांठळ, गांठाळ - वि गांठ-दार, गठीला, बहुत गांठो वाला, जिसमें गांठें हो।

गाठी - स्त्री १ चीनी के पदको की माला। २ छुहारे, खोपड़े, लॉग आदि की माला। ३ मूँग, मोठ आदि का पतला मालन। ४ गांठें ('गांठ' का बहु), भेंटें, मुलाकातें। - वि हठी, जिद्दी।

गाठीव - वि गांठा हुआ, गांठें लगा कर बनाया हुआ।

गाठीडी-ळी - स्त्री छोटी गठडी, गठरी, बुकचा, पोटली।

गाठीडें - लें - न १ गठरी, गठडी, पोटली, बुकचा। २ गट्ठर, गट्ठा, बड़ी गठरी। ३ सचित धन, जमा, बड़ी रकम। मु - आटोपणें, - गुडाळणें - १ वोरिया बघना उठाना या समेटना, चल देना, रास्ता लेना। २ काम

या कारोवार समेटना, बंद करना।

गाड्या, गाड्याळ - दे 'गाठी', 'गाठाळ'।

गाड - स्त्री (ग्रा) १ गाँड, गुदा। २ चूतड। २ तल, पैदा। - गुड्या - पु चूतड पर घुटने से आघात करना। - पुशा - वि नीच, कमीना। मु - जड होणें - बहुत घमड होना, इतराना। - फाटणें - बहुत डर जाना, होश उड जाना, छक्के छूटना। - मारणे १ गाँड मारना, गुदाभजन करना। २ छक्के छुडाना। गाडोंत काड्या घालणें - वहकाना, फुसलाना, भडकाना, उत्तेजित, परेशान करना। गांडीस हात पोचणें - माँ-वाप के बधन से छूटकर आत्मनिर्भर होना, बालिग होना। कहा० गाडोंत नाहीं गू, कावळघाला आमत्रण - गाँड में नहीं गू और कौए को न्योता, अपनी औकात से बाहर का काम करने पर आमादा होना।

गाडाळ - वि (ग्रा) १ बड़े-बड़े चूतडो वाली। २ जारिणी, व्यभिचारिणी। ३ दे 'गाडू'।

गाडू - वि (ग्रा) १ गाँडू, जिसे गुदाभजन करवाने की लत हो, गाँड मरवाने वाला। २ कमजोर दिलका, डरपोक। ३ नामर्द, नपुसक।

गाडूळ - न केचुआ, गिल-खोरा।

गाड्या - दे 'गाडू'।

गाथण - स्त्री गांथना, गूँथना, बुनावट, छवाई।

गाथणें - क्रि स १ गांथना, गूँथना, गांठना, २ पिरोना।

गाध - स्त्री १ दरौरा, चकत्ता (जो मच्छर आदि के काटने की

जगह को खुजलाने से अथवा जुड़-पिती आदि के कारण शरीर पर पड़ जाता है)। २ गुवा, गुलमा। ३ भिड़, वर्रें, ततैया।

गाधर्व - वि गाधर्व, गधर्व-सवधी। - न गधर्व वेद, गान-विद्या, सगीत। - लग्न - न, - विवाह - पु. गधर्व-विवाह, वह विवाह जिसे वरकन्या परस्पर प्रेम से प्रेरित होकर माता-पिता की अनुमति लिये बिना ही करें।

गांधार - पु १ गांधार, सात स्वरो में से तीसरा। २ कंधार, पेशावर से कंधार तक का प्रदेश।

गांधिलमाशी - दे 'गांधील-माशी'।

गांधी - पु १ गंधी, इत्रफरोग। २ अत्तार, दवाफरोश, औषध - विक्रेता।

गांधीलमाशी - स्त्री भिड़, वर्रें, ततैया, बड़े आकार की काटने वाली मक्खी, जिसके काटने से ददोरा पड़ जाता है।

गाभीर्यं - न १ गाभीर्य, गभीरता, सजीदगी, चित्त की स्थिरता, अचंचलता। २ गहराई।

गाव - पु न १ गाँव, ग्राम, देहात, छोटी बस्ती। २ नगर, शहर। ३ बस्ती, ग्रामीण समाज। - करी - पु १ ग्राम-वासी, देहाती, गाँव या नगर का रहने वाला। २ किमान। - की - स्त्री १ ग्रामशासन, ग्रामसभा, गाँव की पचायत। २ गाँव के लोगो के अधिकार एव कर्तव्य। ३ गाँव के लोग। - गज्ञा - अव्य हर गाँव में, प्रत्येक गाँव से। - गाडा - पु. ग्रामशासन, गाँव का कारोवार। - गुड - पु १ गुडा, ग्रामकटक,



गाँव मे झगड़े-वखेड़े उठाने वाला ।  
 २ गाँव का मुखिया, चलता - पुर्जा  
 आदमी । - जेवण - न गाँव के  
 सब लोगो या अपनी जाति के सब  
 लोगो को दिया जाने वाला भोज,  
 सामुदायिक भोजन । - जोशी -  
 पु गाँव का जोशी, ज्योतिषी या  
 पुरोहित । - ठण, - ठाण - न  
 गोट - वस्ती, वह भूमि जिसपर  
 वस्ती बसी हो, गाँव की वस्ती का  
 इलाका । - ठी - दे 'गावठी' ।  
 - ढळ, - ढघा - दे 'गावढळ',  
 'गावढचा' । - भवानी - छी १  
 आचारा, वेकार घूमती - फिरती  
 स्त्री । २ वेश्या । - मामा - पु.  
 गाँव का चतुर, बुद्धिमान् व्यक्ति,  
 सब के साथ मिल - जुल कर रहने  
 वाला आदमी । - भावशी - छी  
 १ वेकार भटकने वाली, स्वरिणी  
 स्त्री, दे 'गावभवानी' । २  
 वेश्या । ३ सब की भीजाई, सब  
 से मिल - जुल कर रहने वाली स्त्री ।  
 - रान न गाँव की भूमि । - वि  
 स्थानीय, गाँव कावना हुआ, गँवार,  
 देहाती । - सवाशीण, - सवाण -  
 छी १ गाँव के मुखिया की पत्नी ।  
 २ वेश्या । गावानें ओवाळलेला  
 वि बुरा, बदमाश, गाँव द्वारा  
 बहिष्कृत । गावावाहेरचा - वि  
 अछूत, अस्पृश्य । मु. गावचा  
 नसणें - कोई सबघ या पता न  
 होना, भोला, अनजान बनना ।  
 गांवीं नसणें - अता - पता न होना,  
 बेखबर होना, परवाह न होना ।  
 गावठी - वि १ गाँवका,  
 स्थानीय, मुकामी । २ देहाती,  
 ग्रामीण । ३ गँवार, अनाडी,  
 मोटा-क्षोटा ।

गावढळ - वि गँवार, उजड्ड,  
 अनाडी, असभ्य ।

गावढा ; गावढचा - वि  
 अनाडी, उजड्ड, असभ्य, देहाती ।

गावढें - न वि छोटा, साधा-  
 रण (गाँव) । कहा० गावढचा गावात  
 गाढवी सवाशीण - गँवारो में  
 लठमार ही विद्वान् होता है । दे  
 'गाढवी' ।

गांवदर - री - छी १. गाँव के  
 पास की भूमि । २ गाँव से लगी  
 हुई वह भूमि जहाँ गाँव के लोग  
 टट्टी फिरने जाते हैं ।

गांसडी - छी गठरी, गठडी,  
 गठर ।

गा - \* अव्य अरे, अजी, दे  
 गाइजणें - \* क्रि स गाना,  
 कहना ।

गाई - छी १ गाएँ, गायें, गाय  
 का बहु०, दे 'गाय' । २ दे.  
 'अगाई' । ३. दीन, गरीब ।

गाडली - \* छी गाय, 'गाय'  
 के लिए प्यार का संबोधन ।

गाकर, गाखर - पु. वाटी,  
 अगाकडी, लिट्टी, अगारो पर सेक  
 कर बनायी जाने वाली गेहूँ की  
 छोटी रोटी ।

गागणें - क्रि अ १ घिघि-  
 याना, रोते हुए विनती करना,  
 गिड़गिड़ाना । २ चीखना,  
 चिल्लाना । ३ पुकारना, जोर से  
 बुलाना, दुहाई देना । ४ विगडना,  
 वरस पडना ।

गागावणे - दे 'गागणे' ।

गाजणें - क्रि अ १ वजना,  
 गरजना । २ गूँजना । ३ मशहूर  
 होना, बोलवाला होना ।

गाजर - न गाजर । - पारखी -  
 वि गाजर की परख करने वाला,  
 बुद्धू, अक्ल का दुश्मन, कलात्मक  
 अभिरुचि - रहित । कहा० गाजराची  
 पुगी वाजली तर वाजली नाहीं तर

मोडून खाल्ली - लगा तो तीर नहीं  
 तो तुक्का, होगा तो कुछ लाभ ही  
 होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा ।

गाजविणे - क्रि स. १ मशहूर  
 करना, डका बजाना, फैलाना ।  
 २ वजाना, गरजाना । १ नाम  
 करना, चमकना । ४ धूमधाम से  
 सपन्न करना । ५ धाक जमाना,  
 हुकूमत करना ।

गाजावाजा - पु शुहरत,  
 स्याति, बोलवाला, चर्चा, टीम-  
 टाम, शोरगुल ।

गाठ, गाठण; गाठणें, गाठलें,  
 गाठाळ, गाठी, गाठीव, गाठोडें -  
 दे 'गाठ'; 'गाठण', 'गाठणें',  
 'गाठले', 'गाठाळ', 'गाठी';  
 गाठीव', 'गाठोडें' ।

गाडणें - न मटका, मटकी,  
 घडिया, ठिलिया ।

गाडणे - क्रि स १ गाडना ।  
 २ दफनाना, दफन करना । ३  
 धरती मे घँसाना, छिपा कर  
 रखना । ४ पैर जमाना, अपनी  
 जगह पर डटा, बना रहना, मज-  
 वूती से खडे रहना ।

गाडद - पु. [अ 'गाड']  
 गारद, पहरा ।

- गाडदी - पु. [अ 'गाड']  
 गारद, अगरक्षक, प्रहरी, सिपाही ।

गाडा - पु. १ गाडा, छकडा,  
 वैलगाडी, लडिया, लडा । २  
 पहिये का घेरा । २ बलय, घेरा ।  
 - भर - वि जिससे गाडी भर  
 जाय, बहुत ज्यादा । मु० चालत्या  
 गाड्याला खीळ घालणें - चलते  
 हुए काम मे बाधा डालना । कहा०  
 गाड्याबरोबर नळघाला यात्रा -  
 बडे आदमी के साथ छोटे व्यक्ति  
 को भी कोई लाभ पहुँचना या कोई  
 काम करना पडना । भरत्या

गाडघाला सूप जड नाही - जिस-पर पहले से ही बोझ हो वह छोटे से बोझ को आसानी से वर्दाश्त कर सकता है। चालला तर गाडा नाही तर खोडा - गाडी ठीक तरह से चले तो अच्छा है, वरना मुसीबत का कारण बन जाती है।

गाडी - छी १ गाडी, बेलगाडी। २ वाहन, सवारी (मोटर, स्कूटर, साइकिल आदि) ३ रेलगाडी। - खाना, - तळ - पु अड्डा, गाडीखाना, गाडियो आदि के रुकने, ठहरने की जगह। - वान - पु गाडीवान, गाडी हाँकने वाला, 'ड्राइवर'। मु० - सुटणे - जोरजोर से, बिना रुके बोलना। कहा० कर्घी गाडी नावेवर तर कर्घी नाव गाडीवर - कभी गाडी नाव पर तो कभी नाव गाडीपर, दो मेसे संयोग से कभी पहला दूसरे पर हावी होता है तो कभी दूसरा पहले पर।

गाडे - न १ दे 'गाडा', 'गाडी'। २ छोटी गाडी, लडिया। ३ कारोवार, काम। ४ चक्र, सिलसिला, क्रम।

गाडघा - वि गाडने वाला, दफनाने वाला।

गाडघा गाडघा भिगोन्घा - छी वह खद एक जगह खडे हो कर चक्राकार घूमने का वच्चो का एक खेल।

गाड - वि १ गाढा, गहरा। २ घना, ठस, मोटा, ठोस। ३. निविड, घोर। ४ मजबूत; पक्का। ५ तग। ६ बहुत बडा।

गाडव - पु न गधा, गदहा, खर, रासभ। - वि गधा, मूर्ख, नासमझ, बेवकूफ, अहमक। - पणा - पु गधापन, मूर्खता, नासमझी। गाडवाचा लेक - पु गधे

का वच्चा, गधा, अहमक, मूर्ख व्यक्ति। मु० गाडवाचा नांगर फिरविणे - गधे से हल चलवाना, मटियामेट कर देना, विलकुल उजाड देना। कहा० गाडवाचा घोडा वनत नाही - गधा पीटे घोडा नहीं होता, मूर्ख सिखाने से समझदार या कमीना समझाने से भला आदमी नहीं हो सकता। गाडव ना ब्रह्मचारी, गाडवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें - दीन व दुनिया दोनों से हाथ धोना पडा, हर तरह से नुकमान ही हुआ। गाडवाचा पुढें वाचलो गीता, कालचा गोघळ वरा होता - भैस के आगे वीन वजायी, भैस खडी पगुराय। गाडवाला गुळाची चव काय - वदर क्या जाने अदरक का स्वाद? अघा क्या जाने वसत की बहार? च्याचें त्याला आणि गाडव ओड्याला - जो जिसका हिस्सा हो वह उसे मिलेगा, गधा सिर्फ बोझ होगा, हरेक को उसकी योग्यता के अनुसार काम करना पडता है। गाडवांचा गोघळ आणि लायांचा सुकाळ - मूर्ख लोगो के समाज मे गदी वाते ही चलेगी, गधे को गधा मिला करते सौ सौ लात।

गाडवी, गाडवीण - छी गधी, गधे की मादा। कहा० गावडघा गांवांत गाडवी सवाशीण - गँवारो के गाँव मे गधी ही सुहागिन होती है, मूर्खों के समाज मे मूर्ख ही महत्त्व पाते हैं।

गाढा - वि १ गाढा, गहरा, दे 'गाड'। २ मजबूत। ३ शूर, पराक्रमी। ४ प्रवीण, पारगत, सुयोग्य। ५ दृढ, अचल, अटल।

गाणे - न १ गान, गाना, गीत। २ बखान, स्तवन, स्तोत्र। ३

भुनभुन, पिन-पिन। ४ राम कहानी, दुखभरी या बडी कथा। - बजावणे - १ गाना - बजाना। २ गाने की महफिल।

गाणे - क्रि स १ गाना, लय - ताल के साथ उच्चारण करना, किसी गीत को ताल सुर के साथ कहना, २ बखानना (गुण गाना), स्तुति करना। ३ पिनपिनाना, भुनभुनाना।

गाता - वि पु गानेवाला, गायक, गवैया।

गाताडा - वि १ जिद्दी, अडि-यल। २ मूर्ख, बुद्धू।

गात्र - न गात्र, अवयव, अंग, देह।

गाथा - छी पु १ गाथा, अवैदिक स्तोत्र, कविता, धार्मिक काव्य, सतवाणी। २ झमेला, झझट, घपला। ३ रामकहानी। ४ खबर, ममाचार। ५ आर्या छंद। ६ अभिमान, गर्व।

गादणे \* - क्रि अ १ गँदला होना। २ सनना, भर जाना।

गादा - पु कीचड, गदगी।

गादी - छी १ गद्दी, गद्दा, गदेल, गादी। २ राजगद्दी, सिंहासन, अधिक सम्मानित व्यक्ति के बैठने के लिए लगाया हुआ आसन, राजा, मठाधीश आदि का पद, तख्त। ३ छोटा गद्दा जिसपर टुकानदार, साहूकार बैठता है। ४ संपूर्ण अधिकार, एकाधिकार। ५ हथेली आदि का मुलायम भाग। - वर बसलेला - वि गद्दीनगीन, सिंहासनासीन, गद्दीपर बैठा हुआ। मु० - चालविणे - गद्दी चलाना, वशपरपरा या शिष्यपरपरा का जारी रखना। - वर बसणे - गद्दी पर बैठना,

राजगद्दी पर बैठना ।

गान - न १ गान, गाना, गायन । २ गीत, वखान, स्तवन । - लिपि - छी स्वर लिपि, 'नोटेशन' ।

गाफिल, गाफील - वि [अ 'गाफिल'] १ गाफिल, गफलत करने वाला, बेखबर, असावधान । २ बेहोश, मदहोश, नशे में चूर । ३ आलसी, काहिल, लापरवा । - गिरी - छी, - पणा - पु. गफलत, असावधानी, बेपर्वाई ।

गाब<sup>+</sup> - पु. गाभ, पशु का गर्भ ।  
गाबणें - क्रि स मछली पकडना ।

गावाडी<sup>+</sup> - छी, गावाडें - न सूरख या छेद भरने के काम आने वाला लकड़ी आदि का टुकड़ा, जोड़, पैवद ।

गावाळ - न पु. १ कूडाकचरा, रद्दी सामान । २ तलछट, कीचड़ । ३ कवाड, टूटा - फूटा सामान, रद्दी चीजें । - वि १ टूटा - फूटा, फटा - पुराना । २ निरर्थक, बेकार का । दे 'गवाळ' । - ग्रथ - पु. १ फटी - पुरानी पुस्तक । २ रद्दी का ढेर । ३ विभिन्न लेखों का सकलन ।

गावाळी, गावाळ्या - वि लापरवा, अव्यवस्थित ।

गाभ - पु. १ गाभ, पशु का गर्भ । २ दे 'गाभा' । मु. - टाकणें, - साडणें - गर्भपात होना, गर्भ का गिर जाना, समय से पहले व्याना । गाभास जाणें - गर्भ - धारणा करना, गाभिन, गर्भिणी होना (पशुका) ।

गाभण - णा - वि १ गाभिन, गर्भवती, गर्भिणी । २ छिपा कर

रखी हुई (वात) ।

गाभणें - क्रि अ गाभिन होना (पशु का) ।

गाभळणें - दे 'गाभुळणे' ।

गाभा - पु. १ गाभा, गूदा, गिरी, मगज, पेड आदि का हीर । २ मध्यभाग, हृदय, अदरका भाग । ३ साराश, निचोड़, हार्द, सारभाग, मतलब । ४ गर्भगृह, मंदिर की वह कोठरी जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा हो, घर के बीचोबीच का कमरा ।

गाभारा - पु. १ गर्भगृह, मंदिर की वह कोठरी जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा हो । २ घर के बीचोबीच का कमरा । ३ घर का मध्यभाग । ४ सारभाग, हार्द, मतलब ।

गाभीण - दे 'गाभण' ।

गाभुळणें - क्रि अ १ गदराना, पकने पर होना । २ सडने लगना । ३ गर्भपात होना (पशु का) ।

गाय - छी १ गाय, गौ, धेनु । २ बहुत सीधा, दीन व्यक्ति । - रान - न चरागाह, घास का मैदान, पशुओं के चरने - चराने की जगह । कहा० अल्लाची गाय - अल्लाह मियाँ की गाय, सीवा, भोला, बिना छक्के पजे का कसायाला गाय धार्जिणी - जवर्दस्त का ठेंगा सिरपर, वदमाशों के सामने जो झुकते हैं वे सज्जनों के सिर चढ बैठते हैं । एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें घासरु माहं नये - एक ने गाय मारी, इसलिए दूसरा बछड़े को न मारे, कोई व्यक्ति वुरी बात करता है तो उसके जवाब में वैसी ही वुरी बात नहीं की जानी चाहिए ।

गायक - पु. गायक, गाने

वाला, गवैया, मूसीकार ।

गायकी - छी १ गाने का ढग । २ गायकी, गाने का पेशा ।

३ गाने की उच्च कला, मूसीक्री ।

गायत्री - छी १ गाय, गौ । २ गायत्री, एक वैदिक छंद, इम छंद में रचित एक वैदिक मंत्र जिमका उपदेश उपनयन सस्कार में द्विज बालक को किया जाता है । ३ ब्रह्मदेव की स्त्री, सावित्री, दुर्गा, गंगा । [मूसीकी ।

गायन - न गायन, गाना, गायांवाया - दे 'गायावया' ।

गार - वि १ ठडा, ढडा, सर्द । २ गहरा, घना (हिरवागार = गहरा हरा) । मु. - बसणें - चुपचाप, खामोश बैठना । - होणें - १ मजबूरन चुप हो जाना, एक न चलना । २ हक्का वक्का, भीचक, भीचक्का, हैरान होना ।

गार - छी [अ 'गार'] १ गार, गड्ढा, गढा, गर्त । २ पेट । ३ गोबर जमा करने का गढा ।

गार - छी चक्रमक, चक्रमाक, पथरी, एक तरह का पत्थर जिसपर आघात करने से आग निकलती है । २ ओला, उपल, पत्थर, जमे हुए जलकणों या वर्ष का गोला जो कभी - कभी वर्षा के साथ गिरता है । ३ हीरा, जवाहर आदि ।

गारगोटी - छी १ चक्रमक, चक्रमाक । २ पत्थर जैसी कोई कड़ी चीज (जैसे सूखा हुआ भात) ।

गारठणें - क्रि अ १ ठिठुरना, सर्दी से सिकुड जाना । २ जम जाना । ३ घबडाना, डर जाना ।

गारठा - पु. १. ठंडक, ठढक, सर्दी। २. जाडा, सरदी, ठड।

गारद - वि [[ अ ' गारत ' ] गारत, नष्ट, वरवाद, विध्वस्त, तबाह।

गारदी - दे ' गाडदी '।

गारवा - पु ठडक, ठढक।

गारा - पु [ हि ] १ गारा, मिट्टी, चूने या सुर्खी का लसदार लेप जिससे ईंटो की जुडाई होती है। २ पलस्तर करने के लिए आलन देकर बनाया हुआ मिट्टी का लेप।

गारा - छी बहु ओले, पत्यर।

गाराणे - दे ' गान्हाणे '।

गारुड - न गारुड, साँप का जहर दूर करने वाला मंत्र। दे ' गारुड '।

गारुडी - पु. १ सँपेरा, साँप का जहर उतारने वाला विप वैद्य, गारुडिक। २ मदारी, वाजी-गर, जादूगर।

गारुड - न १ गारुड, इद्र-जाल, जादू, नजरवदी के काम, वाजीगरी। २ कपट, चालाकी, छक्के पजे।

गारोडी - दे ' गारुडी '।

गान्हाणें - न १. शिकायत, उलाहना, गिला, शिकवा, फरियाद। २ प्रार्थना, विनती, दुआ, मनुहार।

गाल - पु. गाल, कपोल, ख-सार। - गुड - न पु. गलसुआ, एक रोग जिस में गालो के नीचे के हिस्से सृज आते हैं और ज्वर रहता है। - गुच्चा - पु. गाल मे प्यार से चुटकी भरना, गुलचा। (मु - घेणें - गुलचा मारना)। - फड - न गलफडा, गाल, गाल का चमडा। - बोट - न १ डिठौना,

दिठौना, नजर लगने से बचाने के लिए गाल पर लगाया जाने वाला काजल का टीका। २ कलक, धव्वा, त्रुटि। (मु - लागणें - कलक लगना, अच्छे काम में त्रुटि निकलना)। मु - फुगविणें - १ गाल फुलाना, मुँह फुलाना, रूठना। २ गर्व जताना, डीग हाँकना। - रगविणें - गालपर थप्यड मारना या तमाचा जड देना। गालातल्या गालात हसणे - मुसकुराना, होठों में हँसना। गालावर गाल चढणे - गालो का फूलना, उमरना, हूट - पुष्ट होना। कहा० खातीचे गाल व न्हातीचे बाल लपत नाहींत - जो अच्छा खाती है उसके गाल जरूर उमर आते हैं और जो वार - वार नहाती है उसके बाल चमकदार और लंबे होते हैं।

गालीचा - पु [ तु ' गालीच ' ] गालीचा, गलीचा, कालीन, ऊन या सूत के घागे से बुना हुआ नक्काशीदार विछौना।

गालिप्रदान - न गाली-गलौज, गाली देना, निंदा करना।

गाव, गावठी, गावढळ - दे ' गाव ' में।

गावडा - पु. १ नमक, कत्या आदि बनाने वाली एक जाति या उस जाति का व्यक्ति। २ गोवा की एक श्रमिक जाति। (कहा जाता है कि गोवा के सारस्वत ब्राह्मण उन्हें अपने साथ गौड देश से लाये थे)।

गावणे - क्रि अ १ मिलना, प्राप्त होना। २ भेट होना, मुलाकात होना। ३ पकडा जाना।

गाशा - पु. [ फा ' गाशिय ' ] १ जीन - पोश, वह कपडा जो घोड़े के चारजामे पर पडता है।

२ पतली गद्दी, विस्तर। मु. - गुडाळणें - १ बोरिया विस्तर सम्हालना, चलने की तैयारी करना। २ बोरिया बंधना उठाना या समेटना, चल देना, रास्ता लेना।

गासडी - दे ' गासडी '।

गाहाण, गाहाळ; गाहाळणे - दे ' गहाण', ' गहाळ', ' गहाळणे '।

गाळ - पु १ कूडा, कचरा, कूडा - करकट। २ कीचड, मैल। ३ तलछट, द्रव पदार्थ में नीचे बैठने वाला मैल। ४ भाठ, साद, गाद, वाढ की मिट्टी, जलोढ मिट्टी, कछार की मिट्टी, नदी की वाढ में वह कर आने वाली मिट्टी जो किनारे की जमीन पर जम जाती है। - साळ - पु. कूडा - करकट, रद्दी, निकम्मी चीजें, कतवार।

गाळ - छी - छी गाली, अप-शब्द।

गाळण - छी १ घबडाहट, घवराहट, हडबडी, डर जाना। २ हरबोग, अव्यवस्था। ३ थकान, थकाहट। ४ अनादर, तिरस्कार। ५ दे ' गाळणी', ' गाळणें '। मु - उडणें - डर जाना, छक्के छूटना।

गाळणावळ - छी छानने, गलाने की मजदूरी।

गाळणी - छी १ छानना, छानने का काम, निथार कर प्राप्त करना, टपकाना, चुभाना। २ साफ करना। ३ छुच्छी, चोगा, कीप, ' फनेल', दे ' गाळणे '।

गाळणे - न १ छानना, छानने का आला।

गाळणे - क्रि स १ छानना, छानकर शुद्ध करना, निथार कर

प्राप्त करना, साफ करना, निथारना। २ अलग करना, विलगाना, निकाल डालना, रद्द करना। ३ गिराना, बहाना (भाँसू, पसीना)। ४ छाँटना, छोड़ देना। ५ पेरना, गलाना, रस, तेल निकालना। ६ धीरज छोड़ना, हिम्मत हारना। ७ शराव चुभाना।

गाळा - पु. १. खाना, कमरा। २ बीच का खाली भाग, बीच का अंतर। ३ दे 'गाळ'।

गाळागाळ - छी १. वर्जन, छोड़ना। २ चयन, चुनाव।

गाळींव - वि १. छाना हुआ, चाला हुआ। २ चुना हुआ, चुनिंदा, छाँटा हुआ, वदिया। ३ पक्का, वदमाश, चालाक, काइयाँ, छँटा हुआ। -रत्न - न १ छँटा हुआ, वूर्त, वदमाश आदमी। २ सब दुर्गुणो, बुराइयो से युक्त व्यक्ति।

गिडी - छी [क 'गिडी'] १ गगाजली। २ बटलोई। ३ गहुई। [चिकना।

गिचगिचीत - वि गीला और गिचमिड - छी १ घिचपिच, भीड। २ पास-पास लिखे हुए अक्षर जो आसानी से पढ़े न जा सकें। - वि १ गिचपिच, पाम - पाम लिखा हुआ, अस्पष्ट। २ झंझटभरा, झमेले का।

गिच्च - वि घना, सटा हुआ। - अव्य सट कर, भीड के साथ। दे 'गच्च'।

गिजगिजीत - वि गीला और मुलायम, कीचड जैसा।

गिजविड, - गिजमिड - दे 'गिचमिड'।

गिड्डा - वि [क 'गिड्ड']

ठिगना, नाटा, कम ऊँचा, छोटे कद का। [ण्या'।

गिणगिण्या - दे 'गेंगाणा - गिघाड - न गिट्ट, उकाव, गीव।

गिनी - छी [अ] गिनी, सोने का अग्रेजी सिक्का जो २१ शिलिंग का होता है। - न गिनी, एक विलायती घास।

गिन्ना - पु [क 'गिण्णु'] पेउसी, इन्नर, दे 'खरवस'।

गिन्नी - [अ 'गिनी'] पुराने समय का एक आने का सिक्का, एक आना।

गिरका - पु १ ओटनी, वह चरखी जिसमें दवाकर कपास से विनाँले अलग करते हैं। २ फेरा, चक्कर।

गिरकी - छी १ चक्कर, फेरा, फेरी। २ सिर का घूमना, गश, मूर्च्छा। ३ गिटकिरी, तान लेने में स्वर को कौपाना।

गिरके - न १ चक्कर, गश, मूर्च्छा। २ दे 'गिरगिरे'।

गिरगिर - रा - अव्य १ चारो ओर, चक्राकार। २ चक्कर खा कर।

गिरगिरणे - क्रि अ १ चक्राना, चक्कर खाना। २ सिर का घूमना, गश खाना।

गिरगिरमाथा - पु वच्चो का एक खेल, जिस में वे एक - दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूमते हैं।

गिरगिरी - छी १ चक्कर, गश। २ दे 'गिरगिरें'।

गिरगिरें - न गिरगिरी, चिकारे की तरह का एक खिलौना।

गिरगटणे, गिरगिटणें - क्रि स आडी - टेढ़ी लकीरें खीचना,

काटकूट करना।

गिरण - णी - छी १ चक्की, निर्माणी, पेपणी। २ कारखाना, मिल; पुतली - घर। - कामगार - पु मिलमजदूर।

गिरदी - छी [फा 'गिर्द'] गलतकिया, गाल के नीचे रखने का छोटा नरम तकिया।

गिरफदार - वि [फा 'गिरि-पतार'] १ गिरफतार, पकडा हुआ, फँसा हुआ, वदी, कैद। २ ग्रस्त, मुन्तला, मग्न।

गिरमोट - न [अ 'गिम्लेट'] गिरमिट, वरमा, वर्मा, छेद करने का औजार।

गिरविणें - क्रि स घोटना, घोटना, अभ्यास करना, नकल करना, कापी के अक्षरो पर बिना म्याही से कलम चलाना।

गिरा - छी १ गिरा, वाणी, वाक्य, बोली, जवान, भाषा। २ सरस्वती।

गिरा - पु [फा 'गिरह' या 'गिरिह'] १. गिरह, एक माप जो सवा दो इंच के बराबर होती है। २ टुकड़ा। [या सूर्यग्रहण।

गिराण<sup>+</sup> - न ग्रहण, चंद्रग्रहण गिरि - पु १ गिरि, पहाड, पर्वत। २ सन्यासियो की एक उपाधि या उपजाति। - कदर - पु, - कदरा - छी गिरिकदर, पहाड की गुफा। - गीता - छी, - प्रवचन - न पर्वत - प्रवचन, 'सर्मन आँन दि माउट'।

गिरेवाज - दे 'गिरिवाज'।

गिर्दें - दे 'गिरदी'।

गिरिवाज - वि [फा 'गिरह'] गिरहवाज, वह कबूतर जो उड़ते हुए हवा में कलावाजी करता है।

गिन्हा<sup>+</sup> - पु १ पानी में रहने

वाला पिशाच । २ राहू ।  
३ ग्रहण । ४ झझट, परेशानी ।  
५ ग्रह ।

गिन्हाइकी - स्त्री १ ग्राहक  
होना, ग्राहक । २ खरीदारी,  
घघा, व्यवसाय, कारोबार ।

गिन्हाईक - न ग्राहक, ग्राहक,  
खरीदार । [ 'घोसाळें' ]

गिलकें - न धियातरोंई, दे  
गिलगिलीत - दे 'विलविलीत' ।

गिलावा - पु. [ फा 'गिलाव' ]

१ गिलावा, गारा, मिट्टी मे भूसा  
आदि मिला कर बनाया हुआ  
दीवारो का लेप, कहगिल । २  
पलस्तर, लिपाई, पुताई ।

गिलिट, गिलीट - न [ अ  
'गिल्ट' ] गिलट, मुलम्मा, सोने  
का पानी चढाने का काम, जिल ।

गिलेफ - दे 'गलेफ' ।

गिल्ला - पु. [ फा 'गिल' ]

१ शोर, शोरगुल, हल्ला,  
होहल्ला, कोलाहल । २ शिका-  
यत, शिकवा, गिला । ३ निंदा,  
वदनामी । ४ रामकहानी, रोना ।  
५ दोष ।

गिल्लकृत - वि निगला हुआ,  
खाया हुआ, हडप किया हुआ ।  
मु. - करणें - खा जाना, निगल  
जाना, हडप करना, गवन करना ।

गिल्लगिलीत - वि १ गिज-  
गिजा, गीला, पिलपिला । २  
वेम्वाद, वेमजा, फीका ।

गिल्लणें - क्रि स १ निग-  
लना, गले से नीचे उतार देना,  
लीलना । २ घोट जाना, खा जाना,  
रुपया - पैसा या माल हडप लेना या  
दवा वैठना । ३ रिद्वत लेना । ४  
दवा देना, सह लेना, वर्दश्त  
करना, पी जाना (आँसू) ।

गीत - न गीत, गाना, पद ।

- वि गीत; गाया हुआ, कथित,  
वर्णित । मु. - गणें - १ गीत गाना,  
बडाई, बखान करना । २ दुखडा  
रोना । [ मात्रावृत । २ गीत ।

गीति - स्त्री १ गीति, एक  
गीत । २ गीत, गिरी, मगज ।

गीर - प्रत्य [ फा 'गर' या  
'गीर' ] करने वाला, बनाने  
वाला । (कारागीर = कारीगर, काम  
करने वाला । तमासगीर = तमाशा  
करने वाला, देखने वाला) ।

गीर्वाण - पु देव, देवता;  
देवी । - स्त्री १ भापा, वाणी ।  
२ संस्कृत भाषा ।

गुग - वि [ फा ] १ मग्न,  
तल्लीन; मह्व, तन्मय, कार्यरत,  
मशगूल । २ वेहोश, अचेत । ३  
दग, चकित, हक्का - वक्का ।  
४ मुग्ध, आसक्त, फरेफता,  
आशिक ।

गुगणे - क्रि अ १ मग्न,  
तल्लीन होना, खो जाना, मह्व  
होना । २ वेहोश, अचेत, मूर्च्छित  
होना । ३ नशा चडना, नशा सवार  
होना । ४ किसीके पीछे पागल  
होना, मतवाला बनना । ५ खिस-  
कना, चपत होना, सटकना । ६.  
भिनकना, भिनभिनाना, मक्खियों  
का 'भिन भिन' करना ।

गुगविणें - क्रि स १ मस्त,  
मुग्ध, मद्द, मोहित करना । २  
हैरान करना । ३ गायब करना,  
ले भागना ।

गुगारा - पु [ फा 'गुग' ]  
चकमा, झाँसा, जुल, भुलावा,  
घोखा । मु. - वेणे - जुल देना, झाँसा  
देना, नज़र बचाकर भाग जाना,  
चपत, गायब होना ।

गुगारा - पु १ भिन - भिन,  
मक्खियों का भिनभिनाना । २

ढेल्वास से ढेला फेंकने की आवाज़ ।

गुगी - स्त्री [ फा 'गुग' ] १  
नगा, मद, मदहोशी, वेहोशी की  
मूर्च्छा । २ सुस्ती । - चें औपच -  
न वेहोशी की दवा, 'क्लोरो-  
फार्म' ।

गुगन - पु [ क. 'गुजु' ] १  
पड्यत्र । २ जमाव, भीड,  
मजमा । - न सकट, पहेली ।

गुज - स्त्री १ गुजा, घुंघची,  
एक बेल, उसका लाल या सफेद  
रंग का बीज । २ रत्ती, ढाई जी  
या आठ चावल का एक मान  
(वजन) । - भर - वि १ एक रत्ती  
(वजन का) । २ रत्तीभर, बहुत  
थोडा ।

गुजणे - क्रि अ १ गुजार  
करना, भौरे का भनभनाना । २  
२ गुंजना । [ भनभनाहट ।

गुजारव - पु गुजार; भौरे की  
गुठा - पु. [ क 'गुटिगे' ]  
एकड का चालीसवाँ हिस्सा;  
जमीन नापने का एक मान जो  
१२१ वर्गगज होता है ।

गुड - पु. न [ क 'गुडु' ] १  
गोलाकार वर्तन, हँडिया, बट-  
लोई । २ गोल पत्थर, बडा  
पत्थर । ३ गोला । - वि गोल,  
गोला, गोलाकार ।

गुड - वि [ क 'गुडगो' ] १  
गुडा, बदमाश, दुर्वृत्त, खोटे  
चालचलन वाला । २ काइयाँ,  
घूर्त, चालाक । - गिरी - स्त्री  
गुडई, गुडापन, बदमाशी ।

गुडगुळें - न [ क 'गुडु' ] १  
छोटा, गोल वर्तन, बटलोई । २  
ठिंगना और मोटा आदमी । ३. +  
नाश, तबाही । - वि गोल,  
गोलाकार ।

गुडा - पु. [ क 'गुडु' ] १.

गोल, गोलाकार बडा पत्थर। २ बडी बटलोई, बडा, गोल वर्तन। ३ अटा, सूत या रेगम का रठच्छा।

गुडा - वि [क 'गुड'] १ घूर्त, चालाक, होशियार, सुयोग्य, लायक, निपुण। २ दे. 'गुड'।

गुडाळणें - क्रि स १ लपेटना, समेटना, बैठन आदि मे बांधना। २ बटोरना, इकट्ठा करना, जमा करना। ३ पूरा करना, समाप्त, खत्म करना, (सस्था आदिको) तोड देना, बंद करना। ४ हरा देना। ५ हडप करना। ६ ढकना, ढाँकना। - क्रि अ १ लपेटा जाना। २ मर जाना। मु गुडाळून ठेवणें - ताक्रपर धरना या रखना, दूर रखना, परवाह न करना।

गुडाळा - पु., गुडाळी - स्त्री, गुडाळें - न १ लपेट, इंडुरी, गेंडुरी, गेंडुली, फेंटी। २ किसी वस्तु का बेलनाकार बनाया जाना, लपेटा जाना, पोगा, चोगा,। ३ गुथी, सूत आदि का उलझा जाना। ४ चक्कर, फेरा। ५ गडबडझाला, उलझन, गुथ्यम - गुथ्या। ६ गठरी, पोटली।

गुडी - स्त्री [क 'गुडु'] १ बटलोई, दुघांडी; गोल वर्तन। २ घुडी, 'वटन। ३ गुडी, सूतकी लच्छी, अटी। - दार - वि घुडीदार, जिस मे घुडी बनी हो।

गुंत - स्त्री दे 'गुता'।

गुतणूक, गुतणूक - स्त्री १ निवेश, निधान, लगा धन, विनियोजन, धन लगाना। २ फँसना, फँसाना, गडबडी, उलझाव।

गुतणें - क्रि अ १ फँसना,

उलझना। २ लगे रहना, मगगूल होना, मग्न, तल्लीन होना।

गुतवणूक - दे 'गुतणूक'।

गुतवळ - १ कधी करते समय निकला हुआ बाल। २ लट, उलझे हुए बालो का गुच्छा। ३ दे 'गुता'।

गुतविणें - क्रि स १ उलझाना, फँसाना २ लगाना, लगाये रखना, धन, रुपया लगाना।

गुता - पु. १ गुथी, उलझन। २ फँसाव, फँसावा, अटकाव, रोक, बाधा। ३ दे 'गुतवळ'। ४ झझट, झमेला, पचडा। ५ झगडा, टटा। - गुत - स्त्री गुथी, उलझन, जटिलता, गुथ्यमगुथ्या। दे 'गुता', 'गुतवळ'। -

गुंतीचा - स्त्री जटिल, पेचीदा।

गुंताड - दे 'गुता'।

गुतावा - पु. १ गुथने, फँसाने का साधन, बधन। २ इकरार, 'वाँड'।

गुति, गुंती\* - स्त्री १ प्रतिबध, बाधा, रोक, बधन। २ जरूरत, आवश्यकता। ३ आकर्षण, खिचाव। मु - पाडणे - सकट में फँसाना।

गुतोळा - दे 'गुता'।

गुथणे - क्रि अ दे 'गुतणे'।

१ गुंथना, गुंथा जाना। २ फँसना। - क्रि स दे 'गुफणे'।

गुद, गुदणी - स्त्री लसोडा, लसोढा, लिसोडा।

गुदणी - स्त्री गुफन, गुथना, पिराना, लडी।

गुदणे - क्रि स १ गुफना, गुथना, गुंथना, धागे में पिराना; लडी बनाना,। २ गुंथना, धागे या बालो की लडी बनाना, चौटी करना। - क्रि अ फँसना, उल-

झन मे पडना।

गुंफा - स्त्री १ गुफा; कदरा, गुहा, खोह, गार। २ लता-कुज। - पु. दे. 'गुता'।

गुं०, गु॥ - १. गुरुवर्य, गुरुजी। २ गुज्यता।

गुगुळ, गुगुळ, गुगुळ - पु. १ गुगुळ, एक कँटीला पेड। २ उस पेड का गोद जो गवद्रव्य है और दवा के काम में भी आता है। मु - काढणें - १. बुरी तरह पीटना, कमचूर निकालना। २ विवाह की एक रस्म, जिसमें बर और उसकी माता को सिरपर खप्पर में अगारे रखकर नाचते हुए मंदिर तक जाना जाना होता है।

गुघाण - पु. स्त्री दे 'गू' मे।

गुच्चा - पु, गुच्ची - स्त्री [क 'गिच्चाट'] १ लट्टू को दूसरे लट्टूपर दे मारने से उसकी नोक मे पडने वाला गढा। २ धातु के वर्तन में आघात होने से पडने वाला गड्ढा। ३ घूँसा।

गुच्छ, गुच्छा - पु. १ गुच्छ, गुच्छा, फूलो का गुच्छा; गुल-दस्ता। २ एक मे लगी, बँधी छोटी चीजो का समूह, झन्डा, फुंदना।

गुज - न रहस्य, राज, मर्म, भेद। - गुज - न दे 'कुजवुज'। - गोष्ट - स्त्री मन की बात, राज, प्यार की बात, कानाबाती।

गुज\* - न माला, हार।

गुज\* - न [क 'गुजु'] सकट, आपत्ति।

गुजर - पु १ गुजराती, गुजरात का निवासी। २ वैश्य, बनिया।

गुजरणे - दे 'गुदरणे'।

गुजराण - णी - खी [फा 'गुजराण'] १ गुजराण, गुजर - वसर, निर्वाह, गुजारा। २ जीविका, रोजी। ३ भोजना, प्रेपण। ४ नजर, भेंट। ५ समय विताना। [प्रदेश।

गुजरात - थ - पु खी गुजरात गुजराती - थी - वि गुजराती, गुजरात का। - पु १ गुजरात मे वसने वाला। २ वैश्य, बनिया। - खी गुजराती, गुजरात की भाषा।

गुजरिया\* - खी वह दे. 'गुजरी'।

गुजरी - खी लाल और सफेद पट्टियो वाली साडी।

गुजरी<sup>+</sup> - खी १ भुजाओ में पहने का एक गहना। २ गुजरी, एक तरह की पहुँची।

गुजरी - वि 'गुजर' सबधी, गुजरातियो का, 'गुजरो' जैसा। दे 'गुजर'।

गुजरी\* - वि १ सुदर, मोहक। २. नीच, दुष्ट।

गुजरी - [फा 'गुजर'] (=राह, मार्ग) से हिं 'गुजरी' (=शाम को सड़क के किनारे लगने वाला बाजार)। १ मडी, बाजार। ३<sup>+</sup> सराफा, सराफो का बाजार।

गुजारा - [फा 'गुजार'] १ गुजारा, गुजर - वसर, निर्वाह। २<sup>+</sup> परवाह। ३ हैसियत।

गुटका - पु १ गुटका, गोली, गुटिका। २. छोटे आकार, पाकेट साइज की पुस्तक। ३ दे 'घुटका'। ४ दे. 'गुटी'।

गुटगुटीत - वि १ हृष्टपुष्ट, स्वस्थ, हट्टाकट्टा। २ ठिगना और मोटा, गोल।

गुटळी - दे 'गुठळी'।

गुटी - खी १ गुटिका, गुटी, वटी, गोली। २ मन्त्रसिद्ध गोली जिसे मुँह में रखने वाले का दूसरे के लिए अदृश्य हो जाना माना जाता है। ३ घुट्टी; नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक रेचक - पाचक दवा।

गुटोळी, गुठळी, गुठोळी - खी १ गोली, गाँठ। २ गुठली, गुलथी, मैदा आदि घोलने से बनी हुई गाँठ। २ गिलटी, गाँठ, फोडा। ४ गुठली (आन, जामुन आदि) फल का कडा और कुछ बड़ा बीज, कुसली। [सुस्त।

गुठळेवाज - वि कामचोर, गुडगुड - खी १ कुडकुडी, गुडगुड, अजीर्ण आदि से पेट का गुडगुडाना। २ हुक्का पीने या आँतो में वायु के सचार से होने वाला शब्द।

गुडगुड - डा - अव्य. 'गुडगुड' की आवाज के साथ, कुडकुडी के साथ।

गुडगुडणें - क्रि अ १ गुड-गुडाना, 'गुडगुड' की आवाज होना, निकलना। २ अजीर्ण आदि से पेट का गुडगुडाना।

गुडगुडा - पु गोला, सूखा नारियल, नारियल का सूखा सावित मगज। - वि जिससे गुडगुड की आवाज निकले, सूखा, जिसके अंदर की गिरी मूख गयी हो।

गुडगुडी - खी गुडगुडी, काठ की निगाली वाला छोटा हुक्का।

गुडघा - पु १ घुटना, जाँघ और टाँग के बीच का जोड़। २ आघार, सहारा। मु० गुडघे टेकणें - १ घुटने टेकना, घुटने

जमीन से लगाना। २ अधीनता, पराजय, हार स्वीकार करना। गुड-ध्यांत मान घालणें, घालून बसणें - १ घुटनो में सिर देना, सोच में बैठना, चिंतित, उदास होना। २ शरमाना; लज्जित होना।

गुडघी - खी १ घुटघा, घुटने तक का पाजामा, तग मोहरी का पाजामा जो टखनो से ऊपर रहता है। २ घुटने का एक रोग, जिसमें घुटना सूज जाता है और उसमें पानी भर जाता है।

गुडघेमार - खी किसीके चूतडो पर घुटने से आघात करना।

गुडघाणी, गुडघाणी - खी गुड-घानी, गुडघनिया, भुने हुए मुरमुरे, मूँगफली, रामदाना आदि को गुड में पागकर बनायी हुई मिठाई।

गुडाकू - खू - खी १ गुडाकू, गुडाखू, वह तवाकू जिसमें गुड मिला हो। २ तवाकू का पानी, जो दवा के तौरपर पेडो पर छिडका जाता है। ३ दुर्गंत, बुरी हालत।

गुडी - दे 'गुटी'।

गुडुप - वि घुप, गहरा, घोर (गुडुप अघार, अघार गुडुप = अघेरा घुप)। - न घना अँवेरा, अँवेरा घुप। मु० - निजणें - मुँह पर चादर ओढ कर सो जाना, घोडे बैच कर सो जाना।

गुडणें\* - दे 'गुडाळणे'।

गुढार - \* न १ हाथी का खोगीर, नमदा। २. अदारी, अम्मारी, हौदा, महमिल। ३ डेरा, तवू, खेमा, रावटी। ४<sup>+</sup> शत्रुके हमले से डर कर गाँव वालो का भाग जाना।

गुढारणें - \* क्रि स १.



ढकना, ढाँकना । २ तैयार रखना, सजाना । ३. कवच, वस्त्र आदि से सजाना (हाथी का) ।

गुठी - छी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को फहराया जाने वाला धार्मिक ध्वज, जिसमें कपड़े के साथ नीम की टहनी, आम की मजरी, चीनी के पदों की माला और एक बटलोई होती है, झंडा, पताका । - पाठवा - पु. चैत्र शुक्ला प्रतिपदा । मु० - उभारणे - १ झंडा फहराना । २ आनंद, उत्सव मनाना ।

गुण - पु. १ गुण, जाति-स्वभाव, सिफत । २ प्रकृति का धर्म, सत्त्व, रज, तम । ३ सद्-गुण, अच्छी सिफत, निपुणता, कमाल । ४ प्रभाव, असर । ५ लाभ, फायदा । ६ विशेषता, खासियत, प्रशमनीय बात । ७ गुणन फल । ८ धागा, डोरी, रस्सी । ९ प्रत्यचा, धनुष की डोरी । १० अक, 'नवर' । ११ दुर्गुण, बुरी बात, आदत । १२ कला, हुनर । - कथा - छी ईश्वर का गुण गाना । - कर - वि गुणोंमें युक्त । - कर, - कारक, - कारी - वि गुण-कारक, गुणकारी, अमर करने वाला, लाभदायक । - गभीर - वि गुणसागर, गुणनिधि । - गहिना - \* वि गुणवती और रूपवती स्त्री । - गान - न गुण-गान, बखान, गुणवर्णन, प्रशंसा; तारीफ । (मु० - करणे - प्रशंसा करना, तारीफ के पुल बांधना) । - हण - न गुणग्रहण, किसी का गुण समझना, कद्र, कद्रदानी । - ग्राहक, - ग्राही - वि गुण-ग्राहक, गुणग्राही, गुण समझने,

गुणका आदर करने वाला, कद्रदान । - धर्म - पु मूलगुण या धर्म, प्रकृति । - निधान - न, - निधि-धी - पु गुणों का खजाना । - वि गुणनिधान, गुणनिधि, जो गुणों का खजाना हो । - वत, - वान - वि गुणवान, गुणी, गुणशाली, अच्छी सिफतों वाला । मु० - उधळणें - दुर्गुणों का प्रकट होना, करना, बुरा काम करना । - गान करणें - दे 'गुणगान' में । - घणें - दूमरो के गुणों का अनुकरण करना । - दाखविणें - असली बुरा स्वभाव प्रकट करना ।

गुणक - पु. गुणक, वह अक जिसमें गुणा करे । - वि १ गणक, गणना करने वाला । - प्रमाण - न अनुपात, 'रेक्षियो' ।

गुणगुण - छी १ गुणगुणाना । २ भनव, अफवाह । ३ भनभना-हट, 'भनभन' की आवाज, गुजार ।

गुणगुणें - क्रि अ १ गुण-गुणाना, बहुत धीमें स्वरमें गाना । २ भनभनाना, गुजार करना । ३ नाक से बोलना । ४ साफ-साफ बात न कहना ।

गुणगुणा - पु १ नाक का परदा, नकसीर । २ धुनधुना, झुनझुना । मु० - फुटणें - नकसीर फूटना, नाक से खून बहना ।

गुणगुण्या - वि १ गुणगुणाने वाला । २ नाक से बोलने वाला । ३ अस्पष्ट शब्दोच्चारण करते हुए बोलने वाला, बुडबुडाने वाला ।

गुणज्ञ - वि गुणज्ञ, गुण जानने, समझने वाला, कद्रदान ।

गुणणें - क्रि स १. गुणा करना,

जरव देना । २ वार-वार पढना, रटना ।

गुणाक - टे 'गुणाकार' ।

गुणा - पु १ कक्ष, घुरा, घुरी । २ गोनिया ।

गुणाकार - पु १ गुणन, गुणा; जरव, गुणा करना । २ गुणनफल, हासिल जरव ।

गुणानुवाद - पु गुणानुवाद, गुणगान, प्रशंसा, तारीफ ।

गुणिजन - टे 'गुणीजन' ।

गुणिया - पु १. गुनी, झाड़ - फूंक करने वाला, ओझा । २ चतुर, गुणी व्यक्ति । [जरव ।

गुणिलें - क्रि स भू गुणा, गुणी - वि १ गुणी, गुण-

युक्त, कोई हुनर - कला जानने वाला, हुनरमंद, कलाकार । २ अच्छे गुणों वाला । ३ दे 'गुणिया' । ४ धरारती; दुष्ट, बदमाश । -

जन - पु वह १ कलाकार लोग; गायक, वादक, नर्तक आदि । २ गाने - नाचने का पेशा करने वाली एक जाति, उस जाति का व्यक्ति ।

गुणें - \* अव्य १ के कारण, के लिए, सबव से । २ आवार से, सहारे से ।

गुण्य - पु गुण्य, वह अक जिसे गुणा करना हो । - वि गुणा करने, गिनने योग्य ।

गुण्याक - पु गुण्याक, वह अक जिसका गुणन किया जाय ।

गुण्या - पु [फा 'गोनिया'] गोनिया, दीवार आदि की मीव नापने का एक औजार ।

गुण्यागोविदानें - अव्य मिल-जुल कर, झगडा किये बिना, प्रेम से, प्यार से ।

गुता, गुतागुत, गुताव - दे 'गुता,' 'गुतागुत,' 'गुताव' ।

गुत्ता - पु [क 'गुत्तिगे'] १ मदिगलय, शरावखाना, मय-खाना, शराव वेचने की दुकान। २ अड्डा, शरावियो का अड्डा। ३ दे 'मक्ता'।

गुथणें - दे 'गुथणे'।

गुद - पु. गुद, गुदा, मलद्वार। - द्वार - न गुदा, मलद्वार। - भ्रश - पु. गुदाभ्रश, काँच निकलना। - मस्ती - स्त्री सरजोरी, धृष्टता। - मैथुन - न गुदाभजन, पुरुष - पुरुष का आपत्ती (अप्राकृतिक) मैथुन।

गुदगुदी, गुदगुली - स्त्री १ गुदगुदी, गुदगुदाहट, गुदगुदाने से पैदा होने वाली सुखद सुरसुराहट या हँसाने वाली खुजली। २ आनंद, खुशी, मजा। ३ खुजली, सुरसुराहट। मु० गुदगुल्या करणें - गुदगुदाना, वगल, तलवे आदि को इस तरह सहलाना कि सुरसुराहट या सुखद खुजली मालूम हो।

गुदमरणें - क्रि अ १ दम वृटना, गला रूँधना, श्वामावरोध होना, साँस रुकना, साँस लेने में तकलीफ होना। २ ऊबना, ऊमन से परेशान होना।

गुदमरा, गुदमारा - पु दम-घुटी, श्वामावरोध।

गुदरणें - क्रि अ [फा 'गुजर' + हि 'ना'] १ गुजरना, वीतना, कटना, जाना, निकलना। २ गुजर जाना, मर जाना। ३ नष्ट होना। ४ विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ आना। - क्रि स १ गुजरना, पेश करना (भरजी, नजर)। २ हवाले करना। ३ कायम, स्थायी बनाना।

गुदस्त-स्ता - वि [फा 'गुज-स्त'] १ गुजस्ता, गुजरा हुआ, म हि श .. १८

वीता हुआ। २ पिछला (साल-गुदस्त=पिछला वर्ष)।

गुदस्ता - अव्य [फा 'गुज-स्त'] पिछले वर्ष, पार साल।

गुदा - दे 'गुद'।

गुदाम - टे 'गोदाम'।

गुद्दा - पु [क 'गुद्दु'] धूँसा, मुक्का। - गुद्दी - स्त्री धूँसेवाजी, मुक्केवाजी। मु० - घालणे, - मारणें, - लगावणें - धूंगा जमाना।

गुधडणे<sup>+</sup> - क्रि स [क 'गुद्द-लिसु'] १ पैरो से कुचलना, रौंदना। २ खराब करना, धीगा-मुश्ती करना।

गुन्हा - पु [फा 'गुनाह'] गुनाह, अपराध, दोष, कुमूर।

गुन्हेगार - वि [फा 'गुनाह-गार'] गुनहगार, दोषी, अपराधी।

गुप, गुपचिप, गुपचुप, गुप-चूप - अव्य १ चुपचाप, धीरे से, चुपके से। २ चोरी - छिपे।

गुपित - न रहस्य, राज, गुप्त वात। - वि गुप्त, छिपा या छिपाया हुआ, गूढ।

गुप्त - वि १ गुप्त, छिपा या छिपाया हुआ, अदृश्य, गायब। २ गूढ। ३ रक्षित। - घाला - पु छुपा हमला, चोरी से किया गया वार। - दान - न गुप्तदान, छिपाकर दिया जाने वाला दान। - नदी - स्त्री अतस् सन्निहा। - पोलिस - पु. खुफिया पुलिस। मु० - होणें - गायब होना, छिप जाना, फरार होना।

गुप्ती - स्त्री गुप्ती, वह डडा या छडी जिसके भीतर तलवार जैसा हथियार छिपा हो।

गुफा - दे 'गुफा'।

गुवगुवीत - वि गुदगुदा, गुल गुला, गदराया हुआ, नरम, भरा हुआ, गुदाज, मोटा ताजा।

गुवारणे - क्रि अ अदर की गरमी से परेशान होना, ऊमस होना।

गुवारा - पु [फा 'गुवार'] १ अफरा, पेट फूलने का रोग, वाय गोला, अपच या वायुत्रिकार से पेट का फूलना। २ गुवार, मन में सचित दुख। ३ जलन, डाह, ईर्ष्या। ४ गरमी, ऊमस, भाप, बफारा। ५ गुव्वारा, 'वैलून'।

गुमान - + अव्य [फा 'गुम'] चुपचाप, सीधी तरह, चुपके से।

गुमान - पु [फा] १ परवा, परवाह, फिक्र, चिंता। २ घमड, गर्व। ३ गुमान, सदेह, शक।

गुमास्ता - पु [फा 'गुमास्त'] १ गुमास्ता, कारिदा, नौकर, कर्मचारी। २. प्रतिनिधि, नुमाइदा, 'एजेंट'। ३ आदतिया।

गुरगुटणे - क्रि स सारे शरीर को ढक लेना, अवगुठित करना, बुरा पहनना। [धींस, गुराहट।

गुरकावणी - स्त्री घुडकी, गुरकावणे - क्रि अ गुरांना, गरजना, दहाडना। - क्रि स धीमना, दवाना, घुडकना, घमकाना।

गुरखा - पु १ गोरखा, नेपाल का निवासी। २ पहरेदार, सिपाही।

गुरगुटणें - दे 'गुरगुटणे'। गुरगुर - स्त्री १ गुरांना, गुराहट, (कुत्ते - बिल्ली का) क्रोध में मुँह वद कर के भारी आवाज निकालना। २ कुडकुडी, गुडगड,

आँतो में वायु के सचार से होने वाला शब्द, गुडगुडाहट।

गुरगुरणें—क्रि अ १ गुरांना, क्रोधसूचक आवाज में बोलना। २ पेट का गुडगुडाना। दे 'गुर-गुर'।

गुरगुरीत—वि फूला हुआ, फैला हुआ।

गुरचरण—न स्त्री १ चरी, गोचारण भूमि, चरागाह। २ चराई, चराने की उजरत, चराने का कर।

गुरफटणे—क्रि अ १ फँसना, उलझना, लिपटना। २ पसोपेश में पडना। ३ खो जाना।—क्रि स १ फँसाना, उलझाना, लपेटना। २ खो देना।

गुरमी—दे 'गुर्मी'।

गुरव—पु (क 'गोरव') किसी मंदिर का अब्राह्मण पुजारी, देवलक, देवल, शिवमंदिर का अब्राह्मण पुजारी।

गुरवीण—स्त्री 'गुरव' की स्त्री, अब्राह्मण पुजारिन, दे 'गुरव'। [ ग्वाला।

गुराखी—पु. चरवाहा, गोपाल, गुरु—पु. १ गुरु, शिक्षक, अध्यापक, उस्ताद। २ पिता; पूज्य पुरुष, वुजुर्ग। ३ किसी मंत्र का उपदेश करने वाला। ४ बृहस्पति ग्रह। ५. फुसलाने, वहकाने वाला व्यक्ति, चट आदमी।—वि

१ गुरु, भारी, वजनदार। २ देर में पचने वाला। ३ दीर्घ या दो मात्राओं वाला (वर्ण, ताल)।—किल्ली—स्त्री गुर, खूबी, रहस्य, मर्म; तरकीब, कार्य साधने की युक्ति, उपाय।—कुल—न १ गुरुकुल, गुरुगृह। २ प्राचीन पद्धति पर स्थापित

विद्यापीठ।—जन—पु बहु. गुरु-जन, बडे, वजुर्ग, पूज्य लोक।—मत्र—पु. १ गुरुमत्र, गुरु से प्राप्त मत्र। २ बुरी सलाह, कान फूँकना, कान भरना, वहकाना।—वार—पु गुरुवार, बृहस्पतिवार, जुमेरात। कहा० गुरुची विद्या गुरुस फळली—अपनी जूती अपने सिर, जिसने बुरी सलाह दी थी, उसीको उसका फल भुगतना पडा।

गुरु—न. [ पुर्त 'गुरई'] जानवर, ढोर, पशु, मवेशी, चौपाया।

गुर्मा—स्त्री [फा 'गर्मी'] गर्व, अभिमान, मगरूरी, धमड।

गुरोळी—स्त्री १ गुड की बरी, गुड की रोटी। २ गरारा, कुल्ला।

गुरेढोरें—न बहु ढोरडगर, मवेशी, ढोर, गोरू, चौपाये।

गुन्हाळ—न १ कोल्हू, ईख पेरने का यंत्र। २ वह स्थान जहाँ गन्ना पेरकर-गुड बनाया जाता है। ३ लवी, उवाने वाली बातें, राम-कहानी।

गुल—पु. न [फा] १. गुल, फूल। २ वस्ती का सिरा जो विलकुल जल गया हो। ३ दिया-सलाई के सिरे पर लगाया हुआ गधक आदि मसाला।—कद—पु गुलकद, गुलाब की पँखडियों में शकर मिलाकर बनायी हुई एक सरम औषध।—काडी—स्त्री दियासलाई।—छडी—स्त्री गुले जाफरी, एक पीले रंग का फूल।—छबू—पु. गुलशब्दी, एक फूल जिसकी सुगंध रात को अधिक होती है।—वि खूबसूरत, छैला, छैलछवीला, वांका।—जार—वि १ गुलजार, नाचुक, मोहक, सुंदर। २ खिला हुआ, प्रफुल्ल।

३ सपन्न, मालदार।—दस्त—स्ता—पु. दे क्रम में।—वक्षी,—वस,—वाक्षी—स्त्री गुले अन्वास।—मोहर—पु. लाल रंग के फूलों का एक वृक्ष और उसका फूल।

गुलगुल—अव्य खुसुरफुसुर, बहुत धीमी और मीठी आवाज में, प्यार से।—गोष्ठी—स्त्री खुसुर-फुसुर, कानाफूसी। मु. —गोष्ठी करणे—घुलघुलकर बातें करना, धीमी आवाज में प्यार की बातें करना।

गुलगुलित, गुलगुलीत—वि १ गुलगुला, नरम, मुलायम, गुदाज। २ मोटा, गदकारा, गदराया हुआ।

गुलदस्त—स्ता पु. [फा 'गुल-दस्त'] १. गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। २ गजीफा के खेल की परिभाषा। मु. गुलदस्तात ठेवणे—१ छिपा कर रखना, प्रकट, जाहिर न करना। २ अलग रखना।

गुलमुच्छा—स्त्री वह गुल-मुच्छा, गालों पर दोनों ओर मूँछ की सीध में रखे हुए बाल, गुलगुच्छा।

गुलहौशी—वि [फा 'गुल'+अ 'हवस'] शौकीन, रंगीला, छैला, वांका, छैल चिकनियाँ, छैलछवीला।

गुलाब—पु [फा] गुलाब।—जाब,—जामून—पु. गुलाब जामुन, जामुन के आकार के घी में छानकर शीरे में डबोये हुए खोये के लड्डू।—दाणी—स्त्री गुलावपाश, गुलावजल छिडकने का एक हजारादार यंत्र या वर्तन।—पाणी—न गुलावजल, गुलाब का अर्क।

गुलाबी—वि [फा] गुलाबी, गुलाब के रंग का, हलका लाल।—सोप—स्त्री सुवह की मीठी

नींद। - थडी - खी हलका जाडा,  
की सुवह सुखकर, मीठी सर्दी।

गुलाम - पु [ अ 'गुलाम' ]  
१ गुलाम, खरीदा हुआ नौकर,  
क्रीतदास। २ शरीर, काइयां,  
चालाक, धूर्त, बदमाश आदमी।  
३ गुलाम, ताश का एक पत्ता,  
'जैक'। - गिरी - खी १  
गुलामी, दासता, पराधीनता। २  
शरारत, बदमाशी। ३ गुलामो  
का व्यापार। ४ खुशामद, चाप-  
लूसी।

गुलामी - दे 'गुलामगिरी'।  
गुलाल - पु [ हि ] गुलाल,  
अवीर, एक प्रकारकी लाल बुकनी  
या चूर्ण जिसे हिंदू होली के दिन  
चेहरो पर मलते हैं। - गोदा - पु  
कुमकुमा, लाख का बना एक  
पोला गोला जिसमें अवीर या  
गुलाल भरकर होली में लोग  
एक दूसरेपर मारते हैं। [ माँद।

गुहा - खी गुहा, गुफा, खोह,  
गुह्य - न १ गुह्य; भेद,  
रहस्य, राज। २. गुप्त अग,  
उपस्थ, जननेंद्रिय। - वि १  
गुह्य, छिपाने लायक, गोपनीय,  
गुप्त, गूढ, कठिनता से समझ में  
आने वाला। २ एकांत (स्थान)।

गुळवा - पु. गुळवा, गुड की  
चाशनी में डालकर पकाया हुआ  
कच्चा आम।

गुळगुळित, गुळगुळीत - वि  
मुलायम, चिकना। २ सफ़ाचट।  
मु. - करणें - १ सफ़ा करना,  
सफ़ाचट करना, पूरी तरह मूँड  
देना। २ खरी - खुरी मुनाना।

गुळचट - वि १ मीठा, मधुर,  
जिसमें गुड पडा हो, बहुत  
अधिक मीठा। २ मीठी-मीठी  
(वाते)।

गुळणा - पु; गुळणी - खी  
१ कुल्ला, कुल्ली, गरारा, मुँह  
साफ करने के लिए मुँह में पानी  
भर कर फेंकना। २ पानी का एक  
घूँट। ३. कै, उलटी, वमन। -  
मु० - घरणें - न बोलना, चुप  
रहना, चुप्पी साधना।

गुळपापडी - खी १ पापडी,  
गुडकी पापडी। २ गुडवानी,  
शकरपारा, गुड में पाग कर बनाये  
हुए रवे आदि के कतले।

गुळमट - दे 'गुळचट'।

गुळमुळणें - क्रि अ १ गुन-  
गुनाना, बहुत धीमे स्वर में  
बोलना। २ हिचकना, हिच-  
किचाना, आगा - पीछा करना।

गुळमुळित, गुळमुळीत - वि  
गोलमटोल, गोल-गोल, जिससे  
कोई साफ अर्थ न निकले, अस्पष्ट।

गुळवा-बी - पु गुड बनाने  
वाला।

गुळवेल - खी गुडुच, गुरुच,  
गिलोय, गुडूची, एक वेल जिसका  
डठल दवा के काम आता है।

गुळव्या - पु गुड बनाने वाला।

गुळावा - पु. गुडवा।

गुळाचा गणपती - दे 'गूळ'में।

गुळी - वि गुड का, गुडसवधी।  
- साखर - खी खाँड, खँडसारी,  
कच्ची चीनी, शकर, खँडसारी।

गू - पु १ गू, विष्ठा,  
पाखाना, मैला। २ गदगी, मैल।  
- घाण - खी गदगी, खराबी।

- वि गदा खराब। मु० - खाणें -  
गू खाना, अत्यंत अनुचित, बहुत  
बुरा काम करना। गुवात घोडा  
टाकणें - गू में डेला फेंकना,  
कमीने को छेडना, नीच के मुँह  
लगना। [ मेद। - दे 'गुज'।

गूज - न गुप्त वात, रहस्य,

गूढ - वि १ गूढ, गहन,  
समझने में कठिन, जटिल,  
मुश्किल। २ छिपा हुआ, ढका  
हुआ, गुप्त। ३ गहरा। - न  
१ गूढ, रहस्य, राज। २ पहेली।  
३ गुप्त वात। ४. झझट,  
समस्या, पेचीदा मसला। मु० -  
पडणें - सोच में पडना, जिच का  
सामना होना, पसोपेश में पडना।

गूल - दे 'गुल'।

गूल - पु गुड, ईख या ताड-  
खजूर के रस को उवालकर गाढा  
करके बनायी हुई बट्टी या भेली।  
- खोवरें - न १ गुड और  
खोपडा (नारियल) मिलाकर  
बनाया हुआ प्रसाद। २ रिश्वत।  
३ घोखा देना, भुलावा, चकमा।  
- पापडी - दे 'गुळपापडी'। -  
पोळी - खी गुडकी रोटी। -  
गुळाचा गणपति - ती - पु वि १  
गोवर-गणेश, मूर्ख, बुद्धू,  
गोवर का चोथ; बेडील। २  
आलसी, सुस्त। मु० - देणें, - खोवरें  
हातों देणें - १ घोखा देना,  
चकमा देना। २ रिश्वत देना। -  
कहा. गाढवाला गुळाची चव काय?  
वदर क्या जाने अदरक का स्वाद?  
गुळाचा गणपति गुळाचाच नैवेद्य -  
वास्तव में एक ही व्यक्ति के दो  
अलग भाग, जिसकी चीज ही  
उसीको वह देना।

गूह - न गूह, घर, मकान,  
वासस्थान। - उद्योग - पु. गूह  
उद्योग, घरेलू उद्योग, घर में  
किया जाने वाला घवा। - कर्म -  
न गूहकर्म, गूहकार्य, घर का  
काम-काज, घरेलू काम, स्त्रियो  
का काम। - कलह पु गूहकलह,  
घरेलू झगडा, भाईभाईकी लडाई।  
- कार्य - न दे 'गूहकर्म'।

-छिद्र-न १ गृहछिद्र, घर का छिपा दूषण, कलक, अपवाद। २ घरेलू झगडा, पारिवारिक कलह या फूट। - देवता-स्त्री स्त्री, पत्नी, गृहिणी। - प्रवेश पु १ गृहप्रवेश, नये घर मे विधिपूर्वक प्रवेश करना। २ विवाह के पश्चान् नूतन वधू का पति के घर मे प्रथम प्रवेश। - मन्त्री - पु गृहमन्त्री, स्वराष्ट्र - सचिव, वजीरे दाखिला, 'होम मिनिस्टर'। - युद्ध - न गृहयुद्ध, खानाजगी। - रत्न - न बालक, बालवच्चे। - शांति - स्त्री वास्तुशांति, गृहप्रवेश के समय किया जाने वाला शांतिकर्म।

गृहस्थ - पु १ गृहस्थ, घर-वार वाला। २ मज्जन, कोई व्यक्ति। ३ वह ब्राह्मण जो पुरोहित न हो।

गृहस्थी - स्त्री १ गृहस्थी, गृहस्थ का जीवन। २ मज्जनता, भलमनसाहत।

गृहीत - वि १ गृहीत; पकडा हुआ। २ माना हुआ, फर्ज किया हुआ। - कृत्य न पूर्वानुमान, पूर्वगृहीत वस्तु या सिद्धांत। मु० - धरणे - मान लेना, फर्ज करना।

गृहीतागमा - स्त्री १ महिला विश्वविद्यालय की एक उपाधि जो वी ए के समकक्ष है। २ उपाधिवारी महिला।

गृह्य - वि १ गृह्य, गृह सबधी। २ पालतू, आश्रित। - सस्कार - पु १ गृह्य कर्म। २ शोक - ममाचार।

गोंगणे, गोंगाणें - क्रि अ नकियाना, नाक से बोलना।

गोंगाणा - प्या - वि नकियाने वाला, नाक से बोलने वाला, गोंगुआने वाला।

गोंडा - पु गोंडा, भैसे की शकल का विगालकाय जंतु जिमकी नाक पर एक या दो सींग होते हैं और जिमके चमडे की ढाल बनायी जाती है। गोंड्याचे कातडे - न ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिमपर किसी आघात का धमर न होता हो।

गोंद - पु १ नुरा, फुंदना, झब्बा २ गुच्छा, गोला। ३ अनेक पेंचुडियो वाला फूल, गेंदा। ४ स्तन (स्त्रियो के)। ५ स्त्रियो के पैर की चौथी उँगली मे पहना जानेवाला एक गहना।

गोंदा - पु गेंदा, एक पौधा और उसका फूल।

गोंदेवाज - वि फुंदनेदार, झब्बेदार। ['अगे']

गे - अव्य री, अरी, दे

गेट - न [अ] १ फाटक, दरवाजा। २ चौकी, थाना, पुलिस की चौकी।

गेय - वि गेय, गानेलायक, जो गाया जा सके।

गेरवा - पु गेरुआ, गेहूँ के पीधो का एक रोग।

गेरु - पु स्त्री १ गेरु, एक तरह की लाल मिट्टी जो रंगने और दवा के काम आती है। २ ईट की बुकनी।

गेला - क्रि अ ['जाणे'] (जाना) का भूतकालिक रूप गया, बीता। - वि १ गया हुआ, बीता हुआ। २ मरा हुआ, मृत। - बाजार - अव्य कम से कम।

गेहेशूर - वि गेहेशूर, जो घर मे ही वहाडुरी दिखाने वाला हो, कायर, डरपोक।

गेळ - न १ अटी, घाई, दो उँगलियो के बीच की जगह। २

पशु के खुर का एक भाग।

गेळ, गेळी - स्त्री तेंदू, गालव; लाव, एक पेड और उसका फल।

गेळा - पु १ छोटी गगरी। २ नुराही। ३ तेल आदि रखने का तग भुँह का वर्तन।

गेळें - न दे 'गेळ' - न।

गेदी - वि [फा 'गावदी'] १ गावदी, मूर्ख, बुद्धू। २. आलमी, काहिल, सुस्त।

गेर - वि [ध 'गेर'] दूसरा; गैर, पराया, बेगाना। २ बुरा, खराब, अनुचित। ३ उलटा, विपरीत। - अव्य दिना, बगैर। -

कायदा - वि अवैध, गैरकानूनी; नियमविरुद्ध। - फायदा - पु बेजा फायदा, अनुचित लाभ। - मजो -

स्त्री अकृपा, नाराजी, रोप। - माहीतगार - वि अनजान,

अनाडी। - लागू - वि अमवद, असगत, अप्रामाणिक। - वाजवी -

वि गैरवाजिव, नामुनासिव, अनुचित। - वास्तविक - वि अवास्तव, निरावार, मिथ्या। -

शिस्त - वि अनुशासनहीन; अन्तव्यस्त, अनियमित। - समज पु, - समजूत - स्त्री.

गलतफहमी, गलत ममझना, ग्रात धारणा। - सावध - वि १. असावधान, गाफिल, बेखबर। २.

बेहोश। - सोय - स्त्री अमुविवा, अडचन, दिक्कत। - हजर - वि गैरहाजिर, अनुपस्थित, जो मौजूद न हो। - हजरी - स्त्री गैरहाजिरी, अनुपस्थिति, गैर-

मौजूदगी, नागा।

गोगाट - पु १ शोरगुल, हल्लागुल्ला, गुलगपाडा, कोलाहल, हगामा। २ टे 'बोभाट'। ३ भिनभिन।

गोंगावणें - क्रि अ भिन-भिनाना, मक्खियो का 'भिनभिन' करना ।

गोड - पु न अनाज के दाने पर का छिलका जिसमें दाना रहता है । २ ऐसा अनाज जिसपर यह छिलका रहता है ।

गोड - पु गोड, एक आदिम जाति, उम जाति का व्यक्ति । - वन - न महाराष्ट्र में चाँदा जिले के पास का वह भाग जिसमें गोड लोग रहते हैं ।

गोडस - वि मोहक, सुदर, लुभावना, प्यारा, खूबसूरत ।

गोडा - पु फुंदना, झव्वा । २ गुच्छ, गुच्छा । ३ गोंदा । मु० - घोळणे - खुशामद, चापलूसी करना, दुम हिलाना ।

गोडाळ - वि १ जिसमें फुंदना, झव्वा हो । २ छिलकेदार । ३ दे. 'गोडस' । - न वह घास जिसमें तुर्रा आया हो । - छी जल-कुभी ।

गोद - पु [ हिं ] १ गोद, पेड का लसदार पसेव । २ लसदार पदार्थ ।

गोंदण-णी - छी १ गूंदनी, गुंदेला, वृक्षविशेष । २ दे 'गोदणे' ।

गोदणारी - छी गोदनहारी, गोदना गोदने वाली स्त्री ।

गोदणें - न गोदना, सुई चुभो कर वदन पर वनायी हुई विदी आदि । - क्रि स गोदना, वदन-मे सुई चुभो कर और सूरख में नील का पानी आदि भर कर सुदरता के लिए विदी, फूल आदि वनाना । [गुदवाना । दे 'गोदणे' ।

गोंदविणें - क्रि स. गुदाना, गोषण, गोंघणारी, गोधणें - दे

'गोदण', 'गोदणारी', 'गोदणे' ।

गोघळ - पु [ क 'गोदळ' ] १ कोलाहल, ऊधम, गडवडी, शोरगुल, होहल्ला, गुलगपाडा । २ झझट, झमेला, घपला, गोल-माल । ३ उलझन, उधेडवन, असमजस, सभ्रम । अवेर; अव्य-वस्था, उपद्रव । ५ धूमधाम । ६ देवी के लिए गोघळी लोगो द्वारा किया जाने वाला कीर्तन, गाना, नाच आदि । मु० - घालणें - १ शोर मचाना, गडवडी, ऊधम मचाना । २ देवी के सामने कीर्तन करना । गोघळांत पडणें - चकराना, मभ्रम, असमजस मे पडना । गोघळात पाडणे - चकरा देना, सभ्रम, असमजस मे डालना, गड-वड-घोटाला कर देना । कहा० गाढवाचा गोघळ आणि लाथाचा सुळाळ - दे 'गाढव' मे ।

गोघळणें - क्रि अ १ झुंझ-लाना, चकराना, पसोपेश मे पडना, हकवकाना, हडवडाना, । २ घवडाना, सकपकाना ।

गोघळलेला - वि हक्कावक्का, भौचक, पसोपेश मे पडा हुआ, सक-पकाया हुआ ।

गोघळी - पु [ क 'गोदळ' ] १ देवी के आगे गा-नाच कर कीर्तन करने वाली एक जाति या उस जाति का व्यक्ति । २ भिख-मगो की एक जाति ।

गोघळ्या - वि १ गडवड-घोटाला करने वाला । २ असमजस मे पडने वाला ।

गोय - न गोमतक, गोवा । - कार - पु गोवा का निवासी ।

गोवर - पु छोटी माता; मसूरिका, चंचक का एक भेद जिसके दाने बड़ी माता से छोटे, मसूर

की दाल के बराबर होते हैं ।

गो - छी गो, गौ, गाय । - पु बैल, पशु । - कर्ण - न १ वच्चो को दूध पिलाने का गाय के से कानो वाला छोटा बर्तन, सुतुही । २ दे 'गोकर्णी' । ३ एक तीर्थ-स्थान जो कर्नाटक मे है । - पु गाय का कान । - कर्णी - छी गोकर्णी, मूर्वी लता, एक बेल जिसमे गाय के कान के आकार के फूल लगते हैं । - कुळ, - कूळ - न १ गोकुल । २ जन्माष्टमी के दिन नद, यशोदा, गोप-गोपियो, गायवछडो आदि की पूजा करने के लिए बनाये गये मिट्टी के चित्र । - ० अष्टमी - जन्माष्टमी । - कुळा-सारखें घर - न वालवच्चो और धनधान्य से भरा हुआ परिवार । - ग्रास - पु १ गोग्रास, भोजन का वह भाग जो भोजन से पहले गाय के लिए अलग कर दिया जाता है । २ गाय के लिए मांगी जाने वाली भिक्षा । - चर - वि दे क्रम मे । - न दे 'गुरचरण' । - ठण, - ठा, ठाण - दे क्रम मे । - धूल-ळ, - धूल मुहूर्त - पु गोधूलि, गोवूली, गायो के चर कर लौटने का समय, सध्या बेला, शाम का मुहूर्त (विवाह आदि का) । - माशी - छी कुकुर-माछी, कुकुरोंछी, एक तरह की मखली जो घोडे, कुत्ते, गाय आदि को लगा करती है । - मुख - न. गोमुख; तीर्थ आदि के गिरने के लिए बनाया गया गाय के मुंह के आकार का पत्थर या धातु का द्वार । २ गाय के-से मुखवाला एक वाद्य । - मुखी - छी गोमुञ्जी, जपमाला रखने को गोमुख के आकार की थैली जिसमे हाथ डाल-कर जप करते हैं । - मूत्र - न.

गोमूत्र, गाय का मूत्र । -रक्षण -  
न गोरक्षण, गौरक्षा । -रज -  
पु छी गोरज, दे. 'गोधूल' । -  
रस - पु गोरस, गाय का दूध,  
दही आदि । -वध - पु गोवध;  
गोहत्या, गावकुशी । -शाळा -  
छी गोशाला, वाडा, गोष्ठ । -  
हत्या - छी दे. 'गोवध' ।

गोखरू - पु न. १ गोखरू, एक  
धूप, उसका कँटीला फल जो दवा  
के काम आता है । २ गोखरू के  
फल के आकार के लोहे आदि के  
वने कँटीले टुकड़े । ३ पालकी मे  
लगा फुंदना ।

गोखला - पु १ गोखा, ताक ।  
२ खिडकी, झरोखा ।

गोगलगाय - छी १ घोघा,  
गख की जाति का एक कीडा  
जिसके दो मींग होते हैं । २ वडा  
ही गरीव, सीधा, भोला, बिना  
छक्के-पजे का आदमी, अल्लाह  
मिर्या की गाय । कहा० गोगलगाय  
आणि पोदान पाय - ऊपर मे  
भोला-भाला पर अदर से वदमाश  
आदमी, मुंह में राम वगल में छुरी ।

गोचडी - दे 'गोचिड' ।

गोचर - वि गोचर, इन्द्रिय-  
ग्राह्य, प्रकट, दृश्य ।

गोचिड; गोचीड - छी किलनी,  
चिचडी, एक छोटा कीडा जो कुत्तो,  
गाय-त्रैलो आदि की देह से चिमटा  
रहता है, चमजूई; चमजोई, एक  
तरह की छोटी किलनी ।

गोजारणे - क्रि म महलाना,  
पुचकारना ।

गोजरा, गोजरवाणा, गोजिरा  
- रं - वि लुभावना, हसीन, खूब-  
सूरत, प्यारा, नाजुक और  
सुदर ।

गोट - पु [क 'गोटु' ] १.

ठोस कगन । २ घेरा, मुहामिरा ।  
३ सेना की छावनी । ४ गोट,  
किनारी, मगजी ।

गोटा - पु १ पत्यर, गोल  
पत्यर, रोडा । २ गोला; गोली,  
गोटी । ३ अनाज का दाना,  
अनाज । ४ गोला, नारियल का  
मावित, सूखा मगज; सूखा नारि-  
यल । ५ गोटा, गोट, किनारी ।  
६ गुलदस्ता, फूलो का गुच्छ ।

गोटी - छी १ गोटी; गोली ।  
२ वडा गोल पत्यर । ३ गठीला  
वदन । ४ छोटा और गोल वाम ।  
५ चट्टा बट्टा, बाजीगर की थैली  
मे निकलने वाले गोले या गोलियाँ ।

गोठ - दे 'गोट' ।

गोठण - छी न १ दो पहर  
के समय चरने वाले पगुओ के  
वैठने की छाँव वाली जगह । २.  
दे 'गोठा' । [ गाठा बनना ।

गोठणें - क्रि अ जम जाना,

गोठा - पु गोठ, गोष्ठ,  
गोशाला, वाडा, गायगोठ,  
वाँवनीपीरि, पशुशाला ।

गोठान - टे. 'गोठण' ।

गोठी - \* छी १. कहानी,  
वात । २ कामकाज, कारोवार ।

गोड - वि १ मीठा, मधुर,  
सुस्वादित, लज्जीज, सुस्वादु, जिसमें  
मिठास हो । २ प्रिय, प्यारा, लुभा-  
वना । ३ सुदर, खूबसूरत । ४ मृदु ।  
५ सौम्य । ६ सुखदायक, सतोप-  
प्रद । ७ शुभ । - न १ मिठाम ।  
२ गुड, मीठा । ३ मीठी वस्तु,  
मिठाई । - गळा - पु मीठी आवाज,  
मधुर स्वर । - घास - पु १  
भोजन के अत में खाने के लिए रखा  
हुआ प्रिय पदार्थ का ग्रास । २.  
सुस्वादु भोजन । - घड, - घोड -  
न मिष्टान्न, मीठा पकवान । -

बोल्या - मिठबोला; मधुरमापी ।  
- सर, - सा वि कुछ मीठा,  
मीठा - सा । मु० - करन घेणें -  
जैमा भी हो, प्यार मे स्वीकार  
करना, शिकायत न करना ।

गोडंबी - छी १ मिलावे का  
बीज । २ काजू का बीज ।

गोटवा - पु १. मिठास,  
मीठापन; माधुर्य । २ मजा,  
जायका, स्वाद । ३ स्तुति,  
प्रशंसा, तारीफ । मु० - गाणें; गोडवे  
गाणें - स्तुति, प्रशंसा करना, गुण  
गाना, तारीफ के पुल बाँधना ।

गोडांबी - दे 'गोडवी' ।

गोडा - वि मीठा, प्रिय । -  
पु दे 'गोडवा' ।

गोडी - छी १ मिठास,  
मीठापन, माधुर्य । २ स्वाद,  
मजा, जायका; लज्जत । ३  
दिलचस्पी, रुचि, शोक । ४  
बढियापन । - गुलाबी - छी १  
मित्रता, स्नेह, प्यार । २ आनंद,  
खुशी । - ० नें - अन्व. मिल-  
जुल कर, प्रेम से ।

गोडें - न मीठा सालन, गुड  
का शवंत । - वि मीठा ।

गोड्या - वि १ बहुत मीठा  
खाने वाला । २ मिठाई का  
शौकीन ।

गोण - छी १ गोन, गोनी,  
बोरा, बोरी, टाट का बना वडा  
थैला जिसमें अनाज आदि रखते  
या भरकर अन्यत्र भेजते, ले जाते  
हैं । २ बोझ, भार, सकट । दे  
'गोणी' । - ताट, - पाट - न  
१ टाट, सन या पटसन का मोटा  
कपडा । २ मोटा कपडा ।

गोणा - पु १ वडा गोन,  
थैला, बोरा । २ टाट ।

गोणी - छी गोन, गोनी,

वैल पर अनाज आदि लादने का दोनो ओर लटकने वाला थैला, बोरा, गठिया, खुरजी। २ दे 'गोण'। ३ भार, बोझ, सकट।  
- वाला - पु. गोनिया, वैल लादने वाला, बोरे ढोने वाला।

गोत - न १ गोत, गोत्र, वंश, परिवार, भाईवद, ज्ञाति-जन, भाईविरादर, ज्ञाति, कुनवा, रिश्तेदार, जाति। २ जाति की सभा, पचायत, जाति के पत्रों की मडली या सभा। ३ रिश्ता, नाता। मु० - मिळणें - १ एकमत होना, मेल खाना। २ सबध, रिश्ता जुडना। ३ मित्रता होना। कहा० कुन्हाडीचा दांडा गोतास काळ - दे 'कुन्हाड' में।

गोतवळा - दे. 'गोतावळा'।  
गोता - पु [अ 'गोत']  
१ गोता, डुवकी। २ झटका, धक्का, झोका। ३ कभी खाना, पतंग का उडने में एक ओर झुकना। ४ सकट, आफत। ५ नुकसान, घाटा। ६ ठगपना, ठगना, ठगा जाना। ७ चक्कर। मु० - खाणें - १ गोता खाना, घोखा खाना। २ डूबना। ३ घाटा होना। - बसणें - घाटा, नुकसान होना। गोत्यांत घेणें - १ आफत में फँसना। २ गोता खाना, घोखा खाना। ३ घाटा उठाना पडना।

गोतावळा - पु. गोत, रिश्तेदार, दलवल, भाईवद, भाई - विरादर, सबधी।

गोत्र - न गोत्र, गोत, कुल, वंश, परिवार, खान्दान। २ आदि पुरुष के नाम से प्राप्त वंश-सज्ञा। ३ दे 'गोत'। मु. - जमणें - १ विवाह - सबध की दृष्टि से दो परिवारों का मेल खाना। २

मेल बैठना, -परस्पर अनुकूल होना। ३. मित्रता, स्नेह होना।

गोद - दे 'गोदी'।

गोदडी - दे 'गोघडी'।

गोदा - स्त्री गोदावरी नदी।

गोदी - स्त्री [हिं. 'गोद']

१ गोदी, डक, घाट, 'डाक'। २ वदर, वदरगाह, गोदी का अहाता। ३ चह।

गोघडी - स्त्री [हिं 'गुदडी']

१ गुदडी, कथा, कथरी, चीथडो के रगविरंगे टुकडों को जो डकर बनाया हुआ ओढना या विछौना। २ टूटी - फूटी चीजों का ढेर। ३ बेमेल वस्तुओं का जोड़।

गोपाळ - पु. १ गोपाल,

ग्वाला, अहीर। २ श्रीकृष्ण। -काला-पु. १ जन्माष्टमी या अन्य कृष्ण-उत्सवों के अवसर पर बाँटा जाने वाला प्रसाद। २ ऐसे अवसरपर की जाने वाली श्रौडाएँ, कीर्तन आदि। ३ अनेक खाद्य पदार्थों को मिला कर बनाया हुआ पदार्थ जो सब को बाँटा जाय।

गोपनीय - वि गोपनीय, छिपाने लायक।

गोपीचदन - न १ गोपीचदन, एक तरह की पीली मिट्टी जिसका तिलक वैष्णव लगाते हैं। २ नाश, बरबादी।

गोपुर - न १ गोपुर, मंदिर का मुख्य द्वार, तोरण। २ नगर-द्वार, शहर का फाटक।

गोप्य - वि १ गोप्य; गोपनीय। २ गुप्त।

गोफ - पु. गोप, गले या कमर में पहनने का एक गहना जो सोने, चाँदी या बटे हुए रेशम का होता है। २ बटी या गूथी हुई मोटी डोरी जो अकमर रेशम की होती

है। ३ करघनी। ४ रास-श्रीडा का एक ढग जिसमें अनेक डोरियों को पकडकर उनका गोप बनाया जाता है।

गोफण - स्त्री गोफन, गोफना, ढेलवाँस, ढेला फेंकने की रस्सी जिसमें उसे रखने के लिए फदा बना होता है। - गुडा - ढेला फेंकने की रस्सी जिसमें उसे रखने के लिए फदा बना होता है। - गुडा - पु. १ ढेलवाँस से फेंकने का ढेला या पत्थर। २ होशियार, चालाक आदमी।

गोदरा - वि १. फूला हुआ, मोटा ताजा, गोल, गोला। २ तोदल, तोद वाला। ३ बेडौल, बदशकल।

गोम - स्त्री १ कनखजूरा, गोजर, कनसलाई, बहुत-से पैरों वाला एक कीड़ा जो कभी-कभी कान में घुस जाता है। २ दोष, ऐव। ३ रहस्य, राज, मर्म, खूबी। ३ गोम, घोडों की एक भँवरी।

गोमगाला - पु. गोरगुल, हो-हल्ला, गुल-गपाडा।

गोमटा - टें - वि १ सुदर, खूबसूरत। २ मोहक, लुभावना, दिलकश। ३ गौर।

गोमतक, गोमातक - पु गोमतक, गोवा, अपरात (कोकण) का दक्षिणी प्रदेश।

गोमा - पु. १ ढोग। २. बडप्पन का दिखावा। - गणेश पितळी दरवाजा - वि पु लोगो को बनाकर अपना उल्लू सीघा करने वाला, धमडी, बनने वाला, जो अपनेमें न हो उमका प्रदर्शन करने वाला।

गोमाजी - पु. १. धमडी,



अपनेको बहुत बड़ा समझने वाला आदमी, घनासेठ । २ ऐरा गैरा नत्थूखैरा ।- कापशा - से; - ना तिमाजी, - सोमाजी - पु. साधारण तुच्छ व्यक्ति, ऐरागैरा नत्थूखैरा ।

गोमात्री - दे 'गो' में ।

गोर\* - स्त्री गर्दन, गला ।

गोरख - पु १ चरवाहा, ग्वाला, गोपाल । २ गोरखनाथ । - चिच - स्त्री गोरख डमली । पथी - वि गोरखपथी, गोरखनाथ का अनुगामी ।

गोरगरीब - पु बहु [ अ 'गरीब' ] गरीबगुरवा, दीन-दरिद्र, गरीब, निर्धन लोग ।

गोरटा - वि गोरा, सुदर, गौर, श्वेत वर्ण वाला ।

गोरटी - स्त्री १ गोरी, सुदर स्त्री, गोरी । २ स्त्री, महिला । [गोरा ।

गोरटेला - वि कुछ - कुछ गोरान्जन - न १ गोरोचन । २ ईश्वर - प्राप्ति के लिए अपने को जला डालना ।

गोरा - वि १ गोरा, गौर, श्वेत वर्ण वाला । २ सफेद, उजला ।

-पु. १ गोरा आदमी । २ अग्रेज, युरोपीय व्यक्ति । दे 'गोन्हा' । -

गोमटा - वि गोरा और सुदर, मोहक । - पान - वि गोराचिट्टा,

खूब गोरा । - मोरा - वि जिसका चेहरा फक पड गया हो, शर्मिदा ।

मु - मोरा होणें - शर्मिदा होना, मुह फीका पड जाना, रग फक पड जाना या होना, चेहरेपर

हवाइयां उडना । कहा गोरागोमटा कपाळकरंटा - दीखने में तो बड़ा सुदर है, पर उनकी किस्मत फूटी हुई है । दे 'गोरी' ।

गोराडू - पु. एक कद जिसकी तरकारी खायी जाती है ।

गोरी - वि स्त्री गोरी; गौर वर्ण वाली । कहा० एक गोरी बत्तीस खोड्या चोरी - गोरे रंग में अनेक दोष छुप जाते हैं ।

गोरी\* - पु १ चिडीमार, वहेलिया । २. वहेलिया का गाना ।

गोन्हा - पु वछडा, गाय का वच्चा, मांड ।

गोलकार - पु झझट, झमेला, घपला, गोलमाल ।

गोलंदाज - वि [ फा. 'गोल बदाज' ] १ तोपची, गोलदाज, तोप का गोला चलाने वाला । २ 'बोलर' (क्रिकेट) ।

गोलदाजी - स्त्री [ दे 'गोलदाज' ] १ गोलदाजी, तोपची का काम । २ 'बोलिंग' (क्रिकेट) ।

गोल - पु. १ गोल, गोलाकार पिंड, वृत्त, दायरा, हलका । २ धरती का मडल या गोला । ३. सेना की एक रचना । - वि गोल,

गोला, चक्करदार, वृत्ताकार । -

ची - स्त्री कुरवनही, बढइयो का गोलाई देने का औजार । - सर -

वि कुछ गोल - सा ।

गोल - पु. [ अ ] १ गोल (फुटवाल) । २ लक्ष्य, मकसद ।

गोलक - पु १. गोलक, विधवा का जारज पुत्र और उसका वश ।

२ गोलक, गोलपिंड, गोली । - न गोलक, वह सट्टक जिसमें कार्य विशेष के लिए धन एकत्र किया जाय ।

गोलांटी - दे 'कोलाटी' ।

गोल्या\* - पु. १ वह मूसल जिसके नीचे पत्थर लगाया गया हो, पत्थर का मूसल । २ छोटी गरी ।

गोव\* - पु. १ उलझन, फँसाव । २ सकट, अडचन, बधन ।

गोवणी - स्त्री १ गुफन; गूथना, पिरोना । २ फँसाव ।

गोवणें - क्रि स १ गूथना, पिरोना, लडी बनाना । २ फँसाना; अटकाना, उलझाना । ३ गाँठ लगाना, बाँधना ।

गोवर - दे 'गोवर' ।

गोवरी - स्त्री कडा, उपला, गोहरा । गोवन्हाचा हुडा - पु;

गोवन्हा ठेवण्याची जागा - स्त्री कडौरा, कडों का ढेर, कडे रखने की जगह । मु. गोवन्हा मसणात जाणें - कन्न में पाँव लटकाये होना, मृत्यु का दिन करीब होना ।

गोवा - पु. १ दे 'गोव' । २ गोमतक ( प्रदेश ) ।

गोवारी - स्त्री ग्वार, ग्वार-फली, दे 'गवारी' ।

गोविंद - पु. गोविंद, श्रीकृष्ण । - विडा - पु. पान की गिलौरी का एक खास ढग, यह बीडा नीचे की ओर चौकोर और ऊपर को शुडा-

कार होता है ।

गोवी - \* स्त्री १. दे 'गोव' । - पु. एक किस्म की मछली ।

गोवे - न १. गोवा ( शहर और इलाका ) । २ अधूरा दही । ३ बड़ा लाभ । ४ उदार, भोला, धनी आदमी ।

गोशवारा - पु [ फा 'गोशवार' ] १ साराश, खुलासा । २ सक्षिप्त टिप्पणी ।

गोशा - पु [ फा 'गोश' ] १ परदा, धूँवट, बुरका, नकाब । २ जनानखाना, अत पुर ।

गोषवारा, गोषा - दे 'गोशवारा', 'गोशा' ।

गोष्ठ - स्त्री कहानी, अफसाना, किस्सा; कथा, कल्पित कहानी । २ बात; वाक्य, घटना,

जिक्र, हाल। ३ वृत्तात-वर्णन, चर्चा। दे 'गोष्ठी'। मु०-काढगे-वात निकालना, जिक्र, चर्चा करना। - फिरधिणे - मुकर जाना, इनकार करना।

गोष्ठी - स्त्री बहु वातें, कहानियाँ। दे 'गोष्ट'। - वेल्हाळ - वि १ वातूनी, बहुत बोलनेवाला, वक्की। २ किम्सागो, कहानियाँ सुनने - सुनाने का शौकीन। मु० - सांगणें - १ वाते करना। २ वातें बनाना, बहाना करना। ३ सलाह, परामर्श देना।

गोसावडा - पु जोगडा, रखे-डिया, नकली, भ्रष्ट जोगी।

गोसावी - पु गोसाईं, गुसाईं। २ जोगी, वावा। ३ गृहस्थ शैव साधुओं का एक संप्रदाय। ४ मालिक, स्वामी।

गोसावीण - स्त्री १ 'गोसावी' की स्त्री, जोगिन, दे 'गोसावी'। २ मालिकिन, स्वामिनी।

गोस्तनदेवी - स्त्री चंचक का टीका, यह टीका लगाने पर होने वाला फोडा।

गोहो<sup>+</sup> - पु १ पति, शौहर। २ जवान आदमी। ३ उस्ताद।

गोळक - दे 'गोलक'।

गोळा - पु १ गोला, गोलाकार वस्तु। २ गेंद। ३ लोदा। ४ कचलोदा, लोई, रोटी बनाने के लिए साने हुए आटे की गोली। ५ जमाव, जमावडा, मजमा। ६ भोजन, कौर। ७ गाँठ। ८ ऐसा व्यक्ति जिमके हाथ - पाँव न हो या बेकार हो गये हो, लूला आदमी। ९ भीगे हुए कपडे का ढेर। १० तोप का गोला। - वि १. जमा किया हुआ, इकट्ठा, एकत्र, एकजा, एकत्रित। २

गोल, गोला। - बेरीज - स्त्री १ कुल जमा। २ साराग, मतलब। - भर - वि थोडा - सा, पेट भरने के लिए पर्याप्त (अन्न)। - भाजी - स्त्री वेसन आदि लगाकर बनाया हुआ गाढा माग। मु० - करणे - १ जमा करना। २ समेटना, वटोरना। - गिळणें - १ रिश्वत लेना। २ किसी तरह खा लेना। - होणे - १ जमा होना। २ गोलें की तरह शरीर के अवयवों का एकत्रित हो जाना।

गोळी - स्त्री १ गोली, छोटा गोला २ बदक की गोली। ३ गोली के रूप में बनायी हुई दवा, वटी, वटी, वट्टी, टिकिया। दे 'गोळा'। - वार - पु गोली - काढ, गोलीवारी, गोलावारी, गोली चलना। मु० - धालणें - गोली मारना, गोली चलाना।

गौड - पु १ गौड, वगाल का पुराना नाम। २ ब्राह्मणों का एक वर्ग, पंचगौड। - वगाल - न १. तत्रमत्र, जादूटोना। २ गडवडी, गडबडझाला। ३ गूढ, कूट रचना, अजूबा, अचरज में डालने वाली चीज। ४ चालाकी, धूर्तता। - सारस्वत - पु सारस्वत ब्राह्मणों की एक उपजाति।

गौण - वि १ गौण, अप्रधान। २ दोयम, दूसरे दर्जे का, दूसरे नवर का, हलका, घटिया। - न त्रुटि, खामी, दोष, न्यूनता। - पक्ष - पु गौण पक्ष, वाद का वह पक्ष जो अप्रधान या अपुष्ट हो। गौप्य - न रहस्य, राज, भेद। - वि गोपनीय, छिपाने लायक।

गौर - वि १ गौर, गोरा, श्वेत, सफेद, उजला। २ तेजस्वी,

तेजवाला। - काय - पु गोरा आदमी, यूरोपीय व्यक्ति।

गौर - स्त्री १ गौरी, पार्वती। २. गहनो से लदी हुई स्त्री।

गौरव - पु १ गौरव, बड़प्पन, सम्मान, ख्याति, इज्जत। २ गुरुता, भारीपन। ३ शान, ठाठ, वैभव।

गौरधिणे - क्रि स. गौरवान्वित करना, इज्जत करना, सराहना, तारीफ करना।

गौरी - स्त्री गौरी, पार्वती। - हर, - हार - पु. विवाह से पहले कन्या द्वारा की जाने वाली शिव - पार्वती की पूजा।

गौलता - स्त्री, गौल्य - न \* १ रचि; मधुरता। २ मृदुता, नजाकत। ३ सुदरता।

गौळण, गौळवाडा; गौळी - दे 'गवळण', 'गवळवाडा', 'गवळी'।

ग्याझेट - न [अ 'गैजेट'] गजट, सरकारी अखबार।

ग्याट - न [अ 'गेट'] चौकी, थाना। [ज्ञानेश्वर।

ग्यानवा - पु ज्ञानवा, सत ग्यारटी - स्त्री [अ 'गैरटी'] गारटी, दायित्व, जिम्मेवारी, प्रतिभूति।

ग्यालन - पु [अ 'गैलन'] गैलन, तरल पदार्थ का एक मान जो लगभग साढ़े तीन सेर का होता है।

ग्यालरी - स्त्री [अ 'गैलरी'] १ गैलरी, दीर्घा, वीथिका, छज्जा, वारजा। २ चित्रकक्ष, चित्रशाला। [दे 'गैली'।

ग्याली - स्त्री [अ 'गैली'] ग्रैंट - स्त्री [अ. 'ग्रैंट'] अनुदान, 'ग्रैंट'।

ग्रथ - पु. १ ग्रथ, पुस्तक, किताब। २ वडी और महत्वपूर्ण पुस्तक। - कर्ता, - कार - पु ग्रथकर्ता, ग्रथकार, ग्रथ लिखने, रचने वाला। मु० - आटोपणें - १ खत्म होना। २ मर जाना। - लावणें - १ ग्रथ के अध्यायो या विषयो का मेल बैठाना। २ ग्रथ का अर्थ लगाना।

ग्रथित - वि १ ग्रथित, रचित। २ गुंथा हुआ, इकट्ठा बांधा हुआ।

ग्रंफाइट - न पु [अ] काला सीसा, लिखिज, पेन्सिल बनाने में व्यवहृत एक प्रकार की धातु।

ग्रसणें - क्रि स ग्रसना, ग्रस करना, निगलना।

ग्रसित, ग्रस्त - वि १ ग्रसित, गस्त, निगला हुआ। २ पकडा हुआ। ३ छाया हुआ, व्याप्त। ४ पीडित।

ग्रस्तास्त - पु ग्रस्तास्त, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण लगे हुए ही अस्त हो जाना।

ग्रस्तोदय - पु ग्रस्तोदय, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण लगे हुए ही उदय होना।

ग्रह - पु. १ ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाला तारा। २ ग्रहण, लेना, प्राप्ति, पकड। ३

कल्पना, राय, खयाल। - वशा - स्त्री १ ग्रहदशा, जन्मराशि की दृष्टि से ग्रहों की स्थिति, उनका शुभ या अशुभ फल देने वाला होना, समय का फेर। २ दुरी दशा, दुरे दिन, विपत्-काल। - पीडा - स्त्री ग्रहजनित पीडा, ग्रहबाधा।

ग्रहण - न १ ग्रहण, लेना, स्वीकार। २ ग्रहण, ग्रह - विशेष का दूसरे ग्रह की छाया से कुछ काल के लिए छिप जाना। मु० - लागणें - १ ग्रहण लगना। २ दुरी दशा में फँसना। - सुटणें - १ ग्रहण छूटना। २ विपत्ति से बाहर निकलना।

ग्राम - न पु. १ ग्राम, वस्ती, गाँव। २ समूह, समुदाय। ३ स्वरसप्तक। - कटक - पु ग्राम-कटक, वह जो ग्राम में झगड़े-वखेड़े उठाता है, गुडा, वदमाश। - केसरी - पु १ गाँव का कुत्ता। २ डरपोक आदमी। - देवता - स्त्री ग्रामदेव, ग्रामदेवता, गाँव की रक्षा करने वाला देवता। - पचायत - स्त्री ग्रामपचायत, गाँव के झगड़े सुनने, और स्वास्थ्य, सफाई आदि का प्रवध करने वाला मडल। - लेखक - पु पटवारी। - सिंह - पु ग्रामसिंह, दे 'ग्राम-

केसरी'। - स्थ - पु ग्रामवासी, गाँव में बसने वाला देहाती।

ग्रामणी - पु १ ग्रामणी, चौधरी, पटेल, गाँव का मुखिया। २ दे. 'ग्रामकटक'। - स्त्री वद-माशी, गुडापन।

ग्रामण्य - न १. वहिष्कार, हुक्कापानी वद करना। २ ग्राम या जाति की सभा, पचायत।

ग्राम्य - वि १ ग्राम्य, अश्लील, गदा, अशिष्ट, गँवार, असम्य। २ ग्रामसवधी, ग्रामीण, देहाती।

ग्रास - पु १ ग्राम, कौर, निवाला। २ नाश।

ग्रासणें - क्रि स १ ग्रासना, निगलना, ग्रास करना। २ सताना, परेशान, हैरान करना। ३ छा जाना। ४. नाश करना।

ग्राहक - पु ग्राहक, ग्राहक, खरीदार। - वि ग्राहक, पकडने-वाला। [साराश।

ग्राह्यांश - पु लेने योग्य बात, ग्रीस - पु [अ.] यूनान (देश)। ग्लानि - स्त्री १ ग्लानि, थकावट, सुस्ती, शिथिलता। २ खेद, पश्चात्ताप।

गवाही - स्त्री [फा 'गवाही' १ गवाही, साक्ष्य। - पु गवाह, साक्षी। मु० - देणे - गवाही देना, विश्वास, यकीन दिलाना।

## घ

घ - मराठी वर्णमाला के क वर्ग का चौथा व्यंजन। [वडा जलपात्र। घगाळ - न गगाळ, कडाल, घटा - स्त्री १ घटा, घटी। २. घडियाल। ३ पुरुष की जन-नेंद्रिय, शिक्षन। ४ ठेंगा (कुछ नहीं)। मु० - वाजणें, -हालणे -

खत्म होना, कुछ हाथ न लगना।

घटिका - स्त्री १ घटिका, छोटी घटी। २ उपजिह्वा, जीभ की जड के ऊपर लटकने वाला मास-खड, कौआ। ३ गले की वह छोटी हड्डी जो आगे की ओर निकली रहती है।

घटी - स्त्री १. घटी। २ चक्की। - चोर - पु चालाक चोर, डाकू, उचक्का, लुटेरा।

घई - स्त्री मकान के दालान की चौडाई, मकान का एक पल्ला।

घट - पु. १ घट, घडा,

कलसा । २. विश्व । ३. देह, शरीर । ४. वह मिट्टी का कलश जिसकी स्थापना आश्विन के नवरात्र में की जाती है । ५. दक्षिण भारत में प्रचलित एक वाद्य जो मिट्टी के घड़े के आकार का होता है । - पट - स्त्री न्याय-वेदान्त की चर्चा, माथापच्ची, बाल की खाल निकालना । - स्थापना - स्त्री घटस्थापन, आश्विन की शुक्ला प्रतिपदा को पूजा के लिए मिट्टी के घड़े की स्थापना करना, पूजन में किसी देवता के आवाहनार्थ घट की स्थापना । - स्फोट - पु. १ तलाक, विवाहविच्छेद; सवध-विच्छेद । २. घटपर्यसन, प्रायश्चित्त न करने वाले पतित जन के ज्ञातिजनो द्वारा उसके जीवित रहते ही किया जानेवाला उसका प्रेतकर्म । मु. घटों बसणे - १ घट की स्थापना होना । २. बीमारी या आलस के कारण घर में बैठे रहना । ३. स्त्री का रजस्वला होना ।

घट - स्त्री १ घट, कमी, घटती । २. वाटा, हानि । ३. अवनति, हेठी, अप्रतिष्ठा । - चघ - स्त्री घट-बढ; कमी-वेशी ।

घटक - पु. १ घटक, वह वस्तु जिसके मेल से कोई पदार्थ बना हो, अवयवभूत वस्तु । २. इकाई, अक्ष, भाग । ३. घटक, व्याहृत कराने वाला, विचुआ, दलाल । - वि कराने वाला, साधक, मिलाने वाला, योजक ।

घटका - स्त्री १ घटिका, घड़ी, २४ मिनट का समय । २. घटी, घटियत्र, घडियाल का कटोरा, समय जानने के लिए काम में लाया जाने वाला जलपात्र । - भर - अव्य १ थोड़ी देर के लिए, कुछ

क्षणों के लिए; घड़ीभर; क्षणभर । मु. - घातलेली असणे - घडियाँ गिनना, आसन्नमरण होना । - भरणें - १ घड़ीसाइत का मेहमान होना, आसन्नमरण होना । २. मी-याद का खत्म होना । ३. विनाश-काल का निकट आ जाना ।

घटघट - टां - अव्य गटगट, 'गटगट' की आवाज के साथ, जल्दी - जल्दी, लगातार (पीना, निगलना) ।

घटणें - क्रि अ १. घटना, कम होना, कमी, अभाव होना । ३. गठीला बनना, मजबूत बनना । ४. घुटना, घोटा जाना, पक्का होना, निपुण बनना । ५. मँजना, अभ्यास होना, अनुभव से दक्षता प्राप्त होना । ६. \*घटना, घटित होना, बनना ।

घटना - स्त्री १ घटना, वाक्या, प्रसंग, अवसर, मौका । २. रचना, योजना । ३. सविधान, दस्तूर । ४. निवधन, सरचना, निर्माण, 'काम्पोजिशन' । - पडित - पु सविधानज्ञ । - परिपद्, -समिति - स्त्री सविधान सभा; दस्तूर साज्र असेम्बली । [कानूनी, दस्तूरी ।

घटनात्मक - वि वैधानिक, घटमान - वि १. हाथ में लिया हुआ, चलने वाला । २. होने वाला, सम्भवनीय, हो सकने वाला । [कट्टा, मजबूत । २. ठोस ।

घटमूठ, घटमूढ - वि १ हट्टा-घटविणें - क्रि स १ घटाना, कम करना, वाकी निकालना । २. घोटना, घोटना, अभ्यास, मश्क करना । ३. मजबूत बनाना, गठीला बनाना । ४. कंठस्थ करना । ५. सूखी लेखनी (वर्गरे स्याही के) अक्षरों पर फिरा कर

सुलेखन का मश्क करना ।

घटसर्प - पु. रोहिणी; कठ-रोहिणी, गले का एक सशामक रोग, 'डिपथीरिया' ।

घटा\* - स्त्री १ समूह, टोली, झुंड । २. घटा, मेघमाला ।

घटा - पु. दे 'घट्टा' ।

घटाघट-टा - अव्य. दे 'घट-घट-टा ।

घटाव - \* पु. १ रचना, बना-वट । २. ठाठ । ३. मेल, मिलाप ।

घटिका - दे 'घटका' ।

घटित - वि घटित, रचित, जो हुआ हो । - न १ मित्रता । २. दैव, ग्रहगति, वर-कन्या की जन्मपत्रियों के ग्रहों की परस्पर-अनुकूलता ।

घटितार्थ - पु १ चर्चा, विचार-विमर्ष कर के निकाला हुआ निष्कर्ष, साराश । २. दैवयोग । ३. दे 'घटित' ।

घटी - स्त्री दे 'घटका' ।

घटीव - वि १ गठीला, मज-बूत, गठा हुआ; कसा हुआ । २. मश्क किया हुआ । ३. घोट कर साफ, सुंदर बनाया हुआ ।

घटोत्कच - पु. घटोत्कच, हिंडिवा राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न भीमसेन का पुत्र । घटोत्कचाचा बाजार - पु, घटोत्कचाची माया - स्त्री घोखा, घोखे की टट्टी ।

घट्ट - वि [क 'घट्टि'] १ मजबूत, पक्का; दृढ, चुस्त । २. गाढा, घना । ३. तग, कसा हुआ । ४. गफ, ठम, घना । ५. निर्लज्ज, वेशरम । मु० - करणे १ रट कर पक्का करना, अच्छी तरह कठस्थ करना । २. जी कडा करना, कलेजा पत्थर का करना ।

घट्टा - पु. घट्टा, लगातार

रगड लगने से शरीरपर पडने वाला चिह्न। मु० - पडणें - घट्टा पडना, आदत पडना।

घड - पु. १ घौद, फलो का गुच्छा, घौर, घौरा, घौरी, घौर, घौरा। २ आकार, वनावट। ३ वृषण, अडकोश, अड। ४ झुड। ५ हत्या, केले का घौद।

घडकाम - न घडने, गडने का काम।

घडघड - डां - अव्य १ 'घडघड' या 'गडगड' की आवाज के साथ। २ धारावाहिक रूप से बिना रुके हुए। ३ जोर-शोर के साथ, तेजी से।

घडघडणे - क्रि अ १ गड-गडाना, घडघडाना, गरजना, 'गडगड' शब्द होना, 'घडघड' आवाज होना, निकलना। २ ढहना, गिरना। ३. नाकाम, अमफल होना। ४ मरना।

घडघडां - डा - दे 'घडघड'।

घडघडा - पु. विरनी, कुएँ से पानी खींचने की चरखी।

घडघडाट - पु. घडघडाहट, 'घडघड' शब्द, दे गडगडाट। - अव्य. दे. 'घडघड'।

घडण - ख्री १ गडन, गठन, वनावट, रचना। २ दे घडणावळ।

घडणावळ - ख्री गडाई, गडने का काम, गडने की उजरत।

घडणें - क्रि अ १ होना, घटना, घटित होना, बनना। २ पूरा, ममाप्त होना। ३ पैदा होना। ४ मिलना।

घडणें - क्रि स १ घडना, गडना, बनाना, रचना, निर्माण करना, काट-छांट या ठोक-पीट कर सुडौल करना। २ \* छूना,

स्पर्श करना।

घडता - \* वि उचित, योग्य, मेल खाने वाला।

घडतें - न १ प्राप्ति। २ अनुकूलता। [योचित, प्रमगानुकूल।

घडत्यास पडता - वि मम-घडमोड - दे. 'घडामोड'।

घडमोटणें - \* क्रि स बनाना और विगाडना, गडना और तोडना।

घडवची - ख्री १ घडाँची, घडा रखने के लिए बना हुआ लकड़ी का चबूतरा या तिपाईं। २ चौकी, नीची बेंच, तिपाईं, पीढा, मोढा, मचिया, 'स्टूल'।

घडविणें - क्रि स घडना, गडना, बनाना, पैदा, निर्माण करना, तरागना।

घडा - पु. घडा, मिट्टी का कलमा, मटका, पानी का बरतन।

मु० - फोडणें - भडा फोडना, भेद खोलना। - भरणें - १. गुनाहो का पैमाना छलक पडना, अपराधों का इतना अधिक बढ़ जाना कि सजा मिल सके। २ मृत्यु का पास आ जाना।

घडाई - ख्री घडाई, गडाई, गडने का काम या उसकी उजरत।

घडाघड-डां-दे 'घडघड-डा'।

घडामोड - ख्री १ घटना, वाक्या, वनावट। २ झगट, झमेला, गुत्थी। ३ हेरफेर, बदल-बदल। ३ गडना और तोडना, बनाना और विगाडना। ४ लेन-देन, कारोवार, व्यवसाय।

घडिक - अव्य एक घडी मे, एक क्षण मे।

घडिघडी - \* दे 'घडीघडी'।

घडी - ख्री १ घडी, घटी, ६० पल या २४ मिनट का काल-

मान। २ थोडा-सा समय। ३ ऐन मौका, उचित समय। - घडी-अव्य. घडी - घडी, वारवार, थोडी - थोडी देर बाद। - भर - अव्य घडीभर, थोडी देर, क्षण-भर। - भरणें - अव्य घटी भर के बाद, थोडी देर बाद। मु० - भरणें - १ दे 'घटका भरणे'। २. अपराध की मजा भुगतने का समय आ पहुँचना।

घडी - ख्री १ तह, परत, स्तर। २ चुनट; चुनट, चुनन, शिकन, तिलवट। ३ थान, माडी। ४ रचना, निर्माण। ५. व्यवस्था, डील, ढव। ६ दे 'पायवडी'। - ची टोपी - ख्री दुपनिया, ऐसी टोपी जिसकी तह की जा सके। - ची पोळी - ख्री ऐसी रोटी जिसमे कई परते हों, एक प्रकार की चपाती, पराँठा। - बढ - वि तह किया हुआ, जो खोला न गया हो। मु० - बसणें - १. जम जाना, ठीक तौर से चलने लगना। २ चल निकलना (दुकान इ.) ३ समझौता होना। - विघडणें - १. तितर-वितर हो जाना, अस्तव्यस्त होना। २ मनमुटाव, झगडा होना। - विस्कटणें - विगूखलित हो जाना; शीराजा विखरना।

घडीव - वि घडा हुआ, गडा हुआ, तराशा हुआ। - लोखड - न पिटा लोहा।

घडीघडी - अव्य. घडी-घडी, हर वार, वार-वार, लगातार, नतत।

घड्याळ - न १. घडी, समय बताने वाला यंत्र ('क्लाक' आदि)। २ घडियाल। ३ घटा। - ची, - जी - पु घडीसाज; घडी की

सफाई, मरम्मत या विक्री करने वाला ।

घण - पु. घन, लुहर का बड़ा हथौड़ा । - वि घन, घना, ठम, ठोम ।

घणघण - स्त्री घनघनाहट, 'घनघन' की आवाज (घटी आदि की) । - घटा - स्त्री १ अभाव । २ इनकार ।

घणघण - अव्य 'घनघन' की आवाज के साथ, जोरशोर से ।

घणघणणे - क्रि अ घनघनाना, घनघन की आवाज होना, निकलना, घटी का वजना ।

घणघणाट - पु घनघनाहट, 'घनघन' की आवाज, इनकार ।

घणघणीत - वि १ मजबूत, मोटा ताजा । २ साफ मुनाई देनेवाला ।

घणमणणे - क्रि अ डरना, घबडाना, हिचकिचाना ।

घणस - सा - दे 'घोणस' ।

घणसर - स्त्री रामवाम । - वि मजबूत, जोरदार ।

घन - पु. १ दे 'घण' । २ घन, किसी अक को उमी अक से दो बार गुणा करने से उपलब्ध गुणनफल, 'क्यूव' (ग०) । ३ घन, मेघ, बादल । - वि १

घन, घना; ठोस, ठस । २ घन, घनाकृतिक । - गर्जना - स्त्री घन-

गरज, बादल की गरज । - घोर - वि घनघोर, ज्वरदंस्त, गहरा,

डरावना । - चक्कर - वि १ जोरदार, तुमुल, भयकर । २

घना, निविड, गहरा । - न पु. स्त्री १ भीड, जमाव । २ जोरदार

लड़ाई, युद्ध । ३ घनघटा, गहरी काली घटा । ४. ठाठ, आडवर,

ज्ञान । ५ विपुलता, बहुतायत ।

- दाट - वि १ घना, घनघोर । २ गाढा । ३ अत्यंत प्रिय, दिली ।

- फळ - न घनफल, लवाई - चौडाई - मोटाई का गुणनफल ।

- फूट - पु घनफुट । - वर्ग - पु घनवर्ग, घन का वर्ग ।

घनपाठी - वि १ वेद की घन नामक विकृति का पठन करने वाला । २ वेदपारगत, बड़ा

विद्वान् ।

घनवटणे - क्रि अ १ घना वन जाना । २ एकत्रित हो जाना ।

३ भीड जम जाना ।

घनाक्षरी - स्त्री घनाक्षरी, दडक छद, कवित्त ।

घनिष्ठ - वि घनिष्ठ, बहुत घना, बहुत गाढा, गहरा, बहुत निकट का, अतरग (मित्र) ।

घणकन - अव्य [क 'गव्वु'] तेजी से, जोर से (आयी हुई गव),

उग्रता के साथ ।

घनाघोळ, घप्पाघोळ - पु १ अनेक वाद्यों का वेमेल शोरगुल ।

२ झमेला, झगड़ । ३ कवाड ।

घवाड - न १ एक शुभ मूहूर्त । २ सुयोग । ३ अचानक लाभ, बड़ा फायदा । - वि बहुत

बड़ा ।

घमड-डी\* - स्त्री १ विपुलता, बहुतायत । २ ठाठ ।

३ मौज, चैन । ४ घोप, नारा, आवाज । - वि १ सुरीला,

मधुर । २ विपुल । दे 'घमंड' ।

घमघम - अव्य वि १ बहुत ज्यादा, तेज (गध) । २ जोर के साथ, भरपूर, विपुल । ३ घडा-

घड, घमाघम ।

घमघमाट - पु महक, गमक, तेज खुशबू । 'मु० - मुटणे - महकना, गमकना ।

घमघमीत - वि १ महकदार, खुशबूदार, तेज (बू) । २ चर-

परा, झालदार, तीखे स्वाद वाला, चटपटा ।

घमामा - अव्य १ दे 'घम-घम' । २. तेजी के साथ, जल्दी-जल्दी ।

घमंड - स्त्री घमंड, गर्व, दर्प; शेखी । - खोर - वि घमडी,

मगरूर, शेखीवाज, अकडवाज, अकडैत, अकडू ।

घमेलें - न तसला, लोहँडा, कटोरे की शकल का कुछ बड़ा और

गहरा लोहे का वरतन ।

घम्म - अव्य चुप, चुपचाप, चुप्पी साध कर ।

घरगळणे - क्रि अ लुढकना, फिसलना, रपटना, [लुढकते हुए

नीचे की ओर जाना ।

घरदाज - वि [घर+फा 'अदाज'] १ खानदानी, कुलीन, ऊँचे कुल का, भद्र, प्रतिष्ठित,

शीफ । २ बालबच्चों वाला, गृहस्थ ।

घर - न घर, मकान, आवास । २ कुटुंब, कुल, घराना,

परिवार, खानदान । ३ गृहस्था-

श्रम, गृहस्थी, घरवार । ४ कोठा, खाना (चौसर, सटूक,

अतरज आदि का) । ५. धरीदा । ६ विल (साँप, चूहे आदि का) ।

७ किमी चौख का आवरण, खोल, पेटी, गिलाफ, बक्स,

डिविया । ८ जन्मकुडली में ग्रह-विशेष का स्थान । ९ चौखटा,

'फ्रेम' । १० छेद, मूराख । ११. उत्पत्तिस्थान, पैदावार का

इलाका, जहाँ किसी चीज की बहुतायत हो । १२ सामर्थ्य, हैसियत, योग्यता । १३ स्थान, ठिकाना । १४ कार्यालय । १५ स्वयं, खुद, अपना शरीर । १६ प्रदेश, विभाग, इलाका । १७ स्तम्भ, 'कालम्' । १८ पत्नी । १९ किसी चीज के जड़ने, बैठने का स्थान । २० तान, सुर आदि का क्षेत्र, सीमा । - करी - पु घरवाला, गृहस्वामी, पति । - करीण - स्त्री घरवाली, गृहस्वामिनी, गृहिणी, पत्नी । - कलह-पु गृहकलह, घरेलू झगडा, भाई-भाई की लड़ाई । - काम-गृहकार्य, घर का, घरेलू काम-काज । - काम्या - पु वि घरेलू काम करने वाला नौकर । - कोवडा - वि पु घरघुसना, घरघुसडा, जो सदा घर में बैठे रहे, घर सेने वाला । - खर्च - पु परिवार का खर्च, घरेलू खर्च । - खातें - न घरेलू खर्च का खाता । - गुती-ती - दे क्रम में । - गोहो - पु घर-घुसना, गेहेसूर । - घाल्या - वि १ घरघाल, घर विगाडने वाला, कुलवोरन; कुल का नाम डुवाने वाला, नालायक । २ वदमाश, पाजी । ३ सत्यानाश करने वाला । - घुशा-वि दे 'घरकोवडा' । - चा अहेर - पु मित्रो या स्वजनो द्वारा की जानेवाली भर्त्सना, निंदा । - जावई - पु घरजँवाई, वह दामाद जिसे सास-ससुर अपने घर रख लें । [मु - करणे-१ किसीको घरजँवाई बनाना । २ किसीसे उधार ली हुई चीज को हडपने के हेतु से अपने पास ही रख लेना ।] - जिन-गानी - स्त्री घर की चीजवस्तु, माल - असवाव । - ठाण - न भूमि

का वह भाग जिसपर मकान बनाया गया हो । - ठाव - पु १ पति, घर-गिरस्ती, गृहस्थी । २ रखेल का दर्जा, रखेली को दिया गया सहारा । - दार - न १ घरदार, परिवार । २ घर की चीजवस्तु, माल-असवाव । - घणी - नी - पु १ गृहपति, घर का मालिक, गृहस्थ, यजमान । २ पति, शौहर । - घदा - पु दे 'घरकाम' । - घनीण - स्त्री १ गृहपत्नी, गृहस्वामिनी । २ पत्नी । - पट्टी - स्त्री १ गृह-कर, भवन-कर, मकान पर लगने वाला कर । २ किसी काम के लिए हर मकान से लिया जाने वाला चदा । - पौच - वि घर-वितरित, घर बैठे प्राप्त । - फोडी - स्त्री नकवजनी, सेव लगाना, सेव मार कर की हुई चोरी । - फोड्या - वि १ नकवजन, सेव मार कर चोरी करने वाला । २ गृहभेदी, घर में झगडा लगाने वाला । - वशा - श्या - वि दे 'घरकोवडा' । - वसत्या - अव्य. घर बैठे, अपने आप, बिना किसी परिश्रम के । - वुडव्या - वि कुल-वोरन, घरघालन, घर का नाश करने वाला । - वैठा - वि १ जो घर में बैठ कर किया जा सके । २ दे 'घरकोवडा' । - भर - अव्य मारे घर में, हर जगह । - भरणी - स्त्री १ दे 'गृहप्रवेश', नये मकान में प्रवेश करने की धार्मिक विधि । २ दुलहिन के पति के घर में पहली बार प्रवेश करने की रस्म । - भाडें - न घर-भाडा, मकान-किराया । - भेदी-घा - वि घर का भेदी, दुश्मन को घर के भेद, रहस्य बताने वाला, फिरट, दगावाज । - ससार - पु घर -

गिरस्ती, गृहस्थी । मु - करणे - १ घर बसाना, घर करना, घर बनाना । २ शादी करना । ३ पैठना, घुसना, प्रवेश पाना, अदर बैठ जाना । - सालीं करणें - घर को खाली करके चले जाना । - चालविणे - गृहस्थी चलाना । - डोईवर, डोकीवर घेणे - घर सिर पर उठा लेना, बहुत शोर, ऊग्रम मचाना । - थाटणे - घर बमाना, अलग घर बनाना । - धुवून नेणें - मव कुछ लूट ले जाना । - पाहणें - १ किसी की ओर बुरी निगाह से देखना । २ वर या कन्या के लिए उचित जोडा निश्चित करना । - पालयें घालणें - खोयी हुई चीज को ढूँढने के लिए सारा घर छान मारना । - फोडणें - १ नकवजनी करना, सेव लगाना, सेव मार कर चोरी करना । २ घर फोडना, घरमें फूट डालना, झगडा लगाना । - वसणें - परिवारप्रमुख के चल बस ने से परिवार की दुर्गत होना । - वसविणें दे 'घर करना' । - वुडणें - १ घर डूबना, घरतवाह होना, परिवार का धूल में मिलना । २ सतान के अभाव में वश का लोप होना । - वुडविणें - १ घर डुवोना, घर घालना, घर विगाडना, नाश करना । घराचा उंवरठा चढणें - घर में प्रवेश करना । घरातली मंडळी, घरातले - पति, शौहर (स्त्रि.) । खाल्या घराचे वासे मोजणें - कृतघ्न बनना । घरों पाणो भरणें - किसी की सेवा में तत्पर रहना, पूरी तरह वश में होना । घरों वसणें - घर बैठना, बेकार बन जाना, नौकरी छोड देना । - कहा घर फिरलें म्हणजे

घराचे वांसे हि फिरतात-  
घर के मुखिया की नाराजी होने पर  
छोटे-बड़े सभी दुश्मन बन जाते हैं।  
घर भल्ले की आपण भले-किसी  
से सरोकार न रखना, अपने काम  
में मशगूल रहना। इच्छी परा ते  
येई घरा-दूसरे का बुरा चाहने  
पर अपना ही बुरा हो जाता है।

घरकुल, घरकूल-न, घरकुली-  
छी १ घरीदा, घरीवा, खेलने  
के लिए बच्चों का बनाया हुआ  
मिट्टी का नन्हा-सा घर। २ छोटा  
मकान।

घरगुती-वि १ घरेलू, घर,  
घराऊ, घर का बना। २ पालतू।  
३ आपसी, निजी।

घरघर-छी १ घरघराहट,  
'घरघर' की आवाज। २ घटका,  
आसन्नमरण व्यक्ति की साँस का  
रुक-रुक कर और घबराहट के साथ  
चलना। मु०-लागणे-आसन्न-  
मरण होना। [आवाज के साथ।

घरघर-रा-अव्य 'घर-घर'  
घरघरणें-क्रि अ घरघराना,  
'घर-घर' की आवाज निकलना,  
घरघराहट होना।

घरचा-वि १ घर का, परिवार  
का। २ घरेलू। ३ पति।-सुखी-  
वि खुशहाल, खाने पीने से सुखी।

घरट-टा-पु धान से चावल  
बनाने का बड़ा लकड़ी का जाँता,  
बड़ी चक्की।

घरटी-\* छी १ फेरा। २  
गश्त, पहरा। ३ चक्कर, आना-  
जाना। ४ प्रतिवच।-कर,-कार  
-वि १ गश्त लगाने वाला,  
पहरेदार। २ गुप्तचर।-अव्य.  
हर घर से। [खोता।

घरटें-न घोसला, नीड;  
घरा-पु मूराख, छिद्र।

घराणा-पु, घराणे-न १.  
घराना, कुल, वंश, खानदान।  
२ किसी विद्या-कला के लिए  
प्रसिद्ध कुल।

घरीवा-पु १ मित्रता,  
घनिष्ठता, भाईचारा। २ व्याह,  
विवाह-सवध। ३ घर का काम,  
गृहस्थी।

घवघवणे-क्रि अ १ मह-  
कना, सुगव का फैलना। २ शोभा  
देना।

घवघवीत-वि १ बहुत बड़ा,  
शानदार, भव्य। २ मोटा ताजा,  
हृष्टपुष्ट। ३ साफ, स्पष्ट दिखाई  
देने वाला, चक्काचौध करने वाला।  
४ सुगवयुक्त।

घस-छी १ घाट, नुकसान,  
हानि। २ खोट, बुराई, न्यूनता।

घसकन-अव्य झपट कर,  
झटके के साथ, जोर से।

घसघशीत-वि १ मरपूर,  
काफी से ज्यादा, विपुल। २ दे  
'ववघवीत'।

घसघस-छी १ खीचातानी।  
२ भावताव। ३ किचकिच,  
झगडा। [मेलजोल, हेलमेल।

घसट-छी मित्रता, घनिष्ठता,  
घसटणे-क्रि अ. घिसना,  
छिलना, रगडना।

घसर-छी भाव आदि का  
गिरना, मदी, सस्ती।-गुडी-  
छी १ अवोगति, अवनति, गिरा-  
वट, पतन। २ फिसलन। ३  
फिमलने, रपटने का खेल या  
उसका साधन (तख्ता आदि)।

घसरट-छी दे 'घसट'।  
घसरट-वि १ फिसलने वाला,  
जहाँ से फिसला या रपटा जाय।  
२ ढालवाँ, ढालू।

घसरड-छी १ ऐसी जगह

जहाँ फिसलने की सभावना हो। २  
दे 'घसरगुडी'।

घसरडा-वि जहाँ से फिसलने  
या रपटने की सभावना हो।

घसरडें-न फिसलन, रपट।  
घसरण-दे 'घमरड'।

घसरणी-छी फिसलन, फिस-  
लना, रपटना।

घसरणें-क्रि अ. १ फिसलना,  
रपटना; लुढ़कते हुए गिरना। २  
वरस पडना, धावा बोलना। ३.  
कडी आलोचना करना। ४ ढीला  
पडना। ५ गलती करना। ६  
पतन, ह्रास, अवक्षय होना, गिरना,  
ढहना। ७ लडखडाना, डगमगाना।  
८ हिम्मत हारना।

घसरा-पु. १. घिससा, रगडा।  
२ चक्का, चपेट। ३ जोर,  
तेजी। ४ क्रोध, गुस्सा। ५  
घमकी, डाँट-डपट, घौंस। ६  
धावा, हमला। ७ दे 'घसारा'।  
-घसर-री-छी खीचातानी,  
छीनाझपटी।

घसबटणें-क्रि अ १ घिसना,  
छिलना, रगडा जाना। २ आदत  
पडना। -क्रि स घिसना,  
छीलना, रगडना।

घसा-१ गला, हलक। २.  
श्वासनलिका। ३ आवाज,  
कठध्वनि। मु०-कोरडा होणें-  
हलक खुस्क होना, गला सूखना,  
किसीको समझाने के लिए बड़ी  
देर तक और जोर-जोर से बोलने  
के कारण गला बैठ जाना।-सब-  
खवणें-गले में जुजली या मुरमुनी  
होना।-फुटणे-कठ फूटना,  
जवानी आने पर आवाज का बद-  
लना।-बसणें-गला बैठना  
(शोथ, बहुत बोलने, गाने आदि  
से), साफ आवाज न निकलना।



घशाखालीं उत्तरणे - १ गले के नीचे उतरना, घोटा, निगला जाना। २ रिख्वत का हज़म होना। ३ समझ में आना, ठीक लगना। घशात घालणें, टाकणे - हडप करना, निगल जाना।

घसाघस - सा - अव्य जोरजोर मे, तेज़ी से।

घसारा - १ अवक्षयण, घटाव, घिसाव, घिसाई। २ दे 'घमरा', 'घरघर'।

घस्त - ख्री १ घाटा, नुकमान। २ दे 'गस्त'।

घस्मर - वि १ घस्मर, पेटू। २ मोटा - झोटा। ३ हट्टाकट्टा, मज़बूत।

घळ - ख्री पानी के बहाव के कारण पहाड मे पडने वाली दरार।

घळघळ - अव्य १ लगातार, विपुल, बडी मात्रा मे। २ आँसुओ की झडी लगाते हुए। ३ कलकल निनाद करते हुए।

घळघळणे - क्रि अ लगातार वहना, झडी लगना।

घळघळां - दे 'घळघळ'।

घळघळित - वि १ ढीला, ढीला - ढाला। २ बडा। ३. खुला, खुले दिल का, प्राजल, निष्कपट। - अव्य १ प्रचुर मात्रा मे, बडे पैमाने पर। २ खुले दिल से। ३ पूरी तरह।

घळघा - वि १ लापरवाह, वेपरवा, वेफिक्र। २ अस्तव्यस्त, फटीचर। ३ नामर्द, डरपोक, कायर।

घाट - ख्री घटी, घटा। - वि चुगलखोर।

घाट - ख्री १ घांटी, गले के अदर की घटी, कौआ। २ गला, कठ, आवाज़। - सर्प - पु दे

'घटसर्प'।

घाटी - ख्री १ घांटी, गले के अदर की घंटी; कौआ। २. गला, कठ, टेंटुवा। ३ दे 'घसा'। ४ घटी।

घास - पु १ घास, कौर, निवाला, गस्सा। २ घान, दे 'घाणा'। मु० - देणें - १ खिलाना। २ दूधाभाती, एक वैवाहिक रस्म जिममें वरकन्या एक - दूसरे का नाम लेकर अपने हाथो एक - दूसरे के मुँह मे कौर देते हैं।

घासणी, घासणे - दे 'घासणी'; 'घामणें'।

घाई - ख्री १ जल्दी, तेज़ी, शीघ्रता। २ उतावली। ३ धूम-वाम। मु० घाईस येणें - १ परेशान होना। २ बेसन्न होना।

घाई - ख्री १ आघात। २ जोर की आवाज़, घोर। कहा० जेयें नगान्याची घाई तेथें टिमकीचे काई - नवकारखाने में तूती की आवाज़।

घाऊक - वि १ थोक, बडी राशि मात्रा में लिया-दिया जाने वाला। २ पूरा, समूचा। - अव्य एक साथ, एक राशि में।

घागर - ख्री घडा, कलसा, गागर, गगरी। - गडची सुभेदारी - ख्री पानी भरने का काम, कहार की नौकरी। मु० घागरी फुकणें - आश्विन की शुक्ला अष्टमी की रात को महालक्ष्मी की पूजा कर के उसके सामने खाली गगरी में आवाज़ के साथ फूंककर नाचने की एक रस्म जो महाराष्ट्र की चित्पावन ब्राह्मण स्त्रियो मे प्रचलित है। कहा० पालथ्या घागरीवर पाणी - आँवे घडे का पानी, निष्फल प्रयास।

घागरा - पु घाघरा, लहंगा (स्त्रियो का)। [घटिका, मजीर।

घागरी - ख्री घुंवरु, क्षुद्र घाट - ख्री दे 'घाट'।

घाट - पु १ घाट, घाटी, दर्रा, पहाड पर चढने या उसके पार जाने का रास्ता। २ सहायि की पक्ति। ३ घाट, नदी, शील आदि में वह स्थान जहाँ लोग नहाये-धोयें, जानवर पानी पियें, घोवी कपडा धोयें। ४ सह्याद्रि के पूर्व में स्थित महाराष्ट्र का प्रदेश। - माया - पु पहाड का माया, पठार।

घाट - पु १ गठन, गढन; वनावट, रचना, डील, ढाँचा, ढव, वनावट का तर्ज। २ योजना, आयोजन, इरादा, वहाना। ३ पड्यत्र, कुचक्र। - दार - वि सुडौल, डौलदार, सुघड। मु० - घालणे - १ योजना बनाना। २ पड्यत्र रचना।

घाटणे - क्रि स १ आँच पर पकी हुई चीज़ को चम्मच या कडछी से घुलाना, कुचलना, रौंदना, नरम, पिलपिला करना, हिलाना। २ सताना, परेशान करना। ३ चर्चा, वातचीत करना। ४ घोलना, मिलाना।

घाटणे - क्रि अ वात चलना।

घाटा - पु १ दे 'घाटाणा'। २ पशुओ के लिए पकाया गया वाजरे उरद आदि का खाना। ३ ज्वार या वाजरे का पकाया हुआ दलिया। ४ घाटा, नुकसान।

घाटाघाट - ख्री १ चर्चा, विचारविमर्ष। २ घोटने, घुलाने की क्रिया।

घाटाणा - पु वूट, हीला, चने का छिलके के साथ हरा दाना।

घाटी - छी १ घाटी, दर्रा ।  
२ छोटा घाट । - वि घाट  
(सहाद्रि के पूर्वी इलाके) का  
(निवासी) । - घु. महाराष्ट्र का  
निवासी । २ घरेलू नौकर ।

घाडी<sup>+</sup> - घु. १. मंदिर में  
झाड़ू लगाने, दीया जलाने आदि  
का काम करने वाला । २ ओझा ।

घाण - छी १ वदवू, दुर्गंध,  
कुवास । २ गध; वू । ३ गदगी,  
कूडा कचरा, कूडा-करकट, रद्दी  
चीर्जे । ४ अव्यवस्था, गडबडी,  
गडबडझाला । ५ दे 'घाणी' । -  
वि गदा, गंदला, मैलाकुचैला,  
खराव । मु० - करणें - गदा  
करना, गहडोरना । - मारणें,  
-येणें - वदवू देना, गधाना, दुर्गंध  
निकलना ।

घाणा - घु. १ कोल्हू, ईख या  
तेल पेरने का यंत्र । २ घान,  
उतना अनाज जितना एकवार  
पीसने के लिए चक्की में डाला  
जाय, उतना तेलहन जितना एक  
वार कोल्हू में डाला जाय, उतनी  
चीज जितनी एक वार भाड़ में  
भूनी या कडाह में छानी जाय ।  
३ सिलपोहनी, विवाह की एक  
रस्म । (घालणे, भरणे) । मु०  
घाण्यांत घालणें - आफत में बुरी  
तरह फँसाना । [ दुर्गंध निकलना ।

घाणावणें - क्रि अ गधाना,  
घाणी - छी १ कोल्हू, दे  
'घाणा' । २ चूना बनाने की  
चक्की ।

घाणेरेडा, घाणेरा - वि गदा,  
गंदला, वदवूदार ।

घाणेरी - छी एक वदवूदार  
धूप जो वाड के तीरपर लगाया  
जाता है ।

घात - घु. १ घात, वध,  
म हिंसा को . . १९

हत्या, खून । २ आघात, चोट,  
प्रहार । ३ नाश, खराबी,  
वरवादी । ४ धोखा, छल,  
विश्वासघात । ५. आफत, आपत्ति ।  
६ गजब, कहर । ७ घात,  
गुणनफल, समान सख्याओ का  
गुणा । - पात - घु. १ खूनख-  
रावा, हत्या । २ तोडफोड,  
लूटपाट । - वार - घु. घातवार,  
अशुभ वार । - वेळ - छी १  
अशुभ क्षण । २ मृत्यु का समय,  
खतरा ।

घात - छी १ खेती के कामो  
के लिए उपयुक्त मौसिम, अच्छा  
समय । २ घात, कार्यसिद्धि  
का अच्छा अवसर, ताक, दाँव-  
पेंच, छल, विश्वासघात ।

घातक - की - वि १ घातक,  
घातकी, प्राणघातक, मारक,  
विनाशक, कतल, घात करने  
वाला, हत्यारा । २ हानिकर,  
खतरनाक ।

घातुक - वि दे 'घातक',  
जानलेवा, खतरनाक ।

घावरगुडी - छी १ घबडाहट,  
घबराहट; सिटपिटाना, डर,  
हडबडी । २ परेशानी, उद्विग्नता,  
अधीरता, बेचैनी । मु० - उडणें -  
सिट्टी भूल जाना, बहुत डर जाना ।

घावरट - वि डरपोक, भीर,  
कायर, बुजदिल । - पणा - घु.  
भीरता, कायरता; बुजदिली ।

घावरणें - क्रि अ १ घब-  
डाना, घबराना, डरना, सह-  
मना, हक्कावक्का होना । २  
अधीर होना, भय, चिंता से  
अस्थिर, उद्विग्न होना, घपचि-  
याना, सिटपिटाना ।

घावरविणें - क्रि स १  
डराना, भीत, सशक करना । २

चक्कर में डालना ।

घावरा - वि १ डरा हुआ,  
भीत, भयग्रस्त, शशदर, चकित,  
हैरान । २ उतावला, हक्कावक्का,  
हडबडिया, जल्दवाज । - घुवरा -  
वि डरा हुआ ।

घाम - घु. पसीना, स्वेद, थ्रम-  
जल । मु - काढणें - १ बहुत  
थकाना, परिश्रम कराना । २  
पसीना बहाना । - फुटणें, - सुटणें  
१ होश उड जाना, छक्के छूटना ।  
२. पसीना - पसीना होना, पसीने  
से तरबतर होना ।

घामट ड - वि पसीने से तर,  
गदा, जिसके शरीर से पसीने की  
वदवू निकलती हो ।

घामठाण, घामसाण - छी  
पसीने की वदवू ।

घामाघूम वि १ पसीने से  
तर-बतर । २ हाँफने वाला,  
हाँफता हुआ ।

घामोळें - न घमोरी, अम्होरी,  
धुपेली, गर्मीदाना, पसीना मरने  
से उत्पन्न होने वाली छोटी - छोटी  
फुन्सियाँ । [ वार ।

घाय - \* घु जल्म, आघात,  
घाय - छी जल्दी, तेजी,  
शीघ्रता, उतावलापन, दे 'घाई' ।  
- कुत्या - वि जल्दवाज, उता-  
वला । - कूत - छी जल्दी, जल्द-  
वाजी, उतावली । मु० घायकुतीस  
येणें - उतावला होना, जल्दवाजी  
करना, अपनेपर कावू पाने में अस-  
मर्थ होना ।

घायपात - घु. रामवांस, केतकी  
की जाति का एक पौधा जिम्के  
पत्तो को कूटकर रस्सियाँ बनाते  
हैं ।

घायाळ - वि १ घायल,  
जल्मी; क्षतयुक्त, आहत, जो

चोट खाये हो । २ कमजोर । ३ शरर्मदा, लज्जित ।

घार-छी चील, वाज की जाति की प्रसिद्ध मासाशी चिडिया जो अकसर झपट्टा मारकर लोगो के हाथ से खाने की चीजें छीन ले जाती है ।

घारगा-घु खंडवरा, मीठा वडा, खंडपूरी, कुम्हड़ीरी ।

घारा-वि १ कजई, गहरा खाकी, बिल्ली की आंखो के रंग का । २ कजा, कजी आंखो वाला, करजा, भूरी आंखो वाला, करा । - डोळा - घु कजी आंख ।

घारी-छी दे 'घारगा', 'घार' ।

घान्या डोळ्यांचा-दे 'घारा' ।

घाल-छी १ हमला, धावा । २ नाश, बरवादी, खरावा । ३ सकट, आपत्ति ।

घालकाढ-छी बार-बार डालना और निकालना, झझट, झमेला ।

घालणें-क्रि स १ डालना, रखना । २ गिराना, ऊपर से नीचे पहुँचाना, फेंकना, छोडना, झोकना । ३ कूद पडना । ४ जडना, लगाना, थोपना । ५ मारना, बार करना । ६ मिलाना । ७ फैलाना । ८ परोसना । ९ भेजना, लिखना (पत्र) । १० घुसाना, प्रविष्ट कराना । ११. पहनना, ओढना । १२ लगाना, नियुक्त करना । १३ खोलना (दुकान) । १४ आफत में फँसाना । १५ देना (अडा) । १६ सवाल पूछना । १७ सौगद, शपथ दिलाना । १८ पैदा करना (डर) । १९ बनाना, खडा करना । २० शुरू करना ।

२१ चलाना, रुढ करना । मु० घालून घेणें - १ अपने शरीर को झोक देना, फेंकना; गिरा लेना । २ आत्मघात करना । घालून पाडून वोळणें - ताना देना, व्यग कसना, ताना मारना, चुटौली वात कहना ।

घालमेल-छी १ गडवडी, अव्यवस्था, धांधली, उथल-पुथल, गोलमाल, बदअमली । २ गडवड, गड्ड-वड्ड, गड्ड-मड्ड । ३ दाँवपेंच, चालाकी । ४ दौडधूप । ५ वेचैनी, घुटन । ६. झझट, झमेला ।

घालमेल्या-वि १ गड-वडिया, अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला । २ दौडधूप करने वाला, चलतापुरजा ।

घालवणें, घालविणें-क्रि स १ हटाना, निकाल देना । २ गँवाना, खोना । ३ विदा करना, भेजना । ४ विताना, गुजारना (समय) । ५ दूर करना, निराकरण, निरसन करना । ६ उडाना, बरवाद करना (पँसा) । ७ घटाना, कम करना (ग) । ८ मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना (प्रतिष्ठा) । ९ मिटाना, धो डालना । १० वुझाना (दीया) ।

घालवेडा-वि पागल होने का वहाना बनाने वाला, अनजान बनने वाला ।

घाला-घु १ हमला, धावा, छापा, डाका । २ सकट, आफत ।

घाव-घु १ घाव, चोट, आघात । २ जखम, क्षत, व्रण । ३ घाटा, नुकसान । मु०-घालणे-आघात, चोट करना, हमला बोलना । कहा एक घाव दोन

तुकडे-किसी मामले का झट से फैसला करना, दो टूक जवाब देना या वात करना ।

घावन-न चीला, उलटा ।

घास-घु १ दे 'घास', २ घास, चारा, तृण । -काडी-स्त्री घासपात ।

घासणी-छी १ उवसन, उसकन, बरतन माँजने में काम आने वाला (घास-पात, नारियल के रेशे, वाघ आदि का) मूठा, मुट्ठा । २ माँजने की क्रिया । ३ दे 'घासाधीस' । ४. यत्रणा, पीडा ।

घासणें-क्रि स १ घिसना; रगडना । २ माँजना, रगडकर साफ करना । ३ रटना । ४ आडे हाथो लेना । - क्रि अ १. घिसना । २ मँजना, माँजा जाना । [ 'तेल' ] मिट्टी का तेल ।

घासलेट-न [अ 'गैस'+म] घासाधीस-छी १ खीचा-तानी, चखचख । २ भावताव । ३ जिद, हठ ।

घिरटी-छी १. चक्कर । २ जाँता, चक्की । ३ गश्त, पहरा । मु० घिरट्या घालणे-मँडराना, मँडलाना, चक्कर काटना ।

घिसाडघाई-छी जल्दवाजी, उतावली । [ लुहार ।

घिसाडी-घु लुहार, गाडी-घिस्ता-घु घिस्ता, रगडा, धक्का, कुश्ती में प्रतिस्पर्दी की गर्दन पर कुहनी और कलाई के बीच की हड्डी रगड देना ।

धीवर-घु न घेवर, मैदे, धी, चीनी के योग से बनी हुई एक मिठाई । [ क्षय ।

धीस-छी छीज, घटाव,

धुग-घु भौरा, भ्रमर ।

धुगट-घु [ हि 'धूँघट' ]

धूँघट, अवगुठन; बुरका ।

धुंगरटें - न १ मच्छड, कुटकी । २ धुद्र या तुच्छ वस्तु ।

धुंगरु - घु, धुंगरुं - न धुंगरु, मजीर, चाँदी, पीतल आदि का गोल, पोला दाना जिसके भीतर ककडी भरी रहती है और जो हिलने से बजता है ।

धुंगुर - घु. धुंगरु । - माळ - खी धुंगरुओ ली माला । - बाळा - घु. पैर में पहनने का पोला कडा जिसमें धुंगरु लगे हो, पैजनी ।

धुंगुरटें, धुंगुरटें, धुंगुर - दे. 'धुंगुरटें', 'धुंगरु' ।

धुंगुरी - खी धुंगनी, धुंगुरी, धुंगुरी, उवाला या भिंगोकर तला हुआ चना । [बहु 'धुंगुर्या'] मु. सटीच्या धुंगुर्या खाल्लेल्या असणें - ज्ञान, अनुभव या उम्र में किसीसे बडा होना ।

धुंगुरी - दे 'धुंगुरी' ।

धुंगु - खी उल्लू, कवूतर आदि की बोली । - वि छोटा, नाटा । - वाळ - न छोटा वच्चा ।

धुटका - घु. धूँट, चुसकी, जल या किसी पेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक बार में गले के नीचे उतारी जा सके ।

धुटका - घु. १ गुटका, मत्र-सिद्ध गोली जिसे मुँह में रखनेवाले का दूसरो के लिए अदृश्य हो जाना माना जाता है । २ तावीज ।

धुटमळणें - क्रि अ १ हिच-कना, हिचकिचाना । २ अडना, अटकना, रुकना । ३ अतसमय में प्राणो का न निकलना ।

धुटी - खी धुटी, नवजात शिशु को पिलायी जाने वाली एक रेचक-पाचक दवा ।

धुणधुणा, धुणा - घु. नकसीर,

नाक का एक अवयव । मु. - फुटणें - नकसीर फूटना, नाक से खून बहना ।

धुवड - न १ धुंगु; उल्लू । २ खूसट, जराजीर्ण और बदनरत औरत । [गरजना, दनदनाना ।

धुमधुमणें - क्रि अ गूँजना, धुमट - घु [फा 'गुवद'] गुवद, गुवज । - न गुवद के आकार का एक चर्मवाद्य ।

धुमटी - खी [फा 'गुवद'] छोटा गुवद ।

धुमणें - क्रि अ १ गूँजना, प्रतिध्वनित होना, दनदनाना । २ हू हू कर के सिर धुनना (ओझा के मत्र से) । ३ गुटरगूँ करना (कवूतर का) । ४. धुधुआना । ५ धूमना, चक्कर खाना । ६ फँल जाना ।

धुमविणें - क्रि स गूँज, प्रतिध्वनि पैदा करना, सुर निकालना, वजाना ।

धुमा - म्या - वि १ धुम्ना, चुप्पा, अपने मन के भावो को गुप्त रखने वाला, गुमसुम । २ बुद्ध, जडबुद्धि ।

धुरधुरा - घु. झीगुर, झिल्ली ।

धुरें - न १ मिरगी, अपस्मार, मृगी (रोग) । २ चक्कर ।

धुला - घु. कमला, खजोहरा, एक तरह का रोंयेदार कीडा जिसके स्पर्श से खुजली पैदा होती है ।

धुशी - खी धुसना, धुस-पैठ ।

धुसडणें - क्रि स १ धुसेडना, धँसाना, धोपना, भोकना, ठँसना । ज़बर्दस्ती दाखिल करना, अनधिकृत रूप में प्रविष्ट करना ।

धुसणें - क्रि अ १ धुसना, पैठना, भीतर जाना, दाखिल होना, वलपूर्वक प्रवेश करना ।

२ धँसना, गडना ।

धुसमटणें - क्रि अ दम धुटना, साँस रुकना, अटकना, गला रुंधना, हाँफना ।

धुसविणें - क्रि स. धुसेडना, धँसाना, धोपना, दे 'धुसडणें' ।

धुसळखाब - घु. वह खभा जिसके साथ रस्सी से मयानी बाँधी जाती है ।

धुसळण - न १ मथने के लिए मटके में डाला हुआ दही । २ मथने की क्रिया ।

धुसळणें - क्रि स १ मथना, आलोडन करना, दूब, दही को मयानी आदि से विलोना । २. जोर से हिलाना, झकझोरना, झँझोडना ।

धुस्ता - घु. [अ 'गुस्त'] गुस्ता, क्रोध, कोप, नाराज़ी ।

धुस्ता - घु. [हि 'धूँसा'] धूँसा, मुक्का ।

धूस - खी १ धूस, एक तरह का बडा चूहा । २ काली कलूटी औरत । [नफरत । २ दया, करुणा ।

धूणा - खी १ धूणा, घिन,

धूत - न धूत, धी । - कुल्ल्या मधुकुल्ल्या - खी धी और शहद की नदियाँ, मिष्टान्न की विपुलता ।

धेधे - खी जोरदार कोशिश, हमला । - मार - घु जोरदार हमला, मुठभेड । [भेडा ।

धेटा - घु. बकरा, भेडा,

धेणें - क्रि स १ लेना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, पकडना, थामना । २ खरीदना । ३ छीनना । ४ पीटना । ५ लाना । ६ समा लेना, कब्जा करना । ७ उठाना । ८ करना, होना (मन) ।

धेणे - न पावना, ऋण, कर्ज । - करी - घु. महाजन, लेनदार, लहनेदार । - देणें - न.

लेना-पावना, लेन-देन, लेना-देना।

घेता - वि लेने वाला।

घेर - पु १ घेर, घेरा, दायरा। २ परिधि। ३ लकड़ी आदि का घेरा या वाडा। ४ चोटी के चारो ओर रखे हुए वाल। दे 'घेरा'। - दार - वि घेरदार, वडे घेरे वाला।

घेरणें - क्रि स १ घेरना, घेरा डालना, आवेष्टित करना। २ अवरोध करना, रोकना, छेंकना। ३. परेशान करना, फँसाना।

घेरा - पु दे 'घेर'। १ घेरा, परिधि, दायरा। २ विस्तार, फैलाव। ३ घेरा, मुहासरा, चारो ओर से घेर लेना। ४ किले के चारों ओर का तीन-चार कोस का इलाका। ५. घेरने वाली चीज, दीवार आदि, घिरा हुआ स्थान, अवरोध।

घेरी - स्त्री चक्कर, मूर्च्छा, गश, घुमडी, सिर का चक्कर खाना।

घेवडा - पु सेम, वाकला, एक छोटा फसली पौधा जिसकी फलियाँ तरकारी की तरह खायी जाती हैं।

घेवाण - देवाण - स्त्री न १ लेन-देन, लेना-देना, आदान-प्रदान। २ पैसो का व्यवहार।

घेवारी - पु १ पसारी। २ देहातो से फल, धी आदि खरीद कर शहारो में बेचने वाला।

घोंगडी - स्त्री कमली; छोटा कवल।

घोगडें - न १. कवल, कम्मल। २. झझट, झमेला। मिजत घोगडें - न झमेला, ऐसा काम या मामला

जिसका निवटारा जल्दी न हो। मु० गळघात घोंगडें घालणें - झझट, मुसीबत में फँसाना, किसी अप्रिय काम की जिम्मेदारी डालना। गळघात घोगडें येणें - झझट में फँसाना। मिजत घोंगडें पडणें - खटाई में पडना, कुछ तै न होना, लटकाये रहना।

घोगाट - ण - पु न दे. 'गोगाट', 'घोघाट'।

घोगावणे - क्रि अ १ भिन-भिनाना, मक्खियो का 'भिनभिन' करना। २ दे. 'घोघावणे'।

घोघाट - ण - पु न १ भिन-भिन, मक्खी आदि के परो की आवाज। २ भीरो की गुनगुन। ३ हवा, समुद्र आदि की आवाज, गरजन। ४ शोर, हल्ला। ५ बोलवाला।

घोघावणे - क्रि अ १ गर-जना, घोरना। २ दे 'घोगावणे'।

घोंघों - पु तूफान की आवाज; भाँयें भाँयें। - अव्य भाँयें भाँयें, जोरो से।

घोटणे - क्रि स १ घोटना, रगडना, रगड कर वारीक या चिकना करना। २ पीसना। ३ रट कर कठस्थ करना, सुलेखन का अभ्यास करना। ४ दे. 'घोटणे'।

घोंटा, घोंटाळणे, घोटाळा - दे 'घोंटा', 'घोंटाळणे', 'घोंटाळा'।

घोटीव - वि १ घोटा हुआ, घोट कर चिकना बनाया हुआ। २ चिकना, चमकदार।

घोस - पु १ घोंद, फलो का गुच्छा, घौर-रा, घौर-रा, घौरी। २ झन्वा, गुच्छा, फुंदना। वि वडा, सुदर, भरा-पूरा। - दार - वि गुच्छेदार, गुच्छे

वाला। - वाळी - स्त्री कान की वाली जिसमें मोतियो के गुच्छे लगे हों।

घो -+ पु १ पति, शौहर। २. पुरुष, मर्द। [ रट, रटन।

घोकपट्टी - स्त्री रटत, रटाई, घोकणें - क्रि स घोखना, रटना, याद करने के लिए वार-वार पडना। २ एक ही बात वार-वार कहते रहना। [ रटाया।

घोकोव - वि रटा हुआ, रटा-घोक्या - १ घोखने वाला, रटने वाला। २ वृद्ध।

घोगरा, घोघरा - वि १ भर्रायी हुई, भारी, वैठी हुई (आवाज)। २. फटी आवाज का।

घोघावणें - दे 'घोगावणे', 'घोघावणे'।

घोट - पु घूंट, जल या किसी पेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक वार में गले के नीचे उतारी जा सके। मु० - घेणें - १ घूटना; निगलना। २ सताना, हैरान करना। ३ यत्रणा दे कर मार डालना।

घोटणी - स्त्री, घोटणें - न घोटना, घोटने का औजार।

घोटणें - क्रि स १ घूटना, निगलना। २ पी जाना, वर्दाश्त करना। ३ दे 'घोटणे'।

घोटविणें - क्रि स १ सुलेखन का मश्क कराना, आदत डलवाना। २ घोटवाना।

घोटा - पु १ भाँग, भग। २ घोटा, भाँग घोटने का सोटा। ३ घोटना, घोटने का औजार।

घोटा - पु टखना, एडी के ऊपर की हड्डी की गाँठ।

घोटाळणें - क्रि अ १ हिच-किचाना। २ इधर-उधर फिरना।

३ लटकना । ४ झुंझलाना । ५ गडवडाना । ६ असमजस मे पडना ।

घोटाळा - पु. घपला, गोल-माल, गडवडी, उलझन, झझट, झमेला । २ असमजस, अनिश्चय ।

घोटीव - दे 'घोटीव' ।

घोड - 'घोडा' का समास मे व्यवहृत रूप । - चूक - छी बहुत बडी और अक्षम्य गलती, प्रमाद । - दळ - न अश्वारोही सेना । - दौड - छी घुडदौड, घोडो की दौड, बडी तेजी से जाना । - नवरा - पु. बडी उम्र का बूल्हा । नवरी - छी बडी उम्र की दुलहन । - विवाह - पु. बडी उम्र के पुरुष का छोटी वालिका के साथ होने वाला विवाह । - शीर - छी घोडा-नस, एडी से ऊपर की ओर जाने वाली मोटी नस ।

घोडा - पु. १ घोडा, अश्व । २ बडूक, तमचे का खटका जिसे दवाने से वह दगता है । ३ शतरज का एक मोहरा । ४. छज्जे के नीचे दीवार मे लगाया जाने वाला लकडी आदि का टोटा । ५ खूंटी । ६ समुद्र के पानी का ऊपर उठा हुआ भाग । ७ घुडसवार । ८ तैरने के लिए बनाया हुआ तूँवो का उपकरण । ९ बडी उम्र का बूडू लडका । १० दे 'घोडी', 'घोडे' । मु० घोडा मंदान जवळ असणें - कसौटी का समय, मौका निकट होना ।

घोडी - छी १ घोडी, घोडे की मादा । २ घोडिया, तख्ता रखने की घोडी । ३ पुराने जमाने में बच्चो को पाठशाला में दी जानेवाली एक प्रकार की मज्जा । ४.

घडौंची । ५ बडी उम्र की अल्हड लडकी । दे 'घोडा', 'घोडे' ।

घोडे - न घोडा और घोडी दोनो के लिए प्रयुक्त शब्द । दे 'घोडा', 'घोडी' । मु० - अडणे - काम रुकना, अड जाना । - पुढें दामटणे - अपनी ही हाँकना, अपना राग अलापना, अपनी बात को सब से आगे पेश करने की कोशिश करना । - मारणें - हानि पहुँचाना, नुकमान करना । घोडचाने पेंड (पेण) खाणे - अड जाना, वाधा, रुकावट पडना । घोडचावर वसून येणें - घोडेपर चढ आना, लौटने की जल्दी मचाना । कहा. वरातीमागून घोडे - किसी बात के हो जाने के बाद उससे सबद्ध वाते करना, मरीज के मर जानेपर वैद का पहुँच जाना ।

घोण - छी कनखजूरा, गोजर ।

घोणस - पु एक किस्म का जहरीला साँप ।

घोणा - दे 'घुणा' ।

घोर - वि १ घोर, भयकर, डरावना, भयानक । २ गहन, गहरा, निविड । ३ गाढा । ४ भारी, घमासान; घनघोर, ज्व-दस्त । - पु. १. खरटा । २ चिता, फिक्र । ३. आक्रोश, रोना-धोना । ४ घटका, दे 'घरघर' । ५ सकट, आफत । ६ पड्ज (खरज) का तार या स्वर ।

घोरणें - क्रि अ खरटि भरना, मारना, लेना, सोते में नाक से खरं-खरं की आवाज निकालना । - न खरटा ।

घोरपड - छी १. गोह, छिप-कली की जाति का एक जहरीला जतु जो आकार में नेबले के वरा-वर होता है । यह अपने नाखूनों

से चट्टान को कसकर पकड रखता है । २ झझट, आफत, बला । मु० गळचात घोरपड घालणें - झझट, आफत में फँसाना ।

घोष - पु. १. घोष, घोषणा, नारा । २ गरज, गर्जन । ३. रटत, रटाई ।

घोषणा - छी घोषणा, मुनादी, ऐलान ।

घोस - टे 'घोस' ।

घोसळणें - क्रि स. जमीनपर गिराकर लताडना, मसलना, कुच-लना ।

घोसाळी - छी धियातरगेई (बेल) ।

घोसाळें - न धियातरगेई, धियातुरी, धियातुरई, धियातो-रई, नेनुवाँ (तरकारी का फल) ।

घोळ - पु १ वार-वार हिलाना, घुमाना । २ चर्चा, विचारविमर्ष । ३ झमेला, झझट । ४ गडवडी, अव्यवस्था । ५ झोल (कपडे का) । ६ कुलफा, वथुआ (साग) । मु० - घालणें - देर लगाना, तूमार बाँधना, छोटी बात को वेकार बहुत बढा देना ।

घोळका - पु. १ भीड, जमाव, जमघट, मजमा, जमघटा । २ शोरगुल, हल्ला । ३. टे. 'घोळ' ।

घोळणा - दे 'घुणा' ।

घोळणें - क्रि स १ पछोरना, पछोडना, सूप से फटकना । २ हिलाना; घुलाना; घोलना । ३ सताना, परेशान करना । ४ वार-वार दुहराना । - क्रि अ मन में चक्कर काटना, मँडराना । घोळून घोळून - अव्य. वार-वार, अदलबदल कर, घुमा-फिरा कर । घराणेंद्रिय - न घ्राणेंद्रिय; नाक ।

## ड

ड - मराठी वर्णमाला के क वर्ग का पांचवा व्यजन । इससे प्रारंभ होनेवाला कोई शब्द मराठी में नहीं है ।

## च

च - मराठी वर्णमाला के च वर्ग का पहला व्यजन ।

च - यह मराठी का अपना विशेष दत्य उच्चारण है ।

चक्रमण - न चक्रमण, घूमना, टहलना ।

चंग - पु. [ फा ] १ चंग, एक टेढ़े आकार का वाजा । २ प्रतिज्ञा ।

मु० - बाधणे - १ कमर कसना, उतारू होना । २. गर्त बंदना, बाँधना ।

चंगळ - छी १. विपुलता, इफ़रात । २ मौज, चैन, मजा ।

मु० - असणें, - उडणें - पाँचो या पाँचो उँगलियाँ धी में होना, हुन बरसना । - करणें - माल उढाना, मौज उढाना ।

चंगीभगी - वि १ मनमौजी, छैला, बाँका, शोख, रगीला, छैलचिकनियाँ । २ नशेबाज़, गँजेडी । ३ वदचलन, दुश्चरित्र, बाहियात, चचल, कामुक ।

चचल - ल - वि १. चचल, अस्थिर, डाँवाडोल । २ चपल । ३ चुलचुला, शोख, मनमौजी ।

चची - छी वटुआ, पोतिया, पान, चूना, तवाकू आदि रखने की थैली ।

चचु - छी चचु, चोच । - प्रवेश - पु. थोडा सा-प्रवेश । कहा० चचुप्रवेशे मुसलप्रवेश - थोडा-सा प्रवेश प्राप्त कर के धीरे - धीरे पूरी तरह घुस जाना, उगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना ।

चडाळ - दे 'चाडाळ' ।

चडिका, चडी छी - १ चडिका, चडी, दुर्गा । २ उग्र स्वभाव की, कर्कशा स्त्री ।

चडोल - पु १ चडूल, एक गाने वाली चिडिया । २ होगियार, चालाक आदमी । ३ रंगीला, मौजी, बाँका व्यक्ति ।

चडोल - पु चडू, अफीम का किवाम जिसे नशे के लिए तवाकू की तरह पीते हैं । - खाना - पु चडूखाना, चडू पीने का स्थान ।

चदन - न १ चदन, संदल ( वृक्ष और उसकी लकड़ी ) २ तिलक, चदन को घिस कर बनाया हुआ लेप । ३ नाश, बरबादी । - बटवा - पु बयुआ, चिल्ली ( एक शाक ) । मु - उडविणें - चकना-चूर करना, तवाह करना । - काढणें - कचूमर निकालना, बुरी तरह पीटना ।

चदनी - वि चदन का । - तेल - न चदन का तेल ।

चदी - छी १ रातिव, पशुओ का दैनिक आहार, घोडो आदि को दिया जाने वाला दाना, सानी । २ खुराक ।

चदेरी - वि १ चदेरी नगर का बना हुआ । २ चाँदी का, सफेद, धोला ।

चद्र - पु १. चद्र, चद्रमा, चाँद । २ चद्रमा जैसा चिह्न । ३ मोरपक्ष का अर्द्ध चद्राकार चिह्न ।

- कळा - छी १ चद्रकला, चद्र-

मडल का १६ वाँ भाग । २ काले या लाल रंग की विशेष प्रकार की साडी । - कात - पु चद्रकात, एक मणि जिसके विषय मे प्रसिद्ध है कि चद्रकिरण के स्पर्श मे वह पसीज जाता है । - कोर - छी १ चद्ररेखा, चद्रकला । २ चद्र के आकार की विदी या कुकुमरेखा । - ज्योति - छी १ चद्रज्योत, फुलझडी, महतावी, एक आतश-बाजी । २ चाँदनी । - फूल - न स्त्रियो का एक गहना । - बळ - न. १ चद्र (ग्रह) की अनुकूलता । २ मदद; सहायता । (मु० ओढून चद्रबळ आणणें - १. मन में भावे मूँड हिलावे, इच्छा होते हुए भी ऊपर से इनकार करना । २. सामर्थ्य या प्रतिष्ठा न होते हुए उसका स्वाँग रचना, दिखावा करना) । - मौळी - पु चद्रमौलि, शिव । - वि ऐसी झोपडी या मकान जिसके छत में से चद्र की किरणे अदर आती हैं, टूटा फूटा मकान । - हार - पु चद्रहार, एक तरह का कठहार ।

चद्रावळी - छी १. चद्रावली, राधा की एक सखी । २ शृगार-नायिका, सुदरी । ३. एक प्रकार का गाना ।

- चद्रिका - छी चद्रिका, चाँदनी ।

चंद्री\* - दे 'चद्रिका', 'तद्री' ।

- चपी - छी [ गु. ] १ चपी, मालिश, मर्दन । २ सफाचट, अच्छी तरह मुँडा हुआ सिर । मु.

-उडविणें, -करणें - १ मूँडना, हजामत बनाना । २ बुरी गत बनाना, थुक्का फजीहत करना ।

चबू - पु. [क 'चवु'] १ गडुआ, गडुवा, तग मुँह का लोटा, सुराही के आकार का छोटा लोटा । २ सुराही । - गवाळें, - गवाळें न १. बोरिया-विस्तर, वर्तन, कपडे आदि माल-असवाव । २ निवास, वस्ती । मु. चंबू गवाळें आटोपणें, आवरणें - १ बोरिया-बंधना उठाना या समेटना, चल देना, रास्ता लेना । २ बोरिया समहालना, चलने की तैयारी करना ।

चंवर - न दे 'चवरी' ।

च - अव्य ही, इसका प्रयोग निश्चय, सीमा, कमी, अकेलापन, अनन्यता, आदि के अवसरो पर होता है, एव । २ कुछ मात्रा में । - वि जैसा, सरीखा ।

चकंदळ - पु. १ चकत्ता, त्वचापर पडा हुआ बडा दाग या निशान, ददोरा । २ दे 'चकती' ।

चकचकणें - क्रि अ १ चमकना, जगमगाना, कौघना; झिलमिलाना । २ मुँह से खेददर्शक 'चकचक' की आवाज निकालना, पछताना ।

चकचकाट - पु. चकाचौघ, जनमगाहट, चमक, दमक ।

चकचकी - स्त्री १ चमक, ओप, काति, झलक । २ तेज ।

चकचकीत - वि चमकदार, चमकने वाला, जगमगाने वाला, चमकीला ।

चकणा - वि काना, भेंगा, टेर, ऐंजाताना, जिसकी पुतली ताकते समय दूसरी तरफ खिंची रहे ।

चकणें - क्रि अ १ घोखा खाना, छला जाना, भुलावे में पडना, भौचक, भौचक्का, हक्का-वक्का होना, हैरान रह जाना । ३ हड़बडाना, डर जाना । ४. हार-जीत का फैसला करना (खेल में) ।

चकती - स्त्री १ चकती, टिकिया, गोल कतरन, गोला पतला टुकडा । २ खाँप, फाँक । ३ तमगा, पदक, चपरास । ४ सनद । ५ चिट्ठी ।

चकदा - दे. 'चकदळ' ।

चकमक - स्त्री [तु 'चकमाक'] १ चकमक या चकमाक का पत्थर और फौलाद का टुकडा (जिनसे पुराने समय में आग झाडते थे) । २. सघर्ष, झगडा, शकझक, मिडत, चकरवा । ३ चखचख, कहासुनी ।

चकमकणें - दे 'चकचकणें' ।

चकरा - स्त्री बहु 'चक्कर' का बहु, दे 'चक्कर' । मु - मारणें - चक्कर काटना, चक्कर लगाना, मारना, भटकना ।

चकरावणें - क्रि अ चकराना, चकित, हैरान होना ।

चकरी - स्त्री चकरी, चकई, घिरनी के आकार का एक खिलौना जिसे डोर लपेट कर नचाते हैं ।

चकली - स्त्री १ दे 'चकती' । २ जलेबी के आकार का एक गोल, नमकीन खाद्य पदार्थ । - पात्र - न 'चकली' बनाने का लकडी आदि का उपकरण ।

चकवा - पु. १ चकमा, घोखा, भुलावा । २ चकमा देकर घुमाने वाला एक पिशाच ।

चकविणें - क्रि स चकमा, धाँसा, भुलावा, घोखा देना,

छलना, चक्कर में, भुलावे में डालना । [जगमगाना, कौघना ।

चकाकणें - क्रि अ चमकना, चकाकी - स्त्री चमक, ओप, काति, झलक, चमक-दमक; तडक-भडक ।

चकाटघा - स्त्री बहु गपें, गपें, इधर-उधर की बातें, निष्प्रयोजन, बेकार की बातें । - मु. -पिटणें - गप्पे लडाना; गपगप करना ।

चकार - पु. चकार, च अक्षर या उसकी ध्वनि । - शब्द - पु. चूँ; ची-चपड, एक भी शब्द, कार्य या शब्द द्वारा विरोध का प्रदर्शन । मु -शब्द न काढणें - ची-चपड न करना, चूँ न करना, तनिक भी उज्र, एतराज न करना ।

चकारी - स्त्री १ दे 'चाकोरी' । २ वच्चो के खेलने का चक्का, पहिया ।

चकित - वि १ चकित, विस्मित, हैरान, हक्कावक्का; भौचक । २ शकित, भीत, घबराया हुआ । मु -हौणें - चकित होना, दग रह जाना, हक्कावक्का रह जाना ।

चकोट - वि अच्छा, बढ़िया ।

चकोर - पु. चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चद्रमा का परम प्रेमी माना गया है ।

चक्क - वि १ साफ । २ चमकने वाला, जगमगाने वाल । - अव्य - साफ-साफ; खुल्लम खुल्ला, पूरी तरह, कतई । - न चकाचौघ तिलमिलाहट ।

चक्कर - न १ चक्कर, पहिये जैसी वस्तु, चाक, चक्र । २ चकई, चकरी (खिलौना) । - स्त्री न १ चक्कर, गश, सिर का घूमना । २ फेर; फेरा, घुमाव ।



३ हैरानी, पेचोताव । ४ वृत्ताकार मार्ग, परिक्रमा । - वि घनचक्कर, मूर्ख, नाममज्ञ, अजीव । टे 'चकरा' । मु.-भारणें-चक्कर मारना, काटना, लगाना, भटकना ।

चक्का - पु पनीर, गाढा दही, आंठी, दही का थक्का ।

चक्काचूर - वि चकनाचूर, जो टूट कर चर-चूर हो गया हो, चकचून, चकचूर । - पु सत्यानाश ।

चक्की - स्त्री १ चक्की, जांता । २ आटा पीसने का यंत्र । ३ चक्की का पाट । ४ व्यायाम करने का पत्थर का कडा ।

चक्र - दे 'चक्रम' ।

चक्र - न १ चक्र, चाका, पहिया, चाक । २. पहिये के आकार का एक अस्त्र । ३ हथेली, तलवे की मडलाकार रेखा । ४. चकरी, चकई (खिलौना) । ५ सेना, फौज । ६ राष्ट्र, देश, प्रदेश । ७ वृत्त, घेरा । ८ रेखाओं से घिरे हुए खाने । ९ सकट, आफत । १० योगवर्णित देह के भीतर के छह पद्म, पदचक्र । - नेमिक्रम - पु ऊँच-नीच, भला-बुरा, ससार का चक्कर, उन्नति - भवनति के दिन । - वर्ती - वि चक्रवर्ती, सार्वभौम । - पु सम्राट्, बाहुशाह । - वाढ - स्त्री, वाढ-व्याज - न चक्रवृद्धि, वह व्याज जिसमें सचित व्याज भी मूल में शामिल हो जाय, सूद-दर-सूद । - वाल - पु १ चक्रवाल, एक पुराणवर्णित पर्वत । २ चक्रवाक, चकवा । - व्यूह - पु १ चक्रव्यूह, चक्र के आकार में सेना की स्थापना । २ भूलभुलैया ।

चक्रम - वि घनचक्कर, सनकी, अजीव ।

चक्री - स्त्री १. वेदपठन, भजन आदि का अखंड पाठ का कार्यक्रम । २. विशेष ढंग की पगडी । ३ चकरी, चकई (खिलौना) । - पुराण - न एक ही स्थानपर एक के बाद दूसरे द्वारा किया गया पुराणपाठ । - वादळ - न चक्रवात, तूफान, चक्करदार आंधी ।

चखोट - \* वि १ स्वच्छ, साफ, निर्मल । २. अच्छा, बढ़िया, सुंदर ।

चघळ - न चुबलाकर बाहर फेंका हुआ चारा, बेकार, रद्दी चीज । - वि १. बेकार की बातें करने वाला, बकझक करने वाला । २ बुद्ध; जडबुद्धि । ३ ढीला ।

चघळणें - क्रि स चुबलाना; चुभलाना, चवाना, चचोडना किसी चीज को मुँह में रखकर जीभ से थोड़ा हिलाले-डुलाते हुए स्वाद लेना ।

चचणें - क्रि अ मरना ।

चट - पु श्राद्ध के समय ब्राह्मण न मिलनेपर उसके स्थान पर रखी हुई दर्भ की प्रतिमा । - श्राद्ध - न ब्राह्मण के स्थानपर चट रख कर किया हुआ श्राद्ध, किसी तरह जल्दी में पूरा किया हुआ काम ।

चट - स्त्री १. लत, चस्का, शीक, स्वाद, मजा । २ वुरी आदत ।

चट - अव्य १. चट, झट, तुरत । २ एक साथ । ३ हड़प करके, निगल कर । ४ समूचे तौर पर, कुल, कुल मिला कर, सब । - कन, - दिशीं - अव्य चटपट, चट से, झट से, तुरत ।

चट\* - वि वाहियात ।

चटई - स्त्री चटाई, साथरी,

घास, सीक, वेत की छान आदि का बना विछावन ।

चटक - पु चटक, गोरवा, गौरैया, चिडिया ।

चटक - स्त्री दे 'चट' । १. चाट, चसका, लत । २ स्वाद, मजा । ३ वुरी आदत । - चादणी - स्त्री चमकचांदनी, बहुत वनाव-सिगार से रहने वाली स्त्री; नखरेबाज औरत, बहुत सुंदर स्त्री । - दार - वि मजेदार; जायकेदार, चटपटा, चरपरा ।

चटका - पु १ आंच, गरमी, जलन । २. चरका, लोहे आदि से दागने का निगान । ३ गर्म पदार्थ खाने से जीम या गले का जलना । ४ दिलसोजी, दुख, व्यथा; वेदना । ५ चिंता, फिकर; हसरत । ६ घाटा; नुकसान । ७ काली या हरी मिर्च की चटनी । ८ दे० 'चटक' । ९ हरकत, चेप्टा ।

चटकावणें - क्रि स १ मटकाना, सटकारना, छडी आदि से मारना । २ फटकारना ।

चटचट - अव्य १. चटपट, झटपट, चट से, तुरत, झट, चटाक-पटाक-ख । २ 'चट चट' या 'चटपट' शब्द के साथ, कडक कर ।

चटचटणें - क्रि अ १ चट-चटाना, 'चटचट' की आवाज निकलना । २ चटकना, जलना, झुलसना ।

चटचटा - दे० 'चटचट' ।

चटचटीट - वि १ कच्चा (भात) । २ चमकने वाला; जगमगाने वाला । ३ मुलायम ।

चटणी - नी - स्त्री १ चटनी । २ चकनाचूर की हुई, तोड़ी हुई

चीज। मु - उडविणे, - करणे -  
चटनी करना, पीस डालना।

चटपट - स्त्री दे 'चुटपुट'।

चटपट - अव्य चटपट,  
झटपट, चट से, तुरत।

चटपटणें - क्रि अ चटपटाना,  
छटपटाना, वेचैन होना।

चटपटा - अव्य दे 'चटपट'।

चटपट्या - वि होशियार,  
चालाक; तेज, फुर्तीला।

चटाचट - अव्य. चटपट, चट  
से, झट, तुरत।

चटावणें - क्रि अ चस्का  
लगना, चटोरा, लालची, वनना,  
आदत पडना।

चटोर - वि बाहियात,  
छिछोरा, छिछला, गदा, मोडा।

चट्ट - अव्य साफ, चाट-पोछ  
कर, समूचा, विलकुल।

चट्टा - पु १ चट्टा, चकत्ता,  
त्वचा पर पडा [हुआ वडा निशान,  
ददोरा। २ दाग, क्षत, छाला,  
फफोला, व्रण। ३ घाटा,  
नुकसान।

चट्टा - पु सफाया, खात्मा,  
नि शेपता। - भट्टा - पु १ चाट  
पोछ कर खा जाना। २ सफाया  
कर देना, मिटा देना, सब को  
मार डालना।

चट्टीपट्टी - स्त्री वनाव-  
सिगार, तडक - मडक, शान -  
शौकत।

चड - दे 'चढ'।

चडचडणें - क्रि अ १ चट-  
कना, तडतडाना, कधी करते  
समय वालो का चटचटाना। २  
भावो का वेहद वढ जाना।

चडफड - स्त्री १ छटपटी,  
वेचैनी, आकुलता। २ बुखार के  
चढ जाने से होने वाली वेचैनी।

चडफडणे - क्रि अ १ छट-  
पटाना, वेचैन होना। चर-  
फराना, तडफडाना। २ झल्लाना,  
कुडना, खीझना; चिडना।

चडफडाट - पु झल्लाहट,  
कुडन, नाराजी, गुस्सा।

चड्डी - स्त्री १ चड्डी, एक  
तरह का लँगोट। २ जाँधिया,  
घुटन्ना, घुटनो तक का पाजामा,  
'निकर'।

चढ - पु १ चढाव, चढाई,  
ऊचाई या उत्तरोत्तर ऊँची होती  
जाने वाली भूमि। २ वृद्धि,  
उन्नति, प्रगति। ३ घलुआ,  
घाल; घाता, वह चीज जो  
ग्राहक को तौल या गिनती के ऊपर  
दी जाय। ४. करवृद्धि। ५  
हमला, घावा। ६ वाढ। ७  
श्रेष्ठता, फौकियत, उत्तमता, वड-  
प्पन। - उतार - पु. १. चढाव -  
उतार, चढा-उतारी; बार-बार  
चढना-उतरना। २ घटाव-वढाव।  
३ क्षय-वृद्धि, उन्नति-अवनति।  
४. आशा-निराशा। मु.-देणे - १  
वहकाना, उत्तेजित करना। २  
नीलाम मे पहले से अधिक कीमत  
की बोली बोलना।

चढण - स्त्री दे 'चढ'।

चढणें - क्रि अ १ चढना,  
नीचे से ऊपर को जाना। २ ऊँचा  
होना, वढना। ३ अधिक, वृद्धि  
होना। ४ महँगा होना, भाव  
का वढना। ५ तेज, कडा  
होना। ६ नसा चढना। ७,  
अडकना, फूलना। ८ समाना,  
चढाया जाना। ९ तनना, कसा  
जाना। १० पावना होना,  
निकलना, कर्ज का वढना। ११  
चढाया जाना, देवतादि को भेंट  
किया जाना। १२ तेज, तीखा

होना (स्वर), वढना। १३  
लगना, पोता जाना। १४  
खुलना (रग), चमकना। १५  
चढना, आवेश होना (भूत)। १६  
सवार होना। १७ मिलना, प्राप्त  
होना। कहा. चढल तो पडेल,  
पोहेल तो बुडेल - जो चढेगा  
वह गिरेगा, जो तैरेगा वह  
डूबेगा, कोशिश करनेवाले को  
असफलता का भी सामना करना  
पडता है।

चढता - वि १ चढता,  
वढता, उठता। २ उभरता।  
३ ऊँचा, उच्च।

चढती - स्त्री १ चढती,  
प्रगति, उन्नति। २ श्रेष्ठता,  
फौकियत। ३ उभार, उठान। -  
उतरती - स्त्री चढा-उतारी,  
उन्नति-अवनति। - कमान - स्त्री  
चढती श्रेणी, उत्तरोत्तर होने वाली  
उन्नति, वरकत, श्रीवृद्धि। -  
पडती - स्त्री दे चढती-उतरती।  
- भाजणी - स्त्री, - श्रेणी - स्त्री  
चढती श्रेणी, उदग्र, ऊर्ध्वाभिमुख  
श्रेणी।

चढविणें - क्रि स १  
चढाना, ऊपर ले जाना। २  
उठाना, वढाना। ३ खीचना,  
तानना (भाँ, कमान)। ४  
मारना, जडना, जमाना,  
लगाना। ५ मुँह मे डालना, पीना  
(भाँग, तवाकू)। ६ वढावा  
देना, ढीठ, शोख, घमडी  
वना देना। ७ बनाना, खडा  
करना (मकान)। ८ पहनना  
(कपडा)। ९ काँटो मे घमीटना,  
अनुचित प्रशसा द्वारा लज्जित  
करना। १० तेज, ऊँचा, तीखा  
करना (स्वर)। ११ लिखना,  
दर्ज करना। १२ चढाई करने को

प्रेरित करना ।

चढाई - स्त्री १. चढाई, हमला, आक्रमण, धावा । २. आरोहण, ऊपर चढना । ३. ऊँचाई या उत्तरोत्तर ऊँची होती जाने वाली भूमि, दे 'चढ' ।

चढाऊ - वि १ आक्रमक, आक्रमणशील, धावा बोलने वाला, लडाका, झगडालू । २. चढ कर जाने योग्य । दे 'चढाव' ।

चढाओढ - स्त्री चढाऊपरी, चढाचढी, लागडाट, होड, प्रति-योगिता, दुश्मनी ।

चढाचा - वि १ बढता हुआ, बढने वाला । २. महँगा ।

चढाव - पु १ चढाव, दे 'चढ' । २. चढावाँ; उठी हुई एडी का जूता ।

चढावाचें घोरण - न आक्रामक नीति, पहले धावा बोलने की नीति ।

चढिल्ले - \* क्रि अ चढे, चढ गये ।

चढेल - वि १ उद्द, गुस्ताख, मगरूर । २. ऊँचा । ३. चढैत, चढने वाला ।

चण - स्त्री क्रद, डील, कूद व कामत, डील - डील, देह की ऊँचाई - लवाई ।

चणचण - स्त्री १ तगी, कमी, अभाव । २. महँगी । ३. कसक, टीस ।

चणचणीत - वि १ चरणपरा, चटपटा, मिर्च - मसालेदार । २. होशियार, चालाक । ३. तेज । ४. गर्म ।

चणा - पु. चना ।

चणे - पु. बहु चने । - फुटाणे - पु. बहु चना चवना, भूँजा ।

चतकर, चतकोर - ' वि

चौथाई, चौथा भाग, चतुर्थांश ।  
- भर - वि छोटा-सा (टुकडा) ।  
चतुःसीमा - स्त्री चतुस्सीमा, चौहद्दी ।

चतुःसूत्री - स्त्री चार तत्त्वों का समाहार । - वि चार वातों वाला ।

चतुरग - वि चतुरग, चार अंगों वाला । - न १. चतुरग, शतरंज । २. एक तरह का गाना जिस में सरगम, तराना तबले आदि के बोल बँठाये होते हैं । - दळ - न, - सेना - स्त्री चतुरग चतुरगिणी सेना । हाथी, घोड़े, रथ और पैदल - इन चारों अंगों से युक्त सेना ।

चतुर - वि १ चतुर, चालाक, होशियार । २. प्रवीण, हुनरमद, माहिर । ३. कार्यदक्ष, तेज, फुरतीला । - सावाजी - पु. वेवकूफ, बुद्धू आदमी ।

चतुरता - स्त्री ; चतुरपणा - पु. १ चतुराई, होशियारी; चालाकी । २. प्रवीणता । ३. दक्षता, सुघडता ।

चतुरल - वि १ चौकोर, चौकोना । २. सब ओर से समान । ३. सर्वकार्यकुशल, हरफन मौला; होशियार, चालाक ।

चतुराई - \* स्त्री दे 'चतुरता' ।  
चतुर्यी - स्त्री १ चतुर्यी, चौथी तिथि, चौथ । २. चतुर्यी विभक्ति, संप्रदान कारक ( व्या ) ।

चतुर्भुज - वि १ चतुर्भुज; चार भुजाओं वाला । २. शृङ्खला-बद्ध, जजीर या वेडी में जकडा हुआ, वदी, गिरपतार । ३. व्याहा हुआ, विवाहबद्ध, शादी-शुदा ।

चत्रा - वि चतुर, चालाक ।

चपकन् - अव्य. १ छप से ।

१. झट से, जल्दी-जल्दी ।

चपखल - वि समुचित; सगत; ठीक, मौजूं, 'फिट' ।

चपचपणें - क्रि अ तरबतर, शराबोर होना ।

चपचपीत - वि तरबतर; शराबोर; बहुत भीगा हुआ ।

चपटा - वि १. चपटा, चिपटा, वैठा या घँसा हुआ, जो उभरा न हो । २. छोटा, बारीक । ३. पिटा हुआ ।

चपटी - स्त्री ठोक-पीट कर चिपटी बनाई हुई चीज ।

चपराक - स्त्री तमाचा; यप्पड, चपत ।

चपराशी-सी - पु. [ हिं. 'चपरासी' ] चपरासी, अरदली; हरकारा, नौकर, सिपाही ।

चपल - वि १. चपल, तेज; फुर्तीला । २. चंचल, अस्थिर, जल्दवाज । ३. होशियार, चालाक ।

चपला - स्त्री बहु जूतियाँ, चप्पले ।

चपलाहार - पु. गले में पहनने का एक प्रकार का सोने का हार ।  
चपळ - दे 'चपल' ।

चपळाई - स्त्री १ चपलता; तेजी, फुर्ती । २. जल्दी ।

चपाट - + वि. नष्ट; ध्वस्त; वरवाद ।

चपाती - स्त्री [ हिं ] चपाती; गेहूँ की पतली रोटी, फुलका ।

चपापणें - क्रि अ १. चौकना, सिटपिटाना । २. हडबडाना, धवडाना ।

चवचबीत - दे 'चपचपीत' ।

चवढब - स्त्री १ पानी को हिला कर गंदला बनाना । २. इधरउधर फेंकना, उछलाना । ३. हस्तक्षेप ।

चवरचवर - अव्य. चभड-चभड कर, वकझक करते हुए, कचर-कचर, कचर-पचरके साथ ।

चवूतरा - पु. [हि 'चवूतरा']  
१ चवूतरा, मिट्टी, ईंटो आदि से बैठने के लिए बनाया गया थोडा ऊँचा स्थान । २ चौकी, नाका, अड्डा ।

चमक - स्त्री १ चमक, ओप, कात्ति, दमक, तेज, जगमगाहट । २ कौब, विजली की चमक । ३ कसक, टीस, हूक, करक । ४ चकमा, घोखा, भुलावा । ५ छोटी लडाई । ६ लचक, झटके आदि से कमर आदि में अचानक पैदा होने वाला दर्द । ७ कौशल, होशियार । - दार - वि चमकदार, चटकीला, चमकीला ।

चमकणें - क्रि अ १ चमकना, चमक देना, दमकना, झलकना, जगमगाना । २ चौकना, भडकना, भौचक, हक्कावक्का रहना । ३ ठुमकना । ४ कसकना, टीसना, दर्द करना । ५ प्रसिद्ध होना, उन्नति-समृद्धि प्राप्त होना । ६ चकित होना ।

चमकविणें, चमकावणें, चमकाविणें - क्रि स १ चमकाना, चमकदार बनाना । २ डाँटना, डाँट पिलाना; फटकारना । ३ दुरी तरह पीटना, मरम्मत करना । ४ मटकाना (आँखें) ।

चमकी - स्त्री १ लौंग, कील, मोरनी, नाक में पहनने का एक गहना । २ छडी, वेंत । ३. चमकी, नकली रेशम ।

चमचम - अव्य १ चमाचम, छमाछम, 'छम-छम' शब्द के साथ । २ छुन-छुन, छन-छन ।

चमचमणें - क्रि अ १ दे

'चमकणें' । २ चराना, जलना; चरपराना ।

चमचमाट - पु. ६ चमक, चमकारा, जगमगाहट, चकाचौंध पैदा करने वाली रोशनी, कडक, कौंध । २ स्वादका तीखापन; चरपराहट, झाल । ३ पकवानो की विपुलता ।

चमचमीत - वि १ चरपरा, चटपटा, झालदार, जायकेदार मिर्चमसालेदार, मजेदार । २ विपुल, यथेष्ट । ३ साफ, उजला ।

चमचा - पु चमचा, चम्मच ।

चमडी - स्त्री चमडी, त्वचा, चमडा, खाल ।

चमत्कार - पु १ चमत्कार, करामात, अजूबा । २ विस्मय, आश्चर्य ।

चमत्कारिक - वि १ चमत्कारी, चमत्कारक । २. [अजीब, अनोखा, अद्भुत । ३ असाधारण, शैरमामूली ।

चमत्कृति - स्त्री चमत्कृति, दे 'चमत्कार' ।

चमेल-ली - स्त्री चमेली, चंदेली (एक लता और उसका फूल) ।

चम्मनगोटा - पु सिर के वालो का पूरी तरह मूँडा जाना ।

चर - वि चर; चल; अस्थिर ।

चर - पु १ खाई, खदक, गढा । ६ दे 'चरा' ।

चरक - पु. [फा 'चर्ख']  
१ चरखा, गन्ना पेरने का कोल्हू, ऊख का रस निकालने की कल । २ पीसने की कल । ३ मतत चलने वाला काम । ४ खराद, चरखी; ओटनी ।

चरकणें - क्रि अ १ चौंकना, वकवकाना, डरना, सहमना,

घबडाना । २ भौचक रह जाना; हडबडाना ।

चरका - पु. १ चरका, गरम लोहे आदिसे, दागनेका निशान, दाग । २ जलने आदि से होने वाली 'चर्' की आवाज या पीडा । ३ कसक, पीडा, दर्द, घक्का । ३ चर्री, लगनेवाली बात । ४ दे 'चरखा' ।

चरखा - पु [फा 'चर्ख'] [चरखा, रहट, चर्खा, सूत या अून कातने का यंत्र ।

चरखी - स्त्री [फा 'चर्खी']  
१ चरखी, चर्खी, कपास ओटने का यंत्र । २ चाक, खराद, घिरनी, गडारी । ३ सान, पत्थर की वह चक्की जिसपर उस्तुरा, कँची आदि की धार तेज की जाती है । ४ दे 'चरक', 'चरखा' ।

चरचर - स्त्री १ चरका, चरचराहट, जलन । २ पछतावा, अफ़मोस । ३ तीक्ष्णता, तीखापन । - अव्य १ 'चरचर' की आवाज के साथ, चर से । २ जलन, चरके के साथ ।

चरचरणें - क्रि अ चरचराना, चराना, जलना ।

चरचरा - अव्य दे 'चरचर' ।

चरचरीत - वि १ चरपरा, तीखा, झालदार । २ खुरदरा । ३ जोरदार, मुंहतोड (जवाब) ।

चरण - पु. १ चरण, पाँव, पग, कदम । २ श्लोक का चतुर्थीश, मिसरा । मु०-घरणें - १ पाँव पकडना, चरण छूना, प्रणाम करना । २ घरण में जाना । - लागणें - पधारना ।

चरणारविदों मिलिदायमान होणें - क्रि अ १. निष्ठापूर्वक

सेवा करना, वफादारी के साथ खिदमत अजाम देना । २ खुश मद, चापलूसी करना ।

चरणारा - वि १ चरने वाला । २ चरने वाला, 'चर-चर' करके टूटने वाला, बढना हुआ (ज्रम) ।

चरणे - क्रि अ १ चरना, पशुओं का घास आदि खाना । २ चुगना, चिडियो का चोच मे चुन-चुन कर दाना खाना । ३ दिन भर खाते रहना । ४ चराना, ज्रम का बढना । ५. जाना, चलना ।

चरपटपजरी - छी १ श्री शंकराचार्य-रचित एक स्तोत्र । २. दे 'चरपटपजरी' ।

चरफड, चरफडणे, चरफराट-दे 'चडफड'; 'चडफडणे', 'चटफडाट' ।

चरवट - वि १ चरपरा, चटपटा । २ उकताने वाला, उवाने वाला । ३. खुरदरा, ऊबड-खावड । ४ बाहियात, उद्धत । ५ वक्की, वकझक करने वाला । -छी १ वकझक, ऊटपटाग वार्ते । २. घृष्टता ।

चरवटणे - क्रि अ १ खुरदरा, ऊबडखावड होना । २ घिसना, छिलना । ३ वकना । ४ खराब होना । ५ लियडना, लयफय होना, चरवी से सनना ।

चरवरीत - वि खुरदरा, मोटा-झोटा, ऊबड-खावड । २ कडा, कच्चा ।

चरवी - छी [फा 'चर्वी'] १ चरवी, वसा, मेद । २ मास को पिबला कर अलग की हुई चिकनाई । ३ मोटाई ।

चरवी - छी [क 'चरविगे'] दुर्घाँड़ी, दुधहाँडी, दूध दुहने या

खवने का वर्तन, बटलोई ।

चरस - पु चरस, गाँजे के पेड से निकाला हुआ गोद जो गाँजे की ही तरह पिया जाता है ।

चरा - पु खरोच, चरका, खराश ।

चराई - छी १ चराई, चराने की उजरत । २ चराने का कर ।

चराचरा, चरारा - अव्य चरा कर, चरपरा कर, 'चर-चर' की आवाज के साथ ।

चराट - दे 'चन्हाट' ।

चरितार्थ - पु १ गुजारा, निर्वाह, जीवन-यात्रा । २. चरितार्थ, कृतार्थ, सफर होना । ३. किसी तरह चल जाना ।

चरित्र - न १ चरित्र, चरित, जीवनी, जीवनवृत्त । २ आचरण, शील, स्वभाव ।

चरु - पु १ चरु, भात; पकाया हुआ चावल । २ हाँडी, वह वर्तन जिसमें चरु पकाया जाय ।

चर्च - न [ अ ] चर्च; गिरजा, गिरजाघर, ईसाइयो का उपासनामदिर ।

चर्चणे - दे 'चर्चणे' ।

चर्चा - छी १ चर्चा, वाद-विवाद, वातचीत, बहस । २ जिक्र, उल्लेख । ३ ममाचार, खबर । ४ परोक्ष में की हुई निंदा, बुराई, चुगली ।

चर्चणे - क्रि स १ लेपना, पोतना, चुपड़ना, लेपन करना । २ चर्चा करना, विचारना ।

चर्पट, चर्पटपजरी - छी १ वकवाम, वकवाद, उक्रानेवाली, उवाने वाली वार्ते, वेकार की वार्ते जो लगातार कुछ देर तक कही जाएँ । २ दे 'चरपटपजरी' ।

चर्म - न १ चर्म; चमडा । २. खाल, छिन्का । -कार - पु चर्मकार; चमार ।

चर्पा - छी १ चेहरा; मुँह; मुखमडल, रूप, हुलिया; धक्कल-सूरत, मुखमुद्रा । २ प्रथा, पद्धति । ३ आचरण, पालन । ४ सचार, गमन, भ्रमण । ५ लीला, पराक्रम ।

चरं - न धक, घडकन । मु - होणे - वक होना, धकवकाना, भय, धवराहट आदि के कारण कलजे का तेजी से घडकना ।

चर्वित - वि चर्वित; चवाया हुआ । - चर्वण - न १ चर्वित - चर्वण, चवाये हुए को चवाना । २ कही हुई बात को फिर-फिर कहना, वकवास ।

चन्हाट - न १ तूमार, वकवास, छोटी बात को वेकार बहुत बढा देना । २ रस्सा; मोटी रस्सी, पधा । मु. - बलणे - तूमार बांधना, छोटी-सी बात को वेकार बहुत बडा देना, तूल देना, वकवास करना । कहा० देवाची गेली घाट तर गुरवाचे गेले चन्हाट - मदिर की घटी चली गयी तो उसके नाथ पुजारी की रस्सी भी गयी जिसमें वह बँधी हुई थी; छोटे आदमी के लिए अपनी छोटी-सी बात का ही महत्त्व होता है ।

चल - वि १ चल, गतिमान । २ अस्थिर, चंचल । - पु हमला, धावा । - चित्र - न चलचित्र, सिनेमा ।

चलणे - क्रि अ १. चलना, निकलना, चलने लगना; विदा होना । २ जाना ।

चलती - छी १ चलती, जोर, असर । २ उन्नति, समृद्धि ।

३ सामर्थ्य, सफलता, प्रभुत्व का जमाना ।

चलत्चित्र-न, चलत्चित्रपट-  
पु. चलचित्र, 'सिनेमा,' 'फिल्म'।

चलन-न १ चलन, वरताव, आचरण । २ चलन, मुद्राचलन, मुद्रा का चलन; सिक्का, चलार्थ, 'करेन्सी' । ३ चाल, रीति, रिवाज, प्रथा, ढंग । ४ चालान, वीजक, पहुँच, पावती। - बलन - न चलन, हिलना-डोलना, - वाढ - स्त्री मुद्रा-स्फीति ।

चलनी-वि जिसका चलन, व्यवहार हो, चलनसार, प्रचलित (सिक्का) ।

चलविचल-स्त्री १ दुविधा, असमजस, निश्चय का अभाव, सकल्प - विकल्प । २ चलविचल, अस्थिरता, क्रमभंग ।

चलाऊ-वि [हिं] चलाऊ, जो चल सके, काम चलाऊ ।

चलाख-वि [फा 'चालाक'] १ चालाक, चतुर, धूर्त, चाल-वाज । २ निपुण, दक्ष, होशियार; चुस्त, बुद्धिमान्, फुर्तीला ।

चलाखी-स्त्री [फा 'चालाकी'] १ चालाकी, चतुराई, धूर्तता, चालवाजी । २ फुर्ती, चुस्ती, दक्षता, बुद्धिमानी, होशियारी, चपलता ।

चव-स्त्री १ स्वाद, जायका, रुचि, मजा । २ लाभ, फायदा । - दार - वि मज्जेदार; स्वादिष्ट, जायकेदार ।

चव-पु [क 'चिब्वु'] नारियल की गरी का चूरा ।

चव-पु मोती के मूल्य का परिमाण ।

चवई, चवईण-स्त्री जगली केले का पेड ।

चवक-पु १ चविक (वृक्ष-विशेष), चाव । २ काली मिर्च के पीघे की जड ।

चवक, चवकट; चवकडी, चवकशी, चवकस, चवकी, चव-घडा, चवघडी, चवघे । दे चौक, चौकट, चौकडी, चौकशी, चौकस, चौकी, चौघडा, चौघडी, चौघे ।

चवचाल-वि १. चोचाल, चचल चोचले वाज, शोख, नखरेवाज । २ बदचलन, वाहि-यात, आवारा ।

चवड-स्त्री ढेर, राशि, थप्पी, गड्डी ।

चवडा-पु १ तलवा, तलवे का उंगलियों के पास का हिस्सा । २ पैर का एक रोग ।

चवढव-स्त्री १ दे 'चव' । २ गडवडी, झझट, झमेला ।

चवताळणें-क्रि अ विगडना, गुस्सा होना, झल्लाना, उवल पडना, आपे से बाहर हो जाना ।

चवदा-दे 'चौदा' ।

चवघव-ढे 'चवढव' ।

चवरग-दे. 'चौरग' ।

चवर-न दे 'चवरी' ।

चवरी-स्त्री चँवर, चँवरी, सुरागाय की पूछ के वालो का गुच्छा । मु० - ढाळणें - चँवर डुलाना ।

चवरेचाळ, चवरेचाळीस, चव-न्याशी, चव-न्याणव - दे चव्हे-चाळीस, चौ-न्याणव, चौ-न्याशी ।

चवल-पु, चवली - स्त्री दुअन्नी ।

चवळई, चवळाई - स्त्री चौलाई, एक सञ्जी ।

चवळी - स्त्री १ चवल, लोविया, चवला, सीगरी, सेम,

चवली । २ दे 'चवळई' ।

चवाठा-पु १ चौराहा, चौमु-हानी । २ अड्डा । मु० चवाठचा-वर आणणें - भडाफोड करना, जाहिर करना ।

चवाळ-स्त्री, चवाळें-न १. एक-साथ वने हुए चार अंगोछे या छोटी घोटियाँ । २ छोटा कवल ।

चविष्ट-वि स्वादिष्ट, जायके-दार, मज्जेदार ।

चव्या-पु चौवा, चौवा, चौका, ताश का चार बूटियो वाला पत्ता ।

चव्वल-पु दुअन्नी ।

चव्वा, चव्व्या-दे 'चव्या' ।

चव्वीस-वि चौवीस, २४ ।

चव्हाटा-दे 'चवाठा' ।

चश्मा, चष्मा - पु. [फा 'चश्म'] चश्मा, ऐनक, उपनेत्र ।

चहा-स्त्री १ चाह, शौक, वासना । २ प्रशसा, वाहवाही, आस्था, इफ्जत ।

चहा-पु [चीनी 'चा'] १ चाय । २ नीली चाय । - दाणी - स्त्री चायदानी । - पाणी - न चायपानी, सवेरे का जलपान, नाश्ता ।

चहाटळ-वि १ वाहियात, खुराफाती, नटखट, बेहूदा । २ वक्की, बेहूदा वाते करने वाला ।

चहाड, चहाडखोर - वि चुगलखोर, लुतरा, पीठ पीछे निंदा, वुराई करने वाला ।

चहाड-वि पु. ऐसा दाना जो न पक, सीझ सके और जिसमे से अकुर न निकले ।

चहाडी-स्त्री १ चुगली, परोक्ष में की हुई निंदा, वुराई । २ झूठी वात ।

चहाता-वि चाहने वाला;

कद्रदान, चहेता, प्यारा।

चहुँ-हु-हू - वि चहुँ, चहुँ, चार, चारो। - कडील - वि चारो ओर का, सब तरफ़ का। - कडून - अव्य. चारो ओर से, सब तरफ़ से। - कडे - अव्य चहुँ ओर, चहुँदिस, चारो ओर, सर्वत्र, हर तरफ़।

चळ - पु. १ चचलता, डाँवा-डोल स्थिति, अस्थिरता। २ चुल, चुलचुली, चुलचुलाहट, खुजली। ३ अतर, फरक। ४ च्युति, अपने स्थान से भ्रष्ट, स्वलित होना। ५ उन्माद, पागलपन, भ्रम, भ्राति, चक्कर। मु० - भरणें, - लागणें - पागल होना, उन्माद-ग्रस्त बनाना।

चळकप - पु. कप, थराना, काँपना।

चळचळ-ळा - अव्य थरथर, थरथराहट के साथ, थराना हुआ, इस प्रकार कि सभी अंगों में कपन हो जाय।

चळचळीत - वि १ विपुल, भरापूरा, प्रचुर। २ सराबोर, जिसमें से पानी, घी आदि टपक पड़ता हो। ३ जिसमें मिठाइयों, पकवानों की विपुलता हो।

चळणें - क्रि अ १ पागल, उन्मत्त, भ्रात बनाना, भरमना; वहकना। २ विचलित होना, गलती करना, च्युत होना, फिसलना। ३ ढलना, ढरकना, लुठकना।

चळत-थ - स्त्री गड्डु, गड्डी; ढेर, राशि, ढेरी, ताश के पत्तों, कागजों, पत्तलों आदि का एक पर एक जमाकर रखा हुआ ढेर।

चळवळ - स्त्री १. हरकत; हिलना-डोलना, चुलचुल, हल-

चल। २. आदोलन, तहरीक, जदोजहद। ३ खलवली, शोरिश।

चळवळणें - क्रि अ १ चुल-बुलाना, बार-बार हिलना-डोलना, कुलबुलाना। २. वेचैन होना, चचलता दिखाना, वेचैनी प्रकट करना। ३. कोशिश, दौडवूप करना।

चळवळ्या - वि १ आदोलक, आदोलनकारी। २. उपद्रवी, ऊवमी। ३. दौडवूप करने वाला। ४ चुलबुला, चचल, नटखट।

चळविणे - क्रि स. १. हिलाना, विचलित करना, खिसकाना, हटाना, सरकाना। २. पागल बनाना। ३ असमजस में डालना।

चाग - वि १ दे 'चागला'। २ चांगला, हृष्टपुष्ट, शूर।

चांगभला - पु. भैरव की जय; जयकार, जयध्वनि। मु० - करणें-जय बोलना, जयजयकार करना।

चागला - वि १ अच्छा, बढ़िया, उत्तम। २ भला, चगा। ३ खासा, अच्छा-खासा, बहुत। ४ समृद्ध, सुखी, खुशहाल। ५ उचित, योग्य। ६ चोखा, खालिस, वेमेल, सच्चा।

चागलेंपण - न , चांगलेपणा - पु. अच्छाई, भलाई, उत्तमता, बढ़ियापन।

चागुलपण - न , चागुलपणा - पु. १. अच्छाई, नेकी, भलाई, भलमनसाहत, भलमनसी, धारा-फ़त, सज्जनता। २. उत्तमता, बढ़ियापन।

चाचणी - स्त्री जाँच, परख, आजमाइश, परीक्षण।

चांचपडणें - क्रि अ. १ टटोलना। २ अदावा लेना; आज-

माना। ३ ढरते-ढरते, ठिठकते, हकलाते हुए बोलना, पसोपेश में पडना। ४. लडखडाना। दे 'चाचपणें'।

चाचपणें - क्रि अ १ टटोलना, आजमाना, उँगलियों में छू कर पता लगाना। २ दवाना, दवा कर छूना। ३ छूना, स्पर्श करना। ४ दे 'चाचपडणें'।

चाचरणें - क्रि अ १ हकलाना, हिचकिचाना। २ दुविधा, पसोपेश में पडना। ३ ठिठकना। ४ लडखडाना।

चाचल्य - न १ चाचल्य, चचलता। २ क्षणिकत्व, नश्वरता।

चाचा - पु. दरियाई डाकू, समुद्री डाकू, जलदस्यु।

चाचेगिरी - स्त्री ममुद्री डकैती, नीचीर्य, जलदस्युता।

चाडा - वि वेशर्म, निर्लज्ज।

चांडाळ - वि पु. १ चाडाल, चडाल, डोम, अडूत। २ क्रूरकर्मा; नीच कर्म करने वाला व्यक्ति, कमीना आदमी। - चौकडी - स्त्री चडाल चौकडी, उपद्रवियों की मडली, बदमाशों का गुट।

चाद - पु. १ चाँद, चंद्रमा। २ एक गहना जो दूज के चाँद की शकल का होता है। ३ तमशा, पदक, विल्ला।

चादई - स्त्री छत तक उठी हुई मकान की दीवार।

चाँदकी - स्त्री चँदिया, पीछे की छोटी रोटी।

चाँदणी - स्त्री १. तारा, सितारा, तारका। २. दे 'चादवा'। - रात्र-स्त्री चाँदनी रात, वह रात जब चाँदनी हो।

चाँदणें - न चाँदनी, चाँद की

रोशनी, चद्रिका, ज्योत्स्ना ।

चांदमारी - स्त्री चांदमारी, वटुक से निशाने लगाने का अभ्यास । - चें मैदान - न चांदमारी का मैदान, वह मैदान जिसमें चांदमारी की जाय ।

चादला - पु विदी, गोल टीका, सलमा, सितारा, टिकुली, चमकी, टिकिया ।

चांबवा - पु १. चंदवा; चंदोवा । २ मठप आदि की छत; छतगीर, चांदनी, छतके नीचे बांधने की चादर ।

चांदी - स्त्री १ चांदी; वडिया रूपा, सीम । २ रूपा, घटिया चांदी । मु० - आटविणें - १ चांदी गलाना । २ कचूमर निकालना, मरम्मत करना । - उडणे - १ नाश, वरवादी, तवाही होना । २. खात्मा होना । - करणें - चांदी कर देना, जला कर राख कर देना; नाश करना ।

चांदोबा - पु चदा, चदामामा, चांद, चदामामूं ।

चापा - पु चपा, चपक (फूल और पीघा) । चाप्याच्या रगाचें-वि चपई, चपा के फूल जैसे रग का ।

चापेकळी - स्त्री चपाकली, चपा की कली ।

चाफा, चाफेकळी - दे 'चापा' 'चापेकळी' ।

चांभार - पु चमार, मोची । - की - स्त्री चमारी, चमार का घघा । - चौकशी - स्त्री नाहक की पूछताछ, वेकार की पूछगछ, पूछपाछ । - चाडा - पु चमारौटी, चमारो की वस्ती या टोली ।

चा - प्र का, सवध कारक की विभक्ति ।

चाई - स्त्री चाई, बालखोरा,

सिर का एक रोग जिसमें फुसियां होती और बाल गिरते हैं ।

चाउटी - \* स्त्री १ वकवास । २ असम्य, बाह्यात वरताव ।

चाऊ - पु कान (वच्चो का शब्द) । - माऊ - पु वच्चो का एक खेल जिसमें वे एक-दूसरे के कान पकड़ते हैं ।

चाक - न १ चाक, चक्का, पहिया । २ गडारी, धिरनी, गोल चरखी । ३ कुम्हार का चाक जिसे फिराकर वह वस्तु बनाता है ।

चाकर - पु [ फा ] चाकर, नौकर, सेवक, टहलू, खिदमतगार । - मानी, - न्या - वि नौकरी करने वाला ।

चाकरी - स्त्री [ फा ] चाकरी, नौकरी, सेवा । [ (साग) ।

चाकवत - पु वथुआ, वथुवा चाकू - पु [ फा. 'चाकू' ] चाकू, चक्कू, कलमतराश, बंद होने वाली छुरी ।

चाकोरी - स्त्री १ लीक, लकीर, छकडो और गाडियो के पहियों का निशान । २ लोकरीति, परंपरा, रस्मरिवाज ।

चाकोलेट - न [ अ ] चाकलेट, कपिशामिष्ट ।

चाखणें - क्रि स चखना, स्वाद लेना । चाखत माखत - अव्य १ मजा, जायका लेते हुए । २ नखरे के साथ । ३ आराम से ।

चाखविणें - क्रि स १ चखाना । २ चांटा मारना, थप्पड लगाना ।

चाचड - पु लाल चिउंटा । चाचणी, चाचपडणें, चाचपणें, चाचरणें, चाचा, चाचेगिरी - दे 'चाचणी', 'चाचपडणे', 'चाचपणे', 'चाचरणे', 'चाचा', 'चाचेगिरी' । चाट - वि १ नीच, पाजी,

लुच्चा । २ नटखट, शरारती । ३ वक्की, वकवास करने वाला ।

चाट - स्त्री १ गप । २ आघात । ३ तबले के किनारे का भाग । ४ घाटा, नुकसान । मु देणें - १ नी दो ग्यारह होना, घोखा दे कर भाग जाना । २ छोड देना, न करना । - पडणें - १ मुंहकी खाना । २ भौचक रह जाना । - मारणें - १ दे 'चाट देणे' । २ टांग में टांग अडा कर गिरा देना ।

चाटण - न अवलेह, माजून, चाटकर खायी जाने वाली दवा ।

चाटणें - क्रि स १. चाटना, जीभ से उठा कर या पोछ कर खाना, किसी चीज पर जीभ फिराना, चखना, स्वाद लेना । २ छिलना, छू कर जाना । ३ चाट जाना, खा डालना । - मु. चाटून पुसून खाणें - चाट पोछ कर खा जाना, सब खा जाना, कुछ न छोडना ।

चाटविणें - क्रि स चटाना, चाटने की क्रिया कराना ।

चाटो - स्त्री तबले या पखावज के किनारे का हिस्सा ।

चाटो - वि दे 'चावट', 'चाट' ।

चाटो - ट्या - पु [ तमिळ 'चेट्टि' ] १ कपडे का व्यापारी । २ चुनकर ।

चाड - स्त्री १ परवा, परवाह, फिर, चिंता । २ चाह, इच्छा, चाट, स्वाहिन, अभिलाषा, हचि, चस्का, दिलचस्पी । ३ लज्जा, शर्म ।

चाडें - न १ दीपक का वह कटोरीनुमा भाग जिसमें तेल रहता है । २. अकरी, हल में लगा



हुआ चोगा जिससे वीज गिराते हैं।

चाणक्य - पु. १ चाणक्य; कौटिल्य। २ कूटनीतिज्ञ, पद्यत्र, माझिश करने वाला व्यक्ति।

चाणाक्ष - वि चालाक, चतुर; होगियार, धूर्त।

चात - स्त्री तकली, तकुआ, टेकुवा।

चातक - पु. चातक, पपीहा।

चाती - स्त्री १ दे 'चात'। २ धातु आदि का गोल, चपटा टुकड़ा, दे 'चकती'। ३ अटेरन, धागे की रील।

चातुरी - स्त्री चातुरी, चतुराई, होशियारी।

चातुर्मास - स्य - पु १ चातुर्मास्य, चौमासा। २ आपाड की शुक्ला एकादशी मे कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के समय में किये जाने वाले व्रत, होम आदि।

चातुर्य - न चातुर्य, चातुरी, होगियारी।

चादर - स्त्री [ हिं ] १ चादर, चद्दर, ओढ़ना। २ पलग-पोश, विन्तर के ऊपर विछाया जाने वाला दुपट्टा। ३ ऊँचे स्थान से गिरने वाली पानी की चौड़ी धार। ४. खेस, एक तरह की मोटे सूत की बुनी चादर।

चानी - स्त्री गिलहरी।

चाप - न चाप, वनुप्, कमान।

चाप - पु. १ चांप, घोड़ा, बडूक, तमचे का खटका जिससे वह दगता है। २ चूहे को दवा कर मार डालने का एक यंत्र, चूहा-दान, चूहेदानी। मु० - लावण - यत्रणा देना, शिकजे मे खींचना।

चापट - वि १ चापट, चपटा, समतल। २ चापड, दवा हुआ,

जो दाव पडने से चपटा हो गया हो।

चापट - स्त्री चपट, थप्पड, चाँटा, तमाचा। - पोळी स्त्री चपट। मु० - पोळी घम्मक लाडू देणें - चपतो और घूंसो से मरम्मत करना।

चापटणें - क्रि स चापना; दवाना, चपटा बनाने के लिए पीटना।

चापटी - स्त्री १ दे. 'चापट'। २. छोटी, पतली रोटी, चँदिया।

चापणें - क्रि स १ चापना; चांपना, दवाना। २ डाँटना, फटकाना। ३ बहुत खा जाना, हडपना। ४ दे 'चाचपणे', 'चाचपडणे'।

चापल्य - न १ चापल, चपलता, तेजी, फुर्ती। २ चचलता, अस्थिरता।

चापा-फा, चापेकळी, चाफेकळी दे 'चापा'; 'चापेकळी'।

चावुकस्वार - दे 'चावुक' में।

चावुक - पु. [ फा 'चावुक' ] चावुक, कोडा, कशा, प्रतोद। - स्वार - पु. १ चावुकस्वार; घोड़े को सघाने, चाल सिखाने वाला। २ घुडमवार।

चामखीळ - स्त्री मस्ता, इल्ला, अर्बुद। शरीर पर दाने के रूप मे उभरा हुआ मासर्पिड।

चामट - वि १. चीमड, चिमडा; जो जल्दी फटे - टूटे नहीं। २ मजबूत, पक्का। ३ दे 'चेंगट'।

चामडी - स्त्री चमडी, खाल, चर्म; जिल्द, त्वचा। मु० - लोंब-विणें, - लोळविणें - खाल खींचना, खाल उघेडना; इतना पीटना कि खाल उड़ जाय, बहुत

मारना।

चामडें - न १ दे 'चामडी'। २ चमडा, खाल; छिलका। ३ पक्का चमडा, परिष्कृत चर्म।

चार - पु. बहु १ हरकर्ते, चेप्टाएँ, ढग, रग - ढग। २ नखरे, अकड-वाजियाँ।

चार - पु. १ चार, गुप्तचर, जासूस। २ हरकारा।

चार - पु. चिरोजी, पियाल। चार - स्त्री हरी घास, हरा चारा। - वि हरा।

चार - पु. दे 'चाड'।

चार - वि १ चार, ४। २ कुछ, कई। - अक्षरें - न बहु थोडी-सी विद्या, मामूली पढाई। - चौघे - पु. बहु चार लोग, साधारण जन; आम लोग। - दिवस - पु. बहु चार दिन, थोड़े दिन, अल्पकाल। - वाटा - स्त्री बहु १. चार रास्ते। २. वाहर का मार्ग, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। मु० - गोष्ठी सांगणें - समझाना-बुझाना। - घेणें, चार देणें - १ लेन-देन। २ पीटना और पीटना। - हात होणें - १ शादी, व्याह होना। २ मार-पीट, गुत्यमगुत्या होना। कहा. चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे - कालचक्र, चार दिन सास के, चार बहू के, पहले सास हकूमत चलाती है, बाद में बहू का राज होता है।

चारगट - वि १ वाहियात, शरारती, ऊधमी। २ मजाकिया।

चारण - पु. चारण, भाट।

चारणें - क्रि स. १ चराना, चुगाना। २ खिलाना। ३. रिश्वत देना।

चारा - पु. १ चारा, चौपायो के खाने की चीज - घास, चरी

आदि । २. चुगा, चोगा, चिडियो का चारा ।

चारित्र्य - न चारित्र, आचार; शील, चरित, चलन, चाल - चलन । - सपन्न - वि सदाचारी, नेकचलन ।

चारी - वि चारो । मु० - मुड्या चित्त (चोत) होणें - चारो शाने चित्त गिरना या होना; पूरी तरह परास्त हो जाना ।

चारोळी - छी चिरीजी ।

चाही - दे 'चारी' ।

चाल - छी १ चाल, चलने की क्रिया, गति । २ रीतिरिवाज, प्रथा, रस्म-रिवाज । ३ चलने का ढग, हरकत । ४. चलन, प्रचार, व्यवहार । ५ आचरण, वरताव । ६ हमला, धावा, चढाई । ७ कूटयुक्ति, ताश, शतरज आदि में पत्ते या मुहरे को चलाना । ८. ढग, तर्ज (गाने का) । - चलणूक - छी चाल-चलन, आचरण, चाल-ढाल, चरित्र । - चलाऊ - वि कामचलाऊ । - ढकल - छी टाल-मटूल, हीलाहवाला । - रीत - छी रीतिरिवाज, चलन, रस्म-रिवाज, परिपाटी, प्रणाली, प्रथा ।

चालक - वि चालक, चलाने वाला, सचालक ।

चालणें - क्रि अ. १ चलना, जाना, प्रस्थान करना । २ आगे बढ़ना, प्रगति होना । ३ चल निकलना, ठीक तीर से चलना, जमना (काम, वकालत) । ४ चलन होना (सिक्का), प्रचलित होना । ५ आरंभ होना । ६ वीतना, गुजरना । ७ निभना, टिकना, अधिकार होना, सफलता मिलना । ८ जारी, कायम रहना (नाम, वश) । ९ स्वीकृत होना, पसंद आना ।  
म हि श. को ... २०

१०. वरताव, आचरण करना । ११. काम देना, करना, असर करना; कारगर होना (जादू-यंत्र) । १२. जोर, वस चलना । मु० चालून जाणें - हमला करना, धावा बोलना । चालू न देणें - एक न सुनना, चलने न देना । काहीं न चालणें - एक न चलना ।

चालता - अव्य चलते हुए; चलते समय । - बोलता - अव्य. १ झट से, तुरत । २ देखते-देखते ।

चालता - वि १ चलता, चलता हुआ, गतिमान् । २ जिस का चलन हो, जो प्रचलित हो । ३ चलने वाला, काम देने लायक । - काळ - पु उत्कर्ष, प्रगति का काल, खुशहाली का जमाना, भाग्यकाल । - गाडा - पु सुचारु रूप से चलने वाला काम । - बोलता - वि मूर्तिमान्, मुजस्सम; साकार । कहा० चालत्या गाडीला खीळ घालणें - चलती गाडी में रोडे अटकाना, किसी चलते हुए काम में बाधा डालना ।

चालना - छी गति, बढ़ावा, प्रेरणा, वेग ।

चालविणे - क्रि स १ चलाना, चलवाना, चलने की क्रिया कराना, चलने को प्रेरित करना । २ हिलाना, हरकत, गति देना । ३ शुरू करना, आरंभ, प्रचलन, प्रवर्तन करना । ४ चलन करना; चलनसार करना (रुपया, सिक्का) । ५ कायम, जारी रखना । ६. काम में लाना । ७ छोडना, फेंकना (तीर, गोली) । ८ किसी शब्द का पूरा पूरा व्याकरण बताना । ९ दायर करना (मुकदमा) । १० ले जाना ।

११. देखभाल करना, अधिकार, शासन चलाना । १२ प्रयोग करना, इस्तेमाल करना ।

चाली - \* छी १ प्रवेश, पहुँच, रसाई । २ व्याप ।

चालीरीती - छी बहु प्रथाएँ, रस्मोरिवाज, रीति - रिवाज, परिपाटियाँ, प्रणालियाँ ।

चालू - वि चालू, प्रचलित, मुरब्बजा । - खातें - न चलता खाता, चालू खाता, चल लेखा ।

चावट - वि १ बाहियात, नटखट, असम्य, पाजी, अश्लील । २ बक्की । ३ बहुत अधिक घिसा हुआ । - पणा - पु बढमासी, पाजीपन, बाहियात वरताव, असम्य बातें, शरारत ।

चावटा - \* छी बकवास, बकझक ।

चावडी - छी १ कोतवाली, थाना, चौकी । २. चौपाल, खुली या छापी हुई मडपाकार बैठक जहाँ गाँव के लोग बैठक पचायत आदि करते हो । ३ चावडी, चट्टी, पडाव । ४ अड्डा । ५ सरकारी लगान ।

चावणें - क्रि स १ चवाना, दाँतो से कुचलना, चावना । २ काटना. काट खाना । ३ चुभना । ४ दर्द होना । मु० चावून चिकट करणें - नाहक झझट पैदा करना, आसान बात को उलझाना ।

चावरा - वि कटखना, काट खानेवाला ।

चावा - वि दश, डक ।

चावी - छी १ चावी, चाभी, कुजी । २ खूबी । ३ हारमोनियम की पटरी । ४ मिहराव के बीच का पत्यर ।

चास - छी १ कूंड, जोतने

से बनी हुई गहरी लकीर । २ चास, जोत, खेती । [कठ पक्षी ।

चास - पु चास, चाष, नील-चासणी - स्त्री [फ्रा. 'चाशनी'] चाशनी, चीनी, गुड आदि का शीरा, किवाम । ['चहाटळ'] चाह, चाहटळ - दे. 'चहा', चाहणें - क्रि स चाहना, प्रेम करना, प्यार करना, पसंद करना ।

चाहा, चाहाडखोर चाहाडी - दे 'चहा'; 'चहाडखोर'; 'चहाडी'। चाहल - स्त्री चाप, आहट, टोह । मु० - घेणें - आहट लेना, आहट पाने, टोह लेने के लिए कान लगाये रहना । - येणें - आहट पाना, सुनाई देना । - लागणें - आहट पाना, पता लगना ।

चाळ - स्त्री चाल; हाता, बडा भारी मकान जिसमे पचासो किरायेदार कुटुब रह सके (बवई)।

चाळ - पु १ पायल, पाजेव, नूपुर, पैजनी, पैजनी । २ खोज । - स्त्री दे 'चाळा' ।

चाळ - पु छाँट, छाँटन, लम-गिरदा, मोटी दानेदार रेती, आटे, रेत आदि का मोटा अश जो छानने पर बचा हो, भूसी, छिलका ।

चाळढाल\* - पु १ दे 'चाल-ढकल' । २ किसी तरह माँग को पूरा करना । ३ चाल-ढाल, तीर-तरीका । ४ हलचल, हरकत ।

चाळण-णी - स्त्री १. छलनी, चालनी, चलनी, छानने का आला । २ ऐसा कपडा जो छलनी हो गया हो अर्थात् छेदो से भर गया हो, जर्जर, फटा - पुराना कपडा । मु० चाळणीत पाणी घालून जीव देणे - १ चुल्लूभर पानी में डूब मरना,

लज्जा से मुँह न दिखा सकना । २ बहुत निराश होना ।

चाळणे - क्रि स १. छानना; चालना, छाँटना । २ उलटना, फेरना । ३ खोजना, ढूँढना । ४. \* करना । ५ \* उठाना ।

चाळवणूक - स्त्री आशा दिखाकर न करना या न देना, टालमटूल ।

चाळवणें - क्रि. स १ झूठी आशा दिखाना, धोखा देना; ठगना, छलना । २ हिलाना; डगाना, विचलित करना, खिसकाना । ३ टालमटूल करना । - क्रि ष विचलित होना, मोहित, लुब्ध होना ।

चाळवाचाळव - स्त्री १. छल-छद, छल-कपट । २ उथल-पुथल । ३ टालमटूल ।

चाळविणें - क्रि स १ दे 'चाळवणे' । २ आस देना, आस बाँधना । ३ धुमाना ।

चाळशी - स्त्री चश्मा, ऐनक ।

चाळा - पु १ शीक, व्यसन, चसका, आदत । २ काम, हल-चल, हरकत, चेष्टा । ३ शरा-रत । ४ नखरा । मु० - लागणे - शीक, चस्का लगना ।

चाळीशी - स्त्री १ चालीसी, चालीस बरस की उम्र । २ चश्मा, ऐनक । ३ चालीस बरस की उम्र हो जाने पर आने वाली आँखों की कमजोरी ।

चाळीस - वि चालीस, ४० ।

चिगळ-ळी - स्त्री १ बहुत छोटी मछली । २ छोटा गाजर, प्याज आदि ।

चिच - स्त्री इमली (पेड और उसका फल) । - पेटी - स्त्री गुलू-वद, गले में पहनने का एक जेवर

जिसमें इमली के पत्तों के आकार की स्वर्णपट्टियाँ होती हैं ।

चिचुका, चिचोका - पु चिचाँ, इमली का बीज ।

चिचोळा - वि १ शक्वाकार, सूच्याकार, गावदुम । २ तग, संकरा ।

चितक - वि चितक, विचारक ।

चितणे - क्रि स १ चितन करना, गौर करना, सोचना-समझना । २ चाहना । ३ फर्ज करना, मान लेना । ४ चिता, फिक्र करना ।

चितन - न चितन, मनन, गौर ।

चितनिका - स्त्री चितन, मनन ।

चितनीय - वि १ चितनीय, विचारणीय । २ शोचनीय, चिता करने योग्य ।

चिता - स्त्री १ चिता, फिक्र । २ चितन, मनन । ३ परवाह, हर्ज । मु. - नाहीं - कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं, हर्ज नहीं ।

चितित - वि १ चितित, चितायुक्त, सोच में पडा हुआ; फिक्रमद । २. सोचा हुआ ।

चिघडी - स्त्री १ चिदी, घज्जी, छोटा टुकडा । २. खपची । मु चिघड्या उडविणें - घज्जियाँ उडाना, चीर या फाडकर टुकडे कर देना, मटियामेट कर देना ।

चिघी - स्त्री चिदी, घज्जी, लवा, छोटा, पतला टुकडा ।

चिघोटी - स्त्री घज्जी ।

चिब - वि तर, गीला, तरव-तर, शरावोर । [- वि खट्टा ।

चिबट - स्त्री कमची, तीली ।

चिबणें - क्रि ष फटना, चिरना, सीधा कट जाना, दर-कना, मसकना ।

चि\* - प्र ही ।

चिऊ - स्त्री गौरैया, चिडिया, चुनमुन (बच्चो का शब्द) ।

चिकचिक - स्त्री चिकनाहट, चिकनाई, चिचिप, चिपचिपाहट, चीकट, पसीने से आने वाली चिकनाहट ।

चिकचिकणें - क्रि अ १ चिकनाना । २ पसीने से भर जाना । [ चिकनाहट ।

चिकचिकाट - प्र. बहुत अधिक चिकचिक - स्त्री १ दे 'चिकचिक' । २ पानी के कारण कीचड बन जाना ।

चिकट - वि १ चिपचिपा, चिपकनेवाला, लसलसा, लसदार, लसीला । २ चीमड । ३ कजूस, मक्खीचूस । ४ पिछलग्गू ।

चिकटणें - क्रि अ १ चिपकना, किसी लसदार चीज के योग से एक चीज का दूसरी से जुडना । २ सटना, लिपटना । ३ लगाना; आदत पढना ।

चिकटलेला - वि १ चिपका हुआ । २ सटा हुआ, लगा हुआ ।

चिकटविणें - क्रि स १ चिपकाना, किसी लसदार चीज के योग से जोडना । २ लगाना, थोफना, मढना । ३. लिपटाना ।

चिकटा - प्र. १ वालो का मैल । २ चिपचिप, चिपचिपाहट । ३ कीचड, आँख का मैल । ४. पीप । ५ फसलो का एक रोग । ६. लासा, फँसाने, चिपकाने वाली चीज ।

चिकण - वि १ चिकना, लसदार, चिपचिपा, चिकण, स्निग्ध । २ चीमड । ३ कठिन; मजबूत । ४ गाढा (दूध), गाढा दूध देने वाली (गाय या भैंस) ।

५. कजूस, मक्खीचूस । - माती - स्त्री चिकनी मिट्टी, लसदार मिट्टी । - सुपारी - स्त्री चिकनी सुपारी, चिकनी डली, डवाली हुई चिपटी सुपारी ।

चिकणी - स्त्री खरँटी, वरियार । (एक पौधा) । - वि दे 'चिकण' । - माती, - सुपारी - दे 'चिकणमाती'; 'चिकणसुपारी' । [ भरा, सना हुआ ।

चिकलवणी - वि कीचड से चिकाचा पढदा - प्र. [ तु 'चिक' + फा. 'पर्द' ] चिक, चिलमन, वाँस की तीलियो का बना हुआ क्षीना पर्दा जिसे खिडकी - दरवाजो पर डालते हैं ।

चिकाटी - स्त्री १ अध्यवसाय, दृढता, लगन । २. जीवट, हियाव, हिम्मत । ३ चीमडपन । ४ लासा । ५ पिछलगी । - चा - वि अध्यवसायी, दृढकर्मा ।

चिकार - अव्य खचाखच, ठसाठस, विलकुल (भरा हुआ) । - वि बहुत, वेहद, वेशुमार ।

चिकित्सक - वि १ आलोचक, समीक्षक, खुचड, मीनमेख निकालने वाला, छिद्रान्वेपी, बाल की खाल खीचने वाला । २ आलोचनात्मक । ३ जानकार । - प्र. चिकित्सक, वैद्य ।

चिकित्सा - स्त्री १ आलोचना; चर्चा, छान-बीन, जाँच, खोज । २. चिकित्सा, इलाज, औपधोपचार ।

चिकित्सेखोर - वि नाहक मीनमेख निकालने वाला, बाल की खाल खीचने वाला, वारीकी निकालने वाला, बहुत छान-बीन करने वाला ।

चिकी - स्त्री १. चीनी या गुड

की चाशनी से बनायी हुई चिकनी या चीमड मिठाई । २ गाढी चाशनी । ३ चिपचिपी, लसदार चीज ।

चिकू - प्र. चीकू (फल) । - वि कजूस, मक्खीचूस । [ 'चिकू' ।

चिक्की, चिक्कू - दे. 'चिकी', चिखल - प्र. १ कीचड; कीच, पक । २ गारा, मिट्टी का लेप । चिखलांत रतलेली गाय - स्त्री कीचड में फँसा हुआ व्यक्ति, कठिनाई, झगडे-झमले में फँसी हुई स्त्री । मु० - उडविणें - कीचड उछालना, बदनामी करना, परेशान करना । चिखलांत घोडा-टाकणे - झझट में फँसना, आफत मोल लेना ।

चिखली - स्त्री अलस, खरवा, पैरकी उँगलियो के चमडे का सडना ।

चिघळणें - क्रि अ. १ फँलना, खराब होना । २ चूना, टपकना ।

चिचुदरी, चिचुद्री - स्त्री १ छछूंदर, गहेजुआ, छूहे की जाति का एक जंतु । २ एक अतिशवाजी । ४ छोटे मुँह वाली बदसूरत औरत ।

चिटकी - स्त्री चुटकी ।

चिटकुला - वि छोटा, नन्हा ।

चिटणीस, चिटनवीस, चिटनीस - प्र. [ हि 'चिट' + फा 'नवीस' ] १. चिटनवीस, पत्रलेखक, मुहरिर, कारिदा । २ सचिव, मंत्री ।

चिटपाखरुं - न १ छोटा पछी, क्षुद्र जंतु । २ कोई भी । मु० - नसणें - सुनसान, सन्नाटा होना, एक भी व्यक्ति का मौजूद न होना ।

चिटोरा - प्र. चिटोरें - न १.

चिट, पुरजा, कागज का छोटा टुकड़ा, घञ्जी । २ चिट्ठी । मु० चिटोरों उडविणें - घञ्जियाँ उडाना ।

चिट्ठी, चिठी, चिट्ठों, - १ चिट्ठी, छोटा पत्र, खत । २ चिट, कागज का छोटा टुकड़ा, पुरजा । ३ लाटरी' । - चपाटी - छी चिट्ठी - पत्री, खत - पत्र । मु० चिट्ठ्या टाकणें - चिट्ठी डालना, लाटरी डालना ।

चिडका, चिडखोर - वि चिड़-चिडा, तुनक मिञ्जाज, जो जुरा-सी वातपर चिड जाय, झुंझला उठे ।

चिडचिड - छी १ झुंझलाहट, खीझ, चिड । २ भीड, घिचपिच । ३ चिपचिपाहट ।

चिडचिडा - डचा - दे 'चिडका' । चिडणें - क्रि अ १ चिडना, विगडना; खफा, नाराज होना, बुरा मानना, झल्लाना, खीझना, झुंझलाना २ फोडे या ज़रम का बढ जाना, फल जाना ।

चिडमिड - छी भीड; घिच-पिच ।

चिडविणें - क्रि स चिडाना, खिझाना, नाराज करना, मुंह बनाना, छेडना, मुंह चिडाना ।

चिणणें - क्रि स १ चुनना, दीवार उठाना, चिन्ना, जोड़ना, जोडाई करना । २ किसी जीवित व्यक्ति को सजा के तौर पर दीवार में गाड़ देना । ३ मार डालना ।

चित - दे 'चित्त' ; 'चीत' । चितपावन - पु. महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मण ।

चितरणें - दे 'चितारणें' । चितळ - न पु. चीतल हिरन, चित्रमृग, हिरन का एक भेद

जिमकी खाल पर सफेद चित्तियाँ होती हैं ।

चिता - छी चिता, मुरदे को जलाने के लिए चुनकर रखी हुई लकड़ियाँ । - भस्म - न चिता की राख ।

चिताक - पु. न स्त्रियो का एक गहना जो गले में पहना जाता है ।

चित्ताडणें - क्रि अ गिचपिच, अस्पष्ट लिखना, आडी-टेडी लकीरें खीचना, काटकूट करना ।

चितारणें - क्रि स १. उरेहना; चित्रित करना, तस्वीर बनाना, चित्र खींचना । २ लकीरें खीचना ।

चितारी - पु. चितेरा, चित्रकार ।

चित्त - न चित्त, मन, अत करण हृदय, दिल । - चोर, - चोरटा - वि चितचोर, चित्त चुराने वाला, मनोहर । - पावन - पु. दे 'चितपावन' । - भ्रश - पु. चितभ्रम, चितभ्राति, म्राति, उन्माद । - वृत्ति - छी १ चित्तवृत्ति, चित्त की अवस्था, मन का भाव । २ व्यान, खयाल । - वेधक - वि चित्तकर्पक, मन को अपनी ओर खींचने, लुभाने वाला । मु० - उडून जाणे - चित्त उचटना, जी न लगना, मन उदास होना ।

चित्तळ - दे 'चितळ' ।

चित्ता - पु. चीता, एक तरह का बाघ जिसकी खालपर लवी काली - पीली धारियाँ होती हैं ।

चित्र - न १ चित्र, तस्वीर । २ आश्चर्य । ३ चित्रविचित्र, चमकदार वस्तु । - कला - छी चित्र-कला, चित्रविद्या, तस्वीरकशी । - कार - पु. चित्रकार, चितेरा, मुसव्विर । - पट - पु. चलचित्र,

चित्रपट, फ़िरम । - विचित्र - वि १. चित्रविचित्र; रगविरगा । २ अजीब, विचित्र । - शाळा - छी चित्रशाला, 'पिक्चर गैलरी', 'स्टूडियो' । चित्रासारखा - वि स्तव्य, खामोश ।

चित्रक - पु. चित्रक, चीता । चित्रा - छी चित्रा, २७ नक्षत्रों में से एक ।

चित्राहुति - छी बहु भोजन से पहले थाली के बाहर जमीन पर दाहिनी ओर डाली जाने वाली अन्न की आहुतियाँ ।

चियविणें - दे 'चियावणें' । चियावणी - छी उत्तेजना, उकसाहट, बहकावा, इश्तिआल; छेड । मु० - देणें - दे चियावणे ।

चियावणें, चियाविणें - क्रि स उकमाना, भडकाना, उभाडना, बहकाना, शह देना छेड़ना, गुस्ता दिलाना, चिडाना, ।

चिनी - वि चीनी, चीन का, चीन सत्रवी, चीन में उत्पन्न, उपलब्ध । - पु. चीनी, चीन देश-वासी । - कापूर पु. चीनी कपूर । - माती - छी चीनी मिट्टी ।

चिनुला - वि छोटा, नन्हा । चिन्नं \* - न शकरकद ।

चिन्ह - दे 'चिह्न' । चिप - अव्य. वि चुप, खामोश ।

चिपचिपीत - दे 'चपचपीत' । चिपटें - न एक पाव का माप ।

चिपड - डें - न १ चीपड, आँख का कीचड । २ दे 'चिपाड' । ३ दाल का दाना जिसपर छिलका हो ।

चिपळी - छी १ करताल, हाथ से बजाने का कीर्तन आदि में व्यवहृत एक बाजा । २ पीक,

पिचकारी । ३. फव्वारा ।

चिपाड - न १ खोई, ईख का डठल जिसका रम निकाल लिया गया हो । २. चिप्पड । ३. दुबला-पतला, मरियल आदमी । ४. चीपड, आँख का मँल ।

चिदूड, चिमूड - न फूट, गोरख - ककडी, एक तरह की ककडी जो पकनेपर फट जाती है ।

चिमकुला - वि छोटा, नन्हा ।  
चिमखडा - पु १ अँकरीरी, ककडी । २ छोटा, होशियार, चालाक लडका ।

चिमट - दे. 'चिमूट' ।

चिमटणे - क्रि अ १ दवना; फँसना, पिसना । २ सिमटना, सिकुडना ।

चिमटणे - क्रि स चुटकी भरना, काटना, चुटकी काटना, लेना । २ पीसना, ढवाना ।

चिमटा - पु १ चिमटा, दस्त-पनाह, जलता कोयला आदि पकडने का आला । २ चुटकी, अँगूठे और तर्जनी से चमडे को पकड कर ढवाना या नाखून गडाना, चिमटी; चिकोटी । मु. - घेणें - १ चुटकी काटना, लेना, भरना, चकोटना; चिकोटी काटना । २ ताना कसना । चिमटघात घरणें, पकडणें - कँची मे पकडना, फँमाना ।

चिमटी - छी चुटकी । - भर - अव्य चुटकीभर, थोडा-सा ।

चिमणसाळ - छी एक प्रकार-का घान ।

चिमणा - पु चिडा, गौरवा, चटक । - वि छोटा, नन्हा, प्यारा ।

चिमणी - छी १ चिडिया; गौरैया । २ चटखनी, सिटकनी । मु चिमणीच्या दांतानें फोडणें -

किसी पदार्थ को कपडे में लपेट कर दाँतो से काटना, जिसमे वह झूठा न बन जाय । चिमणीसारखें तोंड करणें - १ अपना-सा मुँह लेकर रह जाना । २ मायूस हो जाना, मुँह उतर जाना ।

चिमणी - छी [ अ 'चिमनी' ]  
१ चिमनी, इजन आदि का घुआँ या भाप निकलने के लिए बनी हुई नली जैसी वस्तु । २ ढिवरी, दीपक के काम आने वाली टौन, शीशे आदि की बनी ढिविया ।

चिमकुला - वि नन्हा, छोटा-सा ।

चिमुरडा - वि १. उम्र मे छोटा, नन्हा । २ नाटा, ठिंगना ।

चिमूट - छी चुटकी, किसी चीज को पकडने, उठाने आदि के लिए अँगूठे और तर्जनी या बीच की उँगली को परस्पर सटाना, चुगल, चुगल । - भर - अव्य चुटकीभर, चुगलभर, थोडा-सा ।

चिमोटा - दे 'चिमटा' ।

चिरजीव - पु १ चिरजीव, वेदा, पुत्र । २ अपनेसे छोटे व्यक्ति को सवोधित करते समय व्यवहृत लकव । ३ अमरपुरुष । - वि. १. चिरजीव, चिरजीवी, चिरजीवी, बहुत दिन जीने वाला, अमर । २ स्थायी, नित्य ।

चिरंतन - वि १ चिरतन, बहुत दिनों का, पुरातन । २ दे 'चिरजीव' ।

चिर - अव्य चिरकाल; बहुत दिनों से, बहुत दिनों तक । - न चीर, वस्त्र ।

चिरकणें - क्रि अ १ चिरकना, थोडा-सा पाखाना करना, कई बार थोडा-थोडा पाखाना करना । २ फटना, दरकना । ३

खराव होना ।

चिरकाडी - छी १ पिचकारी । २ फव्वारा, फुहारा । ३. वारीक घारी ।

चिरकी - छी १ पेशाव या पतले पाखाने की घर । २ पिचकारी ।

चिरकुट; चिरकूट; चिरगुट, चिरगूट - न १ चिरकुट; बहुत फटा हुआ कपडा, चिथडा । २ कपडा । - पाघरूण - न ओढना-विछौना । [ शिकायत ।

चिरचिर - छी पिनपिन,

चिरचिरणें - क्रि अ १ पिन-पिनाना, चिडचिडाना; चिढना, झुंझलाना । २ दरकना; फटना ।

चिरचिरीत - दे 'क्षिरमिरीत' ।

चिरचिच्या - वि चिडचिडा, तुनकमिजाज ।

चिरड - छी १ चिड, गुस्सा; क्रोध । २ नफरत । - खोर - वि चिडचिडा, तुनकमिजाज ।

चिरडणें - क्रि स पीसना, कुचलना, रौदना, ढवाना, मसलना । [ २ चिढना ।

चिरडणें - क्रि अ. १ पिसना ।

चिरडी - छी छोटी बच्ची की साडी । [ का औजार ।

चिरणी - छी चिरना; चीरने

चिरणें - क्रि स १ चीरना, फाडना । २ काटना । - न चिरना, चीरने का औजार ।

चिरपणें - क्रि अ चिरकना, दे 'चिरकणें' ।

चिरफळ - छी, चिरफाली - छी चीर कर, फाड कर बनायी हुई घज्जी या लवा, पतला टुकडा ।

चिरमी - छी चुनट, शिकन, सिलवट ।

चिरा\* - पु कौमार, कुंवारा-

पन (लडकी का) । मु - उखळणें, -उत्तरणें-१ लडकी का कुंवारापन नष्ट करना । २ वेश्या की लडकी से पहली बार सभोग करना ।

चिरा - पु. एक खास ढग की पगडी ।

चिरा - पु. १ इमारत के काम आने वाला पत्थर, गढा हुआ, तराशा हुआ पत्थर । २ चीरा; खेत की सीमा पर गाटा हुआ पत्थर ।

चिराईत - स्त्री पु. चिरायता ।

चिरी - स्त्री १ बीच में फाडा हुआ केले का पत्ता । २ शिगाफ, दरार । ३ माथे पर की कुकुम की लकीर । ४ छोटी साडी ।

चिरीमिरी - स्त्री छोटी रिश्वत । [सिगार ।

चिरुट - पु. [अ] चुरट,

चिरेवदी - स्त्री घडे हुए पत्थरो की पक्की जुडाई । - वि घडे हुए पत्थरो से बनाया हुआ, पक्का, मजबूत ।

चिरोटा - पु. रवे थीर मैदे की बनी एक मिठाई जिसमें कई परते होती हैं ।

चिलखत - न. [फा. 'चिहिल-कद' ?] अगस्त, वक्तर, कवच, वस्त्र, जिरह ।

चिलखती - वि [दे 'चिलखत'] १ वक्तरवद, वक्तर से मढी हुई (गाडियाँ आदि) । २ कवचधारी, वक्तरपोश, जिरहपोश । [मच्छड ।

चिलट - न १ कुटकी । २

चिलविलाट - पु. चहक, चहचहाट ।

चिलम - दे 'चिलीम' ।

चिलीपिली - न बहु बाल-बच्चे, नन्हेमुन्हे ।

चिलीम - स्त्री [फा. 'चिलम'] १ चिलम, मिट्टी या धातु का कटोरीनुमा पात्र जिसपर तवाकू, गाँजा आदि रखकर पीते हैं । २ चिलम में भरा हुआ तवाकू आदि ।

चिल्लर - स्त्री [क 'चिल्लरे'] रेजगी, रेजगारी, खुर्दा, छुट्टा (एकत्री, दुअत्री, चवत्री आदि) । - वि १ फुटकर । २ मामूली ।

चिवचिव - स्त्री. १ ची, चीची, चहक, चहाचहाट । २ शोरगुल, हल्ला ।

चिवचिवणे - क्रि अ १. चहकना, चहचहाना, चिडियो का कलरव करना । २ चिढना, झुंझलाना । [की चहचहाट ।

चिवचिवाट - पु. चहचहा, जोर चिवट - न चीमड, जो जल्दी फटे, टूटे नहीं । - पणा - पु. १ चीमडपन । २ सहने, बेदाशत करने, टिकने का भाव या गुण ।

चिवडणें - क्रि स मसलना, गोजना, नरम, नाजुक चीज को मसल कर खराब कर देना, खाने की चीजों को भेदे तरीके से एक में मिलाना ।

चिवडा - पु. १ चुरमुरा, भुने हुए चिडवे और चने को घी में तल कर नमक-मिर्च लगा कर बनाया हुआ चवेना या फुरनीदाना; चिडवा, चिउडा । २ मिलाव, मिलावट, मिश्रण । ३ खराबी, विगाड, झझट, झमेला ।

चिवडाचिवड - स्त्री गोजना, दे० 'चिवडणे' । [छोटा वाँस ।

चिवा - पु. एक किस्म का

चिल्ल - न १ चिल्ल, लक्षण, पहचान, आसार । २. निगान,

छाप । ३ पद आदि की सूचक वस्तु । ४ विचित्र, नटखट, अजीब आदमी ।

चिळकाडी - स्त्री. [क 'चिळ-किसु'] फुहारा; फव्वारा; जोरदार धारा; पिचकारी ।

चिळस - दे 'फिळस' ।

चीं - स्त्री ची, कुश्ती में हार स्वीकार करने का शब्द । मु० - म्हणणें - ची बोलना, हार मान लेना ।

चीक - पु. १ चेप, लासा; पसेव, लसदार रस, पेडों का दूब । २ पेउसी, पेवस, गाय या भैंस का व्याने के दिन से सात दिनों तक का दूध । ३ नवप्रसूता स्त्री का दूध ।

चीज - स्त्री [फा ] १ चीज, वस्तु, बात । २ साहित्य या कला की वस्तु, गीत; गाना, रचना । - न १ कद्र, इज्जत, गुण की पहचान । २. सफलता; सार्थकता । - वस्तु - स्त्री चीज-वस्तु; सामान-असवाव, गहना - कपडा । मु० - करणें - १. कद्र करना । २ लाभ उठाना । - होणें - १ सफलता प्राप्त होना, कृतार्थ होना । २ कद्र होना ।

चीज - न [अ 'चीज'] पनीर, छेना ।

चीट - न छीट, वह कपडा जिसपर रग-विरगी बूटियाँ छपी हो ।

चीड - स्त्री १ चिड; गुस्सा; खीझ, नाराजगी, नफरत ।

चीण - स्त्री १ चुन्नट, शिकन; सिलवट । २ शिगाफ, दरार । ३ गच, पक्का फर्श ।

चीत - वि १ चित, जिसका मुँह-पेट ऊपर की ओर हो, कुश्ती

में जिसकी पूरी पीठ जमीन से लगी हो। २ हारा हुआ, परास्त।  
-पट - वि चितपट, हराया हुआ, फँसलाकुन। मु० - करणें - चित करना, कुंती में प्रतिपक्ष को पछाडना, हराना। - मारणें - चारो शाने चित करना, पूरी तरह हराना। - होणें - चारो शाने चित गिरना या होना, पूरी तरह परास्त हो जाना। [चिघाड।

चीत्कार - पु. चीत्कार, चीख, चीप - छी चिप्पी, चिप्पड, चिपटी, लकडी, वातु आदि का छोटा चिपटा टुकडा।

चीप - वि अव्य. चुप, खामोश।  
चीर न चीर, वस्त्र, कपडा।  
-गुट - न चिरकुट; चियडा।

चीर - छी १ दरार; शिगाफ, चीर, चीरा। २ तिलक या कुकुम की चद्राकार रेखा। मु० - जाणें - दरकना, फटना, दरार पडना।

चुफणी - छी चुसनी।  
चुफणें - क्रि स चुसना, चँचोरना, चचोडना।

चुवक - पु. चुवक, मकनातीस।  
चवक - वि १ चुवक, चुवन करने वाला, कामुक। २ कजूस, मक्खीचूस।

चुंबणें - क्रि स १ चूमना, चुवन करना, वोसा लेना। २ चँचोरना, चचोडना, दाँतो से दवा कर चूसना। ३. खीचना।

चुवन - न १ चुवन, वोसा। २. आकर्षण। [ईडुरी, कुडली।  
चुवळ - छी गेंडुरी, गेंडुली,  
चुवीत्त - अव्य लाचार हो कर, मजदूरन, क्षत्र मार कर।

चुंमळ छी दे 'चुवळ'। - वि लालची। [जारिणी।

चुभळी - छी व्यभिचारिणी,

चुइटी, चुई - छी १ तीली, सलाख, सलाई। २ चिप्पड, चिप्पी। ३ दे 'चोयटी'।

चुकचुक - छी १ छिपकली की आवाज, 'चुकचुक' की आवाज। २ पछतावा; अफसोस।  
चुकचुकणे - क्रि अ १ छिपकली का वोलना। २ पछताना, दिल मसोसना।

चुकणें - क्रि अ १ चूकना, भूल, गलती करना। २ भटकना, रास्ता भूलना, रास्ता भूल कर इधर-उधर फिरना। ३ लक्ष्य पर न लगना, खता होना (निशाना)।

४. टलना। ५. फँसला होना। ६. खत्म होना, हो चुकना।  
चुकत भाकत - अव्य. १ गलतियाँ करते हुए। २ किसी तरह, लडखडाते हुए।  
चुकला भाकला - वि वचा-खुचा, जो गलती से रह गया हो।

चुकून भाकून - अव्य. गलती से, भूलकर। चुकून सुद्धा - अव्य भूल कर भी, किसी भी तरह, हरगिज्। मु० चुकल्या चुकल्या सारखें वाटणें, होणें - वेचैन होना, खोया-खोया रहना, गुमसुम रहना।

चुकता - वि चुकता, जो चुका दिया गया हो, अदा, वेवाक।

चुकवाचुकव - छी टालमटूल, हीला-हवाला, बहानेवाजी।

चुकविणें - क्रि स. १ टालना, कतराना। २ गलती पर ले जाना, धोखा, भुलावा, चकमा देना, भ्रममें डालना; वहकाना। ३ चुकाना। [खट्टा साग]।

चुका - पु. चूका, चूक (एक चुकामूक - छी भेंट न होना, न मिलना।

चुकार - वि १ भटकैया, भटकने वाला, रास्ता भूल कर

इधर-उधर फिरने वाला। २. खोया हुआ। ३. दे 'चुकारतट्टू'।  
-तट्टू - वि कामचोर, कामसे जी चुराने वाला, आलसी, बहाने-वाज, लापरवाह।

चुकी - छी १. चूक, भूल; दोष, गलती। २ खता, अपराध।  
चुगली - छी [तु 'चुगुली']  
चुगली, परोक्ष मे की हुई निंदा, वुराई।

चुचकारणें - क्रि चुमकारना, पुचकारना, वच्चो को प्यार करने, पशुओ को बुलाने के लिए मुँह से चूमने जैसी आवाज निकालना।

चुटका - पु १. चुटकुला, लतीफा, छोटी-सी कितु मनोरजक बात। २ झपकी। ३. कश (वीडी, सिगरेट का) ४ दे. 'चटका'।

चुटकी - छी १ चुटकी, बीच की उँगली पर अँगूठे को दवाने, और छटकाने से होने वाली आवाज। २ दे 'चिमूट'। - सरशाँ - अव्य. चुटकी वजाते; दम भर में; वात की वात में।

चुटकुला - वि छोटा, नन्हा।

चुटपुट - छी १ छटपटी; आकुलता, बेचैनी, हसरत; चिंता। २ पछतावा, अफसोस। मु० -लागणे-१ छटपटाना, तडपना, दिल मसोसना। २. पछताना।

चुटपुटणें - क्रि अ १ दिल मसोसना, मन ही मन दु ख करना। २ पछताना।

चुटपुटता - वि मामूली, थोडा-सा, हलका।

चुट्टा - पु केले के पत्ते की वीडी, चुस्ट। [ताड का पत्ता।  
चुडत - तें - न नारियल,  
चुडा - पु. १. चूडी, कगन। २. चूड़ियाँ। ३. स्त्रीका सौभाग्य,



सुहाग । मु० - भरणें, -लेणें - १ चूडियाँ पहनना । २. जनाना भेस बनाना, स्त्री, नामर्द बनना, डर कर पीछे हटना ।

चुडी - स्त्री १ घास-पात की मशाल । २ चूडी ।

चुडेदान - न किसी स्त्री के सुहाग को वचाना, उसके पति की जान वचाना । [ डायन ।

चुडेल - स्त्री चुडैल, भूतनी, चुणचुण - स्त्री १ चुनचुनाहट, जलना । २ पछतावा, अफमोस ।

चुणचुणणें - क्रि अ चुनचुनाना, जलन के साथ खुजली पैदा होना या चुभना ।

चुणचुणीत - वि १ होशियार, तेज, चतुर; धूर्त, चुस्त । २ हाजिरजवाब । [ डालना ।

चुणणें - क्रि स चुनना, चुनट चुणी - स्त्री चुनट, चुनन, शिकन, मिलवट । - दार - वि चूडीदार, चुनटदार, चुननदार ।

चुणुक; चुणुक - स्त्री १ झलक, झाँकी । २ नमूना, वानगी । ३ स्वाद, लज्जत । - दार, - वाज - वि दे 'चुणचुणीत' ।

चुतिया, चुतिमानंदन, चुत्या - वि आ चुतिया, बुद्धू, मूर्ख ।

चुथडा - पु १ खराबी, बरवारी, दुर्दशा, दुर्गत । २ गडबडी, गडमड्ड, झमेला । [ हुआ पत्थर ।

चुनकळी - स्त्री चूने का फूँका चुनखडी - स्त्री १ चूने का पत्थर । २ ऐसी मिट्टी जिनमें चूने के पत्थर मिले हुए हों ।

चुनडी - स्त्री १ चुनरी, चुनरी । २ रक्तमणि, तामटा, याकूत, 'शार्नेट' ।

चूना - पु १ चूना । २ व्म ।

चुनाळें - न चुनीटी, पान या तवाकू के लिए चूना रखने की डिबिया ।

चुनेगच्ची - स्त्री गच्च, पक्का फाँस, पक्की छत । - वि जिसमें चूने का पलस्तर किया हुआ हो ।

चुप, चुप्प - वि अव्य चुप, खामोश, चुपके में, चुपचाप ।

चुवकणें - क्रि स १ कपडे को धोते समय चुहटना, कुचलना । २ चुभाना, धँमाना, गडाना ।

चुवकळणें, चुवकळी - दे 'वुचकळणें', 'वुचकळी' ।

चुरगळणें - क्रि अ गिजना; गीजा जाना, मसला जाना, शिकनें, सिलवटें पडना ।

चुरगळणे, चुरगाळणें - क्रि स मसलना; गीजना ।

चुरचुर - स्त्री १ चुनचुनाहट, जलन । २ पछतावा, अफमोस ।

चुरचुर - अव्य. 'चुरचुर' या 'चुरमुर' शब्दके साथ ।

चुरचुरणे - क्रि अ १ चुनचुनाना, जलना । २ चुरमुराना । ३ पछताना ।

चुरचुरीत - वि १ चुरमुरा, करारा । २ चरपरा, चटपटा, मजेदार । ३ खस्ता ।

चुरडणें - क्रि स १ चूर करना, तोडना । २ मसलना, गीजना ।

चुरडा - दे 'चुराडा' ।

चुरणें - क्रि स १ दवाना, चाँपना । २ धीरे से मलना सहलाना । ३ चूरा करना, चूरना ।

खात बसणें - १ हाथ मलते रहना । २. लाचार हो कर चुपचाप बैठना । ३ दिल मसोस कर रह जाना ।

चुरस - स्त्री १ ईर्ष्या; डाह; वैर, द्वेष । २ होड, चढाऊपरी, प्रतिद्विष्टता, प्रतियोगिता; होटा-होडी, होडावादी, लागडाट ।

चुरा - पु. चूरा, वुरादा; वुकनी ।

चुराडा - पु १ चूग, चकना-चूर, वुकनी, सफूफ । २ तत्राही, बरवादी ।

चुरचुर चुरचुर; - अव्य. १. गुस्ताखी, घृष्टता के साथ । २ वढवढ कर । [आवाज के साथ ।

चुर्र - अव्य. जलने जैसी चुलत - वि चचेरा, चचाजाद, चचिया, चचा से उत्पन्न । - भाजा - पु दादा या नाना का भाई । - भाजी - स्त्री पिता या माता की चाची । - चुलतभाऊ - पु पिता के चचेरे भाई का लडका । - चुलता - वि पिता का चचेरा भाई । - दीर - पु पतिका चचेरा भाई । - नणद - स्त्री पतिकी चचेरी बहन । - बहीण - स्त्री चचेरी बहन । - भाऊ - पु चचेरा भाई । - मामा - पु माँ का चचेरा भाई । - सासुरा - पु चचिया ससुर, ससुर का भाई । - सासू - स्त्री चचिया सास, मास की जेठानी या देवरानी, पत्नी की चाची ।

चुलता - पु. चचा; बाप का भाई, चाचा । [चाचा की स्त्री ।

चुलती - स्त्री चाची, चची, चुलवण, चुलाण - न बडा चूल्हा, भाड, भट्ठा; भट्टी, बडा चूल्हा जिसपर कडाह चढा कर गुड बनाते हैं ।

चुलता - पु. चचा; बाप का भाई, चाचा । [चाचा की स्त्री ।

चुलती - स्त्री चाची, चची, चुलवण, चुलाण - न बडा चूल्हा, भाड, भट्ठा; भट्टी, बडा चूल्हा जिसपर कडाह चढा कर गुड बनाते हैं ।

चुलता - पु. चचा; बाप का भाई, चाचा । [चाचा की स्त्री ।

चुलती - स्त्री चाची, चची, चुलवण, चुलाण - न बडा चूल्हा, भाड, भट्ठा; भट्टी, बडा चूल्हा जिसपर कडाह चढा कर गुड बनाते हैं ।

चुलता - पु. चचा; बाप का भाई, चाचा । [चाचा की स्त्री ।

चुवा - पु. चोआ, चोवा; कई गधद्रव्यों को मिला कर बनाया जाने वाला एक सुगन्धित द्रव्य ।

चुवा - व्वा - पु. चूहा; मूपक, मूसा ।

चुळका - पु. चुल्लू; आबी अजलि, उँगलियों को थोडा मोडकर गहरी की हुई हथेली । - भर - अव्य. चुल्लूमर, जितना चुल्लू में आये, थोडा-सा ।

चुळवुळ - स्त्री १ चुलवुलाहट, चुलवुल, कुलवुल, कुलवुलाहट, । २ हरकत; गति, क्रिया । ३ वेचनी ।

चुळवुळणें - क्रि अ १ कुलवुलाना, चुलवुलाना, चचलता दिखाना, स्थिर न रह सकना । २ वेचन होना, तडपना । ३ चिकना होना ।

चुळवुळ्या - वि १. चुलवुला, चचल, नटखट । २ दे० 'चळवळ्या' ।

चूक - स्त्री १ चूक, गलती, भूल, अशुद्धि, त्रुटि । २ दोष, अपराध, खता । - भूल - स्त्री. भूलचूक, भ्रम, भूल से रही हुई गलती । कहा० चूकभूल घावी घ्यावी - भूल - चूक लेनी - देनी, हिसाब में भूल-चूक हो तो लेन-देन की कमी-बेशी ठीक कर ली जाय ।

चूक - स्त्री छोटी कील ।

चूड - स्त्री १ घास-पात की मशाल । २ धान के पीधो का छोटा पूल । मु० - लावणें - १ जलाना, आग लगाना । २ झूठा इलजाम लगाना ।

चूण - स्त्री १ चून, चूनी, सानी । २ चुनट, चुनट, शिकन, सिलवट । ३ चुन्नी, माणिक या

लाल का छोटा टुकडा; छोटा नग ।

चूप - अव्य चुप, खामोश ।

चूर - पु. चूर, चूरा, चूर्ण, बुरादा; रेजा, बुकनी ।

चूर - वि १ चूर, मग्न, मशगूल, तल्लीन, वदमस्त । २ लज्जित । ३ शिथिल, पस्त, थका हुआ । मु०-होणें १ मग्न, मशगूल होना । २ थक कर चूर होना । ३ शर्मिदा, लज्जित होना ।

चूर्ण - न १ चूर्ण, चूरा, बुकनी । २ चूरन; पाचक दवाओं का चूर्ण । ३ चूना ।

चूल् - स्त्री चूल्हा । - पोतेरें - न चौका - वरतन । मु०-अडणें-चूल्हा न जलना, फाका पडना, पैसे की बडी तंगी होना । -पेटणें - चूल्हा जलना; खाना पकाया जाना । चूल्हात जाणें - चूल्हे में जाना, भाड में जाना, नष्ट हो जाना । चुली-तून निघून विलांत पडणें - कढाई से निकल कर चूल्हे में गिरना, एक सकट से बचकर - दूसरे में फंमना । चुलीला अक्षत देणें - चूल्हा न्यौतना, सारे घर को भोजन का निमंत्रण देना । चुलीला विरजण पडणें - चूल्हा वद रहना । चुलीजवळ शौर्य दाखविणें - घर में ही बहादुरी दिखाना । चुलीशीं डोकें खुपसणें - रसोई के काम में व्यस्त रहना, रसोई के क्षण्ट में फँसा रहना । कहा० घरोघरों मातीच्या चुली - सब जगह एक-सी ही हालत होती है । [ 'फैशन' ।

चूष - स्त्री मजा, शगल,

चूळ - स्त्री १ कुल्ली, गरारा, कुल्ला । २ दे 'चुळका' ।

चेगट - वि १ सुस्त, काहिल, ढीला, दीर्घसूत्री, जो प्रत्येक कार्य

को देर मे करे । २ पिछलगू ।

चेगरणें - क्रि अ कुचला जाना; पिसना, दवाना । - क्रि स. कुचलना, पीसना; दवाना ।

चेंगराचेंगरी - स्त्री धिचपिच, इतनी अधिक भीड होना कि लोग दव जायें ।

चेंचणें - क्रि स १ कुचलना, मसलना, रौंदना । २. रगेदना, कचूमर निकालना, पीटना ।

चेंडू - पु. १ गेंद, कपडे, खर आदि का गोला, कदुक । २ ठिगना और मोटा आदमी; गोल मटोल व्यक्ति । - फळी - स्त्री गेंदवुल्ला, 'क्रिकेट' ।

चेंदणें - क्रि स १. मसलना; दवाना, कुचलना । २ ठूसठूस कर भरना ।

चेंदा - पु. १ कूंचा, कुचला हुआ कच्चे आम, आंवले आदि का गूदा । २. भीड, धिचपिच । - चेद - स्त्री धिचपिच, भीड । - मेंदा - पु. चूर, चूरा । मु० - मेंदा करणें - मसल डालना; चकनाचूर करना ।

चेक - पु [ अ ] १. चेक, घनादेश, हुडी । २ चारखाना (कपडा) । ३ दवाव, प्रभाव, असर ।

चेकाळणें - क्रि अ १. मडकना, वौखलाना, पागल होना । २ जोश में आना । ३ बहुत जोर जोर से रोना, चिल्लाना ।

चेचण - दे 'चेचणे' ।

चेटकी; चेटकीण - स्त्री जादू-गरनी, डाइन, टोटकेहाई, टोन-हाई ।

चेटक्या - वि पु १ चेटकी, इद्रजाल, जादू टोना, नजर - बंदी करनेवाला, वाजीगर । २ दूसरे

का घात करने वाला ।

चेटुक, चेटूक - न १ जादू, टोना, टोटका, जतर-मंतर, नजरवंदी, इद्रजाल, बाजीगरी । २ छल-कपट, चालाकी; दाँव-पेच, छक्का-पजा ।

चेडू<sup>+</sup> - छी लडकी, वच्ची । - न वच्चा ।

चेतणें - क्रि अ. १ जलना, भडकना, घबकना । २ चेतना, होश में आना । ३. जागृत, उद्दीप्त, उत्तेजित होना । - क्रि स दे 'चेतविणे' ।

चेतना - छी १ चेतना, चैतन्य, ज्ञान, होश । २ प्राण-शक्ति, जीवनी शक्ति । ३ पौरुष, जनन-शक्ति । ४ आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति ।

चेतवणी - छी चेतावनी, चिंतावनी, सावधान करने के लिए कही गयी बात, आगाही, खतरे की पूर्वसूचना ।

चेतवणें - दे 'चेतणे', 'चेतविणें' ।

चेतविणें - क्रि स. १ चिताना, आगाह, सचेत करना, खतरे, बुराई के वारे में सावधान करना । २. जलाना; प्रज्वलित करना, भडकाना । ३. फिर से जीवित करना, चैतन्ययुक्त करना । ४ उत्तेजित करना, बहकाना, बढावा देना, भडकाना ।

चेतावणें - दे. 'चेतणे', 'चेतविणे' ।

चेपणें - क्रि स. १ दवाना, चांपना । २ स्पर्श करना, छूना । ३ दबोचना, घर दवाना ।

चेरा - \* प्र. थुक्का फजीहत, दुर्गत । [शागिर्द ।

चेला - प्र. [हिं.] चेला, शिष्य;

चेव - प्र. १ जोश, आवेश, तैश, गुस्सा । २ चेतना, जागृति, होश ।

चेवणें - क्रि अ १ उन्मत्त, पागल बनना । २ जोश, तैश में आना, बौखलाना, आपे से बाहर होना, क्रोध से पागल हो उठना । ३ वचित होना । ४. उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी बनना । ५ परेगान होना, झुंझलाना ।

चेष्टा - छी १ मजाक; दिल्ली, हँसी, चुहल, ठठोल, ठिठोली, परिहास, विनोद, मसखरी । २ चेष्टा, हरकत, भाव-भगी, नखरा । मु० - करणें १ मजाक करना, दिल्ली करना । २. हँसी उडाना ।

चेष्टेखोर; चेष्टेबाज - वि मजाकिया, हँसोड, ठठोल, मसखरा, चुहलबाज ।

चेहरा - प्र. [फा 'चेहर.'] चेहरा, मुखमडल, मुखाकृति, शकल, सूरत, हुलिया । - मोहरा - प्र. चेहरा-मुहरा, सूरत-शकल, हुलिया । मु० - उतरणें - चेहरा उतरना, चेहरे पर तेज, प्रफुल्लता न रहना, उदासी छाना । - करणें, - वनविणें - दाढ़ी आदि बनवा कर चेहरे को आकर्षित बनाना ।

चेहरेपट्टी - छी [फा 'चेहर'] १ चेहरा-मुहरा, मुखाकृति । २. हुलिया ।

चैतन्य - न १ चेतना, ज्ञान । २ प्राण, जान । दे 'चेतना' ।

चैत्र - प्र. चैत्र, चैत । - गौर - री - छी गनगौर, गणगौर ।

चैत्रागौरी - छी गनगौर, गणगौर ।

चैत्री - छी चैत्री, चैत्र की पूर्णिमा । - वि चैती, चैत में होने

वाला, चैत्रसवधी ।

चैन - छी [हिं.] १ चैन, सुख, आराम, कल, शांति । २. मजा, भोग-विलास; शौक; मौज, ऐश, ऐश-व-इशरत । - बाज - वि ऐयाश, विलासी, विपयासक्त । - बाजी - छी ऐयाशी, विलासिता । मु० - करणें, - मारणें - ऐश करना; गुलछरें, मजे उडाना; मौज करना । - होणें - पांचो उँगलियाँ धी में होना ।

चैनी - वि [हिं 'चैन'] १. ऐयाश, शौकीन, विलासी । २. उडाळ । [चचु । २. नोक ।

चोच - छी १ चोच; टोट; चोचणें; चोचाविणें - क्रि स कुचकुचाना, कोचना, वार-वार हलके हाथो थोडा कुचलना ।

चोट - प्र. (ग्रा) शिश्न; पुरुष की जननेद्रिय ।

चोंदणें - क्रि स ठूसना, ठूसना, दवा-दवाकर भरना । - क्रि अ १ ठूसना; तग जगह में दवाकर भरा जाना । २ भरना, वद होना ।

चोदा - प्र. सुराख आदि में भरा, ठूसा जाने वाला कपडा, कागज आदि ।

चोंबडा - वि १ चुगलखोर, लुतरा, झगड़ा लगाने वाला । २ वेशरम, लतखोर; लतखोरा, निर्लज्ज । ३ चापलूस, चाटुकार, खुशामदी । ४ वीच मे कूदने वाला; दस्तदाज, दखल देने वाला ।

चोंबडेपणा - प्र. १ चुगलखोरी । २ लतखोरी । ३ दस्तदाजी ।

चोक - वि चार गुना ।

चोखंदळ - वि नाजुक-खयाल, मिजाजदार, सुरचिसपन्न, सुरचि-

पूर्ण, तुनुकमिजाज, जिसकी अभिरुचि परिष्कृत हो।

चोख - वि १ चोखा, खालिस, वेमेल, शुद्ध, सच्चा, खरा, साफ। २. उत्तम, श्रेष्ठ; वढिया। ३ ईमानदार, प्रामाणिक। ४ मुंहतोड।

चोखट - टा\* - दे 'चोख'।

चोखटाई\* - छी चोखापन, अच्छाई।

चोखणी - छी, चोखणें - न चुसनी; चट्टू, एक खिलौना जिसे वच्चे मुंह में डालकर चूसते हैं।

चोखणें - क्रि स चूसना, चँचोरना; चचोडना, चुवलाना।

चोखाळ\* - वि १ दे 'चोख'। २ पवित्र, निर्दोष।

चोखाळणें - क्रि स. १ स्वीकारना, अपनाना। २ घास आदि निकाल कर साफ करना। ३. ढूँढना। [ 'चोचणे' ]

चोच; चोचणें - दे. 'चोच'; चोचला - पु. १ चोचला, चोचला, नखरा, हावभाव। २. लाड, प्यार।

चोचाविणें - दे. 'चोचाविणे'।

चोज - न १. आश्चर्य, अचरज। २ नखरा, हावभाव। ३ चोज, चमत्कारपूर्ण उक्ति, व्यगमरी हँसी। ४ लाड, प्यार। ५ करामात।

चोट - दे 'चोट'।

चोड - न कच्चे नारियल का छिलका, कवच, आवरण। २ नारियल की जटा। ३ खोई।

चोतकर, चोतकोर - पु. चौथा भाग, चौथाई, चतुर्थांश।

चोथा - पु १ फुजला, सीठी, फोक। २ तलछट। ३ उवसन, उसकन,। ४ छेना, पनीर।

चोप - पु. ठोक, मार, प्रहार, आघात; ठुकाई, पिटाई।

मु. - देणें - ठोकना, पीटना।

चोपचिनी - छी [ फा 'चोव-चीनी' ] चोवचीनी; एक काष्ठीपवि जो एक पीचे की जड है।

चोपडणें - क्रि स चुपडना, पोतना, सानना।

चोपडा - वि १ चिकना, मुलायम। २ घिसा हुआ।

चोपडी - छी [ गु. ] १ किताब, पुस्तक। २ वही।

चोपडें - न १ छोटी या रही पुस्तक। २ पुस्तिका, पत्रिका, चोपन्ना, छोटा रिसाला, 'पैम्फ-लिट'।

चोपणी - छी; चोपणें - न. १ दुरमुट, दुरमुस, सबक आदि-पर विछाया गया ककड पीट कर दरावर करने का एक औजार। २ कुदा, मुंगरी।

चोपणें - क्रि स. १ ठोकना, पीटना। २. कुदी करना, मुंगरी से पीटना।

चोपदार - पु. [ फा 'चोव-दार' ] चोवदार, असावरदार, डडा लेकर आगे चलने वाला प्रति-हारी।

चोपन्न - वि चौवन, ५४।

चोपूनचापून - अव्य १ ठोक-पीट कर। २ अच्छी तरह कस कर।

चोवदार, चोमडा, - दे 'चोप-दार', 'चोवडा'।

चोय, चोयटी - छी, १. गन्ने का निकाला हुआ छिलका। २. दे 'चुइटी', 'चुई'।

चोर - पु १ चोर, तस्कर, चोरी करने वाला, उचक्का, डाकू। २. किसी बात को छिपाने, दबा कर रखने वाला। ३. ताग,

गजीफे का पत्ता जिसे कोई खिलाडी दवाये बैठा हो। ४. उचित से कम काम करने वाला, बेईमान, काम-चोर। - वि छिपा हुआ, गुप्त, जिसका बाह्य रूप धोखा देने वाला हो। - खण - पु. चोरखाना, सडूक, अलमारी का छिपा खाना। - खिडकी - छी चोर खिडकी, छोटा चोर-दरवाजा। - खिसा - पु ऐसी जेव जिसका पता दूसरो को न हो। - चिलटा-पु., - चिल्लट - न चोर-चकार, उचक्का। - - दरवाजा - पु. चोर-दरवाजा। - नजर - छी छिपी नजर। - पाव-लानों - अव्य. चुपके से; विना आहट के। - पान्हा - पु. दुहते समय गाय या भैंस का अपने वछडो के लिए दूध चुरा रखना। - पोer - न उचक्का, चोर-चकार; साधारण आदमी। - बाजार - पु. चोर-बाजार। - महाल - पु. १ चोर-महल, गुप्त कमरा। २ वह महल जिसमें किसी राजा, रईस की रखेलियाँ रहें। कहा० चोर तो चोर आणि वर शिरजोर - एक तो चोरी, दूसरे सीनाजोरी। चोर सोडून सन्याशाला सुळी देणें - खेत खाय गदहा, मारा जाय जुलाहा। चोराच्या उलट्या वोवा - उलटा चोर कोतवाल को डाँटे। चोराच्या मनात चांदणें - चोर की दाढी में तिनका। चोराच्या हातची लंगोटी - भागते भूत की लंगोटी ही सही।

चोरटा पु. - चोर, उचक्का, चोट्टा। - वि अप्रामाणिक, बेई-मान। दे 'चोर'। मु० चोरट्या-सारखें होणें - शरमाना, लज्जित होना, ऐसा लगना मानो अपने हाथो कोई गुनाह हुआ है।

चोरणें - क्रि स १ चुराना, चोरी करना । २ छिपाना, वचाना (खाँव, मुँह) । ३ करने, देने में कसर रखना, उचित से कम करना, देना । ४ दवा कर रखना । चोखन माखन - चोरीचोरी, चोरा-चोरी, छिपे-छिपे, चोरी से, चोरी छिपे, छिपाकर ।

चोरी - छी १ चोरी, चुराने की क्रिया । २ छिपाव, दुराव, छिप कर किया हुआ काम । ३ ठगी; धोखेवाजी । ४ मनाही, निषेध, प्रतिवध । ५ अन्याय, अपराध । - चपाटी, - मारी - छी चोरी, डकैती, वदमाशी ।

चोखन माखन - दे 'चोरणे' ।

चोवीस - वि चौवीस, २४ ।

चोहींकड, चोहींकडे - अव्य. चारो ओर, चारो तरफ, सब तरफ, इर्दगिर्द ।

चोळखण - पु. चोलखड, एक चोली के व्योतभर का कपडे का टुकडा, खड ।

चोळणें - दे. 'चोळवटणे' ।

चोळणा - पु. [क 'चल्लण'] १ जाँघिया, घुटना, घुटनो तक का पाजामा । २ पाजामा ।

चोळणें - क्रि स १ घिसना; मलना, माँजना, रगडना । २ सहलाना, मर्दन करना, मालिश करना । ३. लगाना ।

चोळवटणें - क्रि स मसलना, गीजना । - क्रि अ १ घिसना; रगड खाना । २ मलने से खराव होना, चुनटें, सिलवटें पडना ।

चोळामोळा - पु. १ गिंजने, मसलने से होने वाली खराबी । २ रींदने, कुचलने से होने वाली खराबी, दुर्गत ।

चोळी - छी १ चोली,

अँगिया, कचुकी । २ स्त्री को दी हुई जमीन । - वागडी - छी १. स्त्रीघन । २ स्त्री का कपडा-लत्ता । ३. साज-सिगार । ४. स्त्री को वहन मान कर दिया हुआ जरूरी सामान ।

चौक - पु. १. चौक, चौखूँटा सहन, आँगन । २. चौमुहानी, चौराहा । ३ पूजन आदि में आटे आदि की रेखाओं से बनाया जाने वाला क्षेत्र । ४ लावनी, पँवाडा आदि की एक कटी । ५ चौकडी, कुलाँच, चौपायो की वह दौड या छलंग जिसमें चारो पाँव एक साथ फेंके जायें । ६ चार कोने, पासे का एक दाँव । ७. चौकोर कपडा ।

चौकट - छी १ चौखट, लकडी का चौकोर ढाँचा जिसमें किवाड के पल्ले जडे जाते हैं । २ चौखटा, लकडी का ढाँचा जिसमें तसवीर या आईना जडा जाय । ३ ईंट, ताश के चार रंगो में से एक । ४ चौखूँटा खाना । चौकटीचें कापड - न चारखाना ।

चौकडा - पु. १ चौकडा, दो-दो मोतियो वाली वाली (पुरुषो का एक कर्णभूषण) । २ चौका, चार चीजो का समूह । ३. चौकोर, चौखूँटा (चार खाने में बना हुआ) ।

चौकडी - छी १ चौकटी, चार चीजो का समूह । २ चार आदमियो की मडली । दे 'चौक', 'चौकडा' ।

चौकशी - छी [हिं 'चौकमी'] १ जाँच, मुच, खोज, पूछताछ । २ पेशी, पैरवी, नालिश ।

चौकस - वि [हिं] १ जिज्ञासु, प्रश्नशील, जानने को उत्सुक, खोजी, मुतलाशी । २.

चतुर; होगियार । ३ चौकस; चौकना, सावधान । ४ स्पष्ट, निश्चित । - पणा - पु. जिज्ञासा, कौतुक, कुतूहल, प्रश्नशीलता ।

चौकार - पु चौका (क्रिकेट में), 'वाउड्री' ।

चौकी - छी १ चौकी, थाना । २ पहरा, रखवाली । ३ चौकोर आसन, छोटा तख्त । - दार - पु. चौकीदार, पहरा देने-वाला, गोडइत । - दारी - छी चौकीदारी, रखवाली । मु.-देणें - चौकी भरना, रखवाली करना, पहरे की ड्यूटी पूरी करना ।

चौकोन - पु. चतुष्कोण, चतुर्भुज ।

चौकोनी - वि चौकोन, चौकोना, चौकोनिया, चौकोर, चतुष्कोण । - चिरा - वि पु. हर-फन मौला आदमी ।

चौखूर - अव्य. चारो पाँव एक साथ फेंक कर, वेतहाशा । मु० - उवळणें, - धावणें - चौकडियाँ भरना, तेज दौडना ।

चौगुठा - पु. गाँव के मुखिया का एक सहायक कर्मचारी ।

चौघडा - पु. चौघडा, चौडोल, चौडोल, छोटा नगाडा ।

चौघडी - छी चौतही, चौतहा कपडा या कागज, चौहरा वस्त्र (खास कर के साडी) जो ओढ़ने के काम आता है ।

चौघे - वि पु. वह १ चार जन, चारो । २ थोडे, कुछ । ३ समाज, जनता । मु० चार चौघांत वसणें - समाज में रहना, व्यवहार करना ।

चौचाकी - वि चौपहिया, चार पहियो वाला । - छी चार पहियो वाली गाड़ी ।

चौचाल - दे. 'चवचाल' ।

चौढाळणें - क्रि अ वघनो को तोड कर स्वेच्छाचार करना, सकर करना ।

चौतकोर - दे 'चतकोर' ।

चौतर्फ, चौतर्फी, चौतर्फी - अव्य. चोतरफा, चौगिर्द, चारो ओर ।

चौताळणें - दे 'चवताळणे' ।

चौतीस - वि चौतीस, ३४ ।

चौथ - छी १ चौथ, चतुर्थी ।  
२ चौथाई, राजस्व का चतुर्थांश जो मराठे दूसरे राज्यों से कर के रूप में लिया करते थे ।

चौथरा - पु १ चौतरा, चवूतरा । २ कुरसी ।

चौथा - वि चौथा ।

चौथाई - छी १ चौथाई, चतुर्थांश, चौथा भाग । २ दे. 'चौथ' ।

चौथीचा चाद - पु चौथ का चांद; भाद्र शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा जिसके देखने से झूठा कलक लगना माना जाता है ।

चौदा - वि चौदह, १४ । - चौकड्याचें राज्य - न बहुत बडा और दीर्घ काल तक चलने वाला शासन ।

चौदावा - वि चौदहवाँ ।

चौदावे रत्न - न १. कोडा, चावुक । २ पिटाई । मु० चौदावे रत्न दाखविणे - बुरी तरह पीटना, मरम्मत करना, कचूमर निकालना ।

चौपट - वि चार गुना । - छी चौपड, चौसर ।

चौपदरी - वि १ चौहरा, चौतहा । २ चौलडा । - छी भीख मांगने का कपडा, झोली । मु० - हार्ती येणे - भीख मांगने की नीवत आना ।

चौपन्न - वि चौवन, ५४ ।

चौफुला - पु १ चौघडा; चार खानो वाला डिब्बा जिसमें लॉग, इलायची आदि रखते हैं । २ कांसुला, सुनारो के घुडी आदि बनाने के काम आने वाला काँसे का चौकोर टुकडा ।

चौफेर - अव्य चारो ओर, चारो तरफ से, सब तरफ, इर्दगिर्द ।

चौरग - पु चौकी; चौकोर आसन, छोटा तख्त ।

चौरगी - वि १ चौरगा, चार रंगो वाला । २ चतुष्कोणीय, चौखूँटा ।

चौरस - वि १ समकोणाकार, समचतुष्कोण, वर्गाकार । २

चौकोन, चौकोर । २ वर्ग (वर्ग इंच, वर्ग मील) । - पु समचतुर्भुज ।

चौरी - दे 'चवरी' ।

चौन्याऐंशी - वि चौरासी, ८४ ।

चौन्याणव - वि चौरानवे,

चौरानवे, ९४ । [चौरासी, ८४ ।

चौन्यायशी, चौन्याशी - वि

चौन्याहत्तर - वि चौहत्तर, ७४ ।

चौसष्ट - वि चौसठ, ६४ ।

चौसष्टी - छी १ एक ही प्रकार की चौसठ वस्तुओ का समुदाय । २. चौपड में एक ही रग की चार गोटियाँ मारी जाना । ३ चौसठ कलाएँ ।

चौसार - पु चौसर, चौपड ।

चौसोपी - वि चौपहला, चार खडो वाला । - छी चार खडो वाला मकान ।

च्याऊ म्याऊ - छी छोटे बच्चो का एक खेल जिसमें वे एक दूसरे के कान पकडकर गाना गाते हैं ।

च्यायला - अव्य. (या) घत्, घत् तेरी ।

च्युति - छी १ च्युति, च्युत होना; अपने मार्ग से भ्रष्ट, स्खलित होना । २ व्यतिक्रम, विच्युति, विमार्गगमन, 'डेव्हि-एशन' ।

## छ

छ - मराठी वर्णमाला के चवर्ग का दूसरा व्यजन ।

छद - पु १. छद, मात्रा, वर्ण, यति आदि के नियमो से युक्त वाक्य, छद शास्त्र । २ चाव, चाह, धुन, शोक । ३ हठ, जिद । ४ स्वेच्छाचार ।

छंद शास्त्र - न छद शास्त्र, छद-रचनासवधी शास्त्र ।

छदिष्ट - दे 'छादिष्ट' ।

छंदी - वि १ छैला, वांका; मनमौजी । २ सनकी । - फदी - वि छिछोरा, विलासी, वदचलन; दुश्चरित्र, व्यभिचारी ।

छदोवद्ध - वि छदोवद्ध, पद्य-रूप में रचित, श्लोकवद्ध ।

छदोभग - पु छदोभग, छद में वर्ण, मात्रा आदि के नियमो का पूर्ण

पालन न होना । [छदप्रवव ।

छदोरचना - छी छदरचना,

छ - अव्य. छि, छि ।

छ - अव्य. १ छि, छि । २ पुराने कागजात में हिजरी तिथि के लिए 'छ' लिखा होता है । ३ पोथी के अंत में समाप्ति के चिन्ह के तौरपर 'छ' लिखा जाना है ।

छरुड - दे. 'छक्कड' ।

छकडा - पु १ एककी, एक वल की गाडी। २ छकडा, सगड, वलगाडी।

छकडा - वि वांका, छचोर।  
छकडी - स्त्री छप्पय (छद)।  
- वि स्त्री दे 'छकडा'।

छकुला - वि पु नन्हा, मुन्ना, लाल, लाडला, प्यारा।

छक्का - पु १ छक्का, ताश का पत्ता जिसपर छ वूटियाँ हो। २ पासे का वह बल जिसमें छ विदियाँ हो, उस बल के चित पडने से पडने वाला दाँव। ३ जुआ। - पंजा - पु दे 'छक्केपजे'।

छक्केपजे - पु वह छक्कापजा, दाँव-पंच, छलकपट, चालाकी।

छचोर - रा - वि १ छिछोरा, ओछा, कमीना। २ लैला, वांका, रंगीला।

छट - वि १ चट, चालाक, चतुर, उस्ताद, शुहदा, गुडा। २ कजूस।

छट - अव्य छि, नहीं; ना।

छटा - स्त्री १ छटा, रग; झलक, झाँकी। २ स्वाद, लज्जत। ३ आभा, छाया, छाँह, छाँव, रग का आभास।

छटाक - पु छटाक, छटाँक, एक सेर का सोलहवाँ भाग।  
- भर - वि अल्प, थोड़ा-सा, मामूली।

छटेल - ला - वि १ दे 'छचोर'। २ वदमस्त, शराव के नशे में चूर, मदहोश।

छडा - पु १ सुराग, चता; खोज, टोह। २ घडी की जजीर, साँकल। ३ दे 'गोफ'।

छडी - स्त्री १. छडी, वेंत। २. चोव, डडा। ३ कपडे पर की सीधी धारियाँ। - दार - वि

छडीदार, सीधी धारियो वाला (कपडा)। - पु छडी दार, छडी-वरदार, चोवदार, असावरदार।  
कहा० छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम - पिटाई से पढाई अच्छी होती है।

छड्डू - दे 'पड्डू'।

छणछणा-णा - अव्य. 'छन-छन' की आवाज के साथ।

छणछणणे - क्रि अ छनकना, खनकना, 'छन-छन' की आवाज होना, छनछनाना। - क्रि स छनकाना; खनकाना। [खनक।

छणछणाट - पु छनछन;  
छत - न १. चादरछत; भीतरी छत, पाटन, पटाव। २ छत, मकान की पक्की पाटन या वाला खाने का पक्का, खुला फर्श। ३ वह चादर जो छत के नीचे बाँधी जाय, छतगीर-री, चँदवा, चँदोवा। ४ तेज, चमक।

छत्तिसावा आंकडा - दे 'छत्तीस' में।

छत्तीस वि छत्तीस, ३६।  
छत्तीसावा आंकडा - पु दुश्मनी, अनवनाव, घोर शत्रुता, छत्तीस का रिस्ता।

छत्र - न १ छत्र; राजचिह्नरूप छतरी। २. छत्रच्छाया, आश्रय। ३ अन्नसत्र, लगर। - पति - पु १ छत्रपति, सम्राट्। २ महाराज शिवाजी की पदवी।

छत्री - स्त्री १ छतरी, छाता। २. किसीकी समाधि वा चित्ता के स्थानपर बना हुआ मंडप। ३. (कुम्भाची) छत्रक, कुकुरमुत्ता, खुमी।

छदाम - पु १. छदाम, दुकडी; पैसे का चीथा भाग। २ फूटी कौड़ी, कानी कौड़ी, पैसे

का अभाव।

छद्म - न १ छद्म, छल, कपट। २ ताना, व्यग्य।

छद्मी - वि १ छद्मी, कपटी, छलिया; वूर्त। २ व्यग्यात्मक, व्यग्यपूर्ण, कटु।

छन्नी - स्त्री छेनी; टांकी।

छपणें - क्रि अ छिपना, छुपना, लुकना।

छपरी - स्त्री छपरी; झोपडी।  
- पलग - पु दे 'छप्पर पलग'।

छपवाछपवी - स्त्री लुकाव-छिपाव, लुकाछिपी।

छपविणें - क्रि स छिपाना; छुपाना, लुकाना।

छपाई - स्त्री छपाई, मुद्रण, छापने का काम या उसकी उजरत।

छप्पन्न - वि १ छप्पन, ५६। २ कई। - वेळां - अव्य. कई बार, बार-बार।

छप्पर - न १ छप्पर, छाजन। २. झोपडी। ३ सिर के बडे हुए वाल। ४ पलग का छत। - पलंग - पु छपरसट, वह पलग जिसपर मसहरी लगाने के लिए डडे लगे हो।

छप्परमैना - स्त्री [अ सैपर्स-मैर्स] सफरमैना।

छप्पा - पु १ छापा, ठप्पा, मुहर। २ तिलक। ३ छापा, हमला। - पाणी - न लडकियो का एक खेल।

छबकडा - वि नन्हा, मुन्ना, प्यारा। [नन्हा - मुन्ना।

छबडें - न प्यारा वच्चा, छबिना - दे 'छबीना'।

छवी - स्त्री [फा. 'शवीह'] १ चित्र, तस्वीर। २ छवि, शोभा, सुदरता।

छबीना - पु [फा. 'शवीन']

१ रात का पहरा। २ रात में निकलने वाली देव - मूर्ति की यात्रा। ३. किसी जुलूस के साथ जाने वाले घुडसवार या पदाति सैनिक।

छमछम-छी छमछम, छमाछम; 'छम छम' शब्द के साथ।

छरा-घु १. दीवार पर पलस्तर करने के लिए बनाया हुआ गारा। २ दे. 'छर्रा'।

छर्रा-घु छर्रा, सीसे, लोहे के टुकड़े जो वटूक में बारूद के साथ भरे जाते हैं।

छल्ला - घु छल्ला, बिना नगनक्काशी की, चांदी सोने आदि का तार मोडकर बनायी हुई अंगूठी।

छळ - घु यत्रणा; कष्ट, तकलीफ, अज्ञीयत, अजाव, घोर शारीरिक या मानसिक यातना, जुल्म, सांसत। - वाद - घु यत्रणा देना, जुल्म ढाना। - वादी, - वाद्या - वि जालिम; अत्याचारी।

छळणूक - छी दे 'छळ'।  
छळणें - क्रि स. यातना, यत्रणा देना, सताना।

छाछू - न १ छू, छू मतर, जादू। २ आडवर, दिखावटी प्रयत्न। [शौकीन।

छांदिष्ट - वि १ सनकी। २. छाकटा - दे 'छटेल'।

छाट - घु १ छांट, कतरने की क्रिया या ढग, कतरन, टुकड़ा खांप, फांक। २ छांटन, छांटने से निकली हुई वेकार चीज। - वि चट; छंटा हुआ। - छूट - छी काट - छांट।

छाटणी - छी १ कटाई। २. काटछांट। ३ चुनाव।

छाटणें - क्रि स १ काटना, कतरना। २ छांटना, चुनाव,

विलगाना। ३. उडाना, झटके से काट डालना। ४ गप लडाना, मारना, हांकना। ५ कटौती करना।

छाटाछाट - छी काट - छांट, कतरव्योत, कमी, कटौती।

छाटी - छी कफनी, साधुओं का गमछा।

छाटीव - वि १ छांटा हुआ, अच्छी तरह काटा, तराशा हुआ। २. चुनिंदा, चुना हुआ, बढ़िया।

छाताड - न बड़ी चौड़ी छाती।

छाती - छी १. छाती; सीना; वक्ष स्थल। २. स्तन। ३. हिम्मत, हीसला। - चा - वि साहसी, बहादुर, हिम्मती। - ठोक; - ठोकणें - अव्य. हिम्मत के साथ, निडर होकर, साफ - साफ, छाती ठोक कर। मु० - करणे - हिम्मत दिखाना। - काढून चालणें - छाती निकाल कर चलना। सीना, तान कर, अकड कर चलना।

घडघडणें - छाती घडकना, किसी भय, आशका से हृदय का जोर से उछलना। - फाटणें - छाती फटना, दुख का असह्य हो जाना, हृदय विदीर्ण होना। - भरून येणें - दिल भर आना, दुख, कष्ट आदि से विचलित होना। - ला हात लावून सागणें - छाती ठोक कर कहना, विश्वास दिलाना। - वर काढून चालणें - दे 'छाती काढून चालणे'। - वर दगड ठेवणें - छाती पर पत्यर या सिल धर देना, छाती पत्यर की करना, दिल कडा करना।

छान - छी [अ 'शान'] १ शान; शोभा, ठाठ, तडकभडक। २ अच्छाई; उत्तमता। - वि शानदार, बढ़िया; उत्तम, अच्छा

- अव्य. क्या खूब, बहुत अच्छा, वाह वाह। - छोकी - छी नखरा, वनाव - सिंगार, वांकपन, ऐंठ; अकड। - दार - वि शानदार, बढ़िया, सुदर। - दारी - छी ठाठ, अकड, नखरा।

छाननी - छी छान - वीन, जांच - पडताल, तहकीक।

छाप - घु १ छपा, सांचा; ठप्पा; मुहर। २ 'टाइप'। ३. छाप; मार्का। - छी छाप, प्रभाव, असर। - खाना - घु छपाखाना, मुद्रणालय, 'प्रेस'। मु० - टाकणें, - पाडणें छाप डालना, असर करना। - पडणें - छाप पडना, प्रभाव पडना, सिक्का जमना। [छापने की उजरत।

छापणावळ - छी छपाई, छापणें - क्रि स छापना, मुद्रित करना।  
छापा - घु छपा, अचानक और तेजी से किया हुआ हमला। मु० - घालणें - छपा मारना, हमला करना।

छापी - छी [अ 'साफी'] १. चिलम के नीचे लपेटने का कपडा। २ दे. 'छाप'।

छापील - व वि १ छपा हुआ, मुद्रित। २ मुद्राकित।

छाया - छी १ छाया, छांव, साया। २ प्रतिविंब, अक्स। ३. आथय; रसा। ४. लक्षण, चिह्न। ५ थोड़ी-सी समानता। ६ झांकी, झलक। - चित्र - न छायाचित्र, अक्सी तस्वीर, 'फोटो'।

छावणी - नी - छी १ छावनी, पडाव, शिविर। २ छप्पर। ३. छवाई, फेरवट, फेरौरी।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।

छावा - घु १ छावा, हाथी का पट्टा, शेर का वच्चा।



२ वच्चा, वेटा । ३. शूर, निडर व्यक्ति ।

छि, छि - अव्य छि, छि, छी, यू, धिक्कार ।- यू - छी युक्ता - फ़जीहत, छीछालेदर; दुर्गत ।

छिटकाव, छिडकाव - पु. छिडकाव, छिडकने की क्रिया ।

छिणी - छी दे. 'छनी' ।

छिद्र - न १. छिद्र, सूराख, छेद । २. दोष, ऐव, त्रुटि, दुर्बल पक्ष । ३. प्रवेश, मार्ग । मु० - पाहाणें - दूसरे के दोष, ऐव ढूँढना, खुचड निकालना । [दे 'छिद्र पाहाणें' ।

छिद्रान्वेषण - न छिद्रान्वेषण, छिनाल - वि छी छिनाल, पुरुचली, कुलटा, वदकार ।- वि

वदचलन, व्यभिचारी ।

छिनाला - पु., छिनाली - छी छिनाला; छिनालपन, व्यभिचार ।

छिनावणें - क्रि स छीनना ।

छिन्न - वि छिन्न, कटा हुआ, खडित ।- भिन्न, - विच्छिन्न - वि छिन्न-भिन्न, कटा फटा, नष्ट-भ्रष्ट ।

छिन्नी - छी दे. 'छनी' ।

छिपटी - छी छडी, वेत, कमची ।

छी - अव्य. छी, छि., यू, धिक्कार ।- यू - दे 'छि यू' ।

छोट - न छोट, दे. 'चीट' ।

छुमछुम - दे. 'छमछम' ।

छू - अव्य कुत्ते को किसीपर झपट पडने की आज्ञा देने का शब्द ।

## ज

ज - मराठी वर्णमाला में चवर्ग का तीसरा व्यजन ।

ज़ - अरबी - फारसी में पाया जाने वाला यह दत्य उच्चारण मराठी में भी है । अंग्रेज़ीके 'z' के उच्चारण के साथ यह बहुत समानता रखता है । मराठी में यह नुक्ता आदि से व्यक्त नहीं किया जाता ।

जंग - पु. [फ़ा 'जग'] १. जग; मोरचा, ठड और तरी से घातुओं में लगने वाला मैल । २. मैल, गदगी ।

जग - पु. छी [फ़ा.] जग, लडाई, युद्ध । मु० - जग पछाडणें - बहुत हाथ-पाँव मारना, खूब कोगिश करना, एडीचोटी का पसीना एक करना ।

जंगम - वि जगम, चल, मनकूला, स्थावरका उलटा (जगम

सपत्ति) । - पु. लिगायत सप्रदाय के गुरुओं की उपाधि । - जिदगी, - मालमत्ता, - मिळकत - छी चलसपत्ति, जायदाद मनकूला ।

जगल - न १ जगल, वन, अरण्य, वंजर, उजाड स्थान । २. दे 'जग' । मु० - फिरणें - झाडा फिरना, मलत्याग करना, शौच जाना ।

जगली - वि १ जगली, वन्य, वनैला, असम्य, उजड । २. विना बोये उगने वाला ।-जनावर-न. जगली जानवर, वन्य पशु ।

जगी - वि [फ़ा 'जग'] १. बहुत बडा, विशालकाय; प्रचंड, भयकर, घमासान । २. जगी, युद्ध सवधी, फौजी ।

जजाळ - पु. जजाल, झझट, झमेला, फँसाव, वखेडा ।

जजिरा - पु. [अ 'जज़ीर']

मु.-करणे - उकमाना, उभाडना ।

छेडणें - क्रि [स १. छेडना; वारवार पूछना, मताना । २. आरम, शुरू करना । ३. स्वर निकालने के लिए वाजे को छूना, दवाना ।

छेद - पु १ छेद, छिद्र, सुराख । २. दरार । २ भाजक (ग०) [हर (ग०) ।

छेदक - पु. छेदक, भाजक, छेदणें - क्रि स. १ काटना, चीरना । २ छेदना, वेचना । ३. नाश करना ।

छोटी हजेरी - छी- [हिं 'छोटी' + अ 'हाजिरी,'] छोटी हाजिरी, हिंदुस्तान में रहने वाले यूरोपियनों का सवेरे का नाश्ता ।

जलदुर्ग, जलवेष्टित दुर्ग ।

जत - पु. केंचुआ, कद्दूदाना, चुनचुना, चुन्ना, मलागय में पैदा होने वाला सफेद सूत जैसा कीडा जो मल के साथ निकलता है ।

जतु - पु. कीटाणु, कृमि, जीवाणु; क्षुद्रतम जीव ।-घ्न, -नाशक - वि जतुघ्न, जतुनाशक, कृमिघ्न, कीटाणुओं का नाश करने वाला । [फर्द ।

जत्री - छी सूची, फिहरिस्त, जंबिया - पु. (?) खजर ।

जंबूक, जबूक - पु. १ जंबुक, जबूक, सियार, शृगाल । २. नीच, घूर्त बादमी ।

जव - पु. १ गुजरात के ब्राह्मणों की एक जाति । २. ईसाई बना हुआ ब्राह्मण ।

जव - \*अव्य. १ जव तक । २. तक । ३. जव । ४. दे. 'जो' ।

जवरीं-री - अव्य. जव तक ।

जहं, जहं\* - अव्य. जव,  
जिस समय ।

जकात - स्त्री [ अ ] १ जकात,  
मीमाशुल्क, सीमाकर । २ आयात-  
कर, चुगी । - दार - वि जकाती,  
जकात, चुगी वसूल करने वाला ।  
- नाकें - न चुगीघर, नाका, टोल-  
नाका ।

जखड - दे ' जख' ।

जखडणे - क्रि स जकटना, कस  
कर बांधना । - क्रि अ जकडना,  
(किसी अंग का) अकडना ।

जखम - स्त्री [ फा ' जरूम ' ]  
१ जरूम, घाव, चोट । २ हानि,  
घाटा । - पट्टी - स्त्री मरहम-  
पट्टी, जरूम का डलाज । मु० -  
भरणें - घाव पूजना, भरना ।  
जखमेवर भीठ चोळणे - जले पर  
नमक छिटकना, दुखिया को और  
दुख देना ।

जखमी - वि [ फा ' जरूम ' ]  
जरूमि, आहत, घायल, क्षत-  
विक्षत ।

जखीण - स्त्री १ डाइन,  
डायन, चुडैल । २ जखनी,  
डाकिनी, एक क्षुद्र देवी ।

जखल, जखलड - वि बहुत  
अधिक बूढा और कमजोर, जरा-  
ग्रस्त, जरा-जीर्ण, जरा से जर्जर ।

जग - न जग, जगत्, दुनिया,  
ससार । - जाहीर - वि जग-  
जाहिर, जगत्-प्रसिद्ध, सर्वविदित,  
विश्वविख्यात । - जेठी - पु १  
ससार में सब से बडा, श्रेष्ठ  
(ईश्वर) । २ दुनिया में सब से  
अधिक ताकतवर पुरुष, मल्ल ।  
- प्रसिद्ध - दे ' जगजाहीर ' । मु०  
जगातून उठणें - १ दुनिया से  
उठ जाना, मर जाना । २ रुढ  
म हिं श. को २१

आचार से विपरीत बरताव करना ।

जगड्याळ - वि १ महान्,  
बहुत बडा, अजीमुश्कान । २  
वेहद, वेहिसाव, वेढव ।

जगत् - न जगत्, जग,  
ससार, दुनिया । - शेट - पु  
१ जगतसेठ, सब से बडा महा-  
जन, अमीर । २ निर्धन, कगाल  
पुरुष । - शेटोचा नातू - पु. १  
जगतसेठ का साला । २ भिखारी,  
कगाल आदमी ।

जगणें - क्रि अ १ जीना,  
जिंदा होना । २ वचना, प्राण-  
रक्षा होना, जिंदा रहना ।

जगविणें - क्रि स जिलाना,  
जिंदा रखना, पालना-पोसना,  
मरने से वचाना; जीवन देना ।

जगावेगळा - वि असाधारण,  
गैरमामूली ।

जगूनवाचून - अव्य जिंदा  
रहकर, जीते जी, जीवित रहकर ।

जटा - स्त्री १. जटा, उलझे  
और आपस में चिपके हुए बाल ।  
२ वेदपाठ की एक प्रणाली । -  
जूट - पु जटाजूट, जूडे के रूप में  
बंधी हुई जटा । - मासी, -  
मावशी - स्त्री जटामासी, जटा-  
मासी, बालछड ।

जड - स्त्री धन, पैसा, संपत्ति ।

जड - वि १ भारी, बोझिल,  
वजनदार । २ जड, मद,  
आलसी, निर्वुद्धि, मूर्ख, बुद्ध ।  
३ भारी, देर में पचने वाला ।  
४ दुख देने वाला, कष्टदायी ।  
५ कठिन, मुश्किल । ६ जड;  
अचेतन । - जोखीम - न १  
जोखिम, घाटे की सभावना, खतरा ।  
२ दे ' जडजवाहीर ' । - पणा - पु.  
१ भारीपन, बोझ । २. सुस्ती ।  
- बुडाचा - वि अमीर, धनी

और प्रभावशाली व्यक्ति । - बुद्धि  
- वि मदबुद्धि, बुद्ध, मूर्ख । -  
भरत - वि आलसी, सुस्त । -  
पु. जडभरत (एक योगी) । - ब्राद  
- पु जडवाद, चेतन आत्मा का  
अस्तित्व न मानने वाला दार्शनिक  
मत । मु० - वाटणें - भारी, दुख-  
दायक प्रतीत होना, कष्ट होना ।

जडजवाहीर - न [ फा ' जर ' ]  
+ अ ' जवाहिर ' ] सोना और  
रत्न समूह, संपत्ति ।

जडण - स्त्री १ गहन, गठन,  
वनावट । २ जडना, जमाना,  
पच्ची करना । ३ जडाई, जडने  
का काम या उजरत । ४ जोडाई,  
जोड । [ जोडाई ।

जडणावळ - स्त्री जडाई,  
जडणें - क्रि अ १ लगना  
(दिल), पडना (आदत) । २ जुड  
जाना, जमना, चिपकना, बैठना ।  
- क्रि स दे ' जडविणें ' ।

जडविणे - क्रि स जडना,  
जमाना, पच्ची करना ।

जडाव - पु जडाव, जडने का  
काम, पच्चीकारी । जडावाचा -  
वि जडाऊ । जडावाचे दागिने -  
पु बहु ऐसे गहने जिनपर रत्न या  
नग जडे हों । [ जडा हुआ ।

जडित - वि जटित, जडाऊ,  
जडी - स्त्री जडी, वह वनी-  
पधि जिसकी जड दवा के काम मे  
लायी जाय । - बूट्टी - स्त्री जडी -  
बूटी, वनीपधि ।

जडीव - वि १ जोड कर  
वनाया हुआ, जुडा हुआ । २.  
जडाऊ ।

जड्या - पु जडिया, नग जडने  
का काम करनेवाला ।

जण - पु, जणी - स्त्री जन,  
जने, आदमी, व्यक्ति ।

जण, जणू, जणो - अव्य मानो, जैसे, गोया ।

जतन - न पालन, परवरिश, सुरक्षण । - वि अव्य सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ, ध्यानपूर्वक । मु० - करणे - पालन-पोषण करना, सुरक्षित रखना ।

जताविणें - क्रि स जताना, वताना, आगाह, सचेत करना ।

जती - पु. जती; यति, जैन साधु ।

जत्रा - स्त्री १ मेला । २ यात्रा । ३ तीर्थस्थान । [ गिरोह ।

जथा - पु. जथा, दल, यूथ, जघों \* - अव्य जव ।

जन - पु. १ जन, व्यक्ति, आदमी । २ लोग, जनता, अवाम । ३ जगत्, मसार ।

४ मैं, सेवक, दास । - कथा - स्त्री दतकथा । - पद - पु. जनपद,

देश, राज्य, राज्य - विशेष का ग्राम - भाग । - ० भाषा - स्त्री

लोकभाषा, बोली । - प्रवाद - पु. जनप्रवाद, लोकापवाद, अफवाह ।

- रीत, - रीति - स्त्री लोकरीति, लोकमर्यादा । - रूढी - स्त्री लोक-

रीति, लोकाचार । - लज्जा - स्त्री १ लोकलज्जा, लोकलाज ।

२ लोगो का डर । जनों जनार्दन - पु. जनता-जनार्दन, लोगो को ही ईश्वर मानने का मत ।

जनक - पु. जनक, पिता । - वि जनक, जन्म देने वाला, - पिता - पु. जन्म देने वाला पिता, सगा पिता ।

जनता - स्त्री जनता, अवाम, लोकसमूह । - जनार्दन - पु. जनता-जनार्दन, जनतारूप जनार्दन, भगवान् ।

जनानखाना - पु. [ फा. 'जनान-

खाना' ] जनानखाना, जनाना, अत पुर ।

जतानी - वि [ फा. 'जनान' ] १ जनाना, स्त्रियो का, स्त्री - सवधी । २ स्त्री की तरह ।

जतावर - न [ फा. 'जान-वर' ] १ जानवर, पशु, चौपाया, प्राणी । २ साँप ।

जन्म - पु. १ जन्म, उत्पत्ति, पैदाइश । २ जीवन, जिदगी । - करंटा - वि जन्म से अभागा । - कुडली - स्त्री जन्मकुडली, वह चक्र जिममे जन्मकाल के ग्रहो की स्थिति बतायी गयी हो । - जन्मातरों - अव्य अनेक जन्मों में । - टिपण - न दे 'जन्म-पत्रिका' । - ठेप - स्त्री काला पानी, आजीवन कारावास । - दरिद्री - वि जन्म से निर्धन । - पत्रिका - स्त्री जन्मपत्र, जन्म-पत्रिका, जन्मपत्री, जायचा । - भूमि - स्त्री जन्मभूमि, वतन । - भर - अव्य जिदगीभर, आजीवन । - सावित्री - स्त्री १ सदा सुहागिन, जिसका सुहाग हमेशा बना रहे । २ ऐना कपडा जो कभी धोया न गया हो । जन्माची गाठ - स्त्री विवाह जैसा कभी न टूटने वाला रिस्ता । जन्माची जोड - स्त्री १ इतना मन्थ जो जीवन भर चल मके । २ पति-पत्नी या पिता - पुत्र का सवध । मु० - घालविणें - १ जन्म गंवाना । २ जीवन विताना । - धेणे - जन्म लेना, पैदा होना । - देणें - जनना, जन्म देना ।

जन्मणें - क्रि अ जन्मना, जन्म लेना, पैदा होना ।

जन्मत - अव्य जन्मत, जन्मना, जन्म से ।

जन्मोजन्मी - अव्य जनम-जनम में, इस जन्म में और अगले जन्मों में, निरतर ।

जप - पु. १ जप; किसी मंत्र आदि को बार-बार दुहराना । २ रटत, रटाई । - माळ - - स्त्री जपमात्रा, जपनी । मु० - करणें - रटना । [ हिफाजत ।

जपणूक - स्त्री संभाल, रक्षा, जपणें - क्रि स १ संभालना, रक्षा करना, ध्यान, सयाल रखना । २ पालन करना ।

जपणें - क्रि अ जपना, जप करना ।

जप्त - वि [ अ 'जप्त' ] जप्त, कुर्क, जप्तशुदा, राज्य-द्वारा किसी वस्तु, मपत्ति का हरण ।

जप्ती - स्त्री [ अ 'जप्ती' ] जप्ती, कुर्की; सरकारी हुकम से किसी चीज पर कब्जा ।

जवडा - पु. जवड़ा; कल्ला ।

जवर - वि [ फा. 'जवर' ] १ थ्रेष्ठ, ताकतवर । २ भारी, बोलिल । जोरदार । ४ कठिन, मुश्किल । ५ वडा, प्रचड । ६ बहुत अधिक । - दस्त - वि १ जवरदस्त, बलवान, प्रबल; भारी । २ जालिम । - दस्ती - स्त्री जवरदस्ती, जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, धींगा-धीगी । कहा० जवरदस्ताचें खाद्यावर - जवरदस्त का ठेंगा सिरपर, जवरदस्त से जोर नही चलता ।

जवरा - वि [ फा. 'जवर' ] १ भारी । २ मोटा, वडा । दे 'जवर' ।

जवरी - वि [ अ 'जवरी' ] जवरी, बल पूर्वक कराया जाने वाला, अनिवार्य, बलात् । - स्त्री दे 'जवरदस्ती' । - चोरी - स्त्री

जवरी - वि [ अ 'जवरी' ] जवरी, बल पूर्वक कराया जाने वाला, अनिवार्य, बलात् । - स्त्री दे 'जवरदस्ती' । - चोरी - स्त्री

जवरी - वि [ अ 'जवरी' ] जवरी, बल पूर्वक कराया जाने वाला, अनिवार्य, बलात् । - स्त्री दे 'जवरदस्ती' । - चोरी - स्त्री

जवरी - वि [ अ 'जवरी' ] जवरी, बल पूर्वक कराया जाने वाला, अनिवार्य, बलात् । - स्त्री दे 'जवरदस्ती' । - चोरी - स्त्री

डकैती, डरा-धमका कर की गयी चोरी।-सभोग-पु. बलात्कारा-विगम, जिना विलजत्र।

जबर्दस्त, जबर्दस्ती -दे 'जवर'।

जवानी - छी [फा 'जवानी'] कैफियत, निवेदन, वयान, गवाही।-वि जवानी, मौखिक।

जवाब - पु [अ. 'जवाब'] १ जवाब, उत्तर। २ प्रतिवाद, वचाव।-दार - वि जवाबदेह, जिम्मेदार; उत्तरदाता, उत्तरदायी।-० शासनपद्धति - छी उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार।-दारी - छी जवाबदेही; जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व।-सवाल -पु जवाब-सवाल, प्रश्नोत्तर; वहस।

जम - पु १ प्रवच, व्यवस्था। २ प्रभाव। मु - बसणें - जम जाना, ठीक तीर से चलने लगना, काम चल निकालना, पटरी बैठना।- बसविणे - पटरी जमाना, ठीक तीर से चलने लायक बनाना, स्थापित करना।

जमणें - क्रि अ १ जमा होना, इकट्ठा होना। २ जमना, बनना। ३ पतली चीज का गाढी या ठोस होना। ४ अच्छा, बढ़िया होना। ५ मेल खाना; पटरी बैठना। ६ सुंदर, सफल, यथेष्ट रसोत्पादक होना।

जमविणें - क्रि स १ जमा करना, इकट्ठा करना। २ जमना, पतली चीज को गाढी या ठोस बनाना। ३ जोड़ना, ठीक करना। ४ मेल बैठाना। ५ दोस्ती करना। ६ व्याह निश्चित करना।

जमा - छी [अ 'जम्ब'] १ जमा, आय, आमदनी, पूंजी।

मुनाफा, लाभ। २ गिनती, शुमार। ३ जोड़, कुल जमा (ग०)। ४. वही-खाते का वह भाग या मद जिसमें प्राप्ति या आमदनी लिखी जाय।- खर्च - पु जमाखर्च, आय-व्यय, आमदनी और खर्च, आमदनी-खर्च का हिसाब, व्योरा।- दार - पु जमादार, सिपाहियो आदि का मुखिया, पुलिस का हेड कास्टेबल।-बंदी - छी १ जमावदी, गाँव, महाल या हिस्से का कुल लगान। २. लगान का हिसाब। ३ पटवारी की वह वही जिसमें गाँव के हर काश्तकार के लगान का हिसाब और व्योरा लिखा होता है, लगान का हिसाब, जमा-खर्च। मु. - करणें - १ जमा, इकट्ठा करना, बटोरना, समेटना। २ जोड़ना। ३ किसी रकम को जमा की मद में लिखना।

जमात - छी [अ. 'जमा-अत'] जमाअत, जमात, समुदाय, जत्या, भीड़, मजमा। २ जनजाति, कबीला। ३ जाति, सप्रदाय।

जमालगोटा - पु जमालगोटा, एक फल का बीज जो तीव्र विरेचक होता है। मु० - देणे - पदाना, हगा मारना, बहुत थका देना, परेशान, हैरान करना।

जमाव - पु [अ 'जम्ब'] १ जमाव, जमावड़ा, भीड़, मजमा। २ सग्रह, सचय।

जमीन - छी [फा] १ जमीन; भूमि, धरती, पृथ्वी। २ जमीन का टुकड़ा, खेत। ३ पृष्ठभूमि। ४ आवार। - अस्मानाचें अतर - न जमीन-आसमान का फर्क, आकाश-

पाताल का अतर। - जुमला - पु खेती-वाड़ी, भूसपत्ति, जायदाद। - दार - पु १ जमीनदार, जमीन का मालिक, भूस्वामी। २ मालगुजार, दे 'खोत'। - दारी - छी १ जमीनदारी, जमीनदार का हक। २ जमीनदार की जमीन। ३ चालाकी, छक्कापजा। - दोस्त - वि १ जमीनदोज, तवाह, बरवाद, मटियामेट। २ चित, चितपट। - महसूल - पु भूमिकर, लगान, भू-राजस्व, भू-मालगुजारी। - मोजणी - छी भूसर्वेक्षण, चकवदी। मु० - अस्मान एक होणें - १ मूसलावार वर्षा होना। २ दे 'अस्मान ठंगणें होणें'। - धरणें - बीमारी के कारण विस्तर पर पड़े रहना। जमीनीवर पाय नसणें - १ जमीन पर पाँव न पडना या न रखना, बहुत गर्व होना, बहुत इतराना। २ हवा से बाते करना। जमीनीस पाठ लागणें - दे 'जमीन धरणें'। २ चित होना, पछाडा जाना। जमीनीस पाय लागणें - १ रोगमुक्त होना, चगा होना। २ धरती पर पाँव पडना।

जयती - छी जयती, किसीकी जन्मतिथि, बरस-गाँठ का उत्सव।

जय - पु १ जय, जीत, फतह। २ वश में करना, नियह। - घोष, - जयकार - पु जयकार, जयघोष, जयजयकार, जयज्वनि, फतह का नारा।

जद्यत-द - वि [अ 'जंयिद'] १ पूरा, मुकम्मिल। २ सिद्ध, तैयार। - अव्य. कतई; विठकुल।

जर - अव्य. यदि, अगर।

—करितां—अव्य यद्यपि, अगर्चे ।  
—तर—न १ शर्त । २ अगर—  
मगर; आगापीछा, हुविघा,  
टालमटोल ।

जर—पु १ ज्वर, बुखार ।  
२ बुखार की फुसियाँ । मु०  
—उत्तणें—बुखार के कारण मुंह  
आदि पर फुसियाँ निकलना ।

जर—पु स्त्री [फा] १  
कलावत्तू, सोने-चाँदी का तार ।  
२ मोना, धन, मपत्ति।—तारी—  
वि कलावत्तू का, जरी ।

जरठ-ड-डा—वि जरठ,  
बूढा, जीर्ण ।

जरत्कार—पु १ जरत्कार  
(एक मुनि) । २ मरियल, दुबला-  
पतला आदमी ।

जरद—दे 'जर्द' ।

जरदा—पु [फा 'जर्द']  
जरदा, जर्दा, खुशबूदार पत्ती  
का तवाकू; सुगंधित सुरती ।—  
वि जर्द, पीला ।

जरदालू—पु [फा 'जर्दालू']  
जरदालू, जर्दालू, सूवानी ।

जरव—स्त्री [अ 'जर्व']  
१ वाक, रोव, दवाव, दवदवा,  
आतक । २ सजा, पिटाई । मु०  
—वसणें—घाक जमना, डरना ।  
—वसविणें—आतक, घाक  
जमाना । [२ कमजोरी ।

जरा—स्त्री १ जरा, बुढापा ।

जरा—पु [अ] जरा, थोडा,  
तनिक ।—अव्य जरा, तनिक,  
थोडी देर के लिए ।—जरा—  
अव्य जरा-जरा, थोडा-थोडा ।

—सा—वि जरा-सा, थोडा-मा ।  
जराशानें—अव्य [अ 'जरा']  
थोडी देर के बाद, थोडे समय के  
पश्चात् ।

जरी—अव्य. १. यद्यपि;

हालांकि, अगर्चे । २. वावजूद ।

जरी—वि [फा 'जरी']  
जरी, मुनहरे तारो, कलावत्तू का  
वना हुआ ।—काठी—वि गोटा  
किनार वाला, जिमकी गोटा या  
किनारी मे जर हो ।—पटका—पु  
१ मराठो का झडा । २ जरी का  
कमरवद । [ 'जरूरीचा' ।

जरूरी, जरूरीचा—दे 'जरूरी',  
जरूर—स्त्री [अ] जरूरत,  
आवश्यकता, हाजत ।—अव्य १  
जरूर, अवश्य, वेशक । २ हर  
हालत मे । ३ जल्द, शीघ्र ।

जरूरी—स्त्री [अ] जरूरत,  
आवश्यकता ।—चा—वि १  
जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य । २  
अविलंबनीय, हगामी, आपातिक ।

जर्जर, जर्जरित, जर्जरीत—  
वि जर्जर, जर्जरित, जीर्ण,  
जरा से जर्जर ।

जर्द—वि [फा] १. जर्द,  
पीला । २ गहरा, भडकीला  
(पीला या लाल) ।

जर्दा—दे 'जरदा' ।

जर्मन सिल्वहर—न स्त्री  
[अ] जर्मन सिलवर, जस्ते,  
ताँवे और निकल की मिलावट से  
वनी एक धातु जो वरतन आदि  
वनाने के काम आती है ।

जल—न जल, पानी ।—चर  
—न १ जलचर, जलजतु ।  
२ यूरोप के लोग, अग्नेज ।  
—तरग—पु १ जलतरग (एक  
वाजा) । २. पानी की लहर ।—  
प्राय, —मय—वि जलप्राय, पानी  
मे भरा हुआ, जहाँ जल अधिक  
हो, जलमग्न ।—मार्ग—पु  
जलमार्ग, जलपथ ।—शाक—स्त्री  
मछली ।—समाधि—स्त्री जल-  
समाधि, जल मे डूब कर प्राणत्याग ।

कहा० जलात राहून माशाशीं घैर  
—जल मे रह कर मगरमच्छ मे  
वैर, ऐसे म्यान मे रह कर किमी  
व्यक्ति मे गयुता करना जहाँ वह  
प्रवल हो ।

जल्द—अव्य [फा 'जल्द']  
जल्द, झटपट, शीघ्र, त्वरित;  
सत्वर, तुरत, फौरन ।—वि तेज,  
चपल, फुर्तीला ।

जल्दी—स्त्री [फा 'जल्द']  
१. जल्दी, तेजी, शीघ्रता । २  
उतावलापन, उतावली ।—अव्य.  
जल्द, जल्दी, शीघ्र, तुरत ।

जलम—दे 'जन्म' ।

जलसा—पु [अ 'जल्स']  
जलमा, गाने-बजाने, नाच-रग की  
महफिल ।

जलाल—वि [अ] १ तेज,  
तीव्र, पैना, प्रखर । २ तीव्रता ।  
३ उग्र ।—पु जुल्म; अत्याचार ।  
जल्म, जल्मा—दे 'जन्म',  
'जलसा' ।

जव—पु १ जी, यव । २ एक  
जी या ६ राई की मात्रा ।—खार—  
पु जवाखार, जी के पीधे को जला  
कर निकाला जाने वाला खार ।

जव\*—पु वेग, गति ।

जवजे\*—स्त्री [अ 'जौजे']  
की पत्नी । [अलसी, अतसी ।

जवशी—स्त्री, जवस—पु स्त्री  
जवळ—अव्य. १ पास,

निकट, करीब; नजदीक, समीप ।  
२ को ।—वि निकट का, पास  
का, नजदीकी ।—चा—वि पास  
का, निकट का ।—घेऊन—अव्य.  
पास ले कर, प्यार से ।—जवळ—  
अव्य १ पास-पास । २ लगभग,  
तकरीबन; करीब-करीब ।—पास  
—अव्य आसपास, करीब;  
इर्दगिर्द । मु०—उभा न करणें—

पास फटकने न देना, कोई सरो-  
कार न रखना।-करणे - १  
अपना बना लेना। २ पास रखना।  
३ नजदीक पहुँच जाना।

जवळीक - छी १ निकटता,  
करावत, नजदीकी, समीपता।  
२ स्वजनता, प्यार, रिश्ता, नाते-  
दारी, प्रेम। ३ मित्रता।

जवळील - वि पास का,  
करीबी, निकट का, नजदीकी।

जवळून - अव्य. १ पास से,  
करीब से। २ से। [गधमार्जार।

जवादी भाजर - न गधविलाव,  
जवान - पु. [फा.] १ जवान,  
युवा पुरुष, युवक। २ सिपाही,  
योद्धा। - मर्द - वि १ जवाँमर्द,  
बहादुर, वीर, शूर। २ उदार।  
- मर्दी - छी १ जवाँमर्दी,  
बहादुरी। २ उदारता।

जवानी - छी [फा.] १  
जवानी, यौवन, युवावस्था। २  
जवानी का जोश, मस्ती।

जवारी - छी १ दे 'ज्वारी'।  
२ जवारी, तारवाले बाजो का एक  
पुरजा, घोडी।

जवाशी - छी, जवासा - पु  
जवासा (एक कँटोला क्षुप)।

जवाहिर - दे 'जवाहीर'।

जवाहिरी - न्या - पु. [अ.  
'जवाहिर'] जोहरी, रत्न व्यव-  
सायी, पारखी।

जवाहीर - न [अ 'जवा-  
हिर'] १ जवाहिर, रत्न, मणि।  
२ रत्नाभूषण।

जव्हेरी - दे 'जवाहिन्त्या'।

जव्हारी - दे 'जवारी'।

जशाचा तसा, जशास तसा -  
दे 'जसा' में।

जशी - वि छी जैसी, जिस  
प्रकार की। - अव्य जिस तरह।

जसला - वि जैसा, जिस  
प्रकार का।

जसा - वि जैसा, जिस प्रकार  
का। - अव्य. १ जैसे, जिस  
प्रकार। २ जव। - चा तसा,  
जशाचा तसा - वि १ जैसे का  
तैसा, ज्यो का त्यो, हू-व-हू। २  
सकुशल, सही-सलामत। - तसा -  
वि मामूली, साधारण। - अव्य  
किसी तरह, बडी मुश्किल से।  
जशास तसा - वि जैसे को तैसा,  
जो जैमा है उस के साथ वैसा  
(व्यवहार), तदनु रूप। कहा०  
जसा देश तसा देश - जैसा देस  
वैसा भेस। जसा राजा तशी प्रजा -  
जैसा राजा वैसी प्रजा। जशास  
तसे - जैमे को तैसा। जशी बुद्धि  
तसे फळ - जैसी नीयत वैसा फल।

जसे - अव्य. जैसे, जिस तरह।  
- वि जैसा, जिस किस्म का। -  
काहीं - अव्य मानो, गोया।  
कहा० जसे पेरावें तसे उगवतें -  
जैमा बोवोगे वैसा काटोगे, जैसा  
काम करोगे वैसा फल पाओगे।

जस्त - न जस्ता, खाकी रग  
की एक धातु जिसे ताँबे के साथ  
मिलाने से पीतल बनता है। -  
फूल - न जस्ते का फूल, जस्ते  
का फूँकनेपर तैयार होने वाला  
पदार्थ।

जस्ती - वि जस्तई, जस्ते का।

जहर - न [फा 'जहर']  
जहर, विष, गरल। - वि जहर  
के जितना कडुवा, वहुत कडुवा।  
- मोहरा - पु जहर मोहरा, एक  
क्रीमती पत्थर जिससे विष उतारा  
जाता है।

जहरी - वि [फा 'जहर']  
जहरीला, विषैला, विषयुक्त,  
विषाक्त।

जहांवाज - वि [फा  
'जाँवाज'] १ छँटा हुआ, पक्का,  
चालाक, चट, होशियार,  
काइर्या। २ जाँवाज, शूर। ३  
दे 'कैदाशीण'। - पणा - पु १  
चालाकी, होशियारी। २ दुष्टता।

जहांवाजी - छी [फा  
'जाँवाजी'] १ होशियारी,  
चालाकी, वूर्तता। २ दुष्टता।

जहागिरदार - पु. [फा 'जागीर-  
दार'] जागीरदार, जिसे जागीर  
मिली हो, सामत, सरदार,  
तअल्लुकेदार।

जहागिरी - दे 'जहागीर'।

जहागीर - छी [फा 'जागीर']  
१ जागीर, जमीन या जायदाद  
जो सरकार से किसी बडे काम के  
बदले मे मिले। २ पेन्शन। -  
दार - दे 'जहागिरदार'।

जहाज - न [अ 'जहाज']  
१. जहाज, जलयान, पोत,  
समुद्र मे चलने वाली बहुत बडी  
नाव। २ मोटा-ताजा आदमी,  
ढीला-ढाला पहनावा।

जहाल - वि १ उग्र, गरम,  
तीखा। २ गुस्सावर। - पक्ष -  
पु. गरमदल, उग्रदल।

जळ - दे 'जल'।

जळफट, जळका - वि अघ-  
जला, जला हुआ, झुलसा हुआ।

जळजळ - छी १ जलन,  
जलने की पीडा, दाह। २ डाह,  
द्वेष, मनस्ताप, मनोव्यथा। ३  
जुल्म, अत्याचार।

जळजळणे - क्रि अ १ जलना,  
जलन होना। २ दे जळफळणे।

जळजळाट - दे 'जळफळाट'।

जळजळीत - वि १ घधकता,  
जलता हुआ। २ उग्र, कठोर।  
३ तीखा, तेज, तीव्र।

जळण - न ईधन, जलावन ।  
जळणे - क्रि अ १ जलना,  
घबकना, बलना, भस्म होना ।  
२ झुलसना । ३ वाद होना  
(तागमे) । ४ दे 'जळफळणे' ।

जळफळ - छी जलन, कुढन,  
डाह, गुस्सा ।

जळफळणें - क्रि अ जलना,  
जल भुनना, कुढना, खार खाना ।

जळफळाट - पु. जलन, डाह,  
गुस्सा, कुढन ।

जळमट - न १ घर के छत,  
छप्पर या दीवार पर लगा मकड़ी  
का जाला । २ आटे, फल आदि मे  
पैदा होने वाला ढागे जैसा कीडा ।  
३ मँल ।

जळवात - पु. एक रोग जिसमें  
तलवो और हथेलियों में जलन  
होती है और विवाई फटती है ।

जळाऊ - वि जलाने लायक,  
ईधन के काम आने वाला ।

जळोंमळों; जळीस्थळों - अव्य  
जळ-स्थल में, हर जगह ।

जळीत - न १ अग्निकांड,  
जलाया हुआ मकान आदि । २  
ईधन, जलावन ।

जळू - छी जोक, जलूका,  
जलूका । [ में जाय ।

जळो - अव्य आग लगे, भाड  
जळ्ळ, जळ्ळ मेल - अव्य  
(न्त्रि) १ आग लगे, भाड मे  
जाय । २. मुआ ।

जागड - न जाकड, नापसद  
होने पर लौटा देने की शर्तपर खरीदा  
हुआ मौदा । - वही - छी जाकट  
वही । [ के अर्थ में) ।

जांगाड - न जांघ (तिरस्कार  
जागिया - पु. जांघिया, एक  
तरह का लँगोट ।

जाय - छी जांघ, जघा,

ऊर, रान । [ 'जाचणे' ।

जाच, जाचणे - दे 'जाच' ;

जाब - पु. १ अमरुद । २  
जामुन । ३ विही, सफरी । ४  
काजू (फल) ।

जाव - पु. [ फा 'जाम' ]  
जाम, प्याला, प्याली ।

जावा - पु. १ एक प्रकार का  
लाल पत्थर जो कोकण मे पाया  
जाता है । २. दे 'जाव' ।

जांबूळ - दे 'जाम्बूळ' ।

जामई - छी जैमाई, जम्हाई,  
उवासी । मु० - देणें - जम्हाना,  
जम्हाई लेना ।

जामळा - वि जामुनी, जामुन  
के रग का, वैगनी, वैगनी, वैजनी ।

जांबूळ - छी जामुन का पेड ।  
- न जामुन (फल) ।

जावई - दे 'जावई' ।

जाई - छी जाई, जाही;  
चमेली, मालती ।

जाऊ - छी १ (थोरली)  
जेठानी । २ (घाकटी) देवरानी ।

जाकीट - छी [ म 'जैकेट' ]  
जाकिट, एक तरह की कुर्ती,  
'जैकेट' । [ क्षुद्र देवी ।

जाखाई जोखाई - छी एक

जाखीण - दे 'जखीण' ।

जाग - छी १ जाग, जागने  
का भाव, जागरण, जागना । २.  
आहट, हलचल । ३ पहरा । -  
माग - छी १ अस्तित्व, हस्ती ।  
२ आहट, हलचल । [ मे ।

जागच्या जागीं - दे 'जागा' ।

जागणें - क्रि अ १ जागना,  
जागृत रहना, जगा हुआ होना ।  
२ सचेत, सजग रहना । ३ जगना,  
नीद से उठना, सजग, सचेत होना ।  
४ पहरा देना । ५ चौकस, चौकन्ना  
सावधान रहना ।

जागता - वि १ जागता,  
जागता हुआ, जागरूक, सचेत,  
सावधान, दक्ष । २ अपनी शक्ति  
का परिचय देने वाला, तेजस्वी,  
प्रकट, प्रत्यक्ष ।

जागतिक - वि जागतिक,  
मासारिक । २ विश्वव्यापी, वैश्व,  
सर्वव्यापक । - आरोग्य संघटना -  
छी विश्व स्वास्थ्य संघटना । - बैंक  
- छी विश्व बैंक । - युद्ध न  
विश्वयुद्ध, आलमगीर जग ।

जागती - वि छी जागती । -  
जोत - छी १ जागती जोत,  
जलता दीपक । २ जागती हुई  
देवी । [ रतजगा ।

जागर - पु. जागर, जागरण,

जागरण - न १ जागरण,  
रतजगा, भजन-कीर्तन करते हुए  
रात विताना । २ जागृति,  
जाग्रति ।

जागल्या - वि पहरेदार,  
रात को पहरा देने वाला ।

जागविणें - क्रि स १.  
जगाना । २. पहरा देना । ३  
जागरण, रतजगा करना । ४.  
प्रदीप्त करना ।

जागा - वि १ जाग्रत, जागता  
हुआ । २ सचेत, सजग ।

जागा - छी पु. [ फा. 'जाए-  
गाह' ] १ जगह, स्थान । २.  
अवकाश, शून्य स्थान । ३ नौकरी,  
ओहदा । ४ समाई, गुजाइश । ५  
आधार, प्रमाण । ६ बदले का  
स्थान । ७ साधन, कारण,  
निमित्त । जागचे-च्या जागीं -  
अव्य १ उसी स्थान पर, वही ।  
२ तत्काल, फौरन । मु - घेणें -  
स्थान लेना, रिक्त स्थान की पूर्ति  
करना । - भरणे - नियुक्ति करना;  
खाली जगह में नौकरी देना ।

जागृत - वि १ जाग्रत, जागता हुआ । २ जागरूक, सचेत, सजग, सावधान । - स्थान - न जागती जोत, जागती हुई देवी या देवता ।

जागृति - स्त्री १ जागृति, जाग्रति, जागरण । २ सजगता, सावधानी ।

जाग्रण - दे 'जागरण' ।

जाच - पु १ कष्ट, तकलीफ, यत्रणा, यातना । २ जुल्म, अत्याचार । [कष्टदायी ।

जाचक - वि तकलीफदेह,

जाचणूक - दे 'जाच' ।

जाचणें - क्रि अ खटकना, तकलीफ होना, चुभना । - क्रि स तकलीफ देना, परेशान करना ।

जाजम - न [तु 'जाजिम'] जाजिम, छपा हुआ दोसूती मोटा विछावन, दरी के ऊपर विछाने की छपी चादर । [में ।

जा जा ये ये - स्त्री दे 'जाणे' जाज्वल्य, जाज्वल्यमान - वि १.

जाज्वल्य मान, तेजस्वी, प्रखर । २ जगमगाने वाला । ३ अकसीर ।

जाड - वि १ मोटा, स्थूल, पीन । २ मोटाझोटा, खुरदरा । ३ गाढा, गफ, ठोस । ४ भारी, बोझिल, दे 'जड' । ५ हट्टाकट्टा, मजबूत । ६ बड़ा, विशाल । - जूड - वि भारी - भरकम, मोटा-ताजा । - सर - वि कुछ मोटा - सा, किंचित् स्थूल ।

जाडगा, जाडगेला - वि मोटा - ताजा, भारी - भरकम, मरा हुआ ।

जाडा - वि १ भारी, प्रकाड, महान । २ दे० 'जाड' । - भरडा - वि मोटा - झोटा, गाढे का, खुरदरा, घटिया, अनगढ ।

जाडी - स्त्री १ मोटाई, मुटापा । २ घनता । ३ गाढापन ।

जाडें - वि न दे 'जाड', 'जाडा' । - प्रकरण - न बडा असामी, अति महत्त्वपूर्ण, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति ।

जाडच - न १ जाडच, जडता, भारीपन । २ अज्ञान, मूर्खता । ३ सुस्ती । ४. अपच, अजीर्ण, वदहजमी ।

जाण - स्त्री १. जान, जानने का भाव, ज्ञान, जानकारी, समझ । २ भान । ३ कद्र ।

जाणणें - क्रि स १ जानना, समझना । २ पहचानना, परिचित होना, अवगत होना । ३ स्वीकार करना, मानना । ४. गुणग्रहण करना, कद्र करना । ५ स्मरण, याद रखना । ६ ज्ञात, मालूम होना । कोण जाणे - अव्य कौन जाने, खुदा जाने । न जाणो - अव्य न जाने, हो मकता है, समझ है ।

जाणता - वि १ जानकार, जाननेवाला, परिचित, अभिज्ञ, विज्ञ । २ होशियार । ३ निपुण, कुशल । ४ वालिया, प्रौढ, सयाना, वय प्राप्त । ५ रमिक, पारखी, मर्मज्ञ ।

जाणती - वि स्त्री १ बुद्धि । २ सयानी, ऋतुमती । दे 'जाणता' । मु० - होणें - ऋतुमती होना ।

जाणवणें - क्रि अ महसूस, प्रतीत होना, समझ में आना ।

जाणविणें - क्रि स १. समझाना । २ महसूस कराना, भान कराना ।

जाणिजे - क्रि अ जानें, समझें, यह जाहिर हो ।

जाणीव - स्त्री १ भान,

प्रतीति, एहसाम । २ ज्ञान, जान, बुद्धि । ३ समझदारी, समझ । जाणून वुजून - अव्य जान-वुझ कर, डरादतन,

जाणें - क्रि अ १ जाना, गमन करना, रवाना होना । २ सफर करना । ३ विदा होना, दूर होना, चले जाना । ४ वीतना, गुजरना । ५ घुमना, प्रवेश करना । ६ नष्ट होना, खराब होना, विगडना । ७. घटना, घटाया जाना । ८ बुझना । ९ खोना, गुम होना, हाथ से निकल जाना । १० चलना, टिकना । ११ चल बसना, सिंघारना, मरना । जा जा ये ये - स्त्री नाहक आना-जाना, वे मतलब चक्कर काटना, बार-बार आना-जाना ।

जाणो - अव्य मानो, गोया ।

जात - स्त्री १ जात, जाति, शांति, वर्ण, फिरका, जात, विरादरी, सप्रदाय, कौम; जमात । २ किस्म, प्रकार, ढग, भेद, तरह । ३ जातिस्वभाव, खान्दानी खिसलत । - कुळी - स्त्री, - कूळ - न कुल, खान्दान । - गगा - स्त्री कुल जाति; जमाअत, विरादरी । - गोत - न समूची जाति, अपनी जाति के लोग । - जेवण - न जातिभोज, सपूर्ण जाति को दिया हुआ भोज । - पात - स्त्री जातपाँति, विरादरी, जाति-उपजाति । - भाई - पु. विरादरी के लोग, जातिवधु, भाईवद । - वार - अव्य मप्रदाय या जाति के अनुमार । मु० जातीवर जाणे - अपने मूलस्वभाव के अनुमार वरताव करना, अपनी बुरी आदत को न छोडना ।

जात - स्त्री [अ] जात,



रव्य, खुद । - मुचलका - पु. वैयक्तिक प्रतिभूति; वैयक्तिक जमानत, जाती मुचलका । जातीचा - वि अ १ असली, स्वभावतः । २ जाति से, जाति का । जातीनें - अव्य खुद, स्वय, वजाते खुद ।

जाति - स्त्री जाति, दे 'जात' । - बहिष्कृत - वि जातिच्युत, स्वजाति से अलग किया हुआ । - भेद - पु जाति-भेद, जातिगत उच्चनीचता, जातपात का भेदभाव । - वत - वि १ कुलीन, खान्दानी २. असली, बढिया । - वाचक - वि जातिवाचक, जाति बताने वाला (मन्त्रा) (व्या०) । - स्वभाव - पु जातिस्वभाव, मूल स्वभाव, जातिप्राप्त स्वभाव, खान्दानी खिसलत । [ मे ।

जातीचा, जातीनें - दे 'जात' जातीय - वि सांप्रदायिक, फिरकावाराना ।

जातें - न जाँता, चक्की । कहा० जात्यावर बसलें की ओवी (गीत) आठवते - पीमना शुरू करने पर गीत याद आता है, किमी काम को उठा लेनेपर उमे पूरा करने के मार्ग दिखाई देते हैं । जात्यातले रडतात, सुपातले हसतात - जो चक्की में पिसते है वे रोते है, और जो बाहर है वे हँसते हैं, हालाँकि उन्हे भी थोडी ही देर में चक्की में पिसना है ।

जात्यघ - वि १ जात्यघ, जन्माव । २ अपनी जाति के प्रेम और दूसरी जातियो के द्वेष में अवा बना हुआ, फिरकापरस्त, सांप्रदायिक ।

जात्यभिमान - पु अपनी जाति का अभिमान, गर्व ।

जात्यां-त्या - अव्य १. जन्म से, स्वभाव से, फिरतरतन । २ खुद, स्वय ।

जादा - वि [ अ 'जियाद' ] ज्यादाह, ज्यादा, अधिक । २. फाजिल, अतिरिक्त, फालतू । - अफ - पु विशेष सम्करण, खास नवर ।

जादू - पु [ फा ] १. जादू, टोना, जतर-मतर; इद्रजाल, नजरबदी, मोहनी । २ हाथ की सफाई का काम, वाजीगरी । - गार - पु जादूगर, वाजीगर । - गिरी - स्त्री जादूगरी, जादू का काम । - टोणा - पु टोना - टोटका, जादू; जतर-मतर ।

जानपछान - स्त्री [ हिं 'जान-पहचान' ] जानपहचान; परिचय, गनासाई ।

जानवसा - पु जनवासा, वारा-तियो के ठहरने की जगह ।

जानवे - न १ जनेऊ, यज्ञोपवीत । २ दे 'गाडूळ' ।

जानी - वि [ फा ] जानी, परमप्रिय, जान से प्यारा ।

जानेवारी - पु [ अ 'जैनुअरी' ] जनवरी ।

जानोसा - दे 'जानवसा' ।

जाप्ता - [ अ 'जाविता' ] १ पहरा । २ मकान का हिस्सा, खड ।

जाव - पु [ फा 'जवाव' ] १ जवाव, उत्तर । २ कैफियत । - जबाव, -साल - पु १. सवाल - जवाव, जवाबतलबी, प्रश्नो-त्तर । २ सधि, सुलह । ३ स्पष्टीकरण । मु० - मागणे, - विचारणें - कैफियत तलब करना,

जवाव माँगना, कारण पूछना । जाम - दे 'जाव' ।

जाम - अव्य [ अ 'जैम' ] पक्का, कस कर, तग । - वि दे 'ज्याम' ।

जामदार - पु [ फा 'जाम-दार' ] १ जामादार, वह कर्म-चारी जिसका काम कपडों और गहनों की सँभाल हो । २ खजाची, कोपाच्यक्ष । - खाना - पु सरकारी खजाना, वस्त्रागार, भंडार ।

जामा - पु [ फा 'जामा' ] कपड़ा, पहनावा; डूल्हे को पहनाया जाने वाला अंगरखा जिमका नीचे का घेरा पेगवाज जैसा होता है । - निमा - पु १ पूनीपोशाक । २ ठाटवाट; सज्जवज ।

जामोन - पु [ अ 'जामिन' ] जमानत करनेवाला, जिम्मा लेने-वाला, प्रतिभू । - की - स्त्री जमानत, जिम्मेदारी, प्रतिभूति । - वार - वि जमानतदार, जामिन ।

जायपत्री - स्त्री जावित्री, जाय-फल का छिलका । [ जातीफल ।

जायफळ - न जायफल, जायबदी - वि [ अ 'जाए' + फा 'बदी' ] १ जरुमी; घायल, आहत । २ जो कट जाने या टूटने आदि से बेकार हो गया हो, अक्षम, पगु ।

जाया - वि [ अ 'जाए' ] १ जाया, नष्ट, बरबाद । २ दे 'जायबदी' ।

जाये - स्त्री १ आना-जाना, आवागमन । २ नाहक चक्कर काटना, भटकना ।

जार - पु जार, यार, उप-पत्ति, आशना ।

जार - पु १ समुद्र के पानी का क्षाग । २ जरायु, खेड़ी ।

३. सद्योजात बच्चे के मुँह से निकलने वाला फेन, ओठोपर की मुलायम त्वचा। मु० - बाळलेला नसणे - अभी बच्चा होना, अल्पवयस्क, नासमझ होना।

जारण - न १ जारण, जादू-टोना। २ धातु का शोवन, भस्म। ३ लय, नाश। - मारण, - मारण उच्चाटन - न जारण - मारण, शत्रुनाश के लिए किया जाने वाला तांत्रिक अभिचार।

जारी - वि [अ] १ जारी, लागू (कानून)। २ शुरू। - ने - अव्य १ तेजीसे। २ सक्ती के साथ, कस कर। मु० - फरणें - जारी करना, चलाना, आरंभ करना, नाफिज करना।

जालीम - वि [अ 'जालिम'] १ तीक्ष्ण, कठोर, सख्त। २ जालिम, अत्याचारी। ३ अक-सीर, अत्यंत गुणकारी, अचूक, अव्यर्थ।

जावई - पु जामाता, दामाद, जमाई। - शोव - पु ठीक को गलत सावित करने की चेष्टा, अनावश्यक सुधार।

जावक - वि जावक, भेजा जाने वाला, भेजने का, निर्गामी। - खी १ निकासी, रत्नानगी। २ खर्चा। - बारनिशी - खी जावक रजिस्टर।

जावळ - न झंडूला, बच्चे के सिरपर के गर्भ के बाल। २ बच्चे का मुडन, चूडाकर्म, चौल। मु० - काढणें - हिंदू बच्चे का पहली बार सिर मुंडाकर चोटी रखना।

जावळा; जावळारावळा - वि जुडावां, जुडे हुए (बच्चे), यमल।

जासबंद-दी - खी अडहुल (फूल

और पेड), जवा, जपा, जपा-कुसुम।

जासूद - पु [अ 'जामूस'] हरकारा, दूत।

जास्त-स्ती-वि [अ 'जियाद' + फा 'अस्त'] १ ज्यादाह, अधिक। २ फालतू, फाजिल।

जास्वद, जाहागीर, जाहावाज - दे 'जासवद' 'जहागीर', 'जहावाज'।

जाहिर - वि [अ 'जाहिर'] १ जाहिर, प्रकट, खुला हुआ। २ ज्ञात, मालूम। ३ प्रकाशित, छपा हुआ। - खबर - खी १ विज्ञापन। २ सूचना, विज्ञप्ति, 'नोटिस', इत्तिला। - नामा - पु १ ऐलान; आज्ञापत्र, घोषणा-पत्र, मुनादी। २ सूचना, 'नोटिस'। - पणें - अव्य जाहिरा तौरपर, प्रकट रूप से, खुल्लम सुल्ला। - सभा - खी सार्वजनिक सभा, आम जलसा।

जाहिरात - खी [अ 'जाहिर'] विज्ञापन, इश्तिहार, सूचना।

जाहीर - दे 'जाहिर'।

जाळ - पु १ अग्नि, आग, ज्वाला, लपट। २ बुखार। ३ अग्निकाह, आतशजनी, आग-जनी।

जाळणे - क्रि स १ जलाना, झुलसाना, मुलगाना, आग लगाना, फूंकना। २ सताना, परेशान करना। मु० पोट जाळणें - बुरे मार्गों से पेट पालना।

जाळी - खी १ जाली, जाल, जाला। २ झरोखा। ३ कुज, लतागृह, झुरमुट। ४ फूलों की जाली। ५ पाश, बधन। दे 'जाळी'। - दार - वि १ जालीदार, जिसमें जाली हो। २ नक्काशी-

दार। - ० कापड - न जालीलेट, जालीलेट, सासनलेट, एक कपडा जिसकी बुनावट जाल की-सी होती है।

जाळें - न १ जाल, जाला, फदा। २ मकड़ी का जाला। ३ छलकपट, धोखा। ४ दे 'जाळी'। मु० जाळ्यात पकडणें - जाल में फँसाना, धोखा देना।

जिकणे - क्रि स १ जीतना, फतह हासिल करना, विजय पाना, हराना, मात देना। २ दमन करना, बश में लाना (मन, इद्रिय आदि को)। - क्रि अ विजयी होना, बाजी ले जाना।

जिदगी, जिदगानी - खी [फा 'जिदगी', 'जिदगानी'] १ जिदगी, जीवन। २ आयु। ३ जायदाद, पूंजी, संपत्ति। ४ आय-व्यय विवरण पत्र में संपत्ति की मह या विषय, 'ऐसेट्स'।

जिकडचा-ला - वि जहाँ का, जिस ओर, तरफ का।

जिकडून - अव्य जहाँ से, जिस ओर, तरफ से। - तिकडून - अव्य हर तरफ से, चारों ओर से।

जिकडे - अव्य जिधर, जहाँ, जिस ओर, तरफ। - तिकडे - अव्य जहाँ-तहाँ, चारों ओर, सब तरफ।

जिकीर - खी [अ 'जिक्र'] १ तगी, फिक्र। २ भुनभुनाहट। ३ झझट, झमेला, हैरानी, परेशानी, माथापच्ची। मु० जिकी-रीस घेणें - हैरान, परेशान होना।

जिगजिग - खी १ झझट, परेशानी। २ पिनपिन।

जिगर - न [फा १ जिगर, यकृत। २ हृदय, प्राण। ३

हिम्मत, माहम। - वि जिगरी, हार्दिक, घनिष्ठ, गहरा, दिली।  
- दोस्त - पु जिगरी दोस्त, अतरंग मित्र।

जिज्ञासा - स्त्री १ जिज्ञासा, जानने की इच्छा। २ पूछनाछ, खोज।

जिज्ञासु - सू - वि जिज्ञासु; जानने का इच्छुक, जानार्थी, खोजी।

जिज्ञिया - पु [ अ 'जिज्ञय' ]  
जिज्ञिया, एक कर जो भारत के मुसलमान शासक हिंदुओं से लिया करते थे। [ जिदगी, ह्यात।

जिणें - न. जीना, जीवन,

जितका - वि जितना। जित-

क्यास तितका - वि आवश्यकता-भर, उतना ही जितने की भरूरत हो। मु० -० संवघ ठेवणें - काम से काम रखना, अपने काम का ही ध्यान रखना; और वातो में न पडना। [ जहाँ तक।

जितपत - वि जितना। - अव्य.

जितरव, जितराव - न १ खड़ी फसल। २ ढोर, मवेशी।

जिता - वि १. जीता, जिदा।  
२ जलता हुआ। - जागता - वि जीता-जागता; जागरूक, समर्थ, सशक्त, सतेज। कहा० जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही - आदमी आदत से लाचार है।

जित्रप - व, जित्राप - व<sup>+</sup> - दे 'जितरव'।

जियचा - ला - वि जहाँ का।

जियपर्यंत, जियवर - अव्य जहाँ तक, जब तक।

जियून - अव्य जहाँ से।

जियें - अव्य. जहाँ, जिस जगह। - तियें - अव्य. जहाँ-तहाँ, सब जगह; हर जगह।

जिद् - स्त्री [ अ. जिद' ] १. जिद, हठ, दुराग्रह। २ अगडा। ३ दृढ़ता, अड, मजबूती।

जिद्दी - वि [ अ. 'जिद्दी' ]  
१ जिद्दी, हठी, दुराग्रही, अडि-यल। २ दृढ़निश्चय, मंकल्प का पक्का।

जिनगर - पु [ फा. 'जीन' + 'गर' ] १ जीनमाज, जीन बनाने वाला। २. मूनियाँ, निलीने आदि बनाने वाला।

जिनगानी, जिनगी, जिनस - दे. 'जिदगानी', 'जिदगी', 'जिनस'।

जिना - पु [ फा. 'जीन' ]  
जीना; मीठी, मोपान।

जिन्नम - पु स्त्री [ अ 'जिन्न' ]  
१ जिन्न, जिम, वस्तु, चीज।  
२ व्यापार की चीजें, गल्ला, असबाब। ३ किम्म, प्रकार, जाति; वर्ग। ४ गहना। ५ क्षुद्र, तुच्छ पदार्थ। - वार - वि अव्य जिसवार, वर्ग के अनुनार।

जिप्पी - वि [ अ ] जिप्पी,  
रोमणी; यायावर, भटकने वाला।

जिमली - स्त्री १. जीम, जवान। २ जीमी, जिन्मी, 'टगक्रीनर'। मु जिमल्या चाटणें - १ ओठ चाटना, स्वाद की लालमा रह जाना, जवान चाटना। २ मुंह में पानी भर आना, राल टपकना, ललचाना।

जिभेचा पट्टा, जिभेवर असणें - इ दे. 'जीम' मे।

जिम्मा - पु [ अ 'जिम्म' ]  
१. जिम्मा, जिम्मेदारी, उत्तर-दायित्व। २ जमानत, प्रतिभूति। ३ कार्यभार। ४ सिपुर्दगी। मु - घणें - जिम्मा लेना, भार उठाना, हामी भरना।

जिरणें - क्रि अ. १. सूचना; मोन्ना जाना; जज्व होना। २ अदर ही अदर नष्ट होना, बैठ जाना, दबना। ३ समा जाना। ४ पचना, हजम होना। ५ हारना, टूटना (घमट)। ६ छिया, दब दिया जाना, जाहिर न होना।

जिरवण - न पाचक दवा।

जिरवाजिरव - स्त्री किसी वान को छिया देना, दवा देना, प्रकट न होने देना।

जिरविणें - क्रि म १. सोचना, जज्व करना, २ पचाना, हजम करना, हडप करना। ३ दवा देना; छुपा रखना।

जिराईत - वि [ अ 'जिराअत' ]  
वारानी वर्षापर अवलंबित, अतिचित्त, मीची न जा सकने-वाली (फमल, जमीन)। - न स्त्री वारानी, वह जमीन जिम्मे केवल वर्षा से मिचाई हो।

जिराफ - पु [ अ. 'जिराफ' ]  
जिराफ, जुराफा; जिराफा (जानवर)।

जिरें - न जीरा, जीरक। -  
मिरें - न जीरा, काली मिर्च आदि मसाले की चीजें, पसारी की दूकान में मिलने वाली वस्तुएँ। -  
साळ - स्त्री एक किम्म का वारीक वान।

जिरे - न [ फा. 'जिहि' ]  
जिरह, वस्तर, कवच। - टोप - पु गिरस्त्राण, लोहेका टोप।

जिलत्री - स्त्री [ हिं. 'जलेबी' ]  
जलेबी, कुडलीके आकार की एक मिठाई।

जिल्हई - दे. 'जिल्हई'।

जिल्हा - पु [ अ 'जिला' ]  
१ जिला, प्रात या सूबेका वह भाग जो डिप्टी कमिश्नर या कलक्टर

की मातहत हो; 'डिस्ट्रिक्ट' ।  
२ देश का विभाग, प्रदेश ।

जिल्हाधिकारी - पु. [ अ  
'जिला' + अ 'अधिकारी' ]  
जिलाधीश; समाहर्ता, 'कलक्टर' ।

जिवत - वि जीवित, जिंदा,  
जीता, दे 'जीवत' ।

जिवट - वि १ मजबूत,  
पक्का । २ चीमड । ३ जीवट  
वाला, साहसी, बहादुर । ४  
समर्थ, सुयोग्य, लायक ।

जिवणी - स्त्री मुंह, दोनो होठो  
के बीच का मुंह का भाग, होठ ।

जिवती - स्त्री १ छठी, छठी  
के दिन पूजा जाने वाली एक देवी ।  
२ इस देवी की छोटी प्रतिमा जो  
बच्चे के गले में बाँधी जाती है ।

जिवलग - वि प्रिय, प्यारा,  
जानी, घनिष्ठ ।

जिवाचा, जिवात, जिवानिशी,  
जिवापलीकडे, जिवापाड, जिवा-  
भावाचा, जिवाला, जिवावर,  
जिवास - दे 'जीव' में ।

जिवाणू - न १ साँप । २  
कीटाणु, कीडा ।

जिव्हा - स्त्री जिह्वा, जीभ,  
जवान । - लौल्य - न जिह्वा-  
लौल्य, चटोरपन ।

जिव्हारी - अव्य. नाजूक भाग  
में, कलेजे में, मर्मस्थान पर ।

जिव्हाळा - पु. १ आत्मीयता,  
लगन । २ प्यार, प्रेम, स्नेह ।  
३ उद्गम, उत्पत्ति स्थान,  
स्रोत, क्षरना । ४ आत्मा, मर्म;  
सार । [स्नेहशील ।

जिव्हाळघाचा - वि घनिष्ठ,  
जिव्हाळी - स्त्री मर्मस्थान,  
नाजूक भाग । मु. - लागणें - शरीर  
के किसी मर्मस्थान का कुछ भाग  
छिल जाना ।

जिव्हा - दे. 'जिव्हा' ।

जी - सर्व स्त्री जो ।

जी - अव्य १ जी, नाम,  
अल्ल या पदवी के साथ जोडा  
जाने वाला आदरसूचक शब्द ।  
२ बडो के प्रति स्वीकृति, समर्थन,  
प्रश्न आदि में प्रयुक्त होने वाला  
शब्द । मु० - जीकरण - हाँ - जी  
हाँ - जी करना, चापलूसी, खुशा-  
मद करना ।

जीन - न [ फा 'जीन' ]  
जीन, चारजामा, काठी, पलान,  
दे 'जेन' । - गर - पु. दे  
'जिनगर' ।

जीभ - स्त्री १ जीभ, जिह्वा,  
जवान । २ कलम की नोक जिससे  
लिखा जाता है । जिभेचा पट्टा -  
पु. वकवास, वकलक । जिभेचा  
पालट - पु. खाने में बदल, रचि-  
परिवर्तन । मु. - काढणे - १  
जीभ निकालना, खाने के लालच  
से जवान बाहर निकालना, जवान,  
ओठ चाटना । २ मुंह बनाना, मुंह  
चिढाना । - चावणें - भय, सकोच  
आदि से बोलते हुए रुक जाना ।

- चुरचुरे चालणें - १ जवान चलना,  
तेजी से बोलना, जवान कैची की  
तरह चलना । २ बद - जवानी  
करना, जवान चलाना, धृष्टता  
से बातें करना । - जड  
असणें - १ उच्चारण का स्पष्ट न  
होना । २ शीघ्र कंठस्थ करन की  
क्षमता न होना । - जड होणे - १  
शब्दों का शुद्ध, स्पष्ट उच्चारण  
करने में असमर्थ होना । २ मद-  
बुद्धि होना । - झडणें ( झूठ आदि  
बोलने के कारण ) जीभ का झड  
जाना, सड - गल जाना । -  
मोकळी सोडणें - १ जवान चलाना,  
बदजवानी करना । २ खाने - पीने

में परहेज न करना । - लाव करून  
बोलणें - जवान में लगाम न होना,  
मुंहफट हो जाना । - बळबळणें -  
१ जवान खुलना, बच्चे का  
बोलने लगना । २ जवान टूटना,  
बच्चे का क्लिष्ट शब्दों का शुद्ध,  
स्पष्ट उच्चारण करने लगना ।  
३ गालियाँ देना, भला-बुरा  
कहने की इच्छा होना । - विटा-  
ळणें - जवान विगाटना, झूठ  
बोलना, गदी बातें मुंह से निकाल-  
ना । - सैल सोडणें - दे 'जीभ  
मोकळी सोडणें' । - सोकणें, -  
सोकावणें - जीभ चलना, तरह-  
तरह के स्वाद लेने की इच्छा  
होना । जिभेला हाड नसणें - १  
जवान में लगाम न होना, बोलने में  
उचित - अनुचित का विचार न  
होना । २ जवान कैची की तरह  
चलना । जिभेवर असणें - जवान  
पर होना, हर वक्त याद रहना,  
कठस्थ होना । कहा० उचलली जीभ  
लावली टाळ्याला - वे सोचे -  
समझे बात करना, गुस्ताखी से  
बातें करना ।

जीर्ण - वि १ जीर्ण, फटा-  
पुराना, जर्जर । २ पचा हुआ ।  
- ज्वर - पु. जीर्णज्वर, पुराना  
बुखार ।

जीर्णोद्धार - पु. जीर्णोद्धार,  
पुरानी, टूटी-फूटी चीज की मर-  
म्मत, पुराने मंदिर, कुएं, तालाब  
आदि की मरम्मत । [ जिंदा ।

जीवत - वि जीवत, जीवित,  
जीव - पु. १ जीव, प्राण,  
जान, जीवन । २ प्राणी,  
कीटाणु, कीडा-मकोडा । ३ दम,  
हिम्मत । ४ लाभ, फायदा ।  
५ सचाई । ६ जीवात्मा, अत-  
रात्मा । - घेणा - वि १ जान

लेवा, जीव-वानी । २ बहुत सताने वाला, परेशान, हैरान करने वाला, नाक में दम करने वाला । ३ मुश्किल, कठिन । - जंतु - पु १ जीव-जंतु, प्राणी, छोटे प्राणी, कीटा-मकोडा । २ जीव-जगत्, प्राणि-ममष्टि । - दान - न जीवदान, प्राणदान, जानवल्ली । - रस - पु जीवरस, जीवनरस, प्राणरस, 'प्रोटोप्लाज्म' । - शक्ति - श्री जीवशक्ति, प्राणशक्ति, 'व्हाइटल फोर्म' । - शास्त्र - न जीवशास्त्र; जैविकी, प्राणिविज्ञान । - सृष्टि - श्री जीव-जगत्, प्राणिजात, प्राणिवर्ग । - हत्या - श्री जीवहत्या, जीव-हिंसा, प्राणिवध । जीवश्च कठश्च - वि जानी, गहरा, गाढा (मित्र) मु० - अडकणें - जी टेंगा रहना, दिल अटकना, जी उलझना, धव-डाना । - अघात्री उड़णें - धवडा जाना, परेशान होना, हडब्रडाना । - अर्धा करणें - सताना, हैरान करना, कष्ट देना । - अर्धा होणें - १ बहुत डर जाना । २ थककर निढाल होना । ३ परेशान, हैरान होना । - असणें - प्रेम, प्यार, स्नेह होना । - आवणें - जी ऊबना, जी उचटना । - उड़णें - १ जी उड जाना, चित्त का अतिशय चक्कर, उद्विग्न होना, प्राण उड जाना, मूत्र जाना; बहुत धवराहट होना । २ प्रेम, स्नेह न करना, दिल से उतरना, दिल हट जाना । - कालवणें - जी धवडाना, बेचैन होना । - की प्राण करणें - जान को तरह रखना, बहुत प्यार करना, किमी पर जान देना । - खणें - जान माना, परेशान करना । - खाली पडणें - नरेजा, जी ठडा

होना, मन को शांति मिलना, भय दूर होना । - गोळा होणें - १. कलेजा मुंह को आना, बहुत धव-राना । २. जान आँखों में आ जाना, प्राण गले तक आना, आसन्नमरण होना । - घेऊन पळणें - जी छोड़ कर भागना, वदहवास हो कर भागना, सिर पर पाँव रख कर भागना, मांस लेने को भी न रुकना । - टांगणीस लागणें, टांगणें - जी टेंगा रहना या होना, खटका बना रहना । - टाकणें - १ (किसी पर) जान देना, बहुत अनुरक्त, आमक्त होना । २ प्राण छोडना, त्यागना, मरना । - टाकून पळणें - दे 'जीव घेऊन पळणें' । - ठिकाणीं नसणें - जी उचटना, जी उड़ जाना, बहुत उद्विग्न, बेचैन होना । - तुटणें - जी तडपना, बहुत चिंता होना । - तोडून करणें - जी जान से, पूरे दिल से करना । - तोडून सांगणें - लाख कहना । - थारों, थान्यावर नसणें - बेचैन होना । - थोडा थोडा होणें - जी भारी होना, अनमना होना, चिंता लगी रहना । - देणें - १ जान देना, मरना, आत्महत्या, आत्मघात करना । २ एडी - चोटी का पमीना एक करना, बहुत मेहनत, कोशिश करना । - धडधड करणें - कलेजा धक-धक करना, धडकना; दिल दहलना, कलेजा कांपना । - धरणें ज़िदा रहना, नई शक्ति प्राप्त करना, बढ़ना । - बहन असणें - १ हिम्मत के साथ रहना । २. जीवित रहना, जान में जान होना । - पोळणें - १ जी जलना, भारी दुःख होना । २. सबक मिलना । - बसणें - (किसी पर) जी आना, आमक्त, आशिक्र होना, प्यार

होना । - भांडघात पडणें - जी कलेजा ठडा होना, मन को शांति मिलना; जलन, बेकली का दूर होना । - मट्टघास येणें - बहुत थक जाना; जी निढाल होना । - मुठींत धरणें - १. बहुत सावधानी से अपनी रक्षा करना । २. कलेजा थाम लेना या पकड़ लेना । - मोठा करणें - दिल को बडा, विगाल, उदार बनाना । - लावणें - जी लगाना, दिल लगाना, प्यार करना । - सोडणें - दे 'जीव टाकणें' । जिवाचा कलिजा - वि जी जीन से प्यारा, प्राणप्रिय, प्रियतम । जिवाचा सोवती - वि पु १ वनिष्ठ मित्र । २ जीवनभर का साथी (पति या पत्नी) । जिवाची गोष्ट - श्री दिल की बात । जिवानिशीं - अव्य. प्राणों के साथ, जान के साथ । जिवापलीकडे - अव्य. जान से भी अधिक । जिवा-पाड - अव्य जी जान लडा कर, जान की बाजी लगा कर, प्राणों पर खेल कर । जिवामावाचा - वि बहुत प्यारा, अजीज । जिवाभावानें, जिवेभावें - अव्य जानो मन से । जिवावर - अव्य बलव्रूते पर । जिवा-वरचा प्रमग - पु ऐसा प्रमग जिस में जान जाने का डर हो । जिवा-वरचें दुखणें - न ऐसी बीमारी जिसमें जान को खतरा हो । जिवांचा - वि प्यारा, प्राण-प्रिय । मु० जिवाचा घडा करणें - हिम्मत करना, जानपर खेलना, जानजोखों का काम करना । जिवाचें रान करणें - एडी - चोटी का पमीना एक करना, जी तोड कर काम करना । जिवात जीव असणें - जान में जान होना, ज़िदा होना । जिवांत जीव येणें - जान

में जान आना, ढाढस बँधना, इतमीनान होना । जिवानिशीं जाणें - जान से जाना, जान से हाथ धोना, जान गँवाना, मरना । (कहा शेळी जाते जिवानिशीं आणि खाणारा म्हणतो वातड - मुर्गी अपनी जान मे गयी, खानेवाले को मजा ही न आया) । जिवापलीकडे जपणें - जी जान से रक्षा करना, बहुत अधिक मावधानी से रखना । जिवाला खाणें - ? जी में जलना, कुटना । २ कलेजा छिदना, विघना, कडी वात से जी दुखना । जिवाला काहीं तरी, बरें वाईट करून घेणें - आत्महत्या करना । जिवाला लागणें - जी को लगना, दिल पर चोट पहुँचना । जिवावर उठणें - जान का गाहक बनना, किसी की जान लेने पर आभावा होना । जिवावर उड्या मारणें - (किसी के) बलबूते पर कूदना, किसीके भरोसे इतराना । जिवावर उदार होणें - हथेली पर जान लेना, जान देनेको, मरने को तैयार रहना । जिवावर बतणें - जान पर, जी पर आ बनना, जान जाने का डर होना, भारी मकट मे पडना । जिवावर येणें - १ हिम्मत न होना । २ बहुत मुश्किल या अप्रिय मालूम होना । जिवास जीव देणें - १ गाढे का साथी बनना, विपत्काल में साथ देना । २ अपने प्रिय व्यक्ति की रक्षा के लिए जान पर खेलना । जिवास मुकणें - जान से हाथ धोना, जान गँवाना, मरना । जिवां लागणें - दे 'जिवाला लागणे' । जिवां मारणें - जान से मरना, मार डालना, कतल कर देना ।

जीवन - न १ जीवन, जिदगी । २ जीविका, जीवन की

आधाररूप वस्तु । ३ पानी । - कलह - पु जीवन-सघर्ष ।

जीविका - छी १ जीविका, जीवनयात्रा का माधन, रोजी, वृत्ति । २ शक्ति, सामर्थ्य ।

जीवित - न जीवन, जिदगी ।

जुझ, जुझणे, जुझार - दे 'झुज', 'झुजणे', 'झुजार' ।

जुपणी - छी १ जुताई, जोत, जोताई । २ जुजवदी, किताव के जुजो को जिल्दबदी के लिए सीना ।

जुपणें - क्रि स १ जोतना, लगाना, जोडना । २ बाँधना । - क्रि अ छिडना, गुरु होना ।

जुवडा, जुवाडा - पु १ जटा, उलझे और आपस में चिपके हुए लंबे बाल । २ बालो का मोटा जूडा । ३ गुच्छा, झुव्वा ।

जुई - छी जूही (फूल और बेली), यूथिका, यूथी ।

जुग - न १ जुग, चौसर की गोटियों का जोडा, एक घर में बँठी हुई दो गोटियाँ । २ युग । ३ जोडा । ४ जुडवाँ बच्चे ।

जुगणें - क्रि अ १ जुडना, मिलना, इकट्ठा होना । २ मेल होना । ३ जोडा खाना, (पशु-पक्षियों का) मँथून करना । ४ अनेक गोटियों का एक घर मे आ जाना ।

जुगलबदी - छी युगलगायकी, दो व्यक्तियों का एक साथ गाना या बजाना ।

जुगार - पु जुआ, दूत ।

जुगारी - वि जुआडी, जुआरी, जुआ खेलने वाला ।

जुजवी - वि [अ 'जुजवी'] १ साधारण, मामूली । २ जुजवी, बहुत थोडा, छोटा, आशिक । ३ कामचलाऊ, अस्थायी, कमजोर ।

जुटी - दे 'जूट' ।

जुडगा - पु, जुडगें - न १ गुच्छा, झुव्वा । २ पूला, मुट्ठा । ३ पुल्लिदा, गड्डी ।

जुडणें - क्रि अ १ दे 'जुडणे' । २ जुडना, जोडा जाना । ३ इकट्ठा होना । ४ सटना ।

जुडा - पु १ दे 'जुडगा' । २ जूडा ।

जुडी - छी १ जूटी, पूला, गड्डी । २ छोटा गुच्छा, झुव्वा ।

जुना - वि १ पुराना, प्राचीन, पुरातन, बहुत दिनों का । २ जीर्ण, जो दिनी होने के कारण अच्छी दशा में न हो । ३ इस्ते-माल किया हुआ, बरता हुआ, काम में लाया हुआ । ४ अनुभवी ।

- पाना - वि फटा-पुराना, जीर्ण-शीर्ण । - पुराणा - वि पुराना, घिसा हुआ । - वाज्जार - पु गुदडी वाज्जार, फटी-पुरानी टूटी-फूटी चीजों का वाज्जार ।

जुनाट - वि बहुत पुराना, बोधीदा, सडा-गला, फटा-पुराना ।

जुनें - वि दे 'जुना' । - खोड - न पु खुराट, खुराट, मजबूत, बूढा आदमी, अनुभवी, चालाक बूढा ।

जुनेर-रें - न फटी-पुरानी धोती, साडी ।

जुलाव - पु [अ 'जुलाव'] १ जुलाव, जुल्लाव, विरेचन, दस्त लाने वाली दवा । २ दस्त, पतला पाखाना ।

जुलमी - वि [अ 'जुल्म'] जालिम, अत्याचारी ।

जुलूम, जुलूम - पु [अ 'जुल्म'] जुल्म, अन्याय, अत्याचार, जवर्दस्ती । - जवर्दस्ती - छी जुल्मोसितम, अत्याचार ।

जुलुमाचा रामराम - पु अनिच्छा-पूर्वक की हुई बात, लाचार हो कर किया हुआ काम ।

जुलें - पु [अ] जुलाई, जुलाय, ईसवी सन का सातवाँ महीना ।

जुवा - पु जोड़, मेल, सधि-स्थान ।

जुळणी - स्त्री १ जोड़ाई, जुड़ाई, रचना । २ मेल, योग । ३ प्रवध ।

जुळणें - क्रि अ १ जुड़ना, जोड़ा जाना । २ मेल खाना, ठीक होना, मिलना । ३ वनना, मित्रता, स्नेह होना ।

जुळतें घेणें - क्रि स समझौता करना ।

जुळवाजुळव - स्त्री प्रवध, सामग्री का सकलन ।

जुळविणें - क्रि स १ जोड़ना, मिलाना, लगाना । २ इकट्ठा करना । ३ जुटाना । ४ लडके या लडकी द्वारा स्वयं अपना व्याह निश्चित किया जाना । ५ व्याह निश्चित करना ।

जुळा - वि जुड़वाँ (बच्चा) ।

जुळारी - पु मुद्रयोजक, टाइप बैठाने वाला, 'कंपोज़िटर' ।

जुळें - न जुड़वाँ बच्चे । २ जोड़ा, जोड़ी ।

जू - न जुआ, जुआँ, जूआ, हल या गाड़ी की वह लकड़ी जो बैलो के कंधे पर रहती है । मु० - झुगारून देणें - जुआ उतार फेंकना ।

जूग - न १ मडली, गुट्ट, समूह, दल । २ एका । दे 'जूग' ।

जूट - स्त्री १ एका, इत्तिहाद, मेल, सगठन, सघटन । २ गुट्ट; समूह, दल ।

जूट - पु [अ] जूट, पटसन ।

जून - पु [अ] जून; ईसवी सन का छठा महीना ।

जून - वि १ पक्का, पक्व, परिपक्व, कड़ा, मरुत । २ पुराना । ३ दृढ़, मजबूत ।

जें - सर्व न जो ।

जेंगट - दे 'झेंगट' ।

जे - सर्व पु वह जो । - सर्व - स्त्री \* जो - अव्य कि, जिससे कि ।

जेठा - पु खडे घुटनो और कमर को एकसाथ कपड़ा लपेट कर बैठने का ढग । मु० - मारून बसणे - १ जम कर बैठना । २ बेकार बैठना ।

जेणें\* - अव्य जिससे, जिसके कारण । - करून - अव्य जिससे कि ।

जेतुका - ला - वि दे 'जितका' ।

जेथ\* - अव्य जहाँ ।

जेथचा - ला - वि जहाँ का ।

जेथपर्यंत, जेथपावेतो, जेथवर - अव्य जहाँ तक, जब तक ।

जेथील - वि जहाँ का ।

जेथून - अव्य जहाँ से ।

जेथें - अव्य जहाँ, जिस जगह । - तेथें - अव्य जहाँ-तहाँ, हर जगह ।

जेधवा\* - अव्य जब, जिस समय ।

जेन - न [फा 'जीन'] ।

१. नमदा, जमाया हुआ ऊनी कपड़ा । २ रजाई । दे 'जीन' ।

जेमतेम - अव्य जैसे-तैसे, किसी तरह, बड़ी मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ।

जेर - वि [फा 'जेर'] १

जेर, कमजोर, दवा हुआ, निर्बल, नाताकत । २ परास्त, पराजित । ३ हैरान, परेशान । ४ कब्जे में

किया हुआ । दे 'जेरी' । - बर - पु जेरवद, वह तस्मा जिसका एक सिरा थोड़े की मोहरी में और दूसरा तग में बाँधा जाता है । मु० - बर उखविणें - जेरवद से पीटना, मरम्मत करना, कचूमर निकालना ।

जेरी - स्त्री [फा 'जेर'] १ कमजोरी, दुर्बलता । २ हैरानी, परेशानी । मु० - स आणणें - जेर करना, हैरान, परेशान करना । - स येणे - जेर होना, हैरान, परेशान होना ।

जेवढा - वि जितना, जिम कद्र । - सर्व जो; जो भी ।

जेवण - न १ भोजन, खाना । २ आहार, खाने की मात्रा । ३ अन्न, परोसा हुआ अन्न । - खान - न खाना-पीना, भोजन-पान ।

जेवणावळ - स्त्री १ भोज, जेवनार, दावत; जियाफत । २ भोजन का खर्च । ३. होटल, ढावा ।

जेवणें - क्रि अ भोजन करना; खाना खाना, जीमना ।

जेवीं\* - अव्य जैसे, जिस तरह । - तेवीं - अव्य वि जैसा हो वैसा, भला-बुरा, हर तरह से ।

जेवू घालणें - क्रि स १ खाना खिलाना, जिमाना । २ परोसना ।

जेव्हडा - दे 'जेवढा' ।

जेव्हडा - अव्य १ जब, जिम समय । २ जबकि, यदि, जिस वजह से । - कधीं, - केव्हडा - अव्य जब कभी, किसी समय । - तेव्हडां अव्य हर वक्त, हमेशा, जब देखो तब ।

जेष्ठ, जेष्ठमथ - दे 'ज्येष्ठ' ।

जेहेत्ते<sup>+</sup> - वा जो है वह, जो है सो ।

जैयत - दे 'जय्यत' ।

जो - अव्य १ जब तक । २ ज्यो, जैसे, जिस तरह । ३ जब, जिस क्षण । - जो - अव्य ज्यो-ज्यो, जैसे-जैसे । - पर्यंत - अव्य जब तक ।

जोधळा - पु ज्वार, जुआर, जोधरी (छोटे दाने की ज्वार) ।

जो - सर्व जो, सबध वाचक सर्वनाम । - उठतो तो, - पाहावा तो - सर्व जिसे भी देखो, हर कोई । - तो - सर्व जो कोई, प्रत्येक व्यक्ति ।

जोख - न १ जोख, तील । २ भार, वजन ।

जोखड - न जुआ, दे 'जू' । २ बोझ, जिम्मेदारी ।

जोखणें - क्रि स १ जोखना, तीलना । २ अदाजा लेना ।

जोखम - दे 'जोखीम' ।

जोखाई - छी एक क्षुद्र देवी । जोखीम - छी [हिं 'जोखिम'] १ जोखिम, हानि, अनिष्ट, घाटे की समावना, सकट, खतरा । २ डर । ३ जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व । ४ बोझ, भार ।

जोग - पु १ जोग, योग, सन्यास । २ हठयोग ।

जोगडा - पु जोगडा, नकली योगी ।

जोगता, - वि जोग, योग्य, उचित, लायक ।

जोगतीण - छी १ यल्लम्मा देवी के नाम पर भिक्षा मांगने वाली स्त्री । २ जोगिन ।

जोगवणूक - छी १ पालन-पोषण, परवरिश, गुजारा । २ टालमटोल । ३ रक्षा, हिफाजत ।

जोगवा - पु देवी के नाम पर मांगी जानेवाली भिक्षा ।

जोगविणें - क्रि स १ पालन-पोषण, परवरिश करना । २ रक्षा, हिफाजत करना ।

जोगा-गें - दे 'जोगता' ।

जोजार - पु १ खटला, बाल-बच्चे, परिवार । २ झझट, झमेला, परेशानी ।

जो जो - अव्य सो जा, वच्चो को सुलाते समय बोलने का शब्द, लोरी की टेक । मु. - करणें - सो जाना (बच्चे का) ।

जोड - पु छी १. जोड, जोडा, जोडी । २ पैवद, जोडा जानेवाला टुकडा । ३ सधिम्यान; गांठ । ४ सग्रह, सचय, जमा, पूंजी । ५ लाभ, मनाफा । ६ साथ । ७ बरावरी । - वि जुडा हुआ, योगिक, सयोजी, सयुक्त, मिश्र । - काम - न १ अलग - अलग हिस्सो को जोड कर बनायी हुई चीज । २ दे 'जोडघदा' । - गोळी - छी १ एक बटूक मे एक साथ रहने वाली दो गोलियाँ । २ जोडी । - घदा - पु सहायक आजीविका, पूरक व्यवसाय । - नळी - छी दोहरी नली, दुनाली । - शब्द - पु योगिक शब्द । मु - करणे - १ जमा करना, प्रवध करना । २ प्राप्त, हासिल करना । - नसणें - सानी न रखना, बेजोड होना ।

जोडणी - छी १ जोडाई, जुडाई । २ प्रवध, इन्तजाम ।

जोडणे - क्रि स १ जोडना, मिलाना, गांठना, चिपकाना, सीना । २ टूटी हुई चीज के टुकडो को मिलाना, बैठाना । ३ जुटाना, जमा करना । ४ जोतना, नाँधना । ५ पूरा करना । ६ हासिल, प्राप्त करना ।

जोडपें - न जोडा, दपती, पति-पत्नी, स्त्री-पुरुष ।

जोडवें - न अनवट, एक आभूषण जो पैर के अँगूठे में पहना जाता है ।

जोडा - पु १ जोडा । २ जोडी । ३ दपती, पती-पत्नी, वर-कन्या । ४ जूता । ५ खेल का साथी, गुइयाँ । - जोडी - छी १ जोड, जोडना । २ जूती - पैजार, जूता चलना, मार-पीट, गदी लडाई । मु - झिजवणें, - फाडणें - किसीसे मिलने के लिए लाचारी से वार-वार जाना । - मारणें - १ जूते मारना, जूते लगाना, जलील करना । २ अच्छी खबर लेना । [मयुक्त वर्ण ।

जोडाक्षर - न युक्ताक्षर, जोडी - छी १ जोडी, जोडा, दे 'जोडा' । २ बरावरी, समानता । ३ जमा-पूंजी, मपत्ति । ४ मुगदर का जोडा । - घा - वि जोड का, बरावरी का । - दार - वि साथी, सहयोगी, गुइयाँ ।

जोत - न १ जोत, वह रस्सी या तस्मा जिससे वैल हल के साथ जोते जायें । २ जोडी, एक साथ जोते हुए दो वैल । ३ जोताई, जुताई ।

जोत - छी १ ज्योति, प्रकाश, रोगनी । २ ज्वाला । ३ तेज । ४ चमक, सफाई ।

जोतें - न १ ( घराचें ) कुरसी, चबूतरा । २ ( गाडीचें ) जोता, जोत ।

जोपासणें - क्रि स पर-वरिश, पालन-पोषण करना, रक्षा, हिफाजत करना, अच्छी तरह रखना ।



जोपासना - स्त्री १ परवरिय, पालन-पोषण। २ रक्षा, हिफाजत।

जोम - पु. [ज] १ जोम, उत्साह, उमग। २ जोश, आवेश, सामर्थ्य; मजबूती, दृढता। - दार - वि जोरदार, प्रबल, मजबूत।

जोर - पु. [फा] १ जोर, बल, ताकत, शक्ति। २ जुल्म, ज़बर्दस्ती, अत्याचार। ३ जोश, आवेश, उत्साह। ४ महत्त्व। ५ प्रबलता, प्रचंडता, तेज़ी। ६ दबाव। ७, डड, एक कसरत जो हाथ पैर के पजो के सहारे पेट के बल की जाती है। - फस, -दार - वि १ जोरदार, प्रबल। २ डड पेलने वाला। मु० - करणें - जोर करना, बल लगाना, कोशिश करना। - देणें - जोर देना, बल देना, आग्रह करना। - लावणें - दे 'जोर करणें'।

जोरा - पु. [फा 'जोर'] १ बग, इरितयार, अविकार, सत्ता। २ ज़बर्दस्ती, जोराजोरी, जुल्म, अत्याचार, अन्याय।

जोरावणे - क्रि अ [फा 'जोर'] १ जोर पकडना, बल प्राप्त करना, समर्थ, प्रबल, मज-

बूत बनना। २ बढना; फैलना। ३ जुल्म करना, ज़ालिम बनना।

जोरावा - पु. [फा 'जोर'] ज़बर्दस्ती, जुल्म, ज्यादाती।

जोरो - स्त्री दे 'जोरा'।

जोशी - पु. १ जोशी, ज्योतिषी। २ पुरोहित। - पण - न दे 'जोमपण'।

जोसकी - स्त्री, जोसपण - न पुरोहिती; पुगोहिताई।

जोप-स - पु. [फा 'जोप'] जोश, आवेश, जोर, उत्साह।

जोहार - पु. [हिं 'जुहार'] जुहार, सलाम, वदगी, प्रणाम।

जोहार - पु. [अ 'जोहर'] जोहर, राजपूत स्त्रियों का बलिदान के तौर पर जल मरना। [कि।

ज्या अर्थों - अव्य जव कि, चुं ज्याचा - सर्व जिसका। - तो - सर्व १ अकेला। २ स्वतंत्र। ३. स्वयं, खुद। - त्याला - सर्व हर एक को, अपना-अपना, सब को।

ज्याचें - सर्व जिसका; दे 'ज्याचा'। - नांव तें - अव्य - कतई, विलकुल, नाम न लो। फहा० ज्याचें करावें वरें तो म्हणतो माझेंच सरें - जिसका कीजिए मला, वह अपनी ही जिदपर अडा, गवे की आंखों में नोन दिया उमने

कहा मेरी आंखें फोड दी, वेवकफ के साथ एतसान किया, उमने नमझा बदमलूकी हुई।

ज्याम - वि कमजोर, परे-धान; हैरान, बदहवास। अव्य. दे 'जाम'।

ज्यूट - पु. दे 'जूट'।

ज्येष्ठ - वि १ ज्येष्ठ; मव मे वडा, श्रेष्ठ। २ बढिया। - पु ज्येष्ठ, जेठ का महीना। - मध - पु. जेठीमधु, मुलेठी।

ज्योत-ति-ती - स्त्री ज्योति, प्रकाश, लौ, रोशनी।

ज्योत्स्ना - स्त्री ज्योत्स्ना, चांदनी, चांदनी रात।

ज्वर - पु. ज्वर, ताप, बुखार।

ज्वराश - पु. हरारत, हलका बुखार।

ज्वलत - वि ज्वलत, जलता हुआ, प्रकाशमान, स्पष्ट।

ज्वलज्वहाल - वि उग्र, उन्मूलनवादी, पराकाष्ठावादी।

ज्वारी - स्त्री ज्वार, जुआर।

ज्वाला-ळा - स्त्री ज्वाला, आग की लपट, अग्निशिखा, लौ। - ग्राही - वि विस्फोटक, स्फोटक, शीघ्र जल उठने वाला, भडकने वाला। - मुखी - पु. ज्वालामुखी, आतिशफिर्गा पहाड।

### झ

झ - मराठी वर्णमाला में चवर्ग का चौथा वर्ण।

झ - मराठी का यह अपना विशेष उच्चारण है। अंग्रेजीके 'Z' के समान यह होता है।

झंकार - पु. झंकार, झनझना-हट, झनकार, 'झनझन' की आवाज।

झंगट - न १ एक वाद्य, घटियाली, झालर। २ झझट, झमेला।

झझावात - पु. झझावात, झझा, अघड, आंवी।

झक - स्त्री १ झक, झख, मनक, खन्त, धुन। २ बुरा काम। - मारीत - अव्य झख

मारकर, मजबूरन, ची-चपड किये विना। मु० - मारणे - १ झख मारना, वेकार काम करना, वक्त बरबाद करना, मजबूर होना। २ बुरा काम करना, व्यभिचार करना। ३ ऐसी बात करना जिसे नहीं करना चाहिए था।

झकझक, झकझकणें, झक-

शकाट; शकशकीत - दे 'शग-  
झग', 'शगझगणे', 'शग-  
झगाट', 'शगशगीत'।

शकणे - क्रि अ १ विस्मित,  
चकित होना। २ मुग्ध होना,  
मोहित, लुब्ध होना।

शकत - दे. 'शकत'।

शकपक - स्त्री १ तडक-भडक,  
चटक-मटक, ठसक, नाज-नखरा,  
सजवज। २ सफाई। ३ चमक,  
जगमगाहट। ४. टीपटाप। - वि  
-चमकीला, शानदार, वढिया,  
शकाशक, शकाशक, चमाचम,  
साफसुथरा, टीपटाप वाला, खूब  
साफ और चमकता हुआ।

शकमक - स्त्री शकशक, हुज्जत,  
तकरार, झगडा।

शकविणें - क्रि स १. चका-  
चौंघ कर देना। २ मुग्ध, लुब्ध  
करना। ३ धोखा देना, फँसाना।

शकाशकी - स्त्री शकशक,  
हुज्जत, तकरार, झगडा।

शकास - वि १ वढिया,  
अच्छा, सुंदर। २ शानदार।  
३ चमकदार। दे. 'शक'।

शकक - वि १. साफ, स्पष्ट,  
वढिया, जगमगाता हुआ, चम-  
कीला। २ दे 'शकास'।

शककत - अव्य शक मार कर,  
मजबूरन; लाचार होकर, ची-  
चपड किये विना।

शककू - पु १ गुल्ली डहे के  
खेल में पूरा दांव, जीत। २  
शकट, झमेला। ३ दे 'शकू'।

शगझग - स्त्री १ झझट,  
झमेला; परेशानी। २ जगमग,  
जगमगाहट, चमक।

शगझगणें - क्रि अ जगमगाना,  
चमकना, चकचौंघना, दमकना,  
चमचमाना।

शगझगाट - पु जगमग, जग-  
मगाहट, चकाचौंघ, तडक-भडक,  
चमक-दमक, तिलमिलाहट।

शगझगीत - वि जगमगाता  
हुआ, शकाशक, चमाचम, भड-  
कीला, चमकीला।

शगडणे - क्रि अ शगडना;  
लडना, जूझना।

शगडा - पु १ झगडा, तक-  
रार, हुज्जत, टटा, वखेडा।  
२ लडाई, युद्ध। [प्रिय।

शगडाळू - वि शगडालू, कलह-  
झगमग, झगमगणें; झगमगाट,  
झगमगीत - दे 'शगझग', 'शग-  
झगणे', 'शगझगाट', 'शगझगीत'।

शगरें<sup>+</sup> - न अलाव, कौडा।

शगा - पु १ शगा, शँगूला,  
शँगूला, वच्चो का ढीला कुरता।  
२ शगा, अवा, चोगा, 'गाउन'।

शट - न झझट, झमेला।

शट - अव्य शट, बहुत जल्द,  
तुरत। - फन-र, -झट, -दिशीं -  
अव्य शट, झट से, झटपट, तुरत।

शटकणें - क्रि स १ झटकना;  
झटकारना, झाडना। २ झिड-  
कना, फटकारना। - क्रि अ दे  
'मटकणे'।

शटका - पु १ झटका, धक्का,  
आघात। २ झकोरा, हवा का  
झोका। ३ घाटा, नुकसान।  
४ आकस्मिक और चदरोजा  
वीमारी, अकडवाई, दौरा।  
५ कसक, टीम।

शटकारणें - क्रि स दे  
'शटकणें', 'झिडकारणें'।

शटक्यासरशीं - अव्य. शटके  
के साथ, झट में।

शटणें - क्रि अ १ प्रयत्नशील  
रहना, जी-जान से कोशिश  
करना, बहुत चेष्टा, प्रयास करना,

कोई बात उठा न रखना। २.  
भिडना, सटना; झपटना।

शटपट - स्त्री १ जल्दी,  
शीघ्रता, फुर्ती, तेजी। २ झगडा,  
छीना-झपटी, तू-तू मै-मै, तक  
रार, हुज्जत। - अव्य शटपट,  
तुरत, झट में, तडाक-पडाक,  
फौरन, चटपट।

शटापट - टी - स्त्री छीना -  
झपटी, झगडा, हाथापाई,  
उठा-पटक।

शड - स्त्री १ झडी, लगातार  
वर्षा। २ झपट, झपट्टा। ३  
लगातार चलने वाली वार्ते।

शड - स्त्री झडना, गिरना,  
झडन। [जल्दी से।

शडकरी - अव्य. शट,  
शडझडा - अव्य १ शट-पट,  
तुरत। २ शडझडा कर, 'शडझड'  
की आवाज के साथ।

शडणें - क्रि अ १ झडना,  
टूटकर निरना (पेट से पत्तो,  
मिर से वालो का)। २ धिसना,  
छीजना। ३ रग उड जाना,  
फीका पडना। ४ टूटना, नष्ट  
होना। ५ झडना, वजना (नौवत  
झडना)। ६ छूटना (बदूक से  
गोली)।

शडती - स्त्री १ तलाशी,  
खानातलाशी। २ खोज, खोज -  
वीन। ३ गिनती, पूरी सूची।  
४ चुकता हिमाद। ५<sup>+</sup> पाप का  
प्रायश्चित्त।

शडप - स्त्री १ शडप, झपट्टा,  
लपट; झपट, हमला, टूट पडना।  
२ पल्ला, किनाडा के दो हिस्से में  
एक। ३ झिलमिली, झांप,  
गिटकी-दरवाजे के नामने घूप -  
वर्षा में बवाव के लिए लगाया  
जाने वाला टीन, लकड़ी आदि का

वना परदा। ४ ढक्कन। मु - घालणें - झडपना, टूट पडना, झपट्टा मारना, हमला करना।

झडपणें - न १ हवा करने का साधन, पखा। २ फटवने का साधन, सूप। - क्रि स १ हवा करना। २ झटपना, झपट्टा मारना, टूट पडना। ३ पीटना। ४ पकटना।

झडपा - पु. १ ढक्कन। २ वांस आदि की तीलियो से बनाया हुआ किवाड।

झडाझड - अव्य झडाझड, लगातार, झडी के रूप में।

झडी - स्त्री झडी, दे 'झट'। २ तपेदिक। ३ झपट्टा। ४ जल्दी, तेजी। [छीजने वाला।

झडचा - वि झडने वाला, झणकन - र - अव्य १ झन मे, झन्नाहट के साथ। २ झट से।

झणकवायु - पु. झनकवात, चौपायो का एक रोग जिसमें वे पैर को झटके के साथ उठाने हुए चलते हैं।

झणका - पु. १ विच्छू आदि के डक से होने वाली तीव्र वेदना। २ गुम्सा। ३ झनझनाहट। ४ दे 'झणकार'।

झणकार - रा - पु. १ झनकार, झनझनाहट; झन्नाहट। २ झटका, सनक। ३ जोश, आवेश। ४ झपट्टा, आवेग, तेजी। ५ दे 'झणका'।

झणझणणें - क्रि अ १ झन-झनाना। २ कसकना, टीसना ३ चरपराना, जलना, चर्गना। ४ सनसनाना।

झणझणाट - पु. १ झनझनाहट, झन्नाहट। २ जलन।

झणझणीत - वि तेज, तीखा,

करारा। २ चरपरा, चटपटा, मसालेदार। ३ जोरदार, कस कर लगाया हुआ (चाँटा)।

झणत्कार - पु. झणत्कार, झकार, झनकार।

झणाणां - अव्य १ झन्न से, झन्नाहटके साथ। २ जोर-जोर से।

झण्ण-णीं - \*अव्य शीघ्र, तुरत, फौरन। [जल्दी।

झपकन - अव्य झप से, झट, झपझप, झपाझप - अव्य जल्दी-जल्दी, झप से, तुरत, झपाके मे, तेजी साथ।

झपाटणें - क्रि स १ भत लगना, प्रेतवावा होना। २ लगना, सवार होना। ३ झट मे पूरा करना। ४ हडप करना, खा जाना।

झपाटलेला - वि भूताविष्ट, जिसे भूत लगा हो।

झपाटा - पु. १ झपाटा, झपट, झपट्टा। २ जल्दी, तेजी, फुर्ती। ३ दौरा। ४ छपाका। ५ अधिकता।

झपाटचानें, झपाटचातरशीं - अव्य झपट कर, लपक कर, तेजी से, फुर्ती से।

झपूझा - \*अव्य कवि के असीम आनंद को प्रकट करने वाला शब्द। [ 'जा पोरी जा' (जा वेटी जा) वाक्य को जल्दी से बोलने पर निकलने वाली आवाज। ]

झवलें - न झगा; झंगूला, दे 'झगा'।

झव्वा - पु. [ अ 'जुव्वा' ] चोगा, डीन्डा, लवा अंगरखा।

झव्वू - पु. १ घमडी, ताना-गाह व्यक्ति। २ लव्वप्रतिष्ठ ममझा जाने वाला गुडा, लफगा, शठ, ठग, खून लगा कर शहीदो

में दाखिल होने वाला। ३ ताश का एक खेल।

झरकन - अव्य झट से, तुरत। झरझर - रा अव्य तेजी से; फुर्ती से, जल्दी-जल्दी।

झरझरीत - दे 'झिरझिरीत'।

झरणी - स्त्री मसिझरिणी, कलम, 'फाउटेन पेन'।

झरणें - क्रि अ १ रिमना, चूना, टपकना। २ झरना। ३ घटना, कम होना। ४ पिघलना।

झरा - पु झरना, सोता, निर्झर, चग्मा। [ झर'।

झराझर, झरागं - दे 'झर-झरी - स्त्री १. छोटा झरना। २ नाला। ३ हास, क्षय। ४ दे 'झारी'।

झरोका - पु झरोखा, गोझा, गवाक्ष, छोटी खिडकी।

झवणें - क्रि स (शा) चोदना, मैथुन करना, समोग करना।

झळ - स्त्री १ ली, लपट, ज्वाला, लू। २ आंच, जलन।

मु० - लागणें - १. आंच आना, हानि होना, कष्ट, क्षति, आघात पहुँचना। २ लू लगना।

झळकणें - क्रि अ १ झलकना, चमकना, २ झलझलाना, झलमलाना, चमचमाना।

झळझळीत - वि १ झलमला, झलकता हुआ, चमकीला। २ साफ, निर्मल। - अव्य साफ तौर पर, स्पष्ट, खुल्लमखुल्ला।

झळफळाट - दे 'जळफळाट'।

झळाळी - स्त्री चमक, जग-मगाहट।

झांक - स्त्री १ झलक, चमक, दमक। २ झिला, मुलम्मा। ३ झाँकी, झलकी, आभास।

झाकण - न ढक्कन, ढकना,

आच्छादन ।

झांकणी - स्त्री ढकनी, ढाँकने की वस्तु, तस्तरी, कसोरा ।

झाकर्णे - क्रि अ १ ढकना, ढाँकना, छिपाना, आच्छादित करना २ मूँदना, मीचना, वद करना । ३ दबा देना ।

झांकली मूठ - स्त्री छिपी हुई असली हालत, अप्रकट सच्ची स्थिति । कहा० झाकली मूठ सच्चा लाखाची - भरी मुट्ठी मवा लाख की, अपनी सच्ची हालत को छिपाये रखने में ही श्रमीमत होती है ।

झाकले भाणीक - न गुदडी का लाल, छिपा रस्तम ।

झाकळणे - क्रि अ १ घुँघलाना, घुँघला पड़ना । २ ढका जाना, छा जाना । ५ चौंधियाना, चकाचौध होना । - क्रि स ढकना, ढाँकना ।

झाज - स्त्री १ झाँझ, झाल, मँजीरा । २ \* पखा । ३ परदा ।

झाट - दे 'झाट' ।

झाप - स्त्री पु १ झाँप, वाँस की तीलियों का बना किवाड । २ कँटीली टहनियों का गट्ठा, वोझ । ३ झोपडी । ४ दे 'झडप' ।

झाप - स्त्री १ झपट्टा, हमला । २ पेंग । ३ छपाका ।

झाप - स्त्री १ मूर्च्छा, बेहोशी, गश । २ ग्लानि, थकावट ।

झापड - स्त्री १ मूर्च्छा, गश । २ तद्रा, ऊँघ, क्लाति, मुम्ती । ३ अँधेरी, अँधोटी, अँधोटी, घोडे या बैल की आँखें वद करने का परदा ।

झापा - पु वाँस की तीलियों का बनाया हुआ फाटक, किवाड ।

झाक, झाकण, झाकणी,

झाकणे, झाकली मूठ, झाकलें माणिक, झाकळणे - दे 'झाक', 'झाकण', 'झाकणी', 'झाकणे', 'झाकली मूठ', 'झाकले माणिक', 'झाकळणे' ।

झाझा - अव्य पशुओ को हाँकते समय तेज चलाने के लिए बोलने का शब्द ।

झाट - न (श्रा) १ आँट, पशम, पुरुष या स्त्री की जननेद्रिय परके वाल । २ बहुत तुच्छ वस्तु ।

झाडपट्टी - स्त्री भर्त्सना, डाँट, फटकार, लानत-मलामत ।

झाड - न १ पेड, गाछ, पौधा, दरख्त, वृक्ष । २ झाड, छोटा, गुजान, कँटीला पेड, क्षुप । ३ झाड, झाड की शकल का फानूस जो छत या शामियाने से लटका कर जलाया जाता है और जिसमें बहुत सी मोमवत्तियाँ या बल्ब एकसाथ जलाये जा सकते हैं । ४ एक आतिश वाजी । ५ भूताविष्ट व्यक्ति । ६ वशवृक्ष, कुरसीनामा । - झाडोरा - पु, -झुडुप - न झाड-झखाड, पेड-पौधे, कँटीले पेडो, झाडियो का समूह । - पाला - पु. पेड की पत्तियाँ, जडी-बूटी, वनीपधि । (कोण्या) झाडाचा पाला - पु किम पेड की पत्ती, किस खेत की मूली, किस गिनती में है, तुच्छ, मामूली बात ।

झाड - स्त्री झाड, झाडने की क्रिया (केवल ममास में व्यवहृत) । - झूड - स्त्री झाडपोछ, सफाई । - लोट - स्त्री, - सारवण - न झाडबुहार, सफाई ।

झाडण - स्त्री ? झाड, झाडने की क्रिया । २ झाडू, बुहारी, झाडन, झाडने के काम आने वाला

कपडा । ३ झाड-फूंक ।

झाडणी - स्त्री १. झाड; बुहारी, बढनी । २ दे 'झाडणे' । ३ 'झाडपट्टी' ।

झाडणे - क्रि स १ झाडना, बुहारना, झाडू देना, लगाना । २ झटकारना, धूल-गर्द साफ करना । ३ झटकना, झटका देना । ४ दूर करना, भगाना, हटाना, नष्ट करना । ५ फटकारना, खरीखोटी सुनाना, डाँट पिलाना । ६ मत्र पढ कर फूंकना, झाड-फूंक कर भूत को भगाना । ७ दाग्रना, गोली चलाना ।

झाडा - पु १. झाडा, जामा-तलाशी । २ लेखा-जोखा, हिसाब चुकता करना । ३ झाडा, मैला, पाखाना । ४ निवटारा, फैसला । ५ झाड-फूंक, मतर-जतर । मु० - घेणें - जामा - तलाशी लेना । - देणें - किये हुए अपराध की सजा भुगतना ।

झाडी - स्त्री १ झाडी, झाड-झखाड, कँटीले पेडो, झाडियो का समूह । २ जगल, पेडो का समूह ।

झाडू - पु १ झाडू, बुहारी, बढनी । २ झाडूवाला, झाडूकश, भगी । - वि रद्दी, तुच्छ, बेकार ।

झाप, झापड, झापा - दे 'झाप', 'झापड', 'झापा' ।

झार - पु [अ 'जार'] १ रूस के सम्राट की पदवी, जार । २ जालिम, अत्याचारी शासक ।

झारणे - क्रि स सुनार की अँगोठी की राख, मिट्टी आदि को छान कर चादी-मोना निकालना ।

झारा - पु १ करछा, कलछा, करछुला, कफगीर, एक तरह की छेदो वाली कलछी जिससे घी, चाशनी आदि का झाग, मैल आदि

निकालते हैं। २ पानी गरम करने के बड़े में आग जलाने का लबी डाडी का छेदो वाला कलछा।

झारी - खी १ झारी, टोटी-दार वरतन। २ हजारा, पेडो को पानी देने का टीन का वरतन जिमकी टोटी में मूराख होते हैं।

झारेकरी - पु मुनार की दुकान की राख या कचरा लेकर उसमें से छान कर सोने-चादी के कण निकालने वाला।

झाल - खी झावा, टोकरा।

झालर - खी झालर, लटकने वाला हाथिया, किनारा।

झाले गेले - न गया-बीता, कहा-सना। मु० - विसरून जाणें - जो कुछ हुआ हो उसे भूल जाना, माफ करना। [पत्ता।

झावळी - खी ताड या माड का झाळणें - क्रि स झालना, टांका लगाना, टांके से जोडना, पांजना।

झिगणें - क्रि अ १ छकना, नगे में चूर होना, वदमस्त होना। २ झूमना, नगे में लडखडाना।

झिगा - पु झीगा ( एक छोटी मछली )।

झिगी - खी १ नशा, मस्ती। २ मगरूरी। ३ नगीली चीज।

झिजाडणें - क्रि स १ झोटा-झोटी करना, बाल खमीटते हुए लडना। २ झोटा खीचकर नीचे गिराना। ३ झिडकना, फटकारना।

झिजी, झिजोटी - खी लट, नीचे लटकने वाले सिर के उलझे हुए बालों का गुच्छा, झूटा; झोटा।

झिबड - खी १ झडी। २. भीड, मजमा। ३, विपुलता; इफरात।

झिगझिग - खी १ किचकिच, झझट, झमेला। २ पिनपिन। ३ बेजारी, परेशानी। ४ जगमगा-हट, चमक।

झिजणें - क्रि अ १ छीजना; घिसना। २ दुख या चिंता से क्षीण होना, दुबला-पतला होना, सूख जाना। ३ बहुत कष्ट उठाना, खपना। [हुआ (सिक्का)।

झिजवट - वि मलता, घिमा झिजविणें - क्रि स १ घिसाना, छिजाना। २ काम में लगाना, खपाना, बहुत कष्ट उठाना।

झिडकारणें - क्रि स १ झिडकना, दुतकारना। २ घुडकना, डांटना, फटकारना, धिक्कारना। ३. अस्वीकार करना, ठुकराना।

झिणझिणणे - क्रि अ चुन-चुनाना, झमझमाना, झुनझुनाना। झिणझिणी - खी झुनझुनी, चुनचुनी।

झिपरी - खी १ दे 'झिजी'। २ फूहड किंतु वदचलन स्त्री। मु० झिपच्या घरणें - झोटा - झोटी करना।

झिमझिम - खी रिमझिम, फुहार पडना, छोटी-छोटी बूंदें पडना, छम-छम। - अव्य छमछम, रिमझिम।

झिम्मड - दे 'झिबड'।

झिम्मा - पु लडकियों का एक खेल जिसमें वे एक-दूसरी की हथेलियों पर ताल दे कर नाचती हैं।

झिरझिरीत - वि झिरझिरा, झीना, महीन।

झिरपणें - क्रि अ १ रिसना, चूना, टपकना। २ 'दे झुरणे'।

झिरपा - पु १ झरना, सोता। २. रिसना, क्षरण, स्राव, वहाव, चूना।

झिरमिळी - खी १. झिलमिला; झिलमिली। २ पगडी आदि में लगे कलावतू के तार या फीते। ३. झूमक, झूमर, झूमका।

झिरा - दे 'झग'।

झिलई - खी [अ 'जिला'] जिला, चमक, ओप, मुलम्मा।

झिलमिळी - दे 'झिरमिळी'। झोज - खी १ छोज, घिसाई घटाव। २ हानि, घाटा। ३ हास, क्षय। मु० - सोसणें - १ घाटा उठाना। २ कष्ट महना।

झोट - खी घुमडी; चक्कर, गश, मूर्च्छा।

झुज - खी टक्कर, झटप, भिडत, मुठभेड, जूझ, लडाई।

झुजणें - क्रि अ जूझना, लडना, टक्कर लेना, भिडना।

झुजविणें - क्रि स लडाना, जुझाना, झगडा करना।

झुंजार - वि लडाका, सूरमा, जुझार, युयुत्सु, शर, जांवाज। - पणा - पु युयुत्सा।

झुजुमुजु - न झुटपुटा।

झुड - खी झुट, समूह, गिरोह। - वि दे 'झोड'।

झुवड - खी १ भीड, मजमा; ठठ, ठट। २ झगडा, गुत्यमगुत्या।

झुवर - न झोट-फानूस।

झुकणें - क्रि अ १ झुकना, नवाना, नम्र होना। २. झूमना। ३ टेढा होना, लटकना, मुडना, नीचा होना। झुकतझुकत - अव्य झूमते हुए, अपनी मौज में, धीरे-धीरे।

झुकविणें - क्रि स १ झुकाना, नवाना। २ टेढा करना, लटकाना, मोडना, नीचा करना।

झुकाडो, झुकावणी - खी चकमा, झांमा, घोसा, जुल, वुत्ता।

मु०-देणें - चपत, गायव होना, झांसा देना, नौ दो ग्यारह होना ।

शुगारणें - क्रि स १ फेंकना, उठा कर फेंक देना, उतार फेंकना । २ झोकना, घकेलना ।

झुडूप, झुडूप-न १ झुरमुट, झूप, गाछ । २ झाड, कँटीला पेड, झखाड । [कढी ।

झुणका - पु. वेसन, वेसनकी झुणझुण, झुणझुण - अव्य झन-झन, छमछम, रनुझुनु ।

झुपका, झुवका - पु १ गुच्छा, झववा, लच्छा । २ फुंदना । ३ झुमका, झूमक, झूमर ।

झुम्मड - दे ' झुवड ' । झुमझुम - अव्य. छमछम, झन-झन ।

झुरका - पु. कश, दम, मिग-रेट आदि के घुएँ का घूंट, फूंक । झुरणी - स्त्री १. कुढन, विछोह का दुख । २ छीजना, क्षय, ह्रास ।

झुरणें - क्रि अ १ कुढना, घुलना, घुल-घुल कर काँटा होना या मरना । २ रोगादि से सूखना, क्षीण होना ।

झुरविणें - क्रि स १ कुढाना, दुख देना । २ रिझाना, प्रसन्न करना । लुभाना, मोहित करना, झुरळ - न तिलचटा-ट्टा (एक प्रकार का झींगुर) ।

झुलकावणी - दे ' झुकावणी ' । झुलणें - क्रि अ १ झूलना, पेंग लेना । २ झूमना, झोके खाना, लहराना । ३ मच्चे में झूमते हुए चलना ।

झुलवा - पु. वेदया या विधवा स्त्री को पत्नी के तौर पर स्वीकार करते समय की जाने वाली एक विधि ।

झुलवाझुलव - स्त्री - स्त्री १. दे. ' झुकाडी ' । २ टाल-टोल, हीला-हवाला, बहानेवाजी ।

झुलविणें - क्रि स १ झूलाना, लटकाये रखना, आज-कल करते रहना, टालमटोल करना । २ चकमा, झांसा देना । ३ जाल में फँसाना, फदे में लाना । ४ हल-राना, झूले को हिलाना ।

झुला - पु झूला । झुलूप, झुलूप - न [फा ' जुल्फ ' ] जुल्फ, काकुल, पट्टा, गेसू, लट, काकपक्ष, कनपटियो-पर लटकने वाले वालो के पट्टे ।

झुळझुळ - अव्य झिरझिर, मद गति से, कलकल, छलछल करते हुए, धीरे - धीरे । - वि वुँवला, अस्पष्ट ।

झुळझुळणें, झुळझुळ वाहणें - क्रि अ झिरझिराना, धीरे धीरे, मद गति से, ' झिर-झिर ' करते हुए वहना ।

झुळझुळीत - वि उजला, चमकदार, माफ, मुलायम, झिल-मिल ।

झुळक, झुळुक, झुळूक - स्त्री १ हलका झोका, झकोरा, लहर, हिलकोरा, हिलोरा । २ झलक, झाँकी । ३ चमक ।

झूल - स्त्री [हिं ] १ झूल, हाथी, घोडे आदि की पीठ पर मजावट के लिए डाला जाने वाला कपडा । २ ढीला-ढाला, भद्दा पहनावा ।

झोंगट - न १ झझट, झमेला । २ रखेली । ३ चालाकी, पड-यत्र । ४ दे ' झगट ' ।

झोंगट्या - वि खुराफाती, झझट, झमेला खडा करनेवाला ।

झोंडा - पु [ हिं ' झडा ' ] झडा,

ध्वजा, ध्वज, पताका, निशान । मु० - नाचविणें, - मिरविणें - डींग मारना, अपनी बडाई का दिंडोरा पीटना । - रोवणें - १ झडा गाडना, अपने अधिकार की घोषणा करना । २ बडी बहादुरी दिखाना ।

झेंडू - पु १ गेदा (पीघा जोर उमका फूल) । २ जहरीले साँप के डमनेपर मुँह से निकलने वाला आग । मु० - फुटणें - मुँह से आग निकलना, बहुत अधिक थक जाना, निडाल होना ।

झेंप - स्त्री १ छलांग, लक, उडान, झप । २ झपट्टा । ३ पहुँच, रमाई । मु० - टाकणे - लपकना, झपट्टा मारना । दे ' झेंपावणे ' ।

झेंपावणें - क्रि अ उडान करना, छलांग भरना, झपट्टा मारना ।

झेंप, झेंपावणे - दे ' झेंप ', ' झेंपावणे ' । [ ' कैच ' ]

झेल - पु लोकना, पकडना, झेलणें - क्रि स १ लोकना, किसी चीज को गिरने से पहले ही हाथो से पकड लेना, गेंद को ' कैच ' करना । २. झेलना, सहना, उठाना, बर्दाश्त करना । ३ हाँ में हाँ मिलाना, स्वीकार करना, आज्ञा का पालन करना ।

झेला - पु. १ गुलदस्ता, फूलो का गुच्छा । २ पेडपर लगा बडा जाला जिसमें लग्गे से फल गिराये जाते हैं ।

झोक, झोकणे, झोका - द ' झोक ', ' झोकणे ', ' झोका ' ।

झोड - वि १ उड्ड, निर्लज्ज, वेमुरीवत, तोताचश्म । २ गुडा, तानाशाह ।

झोप - स्त्री नीद, निद्रा, ऊँघ ।  
- मोड - स्त्री निद्राभंग, नीद  
उचटना, नीद से जगाना । कहा०  
झोपेला घोडा, भुकेला फोडा -  
नीद आनेपर सोने के लिए पत्थर  
और भूख लगनेपर खाने के लिए  
भूसा भी चल सकती है ।

झोपडी - स्त्री, झोपडें - न  
झोपडा, झोपडी, कुटिया, मँडई,  
मडैया ।

झोपणें - क्रि अ १ सोना,  
सो जाना, ऊँघना । २ लेटना ।  
झोपविणें - क्रि स सुलाना,  
लिटाना ।

झोपा, झोपाळा - दे 'झोपा',  
'झोपाळा' ।

झोपी जाणे - क्रि अ सो जाना ।  
झोवणें - क्रि अ. १ चराना,  
जलन होना । २ चुभना, टीसना,  
लगना । ३ डँसना, डसना । -  
क्रि स १ भीचना, दवाना,  
लिपटना, कस कर पकडना, गले  
लगाना । २ खींचातानी, धीगा-  
मुश्ती करना ।

झोवरा - वि चुभने वाला,  
चराने वाला ।

झोवाझोवी - स्त्री झडपा-झडपी ।  
झोवी - स्त्री १ कुश्ती;  
भिडत, झडप, जूझ । २ झगडा,  
टटा । ३ आलिंगन, जवर्दस्ती गले  
लगाना ।

झोक - पु. [अ 'जोक'] शान,  
ठाट, ऐँठ; नखरा, नोक-झोक,  
डौल, ढव । - दार; -वाज - वि  
शानदार, डौलदार, ठाट-वाट  
वाला, नखरेवाज ।

झोक - पु. १ झुकाव, रजहान;  
प्रवृत्ति, चाह । २ ढाल, दिशा,  
मोड [ ३ गति, वेग ।

झोकणें - क्रि अ १ झुकना,  
ढलना । २ झुमते हुए चलना,  
लडखडाना । - क्रि म १. पीना  
(शराब), नशा करना, डकोमना,  
जल्दी - जल्दी पीना । २ झोकना,  
घकेलना, फँकना । ३ गप  
उठाना ।

झोकाडी - स्त्री १ झोका,  
लुकक - पुढक, लूढकना, लड-  
खडाना, पीनक । २ दे 'झुकाडी' ।  
३ झुकाव ।

झोका - पु. १ झोका, घक्का ।  
२ झूला, हिडोल । ३ पेंग,  
झूलने के समय झूले या हिडोले का  
आगे-पीछे जाना । ४ झटका,  
डडी मारना । ५ घाटा, नुकसान ।  
६ चक्कर । मु० - घेणें - पेंग  
मारना । - देणे - झुलाना ।

झोटिंग - पु. १ भूत, घंतान;  
पिशाच । २ झोटिंग, झोटेवाला,  
जटाधारी, फक्कड । ३ जालिम,  
तानाशाह । - पाच्छाई - स्त्री  
तानाशाही, जुल्म ।

झोडपट्टी - स्त्री ठुकाई, पिटाई,  
मरम्मत ।

झोड - स्त्री १ झडी, वर्षा,  
अधिकता, बहुतायत । २ पिटाई,  
मार, ठुकाई, मरम्मत, हमला ।  
मु० - उठविणें - वावैला मचाना,  
हल्ला-गुल्ला करना, कडी नुक्ता-  
चीनी, आलोचना करना ।

झोडणे - क्रि स १ पीटना,  
आघात करना, मारना, कूटना,

ठोकना । २ झाडना (वधुता) ।  
३ ठूसना, ठूमना; कस कर  
खाना ।

झोडणें - क्रि स १ पीटना,  
मरम्मत करना, कचूमर निका-  
लना । २ झाडना । दे 'झोडणे' ।  
झोत - पु. १ झोका, झकोरा ।  
२ रेखा, प्रवाह, बहाव । ३  
तेज रोशनी, 'सर्व लाइट' । ४  
लपट, आग की लौ ।

झोप, झोपडी - डें, झोपणें,  
झोपविणें, झोपीं जाणें - दे  
'झोप', 'झोपडी-डें', 'झोपणें',  
'झोपविणे', 'झोपी जाणे' ।

झोपा - पु. १ झोका, हिलारा ।  
२ वांसकी तीलियो का बना  
फाटक ।

झोपाळा - पु. झूग, हिडोला ।  
झोपाळू - वि उर्नादा, निद्रालू,  
सुस्त, निदासा, अलसावा हुआ,  
हमेशा, बहुत अधिक सोने  
वाला ।

झोमणें - दे 'झोवणे' ।  
झो-या - पु. सफेद दरी, टाट ।  
२ बढई का एक औजार ।

झोळ - पु. १ झोल, कपडे का  
लटकने वाला अंश । २ आंचल ।  
३ झोका । ४. झुकाव ।

झोळी - स्त्री झोली, थैली,  
झोला । मु० - घेणें, - धरणें -  
भीख मांगना ।

झोळ्या - पु. १ बटुआ, थैली ।  
२ झोला, थैला ।

झ्याक - + वि १ बढिया,  
चमकदार । २ दे 'झाक' ।  
झ्याझ्या - दे 'झा झा' ।

## ट

ट - मराठी वर्णमाला में टवर्ण का पहला वर्ण ।

टक - पु. १ टक, टांकी, पत्थर काटने की छेनी । २ चार माशे की एक तौल । ३ मुद्र, मुद्रणाक्षर, 'टाइप' । - यत्र - न टकणयत्र, टकलिख, लिपियत्र, 'टाइप-राइटर' । - लेखक - पु टकक, टकलिपिक, 'टाइपिस्ट' । - लेखन - न मुद्रणलेखन, टकण, 'टाइपिंग' ।

टकसाळ - स्त्री टकसाल, सिक्को की ढलाई का स्थान ।

टगळमगळ - स्त्री १ आना-कानी, टालमटोल, हीला-हवाला, वहानेवाजी । २ लापरवाही ।

टच - वि चट, बदमाश ।

टचाई - स्त्री १ तगी, कमी, अभाव, किल्लत । २ रहेंगी ।

टंचका - पु छिलका, ऊपर का छोटा टुकड़ा ।

ट - वि पु अनपढ़, गेंवार, बुद्ध । मु० टफ करणें - साधारण, मामूली ज्ञान प्राप्त करना । टफ करीत वाचणें - स्करक कर, हकलाते हुए, गलतियाँ करते हुए पढ़ना । ट ला ट जुळविणें - तुकवदी करना, घटिया किस्म की पद्यरचना करना ।

टक - स्त्री १ टक; टकटकी । २. ठक, लगातार होनेवाली आवाज । ३ एकाग्रता । ४ चुप्पी, मौन, खामोशी । - टक - स्त्री ठकठक, खटखट, किचकिच, पिनपिन । - सक, -सकका - अव्य टुकुर-टुकुर, टकटकी लगा कर । मु०-लावणें - टक लगाना, टकटकी बाँधना, ताकना, धूरना ।

टकटक - स्त्री टकटक, टिक-टिक, ठकठक । मु० दारावर - करणें - किवाड खटखटाना ।

टकली - स्त्री १ दे 'टकळी' । २ सिर, माथा ।

टकले - न सिर, माथा, खोपड़ी । [गजी खोपड़ी ।

टकल्या - वि गजा, खल्वाट,

टकळी - स्त्री १ तकली, सूत कातने और लपेटने का एक आला । २ वकवास, तूमार, वकवक; वकवाद, वकझक ।

टका, टके टोणपे - दे 'टक्का', 'टक्के टोणपे' ।

टकरी - पु सग - तराश, सिलावट, पत्थर काटने वाला ।

टकुचे - न कनटोप, चीतनी, वच्चो की चौगोशी टोपी ।

टकुरे - न सिर, माथा, खोपड़ी ।

टक्कर - स्त्री १ टक्कर, भिडत, मुकावज, सामना, मुठभेड । २ बराबरी । [गजापन ।

टक्कल - न गज, खल्वाट,

टक्का - पु १ टका, एक पुराना मिक्का जिसका मूल्य चार पैसे से लेकर चार आने तक अलग-अलग था । २ प्रतिशत भाग, फी सदी, फी सैकड़ा । ३ धन, पैसा, सपत्ति । ४ मूक्का, घूँसा ।

टक्केटोणपे - पु बहु १ घूँसे, मुक्के, यपडे । २ सफट, आफते; मुसीवतें । ३ अनुभव । मु० - खाणें - १ मुसीवते झेलना । २ अनुभव प्राप्त करना ।

टगेगिरी - स्त्री १ बदमाशी, गुडई, गुडापन । २ आवारगी । ३ छल, कपट, धोखेवाजी ।

टग्या - वि १. चट, मुस्टडा, तगडा, मोटा-ताजा । २ गुडा; बदमाश, आवारा ।

टचकन - अव्य. १ झट, तुरत । २ अचानक, अनायास ।

टचका - पु १ घक्का । २ दे 'टिचकी' । ३ लकड़ी का एक खिलौना ।

टचटचणें - क्रि अ टीमना, दर्द करना, कसकना ।

टचटचीत - वि १ टीसने, कसकने वाला । २ कडा, ठोम । ३ मोटा, भरा-पूरा, पीन, फूला हुआ । ४ रम-भीना, नर ।

टणक - वि १ कडा, ठोस, कठिन । २ तगडा, मजबूत, नीरोग, स्वस्थ । ३ गभीर, बडा ।

टणकन - अव्य टन मे, छन से । [बूत, स्वस्थ ।

टणटणीत - वि तगडा, मजबूत टणत्कार - पु टकार, धनुष् की चढी हुई डोरी को खीच कर छोड़ने से उत्पन्न ध्वनि ।

टणू, टणू - पु गुलथी, चोट लगने मे शरीर में होने वाला गिलटी या गठली जैसा सूजन, शोथ, वरम ।

टप - पु १ सायवान, छन; टप । २ उछाल (गेद की) ।

टपकणें - क्रि अ टपकना, चूना ।

टपका - पु १ टपका, टपकने वाली वूद । २ दे 'ठपका' । ३ बीटा, पान, गिलीरी ।

टपटप - पा - अव्य १ टप से; झट से । २ टपाटप, लगातार ।

टपणें - क्रि अ ताकमें रहना, घात में बँटना ।



टपला - पु, टपली - स्त्री  
चाँटा, थप्पड़, धौल।

टपाल - न १ टाक। २  
चिट्ठी; पत्र। - वाला - पु  
डाकिया। - हशील - न टाक-  
व्यय, प्रैप, प्रैपशुल्क, 'पोस्टेज'।

टपोरा - वि बडा, मोटा।

टप्पल - स्त्री दे. 'टपली'।

टप्पा - पु १ टप्पा; उछरती  
हुई वस्तु का बीच-बीच में पृथ्वी  
छूना। २ वह फासला जहाँ तक  
कोई पहुँचे, हद, सीमा, फाँव,  
पहुँच, फाँग। ३ दो वस्तुओं,  
स्थानों के बीच का फासला; मजिल,  
पडाव, अंतर, दूरी। ४ कदम,  
क्रम, प्रक्रम, चरण, 'स्टेप'।  
५ सीढी। ६ अवस्था। ७ भद्दी  
सिलाई। ८ एक तरह का गाना।  
- खाऊन येषें - १ बीच में नीचे  
गिर कर आना। २ नाकाम लौटना।  
- खाणें - १. रकना, आगम  
करना। २ बीच में पृथ्वी छूना।  
टप्प्यात येषें - लक्ष्य - सीमा के  
अदर आना, पहुँच के अदर  
आना।

टमरेल - न [ अ 'टवलर' ]  
गिलास, तामलेट, तामलोटे,  
'टवलर'।

टर - स्त्री खिल्ली, हंसी,  
मजाक, छीछालेदर, उपहास।  
मु० - उडविणें - खिल्ली उडाना,  
मजाक उडाना, उपहास करना,  
छीछालेदर करना।

टरकणें - क्रि अ १ दरकना,  
ममकना, फटना। २ डरना, मह-  
मना। ३ टरकना, खिमक जाना।

टरकाकडी - स्त्री चिचिडा,  
खेखसा; एक प्रकार की लवी और  
मोटी ककडी।

टरकावणे, टरकाविणे - क्रि

स. १. दरकाना; फाटना। २.  
टरकाना; खिमका देना। ३.  
डराना, धमकाना। ४ टाँट  
पिलाना।

टरघाणी - स्त्री वस्त्रों का एक  
जेल।

टरटर - रा - अव्य. ऐसी  
आवाज के साथ जैसी कपड़े को  
फाटने या रोटी के फूलने आदि के  
समय निकलती है। 'टरटर' की  
आवाज के साथ।

टरपेंटाईन - ल - न [ अ ]  
तारपीन। [ अण ]

टरफल - न छिड़का, बकाला,  
टरबूज - न [ फा 'तरबूज' ]  
तरबूज, कलीदा, तरबूजा।

टराव - टराव - अव्य. टर -  
टर कर के, टरें-टरें। [ पीन ]  
टपेंटाइन - न [ अ. ] तार-  
टरबाज - वि टरा, एँठ कर  
वातें करने वाला, धमडी, उजड़।

टल्ला - पु नाहक का चक्कर,  
फेरा।

टवका - दे 'टवका'।

टवकारणे - क्रि अ धरना,  
कान गूँठे करना, चौकना होना।

टवटवणे - क्रि अ लहलहाना,  
पनपना; खिलना, हराभरा होना।

टवटवी - स्त्री. ताजगी, हरा-  
भरापन, प्रफुल्लता।

टवटवीत - वि ताजा, हरा -  
भरा, तरोताजा, मरसवज,  
लहलहाता हुआ।

टवळी - स्त्री १. जाइन,  
चुडैल, राँड। २ नारियल के  
छिलके का टुकड़ा। ३ माया,,  
खोपडी। ४ पीतल की दिअरी।  
- अमावास्या - स्त्री आपाठ की  
अमावस, जब दीपकों की पूजा की  
जाती है।

टवाळ; टवाळपोर - वि १.  
निदर; निदा, बरगोई कग्ने  
वाला, निदरीवाज। २. गुठा,  
आवारा, धराग्नी, बदनाम।

टवाळगी, टवाळी - स्त्री १  
गिळी; निदा, बदगाई। २  
बदनामी, आवारागी, गुटई। ३  
धरारन।

टहाळ - न, टहाळा - पु,  
टहाळी - स्त्री १. टहनी, टात्री,  
गाग। २. होग्हा, चने आदि का  
फरदार हग पीना।

टळटळीत - अव्य. ऐन, ठीक,  
खिलगुल, माफ, उत्तई। - वि.  
१ माफ, नमकदार, जगमगाने  
वाला। २ चिचिल्लाती (धूप)।

टळणें - क्रि अ. १ टगना,  
हटना। २ गुजगना, बीतना। ३  
टरकना, गिनगना। ४ चूकना।  
५ दे 'टळणे'।

टाक - पु १ टांक, नी या  
चार मानों की एक ताँल। २  
कलम, लेखनी, लेखनी की  
नोक। ३ वातु की चहर पर बना  
हुआ देवना या पूर्वज का ठप्पा,  
छाप।

टाकणसार - पु टकण; टकण-  
धार, मोहाना।

टाकणे - क्रि स १ टांकना,  
जोडना। २ सिल कूटना।

टाकसाळ - स्त्री टकसाळ;  
खिकों की डलाई का स्थान।

टाका - पु १ टांका, सीवन,  
सिलाई। २ जोड (धातु का)।  
३ जोड (शरीर का), सविस्थान,  
गाँठ, बंद। मु० टाके ढिले होणें -  
बंद-बंद ढीले होना, धकना,  
पस्त, निहाल हो जाना।

टाकी - स्त्री १ टांकी, काट  
कर बनाया हुआ छेद २ छेनी।

३ टकी, हीज । क्हा० टांकीचे घाव सोसल्याखेरीज देवपण येत नाही - टांकी के आघात को वर्दाशत किये विना देवत्व प्राप्त नहीं होता, विना परिश्रम के वडप्पन नहीं मिलता ।

टाके - न टकी, टांका, हीज । टाकोटाक - अव्य. १ पीछे । २ तुरत । ३ लवालव । ४ विलकुल, कतई, ठीक ।

टाग - छी १ टांग । २ कुश्ती का एक पेंच । ३ दोनो टांगो को जमीन पर तान कर एक दूसरे से दूर रखने पर आने वाला उनके बीच का अंतर । मु. - मारणें - घोखा, झांमा देना, चपत होना, वुत्ता देना । टागेखालून जाणें - टांग तले से निकलना, पराजय स्वीकार करना ।

टागणें - छी स टांगना, लटकाना, अटकाना - क्रि अ टांगना, लटकना ।

टागा - पु तांगा, घोडा-गाडी । टाच - छी १ एडी, एड । २ कुर्की । - वि चट, चालाक । मु. - मारणें - एड देना, लगाना, घोडे को तेज करने या आगे बढ़ाने के लिए एड मारना । टाचा घासणें - एडियाँ रगडना, बहुत कष्ट भोगना, मृत्यु के समय पाँव पीटना, हाथ - पाँव पटकना, तडपना, छटपटाना ।

टाचण - न १ टिप्पणी, टिप्पनी; टिप्पण, 'नोट' । २ टिप्पणी का कागज या वही ।

टाचणी - छी १ आलपीन, 'पिन' । २ त्रुटि, सकोच, झिझक । ३ \* दुर्दशा ।

टांचणें - क्रि स १ नत्थी करना, गूँथना । २. लिख रखना,

नोट करना । ३ टांचना, टांकना, सिलाई करना ।

टाचा - पु. टांका, सीवन, सिलाई । - वि तग, छोटा ।

टाक; टाकणखार - दे. 'टाक', 'टाकणखार' ।

टाकणें - क्रि स १ फेंकना । २ छोडना, तजना, त्यागना । ३ गिराना, डालना । ४ फैलाना, विछाना । ५ सौपना, हवाले करना । ६ चलाना (हाथ) । मु. (करून, पाहून वगैरे) टाकणे - दिखावटी तौर पर कोई काम करना, बेगार टालना । टाकून वोळणें - लगती बात कहना, जली-कटी सुनाना । टाकलेली - वि छी परि-त्यक्ता, छोडी हुई ।

टाका - दे 'टाका' ।

टाकळा - पु. चकवेंड (एक वरसाती पौवा) । [वेकार ।

टाकाऊ - वि निकम्मा, रद्दी, टाकी, टाकें, टाकोटाक - दे 'टाकी', 'टाकें', 'टाकोटाक' ।

टाच, टाचका, टाचण, टाचणी, टाचणें, टाचा - दे 'टाच', 'टाचा', 'टाचण', 'टाचणी', 'टाचणे', 'टाचा' ।

टाण - पु. दे 'ताण' । २ जोर, जोश । ३ घमड, मगरूरी ।

टाप - छी १ टाप, सुम, घोडे के पाँव का सब से नीचे का भाग । २ घोडे के पाँव के पृथ्वी पर पडने से उठी आवाज । ३. चपत, चाँटा । ४ विसात, ताकत, हैसियत, सामर्थ्य । म - आपटणें, - हाणणें - खूँदना, टाप से जमीन खोदना, रींदना ।

टापटीप - छी १ टीपटाप, सफ़ाई, तरतीव । २ ठाटवाट, सजावट ।

टापशी - छी १ सिर में लपेटने का कपडा । २. धुग्धी, झोपा ।

टापू - पु. १ प्रदेश, मुल्क, इलाका । २ टापू, द्वीप । ३ दे. 'टप्पा' ।

टामटूम - छी १ टीमटाम, ठाट - वाट, तडक - भडक । २ दिखावा । ३ बाजा - गाजा, धूम-धाम ।

टारगट, टारगा - वि वाहि-यात, शरारती, नटखट, चुल-बुला । [अँगोछा, गमछा ।

टाविल - पु. [अ] तौलिया, टाहाळा, - पु., टाहाळी - छी दे 'टहाळी' ।

टाहो - १ पुकार, दहाड, आक्रद, विलाप, चिल्लाना, रोना-पीटना, रोना - धोना । २ केका; मोर की बोली । मु. - फोडणें - जोर-जोर से रोना, चिल्लाना, पुकारना, दुहाई देना, आपत्ति के समय रक्षा के लिए किसी समर्थ व्यक्ति या देवता को पुकारना ।

टाळ - पु. करताल, मंजीरा, झाँझ । - करी - वि झाँझिया, झाँझ, करताल वजाने वाला । - कुट्या - वि वगला - भगत; वगुला - भगत, पाखडी ।

टाळकें - न सिर, खोपडी, माथा, दिमाग । मु० - शेकणें - १ सिर टकराना, सिर तोडना, फोडना, बहुत मारना - पीटना, मरम्मत करना । २ घाटा होना ।

टाळणें - क्रि स १ टालना, टाल देना । २ खिसकाना, टर-काना । ३ विताना, गुजारना । - क्रि अ कतराना, खिसकना ।

टाळा - पु. १ तालु, तालू । २ दे 'टहाळा' । ३ दे. 'टाळें' ।

टाळाटाळ - ली - छी टालम-  
टूल, टालमटोल, हीलाहवाला,  
आनाकानी, वहानेवाजी ।

टाळी - छी १ ताली, कर-  
तलध्वनि । २ ताल । ३ ली,  
समाधि, तल्लीनता । मु० - देणें -  
१ समर्थन, पुष्टि करना । २ हां  
मे हां मिलाना । ३ किमी खेल का  
प्रारंभ करना । - वाजणें - विवाह  
सपन्न होना । - वाजविणें - ताली  
वजाना । कहा० एका हातानें  
टाळी वाजत नाहीं - एक हाथ से  
ताली नहीं वजती, किमी झगडे  
में केवल एक ही पक्ष का दोष नहीं  
होता । ज्याची खावी पोळी त्याची  
वाजवावी टाळी - जिसका खाना  
उसका गाना, जो मदद देता है  
उसकी खुशामद करनी पड़ती है ।

टाळू - छी १. तालु, तालू ।  
२ चँदिया, सिर का मध्य भाग,  
खोपडी । ३ चँदिया पर के वाल ।  
- वरचें लोणी खाणारा - वि  
कफनखसोट, वेहद कजूस और  
कमीना । मु० - भरणें - वच्चे के  
तालु(सिर)में तेल डालना । - वर  
मिरें वाटणें - सरजोर बनना, पूरी  
तरह कब्जा जमाना । - वर हात  
फिरविणे - धोखा देना, सत्यानाश  
करना ।

टाळें - न १. ताला, कुफल ।  
२ तालु, तालू । - वदी - छी  
तालावदी, सन्निरौव, 'लॉकआउट' ।

टिंगल - छी १ मजाक,  
खिल्ली, ठट्ठा, दिल्लगी, खिल-  
वाड, परिहास । २ छोटी कील ।

टिव - न १ विदी, नुक्ता ।  
२ वूंदकी । ३ शून्य, सिफर ।

टिकटिक - न , टिकटिकी -  
छी १ टिक - टिक, घड़ी आदि  
की आवाज । २ झिलमिल, टिम-

टिमाना । ३ दे. 'टकटक' ।

टिकणे - क्रि अ. १ टिकना,  
रहना, ठहरना । २ बना रहना,  
चलना । ३ कायम रहना ।

टिकला - मु. तिलक ।

टिकली - छी १ टिकली,  
टिकुली, छोटी विदिया । २.  
टिकडा, टिकिया । ३ टिककड,  
वाटी, अगाकडी ।

टिकविणें - क्रि स १ टिकाना,  
वनाये रखना, सँभाल कर कायम  
रखना । २ घर देना, थमाना,  
सँभालाना ।

टिकाऊ - वि टिकाऊ, टिकने  
वाला, मजबूत, दृढ़, स्थायी ।

टिकाव - मु १ निवाह,  
गुजारा, खैर, ठहरना । २.  
कुदाली ।

टिकोजी, टिकोजीराव; टिकोवा  
- मु धन्नासेठ, धमडी, अपने को  
बडा समझने वाला आदमी ।

टिककी - छी प्रवव, इंतजाम ।  
मु० - लावणे - भोजन का प्रवव  
करवा लेना ।

टिककी - छी १ टिकोर;  
उँगलियों ने किया जाने वाला  
हलका आघात । २ चुटकी । ३  
दस्तक, थपकी ।

टिकणें - क्रि स गोली, गोटी,  
कौडी आदि से निशाना लगाना । -  
क्रि अ. फटना, दरकना ।

टिच्चून - अव्य. खुल्लम-  
खुल्ला, खुलेआम, आँख के सामने,  
कस कर ।

टिटवी - छी टिट्टिहरी (पानी  
के किनारे रहने वाली एक  
चिडिया) ।

टिनपाट - न [अ] टीन का  
हलका बरतन । - वि हलका,  
रही; बेकार । मु० - वाजणें

दीवाला निकलना ।

टिपका - मु १. वूंद । २ दाग;  
चिह्न । ३ टिकुली, विदी । ४  
टपका, वूंद-वूंद गिरना ।

टिपकागद - दे 'टीपकागद' ।

टिपण - १ टिप्पणी, टिप्पनी;  
सूची । २ टिप्पन, जन्मकुडली ।  
३ लक्ष्य, निशाना, वेध । ४  
छत्रांग; फलांग । दे. 'टाचण' ।

टिपणी - छी दे 'टिपण',  
'टाचण' ।

टिपणें - क्रि स १ टिप्पणी  
लिखना, दर्ज, नोट करना; सूची  
बनाना । २ सोचना । ३ चुगना,  
चुनना । ४ ठीक निशाना लगाना;  
निशाना लगाकर गोली चलाना ।  
५ टाँकना, टीपना ।

टिपरघाई - छी वेहद जल्दी;  
बड़ी दीडयूप ।

टिपरी - छी १ डडी, डडा ।  
२ डडा नाच । ३ एक पाव का  
माप । ४ डगा, चोत्र, ढोल,  
नगाडा आदि बजाने की लकडी ।

टिपूर - वि. चमकदार, सफेद  
साफ (चाँदनी) ।

टिपूस, टिपूस - न वूंद,  
क्रतरा; विंदु ।

टिपेचा सूर - मु. टीप, ऊँचा  
स्वर; तार-सप्तक मेसे किसी एक  
पर अल्पकालीन ठहराव ।

टिवकणे - दे 'टिवकणे' ।

टिमकी - छी डफली; डुगगी,  
डुगडुगी । मु० - वाजविणें - १.  
डुगडुगी पीटना, मुनादी करना ।  
२. तारीफ के पुल बाँधना, खुशा-  
मद करना ।

टिरी - छी कल्हा, चूतड । -  
मु० टिरी - न्या पिटणे - १ चूतड  
पीटना, वजाना, बहुत खुश होना ।  
२ डींग मारना, हाँकना ।

दिल्लू - वि छोटा, नन्हा, नाटा ।

दिवल्याबावल्या - छी बहु टिल्लेनवीसी, निठल्लापन, आवा-रगी, शरारत ।

दिल्लक - पु. तिलक ।

दिल्ला - पु. तिलक, टीका । - मु० - करणे - १ टीका करना, लगाना । २ राजतिलक, राज्या-भिषेक करना । - टोपी करणें - धार्मिकता का ढोंग रचना ।

टीक - छी टीक, गले का एक गहना ।

टीका - छी १ टीका; व्याख्या, भाष्य, तद्सिरा, तशरीह । २ आलोचना, समीक्षा, समालोचना, गुणदोषविवेचन, तन्कीद । ३ टीकाटिप्पणी, नुक्ताचीनी, छिद्रान्वेषण । - कार - वि १ टीका-कार, मुवस्सिर, भाष्यकार । २. आलोचक, समालोचक, छिद्रान्वेषी ।

टीच - छी १ आँट, अँगूठे और तर्जनी के बीच की जगह । २ वित्ता, बालिशत, अँगूठे के सिरे से छिगुनीके छोरतक की लवाई । - भर - वि अव्य बहुत छोटा, तग ।

टीप - छी १ टिप्पणी, 'नोट' । २ बखिया, बहुहरे टाँको की सिलाई, महीन और मजबूत सिलाई का एक प्रकार । ३ दे० 'टिपेचा स्वर' । मु० - घालणें, - मारणे - बखियाना, बखिया करना ।

टीपकागद - पु. सोखता, सोख्ता, स्याहीचूस, स्याही-सोख, 'ब्लाटिंग पेपर' ।

टीर - दे 'टिरी' ।

टुकटुक - अव्य १ टुकुर-टुकुर, टुकटकी लगा कर, बडी आशा से, लालच से । २ किसी तरह, बडी मुश्किल से । - माकड-

न बच्चो का कोई चीज खाते समय दूसरे बच्चो को मुँह चिढाना जिनके पास वह न हो ।

टुकटुकी - छी १ चमक, ओप, जिला । २ ताजगी ।

टुकटुकीत - वि ताजा, तर्रो-ताजा, जोरदार ।

टुकुटुकु - दे 'रुकुटुकु' ।

टुणकन, टुणदिशी - अव्य - झट से, खट से, फट से ।

टुणटुणीत - वि टनमना, चगा, स्वस्थ ।

टुमटुमीत - वि १ मोटा-ताजा, फूला हुआ, भरा हुआ, गुदगुदा, गुलगुला । २ खुशहाल, धनी । [ भुनभुन ।

टुमणें - न तकाजा, तगादा, टुमदार - वि १ डीलदार, सुडौल, सुदर । २. [ नन्हा-सा । ३ शानदार ।

टुरटुर - छी १. टर, मेढक की बोली । २ टर-टर, भुन-भुन, वकवाद । मु० - लावणे - टर-टर करना, टर-टर लगाना ।

टुवाल - दे 'टॉवेल' ।

टूक - छी खूवी, गुर ।

टूम - छी शगूफा, नई वात; फैशन; ढग, तर्ज, डील ।

टेंक, टेंकण, टेंकणें, टेंकविणे, टेंकाड - दे 'टेक', 'टेकणे', 'टेकणे', 'टेकविणे', 'टेकाड' ।

टेंगूळ - न गुवा, गुलमा, गुमटा, चोट आदि के कारण होने वाली माथे पर की गोल सूजन ।

टेंवा - दे 'टेंभा' ।

टेंवुरणी, टेंभुरणी, टेंभुरणी - छी १ तेंदू । २ आवूनस, 'एवनी' ।

टेंभा - पु. पलीता, फलीता, मशाल । २ शेखी, शान । मु० -

मिरविणे - शेखी वधारना, डींग हांकना ।

टेक - छी १. थकान, थका-वट, श्राति, शैथिल्य । २ टेक, सकल्प, हठ । ३ स्थिरता, मज-वृत्ती, स्थायित्व । मु० - घरणें - टेक पकडना, आग्रह करना, हठ पकडना, अडे रहना । टेकीस येणे १ हैरान होना । २ थक जाना ।

टेक - पु. छी न टीला, पहाडी, दूह ।

टेकडी - छी पहाडी, टीला, दूह, टेकर, टेकरा, टेकरी ।

टेकण - न १ टेक, थूनी, सहारा, टेकान, उचकन, टेकन, टेकनी, अडकाव । २ अडान, पडाव, रुकने की जगह ।

टेकणे - क्रि स टेकना, थाम लेना, सहारा लेना, सुस्ताना । - क्रि अ १ लगना, छूना । २ करीब होना (मरावयास टेकणे = मरणासन्न होना) ।

टेकविणें - क्रि अ टिकाना, ठहराना, रखना, अडाना । दे 'टेकणे' ।

टेकस - पु. [ अ 'टेक' ] छोटी कील, विरजी, कीलिका ।

टेका - 'टेकू' ।

टेकाड - न १ टीला, पहाडी । २ दूह, ढेर ।

टेकू - पु. १ टेक, टेकान, आलव, टेकन, अडकाव, टेकनी; सहारा । २ समर्थन, पुष्टि; तस्दीक ।

टेकोजीराव - दे 'टिकोजीराव' ।

टेपर - न दोप, इलजाम । मु० - ठेवणें - नाम धरना, इलजाम लगाना, दोपारोपण करना ।

टेपरणें - क्रि स घकेलना, थोपना, टालमटोल करना ।

देवल - न [ अ ] १. भेज; टेविल, टेवुल । २ नक्शा; मारणी, तालिका ।

देहळणी - स्त्री टोह, खोज, छानवीन, जासूसी देखभाल, पर्य-वेक्षण, गस्त, निगरानी, पता; अनुसंधान, करावुली । मु० करणें-टोह में रहना, भेद लेना, गनीम की फीज और मीके को देखना, हाल-चाल देखना, करावुली करना ।

देहळणें - क्रि अ १ टोह में रहना, टोह, सुराग लेना; कडी नजर रखना । २ पूर्ववेक्षण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करना, देखभाल, अनु-संधान, छानवीन करना ।

देहळ्या - वि पु टोहिया, खोजी, भेदिया, खफिया; गुप्त-चर, करावुल, पर्यवेक्षक, निरीक्षक ।

टोक - न १ नोक, अनी । २ सिरा, छोर । ३ अँखुआ, अकुर, कल्ला । - दार - वि नोकदार, नुकीला, पैना, चुटीला, चुभने वाला ।

टोकणें\* - क्रि अ १ धूरना, टकटकी लगा कर देखना । २ झाँकना । ३ दे 'टोकणे' ।

टोकरणें - क्रि स. कुरेदना, खुरचना ।

टोका - पु धुन, खपडा, खपरा, अनाज में लगने वाला एक कीडा ।

टोच - स्त्री १ चोच, टोट, ठोर । २ चुभन ।

टोचणी - स्त्री १. चुभन, खटक, कमक, टीस । २ तकाजा, तगादा । ३ दे 'टोचा' ।

टोचणें - क्रि स १ चुभाना, चुभोना, कोचना, वेधना, कचोना । २. (कान) छेदना । ३ व्यग्य मारना, चुटीली बात कहना ।-

क्रि अ. १. चुभना, खटकना । २. अखरना, बुरा लगना । मु० टोचून बोलणें - चुटीली बात कहना, कोसना, ताना मारना, जली-कटी मुनाना ।

टोवा - पु १ कोचनी, कोचने का औजार । २. सूजा, आरी ।

टोक - दे 'टोक' ।

टोकणें - क्रि स १ टोकना, रोक कर पूछताछ करना । २ एत-राज करना । ३ दे 'टोकणे' । ४ खोदना, कुरेदना, गडाना, खोद कर घोना ।

टोकर - पु १ लवा और मोटा वांस । २ टोकरा, झावा ।

टोकरणें, टोका, टोच, टोचणी, टोचणें, टोचा - दे. 'टोकरणे'; 'टोक', 'टोका', टोच; 'टोचणी', 'टोचणें', 'टोचा' ।

टोटरा - पु गला मूख जाने में होने वाली हालत ।

टोणगा - पु १ मैसा, पाडा, भैम का नर वच्चा । २ आवारा, निठल्ला आदमी ।

टोणपा - पु [ क 'टोणि' ] १ डडा । २ बुद्ध, उजड्ड आदमी ।

टोणा - पु [ क 'टोणि' ] १ टोना; जादू, टोटका । २ मोटा-ताजा खटमल आदि । ३ डडा । ४ आघात ।

टोप - पु १ बटलोई, टोपी के आकार का एक वर्तन । २ नकली वालो का टोप । ३ नकली मकुट । [ चौगोशी टोपी ।

टोपडें - न चीतनी, वच्चो की

टोपण - न १ ढक्कन, ढकना, आवरण । २ वरमा । ३ अगु-स्ताना । - नाव - न उपनाम, तखल्लूस, कौतुक-जनक नाम ।

टोपपदर - पु माडी का रेशमी आँचल । [ छावटा ।

टोपला - पु टोकरा, झावा; टोपली - स्त्री, टोपले - न टोकरी, चेंगेर, चेंगेरी, पंचिया, डलिया, डली ।

टोपी - स्त्री १ टोपी, मिर का एक पहनावा । २ गोठ और गहरा ढक्कन । - फर, -वाला - पु टोपीवाला, यूगोपियन, अंगरेज । मु०-घालणें - धोखा देना, फँमाना, मूँटना, ठगना ।

टोमॅटो - पु [ अ ] टमाटर, विलायती वंगन ।

टोमणा - पु १ ताना, व्यग्य । २ आघात । मु-मारणें - ताना मारना, व्यग्य कमना ।

टोलणें, टोलवणें - दे 'टोल-विणे' ।

टोलवाटोलव - स्त्री टालन-टोल, वहाना, हीला-हवाना ।

टोलविणें - क्रि स १ टालना, टालमटूल करना । २ गेंद आदि को आघात कर के दूर ठेलना, भगाना ।

टोला - पु १ आघात, चोट, प्रहार, घूँसा, मुक्का, धाव, धक्का । २ इँट का टुकडा । ३ दे 'टोमणा' ।

टोली - स्त्री पु - एक पुराना सिक्का जो एक पैमे का आठवाँ हिस्सा होता था ।

टोलेजग - वि १ विशाल, भव्य, बहुत बडा, अजीमुद्गान, शानदार । २ मजबूत ।

टोळ - पु १ टिड्डी । २ पतंग । ३ आवारा । - घाड - स्त्री टिड्डीदल का हमला । - भैरव - वि आवारा, निठल्ला, गुडा ।

टोळकें - न टोली, झुड ।

टोळी - स्त्री १ टोली, मडली; झुड; गिरोह; जत्या। २ रेवड, गल्ला। ३ कवीला, जनजाति। - वाला - वि पु कवाइली।

टघांव टघाव-न टेंटे; टुटखूँटें।  
टघाहा टघाहा - न छोटे वच्चे के रोने की आवाज। - अव्य इस आवाज के साथ।  
टूक - स्त्री [अ] टूक, लोहे

## ठ

ठ - मराठी वर्णमाला में ट वर्ग का दूसरा वर्ण।

ठक - वि पु ठग, ठगिया, घोखा देकर लूटने वाला; घोखेवाज आदमी, छली, घूर्त। - बाजी - स्त्री १ ठगी, ठग का पेशा। २ ठगपना, घोखेवाजी। कहा० ठकास महाठक भेटणें - किसी घूर्त के साथ उससे अधिक घूर्त का पाला पडना, तू डाल-डाल में पात-पात।

ठकठक - स्त्री ठकठक, खट-खट, काठ पर काठ वजने का शब्द। [घूर्त, छलिया।

ठकडा - वि ठग, ठगिया, ठकणें - क्रि अ १ ठगा जाना, घोखा खाना। २ खडा रहना। ३ होना, घटित होना ४ रहना। ५ रुकना। ६ दे 'थकणे'। - क्रि स. दे 'ठकविणे'।

ठकविणें - क्रि स ठगना, घोखा देना, छलना, दगावाजी करना।

ठग - पु १ ठग, एक जाति जो ठगने का पेशा करती थी, उम जाति का व्यक्ति। २ दे 'ठक'।

ठग - पु ठन, धातु के टुकडे, वरतन आदि के वजने की आवाज।

ठणक - स्त्री दे 'ठणका'।

ठणकणें - क्रि अ ठनकना, कसकना; दर्द करना, रुक-रुक कर पीड़ा होना।

ठणका - पु ठनक, टीस, जोर का दर्द, तीव्र वेदना।

ठणकावणें - क्रि स १ ठणकाना। २ डांटना, फटकारना, डांट पिलाना। ३ विच्छू का डक मारना।

ठणठण - णा - अव्य ठना-ठन, 'ठन-ठन' की आवाज के साथ, जोर-जोर से, झनझना कर। मु० - ओरठणें, - शख करणें - चिल्लाना, पानी पी कर कोसना।

ठणठणपाळ - पु १. बुद्धू और कगाल आदमी। २ दे 'ठण-ठणाट'।

ठणठणाट - पु ठनठन गोपाल, अभाव, नि.मार वस्तु, खाली हो जाना।

ठणठणीत - वि १ खन-खनाता, ठनठन वजनेवाला। २. मजबूत, स्वस्थ, चगा। ३ सूखा, कोरा। ४ मुंहतोड (जवाव)।

ठणाणा - दे 'ठणठण'।

ठपका - पु धब्बा, कलक, दोष, लाछन। मु० - ठेवणे - दोष लगाना, दोषारोपण करना।

ठमकणे - क्रि अ ठमकना, ठमकना, इतराते हुए चलना।

ठमका - पु १ ठमक, ठमक, नखरा। २ गिला, शिकवा, उपालभ, उल्लाहना, लटका।

ठमकाई - स्त्री १ ठमक कर

या टीन का सडूक।

ट्रस्ट - पु [अ] निधि, न्यास, धरोहर, 'ट्रस्ट'।

ट्रस्टी - वि पु [अ] निक्षेप-धारी, न्यासी, न्यासधारी, 'ट्रस्टी'

चलने वाली, नखरेवाज स्त्री। २ छोटी, नटखट, चतुर लडकी।

ठमकारा - पु. नखरा, ऐंठ, धमड।

ठरणें - क्रि अ १ ठहरना, तै होना, निश्चय होना, पक्का होना। २ सिद्ध, प्रमाणित, मावित होना। ३ रहना, निवास करना। ४ बने रहना, स्थिर रहना।

ठरविणें - क्रि स १ ठहराना, तै करना, पक्का करना, निश्चय करना। २ मोचना।

ठरविलेले - वि १ मनोनीत; पसद किया हुआ, चुना हुआ, ठहराया, तै किया हुआ। २ अभीष्ट, अभिप्रेत, अभिलपित।

ठराव - पु १ ठहराव, सम-झीता। २ प्रस्ताव, तजवीज। ३ निश्चय, निर्णय, फैसला।

ठराविक, ठरीव - वि निश्चत, नित्य का, आम, रिवाजी, हमेशा का, वही, धिमा-पिटा। - पणे - अव्य हस्वमामूल, दस्तूर के मुताबिक, यथारीति, यथानियम।

ठसक - स्त्री १ ठसक, नखरा, ऐंठ, शान। २ कमक, पीडा। ३ जहम।

ठमकन, ठसदिशीं - अव्य झट से, खट से, ठप से, ठम से।

ठसका - पु १ (साताना किंवा पिताना लागणारा) ठमका,

सुरहूरी, सूखी खांसी । २ (तवा-  
खूचा) घांस । ३ चने की चटनी ।  
४ दे 'ठमक' ।

ठसकेवाज - वि १ ठसकदार,  
ठमक वाला, शानदार । २ जोर-  
दार ।

ठसठशीत - वि ठस, ठोस,  
दवीज, साफ, मोटा ।

ठसठसणे - क्रि अ टीसना,  
सालना ।

ठसणें - क्रि अ अकित होना,  
जमना, असरहोना, छाप पडना,  
जँचना, गले उतरना ।

ठसविणें - क्रि स अकित  
करना, गले उतारना, छाप  
डालना, अमर करना, प्रभावित  
करना ।

ठसा - पु ठप्पा, साँचा, छापा,  
छाप, मुहर । मु० - उमटविणें -  
छाप डालना, प्रभावित करना,  
असर छोडना ।

ठसाठस - अव्य ठसाठस,  
खचाखच, ठूस-ठूप कर (भरा) ।

ठळक - वि १ माफ, स्पष्ट ।  
२ स्थूल, मोटा । ३ महत्त्वपूर्ण,  
बडा, श्रेष्ठ । [ 'ठासून' ।

ठांसणें, ठासून - दे 'ठासणे',  
ठाई\* - अव्य स्थान मे, मे ।  
मु० - पडणें - मिलना ।

ठाऊक - वि [ क 'ठाऊके' ]  
मालूम, ज्ञात, स्यात ।

ठाकठिकी - स्त्री १ मुव्यवस्था,  
अच्छा इतजाम । २ मरम्मत,  
दुरुस्ती । ३ मजघज ।

ठाकठोक - वि ठीक - ठाक,  
नियत, दुरुस्त, उचित । - स्त्री  
दे 'ठाकठिकी' ।

ठाकणें - क्रि अ १ खडा  
रहना, चुप रहना । २ रुकना ।  
३ पास आना, आ बमकना । ४

शोभा देना, फवना । ५ पमद  
आना, प्रिय होना । ६. जँचना ।

ठाकर - पु एक आदिम जाति  
और उस जाति का व्यक्ति ।

ठाकुरकी, ठाकुरी - स्त्री  
ठाकुरी, ठाकुराई, स्वामित्व,  
रोवदाव, शान, धमड ।

ठाकूनठोकून - अव्य ठोक -  
पीटकर, सावधानी के साथ,  
ठोक - वजाकर ।

ठाण - न १. अस्तवल । २  
थाना । ३ अड्डा । ४ थान  
( कपडे का ) । ५ स्थान, जगह ।  
- वद - वि अस्तवल मे वाँच कर  
रखा हुआ । - मु० - माडणें -  
अड्डा जमाना, डटे रहना ।

ठाणई, ठाणवई - स्त्री दीवट,  
लकडी का खडा दीपक ।

ठाणें - न १ थाना, चौकी ।  
२ अड्डा । ३ दीर्घ निवाम । - दार -  
पु थानेदार, दारोगा ।

ठाम - वि पक्का, निश्चित,  
मजबूत, यकीनी, स्थिर । - पणें  
अव्य मजबूती मे, यकीनन,  
निश्चित रूप से । मु० - निश्चय  
करणें - ठानना, दृढ निश्चय  
करना ।

ठाय - पु १ ठाँय, ठाँव;  
स्थान, ठिकाना । २ ठाह, विल-  
वित, धीमी लय ।

ठार - वि अव्य १ मृत;  
हलाक, आहत । २ विलकुल,  
पूरा, समूचा, कतई । मु० - करणें  
- मार डालना, हलाककरना ।

ठाव - पु १ ठाँव, स्थान,  
जगह, ठिकाना । २ पता, सुराग ।  
३ थाह, तल, गहराई की सीमा,  
हद । - ठिकाण - न अता-पता,  
ठिकाना । मु० - घेणें, - पाहाणें -  
थाह लेना, गहराई का पता, अदाजा

लगाना, अदाज लेना । - सोडणें -  
( दिल का ) उचट जाना,  
घवडाना । [ मालूम ।

ठावा, ठावुक - वि. ज्ञात,  
ठावे - न स्थान, ठिकाना । -  
वि मालूम, ज्ञात ।

ठावो\* - पु स्थान, ठिकाना ।  
ठासणें - क्रि स. - १.  
ठाँमना, ठूँमना, ठूमना, दवा-  
दवा कर भरना, जोर मे घुसाना ।  
२ बहुत अधिक खाना, ठूसना,  
चटाना (शराव) ।

ठासून - अव्य १ ठपाठक,  
ठूम कर । २ जोर दे कर ।

ठिकरी - स्त्री १ ठीकरा,  
ठीकरी, मिट्टी के बरतन या खपडे  
का टुकडा । २ निकम्मी चीज,  
टूटा-फूटा बरतन । मु० ठिक-था  
उडविणें - १ टुकडे-टुकडे कर  
देना । २ घज्जियाँ उडाना ।

ठिकाण - न १ ठिकाना;  
स्थान, जगह । २ पता । ३  
सगति । मु० ठिकाणावर येणे -  
ठिकाने आना, ठीक रास्ते पर  
आना, असलियत पर पहुँचना ।  
ठिकाणों आणणें - ठिकाने पहुँ-  
चाना, अभीष्ट स्थान तक पहुँचा  
देना, ठीक करना । [२ गड्डी ।

ठिकी - स्त्री १. ढेर, राशि ।  
ठिकर - वि कालाकलूटा,  
वेहद काला । [ चकती ।

ठिगळ - न पैवद, यिगली,  
ठिणगी - स्त्री चिनगारी,  
अग्निकण, स्फुलिंग ।

ठिपकरणें - दे 'ठिपकणे' ।  
ठिपका - पु १ बूँद, बिंदु ।  
२ विदी, चित्ती, बूँदकी । ३  
टीका । ३ कलक ।

ठिपकेदार , ठिपक्याचा -  
वि चितला, चितकवरा, बूँदकी-

दार; चितीदार।

ठिक्कणे - क्रि अ. चूना; टपकना।

ठिठ्या - पु १ स्थान, जगह, अड्डा। २ उठगन, आड, टेकना, आसन, थूनी। मु० - देणें - जम कर बैठना, धरना, बन्ना दे कर बैठना, किसी बात के लिए अड कर बैठना।

ठिसूळ - वि १. कनकना, हलकी-सी चोट से भी टूट जाने वाला। २ हलका; फुसफुसा।

ठीक - वि १ ठीक, उचित; यथार्थ, वाजिव। २ शुद्ध, सही, दुरुस्त। ३ स्वस्थ, अच्छा। - ठाक - वि ठीक - ठाक; दुरुस्त, नियत।

ठुवरी - दे 'ठुमरी'।

ठुमकणें - क्रि अ ठुमकना, नखरे के साथ चलना।

ठुमरी - स्त्री ठुमरी, एक तरह का छोटा मधुर गाना जिसे गाते समय प्राय कई रागों का मिश्रण कर दिया जाता है।

ठुशी - स्त्री १ स्त्रियों का एक गहना जो गले में पहना जाता है। २ बगली, चोली की बगल में लगाया जाने वाला तिकोनिया टुकड़ा।

ठुसका - वि नाटा, ठिगना।

ठुसठुस - स्त्री टीस, कसक; रह रह कर उठने वाली जोर की पीडा।

ठुसठुसणें - क्रि अ टीसना, सालना, कसकना।

ठेंगा - वि ठिगना, कम ऊँचा, छोटे कद का, नाटा, वौना।

ठेंगा - पु १ ठेंगा, डडा, लठ्ठ। २ (ग्रा०) शिश्न। ३.

घमड। मु० - दाखविणें - ठेंगा दिखाना, साफ इनकार करना, निराश करना।

ठेंगू - टे 'ठेंगा'।

ठेंच - स्त्री १ ठेस, ठोकर। २ बडा घाटा, नुकसान। मु० - लागणें - ठेस लगना, ठोकर लगना।

ठेंचकळणें - क्रि अ ठेस लगना; ठोकर खाना।

ठेंचणें - क्रि स १ कुचलना, पीसना; कूंचना; रौदना। २ ठूसना, ठूसना, दवा-दवा कर भरना।

ठेंचा - पु कूंचा, रायता, चटनी, कुचला हुआ कच्चे आम आदि का मिर्च मिला हुआ गूदा जो चटनी के तौर पर खाया जाता है।

ठेंचाळणें - क्रि अ ठोकर खाना, लडखडाना, अडुकना।

ठेका - पु १. ठेका, ठीका, पट्टा, इजारा। २ ताल। मु० - चालविणें - अपनी जिद पर अडे रहना। - धरणे - ताल देना।

ठेकेदार - पु ठीकेदार, इजारेदार, पट्टेदार।

ठेच, ठेचणें, ठेचा, ठेचाळणें - दे 'ठेंच', 'ठेंचणे', 'ठेंचा', 'ठेचाळणे'।

ठेपणें - क्रि अ १ पहुँचना, आ घमकना, आ जाना, भिडना। २ रुकना, समाप्त होना।

ठेला - \*क्रि अ १ [ 'ठेणे' का भूत ] खडा रहा, रुक गया। - पु. ठेला, ठेल कर चलायी जाने वाली गाडी।

ठेव - स्त्री १. थाती, धरोहर, निक्षेप, जमा। २ दे. 'ठेवण'।

ठवण - स्त्री १ आकार,

ढाँचा, गठन, गढन, डीलडौल, कद। २ रचना, वनावट, ढग।

ठेवणीतील - वि घराऊ, जो सुरक्षित रखा रहे और विशेष अवसरो पर ही काम में लाया जाय।

ठवणें - क्रि स १ रखना, धरना, टिकाना। २. बचाना। ३ स्थापित करना, ठहराना, जमाना। ४. कायम रखना। ५ नौकरी देना, नियुक्त, तैनात रखना। ६ रेहन, बंधक रखना। ७ रखेल के तौरपर रखना।

ठेवलेली - स्त्री रखेल, रखनी।

ठेवा - पु १ धरोहर, थाती। २ सचय, ढेर।

ठेपन - + न [ अ 'स्टेशन' ] रेलवे का स्टेशन।

ठेंव्या - वि वुद्ध, ठोट, अध-खोपडी, नासमझ, मूर्ख, अक्ल का दुश्मन।

ठी - पु १ ठायें; वट्टक छूटने की आवाज। २ टक्कर, बच्चो द्वारा एक दूसरे के माथो का टकराया जाना।

थोक - वि १ थोक, फुटकर या खुदरा का उलटा, एकत्र किया हुआ माल। २ मोटा, ठोस, मजबूत। ३ श्रेष्ठ, प्रसिद्ध, बढ़िया। - विक्री - स्त्री थोक विक्री। - ठकरणारा - वि थोक - फरोश, थोक माल बेचने वाला।

थोक - पु ठोक, मार, मार-पीट, आघात।

थोकणी - स्त्री १ ठोकने, पीटने का औजार। २ पिटाई।

थोकणें - क्रि स १ ठोकना, पीटना, मारना, पिटाई, मरम्मत करना। २ भेजना, देना (तार)। ३ दायर करना (मुकदमा)। ४



प्यार से थपथपाना । ५ शोर मचाना, चिल्लाना । ६. प्रहार द्वारा भीतर घुसाना ।

ठोकताळा - पु. अदाजा, अनुमान, गिनती, मोटा हिमाव ।

ठोकर - छी १ ठोकर, ठेस । २ जूते का अगला हिस्सा । ३ घाटा, नुकसान । मु० - खाणे - ठोकर खाना, घाटा उठाना, सहना, तकलीफ उठाना । - मारणें- ठुकराना, ठोकर मारना ।

ठोकरणें - क्रि स ठुकराना, ठोकर मारना, उपेक्षा करना, दुतकारना ।

ठोकळ - वि १ ठेस, मोटा,

मजबूत, भरा-पूरा । २. थोक । ३. सरसरी, चलता । ४ प्रधान, प्रमुख । - मानाणें - अव्य सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर ।

ठोकळा - पु १ कुदा, लक्कड, लकड़ी का ठीहा । २ साँचा, ठप्पा, कालिव । ३ लकड़ी का कलमदान ।

ठोका - पु १ ठोक, आघात, चोट, वक्का । २ घट, घटा । ३ वातु के वर्तन पर हथौडे से ठोक कर बनाया गया निशान । - ठोक, - ठोकी - छी मारपीट, धलाधल, धलाधली ।

ठोकून ठाकून - अव्य ठोक-

पीट कर, ठोक-बजा कर, अच्छी तरह परख कर ।

ठोक्या - पु. (ग्रा०) जार, उपपति ।

ठोठविणे, ठोठावणें - क्रि म. १ खटखटाना । २ ठनठनाना । ३- हथौडी से पीटना ।

ठोल्या - पु. १ आवारा, सुस्त, वेकार । २ मोटा-ताजा । ३ दे 'ठोव्या', 'ठोक्या' ।

ठोसा - पु. धूसा, मुक्का, चाँटा ।

ठया करणे - क्रि अ मिर पर पाँव रख कर भाग जाना, नौ दो ग्यारह होना, चपन होना ।

## ड

ड - मराठी वर्णमाला में ट वर्ग का तीसरा वर्ण ।

डंक - दे 'डख' ।

डंका - पु १ डका, नगाडा, वींसा । २ ख्याति, श्रुहरत । ३ वदनामी । मु-देणे, - वाजविणें - १ डका वजाना, डके की चोट कहना, घोषित करना, जोर - जोर से कह कर सब को सुनाना । २. वदनामी फैलाना ।

डकी - छी १ डकी, एक कसरत, कुश्ती का एक दाँव । २ डेंकी, धान कूटने का एक यंत्र ।

डख - पु. १ डक, दश, विच्छू आदि का जहरीला काँटा । २. जलन, डाह, कीना । मु.-घरणे-डप्यां से जलते रहना ।

डगी - छी १ डोगी, छोटी नाव । २ काँवर, वहाँगी ।

डवर\* - न आडवर ।

डैविस - वि [ अ 'डैम' ] ब्रदमाग, पाजी, कमीना ।

डवेल - पु. [ अ ] डवेल, लट्टू जैसे गोल सिरो वाला लोहे या लकड़ी का उपकरण जिसे पजे से पकड कर कसरत करते हैं ।

डकर्णें - क्रि अ चिपकना, चिमटना, जुडना, सटना, लिपटना ।

डकविणे - क्रि स चिपकाना, जोडना, चिमटाना, लिपटाना ।

डग - पु. १ डगमगाना, लड-खडाना । २ डर, सकट, डग-मगाने की सभावना । - छी १ सीमा, हद, किनारा । २ डग, कदम ।

डगडग - गां - अव्य डगमग, हिलते - डुलते, लडखडाहट के साथ ।

डगणे - क्रि अ १ डग-मगाना । २ डिगना, हटना । ३ विचलित होना, धवडाना । ४ काँपना, थराना । ५ दब जाना । ६ हिचकिचाना ।

डगमग - छी डगमगाहट; अस्थिरता, चचलता, लडखडाहट ।

डगमगणे - क्रि अ १ डग-मगाना, लडखडाना । २ धवडाना, हिचकिचाना, पसोपेश में पडना, पीछे हटना, डिगना ।

डगमगीत - वि डंवाडोल, अस्थिर, चचल, डगडीर, लड-खडाता हुआ ।

डगर - छी १ कगार, किनारा । २ टीला । दे. 'कडा', 'दरड' । मु. दोन्ही डगरोंवर हात ठेवणे - दो नावो पर चडना या पैर रखना, तो पक्षी का अबलवन करना, दोनो तरफ से लाभ उठाने की चेष्टा करना । [ छिछला गडहा ।

डगरा - पु. डवरा, पानी का डगला - पु. डगलें - न १ लवादा, चोगा, लवा, डीला अंगरखा । २ फतूही, गवरून की सईदार बडी ।

उगळ - वि १ ढीला, ढीला-  
ढाला । २ मोटा । ३ उदार ।

डग्गा - पु ठेका, तवले का  
वार्यां ।

डक्का - पु १ वक्का, आघात,  
चोट । २ धडकन, वेचनी ।

डचमळणें - क्रि अ छलकना,  
उछलना, उमडना ।

डचू - पु इनकार, अस्वीकार ।  
मु० - देणे - निकाल देना, गरद-  
नियां देना, ठेंगा दिखाना, हटा  
देना । [ वस्तुओ का समाहार ।

डझन - पु [ झं ] दर्जन, वारह  
डझनाचारी - वि [ दे 'डझन' ]  
दर्जनो, कई, वेशुमार ।

डफ - पु डफ, चग ।

डफडी - स्त्री डफली, खंजरी ।

डफरावणें - दे 'डाफरणें' ।

डवकें - न डवरा, गढा,  
गडहा ।

डवघाई - स्त्री समाप्ति का  
समय, आखिरी वक्त । मु० - स घेणे  
- विनाश के सिरे तक पहुँचना,  
गिरने को होना, बडी बुरी दशा  
होना, मरणासन्न होना ।

डवडवणे - क्रि अ १ डव-  
डवाना, भर आना, छलकना ।  
२ आँखो में आँसू आ जाना ।

डवडा - वि रद्दी, वेकार,  
घटिया, खराब । [ का रद्दी डव्वा ।

डवडें - न छोटा डिव्वा, टीन  
डवड्या - दे 'डवडा' ।

डवर - न [ अ 'खल' ]  
मलवा, रोडा, ढोका, अनगढ  
पत्थर । [ गडहा ।

डवरा - पु डवरा, गढा,

डवल - वि [ अ ] डवल;  
डुगुना, दूना, दोहरा । - मार्च -  
पु तेज कदम चलना । - रोटी -  
डवल रोटी, पावरोटी ।

म. हि. श को ... २३

डवा - पु १ उव्वा, डिव्वा,  
कनस्तर । २ रेलगाडी का डव्वा ।  
३ (पानाचा) पानदान । ४  
सुखडी, सूखा रोग ।

डवी - स्त्री १ डिव्वी,  
डिविया । २ माचिस, दिया -  
सलाई की डिविया । ३ (काज-  
ळाची) कजरौटा-टी, कजलौटा-टी ।

डवीर - पु [ फा. 'दवीर' ]  
मुहूरिर, लिपिक, लेखक, निजी  
सचिव ।

डवोले - न १ पूंजी, धन,  
जमा-जया, जमा-पूँजी, सचित  
भपत्ति । २ गुप्त धन, अचानक  
मिली हुई सपत्ति ।

डव्व - वि गद्, पेट का फूलना,  
भारी होना ।

डमरू - पु न १ डमरू,  
डमरू, डैवरू । २ डुग्गी, डुगडुगी ।  
- यत्र - न डमरू - यत्र, अर्क  
खीचने तथा सिगरफ का पारा और  
कपूर उडाने का एक यत्र ।

डरकावणी - स्त्री १ धमकी,  
डरावा । २ दे 'डरकाळी' ।

डरकावणें - क्रि स डराना,  
धमकाना ।

डरकाळी - स्त्री दहाड, डिड-  
कार, चिघाड, चिगघाड, गर्जन,  
ढाढ, चीत्कार, चीख । [ टर्राँहट ।

डराँवडराँव - न टरँटरँ,

डल्ला - पु १ डला; टुकडा ।  
२ पूंजी, धन, जायदाद । ३  
डाका, लूट । मु० - मारणें - डाका  
डालना, हडप करना ।

डवचणें - दे 'डिवचणे' ।

डवरणें, डवरणें - क्रि अ १  
खिलना, लहलहाना । २ छाना,  
फँल जाना ।

डवरा<sup>†</sup> - पु किमानो का एक  
त्योहार ।

डवरी - पु १ जोगियो की  
एक उपजाति । २ दे 'गोवळी' ।

डवला<sup>†</sup> - पु १ दे. 'डाव' । २.  
शेखी, घमडा । [ खना, काटने वाला ।

डसकर, डसका - वि कट-  
डसणे - क्रि स डसना,  
काटना, डक मारना । - क्रि अ  
चिपकना, दे 'डकणे' ।

डसविणे - क्रि स १ डसाना,  
कटवाना । २ लगाना, चिपकाना ।

डहाळा - पु, डहाळी - स्त्री  
डाली, टहनी । दे 'टहाळी' ।

डहुळणे - क्रि अ. गहडोरना,  
घँघोलना, हिला कर गदा करना ।

डळमळ - स्त्री १ अस्थिरता,  
चचलता । २ लडखडाहट ।

डळमळणे - क्रि अ १ डग-  
मगाना, लडखडाना, डाँवाँडोल  
होना । २ डवडवाना, छलकना,  
भर आना । ३ जोर से हिलना,  
झकोरना, कांपना, झकोरा खाना,  
मारना ।

डळमळीत - वि १ डाँवाँडोल,  
अस्थिर, अनिश्चित । २. डगम-  
गाता, लडखडाता हुआ । - अव्य.  
१ छलकते हुए, उमडते हुए ।  
२ कलकल कर के, उमड-धुमड  
कर ।

डक - स्त्री पु. दे 'डाक' -  
स्त्री पु. । [ डाइन, चुटैल ।

डाकीण - स्त्री डाकिनी,

डाग - स्त्री १ केले का पूरा  
पत्ता । २ वाँकदार वाँस, डडा ।  
३ डाली, शाख ।

डाग - पु १ उत्तरी महाराष्ट्र का  
पहाडो और जगलो मे भरा एक  
आदिवासी इलाका जो इन समय  
गुजरात राज्य में है । २. पहाडी,  
टीला, चढाई ।

डागर - न १ उद के आटे

का रायता । २ कुम्हडा । ३ एक प्रकार का पापड ।

डागी - वि १ डागसवधी, डाग प्रदेश का २ जगलो-पहाडों में रहने वाला ।

डांगोरा - पु. ढिंदोरा, डोंडी, दुग्गी, मुनादी । मु० - पिटणे - ढिंदोरा पीटना, घोषणा करना, जाहिर करना । [डांसी ।

डाग्या खोकला - पु. कुकुरखांसी, डांचणें, डाफरणें - 'डाचणें', 'डाफरणे' । [२ डठल ।

डाव - पु. १ खभा, डडा । डावणे - क्रि स १ बांधना, रोक रखना । २ गाडना । [तार ।

डावर - न अलकतरा, कोल-डावरट - वि [अ 'डॅम्डरॉट']

वदमाश, शरास्ती, पाजी, नीचा डांवीस - वि [अ 'डॅम इट']

वदमाश, पाजी । डांभा - पु. १ खभा । २ खूंट । ३ डडा, सोटा । ४. डठल ।

डांस - पु. १ मच्छड । २ डांस, कुकुराँछी, एक तरह का वडा मच्छड । ३ दश, डक ।

डाक - पु. टांका, जोड, घातु जोडने का मसाला ।

डाक - छी डाक, कागज-पत्र जो डाक से आये, डाक द्वारा आने वाली वस्तु । - घर - न डाक-घर, डाकखाना, 'पोस्ट-आफिस' । - चौकी - छी डाकचौकी, वह स्थान जहाँ सवारी के घोड़े आदि वदले । - बंगला - पु. डाकवगला, अफसरो आदि के टिकने का सरकारी मकान ।

डाका - पु. १ डाका, डकैती, डाकाजनी । २ डाकुओं की टोली ।

डाकीण - दे 'डाकीण' ।

डाखळणें - क्रि अ १ टांका,

डांक लगाना, जोडना । २ दे 'डागळणे' ।

डाग - पु. १ वस्तु; अदद । २ गहना । ३. खेत; खेत में एक मालिक का हिस्सा ।

डाग - पु. [फा 'दाग'] १. दाग, घव्वा । २. कलक । मु० - देणे - दागना, जलाना, जली - कटी सुनाना ।

डागडुजी - छी मरम्मत; दुरुस्ती । [छड ।

डागणी - छी दाग, दागने की डागणें - क्रि स १ दागना, जलाना । २. वदूक आदि छोडना । ३ घव्वा, कलक लगाना ।

डागळणें - क्रि अ दगना; दाग लगाना, पडना, खराव होना ।

डागळलेला - वि दगहा, दाग-दार; दागी, खराव ।

डागिणा-न्ता - पु. १. अदद, वस्तु । २. 'दागिना' ।

डाचणें - क्रि अ १ खटकना, चुभना । २ जलन होना ।

डाफरणें - क्रि स डांटना, डांट पिलाना, घांसना । - क्रि अ झल्लाना, चिढ़ना ।

डाभ - पु. कमरवद, पट्टी ।

डामडोल - पु. टीमटाम, ठाट-वाट, नखरा, शान । [तार ।

डामर - वि अलकतरा, कोल-डाव - पु. १ दांव, दावें । २ खेल खेलने की वारी । ३ वाजी, जिताने वाली चाल । ४. वार; मर्तवा । ५ हार, पराभव ।

६. उपयुक्त अवसर, मौका, सुयोग । ७ घात । ८ उपाय, युक्ति । ९ कुश्ती का पेंच । १० छलने की चाल, कपटपूर्ण युक्ति । ११ (पत्त्यातील) हाथ, दांव । - पेंच - पु. दांव; पेंच, चाल ।

गेला डाव - अव्य कम से कम । मु० देणें - दांव देना, चाल चलना (खेल में) दांव करना, खेलना । - पडणें - दांव पडना, वाजी आना, प्राप्त होना । - येणें - खेलने की वारी आना । - साघणें-घात लगाकर वाजी लेना; दांव, घात लगाना; मौका पाकर दुश्मन को मार डालना ।

डाव - छी पु. कलछा; डीआ । डावकें - न १. पूंजी, धनसचय । २ दे 'डाव'

डावलुरा, डावरा - वि खव्वा, बायें हाथ से काम करने वाला, लेवरा, वामहस्त ।

डावलणें - क्रि स. १ जान; वृद्ध कर उपेक्षा करना; ध्यान न देना, नखर अदाज करना । २ छोड देना; त्याग करना । ३ तरह देना, वचा जाना; कतरा जाना ।

डावा - वि १ वायां; वाम । २ गौण, घटिया ।

डावी - वि छी वायी । - कडखें - न भोजन में नमक, चटनी, रायता आदि वस्तुएँ जो थाली में वायी तरफ परोसी जाती हैं । मु० - घालणें - घायी ओर से परिक्रमा करना । - देणें - अस्वीकार, इनकार करना ।

डावें - वि. न वायां । - उजवें - वि अच्छा-बुरा, प्रिय-अप्रिय । मु० - उजवे करणें - पक्षपात करना, तरफदारी करना ।

डाहळा, डाहाळा - पु. १ होरहा । २ टहनी । दे 'टहाळा' ।

डाहळी, डाहाळी - छी टहनी, डाली, शाख ।

डाळ - छी १ दाल, दली हुई अरहर, मूंग आदि जिसे सिझा कर खाते हैं । २ दे 'डहाळा';

‘डहाळी’। - पु. ढेर। - वागें - न दाल के साथ वैगन पका कर बनाया हुआ सालन। मु० - शिजणें - दाल गलना, युक्ति का सफल होना।

डाळिव - न अनार, दाडिम।

डाळिवी - वि अनारी, अनार के रंग का, लाल।

डाळिवी - स्त्री दाल का दाना, सावुत दलहन का आधा हिस्सा।

डाळी - स्त्री १ वास का वक्सं। २ चटाई। [दाल।

डाळें - न भुने हुए चने की

डिक - पु. गोद, नियामि, कतीरा। - दाणी - स्त्री गोद-दानी। - लाडू - पु. गोद का लड्डू (मिठाई), गोदपाग, गोदमखाना।

डिगर\* - न १ वच्चा, वालक। २ नौकर, सेवक।

डिगरी - स्त्री मूले की फली, सीगरी।

डिव\* - न १ डिव, वच्चा, पुत्र। २ आकृति, मूर्ति। ३ आभास। ४ उपद्रव, विप्लव, कोलाहल। [टुनगी।

डिकशी - स्त्री फुनगी, कोपल;

डिकामाली; डिकेमाली - स्त्री एक पेड़ और उसका गोद जो दवा के काम आता है।

डिकशी - दे ‘डिकशी’।

डिखळ - न, डिखळी - स्त्री,

डिखळ - न डेला, चीप; लोदा।

डिखेल - न [अं] ‘डीखल’।

डिरी - स्त्री, डिरू - पु. \* पु. - १ अकुर, कोपल। २ दे ‘डिगरी’।

डिवचणें, डिवचणे - क्रि स १ कोंचना, चुभोना। २ चुटकी लेना। ३ छेड़ना, उमाडना, उत्ते-

जित करना। ४ चोट पहुंचाना, तग करना।

डिसेवर - पु [अ] दिसवर।

डीक - दे. ‘डिक’।

डुंवणे - क्रि अ १. तैरना, गोता लगाना; क्रीडा के तौर पर पानी में देर तक तैरते रहना; जलश्रीडा करना। ३ मग्न, तल्लीन होना।

डुई - दे ‘डोई’।

डुकर - दे ‘डुक्कर’।

डुकरी - स्त्री सूखरी, शूकरी।

डुकली - दे ‘डुलकी’।

डुक्कर - न पु. सूखर, शूकर।

-कद-पु. शूकरकद, वाराही-कद।

-दाढ - स्त्री शूकरदप्ट, सूखर-

दाढ नामक रोग। - मुसंडी -

स्त्री १ जगली सूखर का झपट्टा।

२ किसी पर किया गया जोरदार

हमला। ३ बड़े जोर से अदर तक

घुस जाना।

डुवकणें - दे ‘डुवणे’।

डुवकन - अव्य. झट से डुवकी

लगाना कर, तेजी से डुवो कर,

‘डुव’ की आवाज के साथ।

डुवकी - स्त्री डुवकी, गोता,

डुव्नी।

डुवणें - क्रि अ १. डुवकी

लगाना। २ डूबना, वरवाद

होना। ३ दे ‘डुवणें’।

डुवविणें - क्रि स डुवोना,

डुवाना। २ दे ‘वुडविणें’।

डुरकावणी - स्त्री दहाड,

गर्जन, गुराहट, गर्जन - तर्जन।

डुलकी - स्त्री झपकी, ऊँध,

हलकी, थोड़ी देर की नींद।

मु० - लागणें - आँख झपकना।

डुलणें - क्रि अ १ डोलना,

हिलना। २ झूमना, झोंके खाना,

लहराना (मस्ती, आनंद में)।

डूक - पु. अदावत, कीना, द्वेष, जलन, वैर। मु० - घरणें -

खार खाना, जलना, द्वेष करना।

डूव - स्त्री १ झांसा, चकमा।

२ डुवकी। ३ (कपडे को) फिर

से दिया हुआ रंग; रंग का आव-

रण। ४ विपुलता, इफरात। ५

हानि, घाटा। [झूमर, हलका।

डुल - न झुमका, करनफूल,

डेख - दे ‘डेख’।

डेंगणें+ - क्रि अ १ थक

जाना। २ रुकना, अडना,

आपत्ति होना।

डेंगू (ताप) - पु. [अ] सधिक

सन्निपात, लँगडा बुखार, ‘डेंगू’।

डभरी - स्त्री [अ] डेरी, दूध,

मक्खन आदि की दुकान।

डेख - पु. न १ डठल। २

जड, मूल।

डेचक - न वटलोई।

डेप्युटी - वि पु [अ] १

प्रतिनियुक्त, प्रति, उप। २

उप शिक्षा-निरीक्षक, शाला-

निरीक्षक।

डेप्युटेशन - न [अ] शिष्ट-

मडल, वपद, प्रतिनिधिमडल।

डेमी - [अ] डिमाई, १८×२२

इंच की कागज की नाप।

डेरके - न १. मटका; मटकी।

२ घडा। ३ तोद।

डेरा - पु १ बडा मटका,

गगरा। २ तोद। ३ गुवज,

गवद।

डेरा - पु. [हिं] १ डेरा,

बडा तवू, खेमा। २ टिकाव,

पडाव, छावनी, ‘कप’। मु० -

देणें - डेरा डालना, सामान के

माथ टिकना।

डेरेवाल - अव्य. डेरे मे

पहुँचकर। मु० - होणें - छावनी

मे पहुँच जाना, युद्ध के लिए तयार होना या कूच करना ।

डेलिया - पु [अ 'डहलिया'] डेलिया, एक प्रकार का विलायती फूल ।

डोंगर - पु १ पहाड़, पर्वत । २ बहुत बड़ा काम, काम, कर्ज दया आदि का भारी बोझ । ३ पहाड़ी जमीन । - गाव - पु. पहाड़पर का गाँव । - पठार - न पठार का इलाका । मु० - पोखरून उदीर काढणें - पहाड़ खोदकर चुहिया निकालना । कहा० गेगरास दुखणें आणि शिंपीत औषध - पहाड़ की बीमारो और सीपी में दवा, बहुत बड़े दर्द का मामूली इलाज ।

डोंगराळ - वि पहाड़ी, पहाड़-सवधी ।

डोंगरी - वि पहाड़ी, पहाड़ का । - छी छोटा पहाड़, टीला, पहाड़ी । - किल्ला - पु. पहाड़ी किला ।

डोंगळा - पु. काला चीटा, चिऊंटा, मकोडा ।

डोंगा - वि [क 'डोकु'] टेढा, बक्र, कुटिल ।

डोंव - पु डोम, दाढी, चडाल, अत्यज्ञो की एक जाति । - कावळा - पु. डोमकीआ, बडा कौआ ।

डोंव - पु १ आग की लपट, [क 'डोवि'] शोला, भभूका, बहुत बड़ी आग । २ जलन । - वि बहुत अधिक, प्रचंड । मु० - उसळणे - १ जोर की आग लगना । २ बड़ी जलन होना ।

डोंवल - न सिर (गुम्मे में) ।

डोंवा - पु. काला साँप ।

डोंवारी - पु १ मदारी, नट । २ भिखारी, भिखमगा ।

डोंवाळा - पु. बहुत बड़ी आग ।

डोई - छी १ मिर, माया, मस्तक । २ व्यक्ति, जन । ३ पूर्वज । ४ पुस्त; पीढी । दे 'डोकें' । - जड - वि १ भारी, वेहद । २ सरजोर, अवज्ञाकारी । - पट्टी - छी प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला कर । - फोडचा - वि १ अपना सिर फोड कर भीख माँगने वाला । २ अपने को कष्ट पहुँचा कर दूसरो को तग करने वाला । मु० - करणें - हजामत करना । [२. घुटना ।

डोका - + पु. १ टाँग, पाँव ।

डोकावणे - क्रि अ झाँकना, आड से, झरोखे आदि से देखना ।

डोके - न १ सिर, माथा, सीस, सर । २ खोपड़ी, मूँड ।

३ ऊपर का हिस्सा, चोटी, शीर्ष भाग । ४. दिमाग, बुद्धि ।

दे 'डोई' । - फोड - छी मगज्रपच्ची, माथापच्ची, सिर खपाना । - बाज - वि चालाक, चतुर, होशियार । मु० - असणें - बुद्धि, अक्ल हीना । - उचलणे - सिर उठाना, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान मे रहना । - उठणें - माथा ठनकना, सिर दुखना, सरदर्द होना । - उठविणें - १ सिर खाना; व्यर्थ की बातों से परेशान करना । २ शोर मचाना । - उडविण - सिर उडाना, गरदन मारना, गला काटना, मार डालना । - खरडणें - मूँडना, हजामत बनाना । - खाजविणे - १ सिर खुजलाना । २ दे 'डोकें उठविणे' । ३ याद करने की चेष्टा करना । - खाजविण्यास सवड नसणें - सिर खुजलाने या खुजाने की फुरसत न होना । - टेकणें - १ माथा टेकना, भूमि से मिर लगा कर

प्रणाम करना । २ आघार, सहारा लेना, विश्राम करना । ३ थक जाना, परेशान होना । - ठिकाणावर असणे - होश ठिकाने होना, अक्ल ठीक होना । - ठिकाणावर नसणें - १ सिर फिरना, दिमाग में फितूर होना, पागल होना, होश ठिकाने न होना । २ होश मे न होना । - ठिकाणावर येणे - होश ठिकाने आना, होश मे आना । - तापविणें - गुस्सा दिलाना, परेशान करना । - ताळ्यावर असणे, नसणें, येणें - दे 'डोके ठिकाणावर असणे, नसणे, येणे' । - पिकविणे - सिर खाना, खोपड़ी खा जाना, चाट जाना । दे 'डोके खाणे' । - फिरणें - १ सिर फिरना, दिमाग में फितूर होना, पागल होना । २ सिर चकराना, चक्कर आना । - फोडणे १ मिर फोडना, सिर दे मारना । २ सिर खपाना, माथापच्ची करना । - भडकणें - १ बहुत अक्ल गुम्सा आना, तैश में आना । २ सिर भिन्नाना, सिर फिरना । - भणणणें - १ सिर फिरना, सिर भिन्नाना, चकराना । २ मिर दुखना, सिर मे बड़े जोर का दर्द होना । ३ गुस्मे से पागल होना । ४ खोपड़ी खाली हो जाना । - मारणें - १ गरदन मारना, मिर काटना । २ बहुत नुकसान करना । - वर काडणें - मिर उठाना, उन्नति, प्रगति करना । डोक्याचे केस नाहीसे करणे - डूँट पिलाना, खूब फटकारना । डोक्याचे खाद्यावर ण - चिता, सकट आदि का बोझ उतरना । डोक्यात राख घालणें - १ आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना ।

२ सिर में खाक डालना । डोक्यामें चालणे - बहुत अकडना, इतराना, घमड करना । डोक्यान चालत घेणें - सिर के बल चले आना, अदब के साथ आना, ची बोलना । डोक्यावर खापर फुटणें - मिर पर दोप मढा जाना, मत्ये मढा जाना । डोक्यावर खापर फोडण - सिर थोपना, मत्ये मढना । डोक्यावर घेणें - १ सिर पर लेना, जिम्मेदारी उठाना । २ मिर पर उठा लेना, बहुत ऊधम, शोरगुल करना । डोक्यावर चढण - सिर पर चढना, गुस्ताख बनना, मुंह लगना । डोक्यावर चढविणे, चढवून ठेवणें - सिर चढाना, गुस्ताख बनाना, मुंह लगाना । डोक्यावर दिवस घेणें - दो पहर का समय होना । डोक्यावर वसण - सिर पर चढना, मुंह लगना, गुस्ताख बनना । डोक्यावर वसविणे - दे. 'डोक्यावर चढविणे' । डोक्यावर मिरें वाटण - सरजोर बनना, ढीठ, गुस्ताख, मुंहलगा बनना । डोक्यावर हात ठेवणे - मिर पर हाथ धरना, चेला बनाना, आगीवादि देना । २ घोखा देना, मूडना । डोक्यावर हात फिरविणे - ठगना, घोखा देना । - डोक्यावर होणें - १ सरजोर होना । २ वरिष्ठ बनना, उच्चतर पद पर होना । डोक्यावरून पाणी जाणें - मिर से पानी गुजरना; किमी बात का हद तक पहुँच जाना, असह्य हो जाना ।

डोककी - स्त्री, डोककें - न दे 'डोई', 'डोके' ।

डोल - पु [४] दवा की मात्रा, परिमाण, खूराक । मु० - पाजविणें - १ दवा पिलाना । २

उपदेश देना, गले उतारना ।

डोण - पु. स्त्री १ दोन, काठ का खोखला किया हुआ वह लवा टुकड़ा जिससे घान के खेत में पानी पहुँचाते हैं । २ कटोरे की शकल का पत्थर का बड़ा वर्तन जिसमें पानी भर कर रखते हैं । ३ नाँद । ४ किशती । ५ डोल, डोलची ।

डोणा - पु दोना, नाँद ।

डोणी - स्त्री १ किशती, डोगी, छोटी नाथ । २ दे 'डोण' ।

डोमकावळा - पु डोमकीआ, बड़ा कौआ, नीच, धिनीना आदमी ।

डोरले - न १. बरहटा, कडवा भटा, भटकटैया । २ गले का एक गहना ।

डोल - पु १ डोल, वालटी । २ दे 'डोलकाठी' । ३ दे 'डोलारा' । ४ डोली । ५ आश्चर्य ।

डोल - पु [अ] अकर्मविधेय, अकर्मवेतन, धर्मार्थ दान, 'डोल' । [उठाने वाला ।

डोलकर - पु. कहार, डोली डोलकाठी - स्त्री मस्तूल, नाव, जहाज के बीच में गाड़ा हुआ लूठा जिसमें पाल बाँधा जाता है ।

डोलण - क्रि अ १ डोलना, हिलना, झमना । २ फहराना, फहरना, लहराना ।

डोलविणें - क्रि स १, हिलाना, डुलाना । २ झुलाना, हलकाना, हलकोरना ।

डोला - पु. ताजिया ।

डोलारा - पु १ झाँकी । २ ताजिया । ३ ऊँची, लडखटाती हुई इमारत ।

डोली - स्त्री १ डोली, चडोल, पालकी, शिविका । २ झपान ।

डोस - दे 'डोस' ।

डोह - पु दह, नदी का वह भाग जहाँ पानी बहुत गहरा हो, बड़ा गढ़ा, हीज ।

डोहळा, डोहाळा - पु, डोहाळे - पु बहु १ दोहद, गर्भिणी की इच्छा, उकौना । २ बुरी इच्छाएँ, वामनाएँ । मु - लागणें - इच्छाएँ होना । - जेवण - न पहलीठी गर्भिणी को सातवें महीने में दिया जाने वाला प्रीतिभोज ।

डोळ - पु छिलके वाली दाल । - न शका, वहम । - स्त्री मछ-लियाँ पकड़ने का जाल ।

डोळझापणें, डोळेढापण - न अधीटी, दे 'झापड' ।

डोळमीट - न [अ 'गिम-लेट'] बरमा ।

डोळस - वि १ डिठार, डिठियारा, आँखो वाला । २. चतुर, सावधान, समझदार ।

डोळा - पु १ आँख, नयन, चष्म, शधु, नेत्र । २ निगाह, दृष्टि, नजर, बीनाई । ३. छिद्र, सूरख । ४ आँख की शकल का चिह्न (मोरपख का) । ५ ईख आदि की गाँठपर की नोक जिससे अँगुवा निकलता है, अँगुवा । - भर झोप - स्त्री अच्छी, गहरी नीद । डोळे झाक - स्त्री चष्म-पोशी, ध्यान न देना, आँखो पर पट्टी बाँध लेना, किसी के दोप - दुर्गण देख कर टाल जाना । डोळेफोड - स्त्री १ आँखो पर जोर पडने वाला काम । २ तीरी नजर । डोळचा आड - अव्य. आँख ओट, आँखों में ओझल । - डोळचाचा दाव - पु १ आँख की धरम । २ रोवदाव वाली नजर । डोळचाची खून - स्त्री मन,

इशारा । डोळ्यादेखत - अव्य  
 आंखो के सामने, देखते हुए ।  
 मु - घालणें - आंख मारना, आंख  
 मचकाना; इगारा करना । -  
 चुकविणें - आंख बचाना, आंख  
 चुराना; कतरा जाना, लज्जा से  
 सामने न देखना । - ठेवणें - नजर  
 रखना । - बांधणें - अंखुआ का  
 कलम लगाना, एक पेड की टहनी  
 में दूसरे पेड की आंख की कलम  
 लगाना । - मारणें - आंख मारना;  
 आंख मचकाना, आंखो से इशारा  
 करना । - लवणें - आंख फड़कना ।  
 'डोळे' से प्रारंभ होने वाले मुहा-  
 वरे - - उघडणें - १ आंखें  
 खुलना, भ्रम दूर होना, होश  
 आना, आटे-दाल का भाव मालूम  
 होना । २ आंखें खोलना, साव-  
 धान करना । - जाणें - आंखें  
 जाना, आंखें फूटना । - झाकणें -  
 १ आंखें बंद करना । २ आंखें  
 मुंद लेना, ध्यान न देना । ३ मर  
 जाना । ४ आंखें बंद होना ।  
 - तळावणें - गरमी के कारण  
 आंखो का लाल होना, आंख  
 आना, आंखो में लालिमा आ कर  
 उनमें पीडा और सूजन होना ।  
 - ताणून पाहाणें - आंखें फाड-  
 फाड कर देखना । - निवणें - आंखें  
 ठडी होना, जी भरना, तृप्त  
 होना । - पांढरे करणें - १ आंख  
 उलट जाना, मरने के समय आंखो  
 का पयरा जाना । २ भय और  
 आश्चर्य से चकाचौंध होना । - पांढरे  
 होणें - १ आंखों के आगे अंधेरा  
 छा जाना, आंख की पुतली फिरना,  
 आंख का पयराना । २ सिर चक-  
 राना, चाँदियाना, चकाचौंध  
 होना । - पुसणें - १ आंखें  
 पोछना । २. सात्वन करना ।

३ रोने लगना । - फाटणें - बहुत  
 अधिक चकित होना । - फाडून  
 पाहाणें - १ आंखें फाड-फाड कर  
 देखना, आश्चर्य या औत्सुक्य के  
 साथ देखना । २ आंखें तरेरना,  
 क्रोध की दृष्टि से देखना ।  
 - फिरणें - १. सिर चकराना ।  
 २ आंखें फिर जाना, वे मुरौवत  
 होना, नजर बदल जाना । ३  
 आंख की पुतली फिरना, आंख का  
 पथराना, मरने के समय पुतली  
 का गतिहीन होना । - फिरविणें -  
 १ आंख फेरना, निगाह बदलना ।  
 २ आंखें तरेरना, क्रोध की दृष्टि  
 से देखना । - फुटणें - १ आंखें  
 फूटना, आंखें जाना, अघा होना ।  
 २ बुरा मालूम होना, देखकर  
 जलना । - फोडून वाचणे - आंखें  
 फाड कर पढना, आंखो पर जोर  
 देकर पढना । - भरून पाहाणे -  
 आंख भर कर देखना, अच्छी तरह  
 देखना । - मिटणें - आंखें बंद  
 होना, आंखें मुंदना, मृत्यु होना ।  
 - मुरडणें - आंख मचकाना, कन-  
 खियो से देखना । - मोडणे - दे  
 'डोळा मारणे' । - येणें - १  
 फिर से दृष्टि प्राप्त होना । २  
 आंख आना, उठना । - लवणें -  
 आंख पडकना । - लाल करणे -,  
 - बटारणें - आंखें लाल करना,  
 आंखें तरेरना, क्रोध की दृष्टि से  
 देखना, त्योरी चढाना । डोळ्याचे  
 पारणें फिटणे - आंखें ठडी होना,  
 जी भरना, तृप्त होना । डोळ्याच्या  
 खाचा होणें - आंखें फूटना, अघा  
 होना, आंखो को रो बैठना ।  
 डोळ्याच्या वाती करणें - आंखो का  
 तेल निकालना, आंखो पर जोर  
 पढने वाला काम करना । डोळ्यांत  
 खुपणें - आंखो में खटकना, चुभना,

बुरा लगना । डोळ्यात गगायमुना  
 येणें - आंखें डबडवाना, आंखो में  
 आंभू भर आना । डोळ्यात तेल  
 घालून जपणें - आंख में रखना,  
 प्यार से, हिफाजत से रखना ।  
 डोळ्यात तेल घालून पाहाणें -  
 कडी निगाह रखना । डोळ्यात  
 धूळ फेंकणें - आंखो में धूल  
 झोकना, डालना, देना, घोखा  
 देना । डोळ्यात प्राण उरणें, येणें -  
 आंख छत से लगना, मरने के  
 समय आंख टँग जाना । डोळ्यात  
 वोट घातलें तरी न दिसणें - बहुत  
 अधिक अंधेरा होना । डोळ्यांत  
 भरणें - आंखो में समाना, ध्यान-  
 पर चढना, भाना, जँच जाना ।  
 डोळ्यात मावणें, सामावणें - १  
 आंखो में समाना, ध्यान पर चढना ।  
 २ गुस्से से देखे जाने पर घबडाना ।  
 डोळ्यातील काजळ चोरणे - आंख  
 का काजल चुराना, सफ़ाई से  
 हाथ मारना । डोळ्यापुढें काजवे  
 चमकणें - आंखो के तारे छूटना,  
 सिर चकराना, चकाचौंध होना ।  
 डोळ्याला डोळा देणें - आंख से  
 आंख मिलाना, घृष्ट बनना ।  
 डोळ्यांवर कातडें ओढणें - आंखो  
 पर ठिकरी रख लेना, अनजान  
 बनना । डोळ्यावर धूर येणें -  
 आंखो म चरबी छाना, घमड  
 होना । डोळ्यांवर येणें - १ आंखो  
 में चुभना, खटकना, बुरा लगना ।  
 २ दिखाई देना । डोळ्याशीं डोळा  
 भिडविणें - आंख से आंख मिलाना,  
 आंख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज  
 हो जाना । कहा० दोन डोळे  
 शेजारी, भेट नाहीं ससारीं - पास  
 रहते हुए भी भेंट-मुलाकात न  
 होना ।

डुगी, डौंडी । २ चोगा । ३ उपहास ।

डोरी - दे 'डवरी' ।

डौल - पु. १ डौल, ढांधा, वनावट का तर्ज, ढव । २ रूप-

रेखा, गठन । ३. ढंग, तरीका । ४ शान, अकड । ५. दिखाना; आडवर, ढोग । - दार - वि डीलदार, सुडील, सुदर, सुघड; शानदार ।

ढ

ढ - मराठी वर्णमाला में ट वर्ण का चौथा वर्ण ।

ढंग - पु. [हिं] १ ढग, रीति, शैली, तरीका, तर्ज । २ बुरा काम, कुटेव, मनमौजी वस्ताव ।

ढगी - वि १ ढगी, चालाक, घूर्त । २ छैला, मनमौजी, शरा-रती, पाजी ।

ढ - वि १. अपढ, अशिक्षित, काला अक्षर भैस वरावर । २ वुद्दू, मूर्ख, अक्ल का दुश्मन, अनाडी, वोदा, गावदी ।

ढकल - छी १ ढकेलना, ठेलना । २ टालमटूल । - घद, - नदन - वि पु. कामचोर । - पचविशी - छी टालमटूल, वहाने वाजी । - पट्टी - छी १. किसी तरह समय बिताना । २ टालमटोल ।

ढकलणे - क्रि स १ ढकेलना, घकेलना, ठेलना, घक्का दे कर आगे बढ़ाना । २ स्थगित, मुलतवी करना । ३ टालमटूल करना, टालना । ४ किसी तरह काटना, बिताना, गुजारना । ५ घुसेडना ।

ढकलाढकल - ली - छी १ घक्कमघक्का, ठेलाठेल, रेलपेल, घकपेल । २ टालमटूल ।

ढका - पु. १ घक्का, आघात, टक्कर । २. हानि, घाटा ।

ढक्का - पु. ढक्का, बडा ढोल,

नगाडा ।

ढग - पु. वादल, मेघ, अन्न । - छी १ ढग, पग । २ ऊंची जगह । [ गलना । २ चिरकना ।

ढगळणें - क्रि अ १. सडना, ढगाळ - वि मेघाच्छन्न, वादलो से ढका हुआ । - न वडी गोटी, कौडा ।

ढगढण - णा - अव्य. भभक कर, भडक कर, जोर - जोर से (जलना) ।

ढणढणें - क्रि अ भभकना, भडकना, जोर से जल उठना ।

ढणढणीत - वि भभकता हुआ, बडा, भडकता हुआ, तेज, जोर का ।

ढपला - पु. ढपली - छी १ ढोका, ढेला, ढीम, ढीमा । २ दे 'ढलपा-पी' । [ दाल ।

ढपळ - न पतला साग या ढपळशाई - छी १. विपुलता, इफरात । २. उडाऊपन । ३ गड-वडी, झमेला । [ ढफ ।

ढपेला - पु. १. नगाडा । २

ढव - छी १ ढव, ढग, तौर, तरीका । २ शान, अकड, ऐंठ ।

ढवू, ढव्वू - पु. १ टका, अधझा, अनझी । २ वुवूदू । - वि ढपू, ढपू, मोटा-ताजा । कहां० दिसण्यात ढव्वू, चालण्यात शिवराई - धीखने में अधझा और चलने में कौडी, ऊपर से बडा बनने वाला क्षुद्र व्यक्ति ।

ड्रिल - छी [अ.] ड्रिल, कवायद ।

ड्रेनज - न [अ] ड्रेन; अपवाह, जल-निकास; गदे पानी, मल, मूत्र आदि के बहने की नाली ।

ढव्या - वि ढपू, ढपू; मोटा - ताजा ।

ढम - वि बडा आलसी, सुस्त । २ वुद्दू । - अव्य. जोरसे, 'ढम' की आवाज के साथ ।

ढमका - वि अमुक, फलां । ढमढम - मां - अव्य 'ढमढम' की आवाज के साथ, जोर - जोर से । [ वाला ।

ढमढेन्या - वि तोदल, तोद ढमाई - छी १. बडे तोद वाली स्त्री । २ चालाक औरत ।

ढमामा - पु. [फा 'दमाम'] दमामा, नगाडा, ढका, घौंसा ।

ढमाल - दे 'धमाल' । [ ताजा । ढमाल्या - वि ढपू, मोटा - ढलपट - न, ढलपा - पु, ढलपी - छी फांक, टुकडा, चिप्पड, चप्पड ।

ढवळणें - क्रि स १. हिलाना । २ घोलना, मिलाना । ३ औटाना । ४ गडवडी फैलाना, हस्तक्षेप करना । - क्रि अ १ गुडगुडाना, पेट में 'गुड-गुड' की आवाज होना । २ जी मतलाना, मिचलाना, मतली आना ।

ढवळा - वि धौला, सफेद । - पु. धौला, सफेद वैल । कहां० ढवळ्याशेजारों वाघला पवळा, वाण नाही पण गुण लागला - धौले के पास लाल रंग का वैल बांधा, उसका रंग तो नहीं बदला,



मगर उससे उसने वुरी आदते ले ली।

ढवळाढवळ - स्त्री १ हस्तक्षेप, दखल, दस्तदाजी। २ गडवडी।

ढसढसा - अव्य. १ ढाढें मार कर, फूट - फूट कर, चिल्लाते हुए (रोना)। २ गटगट, जी भर कर (पीना)।

ढळ - पु. १ ढलना, ढरकना, लुढकना। २ कमी, खामी, त्रुटि। ३ गलती। [ 'ढसढसा'।

ढळढळ - ढां - अव्य. दे ढळढळीत - वि १ साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। २ जगमगाता हुआ, चमकदार। - अव्य. आंखों के सामने, साफ तौरपर, खुल्लमखुल्ला।

ढळणें - क्रि अ १ ढलना, ढरकना, लुढकना, नीचे की ओर जाना, अस्ताचल की ओर जाना। २. हटना, खिसकना। ३ गिरना, खराब होना, विगडना। ४ चूकना, निशाना खता होना। ५ चेंबर आदि का हिलाया जाना।

ढळता - वि १ ढालू, ढालवा। २ उदार। [ (जमीन)।

ढळी - वि स्त्री ढालू, ढालवा। ढाक - वि लमतगा, लमतडग, लंबी टांगी वाला।

ढांकण - न ढकना, ढक्कन। ढांग - स्त्री १ टांग। २ खडे रहने पर दो टांगों के बीच का अंतर। ३ जाँघ, दो जाँघों के बीच का भाग। ४ छलाँग।

ढागळ - वि १ लमतडग, लमतगा। २ टाँगें फैलाकर चलने वाला।

ढागळणें - क्रि स द्रुतकारना, अँगूठे पर मारना, हेच समझना।

ढागाळ - दे 'ढागळ'।

ढांडळ - वि १ लंबा और

मोटा (ज्वार का भुट्टा)। २ लंबा और तगडा, ग्राडील।

ढाडोरा - पु ढिढोरा, मुनादी, घोषणा।

ढांडळणे - क्रि स ढूँढना, खोजना, तलाश करना।

ढापण-णी - स्त्री १ अँवौटी, अँधोटी, घोडे या बैल की आँख पर ढालने का परदा, अनवट, अँधियारी, शिकारी चिडियो आदि की आँखों पर बाँधी जाने वाली पट्टी। २ ढक्कन, ढकना।

ढास - स्त्री ढाँस, सूखी खाँसी। मु० - लागणे - ढाँसना, सूखी खाँसी खाँसना।

ढाक - स्त्री १ ढाँक, कुस्ती का एक पेंच। २ गप।

ढाण - न १ कीचड। २ दाग। - वि १ बहुत खट्टा। २ गीला, तर। [ चडाल।

ढाणक - पु अछूत, अस्पृश्य, ढाणी - वि दागने की लोहे की छड।

ढाण्णा - वि चित्तियो, धारियो वाला (वाघ, साँप) - वाघ - पु १ चीता। २. शूर, निडर, वहादुर, व्यक्ति। [ शाखा।

ढाप - स्त्री ढाल, ढाली, ढापण - दे 'ढापण'।

ढापणें - क्रि स १ ढापना, ढाँकना, मूँदना, ढकना। २ हुडपना, उडाना। ३ छिपाना।

ढापा - पु १ वडा खपडा। २ जीने को बढ़ करने का तस्ता।

ढापी - स्त्री टहनी, ढाली, ढाल, गाख।

ढावळी - टे. 'वावळी'।

ढारदूर, ढारादूर - दे 'ढारादूर'।

ढाल - स्त्री १ ढाल, रक्षा

का सावन। २ सहारा, रक्षा करने वाला व्यक्ति। ३ निशान, झडा। - न जाडू-टोना, मत्र-तत्र।

ढालगज - वि १ साहसी, उद्दाम। २ उद्धत, निर्लज्ज, ढीठ, धपलेवाज, चट, चालाक (औरत)। - भवानी - स्त्री ढीट, चट औरत।

ढालाईत - वि पु १ ढलैत, ढाल धारण करने वाला व्यक्ति, सैनिक। २ सेना में झडा ले कर चलने वाला। [ 'ढासणे'।

ढास, ढासणे - दे 'ढास', ढासळणे - क्रि अ ढहना, गिरना, ध्वस्त होना। - क्रि स ढाना, गिरना, ध्वस्त करना।

ढाळ - पु १ दस्त, पतला पाखाना। २ जुलाव, जुल्लाव, विरेचन, दस्त लाने वाली दवा। ३ ढाल, उतार, ढालू जमीन। ४ मोती की चमक, आव, पानी। ५ ढग, तर्ज।

ढाळणे - क्रि स १ डुलाना, हिलाना, झलना (चेंबर)। २ वहाना (आँसू)। ३ ढालना, फेंकना। ४ ढालना, गिराना (पानी), उँडेलना।

ढाळा - न, ढाळी - स्त्री दे 'टहाळा', 'टहाळी'।

ढिकळ - ढी - स्त्री ढेला; ढेर। [ पुज।

ढिगारा - पु ढेर, राशि,

ढिस - स्त्री १ चकित होना। २ प्रवृत्त होना। - वि अव्य. वीमा, चुपचाप, स्थिर, अडिग। मु० - होणें - टस से मस होना।

ढिमा - पु १ टीला, पहाडी २ नदी के बीच का टापू। ३ मुलम्मा।

ढिमोरा - पु चूतड; कूल्हा।

ढिम्म - दे 'ढिम' ।

ढिला - वि १ ढीला, गिथिल, जिसमे तनाव, खिंचाव न हो । २ मुस्त, काहिल । ३ चचल । ४ मुलायम, नरम । कमरेचा ढिला - वि १ हिजडा । २ कायर, उर-पोक । कासोटचाचा ढिला - वि व्यभिचारी, कामी, लँगोट का ढीला ।

ढिलाई - स्त्री १ ढिलाई, ढीलापन, सुस्ती, शिथिलता । २ टालमटोल ।

ढिसाळ - वि १ पिलपिला, यलयल, िला - ढाला; शिथिल । २ उदार । ३ वडा, विगाल ।

ढिसूळ - वि १ दे 'ढिसाळ' । २ दे 'ठिसूळ' ।

ढीग - पु. १ ढेर, राशि, अटाला, पुज, गज, अवार । २ भीड । - वि अव्य बहुत, चाहे जितना, विपुल । मु० - करणें - १ ढेर लगाना । २ बहुत कोशिश करना । - घालणें, - पाडणे, - लावणे - १ ढेर लगाना । २ बहुत काम आदि करना । - सागणे - चाहे सो कहना, वताना ।

ढील - स्त्री १ ढील, शिथिलता । २ सुस्ती, व्यर्थ की ढेर । ३ टालमटूल । मु० - देणें - ढील देना, म्वच्छन्द होने देना, बचन-मुक्त करना ।

ढुंकणे - क्रि अ झांकना, उचक कर देखना ।

ढुकून - अव्य. १ झांक कर, उझक कर, २ मुड कर । मु० - न पाहाणे, - न विचारणे - विलकुल व्यान न देना, लापरवाही करना, करवट न लेना, चुप्पी माधना ।

ढुगण - न चूतड, कूल्हा । मु० ढुगणास हात पोहोंचणे - आज्ञाद

वनना, किसीकी जरूरत या पर-वाह न होना, आसमान झांकना । कहा० ढुगणाचे सोडून ढोकीस गुडाळणें - त्रेशरम, निर्लज्ज वनना ।

ढुढढाचार्य - दे 'ढुढढाचार्य' । ढुमढुम - न ढमढम, ढोल, आदि की ध्वनि । - अव्य 'ढम-ढम' की आवाज के साथ ।

ढुशी - स्त्री १ सिर से दिया जाने वाला धक्का । २ बछडे द्वारा गाय-भैस का दूध पीते समय स्तनों मे दिया जाने वाला धक्का ।

ढुसणी - स्त्री १ दे 'ढुशी' । २ । फर मे याद दिलाना, पुन-स्मरण । ३ चुभन ।

ढुस्स - वि काला कलूटा ।

ढेंकणी - स्त्री १ खटमल की मादा, एक कीडा जिसे खटमल की माँ कहा जाता है । २ खटमल पकडने का लकडी का छेददार टुकडा । ३ बुनाई में ऊपर वाली धुनकी ।

ढेंकर - पु. स्त्री डकार, आवाज के साथ मुँह से निकलनेवाली हवा । मु० - देणें - १ डकारना, डकार लेना । २ किमी का माल पचा जाना, हडपना ।

ढेंकली - स्त्री ढेंकली, ढेंकी ।

ढेंकूण - पु. १ खटमल । २ गदा आदमी । [टुकडा ।

ढेंकूळ - न ढेला, मिट्टी का

ढेंग - स्त्री १ टाँग । २ खडे रहने पर दो टाँगो के बीच का अतर । मु० ढेंगा पसरणें - १ टाँग उठाना, जल्दी-जल्दी चलना । २ टाँगें पसारना, पाँव फँलाना । ३ टाँगें पमारकर सोना, वै खटके सोना ।

ढेगळणें - क्रि स १ लाँघ जाना । २ दुतकारना । ३ छोड

देना ।

ढेंगोजी, ढेंगोजीमॅगोजी - पु. डीग हाँकने वाला, निकम्मा, ढोगी आदमी । [डली । ३ खली ।

ढेंप - स्त्री १ ढेला । २ भेली, ढेवूस - न १ गुवा, गुल्मा । २ टीला ।

ढेकणी, ढेकर, ढेकली, ढेकण, ढेकूळ, ढेप - दे 'ढेंकणी', 'ढेंकर', 'ढेकली', 'ढेकूण', 'ढेंकूळ', 'ढेप' ।

ढेपसा - पु १ जले हुए उपले का टुकडा । २ राख, मिट्टी आदि का ढेला, वडा डला, ढोका ।

ढेपाळणे - क्रि अ खस्ता होना, टूट जाना, गिर जाना, पिघलना ।

ढेपाळी - स्त्री, ढपाळें - न गुड बनाने का साँचा या गढा ।

ढेवरपोटचा - दे 'ढेरपोटचा' ।

ढेर - स्त्री १ तोद, पेट का आगे की ओर बढा हुआ भाग । २ तोदल, तोद वाला आदमी । - पु. ढेर । -पोटचा - वि तोदल, तोदीला, तोद वाला, जिसका पेट निकला हुआ हो । [ २ ढेर, ढेरी ।

ढेरी - स्त्री १ तोद, दे 'ढेर' ।

ढेल - न स्त्री १ तोदल आदमी । २ मोटा - ताजा, भद्दा आदमी ।

ढोकण - न सगतराश का पत्थर काटने का एक औजार ।

ढोग - न १ ढोग, पाखड, भाड-वर, ढकोसला । २ वहाना । - घत्तुरा - पु ढोग, ढकोसला, चाल-वाजी ।

ढोगी - वि ढोगी, पाखडी, झूठा । - साधु, - सोंगी - वि पु ढोगी, पाखडी, बगुलाभगत, कठ-मलिया ।

ढोडर - दे. 'ढोडर' ।

ढोक - डु. गिद्ध की जाति का एक पक्षी । - वि १ अतिम, आखिरी । २ हलका, घटिया ।

ढोकळा - डु. १ चने के दलिये की बडी या टिकिया । २ पकौडी । ३ दे 'डब्बू' ।

ढोण - न लट्ठा, लकडी का कुदा । २ लोथडा । ३ मोटा-ताजा आदमी । - छी दे 'ढोण' । - वि. बहुत, वेहद (खट्टा) ।

ढोणी - छी ढोगी, किन्ती ।

ढोडर - डु. न १ घुटना । २ कुहती ।

ढोडरणें - क्रि स गोटी को कुहती से ठेल कर गुन्ची मे डालना ।

ढोडळ - वि १ स्पष्ट; साफ,

मोटा । २ ऊबड-खाबड । - पणे-अव्य स्यूल रूप से, मोटे तौर पर ।

ढोर - न ढोर; चौपाया, मवेशी । - डु. मृत पशुओं की खाले निकालने वाली एक अछूत जाति । - कोळी - डु. बडा मकडा । - गुंज - छी बडी घुंभची । - डाँकटर - डु. पशुचिकित्सक । - मळी - छी गन्ने का रस उवालते समय पहली ढार निकलने वाला मलफेन, झाग, मैल । - वाडा - डु. १ अडाड, चौपायो को रखने का बेरा । २ अछूतो की वस्ती ।

ढोल - डु. १ ढोल, नगाडा । २. तोद ।

ढोलकी - छी, ढोलक - न ढोलक, ढोलकी, छोटा ढोल । मु०-

पिटणें - ढोल पीटना, चारों ओर कहते फिरना ।

ढोलक्या - वि डु. ढोलकिया, ढोल बजाने वाला ।

ढोलची - दे 'ढोलकी' ।

ढोली - छी १ कोटर, खोडर, खोल; खोखला, खोडरा । २. ढोली, दो सौ पानों की गड्डी ।

ढोल्या - वि १ मोटा-ताजा । २ तोदिल । ३ ढोलकिया, ढोलिया ।

ढोसणें - क्रि स १ ढकोसना, अत्यधिक मात्रा मे पीना, जल्दी-जल्दी पीना । २ ठूसना, घुसे-ढना ।

ढोसला - डु. चौडा और मोटा कगन ।

## ण

ण - मराठी वर्णमाला मे टवर्ग का पांचवा वर्ण । इस अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द मराठी मे नहीं है ।

## त

त - मराठी वर्णमाला में तवर्ग का पहला वर्ण ।

तंग - डु. [ फा ] तग; जीन कसने का तस्मा, पेटी । - वि १ तग, कसा हुआ, झुस्त, विस्तार में कम । २ दिक्, परेशान ।

तगडी - छी टांग, टंगडी, पैर ।

तगविणे - क्रि स [ फा 'तग' ] तग, परेशान करना, हैरान करना, पदाना ।

तगाडणें - दे 'तागडणे' ।

तगी - छी [ फा ] १ तगी, तगदस्ती, अर्यकष्ट, अभाव, कमी । २ तग होना, चुस्ती । ३ परेशानी । ४ सकीर्णता । ५.

महूंगी ।

तटा - [ हिं 'टटा' ] टटा, झगडा, फसाद । - वखडा - डु. झगडा - फसाद । [ झगडालू । तटेखोर - वि फसादी, तंडणे - क्रि अ झगडा, टटा, फसाद, चक्कधक्क करना, झगडना ।

तंत - डु. छी दे 'ततु' । २ तत, तांत । ३ तार वाला बाजा ।

तत - अव्य १ हूवहू, कतई, विलकुल । २ लवालब । ३ निश्चित रूप से, पूरी तरह ।

ततरणे - क्रि स १ फुसलाना, बहलाना, बनाना, घोखा देना । २. मूंडना । ३ सभोग करना ।

तंतु - डु. १ ततु, सूत, धागा,

डोरा । २ तांत, तार । ३ केसर । ४. मकडी का जाला । ५ सतान । दे 'तत' । - कार, -वादक - डु. ततुवादक, तार वाला, तार बजाने वाला । - वाद्य - न ततु-वाद्य, तार वाला बाजा ।

तंतोतत - अव्य हूवहू, ठीक बसा ही; हर्फ व हर्फ, अक्षरश, अक्षर-अक्षर ।

तंत्र - न तत्र, ततु, तांत । २ प्रविधि, तकनीक, शिल्प, प्रक्रिया । ३ ढग, पद्धति, रीति, तरीका, नीति । ४ राजपरिवार, दल-वरु । ५ अधीनता; मातहती । ६ करघा । ७ श्चिबशक्ति की पूजा और अभिचार आदि का

विधान करने वाला शास्त्र । ८. तत्र-मत्र, जादू-टोना । - विज्ञान, - शास्त्र - न औद्योगिकी, प्रविधि - विज्ञान, उद्योगविद्या, शिल्पविद्या ।

तंत्री - स्त्री १ तंत्री, वीणा आदि में लगा तार । २ वीणा, सारंगी । - वि १ तार वाला (बाजा) । २ प्रविधिज्ञ, टेक्नीशियन । ३ चालाक; काइयाँ ।

तंत्री - स्त्री १ तंत्री, ऊँघ । २ तल्लीनता, धुन, लगन, एकाग्रता, मग्नता, लौ । ३ सुस्ती ।

तवाकू-खू - पु स्त्री [ अ. 'टोवैको' ] तवाक, सुरती । - चा अर्क - पु. तवाकू का खमीर ।

तंबी - [ अ. 'तवीह' ] चेतावनी, डांट-डपट, ताकीद ।

तबूरी - स्त्री [ फा. 'तवूर' ] छोटा तबूरा, तानपूरा ।

तंबू - पु. तबू, शामियाना, मु० - ठोकणें - डेरा डालना ।

तबूर - पु. [ फा. 'तवूर' ] तबूर, एक तरह का ढोल ।

तबोरा - पु. [ 'तवूर' ] तबूरा, तानपूरा ।

तंबोरी - दे 'तवूरी' ।

तवर - अव्य. तव तक ।

त - दे 'तर' ।

तकट - न [ फा. 'तख्त' ] १ गहने आदि बनाने के लिए तैयार की हुई सोने, चादी आदि की चादर, पत्तर, वरक । २ दे 'तवक' । ३ तमगा ।

तकतकर्णें - क्रि अ चमकना, जगमगाना । [ दमक, जिला ।

तकतकी - स्त्री चमक, ओप, तकतकीत - वि १ चमकीला, चमकदार, जगमगाने वाला । २.

चिकना; मुलायम ।

तकरार - दे. 'तक्रार' ।

तकलादी - दू, तकलुपी - बी - वि [ अ 'तक्लीद', 'तकल्लुफ', 'तकल्लुब' ] बनावटी, हलका, घटिया, नकली, बहुत जल्द टूट जाने वाला ।

तकवा - पु. [ अ 'तक्वियत' ] १. बल, जोर, ताकद । २ सात्वना, ढारस, ढाढस, आश्वासन, तसल्ली । ३ पृष्ठ-पोषण, समर्थन ।

तकाकर्णें - क्रि अ १ चमकना, जगमगाना, झलकना । २. चिकना दिखाई देना ।

तकाकी - स्त्री चमक, ओप, झलक, दमक ।

तक्क्या - पु. [ अ 'तक्य' ] १ तकिया, वालिश, उपधान, मसन्द । २ फकीरो के रहने की जगह । ३. कब्रिस्तान ।

तक्कू - कच्चे आम की चटनी ।

तक्कत - न [ फा. 'तख्त' ] १. तख्त; सिंहासन । २. पीठ, मठ, गद्दी । ३. लकड़ी की बड़ी चौकी ।

तक्कतपोशी - स्त्री [ फा. 'तख्त-पोश' ] १ लकड़ी के तख्तों की जमीन । २ लकड़ी के तख्तों की छत ।

तक्कता - पु. [ फा. 'तख्त' ] तख्ता, तख्ती, पटिया, लकड़ी, धातु आदि का छोटा, चौकोर टुकड़ा । २ कागज का ताव । ३ सारणी, सारिणी, तालिका, 'टेबुल' । ४ (फाशीचा) पाड ।

तक्क्या - दे 'तक्क्या' ।

तक्रार - स्त्री [ अ ] १ शिकायत, हर्ज, आपत्ति, दोषकथन, गिला । २. तकरार, हुज्जत,

झगडा । ३ नालिश; फरियाद । ४ आरोप, अभियोग ।

तक्कलुपी-बी, तक्कवा - दे 'तक्कलुपी', 'तक्कवा' ।

तग - पु. निवाह, टिकना, ठहरना । मु० - घरणें - टिकना, ठहरना, स्थिर रहना, जमना, डटे रहना ।

तगट - दे 'तण' ।

तगडा - पु. तगडा, हट्टा; मोटा-ताजा, मजबूत ।

तगणे - क्रि अ १ टिकना, ठहरना, बना रहना । २ बर्दाश्त करना ।

तगमग - स्त्री १ छटपटी, बेचैनी, आकुलता । २ उमस, ऊमस । [ तडपना, व्याकुल होना ।

तगमगणें - क्रि अ छटपटाना, तगर - स्त्री तगर, एक पीघा और उसका फूल ।

तगविणे - क्रि स १ टिकाना, बचाये रखना । २ जिलाना, बचाना ।

तगाई - स्त्री [ अ 'तक्कावी' ] तकावी, किसानों को बीज, वैल आदि खरीदने के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला ऋण ।

तगादा - पु. [ अ 'तकाजा' ] १ तगादा, तलव, माँग, तकाजा, पावना, माँगना । २ कोई काम करने के लिए किसीसे बारबार कहना । मु० - लावणें - तकाजा करना, दिक करना ।

तगारें - न [ फा. 'तगार' ] तगाड, बडा तसला ।

तगाव - पु. दे 'तग' ।

तजबीर - दे 'तसबीर' ।

तजबीज - स्त्री [ अ तजबीज ] १ प्रवच, व्यवस्था, इतजाम । २ उपाय, युक्ति । ३ तजबीज,

योजना, मसूवा, विचार।  
४ सलाह, राय। ५ निर्णय,  
फैसला।

तजेलदार - वि १ तेजस्वी,  
कातिमान्, चमकदार। २ ताज्जा,  
लहलहाता हुआ।

तजैला - पु १ तेज, चमक,  
काति। २ ताजगी।

तज्ज - वि तज्ज, तज, जान-  
कार, माहिर।

तट - पु १ तट, किनारा,  
कूल। २ परकोटा, प्राचीर,  
दीवार, चहारदीवारी। ३ पहाड  
की ढाल। ४ पक्ष, दल, गुट।  
-बदी - छी चहारदीवारी, पर-  
कोटा। -स्थ - वि १ तटस्थ,  
निष्पक्ष, नातरफदार। २ उदा-  
सीन, अलग-थलग। ३ स्तब्ध,  
खामोश, चुप। ४ चकित,  
विस्मित। ५ तटवर्ती, जो किनारे  
के पास हो। [से।

तटकन् - अव्य खट से, झट  
तटका - पु १ सवध। २ मुरी-  
वत। ३ टटा, झगडा।

तटणे - क्रि अ १ बडना,  
रुकना, अटकना, जमना। २  
झिद पकडना। ३ सटना।

तटतट - अव्य तडाक-पडाक,  
तडाक-फडाक, चटपट, फौरन।

तटतटणे - क्रि अ १ इतना  
फूलना कि फट जाने की सभावना  
हो। २ तडकना, तडतडाना,  
टूटना, फटना।

तटतटा - दे 'तटतट'।  
तटतटीत - वि फूला हुआ,  
भरा हुआ।

तटविणें - क्रि स रोकना।  
तटाटणें - दे 'तटतटणें'।  
तटाणी, तटू - दे 'तट्टाणी',  
'तट्टू'।

तटोरी + - छी १ धानो से  
अच्छी तरह भरा हुआ भुट्टा।  
२ गला। [कर।

तट्ट - अव्य कस कर, फूल  
तट्टाणी - छी छोटी घोड़ी,  
टट्टू की मादा। कहा० कोठें इद्राचा  
ऐरावत, कोठ शामभटाची तट्टाणी-  
कहाँ इद्र का ऐरावत और कहाँ  
शामभट की मामूली घोड़ी,  
कहाँ राजा भोज, कहाँ गणू तेली।

तट्टी - छी १ टट्टी, वांस  
आदि की फट्टियो का पल्ला,  
टट्टर। २ पल्ले की दीवार।

तट्टू - पु टट्टू, टाँगन, छोटे  
कद का घोडा।

तट्ट्या - पु १ टट्टी, टट्टर,  
वांस आदि की फट्टियो का पल्ला।  
२ सिरकी, सरकडे की दमी हुई  
टट्टी।

तड - छी १ तट, किनारा।  
२ नतीजा, परिणाम, अत,  
फैसला। ३ तगादा। ४ तगी। ५  
दे 'तट'। मु तडीस नेणें, लावणें-  
पूरा करना, पार लगाना, सफल  
वनाना।

तडक - अव्य १ ठेठ, सीधे,  
एकदम। २ कतई, दिलकुल,  
पूरी तरह। - छी जोर, जोग। -  
पु १ जोर की आवाज। २ गड-  
गडाहट।

तडकणें - क्रि अ १ तडकना,  
चटकना, टूटना, चिटकना।  
२ बाल आना, पडना।

तडकातडकी - छी झगडा,  
तू-तू मै-मै।

तडकाफडकी - अव्य झट,  
तुरत, चटपट, फौरन, तडाक -  
पडाक, तडाक-फडाक।

तडकाविणें - क्रि स जोर से  
मारना, दे मारना, फटकारना।

तडकावून, तडकून - अव्य  
घोर से, तेजी से, कस कर।

तडजोड - छी समझौता, मेल,  
सुलह।

तडतडणें - क्रि अ १ तड-  
कना, टूटना। - दे 'तडकणे'।  
२ घटकना, चटचटाना, तड-  
तडाना।

तडतडा - अव्य १ तडाक -  
पडाक, झट, फौरन। २ गुस्से से,  
जोर-जोर से। [आतशवाजी।

तडतडी - छी एक प्रकार की  
तडफ - छी [हिं 'तडप']

१ जोश, उमग, फुर्ती, उत्साह।  
२ तडप, कडक, चमक। -दार-  
वि १ उत्साही, कार्यक्षम,  
फुर्तीला। २ तडपदार।

तडफड - छी १ तडप,  
वेचैनी; छटपटी, आकुलता। २  
गुस्सा।

तडफडणे - क्रि अ तडपना,  
छटपटाना, कलपना, तडफडाना,  
वेचैन, व्याकुल होना, हाथ-पाँव  
पटकना। मु० तडफडून मरणे -  
घुटकर मरना।

तडफडाट - पु छटपटी, घुटन,  
गुस्सा। - होणे - आपे से बाहर  
होना।

तडस - छी १ पेट फूलने से  
होने वाली पीडा। २ बहुत  
अधिक खाने से पेट का फूल  
जाना। [दरार, चीर।

तडा - पु तडक, शिगाफ,  
तडाका-खा-पु १ आघात,  
चोट, मार। २ धप्पा, धौल,  
तमाचा, फटकार। ३ झपट्टा। ४  
जोश, आवेश, जोर। ५ झडी।  
६ धूमधाम। मु० तडाक्यात येणे,  
सापडणे - घात मे आना, चगुल  
मे फंसना।

तडातड-डां - अव्य तडातड, जोर से, लगातार, वेधडक, गुस्से से, अवज्ञा के साथ ।

तडीतापडी - सी घु तपस्वी, तापस, तपी, साधु, वैरागी ।

तड्या + - वि १ तटवर्ती, किनारे का, पुरवडया, पुरवा, भूमि मे समुद्र की ओर बहने वाली (हवा) । २ सूखा ।

तण - न १ घाम, तिनका, तृण । २ खरपात, घासफूस । - सडी - स्त्री १ तिनका, घाम-पात । २ फूटी कौटी, अत्यंत क्षुद्र वस्तु ।

तणतणणे - क्रि अ १ तन-तनाना, झल्लाना । २ बकझक करना, बुडबुडाना, कुडबुडाना । तणतणा - अव्य क्रोध से, गुस्से से बुडबुडाते हुए ।

तणाव-वा - घु १ तनाव, खिचाव । २ तनी, तबू आदि को तान कर रखने की रस्सी, रस्सा । ३ मकड़ी का जाला ।

तत्काल - अव्य तत्काल, तत्क्षण, तुरत, उमी समय, फौरन ।

तत्क्षण-णीं, अव्य तत्क्षण, तत्काल, तुरत, फौरन, उसी वक्त ।

तत्त्व - न १ तत्त्व, सत्य, यथार्थता, सार, वस्तुस्थिति, असलियत । २ सिद्धात । ३ मूल पदार्थ, मूलवस्तु, मूलद्रव्य । - ज्ञान न तत्त्वज्ञान, दर्शन, फलसफा । - ज्ञानी - वि तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक, फलमफी । - निष्ठ - वि तत्त्वनिष्ठ, सिद्धात का पक्का ।

तत्त्वत, तत्त्वता - अव्य तत्त्वत, वास्तव मे, यथार्थ रूप मे, सिद्धात की दृष्टि से ।

तत्पर - वि १ तत्पर, तल्लीन । २ सन्नद्ध, तैयार, उत्सुक । [ जगह का ।

तत्रस्थ - वि वहाँ का, उस त तप-पि - अव्य तथापि, तो भी, फिर भी, तिस पर भी, बहरहाल ।

तथा - अव्य १ तथा, वैसा, वैसा ही । २ ठीक है, हाँ । ३ उर्फ ।

तथाकथित - वि तथाकथित, तथोक्त, नाममात्र का, नाम-निहाद, 'सो कॉल्ड' ।

तथापि - अव्य तथापि, फिर भी, बावजूद, तो भी, तिस पर भी ।

तथास्तु - अव्य तथास्तु, वैसा ही हो, एवमस्तु ।

तथ्य - न १ तथ्य, सत्य, सच्चाई । २ सार, बज्रूद, दम ।

तदनंतर - अव्य तदनंतर, उसके बाद, फिर, अनंतर ।

तद रूप - अव्य तदनुसार, उसके अनुसार, उसके मुताबिक । त शीय - वि तद्देशीय, उस देश का, मुकामी ।

तद्वत् - अव्य तद्वत्, वैसे ही, उसी तरह । [ उस वक्त ।

तर्धी - \* अव्य तत्र, उस दिन, तन - न तन, शरीर । - मन-घन - न शरीर, मन और सपत्ति, सर्वस्व । - मनघनाने - अव्य तनमन से, जी - जान लगा कर ।

तनखा - घु [ फा ' तनखाह' ] १ तनखाह, वेतन, तलब । २ निजी कोश, निजी राशि, निजी थैली । ३ अधिकारशुल्क, राज-शुल्क, सरकार से नियमित रूप से मिलने वाली रकम ।

तनमणी - घु स्त्रियो के गले

का एक गहना जिसमें हीरे और मोती जडे होते हैं ।

तनसडी - दे ' तणसडी ' ।

तनसळ - स्त्री अटेरन ।

तन, तनुमनु - वि १ अल्प, थोडा । २ नाजुक, कोमल । ३ पतला । ४ सूक्ष्म, वारीक ।

तन्मय - वि तन्मय, दत्त-चित्त, तल्लीन । - ता - स्त्री तल्लीनता, लगन ।

तप - न १ तप, तपस्या । २ बारह बरस की अवधि ।

तपकिरी - स्त्री कथई ।

तपकीर - स्त्री सुंघनी, नाम, दिमाग-रीशन ।

तपशील - स्त्री [ अ ' तपमील' ] तपशील, व्योरा, विवरण, विस्तार, स्पष्टता । - वार - अव्य. व्योरेवार, विन्तृत, तपशील के साथ । [ परगना ।

तपा + - घु तहशील का भाग, तपास - घु [ अ ' तफहहूस' या ' तपतीश' ] १ तलाश, खोज, जाच । २ तपतीश, तहकीकात, जांच-पडताल । ३ मुआयना । - नीस - वि घु १ अनुसधाता, अन्वेपक, खोज, छान-बीन, तहकीकात करने वाला । २ मुआयना करने वाला ।

तपासणी - स्त्री [ दे ' तपाम' ] १ जांच, छान-बीन । निरीक्षण, मुआयना । दे ' तपास' ।

तपासणे - क्रि स [ दे ' तपाम' ] १ जांचना, छान-बीन करना । २ खोजना, ढूँढना । ३ नन्दाशी लेना ।

तपेली - स्त्री १ छोटा लोटा, बटलोई । २ पतीली, देगची ।

तपेलें - न पतीली, देगची, बटलोई ।

तफावत - छी [ अ 'तफावुत' ]  
१ तफावत, अतर; फासला । २ फर्क ।

तवक - न [ अ 'तवक' ] १ तवक, तशतरी, बडी रिकावी, थाल । २. पूजा की थाली । ३ जमीन का गोल टुकड़ा । ४ घेरा । ५ चंदोवा ।

तवकड़ी - छी [ अ 'तवक' ]  
१ छोटा तवक, थाली, तशतरी । २ (घड्याळाची) घडी का मुह, चेहरा, अकानीक, 'डायल' । ३ (दिव्याची) प्रकाश-छादक, 'शेड' । ४ पालकी में बैठने की जगह ।

तवलजी - पु [ फा 'तवल' + ची ] तवलची, तवला बजाने वाला ।

तवला - पु [ फा 'तवल' ]  
तवला, ताल देने का चमड़े से मढा एक वाजा । मु० - घुमणे - तवला बजाना, ठनकना, खनकना, गम-कना ।

तवेला - पु [ अ 'तवेल' ]  
तवेला, अस्तवल, घुडसाल; अश्व-शाला ।

तवल - वि अव्य. [ अ 'तवील' ] पूरा, विलकुल; पूरी तरह ।

तव्येत - छी [ अ 'तवीयत' ]  
१ तवीयत, तवीयत, स्वास्थ्य, सेहत । २ जी, मन, दिल ।

तमा - छी [ अ ] १ परवा, परवाह, फिर, चिंता । २ महत्त्व, कीमत ।

तमाम - वि [ अ ] तमाम, सब, सारा, ममूचा, कुल ।

तमालपत्र - न १ तमालपत्र, तेजपात । २ सुरती का पत्ता ।

तमाशा - पु [ अ ] १ तमाशा, भांडो या बहुरूपियों की नकल या

स्वांग । २ लोकनाट्य ।

तमासगीर - वि [ अ 'तमाशा' + फा. 'गर' ] १ तमाशावीन; तमाशा देखने वाला । २ तमाशा-गर, तमाशा करने वाला, भांड, नट । ३. प्रेक्षक, दर्शक ।

तय<sup>+</sup> - छी १. चूर्ण, चूरा, वुकनी । २ मसाले दार माम, गोश्त ।

तया\* - सर्व. १ उसको । २ उसने । ३. उस ।

तयार - वि [ अ 'तय्यार' ]  
१ तैयार, तत्पर, लस, मुस्तैद, सन्नद्ध, आमादा । २ मुकम्मल, परिपूर्ण, सिद्ध, सुसज्जित । ३ बनाया हुआ । ४ उपस्थित, मौजूद, विद्यमान ।

तयारी - छी [ अ. 'तैयार' ]  
१ तैयारी, तत्परता, मुस्तैदी । २ सिद्धता । सामग्री । ४ सज-घज । ५ शरीर की पुष्टता । ६. अम्यास से प्राप्त कुशलता ।

तरग - पु १ पानी की लहर, मौज । २ उमग, विचार, कल्पना । ३ दे. 'तवग' ।

तरगणे - क्रि अ १ तैरना; वहना, उतराना । २ वहकना । ३ पडा रहना । ४ हिचकना, झिझकना, पसोपेश में पडना । ५ प्रतीक्षा करना ।

तर - अव्य. तो, तव, फिर, जब कि । - काय - अव्य और क्या । - च - अव्य. १ तभी । २. तभी तो, इसीलिए ।

तर - छी किशती, नौका, तरी ।

तरकट, तरकटचा - दे 'तर्कट', 'तर्कटचा' ।

तरकणें - क्रि स १ भांपना, ताडना । २ तर्क करना, अदाजा

लगाना । - क्रि अ. तडकना, फटना ।

तरट - न [ क 'तरट्टु' ] १ टाट, सन या पटसन का मोटा कपडा । २. बडा कोडा; चावुक ।

तरटी - छी [ क 'तरट्टु' ] टाटा, टाट का विछावन ।

तरटें - न [ क 'तरट्टु' ] १. टाट का बडा टुकड़ा । २ खोपडी, मिर । ३. गज; खल्वाट; गजा सिर ।

तरणा - वि तरुण; युवक, जवान । - बाड - वि नौजवान, पट्टा, हट्टा कट्टा ।

तरणी - वि तरुणी, युवती, जवान (औरत) । - ताठी - वि जवान और मजबूत (औरत), हट्टी-कट्टी ।

तरणें - क्रि अ. १ तरना, तैरना; पार होना । २ भववधन से छुटकारा पाना, तिरना, उबरना । ३. उतराना, पानीके ऊपर रहना, वहना या आना । - क्रि स तरना, पार करना ।

तरणोपाय - पु उपाय, छुटकारा, चारा, इलाज, रास्ता ।

तरतम - न न्यूनाधिक्य, कमी-वेशी; उच्चनीचता, श्रेष्ठ-कनिष्ठता । - भाव - पु तारतम्य, तर और तम का भाव, न्यूनाधिक्य के अनुसार क्रम, वुरे-भले की पहचान, इम्तियाज, तमीज, विवेक ।

तरतर - अव्य तेजी से, जल्दी-जल्दी ।

तरतरणें - दे 'तरारणें' ।

तरतरा - दे 'तरतर' ।

तरतरी - छी [ फा 'तर' + 'तरी' ] १ ताजगी, तरी, तरावट । २ चपलता, फुर्ती, तेजी, उत्साह । ३ होशियारी ।

तरतरीत - वि [दे 'तर-  
तरी'] १ तर्रोताजा, हराभरा,  
लहलहाता हुआ। २ चपल,  
फुर्तीला, तेज। ३ तीक्ष्णबुद्धि,  
होशियार, बुद्धिमान्। ४ खडा,  
सीधा।

तरता - वि १ तैरता हुआ,  
प्लवमान, उतराता हुआ। २  
लाभदायक, जिसमें घाटे की सभा-  
वना न हो।

तरतूद - स्त्री [अ 'तरदुद']  
प्रवध, वदोवस्त, व्यवस्था,  
इतज्जाम।

तरफ - स्त्री [अ 'तरफ']  
१. तरफ, ओर, जानिव, बगल,  
दिशा। २ पक्ष, 'पार्टी'। -  
वार - वि तरफदार, पक्षपाती,  
हिमायती, समर्थक। - दारी -  
तरफदारी, पक्षपात, हिमायत,  
समर्थन।

तरफ - स्त्री [अ 'तरव']  
तरव, सारंगी के तार।

तरफ - स्त्री १ आलब, टेक,  
'फलकम'। २. उत्तोलक, 'लीवर'।  
तरफड, तरफडणें - दे 'तड-  
फड', 'तडफडणें'।

तरबेज - वि [अ 'तर्वियत']  
तर्वियतयापता, प्रशिक्षित, सिद्ध-  
हस्त, निपुण, कुशल; माहिर।

तरवटा - पु तर्वट, चकवंड।  
तरवड - पु तरवट, एक क्षुप,  
वतकापठक।

तरवा - पु १. पौधो की गड्डी।  
२ पौधाघर, 'नर्सरी'; धान के  
पौधे तैयार करने की जगह।

तरवार - स्त्री तलवार, खड्ग;  
कृपाण, त्रेग, शमशीर। - बहादुर;  
- बहादुर, - वि १ तलवार का  
धनी, शूर, बहादुर, वीर,  
पराक्रमी। २. डींग हाँकने वाला।

मु०-गाजविणें, - मारणे - बहा-  
दुरी दिखाना, शूरता दिखलाना।  
तरवारोच्या धारेवर धरणें - कठोर  
अनुशासन में रखना, बहुत  
सताना, तंग करना।

तरस - न लकडबगघा, भेडिबे  
की जाति का एक जगली जानवर।

तरसाळें - दे. 'तसराळें'।

तरळणें - क्रि अ. १ भौचक,  
हक्का वक्का रहना। २. चमकना;  
झलक मारना, झलझलाना। ३  
झलकना, आभास होना। ४  
खेलना।

तराडें+ - न. १ जहाज।  
२ दे 'ताफा'।

तराई - स्त्री [फा 'तरी']  
तराई, पहाडके आसपास की निम्न  
भूमि जहाँ सदा तरी बनी रहती  
है।

तराक - स्त्री तकला, टेकुआ।  
तराजू - पु [फा.] तराजू,  
तुला, तौलने का यंत्र, मीजान।

तराणा - पु [फा 'तरान']  
तराना, एक प्रकार का गाना।

तराफा - पु. वेडा, नावों का  
जहाजो का समूह।

तरारणें - क्रि अ. १ फूलना।  
२ लहलहाना। ]से।

तरारा - अव्य तेजी से, जल्दी  
तरास+ - दे 'त्रास'।

तराळ - पु १ अछूतो की एक  
जाति। इस जाति के पुरुष गाँवों  
में पहरा देते थे और स्त्रियाँ गाँव  
की सफाई करती थी। २ पहरे-  
दार।

तरि-री - स्त्री तरी, नौका,  
नाव, किश्ती। - चेंभाडें - न  
खेवा, खेवाई, नाव खेने की उजरत,  
नाव का माडा।

तरी - अव्य १. फिर भी, तो

भी। २ अत, चुनाचे। - च -  
अव्य तभी, इसीलिए। - पण -  
अव्य तो भी, ताहम, फिर भी।  
तर - पु वृक्ष, पेड। - वर -  
पु तरवर, बडा पेड, वृक्ष।

तरण - वि तरण, युवक,  
युवा, जवान। - पिढी - स्त्री  
युवकगण, जवान लोग, नयी पीढी,  
युवकयुवतियाँ।

तरणी - स्त्री तरणी, युवती,  
जवान औरत।

तरणोपाय - दे 'तरणोपाय'।

तरु - न पौधा, भान का  
पौधा जो एक जगह से उखाड कर  
दूसरी जगह लगाया जाता है।  
मु०-लावण - रोपना, रोपनी,  
रोपाई करना।

तर्क - पु १ तर्क, अनुमान;  
खयाल, अटकल, अदाजा। २  
युक्ति, दलील, विवेचन। ३  
अक्ल, बुद्धि। - वितर्क - पु तर्क-  
वितर्क, ऊहापोह। - शास्त्र - न  
तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, मतिक।  
- शुद्ध - वि तर्कशुद्ध, युक्ति-  
युक्त, तर्कसगत, तर्कपूर्ण। -  
शुद्धता - स्त्री तर्कसगति; तर्क-  
पूर्णता।

तर्कट - न कुतर्क, दूषित,  
अमगत तर्क, वितडा।

तर्कटी - टधा - वि कुतर्की,  
कठहुज्जती, वितडावादी।

तर्पिणें - क्रि स. १ तृप्त  
करना। २ तर्पण करना।

तरं - वि [फा 'तर'] १  
तर, गीला। २ चूर (नबों में),  
वदमस्त, बेसुध। ३ फूला हुआ।

तन्हा - स्त्री [अ 'तरह']  
१. तरह, ढग, तरीका-। २  
प्रकार, भाँति, पद्धति, मार्ग।  
३ स्थिति, हालत, नतीजा।



तन्हेवाईक - वि [ अ 'तरह' ]  
१ अजीव, विचित्र, खन्नी,  
मनकी । २ दे 'तन्हेवार,' ।

तन्हेवार - वि [ अ 'तरह' ]  
१ तरहवार, अच्छे ढग या तर्ज  
का, सजीला । २ भांति-भांति  
का, रग विरगा । ३ दे 'तन्हे-  
वाईक' ।

तलखी - खी [ फा 'तलखी' ]  
१ गरमी, ऊमस, गरमी से होने  
वाली वेचनी । २ तलखी, कडवा-  
पन, कटुता । ३ गुस्सा ।

तलफ - खी [ अ 'तलव' ]  
तलव, अनिवार्य इच्छा, किसी  
नशीली वस्तु की चाह, मनक,  
गीक चराना ।

तलम - वि महीन और चिकना;  
मुलायम, नाजुक ।

तलवार - दे 'तरवार' ।

तलाठी - पु. पटवारी, गाँव  
की जमीन और उसकी मालगुजारी  
का लेखा रखने वाला एक मरकारी  
कर्मचारी ।

तलाव - पु. [ फा 'तालाव' ]  
तालाव, ताल, पोखरा, मरोवर,  
झील ।

तलाश - पु [ तु 'तलाश' ]  
तलाश, खोज, शोध, पता,  
खोज-बीन ।

तल्लख - वि [ फा, 'तल्लख' ]  
१ तेज, तीक्ष्ण बुद्धिवाला,  
चालाक, होगियार । २ तीखा ।  
३ उ ।

तल्लफ - दे 'तलफ' ।

तल्लीन - वि तल्लीन, मगन,  
लगा हुआ, मगन, डूबा हुआ,  
मद्व ।

तलंग - पु. १ परत, तह,  
पानी आदि पर तरने वाली तेल  
आदि की पतली परत । २ आँख

का जाला, वुव ।

तवकीर - ल, तवखीर - ल -  
खी न तीखुर, तवाशीर, तव-  
कीर, अरारुट, अरारोट ।

तवसळी - खी ककडी की एक  
मिठाई, बडी ककडी की मीठी  
रोटी ।

तवसे - न डोंगरी, बडी ककडी ।

तवा - पु. तवा, रोटी सेकने  
का छिछला पात्र ।

तवाना - वि [ फा 'तुवाना' ]

१ तवाना, मोटा-ताजा, स्वम्य ।  
२ ताजा ।

तशात - अव्य उस स्थिति में,  
उस हालत में, ऐसे समय में ।

तसदी - खी [ अ 'तम्दीअ' ]

१ तकलीफ, कष्ट । २ तगी ।

तसवीर - खी [ अ 'तस्वीर' ]  
तस्वीर, चित्र ।

तसरारळें - न तसला, तशतरी ।

तसलमात - खी [ अ 'तस्ली-  
मात' ] अग्रिम, अग्रिमवन;  
पेशगी । [ प्रकार ।

तसला - वि वैसा, उम

तसा - वि वैसा, तैसा, उम  
तरह का । - अव्य वैसे । - च -  
अव्य उसी दम, उलटे पाँव,  
तुरत, वैसे ही । - वि वैसा ही,  
हू व-हू ।

तसू-सू - पु १ तसू, तस्मू,  
सवा डँच की नाप । २ चप्पा,  
जमीन का छोटा टुकड़ा ।

तसे - वि वैसा, उम तरह  
का, तसा । - अव्य वैसे, उम  
प्रकार । - च - अव्य वैसे ही;  
माथ ही, फिर, एव, तथैव,  
उमी प्रकार । -

तस्कर - पु. तस्कर, चोर ।

तस्त - न [ फा 'तशत' ] १.  
चिलमची, पीकदान । २ तशत;

रका १, तशतरी ।

तस्मात् - अव्य इसलिए,  
चुनाचे ।

तह - पु. [ अ 'तहीय' ]  
सुल्ह, मवि, समझौता । - नामा  
- पु. सुल्हनामा, सविपत्र ।

तहकुवी - खी [ अ. 'तव-  
क्कुफ' ] म्यगन, इल्लिवा,  
मुल्लतवी, म्यगित होना । - ची  
सूचना - खी म्यगन - प्रस्ताव,  
तहरीके इल्लिवा ।

तहकूव - वि [ अ. 'तवक्कुफ' ]  
म्यगित, मुल्लतवी ।

तहशील, तहसील - खी [ अ  
'तहसील' ] १. तहसील । २  
मालगुजारी जो किमी विशेष प्रदेश  
में उगाही जाती है ।

तहहयात - वि अव्य [ फा  
'ता' + अ 'हयात' ] आजी-  
वन, जिंदगी भर ।

तहान - खी १ प्यास, तृषा,  
तृष्णा । २ तीव्र इच्छा, अभि-  
लाषा, लोभ । - लाडू भूक लाडू -  
पु नाश्ता, कलेवा, जलपान ।  
मु० - भाविगणें प्यास बुझाना ।  
कहा० तहान लागल्यावर विहीर  
खणणें - प्यास लगने पर कुआँ  
खोदना, पहले से कोई तैयारी न  
कर के ऐन वक्त पर दौड-धूप  
करना ।

तहानलेला, तहानेला - वि  
प्यासा, तृषित ।

तहाहयात - दे 'तहहयात' ।

तळ पु. १. तळ, निचली मतह,  
निचला भाग; तह । २ पेदा । ३  
ऊपरी भाग; मैदान ४ पटाव,  
डेरा, अड्डा, शिविर, छावनी ।  
५ हथेली, तलवा । ६ तल्ला,  
जूते का वह भाग जो पैर के नीचे  
रहता है । - कोकण - न कोकण

का दक्षिणी इलाका । - खडा - पु. खभे की कुरसी । - घर - न. तलघर, तहखाना; भुईंघरा । - घाट - पु. पहाड की तलहटी । - पाय - पु. तलवा, तलुवा । - मजला - पु. नीचे का तल्ला, तल-कोष्ठ, अथ कोष्ठ । - चट - पु. न १ मैदान । २ निचला भाग । ३ पहाड की तलहटी का प्रदेश । - वर्तों - अव्य. नीचे । - हात पु. हथेली । - हाताचा मळ - पु. हाथ का मैल, वायें हाथ का खेल । - हातावरचा फोड - पु. अत्यंत प्रिय और नाजुक वस्तु, व्यक्ति । मु० - ठोकणे - डेरा डालना, अड्डा जमाना । - पायाची आग मस्तफास जाणे - तलवो ने आग लगना, बहुत अधिक क्रोध चटना । - हाताच्या फोडासारखे वागविणे - बहुत अधिक हिफाजत और प्यार से रखना; कलेजे में डालना । - हाताला कॅस येणे - हथेली पर चाल जमना, असमभव बात का हो जाना । - हातावर शौर घेणे - हथेली पर मर रखना या लेना, जान देने के लिए तैयार रहना, सिर से कफन बाँधना ।

तलकट - वि. तला हुआ ।

तलण - न १ तलने की क्रिया । २ तली हुई वस्तु ।

तलणें - क्रि. स. तलना, सेकना, धी या तेल में पकाना ।

तलतळाट - पु. आह, हाथ, शाप । मु० - लागणे - हाथ पडना, आह, शाप पडना, किसीको मताने का फल मिलना ।

तलपट - न १ सत्यानास, मर्वनाश, बरवादी । २ नि सतान, निर्वंश होना ।

तलपणें - क्रि. अ. १ चम-म हिं श. को ... २४

कना, दमकना; जगमगाना । २ मँडराना; चक्कर काटना । ३ जन्ना, झुलसना ।

तलमळ - स्त्री [ अ. 'तम-लमुल', हिं. 'तलमलाहट' ] १ वेचैनी, तटप, छटपटी, तिल-मिलाहट । २ लगन, ईमानदारी, सचाई । ३ पछतावा ।

तलमळणें - क्रि. अ. १. तड-पना, छटपटाना, तिलमिलाना, वेचैन होना, तरमना । २ पछ-ताना ।

तळवा - पु. १ (तळपाय) तलवा । २ (तळहात) हथेली । दे 'तळपाय', 'तळहात' ।

तळसणें<sup>+</sup> - क्रि. स. [ फा. 'तराश' ] काटना, काट डालना, काट कर साफ करना ।

तळावणें - क्रि. अ. १ झुल-झना । २ आँख आना, उठना ।

तळासणें<sup>+</sup> - क्रि. स. [ फा. 'तराश' ] १ तराशना, काटना; काट कर साफ करना । २ शुरू से आखिर तक यथा नियम करना, पूरा करना ।

तळों - अव्य. नीचे, तले ।

तळी - स्त्री छोटा ताल, तलैया ।

तळी - स्त्री १ चक्की का पाट, पवाई । २. खडोवा देवता की जय पुकारते की जाने वाली आरती, आरती की थाली । ३ जगत, कुएँ का चबूतरा । मु० - उचलणे - १ सहयोग देना, सहा-यता करना, समर्थन करना । २ पड्यत्र रच कर किसी को हटा देना, पदच्युत करना । - भरणें - महायता देना । - राम गार करणे - १ खा-पी कर डकार लेना । २ डकार न लेना, चुप्पी साध लेना ।

तळें - न. ताल, तालाव; पोखरा । कहां० तळें राखील तो पाणी चाखील - जो तालाव की रखवाली करेगा वह उसका पानी जरूर चखेगा ।

तागडणें - क्रि. अ. बहुत कष्ट उठाना, परिश्रम करना । - क्रि. स. १ रोकना; फँसाना, बाँध रखना । २. नाहक चक्कर लग-वाना ।

तागा - दे 'टागा' ।

ताडव - पु. १ ताडव, शिव का प्रसिद्ध नृत्य । २ दे 'अकाड ताडव' । - कृष्ण - पु. श्री महादजी शिंदे (सिविया) ।

ताडेल - पु. १ नाखुदा, जहाज का कप्तान । २ टडैल, मजदूरो का मेट । ३ नेता ।

तात - स्त्री १ तांत । २ घागा, तार । ३ घनुप की डोरी । ४ जुलाहो का राख ।

तातडी - स्त्री १ जल्दी, शीघ्रता, उतावली । २ जरूरत । - चा - वि. जरूरी, अत्यावश्यक, अविलवनीय, हगामी, आपा-तिक, आकस्मिक, सकटकालीन, आपाती । [ २ तार । ३ तांत ।

तातू - पु. १ वागा, डोरा ।

तात्रिक - वि. १ ताम्रिक, तत्रसवधी, तत्रशास्त्र का ज्ञाता । २ तकनीकी, प्राविधिक, शिल्पीय, प्रौद्योगिक, 'टेकनिकल' । ३ औपचारिक, ऊपरी, दिखाऊ ।

तादळी पोत - स्त्री चावल के आकार की बनी मोने की गुरियो का गहना । [ अरवा ।

ताडुळ, ताडूळ - पु. चावल, तांडुळजा - पु. चीलाई (शाक) ।

ताव - स्त्री १. जग, मोरचा । २ फसलो का एक रोग, रोख्या ।

३ चिचडी, किलनी (कीडा) ।  
 तांबट - पु. ठठेरा ।  
 तांबट - वि कुछ कुछ लाल;  
 रतनारा, सुर्खीमायल ।  
 तांबड - स्त्री लाल जमीन ।  
 -वि 'तांबडा' का समाम में  
 व्यवहृत रूप । - तोड्या - वि  
 लाल मुंह वाला; गोरा; अंगरेज ।  
 - माती - स्त्री लाल मिट्टी । -  
 - सर - वि दे 'ताबुम' ।  
 तांबडा - वि लाल, सुर्ख ।  
 - कदील - वि खतरे का इशारा ।  
 - भोपळा - पु. कुम्हडा, काशी-  
 फल । - समुद्र - पु. लाल सागर ।  
 तांबडी - वि स्त्री लाल, सुर्ख ।  
 - कपहेर - स्त्री लाल कनेर ।  
 - दुपारी - स्त्री लाल दुपहरिया  
 (फूल) - भाजी - स्त्री १ दे  
 'माठ' । २ गोय्त, मास ।  
 तांबडें फुटणे - क्रि अ पी  
 फटना, मुवह होना ।  
 तावरणें - क्रि अ १ जग,  
 मोरचा लगना । २ लाल होना ।  
 तावरा - पु. १ गेरुआ (फमलो  
 का रोग) । २ जग, मोरचा ।  
 तावली - स्त्री, तावलें - स्त्री  
 छोटी वटलोई ।  
 तावारा - दे 'तावरा' ।  
 तांबूस - वि ललछौह, ललछू,  
 रतनारा, कुछकुछ लाल; लालिमा  
 लिये हुए, सिंदूरिया; जोगिया,  
 सुर्खीमायल । [ गिलीरी; वीडा ।  
 ताबूल - पु. ताबूल, पान,  
 ताबूस - दे 'ताबुम' ।  
 ताबें - न तांबा, ताम्र ।  
 ताबेरा - दे 'तावरा' ।  
 ताबोळी - पु. तमोली; वरई,  
 ताबूली ।  
 ताब्या - पु. लोटा । मु० -  
 उपडा, पालया घालणें - स्त्री का

रजस्वला होना । [जीजी, दीदी ।  
 ताई - स्त्री [ क 'तायि' ]  
 ताईत - पु. [ अ. 'तावीज' ]  
 तावीज, कागज आदि पर अकिन  
 मय बगैरह जिमे मोने-चांदी आदि  
 के मपुट में ब्रद करके गले, बांह  
 आदि में धारण करते हैं । मु०  
 गळचांतला ताईत - गले का हार,  
 अतिप्रिय ।

ताऊस - पु. [ अ. ] १ मोर,  
 मयूर । २ एक तनुवाद्य जिममें  
 काठ का मोर लगा होता है ।

ताक - न छाछ, मट्ठा,  
 लस्मी, छाँछ; मही । - कण्या -  
 स्त्री बहु गरीब का भोजन, लुखी  
 सूखी रोटी । - तई-य - स्त्री छौका  
 हुआ मट्ठा । - पाणी - न १ दे  
 'ताककण्या' । २ कुछ थोडा  
 भोजन । ३ मही बनाना, दही  
 मयना, मक्खन निकालना आदि  
 काम । - पिठ्या - वि नामूली  
 पारियमिक लेकर कथा-वाचन करने  
 वाला, साधारण ज्ञान रखने वाला,  
 वातूनी । - वणी - न बहुत पतली  
 छाँछ । मु० ताकाला जाऊन भाडें  
 लपविणें - छाँछ माँगने जाना  
 और वर्तन छिपाना, मन में भावे  
 मूँड हिलावे । ताकास तूर लागू न  
 देणें - पूरी तरह छिपाना, पता  
 लगने न देना । ता म्हणता ताक-  
 भात समजणें - इशारे ने जान  
 जाना; झट समझ जाना । कहा०  
 ताकापुरतें रामायण - जैसा दाम  
 वैसा काम, जैसी तेरी तूमडी वैसे  
 मेरे गीत । [ मिली हो ।

ताकट - वि जिममें छाछ  
 ताकडाटुकडा - पु. छोटा-मोटा  
 टुकडा ।

ताकत - द - स्त्री [ अ.  
 'ताकत' ] ताकत, शक्ति,

मामर्थ्य; बल; जोर ]

ताका - दे 'तागा' ।

ताकीद - स्त्री [ अ ] १  
 ताकीद, चेतावनी; कोई बात  
 जोर देकर कहना, कडा हुक्म ।  
 २ निपेधाजा; निरोधाजा, मनाही  
 का हुक्म, हिदायत । मु०-देणें -  
 ताकीद करना; चेताना, चेता-  
 वनी देना ।

ताग - पु. पटसन, सन ।

तागडी - स्त्री तराजू ।

तागा - पु १ तागा, सूत,  
 डोरा, धागा । २ थान; बँधी  
 हुई लवाई का कपडे का बडा  
 टुकडा ।

ताजवा - पु. १ कांटा, सोना-  
 चांदी तीलने का कांटेदार छोटा  
 तराजू । २ गुणा का चिह्न (X) ।

ताजा - वि [ फा 'ताज' ]  
 १ ताजा, हराभरा । २ तत्काल  
 का तोडा हुआ (फूल, फल  
 आदि), तुरत का तैयार किया  
 हुआ, तुरत का निकाला हुआ । ३  
 जो वामी न हो । ४ गरम । ५  
 हट्टा-कट्टा, मोटा-ताजा । -  
 कलम - न पुनश्चलेख, अनु-  
 लेख, वाद में जोडा गया अर्थ ।  
 अव्य पुनश्च । - तवाना - वि  
 हराभरा, तरोताजा; तयार । मु० -  
 तवाना होणे - १. हराभरा होना,  
 लहलहाना । २ फिर से तैयार  
 होना ।

ताजें - वि न [ फा 'ताज' ]  
 दे 'ताजा' । - कूळ - न धनी,  
 कुलीन व्यक्ति ।

ताट - न [ क 'तट्टे' ] थाली,  
 बड़ी तश्तरी । - पाट - पु बहु  
 भोजन की तैयारी, पीडा और  
 थाली लगाना । ताटाखालचें भाजर  
 - न भीगी विल्ली, अतिनम्र,

दीन, आज्ञाकारी व्यक्ति। मु० ताटाला बसणें - भोजन करना। कहु० ताटात साडलें फाय आणि वार्तात साडलें फाय - थाली में गिरे या कटोरी में खानेवाले को ही मिलेगा; जहाँ दो व्यक्तियों का हित-अहित एक ही हो वहाँ किसी एक को नफा हो जाय तो उममे दूसरे का भी लाभ होता है। ताटा-वरचें पाटावर, पाटावरचें ताटावर - मुख से खाना, सुख से सोना, आराम का जीवन जिसमें तनिक भी तकलीफ न उठानी पड़े।

ताट - न डठल, जुआर आदि का पीवा।

ताटकळणें - क्रि अ. १ वडी देर तक प्रतीक्षा करना। २ ऐंठना, भारी होना (हाथ, पाँव आदि)।

ताटली - स्त्री [क 'तट्टे'] तश्तरी, छोटी थाली।

ताटवा - पु. १. क्यारी। २ फुलवारी। [लोहे का जाल।

ताटाळें - न थालियाँ रखने का ताटी - स्त्री [क 'तट्टि'] १ टट्टी, टट्टी का बना किवाड। २ अरथी, ठट्टरी, टिकठी। ३ चौखट, चौखटा। ४ वाड। ५ क्यारी, फुलवारी।

ताठ - वि १ सीधा, तना हुआ, चुस्त। २ ऐंठा हुआ, कडा, न झुकने वाला। ३ दृढ़, पक्का, मजबूत। ४ तग। ५ मगरूर, गर्वीला, घमडी।

ताठणें - क्रि अ १ तनना, ऐंठना, अकडना। फूलना, घमड होना।

ताठर - वि १ कडा, करारा; तना हुआ, ऐंठा, अकडा हुआ। २ न झुकने वाला, अकडवाज, घमडी।

ताठरणें - क्रि अ ऐंठना, तनना, अकडना।

ताठा - पु. १ घमड, शेखी, अहंकार। २ अकड, तनाव, ऐंठन।

ताड - पु. ताड (वृक्ष), ताल। - गोळा - पु. ताड का फल। - पत्र - पु. ताड का पत्ता, ताल-पत्र। - भर, - माड - वि बहुत लवा, ऊँचा।

ताडकन - अव्य १ तटाक से, खट से। २ तडाकपडाक, झट से।

ताडणे - क्रि स १ ताडना, भाँपना, अदाजा लगाना। २ जान लेना। ३ तुलना करना; आज-माना।

ताडणे - क्रि स ताडना, मारना, पीटना, सजा देना।

ताडताड - अव्य. १ जोर-जोर से, तडातड, 'तडतड' की ध्वनि के साथ, दनादन। २ गुस्से से।

ताडपत्री - स्त्री किरमिच, तिरपाल, एक तरहका चिकना मोटा टाट, जलगेघ वस्त्र, विलायती टाट।

ताडा - पु. १ काफिला, यात्रियों का समूह। २ झुड, गिरोह, रेवड। ३ वेडा।

ताडामोडा - पु. घर की चीज-वस्तु की विक्री।

ताडी - स्त्री १ ताडी, नीरा, ताड के वृक्ष से निकलने वाला सफेद मादक रस। २ ताडी की शराव, ठर्रा।

ताण - पु. १ तान, तनाव, खिचाव। २ वोझ, भार। ३ रस्ती। ४ गुस्ता। ५ तगी, कमी। ६ परिश्रम। ७ तकलीफ, कष्ट। ८ कँटिया, 'हुक'। ९ आधार, सहारा। मु० - देणे -

१. तानना। २ टालना।

ताण - स्त्री चढाई, फौकियत; बढ़ जाना, मात करना। मु० - असणें, करणें, होणे - बढ़ जाना, कान काटना, मात करना।

ताणणें - क्रि स १ तानना, खीचना। २. फैलाना। ३ खडा करना। ४ डाँट पिलाना, खरी-खोटी सुनाना। ५ फुसलाना। मु० ताणून देणें - तानकर सोना, निर्दिष्ट होकर सोना।

ताणा - पु. १ ताना, करघे में लवाई के बल फैलाया हुआ सूत। २ लता, वेल। - वाणा - पु. तानावाना; ताना और भरना।

ताणाताण-णी - स्त्री १ तना-तनी, खींचतान, खींचातानी, खींचाखींची। २ वेचैनी।

तातोवा - दे 'तात्या'।

तात्कालिक - वि १ तत्कालीन, सामयिक, वक्ती। २. ज़रूरी, दे 'तातडीचा'। ३ तात्कालिक, तत्काल का, उसी समय का।

तात्काळ - अव्य तत्काल, तत्क्षण, झट, तुरत, तुरत, उसी समय, चट, फौरन।

तात्त्विक - वि १ तात्त्विक, तत्त्वसंबंधी, सैद्धांतिक, उसूली। २ वास्तविक।

तात्पर्य - न तात्पर्य, आशय, मतलब, अभिप्राय, मशा, सार, निचोड।

तात्पर्यार्थ - पु. तात्पर्यार्थ, साराश, नतीजा, मतलब; निष्कर्ष। [आरजी।

तात्पुरता - वि अस्थायी, तात्या - पु. १ उममें बड़े व्यक्ति को सवोधित करने का शब्द। २ गुरुजी; अध्यापक,

मास्टरजी । ३ महाराष्ट्रीय व्यक्ति । - पतोजी - पु. १ प्राथमिक शाला का अध्यापक । २ देहाती, गँवार स्कूलमास्टर । ३ पुराने ढग का अध्यापक ।

तादात्म्य - न तादात्म्य, अभिन्नता, तल्लीनता, अद्वैत, एकरूपता ।

तादृश - वि १ साधारण, मामूली । २ अल्प, बहुत कम । ३ तादृश, बँसा, उसके समान । - अव्य ऊपरी तौरपर ।

तान - स्त्री तान, संगीत में स्वर का विस्तार । - बाजी - स्त्री तान लेना, गाने में तानो की अधिकता, गलेवाजी । - मान - न १ अनुकूल परिस्थिति, मौका । २ गाना-बजाना ।

ताना - दे 'तान्हा' ।

तान्हा - वि दूधमुँहा, नन्हा, छोटा, अल्पवयस्क ।

तान्हावर्ण - क्रि अ प्यास लगना, बहुत प्यासा होना ।

तान्हला - दे 'तान्हा' ।

तान्हैला - वि प्यासा, तृपित ।

ताप - पु १ ताप, उष्णता, गरमी । २ ज्वर, बुखार ] ३ तकलीफ, कष्ट, दुख । ४ वेचैनी । ५ झझट, झमेला । - करी - वि जिसे बुखार आया हो । - दायक - वि तापद; कष्टकारक, तकलीफदेह ।

तापट - वि १ विगडैल, गरममिजाज; चिडचिडा, क्रोधी, हठी । २ तेज, चपल ।

तापर्ण - क्रि अ १ तपना, गरम होना, तप्त होना । २ गुस्सा होना, उत्तेजित होना, उबल पडना, भडकना । ३ वेचैन, व्याकुल, परेशान, हैरान होना;

तग आना । मु० तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणें - मौके से फायदा उठाना । [ गरम करना ।

तापविणें - क्रि स तपाना, ताप्ता, ताफता - पु [ फा 'तापत' ] तापता, घूपछाँह रेगमी कपडा ।

ताफा - पु [ अ 'ताइफ' ] १ दल, समुदाय, जमाअत, जत्या । २ तायफा, वेश्या और उसके समाजियो की मडली । ३. वेडा ।

तावडणें - क्रि स १. तेज दौडाना, पदाना । २ बहुत परिश्रम करवाना, सख्ती से काम करवा लेना ।

तावडतोव - अव्य. १ तुरत, फौरन, झट । २ तत्काल, उसी-क्षण । ३. तेजी से, जल्दी से ।

तावलणें - क्रि स बहुत अधिक और बुरी तरह इस्तेमाल करना ।

तावा - पु [ अ 'तावे' ] कब्जा, अधिकार, कावू । दे 'तावे' । ताव्याखालीं, ताव्यात - अव्य. अधिकार में, तावे, कब्जे में, कावू में । मु ताव्यात घेणें - कब्जा करना, अधिकार में लेना, हथियाना । [ ताजिया ।

तावूत - पु [ अ ] तावूत, ताब्रे - वि [ अ ] तावे, वगवर्ती, अधीन । - गहाण - पु. न आविभोग, ऐसा रेहन जिसमें धरोहर की चीज का उपयोग किया जा सके । - दार - वि तावेदार, आज्ञाकारी । - पु. नौकर । - दारी - स्त्री १ तावेदारी, अधीनता । २ सेवा, नौकरी ।

तामसी - वि १ तामस; जिसमें तमोगुण की प्रबलता हो,

क्रोधी । २ क्रूर ।

तामिली - स्त्री [ अ 'तामिल' ] तामील; अमल करना; हुकम बजालाना ।

ताम्र - न ताम्र, ताँवा । - पु. मुसलमान, म्लेच्छ, अंगरेज । - पट - पु. - पत्र - न १ ताम्रपट्ट; ताम्रपत्र, दानपत्र आदि खुदवाने का ताँवे का पत्तर, ताँवे की चादर । २. पट्टा, सनद, अधिकारपत्र । - पट - लेखक - पु. कनसार, ताँवे आदि के पत्र पर लेख खोदने वाला । - मुख, - मुखी - वि ताम्रमुख, जिसका मुख ताँवे के रंग का हो, गोरा । - पु. यूरोपीय, यवन, म्लेच्छ । - युग - न ताम्रयुग, इतिहास का वह आरम्भिक काल जब लोक ताँवे के औजार, पात्र आदि काम में लाते थे ।

ताहण - न तरबहना, देवप्रतिमा को नहलाने की थाली ।

तारवळ - दे 'तारावळ' ।

तार - स्त्री [ फा ] १ तार । २ धागा, डोरा । ३ लस, लासा । ४ नशा, कैफ, मद । ५ घमड । ६ तल्लीनता, लौ, लगन । ७. ताँता, अनवरत क्रम । ८ वादला, जरवफ्त । ९ तार, तारद्वारा भेजी हुई खबर, 'टेलिग्राम' । - खिळा - पु. कील, लोहे का काँटा, कीला । - घर - न तारघर, तार भेजने का सरकारी दफ्तर । - फेणी - स्त्री फेनी, सुधाफेनी, धी में छाना हुआ मैदे का लच्छा । तारेवरचा नाच - पु १ तार पर किया जाने वाला नाच या कसरत । २ बहुत कठिन काम ।

तार - पु. तार, उच्च स्वर,

सबसे ऊँचे स्वर में गाया जाने वाला सप्तक।

तारका - छी १ तारका, तारा, सितारा, नक्षत्र। २. आँख की पुतली। ३ सिनेमा की अभिनेत्री, 'फिल्मस्टार'।

तारण - न १ जमानत, गिरवी, वधक, रेहन, धरण, प्रतिभूति। २ तारण, रक्षा। ३ उद्धार, मुक्ति, छुटकारा।

तारणे - क्रि स १ तारना, पार लगाना। २ उद्धार करना, भववधन से छुड़ाना। ३ वचाना।

तारतम्य - न तारतम्य, न्यूनाधिक्य के अनुसार क्रम, तमीज, विवेक।

तारपें - न एक वाजा जो फूंक कर बजाया जाता है, इसका आकार नरसिंघे जैसा होता है।

तारवटणें - क्रि अ १ आँखें चढना, नशा, नीद का अभाव आदि के कारण आँखें लाल होना। २ नशा चढना। ३ मस्ती पर आना।

तारागण - न १ नभोमण्डल, नक्षत्रलोक, आकाश। २ छज्जा। तारावळ - छी १ घाँवली, परेशानी, गडबडी, जल्दी। २ तगी, अभाव।

तारा - पु १ तारा, सितारा, नक्षत्र। २ उल्का। - छी आँख की पुतली। - मडळ - न १ दे 'तारागण'। २ स्त्रियों के गले का एक गहना। - मंत्री - छी १ जन्मपत्री के ग्रहों की मित्रता। २ केवल देखने भर से होने वाला प्रेम। मु० तारे तोडणें - १ अजीब, मूर्खतापूर्ण बातें करना। २ दून की हाँकना। [ 'टेलीग्राफ' ]

तारायत्र - न तारायत्र;

तारीख - छी [ अ 'तारीख' ] १ महीने की तिथि, मिति, तारीख, दिनाक। २ मुकद्दमे की सुनवाई का दिन।

तारीफ - छी [ अ 'तारीफ' ] तारीफ, प्रशंसा, बडाई, स्तुति।

तारुण्य - न तारुण्य, जवानी, यौवन। - पीटिका - छी मुँहासा; युवावस्था में चेहरे पर निकलने वाली एक तरह की फुंसी।

तारु - न नौका, नाव, किण्ठी।

ताल - पु १. ताल, समीत में नियत मात्राओं पर ताली बजाना। २ ताली। ३. ताल, ताड (पेड़)।

ताल - छी वाँध, पुस्ता, मेड, धुस्स।

तालामाला - पु स्थल और काल की अनुकूलता, मेल।

तालीम - छी [ अ ] १ व्यायाम, वज्रिश, कसरत। २ तालीम, शिक्षा। ३ पूर्वप्रयोग, मश्क, पूर्वाम्यास, रिहर्सल। ४ अखाडा। - खाना - पु व्यायामशाला, अखाडा। - बाज - वि पु अखाडिया, कसरती, वरजिश करने वाला, डबपेल, पहलवान।

तालुका - पु [ अ 'तअल्लुक' ] तअल्लुका, तहमील। - दार - पु तअल्लुकेदार, तहमीलदार।

तालेवार - वि [ अ 'ताले' + फा 'वर' ] १ तालेवर, भाग्यवान्, खुशइक्वाल। २ बहुत बडा अमीर, धनी-मानी।

ताव - पु १. ताव, ताप; गरमी, आँच। २ अहकारयुक्त रोय का आवेश, अहकार का झोक। ३ ताव, कागज का बडा, चौकोर, विना कटा-फटा टुकडा। ४ दुख। ५ क्रोध, गुस्सा।

मु - देणें - आँच देना, गरम करना। - मारणें - हाथ साफ करना, माल उढाना।

तावडणें - दे 'तावडणे'।

तावड - डी - छी चगुल, शिकजा। मु. तावडोंत सापडणें - चगुल, शिकजे में फँसना।

तावणें - क्रि स तपाना, गरम करना, आँच देना। ताघून सुलाखून - अव्य, १ तपा कर, अच्छी तरह परख कर, कसौटी पर कस कर। २ कष्ट, तकलीफें सहन करके, विपत्तियों का मुकाबला करके।

तावदान - न [ फा 'तावदान' ] तावदान, मकान का रीशनदान, गवाक्ष, झरोखा। २ खिडकी, फिवाड आदि में लगाया गया शीशा, शीशे का चौखटा।

तावातावानें - अव्य जोर-जोर से, क्रोध से, चिल्ला कर, जोश के साथ।

ताशा - पु [ फा 'तास.' ] ताशा, नगडिया, तासा (एक वाजा)। [ तराशा हुआ।

ताशीव - वि छिला हुआ, ताशेरा - पु [ दे 'ताशा' ] १ ताशेकी कडकड। २ फटकार, डाँट। मु - झाडणें - भला-बुरा कहना, झल्लाना, खरी-खोटी सुनाना, डाँट पिलाना।

तासपट्टी - दे. 'तासडपट्टी'।

तास - पु [ अ ] १ घटा। २. गजर। ३ घडियाल। ४ 'पीरियड'।

तास - न पु [ स 'मीता' ] १ सीता; हल के फाल से धरती में बनने वाली रेखा, कूंड। २ जोती हुई जमीन। ३. नदी का पाट। तासडपट्टी - छी १ डाँट-फटकार, भर्त्सना, कडी आलो-

चना । २ हजामत, दुर्गत, दुर्दशा ।

तासणी - स्त्री १ छीलने, तराशने की क्रिया । २ वसूला । ३ दे 'तासडपट्टी' ।

तासणें - क्रि स १ छीलना, तराशना, रदा मारना । २ भर्त्सना करना, हजामत बनाना ।

ताहनेला - वि प्यासा ।

ताहाह्यात - दे 'तहाह्यात' ।

ताळ - पु १ ताल । २ ताली । दे 'ताल', 'टाळ', 'ताळा' । - तत्र - पु मेल, सगति । - मेळ - पु तालमेल, मेल । मु. - सोडणें - लोकमर्यादा का उल्लंघन करना, हृद से बढ जाना, निर्लज्ज बनना ।

ताळा - पु १ मेल, सगति । २ प्रतीति, प्रत्यय । ३ कांटा (ग) । मु० - पाहाणें - मेल बिठाकर देखना, जांचना, आजमाना, तुलना करना । ताळ्यावर आणणें - होश ठिकाने लाना, सीधे रास्ते पर लाना । ताळ्यावर येणें - होश में आना, सीधे मार्ग पर आना ।

ताळू - दे 'टाळू' ।

ताळंबंद - पु पक्का चिट्ठा, फर्द, तलपट, तुलनपत्र, सतुलनपत्र ।

तिवणें - क्रि अ मनना; गीला होना । - क्रि स १ सानना, गूँधना, गूँयना । २ कुचलना, कचूमर निकालना ।

तिकटी-ठी - स्त्री १ तिराहा । २ तिखटी, तिपाई, टिकठी ।

तिकडील - वि १ उस तरफ का, वहाँ का । २ उनका (पति का) ।

तिकडून - अव्य. १ वहाँ से, उधर से । २ उनसे (पति से) । - सर्व. वे (पति) । [ तिकडून सागणे झाले = उन्होंने कहा । ]

तिकडे - अव्य. उधर; वहाँ । सर्व वे (पति) । [ तीन तारे । तिकाडें - न मृगशिरा नक्षत्र के तिकाटणे - न १ तिराहा । २ टिकठी, तिपाई, तिखटी ।

तिकिट, तिकोट - न [ अ. 'टिकिट' ] टिकट, प्रवेशपत्र ।

तिकोनी - वि तिकोना, तिकोनिया, तिखंडा, त्रिभुजाकार ।

तिक्का - पु तिक्की, तिडी, ताश का वह पत्ता जिसपर किसी रंग की तीन बूटियाँ हो ।

तिखट - वि १ तीखा, गरम; चरपरा । २ उग्र, तीक्ष्ण, पैना, प्रखर । ३. तीक्ष्णवृद्धि, तेजजहन । - न १ मिर्च, लाल मिर्च की दुकनी । २ चटनी । मु० - मीठ लावणें - नमक - मिर्च मिलाना, किमी बात में अपनी ओर से कुछ और जोड़ देना ।

तिखें - न १. फौलाद, इस्पात । २ हिम्मत, निर्भीकता । ३. घमड, गर्व ।

तिगस्ता - अव्य. दो साल पहले, पिछले के पिछले वर्ष में ।

तिघई - वि तिपल्ला (मकान) ।

तिघे - वि तीन जन, तीनों । मु० तिघाच्या तीन वाटा होणें - फूट पडना ।

तिज - सर्व उस (स्त्री) का ।

तिज - सर्व उस (स्त्री) को । तिजवर - पु तिहाजू, तेहाजू, तीसरी वार व्याह करने वाला पुरुष, तिआह ।

तिजा - स्त्री तीसरा ।

तिजाई - स्त्री १ तीसरा हिस्सा । २ बटाई का वह तरीका जिसमें जमीन के मालिक को उपज का तीसरा हिस्सा मिलता है ।

तिजोरी - स्त्री [ अ 'ट्रेजरी' ? ] १ खजाना । २ तिजोरी, लोहे की अलमारी जिसमें रुपये, गहने आदि रखे जाते हैं ।

तिटकारा - पु १ घृणा, नफरत । २ अनादर ।

तिठा - पु तिराहा ।

तिडकणें - क्रि. अ. १ ठनकना, दुनना, दर्द करना । २ दे 'तडकणे' ।

तिडतिडणें - क्रि अ १ तडकना, फटना, दरकना । २. चिढ़ना, झल्लाना ।

तिडा - दे. 'तिडा' ।

तिडिक, तिडीक - स्त्री १. कसक, टीस । २ ठनक; ठनका । ३ सनक, झुंझलाहट, झल्लाहट ।

तिठा - पु १ उलझन, गाँठ । २. अनवन, मनमुटाव । - वि १ टेढा, वांका । २ कुटिल, उद्द; वुरे स्वभाव का । ३. पेचीदा ।

तितका - वि उतना ।

तितकें - वि उतना । - अव्य. उतनी मात्रा में; उस क्रद ।

तितपत - अव्य. १ उतनी मात्रा में । २. उस हृद तक, वहाँ तक ।

तितिक्षा - स्त्री तितिक्षा, सहनशीलता; वर्दाश्त करने की कूवत । [ सारा ।

तितुका\* - वि १. उतना । २ तित्तर, तित्तिर - पु तीतर (पक्षी) ।

तिथचा, तियपर्यंत, तिथला, तिथवर, तिथें - दे 'तिथचा'; 'तियपर्यंत', 'तिथला', 'तिथवर', 'तिथें' ।

तिनिसांज, तिनीसाज; तिन्हीसाज - स्त्री संव्या, शाम का झुटापुटा ।

तिनी त्रिकाळ, तिन्ही त्रिकाळ -

अव्य तीनों समय, वेर, हमेशा, सुबह, दोपहर और शाम को।

तिपदरी - वि तिपल्ला, तिलडा।

तिपाई - यी - छी तिपाई, टिकटी, चौकी जैसा लकड़ी का तीन पायो का एक आवार।

तिपेडी - वि १ तिलड़ा, तीन लडो का। २ तिरसुत, तिहरा, तेहरा। [गुना।

तिप्पट - वि तिगुना, तीन तिप्पदरी - दे 'तिपदरी'।

तिमजली - वि तिमजिला; सिंहमजिला, तीन खडो या तल्लो वाला।

तिमाही - वि त्रैमासिक, सिंहमाहा। [घटिया।

तिथ्यम - वि तीसरे दर्जे का, तिथ्या - पु तिक्की, तिडी।

तिरंदाज - पु [फा. 'तीर अदाज'] तीरदाज, तीर चलाने वाला, धनुर्धर।

तिरदाजी - छी [फा तीर-अदाजी] तीरदाजी, तीर चलाने की क्रिया या विद्या, धनुर्विद्या।

तिरकस, तिरका - वि १ तिरछा, टेढा। २ दे 'तिरका'।

तिरकूट - न तीन व्यक्तियों की गहरी दोस्ती।

तिरडी - छी अरथी, टिकठी, जनाजा (मुस्लिम) मु - उचलणें, - फाडणें - १. अरथी, जनाजा उठाना। २ निकाल वाहर कर देना।

तिरपगडें - न पासे के खेल में तीन विदियां। - वि उल्टा-सीधा, विचित्र, वेढगा, टेढा-मेढा।

तिरपा - वि तिरछा, टढा, वांका।

तिरपी - वि छी तिरछी,

टेढी। - नजर - छी कनखी; तिरछी निगाह। मु. तिरप्या नजरेनें पाहाणें - १ कनखियाना, तिरछी निगाह से देखना। २ टेढी नजर से देखना, आंख उठाना, बुरी निगाह या शत्रुभाव से देखना।

तिरपीट - छी हडबडी, परेशानी; गडबडी। मु० - उडणें - हडबडाना। [मेढा, झुका हुआ।

तिरवाकडा - वि टेढा, टेढा-तिरमिरी - छी [क 'तिरगु'] १ मूच्छा, चकार्वांघ, घुमडी, वेहोगी, गश, चक्कर। २ तैश, गुस्ता।

तिरवा - दे 'तिरळा'।

तिरशिगराव - पु १ चिड-चिडा, खूसट, बर्दमिजाज आदमी। २ झक्की, खत्ती व्यक्ति। ३. बड-वोला, डींग मारने वाला व्यक्ति।

तिरसट - वि १ चिडचिडा, २ झक्की, सनकी, खत्ती।

तिरस्करणीय - वि घृणापात्र, गर्ह्य, गर्हणीय, निंघ, घृणित, धिनौना।

तिरस्कार - पु १. तिरस्कार, घृणा, धिन, नफरत। २ अपमान, अनादर।

तिरस्थळी - छी १. त्रिस्थली, काशी, गया और प्रयाग की यात्रा।

२ नाहक के चक्कर। ३ अस्थिरता, चंचलता। ऐंचाताना।

तिरळा - वि काना, भेंगा,

तिरी - छी तिक्की, तिडी।

तिरीप - छी १ सुबह-शाम की हलकी धूप। २ छप्पर, खिडकी आदि से घर में आने वाली सूरज की किरणें। ३ लू।

तिरिंस - दे 'तिरकस'

तिरीं - छी तिक्की, तिडी।

तिन्हईत - वि १ पराया,

अनजान। २ तटस्थ। - पु तिस-रैत, मध्यस्थ, पच।

तिलप्राय - वि तिलभर; थोडा सा, रचमात्र।

तिलवाडा - पु सोलह मात्राओं का एक ताल (सगीत)।

तिलाजली - छी १. तिला-जलि, औद्घ्वर्णदेहिक कृत्य का एक अंग। २. सपूर्ण त्याग। मु० - वेणें, सोडणें - पूर्णतया त्याग करना, आशा छोड देना।

तिलोरी - छी पु. कुनवियो की एक उपजाति और उस जाति का व्यक्ति।

तिवधा - पु. वह स्थान जहाँ अनेक गांवों की सीमाएँ एक दूसरी से मिलती हैं।

तिवई - छी तिपाई।

तिवड़ा - पु खलिहान के बीचो बीच गाडा हुआ खभा जिसके चारो ओर बैल घूमते हैं।

तिवळ - न कोकम का पानी जिसमें नमक, मिर्च हींग आदि डाला जाता है।

तिवाट-ठा - पु तिराहा।

तिव्या, तिब्बा - पु तिक्की; तिडी। [वर्ष की आयु।

तिशी - छी तीसी, तीस तिष्ठणें - क्रि अ राह देखना, प्रतीक्षा करना, फँसे रहना, अटक जाना। मु० तिष्ठत बसणे - बडी देर तक प्रतीक्षा करते रहना।

तिसमारका - दे. 'तिसमार-खान'।

तिसरा - वि तीसरा, तृतीय। - पाय - पु १. बडा उत्साह। २. उतावली।

तिसरी - छी, तिसरें - न एक जाति का घोघा जिसके अदर का कीडा खाया जाता है, कस्तूरा



मछली।

तिसरेंच - न १ अजीव,  
विचित्र वात। २ पख, अडगा।

तिसावा - वि तीमवाँ।

तिसुती - वि तिरसुत, तीन  
सूत एक में मिला कर बटा हुआ।

तिस्मारखान - पु १ तीस-  
मारखाँ, वाँका वीर (व्यग्य)।  
२ बडा घमडी और गुस्सावर  
आदमी। [ तिलडा।

तिहेरी - वि तिहरा; तेहरा,  
तिहोत्रा - पु व्याज की एक  
दर जो प्रतिमास फी सैकडा तीन  
होती है। [ चटनी।

तिळकूट - न तिल की सूखी  
तिळगूळ - पु. तिलकुट, तिलवा,  
तिल और गुड (या चीनी) के  
मेल से बनने वाली एक मिठाई।

तिळपापड होणे - क्रि अ  
आगववूला होना, क्रोध या ईर्ष्यासे  
जलना, अगारो पर लोटना।

तिळेल - न तिल का तेल।

ती - सर्व. स्त्री १ वह। २  
अपनी पत्नी।

तीक्ष्ण - वि १ तीक्ष्ण; प्रखर;  
पैना। २ तेज्र नोक या तेज्र धार  
वाला, चुभता हुआ, मर्मभेदी;  
उग्र। ३ तीखा। ४ तत्पर,  
चालाक। दे 'तीत्र'।

तीट - स्त्री. १ डिठोना,  
दिठोना। २ काजल का टीका।

तीथ - स्त्री १ तिथि। २  
श्राद्धदिन, पुण्यतिथि। - चार -  
पु शुभ दिन, त्योहार। मु० -  
घरणें - १ व्याह आदि का महूरत  
पक्का करना। २ किसी कार्य का  
दिन निश्चित करना। कहा० तीथ  
आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर  
तीथ नाहीं - जब दांत थे तब चने  
नहीं थे, जब चने मिले तो दांत

नही रहे।

तीन - वि तीन, ३। - दाराचें  
वालन - न तिनदरी। मु० -  
अडकून सीताराम करणे - झंझट  
में फँसाना। - ताड उडणें - १  
डीग हाँकना। २ इनराना, घमड  
करना। ३ तीन-पाँच करना,  
टालमटोल करना। - तेरा नऊ  
वारा करणें - १ तीन-पाँच  
करना, वहाने बनाना। २ तीन  
तेरह करना, अस्तव्यस्त, तितर-  
वितर करना, घञ्जियाँ उडाना।  
- तेरा नऊ वारा होणें - तीन  
तेरह होना, तितर-वितर होना;  
छितरा जाना, घञ्जियाँ उडना।

तीन्ही त्रिकाळ - दे 'तिनी  
त्रिकाळ'

तीरंदाज - पु. [ फा ] तीरदाज,  
तीर चलाने वाला; घनुर्धर।

तीर - न पु तीर; तट,  
किनारा, कूल।

तीर - पु. [ फा ] १. तीर;  
वाण। २ शहतीर, वल्ला।  
३ शिगाफ, दरार। ४ टेक,  
थूनी, सहारा। - कमठा - पु  
तीर-कमान, घनुष्-वाण।

तीर्थ - न १. तीर्थ, पुण्यक्षेत्र।  
२ तीर्थ का जल, चरणामृत।  
३. तीर्थयात्रा। - प्रसाद - पु.  
चरणामृत और प्रसादी। - यात्रा  
- स्त्री तीर्थ-यात्रा, तीर्थाटन। -  
रूप - वि तीर्थ के समान पवित्र,  
उग्र में बड़े। - अव्य माता-पिता  
को सवोचित करते समय प्रयुक्त  
किया जाने वाला शब्द, लकव।  
- पु बहु पिता, वुजुर्ग, पूर्वज।  
- स्वरूप - अव्य पत्र आदि में  
माता-पिता को छोड़ अन्य बड़े-  
बूढ़ों और वुजुर्गों के नाम से पहले  
प्रयुक्त होने वाला शब्द।

तीत्र - वि १. तीत्र; तेज्र;  
तीक्ष्ण, पैना। २ असह्य, जोर  
का। ३ कुछ ऊँचा (स्वर)।

तीस - वि तीस, ३०।

तीळ - पु. १ तिल। २ खाल,  
तिल के आकार का काला दाग जो  
शरीर पर होता है। - कूट - न  
तिल की सूखी चटनी। - गूळ - पु.  
दे 'तिळगूळ'। - तीळ - अव्य थोडा  
- थोडा, तिल-तिल करके। - भर  
- अव्य तिभर, तनिक भी। -  
वडी - स्त्री तिलपपडी। मु० -  
तीळ जीव तुटणे - जी टँगा रहना,  
बहुत चिंता लगी रहना। - पापड  
होणे - दे 'तिळपापड होणें'।  
तोडात तीळ न भिजणें - कोई गुप्त  
वात पेट में न रहना।

तुंब - पु. १ बाँध। २ पानी का  
रुक जाना। दे. 'तुवा'।

तुवडी - स्त्री १ तुवडी; तुवरी,  
तूंबी, सींगी; रक्त या वायु खींचने  
का एक औजार। २ तुमडी, तूमडी;  
सूखे कद्दू से बनाया जाने वाला  
एक वाजा। ३ तूंबा, कड़वे  
कद्दू को खोखला कर के बनाया हुआ  
पात्र। मु० - भरणें - १ अपना  
उल्लू सीघा करना। २ डट कर  
खाना। ३ रिउवत ले कर बहुत  
पैसा कमाना। - लावणें - १ पीछ  
पडना, सताना। २ पैसा, सामर्थ्य  
आदि चूसना। ३ सींगी लगाना,  
सींगी लगा कर रक्त चूसना।

तुंबणें - क्रि अ [ क 'तुंबु' ]  
१ रुकना, अडना। २ भर जाना;  
जमा हो जाना। ३ पावना न  
मिलना, कर्ज की रकम का अदा न  
होना।

तुवळ - वि तुमूल, घोर,  
घमासान, जोरदार, भीषण।

तुवा - पु. १ तुवा, तूंबा,

कद्दू। २ कट्टुतुवी; कडवा कद्दू।

३ तुंवा; कद्दू का पात्र।

तुवा - पु [क 'तुवु'] १. चक्रनाभि, नाभि, नाह, पहिये का मध्यभाग। २ दे 'तुव'।

तुवां\* - सर्व. तुने, तुमने।

तुकडमोडया - वि टुकड़तोड, दूसरो के भरोसे जीने वाला, सुस्त, आलसी।

तुकडा - पु १ टुकडा, किसी वस्तु का एक खड। २ रोटी का टुकडा, रोटी, भोजन। तुकड्याची चोळी - छी नौ टुकडो को जोड कर बनायी हुई चोली। मु० - तोडणें - फंसला करना। - तोडून देणें - दो टुक जवाब देना। तुकडे तुकडे करणें - १ चूर-चूर करना। २ वोटी-वोटी काटना। तुकडे तुकडे होणें - १ चकनाचूर हो जाना। २ फूट पडना। ३ कट जाना। तुकडे पडणे - निडाल हो जाना, थक कर चूर, शिथिल, पस्त हो जाना। [जत्या, दल।

तुकडी - छी १ टुकडी। २

तुकतुकी - छी १ चमक, रौनक, चिकनाहट। २ ताजगी।

तुकतुकीत - वि १. चमकदार, चिकना। २ तरोताजा, होशियार।

तुकविणें - क्रि स १ झुकाना; नवाना। २ हिलाना, धुमाना। ३ स्वीकार, मजूर करना।

तुका - पु सत तुकाराम।

तुकाई - छी तुळजापुर की भवानी।

तुच्छ - वि तुच्छ, हीन, क्षुद्र, हेच, गया-गुजरा, नगण्य। मु० समजणें - हेच समझना, अंगूठे पर मारना।

तुज\* - सर्व तुझे; तुम्हें।

तुझा - सर्व तेरा, तुम्हारा। कहा० तुझें तें माझें आणि माझें ते माझ्या वापाचे - तुम्हारा माल सो हमारा माल और हमारा माल सो हे हे।

तुटक - वि १ अलग, खडित। २. चिडचिडा, बदमिजाज। ३ टूटा हुआ। ४ असगत। [खडित।

तुटका - वि टूटा हुआ, भग्न, तुटके - फाटके - न टूटी-फूटी वस्तुएँ, अगड-खगड। - वि फटा पुराना। [कनफटा।

तुटवया कानाचा - वि कनकटा, तुटणें - क्रि अ १. टूटना, भग्न, खडित होना। २ घटना, कम होना। ३ छूट जाना। ४ अलग हो जाना। ५ कटना (अतर)। ६ खत्म, समाप्त होना। ७ वच्चे का स्तनपान बंद होना। मु० तुटून पडणें - टूट पडना, क्षपटना।

तुटपुंजा - वि १ अपर्याप्त, कम, नाकाफी। २ टुटपुंजिया; कम पूंजीवाला, थोडी विद्या, धन आदि वाला। [अभाव, किल्लत।

तुटवडा - पु. कमी, तगी, तुटी - \* छी १ रोक, बाधा। २ वियोग, विछोह, विलगाव। ३ वर, दुश्मनी, शत्रुता। ४ दे 'तूट'। [तडकना।

तुडतुडणे - क्रि अ तडतडाना, तुडवणें; तुडविणें, तुडविणे - क्रि स १ कुचलना, रौंदना। २ कचूमर निकालना। [तरह।

तुडुंब - अव्य लवालव, पूरी तुणणें - क्रि स रफू करना।

तुणतुणें - न इकतारा। मु० - लावणें, वाजविणें - अपना ही राग अलापते जाना, अपनी ही बात कहते रहना।

तुतारी छी तुरही, नरसिंघा। तुती - छी [फा 'तूत'] शहतूत (पेड और फल)।

तुपकट, तुपट - वि चिकना, जिसमे घी लगा हो या घी की वू हो।

तुफान - न [अ 'तूफान'] १ तूफान, आंधी, बवडर, अघड। २ नाश, बरबादी। ३ हगामा, उपद्रव, दगा-फसाद। - वि १ तूफानी, प्रचंड, जोरदार। २ फसादी, ऊधमी, उपद्रवी। ३ गदराया हुआ। - अव्य वेहद।

तुमचा - सर्व आपका, तुम्हारा। - तो - अव्य वही तो, वह जो (एक तकिया कलाम)।

तुमडी - दे तुवडी।

तुमान - छी [तु 'तुवान'] एक प्रकार का डीला-डाला पाजामा, गलवार। [धमासान।

तुमुल - वि तुमुल, घोर; तुम्हां,\* तुम्हाला - सर्व आपको, तुम्हे, तुमको।

तुम्ही - सर्व आप, तुम। कहा० तुम्ही आम्ही एक फंडाळीला मेळ - ऊपरी और स्वार्थपूर्ण मित्रता, तुम्हारा माल सो हमारा माल और हमारा माल सो हैं हैं।

तुरकाठी - छी रहठा, कडिया, अरहर का सूखा पौधा, डठल।

तुरट - वि कसैला।

तुरटी - छी फिटकरी।

तुरतुर - अव्य १ जल्दी-जल्दी, दुलकी चाल से। २ फुदकते हुए।

तुरपणी - छी तुरपन, एक तरह की वारीक सिलाई।

तुरपणें - क्रि स तुरपना, मोडना, वसिया करने के लिए लवाई के बल सीधे सीना।

तुरळ; तुरळक - वि १. विरल, जो घना न हो, ढीला, पतला, दूरवर्ती। २ विरला, कम मिलने वाला, कमयाम। -अव्य. कही-कही, बीच-बीच में, बहुत थोड़ी मात्रा में।

तुरा - पु. [अ 'तुरं.'] १ तुरा, पगडी, टोपी आदि में लगा हुआ फुंदना, पर। २ कलगी, पक्षियों की शिखा। ३ वाल, खोशा। ४. गुच्छा, गुल-दस्ता। ५ लावनी का एक प्रकार (गाना)। मु० - लावणें - १ बड़ा पराक्रम करना। २ ख्याति प्राप्त करना।

तुराठी - दे 'तुरकाठी'।

तुरी - दे. 'तूर'।

तुरंग - पु. [पुर्त 'त्रोक'] कारागृह, कैदखाना, जेल।

तुरुरुर - दे 'तुरतुर'।

तुर्त - दे 'तूर्त'।

तुलना - स्त्री १. तुलना, न्यूनाधिक्य का विचार, मिलान, मुकाबला। २ समता; बराबरी। ३ जांच, अदाजा।

तुला - स्त्री १ तुला, तराजू, कांटा। २. नाप-तौल। दे 'तुलना'। ३ तुला; सातवी राशि।

तुल्य - वि तुल्य, बराबरी का, समान, सदृश; मुकाबले का।

तुवा\* - सर्व तुमने, तूने।

तुपार - पु १ तुपार, जल-कण, फुहार, फुही, झींसी। २ ओस, हिम।

तुसडा - वि चिड़चिड़ा, रुखा, अकलखुरा, बदमिजाज।

तुळई - स्त्री धरन, शहतीर, कडी। [चमकदार, चमकीला।

तुळतुळीत - वि चिकना,

तुळशी - स्त्री तुलसी। -पत्र-

न तुलसीपत्र, तुलसीदल; तुलसी की पत्ती। - विवाह - पु. तुलसी-विवाह; तुलसी के पाँचे के साथ विष्णु की मूर्ति का विवाह जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी का होता है। -वृदावन न तुलसी-वृदावन, तुलसी का पाँचा लगाने का चवूतरा। मु० - उचलणे - शपथ लेना, कसम खाना। - पत्र कानांत घालून बसणें - कान में तेल, रुई डालना, ध्यान न देना; कान बंद या बहरे कर लेना। - पत्र ठवणें - अपना हक छोड़ देना। हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणें - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा, दूसरे की चीज तीसरे को दे डालना। कहा. तुळशींत भाग - अच्छे लोगो या खान्दान में बुरा आदमी।

तुळस - स्त्री तुलसी, दे 'तुळशी'।

तू - सर्व तू; तुम।

तूट - स्त्री त्रुटि, घाटा, कमी।

मु० - पडणें - घटना, कम होना।

तूत - दे. 'तुती'।

तूप - न [क 'तुप्प'] घी, गलाया हुआ मक्खन।

तूर - तूर, तुवर, अरहर। - काठी - स्त्री रहठा, दे 'तुरकाठी'। मु० हातावर तुरी देणें - झाँसा दे कर निकल भागना, नी दो ग्यारह होना। कहा० बाजारात तुरी नि घट भटणीला मारी - घर में सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा।

तूर्त - अव्य १ फिलहाल, इस समय। २ तुरत, अभी। ३. अस्थायी, आरज़ी। [भूसा।

तूस - न तूस; तुप, भूसी,

तूळ - दे 'तुला'।

तृण - न तृण, तिनका, घास,

खरपात। - धान्य - न तृणधान्य, नीवार, सावा, तिन्नी। मु० दातीं तृण धरणें - तृण गहना या पक-डना; शरण में जाना, दान्य प्रकट करना। कहा० तृणाचे शेकणें व मूर्खांचें बोलणें - घास की आग और मूर्ख की बात पायदार नहीं होती।

तृतीय - वि तृतीय; तीसरा। - पथ - पु. तीसरा मार्ग; सब से अलग ढग। - पुरुष - पु. प्रथम पुरुष। मु० - नेत्र उघडणें - बहुत क्रुद्ध होना, आग बबूला होना।

तृतीया - स्त्री १ तृतीया, तीज। २ तृतीया विभक्ति, करणकारक की विभक्ति।

तृप्त - वि तृप्त, सतुष्ट, अघाया हुआ। मु० - करणें - तृप्त, सतुष्ट करना, अघवाना। - होणें - तृप्त होना, अघाना।

तें - सर्व न वह। - च - सर्व वही। मु० तेंच तेंच बोलणें - चवितचवण करना, कही हुई बात को फिर-फिर कहना। [अपना पति।

ते - सर्व पु. बहु १. वे। २

तेज - न १ तेज, प्रभा, दीप्ति; चमक, जलाल। २ तीक्ष्णता, उग्रता। ३ प्रकाश, सूर्य की किरणें, रोशनी। ४ वैभव; उत्कर्ष। ५ पराक्रम, बल, वीर्य, बहादुरी। ६ रोव; प्रभाव, असर।

तेजस्वी - वि १. तेजस्वी, तेज वाला। २ प्रतापी, शक्ति-शाली, प्रभावशाली, रोबदार।

तेजाव - पु. न [फा 'तेजाव'] तेजाव, 'ऐसिड'।

तेजी - स्त्री [फा 'तेजी'] १ तेजी, महंगी; महंगाई। २ उत्कर्ष, वैभव। - मंदी - स्त्री सस्ती-महंगी; भाव का चढाव-उतार।

तेजोभंग - पु तेजोभंग;  
अपमान, बेइज्जती।

तेजोवलय - न प्रभामडल।

तेढ - छी १ अनवन, मन-  
मुटाव। १ टेढापन।

तेढा - दे. 'तिढा'।

तेणें \* - सर्व उसने, उससे।

- करून - अव्य उस कारण;  
चुनांचे, उस वजह से, अत।

तेथ - अव्य वहाँ। दे 'तेथें'।

- चा, - ला वि वहाँ का। -  
पर्यंत, - पावेतों, - वर, -  
बेरीं - अव्य वहाँ तक, उस  
समय या स्थान तक। - पासून  
अव्य. वहाँ से।

तेथ - अव्य वहाँ, उस जगह।  
कहा० तेथें पाहिजे जातीचें, एरा  
गवाळाचें काम नोहे - वहाँ लायक  
व्यक्ति चाहिए, ऐरेगरे का वह  
काम नहीं है। [ समय

तेषवां \* - अव्य. तब, उस

तेर - छी खेत की तीसरी  
वार की जुताई।

तेरडा - पु गुलमेहँदी, एक  
निर्गव फूल और उसका पीघा,  
इस फूल के रंग बदलते रहते हैं।  
कहा० तेरड्याचा रंग तीन दिवस  
- थोडे समय तक जोर-शोर से  
काम करके फिर ठंडा पड जाना;  
चार दिन की चाँदनी।

तेरवां - अव्य. अतरसो, परसो  
के बाद या पहले का दिन, आज  
से बाद का या पहले का चौथा  
दिन, नरसो। [ आज, कल, परसो,  
अतरसो (नरसो) ]

तेरा - वि तेरह, १३।

तेरावा - वि तेरहवाँ। - पु  
तेरही, मरने की तिथि से तेर-  
हवी तिथि जिस दिन औष्वंदेहिक  
क्रिया की समाप्ति होती है और

ब्राह्मण-भोजन के बाद मरणाशीच  
का अंत होता है।

तेरीज - छी १ जोड लगाने  
के लिए क्रम से लिखी हुई राशियाँ।  
२ इन राशियों का जोड, योग।  
३. हिसाब का चिट्ठा, दे  
'ताळेवद'।

तेरी-मेरी - छी तू-तू मैं-मैं,  
वाक्कलह, बोल-बोल, गाली-  
गलौज। मु० - वर घेणें - तू-तू  
मैं-मैं करना, गालीगलौज करना।

तेल - न तेल, तैल। - फट -  
वि १ तेलिया, चीकट, मँला।  
२ जिसमें तेल का अंश हो। - खाण  
छी तेलकूप, तेलक्षेत्र। - घाणा -  
पु. कोल्हू; तैल - निपीड। - फळ  
- न विवाह से पहले वर की  
तरफ से कन्या के लिए भेजी जाने  
वाली साडी, तेल, नारियल आदि  
वस्तुएँ। - मीठ - न तेल-नमक;  
साधारण आवश्यक वस्तुएँ।  
- लावणें -, - वण - न तेल,  
तेल चढाना। मु०-काढणें -  
१ तेल निकालना, चूसना। २  
बहुत पीटना, मरम्मत करना। -  
लावून ठेवणें - पिटने की तैयारी  
करना। - वात करणें - १ दीप  
जलाना। २ दीये में तेल और  
वाती डालना। कहा० तेल गलें  
तूप गेलें, हातीं घुपाटणे आलें -  
न खुदा ही मिला न विसाले सनम,  
दो लामदायक वस्तुओं से अपनी  
वेवकूपी के कारण हाथ धोना।

तेलिया - वि १ तेलिया;  
तेल के रंग का। २. चिकना।  
- कद - पु. तेलियाकद, एक  
प्रकार का कद।

तेली - पु. तेली। मु० तेल्याचा  
बैल - तेली का बैल, रात-दिन  
पिसने वाला व्यक्ति।

तेलीण - छी तेलिन, तेली की  
स्थी।

तेल्या - दे 'तेलिया'।

तेवढा - वि उतना।

तेवणें - क्रि अ जलना,  
वजलना, जलते रहना। [ वैसे।

तेवीं \* - वि अव्य वसा,

तेवीस - वि तेईस, २३।

तेव्हडा - दे 'तेवढा'।

तेव्हा - अव्य तब; उस वक्त।

पासून - तब से।

तेहतीस, तेहेतीस - वि  
तैतीस, तेंतीस, ३३। - कोटी देव  
- पु. बहु १ देवताओं के तैतीस  
वर्ग। २ तैतीस करोड देवी -  
देवता।

तैनात - छी [अ 'तअय्यु-  
नात'] १ फौजी अधिकार।  
२ तनखाह, वेतन। ३ कब्जा।  
४ सेवा, नौकरी। ५ नियुक्ति;  
मुकररी। - वि तैनात, नियुक्त;  
मुकरर।

तैनाती - वि [अ 'तअय्यु-  
नात'] १ वेतनभोगी; तनखाह  
देकर रखा हुआ। २ साँपा हुआ  
कब्जे में दिया हुआ। ३ सहायक।  
- फौज - छी कुमकी लश्कर,  
मददी फौज, पूरक, सहायक  
सेना, उवार मांगी हुई फौजी  
टुकडियाँ, अपने खर्चों से सेना  
रख कर लडाई के मौके पर दूसरो  
को देने का रिवाज।

तैल - न तेल। - वि तेल का  
- चित्र - न तैलचित्र, तेल के  
योग वाले रंग से बना हुआ चित्र,  
'आँइलपेट'। - बुद्धि - वि तेज-  
जहन, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, होशि-  
यार।

तो - अव्य १ इतने में। २  
त्यो। ३ तब, तो।

तोड - न १. मुख, मुंह। २. चेहरा, सूरत। ३. किसी वस्तु का अगला भाग। ४. छेद, सूराख। ५. प्रवेशद्वार। ६. दिशा, तरफ। ७. प्रारम्भ। ८. मुहरा। - ओलख - छी १. साधारण, ऊपरी, अल्प परिचय। २. प्रारम्भिक जानकारी। - घर्षी - अव्य मुंह के बल। दे ' - घर्षी पडणे '। - चा - वि १. ज्वानी, मीखिक। २. सामने से आनेवाला। - ची गोण्ड - छी बहुत आसान बात, बायें हाथ का खेल। - चुकार - वि १. मुंह छिपाने वाला। २. कामचोर। - देखले - वि मुंह देखा, विलकुल ऊपरी, दिखाऊ। - पाटिलकी - छी स्वयं कुछ न करके दूसरे को हुक्म देते रहना, सिर्फ बातें बनाना। - पाठ - वि कठस्थ, ज्वानी। - पालट - प्रु छी आहार में फेरवदल, रुचि-परिवर्तन। - पुजा-ज्या - वि चापलूस, खुशामदी। - पुजेपणा प्रु. लल्लोचप्पो, खुशामद। - भर - वि बहुत, वेहद। - अव्य मुंहभर, अच्छी तरह, दिल से। - मिळवणी - छी जमा और खर्च का मेल, सतुलन, मीजान। - वळा - प्रु चेहरा, सूरत। - सुख - न १. आलोचना; गाली-गलीज। २. यथेष्ट खाना-पीना। मु० - आवट करणे - मुंह लटकाना, मुंह फुलाना। - आटोपणें, - आवरणें - १. मुंह सँभालना, सोच-समझ कर बोलना। २. चुप रहना। - उतरणें - मुंह उतरना, मुंह इतना-सा निकल आना, लज्जित हो जाना; मुंह पर हवाइयाँ उड़ना। - उष्टें करणें - मुंह

जुठारना या जूठा करना, खाने का नाम करना, जरा-सा खा कर छोड़ देना। - करणें - १. बकबक करना। २. जवानदराजी करना। - करून बोलणें - मुंह उठा कर कहना, मुंह चलाना, जो जी में आये बक देना। - फाळें करणें - मुंह काला करना, फिर मुंह न दिखाना। - गोड करणें - १. मुंह मीठा करना, मिठाई खिलाना। २. घूस, इनाम आदि के रूप में कुछ देना। - गोरेंमोरें करणें - झंपना, शरमाना। - गोरेंमोरें होणें - १. रग फक पड जाना। २. लज्जित होना। - घर्षी पडणें - मुंह के बल गिरना, मुंह की खाना, आँध्रे मुंह गिरना; धोखा खाना। - घर्षी पाडणें - धोखा देना। - घालणें - बीच में बोल उठना, दखल देना। - घेऊन जाणें - मुंह काला करना। - चा घास काढून घणें - १. मुंह का कीर या निवाला छीनना, किमीकी रोटी छीनना। २. आसानी से मिलती हुई वस्तु से वचित करना, बना-बनाया खेल विगाडना। - चुकविणें - कतराना, मुंह छिपाना, छुपाना, लज्जावश सामने न आना। - चें पाणी पळणें - मुंह सूखना, धवरा जाना, मुंह पर हवाइयाँ उड़ना। - टाकणें, - टाकून बोलणें - मुंह चलाना, जवानदराजी करना। - दावणे - मुंह भरना; घूस देकर मुंह वद करना। - दिसणें - बोलनेवाले के मत्थे दोप मढा जाना, (भर्तना करनेवाले को जब दूसरे लोग बुरा कहते हैं पर जिसकी भर्तना की जाती है उसके दोपो की तरफ वे ध्यान नहीं देते, तब यह कहा जाता है)। - देणें - मुकाबला करना,

सामना करना। - धरणें - १. मुंह पकडना, बोलने से रोकना। २. मुंह आना, बीमारी आदि के कारण मुंह की अन्न खाने की शक्ति का नष्ट होना। ३. कब्जे में करना। - धुवून येणें - मुंह धो रखना। - पडणें १. छिडना, गुरु होना। २. मुंह करना, फोड़े का फूटना; मुंह खुलना; फोड़े आदि का मुंह बड़ा हो जाना। - पसरणें - दे ' तोड वेगाडणे '। - पाडणें - छेडना, गुरु करना। - पाहा - मुंह देखो, अपना मुंह तो देखो। - पाहाणें - १. मुंह तकना, ताकना, किसीसे आम लगाये बैठे रहना। २. मुंह ताक के, ताकते रह जाना; चकित हो कर चुप रह जाना। - फिरणें - १. मुंह विगाडना, मुंह का बहुत कडुआ हो जाना। २. मुंह से गालियाँ निकलना। - फिरविणें - १. मुंह फेरना, मुंह फेर लेना। २. गालियाँ बकना। ३. मुंह मोडना। - फुटणें - १. मुंह फटना; मर्दी, खुश्की के कारण होठो, कपोलो की त्वचा सूख कर फटना। २. मुंह की खाना, पिटना, थप्पड खाना, जलील होना। ३. दे ' तोड पडणे '। - फोडणें - १. मुंह तोडना, बुरी तरह पीटना। २. दे ' तोड पाडणे '। - बद करणें - १. मुंह वद कर लेना, चुप हो जाना। २. मुंह वद कर देना, चुप कर देना। ३. मुंह भरना, घूस देकर मुंह वद कर देना। - बाघणें - दे ' तोड वद करणे '। - बाहेर काढणें - मुंह दिखाना, सामने आना। - भरून बोलणें - जी भर कर, यथेच्छ, भरपूर बातें करना। - मिळवणी करणें - मीजान मिलाना, आय - व्यय में

सतुलन रखना; अपनी आय के भीतर निर्वाह करना। - येणें - मुंह आना; मुंह में छाले पडना। - रंगविणें - १ पान खाकर मुंह, ओठ रँगना। २ मुंह चपडा कर देना; गाल पर जोर का तमाचा, थप्पड लगाना। - लागणें - छिडना, शुरू होना, मुठभेड होना। - वाईट करणें - मुंह विगाडना, मुंह बनाना। - वाकडें करणें - १ मुंह बनाना, मुंह चिडाना। २ मुंह विगाडना, मुंह लटकाना। - वाजविणें - वकवास करना, लगाना वकते जाना। - वासणें - मुंह बाना, मुंह फैलाना। - विचकणें - खीसि निकालना, निपोडना, गिडगिडा कर माँगना। - सभाळणें, - सांभाळून वोळणें - मुंह संभालना, सोचसमझ कर बातें करना। - सुख घेणें - खरी-खोटी सुनाना, फटकारना, जली-कटी सुनाना। - सुटणें - मुंह खुल जाना, वोळने में ढीठ, गुस्ताख हो जाना, बदजबानी की आदत लगना, मुंह में लगाम न होना। - सोडणें - १ मुंह में लगाम न रखना, हुज्जन करना, मुंह लगाना। २ बहुत ज्यादा खाना, भकोसना। तोडाचा गोड - वि मिठवोला, मधुरभापी। तोडाचा जड - वि बहुत कम, अस्पष्ट वोळने वाला, हकलाने वाला। तोडाचा तिखट, फटकळ - मुंहफट, बदजबान। तोडाचा बहावर - बढ - बढ कर बातें करने वाला; जवानदराज। मु० तोडाचा पट्टा चालणें, चालविणें, सुटणें - १ मुंह चलाना, जवानदराज करना। २ गालियाँ बकना। तोडाची वाफ दवडणें - १ निरर्थक बातें करना, ऐसी बातें करना

जिनका कोई प्रभाव या उपयोग न हो। २ डीग हाँकना। तोंडाचें वोळकें होणें - पोपलाना, मुंह का पोपला हो जाना। तोडात देणें - मुंह चपडा कर देना, थप्पड मारना, तमाचा जड देना। तोडात वोट घालणें - दाँतो नले उँगली दवाना; दग हो जाना। तोंडात भडकावणें - दे 'तोडात देणे'। तोडात माती पडणें - १ मुंह में खाक पडना। २ मरना। तोडांत मारणें - दे 'तोडात देणे'। तोडात मारून घेणें - कान पकडना, तोवा करना। तोडांत श्रेण घालणें - मुंह पर थूकना, अपमानित करना। तोडात साखर पडणें - मुंह मीठा होना, करना। तोडातून ब्र काढणें - ची - चपड करना, शब्दद्वारा विरोध का प्रदर्शन करना, चूँ करना। तोडाला काळोखी फासणें - मुंह में कालिख पोतना या लगाना। तोंडाला पाणी सुटणें - मुंह में पानी भर आना। तोडाला पानें पुसणें - सज्ज वाग दिखाना, धोखा देना। दे 'तोडास'। तोडावर गोड वोळणें - मुंह देखी बात करना, चापलूसी करना। तोंडावर तुकडा टाकणें - घूस देकर मुंह बढ करना। तोडावर थुंकरणें - मुंह पर थूकना, अत्यधिक घृणाप्रकाश या तिरस्कार करना। तोडावर नक्षत्र पडणें - हमेशा गदी वाते करने की आदत होना। तोंडावर वोळणें, सागणें - मुंह पर, सामने साफ - साफ कह देना। तोडास काळोखी फासणें - मुंह में कालिख पोतना, लगाना। तोडास खीळ घालणें - मुंह सीना, चुप्पी लगा लेना। तोंडास तोड देणें - १. मुंहजोरी करना, बढबढ कर बातें

करना। २ मुंहतोड जवाव देना। तोडास तोंड न दिसणें - हाथ को हाथ न सूझना, सवेरे बहुत अँधेरा होना। तोडास पाणी सुटणें - मुंह में पानी भर आना, लार टपकना। तोडास येईल तें वोळणें - जवानदराजी करना, मुंह में लगाम न रखना। तोडीं देणें - सजा भुगतने के लिए आगे बढाना, चगुल में फँसाना; सकट में झोकना। तोडीं लागणें - मुंह लगाना, हुज्जत करना। तोडीलावणें - न लगावन, तीवन, सालन लावन। तोडीं लावण्यास - अव्य. साथ को। तोंडें वाकडीं करणें - मुंह चिडाना। जळो तुझें तोड - तेरे मुंह को आग लगे, तेरा मुंह जले, झुलसे (स्त्रि)।

तोडलें - न कुंदरू, विवा।

तोंडातोडी - अव्य १ आमने-सामने। २ जवानी, मौखिक। - छी क्षगडा, कहासुनी; चख-चख।

तोंडवळा - वि चेहरा, सूरत। तोडाळ - वि मुंहफट, क्षगडालू, वक्की।

तोंडो - वि जवानी, मौखिक।

तोंवर - अव्य. तवतक।

तो - सर्व पु वह।

तोकडा, तोटका - वि १ छोटा, तग, अधूरा। २ थोडा, अल्प।

तोटक - दे 'तोडगा'।

तोटरा - पु १ गला सूख कर निगलने में तकलीफ होना। २ धान की वाली का पूरी तरह पक जाना।

तोटा - पु १ टोटा, घाटा, नुकसान। २ कमी, घुटि, खामी।

तोटी - छी १. टोटी, नली,

थूयन । २ नल ।

तोड - छी १ तोड-जोड, दाँव-पेंच, उपाय, युक्ति; तज-वीज, तरकीव । २ सधि, सुलह ।

३ जोड, बरावरी, मुकावला ।

४ मात । ५ तोड (कुश्ती) ।

तोडीचा - वि जोड का, बरा-

वरी का, सानी, मुकावले का ।

तोडीस तोड - अव्य वि जोड

का तोड, दाँव पर दाँव, मुकावले

का । मु० - करणें - १ मात देना;

हराना । २ मात करना, आगे

वढ जाना । [ २ दे 'तोड' ।

तोडगा - पु १ टोटका, टोना ।

तोडजोड - छी १ तोड-जोड,

दाँव-पेंच, युक्ति । २ कलपुर्जों को

खोल कर फिर जोडना । ३ सधि,

सुलह, फैसला, समझौता ।

तोडणावळ - छी तोडाई,

तोडने की उजरत ।

तोडणी - छी १. तोडाई,

तोडने की क्रिया; कटाई । २

तकाजा ।

तोडणें - क्रि स १ तोडना,

काटना । २ छुडाना । ३ वद

करना । ४ घटाना; कम करना ।

५ मिटाना (झगडा), सुलह

करना । मु० तोडून देणें - हिस्सा

अलग कर देना, वँटवारा करना ।

तोडमोड - छी १ तोड-फोड ।

२ सधि, सुलह । ३ अगड-खगड;

टूटी-फूटी चीजें ।

तोडा - पु १ तोडाई, कटाई ।

२. टुकडा । ३ तोडने, काटने का

मौसिम ।

तोडा - पु १ तोडा, पर या

कलाई में पहनने का एक गहना ।

२. तोडा, रुपये रखने की टाट

आदि की थैली जिसमें एक हजार

रुपये अँट सके । ३ वदक दागने

का पलीता, वत्ती ।

तोड्याची वंदक - छी तोडेदार

वदक, पलीता दाग कर छोडी

जाने वाली वदक ।

तोतया - पु छल, कपट, छद्य,

पाखड, ठगवाजी, दगावाजी । -

वि १ छद्मवेपी, वगुलाभगत,

रँगा सियार; छली, वनावटी,

नकली । २ झूठा दावेदार, अपने

तई दूसरा जाहिर करनेवाला,

जालिया, स्वाँग भरनेवाला ।

तोतयेगिरी - छी पररूप-

धारण, स्वाँग, छद्मवेश ।

तोतरा - वि तोतला, हकला,

जो तुतला कर बोलता हो ।

तोतरें बोलणें - क्रि अ तुत-

लाना, हकलाना ।

तोफ - छी [ तु. 'तोप' ]

तोप । - खाना - पु तोपखाना ।

- ची, - जी - छी तोपची, तोप

चलाने वाला, गोलदाज । मु०

तोफेच्या तोडीं देणे - तोपने उडा

देना ।

तोबरा - पु [ फा 'तोवर' ]

तोवडा, घोडे के दाना खाने का

थैला । कहा० तोवन्याला पुढें

लगामाला पाठीमागें - खाने को

हम, लडने को हमारा भाई ।

तोवा - पु [ अ 'तीवा' ]

१ कपडे में ऐँठन देकर बनाया

हुआ कोडा । २ घनी भीड, ठट,

रेलठेल, रेलपेल । - अव्य तोवा,

हाय ।

- तोरडी - छी तोडर, पैर का

एक गहना, पाजेव, पायल, नूपुर ।

तोरण - न १ तोरण, बदन-

वार । २ चौखट की ऊपर वाली

आडी लकडी । ३ एक कँटीला पेड

और उसका फल जो खिरनी की

तरह मीठा होता है ।

तोरा - पु शान; अकड, ठसक, ऐँठ । मु० - मिरविणे - अकडना, घमड करना, तन कर चलना ।

तोल - पु १ तौल; माप,

जोख, वजन । २ सतुलन । ३

झुकाव । ४ तराजू, काँटा । ५

तुलना, बरावरी, समानता । ६

महत्त्व, वढप्पन, सम्मान; शान ।

मु० - साभाळणें - मतुलन रखना ।

तोलणें - क्रि स. १ तौलना,

जोखना । २ अदाजा लगाना । ३

तुलना करना ।

तोलाचा - वि १ बरावरी

का, मुकावले का । २ बहुमूल्य;

भारी ।

तोशीस - छी [ अ 'तश्वीश' ]

१ हानि, घाटा । २ उपद्रव,

तकलीफ ।

तोहमत - छी [ अ 'तुहमत' ]

तोहमत, मिथ्या आरोप, लाछन,

छवा इलजाम । २ घाटा, नुकसान ।

तोळा - पु तोला; बारह माशे

की एक तौल । - भासा - वि

नाजूक, चचल । मु० - भासा होणें -

माशा - तोला होना, छन - छन

में बदलना । [ मुकावली, निस्वती ।

तौलनिक - वि तुलनात्मक,

त्या - सर्व श्री बहु वे । - सर्व

उस । - नतर - अव्य उसके

वाद, अनंतर, आगे चल कर । -

पक्षीं - अव्य उस कारण, अत ।

- पासून - अव्य उससे, तव से ।

- पेक्षीं - अव्य. उससे । - स - सर्व

उसको । - अव्य इसलिए, अत ।

त्याग - पु १ त्याग, छोड

देना । २ कुरवानी । ३ दान ।

- पत्र - न त्यागपत्र, इस्तीफा ।

त्याज्य - वि त्याज्य, छोडने,

त्यागने योग्य ।

त्यो<sup>१</sup> - सर्व. पु. वह। दे 'तो'।  
त्रयस्थ - वि तटस्थ; तिसरैत,  
तीसरा।

त्रस्त - वि १. परेशान, हैरान;  
तग आया हुआ। २. त्रस्त, डरा  
हुआ।

त्रागडें - न अझट, झमेला।  
त्राक - स्त्री तकुआ, तकला।  
त्रागा - पु. खीझ, परेशानी;  
झुंझलाहट, गुस्सा, खिसियाहट।

त्राटिका - स्त्री १ ताडका  
(एक राक्षसी)। २ कर्कशा स्त्री।

त्राण - न १ त्राण, भय के  
हेतु का निवारण, रक्षा, बचाव;  
आश्रय। २ सामर्थ्य; दम, जोर।

त्रास - पु १. कष्ट, परेशानी,  
तकलीफ, पीडा, क्लेश। २ भय;  
डर, खौफ। ३ नफरत, घृणा,  
जी ऊवना। मु० - देणे - सताना,  
परेशान करना।

त्रासणे - क्रि अ १ झुंझ-  
लाना, झल्लाना, परेशान होना,  
तग आना। २ ऊवना, उकताना।

त्रासिक, त्रासीक - वि १  
चिडचिडा, बदमिजाज। २ तक  
लीफदेह, परेशान करनेवाला।

त्राहि त्राहि - अव्य त्राहि,  
बचाओ, रक्षा करो। मु० - फरुन  
सोडणें - त्राहित्राहि मचाना, बहुत  
सताना, परेशान करना।

त्रिकाळ - पु. त्रिकाल, तीनो-  
काल, तीनो समय। - अव्य  
त्रिकाल, हमेशा, आठो पहर।

त्रिकुट, त्रिकूट - न १ तीन

व्यक्तियों का गुट, तीन जन। २  
त्रिकूट, त्रिकुटी।

त्रिकोण - पु. त्रिकोण, त्रिभुज।  
- मिति, - मितो - स्त्री त्रिकोण-  
मिति; त्रिकोणभूमिति।

त्रिकोणी - वि त्रिकोना,  
त्रिकोनिया। [२ हर जगह।

त्रिखंड - न १ तीनो लोक।

त्रिज्या - स्त्री त्रिज्या,  
त्रिजीवा।

त्रिदंडी - पु १ त्रिदंडी,  
सन्यासी। २ वह सन्यासी जो  
फिर से गृहस्थ बन सके। यह शिखा,  
सूत्र और कच्छ का त्याग नहीं  
करता।

त्रिदल - वि त्रिदल वाला,  
जिसमें तीन दल या पत्ते हों।

त्रिफळा - पु १ त्रिफला,  
आंवला, हड और बेहडा का चूर्ण।  
२ क्रिकेट के तीन डडे। मु० -  
उडणें - क्रिकेट में डडे में गेंद लग कर  
आउट हो जाना। [वाले तीन बल।

त्रिवळी - स्त्री पेट पर पडने  
त्रिवार - अव्य. १ तीन बार।  
२ कतई, विलकुल, पूरी तरह।  
- वि निश्चित, पक्का।

त्रिशकु - पु त्रिशकु (एक प्रसिद्ध  
सूर्यवंशी राजा)। - वि न घर का  
न घाट का, अघर में लटकने  
वाला। [ 'तिरस्थळी'।

त्रिस्यळी - स्त्री त्रिस्यली, दे

त्रुटी - स्त्री १ कुछ क्षण,  
अल्प समय। २ चुटकी। ३ त्रुटि,  
भूल, कमी। ४ रोक, बाधा।

५. नाश। [ तैतालीस, ४३।  
त्रेचाळीस - वि तैतालीस,  
त्रेधा - स्त्री हडबडी, परेशानी,  
गडबडी, दीडघूप।

त्रेपन्न - वि तिरपन, ५३।  
-टिकलीचा - वि (ग्रा) दोगला,  
जारपुत्र, पाजी; बदमाश।

त्रेसष्ट - वि तिरसठ, ६३।

त्रैराशिक - न त्रैराशिक, तीन  
ज्ञात राशियों के सहारे चौथी  
अज्ञात राशि निकाल लेने की रीति  
(ग)।

त्रोटक - वि त्रुटित, सक्षिप्त,  
अधूरा।

त्र्याएँशी, त्र्यायशी - वि  
तिरासी, ८३। [ तिरान्वे, ६३।

त्र्याणव - वि तिरानवे,  
त्र्याहत्तर, त्र्याहात्तर - वि  
तिहत्तर, ७३।

त्वंपुरा - पु. हल्लागुल्ला,  
चिल्लाहट, चीख-पुकार।

त्वचा - स्त्री १ त्वचा, चर्म,  
चमड़ा, खाल। २ छिलका।

त्वरा - स्त्री १ त्वरा,  
शीघ्रता, जल्दी, तेजी। २ उता-  
वली। [ तुरत, तेजी से।

त्वरित - अव्य त्वरित, शीघ्र,  
त्वष्टा - पु १. त्वष्टा, देव-  
शिल्पी, विश्वकर्मा। २ बढई।

-कासार - पु ठठेरो की एक  
उपजाति।

त्वेष - पु. [ अ 'तैश' ]  
तैग, गुस्सा, क्रोध, जोश,  
आवेश।

## थ

थ- मराठी वर्णमाला में तवर्ग  
का दूसरा वर्ण।

थड - वि १ ठडा, ठडा,

सदं, शीतल। २ सुस्त, धीमा।  
३ शांत, स्थिर। ४ चुपचाप बैठा  
हुआ। ५ वुझा हुआ। ६ कमजोर,

ठीला, नपुंसक। ७ बेरौनक। -  
गार - वि १ बहुत ठडा। २  
स्थिर, शांत। ३ सतुष्ट। ४ मरा



हुआ। - वेळ - छी ठठा समय; सुवह और शाम का वक्त। मु० - करणें - १ ठठा करना, क्रोध शात करना। २ मिराना, पानी में डुवाना, विसर्जन करना। - पडणें, - होंगें - १ ठटा पडना, क्रोध शात होना, आवेशरहित होना। २ मर जाना। ३. खत्म होना।

थंडा - वि ठडा, ठढा, सर्द। - फराळ - पु केवल पानी पीकर रह जाना, भूखो रहना।

थडाई - छी १. ठडक। २. ठढाई, तरी पहुँचाने वाली औप-धियाँ, पेय - विशेष।

थडावणें - क्रि अ १ ठडा पडना, सर्द होना। २ सुस्ताना। ३ वद होना, खत्म होना, आगे न बढ़ना।

थंडावा - पु १ ठडक, ठढक। २ आराम, सुख। ३ तृप्ति, सतोप।

थडी - छी १ ठडक, ठढक। २ ठड, सर्दी, जाडा। ३ जुकाम। - ताप - पु जूडी, जडैया बुखार, शीतज्वर, जाडा दे कर आने वाला ज्वर। - वान्याचा - अव्य जब ठडी हवा वह रही हो, जाडे के दिनों में जब हवा वह रही हो।

थकणें - क्रि अ १ थकना, श्रात होना, श्रम के कारण शिथिल होना। २ तग आना, परेशान होना। ३ बूढा हो जाना। ४ ऋण का अदा न होना, वकाया रहना, दीवाला निकलना। - भागणें - बहुत थक जाना।

थकवाकी - छी वकाया, शेष, वाकी। [माँदा, थका, हारा हुआ। थकलाभागलेला - वि थका-थकवा - पु थकान, थकावट,

थकाहट, श्राति।

थक्क - वि चकित, भीचक्का, हैरान, दग, सन्न।

थटणें - क्रि अ १ सजना। २ शान के साथ चलना। ३ दे 'तटणे'।

थट्टा - छी ठट्टा, परिहास, मजाक, खिलवाड, दिल्लगी। - मस्करी - छी ठठोली; हँसी-मजाक, दिल्लगी उटाना, मजाक करना। [२ पशु-विभाग।

थट्टी - छी १ गौशाला। थट्टेखोर, थट्टेवाज, थट्टे-वाईक - वि हँमोड, दिल्लगीवाज, ठट्टेवाज, ठठोल, मसखरा।

थट्टेवारी - अव्य. मजाक के तीर पर। मु० - नेणें - हँसी में उडाना, विशेष ध्यान न देना।

थड - छी १ किनारा, तीर। २ सिद्धि, समाप्ति। ३ नदी-घाटी। दे 'तड'। [धक्का, ठेकर।

थडक - छी टकराव, टक्कर, थडकणें - क्रि अ १ टकराना, भिडना, सटना, लगना। २ रुक जाना। ३ आ धमकना, पहुँच जाना।

थडगें - न १ मजार, मक-वरा, रोजा, शवप्रकोष्ठ, कब्र। २ कब्र का चबूतरा, स्मृतिस्तभ। थडथड, थडथडणें - दे 'थर-थर', 'थरथरणे'।

थडी - छी १ दे 'थड'। २ दे 'थप्पी'।

थपडाक - छी दे 'थप्पड'। थपपप, थपपपणें, थपपपवीत - दे 'थवथव', 'थवथवणें', 'थवथवीत'।

थप्पड - छी थप्पट, तमाचा, झापड, चपत, चाँटा, चपेटा। - खाऊ - वि थप्पड खानेवाला,

पिटनेवाला। [गड्डी।

थप्पी - छी राशि; ढेर, थक्कट - वि चपटा, चिपटा; वैठा हुआ, जो उभरा न हो।

थक्कणें - क्रि अ. १ ठिठकना, चलते-चलते सहसा रुक जाना। २ ठक रह जाना।

थवथव - दे 'थवथवा', 'थवथवीत'।

थवथवणें - क्रि अ १. मनना, लथपथ, शरावीर होना। चूना, टपकना।

थवथवा - अव्य किसी वस्तु में से पानी आदि के टपकने की आवाज के साथ।

थवथवीत - वि लथपथ, शरा-वीर, गीला, तर, भीगा हुआ, सना हुआ। [कर।

थयथय - अव्य. थिरक - थिरक थयथयाट - पु १ नाचना - कूदना। २ गुस्सा, क्रोध, क्रोध से पैर पटकना।

थर - पु १ स्तर, तह, परत। २ झिल्ली, परदा। ३ मुलम्मा, कलई। ४ छिलका। ५ ढेर, समूह। ६ आवरण, लेपन। ७ सीमा, हद। ८ सतह, दर्जा, श्रेणी, स्तर। मु० थरास जाणे, थरणें - हद तक पहुँचना, हद तक बढ़ जाना। [थराना।

थरकणें - क्रि अ कांपना, थरकाप - पु थरथरी, काँप-काँपी। मु. - उडणें - थराना, काँप उठना, दहलना।

थरथर - दे 'थरथरा'। थरथरणें - क्रि अ १ थर-थराना, थरकना; काँपना, थराना। २ सिहरना।

थरथरा - अव्य थरति हुए, काँपते हुए, दहलते हुए।

धरधराट - पु धरधराहट;  
धरधरी, कॅपकॅपी ।

धरधरणें - क्रि अ धरधराना,  
धराना, कांपना; दहलना ।

धरं - अव्य धरति, दहलते  
हुए ।

थल<sup>+</sup> - छी खेत की पैदावार  
में हिस्सा । - पु थल, स्थान;  
जगह ।

थलथल, थलथला - अव्य.  
थलकते हुए, थलथलाते हुए ।

थलथलणें - क्रि अ. थलकना,  
थलथलाना ।

थलथलीत - वि थलथल,  
मोटाई या झोल के कारण हिलता  
हुआ ।

थवा - पु. १. झुड, जत्था,  
गिरोह, ममूह । २. रेवड ।

थळ - पु. न १. वन, खेती ।  
२. स्थल, स्थान । ३. दे  
'थारोळें' । ४. भूताविष्ट स्थान ।

थाग - पु. १. थाह, सुराग,  
पता । २. गहराई की सीमा, गाध,  
पार, सीमा, हद । - पत्ता - पु  
अता - पता, सुराग । मु - पाहणें -  
१ थाह लेना, गहराई का अंदाजा  
लगाना । २. जांच करना । -  
लावणें - पता लगाना, खोज  
करना ।

थावणें - क्रि अ १ रुकना,  
अटकना, ठहरना, थमना । २  
स्थगित, मुलतवी होना ।

थांवविणें - क्रि स १ रोकना,  
थामना । २. स्थगित, मुलतवी  
करना ।

थाट - पु १ ठाट, ठाठ,  
थान, सजधज । २ थाट, जनक-  
राग (संगीत) । - माट - पु. ठाट-  
वाट; तडक - भड़क ।

थाटणें - क्रि स १ सजाना,  
म हिं श को .. २५

लगाना, बनाना, जमाना । २.  
तैयार रखना ।

थाडकन - अव्य. घडाम से,  
जोर के साथ ।

थातुरमातुर - न १ जादू,  
टोना-टोटका । २ मरम्मत,  
दुरुस्ती । - अव्य. वि मामूली मर-  
म्मत करके, जैसे-तैसे, ऊपरी  
तौर पर, लचर ।

थान - न १. स्तन, थन,  
चूची । २. थान । ३. स्थान ।  
मु - देणें - बच्चे को स्तनपान  
कराना, आंचल देना ।

थाप - छी १ थाप; थपकी,  
थप्पड़, धील, थपेडा, चपत । २  
गप; झूठी बात । ३. झांसा । ४.  
छपाका । ५. थाप; तबले आदि  
पर किया गया हथेली का आघात ।  
मु. - ठोकणें, - देणें - गप मारना,  
गप हांकना । - मारणें - १ धील  
जमाना । २. गप लडाना, गपें  
हांकना । ३. धोखा देना ।

थापट - छी थप्पड़, चपत,  
धील । मु - उगारणें - हाथ  
उठाना ।

थापटणें - क्रि स. १. धील,  
थप्पड़ जमाना । २. थपकना, थपकी  
देना । ३. खम ठोकना, ताल  
ठोकना । - न १ थापी (कुम्हार  
का औजार) । २. थापी, मुंगरी  
(राज का औजार) ।

थापटी - छी १ थप्पड़,  
चपत । २. उपला, कडा । ३  
थापी, मुंगरी ।

थापड, थापडी - दे 'थापट',  
'थापटी' ।

थापणे - क्रि स १ थापना,  
पाथना, पोना । २. थोपना, दे  
मारना, चिपकाना । ३. सहलाना ।  
४. स्थापित करना, थापना ।

थापाड्या - वि गप्पी; गपोडे-  
वाज; गपोडिया, गपोड ।

थापाथापी - छी गपोडेवाजी,  
गपडचौथ ।

थापी - छी १ (गवड्याची)  
थापी, कन्नी, करनी; गिलमाला,  
मुंगरी । २. थापी, कच्चा घडा  
पीटने का कुम्हारो का चौड़े मिरे  
का लकड़ी या मिट्टी का एक  
औजार । ३. दे 'थप्पी' ।

थापेवाज - वि गपोड, गपो-  
डिया; गपोडेवाज, गप हांकने  
वाला ।

थापेवाजी - छी १ गपोडे-  
वाजी, गप, गपडचौथ । २  
दमवाजी, झांसापट्टी ।

थार - पु. १ विश्राम-स्थान,  
रहने का स्थान, ठिकाना, मुकाम ।  
२. चैन, आराम । ३. सुसूत्रता ।

थारा - पु १ स्थान । २  
सहारा, आश्रय, आधार ।

थारेपालट - न १ रहने की  
जगह बदलना, स्थानपरिवर्तन,  
स्थलांतर, स्थानांतर । २. हेरफेर,  
फेरबदल ।

थारोळें - न. १ लिलार,  
पैडी, थाला । २. गडा, डबरा ।  
३. कुड ।

थालीपीठ - न सतनजा के  
आटे की नमकीन रोटी ।

थाळा - पु. १ थाल, बडी  
थाली । २. विवाह मे कन्या को  
दिये जाने वाले गहनो से भरा  
थाल । मु - वसणें - अच्छी फसल  
आना । - वाजणे - खत्म होना । -  
वाजविणे - डका वजाना, घोपित  
करना ।

थाळी - छी १ थाली । २.  
जमीन के अंदर बनाया हुआ चूल्हा ।  
थिगळ-ळी - दे 'ठिगळ' ।

थिजणे - क्रि अ. १ जमना, पतली चीज का गाढा या ठोस होना। २ पथराना (आंखें)। ३. विस्मित, भीचक्का होना। ४ शरमाना, लज्जित होना।

थिजविणें - क्रि स १ जमाना, गाढा बनाना। शरमाना, लज्जित करना। [२ तग। ३ त्रुटिपूर्ण।

थिटा - वि १ नाटा, छोटा।

थिर, थिरथिर - अव्य. वकरियो का हाँकने का शब्द।

थिरकणें - क्रि अ थिरकना, फुदकना, ठुमकना।

थिरावणें - क्रि अ. थिरना, स्थिर होना, रुकना, थमना, जमना।

थिल्लर - वि १ शोख, चंचल, तरगी। २. उथला, बुद्धू। - न तलैया, डवरा।

थुंकरणें - क्रि अ १ थूकना। २ धिक्कारना। - क्रि स उगलना।

थुका - पु थूक।

थुंकी - स्त्री थूक, पीक, खखार, उगाल। मु० - चाटणें - १ थूक कर चाटना, त्यक्त वस्तु को ग्रहण करना। २ अपनी कही हुई बात को लौटा लेना। - झेलणें - चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना।

थुगुश्शा, थुंशो - अव्य वच्चो के खेल में अस्थायी स्थगन को सूचित करने का शब्द।

थुलथुलि (ली) त - वि थलथल, पिलपिला, वोदा।

थुशो - दे 'थुगुश्शा'।

थू - पु. स्त्री थू, थूकने का शब्द। - अव्य थू, घृणा और धिक्कार करते हुए; थुडी, लानत भेजकर। मु. - थू करणें - थू थू

करना, थुडी-थुडी करना। - थू होणें - थूथू होना; चारो ओर निदा होना।

थेंव - पु वूंद, कतरा, सीकर, जलकण, विदु; फुही। फहा० थेंवें थेंवें तळें साचे - फूई फूई ताल भरता है।

थेट - वि ठेठ, निरा, शुद्ध, खालिस। - अव्य १ सीधे, एकदम, विलकुल। २. हू-व-हू।

थेटर - न [अ 'थिएटर'] रगयाला, नाटकगृह।

थर - पु. न नकल, ढग, हावभाव, नखरा; नाजोअदा, लडकपन, अजीब हरकते। मु० - फरणें - नखरे करना, अजीब हरकते करना।

थेरडा - वि पु बुड्ढा, डोकरा, घाघ, बूढा और घृणित व्यक्ति। [बुड्ढी, डोकरी।

थेरडी - वि स्त्री बुडिया, थै थै - अव्य थै थै, थैई थैई, छनकमुनक, झनकार, 'थै थै' की आवाज करते हुए।

थैमान - न कुहराम, होहल्ला, रोना-पीटना।

थैला - पु १ थैला, बोरा, बडी थैली। २ खोल, गिलाफ।

थैली - स्त्री १ थैली। २ रुपयो की थैली। ३ निधि, कोष, धन। [उजहु।

थोट - वि ठोट, मूर्ख, बुद्धू,

थोटा - वि ठूठ, ठूँठा, ठूठ, लूला, लुज, लुजा। - पिपळ - पु आवारा, जिमके घरवार, पत्नी या वालवच्चे न हो।

थोटुक, थोटूक - न बहुत छोटा टुकडा, वीडी, सिगरेट आदि का वह टुकडा जो अत में बच जाय।

थोटका - वि थोडा; अधूग; कम।

थोटवधात - अव्य. १ थोटे में। २ जरा-सी देर में।

थोडा - वि थोडा, अल्प, जरा-सा; किंचित्। - च - अव्य थोडे ही, शायद ही, एकदम नहीं। - वि बहुत थोडा, विलकुल कम। - थोडका - वि. बहुत कम। - थोडा - अव्य. अल्पमात्रा में, बहुत थोडा। - फार, - बहुत-वि थोडा-बहुत; जरा-गा, कुछ-कुछ, कमोवेश।

थोतरी - स्त्री गाल, थूथनी। थोताड - न. ढकोसला; पाखंड, ढोग, दिवावा; मक्कारी।

थोपटणें - क्रि स १ थपकना, थपकियाँ देना। २ नहलाना। ३ फुसलाना।

थोपणें - क्रि. अ थमना, रुकना, रोका जाना।

थोपणें, थोपविणें - क्रि स १ रोकना, थामना। २ मदद करना।

थोषाड - न गाल, मुँह, थूथन, थोवडा। मु० - फोडणें - १ कस कर तमाचा जडना, थपड लगाना। २ सबक सिखाना। ३ अपमानित, जलील करना। - रंगविणें - जोर से तमाचा मारना।

थोर - वि श्रेष्ठ, बडा, महान्, वुजुर्ग, पूजनीय। - लोक - पु बहु १ बडे लोग। २ अधिकाारी, अफमर। - मोठा - वि बडा, कुलीन, ऊँचे खानदान का। - वट - वि १ वडा-सा। २ कुलीन। [बडा।

थोरला - १ वि बडा। २. उम्र में थोरवी - स्त्री वडप्पन; महानता, अजमत, वुजुर्गी।

थोराड - वि वडा, मोटा-  
ताजा, हट्टा-कट्टा, उम्र के

लिहाज से छोटा होते हुए भी वडा  
दिखाई देने वाला ।

थोरी, थोरीव - छी वड-  
प्पन, महानता, श्रेष्ठता ।

## द

द - मराठी वर्णमाला में त-  
वर्ण का तीसरा वर्ण ।

दग - वि [ फा ] १. व्यस्त,  
मशगूल, कार्यरत । दग, हैरान,  
चकित, हक्का-वक्का ।

दंग - पु. कागज की लुगदी  
वनाने की ढेंकली ।

दगल - छी [ फा ] १ हुल्लड,  
दगा-फसाद, ऊधम, बलवा । २  
दगल, मजमा, समूह, भीड । ३  
कुश्ती आदि की प्रतिद्वंद्विता,  
अखाडा ।

दगा - पु. १ दगा, झगडा -  
फसाद, बलवा, उपद्रव, उत्पात ।  
२ हो-हल्ला; शोरगुल, कोलाहल ।  
-धोपा-पु झगडा-फसाद, हुल्लड,  
बलवा । -मस्ती - छी गुत्यमगुत्या,  
मिडत, धीगामुश्ती ।

दगखोर - वि दगई, दगा  
करने वाला, फमादी, लडाका ।

दड - पु १ (हात) बांह,  
बाज्र, हाथ, भुजा । २ (व्यायाम)  
डड । ३ (शिक्षा) दड, जुरमाना ।  
४ डडा, सोटा । ५ पुस्ता,  
बांध । ६ वस्त्र के दो टुकडो को  
जोडने के लिए की जाने वाली  
सिलाई । ७ दड, साठ पल, २४  
मिनट का समय । - नीति - छी  
१ दडनीति, शत्रुओ या अपराधियो  
को दड देकर वश में रखने की  
नीति । २ दड विधान, सजा का  
कानून । - फुगडी - छी एक दूसरी  
की बांह पकड कर नाचना-फुदकना  
(लडकियो का एक खेल) मु  
- थोपटणें - १ ताल ठोकना, खम

ठोकना । २ लडने के लिए लल-  
कारना । - देणें - सजा देना;  
खबर लेना । - भरणें - जुरमाना  
देना, अर्यदड चुकाना ।

दडक - पु. १ नियम, कायदा,  
कानून । २ रिवाज, प्रथा, रीति,  
पद्धति ।

दडणे - क्रि १ दडित करना,  
दड, सजा देना । [ प्रणाम ।

दंडवत - न दडवत्, साष्टांग  
दडा - पु. डडा, सोटा, लाठी ।

दडायमान - वि दडायमान,  
जो डडे की तरह सीधा स्थित,  
फैला हुआ हो ।

दडिया - पु डेंडिया; एक  
किस्म की धोती या साडी, ऐसी  
साडी जिसपर पडी धारियो के  
रूप मे गोटे टेंके हो ।

दडी - पु १ दडी, दडधारी  
सन्यासी । २. द्वारपाल । [ चोली ।

दडी - छी आधी बांहो वाली  
दडी - छी डौंडी, झोली जैसी  
एक पहाडी सवारी । [ लाठी ।

दडुका - पु डडा, सोटा,  
दडुकेशाही छी डडे के बलपर  
चलने वाला शासन, लाठी का  
राज, अत्याचार । [ लट्ठवाज्र ।

दडुक्या - वि लठमार,  
दडेली - छी जवर्दस्ती,  
जुलम, अन्याय, अत्याचार ।

दत - पु १ दत, दांत । २  
हाथी का दांत ३ पर्वत का शिखर ।  
- कथा - छी दतकथा, कि-  
वदती, जनश्रुति । - धावन - छी  
दतधावन, दतमार्जन, दांत साफ

करने का काम; दातोन । - मजन -  
न दतमजन, दांत साफ करने की  
बुकनी । - वैद्य - पु दांतो का  
डाक्टर ।

दताळे - न हेगा, पटेला ।  
दंताळ्या - वि दंतुला,  
खोंगहा, दँतैला, खाग वाला ।

दती - वि दती, दांत वाला ।  
- पु हाथी । - छी कधी ।

दतुर - वि १ दतुर, ददाने  
दार, ऊवड - खावड । २ दे  
'दताळ्या' ।

दपति - तो - छी दपती, पति-  
पत्नी, स्त्रीपुरुष, जोडा ।

दभ - पु. दभ, डोग, पाखड,  
आडवर, ढकोसला ।

दव - न ओस, शवनम, पाला ।  
दश - पु. १ दश, डक, । २

कीना, द्वेष । ३ चुभने वाली  
वात ।

दऊत - छी [ अ 'दवात' ]  
दवात, स्याही रखने का बरतन,  
मसिपात्र ।

दक्ष - वि १ दक्ष, चतुर,  
होशियार । २ निपुण, माहिर ।

दक्षता - छी सावधानी,  
खबरदारी, एहतियात ।

दक्षणा - दे 'दक्षिणा' ।  
दक्षिण - छी १ दक्षिण,  
दक्खिन, जनूव । २ दक्षिण पवन ।

- वि १ दक्षिण, दाहिना,  
दायाँ । २ निपुण, पटु । ३  
अनुकूल । - चा दिवा - पु कुल-  
वोरन, कुलकलक । - दरवाजा -  
पु, - द्वार - न १ कारागृह ।

२. यमलोक । ३. दक्षिण की तरफ का दरवाजा ।

दक्षिणा - स्त्री १ दक्षिणा, यज्ञ, दानकर्म आदि के अंत में ब्राह्मणों और पुरोहितों को दिया जाने वाला द्रव्य । २ रिश्वत ।

दखल - पु. [ अ 'दखल' ] १ दखल, प्रवेश, घुमना । २ हस्तक्षेप, दस्तदाजी । ४ जानकारी, सूचना । - वि ज्ञात; मालूम, परिचित । - गिरी - स्त्री १. जानकारी, परिचय । २. निगरानी, देखरेख । ३. हस्तक्षेप, दस्तदाजी । मु० - घेणें - व्यान देना, गौर करना, टीपना, लिखना । [ दक्षिणी भारत ।

दखन - पु. दकन, दक्खिन, दगड - पु १ पत्थर, चट्टान, शिला । २ मिल्ली । - वि बुद्ध, मदबुद्धि । - अव्य. खाक, पत्थर, कुछ नहीं । - अन् घोडे - अव्य खाक, कुछ नहीं । - चौथ - स्त्री डेलाचौथ, भादो सुदी चौथ (गणेश चतुर्थी) जब चंद्रमा को देखने पर लोग हमारे के घर पर डेला फेंकते हैं । - फूल - न पत्थर फूल, छरीला । - फेंक - स्त्री पथराव । - फोड - स्त्री कठिन, तकलीफ - देह काम । - फोड्या - वि पु. पत्थरफोडा, सगतराश । दगडाची छाती - स्त्री पत्थर की छाती, मजबूत दिल । मु० - टाकून पाहाणें - १ अदाजा लेना । १ थाह लेना, गहराई का अदाज लगाना । दगडाखाली हात सापडणें - पत्थर तले हाथ आना या दवना; भारी विपत्ति में पड जाना काढून घेणें - पत्थरतले से हाथ निकालना, मुमी - वत से होशियारी के साथ छुटकारा

पाना । दगडाची साल काढणें - पत्थरों को जोक लगाना; पत्थर पर दूब जमाना, असभव या दुःसाध्य कार्य करना । दगडाम पाक्षर फुटणें - पत्थर का पमीजना या पिघलना, निष्ठुर हृदय में दया का मचार होना । फहा० दगडाचें नांव घोडा, घोड्याचे नाव दगड - दोनो एक हूं । दगडापेक्षा वोट मऊ - बडे सकट ने छोटा सकट अच्छा । दगडावरची रेघ - पत्थर की लकीर, अटल वात ।

दगडी - वि पत्थर का, सगीन, ठोम । - स्त्री १ पथरी, पत्थर की कुडी । २ स्त्रियों की छाती में होने वाली गांठ । - कोळसा - पु. पत्थर का कोयला, खनिज कोयला । - चौथ - दे. 'दगड चौथ' - सुपारी - स्त्री कडी सुपारी । [कूफ ।

दगड्या - वि बुद्धू, वेव-दगदग - स्त्री तकलीफ, परेशानी; कष्ट, झंझट, जजाल ।

दगल - स्त्री [ फा. 'दगल' ] दगा, कपट, फरेव, धोखा, छल । - बाज - वि. दगाबाज, कपटी, धोखेबाज । - बाजी - स्त्री विश्वासघात, दगाबाजी, धोखेबाजी, छल, कपट ।

दगा - पु. [ फा. 'दगा' ] १ दगा, छल, कपट, धोखा, फरेव, विश्वासघात । २ खतरा । - फटका - पु. छलकपट, धोखा । - बाज, - बाजी - दे 'दगलबाज', 'दगलबाजी' । मु० - देणें - दगा करना, धोखा देना ।

दगावणें - क्रि अ. [ फा. 'दगा' ] मरना, दुर्घटना का शिकार होना ।

दगध - वि दग्ध, जला हुआ ।

- भू धोरण - न. सर्वशरणाति; स्वभूमिध्वंस नीति ।

दचकणें - क्रि अ. १ चींकना । डरना । २ भटकना ।

दचका - पु. १ चींक; चींकना । २ दचका, धक्का, झटका । दचकला - पु. गोडवांस, पशु के पांव में बांधने की रस्ती ।

दचकविणें - क्रि स चींकाना, धवडाना ।

दटावणी - स्त्री [ क. 'दट्टिमु' ] डांट, डपट; घांस; फटकार ।

दटावणें, दटाविणें - क्रि स [ क. 'दट्टिनु' ] डांटना, धमकाना, फटकारना, घुडकाना, डपटना ।

दट्ट्या - पु १ टट्टा; डाट, काग । २ डांट, फटकार, घांस । ३ मुपत्ती; चकली, बबे की लाठ, 'पिस्टन' । [ छुपना, लुक्ना ।

दडणें - क्रि अ छिपना, दडदड - डा - अव्य १ दना-दन, लगातार, जोर से । २ दे 'दुडुदुडु' [ भार, बोझ । २ रोव ।

दडप, दडपण - न १ दवाव, दडपणें - क्रि स दवाना, भार या जोर पहुंचाना । २ दबोचना । ३ दमन करना । ४ रोव जमाना, काबू में रखना । ५ शात करना, जोर पकडने न देना । ६ विवश करना । ७ छिपाना, छुपाना । ८ घुसेडना । ९ भकोसना, बहुत खाना ।

दडपशाही - स्त्री दमनचक्र, जुल्मी सितम, अत्याचारपूर्ण शासन ।

दडपश्चमे - अव्य. गप हांक कर, ऐन वक्त पर जो सूझे वह कह कर, झूठसच, झूठ और सच की खिचड़ी करके ।

दडपादडपी - छी दवाना,  
छिपाना, मुंहभराई ।

दडपून - अव्य. दवा कर, ठूस  
कर, डट कर, वेस्त्रिज्ञक। - जेवणें -  
डट कर खाना। - निजणें - लवी  
तानना, बहुत-सा कपडा ओढ कर  
सोना। - भरणें - ठूस ठूस कर  
भरना। - सांगणें - झूठ को सच  
बता कर कहना, वेस्त्रिज्ञक कहना।

दडप्या - वि १. दवाने वाला,  
दवग। २ झूठो का वादशाह।

दडविणें - क्रि स छिपाना,  
छुपाना; लुकाना। [ मजवूत।

दडस - वि ठोस, ठस, गफ,  
दडा - पु १ डट्टा, डट।  
२ कान आदि मे भरा हुआ मैल।  
३. छिपना। मु० - बसणें - कान मे  
मैल भर जाने से सुनाई न देना।

दडी - छी १ छिपना। २  
डुवकी। मु० - मारणें - छिप जाना;  
गायब, चपत होना।

दणकट - वि १ हट्टाकट्टा,  
मजवूत। २ मोटा-क्षोटा, ठस।

दणकणें - क्रि स वुरी तरह  
पीटना।

दणकन - अव्य. दनादन, जोर  
से; धप से, धम से, घडाम से।

दणका - पु १ घप्पा, थप्पड,  
तमाचा। २ धमाका। ३. भीड-  
भडक्का। ४ जोर। ५ ठाट,  
रोव; शान। मु० - उडविणें - जोर  
-शोर से, ठाट-वाट के साथ सपन्न  
करना।

दणकावणें, दणकाविणें - क्रि  
स १ वुरी तरह पीटना, धौल  
जमाना, मरम्मत करना। २  
धमाका करना। ३. दे 'दणका  
उडविणे'।

दणगट - दे. 'दणकट'।

दणदण - णा - अव्य दना-

दन। दे. 'दणकन'।

दणदणाट - पु दनदनाहट,  
'दनदन' की आवाज। दे. 'दणका'।

दणदणीत - वि १. गानदार;  
ठाटवाट का। २ करारा, जोर-  
दार।

दणाणणे - क्रि अ. १. दन-  
दनाना, गूजना। २ डर जाना,  
दहलना।

दणादण - णा - अव्य. दना-  
दन, धमाके, जोर-शोर के साथ।

दत्त - पु दत्त, दत्तात्रेय। २  
नसीब; प्रारब्ध। ३ दान, देन।  
-वि १. दिया हुआ। २ अचानक  
आया हुआ। - विधान - पु गोद  
लेने का सस्कार। मु० - म्हणून

उभें राहाणें - अचानक आ धमकना,  
ऐन वक्त पर टपक पडना।

दत्तक - वि दत्तक, मुतवन्ना,  
गोद लिया हुआ। - पुत्र - पु.  
दत्तक पुत्र, लेपालक, मुतवन्ना।  
मु० - घेणें - गोद लेना।

ददात - छी १ कमी, त्रुटि,  
अभाव। २ आपत्ति; कष्ट।

दपटशा - पु. डाँट, धमकी,  
डर; धौस।

दपतर - न [अ 'दपतर']  
१. वस्ता, बैठन। २. दपतर,  
कार्यालय। ३. लेख - सग्रह।

दवकणे - क्रि अ. १ दवना।  
२ दवकना, डर जाना। ३.  
छिपना।

दवडगा - पु. १ कामो की  
भीड, बोझ, भार। २ लोगो का  
वडी सख्या आना जाना।

दवणें - क्रि अ. १. दवना।  
२. झुकना। ३ दवकना; छिप कर  
बैठना।

दवदवा - पु [अ 'दवदव']  
१ दवदवा, रोवदाव, आतंक,

प्रभाव। २. शान; ठाट।

दवदवीत - वि १. दवने  
वाला, पिलपिला। २. शराबोर;  
गीला। ३. भरा हुआ। [२. डाँटना।

दवविणें - क्रि स. १ दवाना।  
दवा - पु. दवक, घात। मु० -

घरणे, - घरून वसणें - घात म  
वैठना, दवक वैठना, घात  
लगाना, रहना।

दवाव - पु १ दवाव, चाँप,  
दाव। २ प्रभाव; असर।

दवावणें - क्रि स १ दवाना।  
२ डाँटना, धमकाना। ३ निकाल  
देना।

दवेल - वि दवल, दव्यू; दव-  
ने वाला।

दम - पु. [फा] १. दम, श्वास,  
साँस। २ पल, लहमा, क्षण।  
३ अहकार, धमड। ४. जान,  
जिंदगी। ५ जोर, सामर्थ्य;  
शक्ति, ताकत। ५. साँस रोकने  
की सामर्थ्य। ६ हाँफा, हाँफने की  
क्रिया। ७ हिम्मत। ८ धीरज। ९.

दम, हुक्के आदि का कश। - छाट  
- छी पु १ दम साधना; साँस

रोकना। २ दमखम। - दाटी -  
छी धौस, दमपट्टी, डाँट - डपट।

- दार - वि १ दमदार, मजवूत,  
दृढ, जिसमे जीवनशक्ति अधिक

हो। २ गीला, नम। ३. धीरे -  
धीरे जलने वाला (कोयला)। ४.

सहिष्णु। ५ धीर, धीरजमान, धैर्य-  
वान्। मु० - उखडणें - साँस उख-

डना, दम फूलना; हाँफना, दम  
टूटना। - कोडणे - दम अटकना,

साँस रुकना। - खाणे - १. दम  
मारना, थकावट दूर करने के लिए

थोड़ी देर रुक जाना, सुस्ताना। २.  
धीरज रखना। ३ रुना, ठह-

रना। - घेणे - दम मारना,

सुस्ताना। - छाटणे - दम साधना, साँस रोकना। - टाकणें - १ हिम्मत, धीरज छोडना। २ सुस्ताना। - देणें - १ घमकाना, घमकी देना, डाटना। - घरणें - १ दम साधना, साँस रोकना। २ धीरज रखना। ३. रुकना, प्रतीक्षा करना। ४ सुस्ताना। - भरणें - दे 'दम देणे'। - मारणें - दम लगाना; कश लेना, धुआँ खीचना (बीडी आदिका)। - लागणें - दम फूलना, साँस फूलना, हाँफना। - सुटणें - हिम्मत छूटना।

दम - पु. दम, दमन, निग्रह।  
दमट - वि नम, गीला, तर।

दमडी - स्त्री दमडी, पैसे का चौथा (या आठवाँ) हिस्सा।  
- चा - वि हलका, घटिया, दमडी के तीन। [छोटी वैलगाडी।

दमणी - स्त्री एक प्रकार की दमणे - क्रि अ १ थकना, श्रम के कारण शिथिल होना, श्रात होना। २ तग आना।

दमबिणे - क्रि स. १. थकाना।  
२ परेशान, तग, हैरान करना।

दमा - पु [फा 'दम'] दमा, दमे का रोग, श्वासकास।

दमाण - न - न १ पाल का रस्सा, पाल का पिछला हिस्सा।  
२ हवा के सामने का भाग।

दमेकरी - वि [फा 'दम'] दमी, दमा रोग से ग्रस्त।

दया - स्त्री दया, करुणा, अनुकपा, रहम। - माया - स्त्री दया, रहम। [रहमदिल।

दयाळुळू - वि दयाळु, कृपालु, दर - पु दर, भाव; निखें।

दर - वि [फा] हर, प्रत्येक।  
- कूच, - मजल - अव्य दरकूच; पडाव बदलते हुए, बराबर आगे

वढते हुए। - डोई - अव्य. प्रति-व्यक्ति, फीकस। - महा - अव्य हरमाह, प्रतिमास। - रोज - अव्य. हररोज, प्रतिदिन। - शेंकडा - अव्य. प्रतिशत, फीसदी। - साल - अव्य. हरसाल, प्रतिवर्ष।

दरकदार - वि [अ 'दर्क'] अधिकारी; ओहदेदार।

दरकार - स्त्री [फा] १ जरूरत, परवाह। २. सवध; प्रयोजन, मतलब।

दरखास्त - स्त्री [फा 'दर-खास्त'] १ दरखास्त, प्रार्थना-पत्र, अर्जी। २ नालिख, फरिवाद।

दरगा - पु [फा. 'दरगाह'] दरगाह, मकबरा, मजार।

दरज - दे 'दर्ज'।

दरड-डी - स्त्री कगार, करारा, नदी का ऊँचा किनारा।

दरडावणें, दरडाविणें - क्रि स घमकाना, डाटना।

दरद - स्त्री पु. [फा 'दर्द'] १. दर्द, दुख, व्यथा, बीमारी। २. चिंता; लगन। ३. सौंदर्य; सार; निचोड। - वंत - वि दर्द-मंद; चिंता रखने वाला, फिकर करने वाला, दयाळु।

दरदर - रां, दरदरहन - अव्य बहुत जोर से, बहुत ज्यादा, भरपूर।

दरदरीत - वि पतला, दरदरा।

दरदी - दे 'दर्दी'।

दरदार - पु [फा] दरवार, राजसभा।

दरम्यान - अव्य [फा. 'दर-मियान'] दरमियान, बीच में, इस बीच। [डाकाजनी।

दरवडा - पु डाका; डकैती, दरवडेखोर - पु डाकू;

लुटेरा। [सुगध, खुशबू; नीम्र गध।  
दरवळ - पु. महक; गमक,  
दरवळणें - क्रि अ महकना;  
गमकना, खुशबू का फैलना।

दरवाजा - पु. [फा. 'दर-वाजा'] दरवाजा; द्वार, किवाड।

दरवान - पु. [फा 'दरवान'] दरवान, ड्योडीदार, चौकीदार।

दरवेशी - पु. [फा 'दरवेश'] १ दरवेश, फकीर, मिखारी।  
२ मदारी।

दरा - पु. [फा. 'दर'] दर्रा, घाटी, उपत्यका, दो पहाडों के बीच से होकर जाने वाला तग रास्ता।

दरारा - पु धाक; रोव, दव-दवा, आतक। मु० - बसणें - धाक जमना। - बसविणें - सिक्का जमाना, धाक जमाना, साका चलाना, दवदवा कायम करना।

दरिद्र - न १. दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी; कगाली। २. अभाव। - नाम सवत्सरे - अव्य. फटे हाल। - न बहुत बुरी हालत, कगाली। - नारायण - पु. १ दरिद्र नारायण, कंगला। २. गरीबों पर दया करने वाला, गरीबों का हिमायती। ३. दरिद्र-रूप नारायण। ४. महात्मा गांधी।

दरिद्री - वि दरिद्र, निर्धन, गरीब, कगाल। - नारायण - पु. दे 'दरिद्रनारायण'।

दरिया - दे. 'दर्या'।

दरी - स्त्री १ दर्रा, घाटी; दे. 'दरा'। २ दरार। ३ खाई।

दरोगा - पु. [फा 'दारोग'] १ दारोगा, निरीक्षक, निगराँ। २ सव इन्स्पेक्टर, पुलिस, धानेदार।

दरोडा; दरोडेखोर - दे 'दर'

घडा', 'दरवडेखोर' ।

दरोबस्त - वि [फा] सब, तमाम, कुल, सारा, समूचा ।  
- अव्य. विलकुल, पूरी तरह, कतई ।

दर्ज - स्त्री [फा. 'दर्ज']  
१. दर्ज, दरज, दरार, चीर, इंटो आदि की जोड़ाई का सधि-स्थान, जोड़ । २. टिपकारी । ३. फूट । मु० - करणे, - भरण - टिपकारी करना, टीपना, चूने या सीमेट से दीवार सविपूरण करना, दीवार इत्यादि में कच्ची से टीप करना, जोड़ भरना, इंटो के जोड़ो पर मसाले की लकीर लगाना ।

दर्जा - पु [अ 'दरज']  
दर्जा, पद, स्थान, प्रतिष्ठा, स्थिति, हैसियत, श्रेणी, स्तर ।

दर्दी - [फा. 'दर्द'] जान-कार, माहिर ।

दर्प - पु १ दर्प, गर्व, अह-कार, घमंड । २ उग्र गव, तेज बू । ३ धाक, दबदबा । ४ प्रतिविंब ।  
दर्पण - न दर्पण, आईना; शीशा ।

दर्भ - पु. दर्भ, कुश, डाम ।  
दर्भ्या - वि पु. १ अत्येष्टि कराने वाला ब्राह्मण । २. असगु-निर्या, मनहूस । [म्यान']

दर्भियान, दर्भ्यान - दे. 'दर-बर्षा - पु [फा] दर्या, दरिया, समुद्र, सागर । - घर्दी - पु. मुल्लाह; नाविक । फहा० दर्या में खसखस - अँट के मुँह में जीरा ।

दर्शक - वि १ दिखाने वाला, बताने वाला, परीक्षक, जानकार ।  
-सर्वनाम - पु. वर्णनात्मक सर्वनाम ।  
दर्शन - न १ दर्शन, अव-

लोकन । २. दर्शनशास्त्र; तत्व-ज्ञान । ३. स्वप्न । ४. भेंट, मुला-कात । ५. दृष्टि । ६. झाँकी ।

दर्शनी - वि सामने का, आगे का । २. दिखावटी । ३. दर्शनीय; मनोहर । - हुडी - स्त्री दर्शनी हुडी, ऐसी हुडी जिसका भुगतान तत्काल करना पड़े ।

दर्शविणें - क्रि स. १ दिखाना । २ बताना, सुझाना ।

दल - न १ दल, पत्ता । २. फूल की पैखुडी । ३. सेना, फौज का दस्ता । [वाली ज़मीन ।

दलदल - स्त्री दलदल, कीचड़  
दलाल - पु [अ. 'दलाल']  
दलाल, दल्लाल, विचवई, आढ-तिया, आढती, 'एजेंट' ।

दलाली - स्त्री [अ 'दलाल']  
१. दलाली, दल्लाली, आढत । २. आढत का, दलाल का काम । ३. दलाल के काम की उजरत ।

दलित - वि दलित, रौंदा, कुचला, दबाया हुआ । - वर्ग - पु. दलित वर्ग, अछूत; अस्पृश्य ।

दवंडी - स्त्री १ डौंडी, ढिंढोरा । २. वदनामी । मु० - देणें, - पिटणे - ढिंढोरा पीटना, घोपणा करना ।

दवडणें - क्रि स १ गँवाना, खोना । २. दाँडाना, भगाना । - क्रि अ दौडना ।

दवणा - पु. दवना, दौना ।  
दवा - स्त्री [अ] दवा; औषध, इलाज, उपचार, चिकित्सा । - खाना - पु. दवा-खाना, औषधालय । - दारू - स्त्री दवादारू, इलाज, दवादरपन, चिकित्सा ।

दश - वि दश, दस, १० ।  
- प्रथी - वि जिसने वेद, सहिता, ब्राह्मण आदि दस ग्रंथों का अध्ययन

किया हो; महापंडित । - विशा - स्त्री बहु. दस दिशाएँ । - अव्य. सब ओर; चारो तरफ । - मानपद्धति - दे 'दशाशपद्धति' ।

दशक - न दशक; दहाई, दशी, दस का समाहार, दस वर्षों का समाहार ।

दशमी - स्त्री १. दशमी, दसवी तिथि । २. पानी के वजाय दूध या फल का रस डालकर बनायी हुई रोटी ।

दशागुलें - न बहु दशागुल; जो माप में दस अगुल का हो ।

दशांतला - वि जिसका सूतक दस दिन तक रखना पड़े ।

दशांश - पु १ दशभाग; दसवाँ भाग । २. दशमलव । - अपूर्णाक - पु. दशमलव, दशमिक भग्नाश । - पद्धति - स्त्री दशमिक प्रणाली; दशमिक पद्धति ।

दशा - स्त्री १ दशा, स्थिति, हालत । २. ज्योतिष के अनुसार ग्रहविशेष का भोग्य काल । ३. दुर्दशा, बुरी हालत ।

दशी - स्त्री दशा; दमी, छीर, कपड़े के सिरे पर का सूत ।

दस - वि दस, १० । - नहाण, - न्हाणें - न विवाह के दसवें दिन बरकन्या को नहलाना । फहा० दसकी लकड़ी एक का बोजा - दस जने की लाठी एकजने का बोज; सब लोग थोड़ा-थोड़ा सहयोग दें तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है । [दशमी ।

दसरा - पु. दशहरा, विजया-दस्त - पु [फा] १ दस्त, हाथ । २. कर, लगान । ३. कब्जा, अधिकार; सत्ता । ४. (पत्त्यातील) हाथ, दाँव । ५. कैद । ६. पतला पाखाना । - ऐवज -



यु दस्तावेज, तमस्सुक, तहरीर;  
प्रलेख, किवाला; सनद। मु०-  
करणे - कैद करना, वदी बनाना,  
गिरफ्तार करना।

दस्ता - यु [फा. 'दस्त'] १.  
दस्ता; औजार आदि की मूठ या  
वेंट। २ खरलक, मुसल। ३  
दस्ता, कागज के चौबीस तस्तो  
की गड्डी। ४ सैनिकों की टुकड़ी।

दस्तायवज - दे 'दस्तऐवज'।

दस्तुरखुद्द - वि [फा + थ]   
स्वलिकित, अपने हाथ से लिखा  
हुआ। - यु. निजी हस्ताक्षर, दस्त-  
खत।

दस्तुरी - छी [फा 'दस्तूर']  
१ दस्तुरी, कमिशन, दलाली। २  
चुकी। २ चुगीघर।

दस्तूर - यु [फा] १ दस्तूर;  
परपरा, रिवाज। २ चुगी। ३  
नियम, काइदा। ४. हस्ताक्षर;  
दस्तखत। ५ नमूना, 'फॉर्म'। ६.  
इजाजत, अनुमति। - खुद - दे  
'दस्तुरखुद्द'।

दस्तैवज - दे. 'दस्तऐवज'।

दह - न दहाई, अको की  
गिनती करते समय दाहिनी ओर  
से दूसरा स्थान।

दहन - न १ दहन, जलाना।  
२ दाह, दाहकर्म, शवसस्कार,  
मुर्दा जलाना। - क्रिया - छी  
दाहकर्म, शव जलाने का कृत्य।

दहशत - छी [थ 'दहशत']  
दहशत, आतक, खौफ; डर।  
- वादी - वि आतकवादी, दह-  
शतपसद।

दहा - वि दस, १०।  
- जर्णोंसारखी - वि साधारणतया  
अच्छी (लडकी)। - लोकांत -  
अल्प. जनसमुदाय में, समाज में।  
दाहवर - न यु. ओस, पाला,

हिम।

दहीं - ही - न दही। मु० - खाऊं  
कों महीं खाऊं करणें, दहींमहीं करणें  
- १ पसोपेश में पडना। २ अगर-  
मगर करना; टालमटोल करना।

दळ - न १. दे 'दल'। २  
गूदा, मग्न, मीगी। ३ कवच,  
छिलका। - दार - वि १ गूदेदार  
२. मोटा-ताजा। - भार - यु.  
दल-त्रादल, बडी सेना।

दळण - न १. पिसाई,  
पीसना। २ पिसान, आटा।  
३ पीसने का अनाज। ४ परि-  
चय। - फांडण - न पिसाई-  
कुटाई। - वळण - न १ परि-  
चय, जान पहचान। २ यातायात;  
सचार, परिवहन। - ०मंत्री -  
सचारमत्री। [पीसने की उजरत।

दळणावळ - छी पिसाई,  
दळणें - क्रि स पीसना।

दळभद्रा - द्रचा -; दळुवाई;  
दळधा - वि १ डरपोक, कायर।  
२ अभागा, बदनसीव, मनहूस।  
वांग - न अरण्य; जगल। -  
छी १. डाल, टहनी, शाख। २.  
छलांग।

दांड - यु. १. डडा, लाठी;  
सोटा। २. गतका। ३. डांड;  
मैंड, डांडा। ४, पहाडियों की  
कतार। ५. एक प्रकार की मोटी  
सिलाई। ६. चौबीस हाथ का परि-  
माण। - पट्टा - यु पटा, गतका  
- फरी।

दांडकें - न डडा, वांस का  
छोटा टुकड़ा। [उजहु।

दांडगट - वि मुस्टडा, उईंड;  
दांडगा - वि १ वडा, भारी,  
जवर्दस्त। २ मोटा - ताजा, हट्टा  
- कट्टा। ३. मजबूत। ५. मुस्टडा,  
उपद्रवी, धीगरा, ऊवमी,

उजहु, गुडा। ५. जिद्दी।

दांडगाई - छी, दांडगावा - यु.  
धीगाधीगी, धीगामुश्ती, शैतानी,  
उपद्रव, शरारत, जुल्म, जव-  
र्दस्ती।

दाडगेला - वि १ वडा - सा,  
मोटा - सा। २. दे 'दाडगा'।

दांडा - यु. १. डडा, सोटा,  
वांस आदि का लवा टुकड़ा। २.  
दस्ता, मूठ, वेंट। ३. रीढ़। ४.  
समुद्र आदि में उभरा हुआ टीला।

दांडी - छी १ डडी, डाँडी,  
छोटी, सीधी और पतली लकड़ी।  
२. पालकी की डडी, पालकी। ३.  
अलगनी, कपडे सुखाने के लिए  
वाँधा हुआ वांस। ४ डडी; तराजू  
की लकड़ी, तराजू। ५ छते आदि  
में लगी हाथ में पकड़ने की छडी।  
मु० - मारणें - १. डाँडी मारना।  
कम तोलना। २ अटी मारना,  
उडा लेना। ३ नागा करना। ४.  
चपत, गायब होना।

दाडू - यु. डडा, वल्ला।

दांडेपुनव - न. माघ की  
पूर्णिमा।

दांडोरा - यु. १ दिंडोरा, २  
प्रसिद्धि, ख्याति, डीडी।

दांत - १ दांत; दत। २  
ददाना, आरी, कधी आदि का  
दांत। ३. हल का फाल, कुसी।  
४ कीना, द्वेष; डक; जलन। -  
कोरणें - न खरका, दांत खोदने  
का तिनका। - खिल्ली, - खीळ -  
छी घिग्धी बँवना, दांत बैठना।  
- पडका - वि खोडा; जिसका  
दांत टूट गया हो। - वण - न दे  
क्रम में। मु० - असणें - खार खाना;  
जलना; द्वेष करना। - उठणें -  
काटने से दाँतों का चिह्न पडना,  
निशान होना। - भोठ खाणें

- चावणें - दांत पीसना, चबाना; ओठ काटना, बहुत अधिक क्रुद्ध होना । - काढणें - दांत काढना, वतीसी दिखाना, दांत निकालना, निपोरना, व्यर्थ हँसना, खीसे निकालना, काढना, निपोरना, वेढगी हँसी हँसना, गिडगिडाना । - कोरणें - दांत कुरेदना, खोदना । - कोरून पोटा भरणे - थूको सत्तू सानना । - खणें - १ दांत किटकिटाना, बजाना । २. दे 'दात ओठ खाणे' । - खिळी वसणें, - खीळ वसणें - १ दांत बँठना, ऊपर - नीचे के दांतो का इस प्रकार सट जाना कि मुँह न खुल सके । २ घिग्घी बँध जाना, निरुत्तर होना, जवान मे ताला लगना । - घशात घालणें - दांत खट्टे करना, दांत तोडना, मुँह की खिलाना, आँवे मुँह गिराना । - ठेवणें, धरणें - खार खाना, कीना रखना । - दाखविणें - दे. 'दात काढणे' । - पडणें - दांत खट्टे होना, दात किरकिरे होना, मुँह की खाना, वतीसी झडना । - पाडणें - दांत तोड देना, दे 'दात घशात घालणे' । - वठणें - वददुआ का असर होना, जवान से निकली अमगल वातो का सत्य हो जाना । - वासणें - दांत निकालना, टें बोल देना, - विचफणें - दे 'दात काढणे' । दाताच्या कण्या करणें - गिड गिडाना, लाचारी से बार-बार कहना । दांतावर मारायला पैसा नसणें - दांत कुरेदने को तिनका न रहना, फूटी कौडी न होना । दातों तृण धरणें - दांतो मे तिनका पकडना, हार मानना, धरण मे जाना । कहा० दात आहेत तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दात नाहीत

- दांत ये तो चने न पाये, चने मिले तो दांत गँवाये । दात कोरून पोटा भरत नसते - ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, थूक से सत्तू नहीं सनता । दातरा - पु १ दांता, ददाना । २ चाकू, छुरी आदि की धार का टूट जाना । - वि दंतैला, खँगहा, दगुर ।

दातरी - छी १ दंतुरिया, दँतिया, बच्चो के नये-नये छोटे-छोटे दांत । २ कधी, जिसके ददाने बीच-बीच में टूट गये हो । ३ बूढापे में निकलने वाला एक दांत ।

दातवण - न. १. दतौन, दानुन; दातौन । २ मिस्सी ।

दाता - पु दांता, ददाना; आरा, कधी आदि का दांत ।

दाताड - न, दाताडी - छी वतीसी, वत्तीसो दांत ।

दांताळे - न कृषि का एक औजार जो ददानेदार होता है ।

दापत्य - न १ दपती, पतिपत्नी । २ दापत्य, पतिपत्नी का सबध । [कपटी ।

दांभिक - वि दांभिक, ढोगी;

दाई - छी १ दाई, धाय, धात्री, उपमाता, अन्ना; दूध-पिलाई; आया । २ बच्चा जनाने वाली स्त्री, प्रसाविका, धाई, दाई, 'मिडवाइफ' । ३ परिचारिका, 'नर्स' ।

दाईज - वि १ दायद, दाय का अधिकारी, सपिंडसवधी । २ शत्रु; दुश्मन ।

दाक्षिणात्य - वि दाक्षिणात्य, दकनी, दक्षिणी भारत का ।

दाक्षिण्य - न १ दाक्षिण्य; सरलता । २ अनुकूलता, उदारता । ३. सम्यता, शराफत । ४. निपुणता, पटुता, होशियारी ।

दाखल - वि [अ 'दाखिल'] १ दाखिल, अदर पहुँचा हुआ । ३ दर्ज किया हुआ, जमा किया हुआ । ४ भरती किया हुआ । मु० - होणें - १ दाखिल होना, पहुँच जाना; हाजिर होना । २ भरती होना ।

दाखला - पु [अ. 'दाखिल'] १ दृष्टात, उदाहरण, मिसाल, नमूना । २ प्रत्यक्ष अनुभव; प्रतीति । ३. प्रथा, रिवाज । ४ दाखिला, प्रवेश । ५ प्रमाणपत्र, सबूत, सनद । ६ प्रशसा-पत्र । मु० - घेणें - सबक लेना । - पटणे - सही निकलना । - येणें - सावित, प्रमाणित होना ।

दाखविणे; दाखिवणे - क्रि स १. दिखाना, बताना । २. समझाना । ३. पेश करना ।

दागदागिने - पु बहु गहने - कपडे, अलकार, आमूपण; जेवरात ।

दागिना - पु. गहना; जेवर, अलकार, आमूपण ।

दाजी - पु १. दादाजी, उम्र में बडा व्यक्ति । २ जेठ, पति का बडा भाई ।

दाट - वि १ घना, गाढा । २ ठोस, गफ, ठस । ३ तग । ४ अखड, अटूट । ५ गहरा, घनिष्ठ । - पु. डट्टा । - स्त्री भीड । मु० - सँत्री असणे - गहरी छनना ।

दाटण-णी - छी भीड, रेल-पेल, धक्कमधक्का ।

दाटणे - क्रि अ. १. रँधना, रुकना, अटकना, गले से न उतरना । २ भर आना । ३. तग होना । ४ अटना, आवश्यकता से अधिक होना; भीड होना । ५ बोझ से दब जाना । ६ फूलना ।

— क्रि स १. डांटना । २. दवाना ।

दाटा — दे 'दट्ट्या' ।

दाटी — स्त्री १ भीड़, धिच-  
पिच, रेलपेल, धक्कमधक्का ।

२ जमघट, जमाव, मजमा ।

३ घनिष्ठता । — दाटीनें — अव्य.

धिचपिच कर, ठसाठस भर कर ।

दाटून — अव्य. १. जानबूझ कर,

इरादतन् । २. झूठमूठ, यो ही ।

दाढ — स्त्री दाढ, चौभड़ ।

मु० — दाढेंत सापडणें — शिकजे में

फँसना ।

दाढरणें — क्रि अ पकने के  
वजाय कठिन, सख्त होना ।

दाढी — स्त्री दाढी; डाढी,  
ठुड्डी पर के वाल । — दीक्षित — वि

पु. दढियल, दाढी वाला, मुसल-

मान, मियाँभाई । मु — करना-दाढी

वनाना । — करविणें — दाढी वन-

वाना, हजामत वनवाना । — ला

कादे दाघणें — छीछालेदर करना,

थुडी-थुडी करना; दुर्गत वनाना ।

— ला हात लावणें — खुशामद

करना, गिडगिडाना ।

दाणा — पु १ दाना, अनाज

का कण । २. अनाज; गल्ला ।

३. अनार आदि का एक-एक

बीज । ४ चीनीका दाना; रवा ।

५ अदद । ६ मनका, गुरिया ।

७ (ग्रा) स्त्री की जननेंद्रिय ।

— गोटा — पु. अनाज, गल्ला ।

— पाणी — न १ दाना-पानी,

अन्न-जल, खाना-पीना । २

आजीविका । मु० दाणे टाकून

कोवडे झुजविणें — अपना दाम खर्च

करके झगडा लगाना ।

दाणा — वि [ फा 'दाना' ]

१ बुद्धिमान्, अक्लमद, होशियार;

समझदार । २ भला, अच्छा ।

दाणादाण — स्त्री [ फा. 'दान

दान' ] १. भगदड़, तितर-  
वितर । २ फँल जाना, विखर  
जाना । मु० — उडणें — तितर-वितर  
हो जाना ।

दाणी — पु १ अनाज पर का

कर उगाहने वाला । २ सरकार

को अनाज मुहैया करने वाला ।

३ कोठारी, भडारी ।

दाणी — स्त्री [ फा 'दान' ]

पात्र, वर्तन (यौगिक शब्दो मे

प्रयुक्त) । [ अत्तरदाणी = इत्रदान ]

दाणेआळी — स्त्री १. अनाज

की मडी । २ चकला, कसवी-

खाना; वेश्याओ की बस्ती ।

दाणेदार — वि दाने-दार, रवा-

दार । [ 'दाता' ]

दात-दाता — दे 'दात',

दाता — वि दाता, देने वाला,

दानी, उदार । [ उदार; दानी ।

दातार\* — वि दातार, दाता,

दाथर+ — पु १ तरह, परत,

स्तर । २ दो वस्तुओ के बीच में

रखा हुआ घास-पात । ३ ऊमस ।

४ जोडाई में प्रयुक्त चूना, गारा

आदि ।

दाद — स्त्री [ फा ] १ दाद,

न्याय, इन्साफ । २ पूछ, प्रवेश;

भेंट, मुलाकात । ३ शिकायत,

फरियाद । ४ खबर, जानकारी ।

५ सुनवाई । मु० — घेणे — १.

दाद देना, फरियाद सुन कर न्याय

करना । २ पूछना, पूछ होना ।

— न देणे — ध्यान न देना, अटल

रहना, परवाह न करना । कहा०

दाद ना फिर्याद — न्याय का अभाव,

अन्याय, अवेर ।

दादर — पु १ जीना,

सीढियाँ, सोपान । २ जीना वद

करने का दरवाजा ।

दादरा — पु १. वरतन के

मुंहपर ढक्कन या पत्ते रख कर  
उसे कपडे से बाँधना । २ झरोखा ।

३ दे 'दादर' । ४ दादरा, एक

चलता गाना, एक ताल (सगीत)

दादला — ल्या — पुपति, शौहर ।

दादा — पु १ दादा, दाऊ;

वडा भाई । २ वजुर्ग, वडा

व्यवित । ३. गुडा, गुडोका

सरदार । — गिरी — स्त्री गुडई,

गुडापन, झाँसापट्टी, दमवाजी,

वुत्ता । मु० — पुता, बाबा करणें —

१ चापलूसी, खुशामद करना २

प्यार से समझाना । कहा० दादाचे

बळ वहिनी जाणे — वडे भैया की

नब्ब भाभी जानती हैं ।

दान — न १ दान, देना ।

२ खैरात । ३ देन । ४ चौपड में

दाँव । ५ हाथी के गडस्थल से

निकलने वाला मदजल । — धर्म —

पु. दान-धर्म, दानरूप धर्म । —

शूर — वि दानशूर, जो बराबर

दान दिया करता हो, उदार;

दानी । मु० — देणें — दान देना,

दान मे देना, दानरूप मे देना ।

दानत — स्त्री [ अ 'दियानत' ]

१ नीयत । २ नेकी, ईमानदारी,

सत्यनिष्ठा ।

दानवा — पु, दानवें न. —

केचुआ, गिलखोरा ।

दापणे — क्रि स १ दवाना, दे

'दावणे' । २ नाश करना । ३

दिलाना ।

दाव — १ दाव, दवाव, चाँप,

भार । २ असर, धाक, प्रभाव ।

३ धमकी । ४ रोव, दवदवा ।

५ शासन, नियंत्रण । ६ खटका,

सिटकिनी ।

दावणे — क्रि स १ दवाना ।

२ दवाव डालना । ३ दमन

करना । ४ धमकाना, डांटना ।

## दावादावी

१ छिपाना, छुपना। ६ हडप करना। ७ रिश्वत देना।

दावादावी - स्त्री १ दवा देना, छिपाना। २ घूस देकर चुप करना। ३ धमकी, रोवदाव। ४ हडप करना।

दाभण - न पु सूआ, सूजा, मोटी सूई। - काठी - वि १. छोटी किनार की (घोती)। २ नुकीली (मूँछें)।

दाभाड - न पु १ जवडा; कल्ला। २ चूल में लगी लोहे की पट्टी।

दाभोटा - पु १ घोड़े के टखने का आच्छादन; गुल्फत्राण। २. बडा बोरा।

दाम - पु न १ दाम, पैसा, द्रव्य, रुपया-पैसा। २ मूल्य, कीमत। ३ दाम, एक सिक्का, दमडी का एक तृतीयांश, एक रुपये का चालीसवाँ भाग। - डुप्पट - स्त्री व्याज के कारण मूल धन का दुगुना हो जाना। वि दुगुना। कहा० दाम करी काम, बिबी करी सलाम - पैसे से सब कुछ मिल सकता है।

दामट - दे 'दमट'।

दामटणें - क्रि स १. जोर से हाँकना; दौडाना, भगाना; पदाना। २. हैरान, परेशान करना, धमकाना। ३ हडप करना। ४. वेढंगे तौर पर इस्तेमाल करना।

दामटी - स्त्री १ चंदिया, छोटी रोटी। २ उपला; कडा। ३ चिपटी, घँसी हुई चीज। मु० - वळणें - १ बहुत डुबला-पतला हो जाना। २ पेट-पीठ एक हो जाना।

दामाजीपत - पु १. दाम, पैसा। २ पद्महवी शताब्दी के एक साधुचरित अधिकारी।

दाय - पु १ दाय, पुस्तैनी जायदाद जो पानेवालो में बाँटी जा सके, उत्तराधिकारी का हिस्सा। - भाग - पु दायभाग, वरासत की मिलिक्यत का बँटवारा, इसकी व्यवस्था या कानून।

दायाद - पु १ दायाद, दाय का अधिकारी। २ पुत्र, बेटा। ३ सर्पिंड सबधी, नजदीकी रिश्तेदार।

दायी - दे 'दाई'।

दार - न १ द्वार, दरवाजा, कपाट, किवाड। २ भीतर-बाहर आने-जाने का मार्ग। ३ साधन, तरीका। ४ दरवाजे का पल्ला। - फूसुं - किवाड की चूल। मु० दारात हत्ती झुलणें - बहुत बडा अमीर होना।

दारिद्र्य - न दारिद्र्य, दरिद्रता, निर्धनता; गरीबी, कगाली।

दारुडा-डचा - वि शराबी; शरावखोर।

दारुण - वि १ दारुण; घोर, भयकर, डरावना, उग्र। २ कठोर, कडा, निर्दय। ३ क्रूर। ४ जव-दस्त।

दारु - स्त्री [फा] १ दारु; मदिरा, शराव। २ दारु; बारुद। ३ दवा। - काम-न आतशवाजी।

- गोळा - पु गोला - बारुद, युद्ध-सामग्री। - चा गुस्ता - पु शराव-खाना, होली, कलवरिया। - ची भट्टी - स्त्री शराव की भट्टी, आस्रविका। - बदी - स्त्री मद्य-निषेध, नशावदी, शरावबदी। - बाज - वि शराबी; शरावखोर, मद्यप। [दारचीनी, तज।

दालचिनी - स्त्री दालचीनी; दालन - न [फा 'दालान'] १ दालान; बडा कमरा। २

कमरा, कोठरी।

दावण - न १ वह बडा रस्सा जिसके बीच में अनेक पथे होते हैं। २ लव्हे रस्से में बँधे हुए पशुओं, कैदियों आदि की कतार।

दावणे - + क्रि स दिखाना, बतलाना, जतलाना।

दावा - पु [अ] १ दावा, नालिश, मुकदमा, फरियाद। २. द्वेष, मत्सर, वैर। ३ झगडा। ४ स्वत्व, हक, अधिकार। ५ माँग। ६ हमला। - उभा दावा - पु जानी दुश्मनी, कडी शत्रुता। मु० - तोडणें - समझौता करना। २ दुश्मनी करना। - सांगणें - १ दावा करना, हक जताना। २. धमकी देना। - साधणें - बदला लेना, बुरी तरह फँसाना।

दाविणें - क्रि स दिखाना, बताना। [पगहा।]

दावे - न गरांव, पधा, दावेदार - वि [अ + फा 'दावीदार'] १ दावेदार, दावा करने वाला, वादी, मुद्दई। २ शत्रु, दुश्मन। [नीकर। २ गुलाम।

दास - पु १ दास, सेवक, दासानुदास - पु दासानुदास, दासो का दास, अत्यंत विनम्र सेवक।

दासी - स्त्री १ दामी, सेविका, बाँदी, नीकरानी। २ रखेली। - पुत्र - रखेली ने उत्पन्न पुत्र, अवैध पुत्र।

दास्य - न १ दास्य, सेवा, दासता। २ गुलामी, पराधीनता। - भक्ति - दास्य, भक्ति का एक रूप।

दाह - पु १ दाह, जलना, जलन। दाहक्रिया, शव जलाना। ३ श्रोत्र, गुस्ता। ४. आग।

वाहा - दे. 'दहा' ।

वाळिव - दे. 'डाळिव' ।

दिड - न १ कपडे का थान; गट्ठर । २. एक पकवान जिसमे वेसन और गुड होता है । ३. दे. 'घिड' ।

दिडी - स्त्री [क 'दिडि'] १. दरीचा, दुबारी, वडे दरवाजे मे बना हुआ छोटा किवाड, नीम दरवाजा । २. छोटी वीणा, छोटा तबूरा । ३. धार्मिक उत्सव-यात्रा, मजहबी जुलूस । ४. मराठी का एक मांत्रिक छद जिसके चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण मे १९ मात्राएँ रहती हैं ।

दिक् - स्त्री १ दिक्; दिशा । २ सीमा, हद ।

दिक्कत - स्त्री [अ 'दिक्कत'] १ दिक्कत, कठिनाई । २ शक; हिचकिचाहट, पसोपेश । ३ आपत्ति, हर्ज ।

दिगंत - पु १ दिगत, दिशा का अंत, छोर । २. क्षितिज ।

दिगतरीं - अव्य. पृथ्वी की चरम सीमा तक, सर्वत्र, सब-दूर, चारो ओर ।

दिगवर - वि दिगवर, नग्न, नगा । - पु १ शिव । - दत्तात्रेय ।

दिखाऊ - वि दिखाऊ, बाहर से सुंदर दिखाई देने वाला । २ दिखावटी, दिखावा, बनावटी, नकली ।

दिग् - स्त्री १ दिशा । २ सीमा । - दर्शन - न दिग्दर्शन; सामान्य परिचय, ज्ञान, इशारा, इ गित, साधारण निर्देश ।

दिडमूढ - [वि दिडमूढ; चकित, भौचकका । मु० - होणें - चकराना, सिटपिटाना, सन्नाटे मे आना ।

दिठी\* - स्त्री १. दृष्टि; नजर ।

२ कृपादृष्टि । ३. दर्शन ।

दिडका - वि डेवडा, डेढ, ड्योढा । - पु वाकला, सेम ।

दिडकी - स्त्री १. एक पैसा, कौडी । २ डेवडा (एक पहाडा जिसमे क्रम से प्रत्येक अक की डेढ गुनी सख्या पढी जाती है) ।

दिठी - स्त्री वि डेढ गुना, डेढा । - वाढी - स्त्री डेढी (बीज के देने-लेने की एक रीति जिसमे फसल कटने पर लेने वाले को डेढा लौटना पड़ता है) ।

दिघणे\* - क्रि स देना ।

दिन - पु दिन, दिवस; रोज, यौम । - चर्या - स्त्री १ दिनचर्या, दिनभर का कार्य । २ रोजनामचा, डायरी ।

दिनाक - पु तारीख; तिथि ।

दिपणें - क्रि अ १. चक-चौघना, चौंधियाना । २. चकित होना, हक्कावक्का रह जाना ।

दिपवाळी - दे 'दिवाळी' ।

दिपविणें - क्रि स चक-चौघना, आँखो में चकाचौघ पैदा करना, चकित करना ।

दिमतीस - अव्य. [ अ 'जिम्मत' ] सेवा में, खिदमत में । दे 'दिम्मत' ।

दिमाख - पु [ अ 'दिमाग' ] शान, शेखी, घमड ।

दिम्मत - स्त्री [ अ 'जिम्मत' ] १. जिम्मा, हवाला, जमानत । २ सेवा, खिदमत ।

दिरंगाई - स्त्री [ फा 'दिरग' ] देर, विलव, ढील, सुस्ती ।

दिल - न पु [ फा ] दिल, हृदय, मन । - खुलास - वि दिल-दार, उदार । - ० पणा - पु दिलदारी, उदारता । - गिरी

- स्त्री खेद; अफसोस; पछतावा ।

- गीर - वि दिलगीर, दुखी ।

- जमाई - स्त्री दिलजमई, मिलाप । - दार - वि दिलदार, उदार । - वर, - वर - प्रियकर, आगिक, माशूक । - रुबा - पु दिलरुबा, एक वाजा । - मु० - गिरी व्यक्त करणें - खेद, दुख प्रकट करना ।

दिलासा - पु [ फा ] दिलासा, आश्वासन; सात्वना, धीरज, तसल्ली ।

दिवटा - पु १ बडी मशाल; पलीता । - वि कुलागार, कुल-कलक, कुलवोरन । [ २. दीया ।

दिवटी - स्त्री १ छोटी मशाल ।

दिवट्या - दे. 'दिवटा' ।

दिवली - स्त्री छोटा दीपक ।

दिवशां - अव्य. (उस) दिन, रोज ।

दिवस - पु १ दिवस; दिन, रोज । २ उत्तरक्रिया; पिंडदानादि । - गत - स्त्री देरी, विलव । - रात्र - अव्य. दिनरात, हमेशा; आठो पहर । मु० - करणें - क्रिया-कर्म, मृतकक्रिया, पिंडदानादि करना । - काढणें - दिन काटना, विताना, गुजारना; किसी तरह समय विताना । - चढणें - दिन चढना । - डोईवर, डोकीवर घेणें - दोपहर होना । - ढकलणें - किसी तरह दिन गुजारना, दे. 'दिवस काढणें' । - दवडणें - दिन, समय गंवाना । दिवसावर नजर देणें - समय की गति पहचानना, समय के अनुसार आचरण करना ।

दिवसा - अव्य. दिन में । - उजेडों - अव्य. दिन में, दिन छिपने से पहले । - ठवळघा - अव्य. दिनदहाडे; दिनमें, खुले तौर पर;

खुले खजाने । मु०-दिवे लावणें- १ पैसा बरवाद करना । २ अन्याय करना । ३ बहुत बड़ा काम करना ।

दिवसेदिवस - अव्य दिन-दिन, दिन - प्रति - दिन, रोज - व - रोज ।

दिवली - स्त्री १ दीवट । २ दिवली, छोटा दीया ।

दिवा - पु १ दीया; दीपक, चिराग । २ मूर्ख, अनाडी; कुलबोरन । - दाडी - स्त्री दीप-स्तभ, प्रकाशस्तभ । - बत्ती - स्त्री दीयावत्ती, दीया जलाने का कार्य । दिव्याची आवस - स्त्री आपाठ की अमावास्या । मु०- लावणें - १ दीपक जलाना । २ दे 'दिवे लावणे' । - विज्ञविणें - दीया बुझाना, ठंडा करना, चिराग गुल करना । - सरसा करणें - वत्ती को आगे बढ़ाना, वत्ती का गुल कतरना, काटना ।

दिवाण - पु [फा. 'दीवान'] दीवान, मंत्री, प्रधान - मंत्री । - खाना - पु दीवानखाना, बैठक । - गिरी - स्त्री मंत्री का कार्य, दीवानी, दीवान का पद ।

दिवाणा - वि [फा 'दीवान'] वि १ दीवाना, पागल । २ प्रेमी, आशिक ।

दिवाणी - वि [फा 'दीवानी'] दीवानी ( अदालत ), गैर फौज-दारी, असैनिक, नागरिक ।

दिवाभीत - न पु १ दिवा-भीत; उल्लू । २ चोर ।

दिवाळखोर - वि दिवालिया, जिसका दिवाला निकला हो, उडाऊ ।

दिवाळसण - पु विवाह के प्रथम वर्ष में कन्या के पिता द्वारा

दामाद को बुला कर उसका उचित सत्कार किया जाना ।

दिवाळी - स्त्री दिवाली, दीवाली, दीपावलि - ली ।

दिवाळें - न दिवाला । मु०- काढणें - दिवाला निकालना, दिवाला मारना, दिवालिया होने की सूचना देना । - वाजणें - दिवाला निकलना, होना ।

दिवे - पु बहु दीये, दीपक । - लागणी - स्त्री. शाम का झुटपुटा । मु०- ओवाळणें - १ तुच्छ, क्षुद्र समझना । २ अपने मुंह मियां मिट्टू बनना । - लावणें - १ वुरे कामों से बदनाम होना, झड़े पर चढ़ना । २. किला फतह करना (व्यग्य) ।

दिव्य - न १ दिव्य, अग्नि-परीक्षा, अग्निदिव्य । २ कठिन, कठोर कसौटी । - वि दिव्य, स्वर्गीय, अलौकिक । मु० दिव्यातून उत्तरणें - १ कसौटी पर खरा उत्तरना । २ बहुत बड़े सकट से मुक्त होना ।

दिशा - स्त्री १ दिशा, निम्न, जानिय, ओर, तरफ, । २ मार्ग, ढग, प्रकार । - भूल - स्त्री दिशाभ्रम, गुमराही, । मु०- कोडणें - कब्ज, मलावरोध होना । - दाखविणें - दिशा, मार्ग दिखाना, दिशा का ज्ञान कराना । - फाकर्णें - पी फटना, सवेरा होना । दिशेस जाणें - शीघ्र के लिए जाना, टट्टी जाना ।

दिशीं - अव्य १. दिन में । २ उचित समय पर । ३ से । [ झटदिशी = झट से ]

दिसदीस - अव्य. दीनदिन, रोज-ब-रोज ।

दिस<sup>†</sup> - दे. 'दिवस' ।

दिसणें - क्रि अ. १ दीखना; दिखाई देना । २ लगना, प्रतीत होना ।

दीड - वि डेढ, एक और आधा । - कानाचा - वि बहरा । - दमडीचा - कौडी का, कौडी कीमत का, तुच्छ; घटिया, क्षुद्र । - पायाचा - वि लंगडा । - शहाणा - वि अपने को बड़ा अक्लमद समझने वाला, बुद्ध, अक्ल का दुग्मन ।

दीन - वि १ दीन, नम्र, लीन, विनीत । २. अर्थहीन, दरिद्र; कगाल; गरीब । ३ दुर्दशा-ग्रस्त, लाचार । - वाणा - वि दयनीय, अनुकम्प्य, विपन्न, कष्टनाजनक, तरस खाने लायक; जिसपर रहम आये ।

दीप - पु दीप, दीया, चिराग । - गृह - न दीपस्तभ, प्रकाशस्तभ । - माळ - स्त्री दीप-स्तभ, दीपाधार । - स्तभ - पु दे 'दीपगृह' ।

दीपावलि - स्त्री दीपा-वलि, दीपावली; दिवाली, दीवाली ।

दीर - पु पति का भाई । १ (मोठा) जेठ । २ (लहान) देवर ।

दीर्घ - वि १ दीर्घ, विस्तृत, लंबा । २ बड़ा । ३ आयत । ४ गहरा । ५ ऊँचा । ६ गुरु (मात्रा) । - काण्ड - न दीर्घकाण्ड, शह-तीर, वल्ला । - जीवी - वि दीर्घजीवी; लंबी उम्र पाने वाला, चिरजीवी । - दर्शी - दे 'दूर-दर्शी' । - द्वेषी - वि कीनावर, विद्वेषी, लंबे भरसे तक अपने मन में बदले की भावना बनाये रखने वाला । - निश्वास - पु लंबी सांस, ठंडी आह । - प्रयत्न - पु

बडी कोशिश; लगातार लंबे अरसे तक किया जाने वाला प्रयत्न। - शंका - छी शीच, पाखाना, टट्टी। - सूत्री - वि दीर्घसूत्री, जो प्रत्येक कार्य को देर में करे।

दु ख - पु १ दु ख, दु ख, रज, कण्ट, क्लेश, तकलीफ। २ शोक, खेद, पश्चात्ताप, पछतावा। - कारक, - दायक - वि दु खदायक, कण्टप्रद, तकलीफ - देह। - पर्यवसायी - वि दे 'दु खात'। मु - मानणें - दु ख मानना, रजीदा, खिन्न होना। दु खावर ढागण्या देणें - जले पर नमक छिडकना।

दु 'खात - वि दु खात, विपादात, जिसका अंत दु खमय हो, 'ट्रेजिक'। - नाटक - न दु:खात, विपादात नाटक, जिसकी समाप्ति दु खमयी घटना से हो, 'ट्रेजेडी'।

दु खित, दु खी - वि दु खित, दु खी, दु खी; पीडित, खिन्न।

दु साध्य - वि दु साध्य, असाध्य, दुष्कर, कठिन।

दुआव - पु [फा 'दोआव'] १ दुआव, दुआवा, दोआव-वा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। २ गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश। [दुक्का]

दुक्रुटा - वि दूसरा, दुकेला, दुकान - न [फा] दुकान, दुकान, पण्यशाला। - दार - पु दुकानदार, दुकान वाला, दुकान का मालिक। मु० - मांडणें - दुकान लगाना।

दुक्कल - छी जोडी।

दुक्का - पु. दुक्का, दुक्की, दुकी। [प्रमत्त।

दुखणाईत - वि बीमार, रोग-दुखणें - न १ बीमारी, रोग,

मर्ज। २. दुख; दु ख, व्यथा। ३. लत, झक्षट। मु० - काढणे - १ बीमारी सहना। २ बीमार की शुश्रूषा, सेवा - टहल करना। दुखणें - क्रि अ दुखना, दर्द करना, पीडा होना।

दुखरा - वि दुखने वाला, दर्द करने वाला। २ नाजूक, दुबला।

दुखवटा - पु १ समवेदना, प्रकाश, शोकप्रदर्शन। २ सियापा, मातम, मातमपुर्सी। ३ मृताशौच, सूतक।

दुखवणें - क्रि अ चोट पहुँचना, सालना, आघात होना, टीसना, कसकना।

दुखवणे, दुखविणे - क्रि स दुखाना, सालना; चोट पहुँचाना; कण्ट, तकलीफ देना।

दुखांवी - वि दो खभों पर आधारित। [आवात।

दुखापत - छी चोट; जखम, दुगाणी - छी १ दुलत्ती। २ आवा पैसा। मु० - झाडणें - दुलत्ती चलाना, मारना; जानवरो का पिछली दोनो लाते उठाकर मारना।

दुग्धा - छी पु १ दुग्धवा; पसोपेश, निश्चय का अभाव। २ टालमटोल।

दुघई - वि दुखडा; दो खडो वाला, दोपलिया, दोपल्ली।

दुचमळणे - दे 'डचमळणे'।

दुजा - वि १ दूसरा। २. और अधिक, अन्य। ३ भिन्न, पराया। - भाव - पु १ भेदभाव, द्वैत। २ परायापन। ३ अलगाव।

दुजोरा - पु. समर्थन, पुष्टि, तमदीक।

दुटप्पी - वि मदिग्ध, चंचल। २. दोमुंहा। ३ दुरगा, चालवाजी

से भरा हुआ, कपटपूर्ण। - पणा - पु. दुरगापन, ढोंग, चालवाजी। दुटे - न १. राज की नापने की पट्टी। २ इमारत बनाने से पहले जमीन पर खींचा हुआ नक्शा। ३ नमूना। ४ गोन, वीरा। ५ दोहरा कागज।

दुडकी, दुडकी चाल - छी दुलकी, घोड़े की कुछकुछ उछलते हुए मध्य गति से दौड़ने की एक चाल।

दुडदुड - डा - अव्य. कुछ-कुछ उछलते हुए, फुदक कर, तेजी से।

दुडाळ - न दहलन, दाल।

दुडी - छी घडा, गगरी।

दुडदुड - दे 'दुडदुड'।

दुडढाचार्य - पु. शेखीवाज, ढोंग मारने वाला, दून की लेने वाला।

दुणणे - क्रि स दोहरा करना, दुगुना करना। [होना, वढना।

दुणावणे - क्रि अ दुगुना

दुणे - न वि दूना, दुगुना।

दुतरफा - फी - वि [फा 'दुतरफा'] दोतरफा, दुतरफा, जो दानो तरफ हो, दुरगा। - अव्य. दोनो ओर, दोनो तरफ।

दुतोडी - वि दो मुहाँ, दुरूखा।

दुयडी - छी दो तटो, किनारो वाली नदी। - अव्य. दोनो किनारो को छूती हुई, उमटती हुई, लवा-लव।

दुधखुळा - वि भोलाभाला, वेवकूफ। [रग का, सफेद।

दुधट - वि दूधिया, दूध के दुधवणी - छी १ पानीमिलाया हुआ दूध, पतला दूध। २ दुध-हँडी।

दुघाणा - पु, दुघाणी - छी दुधहँडी, दूध गरम करने का मिट्टी

का पात्र । [ओर वार वाला ।  
 दुधारी - वि दुधारा, दोनो  
 दुधाल - वि स्त्री दुधैल;  
 दुधारू, जो बहुत दूध देती हो ।  
 दुधिया - पु १ दूध मिली  
 हुई भग । २ कद्दू ।  
 दुधी - स्त्री १ लौकी की बेल ।  
 २ दुधिया, दुधी नाम की घास ।  
 दुध्या - पु लौकी, कद्दू, घिया ।  
 - हलवा - पु लौकी का हलवा ।  
 दुपटें - न गुदडी, सोजनी,  
 गंडतरा । [लिया, दो परतो का ।  
 दुपदरी - वि दोहरा, दुप-  
 दुपार - स्त्री दो पहर,  
 मध्याह्न, दोपहरी । - ची सावली  
 - स्त्री क्षणभंगुर वस्तु, नापाय -  
 दार वात । - ची सौय - स्त्री  
 भोजन का प्रवव, जीविका । मु -  
 काढणें, - घालविणें, - टाळणें, -  
 ढकलणें - दो पहर का भोजन किसी  
 तरह प्राप्त करना, वडी मुश्किल  
 से जीविका प्राप्त करना ।  
 दुपारी - अव्य दो पहर को ।  
 - तिपारी - अव्य, ऐन दोपहर को ।  
 दुपारी - स्त्री दुपहरिया (फूल  
 ओर पौधा) ।  
 दुपिकी - वि दुफसली ।  
 दुपुट - 'वि दुगुना । - स्त्री  
 दुगुनी वृद्धि । [विरोध, नाइतफाकी ।  
 दुफळी - स्त्री फूट, विगाड,  
 दुबळा - वि १. दुबला, कम-  
 जोर । २ कायर, डरपोक । ३  
 लाचार । [दोवारा, दोवार ।  
 दुवार-रा - अव्य. दुवारा,  
 दुवारी - वि १ दुफसली । २  
 दोवार दगने वाली (वट्टक आदि),  
 दोजर्वी, दुनाली ।  
 दुवेरजी - स्त्री दोवारा लिखा  
 हुआ जमाखर्च, दिलेखा ।  
 दुवेळकें - न दोन, दुशाख,

दुसाखा । [हुवा, भग्न ।  
 दुभग - वि दो हिस्सो में कटा  
 दुभंगणें - क्रि अ फटना,  
 कटना, दो टुकडे होना ।  
 दुभती - वि स्त्री १ दुवार,  
 वह गाय या भैंस जो दूध दे रही  
 हो । २ दुवार, दुधारू ।  
 दुभागणें - क्रि अ दो हिस्से  
 होना । - क्रि स दो टुकडे  
 करना, समद्विभाजन करना, दो  
 सम भागो में विभक्त करना ।  
 दुभापी-प्या - वि दुभापिया ।  
 दुमजली - वि दोतल्ला,  
 दोमजिला, दुमजिला ।  
 दुमड - स्त्री तह, चुनट,  
 मगजी, दोहरी तह ।  
 दुमडणें - क्रि स. मोडना,  
 तह करना, दो तहे करना ।  
 दुमत - न मतभेद, दो मत ।  
 दुमदुमणें - क्रि अ १. गुंजना,  
 प्रतिध्वनित हो जाना । २ छाना,  
 फैलना । ३ गरजना ।  
 दुमाला - पु. [फा 'दुवाल ' ]  
 १ पिछाडी, पीछे का भाग । २  
 समर्थन, पुष्टि । ३. पीछा । ४  
 वह गांव या जागीर जिसके दो  
 मालिक हो । ५ लगान वमूल  
 करने का हक ।  
 दुय्यम - वि [फा 'दोयम ' ]  
 १ दोयम, दूसरे दर्जे का दूसरे  
 नवर का । २ गौण, अप्रवान ।  
 ३. माध्यमिक (शिक्षा) । ४ उप  
 (सचिव आदि) । - पुरावा - पु  
 गौण साक्ष्य, उत्तर साक्ष्य,  
 अप्रवान प्रमाण । - शिक्षण - न  
 माध्यमिक शिक्षा, सानवी तालीम ।  
 दुरगी - वि दुरगा, दोरगा,  
 दो रगवाला । [वांस की टोकरी ।  
 दुरडी - स्त्री डगरा, चेंगेरी,  
 दुरतिक्रम - वि दुरतिक्रम,

दुर्लघ्य । [मान, झूठा घमड ।  
 दुरमिमान - पु वृथा; अभि-  
 दुराग्रह - पु दुराग्रह, हठधर्म,  
 हठधर्मी, जिद । [जिद्दी ।  
 दुराग्रही - वि दुराग्रही, हठी,  
 दुराचरण - न, दुराचार - पु  
 दुराचरण, दुराचार, निच आच-  
 रण, कुकृत्य, बुरा काम ।  
 दुराचारी - वि दुराचारी,  
 कुकर्मी, बदचलन । २ जालिम ।  
 दुरापास्त - वि मुश्किल,  
 असभव, कठिन ।  
 दुरावणे - क्रि अ दुराना,  
 विछुडना, दूर जाना, वचित  
 होना ।  
 दुरावा - पु दुराव, परायेपन ।  
 दुरित - न दुरित, पाप । - वि  
 पापी ।  
 दुरी\* - अव्य. दूर ।  
 दुरुत्तर - न दुरुत्तर, बुरा,  
 असम्य उत्तर, धृष्टतापूर्ण वाते,  
 गाली-गलीज । [बेजा इस्तेमाल ।  
 दुरुपयोग - पु. दुरुपयोग, बुरा,  
 दुरुस्त - वि [फा ] दुरुस्त,  
 ठीक, दोपरहित, जो अच्छी  
 स्थिती में हो, मरम्मत शुदा ।  
 दुरुस्ती - स्त्री [फा ] दुरुस्ती,  
 मरम्मत, सुधार, सशोवन ।  
 दुरून - अव्य. दूर से । कहा०  
 दुरून डोगर साजरे - दूर के डोल  
 सुहावने ।  
 दुर्गंध - पु. दुर्गंध, बुरी गंध,  
 सडार्यंध, बदबू । - नाशक - वि  
 दुर्गंधहर ।  
 दुर्गंधी - स्त्री दुर्गंध, बदबूदार ।  
 दुर्ग - पु दुर्ग, गड, किला,  
 कोट ।  
 दुर्गम - वि दुर्गम, वीहड, जहाँ  
 पहुँचना मुश्किल हो । २ दुर्बोध ।  
 दुर्गुण - पु दुर्गुण, बुरा गुण,



दोप; नक्स; बुराई । [दुराचारी ।  
 दुर्गुणी - वि दुर्गुणी, अंगुनी,  
 दुर्घट - वि दुर्घट, दु साध्य ।  
 दुर्घटना - स्त्री दुर्घटना; अशुभ  
 घटना [खल, बुरा आदमी ।  
 दुर्जन - पु दुर्जन, दुष्ट मनुष्य,  
 दुर्दम्य - वि दुर्दम्य, जिसे  
 दवाना कठिन हो, प्रबल ।  
 दुर्दशा - स्त्री दुर्दशा, बुरी  
 हालत, दुर्गति । [वदकिस्मत ।  
 दुर्दवी - वि दुर्भाग्य, अभाग्य,  
 दुर्धर - वि १ दु साध्य,  
 असाध्य । २ भारी, कठिन ।  
 ३ भयकर, खतरनाक । ४ प्रचंड ।  
 ५. असह्य ।  
 दुर्वल - वि दुर्वल, कमजोर ।  
 - ता - स्त्री दुर्वलता, कमजोरी ।  
 दुर्विण, दुर्वीण - स्त्री [फा  
 'दूरवीन'] दूरवीन, दूरदर्शक  
 यंत्र ।  
 दुर्वृद्धि - स्त्री १ दुष्ट वृद्धि ।  
 २ कमवस्ती । मु०-आठवणे -  
 कमवस्ती आना, सूझना, शामत  
 सवार होना ।  
 दुर्भाग्य - न दुर्भाग्य, वद-  
 किस्मती, वदनभीवी, प्रतिकूल  
 दैव, फूटी किस्मत ।  
 दुर्भिक्ष - क्षय-न १ दुर्भिक्ष,  
 अकाल, कहत । २ अभाव ।  
 दुर्भिल - वि १ दुर्लभ,  
 दुष्प्राप्य, कमयाव, कठिनता से  
 मिलने वाला । २ कीमती ।  
 दुर्मुखणें - क्रि अ मुंह लट-  
 काना, मुंह फुलाना ।  
 दुर्मुखला, दुर्मुखलेला - वि जो  
 हमेशा मुंह लटकाये हुए हो, चिट-  
 चिडा, तुनुक मिजाज ।  
 दुर्लक्ष - न नजरअदाजी,  
 उपेक्षा, लापरवाही, गफलत, आना-  
 कानी, टालमटूल । मु०-करणे-

ध्यान न देना, अनदेखी करना;  
 नजरअदाज करना, की ओर मे  
 बाँख मूंदना ।  
 दुर्लक्ष्य - वि दुर्लक्ष्य, जो  
 कठिनाई से देखा जा सके । -न दे.  
 'दुर्लक्ष' ।  
 दुर्लभ - वि दुर्लभ, दुष्प्राप्य,  
 कमयाव । [यश, दुष्कीर्ति ।  
 दुर्गौकिक - पु वदनामी; अप-  
 दुर्वर्तन - न दुराचरण,  
 दुर्व्यवहार । [वदचलन ।  
 दुर्वर्तनी - वि दुराचारी,  
 दुर्वा - दे 'दूर्वा' ।  
 दुर्विदग्ध - पु दुर्विदग्ध, जो  
 थोड़े ज्ञान पर फूट बैठा हो, घमडी ।  
 दुर्विपाक - पु दुर्विपाक, दुष्परि-  
 णाम, कुफल । [लत, कुट्टेव ।  
 दुर्व्यसन - न दुर्व्यसन, बुरी  
 दुर्व्यसनी - वि दुर्व्यसनी,  
 दुराचारी, वदचलन । [रजाई ।  
 दुर्लई - स्त्री दुर्लई, हलकी  
 दुर्लदुलि(ली)त - वि मोटा-  
 ताजा, पिलपिला । [छल्ला ।  
 दुवा - पु कडी, लडी;  
 दुवा - पु [अ 'दुआ'] १.  
 दुआ, आशीर्वाद । २ ईश्वर से  
 माँगना, प्रार्थना ।  
 दुवाड - + दे 'द्वाड' ।  
 दुशाल - स्त्री, दुशाला - पु  
 ['दुशाल'] दुशाला, ऊन की  
 कामदार दोहरी चादर, एक तरह  
 की पश्मीने की चादर । [शकुन ।  
 दुश्चिन्ह - न असगुन, अप-  
 दुष्काळ - पु १ अकाल,  
 कहत । २ अभाव । फहा० दुष्का-  
 लात तेरावा महिना - कगाली में  
 आटा गीला, यक न शुद्ध दो शुद्ध ।  
 दुष्कीर्ति - स्त्री दुष्कीर्ति, अप-  
 यश, वदनामी । [वैर, दुश्मनी, द्वेष ।  
 दुष्ठावा - पु १ दुष्टता । २.

दुष्मन; दुस्मान - पु [फा  
 'दुष्मन'] दुष्मन, यत्र, वैरी ।  
 दुसरा - वि दूसरा । २ अन्य,  
 और; भिन्न । मु० दुसऱ्याच्या  
 ओजळीने पाणी पिणे - दूसरे के  
 कहने पर चळना; दूसरे की मदद  
 पर निर्भर रहना । फहा० दुस-  
 ऱ्याच्या डोळ्यांतले फुसळ दिसते  
 पण स्वतःच्या डोळ्यांतले मुसळ  
 दिसत नाही - अपना बड़ा दोष  
 दिखाई नहीं देता, पर दूसरो का  
 छोटा सा दोष भी बड़ा मालूम  
 होता है, आदमी अपना टैंटर न  
 देखकर दूसरो की फूली देखता है ।  
 दुसरीकडे - अव्य अव्यय,  
 दूसरी जगह । [विवाह करना ।  
 दुसरेपणा - पु दुवाह पुरुष से  
 दुसऱ्यादा - अव्य. दुवारा,  
 दोबारा; फिरसे ।  
 दुसवास - दे 'दुस्वान' ।  
 दुस्मन, दुस्मान - दे 'दुष्मन' ।  
 दुस्वास - पु द्वेष, मत्सर,  
 टाह, बुरा बरताव ।  
 दुही - स्त्री फूट, अनवत,  
 विगाड, विरोध [दोतरफा ।  
 दुहेरी - वि दोहरा, दुगुना;  
 दूड - स्त्री काँच के दानों की  
 दोहरी माला । २ दो घडे ।  
 दूत - पु १ दूत, सदेशी,  
 सदेशवाहक, हरकारा । २ सेवक ।  
 दूतिका, दूती - स्त्री १  
 दूतिका, दूती, वह स्त्री, जो एक  
 का सदेश दूसरे के पास पहुँचाये ।  
 २ दासी, नौकरानी ।  
 दूध - न. १ दूध । २ पेड़ों का  
 दूध; अन्न के कच्चे दानों और  
 कुछ पीवों के अगों में से निकलने  
 वाला दूध के रंग का रस । - छुळा  
 वि भोला-भाला, बुद्धू; पोगा ।  
 - दुसतें - न १. दूध, दही, घी

आदि। २ दूध देने वाले पशु।  
- पाक - पु दूध में पकायी चावल की खीर। - झाड़ - दो आदमी जिनको वचपन में दूध पिलाने वाली स्त्री एक हो। - भात - न दूध-भात, प्यारसे दिया हुआ भोजन। - भोपळा - पु लौकी, कद्दू। दुधाचे दात - पु बहु दूध के दांत, शैशवावस्था में निकले दांत, दंतिया। मु० दुधाची तहान ताकावर भागविणें - किसी बड़ी वस्तु के अभाव में मामूली चीज से काम चलाना, दूध की प्यास को छाल से बुझाना, बोटी नहीं तो शोरवा सही। दुघात साखर पडणें - मोने में सुगव होना। दुघातें तोड पोळलें कीं माणूस ताकहि फुकून पितो - दूध का जला छाल फूंक-फूंक पीता है।

दूर - अव्य १ दूर, दूरी पर, फासले पर। २ वरतरफ, अलग। - वि १ असभव। २ मुश्किल। ३ वरतरफ, नौकरी आदि से अलग किया हुआ। - दर्शा वि दूरदर्शी, दूरदेश। - वर अव्य दूरतक, गहराई में, दूर-दृष्टि में। मु० - करणें - १ दूर करना, हटाना, वरतरफ करना। २ नष्ट करना। ३ प्रेम से वचित करना, पराया बनना। - होणें - १ दूर होना, हट जाना। २ मिट जाना, वना न रहना। [सि, अप्रत्यक्ष रूप में।  
दूरान्वयानें - अव्य परोक्ष रूप दूरून - दे 'दुरून'।

दूर्वा - छी बहु दूव, दूर्वा।  
दूषण - न १ दूषण, दोष, इलजाम लगाना। २. ऐव, खराबी, दुर्गुण। मु० - देणें-दोष लगाना, इलजाम लगाना।

म हि श को २६

दूषित - वि दूषित, दोषयुक्त, बुरा, गदा, खराब।

दूक् - छी दूक्, दृष्टि, नजर।  
-प्रत्यय - पु प्रत्यक्ष प्रमाण, चाक्षुष प्रमाण, आंखों देखी बात।

दृगोचर - वि दृगोचर, दृष्टिगोचर, दिखाई पडने वाला।

दृढ - वि १ दृढ, जो डिग न सके, अटल, पक्का। २ मज-बूत, ठोस। - प्रतिज्ञ - वि दृढ-प्रतिज्ञ, जो अपनी प्रतिज्ञा से न डिगे, हठीला, सत्यसव। - भाजक - पु महत्तम समापवर्तक, म स।

दृश्य - वि १ दृश्य, दिखाई देने वाला। २ बाहरी। ३ देखने योग्य, दर्शनीय। - न १. दृश्य, नजारा, तमाशा। २ ससार, जगत, दुनिया। - काव्य - न एसा काव्य जिसका आनंद देख कर उठाया जा सके, नाटक, चलचित्र आदि।

दृष्ट - छी १ दृष्टि, नजर। २ दीठ, बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाली निगाह, नजर; चश्मे वद। - वि दृष्ट, देखा हुआ, जाना हुआ। - भेट - छी १ आसन्नमरण व्यक्ति से होने वाली अंतिम भेट। २ दूर से देखना। ३ औपचारिक भेंट। - मणी - पु कांच की चित-कवरी गुरिया जो दीठ से वचान के लिए वच्चे के गले या कलाई में बांधी जाती है। - लागलेला - वि नजराया। मु० - काढणें - दीठ जलाना, नजर उतरना, राई - नोन उतारना। - लागणें - दीठ नजर लगाना, दीठ खा जाना।

दृष्टात - पु १ दृष्टात, उदा-हरण, मिसाल। २ भूत-भविष्य का सूचक सपना, स्वप्न में दर्शन

होना। ३ अनुभव।

दृष्टादृष्ट - छी परस्पर-दर्शन, देखादेखी। मु० - होणे - आंखें चार होना।

दृष्टि - छी १. दृष्टि, नजर; देखने की शक्ति। २ दे 'दृष्ट'। ३ ज्ञान, मत, विचार, खयाल, लिहाज, उद्देश्य, अभिप्राय। ४ ध्यान। - कोन - पु दृष्टिकोन, नुक्ताए नजर। - क्षेप - पु दृष्टिक्षेप, नजर डालना। - देखत - ता - अव्य. देखते हुए; आंखों के सामने। - भेट - , मणी - दे 'दृष्टभेट', 'दृष्टमणी' मु० - ओळखणें - नजर पहचानना, नजर से मन की बात जानना। - घालणें - १ दे 'डोळा घालणें'। २ ध्यान से देखना। - चुकणें - भूल जाना, हड़बडाना, चकराना। - चुकविणें - आंख वचाना, आंख चुराना। - चोरणे - नजर बांधना, नजरबंदी करना। - ठेवणें - ध्यान रखना। - निवळणें - १ आंख का साफ, स्वस्थ होना। २ मन शुद्ध होना। ३ घमड आदि दूर होना। - पडणें - १ आंख पडना, दृष्टिगत होना। २ पाने की इच्छा होना। - फाकणें - १ चकाचौंध होना, भौचक्का होना। २ दृष्टि का विशाल होना। - फाटणें - १. विस्मित, चकित होना। २ आका-क्षाओं का बढ़ जाना। - फिरणें - दृष्टि फिरना, आंखें फिर जाना, मगरूर, घृष्ट बनना। - वद करणें - १ आंखें वद कर लेना। २ नजर बांधना, नजरबंदी करना। - मरणें - दृष्टि मारी जाना, देखने की आदत पड जाना, हमेशा देखते रहने के कारण डर, आश्चर्य आदि भावों का नष्ट हो जाना। दृष्टीचें पारणें

दृष्टिने - नदि ठी होना, पी भग्ना, पूज होना । दृष्टीम पदों - नगर नना; दीप पना, रिगार्डे रेन । कृ० दृष्टीआर नृष्टि - ०ीन ओठ, पहा ओठ ।

दृष्टीने - अण्य दृष्टि मे, रिगार मे ।

दृष्टीपत्नीम घेने - क्रि अ रिगार्डे रेना, पाया जना, ज्ञान, मापम होना ।

दृष्ट, देठी - दे. 'देठ'; 'देठी' ।

देऊठ - न देगाय, मदिन ।

-घाट - श्री १ मदिन की घटी । २ गार्डी, रीम हांकेने वाला वरिगि ।

देवार - पु. १. दान, दक्षिणा; रेन । २ श्रेण, रायज, रायजा । ३ गरीहृति, मजुनी । [ गन्तोना ।

देवगा - रि नदर, सुगमून,

देवणे - न जमीन में गज दृश्रा घन, पृथी । २ प्रकाश, रोयनी ।

३ टाट, रोयदान । - क्रि स १ देवता । २ गोजना । ३ ध्यान सा । - पण - न १ ज्ञानदृष्टि ।

२ गरीनामन, गदना ।

देवत - अण्य. १ देवने, प्रकष, रीगि, नदर के मानने । २ रीगित नये । ३ गण नोर-पर ।

देवता - अण्य १ देवने । २ गामने । दे 'देवता' । - देवता - अण्य देवने-देवने, दहूत पौठी देन में, पकर धरकने ।

देवतेग - श्री देवतेग, देवनात, रिगगना, निर्गोक्षण, गणना । [ २ रिगगा ।

देवाथा - पु. दूर; गदहाग ।

देवात - अण्य. भी, री ।

दर - न रिगार मे पर पस दार न गाना के रिगार गने

वाग्य दहेज, कन्यागुलक ।

देठ - पु. १ उठल, उठी, उठं; उठी; नाल । २ आजार, सहारा । मु० देठी लागणे - १ जम जाना । २ पनपना ।

देठी - श्री १ उठल, नाल, कमर आदि की ढडी । २. अरवी; कमल आदि की उडियो की मन्त्री वा रायता । ३ उठगे की सज्जी । देठीचें पान - न १ पान की एक क्रिस्म । २ अरवी का पत्ता ।

देणगी - श्री १ देन, दी हुई वस्तु । २ दान; चदा ।

देणावळ - श्री पारिश्रमिक, उजरत, मजदूरी । कहा. जशी देणावळ तशी घुणावळ - जैना दाम वैना काम ।

देणे - न देना, कर्ज, ऋण । - क्रि स देना, प्रदान करना; नौपना, बहाना । कहा० देणे नास्ति घेणे नास्ति - नौ नकद न तरह उचार, देना एक न देना दो; कोई प्रयोजन, मतलब न होना । दे गाय घरणी ठाय होणे - बहुत उर जाना, हिन्मत हारना, भगदउ मचना; काटो तो गून नहीं ।

देव - १ देव; देवता, ईश्वर, परमेश्वर, युदा, प-मात्मा । २. देवमूर्ति । - ऋषि-पु १ देवऋषि; देवऋषि, नारद । २. ओझा, जाट - पृंठ करने वाला, मायिक । - पापशी - श्री, कापुम - पुनरना, एक प्रकार की ल्प्यास और उगकी र्द । - पृत्य - न देवऋषि; देव-कार्य, मन - पृत्यादि पृत्य । - घर - न देवऋषि; देवगृह, देवना-घर; पृगाम्बान, देवरा । - दार - पु देवदार; देवऋषि । - दासी - श्री १. देवऋषि, देवमदिरी

नर्तकी । - २. वेर्या । - दूत - पु. देवदूत, फरिस्ता; पैगवर । - देवक - न दे 'देवक' । - धर्म - पु. देवपूजा, धर्मऋषि । - नदी - श्री देवनदी, गगा, भागीरथी । - नळ - पु. नरकट, नरकुल । - पण न देवत्व । - पिता - वि १ जो ईश्वर प्राप्ति के लिए पागल हुआ हो, धर्मनिष्ठ । २ पूजा पाठ का ढकोनला रचने वाला । - वाभळ - श्री कीकर (ववूल) । भापा - श्री देवभापा, मंस्कृत । - भोळा - वि भोला-भाजा, सीधा-पीदा, ईश्वरभक्ति मे तल्लीन रहने वाला । - मापून - पु. बहुत भला, सज्जन व्यक्ति । - मासा - पु. निर्मिगिल, एक प्रकार की बहुत बटी मठली । - रुखी - श्री - १ मदिन का गर्भ-गृह । २. देवमूर्ति रखने का आला । - रपी - दे 'देवऋषि' । - रसकी - श्री. ओझा का काम, पेशा । - लड - वि नास्तिक; ईश्वर को न मानने वाला । - लशी - दे 'देवऋषि' । - चाणी - श्री १ देववाणी, मन्त्र । २. आताश-वागी । - न्वान - न १ देवन्वान, पूण्यभूमि । २ देवोत्तर; देवता के लिए अलग की हुई जायदाद । देवाच्यान - अण्य. युदा की कमम। मु० - देव करणे - पूजाअर्चा करने रहना । - देवऋष्यात नमणे - मन उचट जाना । - नमनाग पावणे - कार्य की निद्रि हाना, आना पूरी होना । देवाकडे जाणे - मरना । देवाचें नांय घेणे - श्रीगणेश करना, काम धर्म करना, विष्मिन्ना करना । देवा-घर हवाला घालणे, ठेगणे - भग-वान पर भगवा रचना । देवागारये मरणे - चुपचाप

बैठना । [कागण, कोहवर ।

देवक - न मातृकापूजन, मातृ-  
देवघेव - स्त्री लेन - देन,  
व्यापार, सीदा, व्यवसाय ।

देवजी, देवजी घसाठा - पु. १  
वदरो के खेल मे पुरुष के कपडे  
पहना हुआ वदर । २ अनाडी ।  
कुरूप व्यक्ति ।

देवड - स्त्री अनुक्रम, पर-  
परा । - चाल - स्त्री दुलकी  
चाल ।

देवडी - स्त्री १ ड्योडी । २  
देहली । ३ चौकी, पहरा ।

देवता - स्त्री १ देवी । २ देव -  
प्रतिमा ।

देवन - पु देवन, पासे का एक  
खेल, जुआ । [२ ओझा ।

देववि - पु. १ देवपि, नारद ।

देवविणे - क्रि स दिलाना,  
दिलवाना । [मदिर ।

देवळ - न देवल, देवालय,  
देवळी - स्त्री १ दे 'कोनाडा' ।  
२ छोटा देवल । ३ देवदामी और  
उसकी सतान ।

देवाज्ञा - स्त्री मृत्यु ।

देवाण - घेवाण - स्त्री लेन-  
देन, आदान-प्रदान, कारोवार ।

देवी - स्त्री देवी, देव की  
पत्नी । - स्त्री वहु चैचक, माता,  
शीतला, सीतला । - चै चण तोंडा-  
वर असलेला - वि सीतला मुंह-  
दगा ।

देव्हारा - पु. १ देहारा, मिहा-  
सन, देवासन, देवघर । २ भक्ति  
का दिखावा, ढोग । मु० देव्हारे  
भाजविणे - क्षुद्र व्यक्ति को बहुत  
महत्त्व देना ।

देश - १ पु देश, मुल्क । २.  
क्षेत्र, स्थान । ३ प्रदेश, इलाका ।  
४ मह्याद्रि के पूर्व का इलाका

(महाराष्ट्र) । ५ राष्ट्र । - कारण -  
न देशमेवा, राजनीति । - त्याग  
- पु. १ देशत्याग । २ निर्वासन,  
देशनिकाला । - द्रोह - पु देश-  
द्रोह, गद्दारी, अपने देश का  
विश्वासघात । - द्रोही - वि देश-  
द्रोही, गद्दार । - भक्त - वि  
देशभक्त, देश की सेवा करने वाला ।  
- मुखे पु. परगने का एक अधिकारी  
जिसके मातहत उम इलाके के पटेल  
(चौधरी) काम करते थे । - वटा  
- दे 'देशत्याग' । - वही - स्त्री  
लोगों के नामों की सूची । - व्यव-  
हार - पु देशव्यवहार, देश का  
स्वाज । - सेविका - स्त्री देश की  
सेवा करने वाली स्त्री, स्वयमेविका ।  
- स्थ - पु देशस्थ, महाराष्ट्र के  
ब्राह्मणों का एक भेद । - वि देश  
मे स्थित ।

देशातर - न देशातर, दूसरा  
देश, विदेश । मु० - करणे -  
दूसरे देश मे जाना, यात्रा करना ।

देशाभिमान - पु अपने देश का  
अभिमान ।

देशी - वि देशी, देशका,  
स्वदेश मे उत्पन्न या बना हुआ ।

देशीकार - वि मराठी भाषा  
के आकार का, मराठी भाषा मे  
रचित ।

देशोघडीस - अव्य देश-देश मे  
पेट के लिए (घूमना) । मु०  
- लागणे - जीविका की खोज मे  
दरदर भीख मांगते फिरना, सब  
कुछ बरवाद होना ।

देह - पु देह, शरीर, तन ।  
- खड - पु. मानव शरीर, काया ।  
- त्याग - पु देहत्याग, मृत्यु ।  
- दड - पु, दडन - न १ शरीर-  
दड, शरीर को कष्ट देना, तप  
के द्वारा किया गया शरीर का सय-

मन । २ फांसी की सजा ।  
- घर्म - पु शरीर के प्राकृतिक  
कार्य, मल-मूत्र-विसर्जन का काम ।  
- भान - न होश, चेतना;  
विवेक । - स्वभाव - पु मनुष्य का  
प्राकृतिक स्वभाव, आदत । मु०  
- कारणों लावणे - अच्छे काम के  
लिए अपने को समर्पित करना । -  
क्षिजविणे - अपने को खपाना,  
बहुत कष्ट उठाना । - टाकणे,  
- ठेवणे - देह छोडना, मरना । -  
भान विसरणे - देह विसरना,  
सुध-बुध खो देना; अपने को भूल  
जाना ।

देहात - पु. देहान्त, मृत्यु । -  
प्रायश्चित्त - न मृत्युदंड, मौत  
की सजा ।

देहायसान - न देहावसान,  
देहान्त, अतकाल, मृत्यु ।

दैनदिन - अव्य. दैनदिन, हर  
रोज, प्रतिदिन, दिनो दिन ।

दैनदिनी - स्त्री दैनदिनी, रोज-  
नामचा, 'डायरी' ।

दैन - स्त्री दुर्गति, दुर्दशा,  
बुरी हालत, दैन्य, परेशानी ।  
मु० - उडविणे - बुरा हाल  
करना, दुर्गत बनाना ।

दैनिक - वि दैनिक, प्रतिदिन  
का, हररोज का । - न दैनिक  
पत्र, रोजाना अखवार ।

दैव - न दैव, भाग्य, नियति,  
नमीत्र, किस्मत । - गति - स्त्री  
दैवगति, भाग्य का फेर । - ज्ञ -  
वि १ दैवज्ञ, ज्योतिषी । २ सुनार ।  
- योग - पु. दैवयोग, सयोग,  
इत्तिफाक । - योगेकरून, - वशात्  
- अव्य दैववश, दैववशात्,  
सयोग से, इत्तिफाक से । - वाद -  
पु. दैववाद, नियतिवाद । - वादी  
वि जो दैव पर किस्मत की दुहाई

दे, नियतिवादी । - वान - वि भाग्यवान्, किस्मतवर, खुशनसीब । मु० - उघडणें - किस्मत चमकना, जागना, भाग्य खुलना, बढती के दिन आना । - उभें राहणें - भाग्य का जोर बढना, अनचाही बात होना; किस्मत पलटना । - ओढवणें - किस्मत विगडना, नसीब टेडा होना । - काढणें - किस्मत को जगाना, भाग्य को चमकाना । - फळफळणें - सितारा चमकना, भाग्य जागना । - फिरणें - नसीब पलटना, किस्मत विगडना । दैवाचा - वि भाग्यवान्, किस्मतवर । दैवाचा खेळ - यु किस्मत का खेल । दैवाचा पुतळा - यु. भाग्यवान व्यक्ति, नसीबवर आदमी । दैवाची कहाणी - रामकहानी, बदकिस्मी की बात । मु० दैवाची परीक्षा पाहाणें - किस्मत, नसीब आजमाना, भाग्य की परीक्षा करना । दैवाची रेषा उमटणें - किस्मत जागना, भाग्य खुलना । दैवाच्या नावानें हांका मारणें - नसीबको कोसना । दैवावर हवाला ठेवणें - दैव के भरोसे रहना । दैवास रडणें - किस्मत को रोना । कहा० दैव देतें आणि कर्म नेते - भाग्यसे मिलता है परन्तु आदमी की गलती से चला जाता है ।

दैवत - न १ दैवत, देवता ।  
२ अत्यंत पूज्य व्यक्ति ।

दैवी - वि १ दैवी, ईश्वरीय, दैवसवधी । २ आकस्मिक ।

दौद - न तोद, पेट का आगे की ओर बढा हुआ भाग ।

दौदिल, दोक्षा - वि तोदल, तोद वाला ।

दोआब - दे 'दुआब' ।

दोकडा - पु १ आघा पैसा (पुराना) । २ टुकडा, दोकडा । ३ रुपये का सौवां हिस्सा ।

दोधी - वि छी बहु दोनो, दोनो जनियां ।

दोधे - वि यु बहु दो, दोनो, उभय, दोनो जन । - जण - वि यु. दोनो जन, दो ।

दोडका - पु, दोडकें - न तुरई, तोरई; एक वेल जिसके फलो की तरकारी की जाती है ।

दोडा - पु. १ इलायची । २ कच्चा फल । - वि कच्चा (फल) ।

दोण-णी - छी १ नांद, दे 'डोण-णी' । २ तोद । ३ दोने के आकार की किस्ती, डोगी ।

दोन - वि दो, २। - दा - अव्य दुवारा, दोवारा । - दिवस - यु बहु दो दिन, थोडा बरसा । - अव्य थोडे समय तक; वक्ती तोर पर, अस्यायी रूप में । - प्रहर - यु छी दो पहर, मध्याह्न । मु. - दोटें स्वर्ग उरणें - धरती पर पाँव न रखना, दिमाग आसमान पर होना । - हात करणें - सघर्ष करना, दो चार होना, मुकाबला करना, डट कर लडना । - हाताचे चार हात होणें - विवाह होना, हाथ पीले होना । कहा० दोन डोळे शेजारें भेट नाहीं संसारें - पास रहते हुए भी बरसो तक भेंट नहीं होती । दोन दिवस सासूचे, दोन दिवस सुनेचे - सब दिन होत न एक समान, कभी गाडी नाव पर, कभी नाव गाडी पर ।

दोन्ही - वि दोनो । - सांज - अव्य. सुबह-शाम, दोनो जून । मु - दरडोंवर हात ठेवणें - दो नावोपर चढना या पैर रखना, दो वस्तुओ का सहारा लेना ।

दोर - पु रस्सा, मोटी रस्सी । - खड - न १ मोटा रस्सा । २ रस्से का टुकडा ।

दोरवा - पु डोरिया, घारी-दार कपडा, गवरून, चारखाना ।

दोरा - यु १ डोरा, तागा; मूत, घागा । २ शिगाफ, दरार ।

दोरी - छी १ डोरी, रस्सी । २ भूमि नापने का एक परिमाण जो १२० बीघे के बराबर होता है । ३. ईंच का आठवां हिस्सा । - वळण्याचा पेंच - यु. ऐंठा, रस्ती बटने का एक यंत्र । मु - सैल सोढणें - ढील देना, स्वच्छद होने देना, बधमुक्त करना ।

दोष - यु १ दोष, अपराध, कसूर । २ खराबी, अवगुण, ऐव, विकार । ३ त्रुटि, नुक्स; खामी । ४ लाछन, कलक; पाप । मु - काढणें - दोष, नुक्स निकालना, गीनमेख निकालना, छिद्रान्वेषण करना । - देणें - दोषी ठहराना, इलजाम लगाना । - लागणे - दोष लगना, हर्फ आना । - लावणें - दोष, लाछन लगाना, हर्फ लाना ।

दोपारोप - यु. दोपारोपण, अभियोग, दोष लगाना ।

दोपी - वि १ दोपी, अपराधी, गुनहगार । २ अभियुक्त, मुलजिम । ३ ऐवी, त्रुटिपूर्ण ।

दोस्त - यु [ फा ] दोस्त, मित्र, सुहृद् ।

दोस्तदारी, दोस्ताई, दोस्ती - छी [ फा 'दोस्तदारी' ] दोस्ती, मित्रता ।

दोही, दोहो - अव्य दोनो । - साज - अव्य सुबह-शाम, दोनो जून । कहा - घरचा पाहणा उपाशी - दोनो घर का मेहमान भूखा, दो

नावो पर चढ़ने वाला मुंह की खाता है, न घर का न घाट का।

दोडी - स्त्री १. डौंडी, डुग्गी, ढिंढोरा, ढँढोरा। २. मुनादी, घोपणा। - वाला - वि ढँढोरची ढँढोरिया, मुनादी करने वाला, ढँढोरा पीटने वाला। मु - देण, पिटणें - ढँढोरा पीटना, घोपित करना।

दौड - स्त्री १ दौड; दौडने की क्रिया। २ सवेग आक्रमण, जोरदार हमला। मु० - मारणें - दौडना, दौड मारना, लगाना।

दौडणें - क्रि अ १ दौडना। २ भागना। [ दवात, मसिपात्र।

दौत - स्त्री [ अ 'दवात' ]

दौरा - पु [ अ 'दौर' ]

दौरा, इधर-उधर आना-जाना, भ्रमण, यात्रा, अफसरो का गश्त।

दौर्वल्य - न दौर्वल्य, दुर्वलता, कमजोरी।

दौलत - स्त्री [ अ ] १

दौलत, धन, संपत्ति। २ ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि। ३ सत्ता, हुकूमत, राज्य। ४ सेना, फौज।

- जादा - पु स्त्री तमाशे (लोकनाट्य) में नाचने-बाली के साथ प्रेक्षको द्वारा किया जाने वाला भोडा मजाक। दौलतीचा खाद्य -

वि पु परिवार या राज्य का आधारस्तम्भ, प्रधान व्यक्ति, नेता।

घोतक - वि घोतक, सूचक। - न चिह्न, निशानी।

द्रव - न १ द्रव, तरल पदार्थ, रस। २ नमी, तरी, आद्रता। ३ क्षरण, पिघलना, चूना। -

वि द्रव, तरल। मु० - येणे - पिघलना, पसीजना, दयाई होना।

द्रव्य - न १ द्रव्य, धन-दौलत, पैसा, माल, संपत्ति। २ पदार्थ, वस्तु। ३. वह मूल वस्तु, जिमसे दूसरी वस्तुएँ तैयार की जाती हैं, उपादान, उपकरण। ४ औषध। मु० द्रव्याचा घूर निघणें - बहुत अधिक धन होना, अनगिनत संपत्ति होना।

द्राक्ष - न स्त्री द्राक्षा, दाख; अगूर। कहा० द्राक्षें आवट - दुष्प्राप्य वस्तु को बुरा कहना।

द्राक्षापाक - पु अगूरो का पाक। २ पढते या सुनते समय आसानी से समझ में आने वाली बात। [ रस। २ अगूरी शराव।

द्राक्षारस - पु १ अगूरो का

द्राविड - डी - वि द्राविड,

द्रविड देश का, द्रविडसवधी।

- प्राणायाम - पु द्राविड प्राणायाम, आसानी और सीधे तरीके से किये जाने वाले काम को टेढा बना कर करना।

द्रोण - पु १ द्रोण, दोना। २ दे 'डोण'। ३. आवा मन।

द्रोणी - दे. 'डोणी'। - चें मीठ न द्रोणी लवण, कर्नाटक के आसपास होने वाला एक प्रकार का नमक।

द्रोह - पु १, द्रोह, वैर, शत्रुता। २ विद्रोह, गद्दारी। ३ विश्वासघात, नमकहरामी, कृतघ्नता।

द्वद्व - न १ द्वद्व, युगुल, युग्म, जोडा, जोडी। २ कुश्ती, युद्ध, झगडा, सघर्ष - गीत - न युगलगान, दोगाना।

द्वड - वि शरारती, नटखट, वदमाश, दुष्ट।

द्वार - न द्वार, दरवाजा। दे 'दार'। - पूजा - स्त्री १ द्वार देवताओ की पूजा। २ किसी के यहाँ बारबार चक्कर लगाना।

द्वारा, द्वारें - अव्य. द्वारा, जरिये, तरफ से, ओर से, मारफत।

द्वह्री - स्त्री [ हि 'दुहाई' ] १ दुहाई, घोपणा, मुनादी। २. शपथ, सौगध। मु० - फिरणें - दुहाई फिरना, घोपणा होता। - फिरविणें - डौंडी, ढिंढोरा पीटना, घोपणा करना।

द्वितीया - स्त्री द्वितीया, दूज। २ कर्मकारक, द्वितीया विभक्ति (व्या)।

द्विदल - वि १ द्विदल; दोन दलो वाला, दो पत्तो वाला। २ द्वैध, दो दलो द्वारा संचालित। - धान्य - न द्विदल, दलहन, दो दलो वाला अनाज, दाल।

द्विधा - स्त्री १ मतभेद। २ दुविधा, निश्चय का अभाव, पसो-पेश। - वि दो भागो में बँटा हुआ, अनिश्चित, पसोपेश में पडा हुआ।

द्वीप - न द्वीप, टापू; जज्जीरा। - कल्प - न प्रायद्वीप, जज्जीरानुमा।

द्वेष - पु १ द्वेष, शत्रुता, वैर। २ डाह, जलन, ईर्ष्या। ३ नफरत। मु० - उगविणें - बदला लेना। - वागविणें - डाह करना, जलते रहना।

द्वैत - न १ द्वैत, भेदभावना, अलगाव। २ भिन्नता, दो होने का भाव।

द्वयर्थी - वि द्वयर्थक, जिसमे दोहरा अर्थ निकले, जूमानी।

## ध

ध - मराठी वर्णमाला मे त-  
वर्ग का चौथा वर्ण ।

धदा - पु. १. धधा, कामकाज,  
पेशा, कारोवार । २. झमेला,  
झझट, ऊटपटाग वातें, बुरा काम ।  
- रोजगार - पु. रोजी, व्यवसाय,  
नौकरी आदि ।

धदेवाईक - वि व्यवसायी,  
व्यावसायिक, पेशावर ।

धदेशिक्षण - न १ उद्योग-  
शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा । २  
व्यावसायिक शिक्षा ।

'ध' - पु [ साकेतिक ] धरना,  
पकडना । मु० 'ध' चा 'मा'  
करणें - १ किसी दस्तावेज में  
कुछ अक्षरों को बदलकर अपना  
उल्लू सीधा करना । २ उलटा -  
सीधा कहना, करना ।

धकरणें - क्रि अ १ निवहना,  
निभना, पूरा होना, निर्वाह होना,  
गुजारा होना, पार पाना । २  
धकेला, ढकेला जाना ।

धकधक - स्त्री १ धकधक,  
धडकन, हृदय का स्पन्दन । २  
खटका, हिचक, डर, रुकावट ।

धकधकणें - क्रि अ धक-  
धकाना, धडकना ।

धकलकार, धकलवार - पु  
अच्छूतो की एक उपजाति ।

धकविणें - क्रि स धकेलना,  
ढकेलना, आगे बढ़ाना, निभाना ।

धका - पु. धक्का, टक्कर,  
ठोकर । २ हानि, घाटा । ३  
(घोटीचा) जहाज-घाट, चह,  
पाट, घाट । - धकी - स्त्री धक्कम-  
धक्का, धकपेल, रेलपेल । - ० चा  
सामला - पु. मघर्ष का कार्य,  
झझट, झमेला । दे 'धक्का' ।

धक्का - पु. धक्का, टक्कर,  
ठोकर । दे 'धका' । - धक्की -  
स्त्री धक्कामुक्की, धकपेल,  
धक्कम - धक्का, धकावकी,  
रेलपेल ।

धग - स्त्री १ आंच, गरमी ।  
२ अलाव, कौडा ।

धगड - पु वगड, वगडा,  
उपपति, याग, जार ।

धगडी - स्त्री वगडी, रखेली,  
व्यभिचारिणी स्त्री ।

धगधगणें - क्रि अ १ धक्क-  
कना, धार्ये-वार्ये जलना । २ दे  
'धडधडणे' । ३ जगमगाना,  
चमकना । ४ बहुत गरम होना ।

धगधगि(गी)त - वि १  
धक्कता, दहलता, प्रज्वलित । २  
तेजस्वी, तेज वाला, प्रतापी ।

धगी - स्त्री आंच, गरमी ।

धजणें, धजावणें - क्रि अ १  
हिम्मत करना, तैयार होना । २  
आगे बढ़ना, धुसना ।

धजी - स्त्री लँगोट का तिको-  
निया कपडा । [ दे 'घटिगण' ।

घट - वि १ घृष्ट, ढीठ । २

घटिगण - वि पु धीगरा,  
मुस्टडा, गुडा, बदमाश, उजड्ड,  
लट्ठमार आदमी ।

घटी - स्त्री १ स्त्रियो के पहनने  
का एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ।  
२ घोती, पहननेना का वस्त्र ।  
३ वज्जी । [ वाला । २ 'घटिगण' ।

घट्ट - वि १ साहसी, हिम्मत  
घट्टाकट्टा - वि हट्टाकट्टा,  
तगडा, मजबूत । २ स्वस्थ,  
तदुरुस्त ।

घड - न बड, कवध, मिरकटा  
या विना सिर का शरीर ।

घड - वि १ अच्छा, पूरा,  
मावुत, अटूट, ज्यों का त्यों, सही  
सालिम, सहीसलामत । २ धनी,  
अमीर, मालदार । ३ बुद्धिमान,  
अक्लमद, सयाना । - गत - स्त्री  
खैर; निवाह, अच्छा लक्षण,  
चिह्न । - घाकट - वि १ मावुत,  
सही सालिम । २ दे 'घट्टाकट्टा' ।  
मु० - गत न लागणें, - गत नसणें -  
खैर न होना, शामत आना, टिक  
न सकना, अवतव होना, आ  
वनना । कहा० एक घड ना भारा-  
भर चिध्या - किसी काम का न  
होना, एक भी चीज, बात नीडी,  
मही सालिम न होना ।

घडक - स्त्री १ धक्का,  
टक्कर, आघात, ठोकर । २ दे  
'धडकी' । - अव्य वैधडक,  
नीधे, झपट कर, जल्दी से,  
घड से, वेखटके ।

घडकणे - क्रि अ १ धड-  
कना, धडधडाना । २ धडकना,  
दहकना, जल उठना, भभकना ।  
३ टकराना । ४ क्षुब्ध होना ।

घडकन् - अव्य घडाम से ।

घडका - पु. घडाका, घमाका ।  
- अव्य दे 'धडक' । - वि १  
सावुत, जो फटा न हो । २ हट्टा-  
कट्टा, मजबूत ।

घडकी - स्त्री घडकन, डर,  
धक्का । मु० - भरणे - दिल  
धडकना, डर जाना ।

घडकून - अव्य घडाघड,  
घडाम मे, जोर से ।

घडघड - स्त्री घडक, घडकन ।  
- अव्य घडाघड, लगातार,  
जोर से ।

घडपडणें - क्रि अ १

घडकना, घकघकाना, घकपकाना, डर जाना, आतंकित होना । २. घडवडाना, 'घड-वड' शब्द उत्पन्न होना या करना । ३. भडकना, जल उठना ।

घडघडाट - पु. घडवड, घडवडाहट, गज्जन-तर्जन ।

घडघडि(डी)त - अव्य साक-भाफ, त्रिलकुल, कतई; पूरी तरह । - वि दे 'घडघाकट' । - खोटें - न सफेद झूट ।

घडपड - स्त्री १ कोशिश, प्रयास, चेष्टा; प्रयत्न, परिश्रम । २ उखाड़ - पछाड़, दौड़-घूप, उछलकूद, हाथ - पाँव पटकना । ३ छटपटी, वेचैनी, झुंझलाहट, झल्लाहट ।

घडपडणें - क्रि अ १ भरसक प्रयत्न, चेष्टा करना, हाथ-पाँव मारना, कोशिश करना । २ उखाड़-पछाड़ करना । ३ वेचैनी होना, छटपटाना । ४ लडवडाना, गिरना । ५ झुंझलाना, झल्लाना ।

घडपा - पु पुरानी घोती आदि का बडा टुकडा, कपडे का टुकडा ।

घडफडणें, घडवडणें - दे 'घटपडणें' ।

घडा - पु १ पाठ, सबक । २ नसीहत, शिक्षा । ३ उदाहरण, मिसाल । ४ हिम्मत, नाहस, निश्चय । मु० - घणें - १ सबक, नसीहत लेना । २ पाठ सीखना, पढना ।

घडा - पु १ घडा, घडी, दस सेर का एक वजन या तौल । २ पसंगा । ३ जत्या, टोली, झुड । ४ दे 'घडाका' ।

घडाका - पु १ घडाका, धमाका । २ वित्कोट, बम आदि के फटने की आवाज । ३ घडल्ला,

सपाटा, झपटा । ४. धूम-धाम, ठाट-वाट ।

घडाइणें - क्रि अ १ घड-घडाना; धमाका होना । २ भहराना, दहना, यकवारगी गिरना, टूट पडना । ३ भभकना, भडकना । ४ दे 'घटघडणे' ।

घडाडां - अव्य घडावड ।

घडाडी - स्त्री हिम्मत, उत्साह, जोश, आवेस, उमग ।

घडाघड-डां - अव्य १. वडावड, लगातार, जल्दी-जल्दी, विना रुके । २ घडल्ले से, घडाम से, घडाके के साथ ।

घडी - स्त्री १ घडी, एक वजन जो पाँच (या दस) सेर का होता है । २ घटा, पसंगा । ३ तराजू । मु० - नें पँसा मोजणें - अपार धन होना ।

घडुतें - न हर रोज के इम्ते-माल का कपडा, दे 'घडोत' ।

घडेवाटप - न मयुक्त परिवार के सभी हकदारों की भूमि का किया गया पूरा बँटवारा ।

घडोत<sup>+</sup> - न, घडोती<sup>+</sup> - स्त्री, घडोतें - न १ कपडा - लत्ता, मोटा - शोटा कपडा । २ दे 'वडुतें' ।

घडु - वि [क 'दड्ड'] वुडू, अत्र - खोपडी, गावदी, उजड्ड ।

घण - स्त्री दे 'घन' - स्त्री ।

घणा - पु धनिया (बीज) ।

घणी<sup>\*</sup> - स्त्री १ इच्छा, आशा; आकांक्षा । २. तृप्ति, मतोप । ३ धन्यता । ४. विपुलता, नमृद्धि ।

घणी - पु दे 'घनी' ।

घणें - न धनिया (बीज), एक प्रसिद्ध मनाला ।

घत्तुरा; घत्तूरा - पु १ घता, अँगूठा; ठेंगा । २ घतूरा ।

मु - दाखविणें, - देणें - घता घताना, ठेंगा दिवाना, नाक डनकार करना ।

घन - न १. घन; वित्त, द्रव्य, सपत्ति । २. अत्यंत प्रिय, मूल्यवान् वस्तु । ३. गणित में योग का चिह्न (+) । ४. घनु (राशि) । ५. धनात्मक, धन (विद्युत्) । - स्त्री १ किमी की हानि हो कर मिलने वाला लाभ । २. समृद्धि । ३. इच्छा । - कनकसपन्न - वि घनी, अमीर, मालदार । - तेरस; - त्रयोदशी - स्त्री धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, (महाराष्ट्र में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी) । - दौलत - स्त्री धन-दौलत, पँसा, जायदाद; सपत्ति । - धान्य - न धनधान्य, रुपया-पँसा, अन्न आदि । - रेया - स्त्री धन-रेखा, हथेली पर धन को सूचित करने वाली लकीर । - वत, - वान - वि. धनशाली, धन-वाला, धनी, अमीर । मु० - (ची) करणें - आपस की फूट के कारण तीसरे को लाभ पहुँचाना । - रेया उपटणे, उमटणें - अनायास धन मिलना । - लावणें - (स्त्री) - बहुत बडा काम करना, विला फनह करना (व्यग्य) ।

घनको - पु लेनदार, महाजन, लहनदार, नाहूकार ।

घनगर - पु गडरिया, चरवाहा ।

घनी - पु १ मालिक, स्वामी । २. हकदार । ३. पति । - जोग - वि नामजोग, आदेशी (चिक), 'ऑर्डर' । [ इनमें विपरीत महा-जोग = बेकरर । परंतु हिंदी में घनीजोग = बेकरर और माहजोग = कानूज । ] फहा० धन्याना घत्तुरा आणि चाकराला मलिदा - मालिक को घता और नौकर को



मलीदा ।

धनुकली - स्त्री १ ( वाद्य वाजविण्याची ) कमानचा, धनु, गज, कमाना । २ ( खेळातली ) धनुई, धनुही । ३ कमानचा, छोटी कमान, छोटा धनुष । ४ छोटी धनुकी ।

धनुष्य - न धनुष, कमान ।  
- वनविणारा - वि धनुष्कार, कमगर, कमानगर, धनुष, कमान बनानेवाला ।

धने - पु बहु धनिया (बीज), एक प्रमिद्ध मसाला ।

धन्य - वि १ धन्य, कृतार्थ । २ सुखी, भाग्यशाली । ३ श्रेष्ठ, प्रवित्र । - वाद - पु. धन्यवाद, शुक्रिया, आभार । मु०-वाटणें - अपनेको धन्य, कृतार्थ, भाग्यशाली मानना, अपनी सफलता पर सतोष होना ।

धन्यता - स्त्री धन्यता, कृतार्थता, मार्थकता, सफलता ।  
धपकन - अव्य धप से, वडाम से ।

धपका - पु १. धक्का । २ घप्पा, मुक्का, थप्पड, तमाचा, धूसा । ३ घडकन, ठर । ४ मोटी रोटी ।

धपाटणें - क्रि स घप्पा, थप्पड, धूसा लगाना, पीटना, कन्नूमर निकालना ।

धपाटा - पु १ घप्पा, चाँटा; वील, घप्पड । २ मोटी नमकीन रोटी । [ तडातड ।

धपाघप - अव्य. धमाधम, धप्पकन् - दे ' धपकन ' ।

धवडगा - पु काम की अधि-कता, काम का भारी बोझ ।

धवधवा - पु झरना, प्रपात ।  
- अव्य वववव, जोर-शोर से ।

धवाधवी - स्त्री १ गंद मे एक-दूसरे को मारने का बच्चो या खेल । २ पिटाई, गोल-पप्पा ।

धमक - स्त्री १ हिम्मत, साहस । २ क्षमता, सामर्थ्य, ताकत; मजाल । ३. कसक, टीम । ४. गध, महान, बू । - वि गाथा, गहरा ।

धमकावणी - स्त्री धमकाना, टाटना; धौंमपट्टी, धौंमपट्टी; धमकी, धोस । दे ' धमकी ' ।

धमकावणें, धमकाविणें - क्रि स धमकाना, धमकी देना, टाटना; धौंम जमाना; धुटकना ।

धमकी - स्त्री धमकी, धौंम, धुडगी, टाट-उपट ।

धमणी - स्त्री. छन वाली गैर-गाडी । दे ' धमनी ' ।

धमनी - स्त्री १ धमनी, नाडी, गिरा । २ फुंकनी, फुफ्फुनी । ३ दे ' धमणी ' ।

धमामा - पु [ या ' दमाम ' ] दमामा, डका, नगाडा; धोसा ।

धमाल - वि मोटा - ताजा, स्थूल । - स्त्री गडबडी, हडबडी, धाँवली, शोरगुल ।

धम्मकलाडू - पु घप्पा, चाँटा, धौल, मुक्का, धूसा ।

धर - पु स्त्री १. धर, धरने, पकडने की क्रिया या क्षमता । २ स्थिरता । ३ धीरज, हिम्मत ।

४ रोख रखने की क्षमता । ५ सगति; नामजस्य, तालमेल ।  
मु - सुटणें - हिम्मत, धीरज हारना, छूटना ।

धरण - न १ बाँध, पुश्टा, धुस्स, वद । २ आधार । - खाव - पु. मकान की भूमि से छत तक का सभा । - मूळ - न पेड की प्रधान जड ।

धरणी - स्त्री धरणी, पृथ्वी, धरती । - कप - पु. नक्षत्र, गुणाळ, जलजडा । मु - धर पटणें - १ धराशास्त्री होना । २. आसन्न-मरण होना । फल० दे माय धरणी ठाय हीणें - रती गहाग न मिलना, मृत नवाया जाना, हेरान होना ।

धरणें - क्रि म १ धरना; पकाना; ग्रहण करना, यामना । २. राना । ३. मन में मोचना । ४ गिरणतार करना । ५ व्रत, नियम आदि का पालन करना । ६. मान देना, फडें करना । ७ देना, प्राप्त करना । ८ शामिल करना । मु. धरत वसणें - छिद पाडना, अपनी बात पर अटें रहना ।

धरणें - क्रि व. १. लगता (फल आदि) । २ ऐँटना, ददें करना, बकडना । ३ चिपकाना । ४ रुकना ।

धरणें - न १ धरना, प्रायना या माँग पूरी होने तक दिनों के यहां अट कर बैठना या नटे रहना । ३ गिरणतारी के लिए नैजे हुए सिपाहियों की टोली, गिरणतारी । २ पकड; प्रमान, कब्जा । - करी, - दार - पु १ धरनेत, धरना देने वाला । २ जिही भिसारी । - पारणें - न एक दिन भोजन और एक दिन उपवास करने का व्रत । मु - धरणें - जिद पकडना, जिद के साथ माँग करना । - धरणें, - धरत वसणें - धरना देना । - धरणें - १ गिरणतारी के लिए सिपाहियों का आ जाना । २ यमराज का बुलावा आना ।

धरती - स्त्री - स्त्री १ धरती, पृथ्वी, मसार । २ जमीन, भूमि ।

घरपकड - छी घरपकड, पकड - धकड, एक साथ की जाने-वाली कई लोगो की गिरफ्तारी ।

घरवद - घ - पु १- नियम, वधन, नियत्रण, कानून, कायदा । २ सीमा, हद । ३. ताल - मेल, सामजस्य ।

घरमधक्का-पु १ घरमधक्का, धर्मधक्का, व्यर्थ का परिश्रम, निष्फल प्रयत्न । २ झझट, झमेला । ३ परेशानी ।

घरसोड - छी चचलता, अस्थिरता, दुविधा, आगा-पीछा ।

घरून - अव्य १ पकड कर । २ मिला कर । ३ से । मु० - वसणे - दे ' घरणे ' मे ।

घर्ती - छी ढग, प्रकार, शैली, किस्म ।

धर्म - पु १ धर्म, मजहब, दीन । २ सहजप्रवृत्ति, स्वभाव, प्रकृति । ३ निष्पक्षता, औचित्य, न्याय । ४ यम, युधिष्ठिर । - कर्म - न १ धर्मकर्म, धार्मिक कृत्य । २ आचार । - ० सयोग - पु सयोग, इत्तिफाक । - ध्वज - पु धर्म का झंडा । - ध्वजी - वि धर्मध्वजी, जिमने धार्मिकता का ढोग रचा हो, पाखडी । - भोळा - वि १ धर्म मे अग्रविश्वास, अग्र-श्रद्धा रखने वाला । २ धर्म-परायण व्यक्ति । ३ दे ' धर्मवेडा ' । - मार्टेड - पु १ बडा धर्मपरायण व्यक्ति । २ दे ' धर्मध्वजी ' । - लड - वि नास्तिक, पाखडी । - वीर - पु धर्मवीर, मुजाहिद, धर्मरक्षक । - वेडा - वि धर्मो-न्मत, कट्टर, फिरकापरस्त, धर्मांध । - शाळा - छी धर्म-शाला, सराय । - शाळेचें उखळ - न वेस्था । - शील - वि धर्म-

शील, मजहबी, मजहबपरस्त । मु० - करिता कर्म उभें राहणें - दूसरो की मलाई करते समय स्वय सकट मे फँस जाना । धर्माचा कांटा - पु वह कांटा जहाँ लोगो को उनकी चीजें तील कर दी जाती हैं और उससे होने वाली आमदनी धर्मादा मे जमा की जाती है । धर्माचा पहारा - पु सुवह का समय । धर्माची गाय - छी १ मुपत मिली हुई चीज । २ लडकी, बेटी । - वि अल्लाहमियाँ की गाय, सीधा-भोला, बिना छक्के पजे का । मु० धर्मावर सोमवार सोडणें - स्वय कण्ट न उठा कर अपना उल्लू सीधा करना ।

धर्मच्छल - पु धर्म के नाम पर किया जाने वाला अत्याचार ।

धर्मादाय - पु धर्मादा, धर्मार्थ निकाला हुआ धन । - अव्य वि धर्मार्थ, खैराती, धर्म के लिए ।

धर्मार्थ - अव्य १ धर्मार्थ, धर्म के लिए । २ मुपत, खैराती ।

धवळणें - क्रि स १ श्वेत, सफेद, निर्मल, स्वच्छ बनाना । २ जगमगाना । ३ दे ' ढवळणे ' ।

धवळा - दे ' ढवळा ' ।

धवळार - न हवेली, प्रामाद । - वि धवल, सफेद ।

धश्चोट - वि (ग्रा०) लठ, असम्य, वर्वर, जगली, उजड्ड ।

धष्टपुष्ट - वि हृष्टपुष्ट, तगडा, गलगुथना, हट्टाकट्टा, मोटा - ताजा, मजबूत ।

घस - पु १ खूँटी, कील । २ उजड्ड, लठ आदमी । ३ खुत्य, खुथी । ४ घक्का, आघात, चोट । मु० घसास लावणें - पूरा करना, फँसला करना, अजाम देना ।

घसकट - न १. परेग, कांटा । २ खुत्य, खुथी । - वि मोटा - झोटा, खुरदरा ।

घसकफसक - छी १ लापरवाही । २ धृष्टता । - अव्य. जल्दी-जल्दी, लापरवाही से, धृष्टता के साथ ।

घसका - पु १ घक्का, आघात । २ घडकन । मु० - वसणे - आघात पहुँचना, डर जाना, सहमना, सन्नाटे में आना ।

घसणें - क्रि अ १ नीचे को खसना । २ घुसना ।

घसफस - दे ' घुसफुस ' ।

घसमुसळघा - वि धांधली-वाज, जल्दवाज । २ उजड्ड, जाँगल ।

घस्स - न १ घक्का, आघात । २ घडकन । म० - होणे - धक होना, डर जाना, सकपकाना, हडबडाना ।

घागर्डाघगा - पु ऊधम, धमा-चौकडी, शोर-गुल, हल्ला; धीगा-धीगी, धीगा-मृस्ती ।

घाडोरा - दे ' डागोरा ' ।

घाडोळणें - क्रि स खोजना, ढूँढना ।

घादरट - वि धांधलीवाज, जल्दवाज, हडबडिया, उतावला ।

घादल - छी १ गडवडी, हड-वडी, जल्दवाजी । २ धांधली ।

घादोटी - छी घज्जी ।

घांधरट - दे ' घादरट ' ।

घाव, घावणे, घांधपळ, घावा - दे ' घाव', ' घावणे', ' घावपळ', ' घावा ' ।

घाक - पु घाक, रोव, दव-दवा, आतक, डाँट, धमकी, दहशत, डर । - वपटशा - पु धमकी, दहशत, डाँट-डपट ।

- धुक, - धुकी, - धूक - छी  
धुकधुकी, घडकन, आशका ।  
मु० - घालणें, - दाखविणें -  
डराना, धमकाना । - लावणें -  
धाक जमाना, रोव जमाना ।

धाकट - दे 'धाकड' ।

धाकटा - ला - वि १ छोटा ।  
२ उम्र में सब से छोटा ।

धाकड - वि १ मोटा-झोटा,  
खुरदरा । २ मजबूत । ३ गफ,  
ठोम, ठसा । ४ उजड्ड, घीगरा ।  
धाकणें - क्रि अ १ डरना,  
घबडाना । २ चौंघियाना, चक-  
चौंघना ।

धाकुटा - ला - वि पु १ दे  
'धकटा' । २ सेवक, दास-दासी ।  
३ 'धाकड' ।

धागधुगी, धागधूग - छी धुक-  
धुकी, घडकन, डर ।

धागा - पु १ धागा, डोरा,  
तागा, सूत । २ सुराग, पता ।  
३ रिश्ता, सबध । - दोरा - पु  
१. मूत्र, सुराग, पता । २ सबध;  
रिश्ता ।

धाट - न १ कडवी, जुआर  
आदि का डठल । २ गँवारो का  
गाँव । - छी दे 'धाड' ।

धाटणी, धाटी - छी तर्ज,  
दग, पद्धति, शैली, लहजा ।

धाड - छी १ धावा, हमला,  
हल्ला । २ दे 'टोळधाड' । ३  
डाका । ४ छापा, अभियान,  
सहस्राक्रमण, आकस्मिक चढाई ।  
मु० - घालणें - १ छापा मारना ।  
२ डाका डालना । - पडणें - सकट,  
आफत आ पडना । - बडविणें; -  
भरणें - आफत आना, कमर  
टूटना । कहा० धाड पडावी पण  
चीत पडू नये - टिड्डियो का  
हमला भले ही हो, पर चित्रा

(नक्षत्र) की वारिश न हो (जो  
फल के लिए बहुत हानिकर है) ।

धाडकन, धाडदिशीं - अव्य.  
घडाम से, धम से । मु० - पडणें -  
बरराना, टूट पडना, घडाम से  
गिर पडना, ढहना ।

धाडणें - क्रि स १ भेजना,  
रवाना करना । २ गँवाना, खोना ।  
३ घटाना ।

धाडघाड - अव्य १ धवधव,  
घडाम से, घडाघड, घडाके से ।  
२ धकधक, धकधक ।

धाडशी - दे 'धाडसी' ।

धाडस - न साहस, हिम्मत,  
हियाव ।

धाडसी - वि साहसी, निडर;  
हिम्मतवर, दिलेर, निर्भीक ।

धाणें - क्रि अ तृप्त, सतुष्ट  
होना ।

धात - छी १ धातु । २ वीर्य ।  
३ नाच का एक ढग । ४ खूशी,  
युक्ति, तरकीब । ५ मनगढत  
वात, फर्जी किस्सा । - मात - छी  
१ युक्ति, तर्क । २ जतर-मतर ।  
३ मनगढत वात, किस्सा ।

धातु - पु छी १ धातु, घात ।  
२ वीर्य, रेत । ३ क्रिया का मूल  
रूप । ४ रक्त, मास आदि सात  
शरीरम्य पदार्थ । - साधित - न  
कृत ।

धादात - पु प्रत्यक्ष प्रमाण,  
अनुभवसिद्ध, बुद्धिग्राह्य सिद्धात,  
स्वानुभव । - अव्य साफ-साफ;  
विलकुल, स्पष्ट रूप से, कतई ।

धान्य - न १ धान्य, अनाज,  
अन्न, गल्ला । २ वनिया । -  
फराळ - पु अनाज भूनकर बनायी  
रसोई, पक्की रसोई का भोजन ।  
- बाजार - पु अनाज की मंडी;  
अजही, गल्ले का बाजार । मु०

- झटकणें - ओसाना, फटकना ।  
धाप - छी १ हाँफा, साँम,  
दम । २ दमा । मु० - लागणें -  
हाँफा छूटना । धापा टाकणें -  
हाँपना, हाँफना ।

धावर्द्धिगा - दे 'वागर्द्धिगा' ।  
धावळी - छी १ लोई । २ ऊन  
की मोटी - झोटी धोती ।

धावें - न धावा, मिट्टीकी  
छत, छप्पर । मु० - दणाणणें -  
बहुत डर जाना, सिटपिटाना,  
सिट्टी गुम होना, सिट्टी भूल  
जाना, होश उड जाना । धाव्यावर  
वसविणे - १ अगूठेपर मारना ।  
२ सब कुछ छीन लेना । ३ ताक  
पर रखना, कान न देना, परवाह  
न करना, उल्लवण करना ।

धाम - न धाम; घर; वान-  
स्यान, अधिष्ठान । २. देवम्यान ।  
३ शरीर, तन । - पु बदरीनाय,  
जगन्नाथपुरी, द्वारिका और  
रामेश्वर ।

धामण - छी १ धामिन, एक  
तरह का नाँप जिमकी पूँछ में विप  
रहता है । २ एक प्रकार की  
मछली ।

धामधूम - छी १ धूम-धाम,  
चहल पहल । २ दौड-धूप, दौडा-  
दौड़ी । ३ गडबडी, अवेरा, हर-  
बोग । ४ शोरगुल, हल्ला-गुल्ला ।

धामा - म्या - वि पु धामड,  
सुस्त, फटीचर, अस्तव्यस्त ।

धाय - छी दहाड, ढाड,  
ढाढ, रोते समय जोर से चिल्लाने  
की आवाज । मु० - मोकलणें,  
- मोकलून रडणे - दहाड मारना,  
ढाढें मार कर रोना ।

धायटी - छी धाय, धववृक्ष ।  
धार - छी १ धार, वाड  
(तलवार आदि का तेज किनारा) ।

२ पहाड का कगार, करारा । ३ पहाडों की कतार । ४ क्षितिज-  
- करों - वि पु. सैनिक, जवान, योद्धा, तलवार का धनी, पराक्रमी पुरुष । - दार - वि १ (नाक) तेज, तीक्ष्ण । २ (घारेचा) धार-  
दार, धार वाला । - लावण्याचा दगड - पु सान । - लावणारा -  
वि सान देने वाला, कुनेरा । मु०  
करणें - सान देना, धार तेज करना । - बंद करणें - धार  
बांधना, मंत्र आदि की शक्ति से किसी हाथियार की काटने की शक्ति को कुठित कर देना ।  
- मारणें - पराक्रम करना, दिलेरी, वीरता दिखाना । धारेवर धरणें -  
कठोर अनुशासन से काम कराना, सत्नी से पेश आना ।

घार - छी १ धार, धारा, प्रवाह, वहाव । २ घाल, घलुआ, घाता, ग्राहक को तेल या गिनती के ऊपर दी जाने वाली चीज । ३ दुहना, दूध निकालना । - भर -  
ज्वल्य बहुत थोडा, जरा - सा ।  
- वणी - न १ दूध को गरम करने से पहले उममें मिलाया जाने वाला थोडा सा पानी । २ वहती हुई धारा का साफ पानी । मु० -  
काढणे - दूध दुहना । - वेणें - ओसाना । - धरणे - धार बांधना, इस प्रकार गिराना कि धार बंध जाय । - लागणें - धार बांधना, वहने लगना ।

धारक - वि धारक, धारण करने वाला ।

धारजिणा - दे ' धार्जिणा ' ।

धारण - छी १ भाव, दर, निर्वह । २ महँगी । ३ अकाल । मु० पावावर धारण वसणे - बहुत डर जाना, छक्के छूटना ।

धारण - न १ धारण, पकटना, धामना, लेना । २ अवलवन, ग्रहण; स्वीकार । मु० -  
करणे - १ धारण करना । २ ओढना, पहनना ।

धारणा - छी १ धारणा, स्मरणशक्ति, बुद्धि । २ ढग । ३ धीरज ।

धारवाडी फाटा - पु १ विलकुल ठीक तौलने वाला कांटा । २ शुद्ध, खालिस न्याय ।

धारसा - पु १ धारा, प्रवाह, वहाव । २ घाव; आघात । ३ दे ' वार ' । ४ कतार ।

धारा - पु १ कर, लगान, महसूल, राजस्व; मालगुजारी । २ किराया । ३ प्रथा, रिवाज, नियम, कायदा । ४ धारा, दफा, कानून, विधान । ५ धार, तलवार आदि का तेज किनारा । ६ फल (हाथियार का) । - तीर्थ - न समरभूमि, रणागण, मैदाने जग, रणक्षेत्र । - सभा छी धारासभा, विधान सभा, ' कौन्सिल ' । - मु० - तीर्थों पडणें - खेत रहना, युद्ध में मारा जाना, जग में गहीद होना ।

धारा - वि छोटा, तग ।

धाराडें<sup>+</sup> - दे ' धुराडें ' ।

धारिष्ट - न १ साहस, हिम्मत । २ धृष्टता, गुस्ताखी । - धान् - वि माहसी, निडर, निर्भीक ।

धारी - छी १ धारी, कपडे आदि पर की लकीर । २ किनारी, हाजिया, गोटा । - दार वि धारी-  
दार, जिसमें धारियाँ हो ।

धारोष्ण - वि धारोष्ण, तुरत का दुहा हुआ, ताजा और गरम (दूध) ।

धार्जिणा - वि १ अनुकूल, शुभकर, कल्याणकारी, हितकारी, हित्तु । २ चापलूमी करने वाला, परस्त । (मुसलमान धार्जिणा = मुस्लिमपरस्त) कहा० कसावाला गाय धार्जिणी - गाय कसाव की ही बात मानती है ।

धाष्टर्य - न १ धाष्टर्य, धृष्टता, गुस्ताखी, डिठाई, उद्दता, अविनय । २ साहस, हिम्मत ।

धाला - वि तृप्त, सतुष्ट । - क्रि अ तृप्त हुआ, सतुष्ट हुआ ।

धाव - छी १ दौड, पहुँच । २. वद, हाल (गाडी की) । ३ उडान, कल्पना, खयाल की हद । - दोरा - पु लगर, कच्ची मिलाई । - पळ - छी दौड-बूप, जोरदार कोशिश । मु० - घेणें - १ दौडना, दौड पडना । २ सहारा लेना । मु - दोरा घालणें - टाँका मारना ।

धावठा - पु धव (वृक्ष) ।

धावणें - क्रि अ १ दौडना, बहुत तेजी से चलना । ३ लपकना । ४ रक्षा, साहायता के लिए दौड पडना । - न १ दौड । २. रक्षक सेना, सिपाही । ३ गुहार, पुकार, टेर ।

धावता वि - दौडता हुआ, दौडने वाला । - दोरा - पु लगर, कच्ची मिलाई । दे ' धावदोरा ' । - घोटा - पु - यत्रचलित (यात्रिक) ढरकी, भरनी ।

धावती - वि छी दौडती हुई । - दृष्टि, - नजर - छी सरसरी निगाह ।

धावरा - वि दौडने वाला, चपल, वेगवान, तेज । - गुणाकार - पु. गुणन का एक

प्रकार जिसमें प्रत्येक सख्या को गुणा कर के गुणनफल अलग अलग लिखा जाता है। - भागाकार - पु भाग का एक प्रकार जिसमें भाज्य को भाजक की प्रत्येक सख्या से भाग दिया जाता है। दे 'वैठा गुणाकार-भागाकार'।

धावरें - न खुजली का एक प्रकार।

धावशी - स्त्री, धवस - पु धाय, धव (वृक्ष)।

धावा - पु १ गुहार, दुहाई, दोहाई, रक्षा के लिए पुकार, टेर। २ प्रार्थना का भजन, पद। - धाव-स्त्री दौड़-वूप, दौड़ा-दौड़ी, गड-वडी, त्वरा, जल्दवाजी। मु० - करणें, माडणें - दुहाई देना, रक्षा के लिए पुकारना, गुहारना। - धाव, - धावी करणें - दौड़वूप करना, हाथ-पाँव पटकना, मारना।

धास्तावणें - क्रि अ [अ 'दहशत'] दिल दहलना, डर जाना, खीफ खाना।

धास्ती - स्त्री [अ 'दहशत'] १ दहशत, हौलदिली, डर, खतरा। २ चिंता, फिक्र। ३ दिल की बडकन। मु० - खाणें, घेणें - डर जाना, भय खाना।

धिगा, धिगाणा - पु धीगा-धीगी, ऊबम, धीगामुस्ती, शरा-रत, उपद्रव, कोलाहल, शोरगुल।

धिगामस्ती - स्त्री १ दे 'धिगा'। २ मारपीट, हाथापाई।

धिड - स्त्री १ सार्वजनिक अप्रतिष्ठा, मानहानि, किसी की इज्जत उतारने के लिए निकाला हुआ उमका जुलूस। २ वह व्यक्ति जिमका इस प्रकार जुलूस निकाला गया हो। ३ अत्रिय, दुष्ट व्यक्ति।

धिडका - स्त्री हमेशा लोगो के

आगे आगे रहने की इच्छा रखने वाला, तिरस्करणीय व्यक्ति।

धिडवडा - पु सार्वजनिक अप्रतिष्ठा, बदनामी। मु० धिडवडे काढणे - बदनामी करना, दुर्गंत बनाना। धिडवडे निघणें, होणें - बदनामी होना; इज्जन की घज्जियां उडना।

धिडसा \* - पु १ भय, डर। २ धीरज, हिम्मत।

धिक् - अव्य. धिक्, छि, छि, छी।

धिक्कार - पु धिक्कार; भर्त्सना, फटकार, निंदा।

धिक्कारणें - क्रि स १ धिक्कारना, लानत - मलामत, भर्त्सना करना। २ ठुकराना, झिटकना।

धिटाई - स्त्री १ डिटाई, घृष्टता, गुस्ताखी। २ निडरपन, निर्भयता।

धिप्पाड - वि तनावर, ग्राडील, लवा और मोटा-ताजा, मजबूत।

धिमा-म्मा - वि १ धीमा, शात। २ सहनशील, धीर-गभीर।

धिम्माई - स्त्री, धिम्मेपणा - पु १ धीमापन, गभीरता। २ सहनशीलता।

धिरडें - न चीला, उलटा, एक तरह का वेसन का पराँठा। मु० पाठीचें धिरडें काढणे - बहुत पीटना, मरम्मत करना, कचूमर निकालना।

धिरा - पु १ आवार, स्तभ, खमा। २ प्रोत्साहन; ढाढस, सात्वना।

धीट - वि १ निडर, निर्भय, वेखीफ। २ धीर, दृढ, वैर्ययुक्त।

धीठ, धृष्ट, गुस्ताख।

धीर - पु १ धीरज, वैर्य,

सन्न। २ सहनशीलता, मयम, वचन। ३ दे 'धिरा'। ४. स्थिरता, मजबूती। - वि १. धीर, वैर्ययुक्त। २ गभीर, उदात्त। ३ दृढ, मजबूत। मु० - करणें - हिम्मत करना। - चेपणें - सकांच, झिझक दूर होना, हिल जाना, परच जाना। - देणें - ढाढस, धीरज वैवाना, सात्वन, दिलासा देना। - निघणें - सन्न किया जाना, रहा जाना, वेताव न होना। धीरानें घेणें - धीरज से, सन्न से काम लेना।

धुडणें, घड'ळणें - क्रि स दूँटना, खोजना, छान मारना, छान-बीन करना।

धुडाळा - पु खोज, छान-बीन, तलाशी।

धुद - वि १ वेहोश, मस्त; मग्न, मशगूल। २ धुंधला, अस्पष्ट। ३ जिमकी दृष्टि कमजोर पड गयी हो। - फुद - वि मत-वाला, मस्त। मु० - होणें - नशे में चूर होना, मतवाला, उन्मत्त होना।

धुदी - स्त्री १ नशा, खुमारी, मस्ती। २ धुध (आँख का एक रोग)। ३ धमड; मगरूरी।

धुदुर्मास - दे 'वनुर्मास'।

धुकधुक - , धुकधुकणें, धुक-धुकी - दे 'धुगधुग', 'धुगधुगणें'; 'धुगधुगी'।

धुकें - न कुहरा, कुहासा।

धुगधुग - स्त्री धुकड - पुकड, धकधकी, घडकन। - अव्य धक-धक, धकपक।

धुगधुगणें - क्रि अ घडकना, धकपकाना।

धुगधुगी - स्त्री १ धुकधुकी, धीमी घडकन। २. धुकधुकी, गले

का एक गहना; पदिक ।

घुडकावणें, घुडकाविणें - क्रि स १ दुतकारना, फटकारना, घुडकना । २ अस्वीकार, नामजूर करना । ३ भगा देना ।

घुडकूस, घुडगूस - पु १ ऊवम, उपद्रव । २ धीगा-धीगी, धीगामुस्ती ।

धुणारा - पु धोवी । - वि धोने वाला । [ धोने ी क्रिया ।  
धुणावळ - स्त्री १ धुलाई, धुणी - स्त्री १ धोना, धुलाई ।  
दे 'धुणे' । २ लूट, लूटना ।

धुणी - स्त्री धूनी ।  
धुणें - क्रि स धोना, साफ करना, पवारना । २ लूट लेना ।  
- न धोने के कपडे । - पाणी - न औरतो का घरेलू काम (कपडे धोना, पानी भरना आदि) - भाडी - न बहु कपडे धोने और वर्तन मंजने का काम ।

धुतकारणे - क्रि स धुतकारना, दुतकारना ।

धुतला, धुतलेला - वि धोया हुआ, साफ किया हुआ । - ताडूळ - पु १ साफ, निर्मल, सुंदर व्यक्ति । २ शुद्ध, सदाचारी, निर्दोष व्यक्ति ।  
- विस्तव - पु उलटा तवा, काला - कलूटा आदमी ।

धुनकणें - क्रि स धुनकना, धुनना । [नदी । दे 'धुरी' ।

धुनी - स्त्री १ धूनी । २ धुपणी - स्त्री १ प्रदर, सफ़ेद पानी, स्त्रियो का एक रोग जिसमें उनके गर्भाशय से सफ़ेद या लाल रंग का लसदार पदार्थ बहता ह । २ लूटा जाना, लूटना ।

धुपणें - क्रि स १ धुपना, धुलना, धोया जाना, साफ होना । २ वह जाना । - न क्षरण,

कटाव, छीजन, भूक्षरण ।

धुपणे - क्रि स १ धुंवाना, धुंघुवाना, थोडा-थोडा कर के जलना । २ खराब होना । ३ कुठना ।

धुपाटणें - न धूपदान ।

धुपारती - स्त्री १ शाम की आरती, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ की जाने वाली पूजा । २ धूपदान, धूपपात्र । ३ फटकार, घुडकी, झांसापट्टी ।

धुपावणें - क्रि स असमय गर्भपात होना । [ इत्र ।

धुपेल - न धूप का तेल, धुमश्चक्ती - स्त्री १ वमासना की लडाईं । २ विपुलता, बहुतायत । ३ धीगामुस्ती, हाथापाई, गडबडी, अवेर ।

धुमस - पु दुरमुस, जमीन या सडक पर विछाया गया ककड पीटकर बराबर करने का एक औजार ।

धुमसणें - क्रि स १ दुरमुस से पीटना । २ कूटना । ३ धुरी तरह पीटना, कचूमर निकालना । ४ लापरवाही से घुसेडना या हस्तेमाल करना ।

धुमसणें - क्रि स १ धुंघुवाना, थोडा-थोडा कर के जलना । २ कुठना, भीतर ही भीतर जलना, घघकना, तडफडाना ।

धुमाकूळ - पु १ ऊवम, तहलका, हुडदग । २ धीगामुस्ती, धीगाधीगी । [नईं टहनी ।

धुमारा - पु अकुर, कोपल, धुमाळी - स्त्री १ गडबडी, हुडदग, हुल्लड, उपद्रव । २ हमला । ३ झगडा । ४ चैन, मौज । ५ एक ताल (सगीत) ।

धुरघर - वि १ धुरघर,

निपुण, प्रवीण, माहिर । २ श्रेष्ठ, अग्रगण्य, प्रवान । ३ महान्, बडा ।

धुर - पु १ गांव या खेत की सीमा, हद । २ नेता; मुखिया । - स्त्री धुर, धुरा, गाडी का जूआ ।

धुरकट - वि १ धुआंसा, धुआंया हुआ । २ धूमल, धूमिल, धुएँ के रंग का, धुंधला, मटमैला । ३ धुआंयव, जिसमे धुएँ की-सी गंध हो ।

धुरकटणें - क्रि स धुआंन, धुएँ से बस जाना; धुएँ से मटमैला बनाना । [ गरदा ।

धुरळा - पु धल, गर्द, खेह, धुराडी - स्त्री गाडी का जूआ ।

धुरा - पु १ दे धुर । २ गांव या खेत की सीमा, हद, बाँव, मंड । ३ रीढ । ४ नेता, मुखिया । ५ घरा, धुर, अक्ष । - स्त्री १ धुरी, धुरा, धुर । २ वोझ, भार, जिम्मेदारो ।

धुराडें - न झुआंकश, दूदकश, धुआंला, चिमनी ।

धुरी - स्त्री १ धुआं, धूनी । २ धुर, धुरा, धुरी । ३ अघारिया, मोढा । ४ वोझ, जिम्मेदारो । ५ जूते का अगला भाग । ३ पाँव का ऊपरी हिस्सा [ मु० - देणे - १ सजा के तौर पर मिर्च आदि का धुआं देना । २ दवा के तौर पर औषधियो का धुआं देना । ३ ठगना ।

धुरीण - वि १ धुरीण, अग्रगण्य, श्रेष्ठ, प्रमुख । २ प्रवीण, माहिर ।

धुरोळा - पु धूल, गर्द, गर्दा । धुवट - वि १ धोया हुआ, धुला हुआ, साफ, स्वच्छ [ २ निर्मल, पवित्र ।

धुवण - न धोवन, वह पानी जिसमें चावल आदि धोया गया हो।

धुवा, धुव्वा - पु १ घञ्जियाँ, विघ्नस, नाग। २ बड़ी पराजय, करारी शिकस्त। मु० - उडविणें - घञ्जियाँ उडाना, चूर-चूर, तितर-वितर कर देना, बुरी तरह हराना।

धुसफुस - घी १ अन्वन, झगडा, झल्लाहट, भन्नाहट। २ कुहन, जलन, तनातनी।

धुमफुसणें - क्रि अ भन्नाना, खीझना, झल्लाना, विगडना, जलना, कुहन, तनतनाना।

धुसमुसणे - क्रि अ १ सिस-कना। २ कुहन, जलना, झल्लाना।

धुसमुमळा-ळ्या - वि असम्य, अशिष्ट, उजड्ड, अपरिष्कृत, अनगढ, असयत, धृष्ट, ढीठ, जल्दवाज, अक्खड, वेहूदा, बद-तमीज।

धुळ - 'धूळ' का समासगत रूप। - कट - वि मटमैला, मैला। - घाण - मलियामेट, सर्वनाश, वरवादी, सत्यानाश, दुर्दशा। - फँक - घी आँखों में धूल झोकना। - बड - घी धुरेंडी, धुलेंडी, धूलिवदन।

धुळाक्षर - न पढाई के प्रारम्भ में धूल पर लिखे जाने वाले अक्षर; वर्णमाला, हुरूफ।

धुळीस मिळविणें - दे. 'धूळ' में। धूड - न १. भारी भरकम शरीर, लास। २. मोटा-ताजा आदमी। ३ बडा अजगर साँप।

धूत - वि १ बोया हुआ, धुला हुआ। २ माफ, स्वच्छ।

धूप - पु १ धूप, लोवान, गुग्गुलु आदि गधद्रव्य। २ धूप

आदि का धुआँ। ३ धूपवत्ती। - काडी - घी धूपवत्ती। मु० - घालणें - १ धूप जलाना। २ परवाह करना, ध्यान देना। ३ खुशामद करना। [काट, कटाव।

धूप - घी क्षरण, भूमिक्षरण, धूम - घी १ दौड, भागना।

२ माहस, हिम्मत। ३ धूम, गोर, हल्लागुल्ला, भीड-भडक्का। ४ हमला, बावा। ५ ठाट, तैयारी, समारोह। ६ विपुलता, बहुतायत। - घडाका - पु १ धूमघडक्का, धूमवाम, ठाट-वाट, चहुल-पहुल, समारोह। २ शोर-गुल, होहल्ला, जोर-शोर। मु० - ठोकणें - १ भाग जाना, सिर पर पाँव रख कर भागना, नौ दो ग्यारह होना। २ तैजी से दौडना।

धूम - पु. धूम, धुआँ। - केतु - पु धूमकेतु, पुच्छल तारा, दुमदार तारा।

धूम्र - पु. धूम्र; धुआँ। - पान - न १ धूम्रपान; धूमपान; तमाकू, गाजा आदि पीना। २ तपस्या का एक प्रकार जिसमें केवल धुआँ पिया जाता है।

धूर - पु. १. धुआँ। २ जिला, कलई, मुल्म्मा। ३ मग्नता, तल्लीनता। ४. घमड, गर्व। ५ नगा। ६ गरम पदार्थ खाने से नाक और मुँह से निकलने वाली भाप। दे 'धुरी'। मु० - देणें - ठगना; धोखा देना। - निघणें - १ धुआँ निकलना। २ थोडा-थोडा कर के बाहर आना। ३ बहूतायत से होना।

धूर - घी धुर, धुरा, अक्ष। दे 'धुरा', 'धुरी'।

धूर्त - वि १ धूर्त, होशियार, चालाक। २ वचक, दगावाज,

बाघ, चट, काड्याँ।

धूलिवदन - न धूलिवदन, धुरेंडी, धुलेंडी।

धूसर - वि धूमर, मटमैला, धूरे रग का। - न १ कुहरा। २ चूर्ण, वुकनी।

धूळ - घी १ धूल, खाक, मिट्टी आदि का चूर, खेह, गर्द। २ दुर्दशा, दुर्गत। ३ गडवडी, अघेर। - दाण, - घाण-णी - घी दे 'धुळ' में। - पाटी - घी, पाटी, तख्ती जिस पर धूल फैला कर लकड़ी की कलम से बच्चों को लिखना-पढना सिखाया जाता था। - पेरणी - घी रसीता, रसीती। - भेट-घी १ हाथ-पाँव धो कर, मंदिर के अंदर जाकर करने के वाकायदा दर्शन से पहले दूर से ही किये जाने वाले दर्शन। २ बडे आदमी से भेट। ३ केवल दर्शन। मु० - उडणे - धूल उडना, उजड जाना। - चारणे - दाँत खट्टे करना, धूल चटाना। - फुकणें - धूल उडाते फिरना, मारा-मारा फिरना, जीविका की तलाश में धूमना। धुळीचे दिवे लावणे -

वदनाम होना। धुळीस मिळणें - धूल में, खाक में मिलना, सर्वथा नष्ट, वरवाद होना। धुळीस मिळविणें - खाक, धूल में मिलाना; मटियामेट करना, तहस-नहस, चौपट करना, वरवाद करना।

घेंड - न १ मोटा-ताजा, भारी भरकम आदमी। २ बडा असामी, प्रतिष्ठित, ख्यातनाम व्यक्ति। ३ अधपगला आदमी।

घेंडा - पु. विवाह के समारोह में वर-कन्या को कधो पर उठा कर नाचने वाला आदमी। २ इस प्रकार नाचने का कुलाचार, रिवाज।

घेड - पु. डेढ, डोम। -  
कावळा - दे 'डोमकावळा' -  
गुजरी - वि छी मिली-जुली,  
मिलावटी, खिचडी (भापा)।  
-वाडा - पु. डोमो की वस्ती,  
हरिजनो की वस्ती।

घेणें - \* क्रि स लेना, पक-  
डना, घरना।

घैर्य - न १ घैर्य, हिम्मत,  
साहस। २ सत्र, वीरज। - वान  
- वि १ धीरज, हिम्मत रखने  
वाला। २ सहनशील।

घोकटी, घोगटी - छी १  
किसवत, नाई की पेटी। २  
खुरजी, यैली।

घोगड - वि खुरदरा, मोटा-  
झोटा, अनगढ, वेढगा।

घोंगडें - न मोटा-झोटा कपडा।

घोड - छी १ बहुत बडा  
पत्थर, चट्टान, रोडा। २ अड-  
चन, रुकावट। ३ सकट,  
आफन ४ चिंता। ५ बोझ,  
दवाव। - फोड्या - वि सग-  
तराश, पत्थर काटने वाला। - भट्टी  
- छी वगैर नहाये चदन-तिलक  
लग्न कर लोगो को घोखा देना  
- सहिना, - मास - पु. लौंद,  
अधिकमास। - मार - पु. छी  
पथराव। - शीर - छी घोडा  
नस, मोटी नस। मु० - पडणें -  
आफत, सकट आ पडना।

घोडा - पु. १ पत्थर, रोडा।  
२ मलमास। ३ बुद्दू। ४ कठोर,  
सगदिल आदमी। - सहिना - पु.  
मलमास, अधिकमास, लौंद।  
मु० - पाडून घेणें - अपने पाँव  
पर कुल्हाडी मार लेना, आफत  
मोल लेना। घोडे मारू लागणें -  
पागल बनना। घोड्याचे दोर काढणें  
- १ बाल की खाल निकालना। २

अमभव बात करने की चेष्टा  
करना।

घोकटी - दे 'घोकटी'।

घोका - १ खतरा, भय,  
सकट। २ चिंता, फिक्र। ३  
नुकसान, घाटा। ४ दे 'शोका'।  
५ घोखा, कपट, वचना, दगा।  
मु० - देणें - घोखा देना, ठगना;  
विश्वासवात करना।

घोकेवाज - वि १ खतरनाक।

२ घोखेवाज, छलिया, वचक।

घोटा - पु. ढरकी, भरनी,  
तुरी। २ चोगा, ढरका।

घोणी - छी १ धोने की  
जगह। २ धोने का पत्थर। - छी  
घोवन।

घोण्या - पु. बदरो का मुखिया।

घोतर - न धोती। - जोडा -  
पु. धोतियो का जोडा।

घोतरा, घोत्रा - पु. धतूरा।  
मु० - घालणें, - देणें - धतूरा  
खिला कर पागल बनाना।

घोघो - अव्य मूसलाधार,  
मुसलाधार, मोटी धार से।

घोष - छी १ लवी, सीधी  
तलवार का वार। - वि सावुत,  
अखड, अटूट।

घोपट - न मोटी रोटी, वेसन  
की रोटी। वि १ सीधा, सरल।  
२ बडा, चौडा (मार्ग)। - अव्य  
सीधे, ठेठ। - मार्ग - पु १ राज-  
मार्ग, शाहराह, राजपथ, सीधा  
मार्ग। २ परपरागत रीति, प्रणाली,  
रिवाज। - मार्ग - वि १ सीधे,  
सरल मार्गपर चलने वाला, सीधा-  
सादा, भोला-भाला। २ स्पष्ट-  
वक्ता।

घोपटणे - क्रि स पीटना,  
ठोकना, फटकारना, पछाडना,  
मरम्मत करना।

घोपटी - छी १ किसमत,  
नाई का थैला या पेटी जिसमें वह  
अपने औजार रखता है। २  
दे 'घोकटी'।

घोवड - वि ऊबड-खावट,  
टेढा-मेढा, खुरदरा।

घोवी - पु. घोवी, रजक,  
कपडा धोने का पेशा करने वाला।  
- पछाड - पु. छी घोवी पछाड,  
कुशती का एक पेच। [की स्त्री।

घोवीण - छी घोविन, घोवी

घोरण - न १ नीति, रवैया।  
२ रूप, दिशा। ३ अदाजा,  
अनुमान। ४ स्वरूप। ५ लक्ष्य,  
मकसद। ६ झुकाव, रुजहान। ७  
शैली, ढग। ८ प्रथा, रिवाज।  
- पु. मार्ग, रास्ता।

घोरणी - वि दूरदेश, दूरदर्शी,  
समझदार, चालाक, होशियार,  
सूझ-बूझ वाला।

घोशा - पु. १ नगाडा, ढका।  
२ वाजा-गाजा, धूमधाम। ३  
हमला, धावा। ४ रट, रटत।  
५ ख्याति, शूहरत। ६ पराक्रम,  
बहादुरी, दिलेरी। ७ धाक,  
रोव, दबदवा।

घौत - वि १ घौत, धोया  
हुआ। २ निर्मल, पवित्र।

घ्याणें - \* क्रि स ध्यान,  
चित्तन करना, बराबर स्मरण  
करना।

ध्यान - न १ ध्यान, चित्तन।  
२ सोच, विचार, समझ,  
खयाल। ३ सूरत, मूर्ति, रूप।  
४ ढग, तरीका। ५ खूसट, फटी-  
चर आदमी। ध्यानी-मनी - अव्य  
ध्यान में, विचार में, सोते-जागते,  
हर वक्त। मु० ध्यानात आणणें,  
घेणें - समझ लेना, खयाल  
रखना, ध्यान रखना। ध्यानात



घेमें - १ नमद में जाना । २ नमद आना । [ ली ]

प्यास - पु निदिध्यान, लगन, ध्येय - न ध्येय, उद्देश्य, उद्देश; नकलण । - वाक्य - न आदर्शवित्त, आदर्श वाक्य, 'मोटो' ।

घ्यपद - न १ व्रपद, व्रवपद । २ टेक ।

ध्रव - पु १ ध्रव । २ ध्रव नाग । - वि ध्रव, अटल, अचल । - प्रदेश - पु ध्रवीय प्रदेश, ध्रवीय क्षेत्र ।

न - मराठी वपंमाला में त वर्ग का पाँचवा वपं ।

नगा - वि १ नगा, नग्न, निवस्त्र । २ पाजी, निर्लज्ज, बेहया । ३ कगाल । - नाच - पु निर्लज्जता का बरताव, धीगा-मुदनी-स्त्री । मु० - नाच घालणे - निर्लज्जता का आचरण करना, बेहतरगी बरना, जुल्म डाना ।

नतर - अव्य. वाद, फिर; ननुपगत, अनतर, पश्चात् । - चा - वि वाद का, परवर्ती ।

नंदमापा - स्त्री व्यापारियों की नादेतिह (दुगरे की) भापा ।

नंदणे - क्रि अ आनदित, नुश होना ।

नदादीप - पु अदाय, अम्बड रीप, भगवान् के सामने नतन जग्ने वाला दिवा ।

नदी - पु नदी; शिव का शरत् । २ दे 'नदीबेल' । - संज्ञ - पु १ नादिना; वट् बेल जिसे मन्ना कर्न अर्ने नाद घुमा-घुमा कर योगी गीत गाते हैं । २ गीत नादा; मुंग, बुदड़; बटिया

ध्वज - पु ध्वज, झंडा, पताका, निगान । - वदन - न सामूहिक ध्वजाभिवदन, झंडावदन । मु० - लावणे - १ सुवन फैलाना, झंडा फहराना; नाम कमाना । २ वदनाम होना, झंडे पर चढ़ना ।

ध्वजा - स्त्री ध्वजा, पताका, झंडा । - पर्वणी - स्त्री १ गुरु के निह राशि में आने पर मनाया जाने वाला पर्व । २ उस अवसर पर लगने वाला मेला । - वदन - दे 'ध्वजवदन' ।

## न

का ताऊ ।

नवर - पु [ अ ] १ नवर, सख्या, गिनती । २ क्रमांक; अनुक्रम, सिलसिला, क्रमसख्या । ३ सर्वक्षण-अक, 'सर्वे नवर' । - वार - अव्य. नवरवार, क्रमानुसार, मित्रसिलेवार । मु० - मारणे - १ नवर, सख्या लिखना । २ परीक्षा में अच्छे अक पाना, उच्च क्रमांक प्राप्त करना । - घेमें - १ वारी आना । २ उच्च श्रेणी के नाव परीक्षा में उत्तीर्ण होना ।

नवरी - वि [ अ 'नवर' ] १ नवरी, नवर वाला, बढिया । २ चट, चालाक, कुत्यात । - माल - पु १ बढिया चीज । २ अजीब व्यक्ति ।

न - पु नकार; इनकार, अन्वीरुति । - अव्य. १ न, नहीं; मत, कि नहीं, या नहीं । २ और, तथा, एव । ३ साथ ही, चंगे ही । - मत्तो न भविष्यति - वि अद्भुत; अद्भुतपूर्व, अजीब, जो न पहले कभी हुआ था और न कामे होगा । - पेक्षा - अव्य. नहीं

ध्वजारोपण - न १ ध्वजारोपण, झंडा गाडना या लगाना । २ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ध्वजा फहराने की विधि ।

ध्वनि - पु स्त्री १ ध्वनि, आवाज । २ सुर, स्वर । ३. शब्द । - प्रक्षेपण - न प्रसारण, नभोभाषण । - मुद्रिका - स्त्री स्वरमुद्रिका; 'रेकार्ड' ।

ध्वनित - वि १ ध्वनित, व्यजित । २ अम्पट, गूढ ।

ध्वात - न अवकार, अंधेरा ।

तो, वरना, फिर । मु - चा पाठा धोकणे, वाचणे - हर बात में इनकार करना, किसी काम के लिए तैयार न होना । कहा० न मागे तशाची रमा होय दासी - अनमार्गे मोती मिले, मार्गे मिले न भीस ।

नऊ - वि नी, ९ ।

नकटा - वि १. चिपटा, चिपटी, छोटी नाक वाला । २ नकटा, नक-कटा, जिसकी नाक कट गयी हो । कहा० नकटीच्या लगनाला सतराशें साठ विघ्ने - कानी के व्याह को मी मी जोत्रिम; ऐवदार चीज के लिए हर जगह मुश्किलें पैज आती हैं । नकटें व्हावें पण धाकटें होऊ नये - नकटा होना बेहतर है, बनिम्यत इसके कि छोटा हुआ जाय ।

नकटें - वि दे 'नकटा' । - न आधे पाव का माप, अत्रपई ।

नकराई - स्त्री. १ हुडी नकारना । २ वह मुआवजा जो हुडी नकारने से देना पड़े ।

नकल - दे. 'नकल' ।

नकलणे - क्रि अ [ अ ]

‘नकल’] नकल, प्रतिलिपि करना।

नकली - वि [अ ‘नकली’]

१ नकली, कृत्रिम; वनावटी।

२ काल्पनिक, फर्जी, मिथ्या;

झूठा, जाली। ३ मजेदार, मजा-

किया। - नाणें - न जाली

सिक्का, खोटा सिक्का। मु. - काम

करणें - वनावटी काम करना,

कच्चा खेल खेलना।

नकल्या - वि [अ ‘नकल’]

नक्काल, नकलची, नकल करने-

वाला, भांड, हँमोड।

नकशा, नकशी, नकसगिरी -

दे ‘नकाशा’, ‘नक्षा’ ‘नक्षी’।

नकसणें - क्रि स नक्काशी

करना, वेलवूटे खोदना।

नका - अव्य न, मत [इसका

प्रयोग मध्यम पुरुष, आज्ञार्थ बहु-

वचन में किया जाता है। उदा०

जाऊं नका = न जाएँ, मत जाओ।

वोलू नका = न बोले, मत बोलो।]

नकार - पु १ नकार, ‘न’

अक्षर। २ अस्वीकृति, इनकार।

= घटा - छी १ अभाव। २

इनकार, अस्वीकार।

नकारात्मक - वि नकारात्मक,

अभावात्मक, निषेधात्मक।

नकाराधिकार - पु रोव-अधि-

कार, निषेधाधिकार, ‘व्हेटो’।

नकाशा - पु [अ ‘नक्शा’]

१ नक्शा, मानचित्र। २ रेखा-

चित्र, खाका, नमूना। ३ चित्र,

तमवीर। ४ खबर।

नकास - पु [अ नक्कास’]

१ पशु खरीदने वाले की ओर से

दल्लाल को दी जाने वाली रकम,

कर। २ दे ‘नकाशा’, ‘नक्षी’।

नकी - दे ‘नक्की’।

नकील - छी नकेल।

नकुल - पु १ नकुल, पांच

म हिं श को २७

पाडवों में से चौथा भाई। २

नेवला।

नको - अव्य नहीं चाहिए,

मत। मु० - नको होणे - ऊब

जाना, बेजार होना।

नकोत - क्रि अ नहीं चाहिए

(बहु०)। [पुरुष एक वचन।]

नकोस - क्रि अ मत (मध्यम

नकल - छी [अ ‘नकल’]

१ नकल, खाका, प्रतिलिपि,

कापी। २ प्रतिरूप, अनुकृति,

स्वांग। ३ अनुकरण। ४ नाटक

आदि में अभिनेता-त्री का भाषण।

५ नाश। ६ हँसी की बात,

मजाक, मजा।

नक्की - वि [अ ‘नकी’]

निश्चित, यकीनी, पक्का, विल्-

कुल ठीक, यथातथ्य। - अव्य

निश्चित रूप में, कतई तौर पर,

जरूर, यकीनन, अवश्य।

नक्त, नक्त भोजन व्रत - न

नक्त, नक्तव्रत, एक व्रत जिसमे

केवल रात को तारे देख कर भोजन

करते हैं।

नक्त, नक्त - दे ‘नगद’।

नक्र - पु नक्र, घडियाल,

मगरमच्छ।

नक्राश्रु-श्रू - पु बहु झूठ-

का रोना, कपटपूर्ण आँसू, मिथ्या-

विलाप, कृत्रिम दुःख, झूठा टसुआ,

झूठी रलाई। [‘नक्षी’।

नक्शा, नक्शी - दे ‘नक्शा’,

नक्षत्र - न १ नक्षत्र। २

तारा, सितारा। - मडल - न

नक्षत्रलोक, आकाश। - माला -

छी १ नक्षत्रमाला, सत्ताईस नक्षत्रों

की सूची, समूह। २ वह माला

जिसमें मोनी के सत्ताईस दाने हो।

-माल-ला - छी विवाह आदि

अवसरों पर जुलूम में ले जायी

जाने वाली कागज के फूलों की

मालाएँ जो लंबे बाँसों में लट-

कायी हुई होती हैं। नक्षत्रासारखा

- वि अत्यंत रूपवान्, बहुत

सुंदर। मु० तोडावर-पडणें - हमेशा

वकते रहने की आदत होना। हाता-

वर-पडणें - चोरी करने की आदत

होना।

नक्षा - पु [अ ‘नक्शा’]

१ घमड, गर्व, दर्प, शेखी;

गन्तर, ऐंठ, अकड। २ ख्याति,

शुहरत। ३ नक्शा; खाका,

नमूना। ४ दे ‘नक्षी’। मु० -

उतरणें - घमड टूटना, चूर होना,

शेखी झडना, किरकिरी होना।

नक्षी - छी [अ ‘नक्काशी’]

१ वेल-वूटे खोदने, चित्र बनाने

आदि का काम, चित्रकारी, रग-

साजी। २ वेल-वूटे। - चा मोळा

- पु गहनों पर नक्काशी करने का

सुनार का एक औजार। - दार

- वि नक्काशीदार, वेलवूटे-

दार।

नख - न १ नख, नाखून।

२ खड, बहुत छोटा अश या

टुकडा। - क्षत - न १ नखक्षत,

नखछोलिया, नाखून के गडने से

पडने वाला चिह्न। २ पुरुषद्वारा

किये गये मर्दन, स्पर्श आदि से

स्त्री के स्तन आदि पर पडने वाला

नख का चिह्न। - खाणारा - वि

नखखादी, दाँतों से नख कुतरने

वाला। - भर - अव्य अत्यल्प,

बहुत थोडा। - विष - न १ नाखून

का विष। २ नाखून के जहर से

होने वाला फोडा या जटम। -

शिखात - अव्य नखशिव मे,

एडी मे चोटी तक, आपाद-मस्तक,

सिर से पैर तक। मु० नखाएवढा -

वि बहुत छोटा, क्षुद्र। मु० - दृष्टीस

न पडणे - सख्त परदा होना, औरो को विलकुल दिखाई न देना। - देणें, - लावणें - गला घोटना, रेतना, गले में नाखून गाड कर मार डालना। नखा बोटोवर खेळ-विणे, चाळविणे - उँगलियो पर नचाना, इशारो पर नचाना, इच्छानुसार काम कराना। नखा-बोटोवर चालणें - ठुमकते हुए, नखरे के साथ चलना, इतराना। नखाबोटोवर जेवणे - चटखारे लेते हुए, मजे के साथ भोजन करना। नखाला माती न लागणें - अत्यंत निर्मल, पवित्र होना। कहा० जेथें नखानें काम होतें तेथें कुन्हाड कशाला - जहाँ नाखून से काम चले वहाँ कुन्हाडी चलाने की क्या जरूरत ?

नखतेल - न [अ 'नापथा']  
१ उतैल, अलकतरा, फिनाइल,  
'नैपथा'। २ तारपीन।

नखरड्डु - दे 'नखुरडें'।

नखरा - पु [फा 'नखर']  
१ नखरा, अदा, नोकझोक,  
नाजोअदा, विलास-चेष्टा, हाव-  
भाव। २ दिखावटी इतकार,  
वनना। ३ शेखी, घमड। मु० -  
करणें - १ नखरा करना, इठ  
लाना। २ वनना। ३ ऐठना।

नखराई - श्री [फा 'नखर']  
नखरेवाज औरत।

नखरू, नखरूड - दे 'नखुरडें'।

नखरेवाज - अ [फा 'नखर']  
१ नखरेवाज, नखरा करने वाला।  
२ डौगदार, मुडील, सुदर।

नखरेवाजी - श्री [फा  
'नखर'] नखरेवाजी, वनाव-  
सिगार, नखरा।

नखला - पु [अ 'नकहत']  
नख, नखी (एक गधद्रव्य)।

नखला - पु १ नाखून मे  
काटे हुए सेवई के टुकटे। २  
बघनखा (बच्चो को पहनाने का  
एक गहना)। [की नोक।

नखाग्र - न नाखून, नाखून  
नखी - श्री १ मिजराव। २  
नाखून। ३ चगुल, शिकजा। ४  
खुर, टाप। ५ पशुओं के पाँवों में  
होने वाला एक रोग।

नखुरडें - न नखसूल, नाखून के  
पाम होने वाला एक किस्म का  
फोडा।

नखोदा - पु [फा 'नाखुदा']  
कर्णधार, नाविक, मल्लाह।

नग - पु नग, पर्वत, पहाड।  
२ वृक्ष।

नग - पु [फा] १ नग,  
नगीना, अँगूठी आदि में जडा  
जाने वाला बहुमूल्य पत्थर। २  
सख्या, अदद, धान, वस्तु,  
चीज। ३ कच्चे रेशम का गुच्छा।  
मु० नगास नग देणें - एक चीज  
के बदले दूसरी दे कर किमी तरह  
मख्या को पूरा करना।

नगद - न श्री [अ 'नकद']  
१ नगद, नकद रकम, रोकड,  
वह धन जो सिक्को के रूप में हो,  
उधार का उलटा, 'कैश'। २  
पूँजी, सरमाया, पैसा। - वि १  
नकद, प्रस्तुत। २ चुनिदा, बडिया।  
- अव्य नकद, तुरत रुपये देकर।

नगदी - श्री [अ 'नकदी']  
नगदी, नकदी, नकद रुपया,  
रोकड, पूँजी। - वि नकद,  
प्रस्तुत। - कारकून, - गुमास्ता -  
पु. रोकडिया, रोकड रखने वाला  
मुनीम।

नगर - न नगर, शहर। -  
पालिका - श्री १ नगरपालिका,  
नगरसभा। २. नगर-निगम।

- पिता - पु नगरपिता, नगरपाल,  
नगरपालिका का सदस्य। - भवानी  
- श्री नगरनारी, वारागना,  
वेग्या। - रचना - श्री नगर-  
आयोजन। - शेट - पु १. श्रेष्ठी,  
मेठ, नगर का अत्यंत धनी व्यक्ति,  
व्यापारियो, व्यवसायियो, बनियो  
का प्रधान। २. नगर का नेता।

नगराध्यक्ष - पु नगराध्यक्ष,  
नगरनिगमाध्यक्ष, नगरपालिका का  
अध्यक्ष।

नगरखाना - पु [अ फा  
'नक्कारखान'] नक्कारखाना,  
वह स्थान जहाँ नक्कारे बजते हैं,  
नौबतखाना, नगाडा खाने और  
बजाने की जगह।

नगारा - पु [अ 'नक्कार']  
१ नक्कारा, नगाडा, धौसा,  
उका। ३. बडा, फूला हुआ पेट।  
कहा० नगाच्याचो घाई तेथें टिमकी  
तुणें काई - नक्कारखाने में तूती  
की आवाज।

नग्न - वि १ नग्न, नगा,  
विवस्त्र। २ दरिद्र, कगाल। - सत्य-  
न विलकुल सच्ची और अप्रिय  
वात। मु० - सत्य सागणे - खरी-  
खरी नुनाना; कच्चा चिट्ठा  
खोलना। [विलकुल नहीं, - मत।

नच - चि - अव्य नहीं,

नजर - श्री [अ] १ नजर,  
दृष्टि, निगाह। २ कृपा, दया,  
कृपादृष्टि। ३ कुदृष्टि, बुरी  
नजर। ३ लक्ष्य, मकमद। ४.  
ध्यान, सावधानी, फिक्र। ५  
इच्छा। ६ मेट, उपायन, उप-  
हार। - कैद - श्री हिरासत,  
नजरबदी। - गहाण - श्री ऐसा  
रेहन जो महाजन के बजाय ऋण  
लेनेवाले के पास ही रहता है।  
- झूक - श्री अनजान में हुई

गलती, दृष्टिदोष, देखने में त्रुटि होना । - वद - पु. जादूगर, नजरबंदी करनेवाला । - वि नजरबंद, जिसे नजरबंदी की मजा दी गयी हो । - वदी - स्त्री १ नजरबंदी ( सजा ) । २ जादू । - भेट - स्त्री नजर - व-नियाज, भेंट - उपहार । नजरेचा खेळ - पु. १ वाएँ हाथ का खेल, बहुत आसान काम । २ नजरबंदी, जादू का खेल । नजरेचें पाप - न किसी बुरी बात को आँखों से देखने पर लगने वाला पाप । मु० - करणें - १ नजर करना, भेंट, उपहार देना । २ देखना । - टाकणें - नजर डालना, सरसरी तौर पर देखना, निगाह डालना । - पडणें - १ नजर लगाना, दीठ खा जाना । २ दिखाई देना, नजर, निगाह पडना, दृष्टिगत होना । - फावणें - १ दृष्टि विशाल होना । २ महत्वाकांक्षा बढ जाना । - भरणें - बारबार देखने से भय, आदर, घृणा आदि का नष्ट हो जाना । नजरेत भरणें - आँखों में बसना, समाना, नजर पर चढना, पसंद आना, प्रभाव, असर पडना । नजरेस पडणें - निगाह पडना, दिखाई देना । नजरेस येणें - १ दिखाई देना । २ नजर पर चढना, पसंद आ जाना । ३ ध्यान में आना, पाया जाना ।

नजरानजर - स्त्री [अ 'नजर'] देखादेखी; चार आँखें होना । मु० - होणें - आँखें चार होना ।

नजराणा - पु [अ फा. 'नज्रान' ] नजराना, उपायन, भेंट, उपहार, तोहफा, सीगात ।

नजदीक - अव्य [फा 'नजदीक'] नजदीक, निकट, पास, समीप,

करीब ।

नट - पु. १ नट, अभिनेता, अदाकार । २ मदारी । ३ भांड । - मोगरा - पु छैला, बाँका, अलवेला ।

नटणें - क्रि अ १ सजना, बनावसिगार करना, बनना-ठनना । २ मटकना, ठुमकना । ३ अभिनय करना । - न बनाव-सिगार, बनना-सँवरना ।

नटूनयटून - अव्य बनठन कर, सज-धज के साथ, बनाव-सिगार कर के ।

नटवा - वि नखरेवाज, छैल-चिकनियाँ, बाँका । - पु. नट, मदारी । [ बाँकपन, शोखी, अदा ।

नटवेपणा - पु. नखरा, नाज, नटी - स्त्री १ अभिनेत्री । २ नटिन, नटिनी, नर्तकी ।

नट्टापट्टा - पु. १. चटकमटक, बनाव-सिगार, सज-धज, नोक-झोक, तडक-भडक । २ नखरा ।

नड - स्त्री १ जरूरत, आवश्यकता, हाजत, गरज । २ बाधा, अटवन । मु० - काढणे, - भागविणें - हाजत पूरी करना, अभाव को दूर करना ।

नडगी - स्त्री, नडगें - न, नडघा - पु. [क] १ घुटने से एड़ी तक की हड्डी, नली । २ घटना ।

नडणें - क्रि अ १ अटकना, अडना, रुकना, फँसना । २ अमु-विधा होना, जरूरत होना ।

नणद - स्त्री ननद, ननद, पति की बहन ।

नणदावा - पु. ननद द्वारा सताया जाना । २ ननद का पति ।

नतब्रष्ट - वि १ बडा कजूस, मकलीचूस । २ दुष्ट, बदमाश ।

नत्राम्ल - पु. न. यवक्षारीय

अम्ल; नाइट्रिक अम्ल ।

नथ - स्त्री नथ, नथुनी (नार्क में पहनने का वाली की शकल का एक गहना) । मु० नथीतून तीर मारणें - औरतो की ओट में रह कर वाग करना, सामने न आ कर हमला करना, टट्टी की ओट शिकार खेलना । [ दरिया ।

नद - पु. नद, बडी नदी; नदर<sup>+</sup> - दे 'नजर' ।

नदी - स्त्री नदी, दरिया । - गक, - वुड, - वूड, वि गरकी, (वह जमीन) जो पानी में डूब जाय या डूबी रहे । कहा० नदीचें मूळ व ऋषीचें कूळ पाहूं नथे - नदी का उद्गम (मूल स्रोत) और ऋषि का कुल नहीं देखना चाहिए, वटे लोगो का अतीत काल जानने वकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए ।

नन्ना - पु. इनकार, अस्वी-कृति, ना-ना या नहीं-नहीं कहना । - चा पाढा - पु. हर बात में ना कहना, ना की रट । मु० - चा पाढा वाचणें - हर बात में ना कहना, ना की रट लगाना । म्हणणें - डगमगाना, लडखडाना ।

नपुमक - पु. न १ नपुमक, हिजडा, पढ । २ कायर, डरपोक । - वि नपुमक (शब्द) । - लिंग - न नपुमकलिंग, मुखन्नस । कहा० नपुसकाच्या हातीं पद्मीण, रभा - हिजडे के कब्जे में पद्मिनी, रभा, वेमेल बात ।

नपेक्षा - दे 'न' में ।

नफा - पु. [अ 'नफअ'] नफा, मुनाफा, लाभ, फायदा । - तोटा - पु., - नुकसान - न नफा और नुकसान; मुनाफा और घाटा, लाभ-हानि ।

नफेबाज - वि [अ. 'नफअ'

+फा 'बाज' ] मुनाफाखोर, अनुचित लाभ उठाने वाला ।

नफेबाजी - स्त्री [ दे ' नफे-बाज ' ] मुनाफाखोरी, अनुचित लाभ उठाना ।

नवला - वि दुवला, निर्बल, कमजोर, दे 'नेमला' ।

नवाव - पु [ अ ' नव्वाव ' ] १ नवाव, जागीरदार । २ अमीर, बनी आदमी ।

नम - पु १ झुकना, नवना । २ ढाल, उतार, ढलाना ।

नमर्षे - क्रि अ १ झुकना, नवना । २ नम्र होना । ३ हार खाना, हार मानना ।

नमता - वि झुकने वाला, झुका हुआ । मु० नमते घेणे - झुक जाना, ज़िद, हठ छोट देना ।

नमन - न १ नमन, नमस्कार, प्रणाम । २ नवना, झुकना, नत होना । ३ प्रारभ, श्रीगणेश । कहां० नमनात, नमनाला घडामर, हडाभरतेल जाळणे - भूमिका वाँवने में ही बहुत समय बरबाद करना ।

नमविणे - क्रि स १ झुकाना, नवाना । २ हराना, होम ठिकाने लाना, हार मनवाना ।

नमस्कार - पु नमस्कार, प्रणाम, सलाम, नमस्ते । मु०-अमौ भगवान् वचाये, नाम मत लो, खुदा वस्जे, धन्य हो महाराज । - करणे - १ हूर भागना, हटना, अलविदा कहना । २ प्रणाम करना ।

नमस्कारणे - क्रि स. नमस्कार, वदना, सलाम करना । [ करना ।

नमिणे + - क्रि स नमस्कार नमुना - पु [ फा ' नमून ' ]

१ नमूना, वानगी । २ ढाँचा,

दग, तर्ज । ३ आदर्श, मिनाल ।

४ ग्राका, नकशा । ५ प्रकार, क्रिम्म । [ आदर्ग, वदिया ।

नमनेदार - वि [ फा ' नमून ' ]

नमूद - वि [ अ ' नुमूद ' ]

१ दर्ज, लिखा हुआ । २ निश्चित, तैनुदा । ३ मशहूर । मु० - करणे दर्ज करना, लिख रखना ।

नम्र - वि १. नम्र, विनीत । २ नत, झुका हुआ ।

नम्रता - वि नम्रता, साक-सारी, विनीतता । [ दृष्टि ।

नयन - पु नयन, आँख;

नये - क्रि न किया जाय, न करे, न करे । [ बहु ' नयेत ' ]

नर - पु १ नर, पुरुष, मर्द ।

२ शतरज का मोहरा । ३ जोड़े

मे मे बड़ा पदार्थ । ३ बड़ी कौल ।

४ छिद्रक, पचिका, नुत्री,

'पच' । - केसरी - पु नरकेसरी,

सिंह जैसा पराक्रमी पुष्प । -

तवेला - पु वह मकान या कमरा

जिसमें केवल पुरुष ही रहते हो ।

- पशु - पु नरपशु, पशुतुल्य

मनुष्य । - मादी - स्त्री १ पुरुष

और स्त्री, नर-मादा । २ जोड़ा ।

- वर - पु नरवर, श्रेष्ठ पुरुष ।

सिंह, - हर, - हरि - री - पु

१ नरसिंह, नरहरि । २ सिंह जैसा

उग्र पुरुष । मु - सिंहावतार घेणे -

बहुत क्रुद्ध होना ।

नरक - पु १ नरक, जहन्नम ।

२ बहुत गदी जगह । ३. मँला,

विण्डा । - चतुर्दशी - स्त्री नरक-

चतुर्दशी, दिवाली के ठीक पहले

पडने वाली चतुर्दशी । - वास - पु

१. नरक में रहना । २ गर्भवास ।

३ गदी, बुरी जगह में रहना । ४

दुर्गत, बुरा हाल । मु. - उपसणे

- मैला, गदगी उछालना, कलक की

गुहरत करना, गदी बानों की

जाहिरा तीर पर चर्चा करना ।

नरकाची वाट दाखविणे - बुरे मार्ग

पर ले जाना, दुराचार को प्रवृत्त

करना । नरकात घोडा टाकणे -

मैले, गदगी में ढेला फेंकना ।

नरकात पचणे - बुरी, गदी हालत

में पडे रहना । [ खोपडी का तेल ।

नरटेल - न नारियल की

नरडी - स्त्री, नरडे - न १.

गला, गरदन । २. भोजन नलिका,

खाद्यनली । ३ घटी, गले की वह

छोटी हड्डी जो आगे की ओर

निकली रहती है । दे ' गळा ' ।

मु - दावणे - गला दवाना, गला

घोटना । - धरणे - १ गला पक-

डना, गले में सूजन पैदा होना ।

२ रोकना, फँसाना । नरडीवा

घोट घेणे, नरडीचे रक्त पिणे -

गला घोटना, गला रेतना, छूत

पीना । नरडीला हात घालणे -

गला दवाना, पकडना, मार डालना ।

नरडीम नख देणे - ( वच्चे के पैदा

होने ही उसे) गला घोट कर मार

डालना, गला रेतना ।

नरद - स्त्री [ फा. ' नर्द ' ]

नर्द, चीसर की गोटी ।

नरम - वि [ ' फा ' नर्म ' ]

१ नर्म, गुदगुदा, मुलायम । २

कोमल, सौम्य । ३ भोलाभाला,

बुद्धू । ४ जो तेज न हो, धीमा ।

५ सस्ता, मदा । मु - पडणे - नर्म,

धीमा पडना, घटना, कम होना ।

- घेणे - विनम्र होना, नर्मी से

वात करना, घमड उतरना, सौम्य

बनना ।

नरमणे - क्रि अ [ फा

' नर्म ' ] नरमाना; नर्म, मुलायम,

धीमा, ठहा पडना, होना, कम

होना, शांत होना ।

नरमाई - स्त्री [फा 'नर्म']  
नर्मी, नरमी, नरम होने का  
भाव, कोमलता।

नरसाळ - न कीप, लुच्छी,  
चोगी।

नरसोबा - पु. नृसिंह, नरसिंह।  
नराडी - स्त्री १ नाली, नाव-  
दान। २ दे. 'नरडी'।

नराणी - स्त्री नहरनी,  
हज्जामो का नाखून काटने का  
औजार।

नरी - स्त्री [फा] नरी,  
वकरी या वकरे का रंगा हुआ  
चमड़ा।

नरेंद्रमंडल - न नरेंद्रमंडल,  
'चेंबर ऑफ प्रिन्सेम'।

नरोटी - स्त्री १ नरेली,  
नारियली, नारियल की खोपड़ी।  
२ मनुष्य की खोपड़ी। मु० -  
हातात येणें - कगाल, मिखारी  
वनना, बडी दुर्दशा होना।

नर्म - न नर्म, हंसी, परि-  
हास, विनोद। - सचिव, - सुहृद् -  
पू. नर्मसचिव, नर्मसुहृद्, विद्वपक,  
मसखरा।

नर्मदा - स्त्री नर्मदा नदी।

नर्मदेतला, नर्मदेतला गोटा,  
नर्मद्या - पु १ नर्मदा नदी में  
पाया जाने वाला एक खाम किस्म  
का पवित्र पत्थर जो शिव या गणेश  
का प्रतीक माना जाता है, नर्म-  
देश्वर। २ बुद्ध, मूर्ख आदमी।

नन्हाणी - दे 'नराणी'।

नलगे - क्रि १ नही चाहिए,  
जरूरत नहीं है। २ न आये, न हों।

नलसुरी - पु. घोडो का एक  
रोग जिममें उनके पेट से मेल  
निकलता है, इसहाल, पतला  
दस्त। [ 'टचूवेल'।

नलिकाकूप - पु नलकूप,

नल्याख - वि [फा अ  
'नालाइक'] १ नालायक,  
वदमाश, पाजी। २ ऊबमी,  
शरारती।

नव - वि १ नव, नया,  
नूतन। २ कोमल, नाजुक।  
-अश्मयुग - न नवपापाण युग, नव  
प्रस्तरकाल। - कीर्द - स्त्री पहली  
बार की गयी बोझाई। -  
जवान - वि नौजवान, तरुण,  
युवक। - तर, - थर वि नया,  
हलका, आधुनिक, जदीद। -  
नवती - स्त्री जवानी का प्रारंभ,  
गदराया हुआ यौवन। - बौद्ध - पु.  
(वह अच्छत) जो अभी हाल में  
बौद्ध बना हो। - शिका - क्या -  
खा - वि नौमिस, नौसिखिया,  
नौसिखुवा। - हिंदु - वि जो  
अभी-अभी हिंदू बना हो।

नव - वि नव, नौ, ९। -  
फोट नारायण - वि पु १  
करोडपति, बहुत बड़ा जमीर। २  
कगाल। - खड पृथ्वी - स्त्री  
समूची पृथ्वी, सारा धरातल। -  
गजी - स्त्री राजदरवार का बड़ा  
दीवानखाना। - रत्ने - न बहु.  
नवरत्न, नौरत्न, नौ प्रकार के  
रत्न। - रात्र - न १ नवरात्र,  
आश्विन में शुक्ला प्रतिपदा में  
नवमी तक के नौ दिन जिनमें दुर्गा  
की विशिष्ट पूजा की जाती है। २  
नौ दिनों में समाप्त होने वाला  
यज्ञ, व्रत आदि। - लख, - लाख -  
वि नौ लाख, अनगिनत।

नवखा - वि १ नया, अपरि-  
चित, अजनबी। २ अनजान,  
नौसिखुआ।

नवगण - स्त्री दमकला, भारी  
बोझ उठाने का यंत्र, 'त्रेन'।

नवती - स्त्री १ जवानी,

यौवन। २ नये पत्ते, कोपल। ३  
युवती, तरुणी। [नीशा।

नवरदेव - पु. दूल्हा, वर,  
नवरा - १ पु. दूल्हा, नौशा,  
वर। २ पति, शौहरा। दे 'नर'।  
-मुलगा - पु. दूल्हा, नौशा। कहा०  
नवरा मरो की नवरी मरो, उपा-  
ध्याला (भटजीला) दक्षिणेशी काम  
- वर मरे या कन्या मरे, पुगेहित  
को उमकी दक्षिणा से मतलब।

नवरी - स्त्री १ दुल्हन, दुल्-  
हिन, नयी बहू। २ पत्नी।

नवल - न १. अचरज,  
आश्चर्य, तअज्जुब, अचमा।  
२ अजीव, अद्भुत वान। - वि  
विलक्षण, अद्भुत, अजीव। -  
कथा - स्त्री १ अद्भुत बात,  
घटना। २ उपन्यास। - परी -  
स्त्री अद्भुत बात। - विशेष - न  
नरी और विशेष बात, खाम  
बात।

नवलकोल - पु. [अ 'नोएल-  
कोल'] शलगम, गलगम,  
सलगम (एक कदशाक)।

नवलाई - स्त्री १ अद्भुत,  
अपूर्व, अजीव बात। २ नयी बात।  
दे 'नवल'।

नववा - वि नौवां।

नवशा - वि मन्नत, मनीती  
मानने वाला। [बहु 'नवशे';  
'नवसे']।

नवस - पु. मन्नत, मनीती,  
मानता, मनावन। - सायास - पु.  
बहु मन्नते, मनीतियां, व्रत -  
उपवाम, तपस्या आदि। मु -  
करणे - मन्नत, मनीती मानना। -  
फेडणे - मन्नत उतारना, मन्नत  
पूरी करना, चौकी भग्ना। -  
नवसास पावणे - मन्नत पूरी होना,  
देवता द्वारा मन्नत सुनी जाने के

वाद इच्छा पूरी हो जाना ।

नवसागर - पु [फा. 'नौशा-  
दर'] नौसादर (एक प्रकार का  
क्षार) 'एमोनियम क्लोराइड' ।

नवांकुर - पु नया अकुर,  
कोपल ।

नवा - वि १ नया, नवीन,  
नूतन । २ नौमिखुआ, अकुशल ।  
३ ताजा । ४ अच्छूता । दे. 'नवी',  
'नवें' । - करार - पु (वायवल)  
वाइविल की नई पोथी, इजील,  
वाडविल का उत्तरार्ध, 'न्यू टेस्टा-  
मेंट' ।

नवाई - स्त्री १ नयी, अद्भुत  
वात, आश्चर्य, अपूर्वता । २ नया-  
पन, नवीनता ।

नवानवसाचा - वि जो कई  
मन्त्रों मानने या पूरी करने पर  
प्राप्त हुआ हो, बड़ी मुश्किल में  
मिला हुआ ।

नवानवसानों - अव्य बहुत मन्त्रों  
मानने पर, बड़ी मुश्किल में ।

नवान्न - न नवान्न, पर में  
ढाया हुआ नया अन्न, अनाज । -  
पौर्णिमा - स्त्री आश्विन या माघ  
की पूर्णिमा ।

नवायी - दे 'नवाई' ।

नवार - स्त्री [फा] निवार,  
निवाड, चीडा फीता जो पलग  
आदि धुने के काम आता है ।

नवाश्मयुग - दे 'नव' में ।

नवाळी\* - स्त्री १ प्राप्ति ।  
२ कृपादृष्टि । ३. दे 'नवाई' ।  
४ इच्छा, प्रेम ।

नवी - वि स्त्री नयी, नई ।  
दे 'नवा' 'नवें' । - नवती -  
स्त्री जवानी का जोश, गदराया  
हुआ यौवन । - नवरी - स्त्री १  
नयी वहू, दुलहिन । २ गरमीला  
व्यक्ति । - नवलाई - स्त्री नयी

वात, अद्भुत, अपूर्व, सुंदर वस्तु ।  
फहा० नवी विटी नवें राज्य -  
शामक या प्रधान सचालक के बदल  
जाने से मारी बातें नये मिर से  
करनी पडती हैं या की जाती हैं ।

नवें - वि न. नया, नूतन,  
दे 'नवा-वी' । - जग - न नयी  
दुनिया, अमरीका आदि । -  
जुनें - न पुरानी वस्तुएँ देकर नयी  
लेने का तरीका, कार्य । - पण -  
न नयापन । नव्याची पुनव - स्त्री  
दे 'नवान्न पौर्णिमा ।' नव्यानें  
- अव्य १. नये मिर से, फिर से;  
आरम्भ में । २ पहली बार ।

नवोढा - वि स्त्री नवोढा,  
नवविवाहिता स्त्री ।

नव्यायशी - वि नवामी, ८९ ।

नव्या - पु नहला, नौ बूटियों  
वाला ताश का पत्ता ।

नव्याणव - वि निन्यानवे,  
निन्यानवे, ९९ । - वाटानी, -  
हिंशानी - अव्य. लगभग निश्चित  
रूप से, पाने सोलट आने । -  
नव्याणवाचा फरा - पु निन्यानवे  
का चक्कर या फेर, घन बढ़ाने  
की धुन ।

नव्या नवसाचा, नव्या  
नवमानें - दे 'नवानवसाचा',  
'नवानवमानी' ।

नव्याशी - दे 'नव्यायशी' ।

नव्वद - वि नव्वे, ९० ।

नव्व्या, नव्व्याणव - दे.  
'नव्या'; 'नव्याणव' ।

नव्हणें - क्रि अ न होना ।

नव्हता - अव्य. न होने पर ।

नव्हता - वि जो न हो । -

क्रि अ न था, नहीं था । [स्त्री  
'नव्हनी'] । [(न एक०) ।

नव्हतें - क्रि अ नहीं था

नव्हते - क्रि अ नहीं थे

(पु बहु०) । [(स्त्री. बहु०) ।

नव्हत्या - क्रि अ नहीं थी

नव्हळीं - दे 'नवाळी',

'नवलाई' । [बहु 'नव्हेत'] ।

नवहे - क्रि नहीं, नहीं है ।

नशा - पु स्त्री [अ. 'नश्या']

१ नशा, मादकता, मस्ती । २  
मादक द्रव्य, नशीली चीज । ३  
मद, गर्व । मु. - करणें - नशीली  
चीज खाना या पीना ।

नशीव - न [अ 'नमीव']

१ नसीव, तकदीर, किस्मत,  
भाग्य, दैव, प्रारब्ध । २ हिम्मा ।  
दे 'दैव' । - वान - वि नमीव-  
वर, भाग्यशास्त्री, भाग्यवान् । -

मु. - उघडणे - नमीव खुल जाना,  
चमकना, जागना; भाग्य का उदय

होना । - फुटणे - नमीव फूट  
जाना, किस्मत बिगडना । - शिक-

दर असणे - किस्मत अच्छी होना,  
तकदीर का बलद होना ।

नश्वर - वि नश्वर, नाशशील,  
नष्ट होने वाला, फानी ।

नष्ट - वि १ नष्ट, नाशप्राप्त,  
वरवाद । २ दुष्ट, नीच, बदमाश ।

- चर्य - न दुर्भाग्य, दुर्दशा,  
बदकिस्मती, कमवस्ती । मु. - करणें

- बरवाद, तवाह करना ।

नस - स्त्री १ नम, रग,  
रुधिरवाहिनी नलिका । २ शिरा,  
नाडी । मु. - उतरणें - रग उतरना,

नम चढना, अपने स्थान से हट  
जाने के कारण नस का तन जाना ।

- घेणे, - तोडणें - फस्द खोलना,  
लेना, रग पर नश्वर देना, रग से

रक्त निकालना । - दाबणें, - धरणें

- रग, कोर दवाना, दवाव डालना,  
रोक रखना ।

नस - स्त्री नस्य; सुंधनी ।

नसणे - क्रि अ न होना,

अभाव होना ।

नसता-ती-तें - वि १ जो न हो, अविद्यमान, गैरमौजूद । २ गलत, झूठा । ३ अनावश्यक, गैरजरूरी । ४ घाटे का । नसती उठाठेव - स्त्री बेकार का झंझट ।

नसराळें - न कीप, चोगी, लुच्छी । [ हो, न सही ।

नसेना का - वा भले ही न नस्त - न १ नदी, खाड़ी आदि के मुहाने पर स्थिर रेत का टीला । २ सागर के किनारे का पहाड़ी इलाका । ३ सागर से खाड़ी में जहाज लाने-ले जाने का मार्ग ।

नस्तर - न पु [फा 'निस्तर'] नस्तर, शल्य, चीरफाड़ का आला । - मारणें - नस्तर देना, मारना, लगाना ।

नस्ता-स्ती-स्ते - दे 'नसता-ती-ते' ।

नहल्या - पु नहला, नक्काशी आदि बनाने की राजगीरो की छोटी करनी ।

नहाण - न १ प्रथम रजो-दर्शन, स्त्री का पहली बार रज-स्वला होना । २ स्नान, नहाना ।

नहाणवली - स्त्री वह स्त्री जो पहली बार रजस्वला हुई हो ।

नहाणे - क्रि अ १ नहाना, स्नान, गुस्ल करना । २ रजस्वला होना । ३ रजोवर्म के पश्चात् स्त्री का स्नान करना ।

नहन - अव्य वल्कि, इससे विपरीत, वरना ।

नळ - पु १ नल, नली, पानी का नल । २ वृहदन्न, स्थलान्न (बड़ी आंत) का ऊपरी भाग । ३ नाली । ४ बड़ी नली । ५ टोटी । दे 'नळा', 'नळी' । - काडें -

न १ बड़ी नली । २. चोगी, चौड़ी कीप । ३ ढरका । - पट्टी - स्त्री शहर में नल से मिलने वाले पानी पर लगने वाला कर । - भरणें, नळात भरणे - बड़ी आंत का फूल जाना ।

नळा - पु १ बड़ी नली, नल । २ गोल खपडा । ३ एक प्रकार की आतिशबाजी । ४ ढरका, चोगा, पशुओं को दवा पिलाने की नली । ५ गाटी के माथ रहने वाला आंगन रखने का चोगा ।

नळी - स्त्री १ नली । २ बटूक में वह लवा छेद जिसमें से होकर गोली बाहर जाती है । ३ चोगा, चोगी । ४ नला, पेशाब की नली, मूत्रनलिका । ५ फुंकनी, फुकनी । ६ ध्वासनलिका । ७ भोजन-नलिका । ८ नल के आकार की घुटने से एड़ी तक की हड्डी । पतली हड्डी, टांग की हड्डी ९ वांसा, बीज गिराने के लिए हल के साथ लगा हुआ वांस का नल । १० ढरकी । दे 'नळ', 'नळा' । मु - नें औपघ पाजणें - गुलियाना, ढरके, चोगे में औपघ आदि भर कर पशु को पिलाना । कह्ण० नळी फुकिली सोनारे इकडुनि तिकडे गेले वारे - इस कान सुना, उस कान निकाल दिया, नसीहत पर ध्यान न देना, कान पर जूं न रेगना ।

नागर - पु १ हल, लागल । २ लगर । - की - स्त्री हल चलाने का काम । - खुट - न हलकुतुद, अगवांसी, हल की वह लकड़ी जिसमें फाल लगता है । - चालविणारा, - जुपणारा - क्रि पु हलवाहा, हलवाहा । - णी - स्त्री १ जोती हुई भूमि । २ जोत,

जोताई । - पट्टी - स्त्री प्रत्येक हल पर लगने वाला सरकारी कर । मु - टाकर्णें - लगर डालना, जहाज खडा करना ।

नागरणें - क्रि स १ जोतना, खोदना, हल चलाना । २ लगर डालना ।

नागन्या - वि १ हलवाहा, हल चलाने के योग्य । २ गँवार, उजड्ड ।

नागा - पु, नागी - स्त्री १ डक, विच्छू आदि का जहरीला कांटा । २ अकुर, अँखुआ । ३ मुर्गियों आदि के खुरों के ऊपर का नाखून । मु - (नागी) टाकर्णें - कोर दबना, हार जाना, हाथ - पाँव ठड़े होना, काठ मार जाना । - मारणें - १ डक मारना । २ ताना मारना । व्यग्य कयना ।

नाद - स्त्री १ नाँद । २ मिट्टी का बड़ा घडा । ३ बोरसी, मिट्टी की अँगोठी । ४ मिट्टी का बड़ा गमला । ५ गन्ने का रस जमा करने का लोहे का हीज ।

नांदणूक - स्त्री १ निवास, वस्ती । २ बरताव, व्यवहार ।

नादणें - क्रि अ १ रहना, टिकना, निवाम करना । २ सुख, आराम से रहना । ३ स्त्री का समुराल में रहना । ४ स्वीकार होना । ५ निभना, अच्छा बरताव करना । - न १ निवास, रहना । २ निवामस्थान । मु नादायला जाणें - बहु का पति के घर जाना, गौना ।

नादविणें - क्रि स १ अच्छी तरह रखना, अच्छा बरताव करना । २ पतिद्वारा पत्नी को अच्छी तरह रखा जाना ।

नादी - स्त्री नादी, वह मगला-



त्मक श्लोक या गीत जिसका पाठ सूत्रधार नाटक के आरम्भ में करता है। २ समृद्धि, अभ्युदय। ३ प्रारम्भ, श्रीगणेश।

नादुरकी - छी तुन, कच्छ, तुन का पेड़।

नाव - न १ नाम, इम्म। २ शूहरत, ख्याति, प्रसिद्धि। दे 'नाम'। - निशाण - न नाम-निशाण, नामोनिशाण, चिह्न, पता। - निशी - छी १. नामो की सूची। २ व्योरा, विवरण, तफसील। - निशीवार - अव्य नामो के व्योरे के साथ, व्योरेवार, तफसील के साथ, विस्तारपूर्वक। - रूप - न १ कीर्ति, ख्याति, शूहरत। २ नामरूप। - लौकिक - न ख्याति, नामवरी। मु - करणें - नाम करना, नाम कमाना, ख्याति प्राप्त करना। - काढणें - १ दे 'नाव करणें'। २ झगडा करना, उकसाना; छेडना। - टाकणें - दे. 'नाव सोडणे'। - ठेवणें - १ नाम घरना, दोषारोपण करना, उँगली उठाना। २ नाम रखना, नामकरण करना। - नको - नाम मत लो, नाम न लो। - न घेणें - नाम न लेना, दूर रहना। - नसणें, - नाहीं - पूर्णतया अभाव होना, नामोनिशाण तक न होना। - बदलणें - हार को स्वीकार करना, 'तो मेरा नाम नहीं' कहना। - मिळविणें - नाम कमाना, नाम पैदा करना, नाम करना, ख्याति प्राप्त करना। - सोडणे - नाम न लेना, स्मरण तक न करना, दूर भागना, प्रसंग तक न छेडना, बहुत अधिक वचना। नावाचा - वि अव्य १. सच्चा, खरा, पक्का। २ नाम का, नाम वाला।

३ नाममात्र के लिए, कहनेभर को। नावानें खडे फोडणे - पानी पी-पी कर कोमना, नाम उछालना। नावानें पूज्य असणें - के नाम से, नाम पर कुछ भी न होना, पूरा अभाव रहना, नाम को नहीं, थोडा-सा भी नहीं,। नावानें शंख करणें - किसी के खिलाफ चिल्लाते रहना, दे 'नावानें खडे फोडणे'। नावानें हाका मारीत वसणें - शिकायत करते रहना, दे 'नावानें खडे फोडणे'। नावारूपास आणणें - १ प्रतिष्ठित, मजबूत, पायदार बनाना। २ ख्याति फैलाना। नावावर - अव्य. १ नामपर; किसी के निमित्त, किसीके भरोसे। २ खाते में; नाम में, हिसाब में। नावावर विकणें - किसीके नाम विकना, अपनी या दूसरे की प्रसिद्धि के कारण लोक में बहुत अधिक सम्मान पाना। नावास चढणें - ख्याति प्राप्त करना, नाम कमाना। नावास देखील नाहीं - नाम को भी नहीं, कहते भर को भी नहीं, थोडा-सा भी नहीं। ज्याचे नाव तें - अपनी जिद पर अडा रहने वाला आदमी है, नाम न लो।

ना - अव्य ना, न, नहीं। - छी इनकार; अस्वीकार। मु. - अरत्र ना परत्र - न इधर न उधर, न घर का न घाट का।

नाइलाज - पु. [फा ना' + अ 'इलाज'] विवशता, लाचारी, मजबूरी।

नाइलाजानें - अव्य [दे 'नाइलाज'] मजबूरन्, मजबूर, लाचार, निरुपाय, विवश हो कर।

नाईक - पु. १ नायक, नेता, मुखिया। २ जमादार।

नाऊ - पु नाई, हज्जाम।

नाक - न १. नाक, नासा, नामिका। २ अनाज आदि का वह भाग जहाँ से अँसुआ फूटता है। ३ नाका, सुई का छेद। ४. प्रधान, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, नगर आदि। ५ नाक में बना छेद। ६ प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, मर्यादा। - पु. स्वर्ग। - चिबा - वि दे 'नकटा'। - तोडा - पु. अँसुफोडवा, आँसुफोड टिड्डा, हरे रंग का एक कीड़ा जिसके पर हरे होते हैं। - बुरी; - घुरी - छी नाकघिसनी, नाक रगडना, गिडगिडाहट, पछतावा। - पुडी - छी नयना, नयुना, नासापुट। - शिकणी - छी नक-छिकनी, एक घास जिसके फूलों को सूँघने से छीकें आने लगती हैं। मु० - कापणें - १ नाक काटना, इज्जत उतार लेना, वेइज्जती करना। २. नाक कटना, वेइज्जती होना। - कापुन दुसन्यास अपशकुन करणें - अपनी नाक काटकर दूसरे का सगुन विगाडना, अपनी नाक कटी पर परायी बद-शगूनी तो हो गयी। - खाली होणे - चिडाना। - खाली होणे - नाक कटना, वेइज्जती होना। - गेलें तरी भोकें राहिलें आहेत असे म्हणणें - वैशरम बनना, अपनी दुर्गत को छिपा कर मिरजोरी करना। - घासणें - १. नाक घिसना, नाक रगडना, दीनता प्रकट करना; गिडगिडाना। २. क्षमायाचना करना। - चेंचणें, - ठेंचणें - १ नाको चने चववाना, नाक में दम करना। २ घमड उतारना, मुँह की खिलाना। - तोंड मुरडणे - नाक भी सिकोडना, घृणा प्रकट करना। - दुन्या काढणें

- दे. 'नाक घासणे'। - धरून बसणे - १ पूजा - पाठ में समय विताना। २ वेकार समय बरवाद करना। - फेंदारणे - नाक चढाना, नथने फुलाना। - मुठीत धरून जाणे - कान पकड कर शरण में जाना, मजबूर होकर हार मानना। - मुरडणे - नाक भी चढाना या सिकोडना। - बर असणे, - बर करून चालणे - १ सिर उठा कर चलना, इतराना, घमड करना। २ वेशर्म बनना। - वाहणे - १ नाक बहना, नाक मेंसे पानी या रेंट निकलना। २ बहुत सर्दी, जुकाम होना। नाकाची घाण मरणे - १ आदत या जुकाम के कारण बढवू का महसूस न होना। २ बुरी बातों से नफरत न होना। नाकाच्या शेंडघावर राग असणे - बहुत जल्दी गुस्सा, क्रोध आना। नाकात काड्या घालणे - चिढाना, सताना, उँगली करना, नाक में दम करना, परेशान करना, ताने मारना, व्यग्य कसना। नाकात काड्या जाणे - चिढना; रुठना, नाराज होना। नाकात दम येणे - दे. 'नाकी नऊ येणे'। नाकांत बोलणे - नकियाना, नाक से बोलना। नाकातला बाल असणे - नाक का बाल होना, अत्यंत अतरंग या प्रिय होना। नाकानें फादे, बागीं सोलणे - बहुत बनना, पवित्रता का ढोंग रचना, झूठा दिखावा करना। नाकापेक्षा मोती जड असणे, होणे - किसी गौण वस्तु को नाहक महत्त्व प्राप्त होना, किमी मातहत व्यक्ति का ऊपर वाले व्यक्ति से भारी बन जाना, बढ जाना। नाकाला पदर लावणे - १. नाक न दी जाना;

असह्य दुर्गंध मालूम होने पर अपनी नाक को दवाना। २ बदनामी के कारण मुंह ढाँप लेना। नाकावर टिचणे - १ किसी का पैसा आदि तुरत दे देना। २ बिना शिक्षक या हीले हवाले के काम कर डालना। नाकावर चोट ठेवणे - नाक पर उँगली रखकर चुप करना, चुप रहने के लिए धमकाना। नाकावर माशी बसू न देणे - नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाकपर गुस्सा होना, बिलकुल वर्दाश्त न करना। नाकावर भूशीनें पाय देणे - नाक पर पहिया फिर जाना, नाक-चिपटी होना। नाकाशीं सूत धरणे - अवतल लगना, होना, मरणासन्न होना, कुछ देर का मेहमान होना। नाकास मिरच्या झोंदणे - दिल पर चोट लगना, कलेजा कवाव होना। नाकासमोर जाणे - नाक की सीध में चलना, सीधे मार्ग पर चलना। नाकीं नव-ऊ येणे - नाक में दम होना, काफिया तग होना, हूरान, परेशान होना। नाकीं बेसण घालणे - कब्जे में करना, काबू में रखना। नाकबुली - छी [फा 'ना' + अ 'कवलीयत'] अस्वीकार, इनकार।

नाकर्ता - वि १ अक्षम, दुर्बल। २ अयोग्य, नालायक।

नाका - पु [हिं] १ नाका, नुक्कड। २ चौराहा। ३. चौकी। ४ चुगी-घर, महसूल-घर, चुगी की चौकी।

नाकारणे - क्रि स इनकार करना, अस्वीकार, नामजूर करना।

नाके - न दे 'नाका'। - दार - पु नाकेदार, चुगी, टोल, पथ कर बसूल करने वाला कर्मचारी। - बंदी - छी नाका-

बंदी, यातायात पर पावदी लगाना, नाके पर पहरा बँठना; अवरोध।

नाकेला - वि उन्नतनास, उभरी हुई नाकवाला।

नाखुदा - पु [फा 'नाखुदा'] १ नाखुदा, जहाज का कप्तान, कर्णधार। २ नाविक, मल्लाह।

नाखुष - वि [फा 'नाखुष'] नाखुष, अप्रसन्न; नाराज, रुष्ट।

नाग - पु नाग; एक प्रकार का काला साँप जिसके सिर पर दो चरणचिह्न होते हैं। २ क्रूर मनुष्य। ३ एक देश, उस देश में बसने-वाली जाति। ४ हाथी। ५ नाग-वल्ली, नागकेशर, पुन्नाग। - कन्या - छी १ नागकन्या, नाग जाति की कन्या। २ अत्यंत रूपवती स्त्री। - केशर, - केसर - न नागकेशर। - चापा - फा - पु नागचापा, नागकेशर। - झरी - छी छोटा नाला। - ददण - छी नागदौन, नागदौना। - दिवाळी - छी मार्गशीर्ष की शुक्ला पंचमी। - पंचमी - छी नागपंचमी, श्रावण शुक्ला पंचमी जिस दिन नागदेवता की पूजा की जाती है। - फणा - णी छी फण, नाग का फन। - फणी - छी नागफनी (थूहर की जाति का एक पौधा)। - बळी - पु हिंदुओं के सोलह सस्कारों मेंसे एक जिसमें सतान की कामना से नागहत्या का प्रायश्चित्त किया जाता है। - बाळी - छी वाली (कर्णभूषण) का एक प्रकार। - मणी - पु सर्पमणि, सर्प के सिर पर पाया जाने वाला मणि। - मोढी - वि सर्पिल, सर्पगति, पंचदार, मोडदार, चक्करदार, टेढा - मेढा, बक्रता लिये हुए। - बल्ली, - बेल - छी नागबल्ली,

नागबेल, पान की बेल । - स्वर  
- पु. गहनाई ।

नागडा - वि १ नग्न, नगा ।  
२ खुला । - उघडा - वि नग-  
घडग, नगावुगा, एकदम नगा ।  
- स्वार्थ - पु. साफ-साफ दिखाई  
देने वाला स्वार्थ ।

नागर - वि १ नागर, शहरी,  
नगर - सवधी । २ शहर में रहने  
वाला । ३ चतुर, चालाक । - पु.  
गजरात के ब्राह्मणों की एक उप-  
जाति और उस जाति का व्यक्ति ।  
नागर - दे 'नागर' ।

नागरमोथा - पु. नागरमोथा  
(एक प्रकार की सुगंधित घास) ।

नागरिक - पु. नागरिक, नगर-  
वासी, शहरी । - वि नागरिक,  
नगर में रहने वाला, शहरी,  
शहरानी ।

नागरी - दे 'नागर' ।

नागली - स्त्री मंडुआ, मंडुवा,  
रागी ।

नागवण, नागवणूक - स्त्री १  
लूटखसोट, लूटपाट, लूटमार,  
डाका, आर्थिक शोषण । २ घाटा,  
हानि ।

नागवणें - क्रि अ १ लुटना,  
लुट जाना । २ कावू में न रहना ।  
- क्रि स दे 'नागविणे' ।

नागवा - वि १ नगा, विवस्त्र ।  
२ निर्लज्ज, बेहया । ३ गरीब,  
कगाल, दिवालिया । दे 'नागडा',  
'नागवे' । - पाऊस - पु घूप के  
रहते होने वाली वर्षा । मु० नागवी  
सवाशीण भेटणें - अचानक लाभ  
होना ।

नागविणें - क्रि स १ नैगि-  
याना, नगा करना । २ सब कुछ  
छीन लेना, लूटखसोट करना ।  
३ लंगोट या लंगोटी उतार लेना ।

४ तोखा देना ।

नागवें - वि नगा । दे 'नागडा',  
'नागवा' । - न १ ऋटि, खामी,  
कमी । २ नग्नता, नगापन । ३  
खुला, अरक्षित भाग । मु० -  
कोल्लें भेटणें - अचानक, अनायास  
लाभ होना । - नाचणें - १. निर्ल-  
ज्जता का प्रदर्शन करना, स्वेच्छा-  
चार करना । २ खुशी से पागल  
हो जाना ।

नागा - पु [तु 'नाग']  
नागा, अनुपस्थिति, शैरहाजिरी ।

नाच - पु नाच, नृत्य, नर्तन,  
रकम ।

नाचकड, नाचकण - न छोटे  
औजारों का गुच्छा जिसमें नहरनी,  
चिमटी आदि रहते हैं ।

नाचक्की - स्त्री [फा 'नाचाकी']  
१ अप्रतिष्ठा, बदनामी, मानहानि ।  
२ झगडा, अनवन ।

नाचणा - पु, नाचणी - स्त्री  
मंडुआ, मंडुवा, रागी (एक मोटा  
अनाज) ।

नाचणें - क्रि अ १ नाचना,  
नृत्य, नर्तन, रकस करना, धिरकना ।  
२ आनदातिरेके में उछलना-कूदना ।  
३ दौड़-घूप मचाना । ४ क्रोधावेश  
में उछलना-कूदना । ५ प्रत्यक्ष-सा  
प्रतीत होना । मु० पुढेंपुढें नाचणें -  
खुशामद करना । कहा० नाचता  
येईना अंगण वाकडें - नाच न जाने,  
आंगन टेढा ।

नाचरा - वि १ नाचने वाला,  
उछलकूद करने वाला, अस्थिर ।  
२ शोख, चंचल ।

नाचरेपणा - पु. १ नाचना,  
उछल-कूद, अस्थिरता, चंचलता ।  
२ शोखी, वांकपन ।

नाचवानाचव - स्त्री अस्थिरता,  
चंचलता, वाग्वार एक जगह से

दूसरी जगह ले जाना ।

नाचविणें - क्रि स १ नचाना,  
नाचने में प्रवृत्त करना । २ हैरान,  
परेशान करना । ३ इधर से उधर  
घुमाना, हटाना, फेरना ।

नाचा - दे 'नाच्या' ।

नाचिकणें - न नहरनी ।

नाच्या, नाच्या पोच्या - पु.  
नचनिया, नाचने वाला लौंडा,  
नाचने का पैया करने वाला ।

नाजर - दे 'नाज़र' ।

नाजूक, नाजूक - वि [फा  
'नाजूक'] १ नाजूक, कोमल,  
सुकुमार, मुलायम, नर्म, मृदु;  
महीन, वारीक । २ दुबला-पतला,  
कमजोर । ३ पतला । ४. दिखाऊ;  
दिखावा, दिखावटी । ५ मुदर,  
बढिया खूबमूरत । ६ सूक्ष्म,  
वारीक, गूढ, लतीफ । ७ गंभीर,  
सकटपूर्ण; खतरे का । - काम -  
न १ ऐसा काम जिसमें युक्ति  
और कौशल की आवश्यकता हो ।  
२ रिश्तव लेना । ३ वेध्यागमन ।  
- जागा - स्त्री शरीर का कोमल,  
नाजूक भाग, गुह्य, गुप्त अंग ।  
- पणा - पु. नजाकत, कोमलता,  
सुकुमारता ।

नाज़र - पु [अ 'नाज़िर']  
नाज़िर, दीवानी अदालत का एक  
अधिकारी ।

नाट - पु. १ वाधा, रोक,  
अडचन; विघ्न, पख, अडगा । २  
असगुन वदशगूनी । ३ कलक,  
बदनामी । ४ बट्टा, कमी, घाटा,  
नुकसान । ५ दिवालिया असामी ।  
- लागणें - १ पख लगना,  
अडंगा लगना, रोडे अटकना । २  
असगुन होना, काम विगडना । -  
लाचणें - १ पख लगाना, रोडे  
अटकाना । २ असगुन करना,

काम विगाडना ।

नाट - पु [ तमिळ नाडु ]  
१. स्थान, ठिकाना । २. प्रदेश, देश ।

नाट - पु १ नाट, नृत्य, नाच । २ नट, नटो की एक जाति ।

नाट - पु न घरन, वल्ला, गहतीर । [ खेळ ।

नाट - पु कौडियो का एक नाटक - न १ नाटक, 'ड्रामा' । २ ढोग, ढकोसला; स्वांग, आडवर, पाखड । ३ तमाशा, खेल, खिलवाड । ४ दुर्गत, छीछालेदर । - गृह - न , - शाला - छी १ नाटकशाला, नाट्यशाला, नाट्यमंदिर, नाटक खेलने का घर या स्थान । २ दे 'नाटकशाला' । - शाळा - छी १. जनानखाना, अत पुर । २ रखेली, नर्तकी, रखेलियाँ । मु - करणें - १ नाटक खेलना । २ ढोग करना, रचना; वनना ।

नाटकी - वि १ नाटकी, अभिनेता । २ नाटकीय, ढोगी, पाखडी, वनने वाला । ३ दिखावटी, झूठा ।

नाटक्या - वि पु १. नाटकिया, अभिनेता, बहुरूपिया । २ छिछोरा, ढोगी ।

नाटपेट - ड - वि [ अ 'नाटपेट' ] वैरग, अशोधित (चिट्ठी आदि जिसका महसूल भेजनेवाले ने न चुकाया हो) ।

नाटिका - छी १ छोटा नाटक । २ नर्तकी ।

नाटध - न १ नाट्य, नाटकादिका अभिनय । २ नाटक । ३ अभिनय के द्वारा दिखाया जाने वाला भाव । - छटा - छी साहित्य का एक प्रकार जिसमें एक व्यक्ति

के स्वगत भाषण द्वारा किसी घटना, मनोभाव आदि का वर्णन कराया जाता है ।

नाठविणें\* - क्रि स [ न + आठविणें ] याद, स्मरण न करना; भुलाना ।

नाठा - वि खराव; बुरा, दोषपूर्ण ।

नाठाळ - वि १ अडियल, शरारती, जिद्दी । २ बुरा, बदमाश ।

नाड - पु १ विघ्न, बाधा, रुकावट, सकट । २ धोन्वेवाजी - छी दे. 'नाडी' ।

नाडणूक - छी १ ठगना, धोखा देना । २ लूट-खसोट । ३ अडगा डालना, रोडे अटकाना, फंसाना ।

नाडणें - क्रि स १ लूटना । २ ठगना, धोखा देना । ३ सताना; तग करना । ४ अटकाना, फंसाना, रोकना । - क्रि अ १ ठगा जाना । २ लुटना । ३ फंसना, अटकना । ४ सताया जाना ।

नाडविणें - क्रि स दे 'नाडणे' - क्रि स ।

नाडा - पु १ नहन, रस्सा, मोट खीचने की मोटी रस्सी । २ नाडा, घाँघरा, पाजामा आदि बाँधने की सूत की मोटी डोरी, इच्चारवद । ३ कलाई में बाँधने का रगीन डोरा । ४ चमडेका पट्टा । - पुडी - छी अवीर, गुलाल आदि की पुडियाँ और उन पर लपेटा हुआ रगीन डोरा ।

नाडी - छी १ नाडी, नञ्ज । २ धमनी, रग, शिरा । ३ फीता, इच्चारवद । ४ कल्पित चक्रों में पडने वाले नक्षत्र जिनके अनुसार

वर-वधू की गणना बैठते हैं । (ज्यो०) । - परीक्षा - छी नाडी-परीक्षा, (वैद्यका) नञ्ज देखना । मु०-आखडणें - १ रग दबना, काफिया तग होना, हैरान, परेशान होना । २ इवर-उधर न कर सकना, फंसना । - ओळखणें - रग पहिचानना, रग-रग से वाकिफ होना, रहस्य जानना । - सापडणें - रग पाना, अमल बात मालूम होना, रग मिलना, रहस्य ज्ञात होना ।

नाडेभोरपी - पु रस्सीपर नाच करने वाली नटों की एक जाति ।

नाणावणें - क्रि अ मशहूर होना, नाम कमाना । - क्रि स स्तुति, प्रशंसा करना ।

नाणावलेला - वि ख्यातनाम, मशहूर ।

नाणें - न १ मुद्रा; सिक्का । २ मुद्राचलन, चलार्थ, 'करंमी' । - बाजार - पु मुद्रा - विनिमय केद्र ।

नात - छी १ ( मुलाची मुलगी ) पोती । २ ( मुलीची मुलगी ) नातिन, नतिनी । - जावई - पु पोती या नातिन का पति । - सून - छी. पोते या नाती की पत्नी ।

नातरी - \* अव्य अन्यथा, वरना, या, अथवा ।

नातरी - छी कोर, किनारा, हाशिया ।

नातलग - वि नातेदार, रिश्तेदार, सगा, सबधी ।

नातवड - न लडके या लडकी का वेटा या वेटी, नाती, पोता, नातिन ।

नाताळ - पु [ अ 'नेटल', पुर्त 'नाताल' ] ईसा मसीह का जन्मदिन, वडा दिन ।

नातू - पु. १ (मुलाचा मुलगा) पोता, नाती । २ (मुलीचा मुलगा) नाती, नवासा ।

नातें - न १ नाता, रिश्ता, सबध । २ सरोकार, वास्ता, लगाव । ३ परस्पर सबध । ४ सगाई । -गोतें - न नाता-रिश्ता, सबध । -वाईक - वि १ नातेदार, रिश्तेदार । २. सगा, मववी ।

नाथ - पु १ नाथ, प्रभु, अधीश्वर, स्वामी, मालिक । २ पति । ३ सत एकनाथ ।

नाथ<sup>+</sup> - छी नाथ, नकेल, ।

नाद - पु. १ नाद, शब्द, व्वनि, आवाज । २ शोक, लगन, चसका, धुन । -ब्रह्म -न सुरीला गायन, सगीतरूप ब्रह्म । -लुब्ध - वि सगीत आदि के सुनने से मुग्ध होने वाला । मु धरणें - पीछे पडना । -लागणें - १ शोक लगना, चसका लगना । २ वुरी आदत पडना, किसी वुरे व्यसन में फँसना । - सोडणें - खयाल छोड देना । नादात असणें - धुन सवार होना, मस्त रहना । नादीं लागणें - १ (किसीके पीछे) पागल होना, फरेफता आशिक होना । २ फदे में आना, जाल में फँसना । ३ मस्त, मशगूल होना । नादीं लावणें - फँसाना, कब्जे में करना, वहकाना, फदे, जाल में लाना ।

नादान - वि [फा] अयोग्य, नालायक, नाकारा, निकम्मा । -की - छी नालायकी, अयोग्यता, निकम्मापन ।

नादार - वि [फा] १ नादार, शरीत्र, कगाल, निर्धन, मुफलिस । २ शोघनाक्षम; दीवा-

लिया, दिवालिया । ३ नि शुल्क शिक्षा पाने वाला ।

नादारी - छी [फा] १ नादारी, निर्धनता; मुफलिसी । २ दिवालियापन । ३ फीस की मुआफी, नि शुल्क शिक्षा ।

नादिष्ट, नादी - वि सनकी, खन्वी, धुन का पक्का ।

नादुरुस्त - वि [फा 'ना' + 'दुरुस्त'] नादुरुस्त, खराब, अस्वस्थ, विगडा हुआ, जो अच्छी हालत में न हो ।

नाना - पु. 'नारायण' शब्द का आदर और स्नेहसूचक संक्षेप ।

नाना - वि १ नाना, अनेक, कई । २ अलग-अलग, विविध, विभिन्न । -त्व - न अनेकत्व । -तन्हेनें, -परी; -परीनें, -परीनीं, -प्रकारें - अव्य. अनेक प्रकार से; हर तरह से । -विध - वि नाना-विध, कई प्रकार के, भाँति-भाँति के ।

नापत - छी १ साख का अभाव, (व्यापारिक) कुख्याति, साख का उठना । २ बदनामी । - वि जिसकी साख न रही हो । १ साख उठना, लेनसबधी एतबार या प्रतिष्ठा न रहना । २ बदनामी फैलना ।

नापसत - द - वि [फा 'नापमद'] नापसद, अप्रिय, नागवार ।

नापसती - छी [फा 'नापसदीदगी'] नापसदीदगी, अरुचि, अप्रियता ।

नापास - वि [फा 'ना' + अ 'पाम'] १ अनुत्तीर्ण, 'फेल' । २ दे 'नापमत' ।

नापीक - वि ऊमर, वजर, पडती ।

नाफा - पु [फा 'नाफ'] नाफा, मृगनाभि, कस्तूरी मृग की नाभि के भीतर की कस्तूरी की थैली ।

नाफेर - पु परिवर्तन का अभाव । -वादी, -वाला - वि अपरिवर्तनवादी, कट्टरपथी ।

नाम - न १ नाम, इस्म । २ सज्ञा (व्या०) । -पु १ खडा तिलक । २ तिलक लगाने का ठप्पा । दे 'नाव' । -करण - नामकरण, नाम रखने का मस्कार ।

-घोष - पु १ नाम-कीर्तन । २ जोर-जोरसे ईश्वर का नाम लेना । -जोग - वि नामजोग, धनी-जोग, आदेशी (चेक), 'ऑर्डर' । (दे 'घनी' में) -दार - वि १ नामदार, नामवर, प्रसिद्ध । २ माननीय । -पु १ विधानमंडल या विधानपरिषद् का सदस्य । २ मंत्रिमंडल का सदस्य । -देव - पु १ सत नामदेव । २ दर्जियों की एक उपजाति । -घातु - पु नाम-

घातु, सज्ञापद से बनायी हुई वातु । -धारक, -धारी - वि १ नामधारक, नामधारी, कहने भर को कोई नाम धारण करने वाला, नाममात्र, कहने भर को कोई काम करने वाला, केवल नाम के लिए बना हुआ । २ जो अपने नाम के अनुरूप कार्य न करता हो । -ना - छी कीर्ति, ख्याति, शूहरत, नाम । -नाईक - पु जनसेना का एक अधिकारी । -निर्देश - पु नामनिर्देश, नाम का उल्लेख करना । -निशाण - न नाम व निशान, चिह्न, पता । -वि ख्यातनाम, प्रसिद्ध, मशहूर । -शेष - वि नामशेष, जिसका केवल नाम रह गया हो,

मृत, नष्ट, मटियामेट । - सकीर्तन  
- न नामकीर्तन, भजन ।

नामक - वि नामक, नाम का,  
नाम वाला ।

नामर्द - वि [फा] १ नामर्द,  
भीरु, डरपोक, वुज्रदिल । २.  
नपुसक, हिजडा ।

नामाकित - वि १ ख्यातनाम,  
मशहूर । २ बढ़िया; बहुत अच्छा ।

नामा - वि नामा, नामक,  
नाम का । - प्र. सत नामदेव ।  
- निराळा - वि अलग, अलिप्त  
रहने वाला, झगडा लगा कर दूर  
रहने वाला ।

नामावळी - स्त्री नामावली,  
नामो की सूची ।

नामी - वि [फा] १ नामी,  
नामी-गरामी, प्रसिद्ध, मशहूर ।  
२ बढ़िया, बहुत सुंदर ।

नामुष्की - स्त्री [अ 'नामूस']  
नामूसी, वदनामी, वेइरुती,  
शर्म ।

नामोहरम - वि [फा अ  
'नामहरम'] १ पस्तहिम्मत,  
हतोत्साह । २ परास्त, हारा हुआ ।  
२ नष्ट ।

नाय<sup>र</sup> - अव्य नहीं । - क्रि अ  
नहीं है ।

नायक - प्र. १ नायक, नेता,  
मुखिया, अगुआ । २ वह पुरुष  
जिसके चरित को लेकर किसी  
काव्य या नाटक आदि की रचना  
की गयी हो । ३ शृंगार का आल-  
वन रूप-यौवन आदि से सपन्न  
पुरुष । ४ हार का प्रधान मणि ।  
५ पति, स्वामी । दे 'नाईक' ।  
- बडा - प्र. १ पुराने समय का  
लगान वसूल करने वाला एक  
मिपाही । २ गाँव के अच्छत कर्म-  
चारियों का मुखिया, जमादार ।

३ पदाति मेना के दस या बीस  
जवानो का मुखिया ।

नायकी - स्त्री १ नायक का  
काम और ओहदा । २ स्वामित्व,  
प्रभुत्व ।

नायकीण - स्त्री १ वेश्या,  
रखेली, तायफा; तवायफ, गाने  
बजाने वाली औरत । २ नायक  
की स्त्री । ३ नायिका ।

नायटा - प्र. दाद, दद्रु, खसरा ।  
नायनाट - प्र. नाश, सत्यानास,  
मर्वनाश, ध्वस ।

नायब - वि [अ 'नाइब'] [   
नायब, सहायक, 'असिस्टेंट' ।

नायिका - स्त्री १ नायिका, वह  
स्त्री जिसका चरित किसी काव्य  
आदि मे वर्णित हो । २ प्रधान  
अभिनेत्री । ३ मार्गदर्शन, नेतृत्व  
करने वाली, राह दिखाने वाली स्त्री ।

नारग - दे 'नारिग' ।

नार\* - स्त्री नारी, स्त्री,  
पत्नी ।

नार - प्र. [अ] १ पुराने  
पेड के तने का गूदा । २ सीग का  
अदरुनी हिस्सा । ३ हृदय, दिल ।  
४ छिलका । ५ केले के पेड के  
छिलके का रेशा । ६ कमल आदि  
की डडी, नाल ।

नारळ - प्र. १ नारियल,  
नारिकेल । २ सिर, खोपडी । -  
स्त्री नारियल का पेड । मु - हातीं  
देणें - १, विदा करना । २ निकाल  
देना, हटा देना । नारळाचा चऊ -  
ब - प्र. नारियल की गरी का चूरा ।  
नारळाची आई - स्त्री १ नारि-  
यली, नारियल का खोपडा । २  
भिक्षा पात्र ।

नारळी - स्त्री १ नारियल का  
पेड । २ नारियल का आधा  
खोपडा । - पुनव; - पौर्णिमा -

स्त्री नारियलपूणिमा, श्रावण की  
पूणिमा । - भात - प्र. नारियल  
की गरी डालकर बनाया हुआ मीठा  
चावल ।

नाराज - वि [फा अ]   
नाराज, अप्रसन्न, नाखुश, क्रुद्ध ।  
नाराजी - स्त्री [फा अ  
'नाराजी'] नाराजी, नाराजगी,  
अप्रसन्नता ।

नारिग - न [फा 'नारज']   
नारगी, सतरा, सगतरा । - स्त्री  
नारग, नारगी का पेड ।

नारिगी - वि [फा 'नारजी']   
नारगी, नारगी के रगका, कुछ -  
कुछ पीला ।

नारी - स्त्री १ नारी, स्त्री,  
औरत । २ पत्नी ।

नारू - प्र. नारू, नहरुवा,  
(रोग) ।

नारू - प्र. [तमिल 'नाडु']   
गाँव के ऐसे कारीगर जिन पर  
किसान विशेष निर्भर नहीं होते,  
अर्थात् जिनके बिना किसानो का  
काम चल सकता है । - फारू - प्र.  
वहु गाँव के कारीगर ।

नाय्या - प्र. ऐरागैरा नत्थू खैरा,  
साधारण जन, नगण्य व्यक्ति ।

नाल - प्र. [अ] नाल, घोडे-  
वैल की टाप या जूते की एडी के  
नीचे लगाया जाने वाला लोहे का  
अर्धचंद्राकार टुकडा । - वद - प्र.  
नालवद, नाल जडने का काम  
करने वाला । - साहेब - प्र. पजा  
साहब, चादी का बना हुआ पजा  
जो वाँस मे लगा होता है और  
जिसे झडे के रूप मे ताजिये  
के साथ ले चलते हैं ।

नाल - प्र. न नाल, कमल  
आदि की डडी । - स्त्री दे 'नाळ',  
'नळ-ळा-ळी' ।

नाल - पु. [ क 'नाल्कु' ]  
गुल्लीडंडे के खेल में चार की  
गिनती।

नालस्ती - स्त्री [ फा  
'नागन्ती' ] १ निदा, बुराई  
चुगली। २ बदनामी।

नाला - पु. १ नाला, छोटी  
बरसानी नदी या नहर। २ नाली,  
मोरी।

नालायक - वि [ फा अ  
'नालाइक' ] निकम्मा, नाश-  
यक, अयोग्य, अक्षय, बेकार।

नालायकी - स्त्री [ दे 'नाला-  
यक' ] अयोग्यता, निकम्मापन।

नाली - स्त्री १ नाली,  
मोरी। २. नाडी, मिरा, धमनी,  
नस। [ नौका।

नाव - स्त्री नाव, किस्ती,  
नाव - न दे 'नाव' 'नाम'।  
नावड - स्त्री नापमदीदगी;  
अरुचि।

नावडणें - क्रि अ नापसद  
होना, अप्रिय होना, अच्छा न  
लगना।

नावडता - वि अप्रिय, नाप-  
सद, अरुचिकर।

नावडनी - वि स्त्री नापसद,  
अप्रिय; अनचहेती। कहा० नाव-  
डतीचें मोठ अळणी - अनचहेती  
का नमक भी अळोना, अप्रिय  
व्यक्ति की हर बात बुरी लगती है।

नावाडो, नाचिक - पु. नाचिक,  
केवट, मल्लाह, मांझी।

नाविन्य, नावीन्य - न अपू-  
र्वता, नवीनता।

नाश - पु. १ नाश, प्रध्वंस;  
सहार; लोप, खात्मा, बरवादी।  
२ घाटा, नुकसान। - बत - वि  
१. नाशवान्, नश्वर; अथाव्यत।  
२ जो बहुत जल्दी खराब हो

जाय।

नाशिवन - दे 'नाशवत'।

नामकवणी - स्त्री १. सडा  
हुआ, खराब पानी, दूब आदि। २  
छेना, पनीर।

नासका - वि सडा हुआ,  
मडा-गला, मडियल, खराब।

नासणें - क्रि अ १ सडना,  
विगडना, खराब होना। २ बेकार  
होना। ३ बरवाद होना। ४  
मरना। - क्रि स १ नष्ट, बरवाद  
करना। २ मडाना, विगाटना,  
खराब करना।

नासधूस - स्त्री नाश, खराबी;  
बरबादी; तबाही।

नासवणें - दे 'नासावणे'।

नासाडी - स्त्री नाश; खराबी,  
बरवादी, तबाही।

नासावणें - क्रि अ अधूरा  
जाना, अममय गर्भपात होना,  
हमल गिरना।

नास्तिक - वि पु नास्तिक,  
ईश्वर, परलोक आदि में विश्वास  
न करने वाला, पाखंडी, मुठ-  
हिंद, मुनकिर।

नाहक - अव्य [ फा अ  
'नाहक' ] नाहक, अकारण;  
व्यर्थ, बेसुध, बेमतलब।

नाहण; नाहणें, नाहाण,  
नाहाणें - दे 'नहाण' 'नहाणें'  
आदि।

नाहीं - अव्य ना, नहीं। -  
क्रि अ नहीं है। - तरी - अव्य. १.  
फिर भी। २ कम से कम। ३. वैसे  
तो। - तेंच - अव्य. १ असभव।  
२. अनुचित, कुछ का कुछ। -  
पक्षीं, - पेक्षा - अव्य. १ बरना;  
वल्कि, नहीं तो। २ कम से कम,  
इतना तो। मु - करणें - १ नष्ट  
करना। २ ऐसा दिखाना कि

मानो नहीं है। - मा होणें - गायब  
होना।

नाळ - स्त्री १ नाल, आंबर  
(वह झिल्ली जिममें गर्भस्थ शिशु  
लिपटा रहता है)। २ नाळ,  
कमल आदि की टट्टी। ३ जहाज  
का मुंह, अगला भाग। ४ तोप।  
५ पीसते समय चक्की में जमा हुआ  
आटा। ६ दो पहाड़ियों के बीचका  
मैकंग मार्ग, दर्रा, घाटी। दे  
'नाळ'।

निच - १ ठिगना, नाटा।  
२ हल्का; ओछा, नीच।

निदक - वि १. निदक, निदा,  
बदगोई करने वाला। २ चुगलवार।

निदण - णी - स्त्री १ निगाई,  
निदाई। २ फसल के बीच उगाई  
हुई घास आदि। ३ गोडाई।

निदणें - क्रि स १ निदा,  
बुराई करना, दोष निकालना,  
नुक्ताचीनी करना। २ चुगली  
वाना।

निदणें - क्रि स. १ निदाना,  
निगाना, पांवों की बढ़ती को  
रोकने वाली अनावश्यक घास, तृण  
आदि को खुरपी में खोदकर दूर  
करना। २ गोडना, फोटना,  
खोदना।

निदा - स्त्री निदा, बुराई,  
बदगोई; लानत - मलामत। मु -  
करणें - निदा करना, बुरा-मला  
कहना; टेंगली उठाना, लाछन  
लगाना, लानत भेजना।

निद्य - क्रि निद्य, निदनीय।

निव - पु निव, नीम, एक  
प्रसिद्ध पेड़ जिसके सब अंग कड़वे  
होते हैं। - लोण - न दीठ, नजर  
उतारने के लिए प्रयुक्त नीम के  
पत्ते, राई, नीम आदि चीरें।  
मु० - लोण उतरणें, करणें -

राईनोन उतारना, दीठ जलाना ।

निवारा - पु. १ नीम का वडे किस्म का पेड । २ नीम की पत्तियां ।

निवू - पु. निवू, नीवू (फल और पेड) ।

निवूर - पु. १ वाजरे का भुट्टा । २ वाजरे के भुने हुए हरे दाने, परमल ।

निवोटी - छी १ नीवू को बीचोबीच काट कर उसपर चीनी, नमक आदि डाल कर आग पर रख कर पकाने से बनने वाली दवा । २ आधा नीवू ।

निवोणी - छी निवोरी, निम-कौडी, निवकौडी, निमकौरी ।

निवोळी - छी १ दे 'निवोणी' । २ पीला रंग । वि पीला, जर्द, पीले रंग का ।

नि क्षत्रिय - वि नि क्षत्र; क्षत्रियोमे रहित । [दार ।

नि पक्ष - वि निष्पक्ष, नातरफ-नि-पक्षपात - पु. निष्पक्षता, नातरफदारी । [खात्मा ।

नि पात - पु. निपात, विनाश, नि शक - वि नि शक, निडर, दूढ । - पणे - अव्य. नि शक, वेखटके ।

नि शस्त्र - वि नि शस्त्र, निहत्या, निरस्त्र । [करण ।

नि शस्त्रीकरण - न निरस्त्री-नि-श्वास - पु. १ निश्वास, लव्री मांस । २ ठडी सांस । मु०-सोडणें - १ ठडी सांस लेना, आह भरना । २ मांस छोडना, बाहर निकालना ।

नि सकोच - वि नि सकोच, निस्सकोच, वेतकल्लुफ । - पणें - अव्य. निस्सकोच, विना सकोच के, वेतकल्लुफ हो कर ।

नि सशय - अव्य नि सदेह, विलाशुवह, वेशक ।

नि सत्त्व - वि निम्नत्व, असार, शक्तिहीन, कमजोर ।

नि स्तब्धता - छी सन्नाटा, खामोशी ।

नि स्वार्थी - वि नि स्वार्थी, निस्स्वार्थ, वेगारज ।

नि - अव्य और, व, तथा ।

निकट - वि निकट, पाम का, नजदीकी । - अव्य निकट, पास, नजदीक । - वर्ती - वि निकट-वर्ती, समीपवर्ती, नजदीकी ।

निकड - छी १ तकाजा, तगादा । २ जल्दी, शीघ्रता । ३ जरूरत, बडी आवश्यकता । ४ तगी, कमी ।

निकर - पु. १ हठ, जिद । २ कहर, गज्रव । ३ हद, चरम सीमा । ४ बुरा नतीजा । निकराचा - वि दे क्रममें । मु० निकरावर येणें - १ झगडे या मारपीट पर उतारू होना । २ बहुत बढ जाना, चरम सीमा तक पहुँच जाना ।

निकराचा - वि १ प्रचड, प्रबल, गज्रव का । २ अतिम, आखिरी ।

निकप - पु. निकप, कसीटी ।

निका - पु. [अ 'निकाह' ] १ निकाह, व्याह, विवाह । २ मुसलमानों में प्रचलित पुनर्विवाह, घटिया श्रेणी का विवाह ।

निका - \*वि [अ 'नकी', फा 'नेक' ] १ नीक, नीका, पवित्र, शुद्ध । २ अच्छा, बढिया । ३ सच्चा । ४ खालिस ।

निकामी - वि निकम्मा, बेकार, व्यर्थ का, निरुपयोगी ।

निकाल - पु. १. निर्णय,

फैसला । २ नतीजा, परिणाम, परीक्षाफल । ३ अत, खात्मा । ४ निकाल, निकास । - पत्रक - न १ निर्णय-पत्र । २ अपने कामों का समय-समय पर दिया जाने वाला व्योरा । मु० - लागणें - १ खत्म होना । २ परीक्षाफल प्रकट होना । ३ काम तमाम होना, मर जाना । - लावणे - १ माफ करना । २ समाप्त, खत्म करना । ३ फैसला करना । ४ काम तमाम करना, मार डालना । ५ परीक्षा-फल प्रकट करना । निकालात काढणें - मिटाना, चुकाना, फँसला करना, खात्मा करना ।

निकास - पु. निकास, निकलने, निकालने की क्रिया या भाव, बाहर जाना या भेजना ।

निकृष्ट - वि १. हलका, घटिया, खराब । २ निकृष्ट, नीच, अधम, तुच्छ ।

निकें - दे 'निका' ।

निकोप - वि १ साफ, निर्दोष, बेऐव । २ स्वस्थ, तन्दुरुस्त, मजबूत, तगडा ।

निकून - अव्य साफ-साफ, खुल्लमखुल्ला, जोर दे कर, डट कर, कटाई के साथ; कतई तौर पर ।

निखल्लणे - क्रि स १ निंदा, बुराई करना । २ दुतकारना । ३ भगा देना ।

निखर्व - वि निखर्व, दस हजार करोड ।

निखल्ल - वि खालिस, बेमेल, शुद्ध, पवित्र । - अव्य १ केवल । २ निश्चित रूपमें, यकीनन ।

निखल्लणें - क्रि अ निकलना, उखडना, उचटना, उचडना, खुलना, ढीला पडना । - क्रि स



१ निकालना, उखाड़ना, उचाटना, उचाड़ना, खोलना। २ निकाल देना; हटा, भगा देना।

निखारा - पु अगार, अगारा, दहकता हुआ कोयला या काष्ठखंड आदि। मु० घरावर-ठेवणें - १ किसीके मकान में आग लगाना, बहुत भारी नुकसान करना। २ देश, धर्म, समाज आदि के लिए बहुत बड़ा त्याग करने को तैयार होना, सर से कफन बांधना।

निखालस - वि [अ 'खालिम'] १ बेमेल, विशुद्ध। २ निश्छल, मुखलिस। ३ निश्चित, स्पष्ट, साफ। - अव्य १ केवल, सिर्फ। २ खुल्लमखुल्ला, साफ-साफ। ३ निश्चित रूप में, यकीनन, जोर दे कर।

निगडित - वि सलग्न, बंधा हुआ, गुंथा हुआ, सबद्ध। मु०-करणें-जोड़ना।

निगडी - स्त्री निगुंडी, मिट्टुवार (एक क्षुप)।

निगरगट्ट - वि १ निघरघट, निर्लज्ज, वेशर्म, निखट्टू, वेकार, निकम्मा। २ निर्दय, क्रूर।

निगर्वी - वि निरहकार, निरभिमान।

निगा - स्त्री [फा 'निगाह'] निगरानी, देखभाल, फिक्र, परवरिश; सेवा।

निगुती - स्त्री दक्षता, सावधानी, एह्तियात।

निग्रह - पु १ निग्रह, रोक, मयमन, अवरोध, दमन। २ निश्चय, आग्रह, दृढ़ता, कडाई, सख्ती। ३ वश में लाना। ४ दड देना।

निग्रही - वि निश्चयी, दृढ़, हठी, जिदी।

निघणें - क्रि अ १ निकलना, चलना, चल पडना,। २ वाहर आना, होना, फूट निकलना। ३ प्रवाहित होना, गिरना, बहना। ४ तेजी से बटना। ५ तैयार होना। ६ उभरना, दिखाई देना। ७ खुलना, उखटना। ८ उत्पन्न होना। ९ आविष्कृत या ईजाद होना। मु० निघून जाणें - १ निकल जाना, चला जाना, चलते बनना। २ जाता रहना, खो जाना।

निघरणें - क्रि अ निचुडना, निचोडा जाना, गरना, गलना, चूना, टपकना, झरना।

निघरा - पु निकास, निकामी, निचोड, पानी, मवाद आदि का पूरी तरह वाहर निकलना या निकालना।

निश्चित - वि निश्चित, वेफिक्र। निश्चेष्ट - वि निश्चेष्ट, अचेत, वेहोश।

निज - वि निज, अपना, स्वकीय, निजी। -न मन, आत्म-स्वरूप। - स्त्री दे 'नीज'।

-बोध - पु आत्मज्ञान। मु०-घामास जाणें - मर जाना, देहात होना, स्वर्ग, परलोक सिधारना।

निजणें - क्रि अ १. मोना। २ लेटना।

निजध्यास - पु निदिध्यास, अनवरत चिंतन।

निजविणें - क्रि स १ सुलाना। २ लिटाना। [जाना।

निजानोज - स्त्री सब का मो निटिल - न निटिल, मस्तक, ललाट, माथा।

निठवें - न आधा सेर की माप। निठळ - न निटळ, निटिल, मस्तक, ललाट, माथा, पेशानी।

-निठळाच्या घामाचा - वि गाढे पमीने की (कमाई। कडी मेहनत मे कमाया हुआ (पैसा)।)

नितंब - पु नितंब; स्त्रियों के शरीर का कमर मे नीचे का भाग, चूतड।

नितकोर - पु रोटी आदि का आठवां हिस्सा, बहुत छोटा टुकटा।

नितळ - वि १ साफ, स्वच्छ, निथरा हुआ, पारदर्शक। २ मुलायम, चिकना, चमकदार।

नितळणें - क्रि अ. निथरना, जल आदि का स्वच्छ हो जाना।

नितांत - अव्य. नितांत, अत्यंत, बहुत अधिक।

नित्य - वि नित्य, सदा बना रहने वाला, शाश्वत, म्यायी; अनश्वर। - अव्य नित्य, सदा, हमेशा। - नेम - पु नित्यकर्म, आहिक। - नैमित्तिक - वि नित्यनैमित्तिक, (वह कर्म) जो नित्य भी हो और नैमित्तिक भी- जैसे पार्वण श्राद्ध।

नित्योपयोगी वस्तु - स्त्री वह, नित्य व्यवहार की वस्तुएँ, उपभोग्य वस्तुएँ।

नियळणें - क्रि अ निथरना, निखरना; चूना, टपकना।

निदर्शक - वि प्रदर्शनकारी, मुजाहरीन।

निदर्शन - न १ निदर्शन। २ प्रदर्शन, मुजाहरा, किसी मांगके लिए लोगो का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस निकालना। ३. अनुभव। मु० निदर्शनास आणणें - ध्यान आकषिप्त करना, दिखा देना। निदर्शनास येणें - दिखाई देना, अनुभव होना।

निदान - न १ निदान, आदि कारण। २ रोग का कारण, रोग का निर्णय। -अव्य. १. कम से कम। २ निदान, अत में, आखिर।

निदानीचा - वि आखिरी, अतिम, कठिन समय में काम आने वाला।

निदिध्यास - पु निदिध्यास, अनवरत चिंतन, रट, धुन, ली।

निद्रिस्त - वि निद्रित, सोया हुआ।

निघडा, निघड्या छातीचा - वि निडर; निर्भीक, निर्भय, देखीफ।

निघन - न निघन, मृत्यु, मौत, देहात, इतकाल।

निघान - न, निधि - पु १ निधि, पूंजी; भंडार, सग्रह। २ आधार, आश्रय, सहारा। ३. सुरक्षित निधि, कोप, 'फड'।

निनावी - वि गुमनाम, विना नाम का (पत्र, लेख)।

निपचित - वि निश्चेष्ट, अचेत, बेहोश, गुमसुम। -अव्य. चुपचाप।

निपज - स्त्री १ उपज, पैदावार, उत्पादन। २ पैदाइश।

निपजणें - क्रि अ १ उपजना, उत्पन्न होना, पैदा होना। २ निकलना, होना, बनना।

निपट - अव्य १ निपट, विलकुल, नितात, एकदम, निरा। २ सचमुच।

निपटणें - क्रि स १ अच्छी तरह पोछना, साफ करना। २ निपटाना, निवटाना।

निपटून - अव्य चाट-पोछ कर। मु - काढणें - जडमूल में उखाडना; नष्ट करना।

म हि श. को ...२८

निपटें - न अघपई, आघा पाव, दम तोले की एक माप।

निपणजा - पु परदादा के पिता, परनाना के पिता।

निपणजी - स्त्री परदादा, परनाना, परदादी, परनानी की माता।

निपसणें - दे 'उपटणें', 'उपसणें'।

निपाणी - वि १ निर्जल, सूखा। २ जिसमें पानी मिला हुआ न हो, खालिस।

निपुण - वि निपुण, प्रवीण, माहिर, चतुर, सुघड, सिद्धहस्त, मँजा हुआ।

निपुत्रिक - वि निपूत, निपूता, पुत्रहीन, नि सतान। - व्यक्तीची संपत्ति - स्त्री गलतस।

निफज; निफजणें - दे 'निपज', 'निपजणें'।

निवंध - पु १ निवध, लेख। २ वडा लेख, प्रवध।

निवर - वि १ कडा, पक्का, पुराना, कठिन। २ वूढा। ३ वासी (अडा)। ४ प्रखर, तीव्र।

निवरट - वि १ दे 'निवर'। २ कठोर, कर्कश, उग्र, करारा।

निविड - न अरण्य, जगल। - वि निविड, घना, गहरा।

निव्वर - दे 'निवर'।

निभणें - क्रि अ १ निभना, निवहना। २ वच निकलना, पार पाना। ३ निर्वाह होना, चालू रह सकना। ४ पूरा होना।

निभाव - पु १ निवाह, निर्वाह, गुजारा। २. निस्तार, छुटकारा, पार पाना। मु - लागणे - १ टिक सकना। २ निस्तार पाना।

निभावणी, निभावणूक - स्त्री दे 'निभाव'।

निभावणें - क्रि स निवाहना, निभाना, पूरा करना; छुटकारा, निस्तार पाना। - क्रि अ. दे 'निभणे'।

निभावणें, निभावणें - क्रि स निवाहना, निभाना, पूरा करना; छुटकारा, निस्तार पाना। - क्रि अ. दे 'निभणे'।

निमत्रण - न निमत्रण; वुलावा, आमत्रण, न्योता।

निम - वि [फा 'नीम'] नीम, आधा। - स्त्री - स्त्री आघे का पहाडा, अद्धा। - गौरा - वि गडुमी, गेहूँए रग का, सांवला।

- पु भारतीय ईसाई, 'ऐंग्लो-इंडियन'। - गोल - पु अर्द्धवर्तुल; अर्द्धगोल। - सरकारी - वि अर्द्ध-सरकारी, अर्द्धशासकीय।

निमक - [फा 'नमक'] नमक, लवण, लोन। - हराम - वि नमकहराम, कृतघ्न। - हलाल - वि नमकहलाल, कृतज्ञ; स्वामिभवत।

निमणें<sup>+</sup> - क्रि अ १ समाप्त होना। २ शात होना, शमन होना। ३ मरना।

निमताना - पु अकाई, कूत; अदाजा।

निमा - दे 'निम्मा'।

निमित्त - न १ निमित्त कारण, साधनभूत कारण, सबब, वहाना। २ हेतु, उद्देश्य। - मात्र - अव्य. केवल निमित्त। निमित्ताचा घनी - वि केवल निमित्त बनने वाला। निमित्तानें - अव्य उपलक्ष्य में, बात को लेकर, के वहाने।

मु. निमित्तास टेकणे - वहाना ढूँढना, घात लगाये रहना।

निमुळता - वि शुडाकार, गक्रुप, सूच्याकार, गावद्रुम।

निमूट, निमूटणें - अव्य चुपचाप, विना ची-चपड किये, सीधी तरह।

निमूळ - वि निर्मूल, विना

जड का, जो मूलसहित उखाड़ दिया गया हो, सर्वथा नष्ट।

नियत - स्त्री [अ. 'नीयत'] नीयत, इरादा, इच्छा, मन्शा, उद्देश्य।

नियत - वि नियत, निश्चित, मुकर्रर, नियमवद्ध। - फालिफ - न सामयिक पत्र, पत्रिका।

नियम - पु १ नियम, दस्तूर, परिपाटी, सिलमिला। २ रीति, पद्धति, कायदा। ३ विधि, विधान, व्यवस्था, धारा, कानून। ४ व्रत।

नियमानुसार - अव्य. नियम के अनुसार, वदस्तूर, वाकायदा, नियमित रूप से।

नियामकमंडळ - न प्रवध - समिति, शामी निकाय, 'गवनिग वांडी'।

नियोजन - न १ योजना; आयोजना; परिकल्पना, मनमूवा-वदी। २ नियोजन, आयोजन। - भंडळ - न योजना - आयोग, 'प्लैनिंग कमिशन'।

नियोजिणे - क्रि स १. नियुक्त, तैनात करना। २ मुकर्रर, निश्चित करना। ३ सोचना।

नियोजित - वि १ नियोजित, नियुक्त किया हुआ, नियत। २ प्रस्तावित।

निरकार - वि निराकार, केवल, शुद्ध। - अव्य. पूर्णतया, विलकुल।

निरजन - न १ विद्या, ज्ञान। २ अरण्य। ३ दे 'निराजन'।

निरतर - अव्य निरतर; सतत, लगातार, बराबर।

निरक्षर - वि १ निरक्षर, अनपढ़, अपढ़। २ गंवार, मूर्ख।

निर्ख - पु [फा 'निर्ख']

१ निर्ख, दर; भाव। २ कसौटी, परीक्षा।

निरखणे - क्रि स १ निरखना; देखना, निहारना, गौर से देखना। २ परखना।

निरगाठ - स्त्री थवरा; न खुलने वाली गाँठ, पक्की गाँठ।

निरगुडी, निरगुडी - स्त्री निर्गुंडी, सिट्टुवार।

निरढावणे - दे 'निर्ढावणे'।

निरतिशय - वि निरतिशय, जिसमे बडा या बढकर दूसरा न हो, बहुत अधिक।

निरपणे - क्रि स १ दे 'निपटणे'। २ डाँटना, फटकारना। ३ भुगतना।

निरपराधी - वि निरपराध, बेकनूर, बेगुनाह, निर्दोष।

निरपेक्ष - वि निरपेक्ष, किनी आँर की अपेक्षा न रखने वाला, निःस्वार्थ, विरक्त, निष्काम, निरीह, निरिच्छ।

निरभिमान - वि निरभिमान, गर्वरहित, सीधा-सादा।

निरभ्र - वि निरभ्र, साफ (आतमान), मेघरहित।

निरगंल - वि १ निरकुश, मनमाना, स्वेच्छाचारी। २ वाहियात।

निरर्थक - वि निरर्थक, वेमतलब; निष्प्रयोजन, व्यर्थ। - अव्य. नाहक।

निरलस - वि निरलस; आलस्य-हीन, चपल।

निरखणे - दे 'निरविणे'।

निरवानिरव - स्त्री १ अंतिम व्यवस्था, उत्तराधिकारियों के लिए किया गया प्रवध। २ प्रबंध, व्यवस्था।

निरविणे - क्रि स १ साँपना;

समझा देना। २ विदा करना। ३. मेजना। ४. देना।

निरस - वि १ निरस, नीरस, फीका, बेमजा, चारहीन, रुजा-मूखा। २ गौग।

निरसणे\* - क्रि स १. फेंक देना, अउग, दूर करना; हटाना। २ मिथ्या समझना या प्रमाणित करना। - क्रि थ दूर होना, समाप्त, नष्ट होना।

निरसन - न निरसन; निरसकरण, दूर करना, खटन; दूर करना।

निरसा, निरसे - वि १ गरम न किया हुआ, कच्चा, ताजा (दूध)। २ खानिस; जिसमें पानी न मिलाया हो।

निराजन - न नीराजन, नीराजन, आरती।

निरा - स्त्री पु दे 'नीरा'।

निराकरण - न निराकरण; निवारण, परिहार, खटन, निरसन।

निरागत - वि निरीह, मासूम, मोला-भाला।

निराधार - वि १. निराधार, असहाय। २ बेवूनियाद; अय्यार्थ।

निराश - वि निराश, निराम, हताश, नाउम्मीद।

निराशा - स्त्री निराशा, नाउम्मीदी। - वाद - पु निराशा-वाद, दुखवाद, 'पेसिमिज्म'। - वादी - वि निराशावादी, दुखवादी, 'पेसिमिस्ट'।

निरास - पु निराम, निरसन, निराकरण, दूर करना, खटन।

निराहार - पु उपवास, फाका। - वि निराहार, जिसे करने में कुछ खाया न जाय (व्रत आदि)।

निराळा - वि १. अलग,

जुदा, पृथक् । २ और, दूसरा, भिन्न ।

निरिच्छ - वि निरिच्छ, निरीह, विरक्त ।

निरी - स्त्री चुनट; चुन्नट, चुनन, पट्टी, नीवी । निन्या केलेलें घोतर - न चुनियाई हुई घोती । मु० - निन्या करणे - चुनियाना, चुनना, डुपटना ।

निरीक्षण - न निरीक्षण, गौर से देखना, जांच, मुआइना ।

निरुद - वि सँकरा, तग ।

निरुत्तर - वि निरुत्तर, चुप, जिसके पास कोई उत्तर न हो ।

निरुत्साह - वि निरुत्साह, उत्साहरहित । - पु. उत्साह का अभाव ।

निरुत्साही - वि दे 'निरुत्साह' ।

निरुद्योगी - वि निरुद्योग, निरुद्यम, बेकार, निकम्मा, ठाला, सुस्त, आलसी ।

निरुपद्रवी - वि १ निरुपद्रव, विघ्नरहित, सुरक्षित । २ निरुपराध, निर्दोष, मासूम । ३ वेज्रर, जिससे कोई हानि न पहुँचे ।

निरुपयोगी - वि निरुपयोगी, बेकार, निकम्मा, निरर्थक । - वस्तु - स्त्री बहु. कवाड, अगड - खगड ।

निरुपाय - पु. असमर्थता, लाचारी, मजबूरी, विवशता ।

निरुपायास्तव - अव्य. मजबूरन, लाचार हो कर ।

निरूपण - न निरूपण; विवेचन, व्याख्या, मौखिक रूप से या लेख द्वारा किसी विषय को ठीक - ठीक समझा देना ।

निरोगी - वि निरोग, नीरोग, स्वस्थ, चगा, तदुरुस्त ।

निरोधन - न १. निरोधन, निरोध, रोक, रुकावट । २ प्रवेश-रोधन, धरना; धरना देना, छेकना, धरना, 'पिकेटिंग' ।

निरोप - पु. १ सदेश, संदेश, सवाद, खबर । २ विदा, रुखसत, विदाई । मु० - घेणें - विदा होना, रुखसत होना । - देणें - १ विदा करना, रुखसत करना । २ वृक्षाना (वत्ती) ।

निरोप्या - वि सदेशी, संदेशी, दूत, सदेशवाहक, हरकारा ।

निर्गत - स्त्री निर्यात, बाहर भेजा जानेवाला माल । - वि निर्गत, जो बाहर आया, गया हो ।

निर्गमन - न निर्गमन, प्रव्रजन, प्रवसन, देशांतरण, स्थानांतरण ।

निर्गाठ - दे 'निरगाठ' ।

निर्गुंड - स्त्री - दे 'निरगुंडी' ।

निर्घृण - वि निर्घृण, निर्दय, निष्ठुर, बेरहम ।

निर्घोर - वि निश्चित । - अव्य. वेखटके । मु० - निजणे - घोडे बेच कर सोना ।

निर्जन - वि निर्जन, एकांत, सुनसान ।

निर्जला, निर्जला एकादशी, निर्जळी - स्त्री निर्जला एकादशी, वह एकादशी जिस दिन ब्रती जल तक ग्रहण नहीं करते ।

निर्जीव - वि १ निर्जीव, बेजान, गतप्राण । २ बहुत कमजोर ।

निर्झर - पु. निर्झर, झरना, सोता ।

निर्दोषणे - क्रि. अ. १. आदी होना, परचना, आदत पडना । २ निखट्टू, वेशमं बनना । ३ कोई असर न होना ।

निर्णय - पु. निर्णय; फैसला, निश्चय, निवटारा । - पत्र - न अधिनिर्णयपत्र, फैसला, 'जज-मेंट' ।

निर्णायक - वि निर्णायक, निश्चायक, कतई, फैसलाकुन ।

निर्दय - वि निर्दय, निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर, बेरहम, जालिम ।

निर्दोषणें - दे 'निर्दोषणे' ।

निर्दोषण - न निर्दलन, नाश, खात्मा ।

निर्दोषणें - क्रि. स. निर्दलन करना, नाश करना, खात्मा कर डालना, मिट्टी में मिलाना ।

निर्देश - पु. निर्देश, उल्लेख, सकेत, जिक्र ।

निर्दोष - वि १. निर्दोष, दोपरहित; त्रुटिरहित, बेऐव, बेनुक्स, शुद्ध । २ निरुपराध; वेगुनाह ।

निर्धार - पु. पक्का, निश्चय, ज़िद, अटल निर्णय । मु० - करणे - ठान लेना, जिद पकडना ।

निर्धास्त - वि निश्चित, वेफिक्र । - अव्य. दे. 'निर्वोक' ।

निर्धोक - अव्य. वेखटके, वेखटक, वेघडक, वेखतर, विना डरे, निर्भय हो कर । - वि दे 'निर्धास्त' ।

निर्वंध - पु. १ निर्वंध, रुकावट, पावदी । २ कानून, विधान; विवि । - पडित - पु. विधिज्ञ, कानून दां ।

निर्वीज - वि जिसमें बीज न हो, बीजरहित । - अडें - न खाकी अडा ।

निर्वुद्ध - वि निर्वुद्ध, बुद्धू, नाममझ, बेवकूफ, मूर्ख, अध-खोपडी ।

निर्भय - वि निर्भय, निडर,

निर्भीक, दिलचला; दिलेर।

निर्भर्त्सणें - क्रि स १ भर्त्सना करना, फटकारना; बुरा-मला कहना। २ निंदा करना, व्यंग्य कसना; ताना देना।

निर्भर्त्सना - स्त्री निर्भर्त्सना, भर्त्सना, डांट-डपट, झिडकी, फटकार, निंदा; तिरस्कार।

निर्भीड - वि १ निर्भीक, निडर। २ ठीठ, मुंहफट।

निर्भेळ - वि खालिस, विगुद्ध, चोखा, निर्मल, मच्चा।

निर्मळ - वि निर्मल, साफ; स्वच्छ, विगुद्ध, पवित्र, परिष्कृत, उजला।

निर्मळी - स्त्री निर्मली, (एक पेड या उमका फल जो पानी साफ करने और दवा के काम आता है)।

निर्माण - वि निर्मित, पैदा।

निर्मात्य - पु निर्मात्य (देवता पर चढाये हुए फूल आदि को विसर्जन के बाद 'निर्मात्य' कहते हैं)। - वत् - वि वेकार, निकम्मा।

निर्मिणें - क्रि स निर्माण करना, बनाना, पैदा करना।

निर्मिती - स्त्री निर्मिति, निर्माण, प्रणयन, रचना।

निर्याण - न १ निर्याण, निकलना, प्रयाण, प्रस्थान, कूच। २ प्राण का निकलना, निर्वाण।

निर्यात - वि निर्यात, जो बाहर गया हो, वरामद। - स्त्री निर्यात, वरामद, बेचने के लिए बाहर भेजा जानेवाला माल,। - घोरण - न निर्यात - नीति, वरामदी पालिसी।

निल्लेप - वि १ निल्लेप; निर्लिप्त, अनासक्त। २ साफ,

शुद्ध, पवित्र। ३ जो उपवासमें भी खाया जा सके। ४ निखरी, पक्की (रसोई)।

निर्वंश - वि निर्वंश, नि-सतान। - पु वशनाग, नि सतान होना।

निर्वाण - न १. निर्वाण, मोक्ष, परम गति। २ बहुत बटा मकट। ३ मृत्यु।

निर्वाणोचा - वि आखिरी, अंतिम, उग्र। - खलिता - पु अतिमेत्यम्, अंतिम चेतावनी; 'अल्टीमेटम'।

निर्वात - वि १ निर्वात, वायु से रहित। २ शांत। - पु निर्वातता, शून्यस्थान, रिक्त, 'वैक्यूम'।

निर्वाह - पु १ निर्वाह; निवा-हना, गुजारा, जीवनयात्रा, जीविका। २ साराश। ३ आचरण। मु० - करणें - जीविका चलाना, गुजारा करना, पेट पालना।

निर्वाळा - पु १ भरोसा, विश्वास। २ निर्णय; फैसला। ३ शुद्धता।

निर्विघ्न - वि निर्विघ्न, विघ्नरहित। - अव्य विना विघ्न बाधा के।

निर्विवाद - वि १ निर्विवाद, विवाद-रहित, विना झगडे-बत्तेडे का। २ निश्चित, साफ। - अव्य. निश्चित रूप से, विल-कुल, कतई तौर पर।

निर्वेध - अव्य. निर्विघ्न, अबाध रूप से, विना विघ्न - बाधा के। - वि निर्विघ्न, विघ्नरहित, अबाध।

निर्व्यसनी - वि निर्व्यसन, जिसे कोई व्यसन, बुरी लत न हो।

निर्व्याज - वि निर्व्याज, निश्छल, विगुद्ध, मच्चा, निरीह, मानूम, निष्पट।

निलाजरा - वि निर्व्यज, वेधमं, बेहया।

निवड - स्त्री. १. चुनाव, छांट; चयन। २ पसद, वर्ण।

निवटक - वि १ चुनिंदा, चुना हुआ; श्रेष्ठ, छांटा हुआ, वडिया। २ इनागिना।

निवटणूक - स्त्री चुनाव, निर्वाचन, इतिहास।

निवडणें - क्रि स. १ चुनना, वीनना। २ अलग करना, छांटना। ३ पसद करना।

निवडुग - पु. १. नागफती। २ थूहर।

निवणे - क्रि अ. ठडा होना। २. शांत होना। ३ प्रसन्न होना। - न गेट्टली।

निवतणें - क्रि अ १ मरना। देहात होना; परलोक सिधारना, चल बसना, २ लौटना, लौटाना। ३ रुकना।

निवविणें - क्रि स १ ठडा करना। २ शांत करना, बुझाना। ३ उपगमन करना।

निवळ - स्त्री वि दे 'निवळी', 'निवळ'। - शंख - वि १ विल-कुल साफ, स्वच्छ। २ निरा, निपट बुद्ध।

निवळणे - क्रि अ. १ निय-रना, साफ होना, निखरना। २ सुवरना; अच्छा बनाना।

निवळी - स्त्री १ नियार; चूने का नियारा हुआ पानी। २ (किडा) भौतुवा।

निवात - वि शांत, सुनमान, एकांत; मौन।

निवाडा - पु निर्णय, फैसला,

न्याय । - पत्र - न निणयपत्र, समादेश; निर्णयादेश, हुकमनामा, डिगरी, 'डिक्री' ।

निवारणें - क्रि स निवारण करना, दूर करना, हटाना, टालना, वचाना, वरजना, रोकना ।

निवारा - पु १ आसरा, सहारा, आश्रय, पनाह-घर । २ निर्वात स्थान ।

निवास - पु. निवास, आवास, वासस्थान, घर, रहना, वमेरा ।

निवृत्त - वि १ निवृत्त, हटा, हटाया हुआ । २ कर्मविरत, विरत । ३ अवकाशप्राप्त, सेवानिवृत्त, अवसर-प्राप्त, पेन्शनयापता, 'रिटायर्ड' ।

निवृत्ति - स्त्री १. निवृत्ति, प्रवृत्ति का अभाव । २ दे 'निवारण' । ३ मृत्यु । ४ मोक्ष, मुक्ति । - पु सत निवृत्तिनाथ ।

निवेदक - वि १ निवेदक, निवेदन करने वाला । २. (आकाशवाणी) अभिज्ञापक, प्रघोषक ।

निवेदणें, निवेदिणें - क्रि स निवेदन करना, बताना; विस्तार से कहना ।

निव्वळ - वि केवल, निपट, खालिस, शुद्ध, निरा । - अव्य विलकुल, पूरी तरह ।

निशा - स्त्री निशा, रात ।

निशा - स्त्री पु [अ 'नश्व' ] नशा, मादकता, उन्माद, मस्ती, कैफ । - पाणी - न नशापानी, नशीली चीजें खाना या पीना । - वाज - वि नशेवाज, नशाखोर । निशेंत चूर - वि नशे में चूर, अटा गुडगुड, बेहोश ।

निशाण - न [फा. 'निशान' ] १. निशान, झडा, पताका । २. चिह्न, अलामत । ३ निशाना,

लक्ष्य । ४. पता, ठिकाना । ५. हस्ताक्षर के स्थान पर कागज आदि पर बनाया जाने वाला चिह्न । - वाजी - स्त्री निशाने-वाजी ।

निशाण - पु डका; नगाडा । मु० निशाणीं घाव घालणें - १ कूच का नगाडा बजाना । २ हमले का हुकम देना ।

निशाणी - स्त्री [फा 'निशानी' ] १ निशानी, किसीकी याद कराने वाला चिह्न, स्मृति-चिह्न, यादगार । २ पहचान, शनास्त । ३ निशान, चिह्न, अलामत । ४ हस्ताक्षर के स्थान पर बनाया जाने वाला चिह्न । ५ सिक्के पर निशान करने की छेनी । दे 'निशाण' ।

निशिदिन - अव्य. रात-दिन; सदैव, हमेशा, आठो पहर ।

निशीं - अव्य (के) साथ, सहित ।

निश्चय - पु १ निश्चय, यकीन, दृढविचार, अज़म, पक्का इरादा । २ निर्णय, फैसला, निवटारा । ३ जांच ।

निश्चळ - वि निश्चल, अचल, स्थिर, अटल ।

निश्चित - वि निश्चित; वेफिकर निश्चित - वि निश्चित, पक्का यकीनी ।

निश्चिति - ती - स्त्री निश्चिति, निश्चय, भरोसा, विश्वास, पक्की बात ।

निषिद्ध - वि १ निषिद्ध, वर्जित, मना, मन्नूअ । ३ दूषित, बुरा, खोटा ।

निषेध - पु १ निंदा, बुराई, विरोध, एहतिजाज, प्रत्याख्यान । २ भर्त्सना, धिक्कार ।

निष्कर्ष - पु १ निष्कर्ष, तत्त्व,

सारभूत अर्थ, निचोड साराश; मतलब । २ नतीजा, परिणाम । निष्काचन - वि निघंन, गरीब, कगाल ।

निष्कारण - अव्य. निष्कारण, अकारण, व्यर्थ; नाहक; फिजूल । निष्काळजी - वि वेफिकर, लापरवाह, लापरवा, वेपरवा ।

निष्क्रिय - वि निष्क्रिय, वेकार, निठल्ला; ठाला । - प्रति-कार - पु निष्क्रिय प्रतिरोध, 'पैसिव रेसिस्टेंस' ।

निष्ठा - स्त्री निष्ठा, दृढ श्रद्धा, विश्वास, वफा, वफादारी । - वत, - वान् - वि निष्ठा वान्, निष्ठा वाला, वफादार ।

निष्ठुर - वि निष्ठुर, निर्दय, वेरहम, क्रूर, कडा, कठोर, कड़े दिल का ।

निष्णात - वि निष्णात, निपुण, प्रवीण, कुशल, माहिर ।

निष्पक्षपाती - वि निष्पक्ष, नातरफदार ।

निष्पन्न - वि निष्पन्न; निकला हुआ । - न. १ फल, लाभ । २ नतीजा । मु०-होणें - नतीजा निकलना, मिलना, हाथ आना ।

निष्फल - वि निष्फल, विफल, व्यर्थ, रायगां, वेकार ।

निसग - वि निर्लज्ज, वशर्म । निसतान - न निस्ततान होना; कुलक्षय, सत्यानाश ।

निसटणें - क्रि अ १ खिसकना, सटकना; चपत होना । २. फिसलना; सरकना । ३ छटकना; छूटना, निकलना, गिरना ।

निसटता - वि हलका-सा, थोडा-सा ।

निसर्णें - क्रि स १. चुनना; सँवारना, साफ़ करना । २.

छीलना, तरागना ।

निसरगाठ - स्त्री जल्दी से छूटनेवाली गाँठ ।

निसरट, निसरडा - वि पिच्छल, सिलहिला, फिमलाने वाला, चिकना ।

निसरडे - न फिसलन, रफटन, सिलहिलापन, चिकनाहट; वह स्थान जहाँ पाँव आदि रखने में फिमल जाता है ।

निसरणें - क्रि अ १ फिसलना । २. घटना, काम होना ।

निसर्ग - पु १ निसर्ग, प्रकृति, कुदरत । २ स्वभाव । - चित्रलेखन - न प्रकृतिदृश्य - आलेखन, 'लैंडस्केप पेंटिंग' ।

निसर्गोपचार - पु प्राकृतिक चिकित्सा, कुदरती इलाज ।

निसवणें - क्रि अ १ अनाज की वाली भुट्टा आदि का निकल आना । २ निर्लज्ज बनना ।

निसूक-ग - \* वि निर्लज्ज; वेशर्मा ।

निस्तब्ध - वि निस्तब्ध, स्तब्ध, चुप, खामोश ।

निस्तब्धता - स्त्री स्तब्धता, सन्नाटा, खामोशी ।

निस्तरणें, निस्तारणें - क्रि स १ भुगतना, किये का फल भोगना । २ निवटाना, सुधार कर पूरा करना ।

निस्तीम - वि १. निस्तीम; असीम, अपार, वेहद । २ वफादार ।

निहायत - स्त्री [ अ ] अत; छोर, हद, पराकाष्ठा । - वि निहायत, अत्यत, वेहद ।

निहाळणें - दे 'न्याहाळणे' ।  
निळवा - पु ज्वार (अनाज) की एक किस्म ।

निळवे - न एक छटांक की माप ।

निळा - वि नीला, नीले रंग का, आसमानी रंग का । - तुतिया - पु नीला थोथा, तूनिया ।

निळाई - स्त्री नीलापन, नीलाहट, नीलवर्णता ।

निळें - न १ हरी घास, हरियाली । २ हरी फल । - वि नीला ।

नी - अव्य और, व, तथा ।

नीच - वि १ नीच, अधम, ओछा, क्षुद्र, कमीना, निरुष्ट । २ दुष्ट, मल, बदमाश । ३ नीचा, छोटा, घटिया । ४ मद, धीमा (स्वर) । - अव्य. \* नित्य, सतत, हमेशा ।

नीज - स्त्री नीद, निद्रा ।

नीज - \* न स्त्री १ अपना काम । २ आत्मस्वरूप ।

नीट - वि सीधा, ठीक, अच्छा, दुरुस्त । - अव्य १ सीधे, अच्छी तरह, अच्छी हालत में । २ सीधे में, ठेठ । - नेटका - वि १. साफ-मुथरा, ठीकठाक; टीपटाप के साथ रहने वाला । २ नुदर, बढ़िया । मु० - करणें - साफ, ठीक, सीधा करना, सुधारना, मरम्मत करना । - होणें - मुथरना; सीधा होना, दुरुस्त होना ।

नीति - स्त्री नीति, सदाचार, अच्छा चाल-चलन । - शास्त्र - न. नीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, नीति-विज्ञान ।

नीर - न नीर, पानी, जल । - पु १ परिणाम, नतीजा । २ निर्णय, फैसला । ३ मछली पकड़ने का बड़ा जाल ।

नीरस - वि नीरस; वैमज्जा,

वेस्वाद का, रमहीन, मूया ।

नीराजन - न नीराजन; नीराजन, थारती ।

नील, नीलकात मणी - पु नीलकात, नीलमणी ।

नीला - स्त्री नीला; असुद्ध रक्त-वाहिनी, नाडी, धिरा ।

नीलिमा - पु नीलिमा; नीलापन ।

नीळ - स्त्री १ नील, नीला रंग, नीळ या पीचा । २ नीलम मणि ।

नुकता, नुकताच, नुकतेच - अव्य अभी-अभी, हाल में; थोटी देर या कुछ दिन पहले ।

नुकसान - न [ अ 'नुकसान' ] नुकसान, क्षति, घाटा, हानि; खनारा । - भरपाई - स्त्री क्षति-पूर्ति, हरजाना ।

नुकसानो - स्त्री दे 'नुकसान' ।

नुकता - दे 'नुकता' ।

नुनी<sup>+</sup> - स्त्री [ गु 'नानी' ? ] नूनी, दच्चे की लिंगेन्द्रिय ।

नुपेक्षणें - क्रि स उपेक्षा न करना, ध्यान देना, सहायता करना ।

नुरणें - क्रि अ शेष न रहना, न बचना ।

नुत्तता - वि खाली, नाममात्र का, निपट, पूरा, निरा । - अव्य दे. 'नुसतें' ।

नुसतें - अव्य केवल; निर्रं; विलकुल, कतई, नाममात्र के लिए । - न मछली (भोजन में) ।

नूर - पु [ अ ] १ शान, ठाठ, रौनक, शोभा, छटा, चमक - दमक । २ नूर, रोशनी, ज्योति । मु० - पालटणें - रंग बदलना, निश्चय में परिवर्तन होना ।

नें - प्रत्य कारण कारक (तृतीया) की विभक्ति का प्रत्यय ।

ने - क्रि ले जायो । - आण - स्त्री लाना - ले जाना, हुलाई, हुलवाई, परिवहन ।

नेक - वि [फा] नेक, सच्चा सचादारी । - नामदार वि मान्यवर, 'राइट ऑनरेलेबल' ('मोस्ट ऑनरेलेबल' = महामान्यवर की अपेक्षा निम्नश्रेणी की उपाधि) ।

नेकी - स्त्री [फा] नेकी, सचाई, सदाचार, ईमानदारी । - चा वि सच्चा, वफादार; स्वामिभक्त; निष्ठावान् ।

नेट - पु १ जोर, जोरदार कोशिश, भारी प्रयत्न । २ तकाजा, दबाव । ३ हिम्मत, जीवट, साहस ।

नेटका - वि १ ठीक; ठीक-ठाक, मुघड । २ साफ, साथ - सुथरा । ३ मजबूत ।

नेटकें - अव्य. अच्छी तरह, टीप - टापके साथ । - वि दे 'नेटका' ।

नेहें - न सूई का छेद, आँख, नाका ।

नेणता - वि १ अनजान, भोला; मासूम । २ अल्पवयस्क; नावालिंग ।

नेणीव - स्त्री न जानना, अज्ञान, भान न रखना ।

नेणें - क्रि स ले जाना; उठा ले जाना ।

नेणो - अव्य न जाने ।

नेता - पु नेता; नायक, अगुआ, मुखिया, सरदार, 'लीडर' ।

नेत्र - पु नेत्र, आँख । - कटाक्ष - पु १ कटाक्ष, तिरछी निगाह । २ देखना । - पल्लवी - स्त्री

आँख का इशारा, इगित ।

नेपचून - पु [अ. 'नेपचून'] नेपचून, सौरमंडल का एक ग्रह जिसका पता स १८४६ ई मे लगा था ।

नेपती - स्त्री करील, करेल (एक फलवृक्ष) ।

नेपथ्य - १ नेपथ्य, रगमच के परदे के पीछे की जगह जहाँ नटो की वेशरचना की जाती है । २ वेशभूषा, नटो की वेशभूषा । - पुराण - न पत्नी की फटकार या वकवास ।

नेपाळ - पु - नेपाल; नैपाल; (भारतके उत्तर मे स्थित एक हिंदू देश) ।

नेपाळी - वि नेपाली, नैपाली, नेपालसबधी, नेपाल का । - पु - नेपाली, नैपाली, नेपाल का निवासी । - स्त्री १ नेपाली, नैपाली, नेपाल की भाषा । २ मैनसिल । - सुरी - स्त्री नेपाली कटार, खुखडी ।

नेपळट, नेपळठा - वि १ डर-पोक, कायर । २. कमजोर, दुर्बल । ३ नपुसक, हिजडा, नामदं ।

नेम - पु १ नेम, नियम, वँवा हुआ क्रम, पावदी, धर्म की भावना से किये जानेवाले व्रत, उपवास आदि । २ निशाना, लक्ष्य । ३ भरोसा, विश्वास । - धर्म - पु. नेमधरम, व्रत, उपवास आदि । - वाज - वि निशानेवाज, लक्ष्यवेधी, लक्ष्यभेद । - वाजो - स्त्री निशानेवाजी, लक्ष्यवेध, लक्ष्यभेद । मु० - धरणें - निशाना बाँधना, निशाना साधना । - मारणें - निगाना मारना, लगाना । - लावणें - अनुशासन सिखाना ।

नेमका - वि निश्चित, अचूक; ठीक, वही । - अव्य. अचूक, सीधे, ठीक से; विलकुल, कतई ।

नेमणूक - स्त्री १. नियुक्ति, तकर्हर, तैनाती । २ नामजदगी । ३ नियत समयपर (विशेषत प्रतिवर्ष) मिलने वाला पारिश्रमिक, वेतन, वृत्ति आदि ।

नेमणे - क्रि स नियुक्त करना, तैनात, नामजद करना ।

नेमलेला - वि १. नियुक्त; नामजद । २ निश्चित, तैशुदा ।

नेमस्त - वि १ नरम दल का, उदार दल का, 'लिवरल', 'मॉडरेट' । २ नियम से चलने वाला; अनुशासन का पालन करने वाला । ३ साधारण । ४. निश्चित ।

नेमानेम - पु. १ सयोग, इति-फाक । २ नसीब का लिखा ।

नेमून दिलेला - वि नियत, मुकरंरा, निश्चित ।

नेमून देणें - क्रि स १ सौंपना । २ नियत, निश्चित, मुकरंर करना ।

नेमें - अव्य नियमित रूप से । नेरवा, नेरा - पु. सुनार की दुकान की राख (जिसमें से सोने के कण खोज निकाले जाते हैं) ।

नेरोळी - स्त्री नारगी के वीर का तेल ।

नेवार - न नेवार, निवार, एक प्रकार का घान जिसका चावल व्रत आदि में खाया जाता है, तिस्री, पसही ।

नेवाळी - स्त्री नेवारी (जूही की जाति का एक पीधा जिसमें छोटे और सफेद फूल लगते हैं) ।

नेसण - न १ कमर मे लपेट कर पहनने का वस्त्र । २ इस प्रकार पहनने की क्रिया ।

नेसविणें - क्रि. स पहनाना



(घोती आदि)।

नेस्तनावूद - वि [ फा 'नेस्तोनावूद' ] नेस्त-नावूद, जडमूल से नष्ट, विनष्ट, विध्वस्त, तहम-नहस ।

नेहमी - अव्य हमेसा, सदा; सदैव, बारवार, हरदम, नतत ।

नैतिक - वि नैतिक, नीति-सवधी, सदाचारसवधी । - धैर्य - न आत्मबल, आंतरिक सामर्थ्य ।

नैर्ऋत्य - स्त्री नैर्ऋती, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम का कोना ।

नैवेद्य - पु. नैवेद्य, भोग, चढावा । मु० - दाखविणें - भोग चढाना, नैवेद्य समर्पित करना ।

नैसर्गिक - वि १ नैसर्गिक, प्राकृतिक, कुदरती । २ स्वाभाविक, सहज ।

नोद - स्त्री १ टिप्पणी; 'नोट' । २ पजीयन, पजीकरण, 'रजिस्ट्रेशन' । - वही - स्त्री पजिका, वही, 'रजिस्टर' । मु० - करणें - १ दर्ज करना, लिख लेना; टीपना, वहीखाते में चढाना । २ पजीवद्ध करना ।

नोदणी - स्त्री पजीकरण, पजीयन, 'रजिस्ट्री' । - विवाह - पु. पीरविवाह, रजिस्ट्री (सिविल) विवाह ।

नोदणें - क्रि स १ दर्ज करना, लिख लेना । २ दर्ज करना, लिखवाना । दे० 'नोद' में ।

नो - प्रत्य सबोधन के बहु-वचन का प्रत्यय, थो (मुलानो = वच्चो, वत्रूनो = भाइयो) ।

नोकर - पु. [ तु 'नोकर' ]

१ नोकर, सेवक, मुलाजिम, भृत्य, कर्मचारी, चाकर । २ दाम, गुलाम । - पेशा - वि नोकरो पेशा । - शाही - स्त्री नोकरशाही, 'व्यूरोफेसी' ।

नोकरो - स्त्री [ तु 'नोकर' ] नोकरो, मुलाजिम, सेवा; चाकरो ।

नोट - स्त्री [ अ ] १ नोट, अर्थपत्र, रुपयो का नोट । २ वचनपत्र, 'प्रोनोट' ।

नोटोस - स्त्री [ अ 'नोटिस' ] सूचना, इश्तहार, चेतावनी, विज्ञापन, 'नोटिस' ।

नोडगा - पु. १ कटलू, कसाई, मुसलमान । २. मुस्टडा ।

नोर - न जहाज का भाडा, किराया ।

नोव्हेंवर - पु. [ अ ] नववर । नोहे - क्रि अ नही है, सभव नही है ।

नोवत - स्त्री [ अ ] १ नोवत; नक्कारा, धीमा, नगाडा, राजाओ और अमीरो के दरवाजे पर वजने वाली शहनाई, उत्सव, मंगल आदि सूचित करने वाला बाजा । २ सकट, आफन । - खाना - पु. नोवतखाना, नोवत वजाने का फाटक के ऊपर का कमरा या स्थान ।

- घाई - स्त्री १ जोर-जोर से नोवत का वजना । २ बडी शीघ्रता जल्दी, तेजी । मु - झडगे - नोवत झडना, नोवत वजना ।

न्यहारी - दे 'न्याहारी' । न्यहाळणें - दे 'न्याहाळणें' । न्याय - पु. १ न्याय, इत्साफ । २ फैमला । ३ नीति, सदाचार ।

१ नोकर, सेवक, मुलाजिम, भृत्य, कर्मचारी, चाकर । २ दाम, गुलाम । - पेशा - वि नोकरो पेशा । - शाही - स्त्री नोकरशाही, 'व्यूरोफेसी' ।

नोकरो - स्त्री [ तु 'नोकर' ] नोकरो, मुलाजिम, सेवा; चाकरो ।

नोट - स्त्री [ अ ] १ नोट, अर्थपत्र, रुपयो का नोट । २ वचनपत्र, 'प्रोनोट' ।

नोटोस - स्त्री [ अ 'नोटिस' ] सूचना, इश्तहार, चेतावनी, विज्ञापन, 'नोटिस' ।

नोडगा - पु. १ कटलू, कसाई, मुसलमान । २. मुस्टडा ।

नोर - न जहाज का भाडा, किराया ।

नोव्हेंवर - पु. [ अ ] नववर ।

नोहे - क्रि अ नही है, सभव नही है ।

नोवत - स्त्री [ अ ] १ नोवत; नक्कारा, धीमा, नगाडा, राजाओ और अमीरो के दरवाजे पर वजने वाली शहनाई, उत्सव, मंगल आदि सूचित करने वाला बाजा । २ सकट, आफन । - खाना - पु. नोवतखाना, नोवत वजाने का फाटक के ऊपर का कमरा या स्थान ।

- घाई - स्त्री १ जोर-जोर से नोवत का वजना । २ बडी शीघ्रता जल्दी, तेजी । मु - झडगे - नोवत झडना, नोवत वजना ।

न्यहारी - दे 'न्याहारी' ।

न्यहाळणें - दे 'न्याहाळणें' ।

न्याय - पु. १ न्याय, इत्साफ । २ फैमला । ३ नीति, सदाचार ।

- मूर्ति - पु. न्यायाधिपति, 'जस्टिस' ।

न्यायाधीश - पु. न्यायाधीश; न्यायकर्ता, मुन्सिफ, 'जज' ।

न्यायालय - न न्यायालय, अदालत, कचहरी ।

न्याय्य - वि न्याय्य, न्याय-सगत; न्यायोचित ।

न्यारा - वि १ न्यारा; अलग; भिन्न । २ बद्भुत, विचित्र, निराला ।

न्याहरी, न्याहारी - स्त्री [ फा 'नहारी' ] नहारी, नाश्ता; कलेवा, सवरे का हलका भोजन ।

न्याहाळणे - क्रि स निहारना; धूरना, गौर से देखना ।

न्यून - न न्यूनता; ऋटि; छामी; कमी, सदीपता । [ लाना ।

न्हाऊ घालणें - क्रि स न्ह-न्हाऊ - पु. नाई, हज्जाम ।

फहा० भाणसात न्हाऊ आणि पक्ष्यांत फाऊ - मनुष्यो में नाई और पक्षियो में कौआ बडा चालाक होता है ।

न्हाण - न स्त्री का प्रथम वार रजम्बला होना । मु० - येणें - स्त्री का पहली वार ऋतुमती होना ।

न्हाणणें - क्रि स न्हलाना ।

न्हाणी - स्त्री, न्हाणीघर - न स्नानगृह, गुस्लखाना ।

न्हाणुली - स्त्री वह विवाहित कन्या जो पहली वार ऋतुमती हुई हो । [ सिर से स्नान करना ।

न्हाणें - क्रि अ नहाना, न्हाणगड - पु. नाई (निदा के अर्थ में) ।

न्हावी - पु. नाई; हज्जाम ।

प - मराठी वर्णमाला मे प वर्ग का प्रथम वर्ण ।

पक्ति - स्त्री १ पक्ति, श्रेणी, कतार । २ पगत, पाँत । - प्रपंच, - भेद - पु. १ एक साथ भोजन करने वाली को समान रूप से न परोमना । २ पक्षपात, तरफदारी । - लाभ - पु एक साथ भोजन करने का सम्मान । दे 'पगत' ।

पख - पु. पख, पर, डैना । मु० - फुटणें - पख जमना, निकलना, सयाना, चालाक बनना ।

पखा - पु. पखा । मु० पंखानें वारा घालणे - पखा करना; पखा झलना ।

पंगत - स्त्री पगत, पाँत; भोज में एक साथ खाने वाली पक्ति । मु० - माडणें - भोजन लगाना, भोज के लिए पत्तल आदि रखना । - वाजविणें - भोज के समय शहनाई बजाना । पगतीस वसणें - ममान श्रेणी में गिना जाना, एक ही थली के चट्टे बट्टे होना । पगतीस वसविणें - समान श्रेणी में गिनाना, एक ही थली के चट्टे बट्टे समझना ।

पंच - पु. बहु पच, पाँच या अधिक मनुष्यों का समूह, पचायत का मदस्य, मव्यस्य, जूरी का सदस्य । - वि पाच । - नामा - पु १ पचनामा, महजर, महजर-नामा, साक्ष्यपत्र । २ पचो के सामने ली हुई तलाशी का विवरणपत्र । - क्रोशी - स्त्री पाँच कोम में वसी हुई वस्ती, आसपास का इलाका । - धान्याचा काढा - पु धनिया, खसखस, सोठ, नागरमोथा और दारचीनी का काढा । - पच उप -

काल - पु. सूर्योदय से पहले पाँच घटिकाओं का समय, तडका; सवेरा । - पचवानें - न बहु १. बढ़िया भोजन, जिसमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ या पकवान हो । २ पाँच प्रकार के पकवान । - पदी - स्त्री पचपदी, एक प्रकार की ऋचा, मूर्ति के सामने बैठ कर नियमित रूप से पाँच श्लोक या गीत गाने का नियम । - पात्र - न प्याला, कटोरा । - पाळे - न पचपात्र, पाँच खानो वाला पात्र । - प्राण - पु. बहु १. पचप्राण, शरीर में संचरण करने वाली वायु के पाँच भेदो-प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान - का समाहार । २ सारा शरीर । - महाभूतें - न बहु. पचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । - मिसळ - स्त्री, - मेळ - पु. - पंचमेळ, वह वस्तु जिसमें कई तरह की चीजें मिली हो, पाँच दालो का सालन । - रंगी - वि पंचरंग, पंचरंगा, पचरंगा; कई रंगो वाला, रंग-विरंगा । - रसी - वि पाँच घातुओं के रस से बना, काँसे का; कांस्य । - राशिक - न पचराशिक (ग०) । - विघ - वि पाँच प्रकारका । - विशी - स्त्री पचीसी, किसीके जीवन के प्रारम्भिक पचीस वर्ष । - वीस - वि पचीस, २५ । मु० - प्राण ओवाळणें, - प्राणाची आरती करणें - प्राण निछावर करना, सब कुछ त्यागना, आत्म-वलिदान करना ।

पचकडी - स्त्री १ पचक, पाँच का समूह । २ पाँच व्यक्तियों की टोली ।

पचम - पु तवाकू, सुरती । - वि पचम, पाँचवाँ ।

पचमी - स्त्री १ पचमी; पक्ष की पाँचवी तिथि । २ पचमी विभक्ति, अपादान कारक ।

पचाग - न पचाग, पचा, जतरी ।

पचायशी - दे 'पचाएँशी' । पचा - पु अँगोछा, अँगोछी, पोतिया; कछनी, छोटी धोती । पचा - पु पचा, पाँच बूटियों वाला ताश का पत्ता ।

पचाईत - स्त्री १ अडचन; झझट, झमेला । २ नाहक की पूछताछ । ३ दे 'पचायत' ।

पचाएँशी - वि पचासी, ८५ । पचाक्षरी - वि पु ओझा, जतरी, झाड-फूंक, जतर-मतर करने वाला ।

पचाणव - दे पचानवे, ९५ । पचादेवी - स्त्री फसल को बाँटने का एक तरीका जिसमे ३।५ बैल वाले को और शेष जमीनदार को दिया जाता है ।

पचायत - स्त्री १ पचायत, पचो की मडली या समा । २ दे. 'पचाईत' ।

पचावन-झ - वि पचपन, ५५ । पचाहत्तर - वि पचहत्तर, ७५ । पचेबाळीस - वि पँतालीस, ४५ । पचोतरा - पु १ व्याज की एक दर - प्रतिमास प्रतिशत पाँच । २ आम आदि की विक्री मे सी अदद लेने पर दिये जाने वाले पाँच अदद जिनका दाम नहीं दिया जाता ।

पच्याशी, पच्याएँशी, पच्यायशी - वि पचासी, ८५ । [९५ । पच्याणव - वि पचानवे,

पंच्याहतर - वि पचहतर,  
७५ । [ लिए आवश्यक चूर्ण ।

पंज - पु धातु को जोड़ने के  
पजर - पु १ पजर, पिजडा ।  
२. हड्डियों का ढाँचा, ठठरी,  
पसली ।

पजरी - स्त्री पनीरी, मोठ,  
घनिया, अजवायन, काली मिर्च  
और चीनी को मिला कर बनाया  
हुआ नैवेद्य या प्रसाद ।

पजा - पु [फा 'पज'] १  
पजा, उँगलियों ममेत हथेली या  
पैर का अगला भाग, चगुल । २.  
ताज का पाँच बुँदकियों वाला पत्ता ।  
३ दे 'पणजा' ।

पंड्या - पु पडा, पुरोहित;  
तीर्थ का पुजारी; घाटिया, गगा-  
पुत्र ।

पंढरी - स्त्री पंढरपुर ( श्री  
विठ्ठल का तीर्थक्षेत्र) । - ची वारी -  
स्त्री प्रत्येक ( विशेषतः आपाह  
और कार्तिक की शुक्ल) एकादशी  
को पंढरपुर जाना ।

पंत - पु आद्रसूचक शब्द,  
महाशय । - प्रधान - पु प्रधान-  
मन्त्री ।

पती - दे 'पणती' ।

पतीजी - पु अध्यापक, गुरु,  
शिक्षक, मास्टरजी ।

पंथ - पु १ पथ; मार्ग । २  
संप्रदाय, फिरका । मु - लागणें -  
१ फैसला हो जाना । २ खान्धा  
होना; मरना । पंथात लागणें -  
आसन्नमरण होना ।

पंधरवाडा - पु पन्धवाडा, पन्ध-  
वारा । [ १५ ।

पंधरा - वि पंढरह, पंढरह;

पंप - पु [अं] पप, दमकल,  
पानी आदि को ऊपर खींचने की  
कल ।

पकड - स्त्री १. पकड, गिरपत;  
घपची । २ कुश्ती में एक  
दाँव, एक वार की मिटत । ३  
सँढनी । ४ वह स्वर-नमूह जो किमी  
रग में विशेष रूप से आया करता  
और उम राग का परिचायक होता  
है । दे 'पक्कड' । - वारट -  
न. गिरपतारी का हुक्मनामा,  
पकडने का अधिपत्र ।

पकडणें - क्रि स १ पक-  
डना, धरना, थामना । २ गिर-  
पतार करना । ३. रोकना ।

पक्कड - स्त्री १ पकड, गिर-  
पत । २ सँढनी । दे 'पकड' ।

पक्का - वि १ पक्का, जो  
कच्चा न हो । २ पूरा । ३ पका  
हुआ । ४ मुदूह, मजबूत । ५  
स्विर, अटल, निश्चित । ६ छँटा  
हुआ, चालाक, घुटा हुआ,  
काइयाँ । - तोळा - पु १६ रत्ती  
भार । - रग - पु १ पक्का रंग,  
रग जो कभी छूट न सके । २  
चौपड में लाल और पीली गोठियाँ ।

- शेर - पु ८० तोले का शेर ।  
पक्कें - वि पक्का । दे. 'पक्का' ।  
- खातें - न नये वर्ष के प्रारंभ में  
लिनवने का लेखा ।

पक्क - वि १ पक्क, पका  
हुआ । २ पक्का । ३ अनुभवी ।  
४ मफेद (वाल) । ५ पूर्णतः विक-  
सित । [ वान, मिठाई ।

पक्वान्न - न पक्वान्न, पक-  
पक्वादाय - न पक्वादाय,  
पक्वाधान, मेदा, आमाशय,  
जठर ।

पक्ष - पु १ पक्ष, दल, गूट ।  
२ चांद्रमान के दो भागों में से एक,  
पखवाडा । ३ अग; पहलू ।  
४ ओर, तरफ । ५ पक्ष, पर ।  
६ महालय, आश्विन का कृष्ण

पक्ष । ७ महालय - श्राद्ध । -  
कार - पु मुखकिल; वादी या  
प्रतिवादी, मुद्दई या मुद्दालेह । -  
घात - पु पक्षाघात, लकवा ।  
- पात - पु पक्षपात, तरफ़दारी।  
हिमायत । - पाती - वि पक्षपाती;  
तरफ़दार, हिमायती । मु - धरणें  
- किमीका पद ग्रहण करना,  
तरफ़दारी करना ।

पक्षाघात - पु पक्षाघात, लकवा ।  
मु - होंगें - लकवा मार जाना ।  
पक्षों - अव्य. तरह में, बँने,  
तो ।

पक्षी - पु पक्षी, पछी;  
चिटिया । पक्ष्यांची राग - स्त्री  
चटकाली, चिटियों की पक्ति, झुड ।

पक्षी - अव्य. १ तो, इसलिए,  
तरफ में । २ दे० 'पक्षा' ।

पखवाज - पु पन्धवाज, मृदंग ।  
पखाल - स्त्री १. पखाल;  
मगक । २ मोट; पुर, चरसा ।  
३ तोंद, फूला हुआ पेट ।

- पार्वती - स्त्री बड़ी तोंद वाली,  
मोटी - ताजी न्थी । [ कारीगर ।

पगडबद - पु पगडी बनानेवाला

पगडा - पु १ प्रभाव, अधि-  
कार; असर; सिक्का । २ पैसे  
पर की मन्थ्या । मु - दसणें - १.  
प्रभाव, असर पडना । २ गेव में  
आना । - दसविणे - १ प्रभाव,  
असर डालना । २ सिक्का, रोव  
जमाना ।

पगडी - स्त्री १ पगडी, सिली  
हुई पाग । २ दे 'पागडी' ।

- भाई - पु आपस में पगडी  
बदल कर बने मित्र । मु. - उत्तरणें -  
पगडी उतारना, अपमानित, वे-  
इज्जत करना । - फिरविणें - १  
अपनी बात में फिर जाना । २  
एक पक्ष छोड कर दूसरे में चले

पगडी - स्त्री १ पगडी, सिली  
हुई पाग । २ दे 'पागडी' ।

- भाई - पु आपस में पगडी  
बदल कर बने मित्र । मु. - उत्तरणें -  
पगडी उतारना, अपमानित, वे-  
इज्जत करना । - फिरविणें - १  
अपनी बात में फिर जाना । २  
एक पक्ष छोड कर दूसरे में चले

जाना । - बाघणे - पगडी वाँघना, उच्च अधिकार देना, सम्मानित करना ।

पगार - पु. वेतन, तनरवाह ।

पगार - पु. एक प्रकारकी नौका ।

पघळ - वि ढीला-ढाला, लवा-चौडा, विस्तृत । - अव्य आराम से ।

पघळणें - दे 'पाघळणे' ।

पघा - पु घडिया, घरिया, कुल्हिया ।

पचकन - अव्य 'पच' की आवाज के साथ, जोर से, घृणा के साथ (थूकना) ।

पचडी - स्त्री सलाद, खीरा, कच्चे मूले, पत्ते आदि का कचूमर या रायता ।

पचणें - क्रि अ १ पचना, हजम होना । २ गुनाह, रिश्वत, गवन आदि का प्रकट न होना ।

पचन - न पाचन, हजम होना । - शक्ति - स्त्री हाजमा, पाचन शक्ति । मु० पचनीं पडणें - आदत हो जाना ।

पचपचीत - वि १ पनीला, जिसमे पानी मिला हो । २ सीठा, फीका, वेमजा । [ हजम करना ।

पचविणें - क्रि स पचाना, पचची - स्त्री १ पचची, पचचीकारी । १ खिल्ली, हँसी, थुकका फजीहत, दुर्गत । मु०-करणें हँसी उडाना, दुर्गत करना ।

पछाडणें - क्रि अ लगना, भूत आदि सवारहोना, चगुल में फँसना । - क्रि स पछाडना, पटकना ।

पट - पु. १ पट, वस्त्र । २ विसात (चीसर या शतरज की) । ३ पर्दा । ४ किवाड । - वि पट, औंघा, चित का उलट्टा । - वि स्त्री

गुना, गुणित । (दुप्पट=दुगुना) । पटई - स्त्री छत, पटाव, पाटन । [ पछाडना, गिराना ।

पटकणें - क्रि अ पटकना, पटकन - अव्य चट से, झट, तुरत, फौरन ।

पटका - पु. १ साफा, मुंडासा । २ पटका, कमरवद ।

पटकावणें, पटकाविणें - क्रि स प्राप्त, हासिल करना, झट से ले लेना, हथियाना, मार लेना ।

पटकी - स्त्री हैजा, विपूचिका । पटकूर - न १ कवल । २ चीथडा । ३ ओढने - विछाने का कपडा ।

पटणें - क्रि अ १ जँचना, गले उतरना, स्वीकार होना । २ पटना, बनना; मेल खाना । ३ पसद आना । ४ सकरना सकारा जाना (हुडी) । ५ गूँथा, पिरोया जाना ।

पटपट-टा - अव्य चटचट, झट से, चटपट, झटझट, झटपट, जलदी जलदी ।

पटल - न १ पटल, आवरण-रूप वस्तु । २ परत, तह । ३ आँख का एक रोग, घुँघलापन ।

पटवणें, पटविणें - क्रि स १ समझाना, गले उतारना, कायल बनाना । २ पटाना (सीदा) । ३. गंथना । ४ सकरवाना (हुडी) ।

पटवेकरी - पु. पटवा, पटहार, गहना गूँथने का पेशा करने वाला ।

पटागण - न मैदान, बडा आंगन, खुली जगह, खेलकूद का मैदान ।

पटा - दे. 'पट्टा' ।

पटाईत - वि १ होशियार, निपुण, माहिर । २ चालाक ।

पटाटा, पटापट - अव्य. झट-

झट, लगातार, जल्दी-जल्दी, चटपट । [का एक बीजार) ।

पटाशी - स्त्री खानी (बढइयो पट्टण - न १ पट्टन, शहर । २ राजधानी ।

पट्टराणी - स्त्री पटरानी, राजा की सव से बडी रानी; पट्टमहिपी ।

पट्टा - पु. १ (कातडी, गिरणीचा) पट्टा । २. (कमरेचा) पेटी, चमडे का कमरवद । ३ (जमिनीचा) पट्टी । ४ तस्मा । ५ चपरास । ६ घारी, पट्टी । ७ पटा, तलवार के आकार का एक लोहे का हथियार । ८ पट्टा; सनद । मु० - ओढणें - १ अधूरा काम करना । २. हजामत वनाते समय भोडे ढगसे उस्तरा चलाना, अधूरी हजामत बनाना । - सोढणे बहुत वकझक, वकवास करना ।

पट्टी - स्त्री १. पट्टी; कपडे, कागज लकडी या वातु का पतला और लवा टुकडा । २ कपडे की किनारी । ३ चदा, लगान । ४. पान, वीडा, गिलीरी । ५ हारमो-नियम को पट्टी । - चा-वि प्रकाड, बहुत बडा, माहिर ।

पट्टेवाला - पु. चपरासी ।

पट्टचा पट्टचाचा - वि पट्टी-दार, घारीदार, लहरियादार ।

पठडी - स्त्री शैली, ढग, प्रणाली, तर्ज ।

पठण - न पठन, पढना ।

पठाडी - वि १ चौडी पीठ वाला । २ नाटा और मञ्जवूत, गठीला । - गोम - स्त्री १ चौडी पीठ वाला कनखजूरा । २ मोटी गलती ।

पठाण - पु पठान, पस्तून ।

पठाणी - वि पठान का, पठान-

सवधी। - खाते - न १ अव्यव-  
स्थित, वेदगा हिमाव। २. ऐसा  
हिंसाव जिसमें बहुत ज्यादा व्याज  
देना पड़े। [का, 'टैवुललंड']।

पठार - न पठार, अवित्य-  
पठ्ठा, पठ्ठघा - वि पु १  
पठ्ठा, गवरु; निडर; ह्टाकट्टा  
आदमी। २ कुश्तीवाज जवान,  
कुश्ती में चेला। [पठ्ठी, परनी।

पड - वि श्री (जमीन)  
पड - श्री १ दबना, झुकना।  
२ गिरना, पटकनिया, पडाह।  
म० - खाणें - दबना, झुकना, मान  
लेना, पीछे हटना। - साऊ - वि  
दबल; दबू, दबने वाला। - झड -  
श्री गिरना, टूटना-फूटना।

पड - पु १ स्तर, तह। २  
खाना। ३ लठी। [मातहत।

पड - प्रत्य गीण; दूमरा,  
पडकणें - कि अ १ चस्का  
लगाना, लालच होना। २ परचना,  
आदत पडना। [हुआ, टूटा-फूटा।

पडगा - वि गिरा हुआ, टूटा  
पडगी - पु १ कठीता।  
कठीती। २ नगाडे की जोडों में से  
एक। [घरिया। ३ दे 'पडगा'।

पडगी - श्री १ पेंदी। २.  
पडगें - न कठीत, कठीती;  
दे० 'पडगा'। [ 'ड्रम'।

पडघम - पु छोटा ढोल,  
पडघा - दे 'पडगा'। [नीकर।  
पडचाकर - पु नीकर का  
पडछाया - श्री परछाईं,  
प्रतिच्छाया; प्रतिविव, अकस।

पडजीभ - श्री घटी, कौआ,  
उपजिहवा, जीभ की जड के ऊपर  
लटकने वाला मासपद।

पडणें - क्रि अ १ पडना,  
गिरना, छूटना, खिसकना। २  
लेटना, आराम करना, सुस्ताना।

३ व्याहा जाना। ४ दखल देना।  
५ मिलना, दामलगना। ६ रुकना;  
वद होना, धीमा पडना। ९ होना,  
हो जाना, बन जाना। १० आना।  
पडत-झडत - अव्य. गिरते-पडते;  
किमी तरह, बड़ी मुश्किल से।

पडत - श्री चुगी, कर आदि न  
लेना।

पडता - वि गिरता हुआ; अव-  
नत। - फाळ - पु बुरे दिन। पडत्या  
फळाची आजा - श्री बोटी-सी  
गहूलियत में बडा लाभ उठाना।

पडताळणे - क्रि स १ मिलान  
करना, तुलना करना, मिलाना।  
२ पडतालना, जाँचना; आज-  
माना; परखना। ३ चमकाना।

पडताळा - पु १ मिलान। २  
पडताल, आजमाइण; जाँच। ३  
प्रमाण, मवूत, अनुभव, तजुरवा।  
पडाताळून पाहाणें - दे.  
'पडताळणे'। [हालत।

पडती - श्री बुरे दिन, बुरी  
पडवणी - श्री न्त्रियो द्वारा  
नहाते समय पहनी जाने वाली  
छोटी धोती, अँगोछा, परदनी,  
परदनिया।

पडदा - पु [फा 'पर्द' ]  
१ पर्दा, परदा। २ नाटक का  
पर्दा, यवनिका। ३ घूँघट, मुख-  
पट, नकाव। ४ आड, ओट।  
५ द्वारपट, चिल्लमन। ६ भेद,  
रहस्य, गुप्तता। ७ चमडे की  
वह झिल्ली जो कान आदि में आव-  
रण का काम देती है। - नशीन-  
वि परदानशीन, पर्दानशी, जो  
परदे में रहे। मु० - उघडणें - १.  
परदा उठाना। २ परदा उठाना,  
खोलना। - ओडणें - १ परदा  
गिरना, परदा डालना; छिपाना।  
२ (आँखों पर) पट्टी बांध लेना।

- पडणें १ परदा पडना, दिवाई  
न देना। २ नमान होना। ३.  
भुलाया जाना। - पाणें - १  
परदा गिरना, डालना; छिपाना।  
२. नमान, नदण करना। ३ नून  
जाना।

पडदी - श्री छोटी दीवार,  
परदा, प्रमाण या आट करने के  
लिए बनायी जाने वाली दीवार।

पडवळ - न परपट (तन्तनी)।  
पडवी - श्री सारवान; वग-  
मदा, भोसारा। [शाली, नगिया।

पडनी - श्री. मुन्नी, धँडी,  
पडमर - वि १. कुछ - कुछ  
गिरा हुआ, टूटा - फूटा। २.  
पगनी, योरान (भूमि)।

पडनाद - गृज; प्रतिवनि।  
पडसावली - श्री परछाईं,  
प्रतिविव।

पडतें - न जुवाग; नदी।  
पडळ - श्री १ नैन में बनी  
झोंपड़ी, मकान। २ तुली जगह।  
पडळ - न गोनिया विद, आंग  
का जाला, घुव।

पडव - पु १ पडाव, टिकान,  
देरा, अड्डा; छावनी। २. माल  
डोने वाली बडी नाव।

पडित, पडोफ, पडोत - वि  
पडती, परती, (वह जमीन) जो  
जोती बोधी न जाती हो,  
कालवजर।

पडतमूर्ख - वि पडा लिखा  
किंतु व्यवहार में अनभिज्ञ, केवल  
किताबी ज्ञान ही रखने वाला।

पण - अव्य परनु, पर,  
लेकिन, मगर, किन्तु।

पण - पु १ पण, प्रण,  
प्रतिज्ञा; तहीया, पक्का इरादा,  
मकल्प। २ शर्त; बाजी, बाजी  
लगायी हुई चीज। ३ ११ या २०

माशे के बराबर एक पुराना सिक्का । ४ यौवन, जवानी । मु - करणें - प्रण करना, वाजी लगाना, ठानना, निश्चय करना, अड जाना । - पूर्ण करणे - प्रतिज्ञा को पूरा करना, अपनी बात को निवाहना । पणांत येणें - (लडकी) सयानी होना । पणास लावणे - वाजी लगाना, दाँव पर लगाना, रखना ।

पण - प्रत्य पन, एक प्रत्यय जो भाववाचक सज्ञा बनाने के लिए जातीयवाचक तथा गुणवाचक सज्ञाओं में जोड़ा जाता है (शहाण-पण=सयानापन) ।

पणजा - पु. परदादा, परनाना ।

पणजी - स्त्री परदादी, परनानी ।

पणजोवा - दे 'पणजा' ।

पणजोळ - न पिता या माता का ददिहाल या ननिहाल ।

पणतवड - न परपोता, परपोती ।

पणती - स्त्री परपोती, पडपोती ।

पणती - स्त्री मिट्टी की दिअली, दीया ।

पणतू - पु. १ परपोता, पडपोता, प्रपौत्र । २ पनाती, नाती का वेटा । [ 'पण' ।

पणा - प्रत्य पन, पना । दे पतग - पु. १ पतग, पतगा, फातिगा, परवाना । २ पतग, गुड्डी, कनकौवा ।

पत - स्त्री पत, साख; इफ़ज़त, प्रतिष्ठा । - पेढी - स्त्री साख - वैक, 'क्रेडिट वैक' ।

मु०-जाणे - साख चली जाना; पत उतरना । - राखणे - पत रखना, इफ़ज़त बचाना । - राहणें -

पतकर - पु. १ उत्तरदायित्व;

जिम्मेवारी । २ स्वीकार । ३ ठीका, ठेका, जिम्मा ।

पतकरणे - क्रि अ वर्दास्त होना, स्वीकार, मजूर होना, जँचना ।

पतकरा - दे. 'पतकर' ।

पतन - न १. पतन, अव-पात, गिरावट, अधोगति । २. नाश, सहार ।

पताका-का - स्त्री १ पताका, झडा, ध्वज । २. चिह्न, निशान; प्रतीक ।

पतिगा - पु. १ बडा डंड । २ उथले पानी में नौका चलाने का वाँस ।

पति - पु. १ पति, शीहर । २ स्वामी, मालिक । ३ शासक । - व्रता - स्त्री पतिव्रता, साध्वी नारी ।

पतित - वि १ पतित, गिरा हुआ । २ नीच, बुरा, पातकी । ३. आचारभ्रष्ट । - परावर्तन - न दूसरे धर्म में गये हुए को फिर से अपने धर्म में ले आना, शुद्धि ।

पत्कर, पत्करणें - दे 'पतकर', 'पतकरणे' ।

पत्ता - पु. [ हि. 'पता' ] १ पता, ठिकाना । २ खोज, सुराग, निशान, खबर । ३ जानकारी, समाचार ।

पत्ता - पु. [ हि ] १ ताश; ताश का पत्ता । २ तवाकू का बडा पत्ता । मु०-जळणें - खेल में ताश के पत्ते का बेकार हो जाना ।

पत्ती - स्त्री [ हि ] १. पत्ती, छोटा पत्ता । २. चाय की पत्ती । ३ भाँग । ४ कोयले के छोटे टुकडे ।

पत्नी - स्त्री पत्नी, धर्म-पत्नी, जोरू, औरत, श्रीमती,

घरवाली, स्त्री ।

पत्र - न १ पत्र, खत, चिट्ठी । २ पत्ता । ३ समाचार-पत्र, अखवार । ४ पत्तर । - कार - पु. पत्रकार; समाचार पत्र का सपादक या लेखक । - दर्शनों - अव्य पत्र, चिट्ठी पाते ही । - पुष्प - न १ पत्रपुष्प, फूल-पत्ता । २ मामूली भेंट, सत्कार की मामूली चीजें । - व्यवहार - पु. पत्रव्यवहार, लिखापढी, खत-कितावत ।

पत्रक - न १ वक्तव्य, वयान । २ पत्रिका । ३ सूची, सारणी, सारिणी । ४. सूचना-पत्र । [ टीन, कनस्तर ।

पत्रा - पु. पत्तर, धातु की चद्दर, पत्राज - दे० 'पत्रास' ।

पत्रावळ - स्त्री पत्तल (थाली की जगह उपयोग में लाने के लिए बनाया गया पत्तो का पात्र) ।

पत्रास - स्त्री शान, महत्त्व, अकड ।

पत्रिका - स्त्री १ जन्मपत्री, ज्ञायचा । २ विवाह आदि का निमंत्रण-पत्र । ३ पत्रिका, मासिक आदि पत्र ।

पत्री - स्त्री १ पूजा के लिए लाये हुए अनेक पेडों के पत्ते । २ तवाकू का पत्ता । २ जावित्री, जायफल का छिलका । ३ नाल, पशु की टाप या जूते की एडी में लगाया जाने वाला लोहे का अर्धचंद्राकार टुकडा । - सरकार - न १९४२ के आदोलन में सातारा जिले में स्थापित जनता की सरकार जो अपराधियों की एडियों पर डडे से प्रहार कर के सजा देती थी, जिससे उसका कोई निशान न मिलने पाए । मु० - मारणे - १

नाल जडना। २ नाल के स्थान पर डडे से आघात करना।

पथ - पु. पथ, मार्ग, राह, रास्ता, सडक।

पथक - न स्वयसेवको या सेना का दल, दस्ता, टुकडी।

पथारी - स्त्री १ विस्तरा। २ विछौना, फर्श। ३ बैठक, बैठने की चीज, आसन, चटाई, दरी आदि।

पथिक - पु. पथिक, राही, वटोही, यात्री, मुसाफिर।

पथ्य - न १ पथ्य, परहेज, रोगी के लिए हितकर वस्तु। २ समय। - वि पथ्य, लाभकर, हितकर, उचित, अनुकूल। - पाणी - न पथ्य, परहेज; रोगी के लिए अनुकूल और हितकर आहार। मु० - पाळणें - पथ्य से रहना, वजित वस्तुओ से परहेज करना। पथ्यावर पडणे - मुआफिक आना, अनायास अनुकूल होना, मुफीद सावित होना।

पद - न १. पद, स्थान, ओहदा; दर्जा। २ पैर, डग, कदम। ३ पैर का निशान, चरणचिह्न। ४ पद, गीत, गाना, भक्तिपरक गीत, भजन। ५ प्रत्यययुक्त शब्द। ६ वाक्य आदि का कोई अंश। ७ वर्गमूल (ग०)। - च्युत, - भ्रष्ट - वि पदच्युत, पदभ्रष्ट, जो अपने पद या दर्जे से हटा दिया गया हो। - दलित - वि पददलित, पैरो तले कुचला हुआ।

पदक - न १ पदक, तमगा। २. पदक के आकार का चीनी का टुकडा जिमकी माला बनायी जाती ह।

पदर - पु. १ दामन, आंचल;

पल्ला। २ छोर, कोछ, आंचल का कोना, किनारा, कोर। ३ सर, लड, लडी;। ४ तार, धागा। ५ परत, स्तर, तह। ६ झिल्ली, आँख का जाला। - चा - वि १ अपने पास का, गाँठ का। २ मनगढत। ३ अवीन, आश्रित (व्यक्ति)। - अव्य, अपने मन से, झूठमूठ। - मोड - स्त्री अपनी गाँठ का पैसा खर्च करना; अपनी जेब से खर्च करना। मु० - उत्तरणें - विधवा होना। - लोचणें - १ कोछना, कोछियाना। २ तैयार, उद्यत होना। - घालणें - लडकी का सयानी होना। - चें घालणें - अपने मन से जोड देना। - पसरणे - पल्ला पसारना, दया की याचना करना, गिडगिडाना, दामन, आंचल फैलाना। - घेणें - स्त्री का पहली वार ऋतुमती होना। - लागणें - १ रिश्तेदार होना, रिश्ता, नाता होना। २ कुलीनता में सदेह होना। पदरात घालणें - दे 'पदरात टाकणे'। पदरात घेणें - स्वीकार करना, अपनाना, शरण में लेना। पदरात टाकणें, वाघणें - १ सौंपना, जिम्मे करना या देना। २ पल्ले वाँधना, मत्ये मढना, गले मढना। ३ पल्ले से वाँधना, व्याह देना। पदरात माप घालणें - किमी के किये हुए अपराध या गलती को प्रमाणित कर देना। पदराला खार लागणें - अपनी गाँठका पैसा खर्च होना, हानि उठानी पडना। पदराला गाठ मारणें - आंचल में वाँधना, गाँठ वाँधना, अच्छी तरह याद कर लेना। पदरीं असणें - आधीन होना, नौकरी में होना। पदरीं घेणें - दे 'पदरात घेणे' पदरीं पडणें - पल्ले पडना;

मिल जाना। पदरीं माप घालणें - दे 'पदरात माप घालणे'। कहा० पदरीं पडले पवित्र झालें - एक वार सवध या गठवधन हो गया तो फिर पवित्र हो गया, जो भी मिला अच्छा ही है।

पदवणें, पदविणें - क्रि स पदाना, दौडाना, हैरान, परेगान करना।

पदवी - स्त्री १ पदवी, उपाधि, सनद, 'डिग्री'। २ किताब। ३ ओहदा, दर्जा। - घर - वि उपाधिधारी, स्नातक।

पदव्युत्तर - वि स्नातकोत्तर, 'पोन्ट्रिग्युएट'।

पदाधिकारी - पु. पदाधिकारी, ओहदेदार।

पदार्थ - पु. १ पदार्थ, वस्तु, चीज। २ साध पदार्थ। ३ विशिष्ट भोजन, पकवान, मिठाई। - विज्ञान - न पदार्थविज्ञान, भौतिकी, भौतिक विज्ञान; भौतिक शास्त्र।

पदार्पण - न पदार्पण, पैर रखना, आगमन, शुरु करना, प्रारंभ।

पदोपदीं - अव्य पग-पग पर, हर वक्त; वार-वार।

पद्धत - स्त्री १ पद्धति, प्रणाली। २ क्रायदा, डग, तरीका, करीना। ३ प्रथा, रिवाज, परिपाटी। - शीर - वि अव्य. १ व्यवस्थित, ठीक-ठाक। २. वर्गीकृत। ३ वाकायदा, विधिवत्। ४ यथा-क्रम; क्रमवद्ध, प्रणालीवद्ध।

पद्धति - ती - दे० 'पद्धत'।

पद्य - न १ पद्य, छंदोवद्ध रचना, काव्य, कविता। २ गीत।

३. भजन। [ का औजार।

पनसाळ - पु. जडिये का जडने

पनळ, पनाळ - दे० 'पन्हाळ' ।  
पन्ना - पु. पन्ना, हरे रंग का एक प्रसिद्ध रत्न, मरकत, जमु रंद ।

पन्नाशी - स्त्री पचासा, किसी के जीवन के प्रथम पचास वर्ष ।  
पन्नास - वि पचास, ५० ।  
पन्हाळ - दे 'पन्हाळ' ।  
पन्हा - पु [ फा 'पहना' ]  
पनहा, कपडे आदि की चौडाई, अर्ज ।

पन्हाळ - पु., पन्हाळी - स्त्री १ पनारी, पनाला, परनाला; परनाली, नावदान, पनारा । २ ओलती के नीचे लगायी हुई टीन की खुली नली जिससे छत का पानी एक ओर चला जाता है ।

पन्हाळी - स्त्री गुरिया बनाने का सुनार का औजार ।

पन्हें - न पना, आग मे पकाये हुए कच्चे आम से बनाया हुआ शरवत ।

पन्हेरी - स्त्री पनीरी, और जगह लगाने के लिए उगाये हुए छोटे पाँवे ।

पपई - स्त्री पपीता, एरड-मेवा, एरडखरबूजा, अरडककडी ।

पपनस - पु. [ द० अमेरिकन 'पापेलमूस' ] चकोतरा (फल) ।

पपय्या, पपय्या - पु दे० 'पपई' । [ लेकिन, मगर ।

परतु - अव्य परतु, किंतु, परपरा - स्त्री १ परपरा, अविच्छिन्न क्रम, चला आता हुआ अटूट सिलसिला । २ परिपाटी, प्रथा, रिवाज, प्रणाली । ३ पुत्र-पौत्र आदि, वंश, सतति ।

परपरागत - वि परपरागत, क्रमागत, पुस्तनी, सदा से चला आता हुआ ।

पर - वि पर, अन्य, दूसरा, पराया । - पु. शत्रु, दुश्मन । - न परब्रह्म । - स्त्री ढग, प्रकार, तरह । - प्रत्य परक । - कीय - दे 'क्रम में' । - गमन - न व्यभिचार । - चक्र - न परचक्र, शत्रु का आक्रमण । - जात - स्त्री परजाति, दूसरी जाति । - तत्र - वि परतत्र, पराधीन । - तीर - न पु., - थडी - स्त्री परपार, दूसरा, परला किनारा । - देश - पु. परदेश, परदेस, विदेश । - देशी - वि १ परदेशी, विदेशी; गैरमुल्की, विदेशी । २. अनाथ । - पु. विदेशी व्यक्ति, परदेसी, प्रवासी । - देशातील वकील - पु. विदेशी राजदूत, एलची । - धार-जिणा, - धार्जिणा - वि अपनो का अहित करके दूसरो का हित करने वाला, दूसरो की मानसिक दासता स्वीकार करने वाला, परतुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला । - पेठ - स्त्री हुडी की तीसरी प्रतिलिपि । - भृत - वि परभृत, गुलाम, जिसका पालन दूसरे ने किया हो । - लोकवासी - वि परलोकवासी मृत, मरहूम, । - वंशता - स्त्री परवशता, पराधीनता, गुलामी । - स्थ - वि विदेशी, पराया, प्रवासी । - स्वाधीन - वि पराधीन, परतत्र, गुलाम, लाचार । - राष्ट्रीय वकिलत - स्त्री वैदेशिक दूतावास । - राष्ट्रीय वकील - पु. विदेशी राजदूत, एलची । - राष्ट्रीय सवध - पु. वैदेशिक सवध, विदेशसवध । - राष्ट्रीय घोरण - न विदेश - नीति, वैदेशिक नीति । - राष्ट्रमन्त्री - पु. विदेशमन्त्री, वजीरे खारिजा ।  
परकर - पु. घाघरा, लहंगा ।

परका - वि १ पराया, गैर, अपरिचित । २ अन्य, दूसरा ।  
परकी, परकीय - वि १. पराया, विदेशी, गैर । २ परकीय, दूसरे का । - चलन - न विदेशी मुद्रा ।

परखड - वि साफ, सरा, कठोर ।

परगणा - पु. [ फा 'पर्गन' ]  
परगना, तहसील, जिले का एक भाग ।

परजणें - क्रि स १ सान धरना, तेज करना, चमकाना । २ शस्त्र उठाना ।

परटीण - स्त्री घोविन, घोवी की स्त्री ।

परटीला - स-वि अव्य घोने के लिए, घोवी को दिया हुआ ।

परडी - स्त्री चंगेर, चंगेरी, फूल रखने की डलिया ।

परडें - न १ पिछवाडा; 'मकान या घरके पीछे की घिरी हुई जमीन जिसमें छोटा-सा वाग रहता है । २ दे 'पारडें' ।

परत - अव्य १ वापस, लौट कर । २ फिर से, पुन । - वि लौटा हुआ, लौटाया हुआ । - परत - अव्य - वार वार । - फेड - स्त्री अदायगी, भुगतान, चुकाई, वापस देना । - भाडें - न वापसी किराया । मु० - करणें - लौटाना, वापस देना । - जाणें - लौट जाना । - येणें - १ लौटना । २ विधवा होने पर मायके लौट आना ।

परतणे - क्रि अ १ लौटना, वापस आना, जाना । २ धूम जाना, मुडना । ३ पलटना । ४. पीछे हटना । - क्रि अ १ पलटना, उलटना । २. उलट कर सेकना ।



३ कौरना, हलका भूमना, कलछी, करछली चलाकर हिलाना ।

परतन - न छोटा खेत, भूमिका छोटा टुकड़ा ।

परतवड - दे 'पणतवंड' ।

परतविणे - क्रि स १ लौटाना, फेरना, वापस करना, भेजना । २ उलटाना ।

परता - वि अन्य, दूसरा, श्रेष्ठ, बढ कर । - अव्य. फिर से, भले ही ।

परती - स्त्री १ गोला, डोरे की पिंडी, सूत की लच्छी; अटी । २ विरक्ति । ३ वापसी ।

परत्र - अव्य. १ अन्यत्र । २. वरना । [ विक्र, अनुपात से । ]

परत्वे - अव्य अनुसार, मुता-  
परभारा - रे - अव्य १ सीवे । २ परिपाटी को छोट कर । ३ अनायाम, सहज । ४ अप्रत्यक्ष रूप से । ५. किसी व्यक्ति को छोड कर, बिना पूछे, व्यान न देकर ।

परभू - पु. कायथ, कायस्थ जाति ।

परमा - पु. प्रमेहरोग ।

परमाणु - पु. परमाणु, अणु, कण, जरा, सूक्ष्म अणु, अति-क्षुद्र भाग, बहुत छोटी चीज । - वाद - पु. परमाणुवाद, न्याय और वैशेषिक दर्शन का यह मत कि मसार की सृष्टि परमाणुओं से हुई है ।

परमार्थ - पु. परमार्थ, यथार्थ तत्त्व; सत्य, मोक्ष; ब्रह्म ।

परमावधी - स्त्री चरम सीमा, हद ।

परवचा - पु. १ ककहरा, पहाडे आदि रटना । २ राम-कहानी ।

परवड - स्त्री १ परेशानी, दुर्गत, अवतरी; वुरी दशा । २

ढग, रीति, तरीका । ३ स्तर, दर्जा । ४ रामकहानी । ५ समृद्धि ।

परवडण - क्रि अ १ पुसाना, पूरा पडना, उचित जान पडना । २ वन पडना । ३ भाना, पसद आना ।

परवल - पु. स्त्री [अ 'पैरोल'] प्रतीतिवचन, साकेतिक शब्द, परोल, 'पैरोल' ।

परवां - अव्य परसो । - च - अव्य अभी-अभी, थोडे समय पहले । - चा - वि अभी का; नया, मामूली ।

परवा - दे 'पर्वा' ।

परवानगी - स्त्री [फा 'पर्वा-नगी'] परवानगी; आज्ञा, अनु-मति, इजाजत, छूट, स्वीकृति ।

परवाना - पु. [फा 'पर्वा-न'] परवाना, लिखित आज्ञा, आज्ञा-पत्र, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, सनद, 'लाइसेंस' ।

परवारी - पु. गाँव का टहलुवा जो प्राय डेढ होता है ।

परशु - पु. परशु, फरसा । - राम - पु. परशुराम ( विष्णु के छठे अवतार ) । - ० क्षेत्र न कोकण, गोवा या केरल का प्रदेश ।

परस - न पिछवाडा, घर के पीछे की धिरी हुई भूमि । परसां-तील भाजी - स्त्री घर की मुर्गी; तुच्छ और सहज मिलने वाली वस्तु ।

परसाकडे - अव्य टट्टी फिरने, शौच के लिए ।

परसुंदा - पु. जूना सी लेने के वाद वचा हुआ डोरे का हिस्सा ।

परसूं - न. पिछवाडा; घर के पीछे की धिरी हुई भूमि, जहाँ वाग होता है ।

परस्पर - अव्य १ परस्पर, आपस मे । २. सीवे; अनायास,

अपने आप । - विरोधी - वि परस्परविरोधी; परस्परविरुद्ध, अमगत, खडनात्मक, व्याघाती ।

परळ - न खप्पर, सकोरा; मिट्टी का थाल ।

पराची - स्त्री मचान ।

पराकाष्ठा, पराकोटि - स्त्री पराकाष्ठा; पराकोटि, अंतिम सीमा; चरमकोटि, हद ।

पराक्रम - पु. पराक्रम, शौर्य, वीरता, बहादुरी, दिलेरी ।

परागदा - वि [फा 'परा-गद'] फरार; प्रपलायी । २ अस्तव्यस्त, तितरबितर । ३ दर-दर भटकने वाला ।

पराङ्मुख - वि पराङ्मुख, विमुख, जिसने किसी ओर से मुँह मोड लिया हो । [ शिकस्त ।

पराजय - पु. पराजय, हार; पराणी - स्त्री पैना, वैल हाँकने की छडी, आरी, अरई ।

परात - स्त्री परात, बडा थाल ।

परान्न - न परान्न, दूसरे के घर का भोजन, दूसरे का दिया हुआ भोजन । [ जय, हार, शिकस्त ।

परामव - पु. परामव, परा-परामर्श-र्ष - पु. १ पूछ ताछ, आव-भगत । २ स्वीकार । ३ मदद, महायता ।

परार्ध - पु. परार्ध, परार्द्ध, गणित में मव से बडी सत्या ।

परावर्तक - वि पु. परावर्तक, प्रतिक्षेपक, रिफ्लेक्टिव, रिफ्ले-क्टर ।

परावलंबन - न पराधीनता, परवशता, परतंत्रता, निर्भरता ।

परावा<sup>+</sup> - वि पराया, दूसरा, अन्य ।

परावृत्त - वि १ परावृत्त, लौटाया हुआ । २ निवृत्त । मु०

-करणे - वाज रखना, मना करना ।

परि - उप एक उपसर्ग जो समततोभाव (परिक्रमण), व्याप्ति (परिणत), पूजन (परिचर्या) आदि अर्थों के द्योतन के लिए शब्दों के पूर्व आता है । [लेकिन, मगर ।

परि - अव्य पर, परन्तु, पैराग्राफ - पु [अ] पैरा, अनुच्छेद, परिच्छेद, कडिका, 'पैराग्राफ' ।

परिध - पु परिधि, घेरा, बाडा, अहाता, दायरा ।

परिचय - पु परिचय, पहचान, जान-पहचान, तअर्क ।

परिचायक - वि पु परिचायक, परिचय कराने वाला, बनाने वाला ।

परिचारक - पु १ परिचारक, सेवक, खिदमतगार, बैरा, बेहरा । २ रोगी की सेवा करने वाला, तीमारदार ।

परिचारिका - स्त्री १ परिचारिका, सेविका । २ वह स्त्री जिसने रोगियों की सेवा, परिचर्या करने की शिक्षा प्राप्त की हो, 'नर्स' । [ जान-पहचान वाला ।

परिचित - वि परिचित, परिच्छेद - पु परिच्छेद, अनुच्छेद, कडिका, 'पैरा', 'पैराग्राफ' । [पक्व, प्रौढ, पुष्ट ।

परिणत - वि परिणत, परिणति - स्त्री परिणति, परिणाम, परिपाक, निष्पत्ति, नतीजा ।

परिणाम - पु १ परिणाम, नतीजा । २ फल । ३ प्रभाव, असर । - कारक - वि प्रभावकारी, प्रभावशाली, असर करने वाला ।

म हिं श को . २९

परित्यक्ता - वि स्त्री परित्यक्ता, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो ।

परित्राण - न १ परित्राण; पूर्ण रक्षा, पूरा वचाव । २ आश्रय, पनाह ।

परिधान - वि पहना हुआ, ओढा हुआ । मु० - करणें - पहनना, ओढना ।

परिधि - दे 'परिध' ।

परिपक्व - वि १ परिपक्व, अच्छी तरह पका हुआ, तैयार । २ प्रौढ, अनुभवी, मँजा हुआ ।

परिपाक - पु १ परिपाक, पूर्ण विकास, प्रौढता को प्राप्त होना, पक्का होना । २ परिणति; परिणाम, नतीजा ।

परिपाटी - स्त्री १ परिपाटी; अनुक्रम, सिलसिला । २ प्रथा, रूढि, चाल, रिवाज ।

परिपाठ - पु १ परिपाटी । २ रिवाज, प्रथा । ३ अभ्यास, आदत ।

परिपाठी - दे 'परिपाटी' ।

परिभाषा - स्त्री १ परिभाषा, इस्तिलाह । २ व्याख्या ।

परिमल - पु परिमल, सुगंध, खुशबू, महक ।

परिमाण - न १ परिमाण, मात्रा, मिकदार, पैमाना, माप, तौल । २. आकार ।

परिमार्जन - न १ परिमार्जन, धोना, साफ करना । २ दूर करना, हटाना, निकालना ।

परिमित - वि १ परिमित, सीमित । २ थोडा, मामूली ।

परिवर्त - पु १ परिवर्त, चक्कर, परिभ्रमण । २ घूम जाओ (आदेश) ।

परिवर्तन - न परिवर्तन;

अदल-बदल, तब्दीली ।

परिवार - पु १ परिवार; कुटुंब, कुनबा । २ दलवल ।

परिशिष्ट - न परिशिष्ट; किसी पुस्तक या लेख का पूरक अंश । [सम्यक्, गहरा अध्ययन ।

परिशीलन - न परिशीलन, परिश्रम - पु परिश्रम, कड़ी मेहनत, क्लेशकर आयास ।

परिष्कार - पु १ समर्थन, हिमायत । २ परिष्कार, सफाई ।

परिसवाद - पु १ विचार-गोष्ठी, अध्ययन-गोष्ठी, 'सेमिनार' । २ परिसवाद, सगोष्ठी, परिचर्चा, 'सिंपोजियम' ।

परिसर्ग - क्रि स १ सुनना । २ ध्यान देना ।

परिसर - पु १ परिसर, आमपास का इलाका, अहाता । २ नदी का किनारा, तीर ।

परिस्थिति - स्त्री १ परिस्थिति, हालत, स्थिति । २ वायुमंडल ।

परिहार - पु १ परिहार, निराकरण । २ स्पष्टीकरण ।

परी - अव्य १ दे 'परि' । २ तीर पर, के नाते । ३ फिर भी । [ २ बराबरी ।

परी - स्त्री १ ढग, तरीका ।

परी - स्त्री [फा] परी, अप्सरा, अति रूपवती स्त्री ।

परीक्षक - वि पु १ परीक्षक, परीक्षा करने या लेने वाला । २ परखने वाला, जांचने वाला ।

परीक्षण - न १ परीक्षण, जांच, परख । २ समालोचना, आलोचना ।

परीक्षा - स्त्री १ परीक्षा, इम्तहान । २. जांच, परख । मु० - करणें - परीक्षा करना, जांचना, परखना । -घेणें - परीक्षा

लेना, कमौटी पर कसना ।

परीघ - दे 'परिघ' ।

परीट - घु - धोवी । - घडी - छी धोवी से घुलकर आया हुआ कपडा जिसपर लोहा किया गया हो - । घाट - घु धोवि-घटा, धोवियो का कपडा धोने का घाट । - शीळ - छी घु धोवियो का कपडा धोने का पत्यर, पाट ।

परीस - घु पारस, स्पर्शमणि ।

परीस - अव्य मे, अपेक्षा, बढ कर ।

परोक्ष - अव्य. १. परोक्ष मे, पीठ पीछे । २. सामने । - वि - परोक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुपस्थित ।

परोचा - दे 'परवचा' ।

परोज - न [फा 'फीरोज'] फीरोजा, हरितमणि ।

परोठा - घु परांठा ।

परोपकार - घु. परोपकार; दूसरे की भलाई, एहसान ।

परोपकारी - वि परोपकारी, उदार, दानी, दूसरे की भलाई करने वाला ।

परोपरी, परोपरीनें - अव्य हर तरह से, नाना प्रकार से, लाख ।

पर्जन्य - घु पर्जन्य, वर्षा, वारिश । - फाळ - घु वर्षाकाल, बरसात ।

पर्यंक - घु पर्यंक, पलग । - पडित - घु. १ परोपदेशक, दूर रह कर मलाह देने वाला । २ स्वय आराम से रह कर दूसरो को उप-देश देने वाला, 'आर्मचेयर पॉलि-टिगियन' ।

पर्यंत - अव्य पर्यंत, तक ।

पर्यवसान - न १ पर्यवसान, परिपाक, परिणति । २. अंत, समाप्ति ।

पर्याय - घु १. पर्याय, विकल्प । २ ढग; तरीका । ३. क्रम ।

पर्यायानें - अव्य. वास्तव मे, घुमाफिरा कर; अततो गत्वा, परोक्ष रूप से । [ २ बडा भारी बोझ ।

पर्वत - घु १ पर्वत, पहाड ।

पर्वा - छी [फा.] १ पर्वा, परवा, परवाह, फिक्र, चिंता । २ ध्यान, खयाल ।

पलग - घु पलग, अधिक लची-चौडी और मुदर चारपाईं । - पोस - घु पलगपोस, पलग की चादर ।

पलट - दे 'पलटी' ।

पलटण - छी [अ 'प्लेटून'] पलटन, फौज, सेना ।

पलटी - छी पलटी, पलटा । मु० - खाणे - पलटी खाना, उल-टना, लौटना; स्थिति का पूर्णत परिवर्तित हो जाना ।

पलाण - न पलान, घोडे आदि की पीठ पर कसा जाने वाला जीन या चारजामा ।

पलिता - घु [फा 'पलीत'] १ पलीता, तोप के रजक मे आग लगाने की बरोह आदि की मोटी वत्ती । २ मगाल ।

पलिस्तर - न [अ 'प्लास्टर'] पलमस्तर, लेप (दवा या चूने आदि का) ।

पलीकडचा-ला - वि परला, उस ओर का, दूसरी तरफ का, दूर का ।

पलीकडे - अव्य परे, उस पार; परली तरफ, और आगे, बहुत दूर ।

पल्याड - दे. 'पलीकडे' ।

पल्ला - घु [फा 'पल्ल'] १. फामला, दूरी; अतर । २. पल्ला, तीन मन का बोझ । मु० -

गाठणे - मजिल तक पहुँच जाना, बडा फामला तै करना, बहुत दूर तक चले जाना ।

पल्लेदार - वि [दे 'पल्ला'] १ दूरगामी, दूर तक पहुँचने वाला, लवा-चौडा । २. शानदार, तडक-भडक वाला ।

पवन - घु पवन, हवा । - चक्की - छी पवनचक्की; हवा की शक्ति से चरने वाली चक्की ।

पवळा - दे. 'पोवळा' ।

पवाड-टा - घु. १ यग, कीर्ति, महत्त्व । २ विस्तार । ३ दे 'पोवाडा' । [कुश की अँगूठी ।

पवित्रक - न पवित्री, पत्नी, पवित्रा - न पैतरा, पैतंग ।

पशु - घु पशु, जानवर, हँवान, चौपाया । - बँद्य - घु पशुचिकित्सक, सलोतरी ।

पश्चात्ताप - घु पश्चात्ताप, पछतावा, खेद ।

पसंत - वि [फा 'पमद'] १. पसद, रुचि के अनुकूल, जो मन को जँचे, दिल-भाता । २ म्वीकृत; मजूर ।

पसती - छी [फा 'पमद'] १ पसद; पसदीदगी; रुचि । २ म्वीकृति, कबूलियत । मु० - स उतरणें, येणें - पसद आना, भाना ।

पसतीस - वि पैतीस, ३५ ।

पसरट - वि चौडा, फैला हुआ । उथला ।

पसरणें - क्रि अ १ पसरना, फैलना, बिखरना । २. बढना । ३ हाथ-पाँव फैलाकर सोना । - क्रि स दे. 'पसरविणें' ।

पसरविणें - क्रि स १ पसा-रना, फैलाना, बिछाना । २ बिखेरना, छितराना । ३ आगे की ओर करना या बढाना । ४

खोलना, बाना (मुंह) । ५ उडाना (खवर)

पसा - पु पसर, आधी अजली, चुल्लू, चुगल, बुकोटा, बकोटा ।  
- मर - वि चुगलमर, बुकटा-मर ।

पसाय - पु प्रसाद, कृपा, मिहरवानी । - दान - न प्रमाद, वर ।

पसार - वि [ तु 'पासार' ]  
१ चपत, गायब । २ सम्मत, स्वीकृत, पारित । मु० - होंगे - १ चपत होना, नौ दोग्यारह होना, माग जाना, खिसक जाना । २ पारित, स्वीकृत होना (प्रस्ताव) ।

पसारा - पु १ फैलाव, आड-वर । २ वस्तुओं का तितरवितर हो जाना । ३ पसारा, मायाजाल, प्रपच ।

पस्तावणें - क्रि अ पछताना, खेद होना, खीझना । [ ताप ।

पस्तावा - पु पछतावा, पश्चा-पस्तीस - वि पैतीस, ३५ ।

पहाट - छी सवेरा, सवेरा, तडका, भोर, फजर । - वारा - पु सवेरे की मद, शीतल और सुगंधित हवा, नसीमे सहर; नसीवे सुवह ।  
मु० - फुटणे - पी फटना ।

पहाटे - अव्य बहुत तडके; अलस्सवाह, मुंह-अंधेरे ।

पहाट - दे० 'पहाट' ।

पहाणी, पहाणे - दे० 'पाहाणी', 'पाहाणे' ।

पहार - छी रभा, सब्बर ।  
पहारा - पु पहरा, चौकी, निगरानी, देखरेख, गारद । मु० - ठेवणें, - बसविणे, पहाण्यात ठेवणें - गारद में करना, रखना, पहरे में रखना; हवालात में बंद कर देना, हिरासत में रखना ।

पहारेकरी - वि पु पहरेदार, रक्षक, सतरी, प्रहरी ।

पहिलटकरीण - वि छी पह-लौठी, पहलौठी, प्रथम प्रसूता ।

पहिलवान - पु [ फा 'पहल-वान' ] पहलवान, मल्ल, कुश्ती-वाज । [ अव्वल ।

पहिला - वि पहला, प्रथम, पहिले - अव्य पहले ।

पहिल्यादा - अव्य पहले, पहली वार ।

पहिल्या प्रथम - अव्य सब से पहले, पहले पहल, अव्वल ।

पहीपाठुणा - पु १. मेहमान, अतिथि । २ मेहमानों समेत सब लोग । - सुद्धा आमत्रण - न चूल्हा न्यौतना, सारे घर को भोजन का निमत्रण देना । [ पौडना ।

पहुडणे - क्रि अ लेटना, पळ - न पल, क्षण, लमहा,

समय का एक लघु विभाग जो २४ सेकेड के बराबर होता है । - मर-अव्य पलभर के लिए, थोड़ी देर तक ।

पळ - पु भागना; दौडना ।

- पुटा, - पुट्या - वि भगोडा,

भग; कायर । - वाट - छी मागने का रास्ता, वहाना । मु० - काडणे - भाग जाना; नौ दो ग्यारह होना, जान बचाना, चपत, गायब होना । [ भागना ।

पळणे - क्रि अ दौडना,

पळविणें - क्रि स १ भगाना, दौडाना । २ खदेडना । ३ भगा ले जाना, उडा ले जाना, इगवा करना ।

पळस - पु पलाश, ढाक, पलास; टेसू । कहां० - पळसाला पातें तीन - ढाक के तीन पात, हर जगह प्राय वही बात पायी

जाती है । [ कलछा, डोई ।

पळा - पु पला, बडी पली,

पळापळ-ळी - छी १ भगदड, भागड । २ दौडने का एक खेल ।

पळी - छी १ पली; कलछी । २ आचमनी ।

पाकणे, पाकळी - दे. 'पाकणे', 'पाकळी' ।

पाख - दे. 'पाख' ।

पाखर - छी पखों का आच्छा-दन, आश्रय, सहारा; आसरा, आधार, कृपादृष्टि, कृपाछत्र । - न दे, 'पाखरू' । - पारधी - पु पासी, बहेलिया, चिडीमार ।

पांखरू - न १ पछी, पक्षी, पखेरू, चिडिया । २ छैल छवीली औरत, नखरेवाज स्त्री ।

पाग - पु १. आशा, आकाक्षा, अपेक्षा, मुराद, उम्मीदें । २ पराधीनता, गुलामी । ३ जरूरत । आवश्यकता । ४ कमी, त्रुटि । ५ कण्ट । मु० - फिटणें - कलेजा ठडा होना, मुराद वर आना, अभिलापाएँ पूरी होना । - फेडणे - १ इच्छाओं को पूरा करना । २ चिंताएँ दूर करना ।

पागणें - क्रि अ १ फैल जाना । २ छँटना, विखरना, अलग होना । ३ तितर - वितर हो जाना । ४ पगु, पराधीन, विवश बनना ।

पागविणें - क्रि स १ तितर-वितर कर देना । २ छितराना, विखेरना, फैलाना । ३ पगु, विवश बनाना ।

पागळा, पांगा - वि १ पगु, निर्पांगुर, अपाहिज, लूला, लँगडा । २ अपूर्ण, अधूरा ।

पांगारा - पु फरहद, पारि-भद्र, जलनीम (पेड) ।

पागिला - वि १ लाचार, विवश, पराधीन । २ शरणागत, शरण मे आया हुआ । ३ पगु, लूला ।

पागुळ - वि पगु; लूला; लंगडा । - गाढा - पु गडोलना ।

पागुळणें - क्रि अ १ पगु वनना । २ भीचकका रह जाना ।

पांगूळ - वि दे. 'पागुळ' । पु १ भिखारियों की एक जाति जो सुबह भीख मांगने आते हैं । २ दे 'पिंगळा', 'पिंगूळ' ।

पाघरणें - क्रि स ओढना; पहनना, कपडे आदि से शरीर को ढकना, लपेटना ।

पाघरूण - न ओढना, ओढावन, ओढने की चीज, वस्त्र, आच्छादन । मु० - घालणें - किमी के दोप, अपराध आदि को छिपाना ।

पांच - वि पांच, ५ । छी दे 'पाचू' । मु० पाचावर धारण वसणें - पांच तले से जमीन गिसक जाना, होश उड जाना । कहा० पाचाचे पाच प्रकार - जितने मुंह उतनी वाने । पाचा मुखीं परमेश्वर - पच परमेश्वर, पचो का कहना ईश्वरीय वाक्य के समान है । पाची वोटे सारखीं नसतात - पाचो उँगलियां ममान (बराबर) नहीं होती ।

पाचकळशी - पु छी पाठारे प्रभु (कायस्थ) जाति की एक उपजाति ।

पाचजन्य - पु १ पाचजन्य, कृष्ण का शख । २ शोरगुठ, हो हल्ला । मु० - करणे - हो हल्ला, शोरगुल मचाना, जोर-जोर मे चीखना, चिल्लाना ।

पाचट - वि १ सीठा, वेमजा । २ पनीला, जिसमें अधिक पानी

हो । ३ वाहियात, अचिष्ट ।

पाचपेंच - पु दायपेच, छम्का-पजा । [सम्यता, शराफत ।

पाचपोच - छी मर्यादा, पाचवा - वि पांचवाँ ।

पाचवी - छी जन्म के पांचवे दिन का पूजन आदि । - ला पुजलेलें - वि घुट्टी में पडा हुआ ।

पाचाल - ल - पु १ पाचाल, पचाल नामक देश, पचाल देश का गजा । २ बढई, जुगहा, नाई, बोवी और मोची - इन पांचों का समाहार ।

पांची - वि पांचों । - छी दे 'पाची' । - अव्य पजे । (एके पाची पाच = एक पजे पांच) ।

पाचू - दे 'पाचू' ।

पाचोत्रा - पु पचक, पाच का नमूह । [का झावा ।

पाज - छी मुरगियों को ढकने पाजणी - छी १ कुनाई में मांडी या कलफ लगाना । २ मरेस लगाना । ३ सान देना, बरना । ४ पानी पिलाना ।

पाजरपोळ - पु पिजरापोल; बूढे और बेकार पशुओं को रखने का अडाट-र ।

पाड - पु १ विस्वा, भूमि की एक नाप जो बीघे का बीसवाँ भाग होती है । २ चाल (पशुओं की) । ३ पांच, कदम ।

पांढरी - छी दे 'पांढरी' ।

पाडा - पु थोर का वच्चा ।

पाडित्य - न १ पाडित्य, पडिताई, विद्वत्ता । २ विद्या का आडवर, घमड, धान, शेखी ।

पाडुरोग - पु पाडुरोग, पीलिया (रोग) ।

पांढ्या - पु १ पटवारी । २. पांढे ।

पांढर - छी १ किमी गांव की चतुस्तीमा मे आनेवाली मारी भूमि । २ वह भूमि जिसपर बन्ती बमी हो । ३ खेती की जमीन । ४ बन्ती ।

पांढरपेया - वि मफदपोय, वावू लोग, मव्यवित्त, गिष्ट क्रिपु अल्पवित्त ।

पांढरवट - वि कुछ-कुछ मफेद, हल्ला ध्वेन ।

पांढरवणी - छी ध्वेत-प्रदर, मफेद पानी (नारी-रोग) ।

पांढरा - वि १ मफेद, ध्वेत, शुभ्र, धवल, धौला । २ उजळा, साफ । - पु मांप, नाग । - फटफटीत - वि १ चिट्टा,

पूरा मफेद । २ फक, फीका, विवर्ण, निस्तेज, कातिहीन । ३ कोरा । - भोपळा - पु लौकी,

धिया, कदू । - हत्ती - पु ऐसा व्ययित या बन्तु जिसे अपने पाम रखने में बहुत अधिक व्यय करना पडे । पांढ्या कपाळाची - वि छी

विधवा । पांढ्या पायाचा - वि चौपट - चरण, मनहूम, नहम-कदम; जिसके कही पहुँचते ही

तवाही - बरवादी आ जाय, मत्यानासी । मु पांढ्यावर काळें

करणे - लिखना, लिख मारना, कागज पर स्याही से लिखना ।

पांढरी - वि छी सफेद; ध्वेत । दे 'पांढरा' । - छी वह भूमि

जिसपर बस्ती बसी हो । - गुज - छी सफेद घुंघची, चोंटली । - पोळी - छी गेहूँ की सादी रोटी, चपाती ।

पांढरें - वि न मफेद, ध्वेत । दे 'पांढरा' । - निशाण - न ध्वेत ध्वज, सधपताका, युद्ध-

विराम सूचक चिह्न । - पाणी - न बहुत पतली छाछ । - फेर -

वि गोरा चिट्टा, विलकुल सफेद।  
दे 'पाठरा फटफटित'। - वांगें -  
न मुरगी का अडा। पाठन्या  
कपाळाची, पाठन्या पायाचा,  
पाठन्यावर काळें करणें दे.  
'पाठरा' मे।

पाठुरका - वि कुछ - कुछ  
श्वेत, हलका सफेद। [कतार।  
पांत - स्त्री पांत, पक्ति,  
पाथरी - स्त्री तिल्ली, प्लीहा।  
पाथस्थ - वि पु पाथ, पथिक;  
राही, बटोही; मुसाफिर, यात्री,  
अतिथि, आगतुक।

पाद, पादी - धी - दे 'पाणद'।  
पावरी - दे 'पामरी'।

पावरी - स्त्री, पावा - पु  
वांसुरी, वशी, मुरली; अलगोजा।  
पावरी - स्त्री १ दे 'पासरी'।  
२ आजीविका, रोजी। ३ खुराक।  
पासरी - स्त्री पसेरी, पसेरी,  
पांच सेर की एक तौल या नाप।

पासष्ट - वि पंसठ, ६५।

पाइक, पाईक - पु १ सेवक,  
चाकर, नौकर, दूत। २ पदाति  
सैनिक।

पाइट - स्त्री [अ 'पिट']  
अद्धा, बोतल का आधा, बोतली,  
एक बोतली या एक पाइट शराब।  
पाँइट - पु [अ] १ टाइप  
या मुद्रणाक्षर नापने की इकाई,  
'प्याइट'। २ मुद्दा, बात। ३  
बिन्दु।

पाउण - वि पीन। - की - स्त्री  
पीना, पीन का पहाडा।

पाउणे - वि बहु पीने। -  
आठ - वि १. पीने आठ। २  
हिजडा, नपुसक।

पाउल, पाउलावर पाउल  
टाकणें - दे 'पाऊल' मे।

पाऊण - वि पीन, तीन

चौथाई, तीन बटे चार। दे  
'पाउण', 'पाउणे'।

पाऊल - न १ पांव, पग,  
पैर, चरण। २ डग, चलने मे  
दोनो पांवो के बीच का अतर;  
फाल, कदम। - वाट - स्त्री पग-  
डडी। मु० - उचलणें - १ पांव,  
कदम उठाना, आगे बढ़ना। २  
शुरू करना। - ओळखणें - रख  
जानना, पहचानना। - टाकणे -  
१ कदम उठाना; आगे बढ़ना।  
२ शुरू करना। ३ पांव रखना।  
- पुढे पडणें - आगे बढ़ना,  
उन्नति होना। - वाकडें पडणे -  
अनीति की राह पर चलना, बुरे  
आचरण में फँसना, पैर फिसलना,  
धर्म या नीति से डिगना। पाउला-  
वर पाऊल टाकणे - नक्शे कदम  
पर चलना, चरणचिह्नो पर  
चलना, अनुकरण करना।

पाऊस - पु वर्षा, बारिश,  
बरसात, पानी। - पाणी - न  
बरसात और फसल का हाल।  
पावसाचा कोडा - पु बूँदा-वाँदी,  
हलकी वर्षा। पावसाचे पिलू -  
न बहुत थोडी वर्षा। पावसाचे  
वारे - पु बहु वर्षावायु, 'मान-  
सून'। मु० - उघडणे - बारिश  
थमना, पानी रुकना। - डोईवर,  
डोकीवर येणे - वर्षा का निकट आ  
जाना। पावसाचें पोट फुटणे -  
मुसलाधार वर्षा होना। पावसाने  
ओळे उघडणे - १ बारिश का रुक  
जाना। २ आसमान साफ हो  
जाना, बदली छंट जाना। पावसानें  
डोळे बटारणे - वर्षा का बहुत  
अभाव होना। कहा० पावसानें  
भिजविलें, वापानें (नव-यानें)  
भारलें, सरकारनें लुटलें तर फिर्याद  
कोणाजवळ करायची? यदि वर्षा

ने भिगोया, पिता (पति) ने पीटा  
और सरकार ने लूटा तो किससे  
शिकायत की जाय?

पाक - पु १ पाग, शीरा,  
चाशनी। २ पाक, रसोई। ३  
शीरे में सनी हुई विशेष प्रकार की  
औषध, अवलेह, माजून। -  
निष्पत्ति - स्त्री रसोई बनाना;  
भोजन पकाना। पाकातील पुरी -  
स्त्री माठ।

पाक - वि [फा] पाक,  
साफ, पवित्र। - अन्य पूरी तरह,  
विलकुल, कतई।

पाकट - वि लुच्चा, चट,  
पक्का, छंटा हुआ, बदमाश।

पाकड - न पु धान के खेत  
मे उगने वाला एक तृणधान्य या  
उसका बीज।

पाकणे, पाकविणे - क्रि स  
पागना, सानना, पाग, शीरे,  
चाशनी में डुबाना।

पाकळी - स्त्री १ पँखडी,  
फूल की पत्ती, पाँखडी, पुष्पदल।  
२ फाँक। [प्रत्येक भाग।  
पाकार - पु जहाज के पाल का  
पाकीट - न [अ 'पाँकेट']  
१ लिफाफा। २ पाकिट, पाकेट,  
थैली, बटुआ। ३ 'पैकेट'।  
४ जेब।

पाकोळी - स्त्री १ चमगादड।  
२ तितली। ३ अवावील।

पाक्षिक - वि पाक्षिक, पाख-  
भर में होने वाला, हर पद्रहवे  
दिन होने वाला, पद्रहरोजा। - न  
पाक्षिक पत्रिका, पद्रह रोजा  
रिसाला।

पाखड - न १ पाखड,  
नास्तिक मत। २ आडवर, ढको-  
सला, डोग, वचना, छल। ३  
तुहमत, झूठा कलक।

पाखडी - चि १ पाखडी, पाखड, जो वेद के विरुद्ध आचरण करे, नास्तिक । २. ढोंगी ।

पाख - पु. पक्ष, तरफ, बाजू, हिमायत । - न १ पाँख, पख, पर, डैना । २ पाख, कमरे की चौड़ाई की दीवार का वह तिकोना ऊपरी भाग जिसपर वडेर रखते हैं, छत का ढालवाँ भाग । ३ चोली का वह भाग जो छाती को ढकता है । ४ पाख, पखवाडा ।

पाखडणें - क्रि स १ पछोरना, सूप में फटकना, हलोरना । २ फडफडाना (पख) । ३ अलग करना, छोड़ देना ।

पाखर - स्त्री १ पक्षी का अपने बच्चों को पखों में ढकना । २ आधार, सहारा, कृपाछत्र । ३ छाया, छाँह, साया । ४ छत का ढालुवाँ भाग । ५ पहाड़ी का ढालू हिस्सा । ६ पाखर, लडाई के हाथी या घोड़े को रक्षा के लिए पहनायी जाने वाली लोहे की झूल ।

पाखरणे - क्रि स १ सिद्ध, तैयार करना । २ फैलाना । ३ खडा करना ।

पाखरपारधी - पु. पासी, बहे-लिया, चिडीमार । [जाति ।

पाखरिया - पु. आम की एक पाखरू - दे 'पाखरू' ।

पाखला - पु. १ युरोपीय, गौरा सिपाही । २ धीगरा ।

पाखा - टे 'पाख' ।

पाखाड - न १. छप्पर या पाख का एक भाग । २ छप्पर का ढालुवाँ भाग । ३ पाँख, पर, डैना, पख । ४ पल्ला, किवाड का तख्ता ।

पाखाडी - स्त्री १ पाख । २. वडेर । ३ छप्पर में वडेर के

ममानातर वल्लियाँ ।

पाखें - न पाख, पाखा, दे 'पाख' ।

पाग - पु १ जहाज के पीछे बाँधा हुआ मोटा रस्सा । २ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का बडा जाल । ३. वेतन, तनख्वाह । ४ एक प्रकार की किश्ती । - स्त्री १. वह कर जो वदरगाह से बाहर जाते ममय जहाज को देना पडता है । २ पाग, पगडी । ३. शाल, ऊनी या रेशमी चादर ।

पागडी - स्त्री [गु 'पाघडी'] पगडी, मकान, दुकान आदि किराये पर देने के पूर्व भावी किरायेदार से नजराने के रूप में ली जाने वाली रकम ।

पागणें - क्रि स जाल फैला कर मछलियाँ पकड़ना ।

पागल - चि पागल, विक्षिप्त, मनकी । - पणा - पु पागलपन, मूर्खता, नाममझी ।

पागा - स्त्री [पा 'पाएगाह'] १ अश्वशाला, घुडशाल, अस्त-वल, तवेला । २ अश्वारोही मैनिको का दल ।

पागोटें - न [क] पाग, पगडी, माफा, मुंडासा । मु० - पडणें - पगडी उतरना, दुर्गत, थुक्का - फज़ीहत होना । - बाघणें - १ किसी को सम्मान या इनाम के तौर पर पगडी देना, बाँधना । २ दहेज में पगडी देना ।

पागोडा - पु. [पुर्त 'पागोद'] १ दक्षिण भारत के हिंदू मदिरो को युरोपियनो द्वारा दिया गया नाम । २ पगोडा, बौद्ध मदिर ।

पागोरा - पु. १ गाडे हुए खभे का तनाव, रस्मी । २ मछली पकड़ने के जाल की रस्सी । ३

थैली आदि का बंद । ४. तम्मा । ५. पेटी, बेलों आदि में निकलने वाला ततु, रेशा ।

पागोळी - स्त्री १ ओलती, ओरी, छप्पर या छाजन का छोर जहाँ में वर्षा का पानी ज़मीन पर गिरता है । २ ओलती में गिरने वाला पानी । मु० पागोळ्या सोडणें - ज़ार ज़ार, फूटफूट कर रोना ।

पाघळणें - क्रि अ. १ चूना; टपकना । २. पिघलना; गलना । ३ पसीजना । ४ भोलेपन से कुछ ऐसी बातें कह जाना जो नही कहनी चाहिए । [का एक ढग ।

पाचग - न घोती आदि पहनने

पाच - पु स्त्री पन्ना, मरकत, ज़ुमुर्द । - चि. दे 'पाच' ।

पाचक - चि १ पाचक, पकाने वाला । २ पचाने वाला । - पु रसोइया ।

पाचकळ - चि १ भटा, वाहियात, असम्य । २ नीरस ।

पाचकळशी - दे. 'पाचकळशी' ।

पाचट - न १ गन्ने की सूखी पत्तियाँ । २ दे 'चिपाड' ।

पाचपेंच - दे 'पाचपेंच' ।

पाचर - स्त्री पच्चट, पच्चर ।

मु० - मारणें - पच्चर मारना, रोडे अटकाना ।

पाचवा, पाचवी - दे 'पाचवा', 'पाचवी' ।

पाचारण-णें - न १ निमत्रण, आमत्रण, आवाहन, दावत । २ मातमपुरमी ।

पाचारणे - क्रि स १ आम-त्रित करना, बुलाना, दावत देना । २ मानमपुरसी के लिए जाना । ३ याद करना । [जुमुर्द ।

पाची - स्त्री पन्ना, मरकत,

पाचुंदा - पु १ पांच का समूह, पचक। २ कडवी आदि के पांच फूलों का समूह। ३ एक वृक्ष।

पाचू - पु स्त्री पत्ता, मरकत, जमुर्द। - चा ठसा - पु सुनार का एक ठप्पा।

पाचोळा - पु १ पताई, सूखी पत्तियाँ। २ भूसा, भूसी। ३ नाश, ब्रह्म।

पाचछा - दे 'पादशाह'।

पाजणी - दे 'पाजणी'।

पाजणे, पाजवणे, पाजविणे - क्रि स १ पिलाना, पान कराना। २ आंचल देना, बच्चे को दूध पिलाना। ३ सान चढाना, देना, घरना।

पाजळणे - क्रि स १ जलाना, प्रज्वलित करना, २ सान चढाना, घरना। ३ शान दिखाना, शेखी बघारना।

पाजी - वि [फा] पाजी, टुण्ट, बदमाश, अवम, नीच। - पणा - पु पाजीपन, टुण्टता, बदमाशी।

पाझर - पु १ स्राव, वहाव, क्षरण, टपकना, चूना, रिसना। २ झरना। मु० - फुटणे - पसीजना, दया से आर्द्र होना।

पाझरणे - क्रि अ १ चूना, रिसना, पानी छूटना, स्रवना; झरना, टपकना। २ पसीजना, दया से आर्द्र होना।

पाट - पु १ पाट, पाटा, पीढा, चौकी। २ सिंहासन, राजगद्दी। ३ श्रेष्ठता का सम्मान, अधिकार। - पाणी - न भोजन की तैयारी, भोजन के लिये चौकी, थाली आदि लगाकर पानी रख देना। - वडी - स्त्री वेसन की नमकीन टिकिया।

पाट - पु १ नाला; नाली; छोटी नहर। २ नहर से बहने वाला पानी। - स्थळ - न - स्थळ जमीन - स्त्री नहरी, नहर के पानी से सींची जाने वाली जमीन।

पाट - पु विधवा-विवाह; स्त्री का पुनर्विवाह। पाटाची बायको - स्त्री - पुनर्भू। मु० - लावणे - विधवा के साथ विवाह करना, विधवा का फिर से विवाह करना।

पाट - पु पाट, पटमन। - न १ पाट, वस्त्र। २. रेशम।

पाटणी - स्त्री १ छाजन, छप्पर छाने का काम या ढग। २ तख्तबदी। ३ छत, लकड़ी का छत।

पाटला - पु १ पाटला, एक तरह का सोना। २ बर्तन आदि को जिला (चमक) देने का यंत्र। ३ चर्खी पर सूत चढाने का यंत्र।

पाटली - स्त्री १. मोने की चपट्टी चूड़ी। २ जीभी। - वि पाटल, गुलाबी। [चौधरानी।

पाटलीण - स्त्री पटेल की स्त्री, पाटलूण - दे 'पाटलोण'।

पाटले - न चौकी, पीढा।

पाटलोण - स्त्री [अ 'पैटलून'] पतलून, अंग्रेजी ढग का पायजामा।

पाटव - न १ पाटव, पटुता, दक्षता। २ चालाकी, होशियारी, तीक्ष्णता, तीव्रता।

पाटा - पु १ सिल, मसाला आदि पीसने की पत्थर की चौकोर पटिया, सिल्ली। २ मैदान। ३ लोहे की धरन का ऊपरी भाग। - पूजन - न प्रसव के पाँचवे दिन की जाने वाली सिल की पूजा। - वरवटा - पु सिलवट्टा, सिल और लोडिया।

पाटिलकी - स्त्री पटेल, पटवारी, चौधरी या नवरदार का काम, अधिकार।

पाटी - स्त्री १ पाटी; पटिया; पट्टी; तख्ती, 'स्लेट'। २ 'आट्यापाट्या' के खेल में आडी पट्टी जिसकी लंबाई बाईस फीट और चौड़ाई एक फुट होती है। ३ लकड़ी या पत्थर की पटिया। ४. जमीन की तग पट्टी। ५ खेत का छोटा टुकड़ा। ६ नामपटल; सकेतपट्ट, 'साइनबोर्ड'। मु० - वर घालणे, बसविणे - बच्चे को पहले पहल लिखना सिखाना, पढाई का श्रीगणेश कराना।

पाटी - स्त्री १ टोकरी, डलिया। २ टोकरा, डला, झावा, खाँचा। - घाला - पु टोकरे में रखकर बोल बोलने वाला मजदूर।

पाटील - पु पटेल, चौधरी, पटवारी, नवरदार। - बोवा - पु १ चौधरी जी। २ महादजी शिंदे (सिंधिया)।

पाटोळा - पु, पाटोळी - स्त्री रेशम का रग-विरगा कपडा।

पाठगुळी, पाठगुळीस - अव्य पीठ पर।

पाठ - पु १ पाठ, सबक। २ पठन, अध्ययन, पढ़ना ३ वेदपाठ। ४ किसी पाठ्य पुस्तक का वह अंश जो किसी एक विषय से संबद्ध हो, परिच्छेद। ५ वाक्य, पद्य आदि का लिखित रूप। - वि कठस्थ, कठगत, जवानी याद, मुख्याग्र। मु - शक्ति - स्त्री कठस्थ करने की क्षमता, स्मरणशक्ति। - शाळा - स्त्री १ पाठशाला, संस्कृत पढ़ाने का विद्यालय। २ विद्यालय, स्कूल। मु० - करणे - १ कठस्थ करना,



ज्वानी याद करना । २ रटना ।  
३ पढ़ना; नियामित रूप से पठन  
करना ।

पाठ - छी १ पीठ, पुस्त ।  
२ पीछे का भाग, उलटी तरफ ।  
३ ऊपरी भाग, पृष्ठ, पृष्ठभाग ।  
४ मदद, सहायता, समर्थन । ५  
छिलका । ६ बकरी का मादा  
वच्चा । - कुळी, - कुळीस - अव्य  
पीठ पर । - फोरा - वि केवल एक  
तरफ लिखा हुआ (कागज) । -  
पुरावा - प्रु समर्थन, पृष्ठपोषण,  
सहायता । - पोट - वि लौटपीट,  
दोखना । - अव्य. दोनों तरफ  
(लिखा हुआ) । - वळ - न सहारा,  
समर्थन, आधार, सहायता । -  
मोरा - वि १ जिसने पीठ फेरी हो,  
मुंह मोड़ कर खड़ा हुआ, जिसका  
पिछला हिस्सा देखने वाले के  
सामने हो । २ विमुख, प्रतिकूल ।  
- राखण - छी १ गौनहार,  
दुलहिन के साथ उसकी ससुराल  
जाने वाली स्त्री । २ पुस्तपनाह,  
मददगार । - राखणी - छी १  
पृष्ठपोषण, सहायता । २ दे  
' पाठराखण ' । - लाग - प्रु १  
पीछा, पीछे लगा रहना । २  
अनुसंधान; जाँच, खोज । मु० -  
उघड्डी पढणें - पीठ पर के भाई  
या बहन की मृत्यु होना । - कुळीस  
घेणें - पीठ पर उठाना । - घेणें  
- १ पीछा करना । २. सताना;  
परेशान करना । - टाकणें - आराम  
के लिए लेट जाना; पीठ देना,  
सुस्ताना । - थापटणें, - थोपटणें  
- पीठ पर हाथ फेरना, पीठ  
ठोकना; शावाशी देना, बढ़ावा  
देना । २ थपकना, थपकी देना ।  
- दाखविणें - पीठ दिखाना, भाग  
खड़ा होना । - देणें - १ पीठ

देना; भाग खड़ा होना । २ पीठ  
पर होना, मदद, सहायता करना,  
३ सुनी अनसुनी करना, वान न  
मानना । ४ चुपचाप सहना, बर्दाश्त  
करना । - धरणें - १ पीछा कर  
के पकड़ना । २ पीठ में दर्द, कसक  
होना । - पुरविणें - १ बहुत आग्रह  
करना, सताना । २ पीछे पड़ना,  
निरंतर यत्न करना । ३ सहायता  
करना । - पोट सारखें होणें - पेट  
- पीठ एक ो जाना, बहुत दुर्बल  
हो जाना । - भुईस लागणें - १  
पीठ लगना, कुश्ती में चित किना  
जाना, पछाडा जाना । २ बहुत  
हैरान होना । - मऊ करणें -  
बहुत पीटना, मरम्मत करना । -  
राखणें - १ मदद, सहायता करना ।  
२ समर्थन करना, बढ़ावा देना ।  
- लाग करणें - पीछा करना,  
खदेडना, रगेदना । - वळणें -  
पीछे मुड़ना, लौटना । - सोडणें -  
पीछा छोड़ना । पाठीचें धिरडें  
करणें, फाडणें - पीठ पर बुरी तरह  
पीट कर कचूर निकालना । पाठी-  
मागचा - ला - वि १ वाद का,  
पीछे का । २ पीठ पर का ।  
पाठीमागून - अव्य पीछे से;  
वाद में, फिर । पाठीमागें - अव्य.  
पीछे, पीठ पीछे; अनुपस्थिति में ।  
पाठीमागें ठेवणें - (मृत्यु के पश्चात्)  
रख छोड़ना । पाठीमागें पढणें - १  
पिछड जाना, पीछे छूटना । २  
पुराना हो जाने में अप्रचलित हो  
जाना । ३ भुलाया जाना ।  
४ महत्त्व कम हो जाना ।  
पाठीमागें भुगा लावणें -  
हाथ धो कर पीछे पड़ना, बहुत  
सताना, परेशान करना । पाठीमागें  
लागणें - १. पीछे पड़ना, तुल  
जाना । २. पीछा करना । पाठीला

तेल लावून ठेवणें - १ शामत  
आना, कमबस्ती आना । २ पिटने  
को तैयार रहना । पाठीला पाय  
देऊन घेणें - १ किसीके पीठ पर,  
वाद में जन्म लेना । २ किसीके  
वाद अधिकार प्राप्त करना ।  
पाठीवर - अव्य १. पीछे । २.  
पीठ पर । पाठीवर असणें - १. सिर  
पर होना, पुस्तपनाह, मददगार  
होना, पीठ पर होना । २ सिर पर  
खड़ा होना । ३ पीछा करना । ४.  
पीठ पर का (जनमा हुआ) होना ।  
पाठीवरून - अव्य १. वाद में,  
पीछे से । २ पीठ पर । पाठीवरून  
हात फिरविणें - पीठ पर हाथ  
फेरना, प्यार करना, सहलाना ।  
पाठीशीं - अव्य. पीठ पर, सिर  
पर, पीछे । पाठीशीं घालणें -  
१ शरण में लेना, रक्षा करना ।  
२ समर्थन करना । ३ स्वीकार  
करना । पाठीशीं घेणें - स्वीकार  
करना, उठाना । पाठीस पोट  
लावणें - १ पेट-पीठ एक हो  
जाना, पीठ में पेट लगना, बहुत  
दुर्बल हो जाना । २ जीवन-निर्वाह  
का उत्तरदायित्व सिर पर होना ।  
पाठीस लागणें - १ पीछे पड़ना ।  
२ सताना, परेशान करना । कहा०  
पाठीवर माराबें पण पोटावर मारुं  
नये - शारीरिक दंड भले ही दिया  
जाय, पर किसी की रोजी नहीं  
छीननी चाहिए ।

पाठवण-णी, पाठवणूक - छी  
१ पठावनी, किसीको कहीं भेजना ।  
२ रखसती, विदाई ।

पाठवणें, पाठविणें - क्रि स  
१ भेजना, खाना करना । २  
रखमत करना ।

पाठिका - प्रु १ समर्थन, पुष्टि,  
सहारा । २ बढ़ावा, उकसावा ।

३ मदद, सहायता ।

पाठिराखा; पाठीराखा - वि पु समर्थक, रक्षक, पुस्तपनाह; मदद-गार; सहायक ।

पाठुगळीं - अव्य. पीठ पर ।

पाठोपाठ-ठीं - अव्य. तुरत; पीछे पीछे, थोड़ी ही देर बाद ।

पाड - पु १ योग्यता, महत्त्व, विज्ञात, ताकत । २. मान, परिमाण । ३ पकने को होने की स्थिति । ४ परवाह, परवा । पाडाचा - वि गदराया हुआ, जो पकने पर हो । - ० आवा - पु कोपर, टपका । मु पाडास येणें-गदराना, पकने पर होना ।

पाडणें - क्रि स १ गिराना; ढहाना । २ तोडना, काटना, नाश करना । ३ पटकना, पछाडना । ४ टालना, रखना । ५. हिस्से करना, बँटवारा करना । ६ ढालना । ७ बनाना ।

पाडवा - पु १ पडवा, पडिवा, परिवा, प्रतिपदा । २ नये वर्ष का प्रथम दिन, चैत्र या कार्तिक की शुक्ला प्रतिपदा ।

पाडस - न मृगछौना, मृग-शावक, हरनौटा, हिरन का बच्चा । २ बछडा, गाय आदि का बच्चा । ३ बच्चा ।

पाडा - पु १ गाय का बछडा, बच्चा, साँड । २ पाडा, पँडवा, पडा, भँस का बच्चा ।

पाडा - पु १ पाडा, टोला; महल्ला, छोटी बस्ती । २ शोपडी ।

पाडा - पु नारियल, सुपारी आदि का पेडो से उतारने का काम या मौसिम ।

पाडा - दे 'पाडा' ।

पाडापाड - स्त्री गिराना-ढहाना,

तोड-फोड, ध्वस । [ शिकस्त ।

पाडाव - पु पराजय, हार, पाडी - स्त्री १ बछिया, गाय का मादा बच्चा । २ पडिया, भँस का मादा बच्चा ।

पाडा - पु १ पहाडा, किसी अक की गुणन - सूची जिसे बच्चे याद करते हैं । २ तूमार, बकवास, व्यर्थ का विस्तार । मु०- वाचणे - तूमार वाँघना, छोटी बात को बेकार बहुत बढा देना, राम-कहानी सुनाना ।

पाणद - दी - स्त्री दो खेतो के बीच से जाने वाली पगडडी, गाँव के अदर या बाहर की संकरी सडक ।

पाण - 'पाणी' (पानी) शब्द का समासगत रूप । - उतार - पु उतार, वह जगह जहाँ से नदी हल कर पार की जा सके । - उतारा - पु मान-हानि, अपमान, हेठी, अप्रतिष्ठा, तीहीन । - कणीस - न गोदपटेर, रामधान, एक प्रकार का नरसल ।

- फसर - स्त्री तरी की सिंचाई का लगान । - कळा - पु वर्षाऋतु, बरसात । - कापड - न पन-

कपडा, शरीर में कटने, छिलने आदि की जगह पर बाँधा जाने-वाला गीला कपडा । - कौबडा - पु, - फोबडे - न मुरगावी । - क्या - पु कहार, पनभरा ।

- घोडा - पु अफीकी दरियाई घोडा, 'हिपोपोटेमस' । - चक्की - स्त्री पनचक्की । - चट - वि १ पनीला, पानी की तरह फीका,

सीठा । २ बाहियात । - जावई - पु जमाई का भाई । - टिटवी - स्त्री लाल टिटिहरी । - तीर - पु 'टारपीडो' । - थरी - स्त्री १ तिल्ली, प्लीहा । २. तिल्ली बढ

जाने का रोग । - वळ - वि

स्त्री १ तरी, तराई । २ दल-दल । - पोई - स्त्री प्याऊ, पौसला । - बुडा - दे 'पाणबुड्या' । - बुडी - स्त्री पनडुब्बी, 'सवमेरीन' । - बुडीत - वि पनगाचा, वह खेत जिसमें पानी भरा हो । - बुड्या - पु पनडुब्बा, गोताखोर । - मोट - स्त्री प्रसव के समय गर्भ से पहले बाहर आने वाली गर्भोदक से भरी थैली । - लोट - पु १ ओना, पानी का निकास, जलपथ, पानी निकलने का रास्ता । २ पहाड का वह ढाल जहाँ से पानी चला जाय । ३ पानी का रेला, प्रवाह । - वठा - पु पनघट, पानी भरने का घाट । - शंग - स्त्री मछली । - सळ, - साळ - स्त्री समतल ज्ञापक यंत्र, 'लेवल वाँटल' । - साप - पु जलगर्द, पानी में रहने वाला साँप, डेंडहा । - सुरग - पु जल-सुरग, पानी में विछायी गयी सुरग ।

पाणाडी-ड्या - दे 'पानाडी - ड्या' ।

पाणावणे - क्रि अ. छल-छलाना, आँखों का भर जाना; आँद्र हो जाना । [ विवाह ।

पाणिग्रहण - न पाणिग्रहण, पाणी - न १ पानी, जल ।

२ जीभ, आँख, घाव आदि से निकलने वाला जलीय पदार्थ, लार, आँसू । ३ आव, काति, तेज, चमक । ४ मुलम्मा, कलई । ५ प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा, इज्जत । ३ शक्ति, सामर्थ्य, ताकत । ७ धार, तलवार आदि शस्त्रों की धार का वह काला हलका रंग जिससे उनकी जच्छाई जानी जाती है, तीक्ष्णता । ८ आत्माभिमान, जीवट । - दार - वि १. पानी -

दार; आवदार, कातिमान, चमकदार । २ इज्जतदार, स्वाभिमानी, । ३ धारदार, नुकीला, तीक्ष्ण । - पट्टी - स्त्री जल - कर, पानी का महसूल । - पुरवठा - पु जलसभरण, जलप्रदाय, पानी का प्रवव । मु० - उतरणें - १. पानी उतरना, वेड्छती होना । २ हार जाना, परास्त होना, मुँह की खाना । ३ आव, चमक जाना । ४ चेहरा फ़क़ होना, चेहरे का रग उड जाना । - ओळखणें - किसी की योग्यता, सामर्थ्य आदि को जान लेना, थाह लेना । - करणें - बहुत अधिक परिश्रम करना, पसीना बहाना । - काढून टाकणें - अनार्द्र करना, किसी पदार्थ से पाणी या उसके तत्वों को अलग करना, 'डीहाइड्रेट' । - कापणें - पानी काटना, तोडना । - घालणें - १ बिना छूए दूर से पानी देना । २ दूर से नहलाना । ३ नाश करना । ४ पानी दे कर बढ़ाना, परवरिश करना । ५ छोड देना, त्यागना । - चढणें - १ महत्त्व प्राप्त होना । २ जोड आना । - जोखणें - दे 'पाणी ओळखणें' । - तोडणें - पानी तोडना, काटना, तैरते या नाव खेते समय पानी को हाथ या डौंड से चीरना । - दाख-विणें - १ पानी दिखाना, पशुओं को पानी पिलाना । २ शूरता, चमक दिखाना, जाँहर दिखाना । - देणे - १ पानी वुझाना, तपे हुए लोहे आदि को पानी में वुझा कर नरम या कडा बनाना । २ सान धरना, तेज करना । ३ पानी देना, तर्पण करना । ४ मीचना । - पडणे - १ पानी पडना । वर्षा होना । २ पानी फिरना,

वरवाद, चौपट होना । - पाजणे - १ पानी पिलाना । २ पानी देना, तर्पण करना । ३ मजा चखाना, बुरी तरह पीटना, मरम्मत करना, हराना, परास्त करना । - पाणी करणे - १ बहुत अधिक प्यासा होना । २ वरवाद करना । - पाणी होणे - १ बहुत प्यास लगना । २ नाश होना । - फिरणें - दे० 'पाणी पडणे' । - भरणें - (किमीके सामने) पानी भरना, अति तुच्छ सिद्ध होना, फीका पडना । - मरणें - बहुत अधिक डर जाना । - मागून देणें - पानी न माँगने देना, तत्काल मार डालना । - मुरणें - १ पानी मरना, पानी जड़ होना । २ दाल में काला होना, कोई दोष छिपा होना । - लागणें - १. (कहीका) पानी लगना, स्थान-विशेष के अच्छे-बुरे वातावरण का असर होना । २ जलवायु का अनुकूल न होना । - सोडणे - १ छोड देना, त्यागना । २ आशा छोड देना । - होणें - पानी फिरना, वरवाद, चौपट होना । पाण्याचा काटा मोडणें - पानी कुनकुना करना, होना, पानी का कुछ गरम होना । पाण्यात घालणें - पानी में फेकना या बहाना, वरवाद् नष्ट करना । पाण्यात जाणें - नष्ट, वरवाद होना । पाण्यांत दिसणे - बहुत अधिक द्वेष, नफरत होना । पाण्यात पडल्यासारखें होणें - पानी पानी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, झेंपना । पाण्यात पाहाणें - बहुत जलना, फूटी आँखों न देख सकना, फूटी आँखों न भाना । पाण्यापेक्षां पातळ करणे - पानी पानी करना, बहुत

अधिक लजवाना; धज्जियाँ उठाना । पाण्याला आधार - पानी पीने से पहले खाया जाने वाला थोडा-सा पदार्थ या नास्ता, कलेवा, जल-पान । पाण्यावर घालणें, नेणें - पानी दिखाना, पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी, कुएँ, तालाब आदि के किनार ले जाना । पाण्यावरचा वुडबुडा - पु, पाण्यावरची रेघ-स्त्री पानी का बतासा, पानी का बुलबुला, क्षणभंगुर पदार्थ । कहा० पाण्यांत म्हंस बाहेर मोल - पानी में वैठी हुई भैंस पूरी तरह दिखाई नहीं देती, उसका मोल करने से क्या फायदा ? अनिश्चित, आगाभी बातों के विषय में व्यर्थ चर्चा, क्यास करना । पाण्यात राहून माशाशीं वर- जल में रह-कर मगरमच्छ से वर ।

पाणोठा - दे 'पाणवठा' ।

पात - न १ पात, पत्ता । २ दे 'पात' । ३ दे 'पात' । ४ 'पापणी' । - स्त्री १ प्याज, लहसुन आदि की हरी पत्ती । २ नीली चाय की पत्ती ।

पातक - न पातक, पाप, दोष, अधर्म । [ अपराधी ।

पातकी - वि पातकी, पापी, पातणें - क्रि अ १ आना, आ पहुँचना । २ प्राप्त होना । ३. होना ।

पातन - न आसवन, अभि-सावण, अर्क खींचने की क्रिया ।

पातवडी - स्त्री १ पपडी । २ वेसन की टिकिया । ३ अरबी आदि के पत्ते से वेसन डाल कर बनायी हुई बडी ।

पातळ - वि १ पतला, महीन, झीना । २ तरल । ३ जो गफ, घना न हो । ४ जो मोटा

न हो, कृश, दुबला-पतला, इक-हरे बदन का । ५ साधारण, मामूली, ऊपरी । [घोती ।

पातळ - न साडी; स्त्रियो की

पातळी - स्त्री १. स्तर, सतह ।

२ पतलापन । ३. धातु की सलाखो को काटने का औजार ।

पाताळ - न १ पाताल, भुवन का अधोभाग । २ बहुत अधिक गहराई । - पाणी - न १ कुएँ में नीचे से आने वाला पानी । २ गहरा पानी, गहरा कुआँ । - यत्री - वि १ चाल-वाज काँइयाँ, चालाक, चट । २ कारस्तानी, साजिश करने वाला, पड्यत्र रचने वाला । मु० - फोडून काढणें - किसी छुपे या काम पड्यत्र को खोल देना ।

पातिव्रत्य - न पातिव्रत्य, पतिव्रता का धर्म, पतिव्रता होने का भाव, सतीत्व ।

पाती - स्त्री १ धातु का पतला टुकड़ा, चदर । २ लवा पत्ता । ३ पलक, पपोटा । - चा चहा - पु. नीली चाय ।

पाती - स्त्री पाँत, पाँति, देवरी में जुते हुए वैलो की कतार ।

पाती - स्त्री पत्ती, साक्षे का हिस्सा, भाग, साक्षा । - दार - वि पत्तीदार, साक्षी, हिस्सेदार ।

पातें - न १ (गवताचे) पत्ता, पत्ती । २ (कात्रीचे) पल्ला । ३ (हत्याराचे) फल, (चाकू, छेनी, तलवार आदि का) ।

४ (डोळ्याचे) पलक । [कचरा ।

पातेरा - पु सूखी पत्ती,

पातेली - स्त्री छोटा भगोना ।

पातेले - न भगोना, टोपिया ।

पात्र - न १ पात्र, वरतन ।

२ (नाटकातील) पात्र, अभि-

नेता । ३ (नदीचे) पात्र, पाट, गर्भ, पेटा, भाट । ४ प्रेमिका; रखेली, माशूका । ५ पत्तल, थाली । - वि योग्य, लायक । - योजना - स्त्री पात्रनिर्धारण ।

पात्रें - न बहु पात्रवर्ग, अभि-नताओ का दल ।

पाथ - स्त्री फसल की खडी कतारो के बीच की खुली जगह ।

पाथर - स्त्री १ पाटा; पत्थर का वह बड़ा टुकड़ा जिसपर धोवी कपडे धोता है । २ सिल । ३ चौकी । - पु पत्थर । - फोड्या - पु. १ पत्थरफोड । २ हुद - हुद चिडिया । ३ सगतराग । - वट - पु. पत्थरफोड, पत्थर तोडने का काम करने वाला, सगतराग ।

पाथरणे - क्रि स १ विछाना । २ फँलाना ।

पाथरा - पु. कटी हुई फसल को सुखाने के लिए फँलाई हुई कतार । [गोभी ।

पाथरी - स्त्री गोजिया, वन-पाथेय - न पाथेय, सबल, वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राह में खाने के लिए अपने साथ ले जाता है । [गोज ।

पाद - पु. पाद, अपानवायु,

पाद - पु. १ पाद, श्लोक, पद्य आदि का चौथा भाग । २ चतुर्थांश, किसी वस्तु का चौथा भाग । - पूरण - न १ पादपूरण, किसी श्लोक या पद्य के किसी चरण को पूरा करना ।

पाद - पु. चरण, पैर, पाँव । - ग्रहण - न पादग्रहण, पैर छू कर प्रणाम करना, पालागन । -

चारी - वि पादचारी, पैदल चलने वाला । - त्राण - न पाद-त्राण, जूता, जूती, खडाऊँ, चट्टी

आदि । - पीठ - न पु १ पाद-पीठ, ऊँचे आसन के पास रखी जाने वाली छोटी चौकी जिसपर पैर रखते हैं । २ पोढा, आसन, चौकी । - सवाहन - न बीरे-धीरे पाँव दवाना, चरणसेवा, पाँव-चप्पी । [गोज करना ।

पादणे - क्रि अ पादना,

पादरफुसका - वि १ तुच्छ, क्षुद्र, नाचीज । २ कायर, डर-पोक । ३. धिनौना ।

पादरा - वि १ पदासा, बार-बार पादन वाला । २ कायर, डरपोक । ३ तुच्छ । ४ धिनौना । - पु. झीगुर । कहा० - पाद-याला पावट्याचें निमित्त - सदा पादने वाले के लिए बैगन का बहाना, सदा की पदनी उरदो दोष ।

पादविणें - क्रि स १ पदाना, पादने में प्रवृत्त करना । २ (गुल्ली - डडे आदि के खेल में) बार-बार हराना और दौडाना । ३ हैरान, परेशान करना ।

पादशाहा, पादशाह - पु. [फा 'पादशाह'] वादशाह, सम्राट्, राजा, नरेश ।

पादशाहत, पादशाही - स्त्री [फा 'पादशाही'] वादशाही, साम्राज्य, सलतनत, हुकूमत ।

पादाक्रात - वि १ पादाक्रात, पैरो तले दबाया हुआ, रौदा हुआ । २ जीता हुआ ।

पादुका - स्त्री १ पादुका, खडाऊँ । २ जूता ।

पादेलोण - न काला नमक, साँचर नमक ।

पाद्य - न पाद्य, पैर धोने का पानी । - पूजा - स्त्री १. आचार्य आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा, पादपूजा । २ डाँट - फटकार, आटे

हायो लेना ।

पाद्री - पु. [ पुर्व ] पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य ।

पान - न १ (झाडाचे) पत्ता, पत्र, पर्ण । २ (खाण्याचे) पान, पान का बीडा । ३ (पुस्तकाचे) पन्ना, पृष्ठ, सफा । ४ बंद; कागज का लवा टुकडा । ५ पत्तर, पत्तल । ६ घोटियों के जोडे मे मे एक, बोती का एक अदद । ७ ताश का पत्ता । ८ हथियार का फल । ९ पत्तल; थाली, पत्तल-भर खाद्य-सामग्री, परोमा । १० सर्पदंश । ११ तवाकू । -कणीस-न गोदपटेर, रामवान । -दान-न पानदान, पनडिब्बा । -पट्टी-छी पान, पानपत्ती, बीडा, गिलौरी । -पुडा-पु पानदान, गिलौरीदान, पनडिब्बा । -बाळी-छी एक प्रकार का झूमक, वाली । -मळा-पु पनवाडी, पान का खेत, नागवेल (पान की वेल) का वाग, बरेजा, पान की वाडी । -वेल-छी नागवेल, पान की वेल । -सावर-छी नागफनी । -सुपारी-छी १ पान, सुपारी, इत्र आदि देकर सम्मान करना, पान-फूल, इत्रपान । २ बीडा । ३ भेट, रिश्वत । मु०-न हालणें १ पत्ता न हिलना, जरा भी हवा न चलना । २ कोई भी काम न होना, एक न चलना । -पुसणें-धोखा देना, ठगना, अंगूठा दिखाना । पानावर पान टाकणें, ठेवणें-छिपाना, दबाना, पना न लगने देना ।

पान-न १ पान, पीना । २ मद्यपान, शराव पीना । -पात्र-न १ पान-पात्र, पानी आदि पीने का बरतन, प्याला । २

गराव पीने का प्याला ।

पानउतारा; पानकळा, पान-कापड, पानचवकी; पानथरी-दे 'पाण' में ।

पानगा-पु पत्ते पर गीला आटा लगा कर अगारो पर मेकी हुई रोटी, बग्या (विहारी) ।

पानडी-छी १. पदक । २ म्त्रियों का गले में पहनने का एक गहना ।

पानडी-ड्या-दे 'पानाडी' ।

पानवडी, पानवठा, पानसळ, पानसाळ-दे 'पाण' में ।

पाना-पु. [ अ 'स्वैनर' ] पाना, रेच; पेच पर टिबरी कमने का औजार, 'स्वैनर' ।

पानाडी-ड्या-पु जल-अनुमानक, खोदनेपर पानी कहाँ मिलेगा, यह बताने वाला ।

पानारी-पु. १ पनवाडी, तमोली । २ पत्तल बनाने वाला, पत्तलो के लिए पत्ते लाने वाला ।

पान्हवणें-क्रि अ पेन्हाना, गाय, भैंस आदि के श्रन में दूध उतर आना ।

पान्हा-पु. १ प्रेम से स्तनो में दूध भर आना । २ दया से हृदय भर आना । मु०-फुटणें-१ पेन्हाना, स्तनो का दूध से भर आना । २ प्रेम, दया आदि मे हृदय भर आना ।

पाप-न १. पाप, पातक, जुर्म, गुनाह । २ बुरी इच्छा, कुवासना । -पु. पापी, पातकी व्यक्ति । -ग्रह-पु. १ पापग्रह, अशुभ ग्रह-मंगल, शनि, राहु, केतु । २ बुरा आदमी । -भीर-वि पाप करने से डरने वाला, सदाचारी । पापाचे पर्वत-पु. बहु बहुत बडे पाप । मु०-उमें राहाणे-१.

पाप उदय होना, पूर्वकृत पाप का फल मिलने लगना । २ पाप का मूल जाना । -बोंब मारन उठणे-पाप का सब पर जाहिर होना, पाप का फल मिलना । -लागणे-पाप लगना, पाप का भागी होना । पापानें पाय धुणें-हमेशा पाप करते रहना । पापान्ना वाचा फुटणें-पाप का सिर पर चढ कर बोलना ।

पापड-पु. पापड । -खार-पु पापडाखार, मज्जी ।

पापडी-छी. १ पपडी, छोटा पापड । २ पापडी (एक मिठाई) ।

पापणी-छी १ पलक, पपोटा । २ बरौनी, पलक के किनारे के बाल ।

पापा-पु. १ चुम्मा, बच्चो का चुवन । २ पिता, अब्बाजान । -छी रोटी ।

पापात्मा-वि पापात्या, पापी, जो सदा पाप मे प्रवृत्त रहे, जालिम ।

पापी-वि १ पापी, पाप करने वाला, गुनहवार । २ दुष्ट, क्रूर, जालिम । पाप्याचें पितर-न मीकिया पहलवान, मरियल टट्टू, बहुत ही दुबला-पतला आदमी ।

पापुद्रा-पु. झिल्ली, पपटा, पपडी ।

पावळ-पु. १ झरना, सोता । २ नाला । ३. तीर, किनारा ।

पाभर-री-छी अकरी, हल में लगा हुआ चांगा जिसमें बीज गिराते हैं ।

पामर-वि १. पामर, नीच, तुच्छ, क्षुद्रा २ दुष्ट ।

पामरी-छी पामरी, दुपट्टा, बच्चो के ओढ़ने का रेयम का उपरना ।

पामा<sup>†</sup> - छी खुजली । - पु भूसा, भूसी ।

पायडा - पु १. प्रारम्भ, शुरुआत । २ पायदान, सीढी का पाया । ३ प्रथा, रिवाज, परिपाटी । मु०-पडणे - प्रथा का प्रारंभ होना, रिवाज चल पडना । - पाडणे - रिवाज चलाना, प्रारंभ करना ।

पाय - पु १ पाँव, पैर, कदम, चरण, डग । २ टाँग । ३ पाया (चारपाई, कुर्सी आदि का), गोडा, खभा, टैक । ४ चतुर्थांश, चौथा भाग । ५ मीढी का डडा, कदमंचा, पायदान । ५ लक्षण, चिन्ह । - उतार-रा - पु उतार, पगार, वह जगह जहाँ से नदी हल कर पार की जा सके । - वि १ पायाव, पाँस, जहाँ से पैदल जाया जा सके । २ पदाति, पैदल चलने वाला, प्यादा । - उतारा-रा - अव्य. पा-प्यादा, पैदल । - कडी - छी पाँवकी वेडी । - खाना - पु पाखाना, सडास । - गत - छी पायँता, पायँती; पायताना, पैताना । - गुण - पु पैरा, किसी व्यक्ति या चीज के आने का शगून । - घडी - छी - घडचा - छी बहु पाँवडा, वह कपडा जो किसी आदरणीय व्यक्ति के पाँव रख कर चलने के लिए उसके मार्ग में बिछाया जाता है । - घोळ - वि दोनो टाँगो को ढकने वाला (कपडा) । - अव्य. दोनो टाँगो को ढकते हुए । - ०सत - पु वगुला भगत, डोगी, पाखडी । - जमा - पु पाजामा, पायजामा । - टा - पु १ पायदान । २. सीढी । ३ पगडडी । ४ प्रथा,

रिवाज । ५ पहिये के घेरे का प्रत्येक भाग । दे 'पायडा' । - ठण - न, - ठणी - छी - ठाण - न सीढी । दे 'पायटा' । - तण, - ताण - न जूता, जूती, पादत्राण, चप्पल । - था - पु १ (डोगराचा) तलहटी । २ तल, निचला भाग । - थें - न १ पायँता, पायँती, पायताना, चारपाई या पलग का उधर का भाग जिधर सोने वाले का पैर रहता है । २ दे 'पायथा' । - दळ - न पदाति सेना, पैदल फौज । - दळीं - अव्य. पैरो के नीचे, पैरो तले । - घरणी - छी पाँव पकडना, मिन्नत, गिड-गिडाहट । - धूळ - छी घरण-घूलि, चरणरज । - पिटी; - पीट - छी पाँव तोडना, नाहक चक्कर काटना, भटका खाना, मारा-मारा फिरना, बेकार की दौडघूप । - पुसणे - न पायदाज, पावदाज, एक प्रकार की चटाई जो पैर पोछने के काम से आती है । - पेटी - छी पाँव से धौंकनी चला कर वजाने का हारमोनियम, अरगन, अरगना बाजा, 'ऑर्गन' । - पोस - पु पापोण, जूता । - बद् - पु १ पावद, घोडे के पिछले पैरो को बाँधने के काम की रस्सी; पिछाडी । २ रुकावट; रोक; प्रतिवध । - मदीं - छी दौडघूप । - मल्ली - छी १ पामाली, पैरो के नीचे रौंदना या रौंदवाना, तबाही, वरवादी । ३ नाफरमानी, उपेक्षा, अवहेला । - मोजा - पु मोजा, जुराव, पायतावा, पातावा । - रव - पु छी १ आहट । २ सचार, यातायात । ३

प्रथा, रिवाज । ४ प्रवेश । ५ पैरा । - लाग - पु १ पशुओ का एक रोग । २. स्त्रियो को होने वाली पिशाचवाद्या । - वाट - छी पगडडी, पटरी । पाया-खालची वाट - छी परिचित मार्ग, वह रास्ता जिसपर से हमेशा आना-जाना होता हो । पायाचा जड - वि बहुत धीरे-धीरे चलने वाला । पायाचा नरम - वि नपुसक, नामर्द । पायाचें भदें - न नगे पाँव चलने से होने वाली पाँवो की खराबी । पायातली बहाण - छी १ पाँवकी जूती, तुच्छ सेवक । २ पत्नी, दासी । मु० - आपटणें - पैर पटकना । - उचलणें - पाँव उठा कर चलना, तेज चलना । - कावणें - डरना, काँपना । - काडणें - १ चला जाना, चपत होना, खिसक जाना । निकल जाना । २. अलग हो जाना, (किसी काम से) पाँव निकालना । - घेणें - इच्छा होना, हिम्मत होना । - चाटणें १ कदम चूमना, कदमबोसी करना । २ खुशामद करना । तोडणें - अडगालगाना, रोडे अट-काना । - दाखविणें - दर्शन देना, मुँह दिखाना, भेंट होना । - देणें - १ पाँवो से दवा कर चप्पी करना । २ रौंदना, कुचलना । - घरणें - १ पाँव पकडना, शरण मे जाना, बहुत अधिक दीनता और विनय प्रकट करना । २ पाँव अकडना, अकडवाई से पाँवो की नसो का तन जाना । - धुणें - १ पाँव घोना, हाथ मुँह घोना । २ पूजा या सत्कार के लिए पादप्रक्षालन करना । ३ मोरी पर जाना; पेगाव करना (स्त्रियो का) । - न ठरणें - पाँव न ठहरना, हमेशा

फा 'पार्सी' ] पारसी, ईरान की एक अग्निपूजक जाति । २ फारस देश का निवासी ।

पारसा - दे 'पारोमा' ।

पारसी - स्त्री [फा 'फार्सी'] ईरान की भाषा, फारसी ।

पारा - पु. पारा, पारद, सीमाव ।

पारायण - न १ पारायण, किसी ग्रथ का आद्यत पाठ । २ पार जाना ।

पारावार - पु. १ पारावार, पारापार, वार-पार, दोनो किनारे । २ समुद्र । ३ अत, सीमा, हृद । - अव्य वार-पार, आरपार, दोनो तरफ, डघर और उवर । मु० - नसणें - हृद, ठिकाना न रहना, बेहृद वह जाना ।

पारिजात, पारिजातक - पु पारिजात, पारिजातक, हर-सिगार ।

पारितोषक, पारितोषिक - न पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार ।

पारिपत्य - न १ दमन, सरकोवी, कुचलना । २ मजा, दड ।

पारिपार्श्वक - पु. पारिपार्श्वक, नाटक के म्यापक का सहायक नट ।

पारिभाषिक - वि पारिभाषिक, लाक्षणिक, परिभाषा, इस्तिलाह मववी, 'टेक्निकल' ।

पारिश्रमिक - न पारिश्रमिक, उजरत, मेहनताना ।

पारी - स्त्री १ केले के फूल की मोटी पँखड़ी । २ आवरण, आच्छादन । ३ आम की गुठली । ४ घुन, कीडा । ५ दे 'पायरी' ।

पारोशी - वि स्त्री १ जो नहायी न हो । २ वासी ।

पारोसा - वि पु १ जिमका स्नान आदि न हुआ हो । २ वामी, कल का । - केर - पु पहले दिन का कचरा, नहाने से पहले निकालने का कूड़ा - करकट ।

पारोसे - वि न वामी, कलका । - काम - न नहाने से पहले करने का काम (झाडू लगाना, वरतन मांजना आदि) ।

पार्ट - पु [अ] १ भूमिका (अभिनय), 'पार्ट' । २ भाग ।

पार्टी - स्त्री [अ] १ दल, मडली, टुकड़ी । २ पक्ष, फरीक, वादी या प्रतिवादी पक्ष, 'पार्टी' । ३ प्रीतिभोज, दावत । ४ अमामी । - पु अभिनेता ।

पार्लमेंट - न [अ] पार्लमेंट, पार्लियामेंट, समद, राष्ट्र की विधेपत ब्रिटन की, निर्वाचित विधानसभा, भारत में लोकसभा और राज्यसभा मिल कर पार्लमेंट बनती है ।

पार्लमेंटरी - वि [अ] ससदीय, शिष्ट, सम्य ।

पार्वती - स्त्री पार्वती, शिव की अर्द्धांगिनी गौरी, उमा ।

पार्श्व - वि १ पार्श्व, निकट का, पास का । २ एक तरफ का, वगल वाला । - भूमि - स्त्री पार्श्वभूमि, पृष्ठभूमि; पृष्ठाधार, पृष्ठभूमि का । - सगीत - न पार्श्वसगीत ।

पासल - न [अ] डाक या रेल द्वारा भेजे जाने वाला माल का पुलिदा या पकेट, 'पासल' ।

पाल - स्त्री छिपकली, गृह-गोषिका ।

पाल - न १ पाल, घूप आदि

मे वचाव के लिए चँदोवे की तरह टांगा जाने वाला टाट, कपडा, आदि । २ रावटी, छोलदारी । ३ मेले आदि में लगी अस्थायी दूकान । ४ पाल, नावके मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला वह कपडा जिसमें हवा के भरने से नाव चलती है । ५ मोटा विछावन, टाट । - कोयती - स्त्री छोटा हँमिया । - छत्र - न अत्राहाणों में विवाह के नयय दूल्हे के सामने धरा जाने वाला साफा जो वाँस से बँवा होता है । - पट्टी - स्त्री मोटा विछावन, बडी दरी । मु० - घालणें, मांडणें - स्त्री का नुले आम वेव्याकर्म करना ।

पालक - पु १ पालक, रक्षक । २ अभिभावक । - गोत्र - न दत्तक कुल का गोत्र ।

पालक - पु १ बाजार की अन्यायी दुकानों से लिया जाने वाला कर । २ दुकानदार ।

पालक - ख - स्त्री पु पालक (साग) ।

पालसत - स्त्री पालधी (वेले का एक आमन) ।

पालखी - स्त्री १ पालकी, शिविका, डोली, खडखडिया । २ अरथी ।

पालट - पु. १ बदल, परिवर्तन; हेरफेर । २ वारी, पारी । - अव्य बदले ।

पालटणें - क्रि अ १ बदलना, पलटना; पलटा खाना, उलट जाना, परिवर्तन होना । २ लौटना । - क्रि स १ बदल डालना, पलटना, पलटाना । २ घुमाना, फेरना । ३ लौटाना । पालभा - वि औंवा, उलटा, पट । - तान्या - पु स्त्री का रज-

भुजा । ५ तलहटी । ६ रिवाज, प्रथा, परिपाटी । - चा दगड-घु नीव का पत्थर; आधार-शिला । - भरणी - छी शिलान्यास, नीवें डालना । - भूत - वि मूलभूत, बुनियादी, आधाररूप । - शुद्ध - वि जिसकी नीवें मजबूत हो, अच्छे ढग पर शुरू किया हुआ । मु० - घालणें - १ बुनियाद, नीव डालना, रखना । २ शुरू करना । - तळीं घालणें - १ किसी इमारत की नीव में जीवित मनुष्य को गाडना । २ मटियामेट करना ।

पायाळू - वि १ जन्म के समय जिसके सिर के बजाय पाँव पहले बाहर आये हो । २ सुयोग्य । ३ निपुण ।

पायिक - दे 'पाईक' ।

पायीं - दे 'पाय' में ।

पारगत - वि १ पारगत, निपुण, प्रवीण, जिसने किसी विद्या या शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । २ पार तक पहुँचा हुआ, पार पहुँचने वाला ।

पारपरिक - वि पारपरीण, पारपरीय, परपरागत, क्रमागत ।

पारपर्यं - न पारपर्यं, पर-परा का भाव, कुल आदि की परपरा, क्रम ।

पारबा - घु, पारबी - छी बरोह, बरगद, पाकड आदि की जटा ।

पार - घु १. पार; नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का किनारा, किसी वस्तु का दूसरा किनारा । २ अंतिम भाग, प्रातभाग, अंत, सीमा, हद्द । ३ थाह । - अव्य. १ पार, परे; दूर; आर-पार, परली तरफ । २. विलकुल,

कतई, पूरी तरह । मु० - करणें - १ पार उतरना, उस पार जाना । २ पार उतारना; दूसरे किनारे पहुँचाना, उद्धार करना ३ पूरा, समाप्त, खत्म करना । ४ निभना, निभाना । - जाणे - १ पार होना, उस पार पहुँचना । २ काम पूरा कर लेना । - पडणे - पूरा, सपन्न होना; पार पाना, अंत तक पहुँचना । - पाडणें - १ पार उतारना, उम पार पहुँचाना, पार लगाना । २ पूरा, सपन्न करना । ३ सकट से छुडाना, मुक्त करना ।

पार - घु पीपल, बरगद आदि वृक्षों को घेर कर बनाया जाने वाला चबूतरा । मु० - झिजविणे - १. पीपल की परिक्रमाएँ करना । २ इष्ट सिद्धि के लिए भगवान् पर दवाव डालना ।

पारख - छी १ परख, परीक्षा, जाँच । २ कसौटी, कसौटी पर घिसना, परखना । ३ मूल्य, योग्यता । - घु. दे 'पारखी' ।

पारखणे - क्रि स १ परखना, परीक्षा करना, जाँचना । २ कसौटी पर कसना । ३. भली भाँति देख कर गुणदोष जान लेना ।

पारखा - वि १ पराया, गैर, अनजान, अपरिचित । २ वचित, रहित, महरूम, विमुख । ३ नया, भिन्न । ४ शत्रु ।

पारखी - घु १ पारखी, परखने वाला; परखवैया, परखैया । २ सर्राफ । ३ महाजन, साहूकार । - वि. १ पारखी, जानकार । २ न्याय, निर्णय करने वाला ।

पारठा - वि, पारठी - वि छी १ वकेन, वकेना, सालभर से अधिक की व्यायी दूध देने वाली (गाय या भैंस) । २ प्रौढ,

वयस्क । ३ पका हुआ ।

पारडी - छी पडिया, भैंस का मादा बच्चा ।

पारडू - न पडिया, पैंडवा, भैंस का बच्चा ।

पारडें - न पलडा, पल्ला, तराजू के दो हिस्सों में से कोई एक । २ मथानी की रस्सी । मु० - झुकणे - पल्ला झुकना, पल्ला भारी होना, किसी पक्ष का अधिक बलवान् होना । - फिरणें - पलटा खाना, उलट जाना, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाना । - भारी होणें - दे 'पारडें झुकणे' । - वर, हलकें होणें - पल्ला हलका होना, किसी का महत्त्व, सामर्थ्य घट जाना ।

पारण - णे - न १ पारण, पारणा, व्रत की समाप्ति, वाद का भोजन । २ सतोष, आनंद । ३ दावत, भोज । मु० - फिटणें - आँखें ठढी होना, जी भरना; तृप्त होना । - फेडणे - आँखें ठढी करना, तृप्त करना ।

पारतत्र्य - न पारतत्र्य, परा-धीनता, गुलामी ।

पारदर्शक - वि १ पारदर्शक, जिसके आरपार देखा जा सके । २ निर्मल, साफ, स्वच्छ ।

पारघ - छी शिकार । मु० - करणें, - खेळणें - १ शिकार करना । २ तीर मारना, घायल करना ।

पारघी - घु पारघी, वहेलिया, चिडीमार, शिकारी ।

पारवळ - न, पारवा - घु परेवा, कबूतर, फाख्ता । - वि १ कत्थई । २ कबूद, नीला, आसमानी ।

पारशी - घु [स 'पारसीक',



घूमते रहना । - निघणें - बाहर निकलना, छुटकारा पाना । - पसरणें - १ पाँव फैलाना, अधिक पाने के लिए प्रयत्न करना, पाँव पसारना, कब्जा करना । २ मरना । - पसरून निजणें - पैर पसारना, आराम से लेटना, घोड़े वेच कर सोना । कोणाचा पाय-पोस कोणाच्या पायात नसणें - अवतरी फैलना, अपनी - अपनी डफली अपना-अपना राग अलापा जाना । - फुकून टाकणें-फूंक-फूंक कर कदम या पाँव रखना । - फुटणें १ विवाई फटना । २ बढ़ना, फैलना । ३ चुपके से चपत होना, चोरी होना । - बंद घालणें - रोक, प्रतिबन्ध, पावदी लगाना, रोकना, नियन्त्रित, निरुद्ध करना । - मोकळे करणे - १ थोड़ी दूर तक टहल आना । २ झड्डट से छुटकारा पाना । - मोडणे - १ पैर टूटना, २ पाँव फूलना, निराश होना । ३ पाँव तोड़ना । ४ अडगा लगाना । - येणे - वच्चे का चलने लगना । - रोवणे - पाँव गाड़ना, पाँव जमाना, दृढ़तापूर्वक स्थित होना । - बळणे - १ पाँव मुड़ना, दूसरी ओर प्रवृत्त होना । २ अकडवाई से पाँव की नसो का तन आना । - शिवणें - १ पैर छूना, पाँव पडना । २ पैर छू कर कसम खाना । पायाखालीं तुडविणे - १ पैरो तले फुचलना, रौदना । २ अपमान, बेइज्जती करना, तुच्छ समझना । पायाची आग मस्तकास जाणे - तलवो से आग लगना, आगवबूला होना । पायाजवळ येणें - चरणो के पास जाना, दर्शन के लिए जाना । पायानें लोटणे - ठुकराना, पैर से

मार कर हटाना, तिरस्कार, उपेक्षा करना, दुत्कारना । पायां पडणें १ पाँव पडना, चरणो पर गिरना, दैन्यभाव से विनय करना । २ नमस्कार, प्रणाम करना । पायावर घोंडा पाडून घेणें - अपने पाँव मे आप कुल्हाडी मारना । पायावर नक्षत्र पडणे - पाँव मे सनीचर होना, हमेशा घूमते, भटकते रहना । पायावर पाय टाकून निजणें - आराम मे मोना, घोड़े वेच कर मोना । पायावर पाय टाकून बसणें-पाँव पर पाँव रख कर बैठना, कुछ काम न करना । पायावर पाय ठेवणे - पाँव पर पाँव रखना, पूरी तरह अनुगमन करना । पायावर भोंवरा असणें - हमेशा घूमते, भटकते रहना । पायावर हात मारणे-चरण छू कर कसम खाना । पायाशीं-स पाय बाधून बसणें - १ पाँव मे पाँव बाँध कर रखना, हमेशा अपने पास या देखरेख मे रखना । २ हमेशा कुछ न-कुछ माँगते रहना । पायास भिगरी असणें - हमेशा घूमते रहना । पायाँ - अव्य १. पैरो, पाँवो से, पैदल । २ के कारण, की वजह से, के लिए । पायाँ बाँवणें - १ हाथी आदि के पाँव में बाँव कर कुचलवाना । २ हानि करने को तैयार रहना । कहा० पाय धू तर म्हणे तोडे केवढ्याचे? पाँव धोने को कहा तो पूछता है कि तोडा कितने का? जो काम करने को कहा जाय उससे अलग ही, वेमतलव की वात पूछना । पायाँची वहाण पायाँच बरी - पाँव की जूती पाँव में ही रखनी चाहिए, पाँव की जूती सिर को लगाना अच्छा नहीं होता, हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार

ही स्थान दिया जाना चाहिए ।

पायक - दे ' पाईक ' ।

पायका - पु [ अ ] पाडका, एक प्रकार का छापे का टाइप जो ३ इंच चौड़ा होता है ।

पायरी - स्त्री १ सीढी, क्रद-मचा, पैडी, गाड़ी का पायदान, सीढी का डडा । २ योग्यता, अधिकार, दर्जा । ३ क्रम, उन्नतिक्रम या विकासक्रम की एक श्रेणी, तरक्की का दर्जा । पायरीनें-अव्य. क्रमश, धीरे-धीरे, उत्तरोत्तर । मु - चा घोंडा होणें - १ अपने उचित स्थान पर बने रहना । २ नीव का पत्थर बनना । ३ विनम्रता के साथ रहना । - स पाय लावणें-परिपाटी का उल्लंघन करना, अपमान करना, अपने को बड़े व्यक्ति के समकक्ष समझना । - सोडणें-अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना, घृष्टता करना ।

पायरी - स्त्री [ पुर्त ' परेरा ' ] कलमी आम की एक बढिया किम्म ।

पायली - स्त्री आढ, आढक, चार सेर का माप । - चे पंधरा, पन्नास वि बहुत, विपुल, चाहे जितने, कई, तुच्छ, जिसका कोई महत्त्व न हो । मु० - चा पसा करणें - १ कम बताना । २ अमानत में खयानत करना । - भरणें - १ अपना उल्लू सीधा करना । २ अच्छे दिन खत्म होकर बुरे दिन आना ।

पायस - न पायस, दूध में पकाया हुआ चावल, खीर ।

पाया - पु [ फा ' पाय ' , म ' पाय ' ] १ पाया, नीव, नीव, बुनियाद । २ प्रारम्भ । ३ आधार, सहारा, टेक । ४ त्रिभुज की एक

भुजा । ५ तलहटी । ६ रिवाज, प्रथा, परिपाटी । - चा दगड-पु. नीव का पत्थर, आधार-शिला । - भरणी - स्त्री शिलान्यास, नीवें डालना । - भूत - वि मूलभूत, बुनियादी; आधाररूप । - शुद्ध - वि जिसकी नीवें मजबूत हो, अच्छे ढग पर शुरू किया हुआ । मु० - घालणें - १ बुनियाद, नीव डालना, रखना । २ शुरू करना । - तळीं घालणें - १ किसी इमारत की नीव में जीवित मनुष्य को गाडना । २ मटियामेट करना ।

पायाळू - वि १ जन्म के समय जिसके सिर के वजाय पांव पहले बाहर आये हों । २ सुयोग्य । ३. निपुण ।

पायिक - दे 'पाईक' ।

पायी - दे 'पाय' में ।

पारगत - वि १ पारगत, निपुण, प्रवीण, जिसने किसी विद्या या शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । २ पार तक पहुँचा हुआ, पार पहुँचने वाला ।

पारपरिक - वि पारपरीण, पारपरीय, परपरागत, क्रमागत ।

पारपर्यं - न पारपर्यं, पर-परा का भाव, कुल आदि की परपरा, क्रम ।

पारवा - पु., पारवी - स्त्री वरोह, वरगद, पाकड आदि की जटा ।

पार - पु १. पार; नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का किनारा, किसी वस्तु का दूसरा किनारा । २. अंतिम भाग, प्रातःभाग, अंत, सीमा, हद । ३ थाह । - षव्य. १ पार, परे, दूर, आर-पार, परली तरफ । २. विलकुल,

कतई, पूरी तरह । मु० - करणें - १. पार उतरना, उस पार जाना । २. पार उतारना, दूसरे किनारे पहुँचाना, उद्धार करना ३. पूरा, समाप्त, खत्म करना । ४ निभना, निभाना । - जाणें - १ पार होना, उस पार पहुँचना । २ काम पूरा कर लेना । - पडण - पूरा, संपन्न होना, पार पाना, अंत तक पहुँचना । - पाडणें - १ पार उतारना, उम पार पहुँचाना, पार लगाना । २ पूरा, संपन्न करना । ३ सकट से छुडाना, मुक्त करना ।

पार - पु पीपल, वरगद आदि वृक्षों को घेर कर बनाया जाने वाला चबूतरा । मु० - क्षिजविणे - १ पीपल की परिक्रमाएँ करना । २ इष्ट सिद्धि के लिए भगवान् पर दवाव डालना ।

पारख - स्त्री १ परख, परीक्षा; जाँच । २ कसौटी, कसौटी पर घिसना, परखना । ३ मूल्य, योग्यता । - पु. दे 'पारखी' ।

पारखणें - क्रि स १ परखना, परीक्षा करना, जाँचना । २ कसौटी पर कसना । ३. भली भाँति देख कर गुणदोष जान लेना ।

पारखा - वि १ पराया, गैर, अनजान, अपरिचित । २ वचित, रहित, महकूम, विमुख । ३ नया, भिन्न । ४ शत्रु ।

पारखी - पु १ पारखी, परखने वाला, परखवैया, परखैया । २ सरफि । ३. महाजन, साहूकार । - वि १ पारखी, जानकार । २ न्याय, निर्णय करने वाला ।

पारठा - वि , पारठी - वि स्त्री १ बबेन, बकेना, सालभर से अधिक की व्याथी दूध देने वाली (गाय या भैंस) । २ प्रौढ,

वयस्क । ३ पका हुआ ।

पारडी - स्त्री पडिया, भैंस का मादा बच्चा ।

पारडू - न पडिया, पँडवा, भैंस का बच्चा ।

पारडें - न पलडा, पल्ला, तराजू के दो हिस्सों में से कोई एक । २ मथानी की रस्सी । मु० - झुकणे - पल्ला झुकना, पल्ला भारी होना, किसी पक्ष का अधिक बलवान् होना । - फिरणें - पलटा खाना, उलट जाना, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाना । - भारी हीणें - दे 'पारडें झुकणे' । - वर, हलकें हीणें - पल्ला हलका होना, किसी का महत्त्व, सामर्थ्य घट जाना ।

पारण - ने - न १ पारण, पारणा, व्रत की समाप्ति, वाद का भोजन । २ सतोप, आनंद । ३ दावत, भोज । मु० - फिटणे - आँखें ठठी होना, जी भरना; तृप्त होना । - फेडणे - आँखें ठठी करना, तृप्त करना ।

पारतत्र्य - न पारतत्र्य, परा-धीनता, गुलामी ।

पारदर्शक - वि १ पारदर्शक, जिसके आरपार देखा जा सके । २ निर्मल, साफ, स्वच्छ ।

पारध - स्त्री शिकार । मु० - फरणे, - खेळणे - १ शिकार करना । २ तीर मारना, घायल करना ।

पारधी - पु पारवी, वहेलिया, चिडीमार, शिकारी ।

पारवळ - न , पारवा - पु परेवा, कबूतर, फाख्ता । - वि १ कत्यई । २ कबूद, नीला, आसमानी ।

पारशी - पु [स 'पारसीक',

फा 'पार्सी' ] पारसी, ईरान की एक अग्निपूजक जाति । २ फारस देश का निवासी ।

पारसा - दे 'पारोसा' ।

पारसी - स्त्री [फा 'फार्सी'] ईरान की भाषा, फारसी ।

पारा - पु. पारा, पारद, सीमाव ।

पारायण - न १ पारायण, किसी शय का आद्यत पाठ । २ पार जाना ।

पारावार - पु. १ पारावार, पारापार, वार-पार, दोनों किनारे । २ समुद्र । ३ अत, सीमा, हृद । - अव्य वार-पार, आरपार, दोनों तरफ, डवर और उवर । मु० - नसणें - हृद, ठिकाना न रहना, बेहद बढ़ जाना ।

पारिजात, पारिजातक - पु. पारिजात, पारिजातक, हर-सिंगार ।

पारितोषक, पारितोषिक - न पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार ।

पारिपत्य - न १ दमन; सरकोवी, कुचलना । २ मजा, दड ।

पारिपार्श्वक - पु. पारिपार्श्वक, नाटक के म्यापक का सहायक नट ।

पारिभाषिक - वि पारिभाषिक, लाक्षणिक, परिभाषा, इन्स्टिलाह मववी, 'टेक्निकल' ।

पारिश्रमिक - न पारिश्रमिक, उजरत, मेहनताना ।

पारी - स्त्री १ केल्ले के फूल की मोटी पेंखडी । २ आवरण, आच्छादन । ३ आम की गुठली । ४ घुन, कीडा । ५ दे 'पायरी' ।

पारोशी - वि स्त्री १ नो नहायी न हो । २ वामी ।

पारोमा - वि पु. १ जिनका म्नान आदि न हुआ हो । २. वामी, कल का । - केर - पु. पहले दिन का कचरा, नहाने से पहले निकालने का कूडा - करकट ।

पारोसे - वि न वामी, कलका । - काम - न नहाने ने पहले करने का काम (आइ लगाना, वरतन मांजना आदि) ।

पार्ट - पु [अ] १ भूमिका (अभिनय), 'पार्ट' । २. भाग ।

पार्टी - स्त्री [अ] १ दल, मडली, टुकडी । २ पक्ष, फरीक, वादी या प्रतिवादी पक्ष, 'पार्टी' । ३ प्रीतिभोज, दावत । ४ अमामी । - पु अभिनेता ।

पार्लमेंट - न [अ] पार्लमेंट, पार्लियामेंट, समद, राष्ट्र की विधेपत ब्रिटन की, निर्वाचित विधानसभा, भारत में लोकसभा और राज्यसभा मिल कर पार्लमेंट बनती है ।

पार्लमेंटरी - वि [अ] ससदीय, शिष्ट, सम्य ।

पार्वती - स्त्री पार्वती, शिव की अर्द्धांगिनी गौरी, उमा ।

पार्व - वि १ पार्व, निकट का, पान का । २ एक तरफ का, वगल वाला । - भूमि - स्त्री पार्वभूमि, पृष्ठभूमि; पृष्ठावार, पृष्ठभूमि का । - सगीत - न पार्वसगीत ।

पार्ल - न [अ] डाक या रेल द्वारा भेजे जाने वाला माल का पुलिदा या पकेट, 'पामल' ।

पाल - स्त्री छिपकली, गृह-गोविका ।

पाल - न १ पाल, घूप आदि

मे वचाव के लिए चंदेवि की तरह टांगा जाने वाला टाट, कपडा, आदि । २ रावटी, छोलदारी । ३ मेल्ले आदि में लगी अस्थायी दूकान । ४. पाल; नावके मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला वह कपडा जिनमें हवा के भरने से नाव चलती है । ५ मोटा विछावन, टाट । - कोयती - स्त्री छोटा हँमिया । - छत्र - न अत्राहाणो में विवाह के समय दूल्हे के सामने धरा जाने वाला साफा जो वांस से बँवा होता है । - पट्टी - स्त्री मोटा विछावन; बडी दरी । मु० - घालणें, मांडणें - स्त्री का नुले आम वेग्याकर्म करना ।

पालक - पु. १ पालक, रक्षक । २ अभिभावक । - गोत्र - न दत्तक कुल का गोत्र ।

पालक - पु १ बाजार की अस्थायी दुकानो से लिया जाने वाला कर । २ दुकानदार ।

पालक - ख - स्त्री पु. पालक (माग) ।

पालकत - स्त्री पालयी (बैठने का एक आमन) ।

पालखी - स्त्री १ पालकी, शिविका, टोली, खडखडिया । २ बरयी ।

पाल्ट - पु. १ बदल, परिवर्तन; हेरफेर । २ वारी, पारी । - अव्य. बदले ।

पालटणें - क्रि अ १ बदलना, पलटना, पलटा खाना; उलट जाना, परिवर्तन होना । २ लौटना । - क्रि स १ बदल डालना, पलटना, पलटाना । २ घुमाना, फेरना । ३ लौटाना ।

पालया - वि आँवा, उलटा, पट । - तान्या - पु. स्त्री का रज-

स्वला होना । मु.-घालणें- १. बहुत खोजना, छान मारना । २ हराना, पटकना । -येणें - जन्म के समय बच्चे का आँधे मुँह बाहर आना । कहा० पालथ्या घड्यावर (घागरी-वर) पाणी - आँधे घडे का पानी, बेकार की मेहनत, निष्फल प्रयत्न ।

पालन - न १ पालन, रक्षण, परवरिश । २ निभाना, भग न होने देना । - पोषण - न भरण-पोषण, परवरिश ।

पालव - पु १ पल्लव, नया और कोमल पत्ता, किशलय, कोपल । २ अकुर, अँखुआ । ३. अचल, आंचल, वस्त्र का छोर । ३ डीठ, नज़र । ५ सीमा, हृद, किनारा । ६ ओलती । ७ रिश्ता, सवध । ८ आच्छादन, आवरण । ९ चियडा, घज्जी । १० ऋतु-प्राप्ति, रजोदर्शन । ११ आधार । १२ लगन । - पु दया, करुणा, रहम । - पद - दे 'पालुपद' । मु - पसरणें - दे 'पदर पसरणें' । पालवणें - क्रि अ अँखुआना, अँखुआ फूटना, फेंकना, अकुर उगना ।

पालवणें, पालविणे - क्रि स १. आंचल से दीप बुझाना । २. आंचल से हवा करना । ३ आंचल के नीचे छिपाना । ४ शरण में लेना । ५ प्रकट करना ।

पालवी - स्त्री १ कोपल, किशलय, पल्लव । २ अकुर, अँखुआ, कल्ला । ३ बीमारी से चगे हुए व्यक्ति में आने वाली नई ताकत । ४ उन्नति ।

पाला - पु १ पेड के पत्ते, पत्तियाँ । २ समूह । - पाचोळा - पु १ सुखी पत्तियाँ, छिलके आदि, कूडा-करकट । २ तुच्छ वस्तु । -

म हि श .. ३०

भाजी - दे. 'पालेभाजी' । - मोड - दे. 'पालेमोड' ।

पालाण - न [फा. 'पालान'] पालान, पलान, घोडे आदि की पीठपर डालने का टाट, जीन, चारजामा ।

पालिश - न [अ] १ चमक, चिकनाई, लकलकाहट; 'पालिश' । २ रोगन, चिकनाई और चमक पैदा करने का मसाला ।

पालिसी - स्त्री [अ] १ नीति । २ चतुराई, चालाकी, ३ बीमा कपनी की पालिसी ।

पालुपद - न १ टेक, गीत का स्थायी पद । २. रट, रटन ।

पालेभाजी - स्त्री सब्जी, साग, साग-भाजी, भाजी के रूप में खायी जाने वाली पत्तियाँ ।

पालेमोड - पु महाजन से लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए किसान द्वारा उसे अपनी आगामी फसल का पेशगी बेच दिया जाना ।

पाल्य - पु प्रपन्न, अभिरक्ष्य, 'वाँडें' ।

पालहाण - दे. 'पालाण' ।

पाल्हाळ - पु १ तूमार, छोटी बात को बेकार बहुत बढ़ा देना, व्यर्थ का विस्तार । २. विस्तार, फैलाव । ३ वकवास, वकवाद । ४ सजावट । मु० - लावणें - तूमार बँधना, तूल देना ।

पाल्हाळिक - वि तूल-तवील, बढ़ा-बढ़ा कर कहा हुआ, उवाने वाला, उकताने वाला ।

पाव - पु १ पाव, चौथाई भाग, एक चौथाई । २ पाँव, कदम, पैर । ३ चार छटाँक की एक तौल, एक सेर का चौथा भाग । - शेर - पु १ पाव, एक सेर का चौथा भाग । २ पीआ,

वह वर्तन या माप जिसमें पाव भर दूध, अनाज आदि अँटे ।

पाव - पु [पुर्त 'पाओ'] पाव-रोटी, डवलरोटी ।

पावका - १ निसैनी की एक सीढी, सीढी का डडा । २. पाया, पावा, गोडा । ३. छोटा डिव्वा । ४. पेड पर चढ़ने के लिए बनाया हुआ खाँचा ।

पावकी - स्त्री पाव का पहाडा ।

पावकें - न १ चौथा हिस्सा । २ मक्खन आदि का छोटा कन-स्तर ।

पावटा - पु भटनास, एक लता जिसकी फलियों के दानो की दाल बनाती है, निष्पावक, सफेद सेम ।

पावठाण - न सीढी । २ पेड पर चढ़ने के लिए बनाया हुआ खाँचा । ३ पायदान ।

पावडा - पु १ लगर । २ बड़ा हल । दे 'पावठाण' । - वि लँगडा ।

पावडें - न फावडा, वेलचा । - ओड - स्त्री बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बटोरना, लूटना ।

पावणा - दे 'पाहुणा,' 'पावणें' ।

पावणें - क्रि अ १ मिलना, पाना, प्राप्त होना । २ पहुँचना । ३ ईश्वर का प्रसन्न होना, मन्नत पूरी होना, कृपादृष्टि होना ४ सभव होना, समर्थ होना । - क्रि स पहुँचाना, ले जाना, भेजना ।

पावणे - वि पीन, पीने, तीन चौथाई । - आठ - वि १ पीने आठ । २. हिजडा, नपुसक । मु० - सोळा आणे - पीने सोलह आने, लगभग पूर्ण रूप से, प्राय पूरी मात्रा में ।

पावती - स्त्री १ पावती, रसीद । २ पहुँच, प्राप्ति की सूचना । ३ (रेल्वेची) विल्टी । - पुस्तक - न , - वही - स्त्री रसीद - वही ।

पावन - वि १ पावन, शुद्ध करने वाला । २ शुद्ध, पवित्र ।

पावली - स्त्री चवली, चार आने मूल्य का चाँदी का सिक्का ।

पावलोपावली - अव्य कदम - क्रम पर, पग-पग पर, हर वार, वार-वार । [ सारग (पत्नी) ।

पावशा - पु. चानक, पपीहा, पावसरा, पावसारा - पु करघा चलाते समय पाँवों से दवायी जाने वाली तस्ती ।

पावसाचा कोडा, पावसाचे पिलू, पावसाचे वारे - दे 'पाऊम' में ।

पावसाळा - पु. पावस, वर्षा ऋतु, बरसात का मौसिम, चौमासा ।

पावळणी, पावळी, पावा - दे. 'पागोळी', 'पावा' ।

पावित्र्य - न पवित्रता, पाकीजगी ।

पावेतो - अव्य तक; पर्यंत ।

पाव्हणा - दे 'पाहणा' ।

पाश - पु १ पाश, फदा, फाँस । २ पासा । ३ जाल । ४. वधन । मु०-टाकणे १ जाल डालना, फेंकना । जाल फँलाना, विछाना, फँमाने की युक्ति करना । २ फदे में लाना, फँसाना । ३ मोहनी डालना, लुमाना, मन मोह लेना ।

पाशी - अव्य १ पास, समीप, निकट, नजदीक, पडोस में । २. हाथ में, कब्जे में । - प्रत्य. को ।

पाशी - स्त्री दे 'फाशी' ।

पाश्चात्य; पाश्चिमात्य - वि पाश्चात्य; पश्चिम का, पश्चिमी, यूरोपियन, अमेरिकन आदि ।

पापड, पापाड - दे. 'पाखड' ।

पापाण - पु १. पापाण, पत्थर, शिला; चट्टान । २. निष्ठुर, निर्दय व्यक्ति । ३ ऐना व्यक्ति जिसपर कोई असर नहीं होता । - चुवक - पु चुवक, लोहकात; लोहमणि, 'लोड-स्टोन' । - भेद - पु. पापाण-भेदक; पत्थानभेद, पथरचूक (एक पीघा) । - युग-न पापाण-युग, पापाणकाल, 'स्टोन एज' । - शास्त्र - न शैलविज्ञान, प्रन्तर-विज्ञान, 'पेट्रॉलॉजी' । - हृदय - यो - वि पापाणहृदय, निर्दय, निष्ठुर, सगदिल । [ वीमारी ।

पापाणा - पु घोड़ों की एक

पासंग - पु [ फा ] पासंग, पसंगा, पसघा, घडा । मु०-करणे - घडा करना । पासंगास न पुरणे, पासंगास न लागणे - पासंग (पसंगा, पसघा) भी न होना, किनी के मुकाबले में कुछ भी न होना, अति तुच्छ होना ।

पास - अव्य पास, नजदीक ।

पास - स्त्री - १ फाल, कुमी; हल की अँकड़ी में लगाया जाने वाला नुकीला लोहा । २ बादला बनाने का चाँदी का डला ।

पास - स्त्री [ फा ] १ चिता, फिक्र, आस्था । २ समर्थन ।

पास - पु [ अ ] १ पास, आज्ञापत्र, अनुमति-पत्र । १ रिआयती टिकट । - वि १ उत्तीर्ण, 'पाम' । २ स्वीकृत, मजूर, पारित ।

पासरी - दे. 'पामरी' ।

पासलणे - क्रि अ लेटना, पाँव फँग कर सोना, बेकार रहना, बेगर्मी से सोना या लेटना ।

पासला - वि चित्त, जमीन पर लेटा हुआ । मु०-पडणे - १ बेकार लेटना । २ अडंगा लगाना । पासले पाडणे - १ हगना; चित्त करना, पछाउना । २ नाकाम बनाना ।

पासट - वि पैसठ, ६५ ।

पासा - दे. 'पाश', 'फासा' । [ ले कर ।

पासून - अव्य. मे, पास से, पासोडा - पु. १ बड़ी, मोटी मुजनी, एक तरह की मोटी रगीन चादर । २ कीमती कपडा । ३ लटकियों का लुका छिपी का एक खेल ।

पासोडी - स्त्री १. मुजनी, गाढ़े की बड़ी चद्दर, कई तरह कपडे को साट कर और ऊपर सुई से वारीक काम करके बनाया हुआ ओढ़ने का कपडा, लिहाफ । २ बैठक ।

पासोनि\* - अव्य १. दे 'पासून' । २ मे, अपेक्षा, वनिस्वत ।

पास्तपुस्त - स्त्री १ पूछ-ताछ, पूछ-पाछ । २ खोज-खबर, कद्र ।

पाहणी, पाहणे, पाहणा, पाहता, पाहता-पाहता, पाहारा, पाहाट, पाहाड - दे 'पाहाणी', 'पाहाणे', 'पाहाण्या', 'पाहाता', 'पाहाता पाहाता', 'पाहारा', 'पाहाट'; 'पाहाड' ।

पाहरी - पु रात को पहरा देने वाले घुड़सवार का घोड़ा ।

पाहाणी - छी १. देखना । २ सर्वेक्षण, निरीक्षण, मुआयना, देखमाल, देखरेख । ३. जाँच, जाँच - पडताल, तहकीकात । ४ अकाई, कूत, अदाजा ।

पाहाणे - क्रि स १ देखना, नजर डालना । २ तलाश करना, खोजना, परखना । ३ निगरानी करना, रखना; सम्हालना, ध्यान देना । ४ चाहना । ५ रक्षा, मदद करना । ६ हानि पहुँचाना, नाश करना, बदला लेना, मरम्मत करना, सबक सिखाना, प्रतिकार करना, निवटना । - क्रि अ - १ उजाला होना, सवेरा होना । २ प्रार्थना करना । पाहाता - अव्य. देखते हुए, ध्यान में रखते हुए । पाहाता पाहाता - अव्य. १. देखते-देखते, आँखों के सामने; पलक झपकते, बहुत थोड़ी देर में, तुरत, शीघ्र । २ बड़ी कुशलता से । मु० पाहन घेणें - १ बदला लेना, निवटना, प्रतिकार करना । २ अच्छा प्रवध करना ।

पाहाण्या - वि पु १ गुमशुदा या चुरायी गयी वस्तु को खोज निकालने वाला । २ ज़मीन के अदर का पानी बताने वाला । ३ शकुन जानने वाला ।

पाहात, पाहाता - दे 'पाहाणे' में । [ 'पहारा' ]

पाहार, पाहारा दे 'पहार', पाहिजे, पाहिजेल - क्रि अव्य. चाहिए, चाहिये, उचित है, वाजिब है, अपेक्षित है, दरकार है । [ बहु पाहिजेत ] पाहिजे तर - अव्य. चाहे तो, कहो तो, जरूरत हो तो । पाहिज तेव्हा - अव्य. किसी भी समय, चाहे जिस वक्त । मु० पाहिजे तें

होवो - चाहे जो हो, कोई परवाह नहीं ।

पाहुणचार - पु मेहमानदारी, पहुनाई, मेहमानी; अतिथि-सत्कार, मेहमानों की खातिर-तवाजा ।

पाहुणा - पु १ मेहमान, पाहुना, अतिथि । २ अनजान, अपरिचित व्यक्ति । - राउळा; - रावळा - मेहमान, अतिथि आदि । कहा० दोन्ही ( दोहो ) घरचा पाहुणा उपाशी - दोनों तरफ का मेहमान भूखा ( रहने की सभावना होती है ) ।

पाहुणें - वि १ क्षणभंगुर, थोड़ी देर तक रहनेवाला । २ बाहर से आया हुआ ।

पाहुणेर - पु १ दे 'पाहुणचार' । २ भोज, दावत ।

पाळ - पु घेर, घेरा । - छी १ जगत, कुएँ आदि का चवूतरा । २ बाँध, मेड । ३ चक्की का मुँह । ४ कान का बाहरी हिस्सा, पालि, लोलकी, कान की ली । ५ थाला, आलवाल । ६ कगार, करारा । ७ किले की दीवार ।

पाळ - न पेड की जड, मूल । मु० पाळें मुळें खणून काढणें - जड उखाडना, खोदना, जड मूल से, पूरी तरह नाश करना ।

पाळ - वि पालन करने वाला, पालक, रक्षक ।

पाळक - वि पालक, पालन करने वाला । - पु. गाँवों में मनाया जाने वाला वह दिन जब लोग निजी काम बंद कर के गाँव का ( मार्व-जनिक ) काम करते हैं, निजी काम से छुट्टी ।

पाळण - न दे 'पालन' ।

पाळणा - पु १ पालना,

वच्चो को झुलाने के काम का छोटा झूला या हिंडोला । २ चक्र-दोला, नागरदोला, झूला । ३ लोरी, कृष्णजन्म आदि का गीत । ४ प्रसव की वारी । पाळण्या-तले नाव - न १ वच्चे के जन्म-नक्षत्र से पडने वाला नाम, जन्म-नाम । २ वरही के दिन रखा हुआ नाम । मु० - हलणें - १ घर में छोटा वच्चा होना, बाल वच्चे-वाला होना । २ वच्चा होना ।

पाळणूक - छी दे 'पालन' ।

पाळणे - क्रि स १ पालना, भरण-पोषण करना, परवरिश करना । २ आचरण, पालन करना, वात, व्रत, रखना । ३ मानना, स्वीकार करना ।

पाळत - छी १. चौकसी, चौकी, निगहवानी, कडी नजर, पहारा । २ खोज, सुराग, टोह, पता । ३. रक्षा । मु० - ठेवणें - चौकसी करना, नजर रखना । पातळीवर असणें - १ टोह में रहना, खोज, फिराक में रहना । २ ताक में रहना, कडी नजर रखना, चौकसी रखना ।

पाळा - पु १ दे 'पाळ' । २ समूह, झुड । ३. छोटा हँसिया । ४ दे 'पालन' ।

पाळी - छी १. वारी, पारी । २ नौवत, हालत, दशा । ३ खेप । ४ मासिक धर्म, रजोधर्म, रजस्वला होने की वारी । ५ दे 'पाळ', 'पाळे' । ६ कान की ली । मु - चुकणें, -टळणें - १ मासिक-धर्म का रुक जाना । २ गर्भवती होना । [ हुआ ।

पाळीव - वि पालतू; पाला पाळें - न १. चक्की के मुँह का कगूरा । २ कठीना, काठ का

वरतन । ३ थाला, आलवाल ।  
४ पहाडो के बीच की निचली  
भूमि, दर्रा, घाटी । ५ तालाव  
आदि का अदरूनी हिस्सा । ६.  
खानेदार डिव्वा । ७ समूह,  
झुंड, मेला । ८ कान की लौ,  
लोला, लोलकी । ९ दे  
' पाळ ' - न ।

पाळेगार - पु. [क ' पाळे ' ] १  
कर्नाटक के पहाडी प्रदेशो के छोटे  
कस्बो का मुखिया, चौधरी । २  
वागियों का सरदार ।

पिक - स्त्री पीक, पान का  
थूक । - दानी - स्त्री, - दान -  
न, - धरणी - स्त्री, - पात्र -  
न पीकदान, उगालदान ।

पिकाणी - दे ' पिपाणी ' ।

पिगट - वि पिगल, ललाई  
लिये भूरे रंग का, भूरा, मटमैला;  
हलका पीला, फीका ।

पिगला - स्त्री पिगला,  
शरीर के दक्षिण भाग की एक  
प्रसिद्ध नाडी ।

पिगवी - स्त्री मालकंगनी ।

पिगळ-ळा - दे ' पिगूळ ' ।

पिगळा - पु. १ पिगल, एक  
तरह का छोटा उल्लू । २. डुग्गी  
वजाकर मवेरे भीख मांगने वाली  
जाति का व्यक्ति । - जोशी - पु.  
भीख मांगने और भविष्य-कथन  
का पेशा करने वाली जाति का  
आदमी ।

पिगळा - स्त्री दे ' पिगला ' ।

पिगा - पु. १ लडकियों का  
एक खेल, नाच । २. चारो ओर  
चक्कर काटना । ३ गडवडी;  
घाँवली ।

पिगाणी - स्त्री १ दे  
' पिगा ' । २ दे ' पिपाणी ' ।  
३ पतगा, फर्तिगा ।

पिगूळ - पु. १. एक कीडा जो  
अपने शरीर से वदबू छोड़ता है ।

२ गदी वाते कहने वाला आदमी ।

पिजण - स्त्री, पिजणयत्र -  
न पिजन, धुनकी, फटका ।

पिजणावळ - स्त्री धुनने की  
मजदूरी ।

पिजणें - क्रि स १ धुनकना ।

२ बाल की खाल निकालना । ३

विना रुके कहना, रट लगाना ।

- क्रि अ फटना, चिरना;

कटना ।

पिजर - स्त्री कुकुम, रोली ।

पिजर - न पयाल, पुआल ।

पिजर - न १ पिजरा,

पिजडा । २. ठठरी, ककाल । ३

पसलियाँ ।

पिजरणें - क्रि स फैलाना,

बिखेरना, तितर-वितर करना,

छितराना ।

पिजरा - पु. १ पिजरा,

पिजडा, कफस । २ कैदखाना;

३ कठघरा; काठ का जँगले

दारघर या घेरा । ४ ककाल,

हड्डियों का ढाँचा, ठठरी । -

पोळ - दे ' पाजरपीळ ' ।

पिजारणें - क्रि स १

फैलाना, बिखेरना । २ धुनकना,

खोलना । ३ फुलाना, तरेरना ।

- क्रि अ गुस्से से लाल - पीला

होना, आपे से बाहर होना ।

पिजारी - पु. धुनियाँ, धुनिया,

रई धुनने का काम करनेवाला ।

पिड - पु. १ पिड, गोलक,

गोला, लोदा, ढेर । २ पिडा,

पके हुए चावल आदि का गोला

जिसे ध्राद्ध में पितरो को अर्पित

करते हैं । ३ शरीर, देह । ४

भ्रूण, नया गर्भ । ५. त्रिज्या का

चौवीसवाँ भाग ( रेखा ग ) । ६

जीव । - दान - न पिडदान,

पितरो के निमित्त पिडा पारने

का काम, पितरो को पिडा देना ।

- रोगी - वि जो वचपन से

बीमार हो, हमेशा बीमार रहने

वाला । कहा० जें पिडों तें

ब्रह्माडीं - जो मनुष्य के शरीर में

है वही सारे ब्रह्माड में है । हम

अपने पर से दुनिया को पहचाने ।

पिडरी - स्त्री १ पिडली, टांग

का पीछे की ओर का मांसल भाग ।

२ ऐसा भूटा जिममें दाने ठसाठस

भरे हों । [ आदि का गोला ।

पिडा - पु. पिडा, सूत, रेशम

पिडी - स्त्री १ पिडी, लिंग;

शर्वालिंग । २ आँख आने पर उसे

सेकने के लिए बनायी जाने वाली

पोटली । ३ पिडा, मिट्टी का

लोदा, गोला ।

पिप - न पीपा । [ (पेड) ।

पिपरी - स्त्री पापड, प्लक्ष

पिपळ - न १ पीपल,

अश्वत्थ, पिप्पल । २ पीपल का

फल । - पान - न पीपलपर्ण,

पीपरपर्ण, वच्चो का एक गहना

जो बालों में गूथ कर माथे पर लट-

काया जाता है । - मूळ - न

पीपरामूल, पीपलामूल; पिप्पली-

मूल । - वासी, पिपळावरचा

मुज्या - पु. आवारा, घुमक्कड ।

पिपळी - स्त्री १. पिप्पलि-

ली, पीपल, पीपल लता की

कली । २ एक गहना ।

पिपाणी - दे ' पिपाणी ' ।

पिकदर - न [अ 'पिकऐकस']

कुदाली, गैती ।

पिक - स्त्री दे ' पिक ' ।

पिक - पु. १ पिक, कोकिल,

कोयल । २. दे ' पीक ' ।

पिकणें - क्रि अ १ पकना,

परिपक्व होना, पक्का होना, कच्चा न रहना । २ फसल आना; अनाज आदि पैदा होना ३ (वालो का) सफेद होना । ४ फोडा, फुन्सी धाव आदि का मवाद भर आने की अवस्था को पहुँचना । ५ गोटियों का सब खानो को पार कर के अपने खाने में पहुँचना (चौसर) । ६ फैलना (खबर, अफवाह आदि) । ७ पी वारह होना, आराम से चलना । दे 'पिकले' । कहा. पिकलें तैयें विकत नाहीं—जहाँ जो चीज पैदा होती है वहाँ वह नहीं विकती, अच्छे लोगो की कद्र उनके गाँव में नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर । पिकल्यावाचून विकत नाही—जो बात फैलती है उसके मूल में जरूर कुछ-न-कुछ होता है ।

पिकलें - वि पका हुआ, पक्का । -क्षाड - न बड़ा घनी और दानी व्यक्ति । - पान - न बहुत बूढ़ा व्यक्ति ।

पिकविणें - क्रि स १ पकाना । २ (अनाज) उपजाना, फसल पैदा करना । ३ (अफवाह) उडाना । [पक्का ।

पिका - वि पका हुआ, पका, पिकाऊ - वि १, उपजाऊ, जरखेज, जिममें अधिक उपजे । २ गदराया हुआ, जो पकने पर हो । "

पिकाव - न कुदाली ।

पिकुदलेला, पिकूट - वि फीका, हलका (रग), निस्तेज ।

पिकेटिंग - न [अ] प्रवेश - रोघन, घरना, धरना देना ।

पिकोटा - पु. १ वेडी (पानी उलीचने की वाँस की छिछली

टोकरी) । २ ढेंकली (सिचाई के लिए पानी निकालने का एक यंत्र) ।

पिधळणें - दे 'पाघळणे' ।

पिचकणें - क्रि अ. १ दरकना, फटना, मसकना । २ पिचकना, दवना, सिकुडना ।

पिचका - वि १ फटा हुआ, टूटा हुआ । २ दबा हुआ, पिचका हुआ । ३ पिचपिचा, चिप-चिपा । पिचक्या डोळ्याचा - वि चुंघा, चोघर, बहुत छोटी आँखो वाला ।

पिचकारी - स्त्री १ पिचकारी । २ पीक । मु० - टाकणें - पान की पीक थूकना, छोडना ।

पिचणें - क्रि अ १ दरकना, टूटना; फटना, तडकना । १ पिचकना, दवना, सिकुडना । ३ गलना, सडना, बुरी हालत में रहना । ४ दे 'पिसणे' । पिचून पिचून - अव्य - बुरा हाल हो कर, बुरी दशा में ।

पिचपिचित - वि १ चुंघा, चोघर । २ बहुत वारीक । ३ पिचपिचा ।

पिच्छा - पु. १ पीछा, पिछला भाग, आगा का उलटा । २ पीछे लगा रहना, पिछलगी । मु० - घरणें, - पुरविणें - पीछा पकडना, पीछे पडना, हैरान करना । - सोडणें - पीछा छोडना ।

पिछाडी - स्त्री १ पिछाडी, पीछे का भाग । २ चदावल । ३ पिछवाडा । - चें सैन्य - न चदावल दस्ता । - हल्ला - पु १ पीछे से हमला करना । २ गुदामंजन (ग्रा०) । मु० - मारणें - १ लात मारना । २ पीछे से धावा बोलकर रसद लूटना । /

पिछाड्या बाधणें - मुक्के

कसना या बांधना ।

पिछेहाट-दे पीछेहाट' । [-सा ।

पिटकुला - वि छोटा, नन्हा

पिटकुलें; पिटकें - न

नन्हा - सा सुंदर प्राणी, वच्चा ।

पिटणें क्रि स १ पीटना,

ठोकना । २ दौडाना, भगाना । ३

(ताली) वजाना । [किचकिच ।

पिटपिट - स्त्री किटकिट,

पिटपिटणें - क्रि अ १ किच-

किचाना, किटकिटाना, पिन-

पिनाना । २ पीछे पडना, हैरान

करना । - क्रि स मिचकाना,

झपकाना । [वजवाना (डौंडी) ।

पिटविणें - क्रि स पिटवाना,

पिटाळणें - क्रि स १ निकाल

देना, खदेडना, भगा देना ।

२ दौडाना ।

पिटकुलें - दे 'पिटकुले' ।

पिट्टा पिट्ट्या - दे 'पिट्ट्या' ।

पिठले - न वेसन, वेसन की कढी । [मदिरालय ।

पिठा - पु शरावखाना,

पिठाळ - वि पिलपिला,

पिचपिचा, जिसमें आटा लगा हो ।

पिठी - स्त्री १ चावल का

आटा । २ मैदा; बहुत वारीक

आटा । ३ पानी में पकाया हुआ

आटा । - वि पिसी हुई ।

-साखर - स्त्री बूरा, पिमी हुई

महीन चीनी ।

पिठुळणें - क्रि अ १ पिल-

पिला, फुसफुसा बनना । २

गदराना, पकने को होना ।

पिठूर - वि सफेद, आटे की

तरह सफेद और साफ (चाँदनी) ।

पिठुळ - वि १ भुरभुरा,

फुसफुसा । २ गीला, पनीला,

सीठा । ३ आटे की तरह मुलायम ।

पिठोरी - स्त्री श्रावण की



अमावस्या और उस दिन का व्रत ।

पिठघा, पिठ्ठ्या - वि १ दे.

‘पिठ्ठू’ । २. साधारण मेहमान ।

मु०-पाडणे - १. रटना;

घोखना । २ पूरा करना, खत्म

करना । ३ पदाना, परेशान

करना । [यत्रणा, सताना ।

पिडणुक - स्त्री परेशानी,

पिडणें - क्रि स पीडा

पहुँचाना, सताना, तग करना,

दुख देना, परेशान करना । - क्रि

ध सताया जाना; दुख पाना,

परेशान होना ।

पिडा - स्त्री १ पीडा,

तक्लीफ, कष्ट । २ ऐसा व्यक्ति

जिससे दुख पहुँचे, आफत का

परकाला । [आसन । २. पीछा ।

पिडा - पु १. पीडा; चीकी,

पिढी - स्त्री पीढी, पुस्त ।

- जात - वि १ कुलीन, ऊँचे कुल

का । २ पुस्तैनी, पतृक, परपरा-

गत । - दर पिढी, - न पिढी -

अव्य पीढी - दर - पीढी,

पुस्त - दर-पुस्त, पुस्त - व-पुस्त,

कई पीढियों से । मु०-ला पाय

लावणें, - ला लाया मारणें -

१ अपनी कुलमर्यादा का त्याग

करना, परपरा के विरुद्ध विद्रोह

करना । २ कर्ज चुकाते समय

मूलधन भी न देना । पिढ्या

तुटणें - दो घरानों के सवध का

टूट जाना, दो कुलों में सात पीढियों

का अंतर पडना ।

पिढें - न १ दे ‘पिडा’ । २.

घर न और खमे के बीच की

लकड़ी । ३ चरखे की बैठक । ४.

लट्ठा, कुदा ।

पिढघान् पिढघा; पिढघान्

पिढघा - दे ‘पिढी दर पिढी’ ।

पिणें - क्रि स १. पीना;

पान करना । २. गटकना, निग-

लना । ३ कश लगाना, सिगरेट

आदि का धुआँ खीचना । ४

सोखना, जज्व करना । ५ पी

जाना, वर्दाश्त करना ।

पितर - पु बहु १ पितर,

मृत पूर्वज, पुरखे । २ प्रेतत्व से

छूटे हुए पूर्वज जिन्हें पिडा-पानी

दिया जाता है । - पंधरवडा, -

पक्ष, - पाख-ट - पु पितृपक्ष,

आश्विन (महाराष्ट्र में भाद्रपद)

का कृष्णपक्ष जिसमें पितृकृत्य

करना प्रशस्त माना गया है । मु०-

उद्धरणे - गदी गालियाँ देना,

पूर्वजो या माँ बाप का नाम लेकर

गालियाँ देना, कोसना ।

पितरें - न बहु १ माता-

पिता, माँ-बाप, वालिदेन । २

दे ‘पितर’ ।

पितळ - न पीतल (एक उप-

धातु) । पितळेंचें कीट न

पुप्पाजन । मु० - उघडें पडणें,

- बाहेर निघणें, पडणें - कलई

खुलना, पोल खुलना, असलीयत

का प्रकट हो जाना ।

पितळी - वि पीतल का । -

स्त्री छोटी परात, पीतल की

थाली ।

पितावर - पु १ पीतावर,

पटवर, पाटवर, विशेष प्रकार

की रेशमी बोती जिसे हिन्दू पूजा-

पाठ तथा सस्कार आदि के समय

धारण करते हैं । २ पीला वस्त्र ।

पितावरी - स्त्री हलका, छोटा

पीतावर । दे ‘पितावर’ ।

पिता - पु पिता, बाप, जनक,

बालिद ।

पितामह - पु १. पितामह;

दादा । २ पितर । ३ ब्रह्मा । ४.

भीष्माचार्य ।

पितामही - स्त्री पितामही;

दादी ।

पितृ - पु १ दे. ‘पिता’ । २

मरे हुए पुरखे, पूर्वज । - ऋण -

न पितृऋण, एक प्रकार का

शास्त्रोक्त ऋण जिसमें मनुष्य पुत्र

उत्पन्न करने पर और श्राद्धादि

करने से मुक्त होता है, पुत्र के

कर्तव्य । - पक्ष - पु. पितृपक्ष,

दे ‘पितरपक्ष’ ।

पित्त - न १ पित्त (शरीर

के तीन प्रसिद्ध दोषों में से एक) ।

२. क्रोधशीलता, तमोगुण ।

- कारक - वि पित्तकर, जो

पित्त उत्पन्न करे, बढ़ाये । - क्षोभ -

पु पित्तक्षोभ, पित्तप्रकोप, पित्त

का बढ जाना या कुपित हो जाना ।

- ज्वर - पु. पित्तज्वर, पित्त के

प्रकोप से होने वाला ज्वर ।

- पापडा - पु पित्तपापडा पित्त-

पापडा; एक क्षुप जो दवा के काम

आता है । - प्रकृति - स्त्री शरीर

में पित्त की प्रधानता होना । - वि

पित्तप्रकृति, जिसके शरीर में

पित्त की प्रधानता हो । - प्रकोप -

दे ‘पित्तक्षोभ’ । मु० - उसळणें,

खवळणें, चढणें, भडकणें - पित्त

उबलना या खौलना, बहुत क्रोध

आना । [ पित्त, पित्त की थैली ।

पित्ताशय - पु पित्ताशय,

पित्त्या - पु १ पिठ्ठू,

अनुगामी (निंदा), खुशामदी ।

२ खेल का साथी, किसी खिलाडी

का वह कल्पित साथी जिसके

स्थान पर वह अपनी बारी समाप्त

कर फिर खुद ही खेलता है ।

पिनलकोड - न [अं] दड -

सहिता, मजमूआए ताजीरात,

जावितए फौजदारी ।

पिपाणी - स्त्री पपैया,

पोपली, केले आदि के पत्ते अथवा कागज को लपेट कर या अमोले की जड में लगी गुठली को घिसकर बनायी जाने वाली एक प्रकार की सीटी। [की बोली]।

पिपी - छी मातृस्तन (बच्चे पिप्पाणी दे 'पिपाणी')।

पिरगळणे, पिरगाळणें, पिर-गळणें, पिरगाळणे - क्रि स १ ऐठना, मरोडना। २. बल देना।

पिरपिर, पीरपीर - छी १. पिनपिन। २. किट-किट, किचकिच। ३. रिमझिम।

पिरपिरणें - क्रि अ पिनपिनना, बच्चे का नकिया कर और अस्पष्ट स्वर मे रुक रुक कर रोना। २. किचकिचाना, किट-किटाना।

पिरपिच्या - वि पिनपिनहां।

पिलू - न १ (पशूचे) बच्चा, छौना, शावक। २ (पक्ष्याचे) चकुला; चेटुआ। ३ (कुत्र्याचे) पिल्ला।

पिलू - पु १ पीलू, कोकण में होने वाला एक वृक्ष, गुडफल। २ पीलू, एक राग।

पिल्लू - दे. 'पिलू'।

पिवडी - छी पीली मिट्टी।

पिवळट, पिवळसर - वि पीताभ, बसती, धानी, हलका पीला, पीलापन लिये हुए; पीला-सा।

पिवळा - वि पीला, जर्द, हलदी के रंग का, चपई। - अभ्रक - पु पीला भोडर, अभ्रक। - चटक - वि गहरा पीला। - चाफा - पु. पीला चपा, सोनचपा, सुवर्ण चपक। - जरब, - जर्द, - धमक - वि गहरा पीला। - घोतरा, -

घोत्रा - पु. पीला घतूरा, भडभांड। दे. 'पिवळी', 'पिवळें'।

पिवळी - वि पीली, पीले रंग की। - कौराटी - छी पीली कटसरैया। - छाया - छी बीमारी आदि के कारण आने वाला पीलापन। - जुई - छी पीली जुही, सोनजुही। - पगडी - पु छी बवई की पुलिस, पुलिस का आदमी। दे 'पिवळा', 'पिवळें'।

पिवळें - वि पीला, जर्द। दे. 'पिवळा-ळी'। मु० - करणें - हलदी चढाना, विवाह कर देना। - होणें - हलदी उठना, चढना, हलदी का हाथ होना, विवाह होना।

पिशवी - छी [क. 'हशिवि'] १ धैला, धैला, झोला, झोली। पित्ताशय, पित्तकोष।

पिशा - दे. 'पिसा'।

पिशाच - न पु. १ पिशाच, प्रेत, भूत, जिन, जिन्न। २ दुष्ट मनुष्य। - बाधा - छी पिशाच-बाधा, प्रेतबाधा, भूतावेश। - भाषा - छी पिशाच भाषा, पैशाची। - लिपि - पी-छी मोडी (मराठी भाषा की एक पुरानी लिपि)। - विद्या - छी १ भूत-विद्या, आयुर्वेद का वह विभाग जिसमें पिशाच आदि की बाधा से उत्पन्न रोगों का इलाज बताया गया है। २ ओझाई, झाड-फूंक। - विवाह - पु. पैशाच, एक प्रकार का हीन विवाह जिसमें किसी सोयी हुई या प्रमत्त कन्या का कौमार हरण करने वाला उसके पतित्व का अधिकारी हो जाता है। कहा. पिशाचान्या

हातीं कोलित - पिशाच के हाथ में लुआठी (जलती हुई लकड़ी), एक तो नागिन और पख लगायी, बुरे आदमी के हाथों में अधिकार या सामर्थ्य का आ जाना।

पिशाच्च - दे 'पिशाच'।

पिशाब - पु छी [फा. 'पेशाब'] पेशाब, मूत्र।

पिशुलोद - पु काष्ठकर्पूर, 'सेल्यू-लाइड'।

पिष्ट - न पिष्ट, आटा। - पेवण - न पिष्टपेवण, पिसे हुए को पीसना, निरर्थक कार्य, श्रम करना, एक ही बात को बार-बार कहना। [रना, फैलाना।

पिसकारणें - क्रि स बिखे-पिसणावळ - छी पिसाई, पिसने की उजरत।

पिसणी - छी १ पिसाई। २ फेंट, फेंटने की क्रिया या बारी (ताश)।

पिसणें - क्रि स १ पीसना, चूर्ण करना। २ फेंटना, गड्डमड्ड करना (ताश)।

पिसा - वि पागल, पगला, विक्षिप्त। - पु. हथौडे का गोल सिरा।

पिसाट - न दे 'पिशाच'। - वि १ पागल। २ भूताविष्ट, जिसे भूत लगा हो।

पिसाटणें - क्रि अ १ पिशाच-बाधा होना, भूताविष्ट होना। २ पागल, उन्मत्त बनना।

पिसाब - दे. 'पिशाब'।

पिसारा - पु. १ परो, पखों का समूह, मोरपख। २ बाण के दूसरे सिरे पर लगाये हुए पर।

पिसाळणें - क्रि अ १ पागल होना, बौराना, वावला होना। २ गुस्से से पागल होना। ३

पिशाचवाधा होना । मु पिसाळून सोडणें - हैरान करना, नाको दम करना । [ पागल ( कुत्ता ) ।

पिसाळलेला - वि हडकाया, पिसू - छी पिसू (कीडा) । पिसें - न पागलपन । २ पिशाचवाधा ।

पिसोळा - यु उडने वाला और काटने वाला एक लाल कीडा ।

पिस्ता - यु [ फा ' पिस्त ' ] पिस्ता (मेवा) ।

पिस्तुल, पिस्तूल - न [ अ ' पिस्तोल ' ] पिस्तूल, तमचा ।

पिहू - न पिउ, कूक, कोयल की बोली ।

पिळकणे - क्रि अ चिरकना, थोडा-सा पतला पाखाना करना ।

पिळणूक - छी ओपण, किसी के श्रम से या व्यापार आदि से अनुचित लाभ उठाना, स्वार्थ-साधन, चूसने की क्रिया ।

पिळणें - क्रि स १ ऐंठना, मरोडना, वल देना, डालना । २ निचोडना, गारना । ३ चूसना, शोषण करना, स्वार्थ - साधन करना ।

पिळदार - दे. ' पीळदार ' ।

पिळपिळीत - छी १ पिल-पिला, पिचपिचा, वोदा । २ ढीला-ढाला, ढुलमुल । ३ कम-जोर ।

पिळवटणें - क्रि स मरोडना, ऐंठना, वल देना, डालना, वटना । -क्रि अ (दिल) भर आना, दुखी होना ।

पिळा - यु १ दे ' पीळ ' । २ निचोडा हुआ कपडा जिसमे वल पडा हो । २ दे ' आळेपिळे ' ।

पिळू - दे ' पेळू ' । पी - वि पीने वाला (समा-

सात मे) [ मद्यपी = मद्य, शराव पीने वाला ] । [ 'पिकदाणी ' ।

पीक, पीकदाणी - दे. 'पिक'; पीक - न फसल; उपज, खेती

की पैदावार । २. गल्ला, अनाज । ३ किसी चीज की पैदावार, उपज । - पाणी - न फसल और वर्षा, खेती की आम हालत ।

- पाहणी, - पाहाणी - छी अकाई, कनकृत, खडी फसल का कूता जाना । मु० - जळणे - अत्यधिक गरमी से फसल का जल जाना, सूख जाना । [ कोकिल ।

पीक - यु पिक, कोयल, पीछेहाट - छी [ हि 'पीछे' + 'हटना' ] हार, अपयान, पश्चगमन; पीछे हटना, मोर्चा छोडना ।

पीठ - न १ आटा, पिसान । २, चूर्ण, वुकनी, सफूफ ।

पीठ - न १ पीठ, आसन, पीढा । २ स्थान, आलय । ३ ब्रतियों के बैठने का आसन (जैसे- कुशासन) ।

पीठिका - छी १ परपरा, कुल-परपरा, वश । २ पृष्ठभूमि, भूमिका, वुनियाद ।

पीडणे - क्रि स १ पीडा देना, सताना, हैरान करना । २ दवाना, चांपना ।

पीडा - छी १. पीडा, शारीरिक या मानसिक कष्ट, व्यथा, दर्द । २ झझट, परेशानी । ३ बला, आफत । ४ पिशाचवाधा ।

पीत - वि. पीत, पीला, जर्द ।

पीतावर - दे ' पीतावर ' ।

पीप - न [ पुर्त ' पिपा ' ] पीपा, काठ या लोहे का ढोल के आकार का एक बडा पात्र ।

पीयूष, पीयूष - न यु १ पीयूष, अमृत । २. छाछ, लस्ती ।

३ पानी । ४ दे ' चीक ' ।

पीस - न पर, पख, डैना । - छी धान के पींचे में लगने वाला एक कीडा ।

पीळ - यु १ ऐंठन, मरोड, वल । २ अकड, ऐंठ, तनाव, घमड, हठ, गांठ (मन की) । - दार - वि १ मरोडदार, जिसमें अच्छा वल पडा हो । २. ऐंठदार, गर्वीला, घमडी । - ०मिशा - छी मरोडदार मूँछें । - ०शरीर - न गठा बदन, गठीला शरीर ।

पिळाचा वाळा - यु वच्चो के पैर का ऐंठनदार कडा । मु० - पडणें - १ वल पडना, शिकन आना । २ मनमुटाव होना, तनना, अकडना, ऐंठना, मन में गांठ पडना, दिल में वैर, बुराई पैदा होना ।

पु - यु १ पु, पुरुष, पुर्लिंग शब्द, २ पुर्लिंग (व्या०) । - केसर - यु पु ततु, पुकेशर, पुकेसर, फूल के बीच का सीका या रेशा जो स्त्रीकेसर के चारो ओर रहता है ।

पुगळी - छी चोगा, पोंगा, चोगी, पोगी, कागज आदि की वनी हुई नली ।

पुगी - छी तुमडी, तूमडी, सूखे कदडू से बनाया जाने वाला एक वाजा जिसे संपेरे वजाते हैं । - वाला - यु १ संपेरा । २ तुमडी वजाने वाला । मु - ब्रद करणें - बोलती वद करना, चुप कर देना ।

पुंज - यु १ पुज, राशि, डेर, अटाला । २ समूह; भीड ।

पुजका - यु १ गुच्छ, गुच्छा, झव्वा, फुंदना । २ दे ' पुज ' ।

पुंजा - यु १ हथेली पर लपेटे हुए सूत के तार जिनकी सख्या

साठ से ले कर अस्सी तक होती है। २ ढेर, राशि।

पुजाळ - पु. ढेर, राशि, अटाला। - वि चमकदार, जग-मगाता हुआ।

पुजी - स्त्री १ पूंजी, मूलधन, संचित धन, रुपया-पैसा, द्रव्य। २, राशि, ढेर, अटाला। ३ सग्रह, भंडार।

पुंड - वि १ शरारती, ऊधमी, उपद्रवी। २ गुडा। ३. विद्रोही, वागी। - गिरी - स्त्री शरारत, उपद्रव। २ गुडई, गुडा-पन। ३ विद्रोह, वगावत।

पुंडरीक - पु. १ पुंडरीक, श्वेत कमल। २ श्री विट्ठल का एक परम भक्त। - वृक्ष - पु पुंडरिया।

पुडलीक - दे 'पुंडरीक'।

पुडा - पु. गन्ने की एक किस्म, लाल गन्ना।

पुडाई - स्त्री, पुडावा - पु. १ शरारत, उपद्रव, ऊधम। २ गुडई, गुडापन। ३ जुल्म। ४ विद्रोह, विप्लव। मु. - माजविणें - १ उत्पात, ऊधम मचाना, उपद्रव करना। २ विद्रोह, वगावत करना।

पुंश्चली - स्त्री पुंश्चली, वेश्या, कुलटा।

पुसवन - न पुसवन, गर्भाधान के तीसरे मास होनेवाला एक सस्कार।

पुकार - पु. १ पुकार, बुलाना, हँकार, टेर, दुहाई। २ चिल्ला-हट; शोरगुल। ३ चवाव, बुराई की चर्चा। दे 'पुकार'। मु. - पडणें - किसी बात की चर्चा होना, बात फैलना, सब को मालूम होना।

पुकारणें - क्रि स १ पुका-रना, बुलाना, हँकार देना,

टेरना। २ चिल्लाना, जोर-जोरसे कहना। ३ अभिहित करना, निर्देश करना, जारी करना, घोषित करना। ४ कचहरी के चपरासी का मुकदमा पेश होने पर वादी और प्रतिवादी का नाम लेकर इजलास पर बुलाना।

पुकारा - पु. १ दे 'पुकार'। २ शोर, हो-हल्ला। ३ घमड, ऐंठ। ४ फरियाद, शिकायत। मु. - करणे - दे 'पुकारणे'। - होणे - १ पुकारा, बुलाया जाना। २ हँकार पडना, लगना, पुकार या चिल्लाहट मचना।

पुख्खा - पु १ माल, स्वादिष्ठ और तर भोज्य पदार्थ। २ यथेच्छ, यथेष्ट भोजन, अच्छा और भरपूर खाना। मु. - झोडणें - माल उडाना, तर माल खाना, भरपेट भोजन करना।

पुक्कणे - क्रि अ मरना।

पुचाट - वि १ कमजोर, नामर्द। २ पोच, क्षुद्र। ३ खोखला, पोला।

पुचो - स्त्री, पुच्चा, - पु., पुच्ची - स्त्री [क 'पुक्कि'] योनि, चूत, भग, स्त्रियों की जननेंद्रिय (ग्रा०)।

पुच्छ - न पुच्छ, पूंछ। - प्रगति - स्त्री पीछे हटना, पश्च-गमन, अपसरण, अपक्रमण।

पुजणें - क्रि स १ पूजना, पूजा करना। २ सत्कार, आव-भगत करना। ३ आदर करना, सम्मान करना। मु. - पुजून ठेवणें - विना प्रयोग के रखे रहना, इस्तेमाल न करना। पान पुजणें - नाममात्र को, बहुत कम खाना। लोकाचीं घरें, दारें पुजणें - अपने काम के लिए लोगो के पास बार-

वार जाना।

पुजा - दे 'पूजा'।

पुजारी - पु. पुजारी, पूजा करने वाला, किसी देवता की नियमित रूप से पूजा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति।

पुजारीण - स्त्री १ पुजारी की स्त्री। २ पुजारन, पुजारिन।

पुट - न १ पुट, दोना, दोने या कटोरे की तरह का कोई पात्र। २ लेप। ३ पुट, किसी तरल पदार्थ का हलका छीटा, वोर, हलका मेल। ४ कुठाली, भट्ठी। ५ तेज। ६ विवर (जैसे - कर्ण-पुट)। ७ चूर्ण, वुकनी। ८ पुडिया। - पाक - पु १ पुटपाक, औषधियों को पकाने की एक क्रिया। २ कुठाली में सोने को गलाना।

पुटकुळी - स्त्री फुन्सी, छोटी फुडिया। [बुडाना।

पुटपुट - स्त्री भुनभुन, बुड-पुटपुटणें - क्रि अ १ भुन-भुनाना, कुडबुडाना, बुडबुडाना, बडबडाना। २ शिकायत करना।

पुटी - स्त्री पुट, लेप। दे 'पुट'।

पुट्ठा - पु. १ पुट्ठा, चूतड के ऊपर का मासल भाग, घोडो आदि का चूतड। २ घोडो की अदद जताने का शब्द। ३ जिल्द, दपती। ४ ढकना, बैठन, पुस्तक के ऊपर चढाया हुआ कागज, कापी पर जिल्द की जगह लगाया हुआ कागज, 'कवर'। ५ दल, गुट। पुट्ठ्यातील - वि दल या गुट का, जिसपर विश्वास हो।

पुडका - पु., पुडकें - न १ पुलिदा, बडल। २ पुडा, बडी पुडिया।

पुडा - पु. १ पुडा, बडी पुडिया। २ पुल्लिदा, गट्टर, वडल। ३ पुडी, ढोल, मृदंग, तबला आदि मढने का चमडा।

पुडी - स्त्री १ पुडिया, वह कागज या पत्ता जिसमें कोई दवा या अन्य वस्तु लपेट कर रखी गयी हो। २ सन्यासी का भोजन; भोजन का निमन्त्रण। ३ पुडी, पूडी, पखवाज आदि के चमडे पर लगाने की स्याही। ४ गुप्त, गोपनीय बात। मु - फुटणें - बात खुलना, छिपी बात का प्रकट हो जाना। - स जाणें - सन्यासी का किसी के यहां भोजन के लिए जाना।

पुढचा - वि १ आगे का, सामने का, अगला। २ वीते समय का, पुराना, पहले का। ३ आगामी, आने वाला, वाद का। - भाग - पु. १ अगवाडा। २ अगला, सामने का हिस्सा। - पुढच्या पुढें - अव्य १ विलकुल सामने। २ सबके आगे। ३ फिर, तब देखा जायगा। फहा० पुढच्यास ठेच मागचा - ला शहाणा - अगला ठोकर खाये पिछला वुध (अकल) पाये, दूसरे के अनुभव से आदमी अकल-मद बनता है।

पुढतीं - अव्य १ पुन, फिर से। २ दे 'पुढें'।

पुढला - दे 'पुढचा'।

पुढा - अव्य दे 'पुढें'।

पुढा - पु. अगला भाग, मुंह की ओर का भाग।

पुढाकार - पु. १ नेतृत्व, अगु-आई। २ पहल। मु - घेणें - १ नेतृत्व करना। २ पहल करना।

पुढारणें - क्रि अ आगे बढ़ना, प्रगति, तरक्की करना।

पुढारलेला - वि प्रगत, अग्र-गति।

पुढारों - अव्य दे 'पुढें'।

पुढारी - पु १ नेता, मुखिया, अगुआ, नायक, सरदार। २ व्यवस्थापक।

पुढील - वि १ दे 'पुढचा'। २ अन्य, दूसरा।

पुढून - अव्य १ आगे से, सामने से। २ पहले से।

पुढें - अव्य. १ सामने, आगे, खबरू। २ वाद में, आगे चल कर, आयदा। ३ मुकाबले में। मु - पाऊल टाकणें - आगे कदम रखना; प्रगति करना। - पाऊल पडणें - प्रगति, तरक्की होना। - पुढें करणें - आगे-पीछे फिरना, खुशामद, चापलूसी करना। - येणें - चमकना, प्रगति करना, मशहूर होना। - वाढून ठेवलेलें असणें - किस्मत, नसीब मे लिखा होना, मकट का आ पहुंचना। कहा० पुढें सपाट माणें पाठ - आगे दौड पीछे चौड (छोड), आगे काम करते जाना और पीछे का खयाल न रखना।

पुढ्यात - अव्य १. आगे, सामने। २ आंचल में, चरणों में।

पुणी - स्त्री पूनी।

पुणेरी - वि पुणे शहर का, पूना का।

पुण्य - न १ पुण्य, सवाव, सुफल, सत्कर्मक (परलोक में मिलने वाला) फल। २ शुभ फल देने वाला कार्य, सुकृत, भलाई। ३ पवित्रता। - तिथि - स्त्री पुण्यतिथि, महापुरुषों का वार्षिक श्राद्ध-दिन, वरसी। - पावन - वि अपनी पुण्याई से औरों को पवित्र बनाने वाला। - पुरुष - पु.

पुण्यपुरुष; धर्मात्मा मनुष्य। - भू, - भूमि - स्त्री पुण्यभूमि, पुण्यभूमि, आर्यावर्त। - वत, - वान - वि पुण्यात्मा, पुण्यशील; धर्मात्मा। - श्लोक - वि पुण्यश्लोक, जिसका चरित्र पावन हो। मु - खरचणें - बुरा काम करना, बुरे काम में फँसना।

पुण्याई - स्त्री १ पुण्याई, पुण्य का प्रताप। २ पुण्य का सचय। ३ सामर्थ्य। मु - खर्च करणें - बडी कोशिश करना, पूरा बल लगाना।

पुण्याहवाचन - न १ पुण्याह-वाचन, किसी धार्मिक कृत्य के आरभ में ब्राह्मण का 'पुण्याह' (शुभ दिन) शब्द तीन बार कहना। २ प्रारंभ।

पुत - पु. पुत्र, बेटा। मु. दावा पुता करणें - समझाना, खुशामद करना।

पुतणी - स्त्री भतीजी।

पुतण्या - पु. भतीजा।

पुतना - दे 'पूतना'।

पुतळा - पु. पुतला, वृत्त, मूर्ती, प्रतिमा, प्रतिकृति।

पुतळी - स्त्री १ पुतली, गुडिया। २ एक पुराना सोने का सिक्का जिसका मूल्य उन दिनों चार रुपये के लगभग होता था, मुहर, स्वर्णमुद्रा (इनकी मालाएँ बना कर स्त्रियाँ गले मे पहनती थी)। ३ दशहरे के-दिन एक दूसरे को दिया जाने वाला कचनार का पत्ता। ४ आँख की पुतली। ५ सुंदर और कोमलागी स्त्री।

पुती - स्त्री सतान। - वि पुत्र-वती, पुत्रवाली। कहा० एकपुती रडती, सातपुती रडती, निपुती रडती - एक पुत्र वाली रोती है, सातपुत्र वाली रोती है और निपूती

भी रोती है, सब के पीछे दुख लगा हुआ है।

पुत्र - पु पुत्र, बेटा। - जीव-  
पु पुत्रजीव, जियापोता, इगुदी  
की तरह का एक पेड़। - बंती -  
स्त्री १ पुत्रवती, पुत्रवाली। २ दे  
'पुत्रजीव'।

पुत्रावण - न पुत्र का मुंह  
देखने की विधि, सस्कार।

पुत्री - स्त्री १ पुत्री, कन्या,  
बटी। २ पुतली; गुडिया।

पुदाणा; पुदिना, पुदीना - पु-  
पुदीना, पोदीना।

पुन - अव्य पुन, एक बार  
और, फिर, फिर से, दुबारा।

- पुन - अव्य १ पुन पुन, बार-  
बार। २ फिरभी। [२ बार-बार।

पुनरपि - अव्य १ पुनरपि।  
पुनरागमन न पुनरागमन,

फिर से आना, लौटना।

पुनरावृत्ति - स्त्री १ पुनरा-  
वृत्ति, दोहराना, दोहराया जाना।

२ फिर से आना, लौटना। ३  
दुबारा जन्म लेना, पुनर्जन्म। ४

अभ्यास। ५ किसी ग्रथ का फिर  
से प्रकाशित होना, नया सस्करण।

पुनरुक्ति - स्त्री १ पुनरुक्ति,  
किसी बात को दुहराना। २ एक

ही बात को बार-बार कहना।

पुनरुज्जीवन - न, पुनरुत्थान  
- न १ पुनरुज्जीवन, पुनरुत्थान;

पुनरभ्युत्थान, पुनरुद्धार। २ ह्म,  
कियामत।

पुनर्घटना - स्त्री पुनर्गठन; पुन-  
निर्माण। [जन्म लेना।

पुनर्जन्म - पु पुनर्जन्म, दुबारा  
पुनर्नवा - स्त्री पु पुनर्नवा,

गदहपुरना (एक बरसाती पौधा)।  
पुनर्विवाह - पु पुनर्विवाह,  
विधवाविवाह।

पुनव - स्त्री पुनो, पूर्णिमा,  
पुनम, पूर्णमासी।

पुनश्च - अव्य. पुनश्च, पुन',  
फिर, दुबारा। [पाक।

पुनीत - वि पुनीत, पवित्र,  
पुन्हा - न्हा - दे 'पुन'।

पुर - न १ पुर, नगर, शहर।  
२ कोट, किला। ३ गृह, घर।

४ अत पुर। [भरा हुआ।  
पुर - अव्य [फा] पुर, पूर्ण,

पुरकर्ण - क्रि अ १ वच्चो का  
मुंह से 'पुर पुर' की आवाज

निकालना। २ चिरकना।  
पुरखाव - पु ज़मीन में गाढा

हुआ खमा। [गठरी।  
पुरचुंडी - स्त्री पोटली, छोटी

पुरण - न. १ पूरन, उबाले  
जाने के बाद गुड मिला कर सिल

पर पीसी हुई चने की दाल। २  
रोटी, पूरी आदि में भरी जाने वाली

गरी, नारियल आदि चीजें। ३  
सोने के पोले कडे आदि में भरी

जाने वाली हलकी धातु। ४ पूरण,  
भरने या भरे जाने की क्रिया।

- पोली - स्त्री उबाल कर गुड  
के साथ पीसी हुई चने की दाल

भर कर बनायी जाने वाली मीठी  
रोटी, पूरनपूरी। पुरणावरणाचा

स्वयंपाक - पु विशेष अवसरों पर  
बनायी जाने वाली मिष्टान्नयुक्त

रसोई।  
पुरणे - क्रि स १ गाडना,  
दफनाना। २ रोपना, जमाना,

लगाना। - क्रि अ १ पूरा  
होना, पर्याप्त होना, यथेष्ट, काफी

होना, पूरा पडना, अंत जाना,  
कमी न होना। २ सतोष पाना।

३ खत्म होना। ४ टिकना, बना  
रहना।

पुरता - वि १ पर्याप्त, काफी।

२ संपूर्ण, पूरा। ३ निष्णात। -  
अव्य. पूरी तरह, भली भाँति,

विलकुल, कतई।  
पुरतेपणीं - अव्य पूरी तरह;  
भली भाँति, अच्छी तरह।

पुरभय्या, पुरभैया - पु १.  
पुरविया, पूरवी देश या प्रात का

निवासी। २ उत्तरप्रदेश का व्यक्ति।  
३ चौकीदार।

पुरवठा - पु १ रसद, पूर्ति,  
सभरण, फराहमी, जोगाड। २

सचय। ३ विपुलता, समृद्धि। मु०  
पुरवठ्यास पडणे - पूरा पडना,

पर्याप्त होना, कमी न होना।  
पुरवणी - स्त्री १ क्रोडपत्र,

पूर्ति, परिशिष्ट। २ दे० 'पुर-  
वठा'। ३ जोड, वृद्धि। - वि

पूरक (प्रश्न आदि)। - चा - वि  
पर्याप्त, पूरा पडने वाला।

- परीक्षा - स्त्री पूरक, अनुपूरक  
परीक्षा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की

फिर से ली जाने वाली परीक्षा।  
- प्रश्न - पु पूरक प्रश्न। - वाचन -

न पूरक पठन।  
पुरवणे - क्रि अ १ स्वीकार,

मजूर होना, बेहतर होना। २  
समाना। - क्रि स. दे० 'पुरविणे'।

पुरविणे - क्रि स जोगाड  
करना, रसद पहुँचाना, फराहम

करना, मुहैया करना। २ पूरा  
करना, पूर्ति करना। ३ पुराना,

इस प्रकार बाँटना कि कोई बिना  
पाये न रहे, अँटाना। ४ इस

प्रकार खर्च करना कि अधिक समय  
तक चल सके। ५ देना, ध्यान

देना। ६ रखना। - क्रि अ दे  
'पुरवणे'।

पुरव्या - वि १ देने वाला,  
मुहैया करने वाला। २ सेवक,

नीकर।

पुरशीस छी [फा 'पुसिश']  
१ पुरसिश, पूछ - ताछ, खोज-  
खबर । २ जांच । ३ अर्जी । ४  
जवाब ।

पुरस्कृता - वि १ समर्थक,  
हिमायती, अधिवक्ता । २ नेता,  
मुखिया ।

पुरस्करणे - क्रि स १ सम-  
र्थन करना । २ पुरस्कार करना,  
सम्मान करना ।

पुरस्कार - पु १ समर्थन,  
स्वीकार, अनुमोदन, स्वीकृति,  
हिमायत । २ पुरस्कार, सम्मान ।  
३ वढावा, पुष्टि ।

पुरस्कारिणें - दे 'पुरस्करणे' ।

पुरस्सर - वि १ पुरस्सर,  
आगे चलने वाला, अग्रगामी । २  
साथ, सहित, समेत (समास मे)  
[हेतुपुरस्सर = जानबूझ कर] ।

पुरळ - पु १ फुसियाँ । २  
अगूर (भरते हुए धाव के लाल  
दाने) ।

पुरा - वि १ पूरा, समूचा,  
सपूर्ण, मुकम्मल । २ समाप्त;  
खत्म । ३ जिसमें कोई कोरकसर,  
न्यूनता न हो, अन्यून । ४ निपुण,  
निष्णात । ५ पर्याप्त, काफी । -  
अव्य. १ पूर्णतया, पूरी तरह ।  
२ भली भाँति । मु०-करणे - १  
पूरा करना । २ समाप्त करना ।  
३ अमल में लाना । -होणें - १  
पूरा होना । २ समाप्त, खत्म  
होना । ३ मर जाना, मारा जाना ।

पुरा - पु १ पुरा, वस्ती,  
मुहल्ला । २ उपनगर ।

पुराण - न १ पुराण, प्राचीन  
वृत्तात, प्रसिद्ध हिंदू धर्मग्रंथ ।  
२ रामकहानी, उवाने वाली बातें,  
तूमार । - वि पुराण, पुराना,  
प्राचीन । - पुरुष - पु १ पुराण-

पुरुष, ईश्वर । २ वृद्ध मनुष्य ।  
३ दकियानूसी आदमी । -मतवादी  
- वि पुराणपथी, परपरानिष्ठ,  
लकीर का फकीर । - वस्तुसशोधक  
- पु पुरातत्त्ववेत्ता, पुरातत्त्वज्ञ,  
पुरातत्त्वविद् । - वस्तुसशोधन -  
न पुरातत्वान्वेषण । - ० शास्त्र -  
न पुरातत्त्व । - वस्तुसशोधनात्मक-  
वि पुरातत्त्ववीय, पुरातत्त्वसवधी;  
पुरातात्त्विक । कहा० पुराणां-  
तलीं वागीं पुराणात - कथा  
के वगन कथा में, जहाँ की बात  
वही तक सीमित होती है, एक ही  
तत्त्व सभी जगह चरितार्थ नहीं  
होता । [२ जीर्ण-शीर्ण ।

पुराणा-वि १ पुराना, प्राचीन ।

पुराणीक - पु १ पुराणवाचक,  
कथावाचक । २ पुराणों मे पारगत  
ब्राह्मण ।

पुरावा - पु १ सबूत,  
सुबूत, प्रमाण, साक्ष्य से सिद्धि । २  
साक्ष्य, गवाही । ४ मदद; सहा-  
यता । ४ दे 'पुरवठा' ।

पुरी-ञ्ची पुरी, नगर; शहर ।

२. जगन्नाथपुरी । - पु. दशनामी  
सन्यासियों का एक भेद; पुरी ।

पुरी - छी पूरी, पूड़ी ।

पुरुष - पु १ पुरुष, मर्द, नर ।  
२ वालिग आदमी । ३ पति,  
शौहर । ४ ऊँचाई या गहराई की  
एक माप जो पुरुष या १२०  
अंगुल के बराबर होती है, पुरसा ।  
-भर, - भर उचीचा-वि पुरसा-  
भर, आदमकद, मनुष्य की  
ऊँचाई का ।

पुरुषार्थ - पु १ पुरुषार्थ,  
पौरुष, साहस, बहादुरी, पराक्रम ।  
२ मनुष्य के जीवन का प्रधान  
उद्देश्य ।

पुरे - अव्य. वस, काफी है ।

-पूर - अव्य. वि पूरी तरह, भर-  
पूर, काफी । -सा, -सँ-वि यथेष्ट;  
पूरा, पर्याप्त, काफी । मु०-पुरे  
करणें - नाक में दम करना,  
हैरान करना । - वाट होणे - १  
हैरान होना, नाक में दम होना । २  
लोटपीट हो जाना । - होणें - १  
पर्याप्त होना । २ थक जाना ।

पुरेत - क्रि अ बहु पर्याप्त है,  
काफी है ।

पुरोगामी - वि १ प्रगतिशील;  
तरक्की - पसद । २ पुरोगामी;  
आगे - आगे चलने वाला ।

पुलकित - वि पुलकित, रोमा-  
चित, जिसे रोमाच हुआ हो,  
हृष्ट, प्रसन्न ।

पुलाव-वा - पु [फा 'पलाव']  
पुलाव, एक प्रसिद्ध खाद्य जो  
गोश्त और चावल से बनता है ।

पुलिन-न १ पुलिन, नदी में  
पड़ी हुई रेत । २ वालुका तट । ३  
नदी के पाट में बना नया टापू ।

पुल्लिग - न पुल्लिग, मुजक्कर  
(व्या०) । [पुरुषवाचक, मुजक्कर ।

पुल्लिगी - वि पुल्लिग,  
पुवळणें, पुवाळणें - क्रि अ पीप,  
मवाद भर जाना, सडना ।

पुष्करणी - दे 'पुष्करिणी' ।

पुष्करमूल - छ-न पुष्करमूल,  
कूट नाम की औषधि, कमल की  
जड़ । [प्रसिद्ध रत्न] ।

पुष्करराज - पु. पुष्करराज (एक  
पुष्करिणी, पुष्करणी - छी १  
पुष्करिणी, कमलयुक्त जलाशय,  
पानी का हौड । २ सीढियों वाला  
कुआँ ।

पुष्कळ-वि १ पुष्कळ, बहुत,  
कई, बहुतेरा, भरपूर, प्रभूत ।  
२ काफी, पर्याप्त । ३ श्रेष्ठ । ४  
लाभदायक । -दा, - वेळा - अव्य

कई दफा, अनेक बार । -सा, -सैं-  
अव्य बहुत कुछ, कई ।

पुष्ट - वि १ पुष्ट, पोषित ।  
२ मोटा-ताजा, तगडा । ३ मजबूत ।

पुष्टि-स्त्री १ पुष्टि, समर्थन,  
हिमायत । २ पोषण, वृद्धि,  
मोटापन, तगडापन । -पत्र - न  
१ आवरण, ढकना, वेठन;  
'कवर' । २ दफती । - मार्ग -  
पु. पुष्टिमार्ग, वल्लभ संप्रदाय ।

पुष्टीकरण - न पुष्टीकरण,  
समर्थन, हिमायत, तस्दीक ।

पुष्प - न १ पुष्प; फूल । २  
स्त्री का रज । ३ आँख का एक  
रोग । ४ गर्भाशय । - गुच्छ - पु.  
गुलदस्ता; फूलों का गुच्छा । -  
वृष्टि - स्त्री १ पुष्पवृष्टि, फूलों  
की वर्षा । २ गालियों की  
वोछार ।

पुसट - वि १ धुंधला,  
अस्पष्ट । २ किंचित्, थोडासा ।

पुसटता - वि थोडा-सा;  
सरसरी ।

पुसणारा - वि पूछने वाला ।

पुसणें - क्रि स १ पूछना;  
प्रश्न करना । २ पूछ-ताछ, पूछ-  
ताछ करना, खोज-खबर लेना । ३.  
आवभगत, सत्कार करना । ४  
हुकम, आज्ञा मानना, (वात)  
सुनना । मु० पुसता सोय नसणें -  
वेहद होना ।

पुसणें - क्रि स १ पोछना,  
झाडना, साफ करना । २  
मिटाना - । क्रि अ मिटना, पोछा  
जाना ।

पुसणें - न झाडन, झाडने के  
काम आने वाला कपडा । २  
अँगोछा; तौलिया ।

पुसता - वि १. पूछने वाला ।  
२ जवाब तलब करने वाला ।

पुस्त - पु. [फा. 'पुस्त']  
पुस्त, पीढी ।

पुस्तक - न पुस्तक, ग्रथ,  
किताव । -विक्या, -विक्रेता - पु.  
पुस्तकविक्रेता, कुतुबफरोश,  
कितावों का दुकानदार ।

पुस्ती - स्त्री १. सुलेखन का  
नमूना, 'कापी' । २ कापी को  
देखकर बच्चों द्वारा किया गया  
सुलेखन । ३ जोड, वृद्धि, ४  
मजबूती के लिए लगाया हुआ  
पैवद । मु० - जोडणें - जोड देना,  
बढाना ।

पुठकणें - क्रि अ चिरकना ।  
पुठका - पु. उमग; जोश, प्रेम  
आदि का आवेग ।

पुठण - न स्त्री दे 'पुलिन' ।

पुठपुठित - वि १ पुलपुला,  
पिलपिला । २ नीरस, वेमजा,  
सीठा । ३ ढुलमुल, अनिश्चित,  
डाँवाडोल । ४ डरपोक,  
कायर ।

पुठ्ठा - पु. पूला, मुट्ठा ।

पुठ्ठी - स्त्री १. फुसी,  
२. फुडिया । ३ मुँहासा । मु० - चे  
फापट करणें - तिल का ताड  
वनाना ।

पू - पु. १ पीप, मवाद,  
पीव । २ आँख का मैल, कीचड ।

पूग - पु. पूग, सुपारी का पेड ।  
- न सुपारी (फल) ।

पूगीफल - न पूगीफल,  
सुपारी । [वाला, उपासक ।

पूजक - वि पूजक, पूजा करने

पूजणें - क्रि स १ पूजना,  
पूजा करना । २ दे० 'पुजणे' ।

पूजा - स्त्री १ पूजा, अर्चन,  
परस्तिश, इवादत । २ पूजा की  
सामग्री । ३. सत्कार, आवभगत,  
सभावना । ४ ताडन, पिटाई,

फटकार । ५ रिश्वत, घूस ।  
- अर्चा - १. स्त्री १ पूजा -  
उपासना । २ डाँट - फटकार ।  
३ रिश्वत । मु० - करणें - १  
पूजा करना । २ फटकारना,  
आडे हाथों लेना । ३ पीटना,  
मरम्मत करना । - वाघणें -  
देवता की मूर्ति को फूलों आदि से  
सजाना, सँवारना, सिंगारना ।

पूज्य - वि पूज्य, आदरणीय,  
पूजनीय ।

पूज्य - न १ शून्य, सिफर ।  
२ अनुस्वार, विदी । ३ अभाव ।  
मु० नावानें पूज्य असणें - पूरा  
अभाव होना ।

पूड - स्त्री १ चूणं, बुकनी,  
सफूफ । २ दे० 'पुडी' ।

पूत - पु. पूत, पुत्र, बेटा;  
लडका । - वि पूत, पवित्र, शुद्ध ।  
पूतना, पूतना माचशी - स्त्री  
पूतना ( एक प्रसिद्ध राक्षसी ) ।

पूर - पु. १ बाढ, जल-  
प्लावन, पानी का रेला । २ बहु-  
तात, बहुतायत, रेल-पेल, रेल-  
ठेल; वृद्धि, अधिकता, विपुलता ।  
- न दे० 'पुर' । मु० - चढणें,  
- यणें - १ बाढ आना । २ बहु-  
तायत होना ।

पूरक - वि पूरक, पूरा करने  
वाला, पूर्ति करनेवाला, अनुपूरक ।

पूर्ण - वि १. पूर्ण, भरा हुआ ।  
२ समूचा, पूरा, समग्र । ३  
सफल । ४ तृप्त । ५ समाप्त,  
खत्म । ६ कुशल, माहिर ।  
- काम - वि पूर्णकाम, जिमकी  
सभी इच्छाएँ पूरी हो चुकी हों,  
परितुष्ट । - पणें - अव्य पूर्ण-  
तया, पूर्णरूप से, पूरी तरह,  
अच्छी तरह । मु० - करणें - पूरा  
करना ।



पूणांक - पु. १ पूणांक, पूरी मर्या, अविभक्त मर्या ( ग० ) । किसी प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित अंक ।

पूर्णाहुति - स्त्री १ पूर्णाहुति, वह आहुति जिससे होमकर्म समाप्त किया जाता है । २ युद्ध में मृत्यु, खेत रहना, बलिदान । ३. किसी कार्य का वह अंग जिससे वह पूर्णता को प्राप्त हो ।

पूर्णिमात - वि पूर्णिमात; पूर्णिमा में समाप्त होने वाला ( महीना ) । - मास - पु. कृष्णा प्रतिपदा से शुक्ला पूर्णिमा तक का महीना । [ मासी, पूनी ।

पूर्णिमा - स्त्री पूर्णिमा, पूर्ण-पूर्तता - स्त्री १ पूर्ति, पूरा करने की क्रिया । २ समाप्ति । दे० ' पूर्ति ' ।

पूर्ति - स्त्री - स्त्री १ पूर्ति, पूरा करने की क्रिया । २ समाप्ति, खात्मा । ३ तृप्ति, सतोष ।

पूर्व - स्त्री पूर्व, पूरव ( दिशा ), मशरिक । मु० पूर्वोचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें - सूरज का पश्चिम से निकलना, असभव बात का हो जाना । कहा० राजा करील ती पूर्व - राजा जो चाहे कर सकता है ।

पूर्व - वि १ पूर्व, पहला, पहले का, प्रथम । २ आगे का, प्राचीन । ३ पिछला, पीछे का । ४ पहले कहा हुआ । - कथा - स्त्री पूर्वकथा, सदर्म के लिए कहा हुआ किसी धारावाहिक कहानी का पूर्व भाग । - कालवाचक - वि पूर्व-कालिक ( व्या० ) । - ग्रह - पु. पूर्वग्रह, वदगुमानी, ताम्बुव, पूर्व निर्णय, पूर्वनिष्कर्ष, पूर्वधारणा । - ऽद्विपित - वि पूर्वद्विपित, पूर्व-

ग्रहमय; पक्षपातयुक्त । - ज - पु. पूर्वज, पुरखा । - नियोजित - वि पूर्वआयोजित; पूर्वयोजित, पहले से सोचा हुआ । - पक्ष - पु. १ पूर्वपक्ष, शास्त्रविचार में पहले पेश किया गया विचार । २ विवाद या अभियोग में वादी की प्रतिज्ञा या नालिश, मुद्दई की फरियाद । ३ सिद्धांत, प्रमेय । ४ महीने का पहला पखवाडा ( दक्षिण भारत में शुक्लपक्ष और उत्तर भारत में कृष्णपक्ष ) । - पीठिका - स्त्री १. पूर्वपीठिका; पहली पीठिका, भूमिका । २ चली आयी परपरा, पिछला इतिहास । ३ पूर्ववृत्त, पहले का चरित्र या आचरण । - पुरुष - पु. पूर्वपुरुष, पुरखा, दादा, परदादा आदि । - रात्र - स्त्री पूर्वरत्र, रात्रि का पूर्व भाग । - रूप - न १ पूर्व-रूप, पहले वाला रूप । २ रोग का आरंभिक लक्षण । - वत् - अव्य. पूर्ववत्, पहले की तरह । - वृत्त - न , - वृत्तात - पु १ पूर्ववृत्त, पुराना वृत्तात । २ पहले का चरित्र या आचरण । - समुद्र - पु पूर्वसागर, पूर्वी समुद्र । - स्वस्तिक - न पूर्व दिशा में क्षितिज का मध्य-विन्दु ।

पूर्वापर - वि पूर्वापर, अगला और पिछला, पहले का और बाद का । - अव्य १ पहले और बाद में । २ शुरू से अंत तक ।

पूर्वापर - अव्य १. पुराने जमाने से, प्राचीन समय से, शुरू से । २ दे ' पूर्वापर ' ।

पूर्वाम्यास - पु पूर्वाम्यास; पहले का अम्यास, पुरानी आदत ।

पूर्वार्ध - पु. पूर्वार्ध, पूर्वार्ध; दो बराबर भागों में से पहला भाग ।

पूर्वास्पृश्य - पु अद्वैत, जो पहले अस्पृश्य था ।

पूर्वी - अव्य. १ पहले, पेशतर । २ पुराने जमाने में । - च - अव्य पहले ही, पहले से । - चा - वि १ प्राचीन, पुराना । २ पहले का । - पासून - अव्य. पहले से, शुरू में ।

पूर्वोत्तर - वि अगला और पिछला, पहला और बाद का । - अव्य. १. शुरू में और अंत में । २ शुरू से अंत तक ।

पूल - पु पुल, सेतु ।  
पूस - पु [ स्त्रि ] पूस, पीप मास । - लाहणी - स्त्री पीप महीने में भेटों की ऊन कतरने का काम ।

पूस - स्त्री १ पूछ । २ जांच । - गवस - स्त्री १ पूछगछ, पूछताछ । २ जांच-पडताल ।

पृच्छक - पु पृच्छक, पूछने वाला, जिज्ञासु ।

पृच्छा - स्त्री १ पृच्छा, प्रश्न, सवाल । २ पूछताछ ।

पृथक् - वि पृथक्, अलग, जुदा; भिन्न । - जन - पु मूर्ख व्यक्ति । - त्व - न पृथक्त्व, भिन्नता, अलहदगी । [ विश्लेषण ।

पृथक्करण - न पृथक्करण, पृथगात्मता - स्त्री पृथगात्मता, भेद, विशेष, वैशिष्ट्य, खासियत ।

पृथ्वी; ; पृथिवी - दे ' पृथ्वी ' ।  
पृथु - वि १ पृथु, त्रिस्तीर्ण; चौड़ा, महान्, विशाल । २. मोटा, स्थूल ।

पृथ्वी - स्त्री १ पृथ्वी; धरती, भूमि, ससार । २ एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सत्रह अक्षर होते हैं ।

पृष्ठ - न १ पृष्ठ, पीठ । २ किसी वस्तु का पिछला भाग, पिछाडी । ३ पुस्तक का पन्ना, सफा । ४ किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सतह; तल । - फल - न टोस वस्तु के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल । - वश - पु. पृष्ठवश, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । - ०रज्जु - पु मेरुमज्जा, रीढ़-रज्जु, मेरुरज्जु । पेकट, पेकाड - दे 'पेकट', 'पेकाड' ।

पेंग - स्त्री ऊँध, झपकी । पेंगणें - क्रि अ ऊँधना, झपकना, झपकी लेना, नींद में झूमना । [२ कमजोर । ३ उदास । पेगळा - वि १ ढीला, सुस्त । पेंगुळणें - क्रि अ १ ढीला पडना, सुस्त हो जाना । २. उदास होना, दिल बैठ जाना । ६ दे 'पेंगणें' ।

पेंगूळ - पु. एक कीडा जो अपने शरीर से बदबू छोड़ता है ।

पेंच - पु[फा 'पेंच'] १ पेंच, पेंच, लपेट, मरोड, चक्कर, घुमाव, बल । २ झझट, झमेला, उलझन, समस्या । ३ कुश्ती का दांव । ४ कपट, फरेव, चाल, धोखा । ५ सकट, कठिनाई, मुश्किल, आफत । ६ एक प्रकार की कील जिसमें चूडियाँ बनी रहती हैं, 'स्कू', इस कील की चूडी या चक्कर । ७ समझ, सूझ-बूझ । ८ खूबी । ९ पगडी की लपेट । १० युक्ति, उपाय । - फस - पु. पेंचकश । - दार - वि १ पेंच-दार, उलझन वाला । २ लपेट वाला, चक्करदार । -पट्टी-स्त्री पेंच बनाने का औजार । - पाच - पु. १. दांव-पेंच, छक्का-पजा, छल-कपट । २ दिक्कत, अडचन ।

- पाटी - दे. 'पेंचपट्टी' । - प्रसग-पु. वैधानिक सकट, झिच, गति-रोध, मजबूरी । मु० पेंचात-टाकणें, घरणे, पकडणे - १ झझट, सकट में डालना, उलझाना, असमजस में डालना, किकर्तव्य-विमूढ बना देना । २. बुरी तरह फँसाना, फाँसना ।

पेंठ - दे 'पेठ' ।

पेंठ - स्त्री खली, तेलहन की सीठी । - पु १ लोदा, गीली वस्तु का पिड । २ नारियल के पेड में लगने वाला फूलो का गुच्छा, घोंद । ३ सूजन पर बाँधने की नारियल की गरी । ४ घर की छत पर फैलायी हुई मिट्टी का स्तर । ५ सरेस चिपकाने का डडा । - खजूर-पु. पिडखजूर, गीला खजूर, ताजा खुरमा । मु० (घोडें) - खाणे - १ रुकना, ठिठकना, रुकावट पडना । २ दाल में काला होना ।

पेंडी - दे 'पेंदी' ।

पेंडें - न १ मोतियों का अनेक लड्डियो वाला हार, मोतियों की लड्डियो की माला । २ मुद्धी, फदा ।

पेंढा - पु १. पुआल, पयाल, घास-फूस । २ पुआल का वोझ, गट्ठा, पूला । मु.-भरून ठेवणे - मरे हुए जानवर की खाल में घास-फूस या भूसा भर कर उसे मूल रूप में सुरक्षित रखना ।

पेंढार - न १ लुटेरो का गिरोह, डाकुओं का झुंड । २ लुटेरो का हमला । ३ तनख्वाह के बदले दुश्मन के इलाके में लूटपाट करने की आज्ञा प्राप्त किये हुए लोगो का दल, जो मराठो की सेना के साथ रहता था ।

पेंढारी - पु १ लुटेरा, डाकू ।

२ पिडारी । ३ दे 'पेंढार' । पेंढी - स्त्री पूला; मुट्ठा, जूरी ।

पेंव - दे 'पेव' ।

पेकट-ड, पेकाट-ड - न कमर (निंदा के अर्थ में), कमर का जोड । मु - मोडणे - कमर तोडना, बुरी तरह पीटना ।

पेक्षा - अव्य अपेक्षा, से, वनिस्वत ।

पेच - दे - 'पेच' ।

पेचक - स्त्री पु. १ पीतल का तार । २ वटे हुए महीन सूत की गोली, 'रील' । ३ बादला ।

पेचकट - पु. छपाई में पन्ना कसने का पक्का डोरा ।

पेज - स्त्री १ पसाव, मांड । २ बहुत ही पतला भात ।

पेटका - पु. १ पेशी-सकोचन, झटका, दौरा । २. ऐंठन, मरोड ।

पेटणें - क्रि अ १ जलना, सुलगना, घघकना, भडकना, भभकना । २ बहुत क्रुद्ध होना, आपे से बाहर होना ।

पेटवण - न ईवन, आग सुलगाने के काम आने वाली घास-फूस आदि ।

पेटविणें - क्रि स १ जलाना, सुलगाना । २ भडकाना, उत्तेजित करना ।

पेटा - पु १ पेटा, घेरा, दायरा, वृत्त । २ तहमील का उपविभाग, छोटी तहमील । ३ शेर का वच्चा । ४ कब्जा, अधिकार ।

पेटारा - पु, पेटारी - स्त्री १, पिटारा, पिटारी, वाँस, वेंत आदि की तीलियों का डिब्बा । २ सडूक, बकस । ३ झावा, टोकरा । ३. सँपेरे की पिटारी जिसमें नाँप रखा

हुआ रहता है।

पेटी - स्त्री १ सडूक, बकस, पिटारी। २ पहुँची (गहना)। ३ स्त्रियों का गले में पहनने का एक गहना, चीकी। ४ फतूही, बडी। ५ 'हारमोनियम'। - वाला - पु. हारमोनियम बजाने वाला।

पेठ - स्त्री १ पंठ, बाजार, हाट, मडी। २ मुहल्ला। ३ बडा व्यापारिक शहर, वह कसवा या शहर जहाँ बाजार लगता है।

पेड - पु. लड, रस्ती के एक में मिलाकर बटे हुए तारों में से कोई एक, वेनी में गुँथी पट्टियों, लटों में से एक। - न चक्की का पाट।

पेडें - न दे 'पेड'; 'पेडें'।

पेडा - पु. पेडा (मिठाई)।

पेडेघाटी वि चकई, चकई के आकार, पेडे के शकल का।

पेडी - स्त्री १ बक, कोठी, 'बैक'। २ सराफा, मराफा, सराफखाना। ३ दूकान।

पेण - ण - न १ जुलूम के समय पालकी को रोकने का स्थान। २ मुकाम, पडाव, मज्जिल।

पेद्रू - वि [ पुर्व 'पेट्रो' ] डुवला, कमखोर, कायर।

पेनशन, पेनशनर, पेनसिल - दे. 'पेन्शन', 'पेन्शनर', 'पेन्सिल'।

पेन्शन - न [ अ. ] पेंशन, निवृत्तिवेतन, अवकाश-वेतन। पेन्शनर - पु [ अ ] पेंशनर; निवृत्तिवेतनभोगी।

पेन्सिल - स्त्री [ अ. 'पेंसिल' ] अकनी, सीसाकनी।

पेपर - पु [ अ. ] १ कागज। २. समाचारपत्र, अखबार। ३. प्रश्नपत्र, परचा। ४. उत्तरपत्रिका। ५. निबध, प्रबध। ६. कागजात।

- मिट - न १ पिपरमिट। २ मीठी गोलियाँ जिन में पिपरमिट पडा हो।

पेय - न पेय, पीने योग्य या पिया जाने वाला पदार्थ (दूध, पानी, शरबत आदि)। -वि पेय, पीने योग्य, जो पिया जाय।

पेर - न १ पोर, उँगली का दो गाँठों के बीच का भाग। २ ईख, बाँस आदि में दो गाँठों के बीच का भाग। २ उँगली की पोर का एक रोग।

पेर - स्त्री १. बोआई, बोना। २ बीज। - पु. १. दीरी के लिए खलिहान में मूखे भुट्टे, बालियाँ आदि फैलाना। २ खिंचे-रना, फैलाना। [काम, बीज बोना।

पेरणी - स्त्री बोआई, बोने का पेरणें - क्रि स १ बोना, बीज डालना। २ फैलाना, बिखेरना। ३ नीव डालना, प्रारंभ करना। ४ (धन) लगाना। कहा जसे पेरारवें तसे उगवतें- जो बोओगे वही उगेगा, बोये पेड वबूल के आम कहाँसे आये ?

पेरा - पु. १ मोने के छट मे छल्ले बनाना। २ दे 'पेरणी'।

पेरु - पु. [ पुर्व ] अमरुद (फल)।

पेरें - दे 'पेर'।

पेरोज - जा - पु. [ फा फीरोजः ] फीरोजा, वैदूर्य, हरित-मणि, नीलमणि; नीलम।

पेलणें - क्रि स १ उठाना, सँभालना। २. सतुलन रखना। ३ फेरना, हिलाना, घुमाना (मुगदर)। ४ निभाना, निवाहना। ५ पेलना; ढकेलना, ठेलना। ६ वर्दाश्त करना, सहना। - क्रि अ. १ निवहना, निभना। २. उठाय

जाना। ३ वर्दाश्त होना।

पेला - पु. [ फा. 'पियाल' ] १. पियाला; गिलास, प्याला, जाम, चपक, कटोरा। २ पुगने ढग के अँगरखे का छाती पर बनने वाला प्याले जैसा गोल भाग।

पेव - न (अनाज रखने का) खत्ता, जमीन के अदर बनाया हुआ कुएँ के आकार का अनाज का गोदाम। मु०-फुटणें-१ बड़ी मात्रा में और तेजी में बाहर निकलना। २ टिड्डीदल का हमला होना; झुड के झुड जमा होना। - भरणें - चातुर्मान्य में ठाकुरजी के सामने दो गडों में अनाज भर कर उमकी पूजा करना (स्त्रियों का एक व्रत)।

पेशवा - पु. [ फा ] पेशवा; प्रधान मंत्री, मराठों के प्रधान मंत्रियों की उपाधि। - ई-स्त्री पेशवाई, प्रधानमंत्री का पद या कार्य, पेशवाओं का शासन।

पेशा - पु. [ फा 'पेश' ] पेशा, व्यवसाय, धवा, उद्योग।

पेशी - स्त्री पेशि - स्त्री, मास-खड, कोशाणु, कोपाणु, कोशिका, मूल उपादान, कोपमय कक्ष, 'सेल'।

पेस्तर - वि अव्य [ फा 'पेशतर' ] १ पेशतर, पेस्तर, पहले, आगे। २ पहले का। ३ आगे का, आगामी।

पेहरण - स्त्री [ फा 'पैरहन' ] १. कुर्ता, कमीस। २ झँगुला-बन्चों का ढीला कुरता।

पेहरणें - क्रि स. पहनना, धारण करना, ओढना।

पेहराव - पु. पहनावा, पोशाक, वेश, पहनने के कपडे।

पेहेरणें, पेहेराव - दे 'पेहेरणें', 'पेहराव'।

पेछू - पु. १ पूनी । २. गोला ।  
पै - अव्य. १ परतु । २  
निश्चित रूप से ।

पैजण - पु. पैजनी; पैजनी,  
पाजेव, पायल, नूपुर ।

पै - स्त्री १ पाई; एक आने का  
बारहवाँ या पुराने एक पैसे का  
तीसरा भाग । २ अलग - अलग  
अक्षरो के बेकार टाइप ।

पैका - पु. पैसा, धन, संपत्ति।  
पैकी - अव्य. [क 'पैकि'] में  
से, बीच का, से ।

पैज - स्त्री १. शर्त; होड,  
वाजी । २ प्रण, पण । मु० -  
मारणें, - लावणे - शर्त वदना,  
वाँधना, होड वदना, वाजी  
लगाना । पंजेचा - विडा उचलणे -  
वीडा उठाना, किसी काम का भार  
लेना, करने की प्रतिज्ञा करना ।

पैजार - स्त्री [फा 'पैजार']  
जूता, जूती, पैजार ।

पैठणी - स्त्री रेगम की चौडी  
जर की किनार वाली कीमती साडी।  
- वि १ पैठणसवधी, पैठण नगर  
का । २ ऊपरी, बाहरी, दिखा-  
वटी । - आदर - पु. दिखावटी  
आदर ।

पैण - स्त्री दाद जैसा एक चर्म-  
रोग जिसमे बहुत जलन होती है ।

पैदा - वि [फा ] १ पैदा;  
उत्पन्न । २. प्राप्त, हासिल। मु० -  
करणें - प्राप्त करना, कमाना,  
हासिल करना ।

पैदास - स्त्री [फा 'पैदाइश']  
१ पैदाइश, उपज, उत्पत्ति,  
पैदावार । २ प्राप्त, लाभ ।

पैन - पु. घोडे के कान में मास  
बढने का रोग ।

पैरण - दे 'पेहरण' ।

पैल - वि १ परला, उस  
म हिं श को ..३१

पार का, सामने का; दूसरा । २  
पहला । - तड, - थड-डी - स्त्री  
परला किनारा; सामने का किनारा ।

पैलवान - पु. [फा 'पहलवान']  
पहलवान, मल्ल, कुस्तीबाज ।

पैलू - पु [फा 'पहलू'] १  
पहलू; पार्व्व, बाजू । २ पहल,  
किसी ठोस चीज या नगीने आदि  
के कोरो या कोनो के बीच की  
चौरस सतह । ३ किसी विषय का  
अग, पक्ष, रख । - दार - वि  
१ पहलूदार, जिसके कई पहलू  
हो । २ सुदर, आकर्षक ।

पैशा पायली - दे 'पैसा' में ।

पैस - पु. १ विस्तृत स्थान,  
खुली जगह । २ फैलाव, प्रसार ।  
३ पैर, कदम । ४ मार्ग । - वि  
विस्तृत, विशाल, खुला, लबा-  
चौडा । - अव्य. दूर । २ खुले तौर  
पर, आराम से ।

पैसणे - क्रि अ १ प्रवेश  
करना । २ फैलना । ३ मर जाना ।

पैसा - पु १ पैसा (सिक्का) ।  
२ धन, द्रव्य । ३ एक कीडा ।  
- अडका - पु. पैसा, माल,  
संपत्ति । पैशा पायली, पैशा पासरी  
- वि बहुत सस्ता, कौडी का,  
कौडी के तीन । मु० - न जळणें -  
अमाप पैसा होना, पैसा कभी  
खत्म न होना । दे 'पैसे' ।

पैसे - पु. बहु पैसे । - च पैसे  
- पु. बहु पैसा ही पैसा, बहुत  
अधिक धन । मु० - उडविणे -  
पैसा, धन उडाना, पैसा बर्बाद  
करना, फुजूलखर्ची करना । -  
फाढणें - कर्ज, ऋण लेना । - खाणे  
- १ रिखत लेना । २ गवन  
करना, अमानत की रकम खा  
जाना ।

पो - दे. 'पो' ।

पो - अव्य. पो, शहनाई या  
भोपे की आवाज के साथ ।

पोक - न कूबड, कूब, टेढा-  
पन । - वि कुबडा, कूबड वाला ।

पोकटी - स्त्री कच्ची सुपारी ।

पोक्या - वि कुबडा, कूबड  
वाला । [ 'पोक्या' ।

पोग, पोग्या - दे 'पोक',

पोगा - पु. १ संपोला, साँप  
का बच्चा । २ दे 'भोगा' ।

पोच - स्त्री १ पहुँच, प्राप्ति,  
रसीद, प्राप्ति-सूचना । २ अक्ल,  
समझ, सूझ, दूरदृष्टि ।

पोचद - वि १ पोला,  
खोखला । २ दुबला, कमजोर ।  
३ पोच, तुच्छ; क्षुद्र ।

पोचणें - क्रि अ १ पहुँचना ।  
२ मिलना, प्राप्त होना । ३  
समझ में आना ।

पोचता - वि पहुँचाया हुआ ।

पोचविणें - क्रि स १ पहुँ-  
चाना । २ सौंपना ।

पोचा - पु. प्रहार, आघात,  
चोट, आघात द्वारा बना हुआ  
गड्ढा, वर्तन पर बना हुआ प्रहार-  
चिह्न, निशान ।

पोची - स्त्री १ पहुँची  
(गहना) । २ कलाई, मणिवध ।

पोढ-ढा - पु. १ कुएँ से निकाले  
हुए पानी को जमा करने का हीज ।  
२ भात में दाल आदि लेने के लिए  
बनाया हुआ गढा । ३ थाला,  
आलवाल । ४. सिर का पिछला  
भाग । [(पशु) ।

पोवळा - वि मूंगे के रग का  
पोवळें - न मूंगा, प्रवाल ।

पोहचणें, पोहचविणें - दे  
'पोचणे', 'पोचविणे' ।

पो - पु. चोय, चोथ; गाय,  
बैल आदि का उतना गोबर जितना

वह एक बार मे करे।

पोक - दे ' पोक '।

पोकळ - वि १ पोला, खोखला, छूँछा। २ खाली; रीता, रहित; शून्य। ३ ढीला। ४ थोथा; निस्तार, हलका, निकम्मा। ५ अनिश्चित। - खर्च - पु वनावटी खर्च की मद्द। - जमा छी अवास्तविक जमा। - जमा-खर्च - पु निलवित लेसा, अनिर्णित हिसाब।

पोकळिस्त - वि १ निलवित, अनिर्णित। २ दिखावटी। ३ अनिश्चित, मदिग्र।

पोकळी - छी पोल, अवकाश, खला, शून्य स्थान, रिक्त स्थान।

पोक्त - वि [फा 'पुक्त'] १ प्रौढ, जिसकी उम्र अधिक हो चली हो, पूरी उम्र का, पुरता। २ परिपक्व, निपुण, दक्ष। ३ पोढा, मजबूत, पक्का। ४ विपुल, प्रचुर।

पोखर - पु न १ पानी आदि का नला। २ सूरख; विल, छिद्र, खोडर, विवर।

पोखरणे - क्रि स खोदना, खोखला, पोला बनाना। - न दे 'पोखर'।

पोच, पोचट, पोचणे, पोचविणें, पोचा, पोची - दे 'पोच,' 'पोचट,' 'पोचणे,' 'पोचविणें,' 'पोचा;' 'पोची'।

पोट - पु १ पेट, उदर। २ पेट के भीतर की वह थैली जिसमे खाथी हुई वस्तु जमा होती है, आमालय। ३ गर्भ, हमल, गर्भाशय। ४ मन, दिल। ५ जीवनयात्रा, जीविका। ६ किसी खोखली वस्तु का भीतर का भाग। - प्रत्य गौण, उप। - कुळी - छी टेंट,

कमर या पेट का वह भाग जिनपर धोती कसी जाती है। - फूळ - न १ शिकमी कारतकार, उपकृपक, शिकमी अमामी। २ उपभाटकी, उपभाडेदार, दर किरायेदार। ३ दूसरे के लिए जामित रहने वाला। - खराब - वि वजर (जमीन)। - खर्च - पु भोजन आदि का खर्च, जीविका, रोटी - कपडा। - खर्ची - छी यात्रा - भत्ता, तफर-खर्च। - गडी - पु १ पिट्टू। २ मददगार, साथी। - घडो - छी वाँझ स्त्रीद्वारा अपने पेट पर लपेटा हुआ कपडा, ताकि वह गर्भिणी प्रतीत हो। - घर - चौमर मे बीच की पक्ति का नीचे का अंतिम खाना। - घा - वि औरम, मगा, पेट से उत्पन्न। - ० गोळा - पु कलेजे का टुकडा, सतान, मगा वेटा, वेटी। - जाळणारी - वि छी पेटमरानी। - जाळू - वि १ चुगल-खोर। २ पेट पालने के लिए चाहे जो गदा काम करने वाला। - झाकणी - छी, झाकणे - न विवाह मे वर की माता द्वारा कन्या की माता को दी जाने वाली माडी। - तिडीक - छी १ पेट का दर्द। २ आस्था, लगन। - दुखणे - न पेट मे दर्द होना। दे 'पोट दुखणें' - मु। - दुखी - छी १ पेट का दर्द, व्यथा, शूल। २ जलन, डाह, द्वेष। - पापी - न जीविका, जीवनयात्रा। - पुजा, - पूजा - छी भोजन, खाना - पीना। - फुगी - छी १ अफरा, पेट का फूलना। २ व्यभिचार से हुई गर्भिणी। ३ दे 'पोटदुखी'। - भर - अव्य भरपेट, जी भर-कर, पेट भर कर, छक कर। - भरू - वि १ पेट - पोसुवा; पोटाथी।

शिकम - परवर। २ जिसमें कोई पौष्टिक तत्त्व न हो। - भाटेकरू - वि पु दे 'पोटकूळ'। - मडळ - न उपनमिति। - वाटा - पु शिकमी हिस्सा, उप-भाग। - विभाग पु उपविभाग। - शूळ - पु मरोटा, शूल, पेट का दद, शूली। - सरकती - वि दे. 'पोटकूळ'। - हिस्ता - पु दे 'पोटवाटा'। पोटाचा चाकर - वि दे पोटमह। पोटाची आग - छी पेट की आग, भूय। पोटांतील उवा - पु हव्वा - डव्वा (बच्चों का एक रोग)। पोटांतून - अव्य दिल में, मचमुच। पोटापाण्याचा वदोवस्त - पु जीविका, जीवन-यात्रा का प्रवध। पोटी - अव्य. पेट मे मद्द में; भरत्या पोटी - अव्य भोजन के बाद तुरन्त, जब खाने को अच्छी तरह मिलता हो। मु - करणे पेट रहना; गर्भ रहना (जानवर का)। २ व्यभिचार से गर्भिणी होना। - गळघाशी लागणें - दे 'पोट तडीस लागणें'। - चे पाडणें - पेट गिराना, गर्भपात करना। - जाळणें - १. पेट की आग वझाना, भूख मिटाना। २ दूसरे को हानि पहुंचा कर अपना लाभ कर लेना। - जिरणे - १ गर्भ का शमन होना, बढ़ते हुए गर्भ का पेट में ही जख्न होना। २ पेट गिरना, गर्भपात होना। - तडीस लागणें - अफरना; बहुत अधिक खाने के कारण पेट फूलना। - दुखणें - १ पेट में दर्द होना। २ जलना, दूसरे का सुख देख कर डाह होना। - घरघरून हंसणें - हंसते हंसते पेट में बल पडना, लोट-पोट होना। - पाडीस लागणें - १ उदरपूर्ति के लिए दौडधूप करने

की आवश्यकता होना । २ पेट-पीठ एक हो जाना, बहुत दुर्बल हो जाना । - फुगणे - १ पेट फूलना, अफरना । २ किसी बात को कहने-जानने के लिए बेचैन हो उठना । ३ गर्भ रहना । - फुटणे - १ पेट फटना । २ हँसते हँसते पेट म वल पडना । - फोडणे - भडा फोडना, भेद खोल देना, पेट देना । - वांधणे - पेट काटना, पैसा बचाने के लिए कम खाना । - बाधून चाकरी करणे - पेट काटना, पेट काट कर नौकरी करना, द्रव्यसचय करने के लिए कम खाना । - बाहेर पडणे - भोजन का खर्च दूसरे द्वारा किया जाना, भोजन का प्रवध विना परिश्रम के हो जाना । - भर अन्न, अगभर वस्त्र मिळणे - पेट भर खाना और तन ढकने को कपडा मिलना, आवश्यकता भर आय होना । - भरणे - १ पेट भरना । २ इच्छा की तृप्ति, पूर्ति होना । ३ डटकर खाना । ४ पेट पालना; निर्वाह करना । - मोठे करणे - दया करना, रहम खाना । - शीं राहाणे - दे 'पोटाशी राहाणे' । - सरणे - पेट चलना, दस्त जारी होना । - सुटणे - १ पेटी पडना; तोद निकलना । २ दे 'पोट बाहेर पडणे' । ३ दे 'पोट सरणे' । पोटाखालीं जाणे - विधवा का पुनर्विवाह हो जाने पर उसके पहले वच्चे का नये पिता की छत्रछाया में पहुँच जाना । पोटाचा नगारा होणे - अफरना, अपच या वायु-विकार से पेट का फूलना । पोटाच्या पाठीस लागणे - उदरपूर्ति के लिए दौड-धूप करना । पोटाचे पाणी होणे - पेट पानी होना, पेट

चलना, पतले दस्त जारी होना । पोटात आग उठणे, पेटणे - जोर की भूख लगना । पोटात कालवणे - १ जी मिचलाना, मतली आना । २ पेट में गडबडी होना । ३ दिल भर आना, गदगद होना । पोटात कावळे ओरडू, कोकलू लागणे; पोटांत खडबडणे - पेट में चूहे कूदना, दीडना, जोर की भूख लगना, भूख में व्याकुल होना । पोटांत गोळा उभा राहाणे - होश उड जाना, कलेजा मुँह को आना, मुँह सूखना, बहुत अधिक डर जाना । पोटात घालणे, घेणे - अपराध या गलती माफ करना, क्षमा करना । पोटात जिरणे - जन्म से पहले ही मर जाना, अदर ही अदर खत्म होना । पोटात ठेवणे - भेद प्रकट न करना, किसी बात को अपने पास ही रखना । पोटात घोडा उभा राहाणे - दे 'पोटात गोळा उभा राहाणे' । पोटात पोट चालणे - एक ही आय में दूसरे का गुजर-बसर होना । पोटात ब्रह्मराक्षस असणे, उठणे - बहुत, लगातार खाते रहने की इच्छा होना । पोटात भडभडणे - दिल भर आना । पोटात शिरणे - १ पेट में घुसना, भेद जानने के लिए घनिष्ठ मित्र बनना । २. किसीका विश्वास प्राप्त करना । पोटात शूळ उठणे, पोटात सलणे - कलेजा जलना, कवाव होना, कलेजे पर साँप लोटना, ईर्ष्या से जल उठना । पोटातील पाणी न हलणे - पेट का पानी न हिलना, थोडा-सा भी श्रम न पडना । पोटातील पाणी न हालविणे - १. पेट की बात को छिपाये रखना । २ विलकुल तकलीफ न उठाना या

देना । पोटा येणे - दे 'पोटी येणे' । पोटाळा चिमटा घेणे - पेट काटना, पैसा बचाने के लिए कम खाना । पोटाळा पाय बांधणे - भूख को दवाने के लिए पेट पर सिल, पत्थर बांधना । पोटावर पाय देणे, पोटावर मारणे - किसी की रोटी छीनना, मुँह का कौर या निवाला छीनना । पोटा-वारी नौकरी करण, पोटावारी राहाणे - केवल दो जून भोजन पा कर नौकरी करना । पोटाशीं धरणे - १ छाती से लगाना, प्यार, ममता करना । २ सहायता करना, भरण-पोषण करना । पोटाशी राहाणे - पेट रहना, पेट से रहना; गर्भवती होना । पोटास तडस लागणे - अफरना, अधिक खाने के कारण बेचैनी महसूस होना । पोटास बिब्वे घालणे - पेट काटना । पोटास येणे - जन्म लेना; कोख से पैदा होना । पोटीं घालणे - दे 'पोटात घालणे' । पोटीं धरणे - १ चाहना । २ स्वीकार करना । ४ दे 'पोटाशी धरणे' । पोटीं येणे - दे 'पोटास येणे' । कहा ० पोटाचा द्यावा पण पाठचा देऊ नये - जरूरत पडने पर अपने वच्चे को भी छोड दें, पर शरण में आये हुए व्यक्ति को न छोडें ।

पोटगी - छी १ वृत्ति, रोजी, जीविका, रोटी - कपडा । २ भरण-पोषण का खर्च । ३ पति से दूर रहनेवाली स्त्री को भरण-पोषण के लिए मिलने वाली रकम ।

पोटरा - घु परिपक्व, भरा हुआ भुट्टा । [दे 'पोटरा' ।

पोटरी - छी १ पिडली । २.

पोटशी - वि छी गर्भिणी;

हामिला ।

पोटळा - पु १ अति; अंतडियो का गोला । २ फूलना । ३ पोटली ।

पोटातले - न हच्चा-डच्चा (वच्चो का उदर-रोग) ।

पोटार्यो - वि पेटार्यो, पेटार्थू, केवल पेट के लिए काम करने वाला ।

पोटाळणे - क्रि स १. पालना, परवरिश करना । २ गले लगाना । ३ प्यार करना ।

पोटें - दे 'पोट' में ।

पोट्टा - दे 'पोरटा' ।

पोट्या - पु बुनाई में किनारी का बीच वाला हिस्सा । - गहूं - पु गेहूं की एक किस्म ।

पोत - पु १ पोत, कपडे की बुनावट । २ गठन, बुनावट । ३ ढग ।

पोत - पु [क 'पोत्तु' ? ]

१ मशाल, फलीता । २ नोक ।

पोत - पु पोत, नाव, जहाज ।

पोत - पु पुत्र, वच्चा ।

पोत - पु [फा 'फोत' ]

वोरा, थैला ।

पोत - छी १ पोत, कांच का छोटा दाना । २ कांच, सोने या पत्थर की गुरिया । - पु छी मोतियो की माला, कांच की गुरियों की माला ।

पोतडी - छी थैली, थैला, झोली, झोला, बटुवा, पोटली ।

पोतदार - पु [फा 'फोत - दार] पोतदार, पारखी; मुद्रा-परीक्षक, सरकारी सिक्को की परख करने वाला ।

पोतनीस - पु [फा 'पोत' + 'नवीस'] खजानची, कोपाध्यक्ष ।

पोतें - न [फा 'फोत' ]

१ वोरा; वोरी, टाट का बना बडा थैला, वारदान, वारदाना । २ खजाना । ३ दे 'पोवतें' ।

पोतेरें - न १ पुतारा, पोतना, पोतने का कपडा । २ गदा, फटा - पुराना कपडा । ३ तुच्छ वस्तु । ४ घर पोतने का काम, चौका लगाना ।

पोथा - पु पोथा; बडी पोथी ।

पोथी - छी १ हाथ से लिखी पुस्तक । २. पोथी, ग्रथ । ३ धर्म-ग्रथ ।

पोपई - छी [पुर्त 'पापाया'] पपीता, एरड भेवा, एरड खर-बूजा ।

पोपट - पु तोता, शुक, मुग्गा । - पंची - छी तोते की तरह रटना, विना अर्थ समझे बोलना, अल्पज्ञान ।

पोपट - पु दे 'पावटा' ।

पोपटी - वि तोते के रंग का, हलका हरा । - छी फीके लाल रंग की कौडी । [छिलका ।

पोपडा - पु पपडा, पपडी,

पोपनस - न दे 'पपनस' ।

पोपया - पु; पोपयी - छी दे 'पोपई' ।

पोपला - पु पोपला घोडा, ऐसा घोडा जिसके मुह में आगे के दांत न हो ।

पोफळ - छी सुपारी का पेड । - न कच्ची सुपारी जिसपर रेणे का छिलका हो । मु० - घालणें - १ बीडा उठाना । २ देवता के सामने सुपारी रख कर प्रतिज्ञा करना ।

पोफळी - छी दे 'पोफळ' । - वि (चारखाना) जिसमें बडे चौखूटे खाने बने हो ।

पोवारा - पु पोवारह (पासे

का एक दांव) । मु० - करणे - चपत होना, भाग जाना ।

पोय - छी १ सुपारी के पत्ते के डठल के पाम का चौडा भाग । २ नारियल के पेड की पोई, कल्ला । ३ प्याऊ, पीमला ।

पोर - पु १ छोकरा, लडका । २ वच्चा । - छी १. छोकरी, लडकी । २ वच्ची । - न वच्चा । - वि अनाथ, यतीम । - कट - वि वचकाना, बल्हड, नादान ।

- ०पणा - पु लडकई, लडकपत; नादानी, नटखटी । - किडा - पु अनाज का कीडा, खपरिया ।

- खेळ - पु १. लडकखेल, लडकखेलवा, वच्चो का खेल; मामूली बात, आसान काम । २ खिलवाड, खेलवाड । ३. मजाक, तमाशा । - बुद्धि - छी कच्ची बुद्धि । - वि नासमझ । - बडा - पु १ वच्चो की अधिकता, बहुत वच्चो वाला परिवार । २ अनु-

भवहीन व्यक्तियों के कारण होने वाली अव्यवस्था, कुप्रवच । - वय - न छोटी आयु; कम उम्र । - सवदा, - सौदा - वि छोटा, छोटी उम्र का । - पु छोटा लडका ।

पोरका - वि अनाथ; यतीम । पोरगा - पु १ छोकरा, लडका । २ छोटी उम्र का नौकर, लौंडा, वैरा ।

पोरगी - छी लडकी, छोकरी । [वच्चा ।

पोरसो - न वच्चा, छोटा पोरटा - पु छोकरा; लौंडा ।

पोरटी - छी छोकरी, लौंडी ।

पोरटें - न नादान वच्चा; आवारा लडका, लौंडा ।

पोरापोरीं; पोरासोरीं - अज्य. वच्चो द्वारा, गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की तरफ से।

पोरीटोरी - छी बहु. छोक-रियां; नादान लडकियां।

पोरेंबाळें, पोरेंसोरें - न बहु वालवच्चे, लडके - वाले।

पोन्था - पु छोकरा, लौडा, छोटी उम्र का नौकर, वैरा।

पोचें - न [अ] द्वारमडप, वरसाती, ड्योढी, सायवान, 'पोचें'।

पोल, पोलकट - न १ पोल; खोखलापन, नि सारता। २ दे 'फोलपट'। - वि पोला, खोखला, जिसके अंदर दाना न हो।

पोलकें - न [अ 'पोलका'] जनाना कुर्ती, स्त्रियो की एक फतूही, 'पोलका'।

पोलाद - न [अ 'फौलाद'] फौलाद, इसपात, कडा और वढिया लोहा।

पोलादी - वि [अ 'फौलादी'] फौलादी, फौलाद का बना हुआ, लौह, बहुत कडा या मजबूत।

पोलीस - पु [अ 'पोलिस'] आरक्षक, आरक्षी, पुलिसमैन, पुलिस का आदमी। - खाते - न आरक्षक-विभाग, पुलिस का महकमा।

पोलो - पु [अ.] चीगान, 'पोलो' (गेंद का एक खेल)।

पोल्हार - न स्त्रियो द्वारा पैर के अँगूठ से पहना जाने वाला चाँदी का छल्ला।

पोवती - छी, पोवते - न १ श्रावण की पूर्णिमा को देवता को समर्पित किया जाने वाला चौलडा डोरा। २ इस महीने में

पहनने का नया जनेऊ; यज्ञोपवीत। ३. गडा। ४ व्रत या उत्सव के समय पहने जाने वाले पीले डोरे। ५ गले में पहनने का मोतियो का हार (स्त्रियो का)।

पोवळ - छी १ मंदिर की चहार दीवारी। २ नहर मे पानी छोडने का द्वार। ['पोवळे']।

पोवळा, पोवळें - दे 'पोवळा' पोवा - पु १ संपोला। २ समूह, झुड। ३ दे 'पावा'।

पोवाडा - पु १ पंवाडा, पँवारा, आल्हा; कडखा, वीर-गाथा। २ यशगान।

पोशा - वि १ मोटा-ताजा, फूला हुआ। २ निकम्मा।

पोशाक-ख - पु [फा 'पोशाक'] पोशाक, वेश, पहनावा, लिबास। मु. - करणें - कपडे पहनना।

पोशाकी-खी - वि [दे 'पोशाक'] १ दिखावटी, ऊपरी, नकली। २ शानदार, चमकदमक वाला।

पोशदा - वि पोपिता, आश्र-यदाता, पालन-पोषण करने वाला।

पोषक - वि १. पोषक, पोषण करने वाला। २ पुष्टिप्रद, पुष्टिकर, बलवर्द्धक। ३ सहायक।

पोषण - न १ पोषण, पालन-पोषण। २ वर्द्धन।

पोषाक-ख-की-खी - दे 'पोशाक-ख-की-खी'।

पोष्ट - न [अ 'पोस्ट'] १ डाकखाना, डाकघर। २ डाक। - मन - पु डाकिया।

पोष्य - वि १ पोष्य, पालने योग्य। २ पुराने पत्रव्यवहार में बडों के नाम के साथ लगाया जाने वाला विशेषण।

पोसणे - क्रि स १ पोसना,

पालन-पोषण, परवरिश करना। - क्रि अ अच्छी तरह बढना, गदराना, भरना; खिलना।

पोसवणे - क्रि अ गदराना; गरभाना। ['पोष्टमन']।

पोस्ट; पोस्टमन - दे 'पोष्ट', पोस्त - न १ त्योहारी, त्योहार के उपलक्ष्य में छोटे या नौकरो को दी जाने वाली वस्तु या रकम। २. दवात में रखी जाने वाली घज्जी (जिससे कि स्याही न सूखने पावे)।

पोहच; पोहचणें - दे 'पोच'; पोचणें'।

पोहटा - पु १ बाढ के समय नदी आदि के पानी का बीच में फूल जाना। २ चोथ (गोवर)। ३ गगवरार।

पोहटी - छी १ छोटा चोथ। २ बाढ आयी हुई नदी की छोटी शाखा। - ची माती - छी १ चोथ में चिपकी हुई मिट्टी। २ भाठ, नदी की बाढ में बहकर आने वाली मिट्टी।

पोहणारा - वि पु तैराक।

पोहणें - क्रि अ. १ तैरना, पैरना। २ उतरना, तिरना, तरना। ३ मग्न होना।

पोहरा - पु डोलची, छोटा डोल, बाल्टी। [समूह]।

पोहा - पु मेला, जत्या, पोहा - पु चिडवे का दाना।

पोहे - पु बहु चिडवा, चिउडा।

पोहोच; पोहोचणे, पोहोचता, पोहोचविणें - दे 'पोच', 'पोचणें', 'पोचता'; 'पोचविणें'।

पोहो - पु १ चोथ। २. विष्ठा का ढेर।

पोळ - पु १ साँड, दाग कर



छोडा हुआ वृषभ । २. मोटाताजा, आवारा व्यक्ति । - जत्रा - छी १ सांड या पाडे को देवी के आगे वलि चढाना । २ हत्याकांड, कत्ल ।

पोळ- छी १ गली, मुहल्ला । २ पत्यरो को विना गारे के एक दूसरे पर रख कर बनायी हुई दीवार ।

पोळणे - क्रि अ १ जलना, झुलसना । २ घाटा होना, ठोकर खाना । ३ दुःख से व्यथित होना ।

पोळपाट - पु चौका, रोटी बेलने का चकला ।

पोळभाज - छी भूमि को खेती के लिए जलाने का काम ।

पोळा - पु १. वैलो की पूजा करने का त्योहार । २ दे० 'पोळें' ।

पोळी - छी १ रोटी, चपाती (गेहूँ की) । २ छत्ते का वह भाग जिसमें गहद नहीं होता । ३. (जनावराची) गलकवल, झालर । ४ रोटी के आकार का पदार्थ । मु० - पिक्णे - पाँचो उँगलियाँ घी में होना, खूब फायदा होना । - वर तूप ओढणे - अपने ही लाभ की सोचना, अपना ही स्वार्थसाधन करना, अपनी गरज, मतलब निकालना ।

पोळें - न छत्ता, मवूमक्खियो का छाता, घर ।

पौंड - पु [अ] १ पाउंड, सोने का एक अंग्रेजी सिक्का जो २० गिलिंग के बराबर होता है । २. एक अंग्रेजी वृद्धन जो आठ छटाँक से कुछ कम होता है ।

पौ - पु पौ, पासे का एक दाँव ।

पौगड - न पौगड, पोगंड, पाँच से सोरह वरस तक की उम्र

की अवस्था; बाल्य और जवानी के बीच की स्थिति । [मुस्ताना ।

पौढणे - क्रि अ लेटना, पौत्र - पु पौत्र, पोता, बेटे का बेटा ।

पौत्री - छी पौत्री, पोती, बेटे (या बेटे) की बेटे ।

पौवारा - दे 'पोवारा' ।

पौर - वि पौर, पुरसवधी, नगर का । - पु पौर, पुरवासी, नागरिक ।

पौराणिक - पु पौराणिक, पुराणवाचक । - वि १ पौराणिक, पौराण, पुरातन । २ पुराणोक्त ।

पौरुप - न १ पौरुप, पुरुपार्थ, पराक्रम । २ शक्ति, सामर्थ्य, तेज । ३ पुरुषत्व, शुक्र ।

पौरुहित्य - न पौरुहित्य, पुरोहिताई, पुरोहित का पद या कर्म ।

पौणिमा - छी पौणिमा, पूर्णिमा, पूनो । [पूरवी, पूर्वी ।

पौर्वात्य - वि पौरस्त्य, प्राच्य, पौर्वापर्य - न पौर्वापर्य, पूर्वापर का भाव, अनुक्रम ।

पौष - पु पौष, पूस का महीना ।

पौष्टिक - वि पीष्टिक, पुष्टिकर, शक्तिवर्धक । [दीवार ।

पौळळी - छी अहाते की प्यादा - पु [फा 'पियाद' ]

१ प्यादा, पैदल सिपाही, पदाति । २ शतरज का एक मोहरा । दे 'प्यादें' ।

प्यादें - न [फा 'पियाद' ] प्यादा, शतरज की गोट, शतरज का एक हलका मोहरा । मु प्याद्याचा फर्जी होणें-गरीब का अमीर बनना; साधारण व्यक्ति का ऊँचे पद पर पहुँच जाना ।

प्यारा, प्यारियाफ - पु [अ 'पॅराग्राफ' ] पैरा, पैराग्राफ, अनु-

च्छेद, परिच्छेद, कडिका ।

प्याला - पु [फा 'पियाल' ] १ प्याला, पियाला, गिलास । २ शराब पीने का प्याला, मद्यचपक । मु - घेणें, पिणें - मुसलमान बनना ।

प्यालेदार - वि [फा 'पियाल' + 'दार' ] (वह अगरत्ता) जिसमें छाती पर का भाग प्याले के आकार का होता है । [म्पष्ट; जाहिर ।

प्रकट - वि प्रकट, प्रत्यक्ष, प्रकटणें - क्रि अ प्रकट होना, जाहिर होना । - क्रि स प्रकट करना, खोलना, दिखाना ।

प्रकरण - न १ प्रकरण, ग्रंथ का परिच्छेद, अध्याय । २ कांड; मामला । ३ विषय, प्रसंग, सदर्भ । ४ बडा अक्षामी । मु - शिजणे पड्यय का रचा जाना ।

प्रकर्ष - पु १ प्रकर्ष, उत्कर्ष । २ अधिकता, अतिरेक ।

प्रकर्षानें - अव्य विशेष रूप से, शिद्धत से, अधिकता से ।

प्रकल्प - पु परियोजना, प्रायोजना, 'प्राजेक्ट' ।

प्रकाड - वि १. प्रकाड, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, प्रशस्त । २ बहुत बडा ।

प्रकार - पु १ प्रकार, किस्म, भेद । २ ढंग, रीति, तरीका । मु० - करणें - तरह-तरह में सताना, परेगान करना ।

प्रकाश - पु १ प्रकाश, रोशनी, आलोक, उजाला, उजेल । २ फैलाव, विकास, विस्तार । ३ ज्ञान, बुद्धि का विकास । ४. ख्याति, प्रसिद्धि । ५ प्रकट भाषण ( नाटक में ) । - प्रतिवधक - वि अपारदर्शी, 'ओपेक' । - भेद - वि पार-

भासक, पारभासी, 'ट्रान्सलूसट'।  
- मान - वि प्रकाशमान,  
चमकता हुआ, जगमगाता हुआ।  
- मापकयंत्र - न ज्योतिर्मापी,  
'फोटोमीटर'। - लेखन - न  
फोटो-चित्रण, 'फोटोग्राफी'।

प्रकाशक - वि १ प्रकाशक,  
प्रकाश करने वाला। २ प्रकट  
करने वाला। - पु प्रकाशक,  
पुस्तक आदि को छपवा कर शाय  
करने वाला, 'पब्लिशर'।

प्रकाशणे - क्रि अ १  
चमकना, प्रकाशमान होना। २  
प्रकट होना। - क्रि स १  
रोशनी देना, चमकना। २.  
स्पष्टीकरण करना।

प्रकाशन - न प्रकाशन, प्रख्या-  
पन, विमोचन, इशाअत।

प्रकाशित - वि १ प्रकाशित,  
प्रकाशयुक्त, तेजोमय, प्रकट  
किया हुआ। २ छपवा कर  
प्रकट किया हुआ, शायशुदा।

प्रकाळ - ङा - पु देर,  
विलव।

प्रकीर्ण - वि १ प्रकीर्ण,  
विविध, अनेक विषयो से युक्त।  
२ फैलाया हुआ, विलेरा हुआ,  
३. मिलाया हुआ, मिश्रित,  
फुटकल।

प्रकृत - वि १ प्रकृत,  
जिसका आरभ हो चुका हो,  
चालू, प्रचलित। २ मूल,  
अविकृत, असकृत। - अव्य इस  
ममय, फिलहाल।

प्रकृति - स्त्री १ स्वभाव,  
मिजाज। २ पचहाभूत, कुदरत।  
३ स्वास्थ्य; सेहत। ४ मूलतत्त्व,  
माया, परमात्मा। ५ मूल गुण  
या धर्म। ६ चराचर समार।  
७ वह मूल शब्द जिगमे

प्रत्यय लगाये जाते हैं (व्या)।  
८ स्वामी, अमात्य, सुहृद् आदि  
राज्याग। - दोष - पु १ जन्म,  
मृत्यु आदि शारीरिक विकार। २  
स्वभाव-दोष। - स्वभाव - पु  
१ मूल स्वभाव। २ प्राकृतिक  
गुणधर्म। मु० - ताळघावर येणे -  
१ स्वास्थ्य का पुनर्लाभ होना,  
सेहत अच्छी हो जाना। २ मन,  
दिमाग ठिकाने आना। - तोळा  
मासा असणे - १ स्वास्थ्य का  
बहुत नाजुक होना, साधारण  
कारणमे स्वास्थ्य का विगड जाना।  
२ आसन्न मरण होना। प्रकृतीने  
ताळ सोडणे - १. स्वास्थ्य, सेहत  
खराब हो जाना। २ झगडा गुरू  
होना, अनवन होना।

प्रकोप - पु १ प्रकोप;  
शरीरकी धातुओ का विगड जाना।  
२ किसी वीमारी का जोर।  
३ अत्यधिक कोप, उत्तेजना,  
विद्रोह, बगावत।

प्रक्रिया - स्त्री १ प्रक्रिया,  
क्रिया; अमल। २ सस्कार। ३  
ढग, तरीका, तरकीब, विधि,  
पद्धति। ४ शब्द के मूलरूप में  
प्रत्यय आदि लगाकर शब्द बनाने  
का कार्य (व्या०)।

प्रक्षाळण - न १ प्रक्षालन,  
धोना, साफ करना।

प्रक्षाळणे - क्रि अ प्रक्षालन  
करना, धोना, पानी से साफ  
करना।

प्रक्षिप्त - वि १ प्रक्षिप्त,  
फेंका हुआ। २ डाला हुआ, पीछे  
से जोडा या मिलाया हुआ।

प्रक्षेपणास्त्र - न अस्त्र,  
'मिमाइल'। [गुस्ता।

प्रक्षोभ - पु क्षोभ, क्रोध;  
प्रख्यात - वि प्रख्यात,

ख्यातनाम, मशहूर।

प्रगट, प्रगटणे - दे 'प्रकट',  
'प्रकटणे'। [तरक्की।

प्रगति - स्त्री प्रगति, उन्नति,  
प्रगमनशील - वि प्रगतिशील,  
सुधारवादी, तरक्कीपसद।

प्रगल्भ - वि १ प्रगल्भ, प्रौढ,  
विकसित, परिपक्व। २ साहसी,  
हिम्मतवर, धृष्ट, ढीठ। ३  
गभीर, प्रतिभावान्।

प्रघात - पु १ रिवाज, रूढि;  
परिपाटी। २ रीति, ढग।

प्रचड - वि १ भारी, बहुत  
बडा, कमाल का। २ जोरदार;  
ज्वर्दस्त। ३ श्रेष्ठ। ४ प्रचड;  
अति तीव्र, प्रखर।

प्रचलन - न १ प्रचलन,  
चलन, प्रचार। २ फैलाव।

प्रचलित - वि प्रचलित,  
जारी, जिसका चलन हो, चलता  
हुआ।

प्रचार - पु १ प्रचार, प्रसार,  
किसी वस्तु को प्रसिद्ध करने या  
फैलाने का कार्य, फैलाव। २  
रिवाज, प्रथा।

प्रचारक - वि पु प्रचारक,  
प्रचार करने वाला, फैलाने वाला।

प्रचारित - वि प्रचारित,  
चलाया हुआ, फैलाया हुआ, रूढ।

प्रचीत-ति - स्त्री प्रतीति,  
अनुभव, विश्वास, यकीन।

प्रच्छन्न - वि प्रच्छन्न, ढका  
हुआ, अप्रकट, छिपा हुआ।

प्रजनन - न प्रजनन, सतान  
उत्पन्न करना, पैदाइश; पैदावार।

प्रजा - स्त्री १. प्रजा, रिवाया,  
जनता। २ सतान, औलाद।

- द्रोह - पु शासको द्वारा किया  
जाने वाला जनता का द्रोह, अप-  
राध। - पति - पु १ प्रजापति,

ब्रह्मा । २ राजा । ३ लिंगेद्रिय ।  
-सत्ताक - वि प्रजासत्ताक,  
जनतन्त्रीय, गणतन्त्रात्मक; लोक-  
तन्त्रात्मक । - न गणराज्य, गण-  
तन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र । प्रजो-  
त्पत्ति - स्त्री, प्रजोत्पादन - न  
सतानोत्पत्ति, सतानोत्पादन,  
वच्चो को जन्म देना ।

प्रज्ञा - स्त्री प्रज्ञा, बुद्धि,  
विवेक, अक्ल । - चक्षु - वि १.  
प्रज्ञाचक्षु, अधा । २ बुद्धिमान् ।  
प्रज्वलित - वि १ प्रज्वलित,  
जलता हुआ, जला हुआ, दहकता  
हुआ । २ चमकीला ।

प्रण - पु प्रण, दृढ निश्चय;  
पण, प्रतिज्ञा, टेक, आन ।

प्रणय - पु प्रणय, स्त्रीपुरुष का  
प्रेम, प्रीति, शृंगार, इश्क;  
प्यार । - कोष - पु प्रणयकोष,  
नायिका का नायक से रूठ जाना ।

प्रणयी - वि प्रणयी, प्रेमी,  
आशिक ।

प्रणालिका, प्रणाली - स्त्री १  
प्रणालिका, प्रणाली, नाली । २  
परपरा, प्रथा । २ पद्धति, रीति,  
ढंग, तरीका ।

प्रणेता - पु १. प्रणेता;  
निर्माता, रचयिता, किसी मत या  
सिद्धांत का प्रवर्तक । २ नेता ।

प्रत - स्त्री १ प्रति, नकल ।  
२ अदद । ३ मूल लेख, पुस्तक  
आदि, पाडुलिपि । ४. नमूना । ५  
श्रेणी, दर्जा । - प्रत्य प्रति, को,  
से । - झाडा - पु खाते के अनु-  
सार लिखा हुआ हिसाब । - वदी-  
स्त्री १. उपज के अनुसार निर्धा-  
रित की हुई खेत की श्रेणी । २  
श्रेणीकरण, वर्गीकरण । - वार -  
ष्वय १. सामूहिक रूप में । २.  
श्रेणी के अनुसार । - वारी - स्त्री

किसी इलाके की भूमि का  
वर्गीकरण ।

प्रताप - पु १ प्रताप; प्रभुत्व,  
प्रभाव । २ योग्यता । ३ पराक्रम,  
वीरता । ४ सामर्थ्य । ५ गरमी ।  
मु० - उधळणें - अपने दुर्गुणों,  
बुराईयों को प्रकट करना; बुरे  
मार्ग पर चलना ।

प्रतारणा - स्त्री प्रतारण,  
प्रतारणा, वचना, धोखा, ठगी ।

प्रति - उप एक उपसर्ग जो  
शब्दों के पहले आ कर विरोध,  
विपरीतता, बदला, सादृश्य, खडन,  
मुकाबला आदि का द्योतन करता  
है । - स्त्री १ प्रति, नकल । २  
बराबरी ।

प्रतिकार - पु १ प्रतिकार,  
बदला चुकाना, वैर निकालना ।  
२. मुकाबला, सामना । ३ उपाय;  
इलाज । [विपरीत, विरुद्ध ।]

प्रतिकूल - ल वि प्रतिकूल;  
प्रतिकृति - स्त्री १ प्रतिकृति,  
प्रतिरूप, नकल, प्रतिभा ।  
प्रतिविव ।

प्रतिक्रिया - स्त्री प्रतिक्रिया,  
रहे अमल, किसी कार्य के परिणाम  
के रूप में होने वाला कार्य;  
'रीएक्शन' ।

प्रतिगामी - वि १ प्रतिक्रिया-  
वादी, विरोधी । २ पीछे जाने  
वाला ।

प्रतिज्ञा - स्त्री प्रतिज्ञा, दृढ  
सकल्प, टेक, निश्चय, वादा ।  
- पत्र - न प्रतिज्ञापत्र, इकरार-  
नामा; शर्तनामा । [गूंज ।

प्रतिध्वनि - पु प्रतिध्वनि,  
प्रतिनिधि - पु १ प्रतिनिधि,  
नुमाइदा । २ प्रतिरूप, प्रतिमा ।  
३ प्रत्यायुक्त, 'डेलीगेट' । ४.  
प्रतिभू, जामिन ।

प्रतिपक्षी - वि १. प्रतिपक्षी;  
विपक्षी; विरोधी, प्रतिद्वंद्वी ।  
२ शत्रु । ३ प्रतिवादी; मुद्दालेह ।

प्रतिपादणें - क्रि स प्रतिपादन  
करना, किसी विषय का सप्रमाण  
कथन, निरूपण करना । २ सावित,  
प्रमाणित करना । ३ बोलना,  
कहना ।

प्रतिपादन - न १ प्रतिपादन;  
विवेचन, निरूपण । २ समर्थन ।

प्रतिपाद्य - वि प्रतिपाद्य; जिसे  
प्रमाणित किया जाय, जिसका  
स्पष्टीकरण किया जाय ।

प्रतिपाळ - पु प्रतिपालन,  
पालन, पालन-पोषण, रक्षा  
करना, परवरण ।

प्रतिबंध - पु प्रतिबंध, रोक,  
पावदी । मु० - घालणे - रोक, पावदी  
लगाना । [परछाईं, प्रतिच्छाया ।

प्रतिबंध - न प्रतिबंध,  
प्रतिबंधित - वि प्रतिबंधित,  
अकित, चित्रित ।

प्रतिभा - स्त्री १ प्रतिभा,  
विलक्षण बौद्धिक शक्ति, सहज  
योग्यता या निपुणता, सहजात और  
असामान्य कल्पनाप्रवणता । २  
दीप्ति, प्रभा, चमक । ३ दे.  
'प्रतिविव' । ४. अनुभव, प्रतीति ।  
- वान, - शाली; - सपन्न -  
वि प्रतिभावान्, प्रतिभाशाली,  
प्रतिभासपन्न, प्रतिभायुक्त ।

प्रतिमा - स्त्री १ प्रतिमा, मिट्टी,  
पत्थर आदि की मूर्ति, देवता की  
मूर्ति जिसकी पूजा की जाती है ।  
२ सादृश्य, उपमा । ३ चित्र,  
तसवीर । ४ अनुकृति, नकल ।  
५ प्रतिविव ।

प्रतिमान - न प्रतिमान,  
परछाईं, प्रतिमा, प्रतिमूर्ति ।

प्रतियोगी - वि १ प्रतियोगी,

विरोधी । २ जोड़ का, बराबरी का । ३ जैसे को तैसा बरताव करने वाला । - प्रु १. प्रतियोगी, विरोधी; शत्रु; प्रतिद्वंदी । २ जोड़ । - सहकारिता - स्त्री अनुक्रियात्मक सहयोग, सवादी, प्रतिक्रियात्मक, प्रत्युत्तरदायी, जवाबी सहयोग ।

प्रतिलोम - वि प्रतिलोम, विपरीत, उलट । - विवाह - प्रु प्रतिलोम विवाह, ऐसा विवाह जिसमें वर नीच वर्ण का हो और कन्या उच्च वर्ण की ।

प्रतिवाद - प्रु प्रतिवाद, वादी की बात का जवाब, खंडन ।

प्रतिवादी - प्रु १ प्रतिवादी, मुहालेह । २ दे 'प्रतिपक्षी' ।

प्रतिवृत्त - न प्रतिवेदन, विचरण, इतिवृत्त, 'रिपोर्ट' ।

प्रतिष्ठा - स्त्री १ प्रतिष्ठा, सम्मान, मान-मर्यादा, इज्जत । २ स्थापन । ३ देवप्रतिमा की स्थापना । [देवप्रतिमा की स्थापना ।

प्रतिष्ठापना - स्त्री प्रतिष्ठापन,

प्रतिष्ठित - वि १ प्रतिष्ठित, लघुप्रतिष्ठ, सम्मानित, इज्जतदार । २ स्थापित । ३ अकडैत, अकडवाज, घमडी, अहमन्य ।

प्रतिसहकार - प्रु दे. 'प्रतियोगी सहकारिता' । - प्रक्ष - प्रु सरकार के अच्छे कामों में सहयोग देकर अन्य बातों में विरोध करने वाला पक्ष ।

प्रतिसूचना - स्त्री सशोधन, तरमीम ।

प्रतिस्पर्धा - स्त्री १ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, लाग-डाट, होड़ । २ जलन, मत्सर, द्वेष ।

प्रतिस्पर्धी - वि प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, सामना, मुकाबिला करने वाला ।

प्रतीक - न १ प्रतीक, चिह्न, निशान । २ प्रतिमा; प्रतिरूप ।

प्रतीक्षा - स्त्री प्रतीक्षा, इतजार ।

प्रतीत - वि प्रतीत, ज्ञात, मालूम; महसूस किया हुआ ।

प्रतीति - स्त्री प्रतीति, ज्ञान; बोध, अनुभव, एहसास । मु० प्रतीतीस येणें - अनुभव होना, ज्ञात, मालूम होना, एहसास होना ।

प्रतीद - प्रु १ प्रतीद, अकुश, चात्रुक, कोडा । २ सचेतक, चेतक, 'व्हिप' । [की डोरी ।

प्रत्यचा - स्त्री प्रत्यचा, धनुष प्रत्यतर - न १ अनुभव, तजरवा । २ विश्वास, यकीन । ३ प्रमाण, सुबूत ।

प्रत्यक्ष - वि १ प्रत्यक्ष, सीधा; 'डाइरेक्ट' । २ स्पष्ट, साफ, जो आंखों के सामने हो । - अव्य. - १ स्पष्टत, आंखों के सामने, साफ-साफ । २. सीधे । - कर - प्रु प्रत्यक्ष कर, 'डाइरेक्ट टैक्स' । - पर्णें - अव्य प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रीति से, बराहे रास्त, विला वास्ता । प्रत्यक्षात - अव्य यथार्थ में, यथार्थत, सचमुच, वस्तुतः । कहा० प्रत्यक्षास प्रमाण कशाला ? हाथकगन को आरमी क्या ?

प्रत्यय - प्रु १ प्रत्यय, अनुभव, विश्वास । २ प्रत्यय, परसर्ग, वह उपसर्ग जैसा शब्द जो किसी धातु या मूल शब्द के अंत में कोई सज्ञापद, क्रियापद, अव्यय या विशेषण बनाने के लिए लगाया जाता है (व्या०) । मु० प्रत्ययास येणे - अनुभव होना, जंचना, प्रत्यक्ष होना ।

प्रत्यवाय - प्रु १ प्रत्यवाय, बाधा, रुकावट, दिक्कत । २. हर्ज, आपत्ति । [ हमेशा, प्रतिदिन ।

प्रत्यहीं - अव्य. हररोज, प्रत्युत्तर - न १ प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर । २ घृष्टता के साथ दिया हुआ जवाब ।

प्रत्युत्पन्नमति - वि प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली, हाज़िर-जवाब । [ हर एक ।

प्रत्येक - वि प्रत्येक, हर,

प्रथम - वि प्रथम, पहला, अव्वल । - अव्य. पहले, आगे, पेशतर । - चरण - प्रु १ पहली सीढी, प्रारभ । २ किसी काल के चार विभागों में से पहला । - त - अव्य प्रथमत, पहले, सब से पहले । - दर्शनों - अव्य १ किसी कार्य के प्रारभ में, शुरू में । २ भेट होते ही । ३ ऊपरी तौर पर । -

पुरुष - प्रु उत्तम पुरुष-में, हम (व्या०) । - वर - प्रु १ कुंआरा । २ ऐसा पुरुष जिसका विवाह पहली बार हो रहा हो । कहा० प्रथम प्रासे मक्षिकापात - सिर मुंडाते ही ओले पडे, किसी काम के शुरू करते ही उसमें बाधा पड जाना । [ कर्ताकारक ।

प्रथमा - स्त्री प्रथमा (विभक्ति),

प्रथा - स्त्री प्रथा, रूढि, परिपाटी, चाल, रिवाज, चलन ।

प्रदक्षिणा - स्त्री प्रदक्षिणा, परिक्रमा, चक्कर, फेरी ।

प्रदर - प्रु प्रदर, सफेद पानी, स्त्रियों का एक रोग जिसमें उनके गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का लसदार पदार्थ बहता है ।

प्रदर्शन - न १ प्रदर्शनी; नुमाइश । २ दिखावा । ३ प्रदर्शन, दिखाना । [२ प्रात; सूवा ।

प्रदेश - पु १ प्रदेश; इलाका ।

प्रधान - पु प्रधान, सचिव, प्रधान मंत्री, वज़ीर । - वि प्रधान, मुख्य, सब से बड़ा ।

प्रपच - पु १ गृहस्थी, ससार, दुनियादारी, खानादारी, घर - वार । २ प्रपच; जगत । ३. छल; धोखा । ४ विस्तार, फैलाव । - पु पक्षपात, भेदभाव ।

प्रफुल्लित - वि १ प्रफुल्ल, खिला हुआ, विकसित । २ प्रसन्न, खुश ।

प्रवध - पु १ प्रवध, अन्वेष प्रवध, अविनिवध, 'थीसिस' । २ काव्यग्रथ, ग्रथ । ३ भाषण; कथा, कहानी ।

प्रवळ - वि १ प्रवळ; जोरदार, ताकतवर, बहुत बली । २ भारी, महान, प्रचंड, उग्र ।

प्रवोधणे - क्रि स १ जगाना, सचेत करना २ समझाना, बुझाना, ज्ञान, उपदेश देना ।

प्रवोधिनी - स्त्री १ प्रवोधिनी, देवोत्थान एकादशी । २ प्रवोधन, यथार्थ ज्ञान कराने वाली सस्था ।

प्रभा - स्त्री १ प्रभा, तेज, चमक, रोगनी, दीप्ति, प्रकाश । २ शोभा । ३ कीर्ति, ख्याति ।

प्रभात - स्त्री प्रभात, सवेरा, प्रातःकाल, भोर । - फेरी - स्त्री प्रभातफेरी, जुलूस बनाकर किसी विशेष प्रकार के नारे लगाते या गीत गाते हुए भोर में बस्ती में घूमना ।

प्रभाव - पु १ प्रभाव, असर, दबाव, छाप, परिणाम । २ तेज, प्रताप । ३ सामर्थ्य । - मु. पडणे - प्रभाव, असर पडना । - पाडणे - प्रभाव असर डालना, छाप डालना ।

प्रभावळ - स्त्री १ देवता आदि

की मूर्ति के पीछे सोने, चादी आदि की बनायी जाने वाली कमान, मेहराब । २. किसी बड़े आदमी के आसपास रहने वाले लोग, मुसाहिव ।

प्रभु - पु १ प्रभु, स्वामी, मालिक । २ शासक, हाकिम । ३ ईश्वर, खुदाताला ।

प्रभुत्व न १ प्रभुत्व, अधिकार । २ स्वामित्व । ३ निपुणता, महारत ।

प्रभृति - अव्य १ प्रभृति, इत्यादि, आदि, वगैरह । २ से, ले कर ।

प्रमाण - न प्रमाण, सबूत । २ परिमाण, माप । ३ सीमा; हद । ४ अनुपात, मात्रा; मान ।

५ त्रैराशिक की पहली राशि (ग०) । ६ ठिकाना, भरोसा । ७ ज्ञान, यथार्थता । ८ अतःकरण; हृदय । ९ स्तर, श्रेणी, कोटि; मानक, 'स्टैंडर्ड' । - वि सत्य, उचित, ठीक । - अव्य स्वीकार, मजूर । - पत्र - न १ प्रमाणपत्र, सन्द । २ अधिकारपत्र ।

- बद्ध - वि १ अनुपातयुक्त । २ गठीला, सुघड, सुडौल (शरीर) । - भूत - वि १ प्रमाणभूत, प्रमाणरूप । २ मूलभूत, बुनियादी । ३ सच्चा, असली ।

प्रमाणीकरण - न प्रमाणीकरण, मानकीकरण, 'स्टैंडर्डायजेशन' ।

प्रमाणे - अव्य १ अनुसार, मुताबिक । २ (के) समान, जैसे ।

प्रमाद - पु प्रमाद; गलती, अनवधानता, भूलचूक, गफलत, लापरवाही । [प्रधान । २. श्रेष्ठ ।

प्रमुख - वि १ प्रमुख, मुख्य,

प्रमेय - न १ प्रमेय, वह जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय हो सके, जिसका किसी प्रमाण द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाय । २ सिद्धांत, उसूल; सूत्र, प्रमेय; 'थ्योरम' । ३ तात्पर्य, सारांश, अर्थ । [ (एक यौनरोग) ।

प्रमेह - पु प्रमेह, सूजाक प्रयत्न - पु १. प्रयत्न; यत्न, प्रयास, कोशिश, चेष्टा । २ परिश्रम, अव्यवसाय । - वादी - वि यत्नवान्, जो भाग्य के भरोसे न बैठा रहे । कहा प्रयत्नांतों परमेश्वर - हिम्मत मदीं मददे खुदा, यत्न करने पर फल अवश्य मिलता है ।

प्रयाण - न प्रयाण; गमन, प्रस्थान । २ मरण, मृत्यु । - समय - पु प्रयाणमस्य; मृत्युकाल । मु० - करणे - १ जाना, सिघारना, प्रस्थान करना । २ मरना, चल बसना ।

प्रयास - पु १ प्रयास, प्रयत्न, कोशिश । २ आयाम, थम । ३ कष्ट, तकलीफ ।

प्रयोग - पु १ प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल; अमल । २ रचना । ३ मन्त्रतंत्र । ४ नाटक का खेल जाना, खेल, अभिनय । ५ परीक्षण, प्रयोग, आजमाइश, तज़रवा । - शाळा - स्त्री प्रयोगशाला; 'लेबोरेटरी' ।

प्रयोजन - न १ प्रयोजन, जरूरत, गरज, आवश्यकता । २. कारण, साधन, आधार । ३ उद्देश्य, हेतु । ४ विवाह आदि अवसरो पर दिया जाने वाला भोज, दावत ।

प्रलय - पु १ प्रलय, कयामत, अनर्थ । २ विनाश, मृत्यु, ध्वंस,

सहार, सर्वनाश । ३ असीमता, हृद हो जाना; पराकाष्ठा ।

प्रलोभन - न १. प्रलोभन, लालच देना । २ ललचाने वाली वस्तु, प्रणोदन, अनुप्रेरणा, प्रोत्साहन ।

प्रवक्षता - वि प्रु प्रवक्षता, अधिवक्षता, नुमाइदा; तर्जुमान ।

प्रवचन - न प्रवचन, अर्थ सम- धाते हुए कहना, व्याख्यान, वेद, पुराण आदि का उपदेश करना ।

प्रवर्तक - वि १ प्रवर्तक, चलाने वाला; आरभ करने वाला । २. आविष्कार करने वाला ।

प्रवाद - प्रु १ प्रवाद, जनश्रुति, किंवदन्ती, अफवाह । २ बोलना ।

प्रवाल - दे 'प्रवाळ' ।

प्रवास - प्रु १ यात्रा, सफर । २ प्रवास, विदेशवास । - खर्च - प्रु. मार्गव्यय; राहखर्च । - वर्णन - न यात्रावर्णन, भ्रमणवृत्तांत, सफर नामा, भ्रमणकथा ।

प्रवासी - वि यात्री, मुसाफिर ।

प्रवाह प्रु १ प्रवाह, धारा, वहाव । २ अटूट क्रम, वैधा हुआ तार, अखड परपरा । ३ प्रवृत्ति, झुकाव । - पतित - वि गतानु- गतिक, लकीर का फकीर, समय के साथ वह जाने वाला ।

प्रवाळ - न प्रवाल, मूंगा ।

प्रविष्ट - वि १ प्रविष्ट, दाखिल, घुसा हुआ, अदर गया हुआ । २ प्राप्त, मिला, पहुँचा हुआ । [ कुशल, माहिर ।

प्रवीण - वि प्रवीण, निपुण, प्रवृत्त - वि १ प्रवृत्त, लगा हुआ । २ तैयार ।

प्रवृत्ति - स्त्री १ प्रवृत्ति; वहाव, झुकाव, रुजहान । २ आरभ, उत्पत्ति । ३ सासारिक विषयो के

प्रति आसक्ति, निवृत्ति का उलटा । ४ प्रेरणा । ५ रिवाज, प्रथा । - मार्ग - प्रु प्रवृत्तिमार्ग, ससार के धधो मे सलग्न रहना ।

प्रवेश - प्रु १ प्रवेश, दाखिला, भीतर जाना, आना । २ पैठ, पहुँच, रसाई । ३. किसी पात्र का रगमच पर आना । ४ किसी विषय, शास्त्र की जानकारी, अभिज्ञता । - परीक्षा - स्त्री १ प्रवेशिका, 'मैट्रिकुलेशन' । २ दाखिले का इम्तहान ।

प्रवेशणे - क्रि अ प्रवेश करना, दाखिल होना, घुसना, पैठना ।

प्रशसणे, प्रशसिणे - क्रि स प्रशसा करना; सराहना, तारीफ करना ।

प्रशसनीय - वि प्रशसनीय, स्तुत्य, सराहनीय, श्लाघ्य, काविले तारीफ ।

प्रशसा - स्त्री प्रशसा, स्तुति, गुणो का बखान, तारीफ, सराहना ।

प्रशस्त - वि १ प्रशस्त, स्तुत्य, श्रेष्ठ, उत्तम, उचित । २ विस्तृत, विशाल, खुला । ३ उदार । ४ विपुल, बहुत ।

प्रश्न - प्रु १ प्रश्न, सवाल, पूछताछ । २ भविष्यसवधी जिज्ञासा, शकुन । ३ पहेली, समस्या । मु० - पाहणे - फलित ज्योतिष के अनुसार भूत, भविष्य आदि के सवध मे विचारना, भविष्यकथन करना । - सागणे - १ फलित ज्योतिष के अनुसार ग्रहदशा आदिसवधी प्रश्नो का उत्तर देना । २ पहेली का उत्तर निकालना, समस्या का हल बताना । - सुटणे - सवाल हल हो जाना ।

- सोडविणे - सवाल, प्रश्न को हल करना ।

प्रसग - प्रु १ प्रसग, अवसर; घटना, मौका । २ आपत्ति, मुसीबत । ३ सवध, लगाव, व्यवहार । ४ प्रकरण, अध्याय । ५ स्त्री पुरुष का सयोग, समागम । ६ युद्ध, सामना । - चशात् - अव्य १ सयोग से, प्रसग के अनुसार । २ शायद । - विशर्षी - अव्य विशेष अवसर पर, किसी कारण से । मु० - घडणे - स्त्री- पुरुष का सयोग, समागम होना । - थाटणे - अच्छी तरह सपन्न करना । - मारुन नेणे - सूझ-बूझ से काम लेना, किसी मुसीबत या सकट से सफलतापूर्वक निवट लेना ।

प्रसगानुरूप - अव्य समय के अनुसार, अवसर के मुताबिक, उचित ढग से ।

प्रसगावधान - न समायानुकूल सूझ, प्रत्युत्पन्नमत्तित्व, प्रतिभा, साहस, तत्काल बुद्धि, उपस्थिति बुद्धि, असभ्रम, अव्यग्रता, समाहितत्व ।

प्रसगावधानी - वि प्रत्युत्पन्न- मति, सूझबूझ वाला, साहसी ।

प्रसंगी - अव्य अवसर आने पर, मौका पडने पर ।

प्रसन्न - वि १ प्रसन्न, हर्ष- युक्त, खुश । २ निर्मल, प्रसाद- युक्त, स्वच्छ, शांत । ३ कृपालु । - ता - स्त्री १ प्रसन्नता, खुशी । २ कृपा, अनुग्रह । मु० - करणे - प्रसन्न करना, खुश करना, रिझाना । - होणे - १ प्रसन्न होना, मनुष्ट होना । २ अनुग्रह, कृपा करना ।

प्रसरण - न प्रसरण, फैलाव, प्रसार, विस्तार, विस्तरण ।

प्रसव - पु प्रसव; वच्चा जनना; जचगी, प्रसूति । - वेदना स्त्री प्रसववेदना, प्रसवव्यथा, प्रसव की पीडा, वच्चा जनते समय होनेवाली पीडा ।

प्रसवर्णे, प्रसविणे - क्रि व जच्चा होना, जन्म होना, पैदा होना । - क्रि स जन्म देना; वच्चा जनना ।

प्रसाद - पु १ प्रसाद, अनुग्रह, कृपा । २ प्रमादी, देवता को चढायी गयी वस्तु, महात्मा या गुट की जूठन या उसके खा चुकने पर बची हुई भोज्य वस्तु । ३ किसी काव्य या रचना का विशेषरूप से सरल या सुबोध होना । ४ भोजन (भक्त-साधुओं की बोली में) । ५ निर्मलता, स्वच्छता ।

प्रसाधन - न १ प्रसाधन, शृंगार, रूपसज्जा, वनाव-सिंगार । २ शृंगार की सामग्री । - गृह - न प्रसाधनागार, शृंगारकक्ष ।

प्रसार - पु प्रसार, फैलाव । प्रसारक - वि प्रसारक, फैलाने वाला । [ मशहूर ।

प्रसिद्ध - वि प्रसिद्ध, ख्यात; प्रसिद्धि - स्त्री - स्त्री प्रसिद्धि; ख्याति, शूहरत ।

प्रसूति - ती - स्त्री प्रसूति, प्रसव, जचगी । - गृह - न सूति-का गृह, प्रसवगृह, जच्चाखाना, सीरी । [ हुआ ।

प्रसृत - वि फैला हुआ, विखरा प्रस्ताव - पु १ आरभ, प्रस्तावना, भूमिका, निरूपण । २ प्रस्ताव, तजवीज । ३ अवसर, मौका ।

प्रस्तावना - स्त्री १ प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका । २ आरभ ।

प्रस्तुत - न प्रस्तुत, छिडा हुआ विषय, प्रकरणप्राप्त विषय । - वि १ प्रस्तुत, प्रासंगिक । २ उपस्थित, तैयार, सिद्ध । - अव्य फिलहाल, इस समय, अब ।

प्रस्थ - न १ बडा आदमी, प्रभावशाली व्यक्ति । २ महत्त्व ३ ढोग । ४ सामान-असवाव । मु० - माजर्णे - बोलवाला होना; महत्त्व बढ़ना । - माजर्विणे - महत्त्व बढ़ाना, बोलवाला करना ।

प्रस्थान - न १ प्रस्थान, गमन, कूच, रवानगी । २ वस्त्र आदि जो यात्रा के पहले गतव्य स्थान की दिशा में कहीं रख दिया जाता है । ३ मृत्यु । ४ उपदेश का साधन, ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग । ५ अटाला, सामान-असवाव का ढेर । ६. दे 'प्रस्थ' । - मयी - स्त्री प्रस्थान-त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्म-सूत्र । मु० - ठेवणे - १ प्रस्थान रखना, जाने की तैयारी करना । २ ठहरना, मुकाम करना ।

प्रस्थापना - स्त्री प्रस्थापन, स्थापना । मु० - करणे - नीव डालना, स्थापना करना ।

प्रहर - पु प्रहर, एक दिन का आठवाँ भाग, तीन घटों का समय ।

प्रहसन - न प्रहसन, हँसी का नाटक, हास्यरस प्रधान रूपक, 'फार्स' । [ चोट, वार ।

प्रहार - पु प्रहार, आघात, प्रलय - पु १ प्रलय, सहार, विनाश । २ सृष्टि का सर्वनाश, कयामत । [ आँगन, मैदान ।

प्रागण - न प्रागण, बडा प्राजळ - वि १ प्राजळ, मच्चा, खरा; ईमानदार । २

सरल, सुबोध । ३ निर्मल, स्वच्छ; पवित्र । ४ शुद्ध, स्पष्ट, साफ । - पणा - पु प्राजलता, सरलता, ईमानदारी ।

प्रात - पु १ प्रात; प्रदेश; इलाका, सूबा । २ स्थान, जगह । ३ उप-जिलाधीश, उपसमाहर्ता, डिप्टी कलक्टर । ४ सिरा, छोर, किनारा । ५ अत, शेष भाग । - साहेब - पु. उप - समाहर्ता, डिप्टी कलक्टर ।

प्रातिक - वि प्रातिक, प्रातीय । - सरकार - न, प्रदेश की सरकार, राज्य-मरकार ।

प्रातीयता - स्त्री प्रातीयता, अपने प्रात के प्रति मोह या पक्षपात ।

प्राकार - पु. प्राकार; पर-कोटा, ईंट, लकड़ी आदि का बनाया हुआ घेरा ।

प्राकृत - वि १ प्राकृत, सामान्य, साधारण; मामूली । २ अस-स्कृत, उजड्ड । ३ स्वभावसिद्ध; स्वाभाविक, प्राकृतिक, कुदरती । - स्त्री प्राकृत भाषा । मु० - बोलणे - १ गाली-गलीज पर उतर आना । २ गदी वाते कहना ।

प्राक्तन - न प्राक्तन, भाग्य; नसीब, प्रारब्ध । प्राक्तनाची गति - स्त्री दैवगति, भाग्य का फेर । प्राक्तनाची दोरी - स्त्री दैव, किस्मत की डोर ।

प्रागतिक - वि १ प्रगतिशील; तरक्की करने वाला । २ उदार दल का, उदारतावादी । - पक्ष - पु नरम दल, उदार दल ।

प्रागतिहासिक - वि प्रागति-हासिक, इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का । [ 'प्रिसिपल' ।

प्राचार्य - पु प्रधानाचार्य;

प्राचीन - वि १ प्राचीन, पहले का, कदीम, पुराना । २ पूरव का; पूरवी । - न भाग्य, दैव; पूर्वकर्म । प्राचीनाची दोरी - स्त्री किस्मत, भाग्य, दैव की डोर । [ विपुलता, बहुतायत ।

प्राचुर्य - न प्राचुर्य; प्रचुरता; प्राच्य - वि प्राच्य, पूरव का, पूरवी । - विद्याविशारद - वि पूर्वदेशीय, भाषाभिज्ञ; प्राच्य-विद्याज्ञ । [ हरसिंगार ।

प्राजवत - पु पारिजातक, प्राज्ञ - वि प्राज्ञ, बुद्धिमान, आलिम, फाजिल ।

प्राज्ञा - स्त्री १ प्रज्ञा; बुद्धि । २ योग्यता, महत्त्व । ३ मजाल, हिम्मत ।

प्राण - पु १ प्राण, जान । २ वायु, शरीर के भीतर की जीवनाधाररूपी वायु, श्वास, साँस । ३ बल, सामर्थ्य । ४ जीव, जीवन । ५. वह जो प्राणो के समान प्रिय हो । - खाऊ - वि प्राणघातक, जानलेवा । - घातक - की - वि प्राणघातक, मार डालने वाला । - घेणा - वि १ जानलेवा, प्राणघातक । २ पिछलगा, पिछलगू । - दान - न प्राणदान, किसी की प्राणरक्षा करना । - नाथ - पु १ प्राणनाथ; पति, स्वामी । २ प्रेमपात्र, प्रियतम । - प्रतिष्ठा - स्त्री १. प्राण-प्रतिष्ठा; मन्त्रो द्वारा किसी देवता का उसकी प्रतिमा में निवास कराना । २ स्थापना, नीव डालना । - वायु - पु १ प्राणवायु, प्राण । २. प्राणवायु; 'आक्सीजन' । - विसावा - पु प्राणप्रिय, प्रियतम; प्यारा । - सकट - न प्राण-सकट, जान जाने का भय, जान

जोखो । - सखा - पु प्राणसम, प्रियतम, बहुत प्यारा । - प्राणाशीं गाठ - स्त्री द्वे 'प्राणसकट' । मु० - असणें - अत्यत प्रिय होना । - ओवाळून टाकणें - जान निछावर करना, जी जान से फिदा होना, तन-मन वार देना, जान कुर्बानि करना, बलि-बलि जाना । - फठाशीं, कंठीं येणें - जान पर आ वनना, प्राण मुँह को, गले तक आना, कलेजा मुँह को आना, बहुत अधिक दु ख होना । - फाडून ठेवणें - १ हर तरह से समझना, गिड-गिडना । २ जिद पकडना । - जाणें - प्राण, जान छूटना, जाना, निकलना; मरना । - ठेवणे-बहुत प्रेम करना, जी जान से प्यार करना । - डोळघात उतरणें - जानपर आ वनना, जान जाने का डर होना । - बाहाणें - जान निसार करना । दूसरे के लिए मरना । - सोडणे - प्राण छोडना, त्यागना, मरना । उघड्या डोळघानीं प्राण न जाणें - अपनी आँखो के मामने कोई अन्याय हो रहा हो तो चुप बैठा न जाना ।

प्राणात - पु १ प्राणात; मृत्यु, मौत । २ बहुत भारी सकट, जानजोखो ।

प्राणातिक - वि प्राणातिक, साघातिक, प्राणनाशक, प्राण हरने वाला, प्राणघातक, असहनीय । - अवस्था - स्त्री आसन्नमरण स्थिति, अव-तव होना ।

प्राणाहुति - ती - स्त्री प्राणा-हुति, भोजन के आरम्भ में पाँच या छ ग्रास 'प्राणाय स्वाहा' 'अपानाय स्वाहा' आदि मन्त्र पढ़ कर खाना ।

प्राणिज - वि जातव, जैव,

प्राणियो से उत्पन्न । - अन्न - न मासाहार, सामिष आहार ।

प्राणिशास्त्र - न प्राणिविज्ञान, जीवविज्ञान, जंतुविज्ञान, जीव-शास्त्र । [ घर जतुशाला ।

प्राणिसमाहालय - न चिडिया-प्राणी - पु १ प्राणी, जानदार, जीव-जंतु । २ जानवर; पशु । ३ मनुष्य, व्यक्ति ।

प्राणेश, प्राणेश्वर - पु १ प्राणेश, प्राणेश्वर, पति, स्वामी । २ प्रेमपात्र, प्रियतम । ३ ईश्वर । प्राणेश्वरी - स्त्री प्राणेश्वरी, पत्नी, प्रियतमा ।

प्राणोत्क्रमण - न प्राणोत्क्रमण, प्राणोत्सर्ग, मृत्यु ।

प्रात - अव्य. प्रात, सवेरे, तडके । - काळ - पु प्रात काल, प्रभात, सवेरा, तडका । - स्मरण - न प्रात स्मरण, प्रात-काल देवता का स्मरण ।

प्रातविधि - धी - पु शौचादि; शौच, मुखमाजंन, स्नान आदि मुबह करने के कार्य ।

प्रात्यक्षिक - न प्रदर्शन, निदर्शन, 'डेमान्स्ट्रेशन' ।

प्राथमिक - वि प्राथमिक, प्रारम्भिक, पहला, इत्तिदाई । - शिक्षण - न प्राथमिक शिक्षा, इत्तिदाई तालीम । - हुकूमनामा - पु फरियाद का आखिरी फैसला होने से पहले की जाने वाली डिगरी ।

प्रादुर्भाव - पु १ प्रादुर्भाव, प्रकट होना, दिखाई देना । २ उत्पत्ति, जन्म, पैदा होना । ३ अवतार । ४ आरम्भ ।

प्रादुर्भूत - वि १ प्रादुर्भूत, उत्पन्न । २ फैला हुआ ।

प्रादेशिक - वि प्रादेशिक,



स्थानिक, क्षेत्रीय, इलाकाई ।

प्राधान्य - न १ प्राधान्य, प्रधानता, महत्त्व, अग्रिमता, तरजीह । २ विपुलता ।

प्राध्यापक - पु प्राध्यापक, 'प्रोफेसर' ।

प्रापचिक - वि १ पारिवारिक, घरेलू, गृहस्थीसवधी । २ सासारिक, लौकिक, ऐहिक ।

प्राप्त - वि १ प्राप्त, पाया हुआ, लब्ध, मीसूल । २ जरूरी, आवश्यक, उचित । ३ पहुँचा हुआ ।

प्राप्ति-प्ती - स्त्री १ प्राप्ति, पाया जाना; मिलना । २ आय, आमदनी । ३ लाभ, फायदा । - कर, प्राप्तीवरील कर - पु आयकर, 'इन्कमटैक्स' ।

प्रावल्य - न प्रावल्य, प्रबलता, जोर ।

प्रामाणिक - वि ईमानदार, मच्चा, विश्वसनीय, दयानतदार । २ प्रामाणिक, शास्त्रसिद्ध । - पणा - पु ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी ।

प्रॉमिसरी; प्रॉमिसरी नोट - स्त्री [ अ ] प्रामिसरी, प्रामिसरी नोट, तमस्सुक, रुक्का, दस्तावेज, वचनपत्र; 'प्रोनोट' ।

प्रायः - अव्य १ प्राय, अधिकतर, अक्सर, बहुधा । २. आम तौर पर ।

प्रायश्चित्त - न प्रायश्चित्त, वह शास्त्रविहित कर्म जो पाप का मार्जन करने के लिए किया जाय, कफारा, शोवन ।

प्रायोपवेशन - न प्रायोपवेशन, मृत्यु के लिए किया जाने वाला अनशनव्रत । [ शुश्रात ।

प्रारंभ - पु प्रारभ, आरभ,

प्रारब्ध - न १ प्रारब्ध, भाग्य; किस्मत । २ कर्मफल । ३ माया । - गति - स्त्री दैवगति, भाग्य का फेर । - योग - पु १ देवयोग । २ मयोग; इतिफाक । - वाद - पु दैववाद । मु० - उधड़णे - भाग्य, किस्मत खुलना, किस्मत चमकना, जागना ।

प्रार्थणे - दे. 'प्रार्थिणे' ।

प्रार्थना - स्त्री १ प्रार्थना; विनती, निवेदन, इल्लिजा । २ उपासना, इवादात । ३. मांगना; याचना ।

प्रार्थिणे - क्रि स १ प्रार्थना करना, उपासना, इवादात करना । २ मांगना, याचना करना । ३ इल्लिजा, विनती करना ।

प्रालब्ध - न दे 'प्रारब्ध' ।

प्रावरण - न प्रावरण, ओढने का वस्त्र, चादर ।

प्राविण्य, प्रावीण्य - न प्रावीण्य, कुशलता, निपुणता, महारत ।

प्राशणे - क्रि स पीना, पान करना ।

प्राशन - न १ पीना, पान । २ शोपण, चूसना । ३ नाश ।

प्राशिनक - पु १ ज्योतिषी । २ प्राशिनक, प्रश्न करने वाला ।

प्रासगिक - वि १ सामयिक, वक्ती । २ प्रासगिक, प्रसगोचित ।

प्रास - पु प्रास, अनुप्रास, तुक । प्रासाला प्रास - पु तुकवदी ।

प्रासाद - पु १ प्रासाद, राजभवन, महल, आलीशान इमारत । २ देवालय ।

प्रासादिक - वि १ प्रासादिक, जो प्रसाद के रूप में दिया जाय । २ सरल, सुवोध, सुदर ।

प्रास्ताविक - न भूमिका, दीवाचा । - वि १ प्रारम्भिक,

भूमिका के रूप में कहा हुआ । २ प्रास्ताविक, प्रसगोचित, समयोचित । [ चार्थ; 'प्रिमिपल' ।

प्रिन्सिपॉल - पु [ अ ] प्रवा-

प्रिय - पु १ प्रिय, स्वामी, पति । २ प्रेमी; बाधिक । - वि प्रिय, प्यारा, मनभाता । - कर, -तम - पु १ प्रियतम, पति । २ प्रेमी । - वि प्रियकर, प्यारा ।

-तमा - स्त्री १ प्रियतमा, पत्नी । २ प्रेमिका, माशूका । - पात्र - वि प्रिय पात्र, प्यारा, लाडला । २ प्रेमिका, माशूका ।

प्रिया - स्त्री १ प्रिया, पत्नी ।

प्रीत - स्त्री दे 'प्रीति' । - वि १ प्रीत, प्रसन्न । २. प्यारा ।

प्रीति - स्त्री १ प्रेम, प्यार, मुह्वत, इश्क । २ कृपा, मिह्रवानी । ३ शौक । - पात्र - न १ प्रीतिपात्र, प्यारा, प्रेमभाजन ।

२ पत्नी । ३ प्रेमिका । - विवाह - पु प्रीति-विवाह, प्रेम सवध के कारण होने वाला विवाह । - मगम - पु आमने-सामने आने वाली दो नदियों का मगम । मु० - लावणे - किसी का प्रेम प्राप्त करना, किमी से प्रेम करना ।

प्रीत्यर्थ - अव्य (के) लिए, (के) वास्ते ।

प्रुफ, प्रूफ - न [ अ ] प्रूफ, शोध्यपत्र । - करेकटर, - रीडर - पु शोधनकर्ता, प्रूफरीडर ।

प्रेक्षक - वि पु प्रेक्षक; दर्शक, देखने वाला

प्रेक्षणीय - वि प्रेक्षणीय, दर्शनीय, सुदर, देखने लायक, योग्य ।

प्रत - न १ शव, लाश, मुर्दा । २ प्रेत, मृतात्मा । - कर्म

-न प्रेतकर्म, मृतक के निमित्त किये जाने वाले कृत्य। - कळा - स्त्री १ मुर्दनी, मृत्यु के चिह्न जो चेहरे से प्रकट हो। २ भारी भय या गहरी चिंता की छाया। - भूमि - स्त्री प्रेतभूमि, श्मशान; कन्निस्तान। - यात्रा - स्त्री शवयात्रा; जनाजा। मु० - कळा पसरणे - मुर्दनी छाना। - यात्रा निघणें - जनाजा, अरथी उठना, निकलना।

प्रेम - न १ प्रेम, प्यार। २ मुहब्बत; इश्क। ३ स्नेह। - पात्र - न प्रेमपात्र, प्रिय पात्र, प्यारा व्यक्ति। मु० (वर) प्रेम करणें = (से) प्रेम, प्यार, मुहब्बत करना। प्रेमांत पडणें - परागना, प्रेम में पडना।

प्रेमळ - वि प्यारा, मुहब्बती, प्रेमल, स्नेहल, प्रेमयुक्त।

प्रेमा - पु दे 'प्रेम', 'प्रीति'।

प्रेमी - वि. प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रेमयुक्त, प्रेम वाला। - पु आशिक, प्रेमपात्र। [करने वाला।

प्रेरक - वि प्रेरक, प्रेरणा

प्रेरणा - स्त्री १ प्रेरणा, किसी-को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया, प्रोत्साहन, उत्तेजन। २ उकसाना, उत्तेजना। [वाला।

प्रेषक - वि प्रेषक, भेजने-प्रेषित - पु पैगबर, नबी, ईश्वर का दूत, ईशदूत, मन्त्रद्रष्टा, 'प्रांफेट'। [ 'प्रेस'।

प्रेस - पु [अ] छापाखाना, प्रेंसिडेंट - पु [अ] सभापति, सदर, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, 'प्रेसिडेंट'।

प्रोत्साहन - न १ प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बाँधना। २ बढ़ावा, उकसाना।

प्रोफेसर - पु [अ] प्राध्यापक, किसी विश्वविद्यालय या बड़े विद्यालय का अध्यापक।

प्रौढ - वि १. प्रौढ, बालिग, उम्ररसीदा, जिसकी उम्र अधिक हो चली हो, पुस्ता। २. परिपक्व, दक्ष, निपुण। ३ अनुभवी, परिणतबुद्धि, प्रगल्भ। - शिक्षण - न प्रौढशिक्षा, तालीमे

बालिगान।

प्रौढी - स्त्री १ घमड़, शेखी; घृष्टता, साहस। २ प्रौढि, परिपक्वता, सामर्थ्य। ३ बड़प्पन।

प्लैट - न [अ] भविष्य-फलक (एक स्वचालित यंत्रविशेष), मृत व्यक्ति की आत्मा से सपर्क स्थापित करने का एक यंत्र; 'प्लैन्शेट'।

प्लेटफॉर्म - पु [अ] १ प्लेटफार्म (रेल्वे का)। २ मंच, चबूतरा। [ 'प्लास्टर'।

प्लेस्टर - न [अ] पलस्तर, प्लॉट - पु [अं] १ कथानक, कथावस्तु (नाटक, उपन्यास आदि की), 'प्लॉट'। २ जमीन का टुकड़ा। ३ साजिश, दुर्भिसवि।

प्लीहा - स्त्री १ प्लीहा, यकृत, तिल्ली। २ एक रोग जिसमें तिल्ली बढ जाती है।

प्लेग - पु [अ] १ ताऊन, 'प्लेग' (एक मयानक मक्रामक रोग)।

प्लाट - न दे 'पोट'।

## फ

फ - मराठी वर्णमाला में प वर्ग का द्वितीय वर्ण।

फड - पु [अ] निधि, चदा; 'फड'। - गुड - पु चदा जमा कर उसे हड़प कर जाने वाला।

फव - पु [अ 'फद'] १ फदा, फाँस, जाल। २ छल, धोखा, पड-यंत्र। ३ झझट, झमेला। ४ लत, बुरी आदत। ५ अनैतिक स्त्री-पुरुष संबंध। ६ शौक। ७ घमड़। छद-पु बहु छक्का-पजा, दाँव-पेंच; छल-कपट। - फितुरी - स्त्री १ दगाबाजी, फरेब, छल। २

विद्रोह, बगावत। मु० फदात पडणे - चक्कर में आना, झझट में फँसना।

फकड - दे 'फक्कड'। फकडी - स्त्री १ फूल की पेंच-डियो की कतार। २ इकहरी पेंच-डियो का फूल। - वि अगूर की एक किस्म।

फकस्त - दे 'फक्त'। फकाणा - पु. दे 'फक्की'। फकिरी - स्त्री [अ 'फकीरी'] १ फकीरी, फकीर का पेशा। २ भिखमगापन, मँगताई।

फकीर - पु [अ 'फकीर'] १ फकीर, मुसलमान साधु। २ भिखमगा, मँगता, भिखारी। ३ मन्यासी; जो ममार से विरक्त हुआ हो।

फक्कड - वि १ बडिया, सुदर, खूबसूरत। २ मनमौजी, छैला, मस्ताना।

फक्का - पु, फक्की - स्त्री फका, फकी, उतना दाना या चूर्ण जितना एकवार फाँका या खाया जाय। मु० - मारणे - फका मारना, फाँकना।

फैटरी - छी [अं] कारखाना, निर्माणी, मिल, 'फैटरी' ।

फकत - अव्य. [अ 'फकत'] फकत, केवल, सिर्फ, मात्र ।

फजिता - पु दे 'फजिती' । २ वेढगे तरीके से बनाया हुआ खाने का पदार्थ, स्वादरहित, बदजायका चीज । ३ आम का रायता । ४ पके आमो को निचोड लेने पर उनकी गुठलियो को पानी में धो कर निकाला हुआ रस ।

फजिती - छी [अ 'फज्जीहत'] १ फज्जीहत, फकडी, दुर्गंत, छीछालेदर, हँसी । २ अपमान, झिल्लत, अप्रतिष्ठा । - चे जिणे - न अपमानजनक जीवन, लाचारी की जिंदगी ।

फज्जीत - छी [अ 'फज्जीहत'] दे 'फजिती' । - वि अपमानित, लज्जित, शर्मिदा । - खोर - वि जो हमेशा शर्मिदा होता है; निर्लज्ज, बेशर्म । - वाडा - पु बडी दुर्गंत, दे 'फजिती' । मु० - पावणें, -हौणें - शर्मिदा होना, दुर्गंत, छीछालेदर होना ।

फज्जीती - दे 'फजिती' ।

फज्जा - पु [अ 'फज्जह'] १ फकडी, दुर्गंत, दे 'फजिती' । २ दे 'भोग्या' ।

फट - छी १ दरार, दर्राज, शिगाफ, चीर । २ खाली जगह । ३ फुरसत, गुजाइश । ४ दे 'फजिती' । ५ फट, 'फट' की आवाज । - अव्य फट से, अतिशीघ्र, तत्काल । मु० - म्हणणें - फटकारना, धिक्कारना, लानत-मलामत करना । कहा० फट म्हणता ब्रह्म-हत्या - फट कहते ही ब्रह्महत्या हो जाना, मामूली बात से बडा उप-द्रव मचना ।

फटक - अव्य. १ बहुत अधिक (सफेद) । २ चटक, 'फटक' की आवाज के साथ । - फटक - अव्य जूतियाँ चटखाते हुए, 'फटक' की आवाज के साथ ।

फटकडा - पु पटाखा (आतिश-वाजी) । - वि छैला, वाँका ।

फटकडी - छी १ छोटा पटाखा । २ छैली, छवीली, नखरेवाज स्त्री । ३ तेज, होशियार, सुदर लडकी । ४ छल्लांग (घोडे की) । ५ फिटकरी ।

फटकणें - क्रि अ १. फटकना, आना, पहुँचना, जाना । २ खिसकना, चपत, गायब होना । ३ फटना, फट कर अलग होना । - क्रि स १. फटकना, पछोरना, झाडना । २ पखे से हवा कर के आग सुलगाना ।

फटकन - अव्य १ फट'मे, चट से, झट से, अति शीघ्र, तत्काल । २ 'फट' की आवाज के साथ ।

फटकल - वि १ मुँह में आये वह बक देने वाला, जवानदराज, बदजवान । २ खराब, बुरा । ३ स्पष्टभापी, साफ-गो ।

फटका - पु १ प्रहार, आघात, चोट, मार, सडाका । २ ताना, फटकार । ३ कडखा (गीत), उपदेशपरक काव्य, पदनामा ।

फटकारणें - क्रि स १. किसी काम को झट से पूरा करना । २ फटकारना । ३ सडाक, सडाका लगाना ।

फटकारा - पु १ दे 'फटका' । २ झपट्टा, घडल्ला, घडाका ।

फटकावणे - क्रि स मारना, लगाना, फटकारना ।

फटकी - छी फिटकरी ।

फटकून - अव्य कट कर; दुराव के साथ, रुवाई के साथ; खिच कर । [फटा - पुराना कवल ।

फटकूर - न १ चीयडा । २ फटफजिती - छी [दे 'फजिती'] छीछालेदर; बडी दुर्गति, थुक्का - फज्जीहत ।

फटफट - टा अव्य 'फटफट' की आवाज के साथ, जोर-जोर से ।

फटफटणें - क्रि अ पौ फटना, तडका होना, उजाला होना । - न सुलगाने का पखा ।

फटफटी - छी फटफटिया, मोटर साइकिल ।

फटफटित, फटफटीत - वि १ वेहद सफेद, उजला । २ फक, फीका, बदरग । ३ (ऐसा माया) जिसपर चदन-तिलक या कुकुम-तिलक (विंदी) न हो । ४ प्रकाशमान्, साफ रोशनी वाला । मु० - उजाडणे, - उज्जेडणे - पौ फटना, सवरे का उजाला होना । - पडणे - रग फक पड जाना, विवर्ण हो जाना ।

फटराड - + छी नीच बेश्या ।

फटलडी \* पु नीच, कमीना पुरुष । - चें काम - न १ अत्यंत घृणित काम । २ टांगतले से निकलना, पराजय स्वीकार करना । [छैला, वाँका ।

फटाकडा - १ पु पटाखा । २. फटाकडी - दे 'फटकडी' । फटाका - पु १ पटाखा । २ दे 'फटाकडा' ।

फटाटणें - दे 'फटफटणें' ।

फटाफट-टा - अव्य तडाक-पडाक, तडाक-फडाक, तडातड, लगातार; जोरजोर से ।

फटिंग - पु. अकेला, फक्कड आदमी। - वि १ नि स्पृह, निरीह, लापरवाह। २ बाँडा, (पुरुष) जिसके आगे-पीछे कोई न हो।

फटीक - दे 'फटक'।

फट्टा, फट्टा - दे 'पट्टा', 'फटिंग'।

फड - पु. १ अड्डा, मिलने या इकट्ठा होने की जगह। २. फड, जुए का अड्डा। ३ सरकारी कामकाज का केंद्र, स्थान - उदा अदालत, चौपाल आदि। ४. मडली, टोली, अभिनेताओं का दल। ५. सभा, बैठक; गोष्ठी, मजलिस। ६ गन्ने का खेत। ७ खडी फसल। ८ कुश्तियों का दगल, अखाडा। - फरी - पु. १ लोकनाट्य का अभिनेता या उस मडली का व्यक्ति। २ अड्डे का सचालक। ३ गन्ने की फसल उगाने या काटने वाला आदमी। ४ सरकारी केंद्र का अधिकारी। मु० - उलगडणें - १. दगल समाप्त होना। २ गोष्ठी, बैठक आदि का काम पूरा होना। - पडणें - १. अड्डा जमना। २ चर्चा का रग जमना। - मारणें - दगल मारना, कुश्ती जीतना। २ वहस में वाजी ले जाना। - राखणें शान को बनाये रखना, अपनी वुरी हालत को छिपाने में सफल होना। - सपादणें - दे 'फड मारणें'।

फंड - न [अ] सनक, धुन; झक।

फडकणें - क्रि अ १. फहराना; लहराना, हवा में हिलना, झोके खाना। २ फडकना, थोडा-थोडा कपित होना। ३ थरथराना; थराना, कांपना। ४ शान के साथ आना, जाना; झूमना। ५ फड-

फडाना।

फडकविणें - क्रि स १ फहराना, लहराना। २ फडफडाना। ३ चाँटा जडना, तमाचा, थप्पड मारना।

फडका - पु. दे 'फडके'।

फडकाविणें - दे 'फडकविणें'।

फडकी - स्त्री १ छोटे बच्चों के ओढने की रगीत चादर। २ ओढनी। ३ दे. 'फटकी'।

फडकें - न १ कपडे का छोटा टुकडा, तौलिया, अंगोछा। २ चीथडा। ३ साडी के नीचे पहनने का वस्त्र; घाघरा। ४ पोतिया, पहन कर नहाने का कपडे का टुकडा।

फडणवीस, फडणीस - पु [फा 'फदंनवीस'] १ महालेखाकार; 'अकौंट जनरल'। २ अर्थमंत्री। ३ तहसील का बडा बाबू, प्रधान क्लर्क। ४. मुशी।

फडताळ - न १ दीवार में बनायी हुई अलमारी। २ आला; ताक, ताखा।

फडतूस, फडतूस - वि फटी-चर, रद्दी; तुच्छ, मामूली, फालतू। [ 'फडणवीस' ]।

फडनवीस, फडनीस - दे फडफड - स्त्री फडफड, 'फड-फड' की आवाज, फडक, फडकन, फडफडाहट। - अव्य फडफडाते हुए, 'फडफड' की आवाज के साथ।

फडफडणे - क्रि अ १ फडफडाना, 'फड-फड' शब्द होना। २ भन्नाना, फटकारना। ३ फडकना, थराना। [सूखा।

फडफडि(डी)त - वि रुका, फडशा - पु [अ 'फस'; फा 'फर्मा'] १ खात्मा,

सफाया। २ चुकता, वेवाक करना। ३. नाश, सहार। मु०-उडणें - खत्म होना, सफाया होना। - उडविणें, - पाडणे - १ खात्मा, सफाया, नाश करना। २ समाप्त, पूरा करना।

फडा - स्त्री १. फण; साँप का फन। २ ताड आदि का पत्ता, इस पत्ते का बना झाडू। ३ नाग-फनी (पौधा और उसका पत्ता)।

फडाड - पु. १ धमाका, धडाका। २ (तोपो, गोलियों आदि की) वीछार।

फडाफड-डां - अव्य. १ तडा-तड, वेधडक, नि सकोच हो कर। २ लगातार, कस कर।

फडी - स्त्री १ नाग का फन। २ झाडू। ३ फंसला।

फड्या निवडुग - पु. नागफनी (थूहर की जाति का एक पौधा)।

फणका, फणकारा - पु १ विच्छू का डक, उस डक से होने वाली आग या झुनझुनी। २ सन-सनाहट; झपट्टा। ३ नखरा; नाज।

फणफण - स्त्री १ झमाका, ठसक। २ झनझनाहट, झुनझुनी। ३. गुस्ता, क्रोध।

फणफणणे - क्रि अ १ भन्नाना, वुडवुडाना। २ तडपना। ३ बुखार आदि से जलन होना।

४ फनफनाना; तेजी से हिलना।

फणस - पु. कटहल (वृक्ष और उसका फल)। - पोळी - स्त्री कटहल के गूदे को सुना कर बनायी हुई रोटी।

फणा - पु. स्त्री १ फणा, फण, साँप का फन। २ केले का घौद। ३ गोघाला में जमीन पर पडा हुआ गोबर निकालने का लोहे

का औजार, पजा। ४ मुंह से बाहर दिखाई देने वाला दाँत।

फणी - छी १ दे 'फणा'।  
२ कधी, कघा। ३ जुलाहो का एक औजार, कघी। - करडा - यु चाँदी की कघी और सिंदोरा।  
- करड्याची पेटी - छी सिंगारदान।  
- वनविणारा - वि यु कँघेरा।

फणेरपेटी - छी, फणेरें - न १. सिंगारदान। २ सीने-पिरोने का सामान रखने की थैली।

फण्या - यु १ दे 'फडशा', 'फन्ना'। २ लकड़ी को चीरते समय लगाया हुआ पन्चर। - वि फन-वाला। - निबडुग - दे 'फडया निवडुग'।

फतकल - छी न पलथी, पलथी मार कर आराम से बैठना। २ फसकडा, वेढगे तौर पर बैठना। मु० - घालून वसणें, - मारणें - १ फसकडा मारना, वेढगे तौर पर बैठना। २ घन्ना दे कर बैठना।

फतरडा, फतरा - वि १ चपडा, चौडा। २ चौडाचकला, फैला हुआ, विस्तृत। ३. वेढगा, वेडील।

फतवा - यु [अ 'फत्वा'] १ फतवा, धार्मिक आदेश, व्यवस्था। २ फैसला।

फताडा - वि दे 'फतरडा'।

फते - दे 'फत्ते'।

फतेमारी - छी [पुर्व० 'पाता-मार'] तेज चलने वाला छोटा जहाज जिसमें तीन से ले कर पाँच तक पाल होते हैं।

फत्तर - यु १ पत्थर। २ वृद्ध आदमी। - अव्य कुछ नहीं, खाक। - पूजा - छी पत्थरवाजी, पथराव, पत्थर - मारना। - फोड - छी १ पत्थर तोडना। २ बहुत

कठिन और मेहनत का काम।

फत्ते - छी [अ 'फत्ह'] फतह; विजय, जीत; सफलता।  
- वि फतहयाव, विजयी, सफल।  
- अव्य. सर, तावे, कब्जे में, वश।

फत्तेमारी - दे 'फतेमारी'।

फत्या - दे 'फद्या'।

फदफदणें - क्रि अ १ दे 'खदखदणें'। २ टीसना, दर्द करना। ३ फफदना, गाय, भैंस आदि का आवाज के साथ हगना, चोथ डालना। ४ दाद आदि का फैलना।

फदफदा - दे 'फिदिफिदी'।

फद्या - यु पैसा, चार पाई के मूल्य [का एक पुराना सिक्का]।  
- वि १ वेकार, निकम्मा। २ नपूसक, नामर्द।

फन - न १. अगवाँसी, हल की वह लकड़ी जिसमें फाल लगता है। २ तकुआ, तकला। ३ खुत्थी, खूँटी। ४ दे 'फण'।

फना-घ्ना - यु [अ 'फना'] १ खात्मा, सफाया। २ फना, विनाश, सत्यानास। मु० - उड-विणें - खा-पी जाना, खा पी कर खत्म करना, उडा जटना।

फनेल - न [अ] कीप, चोगी।

फँसी - वि [अ] १ फँसी, सुदर, भडकदार। २ नकली, दिखावटी। [ऊन, समूर।

फर - छी [अ] फर; पशम,

फरक - यु [अ 'फर्क'] १ फर्क, अतर, फेर, भिन्नता, भेद। २ दूरी; विलगाव। ३ विरोध। ४ गिगाफ, दरार, चीरा। मु० - करणें - १ फर्क करना, पक्षपात, तरफदारी करना।

२. खाली करना, अलग करना।

फरक - यु [अ 'फोर्क'] दीवार का कोना।

फरकटणें - क्रि अ. दे 'फर-फटणे'। - क्रि स घसीटना, जल्दी-जल्दी, घसीट लिखावट लिखना।

फरकी - छी [अ 'फर्क'] खेत में प्रधान अनाज के साथ दूसरा अनाज भी थोड़ी मात्रा में बोना।

फरजी, फरडा, फरताळ; फरद - दे 'फर्जी'; फर्डी, 'फडताळ'; 'फर्द'।

फरपट, फरफट - छी १ घसीट, घसीटे जाने का निशान। २ खीचातानी, तगी। ३ पर-परा, रिवाज।

फरपटणे, फरफटणें - क्रि अ घसिटना, घसीटा जाना। - क्रि स घसीटना, खीचना।

फरफर - अव्य. फरफर, घसीटते हुए, खीचते हुए, जल्दी-जल्दी, घडाघड।

फरफरणें - क्रि अ. १ फर-फरना, फडफडाना, 'फर-फर' की आवाज होना, निकलना। २ फडकना।

फरफरां - दे 'फरफर'।

फरमा - यु १ [अ 'फॉर्म'] फरमा, जुज, कपोज किया और चैस में कसा हुआ छपने के लिए तैयार मैटर, 'फॉर्म'। २ [अ 'फ्रेम'] फरमा, ढाँचा, नमूना।

फरमाइश - छी दे 'फरमाश'।  
फरमावणें, फरमाविणें - क्रि स [फा 'फर्मा', हिं 'फरमाना'] फरमाना, आज्ञा करना, हुक्म देना।

फरमाश-स - छी यु. १

फरमाइश, आज्ञा, आज्ञा रूप में कुछ माँगना, माँग, 'ऑर्डर' । २ नजराना, भेंट । - वि भेंट । - वि बढ़िया, बहुत अच्छा ।

फरमाशी - सी; फर्मा; फर्मास दे 'फरमाश,' 'फरमा,' 'फर-माश ।'

फरशी - छी [ अ 'फर्श' ] १ पटिया, चौकोर और समतल कटा हुआ पत्थर का लवोतरा टुकड़ा २ फर्श, गच ।

फरशी - छी १ परशु, फरसा, कुल्हाड़ी । २. बड़ी ख़ाना ।

फरस - पु. [ अ 'फर्श' ] फर्श, दे० 'फरशी' । - बदी - छी गचकारी, पक्की छत या फर्श बनाना ।

फरसबों - न [ अ 'फ्रेंचवीन' ] एक चपटी, चौड़ी और लवी सेम, वृक्कशिबी, फ्रास की लोविया ।

फरसाण - न नमकीन मिठाई ।

फराडा - पु १ झपट्टा । २ एक तरफ से घड़ा हुआ पत्थर ।

फरांडी - छी चमड़ा काटने का ठीहा ।

फरा - पु. १ कधे की हड्डी । २ रान की हड्डी, टाँग । ३ कतार, पक्ति । ४ दे० 'फराटा' । ५ अनाज का एक माप, मन ।

फराटा - पु. १ मोटी, टेढ़ी-मेढ़ी लकीर । २ दे. 'फाटा' ।

फराफर - रा - अव्य फर - फर, जल्दी - जल्दी, घडाघड, फरटि के साथ ।

फरारी - वि [ अ 'फरारि' ] फरारि, फरार, भागा हुआ । मु० - हीर्णे - फरार होना, भाग जाना; चपत, गायब होना ।

फरारी\* - छी १ हृदय का आकर्षण, खिचाव । २ अधिकता, बडप्पन । ३ उत्कर्ष । ४ फरारि; तेज़ी । ५ घमड ।

फरास - पु. [ अ 'फरशि' ] फरशि, फर्श विछाने वाला, झाड़ू देने वाला । - खाना - पु. १ फर्श-खाना, वह कमरा या मकान जिसमे खेमे और उनका सामान रखा जाय, दरियो, खेमो आदि का भंडार । २ (पूना मे) थाना, पुलिस की चौकी ।

फराळ - पु. १ नाश्ता, जल-पान; उपाहार । २ फलाहार ।

फरी - छी १ फरी, चमड़े की ढाल जिसपर गतके की मार रोकी जाती है । २ जानवर की टाँग, दे 'फरा' । ३ आषा मन (माप) । - गदगा - पु. फरी और गतका ।

फरें - न दे 'फरा' ।

फरेंमरें - न लडकियो का एक खेल जो नौ-नौ ककडियो से खेला जाता है ।

फर्जी - पु. [ फा 'फर्जी' ] १ फरज़ी, शतरज का वज़ीर जो सब से महत्त्व का मोहरा होता है । २ वज़ीर, प्रधान मंत्री ।

फर्डा - वि १ निपुण, होशियार, कुशल । २ जोरदार ।

फर्द - पु. छी न [ अ 'फर्द' ] १. फर्द, एक व्यक्ति, अकेला आदमी । २ जोडे मे से एक चीज़, एक अदद । ३ सूची, चिट्ठी ।

फर्नाडीस, फर्नादीस, फर्ना दीन - पु. [ पु 'फर्नादीज' ] आम की एक किस्म, गोवा का एक बढ़िया कलमी आम ।

फर्च्या - पु जानवरो का हैजा ।

फर्लो - छी [ अं ] फरलो, स्वदेशावकाश, सरकारी कर्म-चारियो को सेवानिवृत्त होने से पहले मिलने वाली लवी छुट्टी ।

फल - न १ फल । २ नतीजा, परिणाम । ३ बदला । ४ सतान । ५ लाभ; फायदा । ६ फाल । ७ तीर, वरछी आदि का अग्रभाग । ८ वृत्त का क्षेत्रफल । - ज्योतिष - न फलित ज्योतिष । - ज्योतिषी - पु. वि ज्योतिषी, सगुनिया । - द्रूप - दे. क्रम मे । - प्रदान - न फलदान, विवाह की एक रस्म (वर के पिता का नारियल से कन्या की कोछ भरना) । - श्रुति - छी १ फलश्रुति, सत्कर्म - विशेष का फल बताने वाला वाक्य । २ फल, नतीजा; फलनिष्पत्ति ।

फलक - पु. १ फलक, लकड़ी आदि का तख्ता । २ दे 'फरा' ।

फलकट - दे 'फोलकट' ।

फलकारा - पु. १ आंचल से उत्पन्न हवा का शकोरा । २ हवा में लहराने वाला आंचल । मु० फलकारे मारणें - तेज़ी से इधर-उधर जाना-आना ।

फलटण - दे 'पलटण' ।

फलद्रूप - वि १ फलप्रद, फल देने वाला, लाभदायक । २ सफल, कामयाब ।

फलम<sup>+</sup> - पु. सोने या चाँदी का एक पुराना सिक्का ।

फलाट - पु. [ अ 'प्लेटफॉर्म' ] रेलवे का प्लेटफार्म ।

फलाणा - वि [ अ 'फुर्ण' ] फलाना, अमुक । - डेकणा - वि १ फलाना । २ साधारण, तुच्छ, ऐरागैरा ।

फलाहार - दे, 'फराळ' ।

फलुम - छी फलुशर्करा;  
फलो की शक्कर, 'फुक्टोज'।

फवारा - यु [ अ 'फव्वार' ]  
१ फव्वारा, फोव्वारा, फौव्वारा;  
फुहारा। २ फुहार, नन्ही-नन्ही  
बूंदो की झड़ी, झीमी।

फंशन - छी [ अं ] १ फंशन,  
ढग, तर्ज, कपडे आदि वा प्रच-  
लित ढग, वजा। २ प्रया;  
रिवाज।

फशों - अव्य. [ 'फाम' की  
अनियमित मत्प्रमी ] फदे में, जाल  
में। मु० - पडणें - मुंह की खाना,  
बोखा खाना। - पाठणें - फदे में,  
जाल में लाना, फदा मारना;  
घोखा देना।

फसकन - अव्य. फसक कर,  
घँसा कर; खच से, ठस से,  
फटक मे।

फसकल - छी दे. 'फतकल'।  
फसकी<sup>१</sup> - छी १ घलुआ,  
घाल। २ प्रत्येक मोमवार को,  
विशेषत श्रावण महीने में, शिवजी  
को चढाया जाने वाला मुट्ठी भर  
अनाज। [ छल; फँसना।

फसगत - छी फँसाव, घोखा;  
फसवणूक - छी फँसाव, घोखा,  
फरेव, फँसना, घोखा खाना।

फसणें - क्रि अ. १ फँसना;  
उलझना। २ घोखा खाना, ठगा  
जाना। ३ असफल होना। ४.  
घरा रहना, घाटा, नुकसान होना,  
उठाना। ५ फदे में पडना; पकड  
में आना।

फसदिशीं - दे 'फसकत'।  
फसफशीत - वि १. सुखा:  
रुखा, भुरभुरा। २ पि  
फुसफमा, बहुत नरम, पि  
३ फेनिल, क्ष. १।  
फसफस

फसफमणें - क्रि अ १. झाग  
उठना, खमीर उठना, आटे  
आदि का खमीर पैदा हो जाने मे  
फूल कर उठना। २ टांय टांय  
फिस होना।

फसफसा - अव्य. झाग के  
नाय; जोर मे, भुरभुराहट के  
साय।

फसवणूक - छी घोखा, दगा;  
फरेव; छल - प्रपच; चकमा;  
भुलावा, ठगना; घोमा देना।

फसवा - वि १ झूठ, झूठा,  
घोखेवाज, मक्कार, फरेवी;  
छली। २ भ्रामक, भुलावे में  
डालने वाला, भ्रमकारी, भ्रमो-  
त्पादक।

फसविणें - क्रि स १. ठगना;  
छलना, घोमा देना। २. फँसाना;  
फदे मे लाना।

फसवेगिरी - छी १ घोखा-  
घड़ी, घोखेवाजी, छल, प्रता-  
रणा, भुलावा। २ मक्कारी,  
चालवाजी। ३ विश्वामघात,  
दगावाजी।

फसव्या - वि छली, घोखे-  
वाज, दगावाज। दे 'फसवा'।

फसाफस-सा - दे. 'फसफसा'।

फस्त - वि [ अ 'फस्त' या  
'फन्द' ] खत्म, हजम, ध्वन्त,  
साफ।

फस्त - छी [ अ 'फस्त' ]  
फस्त, रग को काट कर खून  
निकालना, रक्तमोचन।

फळ - न फल, दे 'फल'।

- फळावळ - छी अनेक प्रकार के  
फल, भेवे। - भाजी - छी फल-  
शाक, ल. मु० फळास  
येणें - लाभदायक  
फळाची

फळकवणी - न. पनीला पदार्थ,  
ऐसी साद्य वस्तु जिसमें बहुत पानी  
पत्र हो (दान, छाछ आदि)।

फळपावळ - छी जोटा मिन्याने  
वा गुल्क (जो सांड आदि के  
मालिक को दिया जाता है)।

फळणें - क्रि अ. १ फलना,  
फलना-फूलना। २ सफल होना; बर  
आना। ३. पडियाना, जोडा  
खाना, बरदाना। ४. मुन्ना  
(त्रिस्तत)।

फळफळणें - क्रि अ. १ आवाज  
के साथ और बड़ी मात्रा में पेशाब  
करना। २. खुक्कर बहना। ३.  
मुन्ना (भाग्य)। ४ लाभ होना।

फळफळीत - वि मून्ना; भुर-  
नुरा।

फळविणें - क्रि स पडियाना;  
बदवाना, गाय, भँस आदि को  
जोडा मिन्याना, गाभिन कराना।

फळा - यु १ फलक, तट्टा।  
२. (शाळेंतील) तट्टे न्याह,  
ध्यामपट्ट, तट्टाए तालीम, 'व्ळक-  
बोर्ड'। ३ फाल।

फळी - छी १. तट्टी; पट्टी।  
२ (दाराची) पल्ला, किवाड का  
तट्टा। ३. (मितीत मारलेली)  
पटनी। ४. क्रतार, पवित। ५  
गुट, पक्ष। ६ युद्ध, मुठभेड।  
मु० - फुटणें - सेना का तितर-  
वितर हो जाना। - फोडणें - १  
सेना की क्रतार को चीर कर  
आगे बढ जाना। २. शिगाफ, दरार  
पैदा करना, एकता को तोड देना।

फांक - छी १. फांक, फल  
आदि का लवाई में तराशा हुआ  
टुकडा। २ विस्तार। ३ होली में  
प्रयुक्त गाली। ४ फट्टा, चीरे  
हुए बांस का लवा टुकडा।

फाकडा - वि १ बांका;

छैला, अलवेला । २ बढिया, सुदर । ३ शानदार ।

फाकणें - क्रि अ. १ फँलना, विखरना । २ खिलना । ३ चौडा होना।-क्रि स १ फँलाना, विखेरना । २ फाँकना, फका मारना । ३ तानना ।

फांका - पु. फाँका, फका, फाँकने की क्रिया ।

फाट<sup>+</sup> - स्त्री १ उग्र, आपत्ति, विरोध । २ रुकावट । ३. दोष । ४ फूट । [ 'फाटा ' ]

फाटणें, फांटा - दे 'फाटणें', फाटी - स्त्री १ टहनी; छोटी शाखा । २ सूखी लकड़ी, ईंधन ।

फांद - दे 'फादी' ।

फांदणें<sup>+</sup> - क्रि स १ फाँदना कूद कर लाँघना । २ फँलाना; विखेरना ।

फादी - स्त्री शाखा, टहनी, डाल । मु० फाँद्या फोडणें - १ भीनमेख निकालना, बहाना बनाना । २ विषयांतर करना, इधर-उधर की बातें उठाना ।

फापट पसारा - दे 'फापट-पसारा' ।

फाशी - स्त्री १ फाँसी; फाँस, फदा । २ फाँसी की सजा, प्राण-दंड । ३ जानवरो का एक रोग जो समय पर पानी न पिलाने से होता है । मु० - जाणें - फाँसी चढ़ना, फाँसी चढाया जाना । - देणें - फाँसी चढाना, फाँसी देना ।

फास - पु. १ फाँस, फदा, पाश । २ जाल; जाला । ३ वधन ।

फासणें - दे 'फासणें' ।

फासळी - स्त्री १ पसली,

पांजर की हड्डियो में से कोई एक । २ चीरा ।

फासा - पु. १ पासा, पाँसा । २ कँटिया, मछली फँसाने की बसी । ३ फदा, पाश; फाँस; जाल। मु० - उलटा पडणें - पासा पलटना, चौसर में हार का दाँव पडना, बुरे दिन आना, भाग्य का प्रतिकूल होना । - टाकणें - १ पासा फँकना, भाग्य की परीक्षा, किस्मत की आजमाइश करना । २ जाल डालना, जाल फँलाना, विछाना, फँसाने की युक्ति रचना । - टाकून पाहाणें - पासा फँकना, किस्मत आजमाना ।

फासेपारधी - पु. पासी, वहे-लिया, चिडीमार ।

फासोळी - दे 'फासळी' ।

फाइल, फाईल - [ अ 'फाइल' ] फाइल, मिसिल, सिलसिलेदार रखे हुए कागजात । मु० - करणें - १ फाइल करना; नत्थी करना, मिसिल में शामिल करना । २ आगे कोई कार्रवाई न करना ।

फाक, फाकडा; फाकणे -, फाका - दे० 'फाक', 'फाकडा', 'फाकणे', 'फाका' ।

फाका - पु [ अ 'फाका' ] फाका, अनशन, उपवास, निराहार । मु० - मारीत फिरणे - नाहक, बेकार भटकना ।

फाकाटणे - क्रि अ अलगाना, अलग, दूर होना । - क्रि स १. फँलाना, तानना । २ अलगाना, अलग, दूर करना ।

फाजिल - वि [ अ 'फाजिल' ] १ वाहियात, अशिष्ट, बेहूदा, शरारती; नटखट । २ फाजिल; अतिरिक्त, फालतू; आवश्यकता से

अधिक । - पणा - पु. शरारत; नटखटी, बेहूदापन, बदमाशी ।

फाटक - न [ हिं ] १ फाटक, बड़ा दरवाजा, सिंहद्वार । २ छोटा दरवाजा । ३ लकड़ी या लोहे के जँगले या कठघरे का द्वार ।

फाटका - वि १ फटा हुआ, फटा-पुराना, विदीर्ण । २ दुबला-पतला । ३ कगाल, गरीब, फटे-हाल, गया-गुजरा, क्षुद्र, तुच्छ । - तुटका - वि फटा-पुराना टूटा-फूटा । - फाटक्या अगाचा - वि छरहरा, इकहरे बदन का; छरहरे बदन का, दुबला-पतला, मरियल । मु० फाटक्यात पाय घालणे - फटे में पाँव अडाना या देना, जानबूझ कर कोई बला अपने सिर लेना ।

फाटणे - क्रि अ. फटना, कटना, दरकना, मसकना । २ शिगाफ, दरार पड जाना । ३. अनवन होना, फूट पडना । ४ तितर-वितर हो जाना ।

फाटा - पु. १ शाखा, डाल, डाली । २ धारा, प्रवाह । ३ अकुर, अँखुआ । ४ मार्ग, रास्ता । ५ मोटी लकीर । १ अनुपस्थिति, छुट्टी, नागा । ७ ईंधन, लकड़ी । ८ शहतीर, वल्ला । ९ छोड देना, त्याग । १० विषयांतर, अवातर, गौण वाते । - फूट - दे क्रम मे । मु० - देणे - १ छोड देना । २ नागा करना, अनुपस्थित रहना । - फाटे फोडणें - १ विषयांतर करना । २ आपत्तियाँ उठाना रुकावटें डालना । ३ बहाने बनाना । ४ पख निकालना, दोष, नुक्स निकालना ।

फाटाफाट, फाटाफूट - स्त्री फूट, अल्हिदगी, अलगाव;



तफिका, मनमुटाव ।

फाइकन - अव्य. जोर से, तडाक से, छूटते ही ।

फाइणे - क्रि स १ फाइना, चीरना, काटना, टुकड़े करना । २ फैलाना (आँख) । मु० फाइन खारों - १ फाइ खाना, भेड़िये आदि का किमीको चीर कर खा जाना । २ टूट पडना, वरम पडना, झल्लाना, वाटने दीडना ।

फाइदिशों - दे 'फाइकन' ।

फाइ - दे 'पाडा' ।

फाइ - छी १ गाही, पाँच चीजों का समूह । २ एक-तरफ से घडा हुआ पत्थर ।

फाइव - वि १ फाइवा हुआ २ काटने पर बचा हुआ ।

फाइ - न गाही, पाँच चीजों का समूह ।

फाणस - पु [फा 'फानूस'] फानूस, बडी कदील, लालटेन ।

फातर - छी १ दे 'फतर' । २ पाट, घोड़ी का कपडे धोने के काम का पत्थर । ३ मिल ।

फात्या - छी [अ 'फातिह'] १ फातिहा, कुरान की पहली सूरात । २ मुर्दे की नियाज । फातिहा -

खानी [कवाड, कवाडा, झपट ।

फापट पसारा - पु. आडवर,

फामटण - क्रि स १, ठूसना, धुसेडना । २ दौडाना, भगाना । ३ उडाना ।

फायदा - पु [अ 'फाईद'] फायदा, लाभ, नफा, प्राप्ति ।

फायदेशीर - वि [अ. 'फाईद'] फायदेमद, लाभजनक ।

फाया - पु [अ 'फाहा'] फाहा, इत्र आदि में तर की हुई रुई ।

फार - वि १ बहुत, अधिक; ज्यादा । २ स्पष्ट; साफ । -

अव्य. - बडी मात्रा में, बहुत । - करन - अव्य. १ बहुत कर के, बहुधा, प्राय । २ गालिबन्, सभवतः । - थोडे - वि बहुत थोडे, इने-गिने । - शी, सा, -से, - दे क्रम में । मु० - फार विचारण - बहुत याद करना । कहा० फार झाल हसू आलें - दर्द का हृद से गुजर जाना है दवा हो जाना, विपत्तियों के हृद से बढ जाने पर कोई दुःख महसूस नहीं होता ।

फारकत-ती, फारखत-ती - छी [अ. फा 'फारिखती'] १. फारिखती, ऋणमुक्ति-पत्र; वेदाकी की रसीद । २ तलाक, तलाकनामा । ३ अलहिदगी, अलगाव ।

फारफेर - दे 'फेरफार' ।

फारशी - छी [फा 'फासी'] फारसी, ईरान, फारस की भाषा । - पु. फारसी, फारस का रहने वाला; ईरानी । - वि फारसी, ईरानी, फारस का ।

फारशी - वि छी अधिक; विशेष ।

फारसा से - अव्य वि १. बहुत कुछ, विशेष । २ बहुत कर के, अधिकतर । ३ वैसे ।

फारोळा - पु, फारोळे - न १ फाल, अकरी । २ शूकरदत, फावडे-से दाँत, चौडे, बदशकल दाँत ।

फार्म - न पु [अ] बडे रकबे का खेत, खासकर जिसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाय, 'फार्म' ।

फॉर्म - पु [अ] १ फार्म, दर्त्वांस्त आदि का छपा हुआ नमूना । २ दे 'फरमा' । ३ नमूना, साँचा, आकृति ।

फार्स - पु [अ] १ म्वांग, तमाया, ढोग । २ प्रहमन, हँसी का नाटक । ३ हान्यजनक कार्य, असगत काम ।

फालतू; फालतूक - वि [अ 'फालतू'] १ फालतू, आवश्यकता से अधिक, फाजिल । २ बेवार, निकम्मा । [मोती ।

फालस - [अ. 'फाल्स'] नकली फाल्गुन - पु फाल्गुन, फागुन का महीना । - वाद्य - न दे 'वोव' ।

फावडी - छी फावडी, छोटा फावडा, काठ की कुदाल जिसमें घोडे की लीद आदि हटाते हैं ।

फावडे - न १ फावडा, बेलचा, फावडी । २ बाधा, तकलीफ, परेशानी । मु० - घालण - बाधा डालना । फावडधानें पैसा ओढणें - वेहद पैसा कमाना ।

फावणें - क्रि स १ फुरसत होना, मौका, अवसर मिलना । २ मिलना, प्राप्त होना । ३ बन आना, सुबिधा होना ।

फाशी, फास, फासणें - दे 'फाशी', 'फास'; 'फासणें' ।

फासणी - छी १ चीरा, गिगाफ । २ फसद । ३ चीरा लगाना ।

फासणें - क्रि स १ लीपना, पोतना; लगाना, मलना, फेरना । २. फासना, ठगना, फँसाना, उलझाना ।

फासळी, फासा, फासेपारधी; फासोळी - दे 'फासळी', 'फामा', 'फासेपारधी', 'फासळी' ।

फाळ - पु १ फाल, हल की अँकडी में लगाया जाने वाला तुकीला लोहा जिससे जमीन खुदती है, कुमी । २. फावडे - के दाँत ।

३ मोटे और चौड़े दांत। ४ चौड़ी, मोटी कलम। - छी दे 'ढलपा', 'चिधी'।

फाळका - पु १ अटेरन, सूत की आंटी बनाने का यंत्र २. बड़ा टुकड़ा। ३ केले के पत्ते का आधा टुकड़ा।

फाळणी - छी १ विभाजन, बँटवारा, तकसीम। २ भूमिकर।

फाळा - पु १ भूमि-कर; महसूल, लगान। २ हिस्सा। ३ टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। ४ फाल।

फाळी - छी १ टुकड़ा। २ जमीन की लबी, तग पट्टी। ३. घज्जी।

फिदारणें - दे 'फेंदारणें'।

फिकट - वि १ फीका, हलका (रग), जो शोख या चटकीला न हो। २ सीठा, वेमजा, नीरस।

फिका - वि १ फीका। दे 'फिकट'। २ निस्तेज, निष्प्रभ; कातिहीन। ३ प्रभावहीन, वैअसर।

फिकीर - छी [अ 'फिक्र'] १ फिक्र, चिंता, सोच। २ पर्वा, परवाह।

फिकें, फिक्कट, फिक्का - दे 'फिकट', 'फिका'।

फिटफाट - छी बवाकी; बेबाक, चुकता होना, लेना - देना वरावर होना, करना।

फिट - दे 'फोट'।

फिटणें - क्रि अ १ खुलना, छूटना, खिसकना। २ पूरा होना। ३ दूर होना। ४ चुकना, अदा, बेबाक होना। ५ निरसन होना।

फिटाफीट - छी दे 'फिट-फाट'। - वि चुकता, बेबाक।

फिड्ल - न [अ] वेला, सारणी, चिकारा।

फितणें - क्रि अ [अ. 'फितन'] १ जा मिलना, बगावत, विद्रोह करना, दगा करना। २ ठगा जाना, भुलावे में आना; फुसलाया, वहकाया जाना।

फितविणें - क्रि स [अ 'फितलः'] फुसलाना; मीठी बातों से वहलाना, भुलावा देना; फूट डालना, अपने पक्ष में कर लेना; वहकाना।

फितुर - वि [अ 'फुतूर'] फिरट, फिरा हुआ, दगाबाज; विश्वासघाती। मु० - होणें - फूटना, घोखा देना, विपक्ष से जा मिलना, दगाबाजी, विश्वासघात करना।

फितुरी - छी [अ 'फुतूर'] दगा, बेवफाई, विश्वासघात।

फितूर-री - दे 'फितुर-री'।

फिदफिदणें - दे १ 'फद-फदणें'। २ 'फिदी फिदी हसणें'।

फिदा - वि [अ 'फिदा'] फिदा, मुग्ध, आसक्त, आशिक, खुश।

फिदीफिदी - अव्य १ खिल-खिला कर। २ वेढगेपन से, वाहियात बेशऊरवन कर। - हसणे - १ खिलखिला कर हंसना। २. खिल्ली उडाना।

फिनाईल, फिनेल - न [अ 'फिनाइल'] दर्शतैल, फिनायल।

फिरग\* - छी [फा 'फरग'] फिरग, तलवार।

फिरगाण - न पु [फरग] १ फिरगियो का देश, इलाका। २ गोवा, वह प्रदेश जो पुर्तगालियों के कब्जे में था। ३ फिरगियो का राज।

फिरगी - पु [अ 'फरगी'] १ फिरगी, यूरोपियन। २

पुर्तगाली।

फिरकी - छी १ मुर्की; गिटकरी (सगीत)। २ पेच, लपेट, चक्कर, घुमाव, मरोड़। ३ फिरकी, घागा लपेटने की रील। ४ फिरकी, चकई (खिलौना)। - चा, - दार - वि पेचदार; लपेट वाला, चक्कर दार। - चें फूल - न जूड़े में पहनने का सोने का पेचदार फूल।

फिरणे - क्रि अ १ टहलना, घूमना, चक्कर काटना। २. मुडना। ३ लौटना, फिरना; पलटना। ४ बदलना, मुकरना। ५ लौटाया जाना, फिराया जाना। ६ पावना होना, निकलना, हिसाब होने पर रकम जिम्मे होना। [करी, दे 'फिरकी']

फिरत - छी (तानेची) गिट फिरता - वि १ घूमने वाला, चक्कर खाने वाला। २ चल, चलता, अस्थिर, चचल, चलता-फिरता, गतिशील। ३ भटकैया, भटकने, घूमने वाला, यात्री, मुसाफिर। ४ गश्ती।

फिरती - छी दौरा, चारो ओर घूमना, इधर-उधर आना-जाना। - वि दे 'फिरता'। मु० - वर जाणे - दौरा करना, दौरे पर जाना, रहना, होना।

फिरवाफिरव - छी हेर-फेर, परिवर्तन, बदल-बदल, तब्दीली।

फिरविणें - क्रि स १ फिराना, घुमाना। २ इधर-उधर चलाना, म्रमण या सैर कराना। ३ साथ लिये फिरना। ४ मोडना, लौटाना। ५ बदलना। ६ फेरना, पलटना, उलटना-पलटना।

फिरस्ता - वि पु १ यात्री;

सेलानी, घुमक्कड, भटकैया । २. फेरी वाला ।

फिल्म, फिरोन - १ फिर से; दुबारा । २ लोट कर, घूम कर । ३. टहल कर ।

फिर्याद - स्त्री [फा 'फर्याद'] १ फरियाद, इन्तिगासा, नालिश, अभियोग । २ शिकायत । मु० - गुदरणे, -ठोकणे - नालिश दागना; फरियाद करना । - होणे - १ फरियाद करना । २ नलिश होना ।

फिर्यादी - वि [फा 'फर्याद'] फरियादी, नालिश करने वाला, वादी; मुद्दई, मुस्तगीस, अभि-योक्ता ।

फिल्टर - न [अ] निस्यदक; विजालक, द्रव पदार्थों को छानने का यंत्र, छाना, 'फिल्टर' ।

फिल्म - स्त्री [अ] १. चल-चित्र, 'फिल्म' । २ सिनेमा की झिल्ली या लच्छा ।

फिसकटणे - क्रि अ १ विगडना, टूटना, खराब होना । २ टायें टायें फिस होना । ३ वेकावू होना ।

फिसकारणें - दे 'फुसकारणें' ।

फिसफिस - स्त्री फुस-फुस, फुसफुसाहट, विल्ली की धीमी आवाज ।

फी - स्त्री [अ] १. फीस, शिक्षा शुल्क । २ पारिश्रमिक; डाक्टर, वकील आदि का मेहनताना । ३. कर, लगान, चुगी ।

फीट - स्त्री [अ 'फिट'] मूच्छा, मिरगी; चक्कर, घमरी, गश, 'फिट' ।

फीत - स्त्री [पुर्त 'फिता', फा 'फीत'] फीता, कपड़े की लची और पतली पट्टी ।

फुक - स्त्री फूंक, मुंह से जोर

के साथ निकाली हुई हवा । मु - मारणें - फूंकना, फूंक मारना ।

फूंकणी - स्त्री फूंकनी, फुकनी, वाँम आदि की नली ।

फुकणें - क्रि स. १ फूंकना, फूंक मारना । २ फूंक कर बजाना । ३ जलाना, भस्म करना । ४. धौकनी चलाना । ५ फूंक देना, बरवाद करना । ६. मत्र पड कर मुंह से हवा छोडना, फूंक मारना । ७ सस्ते में बेच देना । मु. फूंकून पाय टाकणें - फूंक फूंक कर कदम या पाँव रखना, बहुत सावधानता से कोई काम करना । कान फुकणें १ कान फूंकना, दीक्षा देना । २ कान भरना, बहकाना ।

फुकर - स्त्री पु. दे. 'फुक' । मु० - घालणें - १. फूंकना, फूंक मारना । २. किसी के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना ।

फुकरणें - क्रि स फूंकना, फूंक मारना । [सिसकी भ्राना ।

फुदणे - क्रि अ

फुंपाटा - दे 'फुप

फुक - दे 'फुक'

फुकट - वि फ

रहित, मृप्त का । - अ

सेत-सेत, मुप्त में,

विनामूल्य । २ व्यर्थ

नाहक । - खाऊ - वि

खोर, विना मेहनत

की कमाई खाने

निलज्ज, वैशर्म । - च

मुप्त का, सेत का,

वेफायदा । - चोट - वि दे

'खाऊ'

फाकट -

अ

व्यय

पूछ-ताछ

अडाने वाला,

फुकटा - दे 'फुकटचा' ।

फुकटाफाकट - , फुकटाफुकटी दे 'फुकटच्या फाकट' ।

फुकटचा - वि १ मुप्तखोर । २ हराम का, सेत-सेत का, मुप्त का ३ बेकार; निरर्थक ।

फुकणी, फुकणें - दे 'फुकणी'; 'फुकणे' ।

फुकां - का-अव्य. मुप्त में, नाहक । - चा - वि मुप्त का । दे 'फुकटचा' । - अव्य नाहक, व्यर्थ । [यो का एक खेल ।

फुगडी - स्त्री किकली, लडकि-फुगणे - क्रि अ १ फूलना, हवा भरने में तन जाना । २ बढना, मोटा होना, फैलना । ३ सूजना । ४ रुडना, नाराज होना । ५ गर्व से इतराना, अति प्रसन्न होना ।

फुगवटा - पु १ उमार, फुलाव, फुलावट । शोय, वृद्धि ।

फुगविणे - वि हवा भरकर करना । २ गर्व कर के किसी का

फुगा - पु

'लून' । २

१२; ११

५, १०

घमड ।

-

।

२ फटा हुआ। ३ अवूरा; अलग।

फुटका - वि १ फूटा हुआ, टूटा हुआ, खराब, विगडा हुआ, निकम्मा। २ असम्य, अशिष्ट, ग्राम्य। ३ फूटने वाला (कागज, स्याही)। मु० - डोळा काजळानें साजरा करणे - फूटी आंख में काजल लगा कर उस ऐव को छिपाना; होशियारी से दोप को छिपाना। - मणी नसणें - एक भी गहना न होना, विलकुल कगाल होना।

फुटकी - वि स्त्री फूटी-टूटी। दे 'फुटका'। - फवडी - स्त्री कानी कौडी, फूटी कौडी। - तिनिसाज - स्त्री सध्या, शाम का झुटपुटा। मु० - कवडी नसणें - फूटी कौडी पास में न होना, कुछ न होना; विलकुल नादार होना।

फुटकुळी - स्त्री फुसी, फुडिया।

फुटकें - वि न फूटा, टूटा। दे 'फुटका'। - कपाळ - न १ फूटी किस्मत, दुर्भाग्य। २ वैधव्य; रँडापा। - भाडें - न वह जिसके पेट का पानी न पचे, सभी गुप्त बातें दूसरो को बताने वाला। - फुटक्या कपाळाचा - वि अभागा, बदनमीव। फुटक्या कपाळाची - वि स्त्री १ दुर्देवी, बदकिस्मत। २ विधवा, वेवा।

फुटणे - क्रि अ १ फूटना, टूटना, भग्न होना। २ फटना, दरकना; मसकना। ३ उगना, अकुरित होना, शाखा रूप में निकलना। ४ त्वचा या सतह को भेद कर बाहर आना, तोड या फोड कर निकलना। ५ फैलना, स्याही का रस कर कागज की दूसरी ओर निकलना। ६ फटना (दूध)। ७ फैल जाना,

जाहिर होना। ८ शाखा, मार्ग आदि निकलना, जाना। ९ फूटना, निकलना (आवाज)। १० कठ फूटना, जवानी आने पर आवाज का बदलना। ११ विवाई फटना। १२ खराब, निकम्मा हो जाना (आंख, कान)। १३ अलग, वियुक्त होना, बिखरना, फूट पडना। मु० दिशा फुटणे - पो फटना, तडका होना।

फुटवाँल - पु [अ] फुटवाँल (चमडें का बडा गेद)। [कल्ला।

फुटवा - पु अँखुआ, अकुर, फुटाणा - पु १ चना (भुना हुआ), चबेना। २ होशियार, चालाक लडका। मु० फुटाणे उडणे, फुटणे - जोर-जोर से बातें करना, झडी लगना। फुटाणे फोडणे - तडाक से जवाब देना। फुटाण्या-सारखा उडणें - १ जमीन पर पाँव न पडना या न रखना, बहुत गर्व होना, बहुत इतराना। २ बहुत गुस्सा होना, आपे से बाहर होना।

फुटाफूट - स्त्री १ दे 'फाटा-फूट'। २ टूट-फूट। ३ फूट, विगाड, विरोध।

फुटीर - वि १ फूटा हुआ, दरका हुआ, फूटने वाला। २ असहमत, विमत, बहुमत-विरोधी।

फुडचा - ला, फुडा, फुडील, फुडें - दे 'पुडचा-ला', 'पुडा', 'पुडील', 'पुडें'।

फुणफुण - स्त्री १ झुनझुनी। २ भुनभुन, बुडबुडाना।

फुणफुणणे - क्रि अ १ भुन-भुनाना, बुडबुडाना, कुडबुडाना, भन्नाना। २ झुनझुनी आना।

फुफाटा, फुफाटा - पु भूभल, भूभुर, गरम रेत या धूल, गरम राख।

फुफुस - न फुफुस, फेफडा। फुरगुटणे, फुरकुटणे, फुरगुटणे - क्रि अ १ रुठना, कुठना, मसोसना, गाल, मुंह फुलाना। २ फूल कर कुप्पा होना, अत्यधिक गर्व होना, अकडना।

फुरकणे - क्रि अ १ दे 'भुरकणे'। २ फुरफुराना, मुंह से 'फुरं फुरं' की आवाज निकालना।

फुरका - दे. 'भुरका'। फुरण, फुरणे - दे 'स्फुरण', 'स्फुरणे'।

फुरफुर - स्त्री फुरफुरी; 'फुर-फुर' की आवाज। २ हिनहिनाहट।

फुरफुरणे - क्रि अ १ हिन-हिनाना। २ फुरफुराना। ३ फडकना, स्फुरित होना। ४ वेताव हो उठना।

फुरसत - स्त्री [अ 'फुर्सत'] फुरसत, अवकाश, खाली वक्त, फरागत, छट्टी। [जहरीला साँप।

फुरसे - न कोकण का एक फुल - 'फूल' का समास में व्यवहृत रूप। - कोबी - पु स्त्री फूलगोभी, 'कॉली फ्लॉवर'। - झडी - फुलझडी (एक तरह की आतिशबाजी)। - झाड - न ऐसा पौधा जिसमें केवल फूल लगते हो। - दाणी - स्त्री, - दान - न फूल दान, गुलदान। - पाखरू - न १ तितली। २ अस्थिर, चंचल व्यक्ति। ३ बहुत तडक-भडक से रहने वाली स्त्री। - पात्र न प्याला, कटोरा। - बाग - फुलवाडी, फुलवारी, पुष्पवाटिका। - बाजी - स्त्री फुल-झडी। - माळी - पु माली, फूल वाला। - मंगा - पु हिजडा। - वर - पु दे 'फुलकोवी'। वरा - पु १ फूलों की माला। २ मौर, वोर। - वात - स्त्री फूल के

आकार की रूई की वाती ।

फुलका - प्र., फुलकी - स्त्री  
फुलका, फुलकी, हलकी पतली  
रोटी, चपाती ।

फुलणे - क्रि अ १ फूलना,  
फूल आना । २ कली का खिलना,  
चटकना । ३ सूजना । ४ गर्व से  
इतराना । ५ अति प्रसन्न होना ।  
६ खचाखच, ठसाठस भर जाना ।  
७ फदफदाना, शरीर में अधिक  
फुसियाँ या गरमी के दाने निकलना ।

फुलविणे - क्रि स १ फुलाना ।  
२ खिलाना, विकसित करना । ३.  
वहकाना, उकसाना, भडकाना ।  
फुलारी - प्र. फूल वाला, माली ।  
फुलिंग - प्र. न चिनगारी,  
स्फुलिंग ।

फुलिसकेप, फुलसकेप - प्र.  
[अ 'फुलसकैप'] फुलिसकेप,  
एक विशेष आकार का सफेद  
कागज ( १२" × १५" या  
१२ ३/४" × १६" ) ।

फुली - स्त्री १ फुली,  
फुलिया, फुल्ली, काँटा, सदर्म-  
चिह्न, तारा चिह्न । २ फूल,  
फूल की शकल का वेल-बूटा । ३  
काट. काँटा । ४ फुल्ली, फूल के  
आकार का कोई गहना । मु -  
मारणें - काटना, काँटा बना देना,  
काट देना ।

फुले - न बहु १ फूल (बहु) ।  
२ शवदाह के बाद रहने  
वाला अस्थि-अवशेष । मु० -  
माळणे - १ फूलों की माला  
वनाना, फूल गूथना । २ पहलौठी  
की पाँचवे महीने में कोछ भरना ।  
कहा० फुलें बँचलीं तैयें गोवन्था  
वेचणें - जहाँ फूल चुने वहाँ उपले-  
कडे वीनने की नीवत आना, अच्छी  
स्थिति के बाद बुरी दशा का आना ।

फुलेल - न फुलेल, खुशबूदार  
तेल, इत्र ।

फुलोरा, फुलौरा - प्र. १ फूलों  
की माला, फूलों का गुच्छा, गुल-  
दस्ता । २ मौर, वौर, अनाज की  
वालियों में आने वाले फूल ।

फुल्लिंग - प्र. न स्फुल्लिंग;  
चिनगारी ।

फुशारकी - स्त्री १ डींग,  
शेखी, वडाई, आत्मप्रशंसा । २.  
झूठी शान । मु० - मारणें - गाल  
बजाना, डींग हाँकना, शेखी  
वधारना, बह कर बात करना ।

फुशारणें - क्रि अ ऐठना;  
अकडना, टराना, दे 'फुशारकी  
मारणे' ।

फुसकट - न चोकर, भूसा;  
भूसी, छिलका । - वि दे०  
'फुसका' । मु० - पाडणें -  
कचूमर निकालना, दुर्गत बनाना ।  
फुसकन - अव्य फुस से,  
बहुत धीमी आवाज में ।

फुसका - वि फुसफुसा, पोला,  
वोदा, कमजोर ।

फुसकारणें - क्रि अ १ फुफ-  
कारना, फुँकारना, साँप का  
गुस्से में मुँह से जोर से हवा  
छोडना, फुसकारना ।

फुसकी, फुसकुली - स्त्री १  
फुसकी, बिना आवाज के निकलने  
वाली अपानवायु । २ चुटकी,  
ताना; व्यग्य । मु० - सोडणें -  
चुटकी लेना, व्यग्य कसना, ताना-  
जनी करना ।

फुसदिशी - दे० 'फुमकन' ।  
फुसफुशीत - वि १ फुसफुसा,  
पोला, कमजोर । २ दे० 'भुस-  
भुशीत' ।

फुसफुस - स्त्री १. फुसफुस,  
कानाफूसी । २ फूत्कार, फुफकार ।

फुसफुसणे - क्रि अ १ फुस  
फुसाना, फुसफुस करना । २ फुफ-  
कारना । ३ कानाफूसी करना ।  
फुसलावणी - स्त्री लालच,  
फुसलाना ।

फुमलावणे, फुसलाविणे - क्रि  
स १. फुसलाना, वहकाना,  
भुलावा देना । २ समझाना -  
बुझाना, वहलाना ।

फुस्त - न 'फुम' की आवाज,  
फुफकार, साँप, विल्ली आदि के  
गुस्से में मुँह से जोर से हवा छोडने  
की आवाज ।

फू, फू - स्त्री १ फू, फूँकने  
की आवाज । २ फुफकार, फूत्कार ।  
मु० - करणें, करून टाकणे -  
फूँकना, फूँक डालना, बरवाद कर  
देना । [फुलाव, फूलना । २ सूजन ।

फूग - स्त्री १ फुलावट,  
फूट - स्त्री १ फूट, विगाड;  
विरोध, तफरका । २ दरार,  
शिगाफ । ३ धान कूटते समय  
चावल का टूट जाना; कनी । ४.  
अकुर, अँखुआ, कल्ला । ५ कच्चा  
आम । - न फूट ( एक तरह की  
ककडी जो पकने पर फट जाती है ) ।  
-तूट- स्त्री १ टूट - फूट, टूटना  
फूटना । २ टूटी-फूटी चीजे ।

फूट - प्र. [अं.] १ लवाई  
की एक माप जो बारह इंच की  
होती है । २ पाँव, कदम । - पट्टी  
- स्त्री एक फुट लवी लकडी आदि  
की पट्टी । - पाथ - फुटपाथ, सडक  
के अगल - बगल की पट्टी । -  
वाल - प्र. फुटवाल ( चमडे का  
बडा गेंद ) । [फुफकार । २ सिसकारी ।

फूत्कार - प्र. १ फूत्कार,  
फूल - न १ फूल, पुष्प,  
गुल । २ फूल की शकल की चित-  
गारी । ३ फूली ( आँख की

पुतली पर पडा हुआ सफेद दाग) ।  
 ४. सफेद चित्तियों ( पशुओ के शरीर पर की) । ५ जस्ते की लाई ।  
 ६ अडाशय, गर्भाशय । ७ फूल की शकल का बेलबूटा, आमूषण आदि । ८ शूक, रोयाँ।—कोबी, —झडी, —झाड, —दाणी, —पाखरू, —पात्र, —बाग, —बाजी, —माळी, —वात — दे. 'फूल' में । मु० — चळणे — गर्भाशय का अपने स्थान से सरक जाना ।—झडून जाणे — १ वीर, मौर का गिर जाना । २ कालीन आदि के रोयो का झड जाना ।—नाहीं फुलाची पाखळी देणे — पत्र-पुष्प, फूल — पत्ती देना, अपनी शक्ति भर दे कर सत्कार करना ।—वाहणें — १ कन्यादान करना । २ फूल चढाना । फुले माळणे; फुले वेंचलीं तेयें गोवण्या वेंचणें — दे 'फुले' में ।

फूस — छी भुलावा, वहकावा ।  
 घु न फूस, जीर्णशीर्ण वस्तु, अटाला, कवाड ।—वि दे 'फुसका' ।  
 मु०—देणे — दे 'फुसलावणे' ।

फे — अव्य तुच्छता या तिर-स्कारप्रकट करने वाला शब्द, लानत है ।—छी थकावट, परेशानी ।  
 मु०—फे उडणें — नाक में दम आना, बहुत परेशान होना ।

फेंक — छी फेंक, फेंकने की क्रिया ।

फेंकणें — क्रि स १ फेंकना, उछालना । २ सरपट दौडाना, भगाना । ३. गिराना, पटकना, डालना ।

फेंगडा — वि १ टेढे पाँवो वाला । २ टेढा-मेढा । ३ टाँगो को झुका कर या फैला कर चलने वाला ।

फेंटा — घु. फेंटा, सिर पर लपेटा हुआ कपडा; साफा, छोटी पगडी ।

फेंदणें, फेंदणें — दे 'फेंद-रणें' । [वाला, नकटा । २ चपटा ।

फेंदरा — वि १ चपटी नाक  
 फेंदरणे — क्रि स फुलाना, सिकोडना (नाक भौ) ।

फेपरें, फेफरें — न मिरगी, अपस्मार ।

फेंस — घु फेन, झाग ।

फेंसणें — क्रि स १ फेन, झाग लाना, घोटना, रगडना । २ फेंटना, अच्छी तरह मिलाना ।

फेंसाटी — छी कँटीले झाडो का मुट्ठा, गट्ठर । [ दार ।

फेंसाळ — वि फेनिल, झाग-फेक — वि चिट्ठा, बहुत अधिक (सफेद) ।

फेक, फेकणें, फेटा — दे 'फेंक', फेंकणें', 'फेंटा' ।

फेटाळणें — क्रि स १ खारिज करना, अस्वीकार, नामजूर करना, मुस्तरद करना । २ भगाना, हटाना ।

फेड — छी १ अदायगी, भुगतान, शोधन, ऋणपरिशोधन । २ पूर्ति, पूरा करना ।

फेडणें — क्रि स. १. (वस्त्र) उतारना, खोलना । २ (कर्ज) चुकाना, अदा करना, वेवाक करना । ३ (नवस) (मन्नत) उतारना, (मन्नत) पूरी करना । ४ दूर करना, हटाना । ५ साफ करना, धोना । [ जहर, विष ।

फेण — घु १ फेन, झाग । २ फेणणे — दे 'फेंसणे' ।

फेणी — छी १ फेनी, सुधा-फेनी (मिठाई) । २ हलकी शराब, ठर्रा । [ 'फे फें' ।

फेपरें, फेफे — दे 'फेफरें',

फेबुवारी — घु [ अ ] फरवरी (महीना) ।

फेर — घु. १ फेर, घुमाव; चक्कर, घेरा । २ फर्क, अतर । ३ भिन्नता, भेद । ४ वारी । ५ अदल-बदल । ६ मोड, रास्ते का घुमाव ।—अव्य फिर से, लौट कर, दुबारा ।—करघत—छी

वडा आरा ।—तपासणी — छी १ दोबारा की जाने वाली जिरह । २ पुनर्जाँच, पुन परीक्षण, दोबारा जाँचना या देखना ।—निवड —

णूक — छी पुनर्निवाचन, दोबारा चुनाव ।—फडका — घु. चक्कर; सैर, मटरगश्ती ।—फार, —बदल

—घु. १ फेरफार, उलट फेर, तब-दीली, हेरफेर, परिवर्तन, अदल-बदल । २ फर्क, अतर ।—लागवड—छी दोबारा वोआई करना । मु — धरणे, —घरून गणें — गोलाई में घूमते हुए और बीच बीच में झुकते हुए गाना ।—न दुनमुनिया ।

फेरा — घु. १ फेरा, फेर, चक्कर, घुमाव । २ नाहक का वार-वार आना जाना । ३ लपेट, मोड । ४ दौरा ।

फेरिस्त — न छी [अ 'फेह-रिस्त'] फेहरिस्त, सूची, फर्द ।

फेरी — छी १ फेरी, फेरा, चक्कर । २ परिक्रमा । ३ वारी । ४ गस्त । ५ दौर, दौरा । ६ दायरा, मडल । ७ खेप, एक वार का आना-जाना ।—वाला—घु १ फेरी वाला, फेरी कर के, घूम-फिर कर चीजें बेचने वाला । २ घुमक्कड । ३ भिक्षुक, भिखारी ।

फेस, फेसणें, फेसाळ — दे 'फेंस', 'फेंसणे', 'फेंसाळ' ।

फैटण — छी [अ 'फेटन'] फिटन, चार पहियो की हलकी

खुली घोडा-गाडी ।

फैर - स्त्री [अ 'फायर']

१ फैर, बटुक आदि का दागा जाना, उसका एक बार दगना ।

२ वीछार, वाढ ।

फैल - स्त्री [अ 'फाइल']

१ टोली, समूह । २ मजदूरों की वस्ती, जो रेलवे स्टेशन के पाम हो ।

मु० फैलावर घेणे - आडे हायो लेना, डांट पिलाना, फटकारना ।

फैलाव - पु १ फैलाव, विस्तार । २ प्रसार, प्रचार ।

फैलावणें - क्रि अ फैलना, अधिक दूरतक जाना, प्रचारित होना, पसरना, विखरना । - क्रि स फैलाना, विखेरना, पसारना, प्रचार करना, मगहूर करना । [वणे' - क्रि म ।

फैलाविणें - क्रि स दे 'फैला-फोक - पु १ हरी, पतली, लची टहनी । २ छडी । ३ पतला दस्त । - वि १ लवा और मज-वूत । २ पतला, छरहगा ।

फोकली<sup>+</sup> - स्त्री [क 'फुगलि'] (ग्रा) योनि, स्त्रियो की जननेन्द्रिय ।

फोकस - पु [अ] किरणविन्दु, विकिरणविन्दु, केंद्रस्थान, सकेन्द्र, लेन्स आदि का नाम्यायाम, 'फोकस' ।

फोटो - पु [अ] छाया-

चित्र, तस्वीर; 'फोटो'; 'फोटोग्राफ' । - ग्राफर - पु फोटोग्राफर, फोटो, छायाचित्र उतारने वाला, अक्कास ।

फोड - पु १ (मरजेचा) फोडा, फुटका, बडी फुसी । २ (भाजल्याचा) फफोला । ३ (घपणाने आलेला) छाला ।

फोड - स्त्री १ फाँक, टुकडा । २ चीरी हुई लकटियाँ । ३ विवेचन, स्पष्टीकरण ।

फोडणी - स्त्री १ बवार; छोंक । २ दे 'फोड' । ३ विमान-जन; बँटवारा, टुकडे करना । मु० - देणें - १ बघारना, छोंकना । २ डांटना, फटकारना ।

फोडणे - क्रि स १ फोडना, तोडना, चीरना, टुकडे करना । २ सेव लगाना । ३ फूट डालना । ४ बहका, फुसला कर अपनी ओर कर लेना (गवाह) । ५ खराब, अघा करना (आँखें) । ६ प्रकट करना, खोल देना । ७ फाडना (दूब आदि) । मु० फोडून फाडणे - खूब पीटना, खाल उधेडना । कहा० फोडा आणि झोडा - फूट डालो और राज करो (डिवाइड ऐंड रूल) । [चीरा, काटा हुआ ।

फोडीव - वि फोडा हुआ, फोदरी - स्त्री, फोदा - पु [अ 'फोत'] (ग्रा) योनि, स्त्रियो

की जननेन्द्रिय ।

फोनो, फोनोग्राफ - पु [अ] फोनोग्राफ; ग्रामोफोन ।

फोपशा-सा - वि वोदा, फुस-फुसा, पोला; मोटा और कमजोर ।

फोपाटा - दे 'फुपाटा' ।

फोफशा-सा दे 'फोपशा-ना ।'

फोफावणें - क्रि अ १ तेजी से बहना, लहलहाना । २ वादी से फूलना । ३ दे 'फुमकारणें' । ४. तेजी से बहना, वाढ आना ।

फोल - न [क 'पोलू'] १. हलका और पोला दाना । २ छिलका, चोकर, भूसी । वि पोला, खोखला, नि सार । - अव्य. व्यर्थ, बेकार, फुजूल । - कट, -पट - न छिलका; भसा, भूसी ।

फौज - स्त्री [अ 'फौज'] फौज, सेना, लश्कर । - दार - पु फौजदार, कोतवाल, दारोगा । - दारी - स्त्री फौजदारी, फौजदार का पद, अधिकार । - वि. फौजदारी, 'क्रिमिनल' । कायदा पु दंडविधान, जावित्तए फौजदारी । - फाटा, - फाटा - पु दलवल; लावलश्कर ।

फ्या फ्या - दे 'फें फें' ।

फ्रॅम - स्त्री [अ] फ्रॅम; चौकठा ।

फलानेल - न [पुर्त] फलानेल, फलानेल, 'फलानेल' ( एक तरह का मुलायम ऊनी कपडा ) ।

## व

व - मराठी वर्णमाला में पवर्ग का तीसरा वर्ण ।

वैक स्त्री [अं] वक, अधि-कोप, सराफा, लेन-देन की कोठी ।

वगला - पु [हि] १ बँगला, कोठी; खुली जगह में बना सुदर,

छोटा, हवादार मकान । २ बँगला पान ।

वगाली - वि वगाली, बँगला, वगाल का । - स्त्री वगाली, वगाल की भाषा, बँगला । - पु वगाल का निवासी । - केळें - न. एक प्रकार

का मीठा और सुशबूदार केला ।

-विद्या - स्त्री जादू, जादू-टोना ।

बगालें - न बरात के साथ ले जायी जाने वाली कागज के फूलों की मालाएँ ।

बंगी - स्त्री [हि 'वहंगी']

१ वहँगी, काँवर । २ पुलिदा, पोटली, डाक का थैला, 'पार्सल' ।

बजारी - पु वजारा, बन-जारा ।

बड - न [क 'बड', फा 'वद'] १ विद्रोह, विप्लव, बलवा, गदर । २ ढोग, पाखड । ३ सनक, नई, अजीब बात । वि १ विद्रोही, वागी । २ ऊघमी; शरारती, नटखट । - खोर - वि गद्दार, वागी, विद्रोही, विप्लवी । -वाला-पु १ दे. 'बडखोर' । २ वह भारतीय सैनिक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सन १८५७ ई के क्रांति-युद्ध में भाग लिया था । मु - उभारणे - बगावत करना, बगावत का झंडा उठाना या बुलंद करना । [दल, अंग्रेजी बाजा ।

बंड - पु [अ] बँड, वादक-बडल - न [अ] १ बडल, छोटी गठरी, पुलिदा, गट्टा, गड्डी । २ झूठी बात, गप । - बाज - वि गप्पी, गपोडेबाज, गपोडिया । मु० - मारणे - गप हाँकना, झूठी बकवास करना ।

बडा - पु १ बडा, अरुई की जाति का एक कद जो तरकारी के काम आता है । २ ईंट का टुकडा, रोडा । ३ भडार ।

बडाई - छी [फा 'वद'] बगावत, विद्रोह, विप्लव के काम ।

बडाळी - छी [फा 'वद'] १ विद्रोह, विप्लव, बगावत । २ दगा, फसाद । ३. हरखोग, अघेर ।

बडी - छी [हिं] १. बडी, बगलबदी, फतुही । २ कुर्ती । ३. एक प्रकार की बैलगाडी ।

बडी - दे 'बडखोर' ।

बँडेज - न [अ] ( घाव

आदि पर ) बाँधने की पट्टी, मरहम - पट्टी ।

बडधा - दे 'बडखोर' ।

बद - पु [फा] १ बद, सिला हुआ फीता ( जिससे अंग-रखा, अँगिया आदि के पल्ले बाँधते हैं ), तनी । २ नाडी, इञ्जारबद, नीवी । ३ कैद, बधन, सीमा । ४ वेडी । ५ नियम, कानून । ६ अगो का जोड, गाँठ । ७ वद, कागज का लवा टुकडा । ८ रस्सी, डोरी । ९ समूह; टोली, जत्या । - वि १ बद, रुका हुआ, रोका हुआ । २ कुडी-ताला लगा हुआ । ३ भिडा हुआ, जो खुला न हो । ४ जो चलता न हो ।

बदर - न [अ] बदर, बदर-गाह । - काठ-ठा, - किनारा - पु समुद्र का किनारा । - चाट - छी समुद्र या खाडी के किनारे - किनारे जाने वाला मार्ग । मु०-करणे किसी बदरगाह में जहाज का पहुँचना या ठहरना ।

बदा - पु [फा 'वद'] १ बदा; सेवक, गुलाम । २ दासीपुत्र, रखेली का बेटा । - वि १ पूरा; नकद, समूचा, कलदार (सिक्का) । २ निश्चित, नियमित, बँधा हुआ । [शाळा - दे 'वदी' में ।

बदिखाना, बदिवान, बदि-बदिस्त - वि [फा 'वदिश'] १ बँधा हुआ । २ धिरा हुआ, कैद, घेरा हुआ । ३ सुगठित । ४ निश्चित, नियमित । ५ सुरक्षित । ६ दे 'वद' ।

बदिस्त - स्ती - छी [फा. 'वदिश'] १ वदिश, रचना । २. वनावट, गहन, गठन । ३ इमा-रत, मकान । ४ बदोवस्त, प्रवध ।

५ निश्चित वेतन, तनख्वाह ।

बदी - छी [फा] १. रोक, रुकावट, मनाही । २. वधान, बँधेज, रातिव । ३ वधन, कैद, कैदखाना । - पु. वदी, कैदी । - खाना - पु. वदीखाना, वदीघर, कैदखाना, कारागार । - पाल - पु. कारापाल, जेलर । - वान - पु. कैदी । - शाळा - छी दे 'वदी खाना' । मु० बदीत घालणे, टाकणे - कैदखाने में डालना; कैद की सजा देना । [जन - पु. चारण, भाट ।

बदी - पु वदी, चारण । - बदूक - छी [अ 'बदूक'] बदूक, गोली चलाने का प्रसिद्ध यंत्र, शतघ्नी । मु० - उडविणे - बदूक चलाना, दागना ।

बदोवस्त - पु [फा.] १ बदो-वस्त, प्रवध, इतजाम । २ रोक; दमन, नियमन, अनुशासन, नियंत्रण, प्रतिवधन । ३ कैद ।

बध - पु १ वध, वधन । २. नियम, कानून, अनुशासन । ३ मर्यादा; सीमा, हद । ४ रोक । ५ बाँधने का साधन, डोरी, फीता । ६ जजीर, वेडी, शृखला । ७ रचना, निर्माण ।

बधन - न वधन, रोक, मनाही । २ जजीर, वेडी, रस्सी, डोरी । ३ गाँठ, गाँठ लगाना ।

बधान - न १. अधिकार, तावा, सत्ता । २ आक्रमण ।

बधारण - न १ विधि, विधान, सविधान, कानून । २ नियम । ३ प्रस्ताव ।

बधारा - पु १ वध, बाँध, वद । २ पुस्ता, धुस्त । ३ मँड ।

बधु - पु १ वधु, भाई । २ स्वजन, आत्मीय, रिस्तेदार । ३ साथी । - जन - पु बहु. वधुजन,



भाईवद । - राज - पु भाईसाहव ।

वपर - पु [अ] प्याला, गिलास ।

वव - पु [पुर्त. 'पाँपा'] १. ववा, दमकल, 'पप' । २. नहाने के लिए पानी गरम करने का एक बड़ा बरतन । ३. वव, डका । ४. घुआँकश । ५. अत्रतिष्ठा, वदनामी । - वि मोटा, स्थूल, भरा पूग, मोटा ताजा, मजबूत । मु - राजर्णे - १ वदनामी होना । २ टाँय टाँय फिस होना ।

ववमहादेव - अव्य मिक्षा मांगते समय वैरागियों द्वारा बोला जाने वाला शब्द । - वि दे 'वव्या' । ववाळ - पु १ समूह; समुदाय । २ बड़ी आवाज । - वि १ भारी, बहुत बड़ा । २ उडाऊ, फुजूलखर्च । ३ भरा हुआ, लथपथ; सना हुआ ।

ववाळें - न १ लपट, ज्वाला, भडकने वाली आग । २ जगमगाहट । ३. जोर की आवाज । - वि १ बहुत बड़ा । २ जगमगाता हुआ ।

ववू - वि बुद्ध, मूर्ख । - पु (ग्रा) शिश्न, पुरुष की जननेंद्रिय ।

वव्या - वि मोटा-ताजा और बुद्धू गँवार, लट्ठमार, लट्ठर, मट्ठर । - पु दे ववू ।

ववमर \* - पु भ्रमर, भौरा ।

वमोला - पु. शिवजी, शकर । - अव्य दे 'वव महादेव' ।

वक - पु वक, वगला, वगुला । - ध्यान - न. वकध्यान, वगले जैसी ध्यानस्थमग्न होने की दिखाऊ मुद्रा, साधुता का ढोंग । - ध्यानी - वि वकध्यानी; वगलाभगत, पाखंडी ।

वकणें - क्रि अ वकना, वकवास करना, वटबडाना ।

वकवक - ख्री १ वकवक, वकझक, गप, वकवास, वेकार वात । २, डीग, शेखी ।

वकवक-का - अव्य गपागप; गपक कर, हप कर के, हडप कर, जल्दी-जल्दी और बड़ी मात्रा में (खाना, भकोसना) । मु० - खाणें गपकना, हटपना, भकोमना ।

वकरा - पु. १. वकरा, छाग । २ भेडा । [२ भेडी ।

वकरी - ख्री १ वकरी, छागी । वकरें - न मेमना; भेड का वच्चा, वकरी का वच्चा ।

वकल न [अ] वकमुआ, वकलस ।

वकवा - पु, वकवाद - ख्री १ वकवाद, वकवास; वेकार वात । २ डीग, शेखी । ३ झगडा ।

वकाण-णा - पु वकायन (नीम की जाति का एक पेड़) ।

वकाणा - दे 'वोकणा' ।

वकावक - अव्य. १ दे 'वक-वका' । २ तडातड, कुचलते हुए ।

वकाल - पु [अ 'वककाल'] वनिया, परचूनिया, आटा-दाल वेचने वाला । - न वनियो का समाज, समूह । - वि दे 'वकाली' । - वस्ती - ख्री गदी वस्ती, हलके लोगो की वस्ती, गदा मुहल्ला ।

वकाली - ख्री [अ 'वककाल'] दुकानदारी, वनिये का पेशा । - वि १ गदा, असम्य, हलका, नीच, टुच्चा । २ वेढगा ।

वकासुर - पु. १ वकासुर (एक राक्षस) । २ पेटू, भकोसू आदमी ।

वकी - ख्री १ वकी, मादा वगला, वगली । २ वकासुर की

वहन, पूतना ।

वकुळ - पु न वकुळ, मौल-मिरी (फूल और उसका पेट) ।

वकुळी - ख्री मौलसिरी (पेड़) ।

वककल - पु न दे 'वककल' ।

- फान - पु पतलून का काज (छेद) वाला फीता ।

वककळ + - वि पूरा, काफी, विपुल, विस्तृत ।

वककाल - दे 'वकाल' ।

वक्षिशी - ख्री दे 'वक्षीस' ।

वक्षी - पु [फा 'वक्षी']

१ वक्षी, सैनिको को वेतन वांटने वाला । २ सेनापति ।

वक्षी - पु गेहूँ की एक बढिया किम्म ।

वक्षीस - न. [फा 'वक्षिशग']

१ वक्षिशग, इनाम, पुरस्कार, पारितोषिक । २ दान, देन । ३ क्षता, मुआफी । - अव्य. इनाम के तौर पर । - पत्र - न दानपत्र, वक्षिशनामा, हिक्वानामा ।

वखर - ख्री [अ 'खवर'] १ देशी भाषा में लिखा गद्यमय इतिहास, कहानी या जीवनी, ऐतिहासिक अभिलेख, तवारीख । २ खबर, समाचार ।

वखळ - ख्री १. खुली जगह; आंगन । २ खँडहरो के बीच की खुली, वीरान जगह । ३ वस्ती में वह खाली जगह जहाँ किसी समय मकान रहे हो । - वि १ खुला, साफ (स्थान) । २. विपुल, पर्याप्त; काफी, बहुत ।

वखेडा - पु [हिं] १ वखेडा, झगडा, टटा । २ झगट, झमेला । ३ दिक्कत, रुकावट, अडचन ।

वखोटा - पु मोटा, बाहुमूल, कधे और बाँह का जोड़, वगल ।

वखखळ - दे. 'वखळ' ।

बंग - छी [अ] १ बंग, वेग, किरमिच, चमडे आदि का लवोतरा बकस का काम देने वाला थैला, बकस, सद्क। २. थैला, थैली।

बगड - छी १ अनफटका, गैरकूटा, अघकुटा चावल। २ घान का भूसा। - न पु. कमर।

बगल - छी [फा 'बगल'] १ बगल, काँख, कुक्षि। २ पार्श्व, पहलू, छोर; किनारा। ३ बगली, अंगरखे आदि मे कघे के नीचे लगाया जाने वाला टुकडा। - थैली - स्त्री बगली, कघे पर लटकाने का झोला। - बच्चा - पु. पिटू, खुशामदी, चेला-चाँटा। मु० - दाखविणे - दे 'बगला वर करणे'। - वेणें - कतराना, खिसकना; दूर हटना। - मारणे - १ सेना के एक हिस्से को परास्त करना, काट डालना। २ दे 'बगल देणे'। बगला वर करणे - १ हाथ झाड कर खडा हो जाना, पास मे एक पैसा भी न होने की बात करना। २ दीवाला निकलने की सूचना देना। ३ बगले झांकना। बगलेंत असणे - किसीके वश मे होना, किसीकी मुट्ठी मे होना। [दे 'बक']

बगला - पु. बगला, बगुला, बगी - छी बगधी, फिटन, चार पहिये की घोडा-गाडी।

बगोटा, बग्गी, - दे. 'बखोटा', 'बगी'।

बघणें - क्रि स १ देखना। २ निरीक्षण करना, ध्यान देना। ३ बधू परीक्षा करना, विवाह की दृष्टि से किसी कन्या को देखना।

बघ्या - वि देखने वाला, तमाशबीन।

बच न बच ( एक पौधा जिसकी जड दवा के काम आती है )।

बचक, बचकण - छी, बचका - पु मुट्ठी, कोई वस्तु उठाने के लिए फैलायी हुई औंधी हथेली। - भर - अव्य मुट्ठीभर।

बचडा - पु, बचडी - छी, बचडें - न १ बच्चा, बच्ची। २ बछडा, बछडी।

बचनाग - पु बछनाग ( एक स्थावरविष )। बचनागाची काडी - छी जहर की पुडिया, उपद्रवकारी व्यक्ति।

बचाव - पु १ बचाव; रक्षा, आत्मरक्षा। २ छुटकारा। ३ समयन, सफाई (अभियोग से)। ४ उपाय, युक्ति, तरकीब।

बचावणे - क्रि अ १ बचना, रक्षा, बचाव होना। २ बाकी रहना, खर्च से उबरना। - क्रि स दे 'बचाविणे'।

बचाविणे - क्रि स १ बचाना, रक्षा करना। २ बाकी रखना, खर्च न होने देना। ३ सँभालना।

बच्चजी, बच्चमजी - अव्य बच्चू, जनाव (ताना या तिरस्कार के अर्थ में)।

बच्चा - पु [फा 'बच्च'] १ बच्चा, शिशु, बछडा। २ कुतें आदि में घेरे को बढ़ाने के लिए जोडा जाने वाला टुकडा।

३. गोटियो, गोलियो, के खेल में डाँड, जुरमाना। - जी - दे 'बच्चमजी'। कर्चीबर्ची - न बहु बच्चेकच्चे, बाल-बच्चे, छोटे बच्चे।

बच्चा - दे बच्चा'। बछडा - पु [फा 'बच्च']

१ बछडा। २ प्यारा बच्चा, नन्हा-मुत्ता।

बछडी - छी. १ बछिया। २ बच्ची, प्यारी मुत्नी।

बछडें - न दे 'बछडा', 'बछडी'।

बजवज, बजवनपुरी - छी गडबडी, घाँघली, अघेर खाता, घपला, कुप्रवच, अव्यवस्था, गडबडझाला।

बजरग, बजरगवली - पु बजरग, बजरगवली; हनूमान्।

बजरबटू - पु १ बजरबटू ( एक पेड के फल का काला गोल बीज जिसकी माला छोटे बच्चो को पहनायी जाती है )। २ ताड की एक किस्म। ३ हनूमान्। ४ फुर्तीला, चालाक युवक, गठीले बदन का लडका।

बजाज - पु [अ 'बज्जाज'] बज्जाज, कपडे का व्यापारी, वस्त्र-वणिक।

बजावणी - छी [फा 'बजा-आवरी'] १ तामील, अमल करना, निष्पादन, कार्यान्वित करना, (हुक्म) बजा लाना। २ ताकीद, चेतावनी। ३ बजाना। बजावणे, बजाविणे - क्रि स.

[फा 'बजा' + 'आवर्दन'] १ जताना, आगाह करना, ताकीद करना, खबरदार करना। २ पूरा करना, (हुक्म) बजा लाना, तामील करना, अमल करना। ३ बजाना, बाजे से आवाज निकालना। मु० बजावून ठेवणे - जता देना, कहे देना; खबरदार करना, चेतावनी देना, ताकीद करना। बजावून देणे - ताकीद कर के सोंपना, सहेजना, सचेत, सावधान करके सोंपना।

वजेट - न [अ] वजट, आयव्ययक, आयव्यय का तस्मीना।

वटग + - पु अँगूठी आदि पर नक्कागी करने का औजार।

वट - स्त्री १ लट, अलक, जुल्फ, सिर के नीचे लटकने वाले बाल, उलझे हुए बालों का गुच्छा। २ सन, पटसन आदि के ततुओं का लच्छा। - वेणी - स्त्री सिर के दोनों तरफ के बालों की चोटी।

वट - पु टटू। - वि छोटा किंतु मजबूत। [ 'वैट' ]

वँट - स्त्री [अ] बल्ला, वटई - स्त्री १ वटाई, जमीन के वदोवस्त की वह व्यवस्था जिसमें मालिक को लगान के रूप में पैदावार का नियत भाग मिले, भावली। २ साझे की खेती।

वटकी - स्त्री १ लौंडी, दासी, नौकरानी। २ रखेली। - चा पोर - पु १ रखेली का बेटा (गाली)। २ नीच, कमीना आदमी।

वटकूर - न दे 'वटकी'।

वटछपाई - स्त्री १ बाटो पर लगाया जाने वाला सरकारी सिक्का या छाप। २ बाट आदि पर सिक्का लगाने का कर। [ वटन, घुडी।

वटण - न [अ 'वटन']

वटणावळ - स्त्री वट्टा, भुनाई, भाँज, भूनने की उजरत, भुनाने के बदले में दी जाने वाली दलाली, रकम।

वटवटीत - वि १ मोटा और भट्टा (आँख)। २. भडकीला।

वटमोगरा - पु घुंवरु मोतिया (मोतिया बेल का एक भेद)।

वटलर - पु [अ] खानसामा, वटलर, बैरा।

वटवडा - पु १, वँटवारा,

विभाजन। २. वितरण, भुगतान, वांटना; दाति। - पत्रक - न वेतन-चिट्ठा, मजदूरी का चिट्ठा।

बटवा - पु [हिं 'बटुआ'] वटुआ, बटुवा, छोटा, खानेदार थैला जो मुँह पर लगी डोर खींचने में खुलता-बंद होता है। [ 'बटाव' ]

बटविणें, बटाई - दे 'बटविणे', बटाई - स्त्री १ बटाई; भावली, पैदावार का आधा हिस्सा सरकार या जमीन के मालिक को देने की व्यवस्था। २ वाँट, विभाजन।

बटाटा - पु [अ 'पोटॅटो'] आलू (एक प्रसिद्ध कदशाक)। बटाटेभात - पु आलू और चावल एक में पकाकर बनाया जाने वाला पुलाव की क्रिस्म का मसालेदार भात।

बटाव - पु दे 'बट्टा'। - वि. १ बट्टा लेने वाला। २ दुराचारी; वदचलन।

बटीक - दे 'बटकी'।

बट्ट, बट्टक - पु १. बट्ट, बट्टक, बट्ट, बट्टक, बालक, ब्रह्मचारी। २ छोटा लडका।

बट्टा - पु १ बट्टा, वह रकम जो रुपये, नोट, हुडी आदि भुनाने, बदलने या बेचने पर उसके मूल्य में से काट ली जाय, दस्तूरी; दलाली। २ कमी, घाटा, नुकसान। ३ घब्बा, कलक, कालिख। - खातें - न बट्टा खाता, गत्तालखाता। मु - लागणें - बट्टा लगना, कमी होना, दाग लगना।

बट्टी - स्त्री १ बट्टी, गुड की छोटी भेली। २ (साबुन आदि की) टिकिया। ३ नारियल का आधा गोला। ४ वाटी, अगाकडी।

बट्टचावोळ - पु १ बपला; गडबडझाला, २. परेशानी, मु० - होणे - गुडगोवर होना; अच्छा काम बिगड जाना; रग में भग होना।

बडका - पु खसार, बलगम; श्लेष्मा, गाढे कफ वाला थूक।

बडगा - पु [क 'बडि'] डडा, लठ्ठ, मोटा, ठेंगा। मु० - दाखविणें - ठेंगा दिवाना, धोया देना; ठगना।

बडतरफ - वि [फा अ 'वर-तरफ'] वरतरफ; पदच्युत, वरखास्त।

बडतरफी - स्त्री [फा. अ 'वर-तरफी'] वरतरफी; वरखास्तगी; पदच्युति।

बडबास्त - स्त्री [फा. 'वर-दास्त'] आवभगत, खातिर; खातिरतवाजा, खातिरदारी, प्रवच।

बडबड - स्त्री १ बडबड, बकवास, बकवाद। २ डींग। ३ शोरगुल, गुलगपाडा।

बडबडणें - क्रि अ १ बकना; बडबडाना, बकवास करना, बुड-बुडाना। २ बड मारना, गाल बजाना, डींग हाँकना, मारना। ३ शोर मचाना।

बडबड्या - वि बडबडिया, बक्की, गपोडिया, बकवासी, बकवादी, वातूनी।

बडवणी - स्त्री १ पिटाई, मरम्मत। २ पिटना, पीटने का साधन, औजार। ३. पीटना।

बडवणें - न पिटना, पीटने का औजार। - क्रि स दे 'बडविणें'।

बडवा - पु पहरपुर के श्रीविट्ठल का पुजारी, पडा।

बडविणें - क्रि स १. पीटना; ताडन करना, पिटाई, मरम्मत करना, मारना । २ ठोकना, आघात करना । ३ अड्डाना, वधिया करना । ४ पटकना, पछाडना । ५ पटक कर जोर जोर से धोना ( कपडा ) ।

बडव्या - वि पीटने वाला ।  
- पु टे 'बडवा' ।

बडा - वि १ बडा, महान् ।  
२. भारी, विशाल । ३ ऊँचा ।  
कहा० - घर पोकळ वासा -  
ऊँची दुकान फीका पकवान,  
ऊपर से अमीर दिखाई देने वाले  
खानदान का वास्तव मे कगाल  
होना ।

बडिवार - पु. १ बडाई, शेखी ।  
२. बडप्पन, महत्ता । ३ शान ।  
बडीशेप - स्त्री सौंफ, शत-  
पुष्पा ।

बडेजाव - पु १ बडप्पन;  
महत्ता । २ बडाई, शेखी । ३  
शान । मु - करणें; - माजविणें -  
१ महत्त्व बढ़ाना, बडाई करना ।  
२ शेखी वधारना ।

बडत - स्त्री बडती, छोटे-  
छोटे स्वरो के साथ तान लेते हुए  
या आलापचारी करते हुए बढना  
(सगीत) ।

बडती - स्त्री बडती; बढोतरी,  
तरक्की, प्रवर्तन, पदवृद्धि, चेतन-  
वृद्धि, अभिवृद्धि ।

बडाई - स्त्री बडाई, शेखी,  
डीग । - खोर - वि बडवोला,  
डीग मारनेवाला । मु - मारणें -  
डीग मारना, शेखी वधारना,  
गाल वजाना ।

बतावणी - स्त्री १ अभिनय,  
स्वांग । २ बहाना, ढोग । ३  
हावभाव, नाज-नखरा, चोचला ।  
म हि श को ३३

बतावणें, बताविणें - क्रि स  
१ बताना । २ खबर लेना, मर-  
म्मत करना ।

बतासा - दे 'बत्तासा' ।  
बत्ता - पु बट्टा, लोढा,  
दस्ता ।

बत्तासा - पु [हँ बतवासा]  
बतासा, शर्करापुष्प (मिठाई) ।

बत्तिशी - स्त्री. १ 'बत्तीसी',  
बत्तीस चीजो का समूह । २.  
बत्तीसी, नीचे ऊपरकी दत्तपक्ति,  
बत्तीसो दाँत । ३ बत्तीस वरस की  
उम्र । ४ भाषण, कथन, भविष्य-  
कथन । मु - दाखविणें - बत्तीसी  
दिखाना, दाँत काढना, दिखाना;  
हँसना । - पाठणें - दाँत तोडना,  
परास्त करना । - रगविणें -  
१ मुँह पर कस कर थप्पड कसना,  
लगाना, तमाचा मारना । २ पान  
खा कर मुँह को रँगना । - वठणें -  
मुँह से निकली अशुभ, अमगल  
वातो का सत्य हो जाना ।

बत्ती - स्त्री १ बत्ती, बाती ।  
२ दीया, दीपक, गैस-लैप । ३  
कपडे की कडी ऐंठी हुई धज्जी जो  
घाव के भीतर भरी जाती है । ४  
लवाई मे आधा फाडा हुआ चीरा  
(साफा, पगडी का कपडा) । ५  
फलीता, पटाखे की बत्ती । मु -  
देणें, - लगावणें; - लावणे - १.  
बत्ती देना, दागना (तोप आदि)  
२ बत्ती लगाना, जलाना । ३  
झगडा लगाना ।

बत्तीशी - दे 'बत्तिशी' ।  
बत्तीस - वि बत्तीस, ३२ ।  
- अक्षरी मत्र पु 'कृष्णाय वासु  
देवाय हरये परमात्मने । प्रणत  
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनम'  
का मत्र । - गुणी, - लक्षणी वि  
१ सारे शम लक्षणो से युक्त,

सुलक्षण, भाग्यवाली । २ कुल-  
क्षण, कुलच्छन । ३ नालायक,  
बुद्ध । [ मूर्ख ।

बय्यड - वि बुद्ध, लठ,  
बद - वि [ फा ] बद; बुरा,  
खराब; खोटा, अशुभ । -  
कर्म - न बदकारी, कुकर्म,  
दुराचार, व्यभिचार । - ख्याली-  
वि बदकार, दुराचारी, दुश्च-  
रित्र; व्यभिचारी । - नाम - वि  
बदनाम, कुख्यात । - नाम - न  
- नामी - स्त्री बदनामी, अप-  
कीर्ति, बुराई, अप्रतिष्ठा । फल -  
पु, - फेळी - स्त्री बदफेळी,  
कुकर्म, व्यभिचार, बदकारी । -  
वि बदफेल, कुकर्मो, व्यभिचारी,  
बदचलन, दुश्चरित्र । - माश-ष-  
वि बदमाश, दुर्वृत्त, गुडा, दुष्ट,  
लुच्चा, पाजी । - ० गिरी; -  
- माशी-षी - स्त्री बदमाशी,  
दुष्टता, खुटाई, गुडई, गुडापन ।  
- लौकिक - पु दे 'बदनामी' । -  
सल्ला - पु स्त्री बुरी सलाह,  
कुमत्र । - सूर - वि १ वेसुरा ।  
२ असगत, बेमेल ।

बदक - न [ अ 'बत',  
उर्दू 'बत्तख' ] बतख (हंस की  
जाति का एक जल - पक्षी),  
मुरगावी ।

बदकन - अव्य घप से, धव-  
धव; घडाम से, घम से ।

बदडणें - क्रि स पीटना,  
मरम्मत करना, दे 'बडविणें' ।

बदबद-दा - अव्य धव-धव,  
- 'धव-धव' की आवाज के साथ  
बदबदित - वि वेसुरा (मृदंग  
आदि) ।

बदल - पु [ अ ] १ बदल,  
परिवर्तन, तब्दीली, फेरफार ।  
२ मुकरना; इनकार करना,

कही हुई बात में हटना ।— वि अव्य दे 'वदल' ।

वदलणे — क्रि अ १ वदलना, भिन्न होना, तब्दीली, परिवर्तन [होना] । २ बात से हटना, मुकरना । ३ विद्रोह करना ।— क्रि स १ वदलना, फेरफार, परिवर्तन, तब्दीली करना । २. वदला करना, एक को छोड़ कर या एक के बदले में दूसरी चीज लेना ।

वदला— पु [अ 'वदल', उर्दू 'वदला'] १ वदला, बदल-वदल, एक के बदले दूसरी चीज देना, लेना । २ प्रतिशोध, प्रत्य-पकार, वदला ।— वदल— छी अदल-वदल, हेरफेर, परिवर्तन ।

वदलीं— अव्य [अ 'वदल'] १ वदले में, एवज में, स्थान पर । २ वजाय ।

वदली-छी पु [अ 'वदल'] १ दे 'वदल' । २ वदली, तवादला; तवदीली । ३ एवजी, स्थानापन्न वदले में काम करनेवाला व्यक्ति ।

वदल्या— वि पु एवजी, स्थानापन्न, वदले में काम करने वाला व्यक्ति ।

वदावद-दा— अव्य १ तडा-तड । २ धव-धव ।

वदावदी— छी गेद भदभद, मारपीटी, गेंद से एक-दूसरे को पीटने का खेल ।

वदाम— पु [फा] १ वादाम (फल और पेठ) । २ पान, लाल पान (ताश में) । ३ वादाम के आकार का मोने का टुकड़ा जो गले में पहना जाता है ।

वदामी वि [फा 'वादाम'] १ वादामी, वादाम के रग का; हलका पीला जो सफेदी लिये हो ।

२ वादाम के रग का । ३. वादाम का बना हुआ ।— हलवा— पु वदामी, एक तरह की मिठाई जिममें वादाम डाले जाते हैं ।

वदी— छी गुच्ची ।

वदी— छी [फा.] १ वदी, वुगई, दोपारोप । २. कपट, छल ।

वद्द— वि [फा 'वद'] १ वद, खराब । २ ठम, खोटा, जिमकी आवाज भारी हो, जो ठीक वजता न हो । ३ बेसुरा ।

वद्दल— अव्य [अ 'वदल'] १ वदले में; वजाय, एवज में, स्थान पर । २ लिए, वास्ते । ३ वदीलत, कारण ।

वद्दा— दे 'वद्' ।

वद्दू— वि [फा 'वद'] १. वदनाम । २ वद, वुरा, खराब, खोटा । ३ कलकित, दागी, कलुपित ।

वद्ध— वि १ वद्ध, बँधा हुआ, बाँधा हुआ । २ वद्धपरिकर, जिसने कमर बाँध ली हो, तैयार ।— कोष्ठ— न कोष्ठवद्धता, मला-वरोध, कब्ज ।— वि वद्धकोष्ठ, कब्ज से पीड़ित ।— मुष्टि— वि १ वद्धमुष्टि, जिमकी मुट्ठी बँधी हो । २ कजूस ।— मूल— वि वद्ध-मूल, दृढमूल, पक्का ।

वधणें— क्रि अ १ वस चलना, वग में होना, मानना, अनुकूल होना, फदे में आना, रोकना जाना, कादू चलना । २ डरना, हार मानना ।

वधिर— वि १ वधिर, वहरा । २ अचेत, सज्ञारहित, सुन्न, सवेदनशून्य, चेतनारहित ।

वधिरता— छी १ वधिरता, वहरापन । २. चेतनाहीनता, सज्ञाहीनता ।

वन— न वन, वन, अरण्य, जगल ।— कर— री— पु १ माली । २ जगल में रहने वाला । ३ ताड के पेड़ से उसका रस (नीरा) निकालने वाला ।

वनणें— क्रि अ. १ वनना, निर्मित, रचित, तैयार होना; हो जाना; बनाया जाना । २. फुरसत, अवकाश पाना, मिलना । ३ सुध-रना, दुरुस्त होना । ४ सिद्ध, सफल होना । ५ पटना, मेल होना । ६. हो सकना, शक्य होना । ७ मालदार होना । ८ सघना । ९ सजना, सँवरना । १० वेव-कूफ बनाया जाना, वनना ।

वनवणें— दे. 'वनविणे' ।

वनवा-वनवी— छी घोखा-घडी; भुलावा, हथकड़ा, छल, कपट ।

वनविणे— क्रि स १ बनाना, रचना, निर्माण करना, तैयार करना । २ मजाना, सँवरना । ३ घोखा देना, वेवकूफ बनाना, व्यग्यद्वारा उपहास करना । ४ गढना ।

वनशी-सी\*— छी वनी, वाँसुरी ।— पु श्रीकृष्ण ।— वि पु गेहूँ की एक किस्म ।

वनात— छी [हिं] वनात (एक रगीन ऊनी कपड़ा) ।

वनाव— पु १ घटना, प्रसंग, मौक़ा । २ मेल, मिलाप । ३ वनाव; युक्ति, उपाय, तरकीब ।

वनावट— छी १ वनावट, रचना, गठन, रूप । २ ढग, तरीका । ३ पोत, कपड़े की बुनावट । ४ आडवर, दिखावा ।

वनावट-टी— वि १ वनाव-वटी, दिखाऊ, कृत्रिम, नकली । २ झूठ ।

बनियन - छी पु न बनिया-इन, गजी (कुर्ती) ।

बनेटी - छी बनेटी (पटेवाजी के अम्यास की लाठी) ।

बनेल - वि चट; छंटा हुआ, ऐयार, वना हुआ ।

बबरची, बवर्जी - पु [फा. 'वावरची'] वावरची, रसोइया (खास कर सामिष भोजन बनाने वाला) ।

बभरा, बभ्रा - पु बवनामी; चवाव, बुराई की चर्चा, किसी बात का फँल जाना ।

बया - पु बया (गौरैया से मिलती-जुलती एक चिडिया जो अपना घोंसला बड़े कौशल से बनाती है) ।

बया - छी १ माँ, आदरणीय स्त्री आदि को संबोधित करने का शब्द । २ प्यारी, छोटी लडकी, मुन्नी । ३ औरत, रडी, बुरी स्त्री ।

बयाणा - पु [अ फा 'बैआन, अ 'बयान'] १ बयाना, साईं, पेशगी । २ बयान, बर्णन, कथन । मु० - बाघणें - विक्री की वस्तुओं (गहनो आदि) पर अपनी मुहर लगाना ।

बयाव - छी [अ 'बयाज'] १ विस्तार, तफसील । २ बहाना, सबव । ३ झझट, झमेला । मु० - लावणे - मीनमेख निकालना, बहानेबाजी करना ।

बरकत - छी [अ] १ बरकत, वृद्धि, बढ़ती, बढ़ोतरी । २ सौभाग्य, खुशकिस्मती, कल्याण । ३ लाभ, नफा, सफलता ।

बरफा - वि नरम, मुलायम । - पु कटहल की एक किस्म

जिसका कोया बहुत मुलायम और गिजगिजा होता है ।

बरखास्त - वि [फा 'बरखास्त'] बरखास्त, विसर्जित, समाप्त, खत्म, उठा हुआ ।

बरग - न पु अनाज का बीज । - पु १ किलनी । २ किलनिर्या होने का एक पशुरोग । २ अकाल ।

बरगडी - छी पसली, पाँजर की हड्डियो मे से कोई एक ।

बरगा - पु १ खभा । २ धरन, शहतीर ।

बरची - छी [हि 'बरछी'] बरछी, छोटा भाला ।

बरड - छी १ बजरजमीन । २ तिल्ली (धान), सावाँ । - पु भुनगा, धुन । - वि १ मोटा-छोटा, खुरदरा । २ (जमीन) जिसमें ककड, रेत आदि अधिक मात्रा में हो, बजर, ऊसर ।

बरडी सुपारी - छी उवाल कर सुखायी हुई सुपारी ।

बरणी - छी अमृतवान, मर्तवान, मरतवान (रोगन किया हुआ चीनी मिट्टी का (या काँच का) बर्तन) ।

बरदास्त - छी [फा 'बरदास्त'] दे 'बडदास्त' । - वि बर्दास्त, बरदास्त; सह्य, जो सहा जा सके । [ 'बर्फी' ।

बरफ, बरफी - दे 'बर्फ', बरबट - पु न १ खटाई का गाढा पानी, पना, रायता । २ मास का शोरवा । ३ कीचड ।

बरबटणे - क्रि अ सनना, भर जाना, पुतना । - क्रि स सानना, पोतना, कीचड फैलाना ।

बरबटलेला - वि भरा हुआ, सना हुआ, लयपथ ।

बरवा \* - वि अच्छा, बढ़िया, सुदर; बेहतर ।

बरहुकुम - अव्य [फा, 'बर + अ. 'हुकुम'] १ अनुसार, मुताबिक; हू-ब-हू । २ ठीक आशा के अनुसार ।

बरळ - छी १ बक-झक । २ असगत मापण ।

बरळणें - क्रि अ १ बकना, बडबडाना । २ (स्वप्नात) बरना; सपना देखते हुए आदमी का बोलना । - न उचावा, सपने में बडबडाना ।

बरा - वि १ अच्छा, ठीक । २ भला । ३ स्वस्थ, चगा, नीरोग । ४ काफी, पर्याप्त । ५ साधारण रूप से अच्छा, मामूली काम चलाने योग्य, साधारण - सा, योही - सा । - अव्य १ अच्छी तरह, भली भाँति । २ समय पर । - च - वि बहुत; अधिक । - अव्य बडी मात्रा मे ।

- चसा - वि बहुत - सा, काफी । - अव्य बहुत कुछ, बडे पैमाने पर । - वाईट - वि भला-बुरा, साधारण, काम-चलाऊ । बन्या बोलाने - अव्य सीधी तरह, चुपचाप । दे 'बरे' । मु - येणें - अच्छा आना, ठीक वक्त पर आना (व्यग मे इसका उलटा) । [ बैरक, छावनी ।

बराक - छी [अ 'बरक'] बराबर, - बराबरी - दे 'बरोबर', 'बरोवरी' ।

बरी - वि छी अच्छी, दे 'बरा', 'बरे' । - गत - छी अच्छी हालत, आशाजनक स्थिति, खैर । [में, किंतु, तो ।

बरीक - अव्य सचमुच, वास्तव बरू - दे 'बोरू' ।

वरें - वि न अच्छा । टे 'वरा', 'वरी' । - न १ क्षेम, कुशल, खैरियत, हित, कल्याण । २ मित्रता, स्नेह । - अव्य. १. अच्छा, खैर । २. हाँ, जी हाँ । ३ भला, तो, सही । - वाईट - न मृत्यु, आत्मघात । - वि दे 'वरावाईट' । - होतें - अव्य काश । मु० - पाहणें - अच्छी दृष्टि से देखना, कुशल, कल्याण चाहना । - मागणें - कल्याण-कामना करना । - वाटणें - १. अच्छा लगना । २ तदुरुस्त, स्वस्थ होना; आराम होना, पाना । वन्यावर असणें - किमीका भला चाहना, हितचिंतक होना । कहा० ज्याचे करावें वरें तो म्हणतो मासॅच खरें - गवे की आंखों में नोन दिया, उसने कहा मेरी आंखें फोड दी, किसी के साथ एहसान किया तो उसने समझा कि बद-सलूकी हुई ।

वरोवर - वि १ वरावर; समान, तुल्य, सरीखा, समकक्ष । २ ठीक, अचूक, नियमित, यथार्थ, सही । ३ उचित; योग्य, अच्छा । ४ समतल; हमवार । - अव्य १ साथ, मिलकर, साथ-साथ, एक साथ । २ अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भाँति । ३. नियमित रूप से । ४ वेशक, नि संदेह, क्यो नहीं । - चा - वि १ साथ का । २ दे 'वरो-वरीचा' । मु० - होणें - १. साफ होना । २. खत्म होना, नाश होना । ३. वरावरी होना ।

वरोवरी - स्त्री [फा 'वरा-वरी'] १ वरावरी, समता; समानता; जोड़ । २ मुकाबला, सामना; प्रतिस्पर्धा । - चा - वि

१. वरावर का, वरावरी का, साथ का । २. जोड़ का, समकक्ष, सरीखा, जैसा, टक्कर का । ३ समकालीन, हमअमर । ४ हम-उम्र, समवयस्क । - पु. साथी, मगी, दोस्त । मु० - करणें - वरावरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, टक्कर लेना । - होणें - वरावर पर छूटना, किसीकी जीत-हार न होना ।

वर्फ - न पु. [फा. 'वर्फ'] १ वर्फ, जमा हुआ पानी, हिम । २ पाला ।

वर्फाळ - वि [फा 'वर्फ', हि 'वर्फीला'] वर्फीला, वर्फानी, वर्फ से युक्त, वर्फ से ढका हुआ ।

वर्फी - स्त्री [फा 'वर्फी'] वर्फी, वरफी, ( मिठाई ) ।

वल - न १ वल; शक्ति; ताकत, जोर, सामर्थ्य । २ सेना, फौज । - वंत - वि वलवान्; ताकतवर, वली, शक्तिशाली, मजबूत । - वत्तर - वि जोरदार, मजबूत । - वान् - वि दे 'वलवत' ।

वला, वलागत - स्त्री [अ 'वला'] १ वला; आफत, विपत्ति, प्रेतवाधा । २ मिथ्या अभियोग, झूठा इलजाम ।

वलाढ्य - वि वलाढ्य, वलवान्; समर्थ; वली; ताकतवर ।

वलात्कार - पु १ वलात्कार, जुलम, जबरदस्ती । २ न्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक किया जाने वाला सभोग, जिना विज्जन्न, वलात्कार ।

वलाबल - न. १ वलाबल; वलाभाव, तुलनात्मक-  
वला; ताकत

वल्लिष्ठ - वि वल्लिष्ठ; ताकत-वर, मव से अधिक बली ।

वल्लि - पु १ वलि; देवता को चढायी जाने वाली चीज, चढावा, वलिपशु । २ दैत्यराज; वलि । - दान - न १ वलिदान; कृपानी । २ प्राणोत्सर्ग, आत्म-वलिदान, शहादत, हुतात्मा बनना । - प्रतिपदा - स्त्री कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा ।

वल्लुतें - न [क 'वल्ल' + 'कोट्टु' - ?] १ लेहना, नट, नाई, घोड़ी, लवनी करने वाली आदि को दिया जाने वाला फसल का भाग । २ ( चाभाराचें ) चम-रौटा । ३. दे 'वल्लुतेदार' । - दार - पु. पवनी, पीनी, लेहना-दार; बटई, नाई, घोड़ी आदि जिन्हें गाँवों में लोग काम के बदले उपज का कुछ अंश तथा मागलिक अवसरो पर इनाम देते हैं ।

वल्लुत्या - दे 'वल्लुतेदार' ।

वल्लव - पु १ वल्लव, चर-वाहा, ग्वाला । २. रसोड्या, पाचक । ३ विराट के यहाँ पाचक का काम करते समय भीम का नाम ।

वल्ली - स्त्री वल्ली, वल्ला, नाव खेने का डाँडा ।

वल्ल्या - दे 'वन्चा' ।

बह्शी - दे 'वह्शी' ।

बशा - वि पु. १ बैठा-ठाला, वेकार; निठल्ला । ३ मालिक की अनुपस्थिति में मकान या खेत की रखवाली करने वाला ।

बशा - स्त्री बहु० 'बशी' का बहु०; रकावियाँ । दे 'बशी' ।

बशी - स्त्री [पुर्व 'बसिया'] रकावी, तशतरी, छिछली, छोटी थाली जिसकी दीवार बाहर मुड़ी हो ।

बश्या - वि दे 'बशा' - वि ।  
 बस - अव्य. दे 'बस्त' ।  
 बस - पु. १. दृढता, स्थिरता,  
 मजबूती । २. छाप; प्रभाव,  
 रोब; साख, शान ।

बसकट - वि. चपटा, चिपटा ।  
 बसकण - न १ बैठक, आसन,  
 बैठना । २ फसकडा, चूतड टेक-  
 कर और टाँगें फैला कर बैठने का  
 ढग । मु - घेणें, मारणें - १ फस-  
 कडा मारना । २ निराश होकर  
 बैठ जाना । [चीज, आसन ।

बसकर - न बैठक, बैठने की  
 बसणें - क्रि अ. १ बैठना;  
 आसीन होना । २ चढना, सवार  
 होना । ३. बेकार रहना । ४. तृ-  
 शरीफ रखना, बिराजना, आस-  
 नस्थ होना ५ इजलास करना ।  
 ६ अपनी जगह पर ठीक आना,  
 छोटा बडा न होना (चूल, नग,  
 कपडा) । ७. घटना, कम होना ।  
 ८. (नस, जोड का) अपनी जगह  
 पर आ जाना । ९. घँसना, नीचे  
 जाना, दबना; पिचकना (फोडा)  
 १० जमना; स्थिर होना; तह में  
 जमना । ११. गिरना, ढहना  
 (घर) । १२ (मन) लगना,  
 (प्रेम) होना । १३ आ जाना,  
 समा जाना, अँटना । १४ पडना,  
 लगना (लाठी, डडा) । १५ विग-  
 डना । १६ सघना, मँजना (हाथ)  
 १७ लगातार होते रहना, झडी  
 लगना । १८. ह्लास, अवनति होना ।  
 १९ घाटा होना, लेने के देने  
 पडना । २०. वेसुरा होना (गला) ।  
 २१ मेल खाना । २२ कपडो से  
 होना; रजस्वला स्त्री का अलग,  
 दूर बैठना । २३ अडे सेना ।  
 बसल्या जागीं - अव्य. घर बैठे,  
 अनायास । बसल्या बसल्या - अव्य

बैठे बैठे, बैठे-बिठये ।  
 बसल्या महिना वि घर  
 बैठे मिलने वाला (वेतन) ।  
 मु बसून राहाणें - बेकार बैठे  
 रहना, अडे सेना । कहा बसता  
 लाय उठता बुक्की तेव्हा होतो  
 सुखी - कठोर अनुशासन से ही  
 आदमी ठीक मार्ग पर चल कर  
 सुखी होता है, उठते लात, बैठते  
 घूँसा ।

बसराई - वि [अ 'बसर']  
 १ बसरा शहर का (कपडा, फल,  
 मोती) । २ केले की एक जाति ।  
 बसव; बसवण्णा - पु. लिंगा-  
 यत संप्रदाय के सस्थापक ।

बसविणें - क्रि स. १. विठाना,  
 बैठाना । २ बैठने को कहना । ३  
 सवार ।

बसविणे - क्रि स १ विठाना;  
 बैठाना । २ बैठने को कहना । ३  
 सवार कराना । ४. जमाना,  
 जडना, अपनी जगह पर स्थित  
 करना । ५ स्थापित करना । ६  
 सौंपना । ७ ठडा करना । ८.  
 दवाना, पिचकाना (फोडा) । ९.  
 मिलाना । १० रोपना, गाडना ।  
 ११. लगाना । १२ पहली बार  
 रजस्वला हुई बहू को मिहराव मे  
 बिठाना । [भीरत ।

बसवी - स्त्री वेश्या, बाजारू  
 बस्तनी - न [फा. 'बस्त']  
 बस्ता, वेठन; आवरण ।

बस्ता - पु. [फा. 'बस्त']  
 १ गट्ठा, गाँठ, गठरी, पोटली ।  
 २ बस्ता, थैली । ३ विवाह आदि  
 अवसरों पर एक साथ खरीदा  
 जाने वाला कपडा (घोतियाँ,  
 साडियाँ आदि) ।

बस्तान - न [फा 'बस्त']  
 १. रचना, गठन । २ प्रबध,

बदोबस्त । ३ प्रभाव, असर । ४.  
 सबध; मात्रा, परिमाण । मु. -  
 बसणे - जमना, ठीक से चलना ।  
 - बसविणे - जमाना, प्रभाव  
 डालना, जड जमाना । - विघडणे  
 - १ कुप्रबध होना । २ विगडना;  
 नाराज होना ।

बस्ती - स्त्री १. बस्ति, वस्ति,  
 पेड़, नाभि के नीचे का भाग । २  
 पिचकारी (एनीमा) । २ जैन-  
 मंदिर । ३ दे 'वस्ती' ।

बस्स - अव्य. [फा 'बस']  
 बस, काफी, इतना ही । मु० -  
 कर - बस करो, ठहरो, रुक  
 जाओ, सतम करो ।

बहकणे - क्रि अ १ बह-  
 कना, भटकना, पथभ्रष्ट होना ।  
 २ चूकना; भुलावे में आना,  
 धोखा खाना । ३ फिसलना, चरित्र-  
 भ्रष्ट, दुराचारी बनना । ४. वेहद  
 बढ जाना । ५ \* फैलना ।

बहकाविणे - क्रि स १ बह-  
 काना, पथभ्रष्ट करना । २ बुरे,  
 हानिकर काम के लिए प्रेरित  
 करना, चरित्रहीन, दुराचारी  
 बनाना । ३ भुलावा देना, भर-  
 माना, धोखे में डालना । ४ उक-  
 साना, उभाडना ।

बहर - पु [फा 'बहार']  
 १ बहार; फूलों का मौसिम,  
 पुष्पकाल । २. विपुलता । ३ मौज,  
 मजा ।

बहरणे - क्रि अ फूलना,  
 लहलहाना, फूलों से लदना;  
 बहार पर आना, होना ।

बहरी, बहरी ससाणा - दे.  
 'बहिरी', 'बहिरी मसाणा' ।

बहाणा - पु [फा 'बहान']  
 बहाना, मिस, हीला, व्याज,  
 ढोग । मु० - करणे - बहाना



बनाना । [पुकारना ।

वहाणे \*— क्रि स [बुलाना;

वहात्तर—वि बहत्तर, ७२ ।

—रोग—पु. बहु सभी प्रकार की बीमारियाँ । कहा० बहात्तर रोगाचा खडेवा—ऐसा रोगी जिसको एक साथ कई बीमारियाँ हुई हो । बहात्तर रोगावरील औषध—अनेक कठिनाइयो को दूर करने का एक ही उपाय ।

वहादुर, वहादुरी—दे 'वहादुर', 'वहादुरी' ।

वहादुर, वहादुर—वि [तु 'वहादुर'] १ वहादुर, शूरवीर, साहसी, निडर । २ बाँका, पट्टा । २ निपुण, माहिर ।

वहादुरी—स्त्री [तु 'वहादुरी'] वहादुरी, कमाल, वीरता, मरदानगी ।

वहार—स्त्री [फा.] १ दे. 'वहर' । २ कमाल, पराकाष्ठा, हृद । ३ मञ्जा, लुफ ।

वहाल—वि [फा अ] १ वहाल, आनदित, प्रसन्न, खुश । २. पुनर्नियुक्त, मुअ्तली से मुक्त । ३ मुबाफ । ४ जिसे इनाम, पुरस्कार दिया गया हो ।—मु०—करणे—१ खुशी से दे देना, भेंट करना । २ किसी हुक्म या फैसले को कायम करना, वहाल रखना ।

वहावा—पु अमलताम (पेड़) ।

वहिण—स्त्री वहिन, वहन, भगिनी ।

वहिरंग—न वहिरग, बाहरी भाग, अंग, बाह्य स्वरूप ।—वि वाहरी, वाहरवाला, पराया ।—परीक्षण—न सरसरी जाँच ।

वहिरभट—वि वहरा ।

वहिरा—वि १ वहरा;

वधिर, जिसे सुनाई न दे, ऊँचा सुनने वाला । २ मुन्न ।

वहिरा—पु भैरव (देवता) ।

वहिरा, वहिरा ससाणा—पु वाज, श्येन (एक प्रसिद्ध शिकारी चिडिया) ।

वहिरावा—पु १ भैरव (देवता) । २. वहरा आदमी, वहरा पत्यर । [तोदर ।

वहिरागोल—वि उत्तल, उन्न-वहिराशेष—अव्य शीच के लिए । मु०—जाणें—शीच के लिए जाना, टट्टी जाना, जगल जाना ।

वहिरुख—वि १ वहिरुख, जिसका मन बाहरी विषयो में उलझा, आसक्त हो, विषयासक्त । २ निर्गामी; बाह्य ।

वहिराकार—पु १ वहिराकार, सवधत्याग । २ वस्तुविशेष का सामूहिक व्यवहार—त्याग, 'वायकाट' । २ विरादरी से बाहर करना । मु०—घालणे, —टाकणे—१ वहिराकार करना । २ विरादरी से खारिज करना, हुक्का-पानी वद करना ।

वहीण—स्त्री वहन, वहिन, भगिनी ।—भावडें—न बहु. भाई वहने ।

बहु—वि बहु, बहुत, अनेक, ज्यादा ।—अव्य बहुत, अधिक मात्रा में, ज्यादा । दे 'बहुत' ।

—गुणी—वि बहुगुण; जिसमे बहुत से गुण, अच्छाइयाँ, खूबियाँ हो ।—चक—वि बक्की, बकवादी, बातूनी ।—डुधी—वि स्त्री बहुदुधा, दुधार ।—घा—दे कम में ।—नायकी—स्त्री १ अनेक लोगो का राज, नेतृत्व । २ हर-वोंग, कुव्यवस्था, अधेर ।—पतिकत्व—न बहुपतिकत्व, बहुपति-

प्रथा ।—पत्नीक—वि बहुपत्नीक, बहुविवाही, बहुस्त्रीक ।—०त्व—न बहुपत्नीत्व, बहुविवाह ।—मत—न बहुमत, बहुमन्यक लोगो का मत, कसरते राय, अकसरीयत ।—मूल्य,—मोली—वि बहुमूल्य, वैशकीमत ।—रंगी—वि बहुरंग, रंग—विरागा ।—रूपी—स्त्री बहुरूपिया, बहुरंगी ।—वार—अव्य. कई वार; अनेक वार ।—विघ—वि बहुविघ, अनेक प्रकार का ।—अव्य. अनेक प्रकार से; बहुत तरह से ।—श, —शा ।—दे. क्रम में ।—श्रुत वि—बहुश्रुत; विद्वान् बहुज्ञ ।—सत्य,—संख्यक, सख्याक—वि बहुसत्य, बहुसख्यक, बड़ी सख्यावाला ।—०लोक—पु बहु अकसरीयत, बहुसख्यक ।—साल—ळ—वि अव्य १ बहुत, बहुत-से । २ हमेशा, बार-बार ।

बहुगुणे—दे 'बोधोणे' ।  
बहुत—वि १ बहुत, अधिक; ज्यादा । २ काफी; पर्याप्त ।—अव्य बहुत, अधिक मात्रा में ।—करून—अव्य. १ बहुत करके, अधिकतर, बहुधा । २ प्राय, गालिवन ।

बहुतेक—वि १ अधिकांश, बहुत-सा, अधिकतर, बहुत-से । २ बहुत कुछ, लगभग सभी ।—अव्य. १ लगभग, प्राय । २. गालिवन, सभवत ।

बहुधा—अव्य १ बहुधा; बहुत कर के, अक्सर । २ सभवत; गालिवन ।

बहुश—शा—अव्य बहुश, बहुत कर के, प्राय, बहुधा ।

बहुत—दे 'बहुत' ।

बहुशी—अव्य बहुत अशो में, बहुत कुछ, अधिकांश में ।

बळ - न बल, ताकत । दे.  
 'बल' । - कट - वि १ बल-  
 वान्; ताकतवर, बली । २ मज-  
 वृत, पक्का, टिकाऊ । ३. जोर-  
 दार । ४. प्रचंड । - कटी - छी  
 १. मजबूती । २ सामर्थ्य, जोर ।  
 ३ पुष्टि, समर्थन । - जवरी -,  
 - जोरी - छी १ दे बलात्कार ।  
 २ जबर्दस्ती, जुल्म । - वत्त - वि  
 बलवान्, बली । - वत्तर - दे  
 'बलवत्तर' । - वान - वि बलवान्,  
 ताकतवर । मु० - करणें - १ बल,  
 जोर लगाना । २ जबर्दस्ती करना ।  
 बळकविणे, बळकावणें; बळ-  
 काविणे - क्रि स छीनना,  
 दबोचना; हथियाना, जबर्दस्ती ले  
 लेना, कब्जा करना । मु० बळ-  
 कावून बसणे - दबा लेना, बैठना ।  
 बळद - न १. खत्ता; खती,  
 अनाज रखने के लिए जमीन या  
 दीवार में बनाया हुआ गड्ढा । २  
 सुरग ।

बळाबळ - दे. 'बलाबल' ।  
 बळिराजा - पु. १ बलि  
 (राजा) । २. किसान, कृषीवल ।  
 बळिष्ठ - वि बलिष्ठ, सब से  
 अधिक बली, ताकतवर ।  
 बळी - पु. १. बलि (राजा) ।  
 २ बलि, कुर्बानी । दे 'बलि' ।  
 - वि बली, बलवान्, ताकतवर ।  
 - राजा - दे 'बळिराजा' ।  
 - राणा - पु. प्रसव के ग्यारहवें  
 दिन पीठे पर चावल से बनाये चित्रों  
 का दान करने की विधि । मु० -  
 देणें - बलि चढाना, देना, कुर्बान  
 करना, कुर्बानी देना । [ मी त्याला  
 वरुणदेवास बळी देईन = मैं उसे  
 वरुणदेव की बलि षढाऊँगा । ]  
 - पडणे - १ शिकार होना,  
 फँसना । २ बातों में आना । ३

मरना । कहा. बळी तो फान पिळी  
 जवर (जबर्दस्त) का ठेंगा सिर  
 पर, जिसकी लाठी उसकी भँम ।  
 बळें - अव्य. १ बलात्, बल-  
 पूर्वक, जबर्दस्ती । २ जानबूझ कर,  
 डरादतन् । ३ बलवृते पर ।  
 बाक - पु १ बाँक, टेढा-  
 पन, वक्रता । २ घुमाव, मोड़ ।  
 ३ मनमुटाव । - दार - वि  
 टेढा, तिरछा; बाँका, अर्धचन्द्रा-  
 कार ।  
 बांक - पु. न बाँकडें - न  
 [ पुर्त 'बाँको' ] बेच, लकड़ी,  
 लोहे आदि की लबी, कम चौड़ी  
 चौकी ।  
 बांका - वि १ बाँका, टेढा ।  
 २ कठिन, बुरा, मुश्किल । ३  
 वीर, साहसी । ४ मजबूत । - पु  
 करनाल, भोपा ।  
 बाग - छी [ फा. 'बाँग' ]  
 १ बाँग, नमाज की अजान । २  
 मुर्गे की बोली । [ कचिया नोन ।  
 बागडखार - पु कचिया,  
 बांगडा - पु एक समुद्री मछली  
 जो सफेद और छोटी होती है ।  
 बागडी - छी १ चूड़ी,  
 कगन, कँगनी । २ ग्रामोफोन  
 का रेकर्ड । ३ चूड़ी की शकल की  
 चीज । मु० - फुटणे, - वाढणे,  
 - वाढविणे - चूडियाँ ठढी होना,  
 स्त्री का विधवा बन जाना । -  
 वाढविणे - चूडियाँ ठढी करना या  
 तोडना, स्त्री के विधवा होने पर  
 चूडियाँ तोड देना । बागडचा  
 भरणे - चूडियाँ पहनना, नामदं  
 बनना । [ की शुक्ला षष्ठी ।  
 बागरसट-ठ - छी मार्गशीर्ष  
 बाठ - छी ये 'बाठा' ।  
 बाठा - पु छी १ आम की  
 गुठली । २ दे 'टेंगूळ' । ३

जटा । - वि हट्टाकट्टा; मजबूत ।  
 बाठी - छी दे 'बाठा' ।  
 बाड - वि १ मजबूत । २  
 जवान । ३ दे 'बडखोर' । - पु  
 १ ईंधन की लकड़ी का कुदा,  
 लकड़ी का बड़ा और मोटा टुकड़ा ।  
 २ ज्वार, बाजरे आदि का डठल ।  
 ३ मोटा छोटा कपडा, हलकी  
 साडी ।  
 बांड - पु [ अ ] १ ऋणपत्र ।  
 २ वधपत्र । जमानत । ४ दे  
 'कित्ता' ।  
 बाडगूळ - न १ बाँदा, पर-  
 गाछा, बदाक, दूसरे पेड़ों पर  
 लगने वाला पौधा । २ परोपजीवी,  
 परजीवी व्यक्ति ।  
 बाडा - वि १ चितकवरा,  
 चितला । २ छोटा, तग । ३  
 दे 'बडखोर' ।  
 बाद - दे 'बाध' ।  
 बादरी + - छी १ क्षितिज ।  
 २ सहाद्रि का पश्चिमी हिस्सा ।  
 ३ जिम्मा । [ गूळ' ।  
 बाँदें - न बाँदा, दे 'बाड-  
 बाध - पु १ बाँध, बंद,  
 पुस्ता । २ मेंड । ३ वधन, रोक ।  
 ४ बंद, फीता । - काम - न  
 निर्माण, तामीर, रचना, बनावट,  
 गृहनिर्माण । - बदिस्ती, - बाधोळी  
 - छी मेंड या बाँध बनाना, खेत  
 की हदबदी करना । - बरळी, -  
 वरोळी - छी मेंड, खेत की हद-  
 बदी । मु० - घालणे - १ रोकना,  
 रोक लगाना । २ बाँध बनाना,  
 मेंड या बाँध बना कर रोकना । ३  
 मेंड बनाना, हदबदी करना ।  
 बाधणाबळ - छी १ मकान  
 आदि बनाने की मजदूरी । २  
 बाँधने की उजग्त ।  
 बाधणी - छी १ रचना,

निर्माण, गठन, बनावट, तामीर।  
२ जिल्द, पुस्तकावरण; वेष्टन।  
४ वांघने का साधन, रस्ती आदि।

वाघणे - क्रि स १ वांघना कसना, गांठ देना। २. बनाना, बनवाना, निर्माण करना (मकान)। ३ लपेटना (पगडी, पट्टी)। ४ लपेट कर कसना, समेटना (गठरी, विस्तर)। ५ मॅड या वांघ बना कर रोकना (पानी)। ६ वांघ कर धारण करना (घडी)। ७ नियम, वचन आदि से वधन मे डालना, पाबंद करना। ८ रचना, लिखना। ९ बनाना, वांघना (गोली, लहडू)। १० मन्त्रद्वारा रोकना। ११ स्थापित करना। १२. प्रचार, प्रसार करना। १३ योजना बनाना। १४ मन में रखना।

वाघव - पु बहु वाघव, भाई-वधु, स्वजन, निकटसवधी, मित्र, रिश्तेदार।

वाघा - पु. काठी; अँगलेट; गठन, कद, बनावट।

वाघ टी - स्त्री १ वधन, रस्ती। २. खेत की मॅड पर से जाने वाली पगडडी।

वांघावाघ-धी - स्त्री १ वांघने का काम, वॅघाई। २ सफर की तैयारी। मु० - करणें - बोरिया सम्हालना; चलने की तैयारी करना; बोरिया समेटना।

वाघील - वि १. वॅघा हुआ, जकड़ा हुआ। २. आश्रित, अवलंबित। ३ गुलाम, पाबंद।

वाघीव - वि १ सुगठित, सुघड़। २ कसा हुआ, सुबद्ध। ३ बनवाया हुआ। ४ पक्का।

वांघेसूद - वि १. गठीला, सुडीला। २ दे 'वाघीव'।

वांघ - पु [अ.] वम, प्ररकोट, स्फोटक, वम का गोला।

वांघू - पु [अ] वांम।

वाघची - दे 'वाघची'।

वासरी - स्त्री वांमुरी, वशी।

वा - पु वाप, पिता। - अव्य अजी, अरे, जी। - प्रत्य १ जी, नाम, अल्ल या पदवी के साथ जोड़ा जाने वाला आदरसूचक शब्द (गणोवा, विनोवा, वाळ-कोवा)। २ मजाक में आदरसूचन के लिए जोड़ा जाने वाला शब्द (वाघोवा, नागोवा, वेडोवा)।

वाइक्या - दे. 'वाइल्या'।

वाइल - स्त्री १ पत्नी, लुगाई, स्त्री, जोरू। २ रखेल, रखेली, रखनी। - बुद्ध्या - वि जनमुरीद, पत्नी के बस में रहने वाला, पत्नी की सलाह पर चलने वाला, जोरू का गुलाम। - वेडा - वि १ जो अपनी पत्नी के पीछे पागल हो, स्त्रीण। २. रडीवाज। ३ दे. 'वाइल-बुद्ध्या'।

वाइल्या - स्त्री. १. हमेशा स्त्रियों में रहने वाला। २ नामदं। ३ दे 'वाइल-बुद्ध्या', 'वाइल-वेडा'।

वाई - स्त्री १. वाई, स्त्री, प्रतिष्ठित महिला, नारी; औरन। २ देवी। ३. जेठानी, जीजी, दीदी। ४ नौकरानी, मिसरानी, दासी। ५ उस्तानी; अध्यापिका; शिक्षिका। ६ सहेली। ७ वेश्या, रखेली। - अव्य जी, अरी, तो सही। - वाई - अव्य दैया री!

वाईल - दे 'वाइल'।

वाळ - पु. १. हौआ, भकाऊं, एक कल्पित वस्तु जिसका नाम लेकर बच्चों को डराया जाता है।

२ अनाधारण और डगवनी चंङ्।  
३ फोडा; जहम (बच्चों की बोली)।  
मु० - करणें, - कस्तन ठेवणें,  
- दाखविणें - हौआ गडा करना;  
धुद्र वात को बडी वता कर डराना।  
- वाटणें - डर लगना।

वाक, वाकडें - दे 'वाक', 'वाकडें'।

वाकचुक - न स्त्री घडकन, घकघक, घुकघुकी; घकपक। मु - होणें - घकघकाना; जी का घकघक करना, डर लगना, घकपकाना, भय खाना।

वाका - दे 'वाका'।

वाकी - स्त्री [अ 'वाकी']  
१ वाकी; वकाया, शेषफल, वची हुई रकम, सख्या; वचत।  
२ घटाने से निकलने वाली मस्या।  
- वि १ वाकी, शेष, वचा हुआ; वकाया। २ मौजूद, विद्यमान।  
३ देय, न चुकाया हुआ (पावना)।  
अव्य लेकिन, मगर, किंतु, हां। - चा - वि. शेष, वचा हुआ; वकाया, अवशिष्ट। - दार - वि वाकीदार; जिसके यहाँ लगान या पावना वाकी हो। मु - ओडगें - वाकी चढाना, शेष रकम को पुरानी वही से नई वही में लिख लेना। - थकणें - पावना वसूल न होना। - न ठेवणें - १ वकाया चुकता करना। २ आडे हायो लेना, कुछ कसर न रखना, साफ साफ कह देना। - पूज्य करणें - हिसाब चुकता करना, लेन देन पूरा करना।

वाँक्स - स्त्री [अ] १ वकम, सडूक; पिटारा। २ थिएटर में भारी टिकट वाला विशेष कक्ष।

वाग - पु. स्त्री [फा 'वाग']  
वाघ, उपवन, उद्यान, वाटिका।

- बगीचा - पु १ बाग; बगीचा, फुलवाडी-री, बागवाडी । २ फलो की खेती । - वान - पु १ बागवान, माली । २ तमोली, पनवाडी । - शाई - छी बगीचा, बागीचा । [ उछलना-कूदना ।

बागडणे - क्रि अ फुदकना, बागनेट - छी [ अ 'वेयोनेट' ] सगीन, किरिच ।

बागवूक-ग - दे 'वाकवुक' । बागाइत - छी दे 'बागाईत' । - दार - वि पु फलो की खेती करने वाला, बागान का मालिक ।

बागाइती - वि [ फा 'बाग' ] १ नहरी, तरी (भूमि) । २ जहाँ पर बहुत-से बाग या फलो की खेती हो । छी दे 'बागाईत' ।

बागाईत, बागायत - छी [ फा 'बाग' ] नहर या कुएँ के पानी से सिंचाई होने वाली खेती, नहरी, तरी की भूमि, फलो, गन्ने आदि की खेती । - वि नहरी, तरी ।

बागुरडा - पु १ झीगुर (कीडा) । २ कमला, खजोहरा ।

बागुलबुवा, बागुलबोवा - पु हीआ-वा, डरावा । दे 'वारु' ।

बाचकणे - क्रि अ डरना, घबडाना, सिटपिटाना ।

बाचावाची - छी तू-तू में-में, झगडा, कहामुनी, दांताकिटकिट ।

बाच्छाई<sup>+</sup> - छी [ फा 'वाद-शाही' ] वादशाही, शासन, हुकूमत ।

बाज - छी खटिया, चारपाई । - विणणारा - वि खटवुना, खाट बुनने वाला । [ मोटा अनाज ] ।

बाजरी - छी बाजरा (एक बाजलें - खटिया, खटोला, खटोलना ।

बाजा - पु १ बाजा, बजाने का यंत्र, वाद्य । २. अंग्रेजी बाजा, 'बैंड' । मु० - करणें, - बाजविणें - शोर मचाना, चिल्ल-पो मचाना ।

बाजार - पु [ फा ] १ बाजार, हाट, मडी । २ खरीद-बेचीके लिए जमा हुए लोग । ३ पैठ, बाजार लगने का दिन । ४ शोर-गुल, हो हल्ला । ५ अव्यवस्था, कुप्रवध । ६ बाजार से लायी हुई मछली । - करी - वि बाजार मे खरीदने या बेचने वाला, बाजार को जाने वाला । - गप्प - छी गप, अफवाह । - बसवो - छी वेस्था । - बुणगे - न पु बहु० १ बहीर; सेना के साथ चलने वाला सेवक-समुदाय । २ भीड, बेकार लोग । - भाव - पु बाजार-भाव, प्रचलित दर । - हाट - पु छी १ बाजार, पैठ । २ बाजार जा कर चीजें खरीदना, खरीद । मु० - करणें - बाजार करना; हाट करना, बाजार में सामान खरीदना । - भरविणे - निकम्मे, बेकार लोगो की भीड जमा करना । - मांडणें - १ बाजार लगाना, चीजो को इधर-उधर फैला देना, भीड लगाना । २ बेचने के लिए रखना, पेश करना ।

बाजारच्या भाकरी भाजणें - दे 'लस्कराच्या भाकरी भाजणे' । बाजारात पांच पायलीनें मिळणें - बहुत सस्ता होना, कोई मूल्य न रहना । गेला बाजार तरी - अव्य कम से कम । कहा० बाजारात तुरी, भट भटणीला मारी - सूत न कपास, कोरियो में लट्ठम लट्ठा ।

बाजारी - वि [ फा 'बाजार' ] १ बाजारी, बाजारू, हलका,

मामूली । २ अशिष्ट, कमीना, लोफर । ३ सुनी-सुनायी (वात) ।

बाजी - छी [ फा 'बाजी' ] १ बाजी, खेल । २ दाँव; शर्त, पण, शर्त पर लगाया हुआ रुपया । ३ ताश, शतरज आदि का एक बार का खेल, एक खिलाडी के खेलने का समय, वारी । - प्रत्य आदत; व्यसन । - पु दे बाजीराव । मु० - अगावर येणें - पासा पलटना या उलटना, दाँव फिरना, हार होना । - उलटणें - दाँव फिरना, हार होते-होते जीत होना या जीत होते-होते हार होना ।

बाजीराव - पु [ फा 'बाजी' ] १. बाजीराव पेशवा (प्रथम या द्वितीय) । २ बडा अमीर । ३. अकडैत, ठट-वाट से रहने वाला व्यक्ति । ३ विलासी, विषयासक्त, आदमी । बाजीरावाचा बेटा - वि पु १ बडे वाप का बेटा, अमीरजादा । २. अकडैत । ३ विलासी, विषयासक्त ।

बाजुबद - दे 'बाजू' में ।

बाजू - छी [ फा 'बाजू' ] १. बाजू, भुजा, बाँह; वाहु । २ तरफ, पार्श्व, बगल, ओर, रुख, पहलू । ३. तल, सतह, पृष्ठ, पल्ला । ४. सीमात, सीमा, किनारा, छोर, सिरा । ५ दल, पक्ष, गुट । ६ चौखटे की दाहिने-बायें की खड़ी लकड़ी, बाजू । - चा - वि तरफ का, तरफदार । - बंद - पु बाजूबद, भुजबद (बाँहपर पहनने का एक गहना) । - ला, - स - अव्य एक ओर, एक तरफ, पक्ष में, हक मे । मु० - अगावर येणें - पासा पलटना, दाँव फिरना, हार होना । - घेणें-

पक्षपात, समर्थन, तरफदारी करना, माय देना । - मारणें - अपने पक्ष को सफल बनाना, मैदान मारना । - राखणें - नाक रख लेना, इज्जत बचाना । - ला सारणें - १. दूर हटाना, किनारे रखना । २ ध्यान न देना ।

वाट - पु १ अपवित्रता, भ्रष्टता, छूत । २ कलक, घब्रा ।

वाटगा - वि १. धर्मभ्रष्ट, पतित । २ धर्मानरित, नौमुस्लिम, नया ईसाई ।

वाटणें - क्रि अ १ धर्मांतर करना, मजहब बदलना । २ भ्रष्ट, अपवित्र बनना ।

वाटली - स्त्री [ अ 'वाँटल' ] वीतल, शीशी ।

वाटविणे - क्रि. स १ धर्म-परिवर्तन कराना, धर्मांतरित करना, शुद्ध करना । २ भ्रष्ट करना ।

वाटुक, वाटूक - न हरी कटवी - वी, जुआर के हरे डठल जो चारे के काम में लाये जायें । - वि तग, छोटा ।

वाट्या - दे 'वाटगा' ।

वाठ-ठा-ठी - दे 'वाठ-ठा-ठी' ।

वाड - न १. पोथा, कागज की बडी गड्डी । २ वोरिया, ब्रोस, गठरी । ३ बडी पाडुलिपि । ४ सग्रह, संकलन, चयन । - विछाना - पु., - विछायत - स्त्री वोरिया बँधना, नामान-असवात्र ।

वाड - स्त्री १ वाड, तलवार आदि की धार । २ कनात । ३. वाड, घेरा, झाडवंदी, टट्टी ।

वाट - वि १ चालाक, वूर्त । २ वाहियात ।

वाडगा - वि १ दे 'वाटगा' ।

२ धृष्ट, गुस्ताख । ३ जालिम, अत्याचारी । [ स्तभपीठ ।

वाडस - पु खभे का आचार, वाडी - स्त्री १ वाडा, अहाता, घेरा । २ चहारदीवारी । ३ वाडी; फलो का वाग ।

वाँडी - स्त्री [ अ ] १ शरीर, देह । २ वाँडिस, विलायती ढग की कुरती, अँगिया, सीनावद । - गाडें - पु. अगर्क्षक सैनिक, 'वाडीगाडें' ।

वाण - पु १ वाण, तीर, शर । २ (वाहद का) वान, हवाई वान, अग्निवाण । ३. वाणालग (नर्मदा में पाया जाने वाला एक सफेद पत्थर जिसको शिवालिंग के रूप में पूजते हैं) ।

वाणणे - क्रि अ १ मन पर अकित होना; आत्मसात् होना, रग में दौड जाना, नस-नस, रग-रग में समा जाना । २ स्वीकार करना । [ करना, आदत डालना ।

वाणविणे - क्रि स आत्मसात्

वाणा - पु. १ टेक, सकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा । २ अभिमान, गर्व, फल । ३ शान । ४ पहनावा, भेस । ५ वाना; ताने में भरा जाने वाला आडा सूत ।

वाणेदार - वि अभिमानी, तेजस्वी, कर्मठ, खुद्दार, आत्म-सम्मानी ।

वात - स्त्री [ हिं ] १ वात । २. चीज । ३ गप । ४ वकवाद, वकवास । - चित - स्त्री १. वान-चीत, गुप्तगू । २ गप-गप । मु० बाता मारणें - १ गप हाँकना; गप-शप करना । २ वाते बनाना ।

वातमी - स्त्री. १ खबर, समाचार, संवाद । २ सूचना, पता, जानकारी । ३ हाल ।

- दार - पु. १ मवाददाता, नामा-निगार । २ जासूस । मु० - ठेवणे - नजर रखना, टोह में रहना । - पसरणे - १ खबर, वान फैलना । २ अफवाह फैलना ।

वाता - दे 'वात' में ।

वाताड्या - वि १. गप्पी, गपोडिया, गपोड, गप मारने, हाँकने वाला । २ वातूनी, वक्की ।

वाद - वि [ अ ] १ वाद, रद्द, रद, काँटा, छाँटा हुआ । २ खराब; निकम्मा, रद्दी । ३ घटाया हुआ । ४ छोडा हुआ । ५ मारा हुआ, खारिज, 'आउट' । मु०-करणें - १ आउट करना, मारना । २ वाद करना, देना; काट देना । ३ रद करना । -होणें- १ आउट होना । २. रद होना ।

वादरायण - पु. वादरायण, वेदव्यास । - संबंध - पु. वाद-रायण सबध, बहुत दूर का, खीच-तान कर जोडा हुआ सबध ।

वादला - पु. [ हिं ] वादला, जरवफ्त ।

वावली - स्त्री [ अ 'वकेट' ] वालटी, लोहे, पीतल आदि का बना डोल ।

वादशाहा, वादशाहा - पु. [ फा. 'वादशाह' ] वादशाह; सम्राट्, नरेण, राजा । मु - स्त्री ओलख देणें - बूस, रिश्वत देणे, मुट्ठी गरम करना ।

वाघ - पु. वाघ, बाबा, रोक, प्रतिरोध, दिक्कत, रुकावट ।

वाघक - वि १ वाघक, वाघा करने वाला, रुकावट डालने वाला । २ विघ्न करने वाला; कष्ट देने वाला । ३ दे 'वाघिक' ।

वाघणे - क्रि अ. १ बुरा असर होना, अनुकूल, मुआफिक न

आना, प्रतिकूल होना । २ हजम न होना । ३ भूताविष्ट होना; भूत लगना । - किं स बाधा, रुकावट डालना, विघ्न करना ।

बाधा - स्त्री १. बाधा, रुकावट, अडचन; दिक्कत । २. पीडा, कष्ट । ३. प्रेतबाधा; भूतावेश, पिशाचबाधा ।

बाधक - वि १ दे 'बाधक' । २ भूतोपसृष्ट, पिशाचसेवित, भूताविष्ट, प्रेतयुक्त । ३ (मकान) जहाँ रहने पर प्रेतबाधा हो ।

बाधित - वि १ विरुद्ध; प्रतिकूल । २ बाधित; जिसमें रुकावट पड़ी हो । ३ ग्रस्त । ४ मिथ्या ।

बानी<sup>+</sup> - स्त्री गन्ने का रस जमा करने का लोहे का वरतन ।

बाप - पु बाप, पिता; वालिद । - अव्य (सबोधन) तात, बाबा, भाई । - घर - न पिता का घर नेहर, पीहर, मायका । - जन्मात, - जन्मी - अव्य. जीवनभर में, आज तक कभी भी, जिंदगी में । - जादा; - दादा - पु पूर्वज, पुरखा । - जादे, - दादे - पु बहु बापदादा, पूर्वज, पुरखे । - शेटीची पेंड - स्त्री चाहे जितनी, मुफ्त में मिलने वाली चीज, बाप की चीज, माल, हराम का माल । - रे - अव्य. बाप रे, बाप रे बाप, भय या आश्चर्य सूचित करने वाला उद्गार । - बापाचा माल - पु दे 'बापशेटीची पेड' । - बापास बाप न म्हणणारा - वि वेमुरीवत, साफ बात कहने में किसीका लिहाज न रखने वाला निडर, खरी-खरी सुनाने वाला । मु० - लागून राहाणे - (किसीसे) बढ कर होना, अधिक शक्तिशाली

होना । बापास बाप न म्हणणे - न्याय के मामले में किसीका लिहाज न रखना; किसीके दवाब में न आना । [ २ पति ।

बापई - य - १ पुरुष, मर्द ।

बापडा - वि १ बापुरा, बेचारा । २ तुच्छ, नगण्य । - अव्य. भला ।

बापुडवाणा - वि १ दे 'बापडा' । २ दयनीय, दीन; काबिले रहम ।

बापुडा - दे 'बापडा' ।

बाप्या - वि पु बडी उम्र का पुरुष, प्रौढ, बाप बनने की उम्र वाला आदमी ।

बपतिस्मा - पु [अं 'वैष्टिस्म'] बपतिस्मा, किसीको ईसाई बनाने का संस्कार, ईसाई धर्म की दीक्षा ।

बाव - स्त्री [अ] १ बात; विषय, बावत । २ बाव, परिच्छेद, प्रकरण । ३ धारा, अनुच्छेद ।

बावत - स्त्री [फा] बावत; विषय, सबध । दे 'बाव' । - अव्य १ बावत, विषय में, वारे में । २ वास्ते, लिए ।

बाबतीत - अव्य [फा. 'बावत'] बावत, विषय में, वारे में, सिलसिले में ।

बाबद - पु [अ] 'बावत' ।

बाबा - पु [अ] १. बाबा, बाप, पिता । २ वच्चो के लिए प्यार का शब्द । ३ अब्बाजान; पिताजी । - लोक - पु बहु. वच्चे । मु० - पुता करणे - मित्रत-समाजत करना, पुचकारना, समझाना - बुझाना । कहा० बाबा चाक्यं प्रमाणम् - बडो की बात सर आँखो पर, बडो के कहने के मुताबिक चलना । [गोल धरती, चर्खी ।

बाँबिन - स्त्री [अ] फिरकी,

बाबी - स्त्री [अ 'बेबी'] बवुई, प्यारी बेटी, लडकी, मुन्नी ।

बाबुना - पु [फा 'बाबून'] बाबुना, दवा के काम आनेवाला एक पौधा ।

बाबू - पु [बँगला] १. बवुआ, प्यारा वच्चा, मुन्ना । २ बाबू, प्रतिष्ठित व्यक्ति ।

बाब्या - पु प्यारा वच्चा, 'बाबू' का विगडा हुआ रूप ।

बाभळ - स्त्री - स्त्री बबूल, कीकर (एक प्रसिद्ध कंटीला पेड) । मु० बाभळीस फाटा लावणे - बदमाश को बदमाश कहना ।

बामण - पु १ बाम्हन, ब्राह्मण । २ सारस्वत जाति का ब्राह्मण ।

बामणी - वि ब्राह्मण का ।

बाय - स्त्री दे. 'वाई' ।

बायका - स्त्री बहु १ ['बायको' का बहु.] पत्नियाँ । २ (वाई का बहु) स्त्रियाँ, महिलाएँ । - मंडळी - स्त्री १ स्त्रियाँ, महिलाएँ, घर की स्त्रियाँ । २ पत्नी । कहा० बायकात पुरुष लाबोडा भाजून सातो कोबडा - स्त्रियो के बीच पुरुष का बैठना अच्छा नहीं है (लडकियाँ अपने बीच आने वाले लडके को चिढाने के लिए यह कहती है) ।

बायकी - वि स्त्री-सवधी, अनाना, स्त्री के दग का, नारी-सुलभ, स्त्रैण । - शास्त्र - न ऐसी विधियाँ जो धर्मग्रथो में तो न हो, पर स्त्रियो में प्रचलित हो ।

बायको - स्त्री १ पत्नी, घर-वाली, जोरू, श्रीमतीजी । २ स्त्री, नारी, महिला । - जबळ पट्टा खेळणारा - वि गेहेशूर,

घर मे ही बहादुरी दिखाने वाला ।  
- माणूस - न स्त्रीजन, नारी,  
दे 'वायको' । मु० - करणे -  
पत्नी बनाना, विवाह, शादी  
करना ।

वायक्या - वि १. हमेशा  
स्त्रियो मे रहने वाला । २ दे.  
'वाईलवेडा' । ३ नपुसक;  
हिजडा । ४ दे 'वायकी' ।

वायवल - न [अं.] वाइ-  
विल, इजील, ईसाइयो की धर्म-  
पुस्तक ।

वायल्या - दे 'वायक्या' ।

वायसिकल - छी [अ] ]  
वाइसिकिल, साइकिल, पैरगाडी ।

वायस्काउट - पु [अ] बाल-  
चर, 'वायस्काउट' ।

वाया - पु १ एक पक्षी जो  
पत्तो को जोड कर अपना घोंसला  
बनाता है । २ वायां । ३ तबले का  
वह हिस्सा जिसपर स्याही नहीं  
होती ।

वाया - छी बहु० १ स्त्रियां,  
दे. 'वायका' । २ मां । ३  
चेचक, शीतला ।

वायोनेट - दे 'वागनेट' ।

वार - पु १ धमाका, बडाका,  
विस्फोट । २. बटुक मे ठूस कर  
भरी हुई वारुद । ३ तबाकू की  
फकी; मुंह मे डाली हुई गिलौरी ।  
मु० - उडविणे - १ अचानक  
मैदान मारना । २ विवाह करना ।  
- ठासणें, भरणें - १ बटुक मे  
वारुद, कारतूस भरणे । २. पट्टी  
पढाना । - भरणें - १ चिलममे  
तबाकू, गांजा भरना । २ मुंह मे  
पान, तबाकू ठूसना ।

वार - पु [फा 'वहार']  
वहार, फलो, फूलो का मौसिम ।  
मु० - घरणें - वहार पर होना,

आना ।

वार - पु [फा] आलेख्य,  
इदराज, पजीयन । मु० - करणें -  
१ पजी-बद्ध करना, दर्ज करना ।  
२ खत्म करना, रफा-दफा  
करना ।

वार - पु. [अं] १. छड;  
सलाख; मलाई । २ ( सावुन  
आदि का ) लवा उडा, वार ।  
३ वारिस्टरो, वकीलो का समूह,  
वार । [पतला । दे 'वारीक' ।

वारका - वि छोटा, दुबला-  
वारकाई - छी, वारकावा -  
पु १ वारीकी, सूधमता । २.  
खूबी, सूधम गुण-दोष । ३  
कजूसी ।

वारगळणें - क्रि अ १. छूट  
जाना, रह जाना, असफल होना;  
निकम्मा बनना । २. स्वेच्छाचारी,  
स्वैराचारी बनना । ३ लुडकना,  
रपटना ।

वारगीर - पु. [फा.] मालिक  
या सरकार के घोडे का प्रयोग  
करने वाला अश्वारोही सैनिक, वह  
घुडसवार जिसके पाम अपना घोडा  
न हो । - वि दूसरो से मांग कर  
लाया हुआ ।

वारडी - दे 'वादली' ।

वारदान - न. [फा.] १. वार-  
दान, वारदाना, वह चीज जिसमे  
कुछ रखा जाय, बोरा, थैला आदि ।  
२ जहाज आदि पर चढाया हुआ  
सामान । ३ भारी सामान-अस-  
वाब । ४ टाट, पटसन का मोटा  
कपडा ।

वारनिशी - छी [फा 'वार'  
+ 'नवीसी'] १ आलेख्य, पजी-  
यन, दर्ज करणा । २ पजिकाधि-  
कारी का पद या काम । मु० - करणे  
- पजीबद्ध करना, दर्ज करना ।

वारनीस - पु [फा 'वार' +  
'नवीस'] पजिकाधिकारी, मुहा-  
फिज-दफतर, 'गजिस्टार' ।

वारभाई - पु बहु विभिन्न  
विचारो के लोगो का गुट । - छी  
१ अनेक लोगो का शासन, विभिन्न  
पक्षो की मिली-जुली सरकार । २  
अधेरखाता; अधेर-नगरी, गह-  
वडी । वारभाईचा कारखाना,  
कारभार - पु अधेरखाता,  
अव्यवस्था, गोलमाल ।

वारभाही - अव्य. [वारा +  
फा 'माह'] सालभर, हमेशा । -  
वि वारह-मासी, जो वारहो महीने  
रहे, काम करे ।

वारव - छी वावली, चौडा  
कुआं जिसमें नीचे जाने के लिए  
सीढियां बनी हो ।

वारशास जेवणें - दे. 'वारसें' में ।

वारस - छी द्वादशी ।

वारसें - न वरही, वारहीं,  
गिशु-जन्म के वारहवे दिन की  
नामकरण-विधि, उस दिन का  
उत्सव । मु० - जेवणें - किसीको  
अच्छी तरह जानना, किसीसे  
अधिक अनुभवी, चालाक होना ।

वारा - वि वारह, १२ । -  
आणे - वि १ तीन-चौथाई ।  
२ नपुसक, हिजडा । - खडी -  
छी वारहखडी, व्यजन के वारहो  
स्वरो से युक्त रूप । - गांवांचा मुंज्या  
- वि आवारा; घुमक्कड, एक  
जगह पर न टिकने वाला । - गावाचे  
पाणी प्यालेला - वि चट,  
उस्ताद, लफगा, चालाक । -  
पिपळावरचा मुज्या - दे 'वारा  
गावाचा मुज्या' । - बंदी - छी  
बगलबंदी, कुर्ती जिसमें वारह बंद  
लगे हो । - महिने तेरा काळ - अव्य.  
हमेशा, सदैव, सतत, लगातार ।

मु० - बाजणें - १ बरखाद, नष्ट-  
भ्रष्ट होना, धज्जियां उडना ।  
२ दिवाला निकलना । - बाटा  
करणें - बारह बाट करना, तितर-  
वितर करना, भगा देना । -  
बाटा पळणें, होणें - पूरी स्वतंत्रता  
होना, कोई अकुश, रोक, नियंत्रण  
न होना । [पारी, क्रम ।

बारी - स्त्री [फा] बारी,  
बारो - स्त्री १ दर्रा, दो  
पहाडियों के बीच का खतरनाक  
मार्ग । २ खिडकी । ३. बदरगाह ।

बारी - पु तमोली ।

बारीक - वि [फा] १  
बारीक, सूक्ष्म । २ महीन, बहुत  
पतला; क्षीना । ३. छोटा । ४

दुबला - पतला । ५ गूढ । - नजर -

स्त्री १ सूक्ष्म दृष्टि । २ कजूसी ।

- राव - पु सीकिया पहलवान,

बहुत दुबला - पतला आदमी । -

सारीक - वि फुटकर, छोटा-

मोटा, मामूली । मु० - कातणें -

१ बाल की खाल उतारना । २

मीठी बातें कर के धोखा देना ।

३ हिसाब में बहुत अधिक साव-

धानी रखना, कजूसी करना । -

पाहाणे - खर्च की छोटी-छोटी मदों

पर ध्यान देना, कजूसी करना । -

हंसणे - मुसकराना, होंठों में हंसना ।

बारें - न १ खेत की मेड में

पानी के प्रवाह के लिए बना छेद ।

२ खेत ।

वालट - न झुठा इलजाम,

तुहमत, तोहमत, मिथ्या आरोप,

लाछन । मु० - घेणें - तुहमत

लगाना । - येणें - तुहमत लगाना,

मिथ्या आरोप किया जाना ।

वालबाल - अव्य पूरी तरह,

कतई, विलकुल, पक्का ।

बाल - पु १ बाल, केश,

रोमां । २ सुनार के हथौड़े का  
चपटा भाग ।

वाल - न बाल, बालक,

बच्चा । - पु लडका । वि १

बाल, छोटा । २ नासमझ । -

फ्रीडा - स्त्री बालफ्रीडा, बच्चों

का खेल । - गुन्हेगार - पु बाल

अपराधी, अपचारी बालक, बाल

अपचारी, किशोर-अपराधी । -

गोपाळ - पु बहु बानगोपाल, छोटे

बच्चे, बाल-बच्चे । - चद्र - पु

१ बालचद्र, दूज का चांद । २

शुक्ल पक्ष की पंचमी या षष्ठी का

चद्र । - चर - पु बालचर, 'व्वाय-

स्काउट' । - बुद्धि - स्त्री बाल-

बुद्धि, बालोचित बुद्धि, नादान,

नासमझ । - पण - न बालपन,

बचपन । - बोध - वि १ बाल-

बोध, आसान, सरल । २ पुराने

ढग का । ३. सीधा, सज्जन,

कुलीन । - स्त्री देवनागरी लिपि ।

- ० कित्ता - पु उदारनीति । -

- ० घरणे - शिष्ट, कुलीन, पुरानी

परिपाटी का पालन करने वाला

परिवार । - ० बळण - न शिष्ट,

कुलीन पुरानी परिपाटी का चाल-

चलन, सीधा-सादा आचरण,

व्यवहार । - ब्रह्मचारी - पु

बालब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचारी ।

- मित्र - पु १ बालमित्र, लँगो-

टिया यार । २ बालरवि, बाल-

सूर्य । - विधवा - स्त्री बाल -

विधवा, गौना या पतिसमागम में

पहले, छोटी उम्र में ही विधवा

हो जाने वाली स्त्री । - वीर - पु

१ बालचर, 'व्वायस्काउट' । २

छोटी उम्र में ही वीरता दिखाने

वाला लडका ।

वाँल - पु [अ] १ नेंद,

'वाँल' । २. नाच का जलसा,

समूहनृत्य । - डांस - पु नाँल-  
डांस, सामूहिक नृत्य ।

बालटी-डी-दी-दे 'बादली' ।

बालमखिरा - पु बालमखीरा,

एक तरह का खीरा या ककड़ी ।

बालिश - वि बालिश, बाल-

बुद्धि, नासमझ, बचकाना ।

बालिष्टर - पु [अ 'वरि-

स्टर'] इंग्लैंड की, बकालत की

परीक्षा में उत्तीर्ण वकील, 'वारि-

स्टर' ।

बालू - पु घर का काम करने

वाला छोकरा, धरेलू नौकर, टह-

लुवा, टहलू ।

बालेकिल्ला - पु [फा 'वाला'

+अ. 'किलाब'] वालाई किला,

पहाड़ी किले का सबसे ऊपरी भाग,

किले पर का छोटा किला, उपरि-

कोट ।

बालेघाट - पु [फा 'वाला']

सह्याद्रि का पठार, महाराष्ट्र का

वह भाग जो समुद्र से दूर है ।

बालोद्यान - न बालोद्यान,

शिशुविहार (शिशुओं के मानसिक

विकास की पाठशाला), 'किंडर

गार्टन' ।

बाल्या - दे 'बालू' ।

बाव - स्त्री बावली, बावडी,

सीढियों वाला कुआं ।

बावचळणें - क्रि अ १

बीखलाना, होग-ह्वास में न

रहना । २ पागल होना, विक्षिप्त

के-से काम करना । ३ फ्रीध से

पागल हो उठाना । [बावला ।

बावचळलेला - वि सिडी,

बावचा - पु विगाड, खराबी ।

बावची - स्त्री खार, खार-

फली, बकुची; बाकुची ।

बाघटा - पु १ झडी, झडा,

निशान । २ बाहु, भुजा । मु० -



हकारणे - (नाविको का) अपनी जड़ी दिखाना ।

वावन-न्न - वि वावन, ५२ ।  
-कशी - वि १ खरा, खालिस (सोना) । २ पवित्र, निर्दोष, प्रामाणिक । -खणी, -खाणी -  
-स्त्री (पूना में) वेश्याओ का मुहल्ला, चकला, कसबीखाना ।

वावरणें - क्रि अ सिटपिटाना, हडवडाना, डरना, घवडाना, घवराना । कहा० वावरली गाय कटिे खाय - मरता क्या न करता ।

वावरलेला, वावरा - वि डरा हुआ, सिटपिटाय़ा हुआ ।

वावल - न १ मस्तूल के दोनो ओर लगायी हुई लकड़ियाँ । २. गुडिया ।

वावलट, वावळा - वि वावला, भोपू, बुद्ध, गोवरगणेश ।

वावा - पु. १ वावा, साधु-सन्त्यासी । २. दे 'बुवा' । ३. दे 'वाहवा' ।

वाविशी - स्त्री वाईसी, वाईस चीजो, पद्यो का समूह ।

वावीस - वि वाईस; २२ ।  
वावें<sup>+</sup> - न पतवार का हत्था ।

वाव्हला-ली लें - दे 'वाहुला-ली-ले' ।

वांशिंग - न मौर (एक तरह का मूकुट जो व्याह के अवसर पर वर को और विशेष अवसरो पर वैलो को पहनाया जाता है) ।  
-वळ - न विवाह के लिए दैव की अनुकूलता । मु० - वाघणें - १ विवाह के लिए तैयार होना । २ विवाह होना ।

वाष्कळ - वि १ वाहियात, फिजूल । २ अटसट; वेकार । ३. उच्छृंखल, अशिष्ट ।

वाष्प - न १ वाष्प, वाष्प,

भाप । २ गला भर आने की स्थिति, आँसू । [ भाप बनाना ।  
वाष्पीकरण - न वाष्पीकरण, वाष्पीभवन - न वाष्पीभवन, भाप बनाना ।

वास - अव्य. दे 'वस्स' ।  
वास - पु. १ वाँस । २ गन्ने की एक किस्म ।

वासट<sup>+</sup> - दे 'वासण्ट' ।  
वासन - न १ आवरण, आच्छादन, ढक्कन, ढकना । २ वस्ता, बैठन । ३ वासन, वस्त्रन । ४ वस्त्र, कपडा । ५ गहना । मु० - वासनंत गुंडाळून ठेवणें - ताक पर धरना या रखना, काम में न लाना ।

वासण्ट - वि वासठ; ६२ ।  
वासुदी - स्त्री रवडी, वसोंदी ।  
वाहणें<sup>\*</sup> - क्रि स. १ पुकारना, बुलाना, आवाज देना । २ - क्रि अ. चिल्लाना ।

वाहत्तर - दे० 'वहात्तर' ।  
वाहवा - पु. अमलतास (वृक्ष) ।  
वाहात्तर, वाहाद्दर, वाहाल, वाहावा - दे 'वहात्तर', 'वहाद्दर', 'वहाल', 'वहावा' ।

वाही - स्त्री १ वाँह, वाहु, भुजा, वाजू । २ आस्तीन । ३ दरवाजे की चौखट के खडे खभे ।  
मु० - देणे - वाँह देना, महारा, आधार, मदद देना ।

वाहु - पु. १ वाहु, वाँह, वाजू, भुजा । २ हाथ । ३ भुज, रेखागणित के किसी क्षेत्र की सीमा रेखा, त्रिभुज का आधार ।  
- पाश - पु. वाहुपाश, भुजपाश, गलवाही, आलिंगन करते समय वाहुओ की मुद्रा । - बळ - न वाहुवल, भुजवल, शरीरवल, पराक्रम ।

वाहुटा - पु. १ वाहुमूल से कुहनी तक का हाथ । २ वाहुमूल, भुजमूल, कचे और वाँह का जोट । ३. ध्वज, झंडा ।

वाहुला - पु. १ गूड्डा, नर गुडिया, वडी गुडिया, लकडी, मिट्टी, कपडे आदि का पुतला । २ विजूका, त्रिजूका ।

वाहुली - स्त्री १ गुडिया; कपडे, मिट्टी आदि की बनी हुई पुतली । २ (आँख की) पुतली । ३ दिखावटी, नाजुक स्त्री ।

वाहुलें - न १ गुडिया; खिलौना । २ कठपुतली, दूसरे के आदेश या इगारे पर काम करने वाला व्यक्ति । ३ दे 'वोहले' ।  
- भोरपी - पु. कठपुतलियों का नाच दिखाने वाला आदमी ।

वाहुल्य - न वाहुल्य, विपुलता, बहुलता, प्रचुरता, अवि-कता, बहुतात, इफरात ।

वाहेर - अव्य १ बाहर, दूर, अन्यत्र । २ अलावा, अतिरिक्त, छोडकर । - पु. बहु० पत्नीद्वारा पति के लिए प्रयुक्त शब्द [ वाहेर साग=उनसे कहो ] - ख्याली - वि रडीवाज, वदकार, व्यभि-चारी । - स्त्री रडीवाजी, व्यभि-चार, वदकारी, छिनाला ।  
- गावों - अव्य दूसरे गाँव, कस्बे या शहर को, अन्यत्र, बाहर ।  
- चा - वि १ बाहरी, बाहर का । २ गैर, पराया, अजनबी, पर-देसी । ३ नाई । ४ अछूत ।  
- ० छव, नाद - पु. दे० 'वाहेर ख्याली' । - ची - वि स्त्री रजस्वला, ऋतुमती । ( मु० - वसणे, होणें - कपडो से होना ) । - ची पीडा - स्त्री उपदश, गरमी की बीमारी ।  
- ची बाधा - स्त्री - चे - न

पिशाचवाधा, प्रेतबाधा, भूत लगना। - ला, - ली, - ले - दे 'बाहेरचा', 'बाहेरची'; 'बाहेरचे'। मु० - काढणे - १ वाहर करना, निकाल देना,। - जाणें - १ पेशाव के लिए जाना (स्त्रि०) २ शौच के लिए जाना। - निघणें, - पडणें - १ विवाहित स्त्री का पति को छोड़ कर दूसरे पुरुष के पास चला जाना, घर से पाँव निकालना, कुल-मर्यादा का अतिक्रमण करना। २ छोड़ देना, त्यागना। - बसावयास जाणें - किसी मित्र या पडोसी के घर गप-क्षप के लिए जाना। - येणें - प्रकट होना, राज, रहस्य खुलना, भडाफोड होना।

बाहेरील - वि वाहर का, बाहरी। दे 'बाहेरचा'।

बाहेरून - अव्य. वाहर से, ऊपर से, जाहिरा।

बाह्य - वि १ बाह्य, बाहरी। २ ऊपरी, दिखाऊ।

बाह्यात्कारी - अव्य १ ऊपर से, दिखावे में। २ वाहर से। ३ खुले तौर पर।

बाह्योपचार - पु १ शरीरपर वाहर से किया जाने वाला इलाज। २ तकल्लुफ, कृत्रिम शिष्टाचार, वनावटी आचार।

बाळत - वि प्रसूत, जिसने प्रसव किया हो। - स्त्री १ प्रसूता, प्रसूतिका, जच्चा। २ अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक खयाल रखने वाला व्यक्ति। - काढा - पु प्रसूता को दिया जाने वाला काढा। - खोली - स्त्री, - घर - न जच्चाखाना, प्रसवगृह, सौरी, बच्चा जनने का घर, स्थान। - घुडा - पु जननाशौच (सौरी

का सूतक) समाप्त होनेपर प्रसूति। का को पहनायी जाने वाली चूडियो। - निंब - पु नीम। - पण - न १ जचगी, प्रसव, प्रसूतावस्था। २ प्रसूता की शुश्रूपा। ३ किसी बड़े काम के पूरा हो जाने पर शेष बचे हुए आनुषंगिक काम। - बोळ - पु काला बोल (एक गघद्रव्य)। - रोग - पु सूतिका-रोग। - विडा - पु वरही के अवसर पर जच्चा-बच्चा को दिया जाने वाला उपहार। - शोप, - शोप - स्त्री सोया, सोआ।

बाळतीण - स्त्री जच्चा, प्रसूता, सूतिका, प्रसूतिका, सब प्रसूता। बाळतिणीची खोली - स्त्री सौरी, प्रसूतिगृह।

बाळतें - न जच्चा और उसके बच्चे के कपडे आदि।

बाळ - न बालक, बच्चा। - पु लडका। - वि १ छोटा। २ नासमझ, नादान, मूर्ख। दे 'बाल'। - कडू - न १ घुट्टी। २ बचपन में मिली शिक्षा। (मु० असणें, -० मिळणें-घुट्टी में पडना, स्वभावरूप होना)। - गोपाळ - दे 'बालगोपाळ'। - टोक, - डोक - पु बगला, बगुला। - बाळतीण - न वहू जच्चा-बच्चा। - बुद्धि, - बोध, - बोध कित्ता, - बोध घराणें, - बोध चळण, - बोधी - दे 'बाल'में। - भूक - स्त्री वार-वार लगने वाली भूख। - लेणें - न बच्चे का गहना। - हिरडा - छोटी हड, हरें।

बाळगणें - क्रि स १ पालना, रखना। २ संभालना, परवरिश करना।

बाळसें - न १ बच्चे की

परिपुष्टता, गलफुल्लापन, मुटापा। २ शरीर पर दिखाई देने वाली ताजगी, भरा-भरापन, मासलता। - दार - वि गलफुल्ला, मोटा, हृष्टपुष्ट, मासल, गुदगुदा।

बाळी - स्त्री १ वाली, वाला (कान का गहना)। २ बाला, बालिका, लडकी।

विंग - न १ न्यूनता, कमी, खामी, त्रुटि, दोष। २ रहस्य, पोल, कलई। मु०-फुटणें - पोल, भेद खुलना, भडा फूटना, कलई खुलना। - फोडणें, बाहेर काढणें - कलई खोलना, भडा फोड करना, पोल खोलना।

विडका - पु, विडके - न, विडा - पु १ गट्ठर, गट्ठा, पुलिदा। २ लच्छा, गोला, पिंडी। ३ टीला। प्रत्य. सौदर्यसूचक पद (राजविडा = राजा जैसा सुंदर, शानदार)।

विडोळें-दे 'विडा'; 'मेंडोळें'। विंद - दे 'विंदु'।

विंदगी - स्त्री [क 'विदिगे'] गगरी, छोटा घडा।

विंदली - स्त्री १ बच्चो का एक सोने का गहना जो कलाई में पहना जाता है। २ विंदी, सिफर।

विंदी - स्त्री १ विंदी, गोल टीका। २ स्त्रियों का एक मोतियों का गहना जो माथे पर लटकता है। दे 'विनी'।

विंदु - पु १ विंदु, बूंद। २ विंदी, शून्य, सिफर; सुन्ना, अनुस्वार का चिह्न। ३ सीकर, जलकण। मु० विंदूचा सिंधु करणे - तिल का ताड़ बनाना।

विंव - न १ विंव, सूर्य या चंद्र का मंडल। २ अक्स, प्रतिच्छाया। ३ उपमेय। ४. मूर्ति,

प्रतिमा । ५ विवफल, कुँदरु ।

विवर्ण - क्रि अ अकित होना, अच्छा अमर होना, प्रभावित होना ।

विवाधर - पु कुँदरु जैसे लाल होठ ।- वि दे. 'विवाधरा' ।

विवाधरा - वि स्त्री विवाधरोष्ठी, जिमके होठ कुँदरु जैसे लाल हो । [ कुँदरु ।

विवाफल-ळ - न विवाफल, विकट - वि १ विकट, कठिन, मुश्किल । २ दुर्गम । ३ टेढा, अटपटा । ४ भयकर, खतरनाक ।

विगर-अव्य [फा अ 'वगैर'] वगैर, विना, वे, सिवा ।-इयत्ता - स्त्री शिशुवर्ग ।

विगार - स्त्री [फा 'वेगार'] १ वेगार, विष्टि, ज्वदंस्ती, विना उजरत दिये कराया जाने वाला काम । २ वेमन का काम ।

विगारी - पु [फा. 'वेगार'] १ वेगार, वह जिससे ज्वदंस्ती, विना उजरत दिये काम कराया जाय । २ मजदूर; कुली ।-स्त्री दे 'विगर इयत्ता' ।

विगिविगी, विगी, विगीन - अव्य जल्दी - जल्दी, तेजीसे ।

विगुल - पु [अ] विगुल, रणसिधा, नरसिधा, नुरही, सिधी ।

विघडणे - क्रि अ १ विगडना, खराब होना । २ बुराई के रास्ते पर जाना, चाल-ढग खराब होना । ३ विगाड, अनवन, मन-मुटाव होना । ४ गलना - सडना (फल आदि) । ५ तबीयत, स्वास्थ्य खराब होना ।- क्रि स दे 'विघडविणे' ।

विघडविणे - क्रि स १ विगाडना, खराब करना । गड-

गोवर करना; रग में भंग करना । ३ पथग्रष्ट करना, बुरी आदत लगाना, बुराई की ओर ले जाना, वहकाना ।

विघा - पु वीघा, बीस विस्वे का रकवा (एक जरीब लवी और एक जरीब चौडी जमीन), महाराष्ट्र में ३९०० वर्ग गज जमीन ।

विघाड - पु १ विगाड, खराबी; नादुरुस्त होना । २. हानि, नुकसान । ३. अनवन, मन-मुटाव । [ चोंकना, भडकना ।

विचकणे - क्रि अ विचकना, विचकावणे, विचकाविणे - क्रि स विचकाना, चाँकाना, भडकाना, डराना ।

विचल - स्त्री १ विगाड; खराबी । २ परिवर्तन, तवदीली । ३. पीछे हटना । ४ चचलता, अस्थिरता, डाँवाडोल होना ।

विचवा - पु १ विछुआ; विछुवा, एक तरह की छुरी (कटार) । २ पाँवका एक गहना ।

विचारा - वि [फा 'वेचार'] १ वेचारा; दीन, असहाय, विवग । २ निरपराध । ३ दरिद्र; कगाल ।

विछाईती-वि पु [अ 'विसाती'] १ विसाती; फुटकर चीजें वेचने वाला । २ फेरी वाला । ३ जिसे खाद आदि खरीदने के लिए दुकान दार से पेशगी पैसा दिया गया हो ।

विछाईत - स्त्री [अ 'विसात'] १ विछायत, विछावन । २ विछौना ।

विछाना-पु विछौना, विस्तर । विछापत-ती दे 'विछाईती', 'विछाईत' ।

विजक - दे. 'वीजक' । विजन - न स्त्री [फा. 'विजन']

वव, कल, कल्ले आम ।-वि कल्ल किया गया; जान से मार डाला गया ।

विजली - स्त्री १ विजली, विद्युत् । २ तेजस्वी, मुदर स्त्री । विजवट - न १ वीर्य । २. वीज । ३. सतान । ४ नम्ल, बीलाद ।

विजवर - वि पु दुवाह, दूहेजू, ( वह जिमका दुसरा विवाह हुआ या होने वाला हो ) ।

विजवरा - पु माथे पर लटकने वाला चंद्र के आकार का गहना ।

विजा - वि दूसरा ।

विजागरी - स्त्री ; विजागरे-न कब्जा, चूल, कुलावा ।

विजिक, विक्षिक- न [अ. 'वेजिक'] विज्जिक (ताग का खेल विशेष) ।

विटफा - दे. 'वुटका' ।

विटो-ट्टी - स्त्री १ बहुत छोटा फल ( आम, अमरुद आदि ) । २ छोटा गोला, गोली । ३ पीले कनेर का बीज-। वि छोटी, नन्ही ।

विट्टा, विट्ट्या - वि छोटा, नन्हा ।

विडवई - पु [क 'वीडु'] १ छावनी का अधिकारी, रक्षक । २ समर्थक, हितकर्ता ।

विडार - न १ घर, निवास-स्थान । २ दे 'विन्हाड' ।

विडी - स्त्री १ बीडी ( पत्ती लपेट कर बनायी हुई सिगरेट जैसी वस्तु ) । २ दे 'वेडी' ।

वित्तं, वित्तम - वि सच्चा, मही; निश्चित, पक्का, अचूक । - वातमी - स्त्री पूरी खबर, निश्चित, विश्वस्त समाचार ।

विपरणे - क्रि अ १ विगडना, भडकना । २ वहकना ।

३ प्रतिकूल होना । - क्रि स दे 'द्विथरविणे' ।

द्विथरविणें - क्रि स १ भडकाना, चौकाना । २ डराना । ३ वहकाना ।

विदागी - स्त्री [ अ 'वदाअ', फा 'विदाअ' ] १ विदाई, रख-सताना, विदा करते समय दिये जाने वाले रुपये आदि, पुरस्कार, पारिश्रमिक । २ विदाई, रवानगी, रखसती ।

विन - अव्य विना, विना, वगैर, छोड़ कर । - खात्याचा मत्री - वि पु. विना विभाग का मत्री, 'मिनिस्टर विदाउट पोर्ट-फोलियो' । - घोर - अव्य. निर्दिष्ट हो कर, वेफिक्र हो कर । - वि वेफिक्र, निर्दिष्ट ।

- तक्रार - अव्य. चुपचाप, बिना किसी शिक्षाशिकायत के । - तोड - वि १ वेजोड; लासानी, अप्रतिम । २ अकाट्य, अखडनीय । ३ आपत्कालीन, सकटकालीन । - दिक्कत - अव्य

१ वेद्विक्कत, वेधडक, विना सोचे - अटके, वेखटके, वेरोक - टोक । २ वेशर्मी से, निर्लज्ज हो कर । - धोक - अव्य. दे 'विनघोर' । - वि सुरक्षित, जिसमे कोई खतरा न हो, बेखतर, मयरहित ।

- भाड्याचें घर - न कँदखाना, कारागार, जेल । - शर्त - अव्य विना शर्त, अशर्त, अनिर्वंध, अप्रतिबंध, शर्तरहित, निरुपाधि । मु०-पाण्यानें हजामत करणें - आडे हाथो लेना, डाँट पिलाना ।

बिनसणें - क्रि अ १ झगडा, अनवन, मनमुटाव होना । २ विगडना, खराब होना । ३ चौकना, वहकना, भडकना । म हि श को . ३४

४ निष्फल, व्यर्थ, बेकार होना ।

बिनामी - वि [ फा 'वेनाम' ] १ झूठा, वनावटी । २ दूसरे के नाम पर किया हुआ (कारोवार) ।

बिनी - स्त्री [ फा 'बिनी' ] १ सेना का अग्रभाग, हरावल, मोरचा । २ चौखट की ऊपरी लकड़ी । - चा - वि १ अग्र-गामी, नेता । २ आगे का । ३ प्रधान, मुख्य । मु०-वर असणें - सव से आगे रहना ।

बिबवा - दे 'विबवा' । बिबळा, बिबळ्या वाघ - पु तेदुआ, (एक तरह का वाघ जिसकी पीली खाल पर काले-काले गोल धब्बे या चित्तियाँ होती है) ।

बिबा - दे 'विबवा' । बिबी - स्त्री [ उर्दू 'बीबी' ] १ बीबी, बीबी, भले मुसलमान घर की स्त्री । २ पत्नी (मुसलमान) ।

बिबवा - पु १ भिलावाँ, भल्लातक, भेला । २ तुनक-मिजाज, चिडचिडा आदमी । मु०-घालणे - १ रोडे अटकाना, अडगा लगाना । २ मनमुटाव पैदा करना । - चिडणें - १ भिलावाँ लग जाने से शरीर पर फोडे - फफोले होना । २ नाराज होना, चिडना । - फासणें - दे 'विबवा घालणे' । - येणें - दे 'विबवा चिडणे' ।

बियाणें - न १ बीज, बीया, बीजा । २ वीर्य ।

बिरडी - स्त्री १ भिगो कर अकुर निकाले हुए, लोविया या सेम के दाने । २ ऐसे दानो का सालन । ३ दे 'बिरडें' ४ मथानी की रस्ती ।

बिरडें - न १ मुद्दी, डोरी की खिसकने वाली गाँठ । २ काज ।

बिरद, बिरदावळी - दे 'बिरुद', 'बिरुदावली' ।

बिरियाणी - स्त्री [ फा 'बिर्यानी' ] बिर्यानी (एक प्रकार का पुलाव जिसमें गोश्त भून कर पडता है) ।

बिरुद - न १ बिरुद, बिरद, यश, नाम, वडाई । २ बिरुद, प्रशसासूचक पदवी । ३ टेक, प्रतिज्ञा, प्रण । ४ चिह्न, यश-चिह्न ।

बिरुदावलि - स्त्री १ बिरुदावली, विस्तृत यशोगान । २ उपाधियो, पदवियो की माला ।

बिरोबा - पु भैरव (देवता) ।

बिन्हाड - न १ वासा; निवास-स्थान । २ परिवार । ३ किराये का मकान । ४ परिवार के लिए आवश्यक सामान - असवाव । ५ वोरिया - बँधना, वोरिया-विस्तर । - करू - वि पु. किराये दार, किराया दे कर दूसरे के मकान मे रहने वाला । - बाजलें न वोरिया-विस्तर, सामान-अस-वाव । मु - आटोपणें - १ वोरिया-बँधना समेटना, चल देना । २ भरना । - उचलणे - वोरिया-बँधना समेटना, एक स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले जाना । - करणें - १ घर बसाना । २ अड्डा जमाना ।

कहा० बिचवाचे बिन्हाड पाठीवर - बहुत कम सामान - असवाव रखने वाला, उठौआ चूल्हा ।

बिलंदर - वि [ फा 'बलद' ] १ चट, पक्का, चाँड्याँ, घाघ, घूर्त, चालाक, घुटा हुआ । २ कठिन, मुश्किल ।

बिलपत - न बिलवित्त लय में ततुवाच बजाने का एक ढग ।

बिल - न [ अ ] १ देयक;

वेचे हुए माल या किये हुए काम के पावने या हिमाव का पुरजा, वीजक । २ विवेक, कानून का मस्विदा, 'विल' ।

विल - दे ' वील ' ।

विलकुल, विलकूल - अव्य. [ अ ' विलकुल ' ] विलकुल, कतई, नितात, सर्वथा, कतई, पूरे तीर पर ।

विलगणें - क्रि अ १ चिपकना, मटना, चिमटना । २ गले या छाती से लगना ।

विलविलीत - वि १ पिल-पिला, पिचपिचा, बहुत नरम, बहुत अधिक पका हुआ । २ कम-जोर, दुर्बल, निडाल ।

विलमोगरा - पु धुंधरू मोतिया। विलवर - पु. [ अ ' विल्लौर ' ] १ विल्लौर ( एक कीमती शीशा ) । २ स्फटिक मणि । ३ गोवरू, पहलुओ वाला विशेष प्रकार का सोने का कगन ।

विलामत - स्त्री [ अ ' वला ' , फा ' वरामद ' ] १ झूठा इलजाम । २ आफत ।

विलोर - दे ' विलवर ' ।

विलोरी - वि [ अ ' विल्लौर ' ] विल्लोरी, विल्लौर का वना हुआ । दे ' विलवर ' ।

विल्ला - पु [ हि ] , विल्ला । तमगा, चपरास, पदक, ' वैज ' ।

विवड - पु १ वीज । २ वीर्य । ३ वीज से उत्पन्न प्राणी, पेड आदि । ४ मुख्य फसल से पहले ली गयी गौण फसल या खाद से बनी अच्छी भूमि ।

विशाद - स्त्री [ अ ' विसात ' ] १ विसात, हस्ती, हैसियत । २ मजाल, हिम्मत । ३ पूंजी । ४ शक्ति, मामर्थ्य ।

विशी - दे ' भिगी ' ।

बिस्किट - न [ अ ] बिस्कुट ।

विस्तरवार + पु - बृहस्पति-वार, गुरुवार ।

विस्तरा - पु विस्तर, विस्तर, विछोना । [ २ विल ।

विळूक + - न १ सूराख ।

वीं - न १ वीज । २ पीद । - वियाणे - न बीने के लिए रखा बीज, एक स्थान से उखाड कर दूसरे स्थान पर लगाने के छोटे पीधे, पीद । कहा० वीं तसा अकुर - जैसा बीज वैसा फल ।

वी - स्त्री १ बीज, तुन्म, बीया । २ शुक्र, अड, वृषण । -

मोड - पु खात्मा, गमूल नाश । मु० - मोड करणे - जडमूल से उखाटना, पूरी तरह नाश करना ।

वी + - अव्य १ मी । २ अलावा, सिवाय ।

बीज - न बीज । - कोश - पु बीजकोश - प, बीजाधार । - गणित - न बीजगणित । - मत्र - पु १ बीजमत्र, गुर । २ मत्रतत्र । [ २ भैयादूज ।

बीज - स्त्री १ दूज, द्वितीया ।

बीजक - न १ बीजक, भेजे जाने वाले माल की सूची, चालाना । २ नामपत्र, परचा, चिप्पी, ' लेवल ' ।

बीट - पु [ अ ] १ चुकदर, ' बीटस्ट ' । २. विभाग, हिस्सा, इलाका ।

बीड - न १ ढलवां लोहा, इस्पात, कात लोहा । २ कच्चा लोहा । ३ ठीहा ।

बीळ - न १. विल, जमीन या दीवार में बनाया हुआ लवा छेद । २ गैर आदि की माँद । मु० - पाडणे - स्वार्थसाधन का

प्रवच करना; लगा लगाना ।

बुद - पु काफी का दाना या बीज । [ २ बहुत अधिक (मुखं) ।

बुद - वि १ मुदर, ब्रिटिया ।

बुंद - पु बुंद, कतरा, बिंदु ।

बुंदी - स्त्री बुंदी, नुकनी, बुंदिया ( एक तरह की मिठाई ) । - चा लाडू - पु बुंदिया लड्डू, नुकनी का लड्डू । मु० - पाडणें बुंदिया बनाना ।

बुध - न पु १ जड । २ नीचे का भाग, तल्ला, पैदा ।

बुधा, बुधारा - पु १ पेट आदि के तने का निचला हिस्सा, तना । २ जड; मूल, बुनियाद ।

बुक - न. [ अ ] पुस्तक, किताब । - सेलर - पु. कुनुव - फरोश, पुस्तक-विशेना ।

बुकटी - स्त्री, बुकणा - पु, बुकणी - स्त्री बुकनी, चूर्ण, चूर्ण ।

बुकलणें - क्रि स घूंसे मारना, मुक्के लगाना, मरम्मत, पिटाई करना ।

बुकिश - वि [ अ ] १ किताबी । २ अध्यावहारिक ।

बुक्का - पु १ अवीर, भोडर । २ बुकनी, मफूफ, चूर्ण ।

बुक्का - पु, बुक्की - स्त्री मुक्का, घूंसा ।

बुगडी - स्त्री कनककली ( त्रिव्यो का एक कर्णभूषण ) ।

बुचकळणें - क्रि स डुवोना, भिगोना । - क्रि अ १ मग्न, तल्लीन होना । २ चकराना, मिटपिटाना ।

बुचकळा - पु उचेडवुन, शगो-पज, आगा-पीछा, अममजस, दुविधा । मु० बुचकळघात पडणें - अममजस, पसोपेश, दुविधा में

पडना, चकराना, सिटपिटाना ।

बुचकळी - दे 'बुचकुळी' ।

बुचका - पु. गुच्छा, लच्छा, झुप्पा । - वि लुतरा, चुगलखोर ।

बुचकुळी - छी डुवकी, गोता ।

मु० बुचकुळ्या खाणें - गोता खाना, डूवने लगना ।

बुचडा - पु जूडा, खोपा ।

बुच्चा - वि १ वूचा, कनकटा । २ खाली । ३ नगा, निर्लज्ज । - कारभार - पु अनधिकार चेष्टा, बेजा दस्तअदाजी ।

बुजगावणें - न १ विजूका, विजूखा (पक्षियो आदि को भगाने के लिए खेत में बनाया हुआ पुतला आदि) । २ होआ ।

बुजट - दे 'बुजरा' ।

बुजणें - क्रि अ १ चौकना, डरना । २ भडकना ।

बुजणें - क्रि अ भर जाना, वद हो जाना (छिद्र आदि) ।

बुजबुजणें - क्रि अ १ कीडो, कीटाणुओ से भर जाना, कीडो का बडी सख्या में एक ही स्थान पर रेंगना, विलविलाना । २ वडी भीड लगना ।

बुजबुजाट - पु भरमार, विपुलता, अधिकता, भीड ।

बुजरा - वि १ शरमीला, लज्जाशील, लजीला, सकोची । २ कायर, डरपोक । ३ भडकैल ।

बुजविणें - क्रि स भर देना (छिद्र आदि), वद करना ।

बुझणें - क्रि अ वूझना, जानना, समझना ।

बुझविणें - क्रि स वूझाना, समझाना ।

बुटकवंगण - दे 'बुटवंगण' ।

बुटका - वि १ नाटा, ठिगना, बौना, बहुत छोटे कद का । २

जिसकी नोक टूट गयी हो, जो नुकीला न हो ।

बुटकुला-ली-ले - दे 'बुडकुला-ली-ले' । [ दे 'बुचकुळी' ।

बुटकुळी - छी डुवकी, गोता ।

बुटणेर - पु [अ 'वटलर'] युरोपियन (गोरे) आदमी का खानसामा, वावरची, वटलर, बैरा ।

बुटवंगण - वि गुलगोथना, ऐसा नाटा आदमी जिसका शरीर खूब भरा और फूला हो ।

बुटा-पु, बुटी-छी दे 'बुट्टी' ।

बुटा-वि ठिगना, नाटा, बौना ।

बुट्टा - पु बूटा, कपडे आदि पर बनी हुई फूल-पत्ती, बुंदकी ।

बुट्टी - छी १ बूटा, बूटी, दे 'बुट्टा' । २ बूटी, जडी । ३

भग । ४ नागा, अनुपस्थिति । ५

टोना, टोटका । - दार - वि

बुंदकीदार, बूटेदार, जिसपर

बहुत-सी बुंदकियाँ या बेल-बूटे बने

हैं । मु० - देणे, - मारणें -

नागा करना, टालना, गैरहाजिर

रहना । [ टोकरी ।

बुट्टी - छी [ क 'बुट्टि' ]

बुट्टेदार - दे 'बुट्टीदार' ।

बुडकुला - पु, बुडकुली -

छी, बुडकुलें - न १ वटलोई,

वटुई । २ मटकी । ३ वचो के

खिलौनो मे से कोई चीज ( थाली,

पनीली आदि ) ।

बुडखा - पु १ जड, तना ।

२ पेंदी । ३ आधार, बुनियाद ।

बुडणें - क्रि अ १ डूवना ।

२ मग्न होना, लीन होना । ३

फँसना । ४ मारा जाना, वरवाद,

चौपट होना । ५ ( किसी रकम

का ) लौटाया, चुकाया न जाना,

( पावना ) वसूल न होना । ६

अस्त होना, डूवना ।

बुडचा - वि नीचे का, तले का ।

बुडता - वि १ डूवता, डूवने वाला । २ घाटे का, गिरता

हुआ । कहा० बुडत्याचा पाय खोलात

- डूवने वाला गहराई की, तरफ

जाता है, विवेकभ्रष्टाना भवति

विनिपात शतमुख, विनाशकाले

विपरीत बुद्धि । बुडत्याला

काडीचा आधार - डूबते को तिनके

का सहारा । [ बुदबुदा, वुल्ला ।

बुडबुडा - पु वुलवुला,

बुडवणूक - छी १ डुबोना ।

२. डूवना, नाश, अघ पात ।

बुडवणें, बुडविणें - क्रि स

१ डुवाना, डुबोना, गोता देना,

बोरना । २ चभोरना, डुबो कर

तर करना । ३ कलकित करना,

( नाम, कुल आदि पर ) घव्वा

लगाना । ४ नष्ट, वरवाद करना ।

५ ( पैसे ) रकम खा जाना,

चुरा, दवा लेना, न चुकाना, न

लौटाना ।

बुडव्या - वि डुबोने वाला,

कलकित करने वाला, घव्वा

लगाने वाला ( कुळबुडव्या =

कुलबोरन ) ।

बुडों - अव्य नीचे, तल में ।

बुडी - छी डुवकी, गोता,

डुव्नी । - मारणारा - वि डुव्वा ।

बुडोत - न १ घाटा,

नुकसान, वट्टा । २ वह कर्जा

जिसके वापस मिलने की सभावना

न हो । - वि १ खोया हुआ,

गँवाया हुआ, घाटे का । २

अपलिखित । - फूळ - न

दिवालिया अमासी, ऐसा व्यक्ति

जो लिया हुआ ऋण लौटा न सके ।

- खत - न मृत-प्रलेख, वह

ऋणपत्र जिसकी मीयाद खत्म हो

चुकी हो। - खर्च - पु  
अनुत्पादक खर्च। - खाती -  
अव्य वट्टे खाते। - खाते - न  
वट्टा खाता। [ तले का।

बुडोल - वि नीचे का,

बुडूख - न दे 'बुडूखा'।

बुणगा - पु, बुणगो - न [ फा  
'बुनगाह' ] १ सेना की सामग्री  
का भंडार, छावनी। २ दे  
'वाजारबुणगे'।

बुदबळ - न शतरज का कोई  
मुहरा। दे 'बुद्धिबळ'।

बुदबुदणे - क्रि अ १ बुद-  
बुदे से भर जाना। २ दे 'बुज-  
बुजणे,। [- ली - ले'।

बुदला - ली - लें - दे 'बुधला  
बुद्ध - पु बुद्ध, गौतम बुद्ध।  
- त्री दे 'बुद्धि'। - वि बुद्ध,  
ज्ञानी।

बुद्धि - स्त्री १ बुद्धि, समझ,  
अकल। २ ज्ञान, मान,। ३  
विचार, निश्चय, जी, मन, मत।  
४ धारणा, खयाल। ५ इच्छा,  
भावना। ६ युक्ति, उपाय,  
इलाज। ७ विवेक। - कौशल्य -  
न बुद्धिकौशल्य, चतुराई।  
- गम्य, - ग्राह्य - वि बुद्धि-  
गम्य, बुद्धिग्राह्य, जो बुद्धि से  
जाना जा सके, जो समझमें आ  
सके। - चापल्य - न बुद्धि की  
तीव्रता, चपलता। - पुरसर, -  
पूर्वक - अव्य. बुद्धि-पुरस्सर;  
बुद्धिपूर्वक, जान-बूझ कर, इराद-  
तन, सोच-समझ कर। - प्रामाण्य-  
न बुद्धिप्रामाण्य, बुद्धि को ही  
सर्वोपरि प्रमाण मानना। - ०वाद-  
पु. बुद्धिप्रामाण्यवाद बुद्धिवाद,  
'रैगनैलिज्म'। - वळ - न १  
बुद्धिबळ, बुद्धि का बळ। २. शत-  
रज (खेल)। - भेद - पु १.

सदेह, अनिश्चितता। २. मन-  
मुटाव, वैमनस्य। ३ वैमत्य, मति-  
भेद, मतभेद, फूट। - भ्रश -  
पु. मतिभ्रश; मतिभ्रम, पागलपन,  
मानसिक, वैचारिक गडबडी,  
अमत्तुलन, अकल का उलट फेर।  
( मु० - ०होणे - बुद्धि भ्रष्ट  
होना, अकल मठियाना, मारी  
जाना )।। - मद - वि मद-  
बुद्धि, मतिमद, कमममझ।  
- माद्य - न बुद्धि की जडता,  
अकल का मोटापन। - मत, - मान् -  
वि बुद्धिमान्, चतुर, होशियार;  
अकलमद। - योग - पु बुद्धियोग,  
ज्ञानयोग। - वत - दे 'बुद्धिमत्'।  
- वाद - पु बुद्धिवाद; 'रैगनै-  
लिज्म'। - वादी - वि बुद्धिवादी,  
'रैगनैलिस्ट'। - वान् - दे 'बुद्धि-  
मत्'। - विलास - पु बुद्धि-  
विलास, कल्पना की उडान।  
- वैभव - न बुद्धिवैभव, बुद्धि  
की प्रखरता, श्रेष्ठता। बुद्धीचा  
खदक - पु अकल की टुम, अकल  
का दुश्मन, बुद्धिहीन, वैअकल,  
बुद्धू आदमी। बुद्धीचा सागर - पु  
१ अत्यंत बुद्धिमान्, चतुरव्यक्ति।  
२ दे 'बुद्धीचा खदक'। मु० -  
फाफणे - १ ज्ञान, आकलन वदना।  
२. अकल का चक्कर में आना।  
- मंद हीणे - अकल पर पत्थर  
(पर्दा) पडना, अकल जाती रहना।  
बुद्ध्या - अव्य जानबूझ कर,  
इरादतन, सोच - समझ कर।

बुद्धुक - वि [ फा 'बुजुर्ग' ]  
१ बुजुर्ग, बडा, वृद्ध, आदरणीय।  
२ एक ही नाम के दो गाँवों में से  
वडा। ३ कमजोर, दुबला।

बुधला - पु १ कुप्पा, (चमडे  
का बना गोल आकार का पात्र  
जिसमें घी या तेल रखते हैं)।

मलमा (एक तरह का कुप्पा जिसमें  
घी आदि रगते हैं)। २ मिर।  
३ दे 'तुवा'।

बुधली - स्त्री १ छत्र आदि  
रखने की कुप्पी। २ मगाल पर  
तेल डालने का टोटीदार बरतन।  
३ छोटा कुप्पा, छोटा बरतन,  
दे 'बुधला'। [ 'बुधला - ली'।  
बुधले - न छोटा कुप्पा, दे  
बुधळ, बुधळ - न १ डेला,  
कोया, आँव का गोलक। २ आँव  
की पुतली।

बुभुक्कार - पु वानरो के  
चिल्लाने की आवाज, 'भू भू'  
की आवाज।

बुभुक्षित, बुभुक्षु - वि १ बुभु-  
क्षित, बुभुक्षु, भूखा, क्षुधित।  
२ जरूरतमद, कगाल।

बुरका-खा - पु [अ 'बुर्का']  
१ बुरका, नकाव, परदा, धूँघट।  
२ ओट, आड।

बुरखड - न अगटा, गुल्ली,  
मकई की गुबडी।

बुरगुडा + - पु वच्चा।

बुरजी - स्त्री [ फा 'बुर्द' ]  
बुर्द, शतरज की वह बाजी जिसमें  
आधी मात मानी जाती है और  
जिसमें हारने वाले के पान वादग्राह  
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता।  
बुरटा - दे 'बुरटा'।

बुरणूस, बुरणूस - पु न १  
नमदा (जमाया हुआ ऊनी कपडा)।  
२ कवल।

बुरबुर - स्त्री १ बूँदावाँदी,  
हलकी वर्षा। २ बुडबुडाना,  
कुडबुडाना।

बुरशी - स्त्री १ फफूँदी,  
फफूँद, ऊणिका, ऊर्णा, झिल्ली,  
भुकडी। २ काई। ३ दाँतो पर  
जमी हुई मैल।

बुरशेला - दे 'बुरसटलेला' ।

बुरसटणे - क्रि अ १ काई चढना, फफूंद का जमना । २ गदा, खराब होना । ३ गया-त्रीता, दकियानूसी होना ।

बुरसटलेला - वि १ गदा, खराब । २ जिसपर काई, भुकडी जमी हो । ३ पुराना, गया-त्रीता, दकियानूसी । [ सटलेला ] ।

बुरसणें, बुरसलेला - दे 'बुर-बुरसा - पु १. दे 'बुरशी' । २ फफूंदके कारण पडने वाला दाग । ३ आईने का पारा निकल जाने से शीशे का खुला पडने वाला भाग ।

बुरा - वि [हिं] बुरा, खराब । [ कच्ची चीनी ।

बुरा - पु [हिं 'बूरा'] बूरा, बुरूज, बुरूज - पु. [अ. 'बुर्ज'] १ बुर्ज, गरगज, गडगज, गुर्ज । २. घरहरा, मीनार, घोरहर । ३ शतरज का हाथी । दे 'बुरजी' । बुरूड - पु बँसोड; बँसोर, धरकार, बाँसफोडा ।

बुलबुलतरग - न बुलबुल-तरग, बँजो (बाजा) ।

बुल्ली - स्त्री [क 'बुल्लि'] १. नूनी, बच्चे की जननेंद्रिय, लिंगेंद्रिय । २ सोने चाँदी का एक गहना जो बच्चो की कमर मे पहनाया जाता है ।

बुवा - पु १ बाबा; बाबाजी; साधु, सन्यासी । २ पुरुष, आदमी । ३ हीया । ४ उस्ताद (गायन मे) - अव्य भई वाह, - बाजी - स्त्री १ साधुत्व का ढोग, ढको-सला । २ गुरुडम । - ० करणारा - पु दाडाजिनिक ।

बुळकट - दे 'बुळा' ।

बुळकन - अव्य झट से ।

बुळकणे - क्रि अ चिरकना ।

बुळबुळि (ळी)त - वि १ चिकना, तेलिया । २. फिसलने वाला । ३ दे 'बुळा' ।

बुळा - वि १ नामदं, नपु-सक । २ ढीला । ३ कमजोर ।

बूच - न काग, डाट । मु० - मारणें - डाट लगाना, बद कर देना ।

बूज - स्त्री १ सम्मान, आदर, कद्र । २ वृक्ष, समझ, मान । ३ मर्यादा । मु० - राखणें - १ कद्र करना । २ मर्यादा का पालन करना ।

बूट - पु १ बूटा, बूटी, दे 'बुट्टी' । २ नयी और अजीब बात, शिगूफा, सूझ, युक्ति । मु० - काढणें - शिगूफा खिलाना, छोडना । - कातरणें - पड्यत्र रचना । [ जूता ] ।

बूट - पु. [अ] बूट (अंग्रेजी बूड - न १ तल्ला, पेदा । २ निचला हिस्सा । मु० - टेकणें - थोडी देर के लिए बैठना, सुस्ताना ।

बूड - स्त्री १ घाटा, नुक-सान । २. बट्टा ।

बूहती - स्त्री १ बृहती, वन-भटा, भटकटैया । २. चूतड, गुदा, मलद्वार ।

बूहस्पति - पु. बृहस्पति, देवो के गुरु । २ बहुत बडा विद्वान्, महापंडित । ३ बुद्ध, अकल का दुश्मन ।

बें - न मे, मेमे (बकरी की बोली) । मु० - करणें, - म्हणणें - ची बोलना, हार मान लेना । - बें करणें - मिमियाना ।

बेंगरूळ - वि १ खूसट, वावला, फूहड, बुद्ध । २ दकियानूसी । ३ ऊटपटाग ।

बेंच - न [अ] १ बेंच, लकडी, लोहे आदि की लबी, कम चौडी चौकी । २ जज का आसन । ३ न्यायालय । ४ न्यायालय-विशेष के विचारकर्ता । ५ व्यवस्थापिका सभा मे पक्षविशेष के बैठने का स्थान ।

बेंड - न १ फोडा, सूजन । २ बडी ढोढी, नाभि । ३ गुप्त, गोपनीय बात । मु० - फुटणें - भडा फूटना, पोल, कलई खुलना ।

बेंडवाजा - पु. [अ 'बैंड'] बैंड (अंग्रेजी वाजा) ।

बेंदूर - पु. बैलो की पूजा का त्योहार । दे 'पोळा' ।

बेंवट - न बडी और भद्दी ढोढी । [ चिल्लाना ।

बेंवटणें - क्रि अ मिमियाना, बेंबी - स्त्री नाभि; ढोढी ।

- च्या वेठापासून - १ सच्चे दिल से, तहे दिल से । २ जोर-जोर से, गला फाड कर । मु० - चें उखळ होणें - बढिया भोजन से तोद बढना ।

वे - वि दो । (इस शब्द का प्रयोग केवल पहाडे बोलने या सख्यावाचक शब्दो मे होता है । उदा० वे एके वे, वे दुणे चार । वेचाळीस = बयालीस) ।

वे - अव्य. [पा] वे, विना, वगैर; सिवाय । - अकली वि वेअकल, नासमझ, नादान; निर्बुद्धि, मूर्ख । - अदबी - स्त्री वेअदबी, अविनय, दिठाई, गुस्ताखी, अशिष्टता, घृष्टता । - अन्नू - स्त्री वेआवरुई, वेइज्जती । - इज्जती - स्त्री वेइज्जती, अप्रतिष्ठा, अपमान, मानहानि । - वि वेइज्जत, जलील, अपमानित । - इमान-नी



-वि वेईमान, वददयानत, वदनीयत, कृतघ्न, झूठा, नमकहराम।  
 -छी कृतघ्नता, झूठाई। -कायदा;  
 -वेकायदेशीर - वि १ वेकानूनी, गैरकानूनी, अवैध। २ वेकायदा, अनियमित, नियमविरुद्ध। -कार - वि १ वेकार, वेरोज़गार। २ निठल्ला, निकम्मा। -अव्य नाहक, व्यर्थ। -कारी - छी वेकारी, वेरोज़गारी। -गुन्हा - वि वेगुनाह, निरपराध, वेकसूर। -अव्य विना कोई अपराध किये, अकारण, वेगुनाह। -पु. वेगुनाही, निर्दोषता। -गुमान - वि लापरवाह, उद्द, घमडी। -चव - वि फीका, सीठा, वेमज़ा। -चिराख - वि वेचिराग, गैर-आवाद, व्वस्त, उजडा हुआ, तहसनहस। -चैन - वि वेचैन, वेकल, वेकरार। -चैनी - छी वेचैनी, वेकली, घबराहट। -छूट - वि स्वच्छद, उच्छृखल, स्वैर। -०पणा - पु. निरकुशता, स्वेच्छा-चार, उच्छृखलता। -जवावदार - वि गैरज़िम्मेदार, दायित्वहीन, जिसका भरोसा न किया जा सके। -जार - वि वेज़ार, हैरान, परीशान, परेशान। -डर - वि निडर, वेखौफ। -न ड्रेडनॉट नाम का एक जगी जहाज़। -डौल वि वेडील, भद्दा, कुरूप, वेढगा। -ढव - वि वेढव, वेढगा, वेडील, भद्दा, कुरूप। -ताल - वि १ वेताल, वेताला (जो गाने वजाने में ताल से चूक जाय)। २ असतुलित। ३ स्वैर, स्वच्छद। -दम - अव्य वेहद, बुरी तरह। -वि बहुत थका हुआ। (मु - ० मारणे - बुरी तरह पीटना, मर-मृत करना)। -दरकार - वि

लापरवाह। -दाणा - पु. किश-मिश (मुखाया हुआ छोटा अगूर जिसमें बीज नहीं होते)। -दिली छी १ मनमुटाव, अनवन। २. खिन्नता, उदासी। -घडफ - अव्य वेवडक, निर्भय हो, कर, विना सोचे अटके, ब्रेखटके। -पत्ता - वि लापता, गुम, गायब। -पर्वा - वि वेपरवा, वेपरवाह, लापरवाह वेफिक, वेफिका। -पर्वाई छी वेपरवाई, वेपरवाही, वेफिकी, लापरवाही। -फाम - वि १ वेकावू। २ वेसुव। ३ वेहद। ४ मस्त। -फिकिर, -फिकीर - वि वेफिक, निश्चित, लापरवाह,। -वद - वि १ अनिवंध, स्वच्छद; मुक्त। २ अनुशामनहीन, अव्यवस्थित। -० गाही - छी १ अधेर; अराजक, अधेरनगरी। २ जुल्म, अत्याचार। -घनाव - पु अनवन, मनमुटाव। -भरवसा पु अविश्वास, अनिश्चितता। -भरोशी - वि अविश्वमनीय। -भरोसा - दे 'वेभरवसा'। -मालूम - वि हूवहू, जिसे पहचाना न जा सके। -मुरवत, -मुवंत - वि वेमुरीवत, तोता-चम्म, डीठ, गुस्ताख। -रग - पु. वदमज़गी, कटुता, विगाड। (मु - ०होणे - मज़ा किरकिरा होना, रगमें भग होना)। लगाम -मी - वि वेलगाम, स्वैर, मुंहजोर, सरकग, दाव न मानने वाला। -वकूव - वि वेवकूफ, नासमझ, मूर्ख, नादान। -वारशी - वि १ लावारिस, निपूता। २ (माल) जिसका कोई अधिकारी या दावेदार न हो। -शक -अव्य वेशक, निस्मदेह, ज़रूर। -शरम

वि वेशरम, वेगर्म, निर्लज्ज। -शिस्त - छी अनुशामनहीन, वेढगा। -शुद्ध - वि वेसुध, अचेत, वेहोश। -शुद्धि-द्धी - छी वेहोशी, मूर्च्छा, अचेतपन, अचेतन्य। -सनदशीर - वि अवैध, गैरकानूनी। -सावध - वि असावधान, अप्रमत्त, अमिद्ध; विना तैयारी का, वेखवर। २ लापरवा। ३ वेसुव। -सुमार वि वेगुमार, अनगिनत, वेहिसाव, अगणित, वेहद, अमीम। -सूर -वि वेसुरा, वेमेल। -हद - ह - वि वेहद, अमीम, बहुत अधिक। -हिशोब - वि वेहिमाव, अवा-धुध, अमित। -होप - वि १ वेहोश, वेसुध, गाफिल, अचेत। २ मस्त, मतवाला। -होपी - छी १ वेहोशी, अचेतपन, मूर्च्छा। २ मन्ती, मतवालापन। वेक - न १ विरोध, निषेध। २ अन्य, दूसरी बात। वेकी - छी १ फूट, अनैक्य, विगाड। २ समसत्या। ३ पुराने जमाने में स्कूल के वच्चे शांति जाने के लिए मास्टरजी से इजाज़त मांगते समय इस शब्द का प्रयोग करते थे। वेगड - न [ क 'वेगडे' ] पत्नी (रांगे कादि का हलका पत्तर जिसके टुकड़ों को दूसरी चीज़ों पर सुदरता के लिए चिपकाते हैं।) वगडी - वि [ क 'वेगडे' ] १ जिसपर पत्नी चिपकायी गयी हो। २ नकली, दिखावटी। ३ झूठा, ढोगी। वेगमी - छी १ सग्रह, प्रवच। २ पूर्ति, रसद। -चा - वि पर्याप्त, काफी।

वेचकें - न भटी, घाई (दो अंगलियो या शाखाओं के बीच की जगह) । मु० वेचक्यांत घरणे - शिकजे मे पकडना, चगुल मे फंसाना ।

वेचन - न वेची, विक्री, विक्रय । - पत्र - न विक्रय - विलेख, वंनामा । मु०- घेणे - खुरीदना । - देणे - वेचना ।

वेचाळ - दे 'वेचाळीस' ।

वेचाळीस - वि वयालीस, ४२ । - खी बहु वयालीस पीढियाँ । मु०- उद्धरणें - पानी पी - पी कर कोसना, बहुत गालियाँ देना । - चा अक असणें (पत्रावर) - पत्र में किमी की मृत्यु का समाचार होना । - चा अक घालणे - १. गालियो की वोलार करना । २ पत्र पर वयालीस का अक लिखना (जिससे यह सूचित हो कि वह व्यक्तिगत है) ।

वेट - न १ टापू, द्वीप । २ एक ही जाति के पेड़ों का समूह । ३ भीड़ ।

वेटकुळी - खी १ मेढकी । २ (दडातील) मछली, बाँह या पिंडली की उभरी हुई नसे, स्नायुएँ । [ रुडका ।

वेटा - पु [ हिं ] वेटा, - वेटी - खी [ हिं ] वेटी, कन्या । - व्यवहार, - पु. वेटी व्यवहार, विवाहसवध ।

वेट्या - अव्य क्यो वे वच्चू ।

वेडका - पु खखार, बलगम, गाढा थूक, कफ ।

वेडकी - दे 'वेटकुळी' ।

वेडा - पु १ पकी हुई सुपारी । २ वेडा, नावों का समूह । ३ दो पत्थरों के बीच का छोटा टुकड़ा (रचाई में) ।

वेडी - खी १ वेडी, जजीर, शूखला, हथकडी । २ वघन, रकावट, रोडा । मु - घालून घेणे - अपने हाथों अपने को वघन में फंसाना । [ मडूक; दादुर ।

वेडूक - न मेढक, मेंढक, वेणणी - खी निराई, निराने की क्रिया, निराने की उजरत ।

वेणणें - क्रि स निराना (पीधो की बढ़ती को रोकने वाली अनावश्यक घास, तृण आदि को खुरपी से खोद कर दूर करना) ।

वेणवाजा - दे 'वेडवाजा' ।

वेणे - न वीज । दे. 'बियाणे' ।

वेत - पु १ आयोजन, योजना । २. पड्यत्र । ३ मन्सुवा, इरादा, विचार । ४ युक्ति । ५ प्रवध । ६. पकवान । ७. ढग, पद्धति । ८ रूप, आकार । -

वात - पु १ प्रवध, इतजाम । २ टीपटाप । - वार अव्य ठीक ढग से । - वि ठीक नाप का । मु०- वेतास वात, बेत - जितना आवश्यक हो उतना ही, सीमित ।

वेतणे - क्रि स १ व्योतना, व्योतना (सिलाई के लिए कपड़े को नाप से काटना) । २ थप्पड मारना । [ गुजरना, आ पडना ।

वेतणें - क्रि अ वीतना,

वेताचा - वि १ ठीक, मुआफिक, अनुकूल, अनुरूप । २ उचित । ३ सतुलित, ठीक नाप का, अनुपातयुक्त । [ नाप का, 'फिट' ।

वेताबेत - वि ठीक ढग, वेताबेताने - अव्य धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, सयम से ।

वेतीव - वि १ योजनावद् । २ व्योता हुआ, ठीक नाप का ।

वेनेइस्त्रायल - पु [ अ 'वनी इस्त्राईल' ] यहूदी (जाति और

उसका व्यक्ति) ।

वेरकी - वि [ क 'वेकेंलु' ] चालाक, चट, छंटा हुआ; घुटा हुआ ।

वेरड - पु [ क 'वड्हर' ] १ कर्नाटक की एक जाति जिसका पेशा डाका डालना था । २ डाकू, बदमाश । ३ निडर आदमी ।

वेरी - खी तलछट, घी की गाद ।

वेरीज - खी [ फा 'वरीज' ? ] जोड़, योग, जमा ।

वेल - पु वेल; विल्व (पेड़ और फल) । - पत्र - न वेलपत्र; वेल का पत्ता । (मु०-०ठेवणे - अपना अधिकार छोड़ देना, त्यागना) ।

- फळ - न १ वेल, वेल का फल । २ वेल के फल के आकार की डिविया । - भंडार - पु देवता की मूर्तिपर चढाया हुआ वेलपत्र तथा हल्दी । (मु०-०उचलणे,

- करणे, - काढणे - वेलभंडार उठा कर शपथ लेना; प्रतिज्ञा करना) । मु०-घालणे - वेकार भटकना । [ खोपडी ।

वेलटें - न नारियल की

वेलतेल - न [ अ. 'वॉइल्ड' + म 'तेल' ] तीसी का उवाला हुआ तेल ।

वेलदार - पु [ फा 'वेल' + 'दार' ] १ वेलदार, फावड़ा चलाने वाला मजदूर । २ पत्थर-फोड़ा, सगतराश । ३ मिट्टी का मकान बनाने वाला राजगीर ।

वेलवागे - न टमाटर, विलायती वंगन ।

वेला - पु नारियल, वेल आदि का गूदा निकाल कर बनाया हुआ पात्र ।

बेलाशक - अव्य. [ अ

‘विलाशक’] १ विलाशक, अव्यय, वेशक, निस्मदेह । २ वेधडक । [आसेधक, नाजिर ।

वेलिफ - पु [अ] कुरुकमीन, वेवड - श्री १ मुख्य फसल से पहले या उसके साथ बोयी हुई गौण फसल । २ खाद के तीर पर पटसन, उरद आदि की फसल को उगा कर उसे जमीन में ही गाड देना । [गराव] ।

वेवडा - पु ताडी, ठर्रा (देशी वेस - वि [फा. ‘वेश’] वडिया, अच्छा ।

वसन - न १ वेसन, चने का आटा । २ वेसन की कडी । वेहडा - पु बहेडा, विभीतक (एक जगली पेड और उसका फल) ।

वेहत्तर - दे ‘वेहेत्तर’ । वेहाय - अल्प. [फा ‘वेहाल’?]

वेहद, वहुत, निहायत । वेहेडा - दे ‘वेहडा’ ।

वेहेत्तर - अल्प. [फा ‘विहत्तर’] १ वेहत्तर, बहुत अच्छा, अच्छी बात है । २ कोई हर्ज नहीं; कुछ परवाह नहीं ।

वेळ - न वाँस की कमची । वेळकें - दे ‘दुवेळके’, ‘वेचकें’ । वेगण - न वैगन, वैगन, भटा ।

वैगणी - वि वैगनी, वैगनी, वैगन के रंग का, गहरा नीला ।

वैठक - श्री १ वैठक, वैठना । २ जलसा, अधिवेशन । ३ वैठने का कमरा, दालान । ४ वैठने की चीज, आसन, विछावन । ५ उठना - वैठना ; मुहवत । ६ वैठकी, उठने वैठने की कमरत । ७. तला, पेंदा । ८ (गाने की) मजलिस, महफिल । मु० - मारणे -

१ वैठ जाना, अड्डा जमाना । २. वैठक लगाना; उठा - वैठी करना । वैठका काढणे - वैठकें लगाना ।

वैठणे<sup>+</sup> - क्रि अ वैठना । वैठा - वि १ वैठा, वैठा हुआ । २ बेकार, निठल्ला । ३ ठिगना, नाटा । - गुणाकार - पु जवानी गुणन । - पगार - पु वैठी रोटी; विना मेहनत की आमदनी (पेंशन आदि) । - पहारा - पु वैठे - वैठे दिया जानेवाला पहारा । - भागाकार - जवानी तकसीम (भाग) । - भात - पु वैठा भात, पानी और चावल को एक साथ आग पर चढा कर उतने ही पानी में पकाया हुआ भात । - सप - पु हाजिर - हडताल, ‘मिट - डाउन स्ट्राइक’ ।

वैठी - वि श्री वैठी, वैठी हुई । - कीर्द - श्री मीथादी जमा-खर्च लिख कर शेष निकालने की वही । दे ‘कीर्द’ । - चाकरी - श्री ऐसी नौकरी जिम्के लिए अपना घर या गाँव न छोडना पडे । वैदा - पु १ शंझट; झमेला, परेशानी । २ झगडा, दगा - फिसाद ।

वैडुल - पु गोली, गोटी । वैरागी - पु वैरागी, सन्यामी, माधु ।

वैल - पु १ वैल, साँड, वलीवर्द । २ वलिया का तारु, बुद्ध, अनपढ आदमी । कहा० वैल गाभणा तर म्हणे नववा महिना-वढ - चढ कर खुशामद करना । वैल गेला आणि झोपा केला - वैल तो भाग गया, फिर किवाड बनवाया । अब पळताये होत क्या, जव चिडियाँ चुग गयी खेत ।

वोगा - पु १ पेट का फूला हुआ भाग, तोद । २ अघखिला फूल । ३ घोती या साडी का पेडू के पाम का फूला हुआ भाग । ४ वडा, वेडगा साफा । कहा० अगापेक्षा वोगा मोठा - शरीर की अपेक्षा कपडों का बोल अधिक होना, प्रवान बात की अपेक्षा गौण बात का बढ जाना ।

वोंगाडधा - वि हरखोग; बुद्ध, खूसट ।

वोच - श्री १ चुभन, दर्द, खटक, टीस । चुभने से होने वाला जख्म । ३ किरकिरी । ४ काँटे की नोक ।

वोचक - वि चुभने वाला, खटकने वाला । [टीस ।

वोंचणी - श्री चुभन, कसक, वोचणे - क्रि अ १ चुभना, गडना । २ खटकना, अखरना, खलना । - क्रि स १ चुभाना, चुभोना । २ भोकना । ३ ताना देना, व्यग्य कसना ।

वोचरखड - श्री आगे के दो दाँतों के बीच की दरार ।

वोचरा - वि १ चुभने वाला । २ व्यग्यपूर्ण । ३ दे. ‘वोचरा’ । वोचा - दे. ‘वोचा’ ।

वोंड - न [क ‘वोडू’?] १ टेंट, ढेंडी, ढोढ, पोस्ते, कपास आदि का फल या डोड़ा । २ पर्काडा । ३ चुचुक, स्तन का अग्रभाग । ४. शिस्ताग्रभाग, सुपारी । ५ काजू का फल ।

वोडले - न सुतुही; छोटे वच्चो को दूध पिलाने का गोकले के आकार का पात्र । मु० वोंडल्यानें दूध पिणे - दूध पीता वच्चा होना, विल-कुल अवोध होना । [‘वोड’ ।

वोडशी, वोंडी - वि दे

बोयट, बोयटणें, बोथरा, बोयाटी; बोयी - 'बोथट', 'बोयटणें', 'बोथरा', 'बोयाटी', 'बोथी'।

बोदरी - स्त्री १ बोरा, थैला। २ रुई का बोरा।

बोव - स्त्री १ मुंह पर उलटी हथेली मार कर निकाली हुई आवाज (शोकप्रदर्शन में या होली के अवसर पर ऐसी आवाज निकाली जाती है)। २ शोर, हो हल्ला, चीख-पुकार। ३ अभाव। मु० - उठणें - १ किसी बात का फैल जाना। २ होहल्ला मचना। - मारणें - १ शोर मचाना, हो-हल्ला करना। २ शिकवा-शिकायत करना। ३ मुंह पर उलटी हथेली रखकर आवाज निकालना। ४ रोना - पीटना।

बोवलणे - क्रि अ १ दे 'बोव मारणे'। २ शोर मचाना। ३ फँसना, अचूरा रहना। [अभागा। बोवलभिक्या - वि वदनसीव, बोवत्या - वि शोर मचाने वाला, शिकायत करने वाला। - स्त्री - बहु दे 'बोव'। - गणेश - पु १ वक्की, वक्वादी। २ रौने - धोने वाला। ३ हमेशा अमगल वाते कहने वाला।

बोबावोव - स्त्री १ चीख-पुकार, हायतोवा। २ अभाव।

बोबील - पु [पुर्त. 'बॉमेल'] १ एक जाति की मछली। २ सुखायी हुई मछली। ३ बहुत दुबला-पतला व्यक्ति।

बोकड - पु वकरा। - दाढी - स्त्री १ लवी दाढी। २ केवल ठुड्डी पर निकले हुए बाल। - बोज - पु अपने भाई - बहनो को गद्दी गालियाँ देने वाला आदमी।

बोक्णा - पु १ बोक्काण,

तोवडा। २. वडा फका। मु० - भरणे - भकोसना, मुंह में ठूस लेना।

बोकाडी - स्त्री गर्दन। मु० - स बसणें - मिर होना, पीछे पडना, सिर पर सवार होना।

बोका - पु १ विल्ला, विलाव (नर विल्ली)। २ मोटा-ताजा आदमी।

बोकाणा - दे 'बोक्णा'।

बोकाळणें - क्रि अ १ फैलना, बढ़ना। २ घूम मचना। ३ कूदना, फुदकना।

बोकेसत्यासी - पु वगलाभगत, पाखडी, ढोगी साधु।

बोखा - पु १ अकुर, कल्ला, कोपल। २ तुर्रा, चोटी।

बोगदा - पु [पुर्त. 'आवोगदा'] १ सुरग, 'टनल'। २ सेव। ३ तहखाना।

बोघोणें - न बहुगुना (खुले मुंह के डब्बे के आकार का वरतन)।

बोच, बोचक - दे 'बोच', 'बोचक'।

बोचक - वि वक्की, बातूनी।

बोचका - पु दे० 'बोचके'।

बोचकारणें - क्रि स नोचना, खरोचना। [खराश, नोच, चुटकी।

बोचकारा - पु खरोच,

बोचके - न गठरी, पोटी।

बोचणी - णें, बोचरखंड - दे 'बोचणी-णे', 'बोचरखंड'।

बोचरा - वि १ पोपला जिसके मुंह में दाँत न हों। २ दे 'बोचरा'।

बोचा - पु चूतड, गुदा।

बोज - पु महत्त्व, गान, प्रतिष्ठा।

बोजड - वि १ भारी, बोझिल, बोजिल, वजनदार। २

मोटा और ढीला। ३. वेढगा, गोवर-गणेश।

बोजवारा - पु खराबी; दुर्गत, बुरी हालत, दुर्दशा।

बोजा - १ बोझ, भार। २. कर्ज, ऋणभार। [घुभांकण।

बोट-स्त्री [अ] बोट, जहाज, बोट - न [क 'बोट्टु'] १

उँगली, अगुलि, अगुली। २ दे० 'गालबोट'। - का - दे० 'बुटका'।

- काम - न छोटा, मामूली काम। - खत - न हिसाब के विभिन्न खातो या महो का चनाया

हुया लेखापत्र। - चेपा - वि १ जो उँगली से दवाया जा सके,

बहुत नरम, बहुत पका हुआ। २ आसानी से दबने, झुकने वाला।

- वात - स्त्री उँगलियों पर बनाई हुई रुई की वस्ती। मु०

- करणें, - दाखविणे - उँगली उठाना, दोप, लालन लगाना,

वदनाम करना। - शिरकणें - सींग समाना, स्थान, मौका मिलना।

बोटावर नाचविणे - उँगलियों पर नचाना, इशारों पर नचाना,

इच्छानुसार काम कराना। बोटें मोडणें - १ उँगलियाँ चटकाना। २ फोसना, कोसा-काटी

करना। ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळ्यात घालणें - किसीकी जूती

में उसीका सिर गजा करना, किसीके फैलाये जाल में उसीको फँसाना।

या बोटाची थुकी त्या बोटावर करणें - आवश्यकतानुसार अपनी

बात को घुमा-फिरा लेना, घाना देना, काक-गोलक न्याय का

अपनाना। स्वर्ग दोन बोटें उरणें - आसमान पर उडना, चटना, गर्व

से इतराना, मिजाज बहुत बड जाना।

बोटुक, बोटूक - न [क 'बोटू'] १ छोटी इमली, इमली का टुकड़ा। २ किसी चीज का छोटा टुकड़ा।

बोडती - स्त्री [क 'बोडि'] १ हजामत, सिर मूँडना। २ दुर्दशा, दुर्गत, छीछालेदर। ३. लूट जाना, मूँडना, ठगा जाना।

बोडका - वि [क 'बोड'] १ नगे सिर, खुले सिर। २ जिसका सिर मूँडा हुआ हो, मुडा। ३ (पहाड) जिम पर कोई पेड-पौधा न हो। ४ ठूँठ, ठुठ, बिना डाल-पान का, सूखा (पेड)।

बोडकी - स्त्री [क 'बोड'] १ मूडी, वह स्त्री जिसका मिर मूँडा हुआ हो, बेवा औरत, विधवा स्त्री। २ राँड (गाली)। मु० - आरशात पाहे, सहदेव म्हणे काहीं-तरी आहे - विधवा जब आईने मे देखती है तो समझना चाहिए कि दाल मे कुछ काला जरूर है।

बोडके - न [क 'बोड'] सिर, सर; खोपडी (व्यग्य या क्रोध मे)। [-की-कें']

बोडखा-खी-खें - दे 'बोडका  
बोडण - न महालक्ष्मी या कुलदेवी के प्रीत्यर्थ स्त्रियो द्वारा की जाने वाली एक धार्मिक विधि।

बोडणी - दे 'बोडती'।

बोडणे - क्रि स [क 'बोडियु -सु'] १ मूँडना, हजामत बनाना। २ ठगना, लूटना। ३ आडे हाथो लेना, फटकारना।

बोडा - पु (ग्रा०) लड, लिंग, शिश्न। [प्रसाद, नैवेद्य।

बोणे + -न १ भोजन २

बोथट - वि बोथरा, कुद, गुठला, मद (जिमकी-घार कुद हो गयी हो)।

बोथटणे - क्रि अ १ गुठ-लाना, कुद, भोथरा हो जाना। २ घटना, कम होना, गिथिल होना।

बोथराखड - दे 'बोचरखिड'।  
बोथरा - वि १ पोपला (जिसके मुँह में दाँत न हो)। २ दे 'बोथट'।

बोथाटी - स्त्री १ ऐसी लाठी जिसके दोनो सिरो पर कपडे या लकडी के गोले होते हैं। २ ऐसी लाठी को घुमाने का खेल।

बोथी - स्त्री १ नोक, सिंग। २. चित्रकार की कलम। ३ चुसनी, चट्टू।

बोध - पु १ बोध, शिक्षा, नमीहत; सवक, उपदेश। २ ज्ञान, जानकारी, समझ, उप-लब्धि। ३ जागरण, जागृत अवस्था। - गम्य - वि समझ मे आने लायक। - चिन्ह, -चिह्न - न प्रतीक, अलामत, 'एम्ब्लम'। - पर - वि उपदेशपरक, बोध-कर। - प्रद - वि बोधप्रद, शिक्षा-प्रद, बोधक, नमीहत-आमेज।

बोधक - वि १ बोधक, सूचक, । २ उपदेशक। ३ बोधकर।

बोधला - पु. गुलगोथना, मोटा ताजा और तोद वाला आदमी।

बोन-नें - न १ नैवेद्य। २ पकवना।

बोनस-पु [अ] १ अवि-लाभाश। २ वीमा कराने वालो में लाभ-विभाजन, 'बोनस'।

बोवडकादा - वि तोतला (प्यार का शब्द)। दे 'बोवडा'।

बोवडा - वि १ तोतला, तुतलाने वाला, जो तुतला कर बोलता हो। २ तुतलानेका-सा,

अस्पष्ट। ३ अघपका।

बोवडी-स्त्री धिग्धी (अधिक भय के कारण मुँह से बोल या माफ आवाज न निकलना)। मु०-बळणें - १ धिग्धी बँध जाना। २ सिट-पिटाना, बहुत डर जाना, मिट्टी भूल जाना।

बोमाट-टा - पु १ प्रमिट्टि, बुराई की चर्चा, चवाव, फैलाव। २ शोर-गुल, हो-हल्ला। ३. शिकायत। मु०- करणें - चवाव करना, वात फैलाना। - होणे - वात फैलना।

बोयरा - पु [अं. 'बॉय'] पैराक पीपा, 'व्याय'।

बोर - न वेर (फल)। - स्त्री वेर (पेड)। - कूट - न वेर सुप्ता कर उनकी वनाई हुई बुकनी। - न्हाण - न होली के दिन एक वरस से छोटे बच्चे को वेर, मिठाई, मुरमुरे आदि से नहलाना। - माळ - स्त्री वेर के आर की सोने की गुरियो की माला। कहा० ज्या गावच्या बोरो त्याच गावच्या चामळी - जिम गाव के वेर उसी गाव के बवूल, दोनो कटीले और एक - दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले।

बोर - पु, बोरो - स्त्री दे 'बोर' - पु, 'बोर' - स्त्री।

बोरु - पु १ नरकट, सरकडा, नरकल, नरकुल (एक पौधा जो कलम, चटाई आदि बनाने के काम आता है)। २ नरकट की कलम।

बोर्ड - पु [अ] १ लकडी का तस्ता, दपती। २ मडल, विभाग; 'बोर्ड'। [ 'बोर्डिंग हाउस'।

बोर्डिंग - वि [अ] छात्रावास, बोन्या - पु १ बोरा (टाट का वना बडा थैला)। २ थुक्का-फजीहत, दुर्दशा, दुर्गत। मु० -

उड़णें, -बाजणे - छीछालेदर, दुर्गत होना ।

बोल - पु १ बोल, वाणी, वचन, वात, शब्द, कथन, उक्ति ।  
२ दोष, इलजाम । ३ गीत का टुकड़ा जो गाया या बजाया जाय ।  
-का - वि दे क्रम में । - घेवडा - वि वातूनी, वक्की, वाचाल ।  
-चाल - छी बोलचाल, वात चीत । - तान - छी बोलतान (सगीत के टुकड़ो को मूल रूप से भिन्न आलाप या तान के रूप में रख कर गाना) । - पट - पु बोलपट, सवाक चित्र, बोलती फिल्म ।  
- वाला पु - बोलवाला, यश, कीर्ति, बढती-बढती । ( मु० - असणें - नूती बोलना ) । - भाड - वि झगडालू, हुज्जती । मु० - ठेवणें - दोष, दूषण, लगाना, इलजाम देना, आरोप लगाना, उत्तरदायी ठहराना । - लागणें - दोष, दूषण लगाना, बढा लगाना ।  
- लावणें - दे 'बोल ठेवणे' । बोलात बोल नसणें - बोलने में असगति होना, पहली वात का दूसरी वात से मेल न खाना । बोला फुलास गाठ पडणें - कही हुई वात का सयोग से सच निकलना । - कहा बोलाचीच कही बोलाचाच भात - मिस्सो से पेट भरता है, किस्सो नही, जवानी जमाखर्च करने से क्या फायदा ?

बोलका - वि १ बोलता, बोलने वाला, मीठी वाते करने वाला । २ वातूनी, वक्की, वाचाल । ३ वक्ता, भाषण करने में प्रवीण ।

बोलकेपणा - पु १ वाक्-कौशल, वाग्मिता । २ बोलती, बोलने की शक्ति ।

बोलट - पु [अ 'बोल्ट']

१ पेंच, पेचदार कील, 'बोल्ट' ।  
२ चटकनी, चटखनी, सिटकनी ।  
बोलणारा - दे. 'बोलता' ।

बोलणे - क्रि.अ १ बोलना; मुंह से शब्द, आवाज निकालना ।  
२ शब्द करना (वाजे, पेट आदिका) । ३ भला-बुरा कहना, नाराज होना, दोष लगाना ।  
- क्रि स १ कहना, बताना ।

२ बदना, बोली बोलना । - न १ कथन, उक्ति, वात । २ वातचीत । ३ बोलती । - चालणे - न वातचीत, सभाषण, वार्तालाप, गुप्तगू । बोलता बोलता - अव्य वात की वात में, छन भर में; तुरत, देखते-देखते । बोलून चालून - अव्य १ लोगो के साथ व्यवहार करने में । २ साफ-साफ, खुले तौर पर । ३ प्रकट, जाहिर है कि । ४ जानबूझ कर, हर हालत में । बोलून भला - वि मिठबोला, मधुरभाषी । मु० - फिरविणें - १ वात पलटना, वात फेरना, बदलना, मुकरना । २ वात चवा जाना, वात को कहते-कहते बीच में उडा देना, वात का रुख दूसरी ओर कर देना । बोलून घेणे - किसी की डाँटफटकार सुनना । बोलण्यावर जाणें - वात पर जाना, किसी के कहे पर विश्वास कर लेना, वात मानना । बोलण्यावरून बोलणें येणें, वाढणें - वात से वात बढना, वात का बहस या झगडे का रूप ले लेना, मामले का तूल खीचना ।

कहा० बोलेल तो करील काय - जो बहुत वाते करता है, उससे कोई काम नही होता, जो गरजते है मो बरसते नही ।

बोलता - वि बोलता, बोलने वाला । कहा० मारत्याचा हात धरवतो पण बोलत्याचे तोड धरवत नाही - मारनेवाले का हाथ पकडा जा सकता है, पर बोलने वाले को कौन रोक सकता है ?

बोलविणें - क्रि स १ बुलवाना, बोलने में प्रवृत्त करना । २ दे 'बोलाविणे' ।

बोलविता - वि बुलवाने वाला, बोलने में प्रवृत्त करने वाला ।  
- घनी - पु वि सूत्रधार, नचाने वाला ।

बोलाचाली - छी १ कहा-सुनी, तकरार, हुज्जत । २ बोलचाल, वातचीत ।

बोलावणें - न बुलावा, निमन्त्रण, न्योता । - क्रि स दे 'बोलाविणे' । - करी - बुलाने वाला, हँकारी, निमन्त्रण देने वाला ।

बोलाविणे - क्रि स १ बुलाना, पुकारना । २ हँकारना; निमन्त्रित करना, न्योता, दावत देना । ३ दे 'बोलविणें' । ४ (सभा) बुलाना, आयोजित करना ।

बोली - छी १ बोली, क्षेत्रीय भाषा । २ इकरार, वचन, ठहराव । ३ बोल, वचन, बोलचाल । ४ नीलाम की आवाज, खरीदार की ओर से लगाया गया चीज का दाम, बोली । मु० - बोलणें - बोली बोलना, नीलाम में चीज के दाम लगाना ।

बोवा - दे 'बुवा' ।

बोहक - वि १ वातूनी, वक्की । २ दस्तदाज, दखल देने वाला । ३ चोच, अफलातून ।

बोहणी - नो - छी १ बोहनी,

वानी, बूहनी, दस्तफाल (सब से पहली विक्री) । २ प्रारभ, श्रीगणेश । - चे पारीं, प्रहरों - ? सवेरे-सवेरे । २ प्रारभ मे ही ।

बोहरा-री - पु बोहरा, मुसलमानों की एक व्यावसायिक जाति, उम जाति का व्यक्ति ।

बोहलें - न विवाह-वेदी; वह चबूतरा जिस पर शादी होती है ।

बोहारीण - छी पुराने कपड़ों के बदले में काँच या पीतल के बरतन बेचने वाली, फेरी वाली ।

बोळ - पु कूचा; गली, गलियारा । - कड-डी, खड-डी- छी बहुत ही तग गली, गलियारी ।

बोळ - पु १. बोल (एक गध-द्रव्य), रसगव । २ गाढा रग, दही आदि । ३ कूडा, कचरा । मु० - घालणें - १ बाधा डालना, २ हुज्जत करना ।

बोळकें - न १. कुल्हड, कुल्हिया, चुक्कड, (मिट्टी, लकड़ी आदि का बहुत छोटा पात्र, खिलौना) । २ पोपला मुँह ।

बोळणें - क्रि अ १ गाढा होना, जमना (स्याही, दही) । २ कम, घुंघला, मद होना (याद); भूल जाना । - क्रि स चुपडना, पीतना ।

बोळवण - णी - छी [ क 'बोळि' ] १ विदाई, विदाई, खानगी, रखसती । २ गीता । ३ निकाल देना, भगाना ।

बोळविणें - क्रि स १ विदा, विदा करना, रखसत, खाना करना, भोजना । २ विसर्जन करना, प्रवाहित करना । ३ बद करना ।

बोळा - पु १ चीथडे, कागज आदि का गोला । २ छोटे बच्चे को

दूध पिलाने की चिंदी जो दूध में भिगीयी होती है । ३ अव्यवस्थित ढग से रखा हुआ कपडा । ४ फाया, फाहा । ५. पीतना, पीता । मु० - फासणें, - फिरविणें - १ पीता फेरना, बगवाद कर देना; चाँपट करना । २ पीछना; माफ करना । बोळघानें दूध पिणें - दध-पीता बच्चा होना, अवोध, नाममझ होना ।

व्यायशी - वि वयामी; ८२ । व्याणव - वि वयानवे, वयानवे, वयान्वे, ९२ ।

व्याद - छी १ झझट, आफत, झमेला, बला । २ बीमारी, व्याधि । मु० - टळणे - बला टलना, पिंड छूटना, गला छूटना ।

व्यायशी - वि वयासी, ८२ । व्पारिस्टर - दे 'वारिस्टर' । ब्रेंडी - छी [ अ. ] ब्राडी (एक विलायती शराब) ।

ब्र - पु ची, ची - चपड, चूँ, चूँ व चरा । मु०-काढणे-ची-चपड करना, चूँ व चरा करना, उज्र, एतराज करना । - निघणें - मुँह से एक शब्द निकालना । - सुद्धा न काढणे - ची - चपड न करना, चूँ तक न करना, तनिक भी उज्र, एतराज न करना ।

ब्रैकेट - पु [ अ ] १ 'ब्रैकेट', अभिवार, कोष्ठक, बधनी । २ टेक, पाख, दीवारगीरी ।

ब्रश - पु [ अ ] १ ब्रुश, ब्रुश, तूलिका, कूँची । २ झाड़ू ।

ब्रस्पतवार - पु बृहस्पतिवार, गुरुवार ।

ब्रह्म - न ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप, जगत् का मूल तत्त्व । २. (ममास में) ब्राह्मण । ३ आश्चर्य,

अद्भुत बात । ४ विष्णु, परमात्मा । - कर्म - न ब्रह्मकर्म, ब्राह्मण के कर्तव्यकर्म, वेदविहित कर्म । - गाठ-छी १ ब्रह्मगाँठ, जनेऊ की मुख्य गाँठ । २ मयोग । ३ अटूट सबब । ४ ब्रह्मलिखित, ब्रह्मलेख, भाग्यलेख । - घोटाळा - पु गड-बडी, घपला, अघेर । - चर्यं - न ब्रह्मचर्य (अष्टविध मथ्युन में बचने का व्रत) । - चारी - पु ? ब्रह्म-चारी । २ बट्ट, जिमका यज्ञोपवीत रास्कार हो चुका है । - ज्ञान - न १ ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म को जानना । २ बडी - बटी बातें, मुफ्त का उपदेश । - देव - पु ब्रह्मा, विधाता । - द्वेष्टा - वि ब्रह्मद्वेषी, ब्राह्मणद्वेषी । - वधु - पु ब्रह्मवधु, नाम का ब्राह्मण, । - राक्षस - पु ब्रह्मराक्षस, प्रेतयोनि प्राप्त करने वाला विद्वान् किंतु घमडी ब्राह्मण । - वृद - पु ब्राह्मणों का समूह, सभा, समाज । - शाळा - छी वेदशाला, वेदों की शिक्षा देने वाली पाठशाला । - समघ - दे 'ब्रह्मराक्षस' । मु०-मिळणे, -साप-डणे - बहुत बडी बात हासिल होना ।

ब्रह्माड - न १ ब्रह्माड, सपूर्ण विश्व । २ खोपडी । मु० - आठवणे - खुदा याद आना, बहुत बडी मुसीबत में फँसना, बहुत दुख होना । ब्रह्माडत न मावणे - बहुत अधिक होना ।

ब्रह्मा - पु ब्रह्मा, विधाता । ब्रह्मानंद - पु १ ब्रह्मानंद, ब्रह्मस्वरूप के माक्षात्कार का आनंद । २ परमानंद । मु० ब्रह्मानंदी टाळी लागणे - किसी बात के चिंतन में पूरी तरह तल्लीन होना, जगत् को भूल जाना ।

ब्रह्मास्त्र - न १ ब्रह्मास्त्र; अमोघ अस्त्र। २. ब्राह्मण का शाप।  
 ब्रह्मीभूत - वि मृत (सन्यासी)।  
 ब्रांस - न [अ] काँसा, कास्य। - युग - न कास्ययुग।  
 ब्राह्म - वि ब्राह्म, ब्रह्म या ब्रह्मामवधी। - मुहूर्त - पु ब्राह्म-मुहूर्त, रात के पिछले पहर के अंतिम दो दंड।  
 ब्राह्मण - पु १ ब्राह्मण। २ पुरोहित। - घेवडा - पु सूखी मछली। - भोजन, सतर्पण - ब्राह्मणभोजन; ब्राह्मणसतर्पण, ब्राह्मण को खिलाना, तृप्त करना।  
 मु० - घालणे - ब्राह्मण को निमंत्रित

कर खिलाना।  
 ब्राह्मण्य - न १ ब्राह्मण्य, ब्राह्मणत्व। २ ब्राह्मणों का समूह। ३ ब्राह्मणों द्वारा किसी ब्राह्मण का वहिष्कार किया जाना। मु० - घालणे - वहिष्कृत करना, हुक्का पानी बंद करना।  
 ब्राह्मी - स्त्री १ ब्राह्मी (एक प्रसिद्ध वृत्ति)। २ ब्राह्मी (लिपि)।  
 ब्रीद - १ व्रत, प्रतिज्ञा, शील। २ वाना, टेक। ३ आदर्श। ४ दे 'विरुद्ध'।  
 - वाक्य - न आदर्श वाक्य, आदर्शोक्ति, 'मोटो'।

ब्रेक - पु [अ] 'ब्रेक', रोक, गतिचक्र की गति रोकने वाला यंत्र।  
 ब्रेड - स्त्री पु. [अं.] पावरोटी, डबलरोटी।  
 ब्लैकेट - न [अ] कवल, लोई।  
 ब्लाऊज - पु [अ] ब्लाउज (विलायती ढग की जनाना कुरती)। - पीस - पु. ब्लाउज पीस (कुरती का कपडा)।  
 ब्लॉक - पु [अं] १ ब्लाक, ठप्पा, सँचा। २ किसी बड़े मकान का वह खंड जो अपने आप में पूर्ण हो।

भ

भ - मराठी वर्णमाला में पवर्ग का चौथा वर्ण।  
 भकस - वि बाहियात, बेकार।  
 भग - पु. १ भग, टूटना, सड़ित होना। १ तोड़ना, ध्वंस, नाश। ३ हानि, हानि की सभावना। ४. पराजय। ५ अस्वीकार, न मानना। ६ लहर। ७ खड, टुकडा। - देश - पु. रणक्षेत्र, मैदाने जग। मु० - पावणे; - होणे - टूटना, 'दे भगणे'।  
 भग - स्त्री भग, भाँग।  
 भंगड - वि १ भगड, भंगेडी, बहुत भाँग पीने वाला। २ मनकी, खन्ती, झक्की।  
 भगणे - क्रि अ १ टूटना, फूटना। २ भग्न, खडित होना, चकनाचूर होना। ३ पराजित होना। ४ ध्वंस, नष्ट होना।  
 भगसाळ† - स्त्री १ बडा और भयावना मकान। २ मंदिर के गर्भगृह और सभामंडपके बीच का

स्थान। ३ दे 'भगदाड'।  
 भगी - पु [हिं] भगी, मेह-तर (मैला साफ करने वाला)।  
 भगी - वि भग करने वाला, तोड़ने वाला।  
 भगी - स्त्री १ भगि, ढग, वेग-विन्यास। २ बहाना, छल, व्यग। ३ टेढापन, कुटिलता, वक्रता,। ४ क्रम।  
 भगुर - वि भगुर, भग होने वाला; अविक दिन न टिकने वाला।  
 भजक - वि भजक, भज करने वाला, तोड़ने वाला।  
 भजन - न १ भजन, भग करना, तोटना। २ ध्वम, नाश करना। ३ पिटाई, मरम्मत। ४ तोड़।  
 भड - पु. भड, भाँड।  
 भड - न पु १ सताना, परेशान करना। २ विडवना, फज़ीहत। ३ दे 'कुभाड'। मु० - देणे - दे 'भडावणे'।

भडाई - स्त्री झगडा।  
 भडार\* - न १ भडार, ढेर, खजाना। २ कोठार।  
 भडार - पु. हलदी की बुकनी।  
 मु० - उघळणे - १ देवता को हलदी चढाना। २ बहुत स्तुति करना।  
 भडारा - पु. १ भडारा, साधुओं का भोज। २ पाकगाला। ३ नाश, ध्वंस। ४ दे० 'भडार' - पु। मु० - करणे - १ प्रमाद वाँट लेना। २ खा जाना, हडप करना। - घालणे - साधुओं को भोजन देना।  
 भडारी - पु १ ताड के पेड से ताडी, ठरा वनाने वाली एक जाति और उम जाति का व्यंजिन। २ भडारी, भडार का अध्यक्ष। ३ नाविक।  
 भडावणे - क्रि स सनाना, परेशान तग करना, नाको दम करना।



भंडी - १ स्त्री अत्याक्षरी, व्रतवाजी (पद्यपाठ की वह प्रति-योगिता जिसमें पहले पढ़े हुए पद्य के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला पद्य पढ़ना होता है) । २ दे० 'फजिती' ।

भदें - दे० 'भदे' ।

भपक - वि १ छिछला, डपोरगव, डपोरमख, केवल वाते बनाने वाला, पोगापथी; ढोगी । २ गंवार ।

भवेरी, भभेरी - स्त्री १ छीछालेदर, थुक्का-फजीहत । २ डर, धवराहट । मु० - उडणें - मिट्टी भूल जाना; सिटपिटाना । - उडविणे - गत बनाना, दुर्दशा करना ।

भवई - स्त्री भौ, भौह (आंख के ऊपर की हड्डी पर धनुष के आकार में जमे हुए बाल) । मु० भवया चडविणे - भौ चढाना, तानना, रोप प्रकट करना, माथे-पर बल, गिकन डालना ।

भवता - दे० 'भवताली' ।

भवतालचा - वि आसपाम का ।

भवताली, भंवती, भवतें - अव्य आसपाम; चारो ओर, इर्दगिर्द, अतराफ में ।

भवरा - पु १ भँवरा, भौरा; नमर । २ लट्टू (ग्विलोना) । ३ भौरी (चक्राकार में उगे हुए बाल या रोयें) ।

भवरी - स्त्री १ भँवरी, भौरी, नमरी । २ चक्कर, नमण । [२ वकना ।

भकणे - क्रि अ १ वहकना ।

भकभक - स्त्री भकभक (रह-रहकर, वेग में निकलने वाले धुएँ का शब्द) । - अव्य भकभक की आवाज के साथ ।

भकल - न आधा नारियल ।

भकाट - न , भकाटी - स्त्री भूखा रहने के कारण पेट का पीठ से लग जाना । मु० (पोट) भकाटीस जाणे - पेट पीठ एक हो जाना, पेट पीठ से लगना ।

भकाभक - का - अव्य भकभक ।

भकास - वि [क 'वक्क' ] १ वीरान, उजडा हुआ । २ सुनसान, शून्यवत् । ३ उदास ।

भककम - वि [क 'वक्कळ', हि 'भरकम' ] १ मजबूत, भारी-भरकम, ठोस । २ विपुल, प्रचुर ।

भक्त - वि भक्त, अनुरागी, वफादार । - पु १ भक्त, मेवक, उपासक । २ भात, अन्न, भोजन । - वत्सल - वि भक्तवत्सल, भक्त के प्रति स्नेहयुक्त ।

भक्ति - स्त्री १ भक्ति, पूजा, भजन, सेवा, आराधना । २ श्रद्धा, लगन । ३ प्रीति, प्रेम, आमक्ति । - भाव - पु १ भक्ति की भावना, श्रद्धा, लगन । २ शौक । - मान् - वि भक्तिमान्,

भक्तिप्रवण, श्रद्धालु । - मार्ग - पु भक्तिमार्ग, भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग । - योग - पु भक्तियोग, उपासना ।

मु - वसणे - १ भक्ति, श्रद्धा होना । २ प्रेम, विश्वास होना । भक्तीचे - दुकान भाडणे - भक्ति का ढोंग चचना, दम मरना, दिग्वावा करना ।

भक्ष - न पु भक्ष, भोजन, खाना, आहार, अन्न, भक्षण । - म्थानीं पडणे - गिकार होना, हडप किया जाना, निगला जाना ।

भक्ष्य - न १ १ भक्ष्य, आहार; अन्न । २ गिकार । - वि भक्ष्य, खाने योग्य । दे 'भक्ष' ।

भक्ष्याभक्ष्य - न १ भक्ष्या-

भक्ष्य, खाद्य अखाद्य-पदार्थ । २ खाने के भवध में विधि-निषेध ।

भगदर - पु भगदर (गुदावर्त के किनारे होने वाला फोडा जो फूटने पर नासूर हो जाता है) ।

भग - न पु १ क्षत, घाव, नासूर । २ योनि । ३ ऐश्वर्य, यश ।

भगत - पु १ भगत, भक्त । २ ओझा, नाउत, सोखा, मात्रिक ।

भगदाड - न बढा सूरख या गढा, सुरग, बडी दरार, दरार, बडी सेव ।

भगभग - स्त्री १ जलन, दाह । २ झझट, बला, आफत ।

भगभगीत - वि १ बहुत तीखा, गरम, जिसमें बहुत मिर्च पडी हो । २ तेज (रोशनी), चकाचौंध करने वाला ।

भगर - स्त्री साँवाँ, तिन्नी नीवार आदि मोटा अनाज, जिसका भूसा निकाला गया हो । दे 'भगरा' ।

भगरा, भगराळा - पु १ चूर, चूरा, चूर्ण । २ वेसन डाल कर किया हुआ मूली का साग । - वि दरदरा, सूखा, मोटा ।

भगवती - स्त्री १ भगवती, पार्वती । २ लाल मिर्ची की बुकनी ।

भगवा - वि गेरुआ, कापाय । - झंडा - पु भगवा (मराठी का राजकीय ध्वज) । - रग - पु भगवा, कापाय ।

भगीरथ - पु भगीरथ (एक सूर्यवंशी राजा) । - प्रयत्न - पु भगीरथ-प्रयत्न, महाप्रयास, अमाधारण, अथक परिश्रम ।

भग्न - वि १ भग्न, टूटा हुआ, सडित । २ नष्ट, व्वस्त । ३ हताश ।

भग्नावशेष — पु भग्नावशेष,  
खडहर, खंडहर।

भजणें — क्रि स १ भजना,  
सेवा, भक्ति, उपासना करना,  
पूजना। २ आचरण करना। ३  
अपनाना, अवलवन करना।

भजन — न १ भजन, आरा-  
धना, सेवा। २ नाम जपना। ३  
देवता की स्तुति में रचित पद। —  
पूजन — न भजन-पूजन, पूजा-  
उपासना। मु० भजनीं लागणे  
— १ भक्त बनना, पिछलगा,  
अनुयायी बनना, पीछे लगना। २  
फिदा होना, आशिक होना।  
भजनीं लावणे — १ भक्त बनाना,  
चेला बनाना। २ फँसाना।

भजनी — वि भजनी, भजन  
गाने वाला, भजनीक। — बिंडी,  
— भडळी — स्त्री भजनीको की  
मडली।

भजें — न १ पकौडा, पकौडी।  
२ दे 'भदें'।

भट — पु १ ब्राह्मण। २  
पडा, पुजारी, पुरोहित। ३  
भट्ट, पंडित। ४ भट, योद्धा।  
— पण — न दे 'भटकी'। कहा०  
भटाला विली ओसरी, भट हातपाय  
पसरी — उँगली पकडकर पहुँचा  
पकडना, थोटी-सी रिजायत मिलने  
पर उससे वेजा फायदा उठाना।

भटकती — स्त्री घुमक्कडी,  
मटरगश्ती।

भटकणें — क्रि अ १ घूमना,  
भटकना, व्यर्थ घूमना, इधर-  
उधर फिरना। २ मटरगश्ती  
करना, आवारा फिरना।

भटकभवानी — स्त्री भटकने  
वाली स्त्री, आवारागर्दी करने  
वाली औरत।

भटका — दे 'भटक्या'।

भटकी — स्त्री पुरोहिताई,  
पुरोहिती।

भटक्या — वि १ घुमक्कड।  
२ यायावर; खानाबदोश, चल-  
वासी।

भटजी — पु पुरोहित, दे 'भट'।

भटारखाना — पु [हिं 'भटि-  
यारखाना'] १ रसोईघर। २.  
ढावा, वासा, हॉटेल। ३ भटि-  
यारखाना, वह भोज जहाँ बहुत  
शोरगुल होता है, कमीने, असभ्य  
लोगो की बैठक। ४ कुप्रवच,  
अव्यवस्था। [ब्राह्मणी।

भटीण — स्त्री पुरोहितानी,

भटुरगा — पु गुणहीन पडा,  
कमीना ब्राह्मण (गाली)।

भट्टी — स्त्री १ भट्टी, भट्टा  
(खाम कामो के लिए बना हुआ  
वडा चूल्हा)। २ आवां (मिट्टी  
के वरतन पकाने का भट्टा)।  
३ पजावा (इंटे आदि पकाने का  
भट्टा)। ४ भाड (भडभूजे की  
भट्टी)। ५ रीठा (चूना-वनाने  
के लिए ककड फूंकने का भट्टा)।  
६ (दारूची) आवकारी, आस-  
वनी, आस्रविका (शराव की  
भट्टी)। ७ किसी चीज के  
वनाने की खूवी, ढग, तरीका।  
मु० — बिघडणे — काम विगडना,  
कोई चीज ठीक, अच्छी न बनना।  
— साधणे — १. खानेपीने की चीज  
का अच्छा बनना। २ किमी काम  
की खूवी मालूम होना।

भडग — वि १ उदार,  
दानी। २ उडाऊ। दे 'भणग'।

भडग — स्त्री नमकीन मुरमुरा  
जिसमें मूंगफली, पापड आदि  
पडता है, चना-चवेना।

भडक — वि १ भडकदार, भड-  
कीला, चमक-दमक वाला,

चटकीला। २ गहरा (लाल)।  
— स्त्री १ भडक, चमक, ओप,  
काति, जिला, आव। २ आग।  
— वार — वि भडकदार, चमक-  
दार, भडकीला।

भडकणे — क्रि अ १ भड-  
कना, प्रज्वलित होना; भभकना,  
वल उठना, धधकना, धायँ-धायँ  
जलना। २ चारो ओर फैलना।  
३ चीँकना, विदकना, भडक कर  
भाग जाना। ४ उत्तेजित होना,  
क्रुद्ध होना, आपे से बाहर होना।  
५ स्वेच्छाचारी बनाना, बौख-  
लाना। ६ भटकना, रास्ता भूल  
कर इधर-उधर फिरना।

भडकविणें — दे 'भडकाविणें'।

भडका — पु १ घमाका,  
घडाका, भडाका, विस्फोट। २  
मभूका, लौ, लपट, ज्वाला। ३  
वडी आग। मु० — उडणें — घमाका  
होना, फट पडना।

भडकावणें, भडकाविणे —  
क्रि स १ भडकाना, वहकाना,  
उभाडना, उकमाना, उत्तेजित  
करना, वढावा देना। २ जमाना,  
कस कर मारना, रसीद करना  
(थप्पड)।

भडभड — अव्य १ जोर में,  
एक साथ। २ धडाधड। ३  
भडभडा कर। ४ छूट कर, विना  
किसी रोक या वधन के।

भडभडणे — क्रि अ १ धध-  
कना, धायँ-धायँ जलना। २  
दिल भर आना, उमडना, उमँ-  
गना, उभरना। मु० भडभडून  
येणे — दिल भर आना, गद्गद  
होना।

भडभडा — दे 'भडभड'।

भडभडाट — पु १ घमाका,  
वडाका। २ भडभड।

भडभडघा - वि १ पेट का हल्का (जो अपने मन की बात किसीसे छुपा न सके) । २ भड-भडिया, वक्की । [ भुजवा ।

भडभुजा - पु भडभुंजा, भडवा - पु १ भडुआ, सफरदाई (रडिओ की दलाली करनेवाला) । २ कमीना (गाली) ।

भडाका - दे 'भडका' ।

भडागिन - पु अमत्रक चितागिन (विना कोई मत्र बोले शव का दाह किया जाना) ।

भडाड, भडाडणे, भडाडा - दे 'भडका', 'भडकणे', 'भडाभड' ।

भडाभड - अव्य वडाधड, तेजी से, जल्दी से, छूट कर ।

भणग - वि मुफलिस, कगाल । -पु भिखारी, अनाथ, यतीम व्यक्ति । - भिकार - न भिखारियों का झुंड । - भिकारी - पु विलकुल ही मुफलिम भिखारी ।

भणभण - छी १ भिन भिन, गुनगुनाहट । २ सन्नाटा । ३ भुन-भुनाहट, भुन-भुन, कुढन ।

भणभणणे - क्रि अ भन-भनाना, चकराना, भन्नाना, भिनभिनाना । २ सिर में दर्द होना ।

भत्ता - पु [ हि ] १ भत्ता, अविदेय । २ कर्मचारी को दिया जाने वाला सफर - खर्च या भोजनव्यय । ३ चना-चवेना ।

भदभद-दा - अव्य 'भदभद' की आवाज के साथ, दे 'वदवदा' ।

भदें - न १ खप्पर । २ खप्पड (टूटे वरतन का टुकड़ा) । ३ अगारो से भरा खप्पर जिसे सिर पर उठा कर नाचते हैं । मु - होणे - टायें टायें फिम होना, खराब, बरवाद होना ।

भद्रकरण - न १ भद्रकरण, मगलसाधन । २ डांट-फटकार, गालीगलौज ।

भद्र - वि १. भद्र, मगलकारी, शुभ । २ भला, माधु; श्रेष्ठ । - न १ भद्र, मगल । २ कल्याण, भला । ३ दीवानखाना । ४ सिंहासन । ५ मंदिर के दो खभों के बीच का स्थान । - देश - पु मिस्र (देश) । - पुरुष - पु भद्र पुरुष, गरीफ आदमी, सज्जन । - लोक - पु वह भद्रजन, महाजन, शिष्ट लोग ।

भद्रा - छी १. भद्रा; शुक्लपक्ष की द्वितीया, मपनमी और द्वादशी तिथियाँ । २ फलिन ज्योतिष का शुभ कार्य के लिए एक निषिद्ध योग । मु - नक्षत्रावर जन्मणे - अभागा, वदकिस्मत, कगाल होता । [ किस्मत ।

भद्रघा - वि अभागा, वदभपका - पु १ तडक-भडक, गान; नोकझोक, नखरा । २ लपट, गोला; भभक, भभूका । भपकारा - पु भपारा, तेज बू; उग्र गव ।

भपकेदार - वि मटकदार, भडकीला, अलीशान, दिखावटी, चकाचौध करनेवाला ।

भप्प - अव्य तेजी से, भभूके के साथ, 'भप' की आवाज के साथ । [ भडकना; जोरो से फँलना ।

भवकणे - क्रि अ भभकना, भवका, भवकारा - दे 'भपका', 'भपकारा' ।

भयकर - वि १ भयकर, डरावना, खौफनाक । २ खतरनाक । ३ बहुत, बेहद ।

भय - न १ भय, डर, खौफ । २ खतरा, खटका । ३ भग,

नाथ; मरण । - कातर, - चकित, - भीत - वि भयभीत, भयत्रस्त, डरा हुआ; खौफजदा । - विह्वल - वि भयविह्वल, भयाकुल । मु - घेणे - डरना । - दाखविणे - टगना । - भीत होणे - डरना; सकपकाना, घवगना । - विह्वल होणे - थरना, कलेजा कांपना; जी घवराना ।

भयाकुल, भयाक्रांत, भयातुर - वि भयाकुल, भयाक्रांत, भयातुर, भय ने अभिभूत, डरा हुआ, खौफजदा ।

भयानक, भयावह - वि भयानक, भयावह, डरावना, खतरनाक ।

भय्या - पु १ भय्या, भैया, भाई । २ पुरविया, पहरेदार, चौकीदार । दे 'पुरभैया' ।

भरवशाचा - वि भरोसे का, यकीनी । कहा० भरवशाच्या म्हशीला टोणगा - जिम भैन से यह भरोसा था कि वह पटिया देगी उसीने पडा दिया । जिसने बडी उम्मीद थी उसीने निराश कर दिया ।

भरवसा - पु [ हि 'भरोसा' ] १ भरोसा, यकीन, विश्वास । २ पक्की आशा, उम्मीद, महारा । दे 'भरवशाचा' ।

भर - पु १ बल, जोर । २ दबाव, भार । ३ पूर्णता, अधिक्य भरमार, विपुलता, अतिरेक । ४ ढेर; समूह । ५ बहाव । ६ उभाड, जोश । ७ रुजहान, प्रवृत्ति । ८ मस्ती । ९ उत्तेजन, प्रोत्साहन । १० बहकाना, भडकाना । ११ बोल । १२ उत्साह । - छी १ वृद्धि, जोड, परिवर्द्धन । २ भराव, भरना, पाटना । ३

पूरन, पूरण। -वि १ भरा हुआ।  
 २ भर; सब, पूरा, सारा। -अव्य.  
 १ ऐन, विलकुल। २ तक,  
 पर्यंत। - उभर - स्त्री १ भरना  
 और खाली करना। २ पाना  
 और खर्च करना। ३ उभाडना,  
 उकसाना। -गच्च-वि १ ठसा-  
 ठस भरा हुआ। २ दे 'भरपूर'।  
 -जरी - जरी, जिसपर जरी (कला  
 वस्तु या सलमे-सितारे) का काम बड़ी  
 मात्रा में हो। -जवानी, -जवानी-  
 स्त्री १ ऐन जवानी। २ जवानी  
 का काल। -दार - वि १ भरा  
 हुआ, गठीला, गदरा। २. शान-  
 दार, रोवदार। -दुपारीं, -दोन  
 प्रहरों - अव्य ऐन दुपहरी में,  
 चिलचिलाती धूप में। -दौड,  
 -घाव - अव्य सरपट, पूरे वेग  
 के साथ, हवा से वाते करते हुए।  
 नवती-दे 'भरजवानी'। -पाई,  
 -पायो - स्त्री १ भरपाई (भर  
 पाने का भाव); पूर्ति। २ क्षति-  
 पूर्ति, हरजाना। ३ परिशोध,  
 भुगतान, वेवाकी की रसीद। -पूर  
 -अव्य १ भरपूर, पूरे तौर से।  
 २ काफी, प्रचुर। ३ भरपेट, पेट  
 भर कर। -पोट - अव्य भर -  
 पेट, पेट भर कर, जी भर कर।  
 -बाजारांत - अव्य सरे बाजार;  
 खुले खजाने, सब के सामने।  
 -भक्कम - वि १ मजबूत,  
 भारी भरकम। २ प्रचुर, विपुल,  
 भरा पूरा। मु० -करणे - १  
 भरना; किसीका घर भरना, दे  
 डालना। २ पूरा करना। -घालणे-  
 १ भरना, पूरना, पाटना। २  
 वृद्धि करना, जोडना। दे 'भरीस  
 घालणे'। भरों घालणे-दे 'भरीस  
 घालणे'। भरों भरणे १ लट्टू हो  
 जाना, (किसीके पीछे) पागल हो  
 म. हि. श. को ३५

जाना। २ जिद पकडना। भरीस  
 घालणे - उकसाना, उभाडना,  
 फँसाना। भरीस पडणे - १ दाँव में  
 आना, फँसना। २ खर्च होना,  
 नष्ट होना। भरून काढणे, भरून  
 घेणे - दे 'भरणे' में।

भरकटणे - क्रि स १ घसी-  
 टना, लिख मारना। २ जैसे-तैसे  
 पूरा करना। ३ जल्दी-जल्दी कर  
 डालना। -क्रि अ १ भटकना,  
 रास्ता भूल कर इधर-उधर वह  
 जाना। २ अनाप-धनाप बकना  
 या लिखना। ३ बाहियात बनना।

भरकन - अव्य. १ झट से;  
 फरफर, जल्दी-जल्दी। २ तेजी  
 से, पलक झपकते, देखते-देखते।

भरड - वि १ दरदरा (जो  
 मोटा पीसा गया है)। २ मोटा।  
 -स्त्री दलिया, रवा, सूजी।  
 -धान्य-न मोटा अनाज।

भरडणे - क्रि स १ दरद-  
 राना, मोटा पीसना। २ भदे  
 ढग से काम करना। ३ दे० 'भर-  
 कटणे'।

भरडा - पु १ दलिया, अर-  
 दावा, भरता। २ दला हुआ अन्न,  
 दाल।

भरण - न १ भरण; पालन,  
 पोषण। २. पूरन। ३ पूरण,  
 भरने की क्रिया। ४ भराव; भरती।  
 -पोषण - न भरण-पोषण,  
 पालन-पोषण, परवरिश।

भरणा - पु १ भरना, जमा  
 करना। २ भुगतान, चुकौना,  
 चुकता करना, वेवाकी, चुकाई।  
 ३ भरती, भराव। ४ जमाव,  
 भरमार, भीड। -पावती- स्त्री  
 भरपाई, वेवाकी की रसीद। मु०  
 -करणे - १ जमा करना। २  
 खोगीर की भरती करना।

भरणावळ - स्त्री भराई  
 (भरने की क्रिया या उजरत)।

भरणे - क्रि स १ भरना,  
 पूर्ण करना। २ खाली वरतन में  
 कोई चीज डालना। ३ (छेद)  
 बंद करना। ४ बटुक आदि में  
 गोला, गोली डालना, ठूसना। ५  
 जमा करना, चुकाना (ऋण)।  
 ६ क्षतिपूर्ति करना। ७ वरतन में  
 पानी आदि डालना। ८. पहनना  
 (चूडियाँ)। ९ चिलम पर तवाकू  
 और आग रखना। १० खानापूरी  
 करना। ११ कुएँ आदि से घडे  
 आदि में पानी लाना। १२ लथ-  
 पथ करना। १३ रँगना। -क्रि अ  
 १ भरना, भरा जाना। २  
 सनना, लथपथ होना। ३ पूर्ण  
 होना। ४ घाव का पूरा होना,  
 भर जाना। ५. पुष्ट, मोटा होना  
 (शरीर), गदराना। ६ ठीक,  
 पूरा होना। ७ सुन्न होना। ८  
 घुसना, पैठना। ९ लगना  
 (बाजार)। १० जमा होना।  
 ११ आयोजित, संपन्न होना  
 (सभा)। मु० भरून काढणे -  
 १ भरना, पूर्ति करना, पूरा  
 करना। २ क्षतिपूर्ति करना, कसर  
 निकालना, घाटा या कमी पूरी  
 करना। भरून पावणे - भर  
 पाना, पूरा पावना वसूल हो  
 जाना, किये का फल पाना।  
 भरून घेणे - १ भर पाना।  
 २ क्षतिपूर्ति होना। ३ भर आना;  
 उमडना। ४ (जखम) पुरना,  
 भरना। भरला-ली-ले, भरल्या-  
 दे० क्रम में। [पावती'।

भरणेपावती - दे० 'भरणा-  
 भरत - दे० 'भरती'।

भरतकाम - न कडाव,  
 कशीदा, वेलवूटे का काम, गुल-

कारी, कारचोवी, जरदोजी (कला-  
वत्तू या सलमे सितारे का काम) ।

भरताड - छी न १ वोज, लदाव, माल-असवाव । २ खोगीर की भरती, रही चीजे ।

भरती - छी १. भरती, दाखिला, प्रवेश । २ भराव, भीतर भरी हुई चीज । ३. चढाव, उमडना, वृद्धि । ४ (समुद्राची) ज्वार (समुद्र के जल का ऊपर उठना) । - आहोटी, -सुकती - छी १. ज्वारभाटा । २ चढाव-उतार ।

भरतें - न १ पूर्ति, भरना, पूर्ण होना । २. उमड, उमड, उठान, उफान, जोश, वाढ । मु० - घेणें - उमड आना, दिल भर आना, गद्गद होना ।

भरभर - अव्य १ जल्दी-जल्दी, तेजी से । २ झपाटे से । - छी दे 'भरभराट' ।

भरभरणें - क्रि अ १ तेजी से जल उठना, भडकना । २ दे 'भणभणणे' । ३. (दैव) अनुकूल होना ।

भरभरा - अव्य दे 'भराभर' ।  
भरभराट - छी वरकत; समृद्धि, उत्कर्ष, श्रीवृद्धि, वैभव ।  
भरभरि(री)त - वि मोटा; दरदरा ।

भरम - पु दे 'भ्रम' ।  
-साट - दे क्रम मे ।

भरमसाट - वि १ बहुत, वेहद । २ वहकी वहकी (वाते) । - अव्य. चाहे जैसा, अवाधुव ।

भरला-भरला - वि १ प्रति-ष्ठित, हसियत वाला । २ भरा हुआ, भरा-भरा, भरा-पूरा, आवाद । ३. मासल, मोटा ।

भरली-सवरलेली - वि छी

गर्भिणी, (वह स्त्री) जिसके प्रसव के दिन निकट आवे हो ।

भरलें - वि न भरा हुआ ।  
- कुकू - न सुहाग; नीभाग्य ।  
- घर - वि वालवच्चो और सुव-मपत्ति मे भरा-पूरा परिवार ।

भरलेला - वि भरा हुआ, पूरा ।  
भरल्या - वि भरे हुए ।  
- ओटीनें - अव्य. वालवच्चो के माथ, मकुशल । - पायीं - अव्य १ वाहर मे आने पर बिना पांव घोये । २ भरपेट खा लेने के बाद, सब सुखमुविघाएँ रहने पर । मु० - कुंकवानें जाणें - पति के जीवित रहते मर जाना ।

भरवणें, भरवसा - दे 'भर-विणे', 'भरवमा' ।

भरविणें - क्रि स. १. भर-वाना । २ खिलाना । ३ उक-साना, उभाडना । ४ (सभा) बुलाना; आयोजित करना, करना ।

भरविलेली - वि छी (द्वारा) बुलायी गयी, आयोजित ।

भराभर-रा, भरार-रां - दे. 'भरभर' ।

भरारी - छी १ उडान, उड्डयन, परवाज । २ झपट्टा, झपाटा, लपक । - पु. राघोवा-दादा पेशवा । मु० - सारणें - १ उडना, उड्डयन करना, उडान भरना । २ झपटना, लप-कना, झपट्टा मारना । [चोखा ।

भरीत - न भरता, भुर्ता,  
भरीव - वि १ भरा हुआ, लदा हुआ । २ ठोस, ठस; गाढा; घना; गुजान । ३ गूदेदार ।

भरेकरी<sup>+</sup> - पु. कपडा वेचने वाला फेरी वाला ।

भरोभर - दे 'भर-उभर' ।  
भरोभरी, भरोभरीनें - अव्य.

पूरा माप भर कर, पूरी तरह, भरपूर ।

भरोसा - दे 'भरवसा' ।  
भलता - वि १. दूमरा; गलत, अन्य । २ असगत, अप्र-स्तुत; वेहदा । ३ अजीव, विचित्र । ४ कोई भी, कैसा भी । ५ बहुत, बडा । - सलता - वि १ ऐरागंग; चाहे जैसा; कोई भी । २ अप्रस्तुत, वेहदा ।

भलतीकडे - अव्य गलत मार्ग पर; उलटी दिशा मे ।

भलतेंच - अव्य. वि १ ऊट-पटाग, गलत । २ अजीव, विचित्र ।

भलभलता - वि उलटा-सीधा, गलत, ऊटपटाग । - अव्य. कई प्रकारो से; चाहे जैसे ।

भलरी - छी १ सामुदायिक रूप में कोई मेहनत का काम करते, समय बोलने का गवद, गीत, पुकार आदि (उदा० 'भले रे दादा ! भले रे भाई !') २ दौडधूप, परिश्रम । ३ चापलूसी ।

भला - वि [हिं] १ भला, अच्छा । २ नेक, सज्जन, शरीफ ३ बढ़िया, समुचित । ४ बडा, बहुत । - बुरा - वि भला-बुरा, अच्छा और बुरा, मल्ल-सुल्ल ।

भलाई - छी [हिं] १ भलाई, भलापन, अच्छाई, सज्जनता, नेकी । २ कीर्ति, यश ।

भलामण, भलावण, भलावणी-छी सिफारिश, प्रशंसा, अनुशंसा, अनुरोध । [रिशनामा ।

भलावणपत्र - न सिफा-भलें - न [हिं] 'भला' भला, भलाई, खैरियत, कल्याण, हित, उपकार । अव्य. दे 'भलें' ।

भले - अव्य. भले, वाह, क्या खूब, वाह जी ! - शाबास -

अव्य वाह जी, कमाल किया, घन्य हो महाराज ।

मलोबा - पु. भला आदमी (प्यार से कहने का शब्द) ।

भल्या माणसा - अव्य. भले आदमी । भले मानस ।

भल्लातक - पु. भल्लातक, भिलावां (पेड और फल-बीज) ।

भवई - दे. 'भवई' ।

भवड, भवडणे - द 'भोवड, 'भोवडणें' ।

भव - पु. १ भव, ससार । २ शकर । ३ जन्म, उत्पत्ति । - डोह-हो - पु. ससाररूप दह ।

भवता, भवतालचा, भवतालीं दे. 'भवता', 'भवतालचा', 'भवताली' ।

भवति न भवति - स्त्री बहस-मुवाहिमा, चर्चा, ऊहापोह, उधेड-बुन । [ 'भवते' ]

भवतीं, भवतें - दे 'भवती', भवन - न १. भवन, घर, मकान । २ क्षेत्र, स्थान ।

भवरा-री - दे 'भवरा-री' ।

भवानी - स्त्री १. भवानी, पार्वती । २ दे 'बोहणी' । ३ दे 'ढालगज भवानी' ।

भवितव्य - न , भवितव्यता - स्त्री भविष्य, भवितव्यता, होनी, भावी; होनहार (अवश्यमेव घटित होने वाली घटना, वात आदि) ।

भविष्य - न १ भविष्य की वात, भविष्यकथन, ज्योतिष, पेशीन-गोई । २ भविष्य, आने वाला काल । ३ होनी, भावी ।

-वि भविष्य, भावी, होनेवाला । -काळ - पु. भविष्यकाल, भविष्यत्काल (व्या) । -वादी-वि भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वादी, फलित ज्योतिषी । मु० - पाहणें-

भविष्य देखना, फलितज्योतिष देखना । -वर्तविणे; -सागणे-भविष्यकथन, पेशीनगोई करना ।

भव्य - वि भव्य, विशाल, बडा, आलीशान, शानदार । -न कल्याण, हित । [तेजी से ।

भसकन - अव्य झट से,

भसकापुरी - स्त्री १ खराब, घटिया तबाकू । २ दरदरी, रद्दी नास, सुंधनी । ३ लाल मिर्च की बुकनी । ३ घटिया चीज ।

भसभशीत - वि १ हलका, घटिया । २ भुरभुरा ।

भसभस-सा - अव्य १ घूल उडाते हुए । २ घसक कर । ३ झट से, जल्दी-जल्दी, बडी मात्रा में । [लापरवाह ।

भसभोगळ - वि ढीला-ढाला,

भसाडा - वि १ वेढव, वसुरा, कर्कश, खुरदरा, कर्ण-कटु । २ टेढामेढा । ३ भस्सड, मोटा, वेडील (मनुष्य) ।

भसाभस - सां - अव्य १ घसकते हुए घसमसाते हुए । २ बडी मात्रा में, तेजी से ।

भस्म - न १ भस्म; भभूत; पवित्र राख । २ कुश्ता (दवा के काम के लिए फूँकी हुई धातु आदि) । -क रोग, -रोग -पु. भस्मक (रोग), एक रोग जिसमें में जो कुछ खाया जाय तुरत पचा जैसा ज्ञात होता है (लेकिन पचता नहीं) और रोगी को तेज भूख लगी रहती है ।

भस्मासुर-पु. भस्मासुर (दैत्य) । -वि १ ध्वंसकारी । २ बडा पेटू । दे 'भस्म्या' ।

भस्म्या - वि भस्मक रोग का रोगी । -दे 'भस्मासुर', 'भस्म-रोग' ।

भळभळ-ळा- अव्य तेजी से, वेग से, बडी मात्रा में । मु० - वाहाणे - १ फौबारा छूटना, धारा बह, फूट निकलना । २ झडी लगना ।

भांग - पु. भांग (वालो को सँवार कर बनायी हुई रेखा) । -टिळा-पु., -पट्टी - स्त्री भांग-पट्टी, भांग-चोटी, बनाव-सिगार । मु० - पाडणें - पट्टी जमाना, पाटी पारना ।

भांग - स्त्री १ भांग, मग (गाँजे की जाति का एक पौधा जिसकी पत्तियाँ नशा पैदा करती है) । २ भांग की पत्तियाँ । ३ भांग की पत्तियों को घोटकर बनाया हुआ पेय । भांगेंत तुळस, भांगेमध्ये तुळस - भांग के खेत में तुलसी का पौधा, बुरे, कुस-स्कारी परिवार में अच्छे, सदाचारी व्यक्ति का पैदा होना ।

भागणी<sup>+</sup> - स्त्री १ विभाजन, बँटवारा । २ खेत में रखी पगडडी ।

भागलणी - स्त्री निराई (निराने की क्रिया या उजरत) ।

भागलणे - क्रि स. निराना (पौधों की बढ़ती को रोकने वाली अनावश्यक घास, तृण आदि को खुरपी से खोद कर दूर करना) ।

भाचोद - वि [हिं 'बहन' + 'चोद'] (भा) एक गाली ।

भाजणी - स्त्री १ श्रेढी (सख्या आदि की नियमित वृद्धि या ह्रास) (ग) । २ विभाजन, बँटवारा ।

भाड - पु. १ भाँड, मस-खरा । २ झगडा लगाने वाला । -वि निर्लज्ज, वेशर्म ।

भाड - न दे 'भाडें' ।

भाड, भाडकुदळ, भांडखोर -

- वि झगडालू, फसादी।

भाङण - न झगडा, तकरार, वखेडा, फसाद; कलह, टटा।  
- लावणारा - वि लुतरा, झगडा लगाने वाला। - उफरून काढणें - झगडा खडा करना, झगडा मोल लेना। - उमें राहाणें - झगडा शुरू होना। - लावणें - झगडा लगाना, आग बोना।

भाङणें - क्रि अ १ झगडना, झगडा करना। २ लडना, युद्ध करना।

भाङवल - न १ मूलवन, पूंजी, सरमाया, लागत (किसी व्यवसाय में लगाया हुआ धन)। २ संचित धन, रुपया-पैसा, द्रव्य। ३ जननेन्द्रिय, लिंगेन्द्रिय। ४ किसी विषय का ज्ञान, जानकारी, विद्यावृद्धि। - दार - वि पु १ पूंजीपति, सरमाया-दार। २ कारखानेदार; धनी व्यक्ति। - वादी - वि पूंजीवादी, पूंजीवाद का समर्थक। - वाला - दे 'भाङवलदार'। - शाही - छी पूंजीवाद, सरमायादारी। मु० - वाहेर पडणे - भडा फूटना, भेद खुलना।

भाङाभाङ - डी - छी लडाई - झगडा, चखचख, कहासुनी।

भाङार-पु १ भाङार; भङार। २ भाङागार; गोदाम। ३ खजाना।

भाङिक, भांडीर - पु भाङिक (गाने-वजाने वालों की एक जाति)।

भाङीकुडी - दे 'भाङे' में।

भाङें - न १ भांडा, वरतन। २. तोप। ३ नदी का पेटा, भाङ,। ४ प्रसव के बाद या किसी बीमारी

के कारण बाहर निकलने वाला (पशु की) जननेन्द्रिय का भाग। ५ नगाडा। भाङीं-कुडीं - न बहु भांडा-वरतन, सामान-असवाव। मु०- डागणें - तोप दागना। - पडणे - दे 'भाङें वाहेर येणे'। - फुटणें - १ भडा फूटना, भेद खुलना। २ वेइज्जती होना। - वाहेर येणें - प्रसव के बाद पशु की जननेन्द्रिय का कुछ भाग बाहर आ जाना। भाङ्यास भाङें लागणें - पडोसी के साथ या आपस में मत-भेद, झगडा होना।

भावावणे - क्रि अ सिट-पिटाना, हकवकाना, चकरा जाना।

भाऊ - पु १ भाई, भ्राता, विरादर। २ सहयोगी। ३ आदर-सूचक उपपद (उदा० हरिभाऊ)। ४ सदाशिवराव पेशवा। - गर्दी-छी १ भम्मड, भीड-भडक्का, धक्कम-धक्का। २ घमसान, घमसान की लडाई, घोर युद्ध। - जी - पु १ वहनोई। २ पति का भाई, देवर, जेठ। ३ पति का मित्र। - वद - पु भाई-वद, भाई-विरादर, ज्ञातिजन, रिश्तेदार। - वदकी, - वदी - छी १ भाई-भाई का वैर, सानाजगी, गृहयुद्ध, अत कलह। २ भाई-चारा; वधुत्व। - बीज - छी भाईदूज, भैयादूज।

भाओजी - दे 'भाऊजी'।

भाक - छी १ वचन, विश्वास, आश्वासन। २ सौगद, कसम। ३ कौल व करार, परस्पर-प्रतिज्ञा, इकरार।

भाकड - वि १ ठाँठ, सूखी (गाय, भैंस)। २ खाली, निरर्थक, बेकार। ३ बेफायदा। -

कथा - छी १ उपकहानी। २. बेकार की बात; रामकहानी।

भाकणूक - छी १ ईश्वर से मिला उत्तर। २ भविष्य-कथन। ३ शकुन।

भाकणें - क्रि स १ भविष्य-कथन, पेशीनगोई करना। २ कहना, मांगना, गिडगिडाना।

भाकर + - छी रोटी, दे 'भाकरी'। - काला - पु रोटी के साथ दूध, साग आदि मिला कर बनाया हुआ मिश्रण, दूधरोटी। - खाऊ - वि रोटी खाने वाला, शारीरिक परिश्रम करने वाला, किमान, मजदूर। - तुकडा - पु साधारण भोजन; रूखा-सूखा अन्न, सूखी रोटी। - बडव्या - वि रसोइया (व्यग्य)। - - मोडचा - वि १ दे 'भाकर-खाऊ'। २ टुकडखोर, टुकड-तोड।

भाकरी - छी १. रोटी (ज्वार, बाजरी आदि की)। २ पानी पर ठीकरी चलाने का, छिछिली का खेल। दे 'भाकर'। - चा खेळ - पु (जलभर) छिछिली का खेल, 'डक ऐड ड्रेक'। - ची चाकरी - छी पेट के लिए की जाने वाली नौकरी। मु० लष्करच्या भाकच्या भाजणे - नाहक का झझट मोल लेना, आ वला, मेरे गले पड।

भाकित, भाकीत - न १. भविष्यकथन। २ अदाजा। मु० - करणे, - वर्तविणे - भविष्यकथन; पेशीनगोई, भविष्यवाणी करना।

भाग \* - न भाग; भाग्य, तकदीर। मु० भागास येणे किस्मत मे वदा होना।

भाग - पु १ थकावट। २ चेष्टा, प्रयत्न, दौड-धूप।

भाग - पु १ भाग, हिस्सा, अंश। २ वँटवारा। ३ भाग, तकसीम [ग०]। ४ कर, मह-सूल। ५. अंश, 'शेयर'। ६. प्रयोजन। ७ कर्तव्य। - भाङ्गवल - न अंश-पूँजी, 'शेयर-कैपिटल'। मु० - अक्षणे - आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य होना। - घेणे - भाग लेना, शरीक, शामिल होना। - तुटणें - १ निशेष भागफल प्राप्त होना। २ किसी मामले का निपटारा होना। - पडणे - अनिवार्य होना, मजबूर होना। - पाडणे - विवश, मजबूर करना। भागानें करणे - बटाई से खेती करना।

भागणे - क्रि अ १ थक जाना। २ ऊत्र जाना। ३ गुजर होना, चलना, पूरा होना। ४ (कर्ज) चुकाना, पटना; वेवाक होना।

भागणे - क्रि स भाग देना, तकसीम करना (ग०)।

भागवणें - दे 'भागविणे'।

भागवत - पु १ भागवत; भगवद्भक्त, विष्णुभक्त। २ वैष्णव। - न भागवत (अठारह पुराणों में से एक)। - धर्म - पु भिक्तमार्ग।

भागविणे - क्रि स १ चलाना, गुजारा करना। २ चुकाना; चुकता करना। ३ थकाना।

भागकार - पु १ भाग, तकसीम। २ भागफल, लब्धि (ग०)। [ (शहर)।

भागानगर - न हैदराबाद

भागी - छी भाग, हिस्सा; साझा। पु दे० 'भागीदार'। - वार - पु साझेदार, भागी,

हिस्सेदार, साझी। - दारी - छी, साझा, शिरकत, हिस्सेदारी, पत्नी।

भागुबाई, भागूदाई - छी वि कायर, डरपोक, भागू, भगोडा। भागेली - पु दे० 'भागीदार'।

भाग्य - न १ भाग्य, नसीब, तकदीर, किस्मत, अदृष्ट। २ ऐश्वर्य, वैभव, सौभाग्य। - रेखा - छी भाग्यलिपि; अदृष्ट-रेखा, तकदीर की लिखावट। - वत, - चान्, - शाली - भाग्यवान्, भाग्यशाली, खुशकिस्मत। मु० - उदयास यणें, - खुलणें, - फळणें - तकदीर, भाग खुलना, जागना, भाग्योदय होना। - फुटणें - भाग फूटना, बुरे दिन आना।

भाग्योदय - पु भाग्योदय, भाग्य का खुलना, जागना।

भाचा - पु भानजा, भाजा।

भाची - छी भानजी, भाजी।

भाचे जावई - पु भानजी का पति। [पत्नी।

भाचे सून - छी भानजे की

भाजक - पु भाजक, विभाजक (ग०)।

भाजका - की - के - वि १ भूना हुआ, भुना हुआ। २ जलाया हुआ, फूँका हुआ। ३ सेका हुआ।

भाजणावळ - छी पकाई, कसेने, फूँकने, पकाने की उजरत।

भाजणी - छी १ मिस्सा (कई तरह की दालों को एक साथ पीस कर बनाया हुआ आटा)। २ पकाई, पकाने, फूँकने, जलाने की क्रिया। ३ दे० 'भाजणी'।

भाजणूक - छी यत्रणा, सताना, पीडा।

भाजणें - क्रि स १ भूना,

जलाना, सेकना। २. (चूना इ) फूँकना। ३ (मातीची भाडी, विटा) पकाना। ४ सताना। - क्रि अ जलना, झुलसना, दाक्षना।

भाजलेला - वि १ भुना हुआ। २ फूँका हुआ (चूना आदि)। ३ पकाया हुआ (ईंट आदि)।

भाजाणी - दे० 'भाजणी'।

भाजी - छी १ भाजी, साग, सब्जी, शाक, तरकारी। २ तुच्छ, झुद्र वस्तु। ३ खराबी, बरबादी। - पाला - पु सागसब्जी, सागपात, सागभाजी। - बाजार - पु सब्जीमंडी। - भाकर - छी सागपात, रूखा-सूखा भोजन। - चाला - पु कुँजडा। - चाली - छी कुँजडिन। मु० - करणें - मटियामेट करना, खराब या बरबाद करना। परसातली भाजी समजणें सागपात समझना, हकीर, तुच्छ समझना।

भाट - पु १ भाट, वदी, वदी, चारण। २ स्तुतिपाठक। ३ झूठी बडाई करने वाला, चापलूस।

भाट - छी १ भाट, भाटे के समय समुद्र या नदी में दिखाई देने वाला भीटा। २ गन्ने का खेत।

भाट - न नारियल का वाग। - फार - पु जमीनदार, नारियल के वाग का मालिक।

भाटी - छी १ विल्ली। २ दे 'भाट' छी।

भाट्या - पु भाटिया, गुजरातियों की एक जाति या उस जाति का व्यक्ति।

भाड - छी अपनी पत्नी, बहिन आदि से व्यभिचार करवा कर कमाया हुआ धन, बेइया की कमाई, व्यभिचार की दलाली।



- खाऊ - वि (ग्रा०) अपने घर की स्त्रियो से वेद्याकर्म करा कर जीने वाला भडुआ, एक गाली।

भाड-न भाड, भडभूँजे की भट्ठी।

भाडळीमत - न सहदेव की पत्नी भाडली का फलज्योतिष का तरीका।

भाडें - न १ भाडा, किराया। २ सवारी, माल (जो किराया ले कर पहुँचा दिया जाय)। - करी, - करू - पु १ किरायेदार। २ भाडे का टट्टू। - चिट्ठी - छी सरखत, किरायानामा। - तोडें - न किराया आदि। - पट्टा - पु पट्टा, सनद (किमी स्थावर संपत्ति के उपयोग का अधिकारपत्र)।

भाडोतरी, भाडोत्री - वि १ किराये का, भाडे का। २ भाडे का टट्टू। - पु दे 'भाडेकरू'।

भात - न धान। - पु भात; उवाला हुआ चावल। - फण - पु, - कूट - न चावल में पडा हुआ धान, अनकूटा चावल। - खाऊ - वि १ भात खाने वाला। २. सफेद पोश। ३ वेकार, निठल्ला। - गोटा - पु दे 'भातकण' -। जमीन - छी, - शेत न, - शेती छी धान का खेत, धान की खेती।

भातण - दे 'भात्याण'।

भातवडा - पु ज्वार की सूजी या दलिये को उवाल कर और घूप में सुखा कर बनाया हुआ पपडी जैसा खाद्य पदार्थ।

भाता - पु १ (वाणाचा) भाथा, तरकश, तूणीर (तीर रखने की थैली)। २ (लोहाराचा) भाथी, धौकनी।

भातुकली - छी १ वच्चो का

खेल। २ वच्चो को खेलने के लिए दी हुई मिठाई आदि।

भातेण, भात्याण - न पुआल, पयाल (पके हुए धान के वे डठल जिनसे दाने अलग कर लिये गये हो)।

भादरणी - छी १ हजामत। २ वाल काटना (भैन, भेड आदि के)।

भादरणे - क्रि स १. वाल काटना (भैन, भेड आदि के)। २ हजामत बनाना, मूँडना। ३ आडे हाथो लेना। [जमाना।

भादवड - छी भाद्रपद का भादवा - पु भादो; भाद्रपद (महीना)। [ (वैल)।

भादा-द्या<sup>+</sup> - वि वधिया भाद्रपद - पु भाद्रपद, भादो (महीना)।

भान - न १. भान, ज्ञान, प्रतीति। २ ध्यान, खयाल, होश। ३ स्मरण, चेत, खबर, सुध, याद। मु० - विसरणें, - हरणें - सुव विसरना, सुव-वुध खोना, न रहना, होश न रहना, तल्लीन हो जाना। भानावर घेणें - होश में आना, सँभलना।

भानगड - छी १ झझट, झमेला, घोटाला, घपला, गोलमाल, गडवड। २ मामला, माजरा। [घपलेवाज।

भानगड्या - वि गडवडिया, भानामती - छी १ भान-मती, जादूगरनी। २ जादूगरी, इद्रजाल। [सादा, भोला-भाला।

भावडा - वि भोला, सीधा-भामटा-ट्या - वि १ उचवका, उठाईगीरा, चाई। २ शुहुदा, गुडा, वदमाश। ३ चालाक, चट, काँइयाँ। ४ एक

जरायम पेशा जाति, उस जाति का व्यक्ति। [का, पूरे भार का।

भारभार - वि उतने ही वजन भारग-गी - छी भाग्गी (एक पौधा जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती हैं)।

भार - पु १ भार, बोझ। २ वजन, तोल। ३ दायित्व, जिम्मेदारी। ४ कठिन कार्य। ५ १ तोले का वजन, तोला। ६ गुस्त्व, भारीपन। ७ समार, समूह। ८ वहार। - वि भारी, कठिन। - दस्त - वि भारी, वजनदार, वडा; प्रौढ; प्रतिष्ठित। - भूत - वि भारभूत, बोझरूप, कष्टप्रद। - वाहक - वि भार-वाहक, मोटिया, बोझ टोने वाला, मजदूर, कुली। मु० - उचलणे - बोझ, भार उठाना, दायित्व ग्रहण करना।

भारणें - क्रि स १ अभिभूत करना, प्रभाव डालना। २ जादू डालना ३ लुभाना, मोह लेना। - क्रि अ १ भारी होना। २. अभिभूत होना।

भारत - पु भारत, भारत-वर्ष, हिंद, हिंदुस्तान। - न १. महाभारत। २ तूमार, राम-कहानी। ३ वडा काड।

भारद्वाज - पु १. भारद्वाज (ऋषि)। २ भरदूल (पक्षी)।

भारशिग - न सांभर का सीग।

भारा - पु १ भार, बोझ, गठ्ठर। २ पूला, मुट्ठा। - भर-वि १ बहुत-सारा। २ निकम्मा, वेकार का।

भारावणें - क्रि अ. १ भारी, बोझल होना। २ सुन्न होना। ३. प्रभावित, अभिभूत होना।

भारावलेला - वि प्रभावित, अभिभूत ।

भारी - वि १. भारी, बोझिल, वजनदार, बोझिल । २ बहुत बड़ा, ज्यादा । ३ कीमती; मूल्यवान् । ४. शक्तिशाली, अधिक बलवान् ।

भारूड - न १ तूमार, छोटी बात को वेकार बहुत बड़ा देना; रामकहानी । २ कूट प्रश्नों, पहेलियों, बुझौवलो आदि के द्वारा किया गया आध्यात्मिक विवेचन या उपदेश । ३ जी को उवा देने वाली बातें ।

भार्या - स्त्री भार्या, विवाहिता स्त्री, पत्नी, जोरू ।

भाल - न भाल; माथा, ललाट, पेशानी ।

भाल - स्त्री १ भाल; गांसी (भाला, बाण आदि का फल) । २ शपथ ।

भालदार - पु [ हिं 'भाला-वरदार' ] छडिया, चोवदार, वेत्रधारक, छडी - वरदार, असा-वरदार । [ नेजा ।

भाला - पु भाला, वरछा,

भाला - पु गोडवांस (द्रुहते समय पशु के पाँव में बाँधने की रस्ती) ।

भालाईत, भालेकरी - पु भाला-वरदार; वरछैत ।

भावड - न भाई - वहन । [ बहु० भावडें = भाई - वहनें ]

भाव - पु १ भाव, दर, निर्ल । २ दाम, कीमत । मु० - खाणे - इतराना; अकडना; घमड करना । - चढणे, - येणें - १. महत्त्व बढ जाना । २ घमडी बनना ।

भाव - पु १. भाव, भावना ।

२ श्रद्धा, भक्ति । ३ विचार, खयाल, हेतु । ४ स्वभाव । ५ भगी, अवस्था, रूप, दशा, हैसियत । ६. अभिप्राय, मतलब । ७ ढग, प्रकार । ८ इच्छा । - वाचक नाम - न भाववाचक सज्ञा (व्या०) । मु० - पाहाणें - परीक्षा करना, परखना । कहा० भाव तसा देव - जो जिस मात्रा में ईश्वर की भक्ति करता है, उसी मात्रा में उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है ।

भावजय - स्त्री १ भावज, भौजाई, भाभी (बड़े भाई की स्त्री) । २ छोटे भाई की स्त्री ।

भावणें \* - क्रि स १ मानना, समझना । २ सोचना । ३ इच्छा, भावना रखना । - क्रि अ १ प्रिय, पसंद होना । २ अनु-कूल होना ।

भावना - स्त्री १ भावना; कल्पना, खयाल । २ श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति । ३ स्मरण । ४ अस्तित्व । - प्रधान - वि भावना-प्रधान, भावुक, भाविक, कोमल-चित्त, सहृदय ।

भावनात्मक - वि १ भावात्मक । २ निश्चयात्मक, सकारात्मक । - ऐक्य - न भावात्मक एकता ।

भाविक - वि १ श्रद्धालु, निष्ठावान्, श्रद्धावान्, विश्वासी । २ भावुक ।

भावी - वि १ भावी, आगामी, होनेवाला । २ भविष्यत् । - स्त्री १ भावी, होनी, होनहार । २ भविष्य ।

भावीक - दे 'भाविक' ।

भावीण - स्त्री १ देवदासी । २ वेश्या । [ २ देवर, जेठ ।

भावोजी - पु १ वहनोई ।

भाषक - पु भाषक; भाषी; कहने, बोलने वाला ।

भाषण - न १. भाषण, बोलना, कथन, बातचीत । २ वक्तृता, व्याख्यान, तकरीर । - बदी - स्त्री वक्तृता पर लगी पावदी, भाषण करने की मनाही । मु० - करणें - १ बोलना, बात करना । २ भाषण देना । - देणें - भाषण देना, व्याख्यान देना, तकरीर करना ।

भाषातर - न भाषातर, अनुवाद, तर्जुमा, उलथा । - कर्ता, - कार - पु भाषातरकार, अनुवादक ।

भाषातरित - वि अनूदित, जिसका तर्जुमा हुआ हो ।

भाषा - स्त्री १ भाषा; बोली, जवान । २ परिभाषा, व्याख्या । - वार - वि भाषाई, भाषिक । - शास्त्र - न भाषाशास्त्र, भाषा-विज्ञान । - शास्त्रज्ञ - पु. भाषा-विद्, भाषाविज्ञानी, बहुभाषा कोविद ।

भाषिक - वि १ भाषिक । २ भाषक, भाषी, भाषा - भाषी ।

भाष्य - न १ भाष्य, सूत्र या मूल ग्रंथ की व्याख्या, विवृत्ती । २ स्पष्टीकरण; विवरण ।

भास - पु. १ आभास, प्रतीति, झलक । २ मिथ्या प्रतीति, भ्रम, भ्राति । ३ खयाल । ४ समानता । मु० - होणे - लगना, जान पडना, महसूस होना ।

भासणे - क्रि अ १ प्रतीति होना, लगना, महसूस होना । २ धोखा होना ।

भासमान - वि भासमान, जान पडता हुआ, दिखाई देता हुआ ।

भाळ - न १. भाल, माथा,

पेशानी । २ भाग्य । मु० भाळीं लिहिणें, लिहिल्लें असणें - भाग्य में लिखा होना, किस्मत में बदा होना ।

भाळणे - क्रि अ रीझना; मोहित, मुग्ध होना, आशिक होना ।

भिग - न १ गीशा, कांच । २ आईना । ३ अन्नक, अवरक । ४ गीशे का टुकडा ।

भिगरी, भिगोरी - स्त्री १ गिरगिरी, चकई (खिलौना) । २ भीरा । ३ तकली । ४ भिग, विलनी (कीडा) । मु० पायाला, पायावर भिगरी असणें - पांवों में चक्कर होना, हमेशा घूमते रहना ।

भिडी - स्त्री गुल्ले । दे 'भेडी' ।

भिडोळें - दे 'भेडोळे' ।

भित - स्त्री भित्ति, भीत, दीवार, दीवाल ।

भिताड - न १ टेढी - मेढी, वेढगी दीवार । २ अहाते, किले आदि की खुली दीवार ।

भिवई - स्त्री भौं, भौंह । मु० भिवया मोडणें - आँवें मचकाना, आँख मारना, आँखों से इशारा, संकेत करना ।

भिकवाळी - दे 'भीकवाळी' ।

भिकार - वि १ भिखारी; कगाल । २ रद्दी, वेकार, खराब । - न भिखारियों का झुड । - चाळा - पु वुरी, खराब आदत । - चोट; - चोट - वि (ग्रा) १ नालायक, निकम्मा । २ कगाल, भिखमगा । - डा - रद्दी, वेकार, दे 'भिकार' ।

भिकारी - पु भिखारी, भिक्षुक, भिखमगा । - वि १. कगाल, अकिंचन । २ रद्दी, खराब ।

भिकेचे डोहळे - दे 'भीक' में ।

भिक्षा - स्त्री १ भिक्षा,

भीख, माँगना, याचना । २ भीख के तौर पर दिया जाने वाला धन आदि । ३ भिक्ष, सन्यासी को भोजनार्थ दिया जाने वाला (सिद्ध) अन्न । - पात्र - न भिक्षापात्र, कपाल, कजकोल । - बळ - दे. क्रम में । - वृत्ति - स्त्री १ भिक्षा-वृत्ति, भिखमगापन । २ भीख माँग कर गुजारा करना; भिखारी का जीवन ।

भिक्षाटण - न भिक्षाटन, भीख भीख माँगने के लिए फिरना ।

भिक्षु - पु भिक्षु; सन्यासी, वीढ सन्यासी ।

भिक्षुक - पु १ पुरोहित, पडा; उपाध्याय । २. भिक्षुक, भिखारी । [ पुरोहिती ।

भिक्षुकी - स्त्री पुरोहिताई,

भिक्षेकरी - पु भिखारी ।

भिजकट, भिजका, भिजट - वि गीला, भीगा हुआ, तर ।

भिजणे - क्रि अ भीगना, भीगना, तर, गीला होना । - भिजत घोगडें - न खटाई में पडा हुआ काम, मामला; अनिर्णीत, अनिश्चित रूप में पडा हुआ काम ।

भिज पाऊस - पु जमीन को अच्छी तरह तर बनाने वाली वर्षा, लगातार चलने वाली धीमी बारिश ।

भिजविणे - क्रि स १. भिगाना, भिगोना, तर करना । २. रिश्त देना ।

भिडणे - क्रि अ १ भिडना; सटना, लगना । २. सिमटना, चिमटना, लिपटना । ३ टकराना; लडना, गुथना ।

भिडलेला - वि सटा हुआ, लगा हुआ; मिला हुआ, जुडा हुआ ।

भिडविणे - क्रि स १. सटना, लगाना । २. भिडाना, लडाना । ३ लपटना, लिपटाना, चिमटना । ४ भोकना ।

भिडस्त - वि लज्जालु, शर्मीला, झेंपू, मकोची, तक-लुत्फ करने वाला ।

भिडू - पु गुड्याँ, पिट्टू, खेल का साथी, साथी । २ सहायक । मु० - वाटून घेणें - खेल के साथी चुनना ।

भिणभिण, भिणभिणणे - दे 'भणभण', 'भणभणणे' ।

भिणें - क्रि अ डरना, सह-मना, भय खाना, भीत होना, खौफ करना, सशक होना । कहा० भित्यापाठीं ब्रह्मराक्षस - डरा सो मरा, जो डरता है उसीको सब डराते हैं, डरपोक को हमेशा डर लगा रहता है ।

भितरा, भित्रा - वि डरपोक, कायर, वुजदिल, भीर ।

भित्रेपणा - पु भीरता, वुज-दिली, कायरता ।

भिनणें - क्रि अ १ भिदना, घुमना, पैवस्त होना । २ अदर जा कर फैल जाना, समा जाना । ३ सनना, पगना, सोखना । ४. अकित होना, असर, प्रभाव डालना ।

भिन - वि १. भिन्न, अलग, जुदा । २ छिन्न, खडित । ३ अन्य, दूसरा । ४ पृथक्, विभक्त, विभाजित ।

भिमयडी - स्त्री भीमा नदी के किनारे का प्रदेश । - वि इस प्रदेश का (घोडा आदि) ।

भिरकावणे, भिरकाविणें - क्रि स १. जोर से घुमा कर फेंकना, झोकना, झटके के साथ फेंकना ।

२ उतार डालना । ३ दे मारना ।

भिरकें - न छकडा, सगड, एक या दोन व्यक्तियों के बैठने की वैलगाडी या घोडागाडी ।

भिरभिर - अव्य १ चकराकर, चक्कर खाते हुए । २ टुकुर-टुकुर । मु० पाहाणें - चकपका कर देखना, भौंचक हो कर देखना । -हिंडणें - जूतियाँ चटकाते फिरना, आवारागर्दी करना ।

भिरभिरणें - क्रि अ १ थरना, कांपना, भरभराना । २ दे 'भण-भणणे' । ३ चकराना ।

भिरभिरी छी १ चक्कर, गश, मूच्छा । २ झटका, गुस्सा । भिरभिरें - न गिरगिरी (खिलौना) ।

भिलावा - पु. भिलावाँ, भल्ला-तक । मु० - घालणें - १. रोडे अटकाना । २ मनमूटाव पैदा करना ।

भिल्ल - पु. भील (एक जगली जाति और उस जाति का व्यक्ति) ।

भिल्लीण - छी भीलनी ।

भिवई - दे 'भिवई' ।

भिवविणें - क्रि स १ डराना । २ घमकाना ।

भिस्त - छी [फा 'विहिस्त'] आवार, दारोमदार, आसरा, सहारा ।

भिस्ती - पु. [हिं भिस्ती] भिस्ती, सक्का (मशक से पानी ढोने वाला) ।

भीक - छी १ भीख, भिक्षा, याचना । २ खैरात । ३ अभाव, कमी । - बाळी - छी दुरवचा, वाली, कनौती (एक मोती वाली वाली जिसे पुरुष अपने दाहिने कान में पहनते थे) । भिकेचे डोहळे पु बहु ऐमी आदते या इच्छाएँ

जिनसे दरिद्रता प्राप्त हो, बुरे लक्षण (मु० -० लागणें - दरिद्र बनने की इच्छा होना, बुरे लक्षण प्रकट होना ।) मु० - घालणे - १ परवाह करना । २ डरना, रोब में आना । - न घालणें - १ विलकुल तुच्छ समझना । २ ध्यान न देना । - लागणें - भीख माँगने की नौबत आना, कगाल बनना, अभावग्रस्त होना । कहा० भीक नको पण कुत्रा आवर - भीख मत दो, पर अपने कुत्ते को तो रोक लो, किसी काम को करते समय अचानक कोई बड़ी आफत आ जाती है तो उससे बचने के लिए आदमी उस काम को ही छोड़ने को तैयार होता है । भिकेची हडी शिक्कास चढत नाही - भीख की हँडिया छीकेपर नही चढती, गरीब आदमी अपनी आमदनी से कुछ बचा नहीं पाता ।

भोज - छी १ भोगना । २ भिगोया हुआ चना, मटर आदि । - पाऊस - दे० 'भिजपाऊस' ।

भीड - छी १ सकोच, तकल्लुफ, हिचक । २ मुरौवत, लिहाज, सौजन्य, आदर, प्रतिष्ठा । ३ आग्रह, दबाव । ४ शर्म, लज्जा । ५ डर । ६ प्रभाव, असर; रसूख । - भाड, -मर्यादा छी १ मुरौवत, लिहाज, मुलाहजा । २ परवाह । ३. सकोच । (मु० -० ठेवणें - लिहाज - मुलाहजा करना, रखना) मु० - खरचणें खर्च करणें, घालणें - दबाव डाल कर अनुरोध करना, स्नेह-प्रेम के बलपर मजबूर करना । - चेपणें - सकोच कम होना, परचना, हिल जाना । - घरणें - सकोच, तकल्लुफ करना, लिहाज-मुलाहजा

करना, रखना, आदर, सम्मान करना । - पडणें - प्रेम स्नेह का दबाव डाला जाना, अनुरोध के वश होना । - मोडणे - १ दे 'भीड चेपणे' । २ लिहाज न करना, घृष्ट बनना । भिडेस घालणें - किसीके मन में अपने प्रति स्नेह-आदरभाव से अनुचित लाभ उठा कर उसे किसी काम में घसीटना । कहा० भीड भिकेची वहीण - बहुत सकोच या तकल्लुफ करने से तकलीफ उठानी पडती है ।

भीति - छी भीति, १ डर, भय, खौफ । २ हील, दहशत, आतक । - दायक - वि डरावना, भयानक, हीलनाक, खौफनाक । मु० - बसणे - हील पैठना, व्रैठना, मन में दहशत समाना । - वाटणें - डर लगाना, खौफ खाना ।

भीम - पु १ भीम, भीमसेन । २ विशालकाय और पैटू आदमी । - वि १ भीम, डरावना । २ विशालकाय । - रात्र - छी भीमरथी (मनुष्य की आयु के ७७ वे वर्ष के ७ वे मास की ७ वी रात जिसे पार करना बहुत कठिन माना गया है) ।

भीरु - वि १ भीरु, डरने वाला । २ डरपोक, कायर ।

भीष्म - पु १ भीष्म (गंगा के गर्भ से उपन्न शतनु के पुत्र) । २ शूर, सत्यप्रतिज्ञ पुरुष । - प्रतिज्ञा - छी कठोर, घोर प्रतिज्ञा, वह प्रण जो कभी न टूटे ।

भुकणे - क्रि अ १ भूंकना, भूंकना (कुत्ते का भौं-भौ करना) । २ व्यर्थ बकना ।

भुगा - पु. भौंरा, भ्रमर । २ झझट, भुन-भुन । ३ भुनगा, छोटा कीडा । मु० - लाचणे -

लगातार मताना, भुनभुनाना ।

भुंडा - वि १ नगा, वूचा; जिसमें कोई गहना न हो, खाली । २ भुंडा (विना सीग, चोटी आदि का) । २ जिसके सीग मुड़े हुए हो ।

भुवई - दे 'भिवई' ।

भुई - स्त्री १ भूमि, जमीन । २ पृथ्वी, घरती । - आवळी - स्त्री १ भुईआँवला । २ पतालआँवला । - काला - पु जमीन को पोतने के लिए बनाया हुआ गोबर और पानी का मिश्रण । - कोट - पु मैदान में बना किला, गढी । - कोहळा - पु भुईकुम्हडा । - घर न तहखाना । - चाफा - पु भूमिचपक । - छत्री - स्त्री कुकुरमुत्ता । - नळा - पु अनार (आतिशवाजी) । - भाडें - न जमीन का किराया । - मूग - पु मूँगफली, चीनिया दादाम । - सपाटी - स्त्री भूमितल, जमीन की सतह । - सरपट - अव्य जमीन को छूते हुए, भूमि-के साथ साथ । मु० - वडविणें - तुहमत लगाना, मिथ्या आरोप लगाना । मु० पळता भुई थोडी होणें - भगदड भचना, सिर पर पांव रख कर भागना । अन्य मुहावरो के लिए देखो 'जमीन' ।

भुकटी-पी - स्त्री, भुका पु, भुकी - स्त्री वुकनी, सफूफ, चूरा, चूर्ण ।

भुका - वि भूखा ।

भुकी - वि कुछ कम खाने वाला । कहा० भुकी तो सुखी - जो आवश्यकता से कुछ कम खाता है वह स्वस्थ (सुखी) रहता है ।

भुकेकगाल, भुकेवगाल - नि भुक्खड, भूखा, अकालपीडित,

कगाल ।

भुकेजणे - क्रि अ भूखा होना, भूख लगना ।

भुकेला, भुकेलेश - वि १ भूखा, क्षुधित । २ बहुत उत्सुक, इच्छुक ।

भुक्कड - वि १ घटिया; रही, खराब । २ मामूली; क्षुद्र, तुच्छ । ३ भुक्खट, भूखा, कगाल । [वुकनी, मफूफ, चूर्ण ।

भुगराळा, भुगा - पु चूरा, भुजग - पु १ मुजग, साँप, नाग । २ जार । ३ दुष्ट, क्रूर आदमी । - प्रयात - न भुजग-प्रयात (एक वर्णवृत्त) ।

भुज - पु १ भुज, वाजू, वाहु । २ रेखा-गणित के किसी क्षेत्र की सीमा-रेखा, वाहु, त्रिभुज का आधार । - ज्या - स्त्री भुजज्या, भुजकी ज्या, 'साईन' । - पाश - पु भुजपाश, गलवाँही । - वळ - न भुजवल, वाहुवल ।

भुजा - स्त्री भुजा, वाहु, दे 'भुज' ।

भुणभुण - स्त्री १ भुनभुन, कुडन, भुनभुनाहट, झझट । २ तकाजा ।

भुताडकी - स्त्री १ भूतसृष्टि, भूतावेश से उत्पन्न भ्राति । २ भूत-पिशाच का प्रभाव, जादू, इद्रजाल, भूतसिद्धि । - चें घर - न भूतहा मकान, भूतखाना, भूताविष्ट मकान ।

भुतावळ - स्त्री १ भूत-पिशाचो का जमघट । २ भूत, प्रेत आदि । ३ गुडे, वदमाश, शरारती लोगो का गिरोह । [भूत-पिशाच ।

भूतें-खेते - न बहु भूत-प्रेत,

भुत्या - पु भवानी देवी का उपासक, भक्त ।

भुदगा - पु १ अधजला अन्न । २ जला हुआ वरतन । ३ दे 'भुगा' ।

भुपकार, भुभुकार - पु १ वदरो की आवाज । २ हनुमानजी का गर्जन ।

भुमका - स्त्री अफवाह, किव-दती, उडती खबर, गप्प ।

भुयार - न १ मुरग । २ गुफा, गुहा, खोह । ३ भुईँवरा, तहखाना । [मटमंला ।

भुरकट - वि भूरा, खाकी, भुरकणें - क्रि स मुडकना, चढाना, पी जाना । [झट से ।

भुरकन - अव्य तेजी से, भुरका - पु १ मुडक, मुडका, चुसकी । २. कश । [मटमंला ।

भुरका - वि भूरा, खाकी, भुरटा - वि १ क्षुद्र; हलका । २ उचक्का । - चोर - पु उचक्का, छोटी छोटी चोरियाँ करने वाला ।

भुरदड - दे 'भुदंड' ।

भुरभुर - (पावसाची) - स्त्री शीसी, फुहार ।

भुरभुर - अव्य १ धीरे-धीरे, हलके-हलके । २ तेजी से, झट से ।

भुरभुरणे - क्रि अ १ तेजी से जल उठना । २. हलके-हलके लहराना ।

भुरभुरि(री)त - वि १ भुरभुरा । २ हलका और सूखा । ६ तेजी से जल उठने वाला ।

भुरळ - स्त्री मोह, मोहिनी, जादू । मु० - घालणे, - पाडणें - लुभाना, मोह लेना, ढलना, फंसाना । [मंला ।

भुरा - वि भूरा, खाकी, मट-भुरी - स्त्री बाला, धुंध; (आँखों में आने वाली सफेद झिल्ली) ।

भुरभुर - दे 'भुरभुर' ।

भुदंड - पु. १ क्षतिपूर्ति; हर-  
जाना, डांड । २ ऐसी हानि जो  
नाहक उठानी पडी हो ।

भुर - स्त्री फुर । - कन -  
अव्य फुर से ।

भुलणें - क्रि अ. १ रीझना,  
मुग्ध, मोहित, आशिक, पागल  
होना । २ वेहोश होना । - क्रि  
स भूलना ।

भुलयाप - दे 'भूलयाप' ।

भुलविणे - क्रि स १ लुभाना,  
मोहित, मुग्ध करना, पागल  
वनाना । २ भुलाना, भुलवाना,  
भुलावे में डालना ।

भुलोबा - पु. विजूका, विजूखा ।

भुल्यो - अव्य खेल में अस्थायी  
स्थगन सूचित करने वाला शब्द ।

भुवई - दे 'भिवई' ।

भुवन - न १ भुवन, जगत्,  
लोक । २ स्थान, जगह । ३ घर,  
मकान, मंदिर । ४ नगर, शहर ।

भुशीर - न अतरीप । दे 'भू'  
में ।

भुसकट - न भूसा, भुरकुस,  
चूरा, वुकनी । मु० - काढणे - भुर-  
कुस निकालना, हैरान, परेशान  
करना, नाक में दम करना ।  
- निघणें, - पडणें - भुरकुस निक-  
लना, चूर-चूर होना, पीट कर  
भरता बना दिया जाना, हैरान,  
परेशान होना । - पाडणें - दे  
'भुसकट काढणें' ।

भुसभुशीत - वि १ पोला,  
भुरभुरा, फुसफुसा । २ थोथा,  
नि सार, खोखला, निकम्मा ।  
- जमीन - स्त्री घँसान ।

भुसा - पु. १ भूसा, भूस,  
भूसी । २ दे 'भुसकट' ।

भुसार - न १ परचून ( विच्री

के लिए रखी हुई आटा, चावल  
आदि भोजन की सामग्री ) । २  
अनाज का व्योपार ।

भुसारी - पु. परचूनी, पर-  
चूनिया, मोदी ।

भुस्ता - दे 'भुसा' ।

भुळकुडी, भुळकाडी - स्त्री ?  
चिरकना, पतले दस्त आना । २  
फटे बोरे, टूटे वरतन आदि से अनाज  
का धीरे-धीरे नीचे गिरना ।

भू - स्त्री भू, भूमि, धरती ।

- कप - पु भूकप, भूडोल, भू-

चाल, जलजला । - गर्भ - पु न

१ भूगर्भ, धरती का भीतरी भाग

२ दे 'भुयार' । - ० शास्त्र - न

भूगर्भशास्त्र, भूगर्भविद्या, भूतत्व-

विद्या, भूविज्ञान, भौमिकी । -

० शास्त्रज्ञ - पु भूतत्वविद्, भूवैज्ञा-

निक, भूविज्ञानविद् । - गोल - पु.

१ भूगोल, भूमडल । २ भूगोल-

शास्त्र । - दान - न भूदान,

भूमिदान । - देव - पु. भूदेव,

ब्राह्मण । - मडळ - न भूमडल,

पृथ्वी, ससार । - मध्यरेषा -

स्त्री भूमध्यरेखा, विषुवरेखा,

विषुवतरेखा, विषुवतवृत्त । -

मध्य समुद्र, - मध्य सागर - पु.

भूमध्यसागर । - मिति - स्त्री

ज्यामिति, रेखागणित । - वैकुठ

न पु पडरपूर आदि तीर्थस्थान ।

- शिर - न अतरीप ( भूमि का

नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक

चला गया हो ), रास । - स्तर

शास्त्र - न भूविज्ञान, भौमिकी,

दे 'भूगर्भशास्त्र' ।

भूक - स्त्री १ भूख, भुघा ।

२ इच्छा, कामना । - वळी -

पु. अकाल का शिकार, आहार के

अभाव में हुई मृत्यु । - लाडू - पु.

पाथेय; सबल । मु० - धरणें - १

भूख को दवाना, रोकना । २  
भूख का शमन होना । - मरणें -  
भूख मर जाना, क्षुधा का नष्ट हो  
जाना । - मारणें - भूख को दबा  
देना, पेट बाँधना । - हरपणें -  
पेट की खबर न रहना, सुष विस-  
रना । भुके मरणे - भूखो मरना ।  
फहा० भूकेला कोडा आणि  
निजेला धोंडा - भूख लगने पर  
भूमि भी अच्छी लगती है और  
नीद आने पर पत्थर भी विस्तर  
का काम देता है ।

भूत - न १ भूत, प्रेत,  
पिशाच । २. पचमहाभूतो में से  
कोई एक तत्त्व । ३ प्राणी । ४  
भूतकाल । - वि भूत, अतीत,  
वीता हुआ, गुजरा हुआ । - दया -  
स्त्री भूतदया (सपूर्ण प्राणियों के  
प्रति दयाभाव) । - वाधा - स्त्री  
भूतावेश, प्रेतवाधा, पिशाच-  
वाधा । - ० झालेला - वि  
भूताविष्ट । ( - ० होणे - भूत  
लगना, भूत सवार होना ) ।  
- वैद्य - पु. ओक्षा । मु० - काढणें  
- भूत-प्रेत झाडना । - लागणें -  
भूत लगना, प्रेतवाधा होना ।

भूमि - स्त्री १ भूमि, पृथ्वी,  
धरती, जमीन । दे 'भुई',  
'भू' । २ आभार । - फा -  
दे क्रम में । - गत - वि १  
भूमिगत, जमीन में गडा हुआ ।  
२ भूगर्भी, अतर्भू (रेल्वे) । ३.  
गुप्त, छिपा, छिपाया हुआ ।

भूमिका - स्त्री १ भूमिका,  
वक्तव्य विषय की पूर्वसूचना,  
प्रस्तावना । २ अभिनेता का पार्ट,  
भूमिका । ३. भूमि । ४. रगमच ।  
५. आधार ।

भूयसी - स्त्री भूयसी दक्षिणा  
(धर्म कृत्य के अंत में उपस्थित

ब्राह्मणो को दी जाने वाली दक्षिणा) ।

भूल - छी [हिं ] १ वेहोशी, मूर्च्छा, अचेतपन । २ वेहोशी की दवा, सम्मोहिनी, 'क्लोरोफार्म' । ३ मूल, गलती, चूक, भ्रम, दोष । - थाप - छी गप्प, झूठी आशा, भुलावा, बोखा । ( मु० - ० देणे - सब्ज वाग दिखाना, झूठी आशा दिखाना ) । - भुलैया - छी भूलभुलैया (त्रम में डालने वाली चक्कर-दार रचना) । मु० - ० - देणे - क्लोरोफार्म सुंघाना, अचेत, वेहोश करना ।

भूषण - न १ भूषण, गहना; जेवर । २ शोभाजनक वस्तु ।

भूषणावह - वि गौरवास्पद, शोभनीय, गोभा, जेवा देने वाला ।

भूषविणे - क्रि स भूषित करना, सजाना, गोभा प्रदान करना ।

भूस - न दे ' भुसा ' ।

भेकड - दे ' भेकड ' ।

भेकर - न हिरन की जाति का एक छोटा पशु ।

भेकाड - दे ' भोकाड ' ।

भेड - पु न १. ज्वार, वाजरे आदि का डठल, इम डठल के अदर का मुलायम और सफेद गूदा । २ जल्दी - जल्दी जलने वाली हलकी लकड़ी ।

भेडा - पु १ मकान बनाने के काम आने वाली मिट्टी की कच्ची ईंट, मिट्टी का ढेला । २ लकड़ी में लगने वाला एक कीड़ा, घुन ।

भेडाळणे - क्रि अ १ फूलना, मोटाताजा बनना । २ थक जाना, निढाल होना । [ ( तरकारी ) ] ।

भेडी - छी भिडी, रामतरोई भेडोळे - न लच्छा, गोला, अटी, पिडा, कुडल, (किसी वस्तु का) वेल्नाकार अथवा अर्ध वेल्नाकार भाग, गेंडुरी ।

भेकड - वि डरपोक, कायर, वुजदिल ।

भेकणे - क्रि अ रोना, गिडगिडाना । मु० रडणे भेकणे - रोना - वीना, रोना - पीटना ।

भेग - छी १ दरार, धिगाफ, चीरा । २ (पायाची) विवाई । मु० भेगा पडणे - १ दरार पडना । २. विवाई फटना ।

भेट - छी १ भेंट, मिलन; मुलाकात । २ गले लगाना । ३ सौगात, उपहार, नजर, नजराना; तोहफा । ४ सामना ।

भेटणे - क्रि अ १ मिलना, भेंट होना । २ गले लगना या लगाना ।

भेटविणे - क्रि स १. मिलाना, भेट, मुलाकात कराना । २ समर्पित करना ।

भेटाभेट - छी भेंट - मुलाकात, गले लगना - लगाना ।

भेटीगाठी - छी वहु १ भेंटें - मुलाकाते । २ मेल-मिलाप । ३ सयोग ।

भेडासावणें, भेडसाविणें - क्रि स १ डराना, हीवा दिखाना । २ घमकाना । [ ' भिणें ' ] ।

भेणें - क्रि अ डरना, दे.

भेद - पु १ भेद, फर्क, अतर, भिन्नता । २ विलगाव, फूट । ३ प्रकार, किस्म । ४ राजनीति के चार उपायो मे से एक, शत्रुपक्ष मे फूट डालना । - पु परि-वर्तन, द्रोह । ६ रहस्य, राज । - भाव - पु भेदभाव, फर्क (दो

व्यक्तियों, वर्गों के साथ दो तरह का व्यवहार) ।

भेदक - वि १ भेदक, भेद, अतर करने वाला; वेधक; वेधने वाला । ३ तीखा, तीव्र, तेज ।

भेदणे - क्रि स १ वेधना, छेदना । २ फाडना, विलगना, चीरना ।

भेदरट - वि डरपोक, कायर; वुजदिल । [ सहमना, पवगना ।

भेदरणे - क्रि अ डरना, भेदाभेद - पु १ भेद-भाव, दे ' भेद ' में । २ भिन्नता, फर्क ।

भेदिक, भेदीक - वि दिल को छूने वाला, हृदय के नल तक पहुँचने वाला, भेदक, वेधक ।

भेद्या - वि पु १ भेदिया, भेद जानने वाला । २ भेद या रहस्य को खोल देने वाला, गोपनीय बातों को जाहिर करने वाला ।

भेरी - छी १ भेरी, भेर, नगाडा, डका । २ तुरही ।

भेलकड - न , भेलक(का)डी - छी लडखडाहट, चक्कर, झोका ।

भेली - छी भेली, गुड आदि की पिडी ।

भेपज - न भेपज, दवा ।

भेसळ - छी मिलावट, खोट, मिश्रण । - वि मिश्रित, मिला-जुला, मिलावटी, ममिश्र ।

भेसूर - वि भीषण, घोर, डरावना, भयकर ।

भेळ - छी १ चाट, चना-चबेना । २ दे ' भेसळ ' ।

भैया - दे ' भय्या ' ।

भैरट + - वि वहरा ।

भैरोवा - पु १ भैरव, शिवजी । २ वहरा आदमी ।

भोक - न १ छेद, नूरख । २ खोखला, वडा छेद । ३ पहुँच,

रसाई । मु० - पाडणे - सिफा-  
रिश के बल पर अदर पहुँच जाना ।

भोकर - न लिसोडा, लसोडा,  
लसोडा (फल) । - छी लसोडा  
(पेड) । - वाळी - छी झूमक,  
वाली (गहना) ।

भोकाड - न रोने, खाने आदि  
के लिए फैलाया हुआ मुँह । मु० -  
पसरणें - अचानक, जोरजोर से  
रोना, फूटफूट कर रोना,

भोगळ - वि १ ढीला, वेढगा,  
अस्तव्यस्त । २ बुद्धू । ३ पोला,  
खोखला । - जमाखर्च - पु. सर-  
सरी तौर पर बताया हुआ जमाखर्च  
या हिसाब । - पणा - पु. ढीलापन,  
ढील, वेढगापन ।

भोगळी - छी १ नली । २  
भोगाल, भोपा । [ भोगाल ।

भोगा - पु. भोपू, भोपा,  
भोडला - पु. आश्विन के महीने  
में लडकियों द्वारा मनाया जाने  
वाला एक समारोह, उस समारोह  
में गाये जाने वाले गीत ।

भोंदू - वि १ ढोंगी, पाखडी ।  
२ छलिया, धोखा देनेवाला ।

भोपळा - पु. १ कुम्हडा,  
काशीफल । २ (कडू) तुवी,  
कडुई लौकी, कडुआ धीया । ३  
(दुध्या) घिया, धीया, कददू,  
लौकी । भोपळचा एवढें पूज्य,  
शून्य - न अत्यंत अभाव, सिफर ।  
मु० - हातीं येणे - भीख लगना,  
कगाल बनना । भ्रमाचा भोपळा  
फुटणें - कलई खुलना, पोल  
खुलना ।

भोपळी - छी कददू या कुम्हडे  
की वेल । - वि कुम्हडे के  
आकार की । - मिरची - छी  
वहुत मोटी और फीकी मिर्च ।

भोपळचा रोग - पु. शरीर में

चरबी बढ़ने की बीमारी, मुटापा  
आना ।

भोवा - पु. हौआ ।

भोरा, भोरी - दे. 'भोवरा',  
'भोवरी' ।

भोवणे - क्रि अ १ पीडा,  
तकलीफ होना । २ चक्कर आना ।

भोवता, भोवतालीं, भोवतीं,  
भोवते - अव्य आसपास, चारो  
ओर, दुर्द गिर्द । भोवतालचा -  
वि चारो ओर का, आसपास का ।

भोवरा - पु. १ भौरा,  
लट्टू । २ भँवर, जलावतं । ३  
भँवरी, भौरा ( चक्राकार में उगे  
हुए बाल ) । ४ चक्कर । मु० -  
असणे (पायाला) - हमेशा घूमते  
रहना, पाँवों में सनीचर होना ।  
भोवण्यांत सांपडणे - जजाल,  
सकट में फँसना ।

भोवरी - छी १ गोखरू  
( पाँवों में काँटा, आदि चुभने से  
होने वाला ) । २ एक वेल । ३  
चक्कर । दे 'भोवरा' ।

भोवळ - छी घुमटा, घुमडी,  
घुमरी (सिर का चक्कर), गश,  
मूर्च्छा ।

भोंसकणें - क्रि स १  
भोकना, घुसेडना, घोपना । २  
छुरा भोकना । [ 'भोकसा' ।

भोसका - पु. वडा सूराख, दे  
भोंसका - भोसकी - छी छुरे-  
वाजी, छुरा भोकने की घटनाएँ  
होना ।

भोसकें - न वडा सूराख ।

भोंसडपट्टी - छी डाँट-फटकार ।  
मु० - काढणें - डाँट पिलाना,  
फटकारना, आडे हाथो लेना ।

भोसडणें - क्रि स १ डाँटना,  
फटकारना, आडे हाथो लेना ।  
२ गालियाँ देना ।

भोंसडपट्टी - दे० 'भोसडपट्टी' ।

भोसडी - छी (ग्रा०) १ योनि,  
चूत, भग । २ साली, चुडैल ।  
- चा - वि (गाली) चूसिया ।

भोई - पु. १ कहार । २.  
घोवर, मछुआ ।

भोक, भोकर, भोकाड - दे०  
'भोक', 'भोकर', 'भोकाड' ।

भोक्तव्य - न भोक्तृत्व,  
भोग, सुख या दुख जो भोगना  
पडे । - वि भोक्तव्य, जो भोगना  
पडता हो ।

भोक्ता - वि १ प्रेमी,  
शौकीन, रसिक, चाहने वाला ।  
२ भोक्ता, भोग करने वाला ।

भोक्तृत्व - न १ भोक्तृत्व,  
भोग । २ नसीब, प्रारब्ध । ३  
भोगना, सहना, वर्दाश्त करना ।

भोग - पु. १ भोग, उपभोग ।  
२ सुखदुख का अनुभव । ३ सभोग ।

४ नसीब, प्रारब्ध, भाग्य,  
किस्मत । ५ पीडा, कष्ट, तक-  
लीफ । ६ कब्जा । ७ पापपुण्य  
का फल । ८ नैवेद्य । - क्षम - न  
शरीर । - वि भोग करने योग्य ।

- वटा - पु. १ उपभोग । २ कब्जा,  
अधिकार । - विडा - पु. नी पान,  
नी सुपारियाँ आदि डालकर बनाया  
हुआ बीडा । - विलास - पु. भोग-  
विलास, मौज, ऐश । मु० - उभा  
राहाणे, - येणें, भोगास येणे -  
किस्मत में बदा होना; भुगतने की  
नौबत आना ।

भोगणें - क्रि स १ भोगना,  
सुखदुख का अनुभव करना । २  
सहना, भुगतना । ३ सभोग करना ।

भोगी - छी मकरसक्रांति से  
पहले का दिन । [ सक्त ।

भोगी - वि भोगी, विषया-  
भोग्य - वि भोग्य, भोग करने



योग्य । - न १ उपभोग । २ कच्चा ।

भोग्या - पु १ बच्चो के खेलो मे वह व्यक्ति, पत्थर, खमा आदि जिसे सब को जा कर छूना होता है । २ आँखमिचनी आदि खेलो मे दूमरो की आँखो पर पट्टी बाँधने या उन्हें बंद करने का काम करने वाला । ३ वेश्या का उपभोग करने वाला । मु० - शिवणें - किसी व्यक्ति से कोई लाभ न होते हुए भी उसे बारबार मिलते रहना ।

भोजन - न भोजन, खाना । - खर्च - पु भोजनालय, खाने-पीने का खर्च । - गृह - न भोजनगृह, रसोईघर, भोजनशाला । - दक्षिणा - स्त्री ब्राह्मण को भोजन खिला कर दी जाने वाली दक्षिणा । - भाऊ - वि पु १ खाऊमीत, मतलब का यार । २ भोजनभट्ट, पेटू ।

भोजनालय - न भोजनालय, भोजनशाला, 'होटल' ।

भोज्या - दे ' भोग्या ' ।

भोट, भोटमामा - वि बुद्ध, पगला ।

भोत - पु १ अनाज का बोरा । २ खाल निकाल कर उसमे भूसी भरकर बनाया हुआ पशु का आकार । ३ मगाल ।

भोपळा, भोपळी; भोपळचा रोग, - दे ' भोपळा ', ' भोपळी '; ' भोपळचा रोग ' । [कच्चा कद्दू ।

भोवा-भा - पु कच्चा फल, भोभी - न भो भो, कुत्ते के भूंकने की आवाज । - अव्य भो भो की आवाज के साथ । मु० - करणें - १ भूंकना । २ व्यर्थ बकना, गालियाँ देना ।

भोरडी - स्त्री १ करंक्रुल, शौच (पसी) । २ खेत की खडी

फसल से अनाज चुगने वाली चिडिया । ३ सोने के तार वाली अँगूठी ।

भोरपी - पु दे ' बहुस्पी ' ।

भोवडणें - क्रि स १ घुमाना । २ दौडाना । - क्रि ष चक्कर खाना, चकराना ।

भोवणें, भोवता, भोवतालचा, भोवती, भोवतें भोवरा, भोवरी, भोवळ, भोसकणें, भोसका, भोसका-भोसकी; भोसकें, भोसड-पट्टी, भोसडणें, भोसडपट्टी, भोसडी, भोसडीचा, - दे ' भोवणें ', ' भोवता ', ' भोवतालचा ', ' भोवती ', ' भोवते '; ' भोवरा ', ' भोवरी ', ' भोवळ '; भोसकणें, ' भोसका ', ' भोसका, - भोसकी ', ' भोसकें ', ' भोसड-पट्टी ', ' भोसडणें ', ' भोसड-पट्टी ', ' भोसडी ', ' भोसडीचा ' ।

भोळसर - वि १ भोला सा, भोला-भाला, सीधा-मादा । २ बुद्ध, अघपगला ।

भोळा - पु भोलानाय; शिव । - वि १ भोला, सीधा, सरल । २ मूर्ख, बुद्ध । - नदी - पु बलिया के ताऊ, मूर्ख, बुद्ध आदमी । - नाथ - पु १ भोला-नाथ, शिव । २. भोला-भाला आदमी । - भाव - पु भोलापन; अघभक्ति । - महादेव, - शकर, - साव - पु दे भोळानाथ । फहा० भोळाभाव सिद्धीस जाव - निष्क-पट मन से किया हुआ काम मफल होता है, भूले-विसरे राम सहाई ।

भौतिक - वि १ भौतिक, पाथिव, मादी । २ ऐहिक, इह-लोकसंबधी ।

भौतिकी - स्त्री भौतिकी, भौतिक विज्ञान, ' फिजिक्स ' ।

भौम - न चुनाग्रद्वारा गहने मे मे मोना निकाल कर चालाकी से उगके म्यानपर प्रयुक्त की गयी घटिया वातु, मिन्नावट ।

भौम - पु भौम, मगलग्रह । - वासर - पु भौमवासर, मगल-वार ।

भौमितिक - वि त्र्यामितिय ।

भ्या \* - न भय, डर ।

भ्याड - वि डरपोक, कायर, वुजदिल ।

भ्रतार - पु पति, धौहर ।

भ्रमती - स्त्री भ्रमण, यात्रा, घुमक्कडी, मटरगन्ती ।

भ्रम - पु १ भ्रम, भूल; धोखा; भ्रान्ति, मिथ्या ज्ञान । २ चक्कर । ३ भ्रमण । ४ गलतफहमी । ५ सभय, शका । - रस - पु १ शराव, मद्य । २ मोह । भ्रमाचा भोपळा - भ्रम, गलत-फहमी, किमी गलत वान को नही समझना । (मु० -० फुटणे - भ्रम खुलना) ।

भ्रमण - न १ भ्रमण; घूमना, यात्रा । २ चक्कर, चकाचौध । ३ सिर चकराना ।

भ्रमिष्ट - वि भ्रमी, सिर-फिरा, भ्रात, मनकी, अस्थिर-मति, धनचक्कर ।

भ्रष्ट - वि १ भ्रष्ट, नीचे गिरा हुआ, विगडा हुआ, दूषित आचार वाला । २ नष्ट, - से च्युत ।

भ्रष्टाकार - पु छुआछूत से उत्पन्न अपवित्रता, नापाकी, छूत-छात ।

भ्रष्टाचार - पु १ भ्रष्टाचार; दूषित आचार, अनाचार । २ दे ' भ्रष्टाकार ' ।

भ्रात - स्त्री १ दे ' भ्राति ' ।

२ अभाव। - वि १ भ्रात, भूला हुआ। २ चक्कर खाता हुआ। ३. हैरान, परेशान। मू० - पडणे - १ लाले पडना। २ दाने-दाने को तरसना।

भ्राति-ती - छी १ भ्राति,

भ्रम, चक्कर। २ सदेह, अस्थि-रता। ३ गडवडी, झमेला।

भ्रातिष्ट - दे 'भ्रमिष्ट'।

भ्राता - पु भ्राता, सगा भाई।

भ्रातृव्य - पु भतीजा।

भ्रुकुटी - छी १ भ्रुकुटी,

म

म - मराठी वर्णमाला में पवर्ग का अंतिम व्यंजन-वर्ण।

मगल - न १ मगल, शुभ, कल्याण, भाग्य। २ विवाह आदि शुभ कार्य। - पु मगलग्रह। - वि मगल, शुभ, कल्याणकारी। - कार्य - न मगलकार्य, विवाह, यज्ञोपवीत सस्कार आदि शुभ कार्य। - दायक - वि शुभदायक। - वाद्य - न विवाह आदि शुभ अवसरों पर बजाया जाने वाला बाजा, शहनाई। - वार - पु मगलवार, मगल। - सूत्र - दे. 'मगळसूत्र'।

मगलागौरी - दे 'मगळागौर'।

मगलाष्टक - न १ मगलाष्टक, वे मंत्र जिनका पाठ विवाह के समय वरवधू के कल्याणार्थ किया जाता है। २ यज्ञोपवीत सस्कार में गाये जाने वाले मंत्र या श्लोक।

मगळ - पु १ मगल (ग्रह)। २. फलितज्योतिष में अनिष्ट योग। - मूर्ति - पु गणेशजी। - सूत्र - न मगल-मूत्र, विवाह में कन्या के गले में पहनाया जाने वाला सोने का सुहाग-चिह्न, सववा स्थियों-द्वारा गले में पहना जानेवाला एक गहना।

मगळाई - छी एक क्षुद्र देवी।

मगळागौर - छी १ मगला-

व्रत, विवाह के पश्चात् पांच वर्षों तक श्रावण के प्रत्येक मगलवार को बहुधो द्वारा किया जाने वाला गौरीपूजन का व्रत। २ मगला, गौरी। [मचक पलग। २ मचान। मच, मचक - पु १ मच, मंजन - न मजन, दांत साफ करने का चूर्ण। २ वुकनी।

मजरी - छी १ मजरी, वीर। २ कोपल; कल्ला।

मजरी - छी मंजीरा, छोटा मजीरा।

मजिष्ठ - न पु मजिष्ठा, मजीठ। - मेह - पु मजिष्ठामेह (एक प्रकार का प्रमेह)।

मजुरी - छी [अ 'मजुरी'] मजुरी, स्वीकृति।

मजुळ, मजुळवाणा - वि मजुल, मीठा; मधुर, सुरीला।

मजूर - वि [अ. 'मजूर'] १ मजूर, स्वीकृत। २ पसद।

मजुळ - दे 'मजुळ'।

मंडई - छी [हिं 'मंडी'] सव्जीमंडी।

मडण - न - न १ मडन, समर्थन, ताईद। २ अलकार, गहना। ३ सजाना। २ चँदवा, चँदोवा।

मडप - पु १. मडप, मंडवा।

मडपी - छी १ मडैया, मडई, झोपडी, छोटा मडप। २ देवता की मूर्ति पर टांगा हुआ

भुकुटि, भूमग। २ भौं। मु० - चढचिणें - भौं टेढी करना, भौं चढा कर रोय प्रकट करना।

भ्रूण - पु भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। - हत्या - छी भ्रूण हत्या, गर्भपात द्वारा की गयी गर्भस्थ शिशु की हत्या।

वाँस का मुकुट।

मडल-ळ - न मडल, वृत्त, घेरा, हलका। २ कुँडरा, सूर्य-चंद्र का विव। ३ प्रात, देश, राज्य, इलाका। ४ मडल, सस्था। ५ सूर्य-चंद्र के इर्द-गिर्द पड़ने वाला घेरा, मडल।

मडळी - छी १ मडली, मडल, सस्था। २ लोग, जनसमूह। ३ पत्नी, पति। [हुआ।

मडित - वि मडित, सजाया मत - [फा 'मद'] मान्, वान्, वाला (उदा० वुद्धिमत् = वुद्धिमान्)।

मतरणे - क्रि स. १ अभिमन्त्रित करना। २ मीठी बातों में फँसाना, लुभाना।

मतरलेला - वि अभिमन्त्रित, मन्त्रित; जिसपर जादू डाला हो।

मतव्य - वि मतव्य, मानने, चिंतन करने योग्य। - न १. मतव्य, मनन, विचार। २ मत।

मत्र - पु १ मत्र (वह शब्द या शब्दसमूह जिससे किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो)। २ गुर। ३. रहस्य, भेद। ४ वेद का संहिता - भाग। - पु सलाह, मंत्रणा, परामर्श। दे 'कानमत्र'। - चळचा - वि १ पगला; मंत्रप्रयोग में गलती होने से जो पागल बन गया हो। २

झक्की, सनकी, सिरफिरा । - जागर - पु. ब्राह्मणो द्वारा किया जाने वाला वेदमंत्रों का पाठ । - तंत्र पु. १ तंत्र-मंत्र, जादू - टोना । २ दाँव - पेच । - मुग्ध - वि मंत्र-मुग्ध, जडवत् । - वादी वि दे 'मात्रिक' ।

मन्त्राग्नि - पु मंत्रपूर्वक किया जाने वाला शवदाह या अत्येष्टि ।

मन्त्रिमडल - न मन्त्रिमडल, वज्रारत, कावीना ।

मन्त्री - न मन्त्री, 'मिनिस्टर' । २ सचिव, 'सेक्रेटरी' । ३ अमात्य, दीवान । - मडल - दे मन्त्रिमडल ।

मथणें - दे 'मथणें' ।

मथन - न १ मथन, मथना, विलोना । २ चर्चा, विचार-विमर्ष ।

मंद - वि १ मंद, धीमा । २ मुस्त; ढीला । ३ मूर्ख, वृद्ध । ४ धुँवला । ५ हलका । ६ सीम्य । ७ कमजोर । - पु. शक्ति । - पणा - पु मदता, सुन्ती । - वार - पु शनिवार । - स्मित - न मुमकान, मुमक्यान । मु० - पडणें १ धीमा पडना । २ कमजोर होना ।

मंदाग्नि - पु मदाग्नि, पाचन-शक्ति का दुर्बल हो जाना, हाज्रमे का दिगड जाना । - वि जिसका हाज्रमा विगड गया हो ।

मंदार - पु १ मदार (नन्दन-कानन का एक वृक्ष) । २ मदार, घतूरा । - माला - स्त्री १ मदार-माला, मदार के फूलों की माला । २ एक वृत्त ।

मंदावणें - क्रि अ धीमा पडना, कम होना, घटना ।

मदिर - १, मदिर, पूजास्थान, उपासनागृह, वृत्तखाना २ घर,

मकान, स्थान । [ का उलटा ] ।

मदी - स्त्री मदी, सम्ती (तेजी मदीर - दे 'मदिर' ।

मदील - पु न [अ 'मिदील'] सर पर दाँवने का विशेष रूमाल, कामदार साफा ।

मद्र - पु मद्र, गभीर ध्वनि । - वि मद्र, गभीर । - सप्तक - न मद्रसप्तक ( मगीत के तीन स्वर सप्तको - मद्र, मध्य, तार में में पहला ) ।

मऊ - वि १ मुलायम, नरम, कोमल, मृदु । २ चिकना, गुलगुला, पिलपिला । - पायाचा - वि नपुनक । - रेशीम - वि १ नरम, मुलायम । २ दीन, गरीब । - सर - वि कुछ नरम, मुलायम - सा, कुछ चिकना । - सून - दे 'मऊरेशीम' । मु० - करणें - गुल-गुलाना, दवा कर पिलपिला करना । कहा० मऊ सापडले कों कोपरानें खणणे - चिकना देख फिमल पडना, किसीके नरम स्वभाव ने अनुचित लाभ उठाना ।

मकरद - पु १ मकरद, फूलों का रम, मधु, फूलों का केसर । २ सुगंध । ३ एक मिठाई ।

मकर - पु १ मकर, घड़ियाल, मगरमच्छ । २ मकर राशि । - कुडल - न मकराकृत कुडल, मकरकुडल । - ध्वज - पु १ मकरध्वज, कामदेव । २ रससिंदूर (दवा) । - वृत्त - न मकर-रेखा, मकरक्रांति । - सक्रमण - न , - सक्रात - ति - स्त्री मकर-मक्राति । [ (अनाज) ]

मका - पु मक्का, मकई मकाण - न [अ 'मकां'] १ मकान, घर । २ अड्डा, मजिल, मुकाम ।

मकाणा - पु १ मकई का दाना । २ मक्के की लाई । ३ कमलव्रीज । [ मंत्र, फुलिया । मकुड्याचा खिळा - पु गुल-मक्ता - पु [अ 'मृकृतअ'] १ ठेका, ठीका, इजारा । २ भूमि से होनेवाली आय, लगान । मक्तेदार - पु [अ 'मुक्ताअ', फा 'दार'] १ ठीकेदार, इजारे-दार । २ ठीके पर खेती करने वाला किसान ।

मक्तेदारी - स्त्री [ दे० 'मक्ते-दार'] १ ठीकेदारी; इजारा । २ एकाधिकार ।

मक्षिका - स्त्री मक्षिका, मक्की । - पात - पु बाघा, विघ्न, अमगुन, अपशकुन ।

मखमल - स्त्री [फा 'मखमल'] १ मखमल (कपडा) । २ चौलाई के पीधे पर लगने वाला फूल, मखमल । २ गुलजाफरी (फूल और उमका पीवा) ।

मखमली - वि [फा 'मखमल'] मखमली, मखमल का । - किडा - पु वीरवहूटी, चद्रवहूटी । [- ली ] ।

मखमाल - ली - दे 'मखमल मखर - न १ झांकी, मिहा-सन । २ नई दुल्हन के प्रथम वार रजस्वला होने पर उने अदर विठाने के लिए बनायी जाने वाली झांकी या महराव जो बाँम की खपचियों और रगविरगों कागजों से सजायी होती है ।

मखलाशी - स्त्री [अ 'मुख-ल्लिस'] १ चालवाजी, लीपा-पोती । २ टीका-टिप्पणी, भाष्य । मु० - करणें - १ लीपा पोती करना । २ आँख में धूल झोकना ।

मखल - वि काइयाँ, चट, घाघ, गहरा (जिसके मन की बात

किमीको मालूम न हो सके) ।

मखली - छी मर्म, भेद, रहस्य, पते की बात ।

मखमल - ली, मखमाल - ली-  
दे० 'मखमल - ली' ।

मग - अव्य. १ फिर, वाद में, पश्चात्, आगे चलकर, अनंतर । २ तो, तो फिर, भले ही । ३. शीघ्र ही, थोड़ी देर बाद ।

मगज - पु [फा 'मगज']  
१ मगज, मीमी; गुदा, गिरी ।  
२ भेजा, दिमाग, मस्तिष्क ।  
३ सार-भाग, तत्त्व । ४ बुद्धि, अक्ल । ५ मज्जा ।

मगदूर - पु [अ 'मगदूर']  
१ मगदूर, सामर्थ्य; शक्ति । २. हैसियत । ३ समाई, गुजाइश ।  
४. बस, काव ।

मगर - पु छी मगर; मगर-  
मच्छ, घडियाल (एक हिंस्र जल  
जंतु) । - मस्त - वि १ मगरूर,  
घमडी । २ मस्त, मदमत्त, मदो-  
न्मत्त, मतवाला । ३ मोटाताजा,  
हृष्टपुष्ट । - मिठी - छी मजबूत  
पकड, चगुल, शिकजा ।

मगरुरी - छी [अ. 'मग्रूर']  
मगरुरी, घमंड, अहंकार,  
गुस्ताखी ।

मगरूर - वि [अ 'मगरूर']  
मगरूर, घमडी, अहंकारी, गुस्ताखा ।  
मग्न - वि १ मग्न, डूबा  
हुआ । २ तन्मय; तल्लीन ।

मग्रूर, मग्रूरी - दे 'मगरूर',  
'मगरुरी' ।

मघा, मघाशीं - अव्य. अभी-  
अभी, थोड़ी देर पहले, कुछ  
समय के पहले ।

मँच - छी [अ ] मँच;  
सामना (मुकाबले या कुशलता  
की प्रतियोगिता का खेल) ।

म हिं श. को ... ३६

मचमच - छी १ खाते समय  
मुंह से निकलने वाली 'मचमच';  
की आवाज । २ व्यर्थ की बकवास ।  
कहा० खाणें थोड़े, मचमच फार -  
मामूली-सी बात का बड़ा आडवर  
मचाना ।

मचमचां - अव्य मुंह से 'मच-  
मच' की आवाज निकालते हुए ।

मचवा - पु [पुर्त. 'माचुआ',  
हिं. 'मछवा'] नाव, किंग्ती,  
छोटा, जहाज, मछवा (मछली का  
शिकार करने की नाव) ।

मचूळ - वि १ फीका, नीरस ।  
२ कुछ-कुछ खारा ।

मच्छ - पु. १ मच्छ, मत्स्य,  
बडी मछली । २ पुल के खभो में  
प्रवाह के जोर को कम करने के  
लिए बनाया जाने वाला मछली के  
आकार का भाग ।

मच्छर - पु. मच्छर, मच्छड,  
मस, डांस । - दाणी - छी मच्छर-  
दानी, मसहरी ।

मच्छीमार - पु मछुवा,  
मछुवा, मछुवाहा, मछियारा,  
माहीगीर ।

मच्छीमारी - छी मच्छीमारी,  
माहीगीरी, मछली पकडना,  
मत्स्य-उद्योग ।

मज - सर्व १ मुझे, मुझको ।  
२ मुझ । ३ मेरे । - कडे - अव्य  
मेरे पास, मेरी ओर, तरफ । - चर  
- प्रत्य मुझपर ।

मजकूर - पु [अ 'मजकूर']  
१ मजमून, लेख, पत्र आदि का  
विषय, 'मैटर' । २. खबर,  
समाचार, बात । ३ जिन्न,  
उल्लेख । - वि १ मजकूर, उप-  
युक्त, कथित, उक्त । २ वर्त-  
मान, इस समय का ।

मजबूती - छी [अ 'मजबूती']

१. मजबूती, दृढता; पक्कापन,  
टिकाऊपन । २ जोर, तगडापन;  
ताकत ।

मजबूत-द - वि [अ 'मजबूत']  
१ मजबूत, दृढ, पक्का, टिकाऊ ।  
२ शक्तिशाली, ताकतवर, तगडा ।

मजल - छी [वि 'मजिल']  
१ मजिल, एक दिन का सफर ।  
२ पडाव, गतव्य, मुकाम । ३  
समाप्ति, अंत । ४ वह स्थान  
जहाँ डाक के घोड़े बदले जायँ ।  
- चर मजल - अव्य कूच-ब-कूच,  
मजिल पर मजिल तै करते हुए ।

मजलस - दे 'मजलिस' ।

मजला - पु [अ 'मजिल']  
१ मजिल; मकान का खड,  
तल्ला, माला । २ सतह, स्तर ।

मजलिस - छी [अ 'मजिल-  
स'] मजलिस, महफिल, जलसा;  
सगीत गोष्ठी, सगीत सभा ।

मजली - वि [अ 'मजिल']  
मजिला; तल्ले वाला । ( दुमजली  
= दो मजिला ) ।

मजलीस - दे 'मजलिस' ।

मजा - छी [फा 'मज'] १  
मजा, मौज, चैन, सुख, आनंद,  
लुत्फ, तमाशा । २ स्वाद, रस,  
जायका । मु० - मारणे - मजा  
लूटना, लुत्फ उठाना, मौज  
मारना, उडाना, करना, ऐश करना ।

मजाल - छी [अ ] मजाल,  
सामर्थ्य, मकदूर, हैसियत,  
विसात । [स्ट्रेट, न्यायावीश ।

मँजिस्ट्रेट - पु [अ ] मजि-  
मजुरी - छी । फा 'मजदूरी']  
१. मजदूरी, उजरत, पारिश्रमिक ।  
२ मजदूर का काम, शरीरश्रम ।

मजूर - पु [फा 'मजदूर']  
मजदूर, श्रमिक, उजरत, मज-  
दूरी पर काम करने वाला, मोटिया,

कुली । - मजूरी - थ्रममत्री ।

मजूरी - दे 'मजूरी' ।

मज्जेदार - वि [फा 'मज्ज - दार'] १ मज्जेदार, दिलचस्प, मनोरंजक । २ वढिया, सुंदर । ३ स्वादिष्ट, लजीज ।

मज्जा - स्त्री १ मज्जा (नली की हड्डी के भीतर भरा स्नेहरूप पदार्थ) । २ मेद; चर्बी । ३ मगज्ज; मस्तिष्क । ४ गूदा, मींगी, गिरी । - ततु - पु. ज्ञानततु, तत्रिका, वातनाडी, 'नर्व' । दे 'मजा' ।

मज्जाव - पु [हि 'मत जाओ'] मनाही, मुमानियत, रोक, निषेध । [नक ।

मज्जकन् - अव्य झट से, अचानक । मज्जकावणे, मज्जकाविणे - क्रि स १. हडपना, झट से निगल जाना । २ झपट कर पकट लेना ।

मज्जकी - स्त्री मोठ ( एक मोटा अन्न ), वनमूंग । [अचानक ।

मज्जदिशी - अव्य झट से, मज्ज - न [अं] गोय्त, मास । [जल्दी-जल्दी, लगातार ।

मज्जमट - टा, मज्जामट - अव्य.

मज्जार - पु. १. मटर । २ छीमी, मटर की फली ।

मज्ज - अव्य. चुपचाप, खामोशी के साथ । - वि हडप किया हुआ । मु० - करणे - हडप करना, निगल जाना ।

मज्जघास येणे - क्रि अ बहुत थकना, निडाल होना, पांव फूलना ।

मज्ज - पु. मोठ (मोटा अनाज) ।

मज्ज - पु १ मठ, आश्रम । २. पाठशाला, छात्रावास । ३ देवालय । ४ स्थान, शगह ।

मज्जी - स्त्री १ मठी, छोटा

मठ । २ गरीबघाना, ( अपना ) निवासस्थान ।

मठठ - वि १ मट्ठर; मुस्त, धीमा । २ बुद्धू, गावदी, वेकूप ।

मठ्ठा - पु १ मट्ठा, छाँछ । २. लस्ती ।

मठ्ठक - न मटका, मटकी, माट ( बटे मुँह वाला मिट्टी का घडा ) । मडक्याचा तराफा - पु घटनई ( वॉम के टाँचे में घटे वॉवकर बनायी हुई कामचलाऊ नाव ) ।

मडम, मडुम - स्त्री [अं 'मडम'] १ मेम, मेमसाहवा (यूरोपीय स्त्री) । २ पश्चिमी ढग की पोशाक पहनने वाली, फैशनवेल्, नखरेवाज स्त्री ।

मडणावळ - स्त्री मडाई ।

मडणे, मडविणे - क्रि स १ मडना, जडना । १ वाजे के मुँह पर चमडा लगाना । ३ योपना । ४. मडवाना ।

मडी - स्त्री मडी; छोटा मठ, कुटिया ।

मडे - न अव, लाग, मुर्दा । - घाट - पु मरघट, ममान ।

मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा - वि कफूनचोर, अत्यंत नीच, लालची आदमी । कहा० मेलें मडे आगीला भीत नाहीं - ओखली में सिर दिया तो चोटो से क्या डरना ? जब वडी विपत्ति आ पडी हो तो छोटी से क्या डरना ?

मण - पु मन ( चालीस मेर का वजन ) ।

मणका - पु १ मनका, वडी गुरिया, दाना । २ घांटी, कौआ ( गले के अंदर की घटी ) । ३ रीठ की हड्डी, कंगेरू; कमेरू । ४ ताबीज । ५. घिरनी, चरखी । मु० - ढिला करणे - १ बहुत

पीटना, मरम्मत करना । २ बेहद थका देना ।

मणगट - न १ कगई; पहुँचा । २. गट्टा, टयना । मु० - धरणे - पहुँचा पकटना, किसी को विभी अपराध में पकडना, डलजाम लगाना । मणगटात जोर असणे - मामर्थ्य, बल होना । मणगटावर केंस येणे - कमजोर, अमर्थ बनना । मणगटावर तेल, चुना घालणे - बहुत गोर, हाँ हल्ला मचाना, चिल्लापो करना ।

मणगटी - स्त्री छोटे वच्चो की कलाई में पहनाया जाने वाला सोने या काँच की गुरियों का एव गहना ।

मणि - स्त्री - पु १. मणि, रत्न, हीरा । २ मनका; दाना, गुरिया । ३ शिबन, लिंग का अग्रभाग, योनि का अग्रभाग । ४ श्रेष्ठजन । ५ वीर्य । - कार - पु मणिकार, जौहरी । - घोळणी - स्त्री दाने बनाने का, मुनार का एक औजार । - वध - पु १ मणिवध, कगई । २ एक वृत्त । - मगळसूत्र - न विवाहिता स्त्री का मगळसूत्र, मौभाग्यचिह्न, अलकार, गहने ।

मणेर - दे 'मण्यार' ।

मणेर - स्त्री, मण्यार - पु १. मनिहार, विमाती । २ चुडिहारा । ३ जौहरी । [ जहरीला साँप ।

मण्यार - पु. एक प्रकार का मत - न १ मत, राय, मम्मति, विचार । २ अभिप्राय, मशा, सलाह, परामर्श । ३ मिद्धात, धर्ममत, पथ । ४ राय, 'वोट' । - दान - न मतदान, रायदिही; राय दिहिंदगी । - बार - पु. मतदाता, रायदिहिंदा, वोट देने वाला । - सघ - पु. निर्वाचन -

क्षेत्र, चुनाव-क्षेत्र। - पत्रिका -  
छी मतपत्र, वोट की परची।  
-पेटी-छी मतदान की पेटी।-भेद  
-पु मतभेद, इस्तिलाफे राय,  
मत की भिन्नता। - मतातर - न  
मतभिन्नता, अलग - अलग रायें।  
- मोजणी - छी मतगणना,  
वोटो की गिनती। -स्वातत्र्य - न  
मतस्वातत्र्य, मत, विचार की  
स्वतंत्रता। मु० - देणें - मत, वोट  
देना, राय देना।

मतलव - पु [ अ. 'मल्लव' ]  
१ मतलव; आशय, अभिप्राय,  
उद्देश्य, मशा। २ अर्थ, मानी।  
३ गरज, स्वार्थ। ४ प्रयोजन,  
वास्ता, सरोकार। ५ साराश।

मतलबी - वि [ अ 'मल्लबी' ]  
१ मतलबी, स्वार्थी, खुदगर्ज।  
२ कपटी। [ मत, भिन्न मत।  
मतातर - न मतातर, दूसरा  
मताधिकार - पु मताधिकार,  
मत, वोट देने का हक।

मताभिमानी - वि अपने मत  
का आग्रह रखने वाला।

मति - छी १ मति, बुद्धि।  
२ समझ, राय, विचार, हेतु।  
३ मन, अत करण। - अश -  
पु मतिभ्रंश, अकल का उलटफेर।  
- मद - वि मतिमद, मदबुद्धि,  
कमसमझ। - विभ्रम - पु दे  
'मतिभ्रम'। मु० - चालणें - समझ  
में आना। - न चालणें - अकल का  
चक्कर में आना, अकल, मति  
मारी जाना।

मतैक्य - न मतैक्य, मतों की  
समानता, एकमत, एकराय होना।

मत्त - वि १ मत्त, मतवाला,  
नशे में चूर। २ उन्मत्त। ३.  
घमडी, गर्व से इतराता हुआ।

मत्ता - छी [ अ 'मताअ' ]

पूंजी, सरमाया, सपत्ति, माल-  
असवाव।

मत्सर - पु मत्सर, डाह,  
जलन, कीना, द्वेष।

मत्सरी - वि मत्सरी, ईर्ष्यालु;  
कीनावर, जलने वाला।

मत्स्य - पु १ मत्स्य, मछली।  
२ विष्णु के दस अवतारों में से  
पहला। - गधा - छी १ मत्स्य-  
गधा, व्यास की माता, सत्यवती।  
२ ऐसी स्त्री जिसके शरीर में  
मछली की गध आती हो। ३  
मछियारी।

मत्स्याहारी - वि मत्स्या  
शन, मछली खाने वाला।

मथक - न अड्डा, सदर-  
मुकाम।

मथणें - क्रि स १ मथना,  
विलोना। २ सोचना - विचारना,  
छान डालना। ३ दे 'मथविणे'।  
- क्रि अ मिल जाना, शामिल  
होना।

मथवणे, मथविणे - क्रि स  
दूमरे पक्ष से फोडना, मिला लेना,  
वग में करना, लुभाना, मोहित  
करना। [ सिरनामा, सुर्खी।

मथळा, मथाळा - पु शीर्षक,  
मथितार्थ - पु साराश, मत-  
लव, निचोड।

मद - पु १ मद, नशा,  
मस्ती। २ कामवेग, कामोत्तेजन।  
३ मस्त हाथी की कनपटी से  
क्षरने वाला जल, मद। ४ घमड,  
अहंकार, गरूर। ५ मद्य, शराव।  
६ उन्माद। ७ विलास, ऐश।  
- मत्त - वि मदमत्त, मस्त, मत  
वाला, मदोन्मत्त।

मदत - द - छी [ अ. 'मदद' ]  
मदद, सहायता। - गार, - नीस -  
वि मददगार, सहायक। मु० -

करणें - (की) मदद करना;  
( मे ) हाथ बँटाना, (को) सहा-  
यता पहुँचाना। [ नशीला पदार्थ ]।

मदत - द - छी मदक (एक  
मदन - न एक वार दौरी  
किया हुआ अनाज, भूसी के साथ  
का अनाज।

मदन - पु १ मदन, कामदेव।  
२ काम, कामवासना। - फळ -  
न मदनफल, मैनफल। - वाण -  
पु मदनवान (फूल), बेला का  
एक भेद। - मस्त - वि मदो-  
न्मत्त, कामाध, मतवाला।  
मदनाचा पुतळा - अत्यन्त सुंदर  
पुरुष। मदनाची छडी - छी  
अत्यंत रूपवती स्त्री।

मदाघ - वि मदाघ, मत-  
वाला, उन्मत्त। मु० - होणें -  
आँखों में चरवी छाना।

मदार - छी [ अ ] १ ऊँट  
की पीठ पर का कूबड, कोहान।  
२ मदार, निर्भरता, इनहिमार,  
दारोमदार, आधार।

मदिर - वि मदिर, मदभरा,  
नगा, मस्ती पैदा करने वाला।

मदिरा - छी मदिरा, मद्य,  
शराव। [ वाला, मदाघ।

मदोन्मत्त - वि मदोन्मत्त, मत-  
मद्दड - वि [ क 'मद्दु' ]  
मूर्ख, जड, निर्वुद्धि, बुद्धू,  
मट्ठर, सुस्त।

मद्य - न मद्य, शराव, सुरा।  
- पान - न मद्यपान, शराव  
पीना। - पी - वि मद्यप,  
शरावी। - सार - न मद्यमाग,  
सुरासार, 'अलकोहल'।

मघ - पु मघु; शहद, पुष्परस।  
- पोळें - न मघुकोप, शहद का  
छत्ता। - माशी - छी मघुमक्खी,  
मघुमक्षिका, शहद की मक्खी। मु०

मघाघ्रे वोट लावून ठेवणें -  
लाळूच दिखाना, आगा दिखाना।  
मधघर, मधघरा - दे ' माज-  
घर', ' मघला' ।

मघलड - वि १ वीच फा,  
मध्यम, न बढिया न घटिया;  
मंझला, मंझोला । २ जो दो में मे  
किसी भी पक्ष का न हो ।

मघला - वि १ वीच का,  
मन्य मे स्थित । २ भीतर का,  
अदर का । ३ मध्यम, विचुआ ।  
मघल्यामघ्ये - अव्य १ नाहक,  
अकारण । २ वीच म ही । मु०  
मघल्या वाटेने जाणें १. नजदीक के  
मार्ग मे जाना । २ कतराना,  
वीच का रास्ता लेना ।

मघली - वि वीच की । - सुटी  
छी १ मघ्यातर, ' इटरवल' । २  
अल्पावकाश, विश्रातिकाल,  
' रिसेस' ।

मघाळ - वि मीठा, मधुयुक्त,  
मिठाई से भरा हुआ, मधुमय ।

मघी - अव्य. मे, वीच मे ।

मघील - वि १ वीच का । २  
अदर का, भीतर का ।

मघु - न पु १ मधु, शहद ।  
२ मघ । ३ पुष्परस । - पु १.  
मधु, वसत ऋतु । २ चैत का  
महीना । - वि मधु, मधुर,  
मीठा । - कर - पु मधुकर,  
भौरा । - करी - छी १ मधु-  
करी, पके अन्न की भिक्षा जो  
सन्ध्यासी के लिए विहित है । २  
अमरी । - कुल्या - छी बहु १  
शहद की नदियाँ । २ बढिया  
और भरपेट भोजन, माल  
(उडाना) । - चद्र - हु नव-  
दापत्य - मास, विवाहानद - मास,  
' हनीमून' । - पर्क - पु १  
मधुपर्क, दही, घी, जल, शकर और

शहद का योग जो देवता और  
अतिथि के सामने रखा जाता है) ।  
२ विवाह की एक विधि जब कन्या  
का पिता वर की पूजा कर के उसे  
मधुपर्क और वस्त्रादि प्रदान करता  
है । - मादसारग - पु मधुमान-  
सारग (मारग राग का एक भेद)  
(सगीत) । - माघवी - छी मधु-  
माघवी (एक रागिनी) । - मालती  
- छी मधुमालती ( मालती  
लता ) । - मेह - पु मधुमेह;  
गर्करा - प्रमेह ।

मधुर - वि १ मधुर, मीठा ।  
२ प्रिय । ३ सुदर । ४ कोमल ।  
मधुरा - पु गले से फुन्सियाँ  
निकल कर आने वाला ज्वर ।

मधुरा - वि छी मीठी ।  
- भक्ति - छी सखीभाव ।

मधून - अव्य. वीच मे मे,  
वीच से । - मधून - अव्य वीच -  
वीच मे, कभी - कभी । मु० -  
विस्तव न जाणे - सत्त दुःमनी  
होना, आग - पानी - सा वर  
होना । [ ठीक मध्य मे ।

मधोमध - अव्य वीचोवीच,  
मध्यंतर - न मघ्यातर,  
मघ्यावकाश, ' इटरवल' ।

मध्यतरि - १ अव्य वीच मे,  
इस वीच । २ दरमियान ।

मध्य - पु १ मध्य, वीच का  
भाग, केंद्र । २ कमर । ३  
भीतरी भाग । - वि मध्य, वीच  
का, दरमियानी । - विदु - पु मध्य-  
विदु; केद्रविदु । - भाग - पु  
मध्यभाग, वीच का भाग । - युग-  
न मध्ययुग । - युगीन - वि  
मध्यकालीन । - रात्र - क्रि  
मध्यरात्रि, आधी रात । - वर्ती -  
वि १ मध्यवर्ती, केंद्रवर्ती । २  
मरकजी । - सरकार - न

केंद्रीय सरकार । - स्य-स्थी - दे  
क्रम मे ।

मध्यम - वि १ मध्यम, बीच  
का । २ साधारण, न बढिया न  
घटिया । ३ मंझला, मंझोला  
(कद) । - पु मध्यम (सात म्वरो  
मे से चौथा) (मगीत) । - पदलोपी  
समास - पु मध्यमपदलोपी  
समास । - वयस्क - वि मध्यम  
वयस्क, अवेड, मध्यम वय वाला ।  
मध्यस्थ - वि मध्यस्थ, बीच में  
स्थित । - पु मध्यस्थ, विचुआ,  
सालिस, पच, विचौलिया ।

मध्यस्थी - छी मध्यस्थता,  
विचवई, वीचवचाव, सालिसी ।

मध्यान्ह - पु छी मध्याह्न,  
दोपहर । - रात्र - छी आधी  
रात ।

मघ्ये - अव्य मे, वीच मे,  
अदर, भीतर । - मघ्ये - अव्य  
वीच-वीच मे । मु० - तोड घालणे -  
वीच मे वोल उठना । - पढणे -  
वीच मे कूदना, दखल देना;  
टांग अडाना ।

मन पूत - अव्य वि मन-  
माना, यथेच्छ, जो जी चाहे,  
चाहे जैसा । [ दिल से ।

मन पूर्वक - अव्य हृदय से,  
मन स्थिति - छी मन की स्थिति,  
चित्तवृत्ति, मनोभाव, मिजाज,  
तवीयत, 'मूड' ।

मन - न १ मन, चित्त;  
दिल, जी; अत करण । २ इच्छा,  
वाहिद । ३ भान, ध्यान । ४  
मर्जी । ५ प्यार; प्रेम । - कचडा -  
वि दूमरे के दिल की वात जानने  
वाला । - कामना - छी मन-  
कामना, मनोकामना, अभिलाषा ।  
- घरणी - छी भिन्नत, मनुहार,  
खुगामद, तुष्टीकरण । - मिळाऊ -

वि मिलनसार । - सुराद - वि  
 अव्य १ मनमाना, यथेच्छ,  
 जितना जी चाहे, जो जी चाहे।  
 २ भरपूर, विपुल । - मोकळा -  
 वि खुले दिल का, निष्कपट,  
 निश्छल । - मोकळें करून - अव्य  
 खुले दिल से, साफ साफ । - मौजी -  
 वि मनमौजी, स्वच्छद । - सोक्त -  
 अव्य मनमाना, दे 'मनसुराद'।  
 मनाजी पत - पु मन, दिल।  
 मनाजोगता, मनाजोगा - वि  
 दिलपसद, मनभाया, मनभावता,  
 मनोनुकूल, प्रिय । - मनापासून -  
 अव्य. दिल से; हृदय से, सच-  
 मुच । - मनास येईल तसें - अव्य  
 मनमाना, यथेच्छ। मनासारखा -  
 वि दे० 'मनाजोगा'। मु० - उठणें,  
 - उडणे - जी उचटना, दिल न  
 लगना । - कचरणे - हिम्मत  
 हारना, दिल बैठ जाना । - कापणें -  
 दिल कांपना, कलेजा कांपना, जी  
 घबराना । - खचणे - दिल  
 डूबना; जी टूटना, हौसला पस्त  
 होना । - खाणे - दिल जलना,  
 कलेजा कटना, अपने किये पर मन  
 ही मन पछताना । - गडबडणे -  
 दिल घबराना । - घट्ट करणे -  
 जी कडा करना । - घालणे -  
 ध्यान देना । - जाणे - जी लल-  
 चाना, इच्छा होना । - तुटणे -  
 जी खट्टा होना । - दुग्ध्यात  
 पडणें - पसोपेश मे पडना, दुविधा  
 मे पडना । - धरणे - किसीको  
 खुश रखना, खुशामद करना ।  
 - पाहाणें - मन की थाह लेना,  
 दिल को आजमाना । - बसणें -  
 (किसीपर) मन, दिल आना,  
 प्रेम होना, दिल लगना । - मानेल  
 तसे करणें - मनमौजी, स्वच्छद  
 बनना । - मारणें - मन मारना,

इच्छाओं को दवाना । - मिळणे -  
 मन, दिल मिलना, रुचि, प्रवृत्ति  
 मे समानता होना, प्रीति  
 होना । - मोठे करणे - उदारता  
 का बर्ताव करना,  
 दिल बड़ा करना । - मोडणे -  
 जी खट्टा करना, नाराज करना ।  
 - वळविणे - समझाना, राजी  
 करना । - विटणें - जी उचटना,  
 मन मैला होना, दिल ऊब जाना,  
 घृणा, नफरत होना । मनात आणणें  
 १ मन में लाना, मोचना । २  
 ध्यान देना, खयाल करना । ३  
 बुरा मानना, जी में रखना ।  
 मनात गांठ बाघणें - मन मे ठान  
 लेना, गांठ बांधना, अच्छी तरह  
 याद रखना । मनात ठसणे - मन-  
 पर अकित होना, भली भांति  
 गले उतरना । मनात ठेवणें -  
 अपने मन में ही रखना, किसीसे  
 न कहना । मनात भरणें - भाना,  
 पसद आना, प्रभावित होना ।  
 मनात मांडे खाणे - मन के लड्डू  
 खाना, खयाली पुलाव पकाना ।  
 मनातल्या मनात जळणे - मन ही  
 मन जलना । मनातील अढी काढणें -  
 मन की गांठ खोलना, दिल की  
 सफाई करना । मनातून उतरणें -  
 मन से उतरना, मन में अनादर  
 या तिरस्कार हो जाना । मनानें  
 करणें - अपनी बुद्धि या इच्छा से  
 (कोई काम) करना, । मनानें घेणें -  
 मन मे निश्चय होना, दिल में घर  
 करना, जी मे ठान लेना । मनाला  
 द्रव घेणें - मन मे खटकना, जी  
 भारी होना, हिये में लीन-सा  
 लगना । मनाला लावून घेणें - जी  
 भारी करना, जी मे रखना,  
 बुरा मानना, बहुत दुखी होना,  
 कुठना । मनावर घेणे - १ ठान

लेना; जी, दिल लगाना । २-  
 खयाल करना । मनास आणणे -  
 १ ध्यान देना । २ मान लेना,  
 समझ लेना । मनास घेणें - पसद  
 आना, मन को भाना । मनीं घरणे  
 मन में रखना । मनीं-मानसीं नसणें  
 खयाल तक न होना । कहा० मन  
 चिंती ते वेंरी न चिंती - अपने  
 विषय में मन मे जितनी अशुभ कल्प-  
 नाएँ उठती है उतनी शत्रु के मन मे  
 भी नहीं आती, मन ही मन का  
 वैरी है । मनीं वसे तें स्वप्नीं दिसे -  
 मन में जो बातें चलती हैं, वे ही  
 सपने में दिखाई देती हैं ।

मनगट, मनगटी - दे 'मणगट',  
 'मणगटी' ।

मनन - न मनन, चिंतन,  
 सोचना । - शील - वि मननशील,  
 विचारशील ।

मनसुबा - पु [अ. 'मन्सूवः']  
 १ मनसूबा, इरादा । २ विचार,  
 सकल्प । ३ योजना । ४ षोड-  
 तोड, युक्ति, पञ्चम, साक्षिण ।

मनस्वी - वि १ मनस्वी,  
 स्थिरचित्त, सयमी । २ अच्छे,  
 ऊँचे मन वाला, बुद्धिमान् । ३  
 निर्भीक, निडर । ४ स्वेच्छाचारी ।  
 ५. ब्रेह्द, अत्यत, बहुत ।

मना, मनाई - स्त्री [अ  
 'मन्थ', 'मनाही'] मना,  
 मनाही, मुमानियत, रोक; निषेध,  
 प्रतिवध, पाबंदी, प्रतिषेध । मनाई  
 हुकूम - पु निषेधाज्ञा, निरोधाज्ञा,  
 हुकमनामा । मु० - करणें - मना  
 करना, रोकना ।

मनीषा - दे 'मनीषा' ।

मनी - स्त्री विल्ली (बच्चों  
 की बोली में) ।

मनीषा - स्त्री १ मनीषा;  
 इच्छा, विचार । २ [अ 'मन्शा']



मनशा, मतलब, उद्देश्य, आशय, मक्सद ।

मनु - पु १ मनु (ब्रह्म के मानसपुत्र, मनुस्मृति के कर्ता) २ मनुष्य । ३ अनुकूल समय, मौसिम । मु० - पालटणे - समय का परिवर्तन होना, जमाना बदल जाना ।

मनुका - स्त्री बहु [ अ 'मुनक्का' ] मुनक्का, सूखा अगूर, दाख ।

मनुष्य - पु. न मनुष्य, मानव, आदमी, इन्सान, दे 'माणूस' । - वळ - न जन-वल, जन-शक्ति, सहायक, मित्र ।

मंनेजर - पु [ अ ] प्रवधक, व्यवस्थापक ।

मनोकामना - स्त्री मनो-कामना, मन की कामना, अभिलाष, इवाहिश ।

मनोगत - न मनोगत, इच्छा, विचार । - वि मनोगत; मन से भरा, छिपा हुआ ।

मनोगति-ती - स्त्री १ मनोगति, मन की वृत्ति, इच्छा । २ मन की गति, पहुँच, वेग । - वि अपने मन से चलने वाला । - अव्य. - अत्यंत वेग से । [मनोहर ।

मनोज्ञ - वि मनोज्ञ, सुदर, मनोदय - पु १ हेतु, मशा, विचार, डरादा । २ इच्छा, प्रवृत्ति ।

मनोनियह - पु. मनोनियह, समय (मन की इच्छाओं, वृत्तियों को वश में रखना) ।

मनोभावानें, मनोभावे, मनोभावे करून - अव्य. हृदय से, सच्चे मन से, तहे दिल स ।

मनोमन - अव्य मन ही मन, मन मे । - साक्ष - स्त्री मन ही मन जानना, दो मनो का एक

दुमरे को पहचानना ।

मनोमय वि १ मनोमय, मनोरूप, मानम । २ काल्पनिक, मानमिक ।

मनोमालिन्य - न मनो-मालिन्य, मनमुटाव, मन मे मैल आना । [ दिलचस्प ।

मनोरजक - वि मनोरजक, मनोरजन - न मनोरजन, मनरजन, दिलवह्लाव ।

मनोरथ - पु. मनोग्थ, मन की कामना, अभिलाषा, इच्छा । मु० - सिद्धीला जाणें - इच्छा का पूर्ण होना, मनोरथ-सिद्धि होना ।

मनोरम - वि मनोरम, सुदर, मनोहारी, दिल को लुभाने वाला ।

मनोरा - पु. [ अ 'मनार' ] १ मनार, लाट, मीनार, घर-हरा, धीरहर । २ ज्योतिस्तभ ।

मनोराज्य - न मनोराज्य, कल्पनासृष्टि, जागते का सपना, खयाली पुलाव ।

मनोविकृति - स्त्री १ मनो-विकार । २ मानमिक दोष, कमी, विकृति, मनोवैकल्य ।

मनोविश्लेषण - न मनोविश्लेषण, मन के विचारों की समीक्षा ।

मनोवृत्ति - स्त्री १ मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति । २ स्वभाव, प्रवृत्ति ।

मनोवेग - पु. १ मनोवेग, मन का आवेग । २ मन की गति ।

मनोवेधक - वि दिलचस्प, आकर्षक, दिलकश, चित्ताकर्षक ।

मनोव्यथा - स्त्री मनोव्यथा, मनस्ताप, दर्द दिल ।

मनोव्यापार - पु. मनोवृत्ति, मन का मकल्पादि व्यवहार ।

मनोहर - वि मनोहर, मोहक, सुदर ।

मनोळी - स्त्री वडई का एक औजार जो लकड़ी खोदने के काम आता है । [ 'मफलर' ।

मफलर - पु [ अ ] गुलूवद, मम - सर्व मम, मेरा । - त्व - न ममत्व; अपनापन, स्नेह । मु० - म्हणणें - १ स्वीकार करना । २ हाँ में हाँ मिलाना, दूमरा जो कुछ कहे उसे स्वीकार करना ।

ममता - स्त्री १ ममता, अपनापन, स्नेह । २ प्यार, वच्चे के प्रति माँ का स्नेह । मु० - लावणे - अपने व्यवहार मे दूमरे का स्नेह, प्यार प्राप्त करना ।

ममताळू - वि १ स्नेहशील, प्रेमी । २ दयालु ।

मयत - वि [ अ 'मैयत' ] मृत, मरा हुआ । - स्त्री मयत, जनाजा, अत्येष्टि ।

मयूर - पु. मयूर, मोर । - शिखा - स्त्री १ मयूरशिखा, मोर की चोटी । २ मोरशिखा (एक क्षुप) ।

मरगळ - स्त्री थकावट, निडाल होना, थककर चूर, पस्त होना । मु० - घेणें, - मारणें, मरगळीस येणें - दे 'मरगळणें' ।

मरगळणें - क्रि अ निडाल होना; थककर चूर, शिथिल, थ्रात, पस्त होना, कोई उत्साह न रहना ।

मरगळलेला - वि निडाल ।

मरण - न १ मरण, मृत्यु, मॉत । २ घाटा; नुकसान, कमी । ३ खतरा । ४ अत्यंत अप्रिय बात । - कळा - स्त्री मुर्दनी (मृत्यु के चिह्न जो चेहरे से प्रकट हो) । (मु० - ०येणें - मुर्दनी छाना) । - प्राय - वि मृत्यु के समान, वेहद, दु सह । (मु० - ०दु ख होणे -

शर्म से मर जाना) । मु० - कळणे,  
- जाणणे - मृत्यु या बडे सकट  
की आहट पाना । मरणाच्या दारीं  
बसणें, मरणाच्या पथास लागणे-  
मृत्युशय्या पर पडा होना, अव-तब  
होना, मरणामन्न होना, कुछ देर  
का मेहमान होना । मरणाला रात्र  
धाडवी करणें - थाने वाले सकट  
को किसी तरह थोडे समय के लिए  
रोकना, टालना । आजचें मरण  
उद्यावर ढकलणें - आज के सकट  
को कल तक के लिए टाल देना ।  
आपल्या मरणानें मरणे - १  
स्वाभाविक मृत्यु होना । २ अपने  
किये की सजा पाना । कहा०  
मरणदारीं कीं तोरणदारीं जावे -  
किमीके यहाँ मृत्यु या शादी -  
व्याह के अवसर पर अवश्य जाना  
चाहिए ।

मरणें - क्रि अ १ मरना,  
चल बसना; देहान्त होना, वफात  
पाना, मीत, मृत्यु, मरण होना ।  
२ सूखना, मुरझाना । ३ अति  
श्रम, कष्ट करना, खपना । ४  
बुझना, प्रभावरहित हो जाना  
(पारा, चूना) । ५ दब जाना;  
नष्ट हो जाना (भूख, प्यास) ।  
६. पीटना, मारा जाना (गोट,  
मोहरा) । ७ डूबना, बसूल न  
होना (पावना, रुपया) । ८ भीतर  
जाना; मोखना (पानी) । ९  
आसक्त, मोहित होना, जान देना ।  
१० खेलने का अधिकारी न रहना,  
आउट होना, मरना । मु० दृष्टि,  
नजर मरणें - हमेशा देखते रहने  
के कारण कोई असर न होना,  
आदत पड जाना । मरता-मरता  
बाचणें - मरते-मरते वचना,  
मर कर जीना, बीमारी आदि के  
खतरे से वच निकलना । मरावयास

फुरसत नसणें-मरने तक की फुरसत  
न होना । मरू घातलेला असणें,  
मरू घालणे - अव-तब होना,  
मरणासन्न होना । मरून जिणे -  
मर कर जीना, मरते-मरते वचना ।  
मरून पडणे - मर जाना । मरे-  
मरेतो मारणे- मारते-मारते गठरी  
बना देना; बुरी तरह पीटना,  
भुरकुस निकालना, पीटकर भरता  
बना देना । [ मरणोपात ।

मरणोत्तर - वि अव्य  
मरणोन्मुख - वि मरणोन्मुख,  
आसन्नमरण, मरणासन्न ।

मरत - वि १ मृत । २  
मरता हुआ । - मर्दें - न मरियल  
आदमी, बहुत दुबला, कमजोर  
व्यक्ति । - वास्त - वि स्त्री  
जिसके बच्चे बचपन में ही मर  
जाते हैं ऐसी बध्वा स्त्री ।

मरतुकडा - वि मरियल,  
बहुत दुबला, कमजोर ।

मरमर - स्त्री १ जानजोखो,  
साहस । २ दौडधूप । ३. ताना,  
व्यथ । - अव्य जी जान से, जी तोडा

मरवा - पु १ मरवा, मरुवा  
(पीवा) । २ सुबुल, बालछड  
(एक सुगंधित घास) ।

मरहूम - वि [ अ 'महूम' ]  
मरहूम, दिवगत, स्वर्गायि,  
जन्नतनशी ।

मराठ + - वि १ स्पष्ट,  
साफ़ । २ आसान, सरल ।  
- मोळा - पु मराठा जाति के  
लोगो का चाल-चलन, कुलीन ढग  
का आचरण । - वि कुलीन,  
सभ्रात कुल का, खानदानी ।

मराठा - पु १ मराठा,  
महाराष्ट्र का निवासी । २ मराठा,  
महाराष्ट्र की एक क्षत्रिय जाति ।  
३ महाराष्ट्र का अब्राह्मण

निवासी ।

मराठी - स्त्री मराठी; महाराष्ट्र  
की भाषा । - वि. मराठो का,  
महाराष्ट्र का । - कावा - पु.  
मराठो की धूर्तता; चालवाजी ।

मराठेशाही - स्त्री मराठो का  
शासन, कार्यकाल । [ राजहस ।

मराल-ळ - पु मराल,  
मरी - स्त्री. मरी; महामारी  
बवाई बीमारी । - आई - स्त्री  
मरी माता (एक क्षुद्र देवी) ।

मरूळ - वि रेतीला,  
रेगिस्तानी ।

मर्कट - पु मर्कट; बदर ।  
- चेष्टा - स्त्री बदरपन । कहा०  
आधीच मर्कट ताशांतहि मद्य  
प्याला - एक तो करेला, दूसरा  
नीम चढा ।

मर्जी स्त्री [ अ 'मर्जी' ] १.  
मर्जी, मरजी, खुशी । २ इच्छा;  
पसद, इत्हाहिश; रुचि । ३  
स्वीकृति, रजामदी, मजूरी ।  
४ कृपा, अनुग्रह, मिहरवानी ।  
- बाहेर, - विरुद्ध - अव्य  
इच्छा के विरुद्ध, नाखुश कर के ।  
मु० - खप्पा होणें - नाराज  
होना; विगड जाना । - बसणे -  
अनुग्रह, कृपा, प्रेम होना ।  
- मोडणें - किसीकी इच्छा के  
विरुद्ध कोई काम करना, नाराज  
कर देना । - राखणें - दिल, मन  
रखना, सतुष्ट रखना । - सपादणे -  
कृपापात्र बनना । - सभाळणे - हे  
'मर्जी राखणे' । मर्जीतून उतरणें -  
अनुग्रह, कृपा से वचित होना,  
आँखो से, नज़रो से उतरना ।  
मर्जीस घेणें - पसद आना, दिल  
का चाहना, मर्जी होना ।

मर्द - पु. [ फा ] १ मर्द,  
पुरुष, नर । २ वीर पुरुष; जवान ।

३ पति। - पणा - पु. १. मर्दानगी; वहादुरी, वीरता। २. हिम्मत; साहस।

मर्दन - न १ मर्दन, मलना; मालिश करना। २ पिटाई, मर-  
म्मत। ३ रौदना; कुचलना।  
४ नाश, हत्या।

मर्दानगी - दे 'मर्दुमकी'।

मर्दानी - वि [फा 'मर्दान']  
१ मर्दाना, मर्दों का, पुरुषसंबंधी।  
२. पुरुषोचित, वीरोचित। -खेळ-  
पु पुरुषोचित खेल, मर्दाना खेल।  
मर्दुमकी, मर्दुमी - स्त्री [फा  
'मर्दुम'] मर्दुमी, मर्दानगी,  
पराक्रम; वहादुरी, शौर्य।

मर्म - न १ मर्म, शरीर का  
नाजुक भाग। २. तात्पर्य, रहस्य,  
तत्त्व, गूढार्थ, युक्ति, खूबी।  
३ छिद्र, कमी, त्रुटि। -ज्ञ -वि  
१ मर्मज्ञ, रहस्यज्ञ, जानकार।  
२ कुशल, निपुण। -भेदक -वि  
मर्मभेदी, मर्मस्थल को छेदने  
वाला, अति दुखद। -स्थल, -  
स्थान - न १ मर्मस्थल, मर्म-  
स्थान, शरीर की नाजुक जगह,  
जीवनस्थान। २. कमजोर पहलू;  
कमी।

मर्या - वि मरियल।

मर्याद्वेल - स्त्री समुद्रपात  
(एक लता जो सागर के किनारे  
उगती है और जिसे लांघ कर समुद्र  
आगे नहीं बढ़ता)।

मर्यादशीर - ल - वि मर्यादी,  
मर्यादापालक, विनीत, सुशील;  
शिष्ट।

मर्यादा - स्त्री १ मर्यादा,  
सीमा; हद। २ आचारकी शास्त्र,  
परंपरा आदि द्वारा निर्धारित  
सीमा, शिष्टाचार; सदाचार।  
३ सम्मान, प्रतिष्ठा। मु० -

उल्लघणे - मर्यादा, शिष्टाचार का  
उल्लघन करना। - घालणे -  
सीमित करना, हद बांधना।  
- पाळणे - मर्यादा का पालन  
करना, इज्जत, आदर करना।  
मन्हाटा, मन्हाटी - दे 'मराठा',  
'मराठी'।

मल - पु १ मल, मैल; गदगी।  
२ मल-भूत्र। ३ लौह आदि का  
कीट। ४ पाप, बुराई। - द्वार - न  
मलद्वार, गुदा। - पृष्ठ - न मल-  
पृष्ठ, पुस्तक का पहला या वाहरी  
कोरा पृष्ठ। - मास - पु. मल-  
मास, अविक मास, लौद। -  
विसर्जन - न मलविसर्जन, मल-  
त्याग, पाखाना फिरना।

मलई - स्त्री मलाई, दूध या  
दही की सादी, बालाई।

मलई<sup>+</sup> - स्त्री ऊधम, धीगा-  
धींगी, धीगामुश्ती, मारमीट।

मलखाव - पु. मलखम;  
मलखम।

मलवार - पु. मलावार (प्रदेश)।

मलम - न पु. [फा. 'महम']

मरहम, घाव की दवा, लेप।

-पट्टी - स्त्री १ मरहमपट्टी, जलम  
का इलाज। २. अस्थायी इलाज।

मलमल - स्त्री मलमल (एक  
अत्यंत वारीक सूती कपडा)।

मलमा - पु. [हिं. 'मलवा']

मलवा (गिरे हुए मकान के ईंट-  
पत्थर, मिट्टी आदि)। [कञ्ज।

मलावरोध - पु. मलावरोध,

मलिदा - पु. [फा. 'मालीद.']

१ मलीदा, चूरमा। २ रिश्वत।

मु० - चारणें - रिश्वत देना।

मलिन, मलीन - वि मलिन,

मलीन, मैला।

मलूल - वि [अ.] १ मलूल,

खिन्न, उदाम। २ मुरझाया

हुआ, कुम्हलाया हुआ।

मलेरिया - पु. [अ.] जड़ी,  
जडैया बुखार, 'मलेरिया'।

मल्ल - पु. १. मल्ल, पहल-  
वान। २ मजबूत, हट्टाकट्टा  
आदमी। - पुद्द - न मल्लयुद्ध,  
कुत्ती, वाहुयुद्ध।

मल्लिका - स्त्री मल्लिका  
(वेला, मोतिया)।

मल्हार - पु. मल्हार; मलार  
राग (संगीत)।

मल्हारी - पु. शिवजी का एक  
अवतार (एक देवता)।

मवाली - वि [अ.] गुडा,  
बदमाश, आवारा, शुहदा।  
- गिरी - स्त्री, - पणा - पु. शुहदा-  
पन, गुडई; बदमाशी, आवार-  
रगी, आवारागर्दी।

मवाळ - वि १ नरम, मोत-  
दिल, एतिदालपसद। २ मृदु,  
मुलायम; कोमल। ३ आकर्षक,  
मनोहर। - पक्ष - पु. नरम दल।

मवाळु<sup>+</sup> - वि कोमल; दया-  
शील, प्रेममय।

मवाळें - न हाथी के दांत पर  
चढाया हुआ कडा।

मशक - पु. १ मशक, मच्छर।  
२ तुच्छ, नाचीज व्यक्ति।

मशक - न [फा. 'मश्क']  
मशक, पखाल।

मशगूल - वि [अ. 'मश-  
गूल'] मशगूल, तल्लीन, कार्यरत।

मशागत - स्त्री [अ. 'मश-  
क्कत'] १. मेहनत, परिश्रम;  
कठोर श्रम। २ कृषिकर्म। ३.  
सेवा। ४ निगरानी, देखभाल।

मशारनिलहे - वि [अ. 'मुशा-  
रून इलैह'] उक्त, कथित,  
उपर्युक्त।

मशाल - स्त्री [अ. 'मश-

अल'] मशाल । -ची-, -जी-पु  
मशालची, मशाल दिखाने वाला ।  
मु० - दिवसा लावणे, पाजळणे -  
मशहूर होना । कहा० उल्लू के  
भाई मशाअजी- उल्लू का भाई  
उल्लू ही होगा ।

मशी \* - अव्य मुझसे ।

मशी - छी १ मसि, स्याही,  
रोशनाई । २ कालिख, काजल ।  
-पात्र- न मसिपात्र, दवात ।

मशीद - छी [अ 'मस्जिद']  
मसजिद, मुसलमानों का  
उपासना - स्थल ।

मशीन - न [अ] १ यत्र,  
कल । २ कपडा सीने का, सिलाई  
का यत्र । मु० - मारणे- सिलाई  
का यत्र चला कर कपडा सीना ।

मशीरी, मशीरी - छी १  
मिस्ती । २ तवाकू को जला कर  
वनाया हुआ दत्तमजन ।

मस - पु. मस्सा ( शरीर पर  
दाने के रूप में उभरा हुआ मास-  
पिंड ) ।

मस + - सर्व मुझे, मुझको ।

मस - छी १ कालिख,  
काजल । २ कलक, दाग ।

मसण - न मसान, श्मशान,  
मरघट । - कूटी - छी श्मशान-  
भूमि । - खाई - छी १ चिता  
जलने का निचला स्थान । २ बहुत  
बड़ा और सुनसान मकान । - बट -  
टी - छी मसान, मरघट । मु० -  
जागविणे - मसान जगाना, शव-  
साधन करना । मसणात गोवच्या  
जाणे - कन्न में पाँव लटकाये होना,  
अति वृद्ध होना । मसणात जाणें -  
जहन्नुम में जाना, नष्ट, वरवाद  
होना । मसणात दिवा लावणे -  
कोई अवैज्ञानिक, अनुचित, निरर्थक  
कार्य करना । मसणातून ओढून

काढणे - मीत के मुँह से बाहर  
निकालना । कहा० मसणात देखील  
कावळघाचा उपद्रव - मसान में भी  
कागारोल, कहीं भी जाओ, आराम  
नहीं मिलता ।

मसणा - वि १ फलाना,  
अमुक । २ कम्बरत ।

मसलत - छी [अ 'मस्ल-  
हत'] १ मसलहत, परामर्श,  
यत्रणा, सलाह । २ युक्ति, तर-  
कीव; चालाकी, दाँव, उपाय ।  
३ मुहिम, अभियान ।

मसाण - दे 'मसण' ।

मसार + - वि ऊसर,  
रेतीली जमीन ।

मसाला - पु [अ 'मसालह']  
१ मसाला ( गुण, स्वाद आदि  
वढाने वाली सामग्री, दाल, तर-  
कारी, पान, आदि का मसाला ) ।  
२ वह सामग्री जिससे कोई चीज  
वनायी जाय या कार्य सपन्न किया  
जाय ( मकान बनाने का मसाला,  
अखवार का मसाला, वरतन जोड़ने  
का मसाला ) । ३ साधन,  
सामग्री, सामान ।

मसालेदार - वि [दे  
'मसाला'] मसाले दार ( जिसमें  
मसाला पडा हो ), चरपरा ।

मसुदा - पु [अ 'मुसव्वद']  
मसौदा, मसविदा, खर्चा, प्रारूप,  
खाका, पाडुलिपि, अशोधित  
लेख ।

मसुरी - न्या देवी - छी बहु  
मसूरिका ( चेचक का एक भेद ) ।

मसूर - छी मसूर ( एक अन्न  
जो दाल के काम आता है ) ।

मस्करी - छी [अ फा  
'मस्करगी'] दिल्ली, मखौल,  
ठठोली, हँसी, मजाक । मु० - ची  
फुस्करी होणें - हँसी - मजाक में

से झगडा खडा होना ।

मस्कन्या - पु [ 'मस्कर ' ]  
१ मसखरा; ठठोल, हँसोड,  
दिल्ली वाज आदमी । २ नक्काल,  
विद्वेषक ।

मस्का - पु [फा 'मस्क']  
मसका, मक्खन, नवनीत । मु० -  
लावणे - खुशामद, चापलूसी  
करना ।

मस्त - वि [फा] १ मस्त,  
नशे में चूर, मत्त, मतवाला । २  
मोटाताजा, हृष्टपुष्ट । ३ वेफिक्र,  
वेपर्वा, लापरवाह । ४ बढ़िया,  
मनभावता, सुदर । - अव्य बहुत,  
विपुल । - वाल - वि उद्दड,  
मगरूर, मुँहजोर ।

मस्तक - न १ मस्तक,  
सिर, माथा । २ किसी वस्तु का  
अग्रभाग । - द्वार - न तालु,  
मूर्द्धा । - पट्टी - छी खिडकी या  
किवाड के चौखटे की ऊपर वाली  
लकड़ी । - शूळ - पु. मस्तकशूल,  
सिरदर्द । मु० - ठेगणे करणे - सिर  
झुकाना, नम्रता से पेश आना ।  
- डोलविणें - सिर हिलाना, हाँ  
करना, स्वीकृति देना । - हुगणे -  
आशीर्वाद के तीर पर सिर को  
सूँघना, अवघ्राण ।

मस्ती - छी [फा.] १ मस्ती,  
मतवालापन, नशा । २ घमड,  
गर्व, उद्दता । ३ धीगा धीगी,  
धीगामुस्ती, शरारत, मारपीट ।  
४ मद । मु० - येणें - मस्ती पर  
आना, मस्त, मगरूर होना ।

महत - पु १ महत, मठा-  
धीश, साधुमघ का मुखिया । २.  
मुखिया, नेता ।

महती - छी १ महती; महत  
का पद या कार्य । २ बडप्पन;  
महत्ता, श्रेष्ठता ।

महती - स्त्री महत्ता, महिमा, वडाई, श्रेष्ठता ।

महत् - वि १ महत्, वडा; महान् । २ श्रेष्ठ । ३ ऊँचा, भारी ।

महत्तम साधारण भाजक - पु. महत्तम समापवर्तक, महत्तम सार्वभाजक ।

महत्त्व - न १ महत्त्व, अहमीयत, महत्ता, वडप्पन । २ श्रेष्ठता ।

महत्त्वाकाक्षा - स्त्री महत्त्वाकाक्षा, उच्चाकाक्षा, स्पृहा ।

महदंतर - न बहुत बडा अतर, फर्क । [ गौरवपूर्ण ।

महनीय - वि महनीय, महान्; महर्घता - स्त्री महर्घता, महँगाई, महँगी, महँगापन ।

महशूर - वि [अ 'मशूर'] मशूर, ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध, नामी ।

महसूल - पु. [अ] १ महसूल, कर, राजस्व, लगान । २ किराया, डाकव्यय, डाकमहसूल ।

महा - वि [ 'महत्' शब्द का समासगत रूप ] १ महत्, वडा ।

२. श्रेष्ठ । - एकादशी - स्त्री आपाढ और कार्तिक की शुक्ला एकादशी । - कर्म कठीण - न वडा मुश्किल काम । - जन - पु १ महाजन, श्रेष्ठजन । २ साहूकार, व्यापारी । ३ जाति या श्रेणी विशेष का मुखिया । - जनकी - स्त्री महाजनी, महाजन का पेशा, कार्य, अधिकार । - दशा - स्त्री महादशा ( मनुष्य के जीवन में ग्रहविशेष का निर्धारित भोग्य काल ) । - देव - पु. महादेव । शिव । - देवापुढचा - वि पु १ नदी । २ बछिया के तारु, बुद्ध ।

- नगर - न महानगर; वडा शहर । - ० पालिका - नगरनिगम; 'म्युनिसिपल कार्पोरेशन' । - निद्रा - स्त्री महानिद्रा, मृत्यु । - पुर - पु महाप्लावन, प्रचट बाढ, सैलाव । - भाग - पु १ महाभाग; अति भाग्यवान् । २ महाशय, सज्जन । - भूत - न महाभूत, पचभूत या उनमें से कोई एक । - मात्र - पु १ महामात्र, महामत्री । २ महावत । - माया - स्त्री १ महामाया, जगत् की अविष्ठात्री दुर्गा । २ डायन, चुडैल । - मारी - स्त्री महामारी, ववाई बीमारी, मरी । - मूर्ख - वि बुद्ध, अकल का दुश्मन । - युद्ध - न महायुद्ध, विज्वयुद्ध, आलमी जग । - राष्ट्र - पु महाराष्ट्र ( दक्षिण-पश्चिम भारत का एक प्रदेश ) । - राष्ट्री - स्त्री महाराष्ट्री ( एक प्राकृत भाषा ) । - राष्ट्रीय - वि महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्र का निवासी, महाराष्ट्र-सवधी । - रोग - पु कोढ, गलित कुण्ड । - शिवरात्र - स्त्री माघ की कृष्णा चतुर्दशी ।

महाग - वि १. महँगा, गराँ । २ अभावग्रस्त, मुहताज । मु० - लागणे - महँगा पडना, नुकसान, कष्ट उठाना पडना ।

महागणे - क्रि अ महँगा होना, कीमत, दाम वढ जाना ।

महागरा - वि १ महँगा बेचने वाला । २ दे 'महाग' ।

महागाई - स्त्री १ महँगी, गरानी । २ महँगाई, महँगी का भत्ता । - भन्ना - पु महँगाई, महँगी का भन्ना । [ वान ।

महात - पु महावत, हाथी-महामूर - स्त्री [अ 'मअ-

मूर'] विपुलता, समृद्धि, भरा-पूरा होना । - वि विपुल, भरा-पूरा, परिपूर्ण ।

महार - पु ढेंढ ( एक अछूत, जाति ), हरिजन, अमृग्य । - कावळा - दे 'डोमकावळा' । - की - स्त्री १ गाँव के ढेढ का काम, अधिकार आदि । २ कोई भी हलका बेफायदा काम । - चावडी - स्त्री अछूतों का चौपाल । - पोर - पु न अछूत या निम्न जाति के लोग । - वडा, - वाडा - पु १ हरिजनों की बस्ती । २ गंदी जगह, कुप्रवव, छुआछूत के विवेक का अभाव ।

कहा० महार मेला विटाळ गेला - गाँव फूटी पीर गयी । गाव तेथें महारवडा - हर जगह कुछ-न-कुछ बुराई रहती ही है ।

महाल - पु [अ 'महल'] १ महल, प्रामाद, हवेली; वडा मकान । २ रनवान; अत पुर ।

महाल - पु [अ 'महल' के अनेक ] तहसील, परगना । - करी - पु परगनादार, तहमीलदार ।

महालय, महाळ - १ महालय, पितृपक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष । २. पितृपक्ष में किया जाने वाला पितृ-कृत्य । [ वीजपूर, मातुलुग ।

महाळंग - न विजौरा नीबू, महिना - पु [फा 'महीन'] १ महीना, मास, माह । २ दर-माहा, मासिक वेतन । महिनातु-महिने - अव्य महीनों तक । महिनेमाह - अव्य हर महीने, प्रति-मास । महिन्याच्या कांठीं - अव्य महीने के अत में, प्रतिमास ।

महिमा - पु, महिमान - न महिमा, महत्ता, श्रेष्ठता, माहात्म्य ।

महिरप, महिराप - स्त्री  
[अ 'मिहराव'] मिहराव; मेह-  
राव, कमान ।

महिला - स्त्री महिला, स्त्री,  
भद्र नारी । [पटरानी । २ भैस ] ।

महिषी - स्त्री १ महिषी,  
मळ - पु मल, मैल, मैला ।  
दे 'मल' । - कट, - का - वि  
मैला, मलिन, गंदला । - खाऊ -  
वि मैलखोरा, गर्दखोरा ( जो मैल  
को छिपा सके ) ।

मळई - दे 'मळी' ।

मळकट, मळका - दे  
'मळ'भे ।

मळणी - स्त्री दँवनी, दँवरी,  
दाँय, दौरी । [होना ।

मळणे - क्रि अ गदा, मैला

मळणें - क्रि स १ दौरी,  
दँवरी करना, दाँय चलाना,  
(अनाज निकालने के लिए सूखे  
डठलो को बैलो से रौदवाना) । २  
मलना, रगडना, मसलना । ३  
गूँघना, मांडना, सानना ।

मळभ - न अम्र, बदली,  
घटा । सु - येणे - बदली, घटा  
छाना ।

मळमळ - स्त्री १ मतली,  
मिचली । २ वेचैनी, जी का बुखार;  
दिल का गुवार ।

मळमळणें - अकर्तृक क्रिया -  
जी मतलाना, वमन का उबास  
होना, मतली होना । (मला मळ-  
मळते=मेरा जी मतलाता है) ।

मळमळीत - दे 'मिळमिळीत' ।

मळवट - पु माथे पर लगाया  
हुआ चदन या कुकुम का बहुत बडा  
तिलक या लेप । सु - भरणे -  
चदन या कुकुम का बहुत बडा  
तिलक लगाना ।

मळवणें, मळविणे - क्रि स

१ मैला, गदा, खराव करना ।  
२ स्त्री का अनुचित उपभोग कर  
के उसे अपवित्र बनाना ।

मळसूत्र - न पंच, पंच, स्कू  
(एक तरह की कील जिसमे सिर  
पर चूडियाँ बनी होती है) । मु० -  
फिरविणें - कल धुमाना, किसीके  
मन को अभीष्ट दिशा में मोड देना ।

मळा - पु वाग; फलो,  
सब्जियो आदि की खेती ।

मळी - स्त्री १ (अगावरील)  
शरीर का मैल, किट, किट्ट । २  
(रसावरील) मलफेन, आग;  
मैल । ३ (जमीन) गगवरार  
(नदी की धारा के नीचे से निकली  
हुई, या नदी के किनारे कीचड जम  
जाने से बनने वाली नयी जमीन) ।  
- ची जमीन - स्त्री जलोढ भूमि,  
कछारी भूमि, पुरानीत भूमि ।

मळेकरी - पु १ वागवान ।  
२ गन्ने, फलो, सब्जियो आदि की  
खेती करने वाला या उस प्रकार  
की खेती का मालिक ।

माऊ - दे 'माऊ' ।

माकण - दे 'माकण' ।

माग - पु १ मातग, चाडाल  
(एक अच्छत जाति) । २ जल्लाद ।  
३ क्रूरकर्मा, निर्दय, वेरहम व्यक्ति ।  
- वि क्रूर, निर्दय; वेरहम । -  
गारुडी, - गारोडी - पु १ नट,  
मदारी । २ मागो की एक उप-  
जाति (ये लोग भैस खरीदते-  
वेचते हैं और उनके बाल काटते  
हैं) । - हूबयी - वि निर्दय,  
वेरहम ।

मागल्य - न १ मागल्य,  
मागलिकता, पवित्रता । २  
सौभाग्य, कल्याण ।

मांजर - न विल्ली, विलाव ।

माजराची मावशी - स्त्री छछूंदर ।

माजराचे पाय - पु बहु घमीट  
(लिखावट), टेढेमेढे अक्षर । (मु०  
- ० कुत्र्यावर करणे - किसी काम  
मे बांधली, गडवडी करना) । मु०  
- आडवे जाणें, येणे, - १  
किसी काम मे बाधा पडना । २  
विल्ली का रास्ता काटना, असगुन  
होना । - मारणे - १ पाप करना ।  
२ अपराध, गुनाह करना ।  
माजराच्या पावलाने येणे - चुपके  
से, बिना आहट के आना । कहा०  
माजराच्या गळ्यांत घटा कोण  
वाघणार - म्याँव की ठोर  
कौन पकडे ? खतरे का काम कौन  
करे ? [कीन ।

माजरपाट - पु लट्ठा, मार-

माजरी - स्त्री १ विल्ली ।  
२ काँखारी, काँखवारी, काँख,  
वगल का फोडा ।

माजा-झा - पु माँझा (पतग  
की डोर पर, उसे कडा और मजवूत  
करने के लिए मला जाने वाला  
मसाला) ।

माड - स्त्री १ रचना,  
विन्यास, गठन, डौल । २ प्रवच,  
व्यवस्था । ३ सजावट । ४  
विस्तार, फैलाव । ५ खेल,  
दाँव । दे 'माडणी' ।

माड - स्त्री १ आसन, बैठक ।  
२ जाँघ का एक रोग । - 'माडी'  
का समामगत रूप । - चोळणा - पु  
जाँघिया, घुटन्ना, घुटनो तक का  
पाजामा, तग मोहरी का पाजामा  
जो टखनो मे ऊपर रहता है । मु०  
- जमविणे, - ठोकणे - घोडे पर  
अच्छी तरह बैठना, आसन  
जमाना ।

माडणी - स्त्री १ रचना,  
विन्यास, गठन, डौल । २. सजा-  
वट । ३ प्रवच, व्यवस्था । ४

पेश करना; प्रस्तुत करना । ५ खाका, ढाँचा, दे. 'माड' ।

माडणे - क्रि स १ ठीक ढग मे लगाना, सजाना; रचना, क्रम से रखना । २ लिखना । ३ पेश करना, प्रस्तुत करना । ४ खोलना, चलाना (दुकान) । ५ शुरू करना (खेल) । - क्रि अ बनाना, तैयार होना ।

मांडलिक - पु १ मांडलिक, मडल का राजा । २ मानहत, अधीन नरेय ।

माडव - पु १ मडप, विवाह-मडप । २ मँडवा, कुंज । ३ यामियाना । - आवस - श्री फाल्गुन की अमावस । - खंडणी - श्री अब्राहमणों के विवाहों मे ब्राह्मण उपाध्याय को मिलने वाली विशेष दक्षिणा । - परतणी - श्री ; - परतणें - न वडहार, विवाह की समाप्ति पर कन्यापक्ष की ओर से वरात्रियों को दिया जाने वाला वदाई का भोज । माडवाखालून जाणे - विवाह होना, विवाह का अनुभव प्राप्त होना । [ मडप ।

माडवी - श्री मडपी, छोटा मांडा - पु मांडा (एक तरह का बहुत पतला पराँठा या मीठी रोटी) ।

मांडी - श्री १ जाँघ, रान । २ गोद, अँकवार, अक । ३ पलथी । - खालचा - वि परचाया हुआ; हमेशा का । मु० - (आप-लीच) - उघडी करणे - अपने ही दोषों या वृत्तियों को जाहिर करना । - घालणें - आलथी - पालथी लगाना । - ठोकणे - बैठ जाना, अड्डा जमाना । - ठोकून उभें रहाणें - खम ठोकना, ललकारना, लडने के लिए ताल

ठोकना । - देणें - मरणासन्न व्यक्ति का सिर गोद में लेना । - पालटणे - सतान की प्राप्ति के लिए किमी परपुरुष से मभोग करना । - मोडणें - १. लिखने के लिए पलथी मार कर जम कर बैठ जाना । २ पलथी को बदलना । - वर घेणें - गोद लेना, दत्तक बनाना, लेना, गोद विठाना । - वर देणे - गोद देना । - वर माडी टाकून वसणे - पाँव पर पाँव रख कर बैठना, कुछ काम न करना । - स माडी लावून वसणे - बराबरी करना; टक्कर लेना ।

मात्रिक - वि पु मात्रिक, ओक्षा, नाउत, जतर-मतर जानने, करने वाला ।

मांद - श्री १ दौरी के समय खलिहान में जमा होने वाला अनाज का ढर । २ नाँद, चौड़े मुँह का मिट्टी का बड़ा वर्तन ।

मांदण + - न १. दे 'माद' । २ अँगीठी ।

मादार - पु मादार, मदारवृक्ष । मादीयाळी - श्री, मादीयाळें - न मडल, समूह, झुड ।

मादी + - श्री १ चक्र, चक्कर । २ दे 'मादियाळें' ।

मांछ - न १ माछ, मदता; दुर्बलता, कमजोरी । २ मुस्ती ।

मास - न १ मास; गोश्त । २ आमिप । - सच्छर - न मास, मछली आदि सामिप भोजन । [ गुदारा, म्यूल, पुष्ट ।

मासल - वि मासल, मासाहारी - वि मासाहारी, सामिपभोजी, गोश्त खाने वाला ।

माई - श्री १ माई, उम्र में बटी या आदरणीय स्त्री का सर्वो-धन । २ जीजी, दीदी ।

माउली - श्री १ माँ, माता ।

२ माता के समान कोई भद्र महिला । ३ जलदेवी ।

माळ - श्री विल्ली (बच्चों की बोली में) ।

माकड - न पु वदर, मर्कट, कपि । - चेष्टा - श्री वदरपन, ब्रेहूदा वाते । - टोपी - श्री कन-टोप । - तोड्या - वि वदर का-सा मुँह वाला, वदमूरत । - चाला - पु मदारी । - हाड - न अनु-त्रिकास्थि, गुदास्थि, टुमची की हड्डी । कहा० माकडाच्या हातीं कोलीत - वदर के हाथ मशाल, एक नागिन और पक्ष लगायी ।

माकडी, माकडीण - श्री वंदरिया, वंदरी, मर्कटी, वानरी ।

माकण - श्री [क 'मंकणि'] बँल, भँमे या घोडे की पीठ पर से पानी ढोने के लिए बनाया हुआ लकड़ी या लोहे का ढाँचा जिसमें बड़े रखने के लिए छेद बने होते हैं ।

माका + - सर्व मुझे, मुझको ।

माका - पु भँगरा, भृगराज (एक क्षुप) । - सर्व दे 'माका' ।

माकोडा - पु [ गुजराती 'मकोडो', हिं. 'मकोडा' ] चीटा, मकोडा ।

माखणें क्रि स पोतना; चुपडना । - क्रि अ सनना; भरना ।

माग - पु करघा, करगह (कपडा बुनने का यंत्र) ।

माग - पु १. पता, सुराग, टोह । २ मार्ग, रास्ता । - मूस - पु अता-पता, सुराग, नामो-निधान । मु० - काडणे, - लावणे - टोह लगाना, लेना, पता लगाना ।

मागचा - दे 'मागला' ।

मागणी - श्री १ माँग,

याचना । २ तलव (अधिकार के रूप में की हुई याचना) । ३ (लग्नाची) प्रस्ताव, माँगनी; तज-वीज, दरख्वास्त । मु० - करणे - माँगना, माँग पेश करना । - घालणें - विवाह का प्रस्ताव करना, माँगनी करना ।

मागणें - न माँग, याचना, प्रार्थना, प्रस्ताव । - करी पु माँगने वाला, माँगता, याचक, भिखमगा ।

मागणें - क्रि स १ माँगना, याचना करना, प्रार्थना करना । २ माँग पेश करना ।

मागला - वि १ पिछला, पीछे का । २ पहला; पहले का, वीते समय का, पुराना । - पाय-पु. १ पीछे हटना । २ घटाव, कम होना । ३ अवनति । मागल्या पायीं - अव्य विना रुके, उसी समय, तुरत लौट कर । कहा० येरे माइया मागल्या ताक कण्या चागल्या - चाहे जितना सिखाओ, कोई असर नहीं होता, आदत नहीं छूटती । [ माँगवाना ।

मागविणें - क्रि स माँगना, मागस - वि १ पिछडा हुआ, अविकसित । २ वाद में आया हुआ ।

मागसणे - क्रि अ १ पिछडना, पीछे रह जाना । २ देरी से आना ।

मागासलेला - दे 'मागस' । मागासणे, मागासलेला - दे 'मागसणे', 'मागस' ।

मागाहन - अव्य १ वाद में, फिर । २ पीछे से ।

मागोल - वि पिछला, दे 'मागला' । - अंकावरून पुढें चालू - वि वारावाहिक, वारावाही,

लगातार होने या जारी रहनेवाला, एक ही ढंग का । - दार - न पिछवाडा - दारानें - अव्य चोर दरवाजे से, प्रच्छन्न रूप से, बहाना बना कर ।

मागुता-ती-तें\* - अव्य १ फिर में, दुबारा । २ पीछे । ३. तुरत ।

मागून - अव्य पीछे से, वाद में, फिर । मु० - आलेलें लोण पुढे पोचविणें - पुरानी परिपाटी को आगे चलाना, पीछे से आयी सी आगे चली । कहा० मागून पुढून वाप नवरा - हर तरफ से अपना ही स्वार्थ देखना ।

मागे - अव्य १ पीछे, पीठ की ओर । २ पहले, पुराने समय में, गुजस्ता । ३ फिर, वाद में । ४ पीठ पीछे, अनुपस्थिति में । - आलेली - वि स्त्री विधवा हो जाने से पिता के घर लौटी हुई । - पुढें - अव्य १ आगे-पीछे, आस-पास, चारों ओर । २ कभी न कभी, किसी समय । ३ अव्य-वस्थित रूप में । ४ हिचकिचाते हुए, आगा-पीछा करते हुए । मु० - घेणें - १ वापस लेना । २ पीछे हटना । ३ छोड़ देना । - टाकणें - १ बचाना (पैसा) । २ पीछे छोड़ना । ३ शरण देना । - पडणे - १ पिछडना, पीछे रह जाना । २ महत्त्व घट जाना, पूछ न होना । ३ वचना (पैसा) । ४ रद होना । - पुढे करणें - आगा-पीछा करना, हिचकिचाना । - पुढे कोणी नसणें - आगे-पीछे कोई न होना, वश, खानदान में कोई न होना । - पुढें न पाहाणे - विलकुल परवाह न करना, न हिचकिचाना । - पुढें पाहन बागणें -

दूरदेशी से काम लेना, आगा-पीछा सोच कर चलना । - राहाणें - १ पिछड जाना । २ पीछे, ओट में रहना, लोगो के सामने न आना, ख्याति प्राप्त न करना । लागणें - पीछे पडना, तुल जाना, पीछे लगना, पीछा न छोड़ना । मागो-माग - अ तुरत पीछे, तुरत ही ।

मागोवा - पु १ मार्ग, राह । २ अनुसरण, दीक्षा, अनुकरण । ३ पता, सुराग ।

मागोसा - पु १ टोह, सुराग, पता । २ आहट ।

माघ - पु माघ (महीना) ।

माघार - स्त्री १. पीछे हटना । २ वापसी । ३ अवनति । ४. उलटना । - पण - न नयी दुलहिन का कुछ समय के लिए मायके आना या ससुराल जाना ।

माघारा-रीं - अव्य १ वापस, लौट कर । २. फिर से ।

माचकणा - पु रीठ ।

माचणें - क्रि स भरना; दवाना ।

माचा पु १. माचा, बडी मचिया (चौकोर चौकी जो खाट की तरह सुतली आदि से बुनी गयी हो) । २ पलग, मचक ।

माची - स्त्री १ उपत्यका । २ किले की दीवार के नीचे का ढालू भाग । ३ मचिया । ४ मचान ।

माज - पु १ मस्ती; सभोगेच्छा की प्रवृत्ता । २ गर्व, घमड । ३ मतवालापन, नशा । ४ विपुलता । मु० माजावर, माजास घेणें - १ मस्तीपर आना, मस्त होना । २ मगरूर बनना ।

माजणें - क्रि अ १ बढना, फैलना, मचना । २ मस्ताना,



मस्त होना, मस्ती पर आना ।  
३ उन्मत्त होना, आँखों में चरबी  
छाना, घमड में किसी वस्तु की  
ओर ध्यान न देना, लापरवाह  
वतना । ४ नशा चढना, छाना ।  
५ मुटाना, फूलना; मोटा होना ।  
६ चस्का लगना ।

माजघर - पु. घर का बीच वाला  
हिस्सा ।

माजविणें - क्रि स १  
मचाना, कराना, जारी या बरपा  
करना (शोर) । २ बढ़ाना,  
मोटा बनाना ।

माजो \* - अव्य मे, भीतर,  
अदर, बीच में ।

माजो - वि [ अ 'माजो' ]  
१ भूतपूर्व, साविक, पूर्ववर्ती,  
पहला । २ रद, अप्रचलित ।

माजूम - छी [ अ 'मअजूम' ]  
माजूम (पिसी हुई भाँग जो चाशनी  
में ढालकर जमा ली गयी हो) ।

माजुरी, माजोरी - छी [ हि  
'मुंहजोरी' ] मुंहजोरी, गुस्ताखी,  
वृष्टता, उद्दडता ।

माजूर, माजोर-रा-री - वि  
[ हि 'मुंहजोर' ] मुंहजोर;  
उद्दड, धृष्ट, गुस्ताख ।

माझा - सर्व मेरा, मदीय ।  
[ माझी = मेरी ] दे 'माझें' ।  
- मो - अव्य मैं खुद, किसीकी  
मदद के बिना, मैं अकेला ।

माझें - सर्व मेरा । मु०-तुझें  
म्हणणें - १, मेरा-तेरा करना,  
पराया ममझना । २ पक्षपात,  
तरफदारी करना । - माझें  
म्हणणें - सभी चीजों पर अपना  
हक जताना । माझ्याकडे तरी  
पाहा - कम से कम मुझ पर तो  
रहम करो, मेरी दशा को तो  
देखो । माझ्या बापाच्यानं हें हीणार

नाहीं - मुझमें यह कभी नहीं होगा ।

माठ - पु. मरसा (साग) ।

माठ - पु. माट, मटका, मिट्टी  
का ढडा ।

माठ - वि १ बुद्धू, मदमति ।  
२ ढालवाँ, ढालू । ३ ठिगना,  
नाटा ।

माठरणें - क्रि अ १ भारी,  
सुस्त होना । २ मर आना । ३  
सूखना, मुरझाना ।

माठा-ठ्या - वि बुद्धू, सुस्त,  
मदमति । [ पेड ]

माड - पु. माड, नारियल का  
माडों - न १ चावल और  
दाल की खिचडी । २ कुलथी के  
वेसन की पतली कडी ।

माडा - पु १ मंदिर । २  
प्रासाद । - स्त्री १ पौवा । २. पौद ।

माडी - छी नारियली, नारि-  
यल की ताडी, ठरा ( देशी  
शराब ) ।

माडी - छी १ वालाखाना,  
कोठा; अटारी । २ मकान में  
ऊपर की मजिल । [ ( कद ) ]

माडी - छी अरबी, घुइयाँ  
माण - छी १ चिकनी मिट्टी ।  
२ हलकी, भुरभुरी मिट्टी । ३  
चौटे मुंह का मटका । ४ गन्ने का  
रस जमा करने का बरतन । ५  
पशुओं की गर्दन का एक रोग ।  
- देश - पु. एक प्रदेश-विशेष  
( यह छोटी-सी तहसील सातारा  
ज़िले में है ) ।

माणसाचा, माणसातून, माण-  
सानें - दे 'माणूस' में ।

माणसाळणे - क्रि अ हिलना,  
परचना, सघना, परकना, परि-  
चित होना ।

माणसाळलेला - वि पालतू,  
हिला हुआ, सघा हुआ ।

माणसाळविणें - क्रि स  
हिलाना, परचना, मवाना;  
पालना ।

माणसें - न बहु. [ 'माणूस'  
का बहु० ] आदमी, मनुष्य; लोग ।  
दे. 'माणूस' ।

माणिक, माणीक - न  
माणिक, माणिक्य, मानिक; लाल  
( एक रत्न ) । मु० - माझां  
माणिक गिळणें - मछली का  
माणिक निगल जाना, ऐसी हानि  
होना जिमकी पूर्ति कभी नहीं हो  
सकती ।

माणूसकी - छी मनुष्यता,  
इन्मानियत, भगई, भलमन-  
साहत ।

माणूसघाण्या - दे 'माणूस' में ।

माणूस - पु. न १ मनुष्य,  
मानव, इन्सान । २ आदमी,  
पुरुष । ३ मजदूर । - घाणा-ण्या-  
वि १ मानवद्वेषी; जनवैरी,  
गैरमिलनसार । २ जनममाज से  
दूर भागने वाला, एकातप्रिय ।  
- यळ - न मनुष्यों की संख्या का  
बल, सहारा, मानवशक्ति, जन-  
बल । माणसाचा अवतार, कादा,  
लेक - पु. बुद्धू, उल्लू का पट्टा ।  
मु० माणसातून उठणे - १  
समाज से अलग होना । २ क्रूर,  
बदमाश, अशिष्ट वतना । माण-  
सातून उठविणे - जाति समाज से  
बाहर कर देना, जीवन को दूभर  
बना देना । माणसानें काय बोलावें ?  
अब क्या कहें ? अब तो हृद हो  
गयी ।

मात - छी 'माती' का छोटा  
और समास में व्यवहृत रूप ।  
- कट - वि दे 'मातट' ।  
- कापड - न कपडमिट्टी ।  
- काम - न मिट्टी के खिलौने

आदि बनाने का काम ।

मात - स्त्री [ अ ] १ मात, शतरज की बाजी की हार । २ हार, शिकस्त, पराजय । मु० - करणें - १ मात करना, शहमात देना, हराना । २ निरर्थक या व्यर्थ करना, कान काटना, बढ जाना, दाँत खट्टे करना । छक्के छुडाना । - खारणें - हारना, पराजित होना, शिकस्त, मात खाना ।

मात - स्त्री वात, घटना, मामला ।

मातट - वि मटियाला, मट-मैला, धूल में सना हुआ ।

मातणें - क्रि अ १ मत्त होना । २. बढ जाना । दे 'माजणें' ।

मातवर, मातव्वर - वि [ अ 'मुअतवर' ] १ मालदार, अमीर । २ सभ्रात, कुलीन । ३ बडा, विश्वसनीय, आदरार्ह; मोतवर ।

मातवरी, मातव्वरी - स्त्री [ दे 'मातवर' ] १ बडप्पन, फोकियत, महत्त्व । २ श्रेष्ठता । ३ प्रतिष्ठा ।

मातलेला - वि मत्त, मत - वाला, मस्त, दे 'माजलेला' ।

माता - स्त्री १ माता, माँ, जननी । २ शीतला, चैचक । - पितरे - न बहु माता-पिता, वालिदेन, माँ-बाप । - मह - पु मातामह, नाना । - मही - स्त्री मातामही, नानी ।

माती - स्त्री १ माटी, मिट्टी, धूल । २ स्थूल शरीर । ३ नाश; वरवादी । ४ कुछ नहीं, खाक । ५ लाश । - चें तेल - न मिट्टी का तेल । मु० (अन्नात) - काल-विणें - किसी की रोजी विगाडना; जीविका नष्ट करना । - खाणे - हार जाना । - घालणें - दे 'माती

लोटणे' । - च्या मोलानें विकणें - मिट्टी के मोल (बहुत सस्ते दामो) बेचना । - टाकणें - दे 'माती लोटणे' । - देणे - मिट्टी देना, लाश को दफन करना । - ला जाणें - अत्येष्टि के लिए जाना, मयत में जाना, जनाजे के साथ जाना । - ला मिळणें - मिट्टी में मिलना, नष्ट, वरवादी हो जाना । - लोटणें - १ मिट्टी देना, लाश को दफन करना । २ मिट्टी डालना, ऐव पर परदा डालना । ३ भूल जाना, भुला देना । - होणें - मिट्टी पलीद होना, गुडगोबर होना, रग में भग होना, नाग, दुर्दगा, बरवादी, होना । मातींत मिसळणें, मिळणें - दे 'माती होणें' । [ माताजी ।

मातृश्री - स्त्री मातृश्री, मातृ - स्त्री १ माता । २ 'माता' शब्द का प्रातिपदिक रूप जो केवल समासो में व्यवहृत होता है । - भूमि - स्त्री मातृभूमि, जन्मभूमि, वतन । - भोजन - न यज्ञोपवीत सस्कार से पहले अंतिम बार माता के साथ उमकी थाली में पुत्र का भोजन करना ।

मातेरा - पु; मातेरें - न १ खराबी, वरवादी, सत्यानाश । २ अनाज आदि जिसमें मिट्टी मिली हो । [ माताजी ।

मातृश्री - स्त्री मातृश्री, मात्र - अव्य १. मात्र, केवल, सिर्फ । २ परतु, मगर । वि थोडा-सा । - न समूह, जाति, सभी लोग [ मनुष्यमात्र = सारे मानव ]

मात्रा - स्त्री १ मात्रा, अक्षर पर लगायी जाने वाली स्वरसूचक रेखा ( ` , ^ ) । २ ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में लगने वाला काल ।

३ परिमाण, मिकदार, मात्रा । ४ औषध का एक बार सेवन करने योग्य परिमाण, खुराक । ५. स्वर का स्थितिकाल, एक स्वर के उच्चारण में लगने वाला काल (सगीत) । ३ हिमत, सामर्थ्य, हैसियत, विसात । मु० - चालू न देणें - एक न चलने देना, कुछ न चलने देना, मात कर देना । - न चालणें - १ एक न चलना, कुछ न चलना । २ असर न होना । - लागू पडणें - असर होना, ठीक निशाना लगना ।

माथण-णी + - स्त्री मथनी (दही मथने का मटका) ।

माथा - पु १ माथा, मस्तक । २ पेशानी । ३ चोटी, शिखर । ४ वस्तु का अग्रभाग । - कूट - स्त्री म दे० 'माथेंफोड' । दे 'माथें' । मु० - उजळणें - सब दोषारोपो से मुक्त होना । - तुकविणें, - लवविणें - १ मिर झुकाना, चुपचाप स्वीकार करना । २ माथा टेकना । ३ सिर हिलाना । माथें मारणें - मत्थे मडना, सिर मडना, बलपूर्वक किसी के जिम्मे लगाना ।

माथें - न माथा, मस्तक, सिर, दे 'माथा' । - फिह - वि सिरफिरा, सनकी, घनचक्कर । - फोड - स्त्री माथापच्ची, मगज-पच्ची । ( मु० - ० करणें - माथा-पच्ची, मगजपच्ची करना, सिर खपाना ) । मु० - फिरणें - सिर फिरना, पागल होना ।

मादक - वि मादक, नशीला, मदभरा । - पदार्थ - पु. मादक द्रव्य, नशीली चीज ।

मादकता - स्त्री मादकता, नशीलापन ।

मादी - स्त्री [ फा 'माद' ] १

मादा, स्त्री, स्त्री प्राणी। २ जोडे मे से छोटी वस्तु।

माघवी - स्त्री १ माघवी, गहद से बनी धराव। २ माघवी-लता, वासती।

माघुकरी - स्त्री मधुकरी (पके अन्न की भिक्षा)। - पु मधुकरी माँगने वाला।

माघुरी - स्त्री, माघुर्य - न मावुरी, माघुर्य, मिठाम, लावण्य, जीरीनी।

माघ्यम - न माव्यम, माघन, जरीया, कार्यविशेष की वाहनरूप वस्तु, 'मीडियम'।

माघ्यमिक - वि माव्यमिक, 'नेकडरी'। -शालांत परीक्षा - स्त्री मैट्रिक परीक्षा। - शिक्षण - न. माव्यमिक शिक्षा।

माघ्यान्ह - दे 'मघ्यान्ह'।

मान - स्त्री १. गरदन, गर्दन, गला, ग्रीवा। २ घडे, सुराही आदि का मुँह के नीचे का तग, लवोतरा भाग। - छोडा - पु नट-खट चौपायो के गले और अगले पाँव मे बाँधने की रस्मी। - गुटी - स्त्री गरदन, गरदनिया। (मु० - ० धरणें, पकडणें - गला पकडना, तग करना, मजबूर करना। - स बसणें - सिरपर मवार रहना, होना, जाने न देना, कडाई मे निगगनी करना)। - मोड - स्त्री १ गरदन मे दर्द होना। २ परिश्रम, कष्ट। - मोडी - स्त्री १ खटी चढाई। २ गरदनतोड वुखार। मु० - अडकणे - १ गरदन फँसना। २ मुसीबत मे फँसना। - कापणे - १ गरदन, गला काटना, भारी अहित करना। २ विग्वामघात, दगा करना। - खालीं घालणे -

गरदन झुकाना, मिर झुकाना, लज्जित, धरमिदा होना। - टाकणे - १ गरदन झुकाना। २ थकना, निडाल होना। - डोल-विणे - सिर हिलाना, बाह-बाह करना, झूमना। - ताठ ठेवणे - आत्मसम्मान को बनाये रखना, मिर उठाना, आत्मसम्मान मे रहना। - तुकविणे - १ प्रथमा मे गरदन झुकाना। २ सिर झुकाना; चुपचाप स्वीकार करना। - धरणें - १ गला फँसना, पकडना, मजबूर करना। २ गरदन मे ऐँठन होना। - मुरगाळणे - गरदन मरोडना, मार डालना। - वर करणे - १ मिर उठाना; अच्छी स्थिति प्राप्त करना। २ गरदन उठाना, विरोध करना। - वर न करणे - लज्जा या नम्रता के कारण मिर ऊपर न उठाना, सिर झुकाना। - वाकडो करणे - १ सिर, गरदन हिलाना। २ अस्वीकार करना। - वाकविणे - दे 'मान तुकविणे'। - सोडविणे - गला छुडाना, पीछा छुडाना, छुटकारा पाना या दिखाना। मानेचा फाटा ढळणे - गरदन झुकना; मृत्यु, वेहोशी आदि के कारण गरदन का छुटक जाना। खालच्या मानेनें चालणे, पाहाणे - नम्रता से चलना; मिर निहुराना, मिर झुकाना। मानेवर सुरी ठेवणे - गरदन पर छुरी फेरना, भारी जुल्म, अन्याय करना।

मान - पु १ मान, आदर, प्रतिष्ठा, सम्मान, उज्जत। २ अभिमान, गर्व, घमड, ऐँठ, अकड। ३ अधिकार। ४ आधार, प्रमाण। - करी - पु नम्मानित व्यक्ति, सम्मान का अधिकारी (दरवार या विवाह आदि मे)।

- खडना - स्त्री अनादर, अपमान। - घन - वि मानघन, प्रतिष्ठा ही जिमका धन हो। - न मानदेय। - नीय - वि माननीय, आदरणीय। - पत्र - न अभिनदनपत्र। - पान - पु १. सम्मान-सत्कार। २ नम्माननीय व्यक्ति का अधिकार। ३ विवाह आदि अवमरो पर दिये जाने वाठे सम्मान नूचक उपहार। ३ मान-मनौती। - बिंदु - पु नम्मान का प्रश्न, गौरव का स्थान। - भग - पु मानभग, मानहानि; अपमान। - मरातव - पु सम्मान, आदर-सत्कार। - मर्यादा - स्त्री १ आदर, प्रतिष्ठा। २. मर्यादा। - मान्यता - स्त्री प्रतिष्ठा, आदर, उज्जत। - वस्त्र - न खिलअत, नम्मानार्थ दिया जाने वाला वस्त्र, पहनावा। - हानि - स्त्री मान-हानि, अपमान, वेइज्जती। मानाचें पान - न सम्मानार्थ दी जाने वाली माधारण वस्तु। मु० - ठेवणे - मान रखना, वान रखना; वडप्यन का सम्मान करना। कहा० मान सागावा जनाला, अपमान सागावा मनाला - अपने सम्मान की बात तो नव मे कह दी जाय, परंतु अपमान की बात किसीमे न कही जाय, अपमान को अपने पास ही रखना चाहिए।

मान - न १ मान, परिमाण, मात्रा, मिकदार। २ मानदड, नाप, तौल। ३ औसत। - चित्र - न मानचित्र, नक्शा। - दंड - पु मानदड; पैमाना।

मानणे - क्रि स १ मानना, समझना, फर्ज करना, खयाल करना। २ स्वीकार, कबूल करना,

राजी होना । ३ आदर, मान करना, (किसीपर) श्रद्धा करना । ४ गुण, योग्यता का कायल होना । कहा० मानला तर देव नाही तर दगड - मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, किसी वस्तु का महत्त्व उसमें निहित श्रद्धा या विचार पर निर्भर करता है ।

मानभाव - पु १ महानुभाव (हिंदुओं का एक संप्रदाय) । २ दे 'मानभावी' । कहा० करणे कसाबाचें बोलणे मानभावाचें - करनी कस्साव की और बाते साधु की, बगल में छुरी, मुँह में रामनाम ।

मानभावी - वि ढोगी, मक्कार, दिखावटी, कपटी ।

मानव - पु १ मानव, मनुष्य इन्सान । २ मनुष्यजाति । - वशशास्त्र - न मानव - विज्ञान, नृवशविज्ञान, नृतत्त्व-विज्ञान । - वशशास्त्रज्ञ - पु नृतत्त्ववेत्ता, नृतत्त्वविज्ञानवेत्ता, नृवशविज्ञानवेत्ता ।

मानवर्ण - क्रि अ १ मुआफिक आना, रास आना, अनुकूल होना । २ पचना, हजम होना ।

मानवी - वि मानवीय, इन्सानी ।

मानस - न १ मानस, मन, चित्त, दिल, अंत करण । २ मान सरोवर । - पु. विचार, इरादा, इच्छा, हेतु । - कन्या - स्त्री मानी हुई बेटी । - पुत्र - पु १ माना हुआ बेटा, पुत्र के समान प्रिय व्यक्ति । २ मानसपुत्र, (ब्रह्मा के सकल्पमात्र से उत्पन्न पुत्र) । - पूजा - स्त्री मानसपूजा (बाह्योपचार के बिना मन में की जाने वाली पूजा) । - शास्त्र - न मानसशास्त्र, मनो-

विज्ञान । - शास्त्रज्ञ - पु मानसशास्त्री, मनोवैज्ञानिक । - सरोवर - न मान सरोवर, मानसमर ।

मानसिक - वि १ मानसिक, मनभवधी । २ काल्पनिक ।

मानानें - अव्य मात्रा में, अनुपात में, मुकाबले में ।

मानी - वि मानी, अभिमानी, स्वाभिमानी ।

मानीव - वि माना हुआ, समझा हुआ, फर्ज किया हुआ ।

मान्य - वि १ स्वीकृत, मजूर, सम्मत । २ मान्य, आदरणीय, पूज्य । ३ पसद । ४ राजी । मु० - करणें - स्वीकार करना, मान लेना । - होणें - स्वीकार होना, मजूर होना ।

मान्यता - स्त्री १ स्वीकृति, मान्यता, मजूरी, अनुमति, सकार, सम्मति । २ आदर, सम्मान ।

माप - न १ माप, नाप । २. मान, परिमाण, मिकदार, मात्रा । ३ गिनती । मु० पदरात घालणे - किसी अपराध या गलती को प्रमाणित कर देना ।

मापटें - न मापक, आधा सेर की माप ।

मापणे - क्रि स १ मापना । २ नापना, पैमाइश करना ।

मापाड्या, मापारी - पु मापक, सरकारी गोदामो या मडियों में अनाज आदि मापने, तौलने का काम करने वाला ।

मापी - वि माप से (तौल से नहीं) निश्चित किया हुआ ।

माप + - वि बहुत, विपुल ।

माफ - वि [अ 'मुआफ'] माफ, मुआफ, क्षमित, क्षमा - प्राप्त । मु० - करणे - माफ करना, क्षमा करना, छोड़ देना ।

- करा - माफ करो, रास्ता लो, जान छोड़ो ।

माफक - वि [अ 'मुआफिक'] १ माफिक; मुआफिक, अनुकूल । २ परिमित, सीमित, ठीक, उचित ।

माफी - स्त्री [अ 'मुआफी'], १ माफी, मुआफी, क्षमा । २ छूट, मार्जना । - चा साक्षीदार - पु इकवाली गवाह, अपराधि - साक्षी, मुखविर, अभियोग - गवाह, सफाई - गवाह ।

मामळभट्ट - पु १ बुद्ध, वेडगा व्यक्ति । २ ढोगी, छद्मवेशी, कपटी ।

मामजी - पु ससुरजी ।

मामदें - दे 'मावदें' ।

मामलत - स्त्री [अ 'मुआमलत'] १ सरकारी काम, नौकरी । २ तहसील का लगान वसूल करने का काम । ३ महत्त्वपूर्ण कार्य, मामलत, मामला । - दार - पु मामलतदार, तहसीलदार ।

मामला - पु [अ 'मुआमल'] १ मामला, मामिला, दे 'मामलत' । २ घटना, काम । ३ झगट, झमेला ।

मामलेदार - पु [अ 'मुआमलत' + फा 'दार'] तहसीलदार ।

मामा - पु १ मामा, मामू । २ ससुर, पत्नी का पिता । ३ अनपढ, बुद्ध आदमी, उल्लू का पट्टा । मु० - बनविणें - १ वैवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, ठगना । २ व्यग्र्य द्वारा उपहास करना ।

मामी - स्त्री १ मामी,

मामा की पत्नी । २ पत्नी की माँ ।

मामुली - वि [ अ 'मम-मूली' ] मामुली, माघारण ।

मामे - वि ममिया, ममेरा, मामासवधी । - वहीण - स्त्री ममेरी वहन । - भाऊ - पु ममेरा भाई । - सासरा - पु ममिया ममुर ( पति या पत्नी का मामा ) । - सासू - स्त्री ममिया साम ( पति या पत्नी की मामी ) ।

मायवळ + - वि बहुत, काफी ।

माय - स्त्री माँ, माता । - देश - पु मातृभूमि । - पोट - न आश्रय-स्थान, आमरा, शरण-स्थान । - वहीण - स्त्री माँ-वहन, बहु-बेटी । - बाप - पु बहु माँ-बाप, माता-पिता, मातृ-पितृतुल्य व्यक्ति । - ०सरकार - न माँ-बाप सरकार । - बोली - स्त्री मातृभाषा । मु० - - विणे - हिम्मत होना (कोणाची माय व्याली आहे ? = किसकी हिम्मत है ?) कहा० माय मरो मावशी उरो - माँ मरे पर मौसी रहे, माँ से भी अधिक मौसी प्यार करती है ।

मायणी - स्त्री मूसल, चक्की के पाट आदि में लगा लोहे का छल्ला ।

मायना - पु [ अ 'मअना' ] १ सिरनामा, शीर्षक । २ लकव, पत्र के प्रारम्भ में लिखा जाने वाला संबोधन, मञ्जूमन । ३ अर्थ, मतलब । [ छडी की शाम ।

मायणी - स्त्री लोहवलय, मायफळ - न माजूफल ।

माया - स्त्री १ माया, प्रकृति, अविद्या । २ धोखा, कपट, इद्रजाल, जादू । ३. स्नेह,

प्रेम, ममता, प्यार, दुलार । ४. दया, कृपा, करुणा । ५ लीला, करामात । - जाल - न , -पाश - पु मायाजाल, मायापाश । १. माया, मोह का फदा । २ घर-गृहस्थी का जजाल । - ममता - स्त्री प्रेम, स्नेह, दया ।

माया - स्त्री १ पूंजी, संपत्ति; मचित धन । २ हाशिया ।

मायावी - वि पु १. मायावी, छलने वाला, फरेवी । २ जादूगर । ३ झूठा, दिखावटी ।

मायाळू - वि प्यार करने वाला, अनुरागी, स्नेहपूर्ण, प्यारभरा । [ लाल ।

मायेचा पूत - पु माई का मार - पु १ मार, मार-पीट, पिटाई । २ निशाना, बौछार ( तोप की मार ) । - अव्य गान से, अपट्टे से । - का - दे क्रम में । - क्षोड - स्त्री मार-घाड, मार-पीट । - गिरी - स्त्री तोप आदि की मार, हमला ' निशाना । - हाण - वि मार-काट, मार-पीट । मु० - खाणें - पिटना, पीटा जाना । - देणें - १ पीटना, मरम्मत करना । २ हरा देना । - वसणें - मार पडना, पीटा जाना ।

मारक - वि १ मारक, नाशक । २ दमन या शमन करने वाला ।

मारकट-णा, मारका, मार-कुटा - वि मरकहा, मरखना, मारने वाला ।

मारण - न १. मारण, शत्रु-नाश के लिए किया जाने वाला तांत्रिक अभिचार । २ मारना, जान लेना ।

मारणें - क्रि स १ मारना;

पीटना । २ ठोकना, गाडना (मैख) । ३ मार डालना, जान लेना, हत्या करना । ४ पकडना (मछलियाँ), शिकार करना । ५ दवाना (गुस्मा, पित्ता) । ६ महना (भूख, प्यास) । ७ प्रभाव-रहित कर देना (जहर को मारना) । ८ लगाना (गोता, चक्कर) । ९ धावा बोलना । १० जीतना । ११ लूटना, छीनना । १२. निवना । १३ दागना, चलाना । १४ निभाना, भँभालना, पूरा करना । १५ फँकना । १६ खा जाना; हृदय करना । - क्रि अ लगना । मारून मुटकून - अव्य ज्वरदस्ती, किमी तरह, बड़ी मुश्किल में । मु० मारून टाकणें - मार डालना, काम तमाम करना । कहा० मारून मुटकून वैद्यवुवा - ठोकपीट कर वैद्यराज बनाना, किमीसे ज्वरदस्ती कोई बडा काम करवाना ।

मारफत - दे ' मार्फत ' ।

मारवत - स्त्री १ ' मारवत ' नाम की एक क्षुद्र देवी जो बीमारियाँ उत्पन्न करती है । २ इस देवी का जुलूस ।

मारवाडी - पु १. मारवाडी, मारवाडवासी, राजस्थान का निवासी । २ वनिया । - वि कजूस, मक्खीचूस । - पणा - पु कजूसी ।

मारविणें - क्रि स १ मरवाना; मार डालने का काम करवाना । २ पिटवाना ।

मारा - पु १ मार, हमला, धावा । २ बौछार । ३ निशाना । ४ (बदूक आदि का) गतिक्षेत्र, रमाई, पहुँच । ५ भरमार,

विपुलता ।

मारामार - छी १. अभाव, अकाल, दुष्प्राप्यता । २ कठिनाई, मुश्किल । ३ लडाई, मारपीट । ५ अत्यधिक परिश्रम, दौडधूप । मु - पडणें - लाले पडना, मुश्किल होना ।

मारामारी - छी १ मारपीट, हाथापायी, गुत्यमगुत्या, मिठत । २ मारकाट, खूनवरावा । ३ दे 'मारामार' ।

मास्ती - पु. मारुति, हनुमान् । - चें शोपूट - न १ शैतान की आंत, बहुत लबी चीज । २ लबी कथा, रामकहानी ।

मारू - वि १ मस्त, बढ़िया, नखरेवाज । २ दिलकश, मोहक ।

मारून - दे 'मारणे' में ।

मारे - अव्य जोर-जोर मे, बढचढ कर, शान से ।

मारेकरी - पु. गुप्तघाती, कातिल, घातक, हत्यारा ।

मार्क - पु. [अ] अक, गुण, नवर ।

मार्ग - पु १ मार्ग, रास्ता, राह, सडक, पथ । २ पथ, सप्रदाय । ३ ढग, पद्धति, तरीका । ४ परिपाटी, रिवाज, प्रथा । - क्रमण - न चलना, मार्ग पर चलते जाना । - चुकलेला - वि गुमराह, भटका हुआ, पथभ्रष्ट । - दर्शक - वि मार्गदर्शक, रह-नुमा, रहबर, पथप्रदर्शक । - प्रतीक्षा - छी प्रतीक्षा, इंतजार, राह देखना, वाट जोहना । - स्थ-वि यात्री, मुमाफिर, रास्ता चलने वाला, राह चलता । मु - धरणें - राह लगना, रास्ते जाना, चलते बनना, राह लेना । - फुटणें - रास्ता निकलना, जाना । मार्गावर

येणें - सीधे मार्गपर आना, सुघर जाना । मार्गें लागणें - ठीक ढग से चलने लगना, चल निकलना, जमना । मार्गें लावणे - १ चलता करना, निपटाना । २ ठीक मार्ग पर लगाना ।

मार्गशीर्ष, मार्गेशर - पु मार्ग-शीर्ष, अगहन (महीना) ।

मार्जिन - न [अ] हाशिया ।

मार्दव - न मार्दव मृदुता, नरमी, चित्त की कोमलता ।

मार्फत - अव्य [अ 'मअरि-फत'] १ मारिफत, मारफत, द्वारा, हस्ते, जरिये से । २ तरफ से, ओर से ।

मार्मिक - वि १ मार्मिक, मर्मस्पर्शी । २ सूक्ष्म । ३ मर्मज्ञ, खूबी, वारीकी समझने वाला । ४ चुभने वाला । [ खूबी, वारीकी ।

मार्मिकता - छी मार्मिकता,

माल - पु [अ] १ माल, सामान, वस्तु, सामग्री, असबाब । २ धनदौलत, संपत्ति, बहुमूल्य वस्तु । ३ वाणिज्यसामग्री । - गुजार - पु मालगुजार, माल-गुजारी अदा करने वाला जमीनदार । - गुजारी - छी मालगुजारी, भूमिकर, जमीन का महसूल जो जमीनदार सरकार को अदा करता है । - चाट्या - पु 'मानिटर', कक्षा का प्रमुख विद्यार्थी । - धक्का - पु मालगोदाम (रेल, जहाज आदि से आने-जाने वाला माल रखने का स्थान) । - पुवा - पु मालपूआ । - मत्ता - छी माल-मत्ता, मालमत्ता, धनदौलत, जाय-दाद, संपत्ति । - मसाला - पु १ मसाला । २ सामग्री । - मिळकत - छी चल और अचल मपत्ति, जाय-दाद ।

मालक - पु [अ 'मालिक'] १ मालिक, स्वामी । २ अधि-पति, शासक, अधिकारी । ३ पति, शौहर । ४ जमीनदार ।

मालकागुणी, मालकागोणी - छी मालकगनी (एक लता) ।

मालकी - छी [अ 'मालिक'] मालिकी, स्वामित्व, अधिकार, सत्ता ।

मालती छी १ मालती (एक लता) । २ एक वर्णवृत्त ।

मालवणें - क्रि अ १ बुझना, गुल होना, बढना (बत्ती) । २ समाप्त, खत्म होना, नाश होना । दे 'मालविणे' ।

मालविणें - क्रि स १ बुझाना, गुल करना, बढाना (बत्ती) । २ नष्ट करना ।

माला - छी १ माला, हार । २ पक्ति, श्रेणी । ३ लडी ।

मालिन्य - न मालिन्य, मलिनता, गदापन ।

मालिश - स, मालीश - स -न [फा 'मालिश'] मालिश, मर्दन ।

मावदें - न तीर्थयात्रा से लौटने पर करने की धार्मिक विधि और उसके उपलक्ष्य मे दिया जाने वाला बडा भोज ।

मावणें - क्रि अ समाना, अँटना, अटना ।

मावशी - छी मौसी, खाला ।

मावस - वि मौसेरा, मौसी के नाते वाला । - बहीण - छी मौसेरी बहन । - भाऊ - पु मौसेरा भाई । [का पति] ।

मावसा - पु मौसा (मौसी मावळ - न पश्चिमी महाराष्ट्र मे पूना के आमपास का पहाडी प्रदेश ।

मावळण - स्त्री १ फूफी, वूला । २ मामी ।

मावळणे - क्रि अ १ डूवना, अन्त होना । २ घट जाना, कम होना । ३ वरवाद होना । ४ मिट जाना, खत्म होना ।

मावळत - ती - स्त्री पश्चिम (दिशा) ।

मावळा - पु. १ मावळ प्रदेश का निवासी, पहाडी । २ मामा ।

मावा - पु १ मावा, खोया । २ फसल का कीडा ।

माशा - स्त्री बहु मक्खियाँ । १ दे. 'माशी' में । २ दे 'मासा' में ।

माशी - स्त्री १ मक्खी, मक्षिका । २ मधुमक्खी । ३ बहूक की मक्खी (वह निशान जिसमे लक्ष्य का निशाना ठीक किया जाता है) । मु० (तोडावरची) - न हालणें - १ अल्लाहमियाँ की गाय, बच्चू होना । २ विलकुल बुद्धू, पुरुषार्थहीन होना । (नाकावर) - वसूं न देणें - नाकपर मक्खी न बैठने देना, बहुत सतर्क, मजग रहना । - हागणें - १ किमी काम का बीच में रुक जाना । २ उबकाई होना, जी मतलाना । - शिकणें - बाधा पटना, वहाना मिलना । माशा उडबिणें, मारणें, मारीत वसणें - मक्खियाँ मारना, बेकार बैठ रहना, कुछ न करना । माशीला माशी ठेवणें - मक्खी पर मक्खी मारना, 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' करना, बेमझे पूरी नकल करना ।

माषुक - स्त्री [अ 'मव-शूक'] १ माशूक, प्रेमपात्र । २ रखेल, रखेली ।

मास - पु. माम, महीना, माह । - न्हाण - न विवाह के बाद प्रथम मास पूरा होने के दिन दूल्हा-दुल्हिन को एक माघ कराया जाने वाला स्नान ।

मासला - पु [अ 'मसल'] १ नमूना, वानगी । २ ढग, तरीका । ३ स्वाद; जायका । ४. उदाहरण । ५. गठन, डील, आकार ।

मासलेदार, मासलेवाईक - वि [दे 'मामला'] १ नमूनेदार । २ बढिया, मुदर । ३ अजीब, विचित्र ।

मासळी - स्त्री १ मछली । २ बेचने के लिए रखी मछलियों का ढेर ।

मासा - पु १ मछली, मत्स्य । २ मछली की शकल का लटकन (गहना) । माशानें गिळलेलें माणिक - न किमीके द्वारा हडप की गयी संपत्ति या अन्य वस्तु जो कभी वापस नहीं मिल सकती, ऐसी हानि जिसकी पूर्ति न हो सके ।

मासा - पु. माशा (बाठ रत्ती का एक वजन; तोले का वारहवाँ भाग) ।

मासिक - वि मासिक, माह-वार, माहवारी । - न मासिक-पत्र, मासिकपत्रिका, माहनामा । - पाळी - स्त्री मासिक वर्म, रजो-वर्म, माहवारी ।

मासेमारी - स्त्री माहीगीरी, मछली पकडना ।

मासोळी - स्त्री १ मछली । २ विछुआ (पैर की उँगली का गहना) ।

मास्तर पु [अ 'मास्टर'] मास्टर, शिक्षक, अध्यापक ।

- फी - स्त्री मास्टरी, अध्यापक-वृत्ति ।

माहात्म्य - न १ माहात्म्य, महात्मता, बडप्पन, श्रेष्ठता, महिमा, गौरव । २ किमी व्रत, स्नान, पूजन का पुण्यजनक फल, इस फल का वर्णन करने वाली रचना ।

माहित - वि [अ 'माही-यत'] मालूम, ज्ञात, परिचित, वाक्रिफ । - गार - वि जानकार; निपुण । मु० - आहे - सब मालूम है, जानते हैं, छोडो जी ।

माहिती - स्त्री [अ 'माही-यत'] जानकारी, मालूमात, सूचना; परिचय, ज्ञान । - पट - पु. वृत्त-चित्र । - पत्रक - न सूचनापत्रक । - व नसोवाणी खार्ते - न सूचना एव प्रसारण विभाग ।

माही - पु. स्त्री माघ (महीना) । - वि माघी, माघ का । - स्त्री माघ महीने में होने वाला एक धार्मिक उत्सव जिसमें ग्रामदेवता को बकरे आदि की बलि चढायी जाती है ।

माहीत - दे 'माहित' ।

माहूत - पु महावत, हाथी-वान; फीलवान, आकुशिक ।

माहे - पु [फा 'माहए'] माह, (का) महीना । (माहे जून = जून का महीना) ।

माहेर - न १. पीहर, नैहर, मैका; मायका । २ आश्रयस्थान, आसरा । ३ उद्गम-स्थान, उत्पत्ति-स्थान, ऐसा स्थान जहाँ किसी वस्तु की विपुलता हो । - करीण - दे 'माहेरवाशीण' । - घर - न दे 'माहेर' (२३), - पण - न मायके जाना या वहाँ रहना । - वाशीण - स्त्री १ मायके आयी

हुई स्त्री। २ चिरटी (सयानी हो जाने पर भी पिता के ही घर रहने वाली लडकी) -वास- पु विवाह के पश्चात् कन्या का पिता के घर रहना।

**माळ - पु** १ पठार। २ वजर भूमि। -जमीन- स्त्री, -रान-न पथरीली और वजर भूमि। कहा० माळावरची माती कोणोहि उचलावी- लावारिस चीज, गरीब की जोरु सब की भीजाई। माळा-वर बोबलायला पाटलाची परवानगी कशाला- जिस बात के लिए कोई मनाही न हो उसके लिए किसी की इजाजत की क्या जरूरत है?

**माळ - स्त्री** १ माला, हार। २ कठी (तुलसी के छोटे दानों की माला)। ३ कठा, कठी। ४ जपनी। ५ तांता, सिलसिला, क्रम। ६ चरखे, रहेंट आदि की माला। - करी - पु कठीघारी, वैष्णव। (मु० -०होणे- कठी लेना)। मु० -घालणे- १ विवाह में वर-कन्या का एक दूसरे को माला पहनाना, वरण करना। २ कठी बांधना, लेना, वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा लेना, पढरपुर यात्रा का व्रत लेना। [पक्ति, कतार।

**माळका - स्त्री** मालिका, **माळणें - क्रि** स १ वाली, जूड़े या बेनी में फूल या फूलों का गजरा पहनना। २ गूथना, माला बनाना।

**माळवद - न** १ मिट्टी की छत। २. पटाव में छत तक बना हुआ मचान, अटारी, परछत्ती।

**माळा - पु** १ परछत्ती (कमरे के भीतर बनी हुई सामान रखने की पाटन)। २ खेत में बनाया

मचान। ३ मज्जिल, तल्ला। ४ पाड, समाधार। [२ कुँजडा।

**माळी - पु** १ माली, बागवान। **माळीण - स्त्री** १ मालिन, मालन। २ कुँजडिन। ३ नाक में होने वाला एक फोडा।

**माळोचा - पु** १ मचान। २ घडोँची, लकड़ी की लबी तिपाई या चबूतरा। ३ परछत्ती।

**माळोमाळ - अव्य** चारों ओर, दसों दिशाओं में।

**मिधा - वि** १ दबूल, दबूल। २ उपकृत, उपकार के बोझ से दबा हुआ। ३ लज्जित, शर्मिदा।

**मिचकट - वि** २ गंदला, सना हुआ। २ काला-कलूटा।

**मिचकणे, मिचकविणें, मिचकावणें - क्रि** स १ मिचकाना, झपकाना, बार-बार पलक गिराना। २ आँखों से इगारा करना, कनखी मारना, कनखियाना।

**मिचका-क्या - वि** १ जिसे आँखें मिचकाने की आदत हो। २ चोधर (बहुत छोटी आँखों वाला)।

**मिचमिचोत - वि** चुधी (आँखें), जिस में पानी या मूँल भरा हो।

**मिजास - स्त्री** [अ 'मिजाज'] १. शेखी, घमड, गर्व, अकड। २ मिजाज, तुनुकमिजाजी, तवीयत। ३ शान। -खोर- **वि** १ अकडवाज, मिजाजदार, तुनुकमिजाज, घमडी। २ लहरी, मन-मौजी, सनकी। मु० - चढणे- घमड होना। -जाणें- तवीयत फिरना, नाराज होना। - ठेवणे, - राखणें - दिल रखना, खुश रखना, नाराज न होने देना।

**मिटकी - स्त्री** चटखारा (स्वादपट्ट वस्तु को खाते समय जीभ के तालू से लगने से होने

वाली आवाज)। मु० मिटक्या मारणे- १ चटखारे भरना, स्वाद ले कर खाना; होठ चाटना। २ लार टपकना।

**मिटणे - क्रि** अ १ मुँदना, ढँकना, बंद होना। २ खत्म होना, दूर होना। ३ निवटना, चुकना; तै होना, अदा, बेबाक होना। -क्रि स मुँदना, मीचना, बंद करना।

**मिटविणे - क्रि** स १ बंद करना, कराना। २ मिटाना। ३ चुकाना, निवटाना, तै कराना, सुलह कराना।

**मिटुका - वि** छोटा, नन्हा। **मिठवणी - न** नमक का पानी। [मीठा पकवान।

**मिठाई - स्त्री** मिठाई, मिष्टान्न, **मिठागर - न** नमकसार, नमक बनाने का स्थान, खेत।

**मिठास - स्त्री** मिठास, मीठा-पन, माधुर्य। - **वि** मीठा, मधुर।

**मिठी - स्त्री** १ आँलिंगन, पकड। २ घपची। ३ एकता। ४ दे 'मिठ्ठी'। मु० - मारणें- गले लगाना; लिपट जाना, कस कर पकडना।

**मिठ्ठा, मिठ्ठास - वि** मीठा, मधुर, मिठवोला।

**मिठ्ठी - स्त्री** १ मीठी वस्तुएं बहुत अधिक खाने से होने वाली अरुचि, ऊब। २ उत्कट इच्छा, चाह, शौक।

**मिणघा - दे** 'मिघा'।

**मिणमिण - स्त्री** मिनमिन (घीमी या नाक से मिली हुई अस्पष्ट ध्वनि), खुसुरफुसुर। - **अव्य**. टिमटिमाते हुए, क्षीण प्रकाश के साथ।



मिणमिणणे - क्रि अ टिम-  
टिमाना, क्षीण प्रकाश के साथ  
जलना, झिलमिलाना ।

मित - वि मित, नपा-नुला,  
परिमित, सतुलित, थोडा ।-  
भाषण - न मितभाषण, नपे-  
तुले शब्दों में अपनी बात कहना ।  
- भाषी - वि मितभाषी, कम  
बोलने वाला ।- व्ययी - वि मित-  
व्ययी, किफायतशिआर । [बोली ।

मिताक्षरी - स्त्री एक साकेतिक  
मिति ती - स्त्री १ मिति,  
मान, परिमाण, मात्रा । २  
सीमा । ३ मिति, तिथि,  
तारीख । ४ व्याज, सूद ।

मित्र - पु १ मित्र, दोस्त,  
सखा । २ सूर्य ।- त्व - न  
मित्रत्व, मित्रता, दोस्ती ।-द्रोह-  
पु मित्रद्रोह, मित्र के साथ विश्वाम-  
घात । [ असत्य, व्यर्थ ।

मिथ्या - वि मिथ्या, झूठ,  
मिन्नत ती, मिन्नतवारी - स्त्री  
मिन्नत, आजिजी, सुगामद,  
मनुहार ।

मिन्नतवारीनें - अव्य. [ अ  
'मिन्नत' ] मिन्नत-समाजत कर के,  
बड़ी मुश्किल से, किसी तरह ।

मीना - पु [ फा 'मीना' ]  
मीना, शीशे और सोने-चाँदी पर  
बनाया जाने वाला रंगीन काम ।-  
कार - पु मीनाकार । - कारी -  
स्त्री मीनाकारी ।

मिनार - दे ' मनोरा ' ।

मिनिट - न [ अ ] १ मिनिट  
(घंटे का साठवाँ भाग) । २  
क्षण । ३ टिप्पणी ।

मिया - सर्व मैंने ।

मिया - पु [ फा 'मिया' ]  
१ मियाँ, मुसलमान । २ पति ।  
कहा ० मिया मूठभर दाढी हातभर

- छोटे-से मियाँ, बटी-सी दुम,  
बेढगी बात ।

मिरची - स्त्री १ मिरचा,  
लाल मिर्च । २ (लहान मुलाचे  
जननेंद्रिय) नूनी । मु० नाकाला  
मिरच्या झोवणे - मिर्चें लगना,  
तिलमिलना, आगबबूला होना,  
बहुत बुरा लगना, किसी बात का  
चुभ जाना, असह्य होना ।

मिरपूड - स्त्री काली मिर्च का  
चूर्ण, बुकनी । [ राहट, तीव्रतापन ।

मिरमिर - स्त्री झाल, चरप-  
मिरवणूक - स्त्री जुलूस,  
सवारी, शोभायात्रा ।

मिरवणें - क्रि स १ जुलूम  
निकालना, धुमाना । २ गान  
दिखाना ।

मिरवणें, मिरविणें - क्रि अ १  
वाजे-गाजे के साथ समारोहपूर्वक  
गहर में घूमना । २ शान दिखाना,  
अकडना, दिखाते फिरना ।

मिराशी - पु [ अ  
'मीराम' ] माफीदार, जमीनदार,  
मालगुजार ।

मिरास - स्त्री [ अ 'मीरास' ]  
मीरास, दाय, तरका; वपीती,  
पैतृक संपत्ति पर अधिकार ।- दार  
पु पैतृक संपत्ति का हकदार,  
माफीदार, जमीनदार ।- पट्टी -  
स्त्री मीराम, विरानत में मिली  
भूमि का लगान ।

मिरी - न बहु काली मिर्चें ।  
मिरी - स्त्री १ काली मिर्च  
की बेल । २ दे 'मिरी' ।

मिरें - न काली मिर्चें, गोल  
मिर्च । [ दोस्ती । २ भेट ।

मिलाफ - पु १ मिलाफ, भेल,  
मिशन - न [ अ ] १ 'मिशन',  
धर्मोपदेशको का मडल । २  
जीवन का ईश्वरनियुक्त कार्य,

लक्ष्य । ३ मठ, धर्मप्रचारको की  
सस्था ।

मिशनरी - पु [ अ ] 'मिशन-  
नरी', (ईसाई) धर्मोपदेशक,  
पादरी, मत-प्रचारक ।

मिशा - स्त्री बहु मूँछें । दे०  
'मिशी' ।

मिशाळ - वि मुँछदर मुँछैल,  
(बड़ी मूँछों वाला) ।

मिशी - स्त्री १ मूँछ । २  
कुत्ते, बिल्ली शेर आदि के नयनों के  
अगल-बगल उगने वाले लंबे बिल्ल  
वाल । मु० - उतहन देणें - मूँछें  
मंडवाना, हार मान लेना ।-  
खाली होणें - मूँछ नीची होना,  
लजिजत होना ।- भादरणें - मूँछे  
उबडवाना, जलील करना, गर्व  
चूर करना ।- ला तूप लावणे -  
बहुत अकडना, शान दिखाना ।-  
ला पीळ भरणे, - वर ताव देणे -  
मूँछों पर ताव देना, धमकाना,  
डगाना । मिशा खाली होणे, मिशा  
भादरणे, मिशाना तूप लावणे,  
मिशाना पीळ भरणे, मिशावर  
ताव देणे - दे 'मिशी खाली  
करणे', 'मिशी भादरणे', 'मिशीला  
तूप लावणे', 'मिशीला पीळ  
भरणे', 'मिशीवर ताव देणे' ।

मिश्र - वि मिश्र, मिला  
हुआ । [ मिलावट ।  
मिश्रण - न मिश्रण,  
मिश्रित - वि मिश्रित, मिला  
या मिलाया हुआ, मिलावट  
वाला । [ पर लगाने मजन ) ।  
मिश्री - स्त्री मिस्त्री (दांतों  
मिष - न १ मिष, बहाना,  
मिस । २ ढोंग, छल, कपट ।

मिदानें - अव्य बहाने, के  
बहाने से, के हेतु; निमित्त बना  
कर ।

मिष्ट

मिष्ट - वि मिष्ट, मीठा, स्वादिष्ट, प्रिय । - भाषणी - वि मधुरभाषी, मिठबोला ।

मिष्टान्न - न मिष्टान्न, मीठा पकवान, मिठाई ।

मिसकीन - ल - दे 'मिस्किल' ।

मिसरुड - छी मस, मसे, रेख (निकलती हुई मूँछें) । मु० - फुटणे - मसे भीजना, भीगना, रेख भीजना, भीगना, मूँछें निकलना शुरू होना ।

मिसळ - छी १ मिश्रण, मिलावट, खोट, दो या अधिक चीजों को एक में मिलाना । २ चाट, गजक, अनेक चटपटी चीजों को मिलाकर बनाया हुआ खाद्य । ३ मिश्रता ।

मिसळण - न मिश्रण, एक साथ मिलाने की वस्तुएँ ।

मिसळणे - क्रि अ १ मिलना, मिश्रित होना, हिलमिल, घुलमिल जाना । २ शरीक, शामिल होना । - क्रि स १ मिलाना, मिलावट करना । २ घोलना ।

मिसळलेला, मिसळीचा -

वि मिलावटी, खोटा, मिश्रित ।

मिस्किल, मिस्कील - वि [अ 'मिस्की'] १ नटखट, शरारती । २ बनावटी, ऊपर से भोला-भाला दिखाई देने वाला ।

मिस्ती - छी मिस्ती, दत-मजन ।

मिळकत - छी [अ 'मिल्कीयत'] १ मिल्कियत, मिल्कीयत, जायदाद, संपत्ति । २ प्राप्ति, आमदनी, आय । ३ मुनाफा ।

मिळणें - क्रि अ १ मिलना, प्राप्त होना, हासिल होना । २

मिल जाना; शामिल होना, पक्ष में, अनुकूल हो जाना । ३ सयोग होना; जुडना, सटना, एक होना, मिश्रित होना [गंगेला यमुना येऊन मिळते = गंगा में यमुना आ मिलती है] । ४ पाना, लाभ होना । ५ भेंट होना; भिडना । ६ दिखाई देना । ७ सभव होना । ८ पकड़ में आना, फँसना । मिळता, मिळता-जुळता - वि मिलता जुलता, लगभग समान, एक-सा । मु० - मिळून मिसळून वागणें - मिल-जुल कर रहना, मेल के साथ काम करना । कहा० मिळालें तर तुपाशीं, नाहीं तर उपाशी - आयी तो रोजी, नहीं तो रोजा ।

मिळता, मिळता-जुळता - दे 'मिळणें' में ।

मिळमिळि(ळी)त - वि १ फीका, नीरस, अलोना । २ कम-जोर, पिलपिला । ३ सदिग्ध, अनिश्चित, अस्पष्ट ।

मिळवण - न १ आलन, साग में मिलाया जानेवाला बेसन । २ मिश्रण ।

मिळवणी - छी १ जोड़, योग । २ दे 'जुळणी' । ३ दे 'मिळवण' ।

मिळवणें - दे 'मिळविणें' ।

मिळवता - वि कमाऊ, कमाने वाला, कमासुत ।

मिळविणें - क्रि. स १ प्राप्त करना, पाना, हासिल करना । २ कमाना, श्रम-उद्यम से पैसा पैदा करना । ३ मिलाना, जोड़ना, योग करना । ४ मिला कर देखना, मिलान करना । ५ दूसरे पक्ष से फाडना, किसीको अपनी ओर करना ।

मिळाऊ - वि १ कमाने वाला । २ मिलने वाला, जुडने वाला ।

मिळाला - क्रि स मू मिला, पाया । दे 'मिळणें' ।

मिळालेला - वि १. मिला हुआ, पाया हुआ । २ शामिल, जा मिला हुआ ।

मिळून - अव्य १ मिल कर, साथ । २ कुल मिला कर । ३ सयोग हो कर । मु. - मिसळून वागणे - दे 'मिळणे' में ।

मी - सर्व मै । - पण - न , - पणा - पु १ अस्मिता, अह-कार, अहता, घमड, गर्व । २ खुदी, अहभाव । मु० - तू करणें - तू-तू मै-मै करना, कहासुनी करना, गाली-गलौज करना । - मी म्हणणे - अपने पुरुषार्थ की डींग हाँकना, शेखी बघारना, लवी-चीडी बातें कहना । - म्हणणे बहुत जोर होना, जोश में होना ।

मीठ - न नमक, लवण, लोन, नोन । - भाकर - छी साधारण भोजन, साग-पात, हल्का-सूखा भोजन । ( नम्रता वग अपने घर के भोजन को कहते हैं ) । - मसाला - पु नमक-मिर्च । मु० - तोडणें - भोजन कम देना, नमक की मात्रा घटाना (जिससे मुटापा कम हो) । - मोठे खारट धसणें - मालिक का बहुत सख्त, कडा, होना । - मोह्या ओवा-ळणे - दीठ जलाना, राई नोन उतारना (नजराये वच्चे के सिर के चारो ओर राई-नमक घुमा कर आग में डालना) ।

मीना - दे 'मिना' ।

मीमासा - छी मीमामा, विवे-चना, चर्चा । [मिलाप ।

मीलन - न मिलन, भेंट,

मुंगळा - पु चीटा, चिउंटा, मकोटा। मु० - लागणे - उता-वला होना, जल्दी करना।

मुगी - स्त्री १ चीटी, चिउंटी। २ झुनझुनी। ३ चुन-चुनाहट। - च्या पावलां - अव्य चीटी की चाल में, बहुत आहिस्ता। - शिरण्याम जागा नसणे - तिल धरने की जगह न होना। मुग्धा येणे - झुनझुनी आना। क्हा० मुगीला मुताचा पूर - चीटी के लिए पेशाब ही बाढ बन जाता है, छोटे आदमी के लिए माघारण मकट भी ब्रह्म बटा बन जाता है। मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लाकडे साऊ नयेत - हाथी बन कर लकड़ियाँ खाने की बनि-स्वत चीटी बन कर शक्कर खाना अच्छा है।

मुगून - न नेबला, नकुल।

मुग्धा - स्त्री बहु चीटियाँ। दे. 'मुगी' में।

मुज - स्त्री १ जनेऊ, यज्ञोप-वीत सस्कार, उपनयन - मस्कार। २ मूज (धाम)। - झालेला - वि उपनीत।

मुजा - ज्या - पु १. वरुआ, वरुवा (ब्राह्मणकुमार जिसका उपनयन हो रहा हो)। २ ब्रह्म-चारी। ३ ब्रह्मचारी का भूत।

मुड - न [तेलुगु 'मूड्ड'] गुल्लीडडे के डेल में तीन की मस्या। [दे 'मुडके']।

मुड - न मुडा, मिर, मूड।

मुडके - न १ मुड, मूड, सिर; मस्तक। २ कटा हुआ सिर। ३ मुंडा हुआ सिर। ४ पेड का टूंड।

मुडण - न १ मुडन, मूंडना; हजामत। २ डाँट-फटकार।

मुडणे - क्रि स १ मूंडना; हजामत बनाना। २ ठगना। ३ चेतन बनाना।

मुडा - दे, 'मुढा'।

मुडावळ - स्त्री सेहरा; मोर।

मुडामे - न मुंडामा; साफा।

मुडी - पु मुडी, नन्यासी।

मुडी - स्त्री १ मूंड, सिर।

२ गरदन, गर्दन, गला। मु० - फिरविणे - गरदन हिला कर अस्वीकृति या नाराजगी प्रकट करना। - मुग्गाळणे - गरदन मरोटना, गला घोटना। - हलवणे - हाँ में हा मिलाना।

मुडा - पु १ मोडा, कथा।

२ कुहनी में बंद मुट्ठी तक का हाथ का नाप। ३ हिजडे का नाथी। ४ केले का बटा पत्ता।

- वि - १ नगा-बूचा, नाथी (जिसमें कोई गहना न हो)। २ मुडा, मुडिन, गजा। ३ विना सींग का; विना नोक का। ४ ठुठ, ठूँठ, टूँडा। [मुँटेर।

मुडैरी - स्त्री मुँडेरा, मुँडेरी,

मुबई - स्त्री १ बबई (शहर)।

२. लापता होना। मु० जिवाची - करणे - मौज-शौक करना; ऐश में पैसा उडाना।

मुकटा - पु मुकटा; मुटका (रंगमी धोती जो पूजन आदि में पहनी जाती है)।

मुकणा - पु पकाने पर भी न गलने वाला दाना, ठुरी। - वि उदासीन। - हत्ती - पु १ मकुना (बिना दाँत का हाथी)। २ नाटा और तोद वाचा आदमी।

मुकणे - क्रि स खोना, गंवाना, वंचित होना; हाथ धो बैठना। [चूमा।

मुका - पु चुवन, बोसा,

मुका - वि १ गुंगा, मूक। २ चुप्पा; बुता; चुप रहने वाला। ३ अतविल्या। - मार - पु मीठा मार, गुप्त मार। मु० - मुलगा होणे - प्रथम बार रजोदर्शन होना।

मुकाट; मुकाटचाने - अव्य. चुपचाप, विना बोले; गुपचुप। मु० - काम करणे - कुन्ट्या में गुट फाँडना।

मुकादम - पु [अ 'मुक्दम'] मुगिया, भेट, जमादार।

मुकुट - पु मूकुट, ताज। - मणि - पु गिरोमणि; चूडा-मणि; सिरताज, निरमोर।

मुकुल - पु न १ मूकुल, बड़ी कली, वह कली जिसका मुँह उरा-उरा खुल रहा हो।

मुकुलित - वि १ मुकुलित, अशखिला, अग्रमुँदा। २ मक्षिप्त।

मुके - वि न १. गुंगा। २ निरीह। दे 'मुका'।

मुक्का - पु मुक्का, घूना।

मुक्काम - पु [अ 'मुक्काम'] १ मुक्काम, जयाम, निवाम, वनेरा, पटाव, वहराव, अड्डा। २ निवान का गाँव, नगर आदि।

मुक्की - स्त्री दे 'मुक्का'।

मुक्त - वि १ मुक्त; खुला हुआ, छूटा हुआ, रिहा, आजाद। २ मोक्षप्राप्त, भवबधन में मुक्त, बधनरहित। ३ फेंका हुआ, छोड़ा हुआ। - छद - पु. ऐसा छद जो मात्रा, वर्ण, यति आदि के नियमों से मुक्त हो। - द्वार - न मुक्त-द्वार न्यान, ऐसा न्यान जहाँ कोई भी आ-जा सके।

मुक्तता - दे 'मुक्ति'।

मुक्ता - स्त्री मुक्ता, मोती।

- फळ - न १ मुक्ताफळ,

मोती । २ मोती जैसा सुदर अक्षर । ३ वेहूदा वाते; वकवास ।

मुक्ति - स्त्री १ मुक्ति, मोक्ष । २ छूटकारा । ३ आजादी ।

मुकर - वि [ अ 'मुकरंर' ] मुकरंर, नियत, निश्चित, पक्का, यकीनी, अवश्य ।

मुखड - वि पु नायक, नेता, प्रवक्ता ।

मुख - न १ मुख, मुंह । २ चेहरा । ३ द्वार, मार्ग । ३ (नदीचे) नदीमुख, मुहाना, दहाना । दे 'तोड' । - चर्चा -

स्त्री १ मुखकाति, चेहरे का आव । २ चेहरा । - डा - दे क्रम मे । - दुर्बळ - वि निमुंहा, चुप्पा, घुन्ना, जो दृढतापूर्वक कुछ बोल न सके । - पृष्ठ - न मुख-पृष्ठ, आवरणपृष्ठ । - भजन -

न लज्जित, शर्मिदा करना, मुंहनोड जवाब देना । - मार्जन - न मुखमार्जन, मुखप्रथालन, मुंह धोना । - रस - पु १ लार, शूक । २ वेहूदी वाते । [ मु०-० पाषळणें - वेहूदी वाते करना, अटमट वकना ] । - वटा - पु

मुखौटा, मुखच्छद, चेहरा, मुख, नकाव । - शुद्धि - स्त्री मुख-शुद्धि, भोजन के बाद पान, इलायची आदि खाकर मुख शुद्ध करना, इस कार्य के लिए उपयोगी वस्तु । - सेक - पु कुल्ला, कुल्ली । - स्तभ - वि चुप्पा, घुन्ना, दे 'मुखदुर्बळ' ।

मुखडा - पु मुखटा, मुंह, चेहरा ।

मुखत्यार - पु [ अ 'मुस्तार' ] १ मुखतार, सर्वाधिकारी । २ अधिकर्ता, 'एजेंट' । ३ कलक्ट्री में वकील में कम दर्जे का वकील ।

४ किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक । - नामा - पु, - पत्र - न मुखतारनामा, अधिकारपत्र ।

मुखत्यारी - स्त्री [ अ 'मुखतार' ] मुखतारी, अधिकार ।

मुखोद्गत - वि मुखाम्र, कठस्थ, जवानी याद ।

मुख्य - वि मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ । - मत्री - पु मुख्य मत्री, 'चीफ मिनिस्टर' ।

मुगदल - पु मुगदर (जोडी) ।

मुगदळ - स्त्री मूंग बोने योग्य भूमि । - न १ मूंग भून कर बनाया हुआ आटा । २ इस आटे का लड्डू ।

मुगवा - पु एक प्रकार की साडी जिस पर मूंग के आकार के चौखूटे खाने होते हैं ।

मुगुट - दे 'मुकुट' ।

मुग्ध - वि १ मुग्ध, मोहित, फरेगता । २ मूढ, भोला । ३ सुदर । ४ निरीह, मासूम, निष्पाप ।

मुग्धता - स्त्री चुप्पी, मौन, खामोशी । मु० - पाळणे - चुप्पी साधना, मौनावलवन करना ।

मुग्धा - स्त्री मुग्धा, यौवन-प्राप्त सरल स्वभाव वाली नायिका ।

मुचलका - पु [ तु 'मुचल्का' ] मुचलका, जमानतनामा, प्रतिज्ञापत्र । [ भरना ।

मुजणें - क्रि अ पटना, मुजरा - पु [ अ 'मुज्रा' ]

१ मुजरा, प्रणाम, सलाम । २ लोकनाट्य में अंतिम गाना । ३ भक्ता । ४ कटौती, मिनहाई ।

मुजविणें - क्रि स पाटना, भरना ।

मुजोर - वि [ हि 'मुंहजोर' ]

मुंहजोर, सीनाजोर, कल्लादराज, लडाका ।

मुजोरी - स्त्री [ हि 'मुंहजोरी' ] मुंहजोरी, लडाकापन, कल्ला-दराजी, बदलगामी ।

मुटका - पु १ मुक्का, घूंसा, मारने के लिए बाँधी हुई मुट्ठी । २ मुक्की, दर्द दूर करने के लिए शरीर पर धीरे-धीरे मुक्के लगाना । ३ हाथ-पाँव समेट कर पानी में कूद पडना । ४ दे 'मुटकुळा' ।

मुटकुळा - पु मुट्ठा, मुट्ठी में आने वाला लोदा । दे 'मुटका' ।

मुठींत, मुठीनें - दे 'मूठ' में ।

मुठीचा - वि मुठियादार । दे 'मूठ' ।

मुठेल - न नारियल की गरी को मुट्ठी से दवाकर निकाला हुआ तेल ।

मुठ्या - पु १ लुहार का हथौडा । २ मुठिया ।

मुडदा - पु [ फा 'मुर्द' ] मुरदा, लाश, शव । मु०-पाडणे-मार डालना, कत्ल करना ।

मुडदार - वि [ फा 'मुर्दार' ] १ मुरदार, मरा हुआ, मृत । २ अपवित्र, गदा । ३ नाकारा, नालायक, जिद्दी (स्त्रि०) । - शिंग - न मुरदासग (सीसे और सेदुर का मिश्रण जो दवा के काम आता है) ।

मुडदूस - पु सुखडी, 'रिके-ट्स', सूखा रोग (बच्चों को होने वाला एक रोग) ।

मुडदेफरास - पु [ फा 'मुर्द' + 'फरोश' ] १ जनाजा उठाने-वालों की एक जाति । २ डोम, मसानिया, अत्येष्टि की सामग्री बेचने वाला ।

मुडपणें - क्रि अ [ क

मडचु' ] १ लचकना, मोच  
खाना । २ तह होना, दोहरना,  
दो परत होना । - क्रि स दोह-  
राना, दो परत करना, तह  
करना ।

मुर्डाशिंग - दे 'मुडदारशिंग' ।

मुडा - पु [ क ' मुडि ' ] १  
वान या दूसरा कोई अनाज अदर  
रखकर ऊपर मे पयाल लपेट कर  
वनाया हुआ बडा अडाकार गट्ठर ।  
२ पच्छीम मन अनाज का गट्ठा ।  
३ मोढा । [ (रोग) ।

मुतखडा - पु पयरी, अम्मरी  
मुतणें - क्रि अ मूतना,  
पेगाव करना, लवुशका करना ।

मुतरा - वि बारवार पेगाव  
करने वाला, बहुत मूतने वाला ।

मुतरी, मुतारी - स्त्री पेगाव-  
खाना, पेगावघर, मूत्रागार ।

मुतात माशा मारणें, मुतानें  
दिवा पाजळणें - दे ' मूत ' में ।

मुतालीक - पु [ अ ' गुत-  
अल्लिक ' ] उपमंत्री, नायब,  
मुनीम ।

मुतेरें - न पोतडा, गंडतरा ।

मुत्रा, मुत्री - दे ' मुतरा ' ,  
' मुतरी ' ।

मुत्सद्दी - पु [ अ ' मुत्सद्दी ' ]  
कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ,  
धूर्त, चालाक आदमी ।

मुद्गल - पु मुद्गर, मुग्दर,  
मोगरा, जोडी (गावटुम मृगरी जो  
व्यायाम के काम में लगी  
जाती है) ।

मुदत - स्त्री [ अ ' मुदत ' ]  
मुदत, अवधि, मीआद, अरमा,  
काल । - वंदी - स्त्री मीआद तै  
करना, कालमीमा, ममयावधि ।

मुदपाकखाना - पु [ अ  
' मत्वख ' ] रसोईघर, पाकखाना,

वावरचीखाना ।

मुदल - न [ क ' मोदलु ' ]  
मूलघन; पूंजी, सरमाया ।  
मुदलात, मुदलीं - अव्य. १  
मूलतः, अमल मे, दर असल ।  
विलकुल ।

मुदी - स्त्री वाली (कान,  
नाक आदि की), छल्ला ।

मुद्दल - दे ' मुदल ' ।

मुद्दा - पु [ अ ' मुद्दा ' ]  
१ विवाद - विषय, दलील,  
ठीक बात । २ मुद्दा, मतलब,  
अभिप्राय । - पत्ता - पु १  
प्रमाण, सबूत । २ अता-पता,  
सुराग, जानकारी । मुद्द्याची  
गोष्ट - स्त्री मार्के की बात, पते  
की बात, असल बात ।

मुद्दाम - अव्य [ अ ' अम्दन् ' ,  
क ' मुद्दा ' ] जानवूअ कर, डरादतन्,  
सोद्देश्य; सकल्पपूर्वक, मप्रयोजन ।

मुद्देमाल - पु [ दे० ' मुद्दा ' ]  
अमली माल, सबूत, चोरी आदि  
का वह माल जिससे अपराध प्रमा-  
णित हो सके ।

मुद्देसूद वि [ दे० ' मुद्दा ' ]  
तर्कमगत, मप्रमाण, सुमगत ।

मुद्रक - पु मुद्रक, छापने वाला,  
' प्रिटर ' ।

मुद्रण - न मुद्रण; छपाई;  
छापना । - कला - स्त्री छपाई की  
कला । - स्वातत्र्य - न मुद्रण-  
स्वान्त्र्य, प्रेस-स्वातत्र्य ।

मुद्रा - स्त्री १, मुद्रा, नाम की  
मुहर, सिक्का । २, नाम खुदी  
हुई अँगूठी । ३ मुखचेष्टा । ४  
मुद्राकृति, मूरत । ५ ठप्पा ।  
६ ' टाइप ' । - राक्षस - पु १  
मुद्राराक्षस । २ मुद्रणालय का हर-  
कारा, नवसिखुवा, ' प्रिटर ' ।

मुद्रिका - स्त्री मुद्रिका; मुंदरी;  
नाम खुदी हुई अँगूठी ।

मुनसफ - पु [ अ ' मुन्सिफ ' ]  
मुसिफ, न्यायाधीश, न्याय विभाग  
का एक अधिकारी जिसका पद सब-  
जज से छोटा होता है ।

मुनि - नी - पु १. मुनि,  
ऋषि, तपस्वी । २ मौनव्रती ।

मुनीम - पु [ अ ' मुनीम ' ]  
मुनीम; मुन्शी, कारिदा, प्रतिनिधि  
गुमास्ता ।

मुवलक - वि [ अ ' मुवल्ग ' ]  
विपुल, बहुत, काफी भरपूर ।

मुभा - स्त्री [ अ ' मुबाह ' ]  
इजाजत, छूट, अनुज्ञा ।

मुर्वा - पु [ अ ' मुर्वा ' ]  
मुर्वा, आम का मुर्वा ।

मुर्कणें - क्रि अ १ मटकना,  
इठला कर चलना, नवरा करना ।  
२ मुर्कना, मोच खाना ।

मुर्का - पु नखरा, नाज,  
लटका ।

मुर्की - स्त्री [ क ' मुर्कि ' ]  
१ मुर्की, वाली । २ मुर्की  
(आगे गीछे के स्वरों को मिलाकर  
किमी स्वर का उच्चारण करना)  
(सगीत) ।

मुर्कुडी - स्त्री गात्र-मकोच,  
शरीर का सकुचना । मु०-वळणें-  
लीटपोट होना ।

मुर्गळणे - क्रि अ. [ क  
' मुर्गो ' ] लचकना, मुर्कना,  
मोच खाना । - क्रि स दे०  
' मुर्गळणे ' ।

मुर्गळा - पु मुर्क, मोच ।  
मुर्गळणे - क्रि स [ क  
' मुर्गो ' ] मरोड़ना, ऐठना, उमेठना ।

मुर्ख - स्त्री [ क ' मुर्खि ' ]  
१ मोड, झुकाव, धुमाव । २  
मरोड़, ऐंठन, बल । ३ दग, दब





‘टैवलोर्ज’। - चित्र - न,  
- चित्रपट - पु. मूकपट, मूकचित्र,  
जनबोलती फिल्म। - नाट्य - न  
चित्राभिनय। - पट - पु, दे  
मूकचित्र’।

मूग - पु मूंग। - न मौन।  
मु० - गिळणें, - गिळून बसणें -  
चुप्पी सावना, चुप रहना।

मूठ - स्त्री १. मुट्ठी, दे०  
‘मुष्टि’। २. मुश्त, मुट्ठीभर  
चीज। ३. एक तरह का मन्त्रप्रयोग।  
४. मूठ, कब्जा, दस्ता, मुठिया।  
५. मुट्ठा, पूला। - भर - वि  
मुट्ठीभर, थोडा-सा। - माती -  
स्त्री अत्येष्टि। एका मुठीनें -  
अव्य एक मुश्त, इकट्ठा; एक  
वार मे। मु० - आवळणें - १  
कजूसी करना। २. मुट्ठी कसना,  
वांघना, मुक्का कसना। - दावणें  
- मुट्ठी गरम करना, घूस देना।  
- भर मास चढणें - १. खुशी से  
फूले न समाना। २. मोटा होना।  
३. अकडना। - माती देणें - १  
भिट्टी देना, लाश को दफन  
करना। २. दफनाना, गाडना,  
खत्म करना। - मारणें - १  
मूठ मारना, माश मारना, टोना  
करना। २. हस्तमैथुन करना।  
मुठींत असणे - मुट्ठी मे होना,  
कब्जे, काबू मे होना। कहा०  
झांकली मूठ सव्वा लाखाची - जब  
तक कोई बात छिपी रहती है  
तभी तक उसका महत्त्व बना  
रहता है, वरना कलई खुल  
जाती है।

मूढ - वि १. मूढ, बुद्धू मूर्ख,  
जडबुद्धि। २. हक्का-बक्का,  
मूत - न मूत, मूत्र, पेशाव।  
- खडा - पु. पथरी। मु०  
- आणणें - १. नाको दम करना,

नाक मे दम करना, बहुत परेशान  
करना। २. डराना। - येणे -  
पेशाव वद होना, बहुत डर जाना।  
मुतात माशा मारणें - मक्खियां  
मारना, बेकार बैठ रहना।  
मुतानें दिवा पाजळणें - बहुत  
जुलम ढाना।

मूत्र - न मूत्र, मूत, पेशाव।  
मूत्राशय - न पु मूत्राशय,  
मसाना, फुकना।

मूद - स्त्री [क ‘मुद्दे’] १  
गरम भात को कलछी, कटोरी  
आदि मे दवाकर बनाया हुआ  
पिडा। २. स्त्रियो की बेनी का  
एक गहना। [मझ, बेवकूफ।

मूर्ख - वि मूर्ख, मूढ, नास-  
मूर्च्छा - स्त्री मूर्च्छा, बेहोशी,  
गश, चक्कर। [बेहोश।

मूर्च्छित - वि मूर्च्छित,  
मूर्त - वि १. मूर्त, मूर्तियुक्त,  
साकार। २. ठोस।

मूर्ति - स्त्री १. मूर्ति, प्रतिमा।  
२. देह, शरीर। ३. आदमी,  
मनुष्य। - मत, - मान् - वि  
मूर्तिमान्, साकार, मुजस्सम,  
साक्षात्। कहा० मूर्ती तितक्या  
प्रकृती - प्रत्येक व्यक्ति का  
स्वभाव अलग-अलग होता है।

मूल - न १. बच्चा, बालक।  
२. मूल, जड। ३. उत्पत्तिस्थान,  
उद्गम। कहा० मुंलाचे पाय  
पाळण्यात दिसतात - होनहार  
विरवान के होत चीकने पात।  
- तत्त्वा, - द्रव्य - न मूल-  
तत्त्व, मूल पदार्थ। - प्रकृति -  
स्त्री मूलप्रकृति, आदिमाया। -  
भूत - वि मूलभूत, वुनियादी,  
आधारभूत।

मूलक - वि मूलक, मूल  
वाला (समास के जत में - पाप-

मूलक, भ्रातिमूलक)।

मूल्य - न मूल्य, कीमत,  
दाम। - मापन - न मूल्याकन।  
- वान् - वि मूल्यवान्;  
कीमती।

मूस - स्त्री १. कुठाली,  
घरिया, घडिया (सोनाआदि गलाने  
की कुल्हिया)। २. सांचा, ढांचा।  
मुशींत ओतलेल्या - वि सांचे  
मे ढला हुआ, गठीला, बढिया,  
सुदर।

मूळ - न १. मूल, जड। २.  
आदि पुरुष। ३. प्रारभ। ४.  
कारण, उत्पत्तिस्थान, उद्गम।  
५. मूलग्रथ, ग्रथकार की मूल  
शब्दावली। ६. २७ नक्षत्रों में से  
उत्तरीसवां। ७. गुणित राशि का  
मूल (ग०)। - वि मूल, आद्य,  
प्रधान, असली, वुनियादी।

- घटक - पु. मूलतत्त्व। - चा -  
वि १. वास्तविक, असली।

२. सच्चा। ३. स्वाभाविक।

- चिठी - स्त्री विवाह का

निमन्त्रण-पत्र। - पीठिका - स्त्री

१. आदिकारण, प्रारभ, उद्गम

२. सभी वाते, विस्तृत विवरण।

- पुरुष - पु. मूल पुरुष, वश का

आदि पुरुष। - व्याध-धि - स्त्री

ववासीर, अर्श (गुदा का एक

रोग)। - स्वभाव - पु. मूल-

स्वभाव, जन्मस्वभाव, आदत।

मु० - काढणें, - खणणें - जड

उखाडना, काटना, खोदना, समूल

नाश करना। - धरणें - जड

जमना, पकडना, पीधे का अच्छी

तरह जम जाना, दृढ होना।

- घाडणें - वहू को लिवा लाने

के लिए किसी को भेजना। मुळाला

हात घालणें - दे ‘मुळाशी हात

घालणे’। मुळावर जन्मणें - मूल



नक्षत्र में जन्म होना, हमारे के लिए हानि कर नक्षत्र में जन्म लेना। मुळावर घेणें - किमीके नाथ या हानि का कारण बनना। मुळाशीं हात घालणें - तह तक पहुँचना, अमली चीज को पकडना।

मृग - पु १ मृग, हिरन। २ मृगशिरा नक्षत्र। ३ डम नक्षत्र में होने वाली वर्षा। ४ पशु, जगली जानवर। - जळ - न मृगजल, मरीचिका, मृगतृष्णा, बोखा। - तृष्णा - छी मृगतृषा, मृगतृष्णा। मृगाचा किडा - वीरवहूटी। [आखेट।

मृगया - छी मृगया, शिकार, मृगाजिन - न मृगाजिन, मृगचर्म।

मृत - वि १ मृत, मरा हुआ, मुर्दा। २ मारा हुआ, कुश्ता (घातु)। ३ व्यर्थ, निष्फल। - प्राय - वि मृतवत्, अधमरा।

मृत्यु - पु १ मृत्यु, मरण, मौत, इतकाल, देहात। २ यम। - पत्र - न मृत्युपत्र, वसीयतनामा। - मुखीं - अव्य मौत के मुँह में, काल के गाल में। [ मु० -० पडणे - मरना, देहात होना ] - लेख - पु किमीकी मृत्यु पर लिखा हुआ लेख। मु० - पावणे - मरना, देहात होना, स्वर्गवास होना, परलोक सिधारना। - शय्येवर असणे - मृत्युशय्या पर पडा होना, दो-चार दिन का मेहमान होना! [ (वाजा)।

मृदग - पु मृदग, पखावज मँग - छी केचुली।

मँगळट, मँग्या-ग्या - वि नामर्द, कायर, ढीला।

मॅचट - वि ? चीकट, यातेलि। २ गदा।

मॅड - छी मीड (एक स्वर मे दूसरे स्वर पर जाने का एक सुंदर ढग) (सगीत)। [ २ बुद्धू।

मॅडपाळ - पु १ गटरिया।

मॅडरु - न १ मेमना। २ भेड, भेडा, भेडी, दुबा।

मॅडा - पु १ भेडा, भेडा, भेप। २ दुबा। मु० - घेणें - मत्र-वाला, मगनर होना।

मॅदी - छी मेटी, मेपी।

मॅदी - छी मेहँदी, हिना।

मॅदू - पु १ मस्तिष्क, मगज, टिमाग, भेजा। २ बुद्धि, अकल।

मे - पु [ अ ] मई (महीना)।

मेकड, मेकुड, मेकूड - न पु सूखा हुआ रेट, नाक का सूखा मैल।

मेख - छी [ फा 'मेख' ] १ मेख, कील, खूँटी। २ खूवी, राज, भेद, रहस्य। मु० - मारणें - मेख मारना, रोडा, रुकावट डालना, बाधक होना।

मेखला - छी १ मेखला, करधनी, किंकिणी। २ जजीर, साँकल। [ खूँटा, वडी कील।

मेखसू - न [ फा 'मेख' ]

मेघ - पु मेघ, बादल।

- डवरी - छी १ छत, मँडई।

२ छतरी, चँदोवा। ३ गुबद।

- समुदाय - पु घटा, बदली।

मेघाच्छादित - वि मेघाच्छन्न,

वादलो मेढका हुआ। मु० - होणें

- घुमडना, घटा धिरना, छाना।

मेज - न [ फा पुर्त 'मेज' ]

मेज, टेबुल, टेबिल।

मेजणी, मेजणें - दे 'मोजणी', 'मोजणें'।

मेजवानी - छी [ फा 'मेजवानी' ] १ मेजवानी, आतिथ्य। २ भोज, दावत।

मेट, मेटें - न १ घुटन का जोड। २ पहरा, चीकी, याना। मु० मेटाकुटीस घेणे - निहात होना, हैगन, परेशान होना, थक जाना, पस्त होना।

मेड, मेड - छी १ छोटा खभा; खँभिया। २ आधारस्तम्भ। ३ खूँटा। [ खभा।

मेडकी - छी खँभिया, छोटा

मेडाँशगी - छी मेडाँनिगी

(एक लना)।

मेडी - दे 'मेड'।

मेदें - न दे 'मेड'। - कोट -

पु लकडी की मजबूत दीवार।

मेण - न [ फा 'मोम' ] १ मोम; निक्थ, मधुशिष्ट, माक्षिज। २ जमाया हुआ मिट्टी का तेल। - कापड - न मोम-जामा। - चट - वि १ मोमी,

चीकट, तेलिया। २ बहुत पका हुआ (भात), पिलपिला। ३ गदा। - वत्ती - छी मोमवत्ती।

मु० - काढणें - कचूमर निकालना, बहुत पीटना।

मेणा - पु [ फा 'मियाना' ] मियाना, डोली, शिविका, पालकी।

मेणाचा - वि १ मोमी,

मुलायम। २ कमजोर।

मेणेकरी - पु [ दे 'मेणा' ]

कहार।

मेतकूट - न १ चने की चटनी,

मिस्ता। २ घनिष्ठ मित्रता। मु

- जमणें - गाढी छनना।

मेथी - छी मेथी (एक पत्र-

शाक)। - ची वडी - छी

मेथीरी।

मेद - पु १ मेद, चरवी ।  
२ चरवी या मोटाई बहुत बढ़ जाने का रोग ।

मेमण - पु [ अ 'मोमिन' ]  
मुसलमान जुलाहों की जाति ।

मेर - स्त्री १ मँड, खेत की हदबदी । २ समय । ३. सीमा, हद ।

मेरु - पु १ मेरु, सुमेरु पर्वत । २ जपमाला का प्रधान मनका, हार का मध्यमणि । - मणी - पु सिरमौर, शिरोमणि ।

मेल - स्त्री [ अ ] १ मेल, डाक । २ डाकगाड़ी ।

मेल - दे 'मेलें' ।

मैला - क्रि अ मरा, मर गया । - वि १ मरा हुआ मृत । २ मुआ, -निगोडा, नाकारा (स्त्रि) । दे 'मैले' । मु मैल्याचें तळपट होवो - मुए का सत्यानास हो ।

मैली - क्रि अ मरी, मर गयी । - वि मुई, निगोडी (स्त्रि) ।

मैले - क्रि अ मरा, मर गया । - वि मरा हुआ । - अव्य छि, छी (स्त्रि) । - अन्न - न हराम का खाना । मु मैल्यापेक्षा मैले होणे - शर्म से मर जाना, लज्जा से गड जाना । मु० मैले मडें आगीला भीत नाही - मुदें की लाश आग से नहीं डरती, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना ? [ (स्त्रि) ] ।

मैल्या - अव्य मूए, ऐ निगोडे  
मेवा - पु [ फा 'मेव' ] १ मेवा, सूखे फल । २ मिठाई । - मिठाई - स्त्री मिठाई और मेवे ।  
मेहणा - णी - दे 'मेहणा-णी' ।  
मेपपात्र - दे 'मेपपात्र' ।

मेष - पु १ मेष, भेडा । २ बारह राशियों में से पहली । - पात्र - न वि वुज्जदिल, कायर, नामर्द, नपुसक ।

मेस्त्री - पु [ पुर्त. 'मेस्तर' ]  
मिस्त्री, कल-पुरजे के काम जानने वाला कुशल कारीगर ।

मेहतर - पु [ फा 'मिहतर' ]  
१ मेहतर, भगी । २ अगुआ, नायक ।

मेहनत - वि [ अ 'मिहनत' ]  
१ मेहनत, श्रम, परिश्रम । २ कष्ट, तकलीफ । ३. मजदूरी, उद्योग । - मजुरी - स्त्री मेहनत मजदूरी, उजरत पर की जाने वाली मजदूरी ।

मेहनताणा - ना - पु [ अ फा 'मिहनतान' ] मेहनताना, पारिश्रमिक, उजरत, मजदूरी, वकील आदि की फीस ।

मेहनती - त्या - वि [ अ 'मिहनत' ] मेहनती, परिश्रमी ।  
मेहुण - न भोजन के लिए निमंत्रित दपती, पतिपत्नी ।

मेहुणा - पु १ ( वायकोचा भाऊ ) साला । २ ( बहिणीचा नवरा ) बहनोई । मेहुण्याची वायको - स्त्री सलहज, साले की पत्नी ।

मेहेनत, मेहेनताणा - दे 'मेहनत', 'मेहनताणा' ।

मेहेर; मेहेरनजर - स्त्री [ फा 'मिहर' ] मेहर, कृपा, दया, कृपा-दृष्टि, कृपाभाव ।

मेहेरवान - वि [ फा 'मिहरवान' ] ? मेहरवान, कृपालु, अनुग्रहकर्ता, दयालु । २ माननीय, महाशय ।

मेहेरवानगी, मेहेरवानी - स्त्री [ फा 'मिहरवानी' ] मेहरवानी,

दया, कृपा, अनुग्रह ।

मैल - पु १ मैल; मिलाप । २ सगति, अनुकूलन । ३ सतुलन । ४ मिलाना, मु० - घालणे - मैल बैठाना, पटरी जमाना । - वसणे - मैल खाना, बैठना, पटरी बैठना, सगति के उपयुक्त होना । [ २. मैला, जमाव ।

मैळा - पु १ सगीत मडली ।  
मैळावा - पु १ मैला । २ भीड, जमाव । ३ मैनाविभाग । ४ समारोह ।

मैत्र - पु मित्र, दोस्त । - न १ मैत्र, मित्रता । २ अनुराधा नक्षत्र । [ सखी ।

मैत्रिण - णी - स्त्री सहेली,  
मैत्री - स्त्री मैत्री, मित्रता, दोस्ती । [ साधिन ।

मैत्रीण - स्त्री सखी, सहेली,  
मैथुन - न मैथुन, स्त्री-पुरुष का समागम, रतिक्रिया, मभोग ।

मैदा - पु [ फा 'मैद' ]  
मैदा, समिता, बहुत वारीक आटा ।

मैदान - न [ फा ] १ मैदान ( चौडी चकरी समतल जमीन ) । २ अखाडा । मु० - मारणे - मैदान मारना; विजयलाभ करना ।

मैना - स्त्री मैना, सारिका ।  
मैफल, मैफिल - स्त्री [ अ 'महफिल' ] महफिल, मजलिस, गोष्ठी ।

मैल - पु [ अ 'माइल' ]  
मील ( आधा कोस ) ।

मैल - पु मैल, गदगी । - खोर - वि मैलखोर, गर्दखोर ।

मोगल; मोगलाई - दे 'मोगल', 'मोगलाई' ।

मोड - वि १ नुयग, जुद । २ नटरट ।

मोकलणे - क्रि स १ भेजना ।  
२ खुला छोडना । - क्रि अ  
दहाड मारना, चिल्ला - चिल्ला  
कर रोना ।

मोकळा - वि १ मुक्त,  
खुला, स्वतंत्र । २ खाली । ३  
अलग, फेला हुआ । - चाकळा -  
वि १ खुला । २ स्वैर, निरकुश ।  
- ढाकळा - वि विस्तृत ।

मोकळीक - स्त्री १ छूट,  
स्वतंत्रता । २ छुटकारा । ३.  
निवटारा ।

मोकळें - वि न खुला । दे.  
'मोकळा' । - पणा - पु. खुलापन,  
स्वतंत्रता, आज्ञादी । - मंदान -  
न १ खुली जगह । २ पूरी स्वतंत्र-  
ता, मनमानी करने का अवसर ।  
मोकळ्या मनानें - अव्य खुले  
दिलसे, खुल कर। मु० - होणे - १  
निवटना । २ खाली होना ।

मोका - पु [ अ 'मौकअ' ]  
१ मौका, अवसर, ठीक समय ।  
२ नाका, चौकी । मोक्याची  
जागा - स्त्री महत्त्वपूर्ण स्थान ।

मोकाट - वि १ खुला,  
आज्ञाद, अनगल, निरकुश,  
स्वैर, स्वैच्छाचारी । २ गुस्ताख,  
उद्वत ।

मोकाशी - पु [ दे 'मोकासा' ]  
माफीदार, भूमि का लगान वसूल  
करने वाला ।

मोकासा - पु. [ अ 'मुकास-  
मत' ] १ माफीदारी । २ सेना  
आदि में नाँकरी के बदले में दी गयी  
माफी - जमीन, गाँव आदि । ३  
गाँव की आमदनी का हिस्सा  
मिलने का अधिकार ।

मोख - पु. वीज के अदर का  
अकुर, मुलायम भाग ।

मोखा, मोखाडा + - पु १.

डडा, बूँट । २ कोपल, पतली  
टहनी ।

मोखार - वि १ मुलायम ।  
२ अच्छी तरह बढ़ने, फलने -  
फूलने वाला ।

मोगर - रा - पु मुंगरा ।

मोगरा - पु मोगरा, बेला,  
मोतिया ( फूल ) ।

मोगरी - स्त्री १ बेला  
(पीघा) । २ मूली की फली ।

मोगरी - स्त्री मुंगरी, छोटा  
मुंगरा । [मुगल, तातार, तुर्क ।

मोगल - पु [ तु 'मुगल' ]

मोगलाई - स्त्री [ तु 'मुगल' ]

१ मुगलों का राज, शासन ।

२ अधेरखाता, अन्याय, जुल्म ।

मोगली - वि [ तु 'मुगल' ]

१ मुगली, मुगलीया, मुगलों का ।

२ कपटी । - एरड - पु वडी दती

( एरड की जाति का एक वृक्ष ) ।

- वेदाणा - वडी किशमिश ।

- मिरची - स्त्री वैगन जैमी वटी

मिर्च ।

मोगर - पु मेटिया; मटका ।

मोघम - वि [ अ 'मुव्हम' ]

सदिग्ध, गोलगोल, अनिश्चित ।

मोघा - पु मेटिया, मटका ।

मोचा - पु १ मोजा । २

जूता ।

मोची - पु मोची, चमार ।

मोज - न मान, मापन,

नाप, ताल । - दाद - स्त्री

गिनती, हिसाब, शुमार । - पट्टी -

स्त्री एक - फुटा, एक फुट की

पटरी । - माप - न नापताल,

गिनती ।

मोजका - वि परिमित, नपा-

तुला, इनागिना, सतुलित ।

मोजणी - स्त्री १ गिनती ।

२ पैमाइश (जमीन आदि मापने

की क्रिया) । - दार - वि भूमि  
सर्वेक्षक; जमीन की पैमाइश  
करने वाला ।

मोजणे - क्रि स १ गिनना,  
मापना, नापना, तालना । २  
परवाह करना ।

मोजा - पु [ फा 'मोज' ]  
मोजा, जुराँव, पायतावा ।

मोट - स्त्री १ मोट, चरसा;  
पुर, पुरवट । २ गठरी, बड़ा  
बोझ । - करी - पु. चरसिया;  
चरमी । - कुळी - स्त्री मोटगी,

गठरी । - वण - न १ लिलार,  
पैडी । २ मोट । मु० - धरणे -

मोट चलाना । - वाघणे - किसी  
की इच्छा के विरुद्ध उमे किसीके

माथ जोड़ देना या किसी काम में  
लगाना । वा-याची मोट वाघणे -

असमभव वान करने की चेष्टा  
करना ।

मोटला - पु, मोटली - स्त्री ;

मोटले - न मोटरी, गठरी ।

मोटाघाटा - वि हट्टा-कट्टा;

मजबूत, तगडा, मोटाताजा ।

मोटार - स्त्री [ अ 'मोटर' ]

मोटर, मोटरकार, मोटरगाडी ।

मोठा - वि १ बड़ा । २

महान्, श्रेष्ठ, वजुर्ग । ३ बहुत,

अधिक । ४ मोटा । - शहाणा -

वि अकल का पुतला, अकल का

पूरा, दुश्मन (व्य०) ।

मोठें - वि न १ बड़ा । २.

मोटा । मु० - पोटा असणे - उदार

होना, क्षमावान् होना ।

मोठेपणा - पु. बड़प्पन,

बडाई, महानता, प्रतिष्ठा ।

मोड - पु १ अँखुआ, कल्ला,

अकुर । २ मस्सा (बवासीर का

दाना) मु० - घेणे - अँखुआना,

अँखुआ, अकुर फेंकना ।

मोड - पु १ हार; शिकस्त; पराजय । २ नाश । मु० - करणे - १ हराना, शिकस्त देना । २ खत्म करना ।

मोड - स्त्री १ रेजगी, छुट्टा, खुर्दा । २ पुराने और टूटे-फूटे वस्तु । ३ मोड, घुमाव । ४ ढग, तरीका । - तोड - स्त्री तोड - फोड, टूट-फूट । मु० - करणे - भुनाना, तुडवाना ।

मोडकळ - स्त्री १ थकावट, थकान, श्रांति । २ टूटा-फूटा होने की स्थिति । मु० मोडकळीस येणे - गिरने की स्थिति में होना, टूटने को होना । मोडका - वि टूटा हुआ, भग्न । - तोडका - वि टूटा-फूटा ।

मोडणी - स्त्री १ ढग, तर्ज, तरीका । २ फसल की कटाई ।

मोडणे - क्रि अ १ टूटना, भग्न होना, खडित होना । २ विखरना, अलग हो जाना । ३ च्युत होना, निष्फल होना (व्रत) । ४. सवध न रहना । ५ कम होना । ६ बढ़ होना । ७ नष्ट, वरवाद होना (समय) । ८ के अतर्गत होना, शामिल होना । ९ अग टूटना, अँगडाई के साथ पीडा का उठना, दर्द होना । १० दब जाना, हार जाना, शिकस्त खाना । मु० अग मोडून येणे - अग टूटना; वदन में दर्द होना ।

मोडणें - क्रि स १ तोडना, टुकड़े करना । २ नाश करना, दबा देना, खडित या बेकाम करना । ३ बल, प्रभाव आदि को निशेष या नष्ट करना । ४ बढ़ कर देना (सस्या) । ५ उल्लघन करना, खिलाफवर्जि करना

म हि श को ...३८

(आज्ञा) । ६ बात पर कायम न रहना, वादाशिकनी, वचनभंग करना । ७ तुडाना; भुनाना (सिक्का) । ८ विखेरना, तितर-वितर कर देना । ९ खट्टा करना (मन); नाराज करना । १० आँख मिचकाना, मारना । मु० मोडून काढणे - विफल कर देना, कुचल देना, बल, प्रभाव आदि को निशेष या नष्ट करना ।

मोडता - पु, मोडती - स्त्री अडगा, बाधा, टाँच । मु० - घालणे - टाँच मारना ।

मोडशी - स्त्री १ सर्दी लग जाने से होने वाला अतिसार, दस्त की बीमारी । २. अजीर्ण, अपचन ।

मोडा - दे 'मोडता' ।

मोडी - स्त्री १ मोडी (मराठी भाषा की एक शीघ्र लिपि) । २ दे. 'मोडणी' ।

मोत - स्त्री [ अ 'मौत' ] मौत; मृत्यु । मु० कुव्याच्या मौतीने मरणे - कुत्ते की मौत मरना, बडी दुर्दशा के साथ मरना ।

मोतदार - पु [ अ 'मुत-अह्हिद' ] साईस (घोडे की देख-भाल करने वाला नीकर) ।

मोताद - वि [ अ 'मुहताज' ] मुहताज, मोहताज, तरसने वाला, कगाल, मुखापेक्षी ।

मोतिविदु - पु मोतियाविद, फूली (आँख का रोग) ।

मोती - न, मोती - पु मोती, मुक्ता, गौहर । - चूर - पु मोतीचूर (छोटी बुंदिया, ऐसी बुंदियो का लड्डू) । - विदू - दे 'मोतिविदु' । मोत्याचा वाणा - पु १ बहुत सुंदर अक्षर, लिखावट ।

२ सुंदर व्यक्ति । मोत्याचा भाग - पु माँग में पहनने का मोतियो का एक गहना । मोत्याची ओळ - स्त्री सुंदर अक्षर, लिखावट ।

मोत्या - पु १ कुत्ता । २ बच्चों की जननेंद्रिय; नूनी ।

मोद - पु मोद, आनंद, हर्ष, खुशी ।

मोदक - पु १ मोदक (लड्डू के आकार का एक मीठा पकवान जो गणेशजी को विशेष प्रिय है) । २ पिटाई, मरम्मत, मार ।

मोदी पु [ हिं ] १ मोदी, परचूनिया (दाल, चावल आदि बेचने वाला) । २ दीवान । - खाना - पु मोदीखाना, सेनारसद विभाग, भंडार ।

मोना - पु केले का बहुत छोटा पीघा । - वि गुंगा ।

मोप + - वि बहुत, काफी, विपुल, प्रचुर ।

मोफत - वि [ फा. 'मुफ्त' ] मुफ्त, विनामूल्य, निशुल्क ।

मोबदला - पु [ अ 'मुवादल' ] १ बदला, मुआवजा, पारिश्रमिक । २ मुवादला, बदल-बदल, आदान-प्रदान । - अव्य बदले में, एवज में ।

मोर - पु १ मोर; मयूर । २ मोरनी (गहना) । - कुचा - पु, - चल, - चेल - न मोरछल (मोरकी पूँछ के परो का चंवर) । - पख - पु मोरपख । - पखी - वि मोर की पूँछ के रंग का, गहरा नीला । - पीस - न मयूर-पुच्छ, मोर का पख । - शिखा - स्त्री मोरशिखा, गुलमखमली पीघा । कहा ० मोर नाचतो म्हणून लाडोर नाचते - मूर्खतापूर्ण अनुकरण, अपनी अयोग्यता को न

पहचान कर दूसरो का अनुकरण करना ।

मोरचग - पु [ उर्दू 'मुरचग' ]  
मुरचग, मुंहचग (एक वाजा) ।

मोरचा - दे ' मोर्चा ' ।

मोरचूत - द - पु. तुल्य, नील ।  
तूतिया, नीला थोथा ।

मोरणी - छी मोरनी (नाक  
का गहना) ।

मोरावा - दे ' मुखा ' ।

मोरस साखर - छी मॉरिशस  
द्वीप मे वनी बढिया किस्म की  
चीनी ।

मोरी - छी [ क ' मोरवु ' ]  
१ स्नानगृह, गुस्लखाना । २  
मोरी, नाली, पनाली । मु०  
मोरीवर जाणे - (स्त्रि०) - पेशाव  
करना । [ बुद्ध, वेवकूफ ।

मोरु - पु मोरेश्वर । - वि

मोर्चा - पु [ फा ' मोरच ' ]  
१ मोरचा, दमदमा, मोरचे -  
वदी । २ घावा, हमला । ३. पहरा,  
चौकी । ४ जुलूस । मु० मोर्चे  
लावणें - १ मोरचा बाँधना ।  
२ तोपें दागना ।

मोर्चेवदी + - छी [ फा.  
' मोरच ' + ' वदी ' ] मोरचा-  
वदी, मोरचेवदी, किलावदी;  
खाई, घुस, दमदमा आदि बना कर  
शत्रु से लडने का प्रवच करना ।

मोर्तव - न [ अ ' मुरत्तव ' ]  
मुहर, सिक्का, राजमुद्रा ।

मोल न १ मोल, मूल्य;  
दाम कीमत । २ पारिश्रमिक;  
मजदूरी, उजरत । - करी - पु.  
मजदूर, कुली, मोटिया । -  
करीण - छी नौकरानी, महरी,  
कहारिन । - तोल - न मोल -  
तोल; भाव-भाव, दाम ठह-  
राना । - मजुरी - छी मिहनत-

मजदूरी, परिश्रम । - वान्,  
मोलाचा - वि बहु-मूल्य, वेश-  
वहा, मूल्यवान्, कीमती, दामी,  
वेशकीमत । कहा ० मोलें  
घातलें रडायी । नाहीं आसु नाहीं  
माया - जब मन मे किसी के प्रति  
सच्चा प्रेम न हो तो ऊपर से उसे  
प्रकट करने से क्या होगा?

मोसवी - वें - दे ' मुसवी-वें ' ।

मोसम - पु [ अ ' मौसिम ' ]  
१ मौसिम, ऋतु । २ अनुरूप  
काल, समय ।

मोह (झाड) - पु महुआ,  
महुवा । मोहाचा नारळ - पु,  
मोहाची सुपारी - छी - साधारण  
नारियल या सुपारी से विशेष मीठा  
नारियल या सुपारी ।

मोह - १ मोह, मूर्च्छा । २  
अज्ञान; अविद्या । ३ आत्मबुद्धि,  
ममता । ४ भ्राति । ५ शोक;  
चस्का, आकर्षण । ६ लोभ,  
लालच, तमा, प्रलोभन । - जाल -  
न, - पावा - पु मोहपाश,  
मोह का जाल । [ लुभाने वाला ।

मोहक - वि मोहक, सुदर,

मोहणें - दे ' मोहविणें ' ।

मोहतूर - पु - १ विधवा -  
विवाह । २ दे ' मुहूर्त ' ।

मोहन - न १ मोहन (खस्ते-  
पन के लिए गुंधे हुए आटे मे  
घी या तेल देना) । २ गुझिया,  
मोदक आदि मे भरा जाने वाला  
मसाला (मावा, नारियल की गरी,  
खोया आदि), पूरन । - वि  
मोहन, मोहक, मोहने वाला । -  
पु मोहन, कृष्ण का एक नाम ।  
- भोग - पु १ मोहनभोग ( एक  
तरह का हलवा) । २ चावल की  
एक किस्म । - माळ - छी  
मोहन-माला (सोने के दानो की

वनी हुई माला) ।

मोहवत - द - छी [ अ  
' महव्वत ' ] १ मुहव्वत, प्यार,  
प्रेम । २ मिहरवानी, दया,  
कृपा ।

मोहर - छी [ फा ' मूहर ' ]  
१ मुहर, स्वर्णमुद्रा, सोने का  
सिक्का । २ अँगूठी । ३ ठप्पा,  
सील, छाप । ४ दे ' मुद्रा ' - वद-  
वि वद कर के जिसपर मुहर  
लगायी गयी हो ।

मोहर - पु दे ' मोहोर ' ।

मोहरकी - छी १ मोहरी,  
(वह रस्सी जो मरकहे पशुओं के  
मुँह पर लगा कर पगहे से जोड दी  
जाती है) । २ मोहरा (पशुओं के  
मुँह पर बाँधी जाने वाली जाली) ।

मोहरणे - क्रि अ १ मोरना,  
वोर लगना, वोरना । २ फूलना ।  
३ खुश होना ।

मोहरम - पु [ अ ' मूहरम ' ]  
१. मुहरम, मुसलमानी साल का  
पहला महिना । २ ताजिये का  
त्यौहार ।

मोहरा - पु [ फा. ' मुहर ' ]  
१ मुहरा, शतरज की गोट । २  
नेता, अगुआ, श्रेष्ठ पुरुष । ३.  
कागज आदि घोटने का आला,  
घोटना । ४ साँप की मणि । ५  
कागज पर अकित जलचिह,  
जलाक । मु० - इरेस पडणें -  
प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्राणों  
की बाजी लगाना, स्वत्वरक्षा के  
लिए मर मिटना ।

मोहरा - पु मुहरा, सामना,  
आगा । मु० - फिरविणें - १ मुँह  
फेरना, मोडना । २. लौटाना,  
धुमाना ।

मोहरी - छी सरसों; राई ।

मोहरें - न दे. ' मोहरा '

मोहरेदार - वि [फा 'मुहर']  
चिकना, चमकदार (कागज)।  
मोहल्ला - पु [अ 'महल्ल']  
१ मुहल्ला, टोला, गली। २  
दे 'मोर्चा'। [मोह लेना।  
मोहविणे - क्रि स. लुभाना,  
मोहळ - दे 'मोहोळ']।  
मोहिम, मोहोम - स्त्री [अ  
'मुहिम'] मुहिम, चढाई,  
आक्रमण, अभियान।  
मोहोर - पु मीर, वीर  
(आम आदि की मजरी)। - स्त्री  
दे 'मोहर'।  
मोहोरकी, मोहोरणे - दे  
'मोहरकी', 'मोहरणे'। [छत्ता।  
मोहोळ - न मधुमक्खियो का  
मोळ - न एक प्रकार की घास  
जिससे झाडू आदि बनाते हैं।  
मोळा + -पु. ढग, रीति, परि-  
पाटी। [खूंटी। २ ठप्पा।  
मोळा - पु १ बडी कील,  
मोळी - क्रि अँटिया, गट्टा,  
लकडियो का गट्ठर। - विख्या -  
वि लकडहारा।  
मौजीबघन - न मौजीबघन,  
उपनयन, यज्ञोपवीत-सस्कार।  
मौज - स्त्री [अ 'मौज']  
१ मौज; चैन, मजा, तमाशा।  
२ आनन्द, शौक, लुत्फ, सुख,  
मनरजन। ३ मन की लहर,  
तरंग। मु० - असणे - आनन्द  
होना, चैन की वन्सी वजना। -  
करणे-मौज भारना, सुख भोगना,  
ऐश करना।  
मौजा - पु [अ 'मौजा']  
मौजा, स्थान, गाँव।  
मौजे - न [अ 'मौजा']  
+ फा 'ए'] गाँव, देहात।  
- अव्य नाम का, किसी गाँव के  
नाम से पहले यह शब्द आता है।

[उदा० मौजे पिपळगाव = मौजा  
पिपळगाव]

मौन - न मौन, चुप्पी,  
खामोशी। - वि मूक, चुप्पा।

मौलिक - वि १ मूल्यवान्,  
बहुमूल्य। २ मौलिक, मूलगत।

मौल्यवान् - वि मूल्यवान्,  
बहुमूल्य, दामी, कीमती, वेश-  
कीमत।

म्यां - \* सर्व मैं ने।

म्यांज - अव्य. म्यांव (विल्ली  
की बोली)। - स्त्री विल्ली।

म्यान - न [फा 'मियान']  
म्यान, मियान, खड्ग - कोष,  
गिलाफ। मु - करणें - १ मियान  
में करना, (तलवार को) गिलाफ-  
में बंद करना। २ मुँह बंद  
करना, चुप रहना। कहां० एका  
म्यानात दोन तलवारी राहात  
नाहींत - एक मियान में दो  
तलवारें नहीं रह सकती।

म्याना; म्यानेजर - दे  
'मेणा', 'मॅनेजर'।

म्युनिसिपल - वि [अ]  
म्युनिसिपल, म्युनिसिपालिटी (नगर  
पालिका) सबधी। - कार्पो-  
रेशन - न नगर निगम।

म्युनिसिपॅलिटी, म्युनिसि-  
पालिटी - स्त्री [अ] म्युनिसि-  
पालिटी, नगरपालिका, नगर-  
सभा।

म्लान - वि १ म्लान, कुम्ह-  
लाया हुआ, मुग्झाया हुआ। २  
थका हुआ, निढाल। ३ खिन्न,  
उदास।

म्लेच्छ, म्लेच्छ - पु १  
म्लेच्छ, अनार्य। २ विदेशी,  
युरोपीय; ईसाई। ३ मुसलमान।

म्लेच्छलें - अव्य (स्त्रि) १  
१ सुनो तो। २. समझे ?।

म्लेच्छलें - क्रि स कहा, बोला।  
- तर - अव्य एक दृष्टि से।

म्लेच्छण - स्त्री कहावत, मसल;  
लोकोक्ति। - क्रि स कह, कही,  
बोली।

म्लेच्छणे - अव्य. १ अर्थात्,  
यानी, याने। २ पर, तो, क्या  
मतलब ?। - फाय - अव्य (के)  
मानी-ने क्या है ?।

म्लेच्छणे - क्रि अ स १  
कहना, बोलना। २ जवानी याद  
करना, रटना। - न १ कथन,  
कहना। २ कहा, आदेश, सलाह।  
म्लेच्छणता म्लेच्छणता - अव्य वात की  
वात में, आनन् फानन्, तुरत।

म्लेच्छणविणे - वि स १ कह-  
लाना, कहलवाना। २ शेखी  
बघारना, डीग हाँकना।

म्लेच्छणून - अव्य. १ इसलिए,  
अत। इस वास्ते, इस वजह से,  
इस कारण। २ सो, यो। - वि  
१ इस प्रकार का, ऐसा। २  
नामक, नाम का। - साथीं -  
अव्य इसलिए, अत।

म्लेच्छशा - पु १ भैंसा। २  
मट्ठर, बुद्धू आदमी।

म्लेच्छशीचा, म्लेच्छशीनें, म्लेच्छशीवर -  
दे 'म्लेच्छ' मे।

म्लेच्छसण, म्लेच्छसणवट-टी - दे  
'मसण', 'मसणवट-टी'।

म्लेच्छसोबा - पु कलुवावीर,  
महिषासुर (एक क्षुद्र देवता)।

म्लेच्छस्का - पु [फा 'मस्क']  
मसका, मक्खन। - पॉलिश - न  
चापलूसी, खुशामद। मु० - लावणे  
- खुशियावरदारी, खुशामद करना।

म्लेच्छातारचळ - पु बुद्धभस,  
दिमाग सठिया जाना, बुढीती में  
जवानी की उमग। मु० - लागणे  
दिमाग सठिया जाना।

म्हातारडा - वि पु बुढवा, बुढळ, बुड्डा, मूसट, जराजीर्ण, (घृणासूचक) ।

म्हातारडी - स्त्री बुढिया, बुड्डी, (घृणासूचक) ।

म्हातारपण - न बुढापा, बुढीती, वार्द्धव्य ।

म्हातारा - वि वूटा, वूट्ट, जर्डफ। - कोतारा - वि वूटा ।

म्हातारी - स्त्री १ बुढिया, वूडी स्त्री । २ आक या सेमल की रूई । - वि वूटी । कहा० म्हातारी मेल्याचें दुख नाही, पण काळ सोकावतो - बुढिया के मरने का नही, यम के पहुँचने का डर है,

किसी घटना की अपेक्षा उममे होने वाले परिणामो का डर अधिक होता है । [ 'महारवडा' ।

म्हार, म्हारवडा - दे 'महार', म्हाळ - दे 'महाळ' ।

म्हाळसा - स्त्री १. महाळसा देवी (खडोवा की पत्नी) । २ कर्कशा स्त्री ।

म्हाळुग - दे 'महाळुग' ।

म्हेतर - दे 'महेतर' ।

म्हैस - स्त्री भैस, महिषी ।

म्हशीचा प्राणनाय - पु भैसा ।

- वि सुन्त, काहिल, वूट्ट ।

म्हशीनें पाय दिलेलें नाक - न चिपटी नाक । मु० - आटणे -

भैस ना ठाँठ होना । - पिळमें - भैस दुहना । म्हशीवर पाऊस पडणें - कोई अगर न होना, निरर्थक, निष्फल होना । कहा० म्हशीची शिंगे म्हशीला जड होत नाहीत - भैस के मींग उसके लिए भागी नहीं होते, वच्चों का बोझ मां-त्राप के लिए अनह्य नहीं होता । मेल्या म्हशीला घागरभर दूध - जो दान नहीं रही है, उसके गृण गाना ।

म्होरं<sup>+</sup> - अव्य आगे ।

म्होरकी - दे 'मोहरकी' ।

म्होरवया - पु अगुआ, नेता, सरदार ।

य

य - मराठी व्यंजनमाला का छव्वीसवाँ व्यंजन - वर्ण ।

यत्र - न १ यत्र, कला, औजार, मशीन । २ जतर । ३ वाजा ।

यत्रणा - स्त्री प्रवध, शानन-तत्र, 'मगीनरी' ।

यंदा - अव्य [ फा 'आइद.' ] इस वर्ष, इस माल ।

य कश्चित् - वि तुच्छ, मामूली, क्षुद्र, साधारण, हेंच ।

य पलायन - न भाग जाना ।

यकृत - न १ यकृत, जिगर, पित्ताशय; कलेजा । २ यकृत रोग; जिगर की बीमारी ।

यक्ष - पु यक्ष (एक देवयोनि) ।

यक्षिणी - स्त्री यक्षिणी (यक्ष की स्त्री) । - ची काडी - स्त्री जादू की छडी । [ मु० - ०फिरणे - अचानक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन हो जाना ] ।

यक्ष्मा - पु यक्ष्मा, क्षयरोग,

तपेदिक । [ तमाम ।

यच्चयावत् - अव्य वि कुल;

यजमान - पु १ यजमान;

यज्ञ करनेवाला । २ दक्षिणा आदि दे कर ब्राह्मणो से धार्मिक कृत्य कराने वाला, जजमान । ३ मेजवान, स्वामी, मालिक, परिवार का मुखिया । ४. पति, शीहर । ५. उपपति, वेश्या का स्वामी । - कृत्य -

न यजमानी, पुरोहिती, यजमान के लिए किया जाने वाला धार्मिक कृत्य ।

यजमानोण - स्त्री १ यजमान-पत्नी । २ मालकिन ।

यज्ञ - पु १ यज्ञ, याग । २ होम, बलिदान । - कुड न यज्ञकुड, हवन करनेका कुड ।

यज्ञोपवीत - वि यज्ञोपवीत, जनेऊ । [ झझट, झमेला ।

यडताक - न [ क 'एडतर' ]

यडताकणे - क्ति अ [ क

'एडतर' ] झझट, झमेले मे फँस

कर चक्कर काटना ।

यड्ड - न [ क ] शगरत, मस्ती ।

यति - पु १ यति, योगी, सन्यासी । २ गीत या छंद में विग्राम का स्थान । - भग - पु यतिभग ( छंद में यति निश्चित स्थान पर न होने का दोष ) ।

यत्किंचित् - अव्य. यत्किंचित्, थोडा - सा, कुछ, बहुत कम ।

यत्न - पु यत्न, प्रयत्न, कोशिश ।

यथा-अव्य यथा, जिस प्रकार, जैसे । - काळ - ठों - अव्य यथा काल, उचित समय पर । - क्रम - में - अव्य यथाक्रम, क्रम में, क्रम के अनुमार । - तथा - अव्य किसी तरह, मुश्किल से । - तय्य - वि मच्चा, हूबहू । - पूर्व - अव्य यथापूर्व, पहलेका - सा । - मति - अव्य. यथामति, समझके अनुसार । - योग्य - अव्य वि यथा-

योग्य; ठीक ढग से, जैसा चाहिये, उपयुक्त, यथोचित। - अव्य यथा-शक्ति, शक्तिभर; शक्ति के अनुसार। - साग - अव्य यथा-विधि, पूरी तरह, भली भाँति। १ भरपूर, मनमाना, यथेष्ट। २ यथोचित।

यथार्थ - वि यथार्थ, वास्त-विक, सत्य, सही, समीचीन, उचित। - अव्य यथार्थ मे, सच-मुच, वस्तुतः, दर असल।

यथावकाश - अव्य यथाव-काश, फुरसत से, सुविधानुसार।

यथेच्छ - अव्य यथेच्छ, यथेष्ट, मनमाना।

यदाकदाचित् - अव्य यदि, शायद, हो सकता है।

यदृच्छा - स्त्री १ यदृच्छा, सयोग। २ भगवान् की इच्छा, मर्जी। ३ मनमानापन।

यद्यपि - अव्य यद्यपि, अगरचे, गोक।

यम - पु १ यम, यमराज। २ सयम, निग्रह। ३ क्रूर, निर्दय व्यक्ति। - दूत - पु १ यमदूत, मृत्यु का सदेशवाहक। २ क्रूर व्यक्ति। - द्वितीया - स्त्री यम-द्वितीया, भैयादूज। - पाश - पु यमपाश, यम की फाँस, मौत का फदा। - पुरी - स्त्री १ यमपुरी, यमनगरी। २ यत्रणाओं का स्थान। ३ कारागृह, जेल [ मु० - स पाठ-विणें - यमपुरी पहुँचाना, मार डालना ]। - यातना - स्त्री १ यमयातना, नरक की पीडा, मृत्यु की यत्राणाएँ। २ बहुत आधिक कष्ट। - लोक - पु, - सदन - न यमलोक, यमसदन, दे 'यम-पुरी'। मु० यमाच्या दाढेंल सापःणें - काल के गाल में फँसना,

मौत के फदे में फँसना।

यमक - न यमक, तुक, अत्यानुप्रास, काफिया। मु० - जुळविणें - तुक बैठाना; तुकबंदी करना।

यमक्या - वि पु तुककड, तुकबंदी करने वाला।

यव - पु यव, जौ।

यवन - पु १ यवन, यूनान का निवासी। २ मुसलमान।

यश - न १ सफलता, कामयाबी। २ यश, कीर्ति, सुख्याति। मु० - लाभणे - सफलता मिलना।

यशस्वी - वि १ सफल, कामयाव। २ यशस्वी, सुख्यात।

यशापयश - न १ हारजीत, सफलता या असफलता। २ यश-अपयश, नेकनामी या वदनामी।

यष्टि - स्त्री १ यष्टि, छडी, डडा। २ 'विकेट' (क्रिकेट)। - रक्षक - पु 'विकेटकीपर'।

यस्पयस् - न गिटपिट, गिटपिट बोली, भापा, अग्रेजी। मु० - करणे - गिटपिट करना, टूटीफूटी अग्रेजी बोलना।

यहुदी - पु [अ 'यहूदी'] यहूदी, इस्राईली, हज़रत मूसा के धर्म का अनुयायी।

यळकोट - दे 'एळकोट'।

या - क्रि अ आइए, पघारिए।

याक - पु [अ] याक, चामरगी, सुरागाय, चमरवैल।

याग - पु १ याग, यज्ञ, होम। २ पूजा। [ वाला, भिखारी।

याचक - पु याचक, माँगने याचना - स्त्री याचना, प्रार्थना, माँगने की क्रिया, भीख।

याज्ञिक - न १ यज्ञयाग।

२ पुरोहिती। - पु याज्ञिक, यज्ञ करने, कराने वाला।

याज्ञिकी - स्त्री पुरोहिती।

यातना - स्त्री १ यातना, यत्रणा, कष्ट। २ यमलोक की दड-पीडा।

यातायात - स्त्री १ कष्ट, तकलीफ, परेशानी। २ यातायात, आना-जाना, गमनागमन। ३. आवागमन, जन्म-मरण का चक्र।

यातायाती - स्त्री जातिभेद, जात-पाँत।

यात्रा - स्त्री १ यात्रा; तीर्थाटन,। २ मेला। ३ यात्रिको का समूह। [करने वाला।

यात्रेकरू - पु यात्री, तीर्थाटन

याद - स्त्री [फा] १ याद, स्मरण। २ दे 'यादी'। - गिरी - स्त्री १ यादगार, यादगारी, स्मारक। २ स्मरण। मु० (त्याला) - राहील - याद करेगा, पछताएगा।

यादवी - स्त्री गृहकलह, गृह-युद्ध, खानाजगी।

यादी - स्त्री [फा 'याद'] सूची, सूचि, तालिका, फिहरिस्त, फर्द। [वाहन।

यान - न यान, सवारी, यानें - सर्व इसने।

याम - पु याम, पहर, तीन घटों का समय।

याम्योत्तर रेखावृत्त - न याम्योत्तर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर वृत्त।

यारी - स्त्री भारोत्तोलन यत्र, दानवभुजयत्र, वक, 'क्रेन'।

याडें - पु [अ] गज (३६ इंच का एक मान)।

यावच्चद्रदिवाकरी - अव्य जब तक चद्र-सूर्य रहेंगे, हमेशा



के लिए ।

यावज्जीव - अव्य याव-  
ज्जीवन, जीवनपर्यंत, आजीवन ।  
या वेळीं - अव्य १ इस समय,  
वक्त । २ इस वार ।

युक्त - वि १ युक्त, सयुक्त,  
सहित, जुटा हुआ । २ उचित ।  
युक्तायुक्त - वि उचित-अनु-  
चित, भला-बुरा ।

युक्ति - स्त्री १ युक्ति,  
उपाय; तरकीब । २ रहस्य,  
राज, खूबी, कौशल, चातुर्य । ३  
तर्क, ऊहा; दलील । ४ चाल,  
दांव-वेच । ५. योग, मिलन ।  
- प्रयुक्ततीनें - अव्य. होशियारी  
से, चालाकी से, अच्छे-बुरे उपाय  
से । - वाज - वि चतुर,  
होशियार, चालाक । - वाद - पु  
दलील, युक्ति, बहस, तर्क ।  
- वान - दे० 'युक्तिवाज' ।  
मु०- काढणें - उपाय, तरकीब  
निकालना । - लढविणे - टिप्पस  
जमाना, तदवीर करना, सिप्पा  
भिडाना, लडाना, तरकीब करना ।  
- लागू पडणे - सिप्पा भिडना,  
उपाय लग जाना । - शिकविणें -  
१ पट्टी पढाना । २ तरकीब  
वताना । - सुचणे - तरकीब  
सूझना । युक्तीयुक्तीनें घेणे -  
धीरे-धीरे, समझा-बुझा कर काम  
करना ।

युग - न १ युग, जुग । २  
युग, जोडा । ३ लवा अरसा,  
जमाना ।

युगानुयुग-गें - अव्य युग-  
युग, बहुत दिनों तक, अरसे से ।  
युगत - स्त्री युक्ति; खूबी, दे  
'युक्ति' ।

युद्ध - न १ युद्ध; लडाई,  
जग, सग्राम । २ झगडा, मार-

पीट, मारकाट । - कैदी - पु  
युद्धवदी, जगी कैदी । - क्षेत्र - न  
युद्धक्षेत्र, युद्धभूमि, मैदाने जग ।  
- तहकुवी - स्त्री युद्धविराम,  
जगवदी । - वदी - स्त्री युद्धवदी;  
लडाईवदी, जगवदी । मु० युद्धात  
मारलें जाणे - खेत आना, रहना ।  
- युद्धास तोड लागणे - लडाई,  
जग छिड जाना ।

युनिफॉर्म - पु. [अं] वर्दी,  
वरदी, 'यूनीफॉर्म' ।

युनिवर्सिटी - स्त्री [अ] ]  
विश्वविद्यालय, विद्यापीठ ।

युयुत्सु - वि युयुत्सु, लडाका,  
जुझार, लडने की इच्छा रखने  
वाला ।

युरेजिअन - वि [अ 'यूरे-  
शियन'] यूरेशियन, जिसके मां-  
वाप से मे कोई एक एशिया का और  
दूसरा यूरोप का हो; किरटा ।

युरोप - पु. [अं] यूरोप,  
यूरप, योरोप ।

युरोपियन - वि [अ] यूरो-  
पियन, यूरोपीय ।

युवक - पु युवक, जवान,  
तरुण ।

युवती - स्त्री युवती, तरुणी ।

युवराज - पु युवराज; वली-  
अहद, राज्य का, उत्तराधिकारी,  
राजकुमार ।

यूनिट - न पु. [अ.] इकाई ।

ये - क्रि अ आ, आओ ।  
- जा - स्त्री आना-जाना, आवा-  
गमन, यातायात ।

ये - अव्य अरे, ऐ ।

येऊन - अव्य आ कर ।  
- जाऊन - अव्य १ अन्यायी  
रूप से, बीच-बीच में । २ अत मे,  
आखिरकार; अततोगत्वा । ३  
अधिक से अधिक । मु० - ठेपणें -

आ घमकना, बहुत निकट पहुंच  
जाना ।

येक - दे० 'एक' ।

येणे - न पावना, लहना (बह  
म्पया जो हमरे में पाना हो) ।

येणे - क्रि अ १ आना,  
पहुंचना; पधारना । २ फल-फल  
लगना, पैदा होना । ३ ज्ञान या  
अभ्यास होना, जानना । ४ होना,  
सकना, उचित, नभाव्य होना ।  
पु विदा होना । - जाणे - न १  
आना-जाना, आमदरगत । २  
मिलना - जुलना । येऊन, येता,  
येता-जातां - दे० क्रम में ।

येणें करून - \* अव्य अत,  
इसलिए । [ प्रकार ।

येणेंप्रमाणें - - अव्य. इस  
येता, येताना - अव्य आते  
नमय । येतां-जाता - अव्य आते  
- जाते, हर नमय, हमेशा ।

येता - क्रि अ आ जाता ।  
- वि आने वाला । - जाता -  
वि आना-जाता, आने-जाने वाला ।  
- पु यात्री ।

येथ - अव्य यहाँ । - चा - वि  
यहाँ का । - पर्यंत, - पावेतो,  
- वर - अव्य यहाँ तक; अब  
तक ।

येथील - वि यहाँ का ।

येथून - अव्य यहाँ से ।

येथें - अव्य. यहाँ । - च -  
अव्य. यही; यही पर । मु० येथेच  
घोडें पेंड खातें - असली दिक्कत  
यही है, यही मुसीबत की जड है ।  
येनकेन प्रकारेण - अव्य येनकेन  
प्रकारेण, जिस किसी भी तरह से,  
किसी तरह ।

येर - \* सर्व १ अन्य,  
दूसरा, वह । २ यह ।

येरझारी - स्त्री १ चक्कर ।

२ चहलकदमी । [ 'एरव्ही' ।  
येरवीं, येरव्हीं - दे० 'एरवी',  
येरू - दे० 'येर' ।  
येवढा, येवींतेवीं, यव्हा - दे  
'एवढा', 'एवींतेवी', 'एव्हा' ।  
येशू, येसूधिरस्त - पु [ हिब्रू ]  
ईसा, ईसामसीह । [ का तेल ।  
येशेल - न मीठा तेल, खाने  
येळकोट - दे 'एळकोट' ।  
योग - पु १ योग, सयोग,  
सवध । २ ध्यान । ३ सुमीता,  
सुयोग । ४ कौशल । ५ जोड ।  
६ साधन । - क्षेम - पु जीविका,  
गुजर-वसर, निर्वाह, गुजारा ।  
[ मु०-० चालविणें - जीविका  
चलाना, जीविका की चिंता से  
मुक्त करना ] । - वल - न ; -  
शक्ति - छी योगवल, योग-  
शक्ति, तपोवल । [ इत्तफाक ।  
योगायोग - पु सयोग,  
योगें - अव्य से, कारण,  
वजह से ।

योग्य - वि १ योग्य, उचित,  
वजा । २ सुयोग्य, लायक, पात्र ।  
३. अनुरूप । ४ श्रेष्ठ, शीलवान् ।  
योग्यता - छी १ योग्यता,  
लियाकत, क्षमता, पात्रता । २  
श्रेष्ठता । ३ औचित्य, मुनासि-  
वत ।  
योजक - वि १ युक्ति,  
तरकीव से काम लेने वाला, होशि-  
यार । २ प्रवधक, सयोजक ।  
योजणें - क्रि स १ आयो-  
जन करना, प्रवध करना । २  
सोचना, योजना बनाना । ३  
रखना, लगाना, नियुक्त करना ।  
४ निश्चित करना, तै करना । ५  
प्रस्ताव करना ।  
योजन - न योजन (दूरी का  
मान विशेष-दो, चार या आठ  
कोस) ।  
योजना - छी १ योजना,  
आयोजन, आयोजना, सयोजन,  
विचार, 'स्कीम', 'प्लैन' । २

नियुक्ति । ३ रचना । ४ प्रयोग ।  
५ प्रस्ताव । ६. प्रवध । - पूर्वक-  
अव्य. आयोजनावद्ध, आयोजना-  
पूर्वक ।

योजिलेलें - वि प्रस्तावित,  
आयोजित, अभिप्रेत ।

योद्धा - पु योद्धा, सूर पुरुष,  
जवान, वीर, रनवांकुरा ।

योनि - नी - छी १ योनि,  
स्त्रियो की जननेंद्रिय । २  
उत्पत्तिस्थान, जन्मस्थान । ३  
प्राणिविभाग ।

योषिता - छी १ स्त्री,  
नारी । २ व्यभिचारिणी ।

यौगिक - वि १ प्राकृतिक,  
मूल । २ मिला हुआ । - शब्द पु  
यौगिक शब्द, अर्थों का वाचक  
शब्द ।

यौवन - न यौवन, जवानी,  
तरुणाई । - पीटिका - छी  
मुंहासा ।

## र

र - मराठी वर्णमाला का  
सत्ताईसवाँ व्यजन ।

रक - वि १ रक, निर्धन,  
कगाल, गरीब । २ लाचार,  
क्षुद्र ।

रंग - पु [ फा स ] १ रग,  
वर्ण । २ उल्लास; आनंद, मजा,  
रौनक । ३ ढग, हालत, तरीका ।  
३ रगमच, नाट्यस्थान । ५  
खेल, क्रीडा, नृत्य, तमाशा ।  
६ रगत । ७ शोभा, सौंदर्य । ८  
मौज, ठाट-वाट । - काम - न  
रंगाई, रंगने का काम । - ढग -  
पु १ रगढग, हाल, दशा,  
स्थिति । २ तौर-तरीका, व्यव-

हार, चलावा । ३ हावभाव,  
नखरा । ४ चिह्न, लक्षण ।  
- देवता - छी रगदेवता, रग-  
भूमि का देवता । - पंचमी - छी  
फाल्गुन (उत्तर भारतमें चैत्र) की  
कृष्णा पंचमी (होली के बाद  
पाँचवा दिन जब रग खेला जाता  
है) । - पट - पु नेपथ्यशाला,  
'ग्रीन रूम' । - भूमि - छी रग-  
मच । - मडप - पु १ रगमडप,  
नाट्यशाला । २ कुश्तियो का  
मडपयुक्त अखाडा । - महल - पु  
रगमहल, प्रमोदभवन, भोग-  
विलास का स्थान । - रूप - न  
रगरूप, सूरत, शकल । [ मु०

-रूपास आणणें-अच्छी स्थिति को  
पहुँचाना, विकास करना । -रूपास  
धेणें - अच्छी स्थिति को  
पहुँचना, विकसित होना ] । -  
वल्लिका, - वल्ली - छी चौक  
पूरना, रंगोली । - शाळा - छी  
रगशाला, नाट्यशाला । मु० -  
उडणें - १ रग उडना, रग उत-  
रना, रग का हलका पडना,  
उड जाना । २ रग उखडना,  
दूसरो पर प्रभाव, रोव न रहना । -  
उडविणे - दे 'रग खेळणे' ।  
क्रीडा, प्रमोद विलास करना । -  
खेळणें - रग खेलना, डालना,  
फेंकना, होली, फाग खेलना । -

चढणे - १ रग आना, चढना, रग निखरना, खुलना । २ रग जमना, खूब आनद, मजा होना, आना, रगत आना । - दिसणें - सभावना दिखाई देना, लगना; प्रतीत होना । - भरणे - १ रग भरना, पूरना, रँगना । २ जमना । रगाचा भग करणे - रग मे भग करना । रगात घेणें - रग मे रँगना, तन्मय होना । रगारूपास आणणें, घेणें - दे 'रगरूपास आणणे, घेणे' ।

रगण - न १ घेरा, मडल, वृत्त, दायरा । २ खेलका मैदान । ३. कावा (घोटे को घुमाने का दायरा, चक्कर) । मु० रगणात घेणे मैदान मे आना, मुकावले के लिए सामने आना ।

रगणें - क्रि अ १ रँग जाना, रग आना, चढना । २ तल्लीन, मग्न, तन्मय होना, रग मे रँग जाना ।

रगत - छी [फा] १ रगत, रग । २ शोभा, सजावट । ३ मौज ।

रगरूट - पु [अ 'रिक्कूट'] रगरूट, नया सिपाही, नौसिखिया ।

रगविणें - क्रि स १ रँगना, रग देना, रग मे डुवोना, रग भरना, चित्र मे रग पूरना । २ थप्पड जमाना, कम कर तमाचा मारना । ३ पान जमाना, खाना । रगाई - वि रँगाई, रँगने का काम या मजदूरी ।

रगारी - पु [फा 'रँगरेज'] रँगरेज (कपडा रँगने का काम करने वाला) । [पसद ।

रगौढगी - वि रँगौला, ऐश-रंगीत वि [फा 'रगीन'] रगीन, रँगा हुआ । - तालीम -

वि पूर्वाभिनय, 'रिहर्सल' ।

रगीवेरंगी - वि [फा. 'रग-विरग'] १. रगविरग, रग-विरगा, अनेक रगो वाला । २ भाँति-भाँति का ।

रगेल - वि रँगौला, मीजी, शोकीन, विलासी, ऐशपरस्त ।

रजक - पु १ रजक, रँगरेज । २ रगसाज । - वि १ रजक, रँगने वाला २. मनोरजक, हर्षकारक ।

रजक - छी [फा] १ रजक, वद्क, तोप की वारूद की प्याली । २ वारूद जो डम प्याली मे रखी जाय ।

रजणें - क्रि अ [फा 'रज'] १ दुखी होना, रजीदा होना । २ कष्ट पाना । मु०-गाजणें - दुखी, पीडित होना ।

रजन - न रजन, मन प्रसन्न करना, मनरजन, आनद, सुख ।

रजी - [फा 'रजिश'] ऊव, परेशानी, उदामी । - स - दे क्रम मे ।

रजीस - वि [फा 'रजिश'] दुखी, परेशान, हैरान, उदास । मु - घेणें - हैरान, परेशान होना ।

रडका - वि पु. रंडूआ । - वि छी रांड, विधवा ।

रडकी, रडकी - मुंडकी - छी विधवा, वेवा, रांड (धृणा-सूचक) ।

रंडा - छी १ रडा, रांड; विधवा । २ रडी, वेध्या । - गीत - न १ विधवा की कहानी, गीत । २ विधवा के शोक जैसा घटिया दर्जे का काव्य ।

रडी - छी रडी, वेध्या । - वाज - वि १ रडीवाज,

वेध्यागामी । २ वडिया, खूब-मूरत । - वाजी - छी रडीवाजी, वेध्यागमन । मु ० - ठेवणें - रडी रवना ।

रघणें - क्रि स [फा 'रद'] रंदना, रदा फेरना, चलाना, रदे से लकडी की मतह चिकनाना ।

रघा - पु [फा 'रद'] रदा (लकडी को चिकना बनाने का औजार) । [ छिद्र । २ दोप ।

रंध्र - न १ रंध्र, छेद,

रभा - छी १ रभा (एक अप्सरा का नाम) । २ मुदर स्त्री । ३ कुरूप, भद्दी स्त्री । ४ वेध्या । - पु चमडा काटने का एक औजार । [वांधने की डोरी) ।

रकटा - पु चांरी (चोटी रकटें - न [क 'रट्टु'] १ फटा कवल, वोरिया । २ चीथडा, फटा-पुराना कपडा ।

रकम - दे 'रक्कम' ।

रकाना - पु [अ 'रकन'] १ खाना । २ स्तभ, 'कालम' । ३ तह ।

रक्कम - छी [अ 'रकम'] १ रकम, गशि, धन, नियत सख्या के रूपये । २ सख्या, पूरी सख्या । ३ प्रकार, भाँति । ४ मात्रा; परिमाण, मान । मु० रकमेस घेणे - १ मूल्यवान्, कीमती होना । २ थक जाना, निढाल होना ।

रक्त - न. रक्त, लहू, रुधिर, खून । - वि लाल, सुर्ख । - कमळ - न रक्तकमल, लाल रग का कमल । - गोलक - पु रुधिर-गोलिका । - चदन - पु रक्तचदन, लाल चदन । - दाब - पु रक्तदाब, रक्तचाप । - पात - पु रक्तपात, खूनखरावी, मार-

काट। - रहित - वि रक्तपात-  
रहित, हत्यारहित, रक्तहीन।  
- पाती - वि खूनी, रक्तरजित।  
- पित्ती - स्त्री गलिनकुष्ठ,  
कोढ। - पिपासू - वि खून का  
प्यासा, खूनी, खूख्वार, क्रूर-  
कर्मा, जालिम। - बवाळ - वि  
लहूलुहान, खून से तर। - बीज -  
पु १ खटमल। २ एक असुर  
जिसके रक्त से नये असुर उत्पन्न  
होते थे। ३ बनार, रक्तबीज।  
- वाहिनी - स्त्री रक्तवाहिनी,  
रुधिरवाहिनी नलिका। - शोषण -  
न १ रक्तशोषण, खून चूसना। २  
बीमारी में खून सूख जाना। -  
स्त्राव - पु रक्तस्राव, खून  
बहना, निकलना, गिरना। रक्ताची  
शपथ - स्त्री सिर की कसम।  
मु० - आटविणे, रक्ताचे पाणी  
करणे - १ खून पानी एक करना,  
बहुत परिश्रम करना। २ लाख  
समझाना। - सळसळणे - लहू  
उबलना, खून खौलना।

रक्ताभिसरण - दे 'रुधिरा-  
भिसरण'।

रक्तातिसार - पु रक्तातिसार  
(वह अतिसार जिसमें खून के दस्त  
आते हैं। [हृदय।

रक्ताशय - न रक्ताशय,  
रक्तिमा - पु रक्तिमा,  
ललाई, लाली। [बवासीर।

रक्ती मूळव्याध - स्त्री खूनी  
रक्षक - वि पु १ रक्षक,  
रक्षा करने वाला, मुहाफिज।  
२ पहरेदार, प्रहरी।

रक्षण - न १ रक्षण, रक्षा,  
हिफाजत। २ पालन-पोषण। ३.  
सुरक्षा, बचाव, दिफाअ,  
प्रतिरक्षा।

रक्षणे - क्रि स १ रक्षा

करना, बचाना। २ रखना,  
सँभालना।

रक्षा - स्त्री १ रक्षा, सुरक्षा,  
रखवाली। २ राख; भस्म। ३  
खेल, खेली। - विसर्जन न  
भस्मविसर्जन, भस्मीविसर्जन,  
भस्मी बहाना।

रक्षणे - दे 'रक्षणे'।

रखडणे - क्रि अ १ भट-  
कना, कष्ट से चलना। २ बड़ी  
मुश्किल से गुजारा होना। ३  
खटाई में पडना।

रखडपट्टी - स्त्री भटकना,  
बेकार का चक्कर, रगडा।

रखरख - स्त्री १ कड़ी  
गरमी। २ जलन, आग। ३ परे-  
शानी। ४ रूखापन।

रखरखणे - क्रि अ १ चिल-  
चिलाना, जलना, घघकना, बहुत  
गर्म और रूखा हो जाना। २  
सूखना। ३ कड़ी भूख या प्यास  
लगना।

रखरखलेला - वि दहकता  
हुआ, जलता हुआ, घघकता  
हुआ। - निखारा - पु १ घघ-  
कता हुआ अगारा। २ उग्र, तेजस्वी  
व्यक्ति।

रखरखाट - पु १ रूखापन,  
पानी या तरी का अभाव। २  
कड़ी भूख।

रखरखीत - वि १ रूखा  
और गर्म, सूखा। २ वीरान;  
ऊसर। ३ जलता हुआ, घघकता  
हुआ।

रखवालदार - पु रखवाला,  
रक्षक, चौकीदार, पहरेदार।

रखवाली - स्त्री रखवाली;  
रक्षा, निगरानी, पहरा, हिफा-  
जत, रखवाई, चौकीदारी।

खेली - स्त्री खेली, खेल,

सुरैत, सुरैतिन, रखनी, उपपत्नी।

रग - स्त्री [फा] १ रग,  
नस, नाडी। २ हठ, जिद।  
३ मस्ती। ४ जोर, उत्साह।  
५ कसक, पीडा, हूक। मु०  
- जिरणे - रग उतरना, जिद दूर  
होना, मस्ती उतरना, झडना,  
अकल ठिकाने आना। - जिरविणे,  
- मोडणे - मस्ती झाडना, मस्ती  
(नशा, गर्व) दूर करना।

रगड - वि [क 'रगडे']  
विपुल, काफी, भरपूर।

रगडणे - क्रि स १ रगडना,  
दवाना। २ रौंदना, कुचलना।  
३ हडपना, खा जाना। ४  
घिसना, पीसना।

रगडा - पु १ भीड, जमघट।  
२ बहुत बडा फैला हुआ काम,  
बोझ, अव्यवस्थित कारोवार। ३  
पत्थर की ओखली और उसमें  
धुमाने का खडा बट्टा। ४ रगडा,  
झगडा, झमेला, झंझट।

रगडून - अव्य १ जम कर,  
कस कर। २ भरपूर, भरपेट।  
मु० - खाणे - अफरना, जी भर  
खाना। [दे० 'रक्त']।

रगत - न रक्त, खून, लहू।  
रगाडा - दे० 'रगडा'।

रगेल - वि [फा 'रग'] १  
रगीला, मस्त। २ जिद्दी, हठी।  
रगड - दे 'रगड'।

रचनावळ - स्त्री रचाई,  
रचना, निर्माण, विन्यास, बनावट।

रचणे - क्रि स १ रचना;  
क्रम से रखना, तरतीब से लगाना,  
सजाना। २ बनाना, निर्माण  
करना, सिरजना। ३ चुनना। ४  
लिखना।

रचना - स्त्री १. रचना,

निर्माण, सृष्टि । २ वनावट, गठन । ३ निर्मित वस्तु ( ग्रथ, कविता, घर, मूर्ति आदि ) ।  
-कार - वि रचयिता, निर्माता, निर्माता ।

रचलेला - वि रचित, रचा, निर्मित, गठित । [ कण, गर्द ।

रज कण - पु रज.कण, घूलि-  
रज-पु न छी १ घूल, गर्द,  
बूलिकण । २ पराग । ३ रजो  
गुण । ४ स्त्रियो का मासिक रक्त-  
स्राव, ऋतु, आर्तव । मु० -  
रजाचा गज करणें - राई मे पर्वत  
करना, तिल का ताड करना ।

रजई - छी [ऊर्दू 'रजाई']  
रजाई; दुलाई, लिहाफ ।

रजक - पु रजक, बोधी ।  
रजत - न रजत, चांदी ।  
वि बुध्र, घवल, सफेद । -जयती-  
छी - महोत्सव - पु रजत-  
जयती । [रात्रि ।

रजनी - छी रजनी, रात,  
रजपूत - पु राजपूत ।

रजस्वला - छी रजस्वला,  
ऋतुमती ।

रजा - छी [अ. 'गिजा']  
१ रजा, खलमत, छुट्टी । २  
अनुमति, स्वीकृति, इजाजत । ३  
विदा । ४ नागा ।

रजिस्टर-न [अ 'रजिस्टर']  
१ रजिस्टर, याददास्त, हाजिरी  
की किताब, वही, पजी । २  
रजिस्ट्री । मु० - करणें - १  
रजिस्ट्री करना, कराना । २  
रजिस्टर मे दर्ज करना, लिखाना ।

रजोदर्शन - न रजोदर्शन,  
रजस्वला होना ।

रज्जु - छी १ रज्जु,  
रस्सी, डोर । २ स्त्रियो के  
सिर की चोटी । ३. वागडोर ।

रटप - न गिटपिट; टूटी-  
फूटी गच्चावली । मु० - करणें -  
रुक - रुक कर पढना ।

रटरटणें - क्रि अ खद-  
वदाना, खदखदाना (किमी चीज  
का उबलते समय 'खदवद' शब्द  
करना) ।

रटरटां - अव्य खदवदा कर ।  
रटाळ - वि उकताने वाला;  
तूल-तवील, वेढव, वेढगा ।

रट्टा - पु १ चांटा, धोल,  
धूमा, वप्पा, तमाचा । २ दे  
'रेटा' । मु० - देणें - धील  
जमाना, धूना, थप्पड मारना ।

रड - छी १ रोना, रुदन,  
रुलाई । २ भुनभुन, शिकायत,  
पिनपिन । - कया - छी , -गाणें  
न रामकहानी, दुखभरी या बडी  
कया, दुखडा, दुखगाथा । (मु०-  
० गाणें-दुखटा रोना) । - तोड्या  
वि रोनी मूरत वाला, मातमी,  
मुहरंमी ।

रडका - वि १ रोने वाला,  
रोनी मूरत वाला । २. हूरोवासा ।  
३ दुखी, उदास ।

रडकुडी - वि रोवामा,  
रोने को तैयार । - स आलेला -  
वि रोवासा । मु० - स येणें -  
१ रोवासा होना, रोना आना ।  
२ हैरान, परेशान होना ।

रडणें - क्रि अ १ रोना,  
आंसू बहाना, रुदन या विलाप  
करना । २ असफल होना, नष्ट,  
वरवाद करना । ३ पछताना,  
अफमोस करना । मु० रडून  
रडून डोळे सुजविणें - आठ-आठ  
आंभू रोना, जार-जार रोना ।

रडत - अव्य. रोते हुए । - वि  
रोता हुआ । - खडत, - पडत -  
रोते - चिल्लाते, किसी तरह,

बडी मुष्किल मे, जैमे-तैसे ।  
-राऊन, -राव-पु रोने वाला;  
बुद्ध, हमरो की जवर्दस्ती के  
कारण कोई काम करने वाला ।  
[ मु०-०घोडचावर वसविणें-जव-  
दस्ती गहीद बनाना, किमीकी इच्छा  
के विरुद्ध उममे कोई बडा काम  
करवाना ] ।

रडवणें - दे 'रडविणें' ।  
रडवा, रडवेला - दे 'रडका' ।  
रडविणें - क्रि स. १ रुलाना ।  
२ तग, परेशान, हैरान करना,  
पदाना, सताना ।

रडारड - छी रोना-बोना,  
रोना-भीटना; कुहराम (मचाना) ।  
रडी - छी १ रोगटी; ब्रेट-  
मानी (नेल मे) । २ चिडना ।  
मु०-साणें, -म येणे - १ रोगटी  
करना । २ दांव लेने मे इनकार  
करना ।

रडुवाई - वि छी १ रोनी  
सूरत वाला । २ कायर, डरपोक ।  
रडूडें - न रोना, रुलाई ।  
मु०-कोसळणे - रुलाई आना ।  
रड्या - वि रोनी मूरत वाला ।  
२ डरपोक, कायर ।

रण - न १ रण, युद्ध,  
लडाई, जग । २ रणभूमि, युद्ध-  
स्थल, मैदाने जग । ३ रन  
(समुद्र का खड-विशेष, कच्छ का  
रन) । - कदन - न घमसान,  
घोर युद्ध, भयानक मारकाट, घमा-  
सान की लडाई, विकट संग्राम । -  
गाडा - पु वकतरवद गाडी,  
'टैक' । - घाई - छी १ बडी  
जल्दी, तेजी । २. जोरदारलडाई । -  
झुझार - वि रनवांकुरा, योद्धा,  
वीर । - हुंहुभी - छी रण-  
दुंदुभी, रणभेरी । - धुमाळी - वि  
घमसान, रमासान । - भूमि-मी-

स्त्री रणभूमि, युद्धस्थल, मैदाने जग । - भेरी - स्त्री रण-सिंघा, रणवाद्य । - रग - पु घमसान की लडाई । - रागिणी - वि स्त्री रणकामिनी, रणप्रेमी, रणप्रिया । - वाद्य - न रणवाद्य, युद्ध का वाजा । - शिंग - न रण-सिंघा, नरसिंघा । - शूर - वि रनवांकुरा, योद्धा, वीर । - स्तम्भ - पु रणस्तम्भ, विजयस्तम्भ ।

रणरण - स्त्री कडी धूप ।  
रणरणणों - क्रि अ जलना, धधकना, दहकना ।

रणरणीत - वि जलता हुआ, तीव्र । [ क्षेत्र, मैदाने जग ।  
रणागण - न रणागण, युद्ध-रत - वि १ रत, अनुरक्त ।  
२ लीन, तन्मय, लगा हुआ ।  
३ दे 'रममाण' ।

रतणों - क्रि अ १ रति, सभोग मे मग्न होना । २ तल्लीन होना ।

रतन - न १ रतन, रत्न ।  
२ बहुमूल्य वस्तु । दे 'रत्न' ।  
रताळू-ळें - न शकरकद ।  
रति - स्त्री १ रति, सभोग, मैथुन । २ प्रीति, आसक्ति । ३ कामदेव की पत्नी ।

रति-ती - स्त्री १ रत्ती (ढाई जो या आठ चावल का एक मान) ।  
२ घुंघची ।

रतीव - पु [ अ 'रातव' ]  
१ वेंवेज, वधान । २ रातिव;  
रोज की खुराक ।

रत्तल - पु [ अ 'रत्तल' ]  
आधा सेर, पाउड, पौंड ।

रत्न - न १ रत्न, जौहर, मणि, जवाहिरात । २ उत्कृष्ट व्यक्ति या वस्तु । ३ मूर्ख, बुद्ध ।  
- खचित, - जडित - वि

जडाऊ, जडाव वाला । - पारखी-  
वि १ जौहरी, रत्न-पारखी ।  
२ कद्रवाई ।

रथ - पु रथ । - यात्रा - स्त्री रथयात्रा (आषाढ शुक्ला द्वितीया को पुरी मे होने वाला उत्सव) ।  
- सप्तमी - स्त्री रथसप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी (सूर्य के रथा-रोहण की तिथि) ।

रद - दे 'रद्' ।  
रदवदली - स्त्री [ अ 'रदो-  
वदल' ] १ मध्यस्थता, विच-  
वई । २ तरफदारी । ३ मित्रत,  
आजिजी ।

रद्द - वि [ अ 'रद' ] १  
रद, रद्द, काटा, छांटा हुआ,  
खारिज । २ खराब, निकम्मा,  
बेकार । - वातल - वि रद्द,  
अप्रभावी, अकृत और शून्य ।

रद्दा - पु [ अ 'रद्द' ? ]  
१ दीवार बनाने का गारा, गीली  
मिट्टी, कीचड । २ लुगदी ।

रद्दी - स्त्री [ अ ] १ रद्दी  
(बेकार फेंके हुए कागज आदि) ।  
२ कूडा - करकट । - वि रद्दी,  
निकम्मा, बेकार ।

रपकन् - अव्य. तडाक से,  
धम से ।

रप(पा)का - पु १ दे  
'रपाटा' । २ गीली और मुलायम  
चीज पर किसी वस्तु के गिरने से  
होने वाली आवाज, धधधव ।

रपाटा - पु १ धप्पा, चांटा,  
घील, थप्पड, तमाचा । २ झपट्टा,  
चपेट, रपट्टा ।

रपारप - अव्य तडातड,  
धधधव, धमाधम ।

रपेट - स्त्री १ चक्कर, दौड,  
सैर । २ घुडदौड । ३ रपट्टा,  
फिसलन ।

रफार - पु रेफ, दे 'रेफ' ।  
रफू - पु स्त्री [ फा 'रफू' ]  
रफू (जले, फटे कपड के छोटे  
सुराख में तागे भर कर बराबर  
करना, जाली लगाना) ।

रवडा - पु लोदा, कीचड ।  
रबर - न [ अ ] रवड ।  
रबरबीत - वि लेसदार,  
पतला ।

रबी-ब्बी - स्त्री [ अ 'रबी-  
अ' ] रबी, चैती (बसत ऋतु मे  
काटी जाने वाली फसल) ।

रमणा - पु १ बाग, श्रीडा-  
स्थल । २ चारो ओर से घिरा  
स्थान । ३ ब्राह्मणो को दक्षिणा  
वांटने की जगह । ४ शोर,  
होहल्ला । [ सुदर स्त्री ।

रमणी - स्त्री रमणी, स्त्री,  
रमणीय - वि रमणीय,  
रमणीक, सुदर, रुचिर, रम्य ।

रमणों - क्रि अ. १ रमना,  
रम जाना, मन लगाना, जी  
वहलना । २ तल्लीन, मशगूल  
होना । ३ विहार करना । ४  
भोगविलास, रतिश्रीडा करना । ५  
देर लगाना, फँसाना ।

रमतगमत - अव्य आराम से,  
धीरे-धीरे, मौज के साथ ।

रमल - न [ अ ] रमल,  
फलित ज्योतिष का प्रकार-विशेष ।  
रमविणे - क्रि स रमाना,  
लगाना, वहलना ।

रमारमी स्त्री १ आय और  
व्यय की बराबरी । २ समता ।

रमी - स्त्री [ अ ] रमी (पत्तो  
की दो गड्डियों से खेला जाने वाला  
एक खेल) ।

रम्य - वि रम्य, रमणीय,  
मनोहर, सुदर, दिलकश ।

रयत - स्त्री [ अ 'रईयत' ]

१ रैनन, रज्ययन, रिआना, प्रजा। २ परजा, कायाकार; अनामी। - चारी - र्थी रैनन-चारी बसोपन (जो एत-एत कायनकार के मार अलग-अलग हो)।

रया - र्थी १ मन्व, तीमत। २ गुण, योग्यता। ३. घोभा; धान, नेज, चमक। ४ र्निमित्त, महत्त्व।

रया - र्थी [ ७ 'रियागत' ] १ रहम; दया, कृपा। २ अदब।

रयय - पु न जुगाजे, पागुर। मु० - करणें - पगुगना, जुगाजी करना।

रया - पु. १ रया, नृगी। २ दाना, का। ३ भेली (नूट की)। ४ विगिष्ट धागे की मरर मे लाल बनायी हुई रलकी हो गांठ।

रवानगी - र्थी [ अ ] १ रवानगी, प्रयधान, प्रयाण। २. प्रेषण, भेजना। ३ विराट, विराट। मु० - करणें - १ भेजना। २. विदा करना।

रवाना - वि [ का 'रवान' ] १ रवाना, भेजा हुआ, प्रेषित। २ प्रस्थित, चला हुआ। मु० - करणें - १. भेजना। २. विदा करना। - होणें - १ जाना। २ विदा होना। [ सनेदार।

रवाळ - वि. रसादार, रवि - पु. रवि, मूर्यं, मूरज। - वार - पु. रविवार; रतवार।

रवो - र्थी रई, मयानी। रशियन - वि [ अ ] रूसी;

रूस का।

रशिया - पु. [ अ ] रूस।

रस - पु. १ रस, स्वाद, रसनैद्रिय का ज्ञान, मवेदन। २

गद्रे का रस। ३ रस, रसक पदार्थें। ४. मोरवा; रसा। ५. वृष का गिर्गन, गोट। ६ पाग। ७ तीर्थ। ८ शिवाली, मो। - कापूर - पु रसकपूर। - चाळी - र्थी केठे की एत बडिया गति। - भग - पु रस में भग होना। - भगित - वि १. रसनीता; पाट, तर। २ मरम, शिवागत। - रसीत - दे प्रम में। - रसी - र्थी १. वाणी। २. वातुता। ३. मधुर भावण। ४. चीज। - हीन - वि १. वृषा, कृपा। २. पीना; रैनजा।

रसद - र्थी [ अ ] १ रसद, गातेपीने का सामान, गहन। २. सेना के लिए पाठ सामान, पाठ, दाना आदि। [ २ रससाद।

रसना - र्थी १ रसना; जीवा।

रसरसीन - वि १ रसनीता, आटे, गीला; रसदार। २ कुराया हुआ, नरा हुआ। ३. रसना रजा, धयकता हुआ।

रसरसणे - क्रि अ. १ रसनीना दाना, चनपाता, आटे, तर होता। २. मदरना, उमरना। ३ रसकना। [ (ओपदि)।

रसाजन - न रसाजन, रसीत रसा - दे 'रसा'।

रसानळ - न रसानळ (मून्वी केनीचे जे मात थोठो नेंदे छज), पानाल। मु० रसानळाम जाणें - रसातल पहुँचना, बरवार, मटिया-मेट होना। रसातळास नेणे - रसातल पहुँचाना, बरवार, मटिया-मेट कर देना।

रसायण - न - न १ रसायन, लीमिया। २. ताँवे ने सोना बनाने का कल्पित योग। ३. घातुओं को मरम करने, एक घातु को दूसरी

घातु में परिवर्तित करने की विद्या। ४. रसा, रसी। - रसा रसगत। - शासक - न. रसायनशास्त्र; रसायनशास्त्र।

रसाळ - वि १ रसायन, रसायन; रसनीता, रसकपूर, रसकपूर। २. रसक; रसिता। ३. रसकपूर; शिवागत। ४. रसिक, रसक।

रसिक - वि. १ रसिक, का रसकपूर, रसिक, रसनीता। २. मोती, रसक। ३. रसक, रसोदार।

रसिकना - र्थी, रसिकध - न. १ रसिकता, मुर्शि, नमरगा। २. रसी - मरर। ३. मरर।

रसा - पु [ ७ 'रसा' ] १ रसायन, मरम; रस, रसा, रस। २. रसायन, रसोदार। ३. रसा, प्रस।

रसनोगनी - अल्प [ ३ 'रसा' ] रसी मातों पर, रस मरर पर।

रसा - पु रसा, रसगा, रसक (तरकारी खादि ता)।

रसी - र्थी रसी, रसी। - रस - र्थी रसनीता, रसकपूर (मोट)। २ रसोदार।

रसदारी - र्थी [ ३ 'रसायनी' ] १ रसायन, रसकपूर, रसकपूर, रसकपूर, रसकपूर, रसकपूर।

रस्य - न १. रसक; रस; भेद; नमं। २. गुण दात, रसनीय विषय। ३. गाडी मिरता। ४. रूसी मरर। ५. मरर।

रहाद - पु १ रसक ( गुएँ से पानी निकालने का यंत्र-विशेष)। २. रसक (मूत कानने का यंत्र) - गाटणें - न १. रसनीय,

ऐसा रहँट जिस पर पानी निकालने के लिए मटको की माला लगी रहती है । २ चक्कर, चक्र । ३ भाग्यचक्र, भाग्य का क्रम, फेर । ४ ऊँचनीच । - पाळणा - पु चक्रदोला, नागरदोला, झूला, हिंडोला ।

रहाटी - स्त्री १ रिवाज, प्रथा, दस्तूर, रीति । २ चक्कर । ३ दे 'रहाट' ।

रहाड, रहाणी, रहाणें - दे 'राड', 'राहाणी', 'राहाणे' ।

रहाळ - + पु प्रदेश, प्रात, इलाका ।

रहित - वि रहित, के बिना, के सिवा, वजित, सेहीन । - अव्य रद, रद्, मसूख ।

रहिवासी - वि निवासी, वाशिदा ।

रहीत - वि १ शेष, बचा हुआ, बाकी । २ दे 'रहित' । - अव्य रद्, मसूख ।

राकट - वि १ कडा, मजबूत और खुरदरा, हट्टाकट्टा, कठोर । २ गँवार, जाँगलू ।

राग - स्त्री १ कतार, पक्ति; श्रेणी । २ ताँता । ३ दर्जा ।

रागडा - वि गँवार, असम्य, ऊजड, जाँगलू ।

रागणें - क्रि अ रेंगना, पेट के बल चलना, घुटनो के बल चलना, बकैयाँ, बच्चो का वैयाँ वैयाँ चलना ।

रागत - अव्य घुटुरुअन, घुटुरुन, घुटनो के बल (चलना) ।

रागोळी - स्त्री १ रगवल्ली, साँझी, तडुल कुमुमकलविकार (चावल तथा फूलो का चौक बनाना) । रँगोली, अल्पना । २ एक सफेद पत्थर की वृकनी । मु० - काढणे;

- घालणें - चौक पूरना, बनाना ।

रागोळें - न एक सुराखदार नली जिससे रँगोली उरेही जाती है । [ घडा, कमोरा ।

राजण - पु मिट्टी का बडा राजणवाडी - स्त्री अजनहारी, विलनी, गुहाँजनी (आँख की पलक पर की फुन्सी) ।

राठ - वि १ खुरदरा, कडा, कठोर । २ सूखा । ३ उजड्डु, जाँगलू ।

राड - स्त्री १ राँड, वेवा, विषवा । २ रखेली, लौडी । ३ रडी, वेश्या । ४ ( घृणामूचक ) औरत, साली, घृणित स्त्री । ५ डरपोक, कायर आदमी । - पण - न १ रँडापा, वैधव्य । २ नाश । - रु न विधवा स्त्री । - लेक - पु १ रडापुत्र, राँड का बेटा ( गाली ) । २ हरामी, दोगला । ३ ( तकियाकलाम ) साला, मुआ । राडापोरें - न बहु पत्नी, बच्चे और नौकर-चाकर ।

राडेचा - वि १ अवैध ( सतान ), दोगला । २ मुआ ( एक गाली या तकियाकलम ) ।

राधण - न १ मिट्टी का तवा । २ हाँडी ।

राधणें - क्रि स राँधना, पकाना ( भोजन ), रसाई बनाना ।

राधा - पु १ रसायन, पकाया हुआ भोजन, मिश्रण । २ लुगदी । ३ दे 'कचकडा' ।

राप, रापण रापणें, रापी - दे 'राप', 'रापण'; 'रापणें', 'रापी' ।

राई - स्त्री १ राई, सरसो । २ अल्प परिमाण, छोटा कण । - भर - अव्य राईभर, बहुत

थोडा । मुहा० - चा पर्वत करणें - राई से पर्वत करना, तिल का ताड बनाना । - राई करणें, - राईएवढे तुकडे करणें - राई-काई करना, टुकडे-टुकडे करना, वोटी-वोटी नोच डालना ।

राई - स्त्री १ बाग, वाटिका । २ घने पेडो का समूह । ३ कतार, श्रेणी, पक्ति ।

राई - स्त्री राधा ।

राउत - पु १ घुडसवार, अश्वारोही सैनिक । २ राजपूत । ३ राउत, राजवशीय व्यक्ति, क्षत्रिय, वीर पुरुष ।

राउळ - न १ मंदिर । २ मकान, महल, प्रासाद । - पु १ राजा । २ श्रीकृष्ण, देवता ।

राऊ - पु \* १ राजा । २ दे 'राव' ।

राऊत, राऊळ - दे 'राउत', 'राउळ' । [ पूर्णिमा की रात ।

राका - स्त्री राका, पूर्णिमा, राँकेल - न [ अ 'राँक' + 'आँइल' ] मिट्टी का तेल, किरासन, 'केरोसिन' ।

राक्षस - पु १ राक्षस, दैत्य, असुर, दानव । २ दुष्ट, दुर्वृत्त व्यक्ति । - वि क्रूरकर्मा, जालिम ।

- गण - पु राक्षसगण ( नक्षत्रो की तीन कोटियो मे से एक ) । -

विवाह - पु राक्षस-विवाह ( जव-दंस्ती किया गया विवाह ) । - वेळ - स्त्री शाम का झुटपुटा ।

राक्षशीण - स्त्री १ राक्षसी । २. दुष्ट, क्रूर स्वभाव वाली स्त्री, डाइन, कर्कशा ।

राक्षसी - वि १ राक्षसमवधी । २ आसुर, पैशाचिक, अधोरी, क्रूर, घृणित । ३ प्रचड, बडा डरावना । - उपचार, - उपाय -



पु. आसुगी चिकित्सा, क्रूर, जगली उपाय ।

राख - स्त्री राख, खाक, भस्म । - रागोळी - स्त्री राख, तवाही, सर्वनाश । मु०-सावडणें - भस्म-विसर्जन, चिता की राख जमा कर के नदी में डालना, भस्मी वहाना ।

राख - स्त्री रखेल, रखेली ।

राखडी - स्त्री स्त्रियो की बेणी का एक गहना ।

राखण - स्त्री १ रखवाली; पहरा । २ रक्षा । ३ रखवाली की उजरत । ४ विशेष आवश्यकता के समय के लिए घर में रखी हुई वस्तु । - दार - पु रखवाला, चौकीदार, पहरेदार । मु० - लागणें - प्रवव हो जाना, छुट्टी, फुरसत मिलना ।

राखणावळ - स्त्री १. रखाई (रखवाली की उजरत) । २ रखवाली ।

राखणें - क्रि स १ रखना । २ रक्षा करना, रखवाली करना । ३ छुपा कर रखना । ४ निर्वाह, पालन करना । ५ पालना । ६ वचाना ।

राखी - स्त्री राखी, रक्षा-वधन का डोरा । - पुनव - स्त्री श्रावणी, श्रावण की पूर्णिमा ।

राखीव - वि आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित । - कुरण - न रख, रखा, चरी, रखायी हुई चरभूमि । - खातें - न आरक्षित विभाग । - जंगल - न सुरक्षित वन, रख, रखा । - जागा - स्त्री आरक्षित स्थान, 'रिजर्व सीट' । - निधि - पु आरक्षित निधि, 'रिजर्व फंड' । - सैन्य - न रिजर्व सेना, प्रारक्षित सेना ।

राखुडी - स्त्री १. राख; जला हुआ उपला । २ मिस्सी, दत-मजन । [की उजरत ।

राखोळी - स्त्री चराई, चराने राग - पु १ गुम्मा, क्रोध । २ राग, अनुराग । ३ राग (सगीत) । ४ रग । - रग - पु १ हालत, परिस्थिति । २ रागरग, गानावजाना । मु० - आणणें - गुस्सा दिलाना, चिढाना । - करणें - खार खाना, जलना । - काढणें - गुस्सा उतारना, विगडना । - गिळणें - गुस्सा थूक देना, गुस्से को पी जाना । - धरणें - खार खाना; जलना । - नाकावर असणे - नाक पर गुस्सा होना, बहुत जल्द क्रोध आना । - मानणें - बुरा मानना, नाराज होना । - येणें - गुस्सा, क्रोध आना, क्रुद्ध होना, नाराज होना । रागानें लाल होणें - गुस्से से लाल होना, आग-बबूला होना । रागें भरणे - नाराज होना, विगडना । रागावणें - क्रि अ नाराज होना, विगडना ।

रागिणी - स्त्री रागिनी, रागिनी । - वि स्त्री कामिनी, प्रेमिका । [गुम्मावर ।

रागीट - वि क्रोधी, गुम्सैल, राघवदास लाडू - पु एक प्रकार का लड्डू जो खा, चीनी और खोये से बनता है ।

राघू - पु १ तोता; सुगा । २ माजन, यार, वालम ।

राज - राज, 'राजा' का समास में व्यवहृत रूप । - कवि - पु राजकवि, दरवारी कवि । - कारण - न १ राजनीति, सियासत । २ राजकाज । ३ राज, रहस्य, चालाकी । - कारणी - वि १ राज-

नीतिज्ञ; सियासतदाँ । २ राजनीतिक, राजनैतिक । - कार-भार - दे 'राज्यकारभार' । - कार्य - न १ राजकार्य, राज्यमन्त्री कार्य । २ राजा का काम, राजाजा । - कीय - दे क्रम में । - क्राति - ती - स्त्री १ राज्य-क्राति; सियामी इनकलाव । २ उयल-पुयल, विप्लव, वगावत । - गादी - स्त्री राजगद्दी, राज-मिहामन, राज्याधिकार । - गिरा-दे. क्रम में । - घराणे - न राज-वध, शाही खानदान । - चिन्ह - न १ राजचिह्न, राजा के चिह्न (छत्र, चेंवर आदि) । २ राज-मुद्रा । - दरवार - पु राजा का दरवार; न्यायसभा । - दूत - पु १ राजदूत, एलची । २ राजा का नौकर. हरकारा । - द्रोह - पु राजद्रोह; विद्रोह, राजमत्ता के विरुद्ध आदोलन, वगावत । - द्रोही - वि गजद्रोही, वागी । - घानी - स्त्री राजघानी, शासन-केंद्र, दारुस्सलतनत । - निष्ठ - वि राजनिष्ठ, राजभक्त, सरकार - परस्त, सरकार से बफादार । - निष्ठा - स्त्री राजनिष्ठा, बफा-दारी, राजभक्ति । - नीति - स्त्री राजनीति, नीतिशास्त्र । - पत्र - न १ राजपत्र, सूचनापत्र, 'गजट'] २ राजा या सरकार की ओर से दिया गया अधिकारपत्र या सनद । - पत्रित - वि राज-पत्रित, 'गैजेटेड' । - पुरुष - पु राजपुरुष, राजकर्मचारी । - वदी - पु राजवदी, राजनीतिक वदी । - विद्या - वि राजपुरुषोचित, रोवदार, ज्ञानदार, अत्यंत सुंदर (पुरुष) । - भवन - न राज-भवन, 'गवर्नमेंट हाउस' । - भाग -

पु राजकर, राजस्व; खिराज ।  
 - मंदिर - न, - महाल - पु  
 राजभवन, राजमहल, प्रासाद ।  
 - मान्य - वि १ जिसे सरकार  
 या राजा के दरवार मे मान्यता  
 प्राप्त हो, श्रेष्ठ । २ मान्यवर ।  
 ३ जो सब को स्वीकार हो; सर्व-  
 सम्मत । - ० राजेश्री - अव्य  
 मान्यवर महाशय । ( पत्र के प्रारभ  
 में या पतेपर लिखा जाने वाला  
 लकव ) । - मार्ग - पु १ राज-  
 मार्ग, राजपथ । २ सर्वसम्मत  
 प्रथा, प्रणाली । - योग - पु १  
 राजयोग । २ सुख-संपत्ति दिलाने  
 वाला योग । - रोस, - रोसपणे -  
 अव्य. १ खुले आम, खुल्लम  
 खुल्ला, वेधडक । २ दिनदहाडे ।  
 - वट - छी राजा का कार्यकाल,  
 शासन, हुकूमत, राजसत्ता ।  
 - वाडा - पु राजमहल, प्रासाद ।  
 - विद्या - छी राजविद्या, राज-  
 नीति । - विलासी - वि राजा के  
 समान ऐश करने वाला, गुलछरें  
 उडाने वाला । - वैद्य - पु राज  
 वैद्य, कुशल चिकित्सक । - शक -  
 पु शिवाजी महाराज द्वारा प्रवर्तित  
 एक सवत् । - श्री - पु १ महा-  
 शय, महोदय, जनाव । २ हजरत  
 ( व्य ) । - सत्ता - छी राज-  
 सत्ता, राजतंत्र, हुकूमत, शासन ।  
 - सभा - छी १ राजसभा,  
 दरवार । २ दे ' राज्यसभा ' ।  
 - स्थान - न राजस्थान, राज-  
 पूताना । - हस - पु राजहस,  
 सोना पक्षी ।

राजकीय - वि राजनीतिक,  
 राजनैतिक, सियासी । - कैदी -  
 पु राजनैतिक वदी, सियासी कैदी ।  
 - सभा - छी राजनीतिक  
 सभा, सियासी जलसा ।

राजगिरा - पु १ ( भाजी )  
 बथुवा, मरसा । २ ( वान्य )  
 रामदाना ।

राजस - वि १ राजस;  
 रजोगुणप्रधान । २ क्रोधी ।

राजस - वि राजसी, राजाओ  
 का-सा, शानदार, सुदर, प्यारा ।  
 - बाणा - वि सुदर, मोहक ।

राजा - पु १ राजा; नरेश,  
 शाह । २ स्वामी, नायक, नेता ।  
 ३ धनी, अमीर । ४ बादशाह  
 ( शतरज का एक मुहरा, ताश  
 का एक पत्ता ) । मु० - पासून रका-  
 पर्यंत - अव्य अमीर से गरीब  
 तक, सब प्रकार के लोगो में ।

राजाज्ञा - छी राजाज्ञा,  
 राजा की आज्ञा । - पु राजा के  
 मंत्रियो मेसे एक ।

राजाळू - न सफेद अरबी ।

राजाळें - न केले की एक  
 जाति ।

राजी - वि [ अ ' राजी ' ]  
 १ राजी, खुश । २ अनुकूल,  
 सहमत । - खुषीने - अव्य पूरी  
 सहमति के साथ, समझबूझ कर ।  
 - नामा - पु १ त्यागपत्र,  
 इस्तीफा । २ राजीनामा,  
 स्वीकृतिपत्र ।

राजेरजवाडे - पु बहु राजा-  
 महाराजा, देशी नरेश, रजवाडे ।

राजेश्री - पु बहु १ श्रीमान्,  
 महाशय, महोदय, जनाव । २  
 हजरत ( व्य० ) ।

राज्ञी - छी राज्ञी, रानी ।

राज्य - न १ राज्य, राज,  
 शासन, हुकूमत । २ राष्ट्र, देश ।  
 ३ खेल मे दाँव, हार । - फर्ता -  
 पु राज्यकर्ता, शासक । - फार-  
 भार - पु शासनप्रवध; प्रशासन ।  
 - फ्रांति - छी राज्यक्रांति;

इनकलाव । - घटना छी सवि-  
 वान, दस्तूर । पद्धति - छी  
 शासनप्रणाली, राज्यतंत्र ।  
 - व्यवस्था - छी राज्यव्यवस्था,  
 शासनप्रवध । - सस्था - छी १  
 राज्यसस्था (स्टेट) । २ राज-  
 सस्था (गवर्नमेन्ट) । - सत्ता - छी  
 राज्यतंत्र, शासन, हुकूमत ।

राज्याभिषेक - पु राज्याभिषेक,  
 राज्यारोहण, राजगद्दी पर बैठाने  
 की रीति ।

राठ - दे. ' राठ ' ।

राड - छी १ कीचड, गीली  
 मिट्टी । २ गदगी । ३ गडवडी,  
 अव्यवस्था । - वि गँदला, कीचड  
 मिला हुआ ।

राडा - पु १ अटवर, ढेर ।  
 २ बहुत काम । ३ झझट,  
 बखेडा, झमेला । ४ गहरा  
 कीचड । [ २ नायक, नेता ।

राणा - पु १ राणा, राजा ।

राणी - छी १ रानी,  
 मलका । २ वेगम (रानी की  
 शकल वाला ताश का पत्ता) ।  
 - माशी - छी रानी मधुमक्खी ।  
 - वसा - पु रनवास, रनिवास,  
 अत पुर ।

रातधा - पु कोकम-फल ।

रातवी - छी कोकम का  
 पेड । [ ' अमसूल ' ।

रातवें - न कोकम, दे

रात - छी रात, रात्रि,  
 रजनी । - किडा - पु झीगुर ।  
 - राणी - छी रातगनी,  
 रजनीगवा, (फूल और उसका  
 पीवा) ।

राताघळा - वि रतीघा  
 (जिसे रात को नहीं दिखाई  
 देता) ।

राताघळें - न रतीघी (एक

नेत्ररोग जिम मे रोगी को रात के समय नही सूझता) ।

राताळें - न दे ' रताळें ' ।

रातोर रात - अव्य १. रात ही रात में । २. सारी रात ।

रात्रदिवस - अव्य रात-दिन, आठो पहर, सतत, हमेशा ।

रात्र - स्त्री रात्रि, रात ।

- पाळी - स्त्री रातपाली ।

रात्रीची शाळा - स्त्री रात्रिपाठ-शाला । मु० - बँच्याची असणें -

वहुत बडा खतरा मँजूद होना ।

रात्रौ - अव्य रात को [ आज रात्रौ = आज रात ] ।

रान - १ न जगल, वन, अरण्य । २ खेत । ३ वजर भूमि । ४ घास-फूस, झाड-झखाड ।

५ बहुत अधिक बढे हुए वाल ।

- गट - वि उजड्ड, असम्य, गँवार, अक्खड, - डुक्कर न

पु जगली सूअर, वनैला सूअर ।

- तुळस - स्त्री वनतुलसी ।

- दाडगा - वि १ जगली, असम्य, उजड्ड । २ वीगरा, मोटा

ताजा और गुडा । - माजर - न

वनविलाव । - वट - वि जगली, असम्य, गँवार । - शेणी - स्त्री

कडा । मु० - उठणे - खलवली

मचना, कटा विरोध होना ।

- उठविणें - १ हँकवा करना देना ।

- काढणे - घासफूस निकालना ।

२ हँकवा करना । ३ तलाश

करना, सुराग, पता लगाना ।

रानात शिरणें - १ उलटी-सीवी

वाते करना । २ रोडे अटकाना ।

३ बहकना, भटकना ।

रानोमाळ - अव्य १ खेतो

और जगलो में, डघर उधर । २

अस्तव्यस्त फैलकर । ३ हरजगह ।

राप - पु १ तुर्शी, कसैला-

पन । २ वह पानी जिसमें कच्ची सुपारी आदि पकायी गयी हो ।

रापण - स्त्री मछलियाँ पकड़ने का बडा जाल ।

रापणे - क्रि अ १ काला पडना, झुलसना । २ भीगना, तर होना । - क्रि स टटोलना; दवाना ।

रापी - स्त्री राँपी (मोचियो का चमडा छीलने, काटने का एक औजार) ।

राव - स्त्री १ राव, गीरा, गद्दा सीरा । २. लपसी । ३ घान की खेती के लिए जमीन को जलाने की घासफूस, लकडी आदि । मु०

- करणे - जमीन को जलाने के लिए उसपर घासफूस फैलाना ।

रावणूक - स्त्री १ यातायात, आवागमन । २ रहना, काम, परिश्रम करना । ३ पहरा; चौकी ।

रावणें - क्रि अ [ अ. ' रावित ' ] १ कडी मेहनत, परिश्रम करना, काम करना । २. आना-जाना, राविता होना । -

क्रि स कृपि करना, जोतना, काश्त करना, हल चलाना,

जोतना-त्रोना, खेती करना ।

रावता - पु [ अ ' रावित ' ]

१ राविता, सबध, मेल-मिलाप,

हमेशा आना-जाना । २ अभ्यास,

आदत । ३ यातायात ।

राम - पु १ राम, श्रीराम-

चद्र, परशुराम, बलराम । २

सामर्थ्य, दम, सत्त्व, बल ।

- टोला - पु जोरदार प्रहार ।

- दास - पु समर्थ रामदास ।

- दासी - वि पु समर्थ रामदास

द्वारा स्थापित संप्रदाय का अनु-

यायी । - हूत - पु रामदूत,

हनूमान् । - नवमी - स्त्री राम-नवमी (चैत्र शुक्ल नवमी) ।

- पहारा, -पारा - पु सवेरा, तडका । - फळ - न रामफल ।

- वाण - वि रामवाण; अक-सीर, अमोघ (औषध), अचूक ।

- रगाडा - पु भीड-भडक्का, रामरोला, रगडा । - रट्टा - पु

१ जोर का आघात । २ झमेला । - राज्य - न रामराज्य; मुशासन ।

- राम - पु रामराम, नमस्कार, प्रणाम; जय राम-जीकी । [ मु० - ० ठोकणे - १

हाथ जोडना, सत्रध विच्छेद करना, अलग हो जाना, छोड देना । २. विदा लेना । ] मु० -

म्हणणे - मर जाना ।

रामायण - न १ रामायण, रामचरितमानस । २ रामकहानी ।

रामोशी - पु १ रामवशी ( एक पिछडी जाति ) । २ डाकू, बदमाश ।

राय - पु. राय, राजा, सरदार । - आवळा - पु. लवली, हरफा-रेवडी ।

रायतें - न रायता ।

रायवळ - न जगली लकडी । - वि साधारण, मामूली, घटिया दर्जे का ।

राया - पु. साजन, प्रियकर ।

राव - पु १ राय, राजा । २ साहब, जी ( आदरसूचक शब्द )

- बहादुर - पु रायबहादुर । - साहेब - पु रायसाहब । कहा०

राव करीत नाहीं तें गाव करतो - जो काम राजा से भी नही हो

सकता उसे सारा गाँव सहयोग के बल पर कर सकता है ।

रावण - पु १ रावण ( लका का राजा ) । २ वीगरा, दुष्ट

रावा

व्यक्ति । - भात - पु एक प्रकार का भात जिसमें मिर्च और गरम मसाला बड़ी मात्रा में पडा होता है । - राज्य - न तानाशाही, अधेरनगरी ।

रावा - पु तोता, सुग्गा ।

राशि - स्त्री १ राशि, ढेर ।

२ राशि ( क्रातिवृत्त में आने वाले विशेष तारासमूह ) । ३ गणित की सख्या, रकम । ४ जोड़; योग ( ग० ) । - भोग - पु. राशिभोग ( किसी ग्रह की किसी राशि में स्थिति का काल ) । मु० राशीस बसणे, लागणे - हाथ धोकर पीछे पडना; सिरपर भा चढना ।

राष्ट्र - न राष्ट्र; मुल्क, कौम । - कुटुंब, - कुल - न राष्ट्र-मडल । - गीत - न राष्ट्रगीत, कौमीतराना । - ध्वज - पु. राष्ट्रीय झंडा । - पति - पु. राष्ट्रपति; राष्ट्राध्यक्ष, सदर । - सभा - स्त्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ।

राष्ट्रीय - वि राष्ट्रीय, राष्ट्रिय, । - त्व - न राष्ट्रीयता, कौमियत । - सभा - दे. 'राष्ट्रसभा' ।

रास - पु. [ अ ] रास ( मवेशियों की तादाद के लिए प्रयुक्त शब्द । [ गान ), रासक्रीडा ।

रास - पु. रास ( एक लोक-रास - स्त्री दे ' राशि ' ) ।

रासन्हाण - न विवाह में वर पक्ष की स्त्रियों को कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा नहलाये जाने का समारोह ।

रासवट - वि १ बीच का, मेंझोला । २ घटिया । ३ धीगरा, उजहु ।

रासवरी - स्त्री [ अं ' रास्प वेरी ' ] रसवरी ( फल ) ।

म. हिं श को ३९

रासायनिक - वि रासायनिक, रसायनशास्त्र सवधी, कीमियाई ।

रास्त - वि [ फा ] रास्त; ठीक; उचित, सत्य, सच ।

रास्ता - पु [ फा ' रास्त ' ] एक प्रकार की धारी दार साडी ।

रास्ना - पु रास्ना, रामना ( एक कद ) ।

राहटी, राहणारा, राहणी, राहणें - दे ' रहाटी ', ' राहाणारा ', ' राहाणी ', ' राहाणें ' ।

राहवणें, राहवणें - क्रि अ रहा जाना, चुप रहा जाना ।

- क्रि स ठहराना, रोक रखना ।

राहाट, राहाटी - दे ' रहाट ', ' रहाटी ' ।

राहाणी - स्त्री १ रहन-सहन, रस्म-रिवाज, आचार । २ पहनावा, पोशाक । - करणी - स्त्री रहन-सहन ।

राहाणारा - वि रहने वाला, निवासी; वाशिदा ।

राहाणें - क्रि अ १ रहना; बसना, निवास, कयाम करना । २ ठहरना, थम जाना, रुकना । ३ वचना, छूटना । ४ विद्यमान होना, जीवित, जिंदा रहना । ५ नौकरी, काम करना । ६ समाना, अँटना; ठीक आना । ७ रहने देना, ध्यान न देना ।

राही - स्त्री राधा । [ दारी ।

राहटी - स्त्री रावटी, छोल-राहु - पु १ राहु ( नी ग्रहो

मेसे एक ) । २ दुष्ट व्यक्ति । मु० राहु सारखा मार्गें लागणें - हाथ धोकर पीछे पडना, सताना, परेशान करना ।

राहून राहून - अव्य १ रह रहकर, बार-बार । २ बीच-बीच में ।

राळ - स्त्री १. राल, शाल-निर्यास । २ थुक्का-फजीहत, थुडी मु० - उडविणें, - करणें - घज्जियाँ उडाना; थुडी-थुडी करना ।

राळा - पु चेना ( सांवां की जाति का एक मोटा अनाज ) ।

रिगण - न घेरा, हलका, चक्कर । - चेंडू - पु. पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा खेला जाने वाला गेंद का खेल । [ जड ।

रिगणमूळ - न रेंगनी की रिगणो - क्रि १ रेंगनी, भटकटैया । २ रीठा-करज ( पेड ) ।

रिगणें - न चट्टू ( काठ का एक छोटा खिलौना जिसे छोटे बच्चे मुँह में डालकर चाटते रहते हैं ) । [ ' रिकावी ', ' रिकशा ' ।

रिकावी, रिकशा - दे. रिकावी - स्त्री [ अ ' रिकाव ' ] रिकाव, रकाव ( घोड़े की काठी का पायदान ) ।

रिकामचोट - ( ग्रा० ) - दे. ' रिकामटेकडा ' ।

रिकामटेकडा - वि निठल्ला, वेकार, ठाला, निकम्मा, खाली, आलसी, सुस्त । - अव्य नाहक, व्यर्थ । [ अवकाश, खाली वक्त ।

रिकामपण - न फुरसत, रिकामा - वि १ खाली, रिक्त; पोला, रीता, खोखला ।

२ वेकार, व्यर्थ का, निष्प्रयोजन । ३ निराधार । ४ खाली हाथ ।

- डौल, - ताठा - पु झूठी शान, व्यर्थ की अकड । रिकाम्या हातानें-

अव्य १ खाली हाथ । २ विफल हो कर । फहा० रिकामा न्हायी

कुडाला तुब्दघा लावी - ढाला वनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी मे भरे । [ ' रिकावी ' ।

रिक्वी, रिक्वीव - दे  
रिक्त - वि रिक्त, खाली,  
शून्य। दे 'रिकामा'। - हस्ताने  
- अव्य १ खाली हाथ। २ विफल  
हो कर।

रिघणे - क्रि अ १ घुसना।  
२ अदर जाना, प्रवेश करना।

रिघाव - पु १ प्रवेश, रसाई,  
पहुँच। २ मार्ग।

रिचवणे, रिचविणें - क्रि स  
१ भरना, ठूसना। २ ढेर लगाना।  
३ उंडेल कर खाली करना। - क्रि  
अ. १ दहना। २ बाहर निकलना,  
उमडना। [प्रसन्न, खुश होना।

रिझणे - क्रि अ रीझना;  
रिझविणें - क्रि स १ रिझाना;  
प्रसन्न या तुष्ट करना। २  
वहलाना।

रिठा - पु रीठा, फेनिल।  
रिण - न ऋण, कर्ज।  
- करी - वि १ महाजन। २  
कर्जदार, ऋणी। - को - वि  
रिनियाँ, ऋणी; कर्जदार।

रिता - वि रीता, खाली।  
दे 'रिकामा'।

रिद्धि - स्त्री १ ऋद्धि; सप-  
न्नता, वृद्धि, सफलता। २ गणेशजी  
की एक दासी। - सिद्धि स्त्री १  
ऋद्धि - मिद्धि (गणेशजी की दो  
अनुचरियाँ)। २ धनदौलत और  
सफलता। (मु० - ०पाणी भरणें -  
सब प्रकार की सपन्नता होना)।

रिपरिप - स्त्री १. रिमक्षिम  
(वारिष)। २ पिनपिन।

रिपु ५-पु रिपु, शत्रु, दुश्मन।  
रिपेअर, रिपेर - स्त्री [ अ  
'रिपेअर' ] मरम्मत, दुरुस्ती।  
रिपोट +, रिपोर्ट - पु [ अ  
'रिपोर्ट' ] प्रतिवेदन; विवरण,  
रपट।

रिपोर्टर - पु [ अ. ] सवाद-  
दाता, खबररसाँ।

रियाज - पु [ अ ] रियाज,  
अभ्यास, मशक, परिश्रम।

रियासत - स्त्री [ अ ] १  
रियासत; शासन, हुकूमत। २  
शासनकाल।

रिवाज - पु [ अ. ] रिवाज,  
प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, चलन।  
मु० - पडणें - रिवाज होना;  
प्रथा हो जाना।

रिसाला - पु [ अ. 'रिमाल' ]  
१ रिमाला, सवारोका दस्ता,  
अश्वारोही सेना। २ सामग्री।

रिसीट - स्त्री [ अ ] रसीद,  
पहुँच, प्राप्ति, पावती।

री - स्त्री १. रे, ऋपम  
(सगीत के सात स्वरो में से  
दूसरा)। २ गायन में साथ देना।  
मु० - ओठणे - १ हाँ में हाँ  
मिलाना। २ दूसरे की कही हुई  
वात को दुहराना।

रीघ - स्त्री १. प्रवेश, पहुँच।  
२ कतार, ताँता। ३ समाई,  
गुजाइश। मु० - लागणें - ताँता  
बंधना, लगना।

रीण - दे 'रिण'।

रीत - स्त्री १ रीति, प्रथा,  
चलन, परिपाटी, रिवाज। २  
ढग, ढव, तरीका। - भात -  
स्त्री १ शिष्टाचार, सम्यता। २  
प्रथा, रिवाज। ३ चाल-चलन,  
रहन-सहन। - सर - अव्य.  
विधिवत्, वाकायदा। मु० -  
पाडणें - रिवाज, प्रथा चलाना।

रीति - स्त्री १ दे 'रीति'।  
२ रीति, विशिष्ट पदरचना या  
लेखनशैली। - रिवाज - पु  
बहु रीतिरिवाज, रस्मो रिवाज,  
प्रथाएँ।

रीम - न [ अ ] रीम (वीस  
दस्ते कागज की गद्दी)।

रील - छ - न [ अ 'रील' ]  
रील, सूत का गोला; धिरती,  
चर्खी।

रजी - स्त्री १ गुजन, गुजार,  
भंरें का गुनगुनाना। २ गुटरगूँ।  
मु० - घालणे - गुनगुनाते हुए  
(किमीके) चारों ओर चक्कर  
काटना, मँडराना, मुग्ध होना।

रड - न मुड, कटा हुआ सिर,  
वड से अलग किया हुआ मन्तक।  
- माला-छा - स्त्री मुड - माला,  
कटे हुए मिरो या खोपडियों की  
माला। [ विम्वृत, फराख।

रद - वि चौडा, चकला,  
रुदट - वि कुछ अधिक चौडा,  
चौडा-सा।

रुदाड - वि बहुत चौडा,  
चौडा-चकला, फैला हुआ।

रुदावणे - क्रि अ १ चौडा  
होना, फैलना। २ मुटाना।

रुदाविणें - क्रि स चौडा  
करना; फैलाना।

रुदी - स्त्री १ चौडाई, चौडा-  
पन, पाट, चौडान। २ अर्ज,  
पनहा (कपडे आदि की चौडाई)।

रुधणें - क्रि स १ रोकना,  
रोधना। २ घेरना।

रुई - स्त्री आक, मदार (क्षुप)  
२ रुई, कपास। - दार - वि  
रुईदार (जिसमें रुई भरी हो)।  
- फूलकाठ - पु आक के फूल  
जैसी नक्काशी वाली किनारी या  
गोट।

रुका - दे 'रुका'।

रुकार - पु स्वीकृति, सम्मति,  
इजाजत, हाँ, अनुमति, अनुज्ञा।  
मु० - देणें - हाँ करना; कहना,  
हामी भरना।

रुका - पु. [अ 'रुका']  
१ एक पाई (आने का वारहवाँ भाग), आधा पैसा, आधा आना। २ रुका, चिट्ठी, हुडी।

रुका - वि १ रुका, रुखा, सूखा। २ नीरस, कठोर। ३. ऊबड़-खाबड़। [रुखाई।

रुकाता - स्त्री रुकाता, रुखापन  
रुकरुका - स्त्री बेचैनी, चिंता, कसक, पछतावा, हसरत।

रुकावत - न विवाह के लिए कन्या के घर जाने से पहले वर और वारातियों को दिया जाने वाला उपहार, इस उपहार की सामग्री।

रुका - दे 'रुका'।  
रुका - वि रुका, बीमार।  
-परिचर्या - स्त्री रोगी की शुश्रूषा, टहल। [अस्पताल।

रुकालय - न चिकित्सालय,  
रुका - स्त्री रुचि, स्वाद, जायका। - कर - वि १ रुचि-

कर, स्वादिष्ट, मधुर, जायके-दार। २ प्रिय, अच्छा लगने वाला।  
रुका - क्रि अ. १ रुचना, प्रिय, अच्छा लगना, पसंद आना, माना। २ शोभा देना।

रुका - स्त्री १ रुचि, स्वाद, जायका। २ इच्छा, अनुराग, प्रवृत्ति, पसंद, रुकाहान। ३ दिलचस्पी। ४ शोभा; सुंदरता।  
- कर - दे 'रुकाकर'।

रुका - वि १ रुचि, सुंदर मनोहर, दिलचस्प। २ मीठा, मधुर।

रुका - क्रि अ १ उगना; जमना, जड़ पकड़ना। २ फूटना, निकलना, अँखुआना। ३ (मन पर) अकित होना, असर करना।

रुकावत, रुकावत - स्त्री [अ

'रुकावत'] १ मिलान; पड़ताल २ सचाई की परख। मु० - घालणे - १ मिलान करना। २ रुकरु पेश कर के सच-झूठ का फैसला करना।

रुका - पु [रु 'रुई' + फा 'जामा'] १ रुईदार कुर्ता। २ तकिया, गद्दा आदि जिसमें रुई भरी हो।

रुका - वि [अ. 'रुका']  
१ पेश, हाज़िर। २ तैयार। ३ दर्ज। ४ स्वीकृत, पसंद। मु० - घालणे - मिलाना, तुलना करना, पड़तालना। - होणे - १ हाज़िर होना, काम पर चढ़ना। २ स्वीकार, मजूर होना।

रुका - अव्य धीरे-धीरे, आहिस्ता, किसी तरह।

रुका - स्त्री रुका, छुनमुन, छमछम, झनक, रुकाझुका, नूपुर आदि की झनकार। - अव्य छमछम, छुनछुन, छमाछम।

रुका - क्रि अ. १ छमकना, छमछमाना, झनकना, झमकना।

रुका - दे 'रुका'।

रुका - क्रि अ १ फँसना; गड़ना। २ चुभना। ३ उलझना।  
रुका - न १ रुका, रोका, रोना। २ विलाप, रुका।

रुका - पु. १ रुका (शिव का रूप-विशेष)। २ एक प्रकार के गण-देवता। - चटा - स्त्री रुकाचटा; ईमरमूल। - वंती - स्त्री रुकावती (एक वनोपधि)।

रुका - पु. रुका।  
रुका - न रुका, रक्त; खून, लहू। - वि रुका, लाल रंग का।

रुकाभिसरण - न रुका

परिसचार; रुका-परिसचरण, रुका - परिवहन।

रुका - स्त्री रुका (रुपये के लिए तुच्छतादर्शक शब्द)।

रुका - न १. रुका, सुंदर रुका। २ सुंदर बच्चा।

रुका - क्रि अ १ फँसना, घँसना। २ चुभना, गड़ना।

रुका, रुका - पु. रुका (सिका)।

रुका - न रुका, चाँदी।

रुका - वि रुका, चाँदी के रंग का, चाँदी जैसा। - बेडी - स्त्री नौकरी, धन की दासता।

रुका - पु. [अ 'रुका']  
१ रुका, रुका, रुका। २ शान, रुका। - दार - वि रुकादार, रुका, तेजस्वी, प्रभावशाली। [रुका।

रुका - स्त्री रुका, रुका-रुका - पु रुका नारियल।

रुका - पु. [फा 'रुका']  
१ रुका, रुका; तौलिया। २ साफा। ३ वस्ता, वेठन। ४. वेठन में बँधे हुए कागज़पत्र, दफ़्तर।

रुका - स्त्री १ रुका, तिकोना लँगोट। २ रुकादर भाँजने, हिलाने का एक हाथ।

रुका - वि रुका, रुका, कुपित, नाराज।

रुका - वि रुका वाला।  
रुका - क्रि अ रुका; अप्रसन्न, नाराज होना, रुका, मानना। - फुगणे - रुका, भरा बैठना, फूलना।

रुका - पु रुका, रुका; क्रोध, कोप, नाराज। - फुगवा - पु रुका, शिकावा-शिकायत।

रुका - क्रि अ १. परिचिता

आदी होना, परचना, हिलना, अभ्यस्त होना । २ लटकना, झूलना, लहराना; वल खाना । ३ शोभा देना, फवना ।

रुल्लेला - वि १. परिचित, आदी, अभ्यस्त । २ मँजा हुआ । ३ (मार्ग) जिसपर अनेक लोग चलते रहे हों ।

रुल्लावर - दे 'रुल्ल' में ।

रु - पु रुई ।

रुच - दे. 'रुचि' ।

रुढ - वि १ रुढ; प्रचलित । २ प्रसिद्ध । ३ अविभाज्य, अकेला । [रिवाज; चलन ।

रुढि-डी - स्त्री रुढि, प्रथा, रूप - न १. रूप, सूरत, शकल । २ सुदरता । ३ विभक्ति प्रत्यय के योग से बने शब्द का रूपांतर । ४ भेस, वेश । ५ आकार, स्वरूप । - रग - पु रगरूप, सूरत-शकल । - रेखा-पा- स्त्री रूपरेखा, वाह्य रूप, खाका, ढाँचा, स्थूल रूप, योजना । - लावण्य - न सुदरता, सौंदर्य, खूबसूरती । - वती - वि स्त्री रूपवती, सुदरी । - वान् - वि रूपवान्, सुदर । - विकार - पु रूपांतर ।

रूपक - न १ रूपक (एक अर्थालंकार) । २ मात मात्रा का एक दोताला ताल (संगीत) ।

रूपांतर - न १ रूपांतरण, रूपपरिवर्तन, मूलांतरण । २ कायापालट, रूपांतर । ३ भेस बदलना ।

रूपी - वि १ रूपी, रूप-वाला, रूपधारी । २ समान, सदृश । ३ रूप (मानवरूपी = मानवरूप) ।

रुल्ल - पु [अ 'रुल'] रुल्ल; रुल्लर (लकीर खीचने का डडा) । २ पटरी (रेल की) । ३ वेल्न, ढोलना, वेलना (रोलर) । ४. छापने की कठ का वेलने की शकल का पुरजा । मु० (एखादा प्रश्न भङ्गत्या) रुल्लावर नेणें - अवबद्ध बातें करना, पटरी बदलना । (गाडी) रुल्लावर घेणें - ठीक रास्ते पर जाना, ठीक ढग से चलने लगना ।

रें - दे 'रें रे' ।

रेंकणें - क्रि अ १ रेंकना (गधेका बोलना) । २ थोकना (भैम की तरह चिल्लाना) । ३ रेंभाना (गाय का बोलना) । ४ भद्दे प्रकार से गाना, रेंकना । ५ भद्दे ढग से, चिल्ला कर बोलना । ६ भुनभुनाना ।

रेंकला - पु १ सगड, छकडा, वैलगाडी, इक्का । २ हेंगा, पटेला ।

रेंगणें - क्रि अ १ रेंगना । २ सुस्ती से काम करना ।

रेंगाळणें - क्रि अ १ पिछटना, पीछे रहना, देर लगना । २ काममें सुस्ती होना, जैसे-जैसे घसीटना । ३ थकना, निढाल होना । [वैलगाडी ।

रेंगी - स्त्री छोटी और हलकी रेंट, रेंटणें, रेंटा - दे 'रेटे', 'रेटणें', 'रेटा' ।

रेंदा - पु १ कीचड, गारा । २ तलछट । ३ कूडा-करकट । ४ शराब बनाने के लिए सढायी गयी चीज ।

रेंरें - स्त्री रेंरे, पिनपिन (लडको कें रोने का शब्द) । - करीत - अव्य. धीरे-धीरे, किसी तरह घसीटते हुए ।

रेंव, रेंस - दे 'रेव'; 'रेस' । रे - अव्य रे; अरे, ए; ओ । रेकणें, रेकला - दे 'रेंकणें', 'रेंकला' ।

रेंकांडें - न [अं] १ रेंकांडें; अभिलेख, दस्तावेज, मिसिल; उदगज, दफ्तर के कागजपत्र, फाइल । २ न्वरमुद्रिका, ग्राफोफोन की प्लेट, तवा । ३ रिकार्डें, सर्वोत्तम कृति, अनूठी घटना, कमाळ । मु० - मोडणें - मात करना, रिकार्डें तोड देना ।

रेखणें - क्रि स. १. उरेहना; चित्र बनाना । २ रेखा, लकीर खीचना; चिह्न करना ।

रेखाश - पु रेखाश, देगातर, खडा चक्कर, देशातर रेखा ।

रेखा - स्त्री १. रेखा, लकीर । २. सीमा, हद्द । ३ पक्ति । - गणित - न रेखागणित, भूमिति, ज्यामिति । - चित्र - न रेखाचित्र, 'स्केच' । - वृत्त - न देगातर रेखा ।

रेखाटण - न रेखाकन ।

रेखाटणें - क्रि स १ रेखना; उरेहना, चित्रित करना । २ रेखा, लकीर खीचना, चिह्न करना ।

रेखीव - वि सुधड, सुढौल; सुदर, गठीला ।

रेघ - स्त्री रेखा, लकीर, पक्ति, सतर । मु० - ओढणें, - काढणें - किसी के आचरण को अनुशासित कर देना, आचार के नियम बताना देना । - मारणें - लकीर खीचना, हद्द बाँधना ।

रेधी - वि रेखित, रेखाओ द्वारा दरशाया हुआ (हिसाब आदि) । [लकीर ।

रेघोटी - स्त्री टेढी - मेढी रेच - पु दस्त, पतला पाखाना ।

रेचक - वि रेचक; दस्तावर, विरेचक। - न रेचन; विरेचन, जुलाव; जुल्लाव (दस्त लाने वाली दवा)। [ (कपास) ]

रेचणें - क्रि स ओटना  
रेचन - न १ रेचन, जुल्लाव (दस्त लाने वाली दवा)। २ दस्त, पतला पाखाना। ३ दस्त लाना, कोठा शुद्ध करना।

रेचा - पु ओटनी।

रेट - स्त्री १ भीड़, घकपेल, घकमधक्का, रेलपेल, ठेलाठेल। २ जोर, घक्का, दवाव। - वि बहुत; काफी, पर्याप्त।

रेटणे - क्रि स १ घकेलना, डकेलना, घक्का देना, ठेलना। २ किसी तरह आगे बढ़ाना। ३ चला लेना, मुश्किल से चलाना। ४ संभालना; रोकना। ५ हड़पना।

रेटा - पु रेला, घक्का। -  
रेट - टी - स्त्री रेलपेल, घक्कम-  
घक्का; ठेलाठेली, भीड़भाड़,  
ठेलाठेल।

रेटून - अव्य १ जोर से, ज़ाव-  
दंस्ती। २ बड़ी मात्रा में।

रेडकू - न पडा, पँडवा  
(भैस का बच्चा)।

रेडा - पु भैसा, पडा, पँडवा।

रेडी - स्त्री पडिया, छोटी  
भैस।

रेडुक - दे 'रेडकू'।

रेणु - पु स्त्री १ रेणु, धूल।  
२ पराग, पुष्परज। ३ धूलि-  
कण। ४. रेजा, बहुत छोटा टुकड़ा  
या परिमाण। ५ संभालू।

रेत - स्त्री १ रेत (स्त्री);  
वालू, बालुका। २ सोने के बारीक  
कण। [ वीर्य, शुक्र। २ पारा।

रेत - न १ रेत (पु);

रेताड - वि रेतीला, बलुआ,  
वालुकामय।

रेती - स्त्री १ रेत, वालू,  
वालुका। २. सोने के बारीक कण,  
रेजा।

रेफ - पु रेफ, 'र' अक्षर,  
'र' का किसी वर्ण के पहले आने  
पर मस्तकस्थ रूप। [ तलछट।

रेव - स्त्री मुलायम कीचड़;  
रेमेडोक्या, रेम्या डोक्या - वि  
मदबुद्धि, बुद्धू, मूर्ख।

रे रे - अव्य. अरेरे, हाय,  
उफ। - स्त्री दे 'रें रे'।

रेल - स्त्री १. रेल; भीड़;  
बहुतायत, विपुलता। २. रेला,  
वहाव, बाढ़। - चेल - स्त्री  
रेलपेल, रेलठेल, भरमार;  
इफरात, बहुतायत।

रेलणें - क्रि अ झुकना;  
टेकना, सुस्ताना।

रेलवे, रेल्वे - स्त्री [ अ ]  
रेल, रेलगाडी।

रेलिंग - न [ अ ] रेलिंग  
(स्त्री.)।

रेवड - स्त्री १ महीन रेत,  
वालू। २ कीचड़; तलछट।

रेवड - स्त्री कवल आदि की  
दसियों को बट कर गौट बनाना।

रेवडी - स्त्री १ रेवडी  
(मिठाई)। २. थुडी, लानत,  
फजीहत। मु० - उडणें - थुडी  
थुडी होना; घज्जियाँ उडना।  
उडधियें - थुडी-थुडी करना;  
घज्जियाँ उडाना। - होणें - दे.  
'रेवडी उडणें'।

रेवती - स्त्री १ रेवती  
(सताईसवाँ नक्षत्र)। २. बलराम  
की पत्नी।

रेवाचिनी - स्त्री रेवद।

रेशन - न [ अ ] १ राशन;

नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में  
वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था,  
सीधा। २ सिपाहियों की खुराक।

रेशनिंग - न [ अ ] राशन-  
वदी, समवितरण, नियंत्रित  
वितरण। [ मे ]

रेशमाचा, ची - दे. 'रेशीम'  
रेशमी - वि [ फा ] १ रेशमी,  
रेशम का, रेशम से बना  
हुआ। २ रेशम - सा मुलायम या  
चिकना, बहुतही नरम।

रेशा - पु [ फा 'रेश' ]  
रेशा, पतला सूत, ततु, सुतडा।

रेशीम - न [ फा 'रेशम' ]  
रेशम, रेशम का सूत, रेशम का  
कपडा। - काठी - वि रेशम की  
किनारी वाला (कपडा)। रेश-  
माचा किडा - पु रेशम का कीडा,  
कुसवारी, चपा। रेशमाची गाठ -  
स्त्री १ रेशम की गाँठ, रेशम के  
तार की गाँठ जो बड़ी कठिनाई से  
खुलती है। २ ऐसा सबध जो कभी  
नहीं टूटता। ३ सुखदायी  
गठवधन।

रेषा - स्त्री १ रेखा, लकीर,  
पक्ति। २ दे 'रेशा'। मु०  
- उपटणें, - उमटणें - भाग्यरेखा  
का साफ दिखाई देने लगना।  
- ओढून देणें - किसी के आचरण  
या व्यवहार के लिए सीमा, मर्यादा  
निर्धारित कर देना।

रेषेंत - अव्य. कतार में, सीध  
में, बराबर।

रेस - पु [ पुर्व. 'रीस' ] एक  
रूपये का ४०० वाँ भाग ( एक  
पुर्वगाली सिक्का )। - भर -  
अव्य. कतई, बिलकुल; तनिक,  
भी, थोडा भी।

रेस - स्त्री [ अं ] १ घुट-  
दोड़। २ प्रतियोगिता; होड़।



रौख - [फा 'रख'] १ रख, झुकाव, रुजहान। २ दिशा। ३ मतलब, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। ४ नजर, दृष्टि। ५ रोक; बाधा।

रोखणे - दे 'रोखणे'।

रोगा-ग्या - वि मरियल; बीमार, मनहूस।

रोवणें - दे 'रोवणे'।

रोवळी - दे 'रोवळी'।

रोकड - छी रोकड, नकद; रकम, रुपया, रोक, नकदी। वि दे 'रोकडा'। - वही - छी रोकडवही, नकदी चिट्ठा।

रोकडा - वि १ नकद; प्रस्तुत। २. सीवा, साफ, मुंहतोड (जवाब)। ३ तुरतका। - अव्य इस समय, अभी।

रोकडी - वि नकद। - कार-फून - पु. रोकडिया, खजान्ची। - हुडी - छी दर्गनी हुडी।

रोख - वि १ नकद। २. तैयार, प्रस्तुत। - ठोक - वि साफ-साफ, मुंहतोड (जवाब)। - रक्कम - छी रोकड, नकद। - विक्की - छी रोकड विक्की।

रोख - दे 'रोख'।

रोखणें - क्रि स १ रोकना; जाने से मना करना। २ तानना (बहक)। ३ ताकना, टकटकी लगाना। ४ घेरना। मु० रोखून धरणें - अटकाना, रोकना, मना करना, बाधा, अडचन डालना। रोखून पाहणें - घूरना, टकटकी लगाना।

रोखा - पु. [अ 'रुका'] १ वधपत्र, वधक, ऋणपत्र, 'वाड'। २ दस्तावेज, विलेख, तमस्मुक, तहरीर। ३ रक्का, चिट्ठी, पुर्जा। ४ भाग, 'शेयर'।

रोखी - छी रोकड, नकद रकम। -चा- वि नकद। -ने-अव्य नकद, नकद रकम देकर या ले कर।

रोखेवाजार - पु [दे 'रोखा'] दलालो की सभा; श्रेष्ठित्वर, 'स्टांक एक्स्चेंज'।

रोग - पु १ रोग, बीमारी, व्याधि। २ सडा हुआ भाग। ३ झड़ट, बला। - ट - दे. क्रम मे। - निदान - न रोगनिदान; रोग के मूल कारण की पहचान करना। - भावना - छी रोगलक्षण। - राई - छी छोटी-मोटी बीमारियाँ, सक्रामक, छुतहा रोग।

रोगट - वि १ रोगग्रस्त, रोगी, बीमार। २. रोगकारक, अस्वास्थ्यकर।

रोगण - न [अ 'रोगन'] १ रोगन, चिकनाई, वार्निश, पालिश। २ कलई।

रोगिण्ट - दे 'रोगट'।

रोगी - वि रोगी, बीमार, व्याधिग्रस्त।

रोचक - वि १ रोचक; रुचने वाला, प्रिय, दिलचस्प। २ स्वादिष्ट, जायके दार।

रोजदार - पु [फा 'रोजीन - दार'] रोजीना दार, दैनिक वेतन, मजदूरी पाने वाला।

रोजदारी - छी [दे० 'रोज-दार'] रोजीना, दैनिक वेतन, मजदूरी, उजरत।

रोज - पु [फा] १ रोज; दिन, दिवस। २ एक दिन की मजदूरी, पारिश्रमिक। ३ रोजी। - अव्य. हररोज, प्रतिदिन, हमेशा। - उठून-अव्य हररोज। - काम - न १. हररोज का काम। २ रोजनामचा; 'डायरी'। - कीर्द - छी रोज-

नामचा, वह वही जिसमे रोज का हिसाब लिखा जाय, दैनिक पजी। - खर्डा - पु रोजनामचा; प्रतिदिन का कच्चा लेखा। - गार - पु. रोजगार, जीविका, पेशा, धवा, व्यवसाय। - चा-वि हररोज का, हमेशा का। - च्या रोज - अव्य हररोज। - नामा - पु १ रोजनामचा। २ दे 'रोज-कीर्द'। - निशी - छी रोजनामचा, 'डायरी'। - मजदूरी - छी, - मुरा - पु. रोजीना, दैनिक वेतन, मजदूरी। - मेळ - पु १ दैनिक जमा-खर्च का मिलान। २ दे 'रोज-कीर्द'। - रोज - अव्य. रोज-रोज, प्रतिदिन, हररोज। कहा० रोज मरे त्याला कोण रडे - जब कोई दुर्घटना वार-वार होने लगती है, तब उसका शोक कोई नहीं मनाता।

रोजा - पु. [फा 'रोज'] रोजा (मुसलमानों द्वारा रखा जाने वाला उपवास-व्रत)।

रोजदार - री, रोजिनदार - री - दे 'रोजदार - री'।

रोजा - अव्य. [फा 'रोज'] हररोज, प्रतिदिन।

रोजी - जी छी [फा 'रोजी'] १ रोजीना, दैनिक वेतन, मजदूरी। २ परिवारका दैनिक खर्च।

रोझा - पु. [अ 'रोजा'] १ रोजा, मकबरा, समाधि। २ बाग।

रोट, रोटा, रोट - पु रोट, लिट्ट, बहुत मोटी रोटी। - रोटी - छी १ रोटी; चपाती, फुलका। २. डवलरोटी, पावरोटी। - व्यवहार - पु अन्न-व्यवहार; खानपान-सवधी नियम या प्रथा, एक-दूसरे के साथ बैठ कर भोजन करना।

रोठा - पु. वडी, सफेद सुपारी ।  
रोड, रोडका - वि १ दुवला-  
पतला, कमजोर । २ इकहरे  
वदन का, छरहरा ।

रोडगा - दे० 'रोट' ।

रोडणे - दे० 'रोडावणे' ।

रोडा - पु. रोडा, ककड, ईंट-  
पत्थर के टुकड़े ।

रोडावणे - क्रि अ कृश,  
दुवला होना, कमजोर होना ।

रोडी - स्त्री दे 'रोडा' ।

रोदन - न रोदन, रोना,  
विलाप, शोक ।

रोध - पु. १ रोध, रोक,  
रुकावट, बाधा । २ विरोध ।

रोधणे - क्रि स रोकना,  
रुकावट डालना ।

रोप, रोपटें - न पौदा,  
पौधा, पौद, गाछ, छोटा पेड़,  
नया पेड़ ।

रोपणे - क्रि स. रोपना,  
जमाना, लगाना, पौधा लगाना ।

रोपा - पु. १ पौद, पौधा ।  
२ रोपनी; रोपाई ।

रोम - पु. रोम, रोयाँ,  
रोगटा । - रध - न रोमकूप,  
रोमद्वार । - हर्षक - वि

रोमहर्षक, रोगटे खड़े करने वाला,  
थरने वाला, सनसनीखेज । मु०  
रोमरोमात भिनणे - रगरग मे,  
नसनस मे समाना, रगरगे मे पडा  
होना ।

रोमाच - पु. रोमाच, पुलक,  
रोयो का उभरना, खडा होना  
(आनंद, भय आदि से) । - कारक -

वि १ रोमाचकारी, थरनेवाला ।  
२ 'रोमैटिक' । मु० - उठणें, -  
उभे राहाणे - रोगटे खडे होना ।

रोमांचित - वि रोमांचित,  
पुलकित, जिसके रोयें खड़े हो ।  
मु० - होणे - पुलकना, पुलकित,  
रोमांचित होना, रोमाच आना ।

रोवणे - क्रि स १ गाडना ।  
२ रोपना; लगाना, जमाना ।  
३ घुसेडना, चूभाना, खोपना,  
भोकना ।

रोवळी - स्त्री चंगेर, चंगेरी,  
चावल, सब्जी आदि घोनेके काम  
आने वाला सूरखदार वरतन ।

रोष - पु. रोष, क्रोध, गुस्सा ।

रोषणाई - स्त्री [ फा 'रोश-  
नाई' ] रोशनी; आराइश, दीपो-  
त्सव । [ तक, रोहित (वृक्ष) ।

रोहिडा - पु. रोहेडा, रोहि-

रोहिणी - १ रोहिणी  
(सत्ताईस नक्षत्रों मेसे चौथा,)   
चंद्रमा की पत्नी । २ बलराम की  
माता । ३ विजली । ४ नाडी,  
शुद्ध रक्तवाहिनी ।

रोहिलखड - पु. न रूहेलखड  
(अवध के पश्चिम-उत्तर मे बसा  
रूहेले पठानों का प्रदेश) ।

रोहिला - पु. १ रूहेला  
(पठानों की एक जाति) । २.  
रूहेलखड का निवासी ।

रोही - स्त्री १ रोही, रोहू  
(मछली) । २ एक मृग । ३  
रोहित वृक्ष ।

रोद्र - वि १ रौद्र, रुद्र का ।  
२ भयकर, क्रोधपूर्ण । - पु  
रौद्ररस ।

रोप्य - वि रौप्य, चाँदी का ।  
- न रूपा, चाँदी । - महोत्सव -  
पु रजत महोत्सव । मुद्रा - स्त्री  
१ रुपया । २ चाँदी का सिक्का ।  
- शूखला - स्त्री. सरकारी नौकरी ।

रौरव - पु. रौरव (एक भीषण  
नरक) । [ छोटा, वीना । ३ तग ।

रूह्व - वि १ ह्रस्व । २.

रूहास - पु. १ रूहास, पतन,  
अवनति । २ नाश ।

## ल

ल - मराठी वर्णमाला का  
अट्ठाईसवाँ व्यंजन ।

लका - स्त्री १ लका;  
श्रीलका, सिंहलद्वीप, 'सीलोन' ।

२ भड़ी, बेहूदा लडकी । ३  
कुलटा । लकेचो पार्वती - स्त्री  
ऐसी स्त्री जिसके शरीर पर एक  
भी गहना न हो, दुवली-पतली,  
लवी और अलंकारहीन सुहागिन ।  
कहा० लकेंत सोन्याच्या विटा -

दिल्ली की कमाई, दिल्ली में  
गँवायी; जहाँ आय अधिक होती  
है वहाँ व्यय भी उसी मात्रा में  
अधिक होता है । -

लगडणे - क्रि अ लँगडाना,  
लँगडा कर चलना ।

लगडा - वि १ लँगडा,  
लग, लगड । २ अपाहिज ।

लगडी - स्त्री लँगडाते हुए  
खेलने का एक खेल । - सबब -

स्त्री लचर बहाना, ऐसा कारण  
जो टिक न सके । मु० -  
घालणे - लँगडाना, लँगडते हुए  
खेलना ।

लगर - पु. [ फा ] १ लगर  
(जहाज का) । २ बहुत बड़ी,  
भारी चीज । ३ ढँकली । ४ मोटा  
रस्ता या ज़मीर । ५ लगर; पके  
खाने का सत्र ।

लगोट - पु. लँगोट, लँगोटा,

रुमाली । - वद - पु १ लँगोट-  
वद, ब्रह्मचारी । १ केवल लँगोट  
पहनने वाला, मजदूर । [ 'लंगोट' ।

लंगोटा - पु लँगोटा, दे  
लंगोटी - स्त्री १ लँगोटी,  
कौपीन । २ घञ्जी, कपडे का  
टुकड़ा । - यार - वि पु लँगो-  
टिया यार, वालमित्र ।

लघणे - क्रि स १ लाँघना,  
डाँकना, नाँघना, पार करना । २  
उल्लघन करना ।

लघन - न १ लघन, उप-  
वास, फाका, अनाहार । २  
लाँघना, अतिक्रमण करना ।

लघिणें - दे ' लघणे ' ।

लड - न (ग्रा०) १ लड;  
लिंग, शिश्न । २ वदमाश ।

लपट - वि १ लपट, कामी;  
विपयी । २ ढीला ।

लपास करणें - क्रि स उडाना;  
चुराना, हडपना ।

लंब - पु १ साहुल, सहावल,  
लटकन (दीवार की सिघाई नापने  
का सावन) । २ लव, लवरेखा  
(ग०) । - वि लव, लवा ।  
- क - दे क्रममें । - कर्ण - पु  
लवकर्ण, गधा । - गोल - पु  
दीर्घवृत्त, अडवृत्त । - वि - दीर्घ-  
वृत्तीय; अडाकार । - रेया - स्त्री  
लव रेखा । - वर्तुळ, - वृत्त -  
न दे ' लवगोल ' ।

लंबक - पु १ लवक, लंब  
रेखा । २ साहुल । ३ (घड्या-  
ळाचा) लगर, लटकन ।

लवा - वि १ लवा । २.  
चित, पछाडा हुआ, धरागायी ।  
३ खत्म; हडप । - चवड़ा -  
वि १ लवा-चौड़ा, विस्तृत;  
तूल-तवील । २ वेकार का । मु०-  
करणे - लवा करना, पछाड देना,

पीटना, कचूमर निकालना, मर-  
म्मत करना । - होणे - १ लंवा  
होना; भाग जाना । २. पछाड  
खा कर गिरना, मर जाना ।  
लव्याचवड्या गप्पा भारणे - वड-  
वड कर वाते करना, डींग हाँकना,  
मारना ।

लवाटा - ट्या - उद्या - वि  
लमतगा, लमतडग, लवी टाँगो  
वाला ।

लवाड, लवा-डीण । दे  
' लमाण - णी ' ।

लवायमान - वि १ लवाय-  
मान, बहुत लवा । २ लेटा हुआ ।  
३ चपत, भागा हुआ ।

लवे - द ' लवा ' ।

लंव - दे ' लव ' ।

लई -+ वि. बहुत, अधिक ।

लकडा - पु १ तकाजा,  
तगादा । २ लकडा, लकडी का  
मोटा कुदा । मु० - लावणें -  
तकाजा करना, पीछे पडना ।

लकडी - स्त्री १ लकडी,  
लाठी; डडा । २ लकडी जैसा  
कडा गुड । कहा लकडीवाँचून  
मकडी वळत नाहीं - लकडी के  
वल वदरी नाचे, विना डडे से भूत  
नही मानता ।

लकतर - दे ' लक्तर ' ।

लकव - स्त्री [ अ ' लकव ' ]  
१ ढग, तरीका, शैली । २ लत ।

लकलक - वि अव्य चमक-  
दार, जगमगाता हुआ, चम-  
कीला । [ दमकना, जगमगाना ।

लकलकर्णें - क्रि अ चमकना;  
लकलकाट - पु जगमगाहट,  
चमक, चकाचौंव, दमक ।

लकलकीत - वि १ साफ,  
लकालक । २ चमकदार । ३  
खाली, नगा ।

लकाकर्णें - दे ' लकलकर्णें ' ।

लकाकी - स्त्री चमक, दमक ।  
लकेर-री - स्त्री १ तान,  
आलाप । २ झलक, चमक,  
दमक ।

लवख - वि १ साफ, लका-  
लक, स्वच्छ । २ स्पष्ट । ३  
चमकदार । ४ पूरा, विलकुल,  
क्रतई । ५ सुंदर, वडिया । ६.  
खाली । [ फटी-पुरानी चीज ।

लक्तर - न चीथडा, चियडा,

लक्ष - पु १ लक्ष, सौ हजार  
की सख्या । २ दे ' लाखोली ' ।  
- वि लक्ष, लाख । - भोजन -  
न एक लाख ब्राह्मणों को भोजन  
देना । - चौन्यायशी योनी - स्त्री  
बहु लख चौरासी, चौरामी लाख  
योनि ।

लक्ष - न १. ध्यान, खयाल,  
गौर । २. याद, स्मरण । ३  
लक्ष्य; निशान; उद्देश्य, अभीष्ट  
वस्तु । - वेधी - वि ध्यान-आक-  
र्षक (प्रस्ताव) । मु. - देणें -  
ध्यान देना, खयाल करना ।  
- न देणें - ध्यान न देना, सुनी  
अनमुनी करना, टालमटोल करना  
- लागणें - ध्यान वैधना, लगना ।  
- वेधणें - ध्यान आकर्षित करना,  
ध्यान दिलवाना । लक्षांत ठेवणें -  
१ याद रखना । २ ध्यान रखना ।  
लक्षात न राहाणें - ध्यान से उत-  
रना, भूलना, विस्मृत होना ।  
लक्षात येणे - समझ जाना ।  
लक्षांत राहाणें - याद रहना ।

लक्षण - न १ लक्षण;  
लच्छन, चिह्न । २ खूबी, विशेष-  
पता । ३ परिभाषा ।

लक्षणा - स्त्री लक्षणा,  
भावार्थ, वह शब्दशक्ति जो  
सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट

करती है।

लक्षणीय - वि १ दर्शनीय, देखने लायक। २ सोचने लायक।

लक्षाघोश - पु. लखपती, बहुत घनी आदमी।

लक्षिणें - क्रि स १ देखना। २ मन में रखना। ३ प्रतीक्षा करना। ४ समझाना, जानना, ताडना।

लक्ष्मी - स्त्री १ लक्ष्मी (देवी) २. धन, संपत्ति। ३ अम्युदय, सौभाग्य। ४ शोभा, सुदरता। ५. पत्नी, गृहस्वामिनी। - ची मोठी वहिण - स्त्री दरिद्रता, गरीबी। - नारायणाचा जोडा - पु आदर्श पतीपत्नी, परस्पर-अनुरूप दपती। - पुत्र - पु. लक्ष्मी-पुत्र, घनी आदमी। - पूजन - न १ विवाह के बाद वर कन्या द्वारा की जाने वाली लक्ष्मी की पूजा। २ लक्ष्मीपूजा (दीपावली के दिन की जाने वाली)।

लक्ष्य - न १ लक्ष्य, निशाना। २ दे 'लक्ष'।

लक्ष्यार्थ - पु. लक्ष्यार्थ, शब्द की लक्षणा-शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ।

लखलख; लखलखणे, लखलखाट, लखलखीत - दे 'लकलक', 'लकलकणें'; 'लकलकाट', 'लकलकीत'।

लखलाभ - पु. बहुत बड़ा लाभ। - वि १ शुभ, सौभाग्य-शाली। २ मुत्रारक (व्य)।

लखलूट - स्त्री विपुलता, प्रचुरता।

लखोटा - पु १ लिफाफा, कागज का थैला। २ पत्र।

लग - स्त्री १ चाँड (भार सँभालने का खभा), टेक, धूनी। २ भाधार। २ खमे पर आडी

रखी हुई घरन। ४ जोड़।

लगट - स्त्री १ पीछा। २ जोरदार हमला। ३ लगावट, लागलपट, ज्यादती। मु० - करणें - (दुरे अर्थ में) बहुत पास जाना, ज्यादती करना, भिडना।

लगटणें - क्रि अ सटना, चिपकना, लगना, भिडना। दे 'लगडणें'। - क्रि स लगाना, भिडाना, सटाना, चिपकना।

लगड - स्त्री १ गुल्ली (सोने या चाँदी का डला), छड। २ गुच्छ।

लगडणे - क्रि अ (फलो, फूलो से) लदना, लदा-फँदा होना।

लगत - अव्य १ पास, समीप, नजदीक। २ क्रमशः। ३ लगातार।

लगदा - पु. १ लुगदी, लुगदा, लोदा (गीली चीज का गोला)। २ मास आदि का टुकड़ा, बोटी।

लगन - दे 'लग्न'।

लगवग - स्त्री जल्दी, उतावली, तेजी, त्वरा, शीघ्रता। - अव्य जल्द, झट, तेजी से, जल्दी-जल्दी। [ 'लगवग'।

लगवगा, लगवगीणें - दे लगलग - स्त्री, लगलगां - अव्य दे 'लगवग'।

लगा - दे 'लगा'।

लगाम - पु [फा] १ लगाम, कविका, दत्तालिका। २. रास, वाग, बागडोर। मु० - घालणें - लगाम चढ़ाना, देना, रोकना, प्रतिवद्ध करना, नियंत्रण में रखना।

लगामीं - अव्य [फा 'लगाम'] नियंत्रण में, तावे में, कब्जे में।

लगावणें, लगाविणे - क्रि स लगाना, प्रहार, चोट करना; जडना, मारना; पीटना।

लगाम - न विवाह, ब्याह,

दे 'लग्न'। - घाई - स्त्री बड़ी जल्दी, उतावली।

लगेच - अव्य झट; फौरन, तुरत, तुरत, लगे हाथो।

लगोरी - स्त्री गेंद से गिराये जाने वाले लकड़ी या खप्पर के गोल टुकड़े जो गड्डी बना कर रखे जाते हैं।

लगोन्या - स्त्री बहु० लगोरियो से खेला जाने वाला एक खेल, गड्डी।

लगोलग - अव्य १ तुरत, साथ ही, लगे हाथो, झट, तुरत। २. लगातार।

लग्गा - पु. १ लाभ। २ लाग, अच्छा मौका। ३ दे 'लग'। ४ रुसूख, वसीला। मु० - लागणे - मौका मिल जाना। - लाधणें - वसीला गाँठना। - साधणें - मौके से लाभ उठाना, पाँचो घी में होना।

लग्न - न १ विवाह, ब्याह; शादी। २ लगन, लग्न, शुभ मुहूर्त। ३ एकता। ४ लगाव। ५ राशिविशेष के उदयकाल का दिनाश, लग्न (ज्यो०)। - कळा - विवाह के समय कन्या के मुख की शोभा, तेज। - कार्य - न विवाह आदि मंगल कार्य, शादी-व्याह। - कुडली - क्रि लग्नकुडली, जन्मकुडली, जन्मपत्री। - घटका, - घटिका - स्त्री १ लग्न, लगन, विवाह मुहूर्त। २ घटी, घटीयत्र। ३ ऐसा समय जो चूकना नहीं चाहिए। - घर - न १ वह भकान जिस में विवाह हो रहा हो। २ जनवासा। ३ ऐसा घर जिस में बहुत - से लोग जमा हो कर खुशियाँ मना रहे हो। - चिट्ठी - स्त्री लगनपत्री, लग्न-

पत्रिका, विवाह का निमन्त्रण पत्र।  
- चूडा - पु. विवाह मे कन्या  
तथा घरातिनियो को चूडियाँ  
पहनाने की रस्म। - तीथ - स्त्री  
लग्नदिन, विवाह की तिथि।  
- पत्रिका - स्त्री लग्नपत्री,  
लग्नपत्रिका। - सराई - पु  
विवाहोत्सव, विवाहसमारोह। मु -  
- लागणे - १ विवाह हो जाना।  
२ गँठवधन होना, पक्का नाता,  
अटूट सवध हो जाना।

लघवी - दे 'लघ्वी'।

लघळ - वि १ पिछलगा,  
चापलूस। २ निर्लज्ज। ३ वातूनी,  
वकवादी। - पणा - पु १ छेड-  
खानी। २ चापलूसी। ३ निर्ल-  
ज्जता।

लघु - वि १ लघु, हलका।  
२ छोटा। तुच्छ, क्षुद्र। ४  
ह्रस्व, एक मात्रा वाला। - कथा -  
स्त्री कहानी, छोटी कहानी, लघु-  
कथा, गल्प। - कोण - पु न्यून  
कोण। - ० त्रिकोण - पु न्यून-  
कोण त्रिभुज। - तम साधारण  
भाज्य - पु लघुतम समापवर्त्य।  
- त्व - न लघुत्व, लघुता, हलका-  
पन, छोटाई। - लेखक - पु  
आशुलिपिक, आशुलेखक। - लेखन -  
न आशुलिपि, शीघ्रलेखन, 'शॉर्ट  
हैंड'। - शका - स्त्री लघुशका,  
पेशाव।

लघवी - स्त्री १ लघुशका। २  
पेशाव, मूत्र।

लचक - स्त्री १ मोच, मरोड।  
२ हूक, कसक। ३ लचक;  
लोच, लचीलापन। - दार -  
वि लचीला।

लचकणें - क्रि अ १ मोच  
आना। २ लचना, लपना, लप-  
लपाना, लचकना, झुकना। ३

मटकना, नखरे, नजाकत से झुक  
झुक कर चलना।

लचका - पु (हाथ या मुँह से  
काटा हुआ) टुकड़ा, वोटी। मु -  
तोडणे - हवकना, चट से काटना,  
झपक कर दाँत से काटना।

लचाड - न १ झझट, झमेला,  
वखेडा। २ तुहमत, मिथ्या  
आरोप। - खोर - वि झझटी  
झमेलिया, वखेडिया।

लज्जत - स्त्री [अ 'लज्जत'  
१ लज्जत, स्वाद, जायका। २  
लुत्फ, मजा, आनंद, सुख।  
३ लत; चस्का, शौक। - दार -  
वि लज्जतदार, जायकेदार,  
मजेदार, स्वादिष्ठ।

लज्जा - वि १ लज्जा, शर्म।  
२ झेंप, सकोच, तकल्लुफ।  
३ विनय। [शर्मिदा।

लज्जायमान - वि लज्जित,  
लज्जाहोम दे. 'लजाहोम'।

लज्जित - वि लज्जित,  
लजाया हुआ, शर्मिदा।

लटक - स्त्री १ ढग, तरीका,  
शैली। २ लटक, झुकाव, अग-  
भगी। ३ लत; वुरी आदत।

लटकणें - क्रि अ १ लटकना,  
टँगना, झूलना। २ अघूरा रहना,  
पूरा न होना, कुछ चल-विचल  
होना। मु० लटकत चालणें - मट-  
कना, लचकना, ठुमकना।

लटकाविणें - दे 'लटकावणें'।

लटका - वि १ झूठा, वना-  
वटी। २ खाली, पोला, बेकार,  
व्यर्थका। ३ लुच्चा, अप्रामाणिक।  
४ व्यग्युक्त, अघूरा, निकम्मा,  
विकलाग। - ताठा - पु झूठी  
शान, व्यर्थ की अकड।

लटकावणें, लटकाविणें - क्रि  
स. १ लटकाना; टाँगना। २ फँसा

रपना, देर करना।

लटपट - स्त्री १ चालाकी,  
धाँवली, तिकडम। २ हडवडी,  
गडवडी, जल्दी। ३ बेचैनी,  
घवडाहट। ४ लडखडी, डगमगा-  
हट, थरथराना; काँपना। - पची -  
स्त्री १ तिकडम, चालाकी, घपले-  
वाजी। २ शेखी। ३ झमेला,  
झझट, घपला।

लटपटणें - क्रि अ १ लडख-  
डाना, डगमगाना। २ सिटपिटाना,  
घवडाना। ३ रद होना, बेकार  
हो जाना, काफूर हो जाना, नष्ट,  
वरवाद होना।

लटपटीत - वि १ डँवाडोल,  
ढुलमुल, अस्थिर, अनिश्चित,  
चंचल। २ डगमगाता हुआ, लड-  
खडाता हुआ।

लटपट्या - वि तिकडमी,  
धाँवलीवाज, काइयाँ, डपोरख।

लटलट - अव्य. थरथर; थर-  
थराहट के साथ, काँपते हुए।  
मु० - करणें - दे 'लटलटणें'।

लटलटणें - क्रि अ १  
काँपना, थराना, काँप उठना।  
२ लडखडाना, डगमगाना। ३  
लटकना, झूमना। ४ चमकना।

लटलटा - दे 'लटलट'।

लटावर - न १. सामान-अस-  
वाव, अटवर, बोझ, ढेर। २.  
झुड, रेवड। ३ वालवच्चे। ४  
झझट, झमेला।

लटुपटी - दे 'लटुपटी'।

लठ्ठभारती - पु बहुत मोटा-  
ताजा आदमी। - वि १ मोटा-  
ताजा, घीगरा, मुस्टडा। २  
वेफिका, वेपरवा। ३ मूर्ख, बुद्धू।

लठ्ठ - वि १ मोटा-ताजा,  
स्थूल, पीत, भरा-पूरा। २ मज-  
वूत। - पु लठ्ठ, मोटी लाठी।

- निरजन - दे ' लठ्ठभारती ' ।  
- पणा - पु मोटाई, स्थूलता,  
मुटाई ।

लठ्ठालठ्ठी - स्त्री १. लठ-  
वाजी, लठ्ठवाजी। २ गुत्थम-  
गुत्था, भिडत, हाथापायी । ३  
झगडा, तू तू मैं-मैं ।

लठ्ठ्या - वि पु १ दे ' लठ्ठ-  
भारती ' । २ धीगरा, आवारा,  
दाढीजार (स्त्र) ।

लठ - स्त्री १ लठ, लडी,  
माला । २ लडी, लच्छी, अटी,  
गुच्छा ।

लठहू - वि १. धीगरा,  
मुस्टडा, मोटा ताजा । २. वेकार ।

लठवड - स्त्री १ लठखडी,  
लठखडाहट, डगमगाहट । २.  
घपला । ३ दे ' लुडवुड ' ।

लठवडणे - क्रि अ १. लठ-  
खडाना, डगमगाना, दे. ' लठ-  
पटणे ' । २ लथडना, लिथडना;  
लथपथ होना, लिथडना, सनना ।  
३ दे ' लुडवडणे ' ।

लठवडीत - वि १ लथपथ,  
सना हुआ, लिपटा हुआ । २  
लठखडाता हुआ, डगमगाता  
हुआ ।

लठिवाळ - छा - वि लाडला,  
लडीला, लडैला, प्यारा, दुलारा ।

लडी - दे ' लड ' ।

लँडीस - दे. ' लाडिस ' ।

लठणे - क्रि अ १ लडना,  
भिड जाना, जूझना, युद्ध, जग  
करना । २ झगडना, टक्कर  
खाना, लेना । ३. होड, प्रतियोगिता  
करना ।

लठत - स्त्री १ लडत,  
भिडत, मुकाबला, कुश्ती । २.  
दे ' लडाई ' ।

लठवय्या - वि लडाका,

लडैता, बहादुर, जुझार, वीर,  
लडने वाला, रनवाँकुरा ।

लठविणें - क्रि स १ लडाना,  
भिडाना, लडाई कराना । २.  
सोचविचार करना, युक्ति,  
तरकीब करना ।

लठवैया - दे ' लठवय्या ' ।  
लठा - पु १ लडाई, युद्ध ।  
२ झगडा, सघर्ष । ३ सग्राम,  
आदोलन ।

लठाई - स्त्री १ लडाई, युद्ध,  
जग । २ झगडा । ३ सघर्ष । मु०  
- जिक्णे - युद्ध मे विजय पाना ।

लठाऊ - वू - वि १ लडाका,  
लडाकू, जगजू, युद्धप्रेमी । २  
जगी । - जहाज - न. जगी  
जहाज । [ टेव ।

लत - स्त्री लत, बुरी आदत,  
लत - स्त्री लात । - कोडगा -  
वि लतखोर, लतखोरा,  
निर्लज्ज ।

लता - स्त्री लता, वेल ।  
- मडप - पु लताकुज लता-  
मडप ।

लत्ता - पु [ फा ' लत्त ' ]  
१ लत्ता, कपडा । २ चीथडा,  
फटा-पुराना कपडा, कपडे का  
टुकडा ।

लत्ता - स्त्री लात, पादप्रहार ।  
मु० लत्तेस शनी असणे, घेणे -  
जन्मपत्री मे जन्मराशि से दूसरे  
स्थान मे शनि का होना ।

लपडाव - पु १ लुकाछिपी,  
आँखमिचीनी (खेल) । २  
कतराना, मुँह छिपाना । ३  
छल-कपट ।

लपका - पु लोदा, गीली  
वस्तु का पिड, गोला ।

लपणे - क्रि अ १ छिपना,  
छुपना, लुकना । २ लपना, लचना,

झुकना । लपतछपत, लपूनछपून -  
अव्य लुक-छिप कर, छुप-छुप कर,  
चोरी-छिपे ।

लपविणे - क्रि स छिपाना,  
लुकाना छुपाना ।

लपेट - स्त्री १. लपेट, फेरा ।  
२ घेरा । ३ चक्कर, उलझन ।  
४. ढग, तर्ज, लहजा । [ वेठन ।

लपेटणी - स्त्री लपेटन;  
लपेटणे - क्रि स १ लपेटना,  
समेटना, बटोरना । २ वेठन  
आदि मे बाँधना, तह लगा कर  
मोडना ।

लपेटी - दे ' लपेट ' ।

लप्पछप्प - न १ दे.  
' लपडाव ' । २ बहानेवाजी,  
चालवाजी ।

लफगा-ग्या वि [ फा ' लफग ' ]  
लफगा, लुच्चा, आवारा, शोहदा;  
वदमाग । २ डपोरशख, डीग  
मारने वाला ।

लफडें - न शकट, झमेला,  
घपला, बखेडा ।

लफफा - पु [ अ. ' लफ ' ? ]  
१ कमरवाच का मूल्यवान् कपडा ।  
२ झलावोर, (मुनहले-रुपहले  
तारो मे बुना हुआ साडी का  
आँचल), नारचीवी । ३ गले मे  
पहनने का एक भारी गहना । ४  
लच्छा, झुप्पा ।

लफफेदार - वि [ दे  
' लफफा ' ] १ लच्छेदार; गुच्छे-  
दार । २ बडी-बडी (वाते) ।

लबाउ - वि १ धूर्त,  
चालाक, मक्कार, लुच्चा । २  
झूठा ।

लबाडी - स्त्री १ मक्कारी,  
फरेव, छलकपट, बदमागी,  
चालाकी । २ झूठ, बसत्व ।

लघ - वि १ लघ, प्राप्त;

मिला हुआ । २ भाग करने से प्राप्त (ग०) । ३ अर्जित, प्राप्त किया हुआ । - प्रतिष्ठ, - प्रतिष्ठित - वि १ लब्ध-प्रतिष्ठ, प्रसिद्ध, यशस्वी । २ डपोरशख, डींग मारने वाला (व्य०) । [फायदा, हासिल । लभ्याश - पु लाम, प्राप्ति, लमाण - पु [क 'लवाडि'] १ वनजारा, टांडा लादने वाला । २ एक आदिम जाति (लवाडा) । लमाणी - वि [क 'लवाडि'] वनजारों की भाषा ।

लय - स्त्री १ लय, स्वर, गाने की धुन, ताल, सम (संगीत) । २ मेल । - पु १ लय, लोप, विनाश । २ चित्त की एकाग्रता, तल्लीनता । - कारी - स्त्री गाने में लय का प्रयोग । मु० लयास जाणे - १ लय हाना, नाश होना । २ तल्लीनता होना ।

लय - अव्य. वि बहुत, अधिक, वेहद । - लूट - स्त्री अधिकता, विपुलता, इफरात, बहुतायत । ['ललकारी']

ललकार, ललकारणी - दे ललकारणें -- क्रि अ १ जोर से पुकारना, हँकारना, ऊँचे स्वर से बुलाना । २ जोर से चिल्लाना । ३ ललकारना । ४ ऊँचे स्वर से गाना ।

ललकारी - स्त्री १ पुकार, हँकार । २ तान । ३. ललकार, आह्वान, गर्जन । [कामिनी]

ललना - स्त्री ललना, स्त्री, ललाट - न ललाट, माथा, भाग्य । - रेखा - पा - स्त्री ललाटरेखा, भाग्यलेख । मु० - रेखा उभी राहणें - भाग्य का अनुकूल होना ।

ललामभूत - वि शोभादायक । ललित - वि ललित, सुंदर, रमणीय । - कला - स्त्री ललित-कला, 'फाइन आर्ट' ।

ललुपतु - स्त्री लच्चोचप्पो, लरलोपत्ती, चाटुकरिता, ठकुर-सुहाती ।

ललग - स्त्री १ ललग, लौंग (पेड और फूल) । २ लौंग (नाक, कान का एक आभूषण) ।

ललंगी - वि १ लौंग का, लौंगिया । २ छोटा । ३ बहुत तीखा, गरम । - फटाका - पु लौंग के आकार का जोरदार पटाखा । - मिरची - स्त्री लौंगिया मिरच । - वि तेज मिजाज ।

ललंडणे - क्रि अ १ लुडकना, गिरना, रपटना, ढरकना, ढलना । २ लेटना, थोड़ी देर के लिए सोना । - क्रि स लुडकाना, गिराना ।

ललंडी - स्त्री १ लौंडी, दासी, टहलनी, मजदूरनी । २ रखेली । - वि डरपोक, कायर ।

लव - स्त्री १ लोम, रोम, रोयाँ, रोगटा (शरीर पर के बाल) । २ भेड़ों आदि के शरीर पर का ऊन ।

लव - पु लव, अल्प मात्रा, थोड़ा अंश । - मात्र - अव्य बहुत थोड़ा, किंचित् । - लेश - पु लवलेश, स्वल्प मात्रा । मु० - लेश नसणे - तनिक भी न होना, विलकुल अभाव होना ।

लवकर - अव्य १ जल्दी, जल्द, शीघ्र, झट, तुरत; तुरत, फौरन । २. समय से पहले ।

लवचिक, लवचीक - वि १ लचीला, लोचदार, लचकदार । २. स्थितिस्थापक । ३. परिवर्तन-

योग्य, अनुकूलनक्षम । ४ मुलायम । - पणा - पु १ लचीलापन, लचक । २ स्थिति-स्थापकत्व ।

लवडा - पु (शा०) लौंडा; शिश्न, पुरुष की जननेद्रिय । लवटेलूट - स्त्री १ बहुत अधिक विपुलता । २ मिट्टी के मोल विकना ।

लवण - न. लवण, लोन, नमक । - वि लवण, नमकीन ।

लवण - न स्त्री १. निम्न प्रदेश, निचली, नीची भूमि, गड्ढा । २ मोड, नुक्कड़ । ३. ढाल, ढलान । [२ लचना, लपना ।

लवणे - क्रि अ १ झुकना ।

लवयवणे - क्रि अ १ यलयलाना, स्थूल होना । २. लटकना ।

लवलव - स्त्री १ वकवक, वकवास । २ हिलना-डोलना, चलन-चलन । ३ लचक, लपन । ४ कोमलता, नजाकत ।

लवलवणे - क्रि अ. १ लपलपाना, लपना; लचना । दे 'वळवळणे' ।

लवलवीत - दे 'लवचिक' ।

लवलही \* - अव्य शीघ्र, झट, तुरत ।

लवाजमा - पु [अ 'लवाजिम'] १ लवाजिमा; साज-सामान । २ यात्रा आदि में साथ रहने वाले लोग, दलवल ।

लवाद - पु [अ 'लवाज'] १ मध्यस्थ, विचुआ, पच, विचौलिया, सालिस । २ सालिसी; मध्यस्थता, पचायत, विचवई । - फोर्ट - न पचों का न्यायालय ।

लवाळा, लहाळा; लहाळें -

न पटेर (सरकडे की जाति की एक पानी की घास) ।

लष्कर - न [फा 'लश्कर' ]  
१ लश्कर; लश्कर, फौज;  
सेना । २ छावनी । ३ विशाल  
जनसमुदाय, भीड़ । - भरती -  
छी नवसैनिकों, रँगरूटों की  
भर्ती, रँगरूट बनाना, सेना में  
भर्ती करना । मु० - घ्या भाकरी  
भाजणें - बैकार का झञ्झट मोल  
लेना; बेफायदा काम करना ।

लष्करी - वि [फा 'लश्कर']  
लश्करी; फौजी, सेना सत्रधी ।  
- कायदा - पु फौजी कानून;  
सैनिक शासन, 'मार्शल ला' ।

लस - छी १ व्रणद्रव, पीब,  
पूय, पीप, फोडे आदि का मवाद ।  
२ चेष, लासा । [ 'लसणी' ]  
लसणाची कुडी, पाकळी - दे  
लसणी - छी १ जवा,  
लहसुन का दाना । २ लहसुन के  
आकार का एक गहना । ३  
लहसुन की गाँठ के आकार का  
पटाखा । ४ दे 'लसण्या' ।

लसणें - क्रि अ १ टीसना;  
कसकना, सालना । २ शोभा  
देना, विराजना । ३ लसना,  
चमकना, झलकना ।

लसण्या - पु लहसुनिया  
(धूमिल रंग का एक क्रीमती  
पत्थर), वैदूर्य ।

लसलस - छी १ चुल-  
वुलापन, चलन-वलन । २ कसक,  
टीस । ३ उत्कठा ।

लसलसणें - क्रि अ १.  
गदराना । २ भर आना । ३.  
लसना, चमकना, झलकना ।  
४ बहुत अधिक इच्छा, उत्कठा  
होना । [ लसुन ।

लसुण - पु छी लहसुन,

लसुणघास - पु न [ अ  
'ल्यूसर्न ग्रास' ] एक प्रकार की  
हरी घास जो घोड़ों को खिलायी  
जाती है, 'लूसर्न' ।

लहगा - पु लहगा, घाँघरा ।  
लहडणें - क्रि अ लदना,  
(फलों से) भर जाना ।

लहर - छी १ लहर, तरंग,  
हिलकोर, हिलोरा; मौज । २  
उमग, जोश, वेगमयी भावना;  
मन की मौज, सनक । ३ हवा का  
झोका । ४ वक्र, कुटिल रेखा,  
कसीदे की धारी, लहरिया;  
लहर । मु० - येणें - सनक सवार  
होना, लहर आ जाना, धुन  
बंधना ।

लहरा - पु लहरा (वाजों की  
गत जिसमें ताल-स्वरो की केवल  
लय होती है) ।

लहरी - वि लहरी, मनमौजी,  
सनकी, झक्की । - छी लहर,  
मौज, दे 'लहर' । - दार -  
वि लहरदार, लहरियादार,  
लहरो वाला ।

लहान - वि १ छोटा,  
नन्हा । २. लघु, अल्प, क्षुद्र ।  
- खुरा - वि छोटा-सा, ठिगना ।  
- गा - दे क्रम में । - थोर -  
वि १ छोटा-वडा । २ सब लोग ।  
- पण - न , - पणा - पु १  
छुटपन, वचपन । २ लघुता,  
छोटाई । - मोठा - दे 'लहान-  
थोर' । - सर - वि छोटा-सा ।  
- सहान - वि छोटा-मोटा,  
हलका, मामूली । मु० - तोडीं  
मोठा घास घेणें - छोटा मुँह बड़ी  
वात, अपनी हैसियत से बड़ी वात  
कहना, छोटे आदमी का बड़े के  
दोष निकालना ।

लहानगा - वि छोटा-सा,

नन्हा-सा । [ 'लहान' ]

लहाना - वि छोटा, दे  
लळत - लोवत - अव्य.  
घसीटते हुए, किसी तरह; बेढगे  
तरीके से ।

लळलळ - दे 'लळलळा' ।

लळलळणें - क्रि अ लपल-  
पाना, जीभ का लार टपकाते हुए  
हिलना । [ हुए, लपलपाते हुए ।

लळलळा - अव्य. लार टपकाते

लळा - पु लाड, प्यार,  
दुलार, ममता । मु० - लागणें -  
हिल जाना, प्यार होना (बच्चे  
का, बच्चे से) । - लावणें - हिल-  
गाना, परचाना, लाड प्यार  
करना ।

लळित, लळीत - न १ राम-  
लीला, नाटक आदि जैसा एक  
लोकनाट्य या धार्मिक अभिनय  
जो नवरात्र आदि उत्सवों में किया  
जाता है । २ ऐसे उत्सवों के लिए  
रचित गीत । 'लाखणें' ।

लाफ, लाफणें - दे 'लाख',  
लाकडी, लाकूड - दे 'लाकडी',  
'लाकूड' ।

लाख - छी १ जोड़, टांका ।  
२ मेल, मिलाप । ३ लका,  
काला चना । दे. 'लाख' ।

लाखणें - क्रि स १ जोड़ना,  
टांकना । २ एक साथ बाँधना ।  
३ दे. 'झाळणे' ।

लांग - छी १ लाँग, काछ,  
लेंगोट । २ समुद्र का किनारा ।

लागूल - न लागूल, दुम ।  
- चालन - न लागूलचालन,  
पूँछ हिलाना; खुशामद, लल्लो-  
चप्पो ।

लांच - छी लांच, घूस,  
रिश्वत । - लाळ - वि रिश्वत-  
खोर, घूस खाने वाला । लुचपत-



स्त्री रिखतखोरी, वूस लेना ।  
लाछन - न १ लाछन, कलक,  
घन्वा, दाग । २ निगान, चित्त ।  
३ दोप ।

लाछित - वि लाछित, कल-  
कित, दोपयुक्त ।

लाडगा - पु. भेडिया, वृक ।  
लाडगेतोड - स्त्री शत्रु पर  
अचानक छापा मार कर की गयी  
मारकाट, कल - व - गारत ।

लाडा - वि १ लँडूरा, दुम-  
कटा । २ छोटा, तग, अवूरा,  
अपर्याप्त । ३ सिरकटा । - पु.  
मुसल्ला (मुसलमान के लिए घृणा-  
सूचक शब्द) - कारभार - पु.  
अनधिकार हस्तक्षेप, दस्तदाजी ।

लाडी लवाडी - स्त्री छल-  
फट, धोखाधडी, झूठ ।

लाडोर - स्त्री मोरनी (मादा  
मोर) ।

लांघ - वि १ लवा, दीर्घ ।  
२ अधिक विस्तार वाला । - अव्य  
दूर, दूरी पर । - उडो - स्त्री  
ललांग, फलांग, चौकडी । - कान्या-  
वि लवकर्ण, गवा । - च लाव  
वि बहुत लवा, लवा-चौडा ।  
अव्य बहुत दूर । - चा पल्ला -  
पु लवा सफर । - ट - दे क्रम  
मे । - टाग्या - वि लमटगा,  
लव तडग, ताड-सा लवा, लवू ।  
- हंड - वि लवा-चौडा, विन्तृत ।  
- लचक - वि बहुत लवा,  
फैला हुआ । - सर - दे लावट ।  
मु० - वसणें - (स्त्रि०) स्त्री का  
रजस्वला होना । - लाव गोष्ठी  
सागणें - लवी चौडी हांकना,  
डीग मारना ।

लावट - वि लवोतरा; कुछ  
कुछ लवा ।

लावड - दे 'लावण' ।

लावडा - वि लवा, लवोतरा ।  
- पु. मांप । मु० - करणें - लवा  
करना, बहुत पीटना, मरम्मत  
करना ।

लांघण - स्त्री १ दूरी, दडा  
अतर, फामला । २ देरी । ३ लवाई ।  
४ निरर्थक विस्तार, तूल । मु० -  
लावणें - तूल देना, किसी बात  
को नाहक बढ़ा देना । लावणीवर  
टाकणें - १ लवे अरसे के लिए  
स्यगित करना । २ टालमटोल  
करना । लावणीवर पडणे - १ लवे  
अरसे के लिए स्यगित हो जाना ।  
२ खटाई में पडना । [ दिवा ' ।

लावणदिवा - दे 'लामण  
लावणें - क्रि अ १ लवा,  
दीर्घ बनना, बढ़ना, फैलना । २  
स्यगित, मुलतवी होना, दूर चला  
जाना । ३ तूल पकडना ।

लांबवालांबव - स्त्री ले जाना,  
ले भागना, लूट-पाट ।

लावविणें - क्रि स १ लवाना,  
लवा करना । २ बढ़ाना, फैलाना ।  
३ स्यगित करना । ४. उडाना,  
ले भागना । [ २ दूरी, फासला ।

लांबी - स्त्री १ लवाई, लवान ।  
लांबी - स्त्री पुटीन ( छेद  
आदि भरने के काम आने वाला  
एक प्रकार का मसाला ) ।

लावून - अव्य दूर से, परे  
हट कर, दूरी पर से ।

लावोडा - वि १ दे 'लावट',  
'लावडा' । २ दीर्घवृत्तीय,  
अडाकार । ३ दे 'लुआ' ।

लाव - स्त्री डाइन, चुडैल ।  
दे 'लावी' ।

लावसट - स्त्री डाइन, चुडैल ।  
- वि दे 'ढालगज' ।

लावा - दे 'लावा' ।

लाकडी - वि लकडी का;

काठ का । - खेळ - पु लकडी, काठ  
के खिलाणे । - घोडी - स्त्री पखाम-  
वज आदि गखने की तिपाई,  
तिखटी ।

लाकूड - न १ लकडी;  
काष्ठ, काठ । २ ईधन । - फाटी  
पु १ ईधन, जलावन । २ मकान  
वनाने के काम आने वाली लकडी ।  
लाकडाची वखार - स्त्री. टाल;  
लकडी की दूकान । मु० - होणें -  
लकडी होना, मूख कर दुबला  
और कमजोर होना ।

लाक्षणिक - वि १. लाक्षणिक,  
पारिभाषिक । २ लाक्षणिक,  
प्रतीकात्मक, अलामती ।

लाख - वि १ लाख (मौ  
हजार) । २ कई, अनेक, बहुत  
अधिक । ३ बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट ।  
४ महत्त्वपूर्ण, पते की (वात) ।  
- अव्य लाख, हृद से ज्यादा ।  
- माणूस - पु. बड़ा ही अच्छा,  
श्रेष्ठ व्यक्ति ।

लाखाची गोष्ट - स्त्री लाख  
टके की बात, बहुत उपयोगी,  
मार्के की, महत्त्वपूर्ण बात ।

लाख - स्त्री लाख, लाह ।

लाखणे - क्रि स लाखना,  
लाज लगाना ।

लाखी - वि १ लाखी, लाख  
का । २, लाख के रंग का, मट-  
मैला । [ अनगिनत ।

लाखो - वि लाखो, अनेक,  
लाखोटा - दे० 'लखोटा' ।

लाखोली - स्त्री १ लखौरी  
(देवता को लाख की सख्या मे फूल  
या पत्ते चढाना) । २ गालियों की  
वीछार । मु० - वाहाणें - १  
लखौरी चढाना । २ गिन-गिन कर  
गालियाँ देना, पानी पी-पी कर  
कोमना ।

लाखोळी - छी १ लाखना, लाख से फूटे वरतन का छेद बंद करना । २ डाँक ।

लाग - प्रु १ अवसर, मौका । २ लाग; सवध, लगाव, प्रेम । ३ उद्देश्य, मकसद । ४ उपाय, तरकीब । ५ सकट, आपत्ति । ६ हमला, धावा । ७ मौसिम, फूल आने का समय । ८ टोह, सुराग, पता । १ पहुँच, रसाई । १० लूट; शिकार । - वग - छी सवध, पहुँच; रसाई । मु० - लागणे - १ लगा लगना, काम शुरू हो जाना । २ बड़ा लाभ होना ।

लागट - वि १ लतखोरा, निर्लज्ज । २ प्रेमी, प्यारा । ३ चुभने वाला । ४ 'सडियल, खराव ।

लागण - छी १. रोपाई, बोआई । २ वीमारी की बाधा, छूत, रोगग्रस्त होना ।

लागणें - क्रि अ १ लगना, सटना; जुडना, छूना । २ जमना, पीघो का उगना, जड पकडना । ३ रगड खाना, रगड से छिल जाना; कट जाना । ४ चुभना, गडना; घँसना । ५ चाट, चस्का पडना । ६ बंद होना (किवाड) । ७ पकडना, सयोग होना । ८ ठीक बैठना (अर्थ), समझ में आना, पढा जाना । ९ (आदत) पडना । १० मिलना, प्राप्त होना । ११ सवध, रिश्ता होना । १२ काम आना, खर्च होना । १३ मिलना, भेंट होना, दिखाई देना । १४ फलीभूत होना, लगना (फल) । १५ फल आदि का सडना । १६ जलना । १७ जलन, चुनचुनाहट करना, काटना (जूते का) । १८ नशीली चीजों का दिलोदिमाग पर

तेज असर होना । १९ छोर, ठिकाने पर पहुँचना । २० निशान होना । २१ दरकार, आवश्यक होना, जरूरत पडना । २२ (भूत) लगना, प्रेतवाधा होना । २३ होना (वारिश) । २४ जोडा खाना, सभोग करना । २५ हाजत होना, अनिवार्य इच्छा होना (शीच, पेशाव आदि की) । २६ . का असर करना । २७ .. का बसी में फँसना । २८ आरम्भ हो कर जारी रहना । २९ बाजी, दाँव लगना । ३० ठीक बैठना (कुजी) ।

लागलाच, लागलींच, लागलेंच - अव्य तुरत; झट, फौरन, तुरत, उसी क्षण ।

लावगड - छी १ खेती । २ रोपाई, बोआई । ३ उत्पादन, फसल । मु० लागवडीस आणणें - खेती करना, खेतीबाडी के योग्य बनाना, जमीन तैयार करना, जोताई करना । [ लगाव ।

लागाबाधा - प्रु सवध, रिश्ता, लागी\* - अव्य .. के लिए, . को, . के कारण, के पास, . की ओर ।

लागी - वि १ सवद्ध, जुडा हुआ । २ योग्य, लायक । मु० - लागणे - ठीक मार्ग पर चलने लगना ।

लागू - वि १ लागू, लगने वाला, सवद्ध, । २ सगत, चरितार्थ होने वाला । ३ गुणकारी, प्रभावकारी, असर करने वाला । ४ उचित, योग्य । मु० - करणे - लागू करना, चलाना, जारी, नाफिज करना (कानून) । - पडणे - १ असर

होना, लाभ होना । २ उपयुक्त होना, चरितार्थ होना । - होणे - १ जारी होना, चलाया जाना, नाफिज होना । २ दे 'लागू पडणे' ।

लागोपाठ - अव्य लगातार; सतत, बिना रुके हुए, सिलसिले से, निरंतर, बराबर ।

लाघव - न १ लाघव, लघुता, हलकापन । २ फुर्ती, त्वरा, तेजी । ३ चालाकी, होशियारी ।

लाघवी - वि १ प्यारा, मीठा, मोहक । २ नम्र । ३ खुशामदी । ४ चतुर, चालाक, होशियार ।

लाच - दे 'लाच' ।

लाचार - वि [अ 'ला' + फा 'चार'] १ जिस में आत्मसम्मान, आत्मगौरव का अभाव हो, गुलाम जैसा, कमीना, जी-हुजूरिया, पामर, कातर । २ नाचार, दीन, असहाय, दुःखी, लाचार, मजबूर, विवश ।

लाचारी - छी [दे 'लाचार'] १ आत्मसम्मानका अभाव, दैन्य, दीनता, हीनता, चाटुकारिता, कातरता, जी-हुजूरियापन, दासवृत्ति, पामरता । २ नाचारी, असहायता, बेवसी, लाचारी, मजबूरी, विवशता ।

लाज - छी १ लाज, लज्जा, शर्म, हया । २ सकोच, झिझक, शेंप । ३ प्रतिष्ठा, मर्यादा, आवरु, इज्जत । - काज, - मर्यादा, - लज्जा - छी लाज-शर्म, झिझक । बट - वि दे 'लाजरा' । मु० - काडणें - वेशर्म कहना । - कोळून पिणें - वेशर्म बनना । - झाकर्णें, - राखणें - लाज रखना, आवरु

वचाना । - लावणे - लज्जित करना । [ शर्मीला ।

लाजट - वि लजीला;

लाजणें - क्रि अ १ लजाना, शर्माना । २ झेंपना, सकुचाना, सकोच करना, सकपकाना ।

लाजरा - वि शर्मीला; लजीला, झेंपू ।

लाजरी - स्त्री लजालू, छुईमुई (पौधा) । - वि दे 'लाजरा' ।

लाजविणें - क्रि स १ लजाना, लज्जित करना, शर्माना । २ कान काटना, वड जाना, नीचा दिखाना ।

लाजा - पु बहु लाजा, धान का लावा, खील, लाई, खोई । - होम - पु विवाह सस्कार मे वरकन्या द्वारा किया जानेवाला एक होम जिस मे खोई (खील) का हवन किया जाता है ।

लाजाळू - स्त्री लजालू, छुईमुई (पौधा) । - वि दे 'लाजरा' ।

लाजिरवाणा - वि शर्मानाक; लज्जाजनक, लज्जाप्रद ।

लाजेंकाजे, लाजेंकाजेस्तव - अव्य लाज के मारे, लज्जा के कारण ।

लाट - स्त्री १ लहर, तरंग, मीज । २ वेलन (ईख परेने की कल का पुरजा) । ३ ढेंकली, ढेंकी । ४ जाठ (कोल्हू का वल्ला) । ५ वाढ; जोर, विपुलता, आवेग; शोका । मु० - उठणें; - उसळणें वाढ आना, ज्वार आना, फँल जाना ।

लाट - पु [अ 'लाँट'] १. ढेर; पुर्लिदा, गट्ठर । २ मीज, चैन, मज्जा । [वनाने का] ।

लाटणें - न. वेलन (रोटी

लाटणें - क्रि स १ वेलना (चकले पर वेलने से रोटी, पूरी आदि बनाना) । २ गोल-गोल घुमाना ।

लाटणें - क्रि म उटा लेना, हडप करना, लूटना, हथिया लेना । [मोटा-ताजा । २ धीगरा ।

लाटण्या - वि १ हृष्टपुष्ट, लाटी - स्त्री पापड बनाने के लिए गूंधे आटे की लोई, गोली ।

लाट्या - वि १ लूटने वाला, हडप करने वाला, मृपतखोर । २ लापरवाह, धीगरा । - गगामी, - गगाराम, - गोमाजी - पु १ दे 'लाट्या' । २ उजट्ट, गँवार ।

लाठी - स्त्री लाठी, उडा, सोटा । - मार - स्त्री, - हल्ला - पु. पुलिम द्वारा लाठी से की गयी मारपीट, 'लाठीचार्ज' । मु० - चालविणें - लाठी चलाना ।

लाड - पु बहु० १ लाड, प्यार, दुलार, लाड-चाव, लालन । २ घृष्टता । मु० - करणें, - चालवणें, - पुरविणें - १. लाड लडाना, दुलारना । २ माँगी हुई वस्तु दे देना, मशा पूरी करना । लाडत, लाडास येंणें - दे 'लाडावणे' ।

लाडका - वि १ लाडला, प्यारा, दुलारा, लटैता । २ घृष्ट, गुस्ताख ।

लाडावणें - क्रि अ नखरे करना, इतराना, लडवावला बनना, अधिक प्यार से विगड जाना । - क्रि स अधिक प्यार से विगाडना ।

लाडावलेला - वि दुलरआ, लडवावला, दुर्ललित, निहग लाडला; अधिक प्यार से विगडा, विगाडा हुआ ।

लाडिकपणा - पु लाड-प्याग मे नखरे करना ।

लाडिस - न [अं 'लैडिंग'] १ (रेल लाइनों पर चलने वाला) ठेला । २ ताश का एक खेल ।

लाडीगोडी - स्त्री खुगामद, लल्लोचप्पो, चाटुकारी ।

लाडू - पु १. लड्डू (मिठाई) । २ मुक्का, धूमा ।

लाडूवाई - वि स्त्री लाडली, लडवावली, दे 'लाडावलेला' । लाडेकोडे, लाडे लाडे - अ प्यार मे, लडवावले पन से ।

लाडोवा - दे 'लाडावलेला' ।

लात, लाथ - स्त्री [फा 'लत'] लात, पाद-प्रहार । मु० - मारणें - १ (को) लात मारना, लात चलाना, लात मे मारना । २ (पर) लात मारना, किसी वस्तु को तुच्छ समझ कर छोड देना, उपेक्षा, धृणा करना । मु० लाथ मारील तेयें पाणी काढील - अपने पुरुषार्थ से बडा काम करेगा । बसता लाथ उठता वृक्की - बाठी पहर की पिटाई ।

लाघा - स्त्री बृह लातें । - खाऊ - वि लतखोर - रा, निर्लज्ज । - वृक्क्या - स्त्री लातें - घूँसे ।

लायाडणें - क्रि स लताडना, लात मे मारना, ठुकराना; लतियाना ।

लायाळ - वि लतहा, लात मारनेवाला (घोड़ा वँल आदि)

लादणें - क्रि स १ लादना, ढोने के लिए वोज़ भरना, रडना । २ किसीकी इच्छा के विरुद्ध उसपर जिम्मेदारी, भार डालना ।

लादा - पु १ लादी (घोवियो की गठरी) । २. वोज़ा । ३ दे.

'लगदा' । ४ लोई ।

लादी - छी पत्थर का फर्श, घडा हुआ पत्थर, पत्थर की पटिया ।

लाघर्णे<sup>+</sup> - क्रि अ १ मिलना, प्राप्त होना । २ काम आना । ३ टिकना, रहना ।

लापट - वि १ ढीला । २. घिसा हुआ । ३ निर्लज्ज ।

लापशी - छी लपसी, खीर; लपटा ।

लाफा - छी बहु [फा. 'लाफ'] १. लाफ, डींग । २ अत्युक्ति, मुवालागा ।

लाफा - पु थप्पड, चाटा ।

लाम - पु १ लाभ, फायदा, नफा । २. आय, आमदनी, प्राप्ति, लब्धि । ३ वरकत; एक की सख्या (वनिये तीलने में या किसान अनाज मापने में एक के बदले 'लाम' (वरकत) कहते हैं ।) - दायक - वि लाभदायक, लाभकारी, फायदेमद । मु० - देणें लाभ उठाने का अवसर देना, कृपा करना । लाभा येणें-दे 'लाभणें' ।

लाभणें - क्रि अ १. मिलना; प्राप्त होना । २ लाभकारी होना; शुभदायी, मंगलप्रद होना । ३ टिकना, बना रहना ।

लाभालाभ - पु १ लाभ - हानि, नफा - नकसान । २ दैव, भाग्य, नसीब ।

लाभणदिवा - पु झलमला, कदील, रस्सी या जजीर में लटकाना जाने वाला दीया ।

लायक - वि [अ 'लाइक'] १ लायक, योग्य, उचित, मुनासिब । २ गुणवान्, अधिकारी, सुयोग्य ।

लायकी - छी [अ 'लाइक'] म हि श को ४०

लियाकत, योग्यता, हैसियत । - चा दाखला - पु. योग्यता का प्रमाणपत्र ।

लॉरी - छी [अ] लारी (माल और मुसाफिरो को ढोने के काम आने वाली बड़ी मोटर-गाडी) ।

लाल - पु [फा.] लाल, माणिक, पद्मराग (रत्न) । - वि १ लाल । २ लालभभूका, निहायत सुख । ३ लाल अगारा, क्रोध से तमतमाया हुआ । - बावटा - पु १ खतरे की झडी । २. साम्यवादियों का झंडा । - भडक - वि लालभभूका, निहायत सुख, बहुत लाल । - भाई - पु. साम्यवादी, कम्यूनिस्ट व्यक्ति । - साठ - पु. लाल साग, मरसा । - मिरची - छी लाल मिर्च, मिरचा । - सर-वि ललछौह, सुखीमायल, रतनारा, ललछू, सिदूरिया । मु० - अगार होणें - लाल अगारा होना, लाल - पीला होना, तमतमाना ।

लालचावणे - क्रि अ ललचना, लालसा करना, आसक्त, लुब्ध होना । - क्रि स ललचाना ।

लालचावलेला, लालची - वि लालची, लोभी, लालुप ।

लालन - न १ लालन, प्यार, लाड-प्यार । २ पालन, परवरिश । - पालन - न पालन-पोषण; परवरिश ।

लालसा - छी लालसा, तीव्र अभिलाषा, हवस, लालच ।

लालित्य - न १ लालित्य, सौंदर्य, रमणीयता, लताफत, नजाकत । २ हावभाव ।

लालूच - छी १. लालच, लोभ । २ हवस । मु० - दाख-

विणे, - लावणें - ललचाना, लुभाना ।

लावणी - छी १ रोपाई, वोआई । २ लावनी (एक तरह का चलता गाना) ।

लावणें - क्रि स १ लगाना, जोडना । २ सजाना, सिलसिले से रखना, चुनना । ३ भेजना । ४. रोपना, सटाना, चिपकाना । ५ पोतना, मलना । ६ कायम करना, व्यवस्था, प्रवध करना । ७ (आदत) डालना । ८ फिट करना, जडना, ठीक स्थान पर बैठाना । ९ मडना, थोपना, देना (दोष) । १०. नियुक्त, मुकरेंर करना । ११ हिसाब करना । १२ वद करना, भिडाना (किवाड) । १३ वाजी, दांव पर रखना । १४ छुलाना, स्पर्श, सपर्क कराना । १५ (पास, किनारे) पहुँचाना । १६ धार तेज करना, सान धरना । १७ आँकना, दाम कूतना । १८ वसाना, आवाद करना । १९ खोलना (दुकान) । २० भगा देना, निकाल बाहर करना । २१ फँलाना, विछाना । मु० लावून घेणे - १ लगाना, वद करना, भिडाना, भेडना, भीडना (किवाड) । २ लपेट लेना, किसी तरह पहन लेना । लावून पाहाणें - मिलान करना, तुलना करके देखना । लावून बोलणें - ताना मारना, चुटीली बात कहना; व्यस्य कसना ।

लावण्य - न लावण्य; सुदरता, गोभा, शान । २ नमकीनी, लवणत्व । - खाणी - छी सुदरी, अत्यंत रूपवती स्त्री ।

लावा - पु लावा, ळ्वा (पक्षी) ।

लावालाव, लावालावी - स्त्री  
लगाई-बझाई, चुगली (इधर की  
वात उधर जा सुनाना) । मु० -  
करणे - लगाना-बझाना, झगडा  
कराना । [ पक्षी (मादा) ।

लावी - स्त्री लाविका, लवा  
लासैं - न दाग, मस्ता  
(शरीर पर निकलने वाला) ।  
२ जलने का दाग ।

लाही - स्त्री १ खील, लाई,  
लावा । २ जलन । ३. क्रोध से  
आग-बबूला होना । मु० - फुटणें -  
गोलो, गोलियो की बौछार से नाश  
होना । - लाहो होणे - आग-बबूला  
होना, जलभुन कर कवाव होना ।

लाहो - \* पु १ लाभ;  
फायदा । २ शौक । ३ लालच,  
हवस ।

लाळ - स्त्री १ लार, लुआव ।  
२. पशुओं का एक रोग जिसमे  
उनके मुँह से लार बहती है । -  
घोट्या - वि चापलूस, खुशा-  
मदी; खुसियावरदार । मु० -  
घोटणें - १ लार टपकना । २  
खुशामद करना ।

लाळेरें - न गतिया, राल-  
दानी, बच्चो के गले मे लटकाया  
जाने वाला कपडा जिसपर उनके  
मुँह की लार गिरती रहती है ।

लिंग - न १ लिंग, शिर्वालिंग ।  
२ पुरुष की जननेद्रिय, शिश्न । ३  
लिंग (व्या०) । - देह - पु, -  
शरीर - न लिंगदेह, लिंगशरीर,  
सूक्ष्म देह, शरीर । [ शैव संप्रदाय )

लिंगायत - पु लिंगायत (एक  
लिपण - न १ लिपाई (लीपने  
की क्रिया) । २ लीपा-पोती ।

लिपणें - क्रि स १ लीपना;  
पोतना, लेपना । २ कीचड,  
गोबर आदि भर कर द्रव करना ।

लिंब - पु नीम । दे 'निंब' ।  
लिंबलोण, लिंबारा, लिंबू,  
लिंबोणी-ळी - दे 'निंबलोण',  
'निंबारा', 'निंबू', 'निंबोणी-ळी' ।

लिखा - स्त्री बहु० [ 'लीख'  
का बहु० ] लीखें, जूँ के अडे ।

लिखाण - न १ रचना, लेख,  
लेखन । २ लिखावट, लिाप ।

लिखित - न १ लिखित,  
पत्र, चिट्ठी । २ लिखन, ललाट-  
रेखा, होनी । - वि लिखित,  
लिखा हुआ । [ लगना ।

लिंगटणें - क्रि अ चिपकना,  
लिंगाड - न शझट, झमेला,  
बला ।

लिचाड - दे 'लचाड' ।  
लिडविडणें, लिडविडीत - दे  
'लडवडणे', 'लडवडीत' ।

लिपि - स्त्री लिपि, लिखावट,  
रस्मुलखत ।

लिप्त - वि १ लिप्त, सना,  
भरा हुआ, लथपथ । २. फँसा  
हुआ । ३ व्यसनादि में डूबा हुआ,  
४ दूषित ।

लिप्ताळा - वि १ किसी  
अपराध में फँसा हुआ, अभियुक्त ।  
२ दबैल, शमिदा । दे. 'लिप्त' ।  
लिप्ता - स्त्री लिप्ता, पाने की  
इच्छा, लोभ, हवस ।

लिबलिबीत - वि पिलपिला,  
पुलपुला, पिचपिचा, गुलगुला,  
जिसमें बहुत अधिक पानी पडा  
हो, जो अधिक पक जाने से नरम  
हुआ हो ।

लिमलेट - न [ अ लेमोनेड ]  
लेमनचूस, लेमनजूस (शकर की  
टिकियाँ, गोलियाँ) ।

लिलांव - पु [ पुर्व 'लिलाम']  
नीलाम (बोली बुला कर माल  
वेचना) ।

लिबलिबीत - वि १ लचीला,  
लचकीला, लचकदार । २ नरम,  
पिलपिला । ३ ढीला । [ 'लिबर' ।

लिब्वहर - न [ अ ] यकृत,  
लिसा - स्त्री वूरा (कच्ची  
चीनी), पिमी हुई चीनी ।

लिहिणावळ - स्त्री लिखाई  
(लिखने की मजदूरी, उजरत) ।

लिहिणे - क्रि स १  
लिखना, लिपिवद्ध करना । २  
ग्रंथ रचना । ३ चित्र बनाना,  
रेखाएँ, चिह्न खीचना । ४ पत्र  
लिखना । - पुसणे न लिखाई-  
पढाई, विद्योपार्जन । मु० -  
वाचणें - लिखना-पढना, विद्या-  
जंन करना । [ अडा ।

लीख - स्त्री लीख, जूँ का  
लीद - स्त्री लीद (गधे, घोडे  
आदि पशुओं का मल) ।

लीन - वि १ लीन, विलीन,  
तन्मय । २ नम्र, झुका हुआ,  
विनीत । [ तल्लीनता । २ नम्रता ।

लीनता - स्त्री १ लीनता,  
लीला - स्त्री १ लीला,  
क्रीडा, केलि । २ रहस्यपूर्ण  
कार्य । ३ सहज कार्य ।

लीलेनें - अव्य. लीलया,  
सहज ही, आसानी से, खेल मे ।

लीळा - दे 'लीला' ।

लुगविणे - क्रि स लूटना,  
घोखा दे कर छीनना ।

लुंगा, लुगासुगा - वि  
मामूली, क्षुद्र; तुच्छ, ऐरा शरा ।

लुंगी - स्त्री [ फा 'लुग' ]  
लुगी, तहमद, अंगोछा, छोटी  
घोती ।

लुकडा - वि बहुत दुबला-  
पतला, मरियल, लकतक,  
लगलग ।

लुकण - न. [ हिं 'लुक' ]

१ पुटीन (जोड़ने का मसाला),  
लुक, रोगन । २ लेप ।

लुकलुकर्णे - क्रि अ १  
टिमटिमाना; झलमलाना, झल-  
झलाना । २ जगमगाना,  
चमकना ।

लुकलुकौत - वि झलमला,  
टिमटिमाता हुआ, चमकीला ।

लुककड, लुककण - दे  
'लुकडा', 'लुकण' ।

लुगडें - न साडी, स्त्रियो की  
नौ गज की धोती ।

लुगदा - दे 'लगदा' ।

लुचर्णे - क्रि अ बछडे का  
गाय (या भैंस) के थनो से दूध  
पीना ।

लुचपत - स्त्री रिश्वत,  
अवैध मार्ग से कमाया हुआ धन ।

लुच्चा - वि [तु 'लुच']  
१ लुच्चा, चाँई, काइयाँ, घूर्त,  
चालाक । २ कमीना, बदमाश,  
दुराचारी ।

लुच्चाई, लुच्चेगिरी - स्त्री  
[दे 'लुच्चा'] १ चालाकी,  
घूर्तता । २ बदमाशी ।

लुटणे - क्रि स १ लूटना,  
छीनना, ठगना, जबर्दस्ती ले  
लेना । २ बरवाद, तवाह करना ।

लुटपट, लुटपटणे, लुटपटीचा,  
लुटपूट - दे 'लटपट', 'लट-  
पटणें', 'लुटपुटीचा', 'लुटपुट' ।

लुटविणें - क्रि स लुटाना;  
वांटना, बेरोक दान या खर्च  
करना ।

लुटारू - वि पु लुटेरा; डाकू ।

लुटारूट - स्त्री लूटमार, लूट-  
पाट, लूटखसोट ।

लुटपुटीचा, लुटपुट - वि  
नकली, छोटा, दिखाऊ, बना-  
वटी ।

लुटपुटुची लडाई - स्त्री  
छद्मयुद्ध, दिखाऊ युद्ध, बनावटी,  
नकली लडाई ।

लुटपुट, लुटलुट - अव्य  
जल्दी-जल्दी, दुलकी, लटकती  
चाल से (बच्चो के चलनेके लिए  
प्रयुक्त) ।

लुडकर्णे - क्रि अ. १ लुड-  
कना; रपटना । २ धीरे से  
लेटना ।

लुडबुड - स्त्री १ हस्तक्षेप,  
दखल, दस्तदाजी, बाधा, टांग  
अडाना । २ नाहक इधर-उधर  
आना-जाना, चुलबुल ।

लुडबुडणे - क्रि अ १ हस्त-  
क्षेप करना, दस्तदाजी करना;  
दखल देना, टाँग अडाना । २  
चुलबुलाना; नाहक इधर-उधर  
चक्कर लगाना ।

लुडबुडचा - वि १ दस्तदाज,  
नाहक टाँग अडाने वाला, हस्तक्षेप  
करने वाला । २ चुलबुल ।

लुतरा, लुत्रा - वि १ गपो-  
डिया, बडबडिया । २ लुतरा,  
चुगलखोर; निंदक ।

लुप्त - वि १ लुप्त,  
छिपा हुआ; गायब, अदृश्य । २  
भग्न, नष्ट, रद, जिसका लोप  
हो गया हो । - प्राय - वि जो  
लगभग लुप्त हो चुका हो, नही के  
बराबर ।

लुबरा - वि १ लुतरा,  
चुगलखोर । २ बिना पूछे बीच में  
बोलने वाला । ३ लबरा, गप्पी,  
झूठा । ४ खुशामदी ।

लुबाडणें - क्रि स लूटना,  
ठगना, छीनना, खसोटना ।

लुब्ध - वि १ लुब्ध, आसक्त ।  
२ मोहित, ललचाया, लुभाया  
हुआ ।

लुत्रा - दे. 'लुवरा' ।

लुला - दे 'लुळा' ।

लुलुपुतू - स्त्री लल्लोचप्पो;  
लल्लोपत्तो, खुशामद ।

लुसलुशीत - वि १ मुलायम,  
नरम, नाजुक, गुलगुला । २  
लहलहा, बहडहा, हराभरा,  
प्रफुल्लित ।

लुळा - वि १. लूला, अपा-  
हिज । २ कमजोर । ३ ढीला,  
लटकता हुआ । ४ त्रुटिपूर्ण;  
विकलाग, व्यंगी । - खुळा - वि  
शरीर और मन से विकल, पगला  
और कमजोर । - पागळा - वि  
लूला-लँगडा, विकलाग ।

लूट - स्त्री १ लूट; लूटने  
की क्रिया, डकैती । २ लूटा हुआ  
माल । ३ आर्थिक शोषण । ४  
विपुलता; भरमार, बहुतायत,  
प्रचुरता, इफरात । - फाट - स्त्री  
लूटपाट, लूटखसोट ।

लूत - स्त्री खारिश, खुजली  
(खास कर कुत्तो को होने वाली) ।  
- भरलेला - वि खारिशी,  
खारिस्ती ।

लेंक, लेकळं - दे 'लेक',  
'लेकरू' । [पाजामा, पायजामा ।

लेंगा - पु [हिं 'लहंगा']

लेंड - न लेड (बँधा हुआ  
मल जो मोटी बत्ती के रूप में  
निकलता है) ।

लेंड - स्त्री पु [तेलुगु 'रेडु']  
गुल्लीडडे के खेल में दो की सख्या ।

लेंडार - दे 'लेडार' ।

लेंडी - स्त्री लेडी, मँगनी,  
मेगनी (भेड, बकरी आदि का बँधा  
हुआ मल) । - पिंपळी - स्त्री  
छोटी पीपल, पीपल (लता) की  
कली । मु० लेंड्या टाकर्णे - बहुत  
डर जाना; पाजामे में हग देना ।

लेंडूक - न दे 'लेड',  
'लेडी'।

लेंदार - न १ लेहडा, झुड,  
(चौपायो का) समूह । २ दे  
'लटावर'।

लेंभळा - दे 'नेभळा'।

लेक - पु पुत्र, वेटा, लडका ।  
- छी वेटी, पुत्री, लडकी ।  
- वळा - वि पु. दोगला,  
सुरैतवाल-ला, जारज (सतान),  
रखेली का वेटा । कहा० लेकी  
बोले सुने लागे - वेटी के वहाने वहु  
को डांटना ।

लेकरू - न वच्चा, वेटा;  
वालक । लेकरे-वाळें - न बहु०  
वालवच्चे, लडके-वाले, सतान ।

लेकवळा - दे 'लेक' में ।

लेकाचा - वि पु. वचा,  
वच्चू, साला (घृणासूचक) ।

लेकावळा - वि पु. दोगला,  
जारज सतान, अवैध सतान ।

लेकुरवाळा - वि पु. वाल-  
वच्चो वाला ।

लेकुरवाळी - वि छी लड-  
कौरी, वालवच्चो वाली (स्त्री) ।

लेको - अव्य अवे लौंडो, सालो  
(अशिष्ट सवोधन) ।

लेख - पु १ लेख, रचना,  
मज्जमून । २ लिखावट । ३.  
हिंसाव; गिनती । ४ दस्तावेज;  
लिखपत्र ।

लेखक - पु १ लेखक,  
लिखनेवाला, ग्रथ - रचयिता;  
मुसन्नफ । २ लिपिक; 'क्लर्क' ।  
दे 'लेखकु' ।

लेखकु - पु १ श्रुतलेखन करने  
वाला, दूसरे के लिए लिखने का  
काम करने वाला । २ लिक्खाड  
(व्यग्य मे) ।

लेखणी - छी लेखनी; कलम ।

मु० - करणें - कलम बनाना ।

लेखणें - क्रि स १. मानना,  
समझना । २ परवाह करना । ३  
सोचना, विचार करना ।

लेखन - न १ लेखन, तहरीर,  
लिखने की शैली, तर्ज । - सीमा -  
छी पत्र का अंत । - स्वातंत्र्य - न  
प्रेस-स्वातंत्र्य, पत्र-स्वातंत्र्य ।

लेखनिक - पु १ लेखनिक;  
लिखने वाला । २. लिपिक,  
'क्लर्क' ।

लेखिका - छी लेखिका,  
लिखनेवाली, मुसन्नफा ।

लेखीं - अव्य लेखे, विचारा-  
नुसार, विचार मे, मत में,  
समझ में, दृष्टि में ।

लेचापेचा - वि ढीला - ढाला,  
ढुलमुल, कमजोर, पोचा ।

लेजोम - छी [ फा 'लेजम' ]  
लेजम, लेजिम ( एक तरह की  
कमान जिसके सहारे कसरत की  
जाती है ) ।

लेणें - न १ अलकार,  
आमूषण, गहना । २ गुफा, खोह,  
कदरा । [ २ लगाना (काजल) ।

लेणे - क्रि स १ पहनना ।

लेथ - पु [ अं ] खराद ।

लेप - पु १. लेप, लेपन,  
मरहम, उवटन । २ गारा,  
पलस्तर ।

लेप - पु रजाई, लिहाफ ।

लेवल - न [ अ ] लेवल  
(वोतल आदि पर लगा हुआ पता  
या विवरणपत्र) ।

लेवविणें - क्रि स १ पह-  
नाना । २ लगाना, डालना  
(काजल) ।

लेश - पु लेश, अणु, सूक्ष्म  
अश, अल्पता । - मात्र - वि  
अव्य. १ नाम मात्र, कहने भर

को, अत्यल्प, थोडा । २ कतई,  
विलकुल ।

लेस - छी [ अ ] १ फीता,  
किनारी, 'लैस' । २ गोटा, कला-  
वत्तू बना झालर ।

लैगिक - वि लैगिक, यौन,  
स्त्री-पुरुष - भेदसवधी । - रोग -  
वि रतिरोग, रतिज रोग; यौन  
रोग, फिरग रोग । [(नरम वाल)।

लोकर - छी ऊन, पशम  
लोकरी - वि ऊनी, पशमी ।

लोगर - पु घाँद, घौर - रा  
(केले आदि फलो का गुच्छा) ।

लौंचट - दे 'लोचट' ।

लोढा - पु १ रेला, जल का  
वहाव, जोरदार प्रवाह, वाद,  
सैलाव । २ आदमियो आदि का  
झुड, भीडभाड । मु० लौढ्या  
बरोबर वाहात जाणें - अधा-  
नुकरण करना, भेडियावसान ।

लौंवकळणें - क्रि अ १  
लटकना, ओठेंगना, टेंगना,  
झूलना । २ काम पूरा न होना ।  
३ दुविधा में रहना ।

लौवणें - क्रि अ. लटकना,  
टेंगना, झूलना । दे 'लौवकळणें' ।

लौवर - न, लौवी छी (अनाज  
की) वाल, वाली, भुट्टा ।

लोक - पु १. लोग, मानव-  
जाति, समाज, जन, जनता,  
अवाम । २ लोक, भुवन । ३ जाति,  
क्रीम, वर्ग । ४ पराया, अनजान  
व्यक्ति । ५ आदमी, मनुष्य ।  
- कथा - छी १. लोककथा (जन-  
समाज में प्रचलित कथा) । २.  
किस्सा, काल्पनिक कहानी ।

- कल्याण न लोककल्याण,  
अवाम की भलाई । - गंगा - छी  
जनता, समाज । - गीत - न  
लोकगीत (साधारण जनता में

प्रचलित गीत) । - तत्र - न लोकतत्र, जनतत्र, जम्हूरियत ।  
 - नायक - पु नेता, जननायक ।  
 - प्रतिनिधि - पु जनप्रतिनिधि ।  
 - प्रवाद - पु लोकप्रवाद, जन-प्रवाद, जनश्रुति, किंवदती, अफ-वाह । - वाह्य - वि १ लोकवाह्य, दुनिया से मित्र, सनकी । २ जो लोगो को प्रिय न हो । - भ्रम - पु वहम, जनविश्वास, अधविश्वास ।  
 - मत - न लोकमत, जनमत, जनता की राय । - मर्यादा - स्त्री लोकमर्यादा, लोकप्रथा, रूढि ।  
 - मान्य - वि लोकमान्य, जनता को प्रिय । - पु लोकमान्य वाल गगाघर टिळक । - रजन - न लोकरजन । - राज्य - न जनतत्र, गणतत्र । - रीत - स्त्री लोकरीति; लोकवृत्त । - लज्जा, - लाज - स्त्री जनलज्जा, लोक-लाज, लोकमर्यादा । - चाद, - पु - वार्ता - स्त्री लोकवाद, लोकवार्ता, जनश्रुति, अफवाह ।  
 - शाही - स्त्री लोकतत्र, जन-तत्र, प्रजातत्र; गणतत्र, जुम्हूरि-यत । - वि लोकतत्रीय, लोक-सत्तात्मक, जनतात्रिक, जुमहूरी ।  
 - सख्या - स्त्री जनसंख्या, आवादी । - सग्रह - पु १ लोक-सग्रह, लोककल्याण । २ मानव-सपर्क, सहयोगी या अनुयायी प्राप्त करना । - सत्ताक, - सत्तात्मक - वि लोकसत्ताक, जनतात्रिक, दे 'लोकशाही' । - साहित्य - न लोकसाहित्य, जनसाहित्य ।  
 - हित - न लोकहित, जनहित ।  
 लोकर - दे 'लोकर' ।  
 लोकल - वि [म] स्थानीय, 'लोकल' । - फड - पु स्थानीय कर, निधि । - बोर्ड - न लोकल

बोर्ड, स्थानीय मडल ।  
 लोकाग्रह - पु जनता का आग्रह, अनुरोध ।  
 लोकाचार - पु लोकाचार, लोकरीति, रिवाज, प्रथा ।  
 लोकापवाद - पु लोकापवाद, लोकनिंदा, वदनामी ।  
 लोकेषणा - लोकेषणा, सम्मान, ख्याति आदि की कामना ।  
 लोकोक्ति - स्त्री लोकोक्ति, कहावत । [असाधारण, विलक्षण ।  
 लोकोत्तर - वि लोकोत्तर, लोखड - न लोहा, लोह ।  
 - काम - न १ लोहे का काम । २ लुहारी, लुहार का काम ।  
 मु० लोखडाचे चणे खाणे - लोहे के चने चवाना, बहुत कठिन कार्य करना ।  
 लोखडी - वि १ लोहे का, लोह । २ सख्त, कठिन; कडा, मजबूत ।  
 लोचट - वि १ चीमड; लचीला । २ वेशर्म, पिछलगा, पिछलगू ।  
 लोट - पु १ रेला, प्रवाह, वाह । दे 'लोढा' । २ (धुराचा) वादल । ३ विपुलता ।  
 लोटकें - न घडिया, ठिलिया ।  
 लोटण - पु लोटन (कवूतर) ।  
 लोटणे - क्रि स १ धकेलना, ढकेलना, धक्का देना । २ (दार) भिडाना, भेडना । ३ घुमाना । ४ विताना, गुज्रारना । ५ गले के नीचे उतारना । ६ हटाना, दूर करना । ७ झाड़ू लगाना । - क्रि अ १ जमा होना, भीड लगना । २ वीतना, गुज्रारना । ३ वहना । ४ लेटना । ५ लोटना, लुढ़कना । ६ मरना ।  
 लोटागण - न १ दडवत्,

साष्टाग प्रणाम । २ लोटते, लुढ़कते हुए देवता के दर्शन के लिए जाना । मु० - घालणे - लोटना, दडवत् प्रणाम करना ।  
 लोटा - पु १. लोटा । २. मिट्टी की घडिया, ठिलिया ।  
 लोटी - स्त्री लोटी, लुटिया, छोटा लोटा ।  
 लोठ्या - वि १ धीगरा, मुस्टडा, अडवग, सडा, मोटा-ताजा । २ बुद्ध ।  
 लोड - पु गावतकिया, मसनद ।  
 लोढणा - पु, लोढणें - न १ अडगोडा (नटखट चौपायो के गले में लटकायी जाने वाली लकड़ी) । २. वाधा, रकावट, बला, झडट । ३ वेढव और मोटा गहना ।  
 लोढणें - क्रि स १ लोढना, ओटना । २ बहुत अध्ययन करना ।  
 लोण - स्त्री १ नमक, लोण । २ लोना, क्षार, नोना । मु० - उतरणे - दीठ उतारना, दीठ जलाना ।  
 लोण - न 'आट्यापाट्या' के खेल में जीत । मु० - पोहोच-विणें - परपरा से चली आयी बात को आगे ले जाना या पहुँचाना ।  
 लोणकडी, लोणकडी थाप - स्त्री गप, झूठी बात, खबर ।  
 लोणकडें - वि मक्खन को गलाकर बनाया हुआ (घी), खालिस, ताजा ।  
 लोणचें - न अचार, अथान - ना ।  
 मु० - घालणें - बिना प्रयोग किये रख छोडना, इस्तेमाल न करना ।  
 लोणांवा - पु, लोणावी - स्त्री नोनचा, आम का एक प्रकार का अचार जो उसकी फाँकी में केवल नमक लगा कर तैयार किया जाता है ।



लोणा - पु नोना, लोना, लोनी मिट्टी, सीड के कारण दीवार या जमीन में लगने वाला नमक का अण।

लोणारी - पु १ कोयलागर, कोयला बनाने और बेचने वालों की एक जाति, उम जाति का व्यक्ति। २ चूना जलाने, बनाने वाला। ३ नोनिया।

लोणी - स्त्री मक्खन, नवनीत, माखन। मु० - खाऊन ताक देणे - स्वयं मक्खन खा कर दूसरे को छाल देना, बड़ा मुनाफा स्वयं ले कर दूसरे को नाममात्र पैसा देना। - लावणे - खुशामद करना, खुसिया-बरदारी करना।

लोद्या - दे० 'लोठ्या'।

लोप - पु १ लोप, नाश, अभाव। २ लुप्त होना (अक्षर का)।

लोपणे - क्रि अ १. लुप्त होना, मिटना। २ सतम होना। ३ छिपना, गायब होना।

लोभ - पु १ लोभ, लालच, लालसा। २ कजूसी। ३ प्यार, स्नेह। ४ कृपा। मु० - सुटणे - लालच होना।

लोभनीय - वि लोभनीय, लुभाने वाला, मनोहर, आकर्षक।

लोभविणे - क्रि स ललचाना, मोहना, लुभाना, मुग्ध करना।

लोभाविष्ट, लोभी - वि १ लोभी, लालची। २ कजूस।

लोम - न पु लोम, रोगटा, दे 'रोम'।

लोमकळणे - दे 'लोवकळणे'।

लोल - वि १ लोल, चंचल, अस्थिर। २ उतावला। ३ लोभी। ४ क्षणिक। [लटकन।

लोलक - पु लोलक, लोलुप - वि १ लोलुप,

लालची, लोभी। २ अधीर, उत्सुक।

लोह - न १ लोह; लोहा। २ रक्त। ३ हथियार। - वि

लोह, लोहे का। - किट्ट - न लोहकिट्ट, लोहे का मैल, मोरचा।

- चुवक - पु लोहकात, चुवक। - भस्म - न लोहभस्म, लोहे का भस्म। - मार्ग - पु रेल्वे,

रेल की पटरी।

लोहार - पु लोहार, लुहार, लोहकार। - काम - न,

- की - स्त्री लोहारी, लुहारी।

- साळ - स्त्री लोहारखाना।

लोळ - पु लपट, आग की ली, शोला, ज्वाला।

लोळण - स्त्री लोट; लोटता, लोटने, लुडकने की क्रिया।

लोळणे - क्रि अ. १ लोटना, विस्तर पर लुडकना, करवटें बदलना। २ जमीन पर लुडकना, गिरना, घसिटना। ३ बेकार पडा रहना।

लोळविणे - क्रि स १. गिराना, पटकना, चित करना। २ लिखाडना, गंदला करना। ३ सताना, परेशान करना।

लोळा - पु १ लटकन (घटे, घडी आदि का), लोलक। २ लोदा। - गोळा - पु १. लोदा।

२ विकलाग व्यक्ति।

लोकर - दे 'लवकर'।

लौकिक - पु १. स्याति, शुहरत, कीर्ति, नाम। २ बोल-

वाला। - वि लौकिक, सासा-रिक्त, व्यावहारिक।

लौकिकाचार - पु शिष्टाचार।

लौत्य - न १. लौत्य; लालसा, लोभ, लालच। २.

चंचलता, अस्थिरता।

## व

व - मराठी वर्णमाला का उनतीसवाँ व्यंजन।

वकनाळ - स्त्री वकनाल, गर्भ-पोषण नलिका।

वग - न १ वग, रांगा। २ जस्ता। - पु वगाल। - भग - पु वगाल का विभाजन। - भस्म - न वगभस्म, रांगे का भस्म।

वगण - पु ओगन, चिकनई (गाड़ी की धुरी में दिया जाने

वाला तेल)। मु० - घालणे - ओगना।

वंगणे - क्रि स ओगना (गाड़ी की धुरी में तेल लगाना, देना)। - क्रि अ दव जाना।

वगविणे - क्रि स १ दे 'वगणे'। २ दवा देना, (मार-पीट कर) सीधा करना। ३

वसूल करना, (पैसा) लौटाने पर मजबूर करना।

वगळ, वंगळ - + वि दुरा, खराब। दे 'ओगळ'।

वचक - वि वचक, ठग; धूर्त, खल।

वचना - स्त्री वचना, छल, ठगी, प्रतारणा, धोखा।

वचित - वि १ वचित, रहित, विमुख, महरूम। २ धोखा खाया हुआ; प्रतारित।

वजार - रा, वजारी - पु

वनजारा (टांडा लादने वाला) ।

वत - प्रत्य वान्, वाला  
[ भाग्यवत = भाग्यवान् ] ।

वदणें - क्रि स १ वदन,  
प्रणाम, नमस्कार करना । २  
सत्कार, स्तुति, प्रशंसा, भक्ति  
करना । ३ आदर रखना ।

वदन - न १ वदन, वदना,  
प्रणाम, नमस्कार । २ आदर,  
सत्कार, सम्मान । ३ सेवा,  
पूजा । [ रणीय, पूज्य ।

वदनीय - वि वदनीय, आद-  
वविणें - दे 'वदणे' । [ पूज्य ।

वदित - वि वदित, पूजित,  
वद्य - वद्य, वदनीय, आदर-  
णीय, पूज्य ।

वध्य - वि १ वध्य, अनु-  
त्पादक । २ निष्फल; व्यर्थ ।

वध्या - स्त्री वध्या, वांझ ।  
- पुत्र - पु वध्यापुत्र, वध्यासुत,  
कल्पित वस्तु, असंभव वात ।  
- मँथन न अनुत्पादक, निष्फल,  
व्यर्थ परिश्रम । - सुत - दे 'वध्या-  
पुत्र' ।

वश - पु १ वश, कुल,  
परिवार, खान्दान । २ जाति ।  
३ सतान । ४ वाँस । - छेदे -  
पु वशक्षय, वश, कुल का नाश,  
अत । - ज - दे क्रम में । - पर-  
परा - स्त्री वशपरपरा, कुलपर-  
परा । - अव्य वशपरपरा से,  
वशानुगत - रूप से पुस्त दर पुस्त,  
पीढी दर पीढी । - परपरागत - वि  
वशागत, पंतूक, मौरूसी, पुस्तैनी ।  
- परपरेणें - अव्य वशानुगतरूप  
से, वशपरपरा से । - वृक्ष - पु  
वशवृक्ष, वशतालिका, कुरसीनामा ।  
- वृद्धि - स्त्री वशवृद्धि, परिवार-  
विस्तार, कुलोन्नति । - वेल - स्त्री  
वशलता ।

वशज - वि वशज, वश में  
उत्पन्न । - पु औलाद, नस्ल;  
सतान ।

वशावळ - स्त्री - स्त्री वशावली,  
वशतालिका, कुरसीनामा ।

व - अव्य [ अ ] व, जीर,  
तथा, भी ।

वई - स्त्री वाड, घेरा, झाड-  
वदी । - निवडुग - पु सेहुड,  
थूहर ।

वकट - न स्त्री [ तेलुगु  
' वकटु ' ] गिल्ली-डडे के खेल में  
एक की सख्या ।

वकिलात स्त्री [ अ ' वका-  
लत ' ] १ दूतावास, सिफारत-  
खाना । २ दे ' वकिली ' ।

वकिली - स्त्री [ अ ' वकील ' ]  
१ वकालत, वकील का काम,  
पेशा । २ पैरवी, प्रतिनिधित्व । ३  
मध्यस्थता, विचवई । मु० -  
लढविणें - कानून छांटना, किसी  
वात के पक्ष या विपक्ष में सूक्ष्म  
प्रमाण पेश करना, वाल की खाल  
निकालना ।

वकील - पु [ अ ] १ वकील,  
कानूनदाँ, विधिज्ञ । २ अभिवक्ता;  
अभिभाषक । ३ प्रतिनिधि, राज-  
दूत, राजप्रतिनिधि, सफीर ।  
- नामा - पु, - पत्र - न  
वकालतनामा, अभिभाषणपत्र ।  
वकीली - दे ' वकिली ' ।

वकूव - पु [ अ ' वुकूफ ' ]  
१ सामर्थ्य; विसात, हैसियत,  
ताकत । २. होशियारी, ज्ञान,  
अक्ल ।

वक्त - पु [ अ ' वक्त ' ]  
वक्त, समय, मौका । - शीर - वि  
नियमित, समयपालक, वक्त का  
पावद । [ वचन, वात ।

वक्तव्य - न वक्तव्य; कथन;

वक्ता - पु १ वक्ता, बोलने  
वाला, तकरीर करने वाला । २  
भाषणकला में प्रवीण ।

वक्तृत्व - न १ वक्तृता,  
तकरीर, भाषण । २ वाक्कौशल;  
वाग्मिता । - स्पर्धा - स्त्री वक्तृता-  
स्पर्धा, वक्तृत्व - प्रतियोगिता,  
व्याख्यान-प्रतियोगिता ।

वक्र - वि १ वक्र, टेढा,  
तिरछा । २ घुमावदार, चक्कर-  
दार । ३ चालवाज, वेईमान ।  
- गति - स्त्री वक्रगति, उलटी,  
टेढी चाल । - दृष्टि - स्त्री वक्र-  
दृष्टि, टेढीनिगाह, क्रोधपूर्ण  
दृष्टि, नाराजगी । मु० वक्रों येणे-  
किसी ग्रह का वक्रगति या वक्री  
होना । [ भाव, ' रिफ्रैक्शन ' ।

वक्रोभवन - न परावर्तन, वक्री-  
वक्रोक्ति - स्त्री १ वक्रोक्ति,  
काकुउक्ति (अलंकार) । २ व्यग्य,  
ताना ।

वक्ष, वक्षस्थळ - न १ वक्ष,  
वक्षस्थल, छाती, सीना, हृदय ।  
२ उरोज, स्तन, कुच ।

वखत, वखुत - पु [ अ  
' वक्त ' ] १ वक्त, समय । २  
देर । [ रखार, सरावन ।

वखर - न हँगा, पट्टेला,  
वखरणे - क्रि स हँगा  
चलाना, जुते हुए खेत को समतल  
करना ।

वखवखणें - स्त्री १ क्षुधार्तना,  
वुभुक्षा, तृप्त न होने वाली भूख,  
खाने की अत्यधिक इच्छा, पेट की  
आग । २ बडी लालसा, तृष्णा,  
लालच ।

वखवखणें - क्रि अ १ पेट में  
आग लगाना, लगातार खाने की  
इच्छा होना । २. बहुत लालच  
करना, होना ।

वखार - छी १ माल-नोदाम, गोदाम, कोठी। २ टाल। ३ भंडार। ४ वखार (अनाज रखने का घेरा)।

वग - पु [अ 'व्कअ'] १ कृपा, मिहखानी। २ परिचय, रूख, सिफारिश। ३ प्रतिष्ठा, इज्जत। [वस्तु, कहानी।

वग - पु लोकनाट्य की कथा-वगळणें कि स १ छोड़ देना, शामिल न करना। २ हटाना। ३ कतराना। ४ रख देना।

वगैरे - अव्य. [अ 'वर्गैरह'] वगैरह, इत्यादि, आदि।

वचक - पु १ घाक, दबदबा, आनक, रोव। २ डर। मु० - वसणें- वाक जमना, रोव जमना। - वसविणें - वाक जमाना, रोव, आतक जमाना।

वचकणें - क्रि अ १ डरना, दबना, घाक, रोव जमना, वँवना। २ दे 'दचकणें'।

वचन - न वचन; कही हुई बात, उक्ति, कथन। २ वाणी। ३ शास्त्रादि का वाक्य। ४ वादा, वचन, प्रतिज्ञा, इकरार। ५ वचन (व्या०)। - चिठ्ठी - छी तमम्मुक, वचनपत्र, रक्का, 'प्रोनोट', 'प्रामिसरी नोट'। - भग - पु वचन-भग। वचनाचा खरा, घड - वि बात का पक्का। मु० अर्घ्या वचनांत असणें - बहुत ही आज्ञाकारी होना।

वचपा - पु १ बदला। २ क्षतिपूर्ति, भरपाई। ३ सतुलन। मु० - काढणें - बदला लेना। - निघणें - भर पाना। [झक।

वचवच - छी वकवास, वक-वचवच - चा - अव्य. १. कचपच, कचर-पचर के साथ,

बेढगे तरीके से। २ वकझक करते हुए।

वजन - न [अ 'वज्ज'] १ वजन, भार, बोझ। २ तौल, तौलने का वाट, बटखरा। ३ वक्र-अत, महत्त्व, अधिकार, प्रतिष्ठा, इज्जत। ४ छाप, अस्तर, प्रभाव, दाव, दवाव। - दार - वि १ वजनदार, भारी, बोझ वाला। २ प्रतिष्ठित, महत्त्वयुक्त, वक-अत रखने वाला।

वजनी - वि [अ 'वज्ज'] तौल मक्की, तौल कर दिया जाने वाला।

वजा - छी [अ 'वज्जअ'] ढग, तुल्य, जैसा, मरीवा, नुमा। - अव्य अनुमार, मुता-विक्र।

वजा - छी [अ 'वज्जअ'] वजा, तफरीक, कमी; घटाव; मिनहाई, घटा, घटी, वाकी; कटौती। वि कम, घटाया हुआ, वाद किया हुआ। - वाकी - छी तफरीक, घटाव; व्यवकलन, वाकी; शेष, लेन-देन चुकता करने के लिए शेष निकालना। [ - ०करणें - शेष निकालना। ] - वट, - वाट - छी हिमाव चुकता करना, मिलान करना, मतुलन करना। मु - करणें - घटाना, काटना, वाद देना, वजा करना।

वजीर - पु [अ 'वजीर'] १ वजीर, अमात्य, प्रधान मंत्री; सचिव। २. (शतरज में) वजीर।

वज्ज - न १ वज्ज, इद्र का अस्त्र, कोई घातक अस्त्र, कुलिश, अग्नि। २ विजली। ३ हीरा। - चुडेमडित - वि पत्र में सुहा-गिन के लिए प्रयुक्त उपाधि। - टीफ-का - छी स्त्रियों के गले

का एक अलकार। - देही - वि बहुत मजबूत गरीरवाला, वज्रांग। - पात - पु १. वज्रपात, वज्र का या वज्र-सा गिरना। २ भारी विपत्ति। - प्राय - वि वज्रप्राय, ब्रहूत कठोर, मजबूत। - मुट्टि - पु वज्रमुट्टि (एक हथियार)। - लेप - पु वज्रलेप (एक फलस्तर) - वि पक्का, अटल।

वज्राघात - पु १ वज्राघात; विजली का गिरना। २ भय-कर मकट, आपत्ति।

वज्जी - छी झांवां (तलवो से मँल छुड़ाने का मिट्टी, पत्थर, घातु आदि का सावन)।

वट - पु वट, वरगद। - पूर्णिमा - छी ज्येष्ठ की पूर्णिमा, वटपूजन का दिन। - वाघूळ - न चमगादड़, चमगीदड़। - सावित्री - छी वटपूजन के व्रत की देवी।

वट - वि [अ 'ओटु'] कुल, पूरा, एकीकृत, संकलित, एकत्र, इकट्ठा। - हुकूम - पु अव्यादेश; 'आर्डिनेन्स'। [अकड।

वट - छी आन, रोव, ँठ; वटणें - क्रि अ १. भुनना (रूपयें आदि छोटे सिक्कों में बदला जाना)। २. सकरना, स्वीकार किया जाना, कबूला जाना (चेक, हुडी आदि)।

वटवट - छी १ वकवान, वकझक, वकवक, वकवाद, वेकार वात। २ झझट, झमेला।

वटवटणें - क्रि अ १. वकना; वडवडाना, वकवास करना। २. भुनभुनाना, बुडबुडाना। [वादी।

वटवट्या - वि वक्की, वक-वटवणें, वटविणें - क्रि स भुनाना; तुडवाना (नोट, चेक आदि)।

वटारणें - क्रि स तरेरना, घूरना, आँखें निकालना।

वटाव - पु. वट्टा, दस्तूरी, दलाली, मितीकाटा, हुडावन।

वठणीवर - दे 'वठणे' मे।

वठणे - क्रि अ. १. नरम पडना, मुलायम हो जाना। २ ठीक रास्ते पर आना। मु० वठणीला, वठणीवर, वठणीस आणणे - १ जेर करना, काबू में लाना। २ नरम करना, ठीक रास्ते पर लाना, सीधा करना। वठणीला, वठणीवर, वठणीस घेणे - ठीक रास्ते पर आना. सीधा होना। २ नरम पडना, काबू में आना।

वठणे - क्रि अ १ सूखना, कडा पड जाना। २ जम जाना, रसोत्पादक, प्रभावकारी होना। ३ स्पष्ट, साफ दिखाई देना। ४. सच होना, सही निकलना (शाप)। [ टुंठ।

वठलेला - वि लुज, टुंठ, वठविणें - क्रि स अभिनय करना, कर के दिखाना।

वड - पु. बरगद, दे 'वट'। मु० वडाची साल पिपळाला लावणें - १ असगत वाते करना, वेतुकी हाँकना। २ झूठ को सच और सच को झूठ वताना।

वडवानल - पु. वडवानल; वहवाग्नि।

वडस - पु. १ आँख का जाला, घुद। २ आँख का एक रोग जिसमें आँख की पुतली पर सफेद दाग पड जाता है।

वडा - पु. वडा, पकौडा (सरद की पीठी की तेल में तली हुई टिकिया)। मु० वड्याचें तेल वाग्यावर काढणें - एक का गुस्ता

दूसरे पर निकालना, ठोकर लगी पहाड की, तोडे घर की सिल।

वडार-री - पु. [क 'ओड्ड-रुव' ] घांगड (कुआँ आदि खोदने का काम करने वाली एक जाति)।

वडिलार्जित, वडिलोर्पाजित - वि पैतृक, मौखसी, वशागत।

वडी - छी वट्टी, गोली, टिकिया, कतला।

वडील - पु. १ पिता, बाप, पिताजी। २ पूर्वज, पुरखा। - वि १ उम्र में बडा, वडा-बूढा, वुजुर्ग। २ श्रेष्ठ। - की - छी १ वुजुर्गी, वडप्पन। २ परिवार का उत्तरदायित्व। - घराणें - न बडे भाई का परिवार। - घारा - वि पु.; - घारें - वि न बडा-बूढा, वुजुर्ग।

वड्ड, वड्डर - दे 'वडार'। वडें - न वदला, प्रतिशोध।

वण - पु (घाव, फोडे आदि का) दाग, घाव का चिह्न, निशान, व्रण।

वणजारा - री - दे 'वजारी'। वणवण - छी दौडधूप, भागदौड, व्यर्थ का परिश्रम।

मु० - करणें, - फिरणें - मारा - मारा फिरना, भटकना, बेकार घूमना। [ (वन की आग)।

वणवा - पु दावानल, दावाग्नि वसन - न [ अ ] १

जागीर, जमीनदारी। २ इनाम, माफी (वह जमीन जिसका लगान माफ हो)। ३. पैतृक अधिकार। - दार - वि १ इनामदार; माफीदार (जिसके पास माफी जमीन हो)। २ जागीरदार।

- वाडी - छी खेती-वाडी, पैतृक जायदाद।

वतीनें - अव्य. तरफ से, मारफत, ओर से।

वत् - अव्य वत्, नुमा (सादृश्य या समानता सूचकशब्द)।

वत्स - पु न १ वत्स, बछडा। २ वच्चा, बालक, सतान। [ प्रेम से युक्त, दयालु।

वत्सल - वि वत्सल, पुत्र-वदता - छी खबर, जन-श्रुति, किंवदन्ती, अफवाह।

वदणे - क्रि स कहना, बोलना, स्वीकार करना, वताना।

वदविणें - क्रि स बुलवाना, कहलवाना, बोलने में प्रवृत्त करना, उच्चारण कराना।

वदन - न वदन, मुख, मुँह चेहरा। [ उदार। २ वाग्मी।

वदान्य - वि १ वदान्य; वद्य - पु वद्य, वद्यपक्ष, कृष्णपक्ष। - अव्य वि वदि, कृष्ण पक्ष में, कृष्णा (चतुर्थी आदि)।

वध - पु. वध, मार डालना, हत्या, कत्ल। - स्तभ - पु. टिकठी, फाँसी का तख्ता, प्राण-दड देने का खभा।

वधणें \* - क्रि स वध करना, मार डालना, कत्ल करना।

वधु, वधू - छी १. वधू, दुलहिन, कन्या, बहू। २ पत्नी। - चा गृहप्रवेश - पु. वधूगृहप्रवेश (स्त्री के पति के घर में प्रवेश करने की एक विधि)। - पक्ष - पु वधूपक्ष, कन्यापक्ष के लोग, घराती। - वर - पु. बहू, - रें - न बहू दूल्हा-दुल-हिन, कन्यावर।

वध्य - वि वध्य, मार डालने योग्य।

वन - न १ वन, जगल,

वन। २ वाग, उपवन। ३ वीराना। - गाय - स्त्री जगली गाय, सुरा गाय। - चर - पु वनचर, जगली आदमी। २ जगली पशु। ३ अग्नेज। - वि वनचर, जगलो में घूमने वाला। - चराई - स्त्री पशुओं को सरकारी भूमि में चराने का कर। - देवता - स्त्री वनदेवी। - भोजन - न वनभोजन, वनभोज, 'पिकनिक'। - राज - पु वनराज, निह। - वाम - पु १ वनवास, वन में रहना। २ आपत्ति, मकट का काल, बुरे दिन। [ मु० - वासाला जाणें - वनवाम लेना। - वासाला पाठविणें - वनवाम देना ]। - विहार - पु जगलो में मजे से भटकना, खेलना - कूदना।

वन्सें - दे 'वन्सें'।

वनस्पति - स्त्री वनस्पति, क्षुप, वूटी। - शास्त्र - न वनस्पतिशास्त्र, वनस्पतिविज्ञान। - शास्त्रज्ञ - पु वनस्पतिज्ञ।

वत्समोर - अव्य [अ] फिरमे, एक बार और। [ ननदजी।

वन्सें - स्त्री बहु ननदजी, वन्हि, वन्ही - पु. वन्ही; अग्नि।

वपन - न १ वपन, केश-मुडन, हजामत। २ विधवा का केशमुडन।

वपु - पु १ वपु, शरीर, देह। २ त्वचा, चमडी।

वय - न १ वय, उम्र, अवस्था; आयु। २ जवानी। ३ बुढापा। वयात आलेला - वि पु वय प्राप्त, वालिग। प्राप्तवयस्क, सयाना। वयांत आलेली - वि स्त्री सयानी, वय प्राप्ता। मु० वयात

येणें - १. सयाना (सयानी) होना, वालिग, जवान होना। २. विवाहयोग्य होना।

वयस्क, वयस्कर, वयस्य - वि १ प्रौढ़, बडी उम्रका। २ वूढा। ३ वयस्क, सयाना; वालिग।

वयात - दे 'वय' में।

वयोमर्षादा - स्त्री. आयु नोमा, वय-मीमा। [ वूढा, अनुभवी। वयोवृद्ध - वि वयोवृद्ध, वरड - डी - स्त्री, वरडा - पु १ मुंटेरे (छन के चारो ओर की मेंट जैमी दीवार)। २ छेन की मेंड। ३ कमरकोटा, दमदमा। ४ जगत (गुण का चवूतरा)।

वरडा - दे 'व्हराडा'।

वर - पु १ वर, आशीर्वाद, वरदान। २ दूल्हा, वर। - वि वर, श्रेष्ठ। - घोडा - पु वर-यागा, वरात। - दक्षिणा - स्त्री वरदक्षिणा, दहेज। - दान - पु वरदान, किसीको इष्ट वस्तु देना, किसीकी कृपा से प्राप्त वस्तु। - घावा - पु विवाह मे दूल्हे को लिवा लाने के लिए जाने वाला कन्या का भाई। - निश्चय - पु वरनिश्चय, वर, पति का चुनाव। - पक्ष - पु वरपक्ष, वराती। - माई - य - स्त्री वर की माता। - योजना - स्त्री कन्या के लिए वर की नियुक्ति, चुनाव। - सशोधन - न कन्या के लिए वरकी खोज। मु० - पाहणें - कन्या के लिए वर खोजना।

वर - अव्य. १. ऊपर, पर। २ तक, पर्यंत। ३ फिर, बाद मे, पर। ४ अधिक। ५ अलावा, सिवाय। ६ के कारण, की वजह

ने। - कडी - स्त्री प्रभुत्व, श्रेष्ठता; बरनरी, उच्चता। - करणी - वि वास्तु, ऊपरी, दिवावटी। - अव्य. ऊपरी तौर पर, बाह्यत। - कानी - वि १ दिवावटी, ऊपर में मुन्तर दिवाट देने वाला। २ दे० 'वर-करणी'। - काम - न गहायन काम। - कोट - पु ओवरकोट, लमादा। - सच - पु १ फुटकर व्यय, छन। २ अनिश्चित व्यय। - माल - लों - वि अव्य. ऊपर - नीचे, ऊबठ - जाबठ। - चड - वि बडा-चडा; बड-चटकर, श्रेष्ठ, नयाट। [ मु० - ठरणें - बट जाना, मात करना, मवकन ले जाना, तरजीह रखना ]। - ०पणा - पु १ श्रेष्ठता, तरजीह। २ धृष्टता। - चप्पा - पु प्रभुत्व; प्राबल्य, प्रयानता, जोर, फौकियत। - चा, - चेवर, - घ्यावर, - ताळा - दे क्रम में। - पागो - अव्य वि ऊपरी तौर पर, दिवावटी, दिवावे के लिए। - वर - अव्य ऊपरी तौर पर, सरसरी निगाह से, माटे तौर पर। मु० - डोके फाडणें - १ मिर उठाना। २ उन्नति करना; आगे बटना। - तौड करणें - मिर उठाना, धृष्ट, निर्लज्ज बनना। - तौड फाडणे - मिर उठाना; फुरमत, अवकाश पाना।

वरई - दे 'वरी'।

वरकड - वि अव्य, शेष, फुटकर, बचा हुआ।

वरकल - पु [क 'ओरेकल्लु'] कसौटी (पत्यर)।

वरकस - वि १ हलका, मोटा (अनाज)। २ (वह

भूमि) जिसमें मोटा अन्न होता है।

वरख - दे 'वर्ख'।

वरचा - वि १ ऊपरी, बाहरी। २ बजाय, स्थानापन्न।

वरचें - वि न दे 'वरचा'।  
- दूध - न वचचो को दिया जान वाला गाय, भैंस आदि का दूध, डिवे का दूध।

वरचेवर, वरच्यावर - अव्य १ ऊपर ही ऊपर; अधर मे; बीच में। २ बार-बार; फिर-फिर, पुन पुन, बारवार।

वरण - न (गाढी या पतली) दाल, पकायी हुई दाल। - भात - पु. १ दाल-भात, साधारण भोजन। २. असगत पति-पत्नी।

वरण - न १ वरण, विवाह, पति का चुनाव। २ चुनाव करना; चुनाव, पसद।

वरणी - दे 'वर्णी'।

वरणे - क्रि स १ वरण करना, व्याहना, पति का चुनाव करना। २. नियुक्त करना। ३ पसद करना। ४ लेना, स्वीकार करना।

वरता - दे 'वरती'।

वरतावळा, वरताळा - पु. १ घलुआ, घाल, घाता (ग्राहक को तौल या गिनती के ऊपर दी जानेवाली चीज)। २ बट्टा।

वरती, वरती, वरतीकडे - अव्य. १ ऊपर। २ पश्चिम मे। ३ अलावा, सिवाय, और। - वि श्रेष्ठ, उच्च।

वरदळ - दे 'वर्दळ'।

वरपत्र - न कुर्की का हुक्म। २ 'वारट'।

वरमणें - क्रि अ १ शर-माना, लज्जित होना, क्षेपना,

शरमिदा होना। २ दब जाना।

वरला - दे 'वरचा'।

वरवटा - पु. बट्टा, लोढा। मु० - फिरविणें - बेलन फेरना, बराबर करना, मटियामेट करना, नाश करना। [डा-डी]।

वरवड-डा-डो - दे 'वरड-वरस - न दे 'वर्ष'।

वरळी - छी मरोडी।

वराड - दे 'वन्हाड'।

वरात - छी १ वरात, वर-यात्रा, जनेत। २ विवाह के बाद वर-कन्या को जुलूस के साथ दूल्हे के घर ले जाने का समारोह। मु० - काढणे - १ वरात का जुलूस निकालना। २ सार्व-जनिक रूप से अप्रतिष्ठा करना, 'घिड काढणे'। कहा० वराती-मागून घोडें - किसी बात के हो जाने के बाद उससे सवधित सामग्री का पहुँच जाना।

वरात - छी [अ 'वरात']।

१. आदेश-पत्र, हुक्मनाम। २ हुडी, चेक। कहा० वाऱ्यावर वरात आणि दर्यावर हवाला - लापरवाही का और असगत काम, बेवुनियाद बात। [उच्च, ऊपरी, श्रेष्ठ।

वरिष्ठ - वि वरिष्ठ, बडा, वरी, वरी - दे 'वर'।

वरी - छी तिन्नी, नीवार (एक मोटा अन्न)। [ 'वर्ष'।

वरील, वरीस - दे 'वरचा', वरळी, वरोळी - छी १ दे 'रोवळी'। २ मरोडी। ३ खेतकी मेंड। [ऊपरी तौर पर।

वरून - अ ऊपर से, बाह्यत, वर्क, वर्ख - पु. [अ 'वरक'] १ वरक, सोने-चाँदी का पत्तर। २ वरक, कटा हुआ कागज। ३ पुस्तक का पन्ना।

वर्ग - पु १ वर्ग, श्रेणी, दल, समूह। २ रक्षा, दर्जा, अध्यापन-कक्ष, पाठशाला मे पढाई का कमरा। ३ एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का समूह (व्या०)। ४. समान अको का घात (ग०)। ५ तवादला, तब-दिली, स्थानांतरण। - मूळ - न वर्गमूल। मु० - करणे - १ तब-दील करना, तवादला करना, स्थानांतरित करना। २ दूसरे के अधिकार मे देना, सौंपना।

वर्गणी - छी चदा, सदस्यता का शुल्क, पत्र-पत्रिका का वार्षिक, छमाही आदि मूल्य। - वार - वि ग्राहक, सदस्य।

वर्गीकरण - न वर्गीकरण; श्रेणीकरण, श्रेणीविभाजन।

वर्गीकृत - वि परिगणित, अनुसूचित।

वर्चस्व - न १ प्रभुत्व, अधिकार, बडाई; प्रभुसत्ता। २. तेज, प्रभा, सामर्थ्य।

वर्ज - दे 'वर्ज्य'।

वर्जिणें - क्रि स १ वर्जन करना, छोड देना, त्यागना। २. निषेध करना, मना करना।

वर्जित - वि वर्जित, त्यक्त, निषिद्ध, छोडा हुआ।

वर्ज्य - वि १ वर्ज्य, अग्राह्य, निषिद्ध। २ दे 'वर्जित'।

वर्ण - पु. १ वर्ण, रंग। २ जाति। ३. अक्षर; शब्द, स्वर। ४ अज्ञात राशि, एक की सख्या, गुणाक (ग०)। - क्रम - पु. अक्षरो का क्रम। - चतुष्टय - न चातुर्वर्ण्य। - माला - छी वर्णमाला, स्वर-व्यजनसहित सभी अक्षर। - विपर्यय, - विपर्यास, -व्यत्यय - पु वर्णविपर्यय, शब्द के

वर्णों का उलट-फेर होना ।  
—व्यवस्था — स्त्री वर्णव्यवस्था,  
वर्ण-विभाग । — सकर — पु १  
वर्णसकर, दोगली सतान ।  
२ धर्मनाश । [ वताना ।

वर्णणे — क्ति स वर्णन करना,  
वर्णन — न वर्णन; वयान,  
विक्र, विवरण, कोई बात व्योरे-  
वार कहना । [ विवरणात्मक ।

वर्णनात्मक — वि वर्णनात्मक,  
वर्णनीय — वि १ वर्णनीय,  
वर्णन के योग्य । २ प्रशस्तनीय ।

वर्णित, वर्णलेला — वि  
वर्णित, कथित, वयान किया हुआ ।

वर्णा—स्त्री सुविधा, नियुक्ति;  
सिफारिश । मु० — लागणे —  
सुविधा हो जाना, नौकरी आदि  
लग जाना । — लावणे — सुविधा  
कर देना; नौकरी दिलाना,  
नियुक्ति करना ।

वर्तणूक — स्त्री १ वरताव,  
आचरण; व्यवहार, चाल-चलन;  
चरित्र; शील । २ जीवन,  
जीविका ।

वर्तणें\* — क्ति अ १ होना,  
घटित होना । २ आचरण करना ।  
३. रहना ।

वर्तन — न दे 'वर्तणूक' ।

वर्तमान — न १ समाचार;  
सवाद; वृत्तांत । २ वस्तुस्थिति ।  
— वि वर्तमान, चालू, हाल का;  
विद्यमान, मौजूदा । — काळ — पु  
वर्तमान काल, जमानाए हाल  
(व्या०) — पत्र — न समाचारपत्र,  
अखबार । — भविष्य — पु आसन्न  
भविष्य (व्या०) । — भूत — पु  
आसन्न भूत (व्या०) ।

वर्तविणें — क्ति स. १ गणित  
से निश्चित करना । २ भविष्य-  
कथन करना; वताना ।

वर्तावळा, वर्ताळा — दे 'वर-  
तावळा' ।

वर्ती — वि वर्ती, वरतने वाला,  
स्थित, रहने वाला, करने वाला ।

वर्तुळ — न वर्तुल, वृत्त, वेरा,  
हलक़ा । — वि वर्तुल, गोल,  
वृत्ताकार ।

वर्तुळाकार, वर्तुळाकृति — वि  
गोल, वर्तुलाकार, वर्तुलाकृति,  
वृत्ताकार ।

वर्दळ — स्त्री १ भीड़ । २  
आमदरफ्त । ३ कष्ट; तकलीफ ।  
४. झगडा । मु० वर्दळीवर येणें —  
लडने पर उतार होना, तू — तू  
मैं — मैं करना ।

वर्दों — स्त्री १ सूचना, खबर,  
इत्तला । २ नियत कार्य । [वाला ।

वर्धक — वि वर्धक, वटाने  
वर्धमान — वि. वर्धमान,  
वर्द्धमान, बढ़ना हुआ, वृद्धिशील ।  
— गति — स्त्री त्वरित गति,  
'ऐकमेलेरेटेड मोशन' ।

वर्धापन — न वर्धापन, वर्द्धा-  
पन, जन्मदिनोत्सव, जयन्ती ।  
वर्धिष्णु — वि वर्धिष्णु वर्द्धिष्णु,  
वृद्धिशील ।

वर्म — न १ मर्म, रहस्य ।  
२ शरीर का अत्यंत नाजुक भाग,  
जीवनस्थान । ३ वर्म; वस्त्र,  
कवच । ४ खूबी, वारीकी । — पु  
दोष, नुकन, ऐव ।

वर्मी — वि १ मर्मभेदी,  
अतिदुःखद । २. मर्मज्ञ, मर्मी ।

वर्ष — न वर्ष, साल, वरस ।  
— प्रतिपदा — स्त्री चैत्र की शुक्ला  
प्रतिपदा । — श्राद्ध — न वरसी ।

वर्षणें — क्ति अ वरसना ।  
— क्ति स वरसाना ।

वर्षानुवर्षें, वर्षानुवर्षें — अव्य.  
१. वरसी तक; वरसों से । २.

प्रतिवर्ष, हरमाल । [वृष्टि ।

वर्षाव — पु वर्षा; वीछार,  
वर्षासन — न १. वर्षाशन  
(वर्षभर के भोजन के रूप में दिया  
जानेवाला अन्नदान) । २ सालाना,  
माली (भृति या वृत्ति जो माल में  
एक बार दी जाय) ।

वर्णाड — न वरात; वराती  
(वरात में आये हुए लोग) ।

वर्णाड — पु विदर्भ, वरार ।  
वर्णाडणी, वर्णाडिणी — स्त्री  
बहु वरात में आयी हुई स्त्रियाँ ।  
वर्णाडी — वि १ वराती ।  
२ विदर्भ का ।

वलंदेज — पु [अं.] हॉलैंडवासी ।  
वल्य — न. १ वलय; परिधि;  
घेरा । २. कंकण, अंगूठी, छल्ला ।  
वलाटी — ठी — स्त्री अरब सागर  
के किनारे से लेकर महाद्वि की  
तलहटी तक फैली हुई भूमि ।

वल्गना — स्त्री शेन्नी, डींग,  
बकवास, बडा बोल । मु० — करणें—  
डींग मारना; हाँकना, शेन्नी  
वधारना, बढ़-बढ़ कर, बड़ी-बड़ी  
बाते करना, दून की लेना ।

वल्लद — पु [अ 'वलद' ]  
(का) वेटा (पिता के नामसे  
पहले आने वाला शब्द) । [ रामा  
वल्लद तुका = तुका का वेटा  
रामा ] ।

वल्लभ — पु १ वल्लभ, पति ।  
२ यार, जार । — वि प्रिय;  
प्यारा ।

वल्लमा — स्त्री १ वल्लभा,  
पत्नी । २. प्रेयसी; प्रियतमा ।  
३ रखेली ।

वल्ली — स्त्री वल्ली, लता ।  
वल्ली — पु स्त्री [अ 'वली' ]  
घनचक्कर; विचित्र, अजीब, सनकी  
व्यक्ति, अवपगला ।

वल्हविणें - क्रि स खेना, नाव चलाना, डाँड मारना। [डाँड।

वल्हें - न चप्पू, नाव खेने का वश - वि वश, अधीन, आज्ञाकारी, तात्रे, वशवर्ती। - अव्य वश मे, वस मे। मु० - फरुन घेणे - वश मे लाना, वश मे, वशीभूत कर लेना, मिला लेना। - होणे - वशमे हो जाना, पक्ष मे, अनुकूल होना, मिल जाना।

वशात् - अव्य अधीनता के कारण, प्रभाव से, से, अनुसार, वश मे होने से।

वशिंड - न १ ककुद, डिल्ला (वैल के कधे पर का कूबड)। २ कोहान (ऊँट का)।

वशिला - पु [अ 'वसील'] १ सई-सिफारिश, रसूख। २ वसीला, सवध सहारा। ३. बिचौलिया, मध्यस्थ। वशिल्याचें तट्टू - न. सिफारिशी टट्टू।

वशीकरण - न. वशीकरण; मन्त्रादि के प्रयोग से किसीको वशीभूत करना। [गुस्से के साथ।

वसकन - अव्य झल्ला कर, वसत - पु १ वसत, वसत, वहार (ऋतु)। २ वसत (एक राग)। - पचमी - स्त्री वसत पचमी (माघ शुक्ला पचमी)। - पूजा - स्त्री वसत ऋतु मे की जाने वाली ब्राह्मण - पूजा तथा वेदपाठ।

वसणें - क्रि अ १ वसना, आवाद होना। २ रहना।

वसति - स्त्री १ वसति, वास। २ वस्ती, आवादी। - गृह - न निवास-स्थान, छात्रावास।

वसती - स्त्री वस्ती, दे. 'वसति'।

वसन - न १ वसन, वस्त्र, कपडा। २ मकान, घर।

वसला - पु [अ. 'वसील'] १ भूमि का टुकडा, 'प्लॉट'। २ खेत का हिस्सा।

वसवटा - पु निवास, आवादी। वसवस-सा - अव्य झल्ला कर, गुर्ग कर।

वसविणे - क्रि स १. वसाना, आवाद कराना। २ बनाना। ३ रखना। [ (स्त्रि०) ]।

वसा - पु धार्मिक व्रत, नियम वसा - स्त्री १ वसा, मेद, चरबी। २ भेजा।

वसाहत - स्त्री १ उपनिवेश, नीआवादी। २ वस्ती। वसाहतीचें स्वराज्य - न औपनिवेशिक सरकार। [ पृथ्वी ]।

वसुंधरा - स्त्री वसुंधरा, वसु - पु १ वसु, आठ देवताओ का एक वर्ग, कुबेर। २ साँड। - न धन, सपत्ति। - वि आठ। - बारस - पु आश्विन (उत्तर भारत मे कार्तिक) की कृष्णा द्वादशी, जिम दिन एक ही राग की गाय और वछडे की पूजा की जाती है। [ औजार ]।

वसुला - पु वसूला (बढई का वसुली - स्त्री [अ 'वसूली'] वसूल; वसूली, प्राप्ति, उगाही।

वसूल - पु [अ 'वसूल'] १ वसूल; प्राप्ति, उगाही। २ लगान, कर। ३ आय, आमदनी। मु० - करणे - वसूल करना, उगाहना।

वस्त - + स्त्री वस्तु, चीज। वस्तरा - पु [फा 'उस्तुर'] उस्तुरा, बाल मूँडने का छुरा।

वस्ताद - पु [फा 'उस्ताद'] १ उस्ताद, गुरु। २ मल्लो का

शिक्षक। ३. संगीत - शिक्षक। - वि १ उस्ताद, घूर्त, चालाक, चट, घुटा हुआ, काँइयाँ, पक्का] प्रवीण, कुशल, निपुण। - गिरी - स्त्री १ उस्तादी, गुरुआई। २ घूर्तता, चालाकी।

वस्तादी - वि [दे 'वस्ताद'] गुरु से प्राप्त (विद्या आदि)। स्त्री दे 'वस्तादगिरी'। [ २ पिचकारी (एनीमा) ]।

वस्ति - स्त्री १ वस्ति, पेटू। वस्ती - स्त्री १ वस्ती, आवादी। २. जनसख्या। ३ निवास, बसेरा। मु० वस्तीस राहाणें - निवास करना, बसेरा करना, लेना, रात मे टिकना।

वस्तु - स्त्री १ वस्तु, चीज, पदार्थ। २ वात। ३ काम। ४ नाटक की कहानी, घटना, कथा-वस्तु। - कथन - न सत्यकथन, यथार्थ कथन, सच्ची वात। - त - दे क्रम मे। - जात - न सभी वस्तुएँ। - पाठ - पु आदर्श पाठ; प्रायोगिक पाठ। - मात्र - न सभी वस्तुएँ, प्रत्येक वस्तु। - सग्रहालय - न अजायवघर, सग्रहालय। - स्थिति - स्त्री वस्तु-स्थिति, असलीयत, वास्तविक स्थिति, हकीकत।

वस्तुत - अव्य वस्तुतः, असल मे, वास्तव में, दरअसल।

वस्त्र - न १ वस्त्र, कपडा, पोशाक। २ खिलअत। - गाळ - वि कपडछन, महीन, वस्त्रपूत, कपडे से छाना हुआ। - परिवान - न कपडा पहनना। - प्रावरण - न. कपडा-लत्ता। - हरण - न १ पहना हुआ कपडा उतारना, छीनना। २ किसीकी असलियत को जाहिर करना, परदाफाश करना।



मु० - आड करणें - किसी तरह कपडा लपेट लेना । वस्त्रें देणें - वजारत, दीवानी आदि के अधि-कार प्रदान करना ।

वस्त्रा - दे 'वस्तरा' ।

वहाण - छी चप्पल, जूती ।  
कहा० - पायींची वहाण पायीं वरी - पांव की जूती पांव में ही शोभा देती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित स्थान पर ही रहना या रखना चाहिए ।

वहाणें - दे 'वाहणे',  
'वाहाणे' । [ भौजाई ।

वहिनी - छी भामी;  
वहिमी - वि [ दे 'वहीम' ]  
सदेहुयुक्त, सशयित, जिसके बारे में शक हो ।

वहिला - वि १ पहला । २ अलग, विशिष्ट । - अव्य १ शीघ्र, जल्द । २ पहले ।

वहिवाट - छी १ दस्तूर, परिपाटी; रिवाज, प्रथा । २ प्रवध । ३. उपयोग, व्यवहार, प्रयोग, इस्तेमाल । - दार - वि १ प्रवधक, व्यवस्थापक । २ प्रतिनिधि, कारिदा । - हक्क - पु. परपराधिकार ।

वहिवाटणें - क्रि अ १ व्यवहार होना । २ आदत पडना; परचना । ३ निभना, चलना । - क्रि स १. प्रवध चलाना । २ प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल करना, उपयोग करना ।

वही - छी १ वही; 'कापी', 'रजिस्टर' । २ दे 'वर्ड' ।

वहीत - वि खेती की (भूमि); जोत की (जमीन), जिममें काश्त की गयी हो ।

वहीम - पु. [ अ 'वहम' ]  
१ वहम, शक, सदेह । २ भ्रम,

भ्राति, भ्रममूलक, गलत खयाल ।

वळ - पु. १ साँट (छडी की चोट का दाग) । २ गाँठ (वगल आदि में निकलने वाली); गिलटी । ३ बल, ऐंठन; मरोड ।

वळकटी - छी १ लपेटा हुआ विस्तर, दिछौना । २ लपेट; लपेटन, लपेटा ।

वळचण - छी ओलती, जोरी (छप्पर का छोर जहाँ से वर्षा का पानी जमीन पर गिरता है, इस छोर में दीवार तक का भाग) । कहा० वळचणीचें पाणी आड्याला जात नाहीं - ओलती का पानी मुँडेर तक नहीं जाता, क्षुद्र व्यक्ति बहुत ऊँचा नहीं उठ सकता ।

वळण - न १ मोड, घुमाव, नुक्कड । २ ढग, शैली, प्रणाली । ३ शिक्षा, अनुशासन । ४ झुकाव, रजहान । ५ सवव, व्यवहार । ६ आदत, अभ्यास । - दार - वि १ सुडील, सुघड, मुदर । २ अनुशासनवद्ध । मु० - वाघणें - हेल्मेल, मेलजोल बढ़ाना । - लागणें - रूप, रख लेना, रख बदलना, पलटा खाना । - लावणें - १ शिक्षा देना, अनुशासन सिखाना । २ मोडना, पलटना, रूप देना । वळणावर जाणें - (के) अनुमार, ढग पर चलना, (का) अनुकरण करना ।

वळणे - क्रि अ १ घूमना, मुडना । २ झुकना, पलटना । ३ सुघड, सुदर, सुडील बनना (अक्षर) । ४ अनुकूल होना, वगमे होना, मान जाना । ५ करवट लेना । - क्रि स १ वटना (रस्ती) । २ बनाना (लड्डू) । ३ चराना (पशुओं

को) । ४ दे 'वळविणें' ।

वळता-ती-तें - वि लीटाया हुआ, घटाया हुआ । मु० - करणे - वाद करना, घटाना, वाद दे कर चुकता करना ।

वळवळ - छी १ कुलबुल, कुलबुलाहट, कीडो का विल-विलाना । २. वेचैनी; चुलबुल, चचलता, करवटें बदलना । ३. चुलचुलाहट, चुलचुली (मुजली) । ४ झगडा, बखेडा ।

वळवळणें - क्रि अ २. कुल-बुलाना; चुलबुलाना, रेंगना । २ चुलचुलाना, चुल, खुजली उठना । ३. (वच्चो का) नटखटी करना ।

वळवाचा पाऊस - पु. १ दांगडा, पूरवीवर्षा, कालवैशाखी, गरमियों में आँवी-झक्कड के साथ अचानक होने वाली वर्षा । २. सनकी, झक्की आदमी ।

वळविणे - क्रि स १. मोडना, घुमाना, फेरना । २ अनुकूल बनाना, राजी करना । ३ घोटना, घुटवाना, मस्क, अभ्यास करना (लिखने का) ।

वळसा - पु. १ चक्कर, घेरा, परिक्रमा । २ मोड, घुमाव । ३ वधन । ४ गाँठ । ५. (गुटी का) एक फेरा, घूर्णन, एक दौर ।

वळी - छी १ सिकुडन; चुनट, सिलवट । २ लपेट; लपेटा । ३ दे 'ओळ' ।

वळीव - पु. दे 'वळवाचा पाऊस' । - वि बटा हुआ, मज-वूत ।

वळू - पु. साँड, वरदा, वरधा । मु० - दाखविणें - जोडा खिलाना, वरदाना; गाभिन करना ।

वळें - न छल्ला (अंगूठी) ।

२ हलका, घेरा । ३ नारियल का आधा भाग ।

बळेसर - पु गजरा ।

वाक, वाकडा, वांकडें, वाकणें, वांकविणे, वाकीं, वाकुली, वाकें - दे 'वाक', 'वाकडा', 'वाकडें', 'वाकणें', 'वाकविणें', 'वाकी', 'वाकुली', 'वाके' ।

वाग - पु १ दाग । २ मुंहासा । [ भटा, भटा ।

वागें - न वैगन, वैगन, वाचणे - क्रि अ १ वचना, जीवित रहना । २ शेष रहना । ३ निभना । ४ वीमारी से अच्छा होना, खतरे से बाहर निकलना ।

वाचून - अव्य विना, सिवाय, विना, वगैर, छोड कर, सिवा ।

वाच्छनीय, वाच्छा, वाच्छिणें, वाच्छित - दे 'वाछनीय', 'वाछा', 'वाछिणें', 'वाछित' ।

वाछनीय - वि वाछनीय, चाहने योग्य, अच्छा ।

वाछा - स्त्री वाछा, इच्छा, ख्वाहिश, चाह । [ चाहना ।

वाछिणे - क्रि स इच्छा करना, वाछित - वि वाछित, इच्छित, चाहा हुआ । - न वाछित, इच्छा, चाह ।

वाक्ष - स्त्री १ वांक्ष, वध्या स्त्री । २ (गाय, म्हैस) ठठी, ठाँठ । - वि निफल, निरर्थक, व्यर्थ । - पण - न, - पणा - पु वांक्षपन, वांक्षपना, वध्यत्व ।

वांटचा - अव्य बदले, एवज में ।

वाटणी - स्त्री १. वँटवारा, विभजन, तकसीम । २. वाँट (ताश आदि के पत्तो का वाँटा जाना) । ३ हिस्सा, वखरा; वाँटा । ४. वँटाई, वितरण ।

वाटणें - क्रि स १ वाँटना, वितरण करना, बहुतो को थोडा-थोडा देना । २ हिस्से करना, तकसीम करना, विभाजन करना, अलग करना ।

वाटप - न दे 'वाटणी' ।

वाटा - पु हिस्सा, अंश, भाग । मु० - उचलणे - १ हाथ बँटाना । २ भाग लेना, सम्मिलित होना, हिस्सा लेना, शामिल होना ।

वाटेकरी, वाटेदार - पु हिस्सेदार, साझी, भागी ।

वाड - वि शरारती, नटखट । वाति-तो - स्त्री कै, मतली, उलटी, वमन ।

वादर - दे 'वानर' ।

वाधा - पु, वाधें - न बाधा, आपत्ति, झगडा, झमेला; झझट ।

वाव - स्त्री पु मरोड, ऐंठन, वायगोला । - स्त्री एक प्रकार की मछली ।

वाया - अव्य यर्थ, बेकार, निकम्मा, फिजूल । मु० - घालविणें - जाने देना, बरवाद करना । - जाणें - बरवाद होना ।

वांव - दे 'वाव' ।

वाशिक - वि वशसबधी, कुल का, खानदान का । [ 'वासा' ।

वासणे, वासा - दे 'वासणें', वा - अव्य १ वा, या, अथवा । २ बाह, वाह वाह, क्या कहना है, वाह जी ।

वाइच - + वि अव्य थोडा, जर-सा । [ मे ।

वाइट, वाइटावर - दे 'वाईट' वाई - स्त्री वाई, वायु, वात-व्याधि ।

वाईट - वि १ बुरा, खराब; घटिया । २ अशुभ, अमगल,

अनिष्ट । ३ अनुचित । ४ अयोग्य । - पणा - पु १ बुराई, खराबी । २ दोष, इलजाम । - साईट - वि १ बुरा, खराब । २ गदा, गँदला । मु० - करणें - नाश, अहित करना, हानि पहुँचाना । वाइटावर असणें - बुरा चाहना, घात मे रहना । [भाग ।

वाईल - पु स्त्री चूरहे का एक वाईसर, वाउगा-गें, वाक - दे 'वायसर', 'वावगा-गें', 'वाख' ।

वाक - पु १ वाँक, टेढापन, वक्रता । २ दोष, त्रुटि । ३ झुकाव, रुजहान । ४ द्वेष, नफरत ।

वाकडमान्या - वि १ जिसकी गर्दन तिरछी हो । २ चालाक, बदमाश ।

वाकडशिगी - वि स्त्री जिसके सींग टेढे, तिरछे हो ।

वाकडा - वि १ टेढा, वक्र, झुका हुआ, वाँका । २ कुटिल, प्रतिकूल, उद्द । ३ तिरछा, आडा । दे 'वाकडी', 'वाकडे' । - डोळा - पु टेढी आँख, बुरी दृष्टि । [ मु० - ० करणे - टेढी आँख से देखना, अवज्ञा करना ] । - तिफडा - वि टेढा-मेढा । - भांग - पु तिरछी माँग । - मार्ग - पु - कुमार्ग, बुरा मार्ग, टेढा रास्ता ।

वाकडी - वि स्त्री टेढी, वाँकी, तिरछी । - दृष्टि, - नजर - स्त्री दे 'वाकडा डोळा' । - वाट - स्त्री १ विपथ, गलत रास्ता; बुरा मार्ग । २ दूर का, अपरिचित मार्ग । [ मु० - ० करणे - विशेष रूप से, जानबूझ कर जाना ] मु० - मान करून पाहाणें - टेढी आँख करना, टेढी आँख से देखना, आँख उठा-

कर देखना, गरदन उठाना ।

वाकडें - न वैर, शत्रुता, दुश्मनी, अनवन । - वि १ टेढा, वांका । २ प्रतिकूल । ३ अनुचित, अयोग्य । - पणा - पु १ टेढापन । २ शत्रुता । - पाऊल - न दुराचार, व्यभिचार । मु० - करणे - वाल वांका करना, हानि पहुँचाना । वाकड्यात शिरणें - जानवूझ कर विरोध करना, झगडा मोल लेना ।

वाकण - न घुमाव, मोड, नक्कड ।

वाकणे - क्रि अ १ झुकना, नवना, नम्र होना । २ टेढा होना, लटकना, मुडना; नीचा होना । ३ दबना, हार या छुटाई स्वीकार करना ।

वाकनीस - पु [ अ 'वाकिय' + फा 'नवीस' ] वाक्कि-वानवीस, सवादकार, वृत्तलेखक ।

वाकवगार - वि [ अ फा 'वाक्किफेकार' ] माहिर, निपुण; प्रवीण, जानकार ।

वाकवगारी - स्त्री [ दे 'वाकवगार' ] जानकारी; प्रवीणता, होशियारी ।

वाकवणे, वाकविणें, - क्रि स १ झुकाना, नवाना । २ टेढा करना, मोडना । ३ हराना, अप्रतिष्ठा करना ।

वाकस - पु वसूला (औजार) ।

वाकमणें - क्रि स वसूले से छीलना ।

वाकळ - स्त्री १ गुदडी, कथा । २ चीथडा, फटा-पुराना कपडा । ३ वूडी, गदी स्त्री ।

वाकी - वांका, वाजूवद, भुजवद ( गहना ) ।

वाकुली - स्त्री विचकाना, मुंह बनाना, । मु० वाकुल्या दाखविणें -

मुंह चिढ़ाना मुंह बनाना, विचकाना, भडकाना ।

वाकेरी - स्त्री एक औपधीय क्षुप । - चे भाते - न इस वनीपधि की जड ।

वाक् - स्त्री वाक्; वाणी, शब्द, वाक्य; कथन । - चातुर्य - न वाक्पटुता, भाषण - पटुता; वाक्-पाटव । - चापल्य - न १ वाक्-पाटव, धारावाही वक्तृता । २ वक्वास, वक्वक । - पाडित्य - न वाक्-पाटव, बोलने में चतुराई । - प्रचार - पु मुहावरा । दे० 'वाग्', 'वाङ्' ।

वाक्य - न १ वाक्य, जुमला । २ कथन; उक्ति । - पृथक्करण - न वाक्य विश्लेषण ।

वाख - पु सन या पटसन की छाल के रेशे, पटसन ।

वाखा - पु १ दुख, पीडा, कष्ट । २ हैजा, महामारी । ३ गर्भपात, गर्भच्युति ।

वाखाणणी - स्त्री स्तुति, तारीफ, वखान ।

वाखाणणे - क्रि स वखानना, सराहना, तारीफ करना, प्रशसा करना ।

वागणूक - स्त्री १ वरताव, आचरण, व्यवहार । २ चाल-चलन, चरित्र ।

वागणे - न दे० 'वागणूक' । - क्रि अ १ वरतना, पेश आना, वरताव करना, व्यवहार करना । २ रहना, चलना (मन में) ।

वागवणे, वागविणें - क्रि स १ आचरण, व्यवहार, वर्तव करना, पेश आना । २ निभाना, संभालना, उठाना, रखना ।

वागेश्वरी - स्त्री वागीश्वरी, सरस्वती ।

वाग् - स्त्री दे० 'वाक्', 'वाङ्' । - जाल - पु वाग्जाल, वातो की लपेट । - वाण - पु चुभनेवाली वात, डाँट - फटकार, भर्त्सना । - युद्ध - न वाग्युद्ध; वृहस, झगडा । - विलास - पु १. वाग्विलास, मीज, दिल-वहलाव के लिए की जाने वाली वात-चीत । २ वातचीत में शब्दों का नुदर चयन ।

वाघ - पु १ शेर, वाघ, व्याघ्र । २ शूर पुरुष, शेरमर्द । - नख - न; - नखी - स्त्री वाघनख, वघनखा, शेरपजा, वघनहीं । - वकरी - स्त्री शेर-वकरी (लडको का एक खेल) । - मान्या - वि शेरअफगन, शेर को मारने वाला, बडा शूर, वहादुर । वाघाचा डोळा - पुरुषपया (मिक्का) । वाघाची मावशी - स्त्री विन्ली, शेर की खाल । मु० वाघाचें कातडें पाघरणें - झूठा रोव दिखाना, दिखाऊ धमकी देना । कहा० वाघ म्हटलें तरी खातो, वाघोवा म्हटलें तरी सातो - असम्य व्यक्ति पर सज्जनता का कोई प्रभाव नहीं पडता ।

वाघण - दे० 'वाधीण' ।

वाघंटी, वाघाटी - स्त्री, वाघाटें - न एक वेली और उनका फल, व्याघ्राटकी, गोविंद-फल (?) ।

वाधीण - स्त्री १. शेरनी, वाघिन । २ शूर, निडर स्त्री ।

वाधीण - स्त्री [ अ 'वैगन' ] माल-डिब्बा, 'वैगन' ।

वाघूळ - दे० 'वटवाघुळ' । वाघोवा - पु शेरभैया, वाघ-दादा, दे 'वाघ' ।

वाघ्या - पु खडोवा देवता का

भक्त, उपासक । [सगाई ।

वाङ्मय - पु. मंगनी,  
वाङ्मय - न वाङ्मय,  
साहित्य, अदब ।

वाचक - पु. वाचक, पाठक,  
पढ़ने वाला । - वि वाचक,  
सूचक; बताने वाला ।

वाचणी - स्त्री १ पढाई,  
पठन । २. पाठ ।

वाचणें - क्रि स पढना,  
वाचना । दे 'वाचणें' ।

वाचन - न १ वाचन, पाठ,  
पठन । २ पढत, खवान्दगी ।

वाचनालय - न वाचनालय,  
'रीडिंग रूम' । [योग्य, सुपाठ्य ।

वाचनीय - वि पठनीय, पढ़ने-

वाचा - स्त्री १ वाचा, वाणी,  
जवान, दे 'वाक्' । २ शपथ,  
वायदा । ३ वचन, शब्द । मु० -

फुटणे - जवान खुलना, कठ  
फूटना, आवाज निकलना, मुंह

खुलना । - वसणें - जवान बढ

होना, घिग्घी बँधना, मुंह बढ

होना, बोलती बढ होना । - विटा-

ळणें - झूठ बोलना, जवान बिगा-

डना, बुरी बातें कहना ।

वाचाट, वाचाळ - वि

वाचाल, वातूनी, बक्की, बक-

वादी । - ना - दे क्रम में । - पच-

विज्ञी - स्त्री बकबक, बकवाम ।

वाचाळता - स्त्री १ बकवास,  
बकवाद । २ वाचालता, वातचीत

की निपुणता । [सवधी, मांखिक ।

वाजत्री - पु वजत्री, वजनियाँ,  
वजनिहाँ ।

वाजणें - क्रि अ १ वजना,  
व्वनि उत्पन्न होना । २ लगना

(सर्दी) । ३ कटकटाना (दाँतो

का) । ४ झगडा होना, अनबन

होना, फूट पडना । ५. खत्म

होना । ६ विवाह होना । वाजत

गाजत - अव्य वाजे-गाजे के

साथ, धूमवाम से । वाजता -

अव्य वजे । [दोन वाजता = दो

वजे ] । मु० बारा वाजणें - १

खत्म होना । २ बरबादी, सत्या-

नास होना ।

वाजवणें, वाजविणें - क्रि स

१ वजाना, आवाज निकालना ।

२ ढिढोरा पीटना, जाहिर करना ।

३ झगडा करना । ४ विवाह

करना ।

वाजवी - वि [अ. 'वाजिव']

वाजिव, उचित, ठीक, मौजूं ।

वाट - स्त्री १ मार्ग, रास्ता;  
राह, वाट । २ उपाय, इलाज ।

३ रीति-रिवाज, प्रथा, परि-

पु. कोई भी आदमी; साधारण

व्यक्ति । वाटेचा वाटसरू -

पु. अनजान व्यक्ति; परदेसी,

मुसाफिर । वाटेवर पडलेला -

मुफ्त का, मामूली, लावारिस ।

मु० - करणें - १ बाट करना,

रास्ता करना । २. मार्ग दिखाना ।

३ प्रबध करना । - चुकणे - राह

भूलना; बहुत दिनों के बाद मिलने

लिए किसी के यहाँ जाना । - धरणें

१ रोकना, मार्ग में रोक रखना,

बाधा डालना । २ राह लगना;

रास्ते जाना । - पाडणे - १ राह-

जनी करना, डाका डालना । २

रास्ता बनाना । - पाहणे - राह

ताकना, देखना, वाट जोहना,

प्रतीक्षा, इतजार करना । - मारणे -

वाट पारना, रास्ते में लूट लेना ।

- लागणे - खत्म होना; बारा -

न्यारा होना । - लावणें - १ बारा-

न्यारा कर देना । २ खत्म, समाप्त,

नष्ट, बरबाद करना । - वाहणे -

यातायात, आना-जाना चलता

रहना । - सरणे - मात्र मार्ग का

निरुद्ध होना, आँतोमें ऐंठन होना ।

- सुधारणे - राह लगना, चलते

बनना । वाट जाणें, वाटेला जाणे,

वाटेस जाणे - छेडना, तग करना,

अडगा लगाना । वाटेवर आणणें -

राहपर लाना, सुमार्ग पर चलाना ।

वाटेवर पडणे - १ सहज में प्राप्त

होना, मुफ्त में मिलना । २ रास्ते

में मिलना, राह में होना । वाटेवर

येणे - ठीक मार्ग पर आना । वाटेस

लावणे - विदा करना, चलता

करना ।

वाटगा - दे 'वाडगा' ।

वाटघाट - स्त्री १ पिसाई,

पीसने - पिसानेका काम । २ दे

'वाटाघाट' ।

म हि श को ४१

वाटण - न पीसना; पिसाई ।  
वाटणे - क्रि स १ पीसना,  
रगडना; चूर्ण करना २ दे  
'वाटणें' । ३ चर्चा करना ।

वाटणे - क्रि अ. १ लगना,  
दिखाई देना, महसूस होना, प्रतीत  
होना, समझना । २. मन में आना,  
सोचना, सूझना ।

वाटली डाळ - छी चने की  
दाल को भिगो कर और पीस कर  
बनाया हुआ नमकीन खाद्य पदार्थ ।

वाटा - छी बहु राहें, मार्ग;  
रास्ते । - पु. दे 'वाटा' ।

वाटाघाट - छी वातचीत,  
चर्चा, बहस, वादविवाद ।

वाटाड्या - पु. पथप्रदर्शक,  
रहवर, रहनुमा, मार्गदर्शक ।

वाटाणा - पु. मटर । मु०  
वाटाण्याच्या अक्षता लावणे - माफ  
इनकार करना, पूर्णतया निराश  
करना । [उद्यान ।

वाटिका - छी वाटिका,  
वाटी - छी १ कटोरी,  
प्याली । २ (गुडध्याची) चपनी,  
चक्की, घुटने की गोल हड्डी ।

३ (खोव्याची) आधानारियल ।  
वाटीव - वि पिसा हुआ ।

वाटेल तें - वि चाहे जो,  
वेकार का; निरर्थक । [ वृत्ताकार ।

वाटोळा - वि गोल, गोला,  
वाटोळें - न नाश, बरवादी,  
सत्यानास । - वि दे 'वाटोळा' ।

- पण - न गोलाई । मु० -  
करणे - मत्यानास करना ।

वाड - वि बडा, महान । - छी  
वाड, घेरा । - न दे 'वाडें' ।

वाडगा - पु. कटोरा ।  
वाडणें - न १ मकान का  
अहाता । २ वाडा, पशुशाला ।

वाडवडील - पु. बहु वापदादा;

पूर्वज; वृजुर्ग लोग ।

वाडा - पु. १ कोठी; हवेली,  
प्रासाद, महल । २ मुहल्ला । ३  
वाडा, अहाता, घेरा । ४ पशु-  
शाला ।

वाडो - छी १ मुहल्ला,  
वस्ती । २ वाडी, फलो का  
वाग । ३ वाटा, अहाता ।

वाडें - दे 'वाडें' । [ वडोतरी ।

वाड - छी वृद्धि, बढ़ती,  
वाडण - न परोसना, परोसा ।

वाडणी - छी परोसने का  
वर्तन ।

वाडणे - क्रि अ १ बढ़ना,  
वृद्धि होना, बढा होना । २  
आगे जाना । ३ कम होना,  
खत्म होना, टूट जाना । ४  
फैल जाना । मु० वाडोस लागणें -

बढ़ने लगना, उभरने लगना,  
गदराने लगना ।

वाडणें - [ क 'वडिसु' ] -  
क्रि स. १ परोसना, परमना ।  
२ भिक्षा देना । - न परोसा । दे  
'वाडण' । मु० वाडून ठेवणे - १  
तैयार होना । २ भाग्य में लिखा  
होना । ३ टपक पडना ।

वाडता - वि १ बढ़ता हुआ,  
बढ़ने वाला । २ उन्नतिशील । ३  
शुभ । वाडत्या अंगाचा - वि १  
जो बढ रहा हो । २ ढीला  
(कुर्ता आदि) ।

वाडदिवस - पु. बरसगाँठ,  
वर्षगाँठ, सालगिरह ।

वाडपी - पु. परसैया, परो-  
सैया; परोसनेवाला ।

वाडवणें, वाडविणें - क्रि स  
१. बढ़ाना, वृद्धि करना,  
फैलाना । २ ऊपर उठाना,  
तरक्की देना, उन्नति करना । ३  
परवरिश करना; पालन-पोषण

करना । ४ तोडना (चूडियां) ।  
- क्रि अ मिटना, पोंछा जाना  
(तिलक, कुमकुम) ।

वाडावा - पु. १. बलुआ;  
घाल । २ वृद्धि, बढोतरी ।

वाडो - छी १ वृद्धि । २  
व्याज । - दिडी - छी किसान को  
बीज दे कर उसमें डेढगुना अनाज  
लेने की प्रणाली । [ में ।

वाडोस, वाडून - दे 'वाडणे'  
वाडें - न अगौरा; अगाव  
(ईख के ऊपर का नीरस भाग) ।

वाण - पु. १ वर्ष, रग । २  
नमूना, वानगी । ३. ढग,  
प्रकार । [ कमी; किल्लत ।

वाण - छी अभाव, त्रुटि,  
वाण - न वायन, उपायन,  
वैना ।

वाण - 'वाणी' का समानो में  
व्यवहृत रूप । - गड, - गट -  
पु. बनिया; (घृणासूचक) ।  
- जिन्नस, - सवदा, - सौदा -  
पु. किराना (बनिये, पसारी के  
यहाँ मिलने वाली वस्तुएँ) ।

वाणणें - दे 'वानणें' ।  
वाणा - पु. वाना । [ व्यापार ।

वाणिज्य - न वाणिज्य,  
वाणी - छी १. वाणी,  
वाक्शक्ति, वाचा । २ भाषण,  
कथन; वचन । ३ वानी, बोल ।

४ भाषा । ५ रसना; जीभ ।

वाणी - पु. बनिया, व्यापारी,  
मोदी, पसारी; परचूनी ।  
- उदमी - पु. व्यापारी ।

वाणी + - अन्य जैसे, तरह,  
मुताबिक । [ २ दीपक ।

वात - छी १. बत्ती, वाती ।  
वात - पु. १. वात, वायु,  
हवा । २ वातविकार, वादी,  
वातव्याधि, वायुविकार । - कारक -

वि वातकर; (शरीर में) वात उत्पन्न करने वाला। - चक्र - न वातचक्र, बवडर। - प्रकृति - स्त्री वायुप्रधान प्रकृति। - वि वात-प्रकृति। - रोग, - विकार - पु वानरोग, वातविकार, वातव्याधि।

वातट - ड - वि चीमड, चिमडा। [शरोखा, खिडकी।

वातायन - न वातायन, वातावरण - न १ वातावरण, फिजा। २ वायुमंडल, परिस्थिति।

वाताहत - स्त्री तवाही, वर-वादी, सत्यानास, छीछालेदर, दुर्दशा, दुर्गत, तितर - वितर हो जाना।

वातुळ - वि १. वादी, वात-कर। २ वातुळ, वातग्रस्त।

वात्रट - वि १ नटखट, शरारती, वाहियात। २. दे 'वातट'।

वात्सल्य - पु वात्सल्य, प्रेम; प्यार, सतान के प्रति माता-पिता का स्नेह।

वादग - न पु व्यर्थ की चर्चा, निरर्थक वाद-विवाद।

वाद - पु १ वाद, चर्चा, वहस। २ तकरार, हुज्जत, झगडा; विवाद। ३ दावा, नालिश। ४ वातचीत, मभाषण। - ग्रस्त - वि १ वादग्रस्त, विवादास्पद। २ अनिश्चित, अनिर्णीत। - प्रतिवाद, - विवाद - पु १ वादप्रतिवाद, वादविवाद, वहस - मुवाहिसा, उत्तर - प्रत्युत्तर। २ झगडा।

वादक - पु वादक, वजाने वाला, वजवैया। [वजाना।

वादन - न वादन, वाजा वावल - न आंघो, अघड;

तूफान, बवडर। २ सकट।

वादी - स्त्री तसमा, चमडे की पट्टी।

वादी - पु १ वादी, मुद्दई (अदालत में कोई अभियोग, मुकदमा चलाने वाला। २ वैरी, वैरी; शत्रु। ३ तकरार, हुज्जत, झगडा करनेवाला व्यक्ति। ४ किसी विशेष मत का समर्थक।

वाद्य - न वाद्य, बाजा। - वृद्ध - पु वाद्यवृद्ध, 'आरकेस्ट्रा'।

वाधणा - दे 'अवधणा'।

वानगी - स्त्री वानगी, नमूना।

वानणें - क्रि स वर्णन, प्रशंसा करना, बखानना।

वानर - पु न वानर, वानर, लंगूर, बदर। - चेष्टा - स्त्री

बहु बदरपन, वाहियात बातें। वानराच्या गालातील, गळघांतील पिशवी - स्त्री गलौआ (बदर के गाल के अदर की थैली)।

वानवळा - पु १ पहली बार आने वाले फलो, सब्जियो आदि पर लिया जाने वाला कर। २ दे 'वानगी'।

वानवा - स्त्री सदेह, शका, अनिश्चितता; सदिग्धता।

वापर - पु प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल, उपयोग।

वापरणें - क्रि अ १ व्यवहार करना, काम में लाना, प्रयोग, उपयोग, इस्तेमाल करना। २ पहनना, ओढना।

वापसणें - क्रि अ १. (भूमिका) तप कर वौने योग्य होना। २ जी खट्टा करना।

वापसा - पु भूमि की वोआई के योग्य स्थिति, वर्षा हो जाने के वाद की तरी और गर्मी की हालत।

वापी - स्त्री वापी; कुर्मा,

पुष्करिणी।

वाफ - स्त्री भाफ, वाष्प, भाप। मु (तोडची) - दवडणें - निरर्थक बातें करना।

वाफलणें - क्रि स भाफ देना।

वाफा - पु क्यारी, कियारी।

वाफारा - पु १ बफारा, भाप, दवा मिले हुए पानी की भाप से शरीर को सेकना। २ दे 'गुवारा'।

वाभाडा - पु १ बडी दरार। २ चीथडा। ३ कडी आलोचना। मु. वाभाडे काढणें - आडे हाथो लेना, घज्जियाँ उडाना।

वाम - वि १ वाम, बायाँ।

२. विरुद्ध। ३ टेढा; नीच, बुरा। ४ सुदर। - कुक्षि-क्षी - स्त्री

दोपहर के भोजन के बाद थोडी देर तक लेटना या सोना। - मार्ग - पु १ बुरा, नीच मार्ग, घृणित

ढग, तरीका। २. वाममार्ग, वेदविरुद्ध तत्रमत, अभिचार। - मार्गी - वि वाममार्गी, अभिचारी,

वामाचारी।

वाम - न [फा.] ऋण; कर्ज।

वामन - पु वामन; विष्णु का पाँचवा अवतार। - वि वामन, वौना, नाटा ठिगना।

वायगण - न गरमियो मे होने वाला एक प्रकार का धान।

वाय - पु वाय, वायु; वात का कोप। - गोळा - पु वायगोला, वायुगुल्म।

वाय - 'वाया' का समासगत रूप। - फट, - फळ - वि अव्य निष्फल, निरर्थक, व्यर्थ, बेकार, फिजूल। - वार - पु १ हवा मे गोली चलाना। २ विना छर्रों की गोली चलाना।

वायदा - पु [अ 'वअद']

वादा, इकरार, वचन, प्रतिज्ञा।  
वायला - + वि अलग,  
भिन्न।

वायव्य - स्त्री वायव्य, उत्तर-  
पश्चिम दिशा, पश्चिमोत्तर कोण।  
-सरहद्द प्रात - पु सीमाप्रात,  
सरहद्दी सूवा। [ छल्ला, वागर।  
वायसर - पु [अं 'वाँगर']  
वाया - अव्य व्यर्थ, बेकार,  
फिजूल।

वायु - पु १ वायु, हवा,  
पवन। २ प्राणवायु, जीवनवायु।  
३ वातप्रकोप, वाई। ४ अपान-  
वायु, पाद। - भारमापक - पु  
न वायुदावमापी, 'वैरोमीटर'।  
मु० - सरणें - अपान-वायु का  
निकलना, पाद होना। - सोडणें -  
पादना, गोज करना।

वाँरट - पु [अ] वारट,  
आज्ञापत्र, अधिकार-पत्र, गिर-  
पतारी, तलाशी, रिहार्ड आदि का  
अधिकार-पत्र। [वारवार।

वारवार - अव्य वारवार,  
वार - पु १ वार, दिन, रोज।  
२ नियत, निश्चित दिन। ३  
सप्ताह, हफ्ता। - अव्य वार,  
दफा। - करी - पु १ नियत दिन  
पर भोजन के लिए आने वाला  
विद्यार्थि आदि। २ नियमित रूप से  
पढरपुर की यात्रा के लिए जाने  
वाला विठ्ठल भक्त। - योषिता -  
स्त्री वारयोषित्, वेश्या।

वार - पु [फा] वार,  
आघात; चोट। मु० - चुकणें -  
वार खाली जाना।

वार - पु गज, 'वाई'।  
वार + - स्त्री १ देर, देरी।  
२ फुरसत।  
वार - स्त्री खेडी, जर,  
आँवल (वह झिल्ली जिसमे गर्भस्थ

शिशु लिपटा रहता है)।

वारणें - क्रि अ १ मरना,  
इन्तकाल करना, देहात, स्वर्गवास  
होना। २ टलना।

वारणे - क्रि अ १ रोकना,  
वचाना। २ वारण, निवारण  
करना। ३ पीछे हटाना, दूर  
रखना। ४ चुकाना (ऋण)। ५  
डुलाना (चँवर), झलना;  
हिलाना।

वारनीस - न [अ 'वानिश']  
वारनिश, रोगन।

वारली - पु एक आदिम  
जाति और उस जाति का व्यक्ति।  
वारवणें, वारविणें - क्रि न  
ओसाना, फटकना।

वारस, वारसदार - पु [अ  
'वारिस'] वारिस, उत्तराधिकारी,  
मृतजन की संपत्ति का अधिकारी।  
वारसा - पु [अ 'वर्स:']  
विरासत, विरसा, रिक्थ, दाय,  
मीरास, उत्तराधिकार। - हुक्क -  
पु दायधिकार, दायभाग, उत्तरा  
धिकार, विरसा।

वारा - पु १ हवा, पवन,  
वायु। २ आवेग, जोश। ३.  
प्रेतादि का पकड लेना। - खारणें -  
१ हवा खाना। २ खेच्छाचारी  
वनना। - घालणें - हवा करना,  
पखा झलना। - घेणें - दे 'हवा  
खारणें'। - पडणें - हवा गिरना;  
हवा का मद हो जाना, पवन का  
रुक जाना। - पिणें - दे वारा  
खारणें। - फिरणें - हवा पलटना,  
हवा बदलना, हवा का रुख बद-  
लना, परिस्थिति का परिवर्तित  
होना। - भरणें - साँम भरना।  
- लागणें - हवा लगना। - वाजणे  
ठडी, तेज हवा चलना। - वाहाणें -  
हवा चलना। वान्याची मोट वाषणें

हवा को गाँठ में या मुट्ठी में  
बाँधना, असभव काम के लिए  
प्रयत्न करना, परस्परविरोधी  
पक्षों या व्यक्तियों को एकत्र लाने  
की चेष्टा करना। वान्यावर टाकणें,  
सोडणें - विलकुल छोड़ देना,  
ध्यान न देना। वान्याशी भांडणें -  
हवा में लडना, अकारण झगडा  
करना। वान्यास उभा न करणें -  
पाम फटकने न देना, दूर रखना।  
वान्यास उभा न रहणें - पाम न  
फटकना, दूर रहना। - कहा०  
वान्यावरची वरात - वेमेल वात,  
वेहूदा वात।

वारी - स्त्री १ वारी। २  
तीर्थयात्रा, नियमितरूप में की जाने  
वाली तीर्थस्थान की यात्रा।

वार - रु-पु न वार, घोडा।  
वारुळ - न वाँवी; वल्मीक,  
दमीठा, माँप का बिल, वीमको  
का भीटा।

वारें - न हवा, पवन, दे०  
'वार'। - माप - वि अव्य  
१ वेहद, बहुत, अमीम। २  
असगत।

वार्ता - स्त्री १ वार्ता, वृत्तात,  
हाल, समाचार, सवाद, खबर।  
२ अफवाह; जनश्रुति। ३ वात-  
चीत, विषय, प्रसंग। ४ प्रसिद्धि,  
ख्याति। - हर - पु १ सवाद -  
दाता, खबररसाँ। २ वार्ताहर,  
दूत। मु० - नसणें - १ विलकुल  
पता, खबर न होना। २. मौजूद,  
विद्यमान न होना। [बुढापा।

वार्षक्य - न वार्षक्य,  
वार्षिक - वि वार्षिक,  
सालाना। - न वार्षिक पत्रिका।  
वाल - पु १ लोबिया, सेम।  
२ तीन रत्ती का एक वजन।  
वालपापडी - स्त्री एक सेम

जिसकी तरकारी बनती है।

वाला - प्र [ हि ] वाला।

वाली - पु [ अ ] वाली, सरक्षक, त्राता; सहायक।

वालुका - स्त्री वालुका, रेत, बालू। - सय - वि रेतीला। - ०दगड - पु बलुआ पत्थर, बालुकाश्म। - ०प्रदेश - पु रेगिस्तान।

वाव - पु १ गुजाइश, अवकाश, समाई, फुरसत। २ स्थान। ३ कारण; सबव। ४ प्रवेश।

वाव - स्त्री पाँच हाथ या छ फीट का अतर (दोनो हाथो को फैलाने पर बनने वाला उनके बीच का अतर)।

वाव - अव्य व्यर्थ, निष्फल।

वाव - स्त्री कुआँ।

वावगा - ने - वि १. अनुचित, हलका, बुरा। २ व्यर्थ, गलत, विपरीत।

वावटल - स्त्री बवडर, आँधी, वातचक्र, अघड। - न तुहमत, झूठा आरोप।

वावडा - वि १ वातकर। २ अपथ्यकर, प्रतिकूल। ३ विरोधी, विपरीत, उलटा।

वावडिग - न वायविडग, वायविडग (दवा के काम आने वाला एक फल)।

वावडी - स्त्री १ पतग, गुडडी, कनकीआ। २ अनाज ओसाने के लिए बनायी गयी घडौँची या तिपाई। मु० - वावडचा उडविणे - अफवाहे फैलाना, वाते उडाना।

वावडें - दे 'वावडा'।

वावदूक - वि बकवादी, वातूनी, बक्की। [का छोटा हिस्सा।

वावर - न खेत, बडे खत

वावर - पु १ यातायात, आवागमन, आना-जाना, आवाजाही। २. उद्योग, व्यवहार। ३ शोरगुल, हलचल।

वावरणे - क्रि अ १. विचरना, घूमना, चलना-फिरना, आना-जाना। २. व्यवहार करना।

वाशेळा - वि बदबूदार, दुर्गंधयुक्त।

वास - पु १ वास, वास, गव; खुशबू, सुगंध। २ बदबू, दुर्गंध; कुवास, बू। ३ झलक, झँकी। ४ अल्पाश, लेश। ५ टोह, पता, सुराग। मु० - फाढणे - सुराग, पता लगाना। - घेणे - १ सूँघना। २ पता लगाना। - मारणे - बदबू देना, आना, कुवास आना। - लागणे - पता लगाना, आहट पाना। - सुटणे - खुशबू फैलना, महकना, महक, वास देना, आना।

वास - पु १ वास, निवास, रहना। २ वस्ती। [कपडा।

वास - पु वास, वस्त्र, वासकूट - न [अ 'वेस्टकोट'] वास्कट, फतूही।

वासणे - क्रि स १ खोलना, बाना (मुँह)। २ फैलाना।

वासन - न १ वासन, वस्त्र, कपडा। २ वस्ता, वेठन।

वासना - स्त्री वासना, कामना, अभिलाषा।

वासर - पु वासर, दिन। - मणि - पु वासरमणि, मूर्य।

वासरी - स्त्री रोजनामचा, 'डायरी'।

वासरी - स्त्री बछिया।

वासरुं - न १ बछडा (गाय का)। २ बत्स, बालक; बच्चा।

वासला - पु बसूला।

वासलात - स्त्री [अ 'वासलात'] १ बसूली। २. कुल आय का जोड। ३ निर्णय, निपटारा, फैसला। ४ खात्मा, अत। ५ विनियोग, विक्रय, भुगतान, अदाई, चुकाई, वेवाकी, अदायगी। मु० - लावणे - निबटाना, फैसला करना; निबटारा करना, झझट मिटाना।

वासा - पु १ शहतीर, बल्ला। २ वांसा (नाक के बीच की उभरी हुई हड्डी)। ३ रीढ।

वासुदेव - पु. १ वासुदेव, श्रीकृष्ण। २ मोरपख की लवी टोपी पहन कर भिक्षा माँगने वाली एक जाति और उस जाति का व्यक्ति।

वास्तपुस्त - स्त्री पूछताछ, खबरगीरी, खोज - खबर। मु० - करणे - खोजखबर लेना।

वास्तव - वि वास्तव, यथार्थ, सही, सच्चा।

वास्तविक - वि १ वास्तविक, असली, यथार्थ; ठीक। २ उचित; न्याय्य। - अव्य वास्तव में, सच-मुच, असल में।

वास्तव्य - न निवास, वस्ती।

वास्तु - पु स्त्री १ वास्तु, मकान, गृह, भवन। २ दे.

'वास्तुशास्त्र'। - देवता - स्त्री, - पुरुष - पु १ वास्तुदेवता;

वास्तुपुरुष ( घर वाले स्थान का देवता )। २ मकान की नीव में रखी जाने वाली सोने की प्रतिमा।

- प्रवेश - पु नये मकान में रहने के लिए जाने की धार्मिक विधि।

- शात-ति - स्त्री वास्तुशास्त्र; गृहप्रवेश के समय किया जाने वाला शातिकर्म। - शास्त्र - न

वास्तुविद्या, वास्तुशास्त्र, गृह



निर्माण सबधी विज्ञान ।

वाह - अव्य [ फा ] वाह,  
खूब, वन्य, शावाश ।

वाहण - दे 'वाहाण' ।

वाहणे - क्रि अ १ वहना  
( पानी ) । २. चलना ( हवा ) ।

वाहणे - क्रि स १ उठाना,  
ढोना । २ सहन, वर्दाश्त करना ।  
३ आश्रय देना । ४ चढाना,  
समर्पित करना । ५ (कसम)  
खाना । ६ दे देना, छोड देना ।  
७ भूमि में खेती करना, जोतना ।  
८ मन में रखना । ९ पहनना ।  
१० झुकाना, नवाना (सिर) ।

वाहता - वि वहता हुआ ।  
- झरा - पु १ हमेशा वहने वाला  
झरना । २ अखूट सपत्ति ।  
- रस्ता - पु वडी सडक, ऐसा  
मार्ग जिसपर आठो पहर लोग  
आते-जाते रहते हैं ।

वाहती - स्त्री १ प्रारम्भ । २  
प्रथा । - वि स्त्री वहती हुई ।  
- गंगा - स्त्री वहती गंगा, अनु-  
कूल परिस्थिति । [ मु० वाहत्या  
गंगेत हात धुवून घेणें - वहती  
गंगा मे हाथ धोना ] । - धार -  
स्त्री १ पैनी धार । २ वहता  
हुआ पानी । - वाट - स्त्री दे  
'वाहता रस्ता' ।

वाहतुक, वाहतुक - स्त्री १  
परिवहन; यातायात । २ ढुलवाई ।

वाहन - न वाहन, सवारी ।

वाहवणें - क्रि अ १ वह  
जाना । २ असगत बातें करना,  
भटकना, रास्ता भूलना ।

वाहवा - स्त्री [ फा 'वाह-  
वाह' ] वाहवाही, प्रशंसा, साधु-  
वाद । - अव्य वाह, वाहवाह,  
वन्य वन्य, क्या कहना है, खूब ।

वाहविणें - क्रि स १ वहाना ।

२ गँवाना ।

वाहाण - स्त्री १ जूती,  
चप्पल । २ नाला; झरना ।

वाहाणे - दे 'वाहणे' ।

वाहाळ - पु झरना, नाला ।  
वाहिला - वि अलग, भिन्न ।  
- क्रि स चढाया, समर्पित किया  
( 'वाहणे' का भूत० ) ।

वाह्यात् - वि [ अ 'वाहि-  
यात' ] १ वाहियात, वेहूदा,  
भद्दा । २ शरारती, नटखट ।

वाळका - वि १ सूखा । २  
मरियल । [ २ दुवला होना ।

वाळणें - क्रि अ १ मूखना ।

वाळवंट - न मरुस्थल, रेगि-  
स्तान ।

वाळवण - स्त्री मुखवन (सूखने  
के लिए धूप मे डाला हुआ अनाज) ।

वाळवणें, वाळविणें - क्रि स  
सुखाना ।

वाळवी - स्त्री १ दीमक  
(सफेद चीटी) । २ चिता ।

वाळा - पु खस, गाडर नामक  
घास की जड जो सुगन्धित होती  
है । वाळ्याचा पडदा - पु खस  
की टट्टी ।

वाळा - पु १ पोला कडा,  
छडा । २ पैजनी, झाँझन ।

वाळीत - न जातिवहिष्कार ।  
मु० - टाकणें - हुक्कापानी बद  
करना, विरादरी से खारिज कर  
देना, वहिष्कार करना ।

वाळूक - दे 'वाळूक' ।

वाळू - स्त्री वालू, रेत;  
वालुका । - ची भित - स्त्री वालू  
की भीत, क्षणभंगुर वस्तु । मु०  
वाळूत मुतणें - वेकार का, निष्फल  
काम करना । [ खीरा, डँगरी ।

वाळूक - न वटी ककडी,

विचरणें - क्रि स १ कवी

करना, बाल सँवारना, झाडना ।  
२ घुनना । [ (विच्छू की मादा) ।

विचवीण - स्त्री विच्छी

विचू - पु १ विच्छू (जहरी-  
ला जतु), वृक्षिक । २ कृत्तिका  
नक्षत्र । - स्त्री विच्छू (एक  
तरह की घास) । कहा० विचवाचें  
विच्छाड पाठीवर - विच्छू की  
गूहस्थी उमकी पीठ पर, जब  
किमी के पास बहुत थोडा और  
हल्का सामान होता है तब कहा  
जाता है ।

विजणवारा - पु पत्ते की हवा ।

विजणा - पु पंखा ।

विज्ञणवारा, विज्ञणा - दे  
'विजणवारा', 'विजणा' ।

विकपित - वि विकपित,  
काँपता हुआ; अस्थिर ।

विकट - वि १ विकट,  
विगल, वडा । २. भयकर,  
दुर्गम, डरावना । ३ भद्दा । ४  
विचित्र, अजीब ।

विकणें - क्रि स वेचना,  
विश्री करना, दाम ले कर (कोई  
वस्तु) देना । - क्रि अ विकना,  
वेचा जाना ।

विकत - अव्य दाम ले कर या  
दे कर । - चें श्राद्ध - न मोल  
लिया हुआ झझट या झगडा । मु०  
- घेणें - १ खरीदना, मोल लेना,  
दाम दे कर लेना । २ उपकार से  
अपना बनाना । ३ जान बूझ कर  
आफत मे फँसना । - देणें -  
वेचना ।

विकरा, विकराळ, विकरी -  
दे 'विक्रा'; 'विक्राळ',  
'विक्री' ।

विकल - वि १ विकल,  
अपग, खडित । २ अचूरा;  
अपूर्ण । ३ व्याकुल ।

विकलाग - वि विकलाग;  
अंगहीन, न्यूनाग, अपाहिज।

विकला - स्त्री १ विकला;  
कला का ६० वाँ भाग। २  
समय का एक बहुत छोटा मान।  
- क्रि स भू वेचना।

विकल्प - पु १ विकल्प;  
अनिश्चय, सदेह। २ विभिन्नता,  
भेद, फर्क। ३. विरोध, मतभेद।  
४ कई नियमों आदि में से एक का  
ग्रहण। ५ भूल; भ्रात घारणा।  
विकसणें - क्रि अ विकसना;  
खिलना, फूलना, प्रस्फुटित  
होना।

विकसित - वि विकसित,  
खिला हुआ, प्रस्फुटित, प्रफुल्ल,  
प्रसन्न।

विकाळ - वि विकाळ।

विकार - पु १. विकार,  
विकृति, परिवर्तन, तबदौली।  
२ रोग, बीमारी। ३ विचार,  
भावना। ४ वासना, क्षोभ।

विकास - पु १ विकास,  
विकाश, उन्नति, प्रगति। २  
खिलना, खुलना। - वाद - पु  
विकासवाद (डाविनद्वारा प्रति-  
पादित सिद्धात,) उद्विकासवाद,  
विकास सिद्धात परिणामवाद।

विकासणें - क्रि अ १.  
खिलना। २ शोभा देना।

विकृत - वि १ विकृत,  
विगडा हुआ, खराब। २  
परिवर्तित, बदला हुआ। ३  
असंस्कृत, भद्दा, कुरूप, वीभत्स।

विकृति - ती - स्त्री १  
विकृति, विगाड, विकार,  
खराबी। २ वीमारी, रोग।

विकेंद्रित - वि विकेंद्रित,  
विकेंद्रीकृत।

विकेंद्रीकरण - न विकेंद्रीकरण,

विकेंद्रीयण, 'डिसेंट्रलिजेशन'।

विकोप - पु १. क्षोभ,  
क्रोध। २ अनर्थ। मु० विकोपाला  
- स जाणे - बहुत बढ जाना,  
हृद से बढ जाना।

विक्रम - पु १. विक्रम,  
वीरता, पराक्रम, शूरता। २  
विक्रमादित्य। ३ बल तेज आदि  
की अधिकता, सर्वोत्तम कृति,  
अनूठी घटना 'रेकार्ड'। [ वेचना।

विक्रा - पु विक्री, विक्रय,  
विक्राळ - वि विकराल,  
भीषण, खौफनाक, भयकर,  
डरावना।

विक्री - स्त्री १ विक्री,  
विक्रय। २ विक्री की आय।

विक्रेता - पु विक्रेता, बेचने  
वाला।

विक्षिप्त - वि १ अजीब,  
सनकी, झक्की। २. विक्षिप्त;  
फेंका, बिखेरा हुआ, फैला हुआ।  
३ पागल। - पणा - पु सनक,  
खन्त।

विक्षेप - पु विक्षेप, वाधा;  
विघ्न। २ अनवधानता, घबडा-  
हट।

विष - न विष; जहर।  
विखरणे - दे 'विखुरणें'।  
विखार - पु १. विष, जहर।  
२ जहरीली बात।

विखुरणे - क्रि अ. फैलना,  
विखरना, तितर-वितर होना।  
- क्रि स फैलाना, विखेरना,  
तितर-वितर करना, छिटकाना,  
छितराना।

विखुरलेलें - वि तितर-वितर,  
छितराया हुआ, विखरा हुआ।

विख्यात - वि. वित्यात,  
प्रसिद्ध, मशहूर।

विगत - वि विगत, अतीत,

बीता हुआ। - न स्त्री विवरण,  
तफसील, व्योरा। - वार - वि  
तफसीलवार; व्योरेवार।

विगलित - वि विगलित;  
गिरा हुआ, पिघला हुआ;  
शिथिल; विगडा हुआ।

विग्रह - पु १ विग्रह, कलह;  
युद्ध। २. शरीर, रूप। ३ समस्त  
पद के खंडों को अलग करना  
(व्या०)।

विघटन - न विघटन,  
विदारण; तोड - फोड, विच्छेद;  
विध्वंस, भजन, अलग करना;  
तोडना; नाश, वरवादी।

विघातक - वि विघातक;  
घातक; हानिकर, बाधक;  
खतरनाक।

विघ्न - न १ विघ्न; बाधा।  
२ सकट, आपत्ति। - सतोषी -  
वि दूसरो को आपत्ति में देख कर  
खुश होने वाला।

विचकट - वि गदा, वीभत्स।

विचकटणें - क्रि स १  
खींच कर फाडना, तितर-वितर  
कर देना, उखाडना। २ दे  
'विसकटणें'।

विचकणें - क्रि स १  
निपोडना, (दाँत) उधारना या  
दिखाना; (मुँह) वाना, विच-  
काना, मुँह बनाना, मुँह चिढाना।  
२ उघाडना, खोलना; फैलाना  
(टांगे)।

विचका - पु १ विगाड,  
खराबी। २ झझट, झमेला।  
मु० - होणें - मजा किरकिरा  
होना, गुड़-गोबर होना।

विचक्षण - वि विचक्षण;  
जानकार, चतुर, बुद्धिमान्,  
पारगत, दक्ष।

विचक्षणा - स्त्री नूधम जांच,

निरीक्षण, मुआइना

विचरणे - क्रि अ. विचरना, इतस्ततः घूमना, घूमना-फिरना, विचरण, पर्यटन करना।

विचार - पु. १ विचार; सोचना, चिंतन, गौर। २ खयाल, मत। ३ विवेक, यथार्थ-ज्ञान। ४ निर्णय, तत्त्वनिर्णय। ५ चिंता; फिक्र। ६ तथ्य, हकीकत। ७ युक्ति, उपाय, तरकीब। ८ इच्छा, मर्जी। ९. सलाह, मशविरा, परामर्श। - क - दे क्रम में। - णा, - णीय, - णें - दे क्रम में। - पूस - छी पूछ-ताछ, खोज-खबर। - वंत - वि विचार-शील, विचारक। - चिनिमय - पु विचारविमर्ष, चर्चा, वात-चीत, सलाह - मशविरा, विचारो का आदान - प्रदान। - सरणी - छी विचारसरणी, विचारप्रणाली। मु० - करणें - सोचना, विचारना, विचारना।

विचारक - वि पु विचारक, विचार करने वाला, खोज करने वाला, दार्शनिक।

विचारणा - छी १ पूछताछ, जांच। २. विचारणा, परीक्षण, तर्क, मीमासा। ३ चिंता।

विचारणीय - वि १ विचार-णीय, चिंत्य; विचार करने योग्य। २ चर्चा का (विषय)।

विचारणे - क्रि स १ पूछना, मवाल, प्रश्न करना। २ खोज - खबर लेना, कुशल पूछना। ३ कद्र करना, महत्त्व देना, परवाह करना। - क्रि अ विचारना, सोचना, गौर करना।

विचारी - वि विचारी, विचारशील, विवेकी, सोच-

समझ कर व्यवहार करने वाला।

विचित्र - वि विचित्र, असाधारण, अजीब, अजीबो-गरीब। - न आश्चर्य, अचभा, विचित्र।

विच्छिन्न - वि विच्छिन्न, कटा-फटा, छिन्न-भिन्न, नष्ट-भ्रष्ट। [अलगाव। २ भग, नाग।

विच्छेद - पु १ विच्छेद, विजन - वि विजन, जन-शून्य, एकात। - न विजन, निर्जन या एकात स्थान। [फतह।

विजय - पु विजय, जीत, विजया - छी १ विजया, दुर्गा। २ भांग, भग। - दशमी - छी विजयादशमी, दशहरा।

विजयी - वि विजयी, फतहयाव, कामयाव, विजेता।

विजातीय - वि विजातीय, दूसरी जाति का, भिन्न जाति या वर्ग का। [इजार, पाजामा।

विजार - छी [फा 'इजार'] विजोड - वि अनमेल, वेमेल, वेजोड, वेढगा, भद्दा। २. असगत, असवद्ध। - पणा - पु असगति, असवद्धता।

विज्ञ - वि विज्ञ, जानकार, विद्वान्। [निवेदन, प्रार्थना।

विज्ञप्ति - छी विज्ञप्ति, विज्ञान - न १ विज्ञान; अनुभवजन्य ज्ञान, क्रमवद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, विशेष ज्ञान। २ ब्रह्मज्ञान। ३ साधारण जानकारी।

विज्ञापणे - क्रि स १ ज्ञान देना, वताना। २ प्रार्थना करना। विज्ञापना - छी विज्ञापना, निवेदन, प्रार्थना।

विज्ञणे - क्रि अ १ बुझना, जलना वद होना। २ ठढा होना, शात होना। ३ गुल होना (वत्ती)।

विज्ञवणे, विज्ञविणे - क्रि स १ बुझाना, ठढा करना। २ गुल करना (वत्ती)। ३ शात करना। ४ मिटाना।

विटवणे - दे 'विटविणे'। विटवना - छी १ फजीहत, अप्रतिगठ, छीछालेदर, दुर्गंत। २ विडवना, उपहाम।

विटविणे - क्रि स १ खिल्ली उडाना, उपहाम करना। २ दुर्गत बनाना, वेइफ्तती करना। ३ विगाडना, खराव करना।

विटकर - न १ डंट। २ रोडा।

विटका - वि १ खराव, सडा हुआ। २ जिसका रग उड गया हो, जो फीका पडा या पडने वाला हो।

विटकूर - दे० 'विटकर'।

विटणें - क्रि अ १ (रग) उड जाना, उतर जाना, हलका पडना, विवर्ण होना। २. निस्तेज होना, थात, क्लत होना, ऊब जाना। ३ (अन्न) भकमना, खराव होना। ४ मटमैला होना, वदरग होना।

विटाळ - पु. १ छुआछूत, अशांच, अपवित्रता, कलुपता, अष्टता, दोष, छूत। २. स्त्रियो का मासिक रक्तस्राव, रज। ३ स्पर्श - दोष। - चाडाळ - पु छुआछूत, छूतछात। मु० - काल-विणे - छूतछात फैलाना, अपवित्र बनाना। - जाणें - १ रज का प्रवाहित होना, रज स्राव होना। २ ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिकधर्म का वद हो जाना।

विटाळणे - क्रि अ नापाक, अपवित्र होना, छूत लगना। - क्रि स १ छूना, नापाक,

अपवित्र करना । २ गदा, भ्रष्ट करना । ३ छूतछात फैलाना ।

विटाळलेलें - वि नापाक, अशुचि, अपवित्र ।

विटाळशी - वि स्त्री रज-स्वला, ऋतुमती । मु० - असणें, -वसणें, -होणें - रजस्वला, ऋतुमती होना, कपडो से होना, मैले सिर होना, महीने से होना ।

विटाळें - न इंटें बनाने का ढाँचा । [ पु गुल्ली डडा ।

विटी - स्त्री गुल्ली । - वाडू - विठाई - स्त्री, विठोबा,

विठ्ठल - पु. श्रीविठ्ठल (पढरपुर के देवता) ।

विडवन - न विडवन, विडवना, उपहास, नकल उतारना, मजाक । - काव्य - न व्यग्य-काव्य, 'पैरोडी' ।

विडा - पु. वीडा, पान, पान की गिलौरी । मु० - उचलणे - वीडा उठाना, किसी काम का भार लेना, करने की प्रतिज्ञा करना । - देणें - १ विदा करना । २ नौकरी से हटा देना ।

विडी - स्त्री १ वीडी । २ शामी (पीतल, लोहे आदि का छल्ला) । [ सिवाय ।

विण - अव्य. विना, विना,

विणकर - पु. बुनकर, जुलाहा ।

विणकाम - न बुनाई, बुनने की क्रिया, बुनावट ।

विणणावळ - स्त्री बुनाई, बुनने की मजदूरी ।

विणणे - क्रि स १ बुनना, धागे से कपडा बनाना । २ गूथना, गूथना ।

विणा - दे 'विण', 'वीणा' ।

विणाई - स्त्री १. बुनाई, बुनावट । २ बुनने की मजदूरी ।

विणें - क्रि अ. व्याना, जनना, वच्चा देना । [ वगैर, छोड कर ।

विणें - अव्य. विना, विना,

वितंडवाद - पु. वितंडा; हुज्जत, वितंडावाद, बकवास, निरर्थक दलील ।

वितरक - वि वितरक; वितरण करने वाला, 'डिस्ट्रिब्यूटर' ।

वितरण - न वितरण, देना, वांटना ।

वितरणें - क्रि स वितरण करना, वांटना । - क्रि अ. फैलना ।

वितर्क - पु १ वितर्क, विचार, दलील । २. सदेह । ३ अनुमान, अदाजा । ४ गलत अदाजा ।

वितळणें - क्रि स वितरण करना, गलना । २ मुरझाना । ३ छँटना, तितर-वितर होना । ४ पसीजना । [ लाना, गलाना ।

वितळविणें - क्रि स पिघलना, गलना । २ मुरझाना । ३ छँटना, तितर-वितर होना । ४ पसीजना । [ लाना, गलाना ।

वितुण्ड - न अनवन, मन-मुटाव, वैमनस्य ।

वित्त - न १ वित्त; धन, संपत्ति । २ जायदाद ।

विदग्ध - वि १. विदग्ध, सुंदर, पंडित, रसिक, भद्रतापूर्ण, नागर, निपुण, रसज्ञ । २ अच्छी तरह पका हुआ । ३ जला हुआ ।

विदर्भ - पु विदर्भ (आधुनिक बरार-महाराष्ट्र) ।

विदारक - वि १ विदारक, विदारण करने वाला । २ साफ, स्पष्ट, आँखें खोलने वाला ।

विदारणें - क्रि स १ चीरना, फाडना, विदारण करना । २ वध करना; मार डालना ।

विदित - वि १ विदित; ज्ञात, मालूम । २ अवगत, सूचित ।

विद्वेष - पु विद्वेष, वैर, शत्रुता, घृणा ।

विद्वेष - वि १ विद्वेष, वैर, शत्रुता, घृणा ।

विद्वेष - पु विद्वेष, वैर, शत्रुता, घृणा ।

विद्वेष - वि १ विद्वेष; ज्ञात, मालूम । २ अवगत, सूचित ।

३. प्रसिद्ध, मशहूर ।

विदीर्ण - वि १ विदीर्ण, फाडा हुआ । २ मार डाला हुआ, निहृत । [ स्त्री ।

विदुषी - स्त्री विदुषी, पंडिता

विद्वेषक - पु १ विद्वेषक, नकल आदि करके हँसाने वाला, मांड, मसखरा । २ भद्दा, भोडा आदमी ।

विदेही - वि विदेह, विरागी, दैहिक चिंताओं से रहित ।

विद्यमान - वि विद्यमान; उपस्थित; वर्तमान, मौजूद ।

- अव्य. दे 'विद्यमानें' ।

विद्यमानें - अव्य. १ तत्त्वा-वधान में । २ सामने, समक्ष, उपस्थिति में । ३ द्वारा, मार्फत ।

विद्या - स्त्री १ विद्या, ज्ञान, इल्म । २ ज्ञान-विज्ञान, कला; हुनर । ३. ब्रह्मविद्या । - पीठ - न विद्यापीठ विश्वविद्यालय । -

वेतन - न छात्रवृत्ति ।

विद्याभ्यास - पु विद्याभ्यास, पढाई, विद्याध्ययन । [ छात्रा ।

विद्यार्थिनी - स्त्री विद्यार्थिनी, विद्यार्थी - पु १. विद्यार्थी, छात्र, तालिबे इल्म । २ शिष्य, चेला । [ पाठशाला, विद्यागृह ।

विद्यालय - न विद्यालय, विद्युत् - स्त्री विद्युत्, विजली ।

विद्रुम - न विद्रुम, प्रवाल, मूंगा । [ भोडा, बदशकल ।

विद्रूप - वि बदसूरत, भद्दा; विद्वान् - वि पु १ विद्वान्, पंडित । २ होशियार, जानकार ।

३ मूर्ख, दुद्ध (व्य०) ।

विद्वेष - पु विद्वेष, वैर, शत्रुता, घृणा ।

विधवा - स्त्री विधवा; मृत-भर्तृका; बेवा, रांड । - विवाह -

विधवा - स्त्री विधवा; मृत-भर्तृका; बेवा, रांड । - विवाह -

विधवा - स्त्री विधवा; मृत-भर्तृका; बेवा, रांड । - विवाह -

यु. विधवाविवाह ।

विधान - न १ कथन, वात, स्थापना, प्रतिपादन । २. विधान, आदेश । ३. ढग; प्रणाली । ४ विधि, रस्म । [रचनात्मक ।

विधायक - वि विधायक, विधि - यु १ विधि, कार्य करने का ढग, प्रयोग, कार्य; चाल-ढाल, आचार-व्यवहार । २ विधान, कानून, नियम । ३ शास्त्रसम्मत निश्चित कर्तव्य-निर्देश । ४ भाग्य, दैव । ५ ब्रह्म । ६ शीघ्र, टट्टी (व्य०) ।

- निषेध - यु विधिनिषेध, नियम, वधन, विवेक, - पूर्वक - अव्य विधिपूर्वक, विधिवत्, वाकायदा, नियमानुसार । - मडळ - न विधान - सभा, विधानमंडल, व्यवस्थापिकासभा, विधानपरिषद्, लेजिस्लेटिव कौन्सिल । - युक्त - वि वैध, नियमित, वाका - यदा, नियमवद्ध । - लिखित - न लिपी - स्त्री. ललाट-रेखा, भाग्य-लेख, तकदीर की लिखावट, भाग्य-लिपि, अदृष्ट रेखा । - वाक्य - न शास्त्रवचन, वेदवाक्य । - विधान-न शास्त्रसम्मत व्यवहार ।

विधी - दे 'विधि' । विधुर - यु. विधुर, रंडुवा (वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गयी हो) । विधेय - न विधेय (व्या०) । कर्तव्यकर्म । - वि विधेय, करनेयोग्य । विधेयक - न विधेयक, 'विल' । विधिर्य - यु विधिलिङ्ग । विध्वंस - यु विध्वंस, नाश, क्षति, तोड़फोड़ । विनति-ती - स्त्री १ विनती, विनती, प्रार्थना । २ विनय,

नम्रता ।

विनटणें - क्रि अ १ मग्न, तल्लीन होना । २ सजना, सुशोभित होना ।

विनय - यु १ विनय, नम्रता, भद्रता, गिण्टता । २ लज्जा, शील, सकोच, तकल्लुफ । - मग - यु शीलमग्न, हतकइपजती, मानहानि । - शील-वि विनय-शील, विनम्र ।

विनवणी, विनवणूक - स्त्री विनय, प्रार्थना, मिन्नत, मनुहार, निहोरा, गिडगिडाहट ।

विनवणे, विनविणें - क्रि स प्रार्थना करना, निहोरना, इत्तिजा करना, गिडगिडाना ।

विना - अव्य. विना; विना, वगैर । - कारण - अव्य नाहक, वेकार, व्यर्थ, अकारण; यो ही ।

विनाश - यु विनाश, नाश, ध्वंस, तवाही, वरवादी । [पोत ।

विनाशिका - स्त्री ध्वंसक विनिमय - यु विनिमय, अदल-वदल, आदान-प्रदान ।

विनियोग - यु १ प्रयोग, उपयोग, इस्तेमाल, व्यवहार । २ विनियोग, नियुक्ति ।

विनीत - वि १ विनीत; नम्र । २ शिक्षित, जानकार, प्रशिक्षित ।

विनोद - यु १ विनोद, हँसी, मजाक, हास्यरस । २ मनोरजन, क्रीडा, कौतूहल, प्रमोद । ३ चुट-कुला ।

विनोदी - वि १ हास्यरसा-त्मक, मजाहिया । २, हंसोड, मसखरा । [ प्रतिकूल, उदासीन ।

विन्मुख - वि विमुख, विरत, विपत्ति - स्त्री - दा - स्त्री विपत्ति, आफत, सकट, विपदा ।

विपरीत - वि विपरीत; उलटा, प्रतिकूल; विरुद्ध; वेमेल ।

विपर्यय - यु १ विपर्यय; व्यतिक्रम, विपरीतता । २ परिवर्तन, उलट-फेर ।

विपर्यस्त - वि विपर्यस्त, उलटा-पलटा हुआ, तोडा-मरोडा हुआ, विकृत, विगाडा हुआ ।

विपर्यास - यु विपर्यास, उलट-पलट, विपरीतता, प्रतिकूलता, और का और समझना ।

विपाक - यु १ विपाक, परिणाम, कर्म का फल, अत । २ पकना; पूर्ण दशा को प्राप्त होना । ३ उफान, उवाल, खमीर । [ बहुत, भरपूर ।

विपुल - वि विपुल, प्रचुर; विपुलता - स्त्री विपुलता, प्राचुर्य, बहुतायत । [ पुरोहित ।

विप्र - यु विप्र, ब्राह्मण, विफल - ङ - वि विफल, व्यर्थ, वेकार, असफल, निरर्थक ।

विभक्त - वि विभक्त, बँटा हुआ, अलग किया हुआ, भिन्न ।

विभक्ति - स्त्री विभक्ति, कारक का चिह्न (व्या०) ।

विभाडणें\* - क्रि स १ हराना, पराजय करना । २ तोडना, फोडना ।

विभाग - यु १ विभाग, अंश; भाग; हिस्सा । २ बँटवारा ।

विभागणी - स्त्री विभाजन, बँटवारा, तकसीम ।

विभागणें - क्रि स बँटवारा करना, वांटना, तकसीम करना, हिस्से करना ।

विभाजक - यु १ विभाजक, भाजक (ग०) । २ विभाजन करने वाला, वांटने वाला ।

विभाज्य - यु विभाज्य (वह

सख्या जिसमे किसी सख्या से भाग दिया जाय) ।

विभावरी - स्त्री विभावरी, रात, तारो वाली रात ।

विभिन्न - वि १ विभिन्न, भिन्न-भिन्न, अलग-अलग । २. कई तरह का, मिश्रित ।

विभूति - ती - स्त्री १ विभूति, ईश्वराश, महापुरुष, अलौकिक शक्तिसपन्न व्यक्ति । २ महत्ता; ऐश्वर्य, समृद्धि । ३ भस्म, राख, भभूत ।

विभ्रम - पु १ विभ्रम, भ्राति; भूल । २. प्रणयकेलि; नखरा, हावभाव ।

विमनस्क - वि विमनस्क; खिन्न, उदाम, अनमना ।

विमा - पु [फा 'वीमा'] वीमा, आगोप, 'इश्योरेन्स' । विम्याची पॉलिसी - स्त्री वीमा-पत्र, वीमे की पालिसी, वीमे का इकरारनामा । मु० - उत्तरविणे - वीमा कराना ।

विमान - न विमान, वायु-यान, हवाई जहाज । - तळ - न हवाई अड्डा, हवाई केंद्र, विमाना-स्थान, विमानक्षेत्र । - वाहू - (जहाज) - वि विमानवाहक (पोत) । - वेधी - वि विमान-वेधी, विमानभेदी ।

विमेदार - पु [दे० 'विमा'] वीमादार, वीमेदार, आगोपित, वीमा कराने वाला, 'पालिसी होल्डर' । [करना, रिहाई ।

विमोचन - न विमोचन, मुक्त वियोग - पु १ वियोग, विरह, बिछोह । २ विच्छेद; पार्थक्य । ३ व्यवकलन, घटाव ।

विरगुळा - पु १ विश्राम, आराम । २ दिलवहलाव, मन-

रजन । ३ तसल्ली; दिलासा ।

विरक्त - वि विरक्त, उदा-सीन, विमुख ।

विरघळणें - क्रि अ. १ गलना, घुलना । २ पिघलना; पसीजना ।

विरघळविणे - क्रि स. गलाना; घुलाना, पिघलाना ।

विरचणे - क्रि स निर्माण करना, रचना ।

विरचित - वि विरचित, रचित, निर्मित; लिखित ।

विरजण - स्त्री १ जामन, जोडन । २ दही । ३ विगाडने,

खराब करने वाली बात । मु० - घालणें - १ जमाना (दही) । २. मजा किरकिरा करना, रग मे भग करना । - पडणे - मजा किरकिरा होना, रगमे भग होना; विगाडना, खराब होना ।

विरजणें - क्रि अ जमना (दही) । - क्रि स जमाना ।

विरणें - क्रि अ १ गलना, पिघलना, घुलना, । २ जीर्ण होना, पुराना हो कर फटना । ३. ठडा होना, शात होना । ४ उड जाना (रग) ।

विरमणें - क्रि अ. १ विरमना; रमना, मन लगाना । २ रुकना; ठहरना । ३ मुग्ध हो कर रुक जाना, देर लगाना ।

विरमणें - क्रि अ शरमाना, लज्जित होना ।

विरल - दे 'विरळ' ।

विरचिरीत - वि गला हुआ, जीर्ण-शीर्ण ।

विरस - पु निराशा, रग मे भग, क्षोभ, नैराश्य, आशाभग, हताशा; विरस (रसभग) । मु० - करणे - आशाओं पर पानी फेरना, आशाभग करना । - होणें - रग

मे भग होना, आशाभग होना । विरह - पु विरह, वियोग, जुदाई ।

विरहित - विरहित, रहित, विहीन । [ वियुक्त, वियोगी ।

विरही - वि विरही, प्रिया से विरळ - वि विरल, जो घना न हो, पतला, छितरा-विथरा, दूर-दूर, अलग-अलग, दूरवर्ती । दे 'विरळा' ।

विरळा - वि विरला, असाधारण, इक्का-दुक्का, बहुतो मे से कोई एक ।

विराजणे - क्रि अ विराजना, शोभित होना, बैठना, तशरीफ रखना ।

विराजमान - वि विराजमान, प्रकाशयुक्त, चमकता हुआ, विद्यमान, बैठा हुआ ।

विराट् - वि विराट्, बहुत बडा, विशाल; महान् ।

विराणी - स्त्री १ विरहिणी । २ विरह-गीत ।

विराम - पु १ विराम, विश्राम, आराम । २ रुकना; ठहरना । ३ अत, समाप्ति, नाश । - चिह्न - न विरामचिह्न ।

विरी - स्त्री १ वीर्य, तेज । २ सत्त्व, तत्त्व । ३ तलछट ।

विशुद्ध - वि विशुद्ध, विरोधी; प्रतिकूल, खिलाफ । १ - अव्य विरोध में । [वदशकल ।

विरूप - वि विरूप, भद्दा,

विरोध - पु १ विरोध; प्रति-रोध, मुखालिफत । २ वैर, शत्रुता । - भक्ति - स्त्री १ भग-वान से वैर कर के उसके हाथो मृत्यु पाना और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना । २ ऊपर से विरोध किंतु अतर मे भक्ति करना ।

विरोधक - वि विरोधक, विरोधी, प्रतिपक्षी, मुखालिफ।  
विरोधी - वि विरोधी, प्रति-  
रोधी, प्रतिपक्षी, विपक्षी। - पक्ष -  
पु. विरोधी दल, प्रतिपक्ष, मुखालिफ जमात।

विरोधा - पु. जल-सर्प। [देरी।  
विलंब - पु. विलंब, देर,  
विलंबित - वि विलंबित,  
लटकता हुआ, धीमी लयवाला।

विलक्षण - वि ? विलक्षण,  
अद्भुत, अलौकिक, अमावारण।  
२ विचित्र, अजीब। ३ भिन्न,  
अलग, निराला। [अलग।

विलग - वि अव्यय विलग,  
विलय - पु. १ विलय, लोप,  
नाश, मृत्यु। २ विलंब। ३  
विलीन होना। मु० विलयास  
जाणें - १ विलय, लोप, नाश  
होना। २ व्यर्थ होना।

विलसणे - क्रि अ ?  
फवना, शोभा देना। २ रहना,  
व्यवहार करना। ३ विराजना।  
४ मीज, आनंद करना।

विलाप - पु. विलाप, शोक,  
रोना-धोना, रोना-पीटना। मु०-  
करणे - विलखना, कल्पना।

विलायत - स्त्री [अ] विला-  
यत, परराष्ट्र, अन्य देश, विदेश,  
यूरोप।

विलायती - वि [अ] विला-  
यती, विदेशी, यूरोपीय।  
- कोंडडा - पु. पातालमथूर,  
टर्की, गिनी-फाउल। - गवत -  
न एक प्रकार की घास, 'लूमर्न  
ग्राम', 'गिनी ग्राम'। - वार्गे -  
न विलायती वैंगन, भटा, टमा-  
टर।

विलास - पु. १ विलास,  
क्रीडा, प्रणयक्रीडा। २ मुखोप-

भोग, ऐश। ३ हावभाव।

विलासी - वि विलासी,  
ऐयाश, आरामतलब।

विलीनीकरण - न विलीनी-  
करण, विलय, विलयन, मविलन,  
इल्हाक। [कना, देवना।

विलोकणें\* - क्रि स विटो

विलोभन - न ? विलोभन,  
प्रलोभन, लालच। २ बोखा,  
भ्रम में डालना।

विलोभनीय - वि लुभावना,  
मनोहर, नुदर, दिलकश।

विलोल - वि विलोल, चंचल।

विल्हा - पु. दे 'विल्हे'।

विल्हे - स्त्री [अ 'वर्लीय.' ?]

१ विभाग, महकमा। २ किस्म,  
मह, प्रकार, दर्जा, श्रेणी, वर्ग।

३. अधिकृत प्रदेश, मकबूजा  
इलाका। - वाट - स्त्री ?

१ फ़ैसला, निपटान, निवटारा,  
निर्वर्तन, निस्तारण, व्ययन।

२ नाश, खात्मा। ३ व्यवस्था,  
क्रम। - वार - वि वर्गीकृत,

श्रेणीबद्ध;। - अव्यय क्रम में, तरतीब  
से। - वारी - स्त्री क्रम, तर-

तीब, क्रमबद्धता, अनुक्रम, वर्गी-  
करण। मु० - करणें; - लावणें -

१ वर्गीकरण करना; क्रम  
लगाना। २ निर्णय करना,

फ़ैसला करना। - वाट लावणें -  
१ ठिकाने लगाना, निर्वर्तन करना,

तरतीब देना, निपटाना, विमर्जन  
करना। २ बरवाद करना।

विवचना - स्त्री १. चिंता,  
फिक्र, उवेडवून। २ सूक्ष्म विचार,  
चिंतन। मु० - पडणे - चिंता होना।

विवक्षा - स्त्री ? विवक्षा,  
कहने की इच्छा। २ अभिप्राय,  
आशय।

विवक्षित - वि १. विवक्षित;

अभिप्रेत, निर्दिष्ट; अपेक्षित;  
उक्त, कथित। २ विशिष्ट;  
महत्त्वपूर्ण। [गद्दा। २ गुफा।

विवर - न ? विवर, विल,  
विघरण - न विघरण, स्पष्टी-  
करण, व्याख्या; व्योरा।

विवळणें - दे 'विवळणे'।

विवाद - पु. १ विवाद,  
वहस, चर्चा, वटन। २ झगडा,  
मुकदमा। - ग्रस्त - वि विवाद-

स्पद।

विवाह - पु. विवाह, व्याह,  
जादी। - मस्या - स्त्री विवाह-

मस्या। ['विवक्षा', 'विवक्षित'।  
विविक्षा; विविक्षित - दे

विविध - वि विविध,  
विभिन्न प्रकार का, विभिन्न।

विविधोद्देशी - वि बहुद्देशी,  
, मल्टीपरपंज'।

विवेक - पु. १ विवेक,  
विचार। २. यथार्थज्ञान, छान-

बीन। ३ भले-बुरे की पहचान,  
तारतम्य, नदसन् का निर्णय।

विवेचक - वि विवेचक, जो  
विवेचन कर सके, चतुर, जानी।

विवेचन - न विवेचन,  
मीमांसा; चर्चा, स्पष्टीकरण।

विव्हळ - वि. विव्हळ; अशांत;  
व्याकुल, क्षुब्ध, बेचैन, पीड़ित,  
दुःखी।

विव्हळणें - क्रि अ कराहना,  
तडपना, छटपटाना; आह-आह  
करना।

विशद - वि ? विशद, माफ़;  
स्वच्छ। २ स्पष्ट, प्रकट।

विशारद - वि विशारद;  
कुशल, विद्वान्, अनुभवी;  
चतुर। [वृहत्, वडा, विस्तृत।

विशाल - ल - वि विशाल,  
विशिष्ट - वि विशिष्ट,

विशेष; खास; असाधारण, विशेषतायुक्त ।

विशी - स्त्री. १ बीस वर्ष की आयु । २ बीसी, कोडी । - वाविशी - स्त्री उन्नीस-बीस; बहुत थोडा फर्क या अंतर ।

विशुद्ध - वि विशुद्ध, साफ, शुद्ध, वेदांग, पवित्र, खालिम ।

विशेष - पु विगेषता, खासियत, खूसूसियत, खूबी । - वि विशेष; असाधारण, खाम, गैरमामूली । - अव्य खास कर के, विशेषतया, जानबूझकर । - नाम - न व्यक्तिवाचक सज्ञा (व्या०) ।

विशेषण - न विशेषण (सज्ञाका गुण बतलाने वाला शब्द) (व्या०) ।

विशेषत, विशेषे फरुन - अव्य १ विशेषत; खास कर, खाम तौर से । २ प्रायः ।

विश्रान्ति - ती - स्त्री १. विश्रान्ति, विश्राम, आराम । २. मनरजन । - गृह - न विश्रामस्थान, विश्रामालय । मु० - घेणें - विश्राम, आराम करना, सुस्ताना । [पृथक्करण ।

विश्लेषण - न विश्लेषण, विश्वभर - पु १ विश्वंभर, ईश्वर । २ सफर का विन्तर, 'होल्डाल' ।

विश्व - न विश्व, ममार, दुनिया । - कुटुंबवादी - वि सारे ससार को एक परिवार मानने वाला; विश्वकृष्टि, सब के प्रति सद्भाव रखने वाला । - कोश - पु विश्वकोश-प । - विद्यालय - न विश्वविद्यालय, 'युनिवर्सिटी' ।

विश्वसनीय - वि विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वासयोग्य, वाएत-

वार ।

विश्वस्त - वि पु १ न्यासी; न्यासघारी, अमानतदार; 'ट्रस्टी' । २ विश्वस्त, विश्वसनीय ।

विश्वास - पु १ विश्वास; भरोसा, यकीन । २ श्रद्धा । - घात - पु विश्वासघात, धोखा; दगावाजी । - घाती - वि विश्वासघाती, दगावाज, धोखेवाज । मु० (वर) - असणें, ठेवणें - (का) विश्वास होना, करना । विश्वासात घेणे - रहस्य करना, भेद खोलना, हमराज, राजदार बनाना ।

विश्वासू - वि विश्वासपात्र, विश्वस्त, विश्वसनीय, वफादार ।

विष - न १ विप, जहर । २ गरल । ३ अत्यंत कड़वी चीज । ४ बड़ी घातक वस्तु, वात । - प्रयोग - पु किसी को जहर खिलाना । -

विषण्ण - वि १ विषण्ण; दुखी, उदास, शोकमग्न । २ मुरझाया हुआ ।

विषम - न विपम, सकट; खतरा । - पु १ विपमज्वर, जीर्णज्वर । २ आत्रज्वर, 'टाइफायड' । - वि १ विपम, असम, चरम (जलवायु) । २ असमान, दो से पूरा-पूरा न बँटने वाली (सह्या) । ३ कठिन, जटिल, दुर्वोध । ४ खतरनाक, बुरा, विपरीत, प्रतिकूल । ५ अद्वितीय, असाधारण, लाजवाब । - ज्वर - पु दे 'विषम' - पु ।

विषय - पु १ विषय, वात । २ कार्य, कारवार । ३ भौतिक पदार्थ, इन्द्रियार्थ । ४ प्रकरण; प्रसंग, मजमून । ५ इन्द्रियजन्य आनंद, विषयवासना । - नियामक समिति - स्त्री विषय निर्धारिणी

समिति; विषय निर्वाचनी समिति । - वासना - स्त्री विषयवासना, विषयसंग; विषयासक्ति ।

विषयक - वि विषयक, सबधी, विषय का । [ वारे में; सबध में ।

विषयी - अव्य विषय मे; विषयी - वि विषयी, कामी; विलासी ।

विषाद - पु १. विपाद, खेद, दुख, रज, गम । २ उदामी, नैराश्य । ३ सुस्ती, क्लाति ।

विषार - पु १ जहरीलापन । २ गरल, जहर । ३ विप से होने वाली पीडा ।

विषारी - वि विषैला, जहरीला ।

विषुववृत्त - न विषुवरेखा, विषुवद्वृत्त, विषुवत् रेखा ।

विष्ठा-ष्ठा - स्त्री विष्ठा, मल, पाखाना ।

विसगत - वि विसगत, असगत, वेमेल, वेतुका ।

विसवर्णे - क्रि अ १ आधार रखना, आश्रित, निर्भर होना, भरोसा कर के बैठना, आस लगाना । २ सुस्ताना; आराम करना । ३ भूल जाना ।

विसवाद - पु १ विरोध, भेद, फर्क । २ असगति ।

विसवादी - दे 'विसगत' । - पु विसवादी (राग मे कभी कभी लगने वाला स्वर (सगीत) ।

विसकटणे, विसकळित - दे 'विस्कटणे', 'विस्कळित' ।

विसण - न गरम पानी की गरमी को कम करने के लिए उसमे मिलाया जाने वाला ठंडा पानी । मु० - घालणे - समोना ।

विसर - पु विस्मरण, विस्मृति, भूल जाना । - भोळा - वि भुलकड । मु० - पडणे, - होणे -



भूल जाना, विस्मरण होना ।

विसरणें - क्रि अ भूलना, भूल जाना । - क्रि स भुलाना, विसारना । [ विस्मरणशील ।

विसराळू - वि भुलकड, विसरून - अव्य भूल से, भूल कर, गलती से ।

विसर्जणे - स्त्री स १ त्यागना, छोडना । २ प्रतिमा को धारा मे वहा देना ।

विसर्जन - न १ विसर्जन, त्याग, छोड देना, फेंकना । २ (मूर्तीचि) विसर्जन, भसान । ३ अत, समाप्ति ।

विसर्जित - वि १ वरखास्त किया हुआ, तोडा हुआ, तितर-वितर किया हुआ । २ त्यक्त, छोडा हुआ ।

विसविशीत - वि १ फुसफुसा, ढीला - ढाला, जो ठम ( घनी बुनावट का) न हो । २ जीर्ण - शीर्ण । [ खँगालना ।

विसळणे - क्रि स घोना, विसावणे - दे० ' विसावणे ' ।

विसांवा - पु १ विश्राम, आराम । २ मनरजन, दिलवह्लाव ।

विसा - पु वीमी, कोडी ।

विसार - पु वयाना, पेशगी, साई । - पावती - स्त्री पेशगी रसीद, अग्रिम पावती ।

विसावणें - क्रि अ १ विश्राम करना, सुस्ताना । २ रकना, ठहरना ।

विसावा - दे० ' विसावा ' ।

विस्कटणे - क्रि अ छितरना, तितर-वितर होना, फैलना, विखर जाना । - क्रि स विखेरना, फैलाना, अस्तव्यस्त, तितर-वितर करना; छितराना ।

विस्कळित - वि विशृंखलित,

विखरा हुआ, छितरा - वितरा, ढीला-ढाला, अस्तव्यस्त ।

विस्तव - पु अगार, अगारा, आग । मु० विस्तवाशीं खेळणे - अगारो पर पैर रखना, जान-बूझ कर खतरा मोल लेना । मघून विस्तव न जाणें - बडा वैर होना ।

विस्तार - पु १ विस्तार, फैलाव, लवाई-चौडाई । २ व्योरा, विवरण । ३ तूमार । -पूर्वक-अव्य सविस्तार, व्योरे-वार, तफसीलवार, विस्तार के साथ ।

विस्तारणे - क्रि अ फैलना, बढना । क्रि स फैलाना, बढाना । [विस्तीर्ण, फैला हुआ ।

विस्तृत - वि विस्तृत, विस्फारणे - क्रि स १

फैलाना, खोलना । २ आंखें फाड कर देखना ।

विस्मय - पु विस्मय; आश्चर्य, अचभा, तअज्जुव ।

विस्मरण - न विस्मरण, भूल जाना ।

विस्मृति - स्त्री विस्मृति, विस्मरण, भूल जाना ।

विहग विहंगम, विहग - पु विहग, विहगम, विहग, पक्षी, पछी, चिडिया ।

विहगमावलोकन - न सरनरी तीर पर देखना, विहगम दृष्टि डालना ।

विहरणें - क्रि अ विहार करना, आनद के लिए घूमना-फिरना ।

विहार - पु १ विहार, मटरगश्ती, घूम कर मनोरजन करना । २ क्रीडा, क्रीडोद्यान । ३ भिक्षुओ का मठ ।

विहारणे - दे० ' विहरणे ' ।

विहित - विहित, उचित, जायज । [ या पुत्री की सास ] ।

विहीण - स्त्री समघिन (पुत्र विहीन - वि विहीन, वचित, रहित । [ कुर्मा, कूप ।

विहीर - स्त्री [ अ ' वीर ' ] विळखा - पु पाश, बघन, फेरा, लपेट, पकड, घपची ।

विळविळीत - वि चिपचिपा, गिजगिजा ।

विळा - पु [ क ' ईळेगे ' ] बुरपा, हँसिया, दांती, दरांती । विळचा-भोपळ्याचें सत्य - न जानी दुश्मनी, सांप-नेवले की मित्रता ।

विळी - स्त्री [ क ' ईळेगे ' ] पहेंसुल (तरकारी काटने का हँसिया की तरह का एक औजार) ।

वी\* - क्रि स [ ' विणें ' ] क्रिया का रूप ] जन्म देता है, व्याता है ।

वीज - स्त्री १ विजली, विद्युत् । २ वज्र, गाज (विजली की कडक) । -वि बहुत तेज, अति चचल, द्रुतगामी ।

वीट - स्त्री ईट ।

वीट - पु ऊव, अरुचि, उक-ताहट, घृणा । मु० - येणे - ऊव जाना, उकताना ।

वीड - + पु न १ कलाई की नाप । २ प्रकार, ढग । ३ नाप, नमूना । [ पोत ।

वीण - स्त्री बुनावट, बुनाई, वीण - स्त्री १ जन्म देना, व्याना, जनन । २ सतान, पैदाइश । ३ व्याने का मौसिम ।

वीण - अव्य विना, विना; सिवा । [ (सितार जैसा एक वाजा) ।

वीणा - स्त्री वीणा, वीन वीत - स्त्री वित्ता, वालिस्त ।

- भर - वि एक बालिस्त;  
छोटा-सा ।

वीत - न दे 'वेत' ।

वीर - पु. १. वीर, योद्धा ।  
२ वीर पूर्वज की छोटी प्रतिमा ।  
- वि वीर, शूर, बहादुर, जवाँ-  
मर्द, दिलेर । - शैव - पु. लिंगा-  
यतो का एक संप्रदाय ।

वीरश्री - स्त्री शौर्य; शूरता,  
जोश, आवेश ।

वीर्य - न १. वीर्य, शुक्र;  
रेत । २ वीरता, पौरुष;  
साहस । ३ काति, दीप्ति,  
ओज; तेज ।

वीस - वि वीस; २० ।

वुइल - न [ अ ] इच्छापत्र,  
वसीयतनामा ।

वृद - पु. १. वृद, समूह;  
मडली । २ झुड । ३ ढेर । ४  
सम्मिलित गान । - वादन - न  
वृदवादन; वृदवाद्य, ' आर-  
केस्ट्रा ' ।

वृदावन - न १ वृदावन,  
तुलसी का पीघा लगाने का चबू-  
तरा या गमला । २. गोकुल के  
पास का एक वन ।

वृक - पु. वृक, भेडिया ।  
- युद्ध - न छापामार लडाईं ।  
वृक्क - पु. वृक्क, गुरदा,  
' किडनी ' । [ क्षुप ।

वृक्ष - पु. वृक्ष; पेड़, बड़ा  
वृक्षारोपण - न वृक्षारोपण,  
पेड़ लगाना ।

वृत्त - न. १. वृत्त; वृत्तात,  
घटना; खबर, समाचार । २  
आचरण; चालचलन । ३ वृत्त,  
मडल; वर्तुलाकार क्षेत्र, परिधि ।  
४ छंद । - पत्र - न समाचार-  
पत्र; अखबार ।

वृत्तांत - पु. वृत्तात, समा-

चार; खबर । २ विवरण ।

वृत्ति - स्त्री १ वृत्ति;  
स्वभाव; आदत । २ रोजी,  
जीविका । ३ पुरोहिताई । ४  
मन की अवस्था; हालत, कार्य,  
व्यापार । - छेद - पु. वृत्तिच्छेद,  
जीविका-हानि, किसी की रोजी  
छीनना ।

वृथा - अव्य वृथा; व्यर्थ,  
वेकार, बेमतलब, नाहक ।

वृद्ध - वि १ वृद्ध, बूढ़ा,  
बडा । २. चतुर, चालाक ।  
३ विद्वान् । - कपि - पु १ बहुत  
बूढ़ा आदमी । २ पुराना घाघ । ३  
बहुत चालाक आदमी, काइर्या ।

वृद्धापकाळ - पु. वृद्धावस्था;  
बुढापा ।

वृद्धिगत - वि बढ़ने वाला;  
बढ़ा हुआ, उन्नत ।

वृद्धि - स्त्री १. वृद्धि, बढ़ती;  
विस्तार, फैलाव । २. उन्नति,  
प्रगति; अभ्युदय । ३. व्याज,  
लाभ; मुनाफा । ४. जननाशीच,  
वृद्धि । [ विच्छू । २ आठवीं राशि ।

वृश्चिक - पु. १ वृश्चिक,  
वृष - पु. वृष, बैल; सांड ।

वृषण - पु. न वृषण; अड-  
कोश, अड । - वृद्धि - स्त्री  
अडवृद्धि, फोला बढ़ने की  
बीमारी । [ सांड । २ वृष राशि ।

वृषभ - पु १ वृषभ, बैल,  
वृष्टि - स्त्री वृष्टि, वर्षा,  
झडी; बारिश, बौछार ।

वेग - स्त्री बाहुपाश, भुजपाश  
(वाँहो को फैला कर हथेलियों को  
मिला लेने से बनने वाला घेरा) ।  
मु० - मारणें - वाँहो के भीतर  
भर लेना, गले लगाना, गोद में  
उठाना, छाती से लगाना ।

वेगाडणें - क्रि अ. गिडगिडाना,

मुँह वाना, बनाना, विचकाना ।

वेच - दे. 'वेच' ।

वेचक - वि चुनिदा; चुना  
हुआ; बढ़िया । [ छँटाई ।

वेचणी - स्त्री चुनाई, छांट;  
वेचणें - क्रि स १ चुनना;  
बीनना; छांटना । २ चुगना ।  
३ जमा करना । ४ घटाना, कम  
करना । दे. 'वेचणें' ।

वेचा - दे 'वेचा' ।

वेघळा - वि १ अस्तव्यस्त;  
वेढगा, घामड । २ परेशान ।  
दे 'वेघळी' ।

वेघळी - वि स्त्री फूहड,  
वेशऊर । दे. 'वेघळा' ।

वे, वे. शा. सं. - वि वेद-  
शास्त्रसंपन्न । [ (वृक्ष) ।

वेकळी - स्त्री विवकत, भ्रुवा  
वेखड - न वच (एक पीघा  
जिसकी जड दवा के काम आती है) ।

वेग - पु. १. वेग; गति,  
रफ्तार । २ त्वरा, जल्दी;  
शीघ्रता । ३ तीव्र प्रवृत्ति;  
प्रचडता । ४ प्रवाह, धारा । ५  
मलमूत्र के निकलने की प्रवृत्ति ।  
- वान् - वि वेगवान्, तेज,  
द्रुतगामी, फुर्तीला ।

वेगवेगळा - वि अलग-अलग,  
अन्यान्य, विभिन्न; भिन्न ।

वेगळा - वि जुदा, अलग,  
न्यारा, पृथक्, निराला । - ला -  
वि अलग-अलग; पृथक्-पृथक् ।

वेगळीक - स्त्री अलगता;  
जुदापन, निरालापन ।

वेगळें - वि न अलग, जुदा,  
- दे 'वेगळा' । - पण - न  
अलगपन, अलहदगी । मु० - होणे  
- १ अलग होना, अलगीझा  
होना । २ उचटना, उचडना ।

वेच - पु. [ क 'वेच्च' ] १

खर्च, व्यय । २ नाश, क्षय ।

वेचक - दे 'वेचक' ।

वेचणें - क्रि स [क 'वेच्च']

१. खर्च करना, व्यय करना, देना । २ लगाना, विताना ।

३ समाप्त करना । ४ वेचना ।

- क्रि अ १ खर्च होना । २ खत्म, समाप्त होना । दे 'वेचणे' ।

वेचा - पु १ चयन । २ उद्धरण । ३ सग्रह ।

वेज - जें - न १ मोती, मणि आदि में बनाया हुआ छेद । २ सूराख, छेद । ३ सुई का नाका ।

मु० वेजों उतरणें - १ छेद का बड़ा होना । २ कीमत घटना ।

वेड - पु - दे 'वेटाळा' ।

वेटाळणें - क्रि स लपेटना, वटना (रस्सी) ।

वेटाळा - पु, वेटोळें - न १ गेंडली, गेंडुरी । २ कुंडली (साँप की) । ३ लपेट, चक्कर ।

वेठ - छी १ वेगार, ज़वर्दस्ती, विना उजरत दिये कराया जाने वाला काम । २ वेमन का काम । मु - करणें, - काढणें,

- वळणें - वेगार टालना, विना मन लगाये काम करना । वेठीस

घरणें - ज़वर्दस्ती काम करवाना ।

वेड - न १ पागलपन, उन्माद । २ मूर्खता, नासमझी ।

३ सनक, दीवानापन, धुन । ४ शीक, चमका, चाट । - गळ,

- झवा, - पट, - सर - दे क्रम में । मु० - घेऊन पेडगावला जाणें; - पाघरणें - जानते हुए भी किसी उद्देय में अनजान बनना ।

- लागणें - १ पागल होना । २ शीक चराना । - लावणें - पागल बनाना, मोह लेना ।

वेडगळ - वि १ पागलो का -

सा, नासमझी का; मूर्खतापूर्ण ।

२ पगला, बुद्धू । दे 'वेडमर' ।

वेडगेला - वि पगला ।

वेडझवा - वि [ग्रा०] पगला, मूर्ख, अनाडी, गँवार ।

वेडववू - वि, पगला, पागल

वेडसर - वि १ अथपगला, वावला, सिडी, वौडम । २ झक्की, सनकी । ३ दे. 'वेडगळ' ।

वेडा - वि १ पागल, दीवाना, वावला, सिडी, विक्षिप्त । २ सनकी । ३ मूर्ख, बुद्धू ।

- पिसा - वि पागल; दीवाना ।

- पीर - पु १ दीवाना । २ सनकी, झक्की । ३ गावदी, मूर्ख ।

- वाकडा - टेढा - मेढा, उलटा - सीधा, वेडगा । - विद्रा - वि

भोडा, वदमूरत, भद्दा, कुल्प ।

वेड्याचा वाजार - पु मूर्खों का जमघट, पागलो का समूह ।

वेड्यांचें इस्पितळ - न पागलखाना । कहा० - वेड्याला काय शिणें असतात ? क्या पागल के सींग होते हैं ? ऊपर से देखने पर पागल तो वैसा ही दीखता है जैसा कि साधारण आदमी ।

वेडावणें - क्रि स १ मुंह बनाना, मुंह चिठाना । २ नकल उतारना । ३ लुभाना, मोहित करना । - क्रि अ पागल बनना ।

वेडें - वि न दे 'वेडा' ।

- पीक - न विना परिश्रम के बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली फसल ।

मु० - वाकडें होणें - १ बुरा होना, मर जाना, आफत आना । २ विधवा हो जाना ।

वेडणें - क्रि स १ घेरना, छेंकना, फँसाना, रोकना, घेरा डालना । २ लपेटना । - क्रि अ

घिरना, घेरें में आना, घेरा जाना ।

वेडा - पु १ वेरा, मुहासरा । २ पेच, फेरा, लपेट, चौगिर्दा घुमाव । मु० - घालणें, - देणें - घेरना, मुहासरा करना ।

वेडी - छी शाम (घातु का बना हुआ छल्ला या सींगी-नी जो लकड़ियों पर लगाते हैं) ।

वेडें - न १ छल्ला; हलका । २ अनवट (एक गहना जो पैर के अँगूठे में पहना जाता है) ।

वेण - श्री, वेणा - छी बहु प्रभववेदना, प्रभवव्यथा, वच्चा जनते समय होने वाली पीडा ।

वेणी - छी १ वेणी, वेनी, वालो की चोटी, मेडी (तीन लडियों वाली चोटी) । २ जूडे पर बाँधने या वेनी में पहनने का गजरा । ३ त्रिवेणी (सगम) । ४ धारा, प्रवाह । - दान - न वेणीदान (प्रयाग में बाल कटवाने का एक मस्कार) । - फणी - छी कंधी-चोटी, वनाव-सिगार । मु० - करणें, - घालणें - चोटी गूँथना, जूडा बाँधना ।

वेणु - पु १ वेणु, बाँस । २ बाँसुरी । - छी वेणु, बाँसुरी ।

वेत - पु वेत, वेत्र, वेतस ।

वेत - न १ व्याना । २ प्रसव की वारी (पशुओं की) ।

वेतन - न १ वेतन, तनख्वाह, माह्वारी । २ पारिश्रमिक ।

वेताळ - पु. वेताल, वँताल (एक प्रेतयोनि) । मु० - पूर्वस्थलों

येणें - वँताल का ठिकाने आना, विफरे हुए आदमी का शात हो जाना । [ज्ञाता ।

वेत्ता - वि वेत्ता, जानकार, वेद - पु १ वेद । २ ज्ञान ।

३. चार की मंख्या । - मूर्ति - छी पु. वेदमूर्ति, वेदज्ञ ब्राह्मण । - शास्त्र

संपन्न - वि वेदज्ञ; वेदो का जानकार।

वेदना - स्त्री वेदना, पीडा, व्यथा, कसक, कष्ट, दुःख।

वेदांत - पु १ वेदांत; ब्रह्म-विद्या। २. बड़ा ज्ञान।

वेध - पु १ वेध, वेधना, छेद, सुराख; छिद्र। २ निशाना; लक्ष्य। ३ सूर्यग्रहण से पूर्व चार और चंद्रग्रहण से पूर्व तीन प्रहरो का समय। ४ चिंता, फिक्र ५ विरोध, बाधा। - शाळा - स्त्री वेधशाला, जतरमतर, मानमदिर। मु० - घेणें - यत्रो की सहायता से ग्रहो आदि की गति का पर्यवेक्षण करना। - लागणे - चिंता होना।

वेधक - वि १ वेधक; छेद करने वाला, छेदने वाला (रत्नो आदि को)। २ खींचने वाला; आकर्षक। ३ मनोहारी, दिल-चस्प।

वेरीं - स्त्रीं - अव्य तक, पर्यंत।

वेल - पु. स्त्री १ वेल, वेलि, लता। २ लता की शकल के फूल पत्ते। - पत्ती, - बूट्टी स्त्री वेलबूटा, कामदानी (सलमे, सितारे आदि का काम)। - विस्तार - पु वश वढना। मु० - माडवास जाणें - १ वेल वढना, वश वढना। २ वेल मँडे चढना, काम का पूरा होना।

वेलची - स्त्री, वेलदोडा - पु इलायची, एला।

वेलंटी - स्त्री 'ड' (f) और 'ई' (i) का स्वर चिह्न; इकार या ईकार।

वेला - दे. 'वेळा'।

वेली - दे 'वेल'।

वेलहाळ - पु. १. विस्तार, फलाव। २ अतिशयोक्ति; म हिं श को ...४२

अत्युमित। - वि १ प्यारा, लाडला। २ सुंदर। ३ फैला हुआ। ४ वातूनिया; गपोडिया।

वेव्हार, वेश - दे 'व्यवहार'; 'वेप'।

वेशीवर - दे 'वेश' मे।

वेश्या - स्त्री वेश्या; कसवी, गणिका, रडी। - गमन - न वेश्यागमन। - व्यवसाय - पु वेश्यावृत्ति। वेश्याची पेठ - स्त्री चकला, वेश्याथो का अड्डा, वेश्यालय, कसबीखाना।

वेप - पु १ वेप, वेश; पोशाक, पहनावा। २ (बदला हुआ) भेस। ३ वहाना, ढोंग। - भूषा - स्त्री वेशभूषा, पहनावा, साजसिंसार।

वेष्टण - न - न १ वेष्टन, वेठन, आवरण। २ घेरना, लपेटना। [ घिरा हुआ।

वेष्टिलेला - वि आवेष्टित,

वेस - स्त्री १ नगरद्वार, शहरपनाह (नगर के परकोटे) का दरवाजा। २ सिंहद्वार, सिंहपौर। - कर - पु नगरद्वार की रक्षा करने वाला हरिजन व्यक्ति। मु० वेशीला बाघणें, वेशीवर टागणें - सब पर जाहिर कर देना।

वेसण - स्त्री १ नकेल, नथनी। २ बुलाक (गहना)। ३. मुहार (ऊँट की नकेल) मु० - घालणे - नाथना, नकेल डालना, वश में कर लेना। [ रडी।

वेसवा - स्त्री वेश्या, कसवी, वेहकळी, वेहकळी - दे 'वेकळी'।

वेळ - स्त्री पु १ समय; वेला, वक्त। २ फुरसत। ३ मौका, अवसर। ४ देर, देरी,

विलव। ५ मुहूर्त। - स्त्री. १. मौसिम; समय। २ दिन का आधा भाग; सुबह; दोपहर।

- अवेळ - स्त्री समय-असमय, देर-अवेर। - फाळ - पु समय, अवसर; दे. 'वेळअवेळ'।

- प्रसग - पु कुवेला, कुसमय; बुरा वक्त। - प्रसंगी - अव्य.

१ आडे समय मे। २ ज़रूरत पडने पर, समय आने पर। मु० - करणे - समय लगाना, देरी करना। - काढणे - किसी तरह समय विताना, देर लगाना।

- दबडणे - समय गँवाना।

- मारून नेणे - होशियारी से किसी तरह निभा लेना।

- लावणें - समय लगाना, देरी करना। वेळेनुसार, वेळेवर, वेळोवेळीं - दे क्रम में।

वेळ - स्त्री दे 'वेळा'।

वेळणी - स्त्री १ चावल से मांड निकालने का तवे जैसा वर्तन। २ थाली; तश्तरी। ३ ढक्कन।

वेळणे - क्रि. स पकने वाले चावल से मांड निकालना। दे 'वेळविणें'।

वेळविणे - क्रि स मटकाना, लचक के साथ हिलाना, झुकाना; घुमाना।

वेळां - अव्य वार; दफा।

वेळा - स्त्री १. वेला (समुद्र और स्थल की सीमा)। २ समुद्र-तट, किनारा।

वेळापत्रक - न वेलापत्रक, समयसूची, समयसारिणी, समय-सारणी, 'टाइम टेबुल'।

वेळावणें - दे 'वेळविणें'।

वेळीं - अव्य समय पडने पर, मौके पर। - अवेळीं - अव्य समय

असमय, मौक़े-वेमौके ।

बेळ - पु. वेणु; वाम ।

बेळेंनुसार - अव्य १ समय के अनुसार, समय पर, वक्त पर ।

२. मौका आने पर, कभी-कभी ।

बेळेंवर - अव्य. समय पर, ठीक वक्त पर। [पर, वक्त रहते ।

बेळेंवारों - अव्य उचित समय

बेळोबेळा - लीं - अव्य

समय-समय पर, वार-वार ।

बेचणें - दे 'बैचणें' ।

बैकल्पित - वि बैकल्पिक, ऐच्छिक, सदिग्ध, अनिश्चित ।

बैकल्य - न बैकल्य, न्यूनता; पगुता, त्रुटि, व्याकुलता ।

बैकुठ - पु. बैकुठ, विष्णुलोक; स्वर्ग । - चतुर्दशी - स्त्री बैकुठ-चतुर्दशी; कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी । - वासी - वि स्वर्गवासी, स्वर्गस्थ, मरहूम ।

बैगुण्य - न बैगुण्य, दोष, त्रुटि, अभाव, गुण या धर्म की हीनता ।

बैचणें - क्रि स सूप से पछोर कर छोटे और बड़े दानों को अलग करना ।

बैचित्र्य - न वैचित्र्य; विचित्रता, विविधता, अनोखापन, निरालापन ।

बैदूर्य - न वैदूर्य, वैदूर्य, लहसुनिया (एकरत्न) ।

बैताग - पु. परेशानी, क्षुब्धलाहट; भ्रूव, अरुचि ।

बैतागणें - क्रि स परेशान होना, घुसलाना, ऊबना, विरक्त होना ।

बैदू - पु १. कठवैद (अनाड़ी या अताई वैद्य); अताई, भगली, नीमहकीम । २. मुसहर ।

बैद्य - पु वैद्य, वैद,

आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सक । -

राज - पु. वैद्यराज, श्रेष्ठवैद्य ।

वैद्यक - न वैद्यक, चिकित्सा-शास्त्र, आयुर्वेद; वैद्यविद्या ।

वैद्यकी - स्त्री वैद्य का पेशा ।

वैद्यकीय तपासणी - स्त्री स्वास्थ्यपरीक्षा, डॉक्टरी-परीक्षा ।

वैद्य - वि वैद्य, कानूनी, जायज़; विधिसगत ।

वैधव्य - न वैधव्य, रंडापा ।

वैपुल्य - न वैपुल्य, विपुलता, प्राचुर्य, समृद्धि ।

वैफल्य - न वैफल्य, विफलता, निरर्थकता ।

वैभव - न १ वैभव, ऐश्वर्य, शान, ठाठ । २ शक्ति, महत्ता ।

वैमनस्य - न वैमनस्य, वैर, अनवन, शत्रुता, दुश्मनी ।

वैमानिक - पु. वैमानिक, विमानचालक, 'पायलट' ।

- वि वैमानिक, विमानसवधी । वैयक्तिक - वि वैयक्तिक, व्यक्तिगत, जाती ।

वैयर्थ्य - न वैयर्थ्य, व्यर्थता ।

वैयाकरण-णी - पु. वैयाकरण, व्याकरण जानने वाला ।

वैर - न वैर, वैर, दुश्मनी, अदावत । - बुद्धि - स्त्री प्रति-शोधवृत्ति, प्रतिहिंसा की भावना,

बदला लेने की भावना । -भाव - पु. वैरभाव, शत्रुता । मु० उगविणें - बदला लेना ।

वैरण - स्त्री चारा, घास

वैरणें - क्रि स १ पकाने के लिए डालना । २ ढकेलना । ३ समर्पित करना ।

वैरा - पु. एक समय का सीघा (चावल, दाल आदि का) ।

वैराग्य - न वैराग्य, विरक्ति, उदासीनता ।

वैराण - वि [फा 'वीरान']

१ वीरान, उजडा हुआ, जनहीन । २ तवाह, वरवाद ।

३ सूखा, जलहीन । [शत्रु स्त्री ।

वैरिणी - स्त्री वरन, वैरिन, वैरी - पु. वैरी, वैरी, शत्रु, दुश्मन । - वि विरोधी, शत्रुता-

पूर्ण, वैरी । वैरीण - दे० 'वैरिणी' ।

वैल - स्त्री चूल्हे में दाहिनी या बायी ओर का भाग ।

वैवाहिक - वि वैवाहिक; विवाहसवधी । - हक्क - पु. दाम्पत्य अधिकार ।

वैशाख - पु. वैशाख, वैशाख ।

वैशिष्ट्य - न वैशिष्ट्य, विशेषता, खासियत, खसूसियत ।

वैश्य - पु. वैश्य, बनिया, व्यापारी ।

वैपम्य - न १ वैपम्य, विप-मता, अनुपातराहित्य । २ जलन, ईर्ष्या, डाह, द्वेष ।

वैषयिक - वि वैषयिक, विषय-मुखमवधी, कामवामना - नवधी ।

वैष्णव - पु. १ वैष्णव, विष्णुभक्त । २ विष्णु की उपासना करने वाला एक धार्मिक संप्रदाय, इस संप्रदाय का अनुयायी ।

वो - इस अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द 'ओ' में देखिए ।

वोपणें - क्रि स देना, वचना ।

व्यग - न. १ व्यग, व्यग्य, ताना, चुभती बात । २ त्रुटि, कमी; खराबी, दोष, ऐव । - चित्र - न व्यगचित्र, 'कार्टून' । - चित्र-कार - पु. व्यगचित्रकार, 'कार्टू-निस्ट' । - युक्त - वि १ ऐवदार; ऐवी । २. विकलाग,

न्यूनाग ।

व्यग्य - दे 'व्यग' ।

व्यजन - न १ व्यजन (स्वरहीन वर्ण) (व्या०) । २ भोजन-साअग्नी, मसाले आदि; सालन, लगावन ।

व्यक्त - वि व्यक्त, प्रकट, प्रत्यक्ष, खुला, स्पष्ट, जाहिर ।

व्यक्ति - स्त्री १, व्यक्ति (पु), जन, आदमी । २. व्यक्ति (स्त्री); स्पष्टता, प्रकट रूप । - दर्शन - न चरित्रचित्रण । - स्वातन्त्र्य - न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ।

व्यग्र - वि व्यस्त, सलग्न, तल्लीन, व्यग्र, चिंतित, व्याकुल, परेशान ।

व्यतिपात - पु. १ व्यतिपात (विष्कम आदि सत्ताईस योगो मेंसे एक जो असुभ माना जाता है) । २ अपशकुन, असगुन । ३ शरारती लडका ।

व्यतिरिक्त वि व्यतिरिक्त, पृथक्, भिन्न । - अव्य व्यतिरिक्त; अतिरिक्त, अलावा, सिवा, छोड कर ।

व्यत्यय - पु १ व्यत्यय, विरोध, रुकावट, बाधा, दिक्कत । २ विपर्यय, वैपरीत्य ।

व्यथा - स्त्री व्यथा, पीडा, तकलीफ, दुख, बेचैनी ।

व्यथित - वि व्यथित, पीडित, दुःखित ।

व्यभिचार - पु. १ व्यभिचार, अनुचित यौन संबध, जिना, बदकारी । २ नियम का अपवाद; गलत हेतु । ३ कृतघ्नता ।

व्यभिचारिणी - वि स्त्री १. व्यभिचारिणी, हरजाई, पुश्चली, कुलटा । २ स्थिर न रहने वाली (बुद्धि) ।

व्यभिचारी - वि १ व्यभिचारी, दुश्चरित्र; बदकार । २ अस्थायी; भग करने वाला, अस्थिर । [ २ नाश ।

व्यय - पु १ व्यय; खर्च । व्यर्थ - वि व्यर्थ, निरुपयोगी; अकारण, बेकार, निष्फल । - अव्य व्यर्थ, नाहक, यो ही ।

व्यवच्छेदक - वि व्यवच्छेदक, विशेषता दिखलाने वाला, अलग करने वाला ।

व्यवधान - न १ व्यवधान, बीच में पडने वाली वस्तु, बाधा । २ खड, गतिरोध । ३. ध्यान न रहना ।

व्यवसाय - पु. व्यवसाय, व्यापार, पेशा, कारबार । २ प्रयत्न, प्रयास ।

व्यवस्था - स्त्री १ व्यवस्था, प्रवध, तरतीब, इतजाम । २ विधान, कानून; कानून का मत । ३ निर्णय, फैसला ।

व्यवस्थापक - वि पु. व्यवस्थापक, प्रवधक ।

व्यवस्थित - वि व्यवस्थित, ठीक हालत में किया हुआ, अच्छा, करीने से रखा हुआ । - अव्य सुचारु रूप से, अच्छी तरह; ठीक-ठीक, तरतीब से । मु०-लावणं - सहेजना, संवारना ।

व्यवहार - पु. १ व्यवहार, कार्य । २ आचरण; वर्तवि । ३ कारबार; पेशा, व्यापार, महाजनी, लेन-देन । ४ प्रधा, रिवाज । ५ मुकदमा, मुकदमेका विचार । ६ औचित्य । - कुशल-वि व्यवहारज्ञ, दुनिया के तौरतरीको का जानकार । - ज्ञान - न व्यवहारज्ञान, दुनिया के तौरतरी-

को की जानकारी । - शून्य - वि दुनिया के तौरतरीको से अनजान, अनाडी; अव्यावहारिक ।

व्यवहारी - वि व्यवहारज्ञ; दुनिया के तौरतरीको का जानकार, व्यावहारिक । - अपूर्णाक - पु भिन्न (ग०) ।

व्यवहार्य - वि व्यवहार्य, व्यवहार के योग्य, काम में लाने योग्य ।

व्यष्टि - स्त्री व्यष्टि, एक व्यक्ति, समष्टि का स्वतंत्र अंश ।

व्यसन - न १ व्यसन, लत, बुरी आदत । २ सकट, विपत्ति । ३ पाप ।

व्यसनी - वि व्यसनी; किसी बुरी चीज का आदी, लती ।

व्यस्त - वि उलटा; विपरीत । - गणित - न विपरीत अनुपात । [ यद ।

व्याकरण - न व्याकरण, कवा व्याकुल - वि व्याकुल, व्यग्र, बेचैन, विह्वल ।

व्याख्या - स्त्री व्याख्या, परिभाषा, भाष्य, टीका, विवरण, वर्णन ।

व्याख्याता - वि १ व्याख्याता, वक्ता, भाषण करने वाला । २ व्याख्या करने वाला ।

व्याख्यान - न व्याख्यान, भाषण, तकरीर, वक्तृता । मु०-देणं - व्याख्यान, भाषण देना, तकरीर करना ।

व्याज - न व्याज, सूद । २ व्याज; छल, धोखा; फरेव, बहाना । - बट्टा - पु महाजनी, लेन-देन का व्यवहार ।

व्याधि - स्त्री १ व्याधि, पीडा, रोग, बीमारी । २ कुष्ठ । ३ झझट, बला; परेशानी ।

व्याप - पु. १. फैलाव, विस्तार, प्रपच । २ झझट; झमेला, पचडा । फहा० व्याप तितका सताप - काम को जितना फैलाओगे उतना ही झझट वढ़ेगा, जितना छानो उतना ही किरकिरा होता है ।

व्यापक - वि १ व्यापक, विस्तृत, फैला हुआ । २ आच्छादक ।

व्यापणें, व्यापिणे - क्रि अ स छा जाना, भर देना, फैलना, फैलाना ।

व्यापार - पु. १. व्यापार, व्यवसाय, पेशा, कारवार, वाणिज्य । २ कार्य, काम, क्रिया ।

व्यापारी - पु. व्यापारी, व्यवसायी, रोजगारी, दुकानदार । - वारे - पु. बहु मौसमी वायु, व्यापारिक हवाएँ, 'ट्रेड विंड्स' ।

व्यायाम - पु. व्यायाम, कसरत; बज्रिश । - शाळा - स्त्री व्यायामशाला ।

व्यावहारिक - वि व्याव-

हारिक, वास्तविक, कारवारी ।

व्यासंग - पु. १ व्यासंग, अव्यवसायपूर्ण अध्ययन । २ अभ्यास, परिश्रम, अव्यवसाय ।

व्यास - पु. १ व्यास, कृष्ण-द्वैपायन । २ व्यास, केद्र से हो कर परिधि के दोनो छोरो तक की दूरी (ज्या०) । - पीठ - न व्यासपीठ, व्यासासन, व्यासगद्दी, मंच । - पूजा - स्त्री व्यासपूजा (आपाढी पूर्णिमा को होने वाली व्यास और गुरु की पूजा) ।

व्याही - पु. समधी । - भोजन - न वडहार । व्याह्याचे घर - न समधियाना ।

व्युत्पत्ति - स्त्री १ व्युत्पत्ति, शब्द का मूल, उद्गम । २ प्रगाढ पाडित्य ।

व्युत्पन्न - वि १ व्युत्पन्न, पूर्ण पडित । २ मूल रूप से बनाया हुआ ।

व्यूह - पु. १ व्यूह, मैनिको को युद्धभूमि में उपयुक्त स्थान पर रखना । २ पड्यत्र, चाल,

साज्रिग ।

वण - पु. १ वण, फोडा, घाव, जखम । २ दे 'वण' ।

व्रत - न व्रत, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान, नियम, समय आदि । २ वरत, पुण्य के विचार से उपवास करना । ३ प्रतिज्ञा । - वध - पु. यज्ञोपवीत सस्कार, जनेऊ ।

व्रात्य - वि नटखट, शरारती, वाहियात, ऊधमी । - पु. व्रात्य, सस्कारहीन, जातिच्युत द्विज । - स्तोम - पु. व्रात्यस्तोम, एक यज्ञविशेष जो सस्कार न करने के कारण छिने हुए अधिकार प्राप्त करने और अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाता था, शुद्धि ।

व्रीडा - स्त्री व्रीडा, लज्जा, सकोच, नम्रता ।

वहराडा - पु. [अ] वराभदा, वराडा, ओमारा, वारजा ।

व्हावा, व्हावे - क्रि अ हो, होना चाहिए, चाहिए ।

## श

श - मराठी वर्णमाला का तीसवाँ व्यंजन - वर्ण ।

शंकरपाळे - न शंकरपारा (मिठाई) ।

शका - स्त्री १ शका, शक, सदेह, सशय, शुभहा । २ भय, आशका । - समाधान - न शका - समाधान, शका का निराकरण । मु० - घेणें, - धरणे, - वाळणें - शका करना ।

शंकासूर - पु. राजतरु, कनियारी, गुलमोहर, अमलतास (फूल और उसका पीघा) ।

शंकु - पु. १ शकु, कली, खूंटो, नोक । २ शख, सी पद्म की सख्या । ३ छाया नापने की नुकीली मापक वस्तु । ४ गुनिया, समकोण नापने का औजार । - पु. शंकु, कोई शुडाकार वस्तु, 'कोन' । [ शकाशील ।

शकेखोर - वि शक्की, शकेश्वर - दे 'शकासूर' ।

शंक्वाकार - वि शक्वाकार, शकुरूप, शुडाकार, सूच्याकार, शाकव, शाकवीय ।

शक्वाकृति - स्त्री शकु की

आकृति । - वि दे० 'शक्वाकार' ।

शख - पु. १. शख, घोघा । २ हो - हल्ला, शोरगुल, चिल्लाहट, दे० 'वोव' । ३ सी पद्म की सख्या । ४ अभाव, शून्य । - वि घोघा, मूर्ख, वेवकूफ, खोखला, नि सार । - ध्वनि - पु. १ शख की आवाज । २ रोना - पीटना, हायतोवा । - शिरोमणि - पु. घोघावसत, महामूर्ख । शंखासारखें - वि निर्मल, साफ (पानी) । मु० - करणें - १ चिल्लाना, रोना -

पीटना; हायतोबा मचाना, शख बजाना (व्य०) । दे० 'बोब मारणे' । - करावयास लावणे - कुछ भी न देना; अँगूठा दिखाना । - वाजणे - खत्म होना, कुछ भी न बचना, दिवाला निकलना ।

शखासुर - पु १ शखासुर (राक्षस) । २ दे० 'शकासुर' ।

शखोबा - पु. घोषावसत, महामूर्ख, बुद्ध ।

शड - ढ - दे० 'पढ' ।

शंभर - वि सौ, १०० । - नबरी - वि शुद्ध; खालिस, चोखा । मु० - वर्ष भरनें - मौत का सिर पर खेलना ।

शक - पु १ शकाब्द, शक-सवत् । २. शक (जाति) ।

शकणे - क्रि अ सकना, समर्थ होना, सभव होना ।

शकल - न शकल, खड, टुकडा । - स्त्री दे० 'शक्कल' ।

शकुन - पु. शकुन, सगुन, शुभाशुभ की पूर्वसूचना, शुभ घडी । - सागणारा - वि पु सगुनिया, शकुनज्ञ; गगुनिया । मु० - पाहणें - शकुन देखना, निकालना, विचारना ।

शकुनि - पु. १ शकुनि (दुर्योधन का मामा) । २. चालबाज, कुचाली, दुष्ट, कुकर्मों का प्रधान प्रेरक व्यक्ति ।

शक्कल - स्त्री [ अ. 'शक्कल' ] युक्ति, उपाय, तरकीब, सूझ, चाल । मु० - काढणे - १ तरकीब निकालना, २ शिगूफा खिलाना, छोडना ।

शक्ति - स्त्री १ शक्ति; बल, सामर्थ्य, ताकत, क्षमता । २ योग्यता, लयाकत । ३ सांग, तलवार, भाला । - पात - १.

मत्रप्रयोग की गुरुद्वारा दी गयी सामर्थ्य । २ शक्तिक्षय, बलहानि । - वर्धक - वि शक्तिवर्धक; पौष्टिक, पुष्टिकर । - वान् - वि शक्तिशाली, बलवान् ।

शक्य - वि शक्य, सभव; होने योग्य, मुमकिन । [ इमकान ।

शक्यता - स्त्री सभावना; शट्कर्णी - दे० 'षट्कर्णी' ।

शठ - वि शठ, घूर्त, छली । कहा० शठ प्रति शाठचम् - शठे शाठ्य समाचरेत्, जैसे को तैसा; ईट का जवाब पत्थर से देना ।

शतं - वि शत, सौ; सैकडा । - जीव - अव्य. सौ बरस जीओ (बच्चे के छीकने पर औरतो द्वारा यह कहा जाता है) ।

शत - वि शत, सौ, १०० । - क - दे० क्रम में । - कृत्य - न बहुत बडा काम, बहादुरी (व्य०) । - पावली - स्त्री भोजन के बाद की जाने वाली चहलकदमी । - मूर्ख - वि महामूर्ख, घोषावसत ।

शतक - न शतक, शती, शताब्दी, सदी ।

शतकानु शतकें - अव्य सदियो से, शताब्दियो से ।

शतावरी - स्त्री शतावरी, शतावर; सतावर, सफेद मूसली ।

शत्रु - पु. शत्रु; दुश्मन; वैरी । [ दुश्मनी ।

शत्रुत्व - न शत्रुत्व; शत्रुता, शनि - पु १ शनि (सातवां ग्रह), शनिश्चर सनीचर । २ वैरी; शैतान । ३ इद्रनील मणि ।

- वार - पु. शनिवार, सनीचर । शनीचा फेरा - पु. सनीचरी, शनि की दशा; साढे साती । मु० - उदरीं येणे - बहुत बडा लाभ

होना, किस्मत खुलना ।

शपथ - स्त्री १. शपथ; सौगद; कसम । २. प्रतिज्ञा । - पत्र - न शपथपत्र; हलफनामा । - पूर्वक - अव्य कसम खा कर । - वाहायला, - शपथेला - अव्य. कसम खाने को, कहने भर के लिए; नाम मात्र को । मु० - घेणें - शपथ लेना, करना; कसम खाना, प्रतिज्ञा करना । - सोडणें - कसम उतारना । शपथवर सांगणें - कसम खा कर कहना, हलफ उठा कर कहना ।

शबल - वि अशुद्ध; जिसमें मिलावट हो, मिश्रित, गँदला । २ उलझा हुआ । ३. शबल, विविध रंगे वाला ।

शब्द - १ शब्द, लफ्ज । २. ध्वनि, आवाज । ३ दोष, इलजाम । ४ प्रतिज्ञा, वचन, वादा, वात । - कोडें न शब्दवर्ग पहेली, 'क्राँसवर्ड पजल' । - कोश - ष - पु शब्दकोश - प, अभिधान, लुगत । - चित्र - न शब्दचित्र, 'स्केच' । - योगी - वि सवध-सूचक (अव्यय) । - योजना - स्त्री शब्दयोजना, शब्दरचना । - वेधी - वि पु शब्दवेधी, जो केवल शब्द सुन कर लक्ष्य पर वाण मारे । - शूर - वि केवल बातें बनाने में होशियार । - सृष्टि - स्त्री शब्दरचना । शब्दन शब्द - अव्य. अक्षर-अक्षर, हर्फ-व-हर्फ । शब्दाचा मार - पु शब्दों की मार, कठोर बातें । शब्दाची कसरत - स्त्री वाक्-छल, वाग्जाल, शब्दाडवर । मु० - खाणे - लिखते या बोलते समय शब्दों को छोड देना, वात चवा जाना । - खालीं न पडणें - वात



रखना, कहा मान लेना, मान रखना। - खाली पडू न देणें - वात काटना, वात नीचे न डालना। - चालविणें - १ पदव्याख्या करना, पदच्छेद करना। २ गरदानना, शब्दो का रूप साधना। - क्षेलेणें - वात रखना, आज्ञा का पालन करना। - टाकणे - १ माँगना। २ अनुरोध, सिफारिश करना। - ठेवणे - हुरफ लाना, दोष देना। [ मानी ]

शब्दार्थ - पु. शब्दार्थ; लक्ष्मी शब्दावडवर - न शब्दावडवर, शब्दजाल, लपफाजी, शब्दो का घटाटोप, लच्छेदार शब्दावली का प्रयोग।

शम - पु. १ शम, शांति, मानसिक स्थिरता। २ समय, निवृत्ति। ३ मुक्ति।

शमणें - क्रि अ १ शमन होना, बुझना, दबना। २ घटना, कम होना। ३ मरना।

शमला - पु [ अ 'शमल' ] शमला, पगडी, साफा आदि का सिरा जो पीछे लटकता है, तुरी।

शमविणें - क्रि स १ शांत करना, बुझाना, दवाना, ठंडा करना। [ (वृक्ष) ]

शमी - पु. शमी, सफेद कीकर

शयन - न १ शयन, निद्रा, सोना। २. शय्या, विछौना। - गृह - न शयनगृह, शयनकक्ष, शयनागर, शय्यागृह।

शय्या - स्त्री १ शय्या, विछौना, विस्तर, सेज। २. पलंग, खाट। - सोवती - पु. हम-विस्तर।

शर - पु १ शर, बाण, तीर। २ सरपत; सरकडा। - संघान - न शरसंघान, बाण-

द्वारा लक्ष्य-साधन; निशाना लगाना। मु० - पजरीं पडणें - १ मौत का सिर पर खेलना, मृत्यु का निकट आ जाना। २ बडी आपत्ति मे फँसना।

शरण - न शरण, आश्रय। मु० - जाणे - १ (की) शरण मे जाना, पनाह लेना। २ आत्म-समर्पण करना, हथियार डालना। - येणें - १ शरण मे आना। २ दाँतो मे तिनका पकडना, लेना, चीं बोलना।

शरम - स्त्री [ फा 'शर्म' ] शरम, शर्म लज्जा, हया, लाज। शरमणें - क्रि अ [ दे 'शरम' ] शरमाना, लज्जित होना, झेंपना।

शरमिदा - धा - वि [ फा 'शर्मिद.' ] शर्मिदा, लज्जित, लजाया हुआ।

शरीर - न १ शरीर, देह, काया, जिस्म। २ गुह्य इद्रिय। - कष्ट - पु. बहु शारीरिक परिश्रम, जिस्मानी मेहनत।

- प्रकृति - स्त्री स्वास्थ्य, सेहत। - भोग - पु शरीरदंड, शारीरिक कष्ट, दैव से प्राप्त शारीरिक यत्रणा। - यष्टि - स्त्री शरीर-यष्टि, काठी, देह की गठन, अँगलेट। - रक्षक - पु शरीररक्षक, अंगरक्षक। - सपत्ति - स्त्री शरीर-सपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य।

- संबंध - पु. १ शरीरसंबंध; विवाहसंबंध। २ मारपीट। मु० - कमावणें - देह या हड्डी कमाना, व्यायाम से शरीर को वलिष्ठ, गठीला बनाना। - वेंचणें - परो-

पकारमे अपना जीवन समर्पित करना।

शर्करावगुठित - वि १ जिसपर

चीनी या शक्कर लपेटी हुई हो; शर्कराच्छादित। २ भीठी वातो से छिपायी हुई (कटवी वात)।

शर्त - पु [ अ ] शर्त, क्रमोज्ञ। शर्त - स्त्री [ अ ] शर्त, करार, प्रतिज्ञा, वादा। दे० 'शर्त'।

शर्य - स्त्री [ अ 'शर्त' ] कमाल, परकाष्ठा, चरमसीमा, हद। मु० - करणे - कमाल करना। - होणे - १ हद होना। २ बाज आना।

शर्यत - स्त्री [ अ. 'शर्त' ] १ सामना; मुकाबिला, प्रतियोगिता, घुट-दौड, घोड-दौड। २ शर्त; वाजी।

शल्य - न १ शल्य, काँटा। २. चुभन, कमक। - चिकित्सा - स्त्री - तत्र, - शास्त्र - न शल्य-चिकित्सा, शल्यविद्या, शल्य-शास्त्र, 'सर्जरी'।

शव - न शव, लाश, मृत शरीर। - पेटिका, - पेटो - स्त्री जनाजा - पु। [ गौश ]

शश - पु शश, शशक, खर-शप्प - न १ शप्प; नवतृण। २ पशु, झाँट (घा०)।

शस्त्र - न शस्त्र; हथियार, औजार। - वैद्य - पु शल्यचिकित्सक, 'सर्जन'। मु० - धरणे - हाथ धो कर पीछे पडना, धावा बोलना।

शह - पु [ फा. ] १. शह, शतरज की किश्त। २ धाक, दबाव, जोर। ३ चाल, पड्यत्र। मु० - देणे - १. शह देना, दबाव डालना, बमकाना। २ शतरज मे वादशाह को किश्त देना।

शहर - न [ फा ] शहर, नगर।

शहरी - वि [ फा ] १ शहरी, नागर, नगरीय। २ काँडियाँ, चालाक, बदमाश।

शहायशी, शहाएँशी - वि छियासी, ८६।

शहाजिरें - न [फा 'सियाह' + 'जीर'] स्याहजीरा, काला जीरा, कटजीरा।

शहाजोग - वि [फा 'शाह' + स 'योग्य'] १ विव्वसनीय; सच्चा, ईमानदार, खरा। २ वनीजोग (चेक) 'वेअरर'। ३ साफ, खुल्लम खुल्ला होनेवाला।

शहाणपण - न, शहाणपणा - पु होशियारी; बुद्धिमानी, अबलमदी, चतुराई, समझदारी।

शहाणा - वि १. होशियार, बुद्धिमान, सुजान; सयाना, समझदार। २. धूर्त, चालाक। - सुरता - वि समझदार, होशियार, चतुर। कहा० शहाण्याचें व्हावें चाकर पण मूर्खाचें होऊ नये धनी - हम बुद्धिमान व्यक्ति के नीकर वनों पर मूर्ख के स्वामी न बनें। शहाण्याला शब्दाचा भार - अक्लमद को इशारा काफी। अति शहाणा त्याचा बँल रिकामा - जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं वे कभी-कभी बडी बेवकूफी की बात कर बैठते हैं।

शहाणव - वि छियानवे, छानवे, ९६।

शहात्तर - वि छिहत्तर, ७६।

शहानिवा - स्त्री [फा 'सही' + 'न सही'] १ जाँच; छान-वीन। २. सत्यासत्य का निर्णय, फैसला।

शहामत - स्त्री [व 'शामत'] १ साहस, हिम्मत, बहादुरी २ गुस्ताखी, डिठाई। ३ शामत, कमबख्ती। [स 'मृग'] शतुरमुर्ग।

शहामृग - पु [फा 'शाह' + शहारणे - क्रि व शिहरना,

थरना, रोमाचित होना, लरजना, कांपना।

शहारा - पु मिहरी, कँपकँपी; रोमाच। मु० - घेणे, शहारे घेणें - १ थरना, कांपना, दहलना, रोगटे खडे होना। २. रोमाचित होना। [कच्चा नारियल।

शहाळें - न डाव, डाम; शात - वि १. शात, मौन; चुप, सुनसान, खामोश। २ सतोपी, सतुष्ट। ३ घीर, स्थिरमना। ४ शमित, रुका हुआ, मिटा हुआ। ५ सौम्य प्रकृति वाला, शिष्ट, विनम्र। ६ समाप्त, वृक्षा हुआ। - वात - वि १ बहुत शात। २ सयमी।

शातवन - १ शाति। २ दे 'सात्वन'।

शातता - १ शानि, सन्नाटा; सूनापन। २ दे 'शाति'। - व सुव्यवस्था - स्त्री शाति और व्यवस्था।

शाति - स्त्री १ शाति, अमन। २ आराम, चैन, सुख। ३ अनिष्ट, अमगल आदि का पूजा, व्रत, यज्ञ आदिद्वारा शमन। ४. मन की स्वस्थता, सन्न। - पाठ - पु. शातिवाचन (शाति के लिए मन्त्रपाठ)।

शाई - स्त्री [फा. 'सियाही'] १. स्याही, मसि, रोशनाई। २ दे 'शाही'।

शाकंबरी - स्त्री १ शाकंबरी; दुर्गा। २ पौष की पूर्णिमा को किया जाने वाला एक व्रत।

शाक - स्त्री शाक, साग, तरकारी।

शाकारणी - स्त्री छवाँट, फेरवट, फेरौरी (टटे खपरैलो को निकाल कर उनकी जगह नये रखने

की क्रिया)। - फरणारा - पु घरामी, छप्पर छाने वाला।

शाकारणें - क्रि स १ छप्पर छाना, मकान पर छप्पर या खपरैल, डालना। २ फेरवट, फेरौरी करना। दे 'शाकारणी'। ३ पाटना।

शाकाहार - शाकाहार; निरामिप भोजन। [निरामिप भोजी।

शाकाहारी - वि शाकाहारी, शाखा - स्त्री १ शाखा; शाख, डाली, डाल। २ अग, भाग, भेद, उपविभाग। ३ सप्रदाय (स्कूल)।

शागिर्त - दं, शागीर्द; शागीत - पु [फा 'शागिर्द'] १ शागिर्द; शिष्य, चेला। २. घरेलू काम करने वाला ब्राह्मण सेवक, नौकर। ३ शिक्षु, उम्मीदवार।

शागिर्ती - स्त्री, शागिर्ती - स्त्री. [फा 'शागिर्दी'] १ शागिर्दी; शिष्यता। २. सेवा; नौकरी। ३. उम्मीदवारी।

शाटी - दे 'छाटी'।

शाडू - पु स्त्री लड्डिया (सफेद मुलायम मिट्टी)।

शाणव - वि छानवे, ९६।

शाप - पु शाप; बददुआ, 'अमुक का बुरा हो' ऐसी बुरी भावना व्यक्त करना। मु० - वेणे - शाप देना, सापना, कोसना। - चठणे - शाप का सच्चा उतरना, हानि होना। शापादपि शरादपि - वि जो शाप देने और युद्ध करने में भी समर्थ हो, सभी प्रकार से शक्तिशाली। - अव्य. हर तरह से, अच्छे-बुरे तरीकों से।

शापित - वि शापित, अभि-शप्त, जिसे शाप दिया गया हो।

शावास - अव्य [फा 'शावाश'] शावान, वाहवा,

साधु-साधु, खुश रहो, धन्य हो;  
वाह जी ।

शाबासकी - स्त्री [फा.  
'शाबाश', उर्दू 'शाबाशी']  
शाबाशी, वाहवाही, साधुवाद,  
सराहना; प्रशंसा। मु० - देणे - पीठ  
ठोकना, सराहना, प्रशंसा करना।

शाबित - वि [अ 'सावित']  
१ सावित, प्रमाणित, सिद्ध।  
२ दे 'शावूत'।

शाबिती - स्त्री [अ 'सावित']  
१ प्रामाणिकता, सिद्धता, सिद्धि,  
प्रमाणित करना। २ समर्थन।

शाबोत - दे 'शावित'।

शाबूती - स्त्री [अ 'सावित']  
१ मजबूती, दृढता। २ अखडता,  
साबूत होना।

शाबूदाणा - पु [मलै 'सागो']  
सागूदाना, साबूदाना।

शाबूत - द - वि [अ  
'सावित'] १ सावित, साबूत,  
साबूत, समूचा, अखड। २  
दृढ, मजबूत। ३ दे. 'शावित'।

शाभदान - न [अ फा  
'शम्बदान'] दीपाधार, दीवट।  
शामळू - वि कमजोर, नामर्द,  
कायर, डरपोक।

शाल - स्त्री [फा] शाल  
(ऊनी या रेगमी कामदार  
चादर)। - जोडी - स्त्री दुशाला।  
मु० शालजोर्डोतले, शालजोर्डो-  
तील, शालजोर्डोतून देणें, भारणे -  
मखमल में लपेट-लपेट कर मारना,  
व्यग्य कसना, ताना मारना।

शालक - पु ज्यालक, माला  
(पत्नी का भाई)।

शालीन - वि शालीन, विनम्र,  
शिष्ट, सुशील। [विनम्रता।

शालीनता - स्त्री शालीनता,  
शालू - पु मालू, (एक माग-

लिक लाल वस्त्र), कीमती रेशमी  
साडी।

शावक - पु १ शावक, छोना,  
पशुपक्षी का बच्चा। २ श्रावक।

शाश्वत - वि शाश्वत, नित्य,  
निरतर, स्थायी।

शाश्वती - स्त्री शाश्वतता,  
नैरतर्य, नित्यता, निश्चितता,  
चिरतनता, भरोसा।

शासक - वि पु १ शासक;  
शासनकर्ता, हाकिम, राज्य-  
शासनका सचालक। २ दड देने  
वाला।

शासन - न १ शासन;  
हुकूमत, नियंत्रण; अनुशासन। २  
दड, सजा। - सस्था - स्त्री  
शासन, सरकार; शासनतंत्र,  
राज्यशासन प्रणाली। मु० - करणे-  
दड, सजा देना।

शासित - वि शासित, दडित।

शास्ता - पु १ शास्ता,  
शासक, हाकिम। २ सजा देने  
वाला।

शास्त्र - न १ शास्त्र; आदेश;  
धर्म, दर्शन आदिमववी ग्रथ,  
विधान। २ विज्ञान, 'साइन्स'।

शास्त्रापुरता, शास्त्रास - अव्य.  
वि नाममात्र को, बहुत थोडा।

शास्त्रज्ञ - वि पु १ वैज्ञानिक।  
२ शास्त्रज्ञ; शास्त्र का जानने  
वाला।

शास्त्रार्थ - पु शास्त्रार्थ, शास्त्र  
का अर्थ; वादविवाद (जो शास्त्र  
के अर्थ, ज्ञान के सहारे होता है)।

शास्त्री - पु शास्त्री, शास्त्र का  
पूर्ण अधिकारी, विद्वान्, पंडित।

शास्त्रीय - वि १ वैज्ञानिक।  
२ शास्त्रीय। - सशोधन व सस्कृति  
खात्याचा मत्री - पु वैज्ञानिक  
अनुमधान और सस्कृति मत्री।

- सशोधन व सस्कृति मंत्रालय -  
न वैज्ञानिक अनुसंधान और  
सास्कृतिक मामलो का मंत्रालय।

शाहणा, शाहाणा - दे 'शाहाणा'।  
शाहिरी - स्त्री [अ 'शाइरी']  
१. शाइरी, कवित्व। २ शाहीर  
का पेगा। दे 'शाहीर'।

शाही - स्त्री [फा] १  
शाही, राज्य, मत्ता, हुकूमत। २  
कार्यकाल। ३ दे 'शाई'।

शाहीर - पु [अ 'शाइर']  
१ चारण, भाट। २ कडखैत,  
वीरकाव्य बनाने और गानेवाला।  
३ राष्ट्रीय कवि।

शाहीरी - दे 'शाहिरी'।

शाळा - स्त्री १ शाला,  
पाठशाला, चटशाला, चटसार,  
विद्यालय, मदरसा, स्कूल। २  
लुहार की दुकान, निर्माणशाला,  
'वर्कशॉप'। - सोबती - पु सह-  
पाठी, सहाध्यायी। मु० - सुटणे -  
पढाई बंद होना।

शाळिग्राम - पु १ गालग्राम,  
मालिग्राम (श्यामवर्ण पत्थर की  
बटिया)। २ बहुत ही काला  
आदमी।

शाळुका - स्त्री जलहरी,  
(शिर्वालिग स्थापित करने का  
अरथा)।

शाळुकी - स्त्री मैना।

शाळू - पु ज्वार, जुआर  
(जिसकी फसल जाडो में तैयार  
होती है)।

शाळू - वि शालामववी। -  
मित्र, - सोबती - पु १ सहपाठी,  
सहाध्यायी। २ थोडे दिनों का  
मित्र, माथी।

शिक - स्त्री छीक।

शिकणे - क्रि अ. छीकना।

शिकरणें - क्रि अ स छिन-

कना; साँस के साथ नाक का मल बाहर निकालना, नाक साफ करना ।

शिकाळी - छी, शिकाळें - न बरतन को उठाने के लिए उसके गले में बाँधी जाने वाली रस्सी । दे. 'शिके' ।

शिके - न छीका, छीका, सीका, सिकहर । मु० शिक्याला हात पुरणें - कन्या सयानी हो जाना । कहा० शिक्याचें तुटलें, वोक्याचें पिकलें - विल्ली के भागो छीका टूटा, सयोग से, बिना प्रयत्न किये लाभ हो गया ।

शिंग - न १. सीग, शूग; बिपाण । २ (बाद्य) सीग; सीगी, सिगा, रणसिगा (सीग का बना हुआ वाजा) । मु० - फुकणें - शख फूंकना, युद्ध की घोषणा करना । शिंगावर घणें - टक्कर लेना, सामना करना । शिंगे असणे - सिर पर या सिर मे सीग होना, कोई विशेषता, विशेष चिह्न होना । (वेडचाला काय शिंगे असतात ? = क्या वेवकूप के सिर में सीग होते हैं ?) - शिंगे फुटणे - १. सीग निकालना; सनक जाना । २. वेवकूपी, घृष्टता करना । शिंगें मोडून वासरांत शिरणें-सीग कटा कर या तुडा कर बछडो में मिलना ।

शिंगरू - न अललबछेडा; घोडे, गधे, खच्चर आदि का बच्चा ।

शिंगाडा - पु. सिंघाडा (पानी मे पैदा होने वाला एक फल) ।

शिंचा - पु ससुरा, साला (गाली) ।

शितोडा - पु १ छोटा । २ छोटे का दास, नन्हासा दास । ३

हल्की वर्षा, बौछार । मु० - उडविणें - १ छोटा छोडना, फेंकना, छोटाकशी करना । २ धव्वा लगाना, कीचड उछालना

शिवळ - वि छिनाल, बदचलन, बदकार, व्यभिचारी, दुश्चरित्र, कुलटा; जारिणी ।

शिवळकी - छी छिनाल, व्यभिचार, दुश्चरित्रता, बदकारी; बदचलनी ।

शिदी - छी १ जगली खजूर का पेड । २ इस पेड से निकाली हुई शराब, ताडी; ठर्रा ।

शिवेशाही - छी सिधिया का शासन, हुकूमत । - वि सिधियो के ढग का । [ सुतुही ।

शिप - छी सीप, सीपी, शिपडणे - क्रि स छिडकना, सीचना ।

शिपण - न, शिपणी - छी छिडकाव, सिचन, सिचाई ।

शिपणें - क्रि स १ पेडो की सिचाई करना । २ दे 'शिपडणे' ।

शिपला - पु १ बडी सीप । २ घोषा ।

शिपली - छी छोटी सीप ।

शिपी - पु दर्जी । - छी दे. 'शिप' ।

शिव - दे 'शीव' ।

शिः - अव्य छि; छि, छी, थू, धिक्कार ।

शिकदर - पु. [ फा 'सिकदर' ] सिकदर (वादशाह) । - वि १ शक्तिशाली, प्रभावकारी, वडा, श्रेष्ठ, भाग्यशाली । २ गुडा । मु० - नशीब असणें - अच्छा भाग्य होना । [ पढना ।

शिकणे - क्रि स सीखना,

शिकरण - छी सिखरन, सिखरन; दूध, केले, गुड या चीनी के

योग से बनाया हुआ एक पदार्थ ।

शिकलगर - पु [ अ फा 'सैकलगर' ] सैकलगर, सिकलीगर ।

शिकवण - छी १ सिखावन, सीख, शिक्षा, उपदेश; नसीहत । २ पट्टी (पढाना), वहकाने वाली सीख, वहकावा, हानिकर शिक्षा ।

शिकवणी - छी १ पढाई, 'ट्यूशन' । २ पढाई की फीस ।

शिकवणे, शिकविणे - क्रि स १ पढाना, शिक्षा देना, सिखाना । २ पट्टी पढाना, वहकाने वाली शिक्षा देना, भडकाना, उभाडना ।

शिकस्त - छी [ फा ] १ पराकाष्ठा, कमाल; हद, भरसक चेष्टा । २ शिकस्त, हार । मु० - करणे - भरसक चेष्टा करना, एडी-चोटी का पसीना एक करना । - होणे - हद होना, कमाल होना ।

शिकाऊ - वि नौसिख, नौसिखिया, नौसिखुवा, उम्मीदवार ।

शिकार - छी [ फा ] १ शिकार, आखेट, मृगया । २ मारा हुआ पशु, पक्षी । ३ फदे मे फंसा हुआ आदमी । - खाना - पु. प्राणिसंग्रहालय, चिडियाघर ।

शिकारी - पु [ फा ] शिकारी, आखेटक, व्याव । - वि शिकारी, शिकार पकडने वाला, शिकार मे सहायक (कुत्ता आदि) ।

शिकेकाई - छी [ क 'शीकायि' ] मीकाकाई ( एक वृक्ष जिसकी फलियो का झाग वाल मलने के काम आता है ) ।

शिकका - पु [ अ 'सिक्का' ] सिक्का, ठप्पा, छाप, मुहर, मुद्रा । [ पक, गुरु, उस्ताद ।

शिक्षक - पु शिक्षक, अध्या-  
शिक्षण - न १ शिक्षण;

शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, तालीम, पढाई । २ सीख ।  
-खातें - न शिक्षाविभाग ।  
-पद्धति - स्त्री शिक्षापद्धति, शिक्षा-  
प्रणाली । - मंत्री - पु. शिक्षामंत्री ।  
- शास्त्र - न शिक्षाविज्ञान ।  
- शास्त्रज्ञ - पु. शिक्षाशास्त्री,  
विशारद । [ शिक्षाधिकारी ।

शिक्षणाधिकारी - पु. शिक्षा-  
शिक्षा - स्त्री दड, सजा,  
कैद । मु० - देणे - सजा देना ।  
- भोगणें - सजा भुगतना ।

शिक्षिका - स्त्री शिक्षिका,  
अध्यापिका, उस्तानी ।

शिक्षित - वि शिक्षित, पढा  
लिखा, तालीमयाप्ता ।

शिखडी - पु १ शिखडी  
(द्रुपद का पुत्र) । २ नपुसक,  
हिजडा । ३ मोर ।

शिखर - न १ शिखर,  
चोटी । २ सिरा । ३ अग्रभाग,  
सब से ऊँचा भाग । ४ कमाल ।  
मु० शिखरास हात पोचणे -  
कृतकृत्य, कृतार्थ होना ।

शिखरण - दे 'शिकरण' ।

शिखा - स्त्री १ शिखा,  
चोटी । २ अग्निज्वाला, आग की  
लपट । ३ दीये की ली । ४  
कलेंगी । - नष्ट - वि १ मुसल-  
मान, यवन । २. जिसके चोटी न  
हो । [ पूरी तरह, मुँह तक ।

शिगोशिंग - अव्य लवालव,

शिजणे - क्रि अ १ पकना,  
सीझना, गलना, पक कर नरम  
होना । २ कष्ट पाना, तग  
आना । ३ बहुत अधिक गरमी  
होना । ४ विचार किया जाना,  
विचाराधीन होना, पड्यत्र रचा  
जाना ।

शिजविणें - क्रि अ पकाना,

उवालना, राँधना, गलाना ।

शिटी - स्त्री - स्त्री सीटी । मु० -  
मारणें - सीटी देना, सीटी  
वजाना ।

शिडकणें - क्रि स छिडकना,  
छोटे फेंकना, सीचना ।

शिडकाव - वा - पु. छिड-  
काव, छोटी से तर करना ।

शिडशिडीत - वि छरहरा,  
इकहरे वदन का ।

शिडी - १ सीडी, नसेनी,  
निसेनी । २ जीना ।

शिणक - स्त्री कसक, टीस,  
हूक । [ टीसना, सालना ।

शिणकणे - क्रि अ कसकना,  
शिणगार; शिणगारणे - दे  
'शृगार', 'शृगारणे' ।

शिणणें - क्रि अ १ थकना,  
श्रम के कारण शिथिल होना;  
श्रात होना । २ कष्ट उठाना ।

शिणवटा - पु. थकान, थका-  
वट, थकाहट ।

शिणविणें - क्रि स थकाना,  
श्रात कर देना, थका डालना ।

शितळ - वि शीतल, ठंडा ।  
- शिमगा - पु. होली का दूसरा  
दिन, धुलेंडी ।

शितळचिनी - स्त्री शीतल-  
चीनी, कवावचीनी । [ देवी ।

शितादेवी - स्त्री शीतला  
शिताफल - न सीताफल;  
शरीफा ।

शिताफी - स्त्री [ फा 'शितावी' ]  
१ शीघ्रता, तेजी, फुर्ती । २  
चालाकी, होशियारी ।

शितावरून, शितें - दे  
'शीत' मे ।

शिथिल - वि शिथिल, ढीला,  
सुस्त । [ पायेय ।

शिदोरी - स्त्री कलेवा, सवल;

शिद्दी - स्त्री [ उर्दू 'सीदी' ]  
मीदी, हवशी । - वि कालाकलूटा ।  
शिधा - पु १ सीधा, भोजन  
की असिद्ध, कच्ची सामग्री; परचून ।  
२ रसद, 'राशन' । - वांटप -  
न राशनवदी, राशन, नियंत्रित  
मूल्य तथा मात्रा मे वस्तुओ के  
वितरण की व्यवस्था ।

शिनळ - दे 'शिदळ' ।

शिपका - पु. छिडकाव, जोर  
से दिया हुआ छोटा, छपाका ।

शिपटी - स्त्री फट्टा, छडी;  
चैला । [ छिछली टोकरी ।

शिपतर - न चेंगरी,  
शिपाई - पु. [ फा 'मिपाही' ]

१ मिपाही, मैनिक । २ चप-  
रासी । ३ पुलिस का आदमी,  
'कान्स्टेबिल' । - गडी - पु. गूर  
सैनिक, जवान । - वाणा - पु.  
१ सिपाहीपना । २ सिपहगरी,  
सैनिकवृत्ति, सैनिक का पेशा ।

शिपुरडा - पु. [ दे 'शिपाई' ]  
'सिपाही' के लिए तुच्छतादर्शक  
शब्द ।

शिफारस - स्त्री [ फा 'सिफा-  
रिग' ] सिफारिश, अभिस्ताव,  
अनुशसा । - पत्र - सिफारिशनामा,  
प्रशसापत्र । शिफारशी तट्टू - पु.  
सिफारिशी टट्टू ।

शिवदी - स्त्री [ फा 'शह-  
वदी' ? ] अस्थायी सेना ।

शिविर - न १ शिविर,  
सेनानिवेश, पढाव, छावनी । २  
तबू, खेमा ।

शिवें - न एक साधारण त्वचा-  
रोग जिसमे शरीर पर दाग पडते  
हैं ।

शिमगा - पु. १ होली, फाग ।  
२ गालीगलौज । मु० - करणे -  
दे. 'दोव मारणे' ।

शिर - न १. शिर, सिर; माथा, मस्तक। २ चोटी, शीर्ष-भाग, पेड का सिरा। ३ सेना का अगला भाग। ४ अदद, सख्या। - कमळ - न सिर, मस्तक। - गणती - श्री जनगणना, मर्दुम-शुमारी। - छेद - पु शिर-छेद, सिर काटना, वध, हत्या। - जोर; - ताज, - पेंच, - सा - दे क्रम मे। - साष्टाग नमस्कार - पु साष्टाग प्रणाम, दडवत्। - स्त्राण - न शिरस्त्राण, लोहे का टोप, खोद। मु० - हाता-वर घेणे - सिर हथेली पर लेना, बहादुरी से जान देने के लिए तैयार रहना। शिरावर घेणे - सिर पर लेना, अपने जिम्मे रखना। कहा० शिर सलामत तर पगडी पचास - अडे होंगे तो वच्चे बहु-तेरे होंगे, जान वची लाखो पाये। शिरकणे - क्रि अ १ घुसना, पैठना। २ मिलना। शिरकविणे - क्रि स. घुसाना, घुसेडना, ठूसना। शिरकाण - न १, 'शिके' नामक लोगो का प्रदेश। २ सत्या-नास, कलेआम। शिरकाव - पु प्रवेश, पैठ, पहुँच; घुसना। शिरजोर - पु [फा 'सर-जोर'] १. सरजोर, अवज्ञाकारी; विद्रोही; वागी। २ हठी, जिद्दी। ३ उद्धत, सिरचढा, मुंहलगा, ढीठ। शिरजोरी - श्री [फा 'सर-जोरी'] १. सरजोरी, अवज्ञा, विद्रोही। २ उद्धता, गुस्ताखी। शिरणे - क्रि अ घुसना, पैठना, अदर प्रवेश करना। शिरताज - पु [फा 'सरताज']

सरताज, सिरताज, सिर का एक गहना। [सिरोपाव, खिलअत। शिरपाव - पु [फा 'सरोपा'] शिरपेंच - पु [फा 'सरपेच'] सरपेच, सिरपेंच, सिरपेच, पगडी पर बाँधने का एक गहना। शिरवा - पु जोर की वर्षा। शिरशिरणे - क्रि अ सिंह-रना; कांपना, रोमाचित होना। शिरशिरी - श्री १ सिहरन, सिहरी, कँपकँपी। २ रोमाच। शिरस - पु १. सरसो। २. सरस। शिरसा - अव्य. १ सिर से। २ सिर आँखो पर। - मान्य, - वद्य - वि सिर आँखो पर, अत्यंत पूज्य, आदरणीय। शिरस्ता - पु [फा 'सरिस्त'] प्रथा, दस्तूर; रिवाज। शिरस्तेदार - पु [फा 'सरिस्त - दार'] १ पेशकार। २. दपतर का प्रधान, सरिस्तादार। शिरा - पु [फा 'शीर'] १ हलवा; हलुवा। २ शीरा, चाशनी, किवाम। ३ क्वाथ, काढा। शिरा - श्री बहु १ नसँ, रगें। २. रेशे। दे 'शीर'। मु० - ताणणे - गला फाडना, जोर-जोर से चिल्ला कर बहस करना। शिराळशेट - पु. १ एक उदार एव दानी बनिया। २ खुशहाल और विलासी व्यक्ति। -चे राज्य न अस्थायी वैभव, चार दिन की चाँदनी। [न तोरई, तुरई। शिराळी - श्री, शिराळें - शिराँ - अव्य. सिर पर; माथे पर, सिर आँखो पर। शिरीष - पु शिरीष, सिरिस (फूल और उसका वृक्ष)।

शिरें - न १. कँटीली टहनी। २ स्याही बनाने के लिए अनाज को जला कर और उवाल कर बनाया हुआ क्वाथ। शिरोघार्य - वि शिरोघार्य, अतिशय मान्य, सिर आँखो पर। शिरोविदु - पु शीर्षविदु। शिरोभाग - पु शीर्ष, सिरा, शीर्षभाग, सर्वोच्च भाग। शिरोभूषण - न १ शिरो-भूषण। २. सिरपोश (पगडी, टोपी आदि)। शिरोमणि - णी - पु १ शिरोमणि, चूडामणि। २ श्रेष्ठ पुरुष। ['हेडिंग'] शिरोलेख - पु शीर्षक, शिलगण - न दशहरे के दिन किया जाने वाला सीमोल्लघन। शिलक - दे 'शिल्लक'। शिलकी - वि [अ 'सल्ल'] १ अवशिष्ट, वकीया, वकिया, शेष, वचा हुआ। २ अतिरिक्त। शिलगणे - क्रि अ सुलगना; जलना। [गाना, जलाना। शिलगावणें - क्रि स सुल-शिला - श्री १ शिला, पत्थर, चट्टान। २ पत्थर की पटिया, पाटा। - जतु, - - जित, - जीत - पु शिलाजतु, शिलाजित्, शिलाजित। - लेख - पु शिलालेख, शिलालिपि। शिलाई - श्री १ सिलाई, सीयन, सीवन, टाँका, सीने का ढग। २ सीने की मजदूरी। शिलेखाना - पु [अ फा 'सिलहखान'] सिलहखाना, शस्त्रागार। शिलेदार - पु [अ 'सिलह' + फा 'दार'] सैनिक, अपना घोडा ले कर सेना मे नौकरी करने वाला।

शिल्प - न १ शिल्प, हुनर, कारीगरी; कला आदि कर्म । २ मूर्ति । - कला - स्त्री शिल्पकला, मूर्तिकला । - कार - पु. शिल्पकार, मूर्तिकार, शिल्पी, मूर्ति-शिल्पी ।

शिल्लक - स्त्री [ अ 'सल्ल' ] शेष, आयाधिक्य, बेगी, शेष रोकड़, बकाया, अधिशेष; बाकी । - वि शेष, बचा हुआ, अतिरिक्त । - झाडा - पु. हिसाब कर के निकाला हुआ निश्चित अधिशेष । - बढ - पु. आयव्ययपत्रक । - साखळी - स्त्री प्रतिदिन या माहवारी शेष का क्रम ।

शिव - पु. शिव, महादेव, महेश । - वि शिव, मंगलकारी; शुभावह ।

शिवण - स्त्री सिलाई, सीवन, सीयन, टांका । - काम - न दर्जी का काम, सिलाई; सीने का काम । [ सीने की मजदूरी ।

शिवणावळ - स्त्री सिलाई, शिवणें - क्रि स सीना, टांका मारना, सिलाई करना ।

शिवणे - क्रि स छूना, स्पर्श करना, लग जाना, सट जाना । मु० शिवायचें नसणें - रजस्वला होना; कपडों से होना ।

शिवराई - स्त्री छत्रपति शिवाजी का एक मिक्का, पैसा ।

शिवरात्र - स्त्री शिवरात्रि, शिवचतुर्दशी । [ अश्लील ।

शिवराळ - वि गदा, अशिष्ट, शिवरी - स्त्री सेमल, श्रीपर्णी ।

शिवशाही - स्त्री छत्रपति शिवाजी का शासनकाल या उनका राज ।

शिवशिवणें - क्रि अ सुर-सुराना; खुजलाना, झुनझुनाना ।

शिवाय - अव्य [ फा ' सिवा ' ] १ सिवा, सिवाय, अलावा, छोड़कर ।

शिवार - न पु सगवारा (गांव के पास की उससे सवद भूमि) ।

शिवाशिव - स्त्री छुआछूत, छूत-छात । शिवाशिवीचा खेळ - पु. छुआछुआवल, छिवाछिवी ।

शिवी - स्त्री गाली, अप-शब्द, दुर्वचन । - गाळ - स्त्री गालीगलौज, गालीगुपता । शिव्या-शाप - पु बहु कोसाकाटी ।

शिवी - स्त्री [ फा ' शीश ' ] शीशी, छोटी वोतल ।

शिशु - पु. शिशु, बच्चा । - पण - न शिशुपन, शिशुता, लडकपन, बचपन । - वर्ग - पु. शिशुवर्ग, बालकक्षा, पाठशाला में वह कक्षा जो पहली कक्षा से पूर्व की समझी जाती है ।

शिशुनोदरपरायण - वि शिशुनोदरपरायण, लपट और पैटू ।

शिष्ट - वि १. शिष्ट, सम्य, सज्जन । २ अव-शिष्ट, शेष, बचा हुआ । ३ चोच, अफलातून, वृष्ट । - मडळ - न शिष्टमडळ, प्रतिनिधिमडळ । - संप्रदाय - पु. शिष्टसमाज, सम्य समाज का आचार, रीति-नीति । - समत - वि शिष्टसम्मत, शिष्टों द्वारा अनुमोदित । [ मध्यस्थता ।

शिष्टाई - स्त्री बीच-बचाव,

शिष्टाचार - पु. शिष्टाचार, आदाव, अदब-कायदा, तकल्लु-फात । मु० - करणें - कोई बात

केवल ऊपरी तीर पर करना; तकल्लुफ करना ।

शिव्य - पु शिष्य, छात्र; चेला; अनुयायी । - वृत्ति - स्त्री छात्रवृत्ति, वजीफा ।

शिसपेन - स्त्री [ म ' गिसे ' + अं. ' पेन ' ] पेन्सिल ।

शिसव - पु, शिसवी - स्त्री शीगम (पेड और उसकी लकड़ी) । [ बना ।

शिसवी - वि शीगम का शिसा - पु. [ फा ' शीश. ' ] शीशा, बडी वोतल । [ नफरत ।

शिसारी - स्त्री वृणा, घिन, शिसें - न सीसा (धातु) ।

शिस्त - स्त्री [ फा ' शुस्त ' ] अनुशासन, तरीका, ढग, नियंत्रण, नियमानुशीलता, ' डिसिप्लिन ' । - वार - अव्य ढग से, तरीके से; अनशासन के साथ ।

शिळपट - वि १ ढीला, नामर्द, कायर । २ घिसा हुआ ।

शिळा - स्त्री शिला, चट्टान, पत्थर की पटिया । - छाप - पु. पत्थर का छपा, पत्थर पर छपाई की कला, ' लीथोग्राफी ' ।

शिळा - वि १. वासी, देर का पका हुआ, दूसरे जून या रात का बचा हुआ । २ पिछले दिन का तोडा, रखा हुआ (फल, पानी) । ३ सूखा, कुम्हलाया हुआ । कहा० शिळ्या फडीला ऊत आणणे, येणें - वासी कडी में उवाल लाला, आना ।

शिळ्यासप्तमी - स्त्री श्रावण की शुक्ला सप्तमी । इस दिन स्त्रियाँ वायन देती हैं ।

शिळेंपाकें - न वासी खाना; वचाखुचा रोटी का टुकड़ा ।

शिलोपा - पु. ठडा समय; आराम का समय; फुरसद का वक्त। शिलोप्याच्या गोष्टी - छी वहु. गपशप।

शीव - दे 'शीव'।

शी - अव्य. छि, छि; छी (घृणा, तिरस्कार या धिक्कार-सूचक शब्द)। [शिक्षा, उपदेश।

शीक - छी सीख; सिखावन, शीख - पु. सिक्ख, सिख।

शीग - छी १ सिरा; छोर, चोटी, हृद, सीमा। २ अनाज से माप के भर जाने पर ऊपर उठने वाला अनाज।

शीघ्र - अव्य. शीघ्र, त्वरित, तुरत, जल्द, झटपट। - कवि - पु. आशुकवि। [मैला।

शीट - छी वीट, चिडियो का शीट - न दे. 'चीट'।

शीट - छी सीटी।

शीड - न पाल, वादवान। -

काठी - छी मस्तूल। मु० - उभारणे - १ पाल खोलना। २ शुरू करना। ३ उत्कर्ष होना।

शीण - पु. थकावट; थकान, थकाहट, श्रांति।

शीत - न सीथ, पके हुए चावल, भात का दाना। कहा० शितावरून भाताची परीक्षा - एक दाना देख कर समूचे ढेर की जाँच करना, जैसा कनभर वैसा मनभर। असतील शितें तर जमतील भुतें - जहाँ गुड होगा वहाँ चीटियाँ जरूर आयेगी।

शीत - वि १ शीत, शीतल, ठडा। २ सुस्त, आलसी। - न जाडा; सर्दी। - कटिबध - पु. शीतकटिबध। - काल - पु. शीत-काल, जाडे का मौसिम। - ज्वर - पु. शीतज्वर, जूडी, जडैया

बुखार, अंतरिया बुखार।

शीतळ - वि १ शीतल, ठडा। २ सौम्य, मृदु। ३ सुखकर।

शीर - न दे 'शिर'।

शीर - छी १ शिरा, नस, रग, खून की नाडी। २ (पानाची) रग, रेशा। मु० - तोडणे - फस्द खोलना, लेना, रग से रक्त निकालना, रग पर नशतर देना। [नामा, सुखीं।

शीर्षक - न शीर्षक, सिर-

शील - न १ शील, चरित्र, चालचलन। २ स्वभाव। - वत - वि शीलवान्, सुशील, नेकचलन।

शीव - छी सीमा, हृद, सीमात; , सिवाना। [शीग

शीस - न मस्तक; सिर,

शीळ - क्रि सीटी, सिसकारी।

शीळ - छी शिला, पत्थर, चट्टान।

शुभ - पु १ शुभ (एक दानव)। २ बुद्ध, गँवार, मूर्ख व्यक्ति।

शु॥ - शुक्ला (तिथि)। [तोता।

शुक - पु शुक, सुग्गा,

शुकशुकाट - पु सत्राटा, खामोशी।

शुक् - अव्य. १. बिल्ली को भगाने का शब्द। २ किसी को इशारे से बुलाने का शब्द।

शुक्क - वि खामोश, सुनसान।

शुक - पु. शुक (ग्रह)।

- वार - पु. शुक्रवार, जुम्मा।

शुक - न शुक, वीर्य, रेत।

शुक्ल - पु. शुक्ल पक्ष।

शुक्लकाळ - न झझट, बला, क्षमेला; आफत। [स्वच्छ।

शुचिभूत - वि पवित्र, शुद्ध,

शुद्ध - वि १ शुद्ध, पवित्र,

पाक। २ साफ; निर्मल। ३ निर्दोष, निष्पाप। ४ सही, अच्छूक, ठीक। ५ सच्चा, यथार्थ, असली, खालिस, विना मिलावट का। ६ केवल, पूरा, समूचा; साक्षात्, मूर्तिमान; साकार। ७ शुक्ल (पक्ष)। - छी दे 'शुद्धि'। - पक्ष - पु. शुद्ध पक्ष, शुक्ल पक्ष। - लेखन - न १ ऐसा लेखन जिसमें व्याकरण के अनुसार गलती न हो। २ इम्ला, श्रुत-लेख। ३ इवारत; अक्षर-विन्यास, पदावली, वर्तनी; हिज्जे; 'स्पेलिंग'।

शुद्धि - छी १ शुद्धि, शुद्धता, पवित्रता। २ शोधन, सफाई, परिशोध। - पत्र - न शुद्धिपत्र, भूल-सुधार। शुद्धीवर असणें - होश में होना, अक्ल ठिकाने होना। शुद्धीवर आणणे - होश में लाना, तमीज़, व्यवहार सिखाना। शुद्धीवर येणे - होश में आना, आपे में आना, चेतनायुक्त होना, संभलना।

शुद्धीकरण - न १ शुद्धि, अपवित्र व्यक्ति को शुद्ध करना। २ सशोधन, शोधन, परिशोध।

शुभकरोति - छी शाम को वच्चो द्वारा की जाने वाली ईश्वर-प्रार्थना, जिसके प्रारंभिक शब्द शुभ करोति कल्याणम् आदि होते हैं।

शुभ - वि शुभ, मंगलमय, कल्याणकर, अच्छा, भाग्यशाली, मुवारक। - न शुभ, मंगल, कल्याण। - चितक - वि शुभ-चितक; हिनैपी, खँगस्वाह। - मूर्हत - पु. शुभ मूर्हत, मंगल घडी, शुभ लगन। - वर्तमान - न, - वार्ता - छी शुभसमा-



चार, खुशखबरी। कहा० शुभ  
बोल रे नान्या माडवास आग  
लागली - मगल अवसर पर मुंह  
से अमगल वाते निकालने वाले को  
क्या कहा जाय ?

शुभेच्छा - स्त्री शुभकामना।

शुभ्र - वि शुभ्र, मफेद,  
श्वेत, उजला।

शुल्क - न १. शुल्क, मूल्य,  
कीमत, दहेज। २ चुगी। ३  
फीस।

शुश्रूषा - स्त्री शुश्रूषा, सेवा-  
टहल, तीमारदारी, परिचर्या।

शुषिरवाद्य - न शुषिर, वशी  
आदि मुंह से फूंक कर बजाये जाने  
वाले वाजे।

शुष्क - वि शुष्क, सूखा,  
नीरस, कठिन, दिमाग को थकाने  
वाला। [जन।

शूद्र - पु शूद्र, अछूत; हरि-  
शून्य - वि १ शून्य, खाली।

२ निर्जन। ३ हीन, रहित।  
-न १ शून्य, अभावसूचक चिह्न,  
सिफर। २ रिक्तता, अभाव।  
३. आकाश। ४ सन्नाटा। -दृष्टि-  
स्त्री शून्यदृष्टि, लक्ष्यहीन, उदास  
नजर।

शूर - वि १ शूर, शौर्यशाली;  
दिलेर। २ अग्रगण्य। ३ निर्भीक,  
निडर। - पु शूर, शौर्यवान्  
या वीर व्यक्ति, सूरमा।

शूल - ल - पु १ शूल,  
वेदना, व्यथा, पीडा, टीस, हूक।  
२ खूब नुकीला लोहे का कांटा।  
३ सूली।

शूखला - ला - स्त्री १.  
शूखला, सिक्कड, सिकडी, जजीर।  
२ वेडी। ३ क्रम, परपरा।

शृग - न १ शृग, सीग। २  
पर्वतशिखर, पहाड की चोटी।

शृगापत्ति - स्त्री उभयापत्ति,  
दुविधा, असमजस, कशमकश,  
'डाइलेमा'।

शृगार - पु १ शृगार, नी  
रसो मे से एक प्रधान रस। २.  
सुरत, सभोग। ३. बनाव-सजाव,  
नखरा, बनाव-सिगार, ठाटवाट।  
-चेष्टा - स्त्री शृगारचेष्टा, काम-  
चेष्टा, सभोगचेष्टा। - पेटी -  
स्त्री सिगार-दान। [सँवारना।

शृगारणें - क्रि स सजाना,  
शैं - वि सौ, १००।

शैंकडा - पु सैंकडा, सौ।  
-अव्य सैंकडे, प्रतिगत, फीसदी,  
सौ पीछे। [नेक, अनगिनत।

शैंकडो - वि सैंकडो, अनेका-  
शेंग - स्त्री १ सेम, फली।  
२ (भुईमुगाची) मूंगफली।

शेंगोळी - स्त्री, शेंगोळें - न  
कई दालो के दलिये मे बनी एक  
मिठाई।

शेंट - न (ग्रा०) १ पगम,  
झांट, पुरुष या स्त्री की जननेंद्रिय  
पर के वाल। २ बहुत तुच्छ वस्तु।

शेंडा - पु १. नोक, अग्र। २  
सिरा, चोटी, छोर। - ना बुडखा-  
पु पूरा अभाव, न आगा न पीछा।

शेंडी - स्त्री १ चोटी (पुरुष  
की), शिखा, चुटिया। २ कलेंगी।  
३ नारियल की जटा। ४ पुछल्ला।

मु० - फुटणें - १ अपेक्षा से  
अधिक व्यय होना। २ एक काम  
मेसे दूसरे काम निकलना। - साप-  
डणे - चगुल मे फँसना। कहा०

शेंडी तुटो कीं पारवी तुटो - दो  
टूक फँसला हो जाय, फिर भले ही  
उसमे अपने को हानि उठानी पडे।

शेंडें नक्षत्र - न धूमकेतु,  
पुच्छल तारा।

शेंडें फळ - न १ मौमिम के

अत मे आया हुआ फल। २  
बुढापे की अतिम सतान। ३.  
अतिम बात।

शेंदणें - क्रि स रस्सी आदि  
मे खीच कर निकालना (पानी)।

शेंदरी - वि सिंदूरिया,  
वानी, ललछौंह। - स्त्री १ ताड के  
पत्तो की चटाई। २ लाल रंग की  
एक हलकी साडी।

शेंदाड - न गोरख ककडी,  
चिर्भंटी, चिर्भिटा, फूट (ककडी)।  
- शिपाई - पु १ नाहक डीग

मारने वाला सिपाही, डरपोक  
आदमी। २ चहारदीवारी के  
सूरमा, पर्यंकवीर, कालीन का शेर,  
घर बैठे के सूरमा।

शेंदूर - पु मिंदूर।

शेंदेलोण - न सेंधा (नमक);  
सैधव, लाहौरी नमक।

शेंप - दे 'शेंपूट'।

शेंपटा - पु १ वेनी, चोटी।  
२ लवी पूंछ, पुछल्ला।

शेंपटी - दे 'शेंपूट'।

शेंपूट - न १ पूंछ, दुम। २  
सिरा, छोर। मु० - अडकणें -  
फँस जाना। - घालणें - दुम दब  
जाना, डर कर पीछे हटना।

शेंब - १ दे 'शेंबूड',  
'शेंबी'। २ आंव (चिकना,  
सफेद मल)।

शेंबडा - वि १ गदा, रेंटा,  
रेंटभरा, जिसकी नाक से नेटा  
वह रहा हो। २ अनाडी, अल्हड,  
वचकाना।

शेंबला - दे 'शेमला'।

शेंबी - स्त्री शामी (छडी की  
नोक पर लगाया जानेवाला  
छल्ला)।

शेंबूड - पु रेंट; नेटा।

शेंस - स्त्री देवदासी का विवाह

देवता के साथ करने की विधि । -  
विधि - स्त्री वेद्याकर्म की दीक्षा-  
विधि ।

शोक - पु १ सेक; गरमी । २  
आग, लौ, लपट । ३. दे  
'शेकोटी' । [डो' ।

शोकडा - डो - दे 'शेकडा -  
शोकणे - क्रि अ. १ तापना,  
गरमाना । २ घाटा होना, उलटी  
टाँगें गले पडना । - क्रि स.  
सेकना, तपाना, गरम करना,  
गरमी पहुँचाना ।

शेकाटा - पु, - शेकाटी - स्त्री  
दे 'शेक', 'शेकोटी' ।

शेकाटा - पु, शेकाटी - स्त्री  
१ लवा बाँस । २ बहुत दुबला  
और लवा व्यक्ति । [ रणी - णे' ।

शेकारणी - णे - दे 'शाका-  
शेकोटी - स्त्री अलाव, आग,  
कौडा ।

शेखमहमद - पु [ अ 'शेख  
मुहम्मद' ] शेखचिल्ली, बडी-बडी  
हवाई योजनाएँ बनाने वाला  
व्यक्ति ।

शेगडी - स्त्री अँगोठी, वोरसी ।  
शेचाळ, शेचाळीस - दे० 'शेहे-  
चाळीस' ।

शेज - स्त्री १ सेज; विस्तर ।  
२ कतार, पक्ति, क्रम । ३ दे  
'मळवट' । - घर - न शयन-  
कक्ष, सोने का कमरा ।

शेजार - पु १ पडोस;  
पडीस । २. समीपता । ३ किसीके  
घर के आसपास की जगह । - धर्म-  
पु पडोमी से अच्छा व्यवहार  
करना । - पाजार - पु अडोस-  
पडोस, पासपडीस ।

शेजार १ - स्त्री भगवान् के  
सोने के समय उतारी जाने वाली  
आरती ।

शेजारीं - अव्य पडोस में,  
समीप; आस-पास; पास में ।

शेजारी - पु पडोसी, पडीसी ।  
-पाजारी-पु बहु पासपडोस वाले ।

शेजारीण - स्त्री पडोसिन ।  
शेजारून - अव्य पास से  
हो कर ।

शेट - पु १ सेठ, महाजन,  
व्यापारी, बनिया; लाला, साहू-  
कार । २ सुनार । ३ मालिक ।  
-जी-पु सेठजी । -सावकार-पु  
बहु. सेठ, महाजन ।

शेट - न दे० 'शेट' ।  
शेटाणी - स्त्री सेठानी, बनि-  
याइन । [ 'शेट' - पु ।

शेटी, शेटधा, शेठ - दे०  
शेण - न गोवर । - किडा -  
पु गुवरैला, गोवरैला । - फूट -  
न कडे या उपले का टुकडा । -  
खत - न गोवरका खाद । - खळा -  
पु लीपने के लिए पानी डाल कर  
बनाया हुआ पतला गोवर । - गोटा -  
पु १ गोवर आदि । २. पशुओ के  
वाडे की सफाई । - गोठा - पु  
गोठ से गोवर आदि निकाल कर  
उसे साफ करना । - गोळा - पु  
१ गोवर । २ गोवर का चोथ,  
गोवरगणेश । - मार - पु कीचड-  
उछाल, किसी की बदनामी के  
लिए गदी वाते कहना । - सडा -  
पु १ दे० 'शेणखळा' । २ पत्तो  
आदि के सडने से बना खाद । मु०  
-खाणें - १. झख मारना । २ वेद्या-  
गमन करना । - थापणें - गोवर  
पाथना । शेणाचा दिवा लावणें -  
दिवाला निकालना ।

शेणखळा - वि १ गोवर-  
गणेश । २ खोखला, कमजोर ।  
शेणी - स्त्री कडा, उपला ।  
शेणवी - पु सारस्वत ब्राह्मणो

की एक उपजाति ।

शेत - न खेत, जमीन, भूमि ।  
- करी - पु किसान, खेतिहर,  
कृषक, काश्तकार, हलवाहा ।

[ शेतकन्याचे परस्पर सहकार्य -  
न साईं ] - काम - न कृषि-  
कर्म, खेती; काश्त, खेती का  
काम । - खाना - दे० क्रम में ।

-जमीन - स्त्री खेतीयोग्य भूमि ।  
- भात - न खेती, खेतीवाडी ।

- माल - पु खेती में पैदा होने  
वाला माल, कृषिउत्पादन । - वाडी  
स्त्री खेतीवाडी । - सारा - पु  
लगान, भूराजस्व । मु० - घरात  
ठेवणें - खदकाश्त करना,  
अपनी जमीन में खुद खेती करना ।

शेतकी - स्त्री खेती, कृषि-  
कर्म, किसानी । - मत्री - स्त्री  
कृषिमत्री ।

शेतखाना - पु [ अ या 'मिह-  
हतखान' ] शौचालय, सडास,  
पाखाना ।

शेती - स्त्री १ खेती, किसानी,  
कृषि, काश्त । २ खेत, भूमि,  
जमीन । - भाती, - वाडी - स्त्री  
खेती-वाडी, कृषिकर्म, किसानी ।

शेप - स्त्री सौँफ ।  
शेप, शेपटा, शेपटी - दे  
'शेप', 'शेपटा', 'शेपटी' ।  
शेपू - पु मोबा, सोया ।  
शेपूट - दे 'शेपूट' ।  
शेफारणें - क्रि अ इतराना,  
गर्व से ऐँठना, अकडना, घमड  
करना ।

शेमला - पु [ अ 'शम्ल' ]  
शमला; पगडी, साफे या कमरबंद  
का सिरा, तुरा ।

शेर - पु १ सेर ( मोलह  
छटाँक की एक तौल ) । २ दैनिक  
अन्न, नित्यवृत्ति, रोजी, भोजन

मे हिस्सा । कहा० शेरस सब्वा  
शेर-सेर को सवासेर, एक से एक  
बढ कर या ताकतवर । [ ( क्षुप ) ]

शेर - पु सेहुड; थूहर  
शेर - पु [ फा ] १ शेर,  
वाघ । २ सिंह । - वि शूर;  
साहसी, जवदस्त ।

शेरडी - छी वकरी ।

शेरणी - छी [ फा 'शीरीनी' ]  
शीरीनी, सिन्नी ( प्रसाद की  
मिठाई ) । [ ( वृक्ष और फूल ) ]

शेरणी - छी खिरनी, क्षीरिणी  
शरवाणी-नी - छी [ फा ? ]  
शेरवानी ( एक तरह का आधु-  
निक ढग का अँगरखा ) ।

शेरा - पु [ अ 'शर्भ' ] १  
अभिप्राय, मत, राय, मतव्य ।  
२ टीका, टिप्पणी, आलोचन;  
फवती । ३ नियम, कानून ।  
मु० - मारणें - आलोचना करना,  
टीका टिप्पणी करना, राय देना ।

शेरी - छी १ सरकार या  
नरेश की निजी भूमि । २ वाग  
वाली भूमि ।

शेरेमारी - छी [ दे 'शेरा' ]  
टीका-टिप्पणी, आलोचना ।

शेलका - वि १ चुना हुआ,  
चुनिदा, बढिया । २ अचूक ।

शेला - पु दुगाला, सेला  
( रेशमी चादर ) । - पागोटे - न  
१ सिरुपाव, खिलवत । २ कडी  
आलोचना । [ और पतला ।

शेलाटा - वि लवा, लवा  
शवती - छी सेवती, सेम-  
तिका, गुले दाऊदी ।

शेव - छी सेव ( वेसन से  
वनने वाला सूत जैसा पतला नम-  
कीन पकवान ) । [ २ आंचल ।

शव - पु १ सिरा, छोर ।  
शेवई - सेवई, सेवई, सिमई,

सेमई, सिवई; सिवैयां ।

शेवगा - पु सहिजन, महिजन;  
शोभाजन । [ पात्र ।

शेवगा - पु सेव बनाने का  
शेवट - पु १ अत, नमाप्ति;  
खात्मा । २ परिणाम; नतीजा ।  
- न छोर, सिरा, किनारा ।  
- चा, - ला, - वि अतिम,  
आखिरी । मु० शेवटास नेणें -  
पूरा करना ।

शेवटणें - स क्रि छील कर  
नोक बनाना, पैना करना, मान  
घरना । [ कार, अततो गत्वा ।

शेवटीं - अव्य अत मे, आखिर  
शेवटील - वि अतिम,  
आखिरी ।

शेवती - दे 'शेवती' ।

शेवरी - छी १ सेमल । २  
एक क्षुप जो पशुओं को खिलाया  
जाता है ।

शेवाळ - छे - न मिवार,  
शेवाल, सेवार, सेवाल, सेवाल ।  
२ काई ।

शेवाळणे - क्रि अ १ सेवार  
निकलना, काई छा जाना ।  
२ सलैला, फिमलन वाला होना ।

शेष - पु १ शेष, अतत  
( नाग ) । २ बचा हुआ भाग ।  
- वि शेष, बचा हुआ, बाकी,  
अवशिष्ट । [ ४६ ।

शेहेचाळीस - वि छियालीम,  
शेळवया - पु गडरिया ।

शेळपट - वि नामर्द, कायर,  
डरपोक ।

शेळी - छी वकरी ।

शैक्षणिक - वि शैक्षणिक,  
तालीमी, शैक्षिक, शिक्षामववी ।

शैथिल्य - न शैथिल्य, गिथि-  
लता, सुन्ती, ढीलापन ।

शैली - छी शैली, ढग,

तरीका, रीति; पद्धति; अमि-  
व्यक्ति का कौशल । - कार - वि  
पु. शैलीकार, विशिष्ट शैली का  
निर्माण करने वाला ।

शोक - पु १ शोक, दुःख,  
मन-पीडा, रज, खेद । २ विलाप,  
रोना-घोना । [ 'पोक', 'पोकीन' ।

शोक, शोकीन, शोखीन - दे  
शोचनीय - वि शोचनीय,  
शोकदायक, रंज करने लायक ।

शोणित - न शोणित, रक्त,  
खून, लहू ।

शोध - पु १ ग्वोज; तलाश ।  
२ जांच । ३ अनुसंधान; अन्वे-  
पण, गवेपणा ४ आविष्कार,  
ईजाद । ५ शोध; शुद्धि, सफाई ।

शोधक वि १ खोजी; अन्वे-  
पक । २. जांच - पडताल करने  
वाला । ३ वारीक; सूक्ष्म । - पु  
आविष्कारक, आविष्कर्ता ।

शोधणें - क्रि अ १ खोजना,  
ढूँढना । २ गवेपणा, अनुसंधान,  
अन्वेपण करना । ३ पता लगाना ।  
४ शोधना, शुद्ध करना, परि-  
ष्कार करना । दे 'सोधणें' ।

शोधणें - न १ छानने का  
कपडा, साफी । २ पोतना ।

शोप - छी, शोपा - पु  
सौफ ।

शोभणें - क्रि अ १ सोहना,  
शोभित होना, फवना । २ शोभा  
देना, उचित लगना ।

शोभा - छी शोभा, सौंदर्य,  
रीनक, छवि, खूबसूरती । - दायक  
- वि शोभादायक, शोभा देने-  
वाला, सुंदरता बढाने वाला । मु०

-करणे - घज्जियाँ उडाना, थुक्का  
फज्जीहत करना । - होणें - अपमान,  
फज्जीहत होना । [ सुंदर; सुहावना ।

शोभिवत - वि शोभिवन्त;

शोष - पु. १. शोष, सूखा-  
पन। २ तीव्र प्यास। मु० - पडणें  
- गला सूखना।

शोषक - वि शोषक, शोषण  
करने वाला, सोखने वाला, चूसने  
वाला।

शोषण - न शोषण, सोखने,  
चूसने की क्रिया, किसीके श्रम से  
या व्यापार आदि से अनुचित लाभ  
उठाना।

शोषणें - क्रि स १ सोखना,  
चूसना। २ शोषण करना (दे  
'शोषण')। - क्रि अ. सूखना,  
सोखा जाना।

शोषित - वि शोषित, पीडित,  
जिसका शोषण किया गया हो।

शोक - दे. 'पोक'।

शौच - न पु १ शौच, मल-  
त्याग, मैला, पाखाना, टट्टी।  
२. शुद्धि, शरीरशुद्धि। ३ शुचि-  
ता, पवित्रता। - कूप - पु. शौच-  
कूप; सडास; पाखाना। मु०  
शौचास जाणें - टट्टी जाना।

शौर्य - न शौर्य, शूरता,  
वीरता, पराक्रम, वहादुरी।

श्मशान - दे 'स्मशान'।

श्मश्रु - छी न १ श्मश्रु,  
दाढी-मूँछ। २ हजामत।

श्रद्धालू - वि श्रद्धालु, श्रद्धा-  
युक्त।

श्रम - पु. १. श्रम, परिश्रम,  
मेहनत। २ कष्ट, तकलीफ।  
- जीवी - वि श्रमजीवी, मेहनत-  
कश। - भोजन - न किसी कार्य-  
की समाप्ति पर कार्यकर्ताओं को  
दिया जाने वाला भोज। - विभाग  
- पु. - विभागणी छी, - विभाजन  
- न श्रमविभाग, काम का बँट-  
वारा। - साफल्य - न परिश्रम  
की सफलता, उचित प्रतिफल।

म हि श को. ...४३

श्रवण - न १ श्रवण; सुनने  
की क्रिया। २ कान। ३ कर्ण  
(रेखागणित)। ४ सत्ताईस  
नक्षत्रों में से वाईसवाँ नक्षत्र,  
श्रवण। - भक्ति - छी १ श्रद्धा  
के साथ सुनना। २ निष्क्रिय  
श्रवण।

श्रात - वि. श्रात, थका  
हुआ।

श्राद्ध - न श्राद्ध, शास्त्र-  
विहित पितृकर्म। मु० - विकत  
घणें - नाहक का झकट मोल  
लेना।

श्राप - पु. शाप।

श्रावण - पु. श्रावण, सावन।  
- धेवडा - पु. एक प्रकार की  
सेम या फली जो तरकारी के काम  
आती है।

श्रावणी - छी श्रावण के  
महीने में ब्राह्मणों द्वारा की जाने  
वाली यज्ञोपवीत-वारण-कर्म की  
विधि।

श्री - छी श्री; शोभा, सौंदर्य,  
संपत्ति, विभूति, शानशौकत।  
- पु. श्री, रागविशेष (सगीत)।

- वि श्रीयुत, श्रीमती, जनाब।  
- खड - न १ श्रीखड, दही से  
पानी निकाल कर उसमें चीनी  
आदि डाल कर बनायी जाने वाली  
एक मिठाई। २ चदन।

- गणेशा - पु. श्रीगणेश,  
आरभ। - फल-छ - न श्रीफल,  
नारियल। (मु० - ० देणें -  
विदा करना।) - मत - वि  
अमीर, धनी, मालदार। - पु.  
राजा; महाराजा, पेशवा।  
- मती - छी अमीरी, दौलत-  
मदी।

श्रीमत - ती - दे 'श्री' में।

श्रीमती - छी श्रीमती,

स्त्रियों के नाम के पूर्व जोडा  
जाने वाला आदरसूचक शब्द।  
(पुराने समय में इसका प्रयोग  
केवल विधवाओं के लिए किया  
जाता था।)

श्रुतिका - छी आकाशवाणी  
(रेडियो) से प्रसारित होने वाला  
नाटक; रेडियो-ड्रामा।

श्रेढी - छी श्रेढी; सख्या  
आदि की नियमित वृद्धि या  
उसका ह्रास (ग०)।

श्रेणी - छी १. श्रेणी; श्रेणि,  
कोटि, दर्जा। २ पक्ति, शृंखला।

श्रेय - न श्रेय, हित, यश।

श्रेयस्कर - वि श्रेयस्कर,  
हितकारी, फायदेमद।

श्रेष्ठ - वि श्रेष्ठ, सब से  
मच्छा, अति उत्तम, आला  
दर्जों का। - पु. समर्थ रामदास के  
बड़े भाई रामी रामदास गंगाधर  
स्वामी। [कर्ता, सुननेवाला।

श्रोता - पु. श्रोता; श्रवण-  
श्रोतृसमाज - पु. श्रोतागण,  
सुनने वाले लोग।

श्लाघा - छी श्लाघा,  
प्रशंसा, चापलूसी।

श्लिष्ट - वि श्लिष्ट,  
श्लेषयुक्त, द्व्यर्थक।

श्लेष - पु. १ श्लेष (एक  
शब्दालकार)। २ एक शब्द के  
कई अर्थ होना, निकालना। मु०  
- काढणें - १. बाल की खाल  
निकालना। २. मीन-मेख निकाल-  
लना।

श्लोक - पु. १ श्लोक, पद्य।  
२ यश, कीर्ति।

श्वशुर - पु. श्वशुर, ससुर।

श्वसन - न श्वासन, साँस  
लेना।

श्वान - पु. न श्वान, कुत्ता।

-वृत्ति-छी चापलूसी, लल्लोपत्तो ।  
श्वापद - न श्वापद, हिंस्र  
पशु जगली जानवर ।  
श्वास - पु. १ श्वास, सांस,  
दम । २ दमा नामक रोग । ३  
आह । - नलिका - छी श्वास-  
नलिका, श्वासनाली; श्वासनली ।

मु० - कोंडणे - १ सांस चढना;  
दम घुटना, दम रुकना । २ सांस  
उखडना । - गुदमरणें - दे 'श्वास  
कोडणे' । - घोटाळणे - सांस  
उखडना, सांस टूटना, उलटी  
सांस चलना । - लागणे - दम  
फूलना, सांस उखडना; हाँफना ।

श्वासोच्छ्वास - पु श्वासो-  
च्छ्वास, सांस ।  
श्वेत - वि श्वेत; सफेद;  
उजळा, गोगा । - कुष्ठ - न  
श्वेतकुष्ठ, सफेद कोढ । - प्रदर -  
पु श्वेत-प्रदर, सफेद पानी (नारी-  
रोग) ।

घ

घ - मराठी वर्णमाला का  
इकतीसवाँ व्यजन--वर्ण ।  
घड - पु. पंड, पड, हिजडा;  
क्लीव, नपुसक । - वि डरपोक,  
कायर, नामर्द, नालायक ।  
घढत्व - न नपुसकता,  
नामर्दी, नपुसकत्व ।  
घटक - न दे. 'पटक' ।  
घट् - वि पट्, छ ।  
- कोण - पु पट्कोण; वह क्षेत्र  
जिसमें छः कोण हो । - कोणी -  
वि पट्कोण, छपहला । मु० -  
कर्णो होणें - फैल जाना (वात

का), भेद खुल जाना ।  
पटक - न पटक, पटकार,  
छक्का (क्रिकेट में) ।  
पडक्षर, पडक्षरी मत्र - न  
१ 'कुछ नहीं आता' । २ मूर्ख,  
नादान आदमी ।  
पड्ड पु - ताल, जघा या वाजू  
पर हथेली में ठोक कर उत्पन्न  
किया हुआ शब्द । मु० - ठोकणें -  
खम ठोकना, ताल ठोकना ।  
पण्मासिक - वि पण्मानिक,  
छ माही, अर्धवार्षिक ।  
पण्ठांश - पु पण्ठाश; छठा

भाग ।  
पण्ठी - छी १. पण्ठी, पक्ष की  
छठी तिथि । २ सवधकारक की  
विभक्ति । ३ दुर्गादेवी । ४ थुडी;  
फजीहत, हजामत । - पूजन - न  
पण्ठीपूजन, पण्ठीपूजा, प्रसव के  
छठे दिन होने वाली पण्ठी देवी  
की पूजा ।  
पोक - पु [अ. 'शोक']  
शोक, चस्का, उत्कठा, व्यसन,  
देव, आदत ।  
पोकीन - वि [उर्दू 'शोकीन']  
शोकीन, रंगीला, आदी, व्यसनी ।

स

स - मराठी वर्णमाला का वत्ती-  
सवाँ व्यजन-वर्ण ।  
सकट - न सकट, मुसीबत,  
आफन, विपत्ति, खतरा । मु० -  
घालणें - बहुत पीछे पडना; हठ  
कर के माँगना ।  
सकर - पु सकर, मिश्रण ।  
- जाति - छी सकरज सतान,  
जति ।  
सकलन - न १ सकलन,  
चयन । २ एकत्रीकरण । ३ जोड  
(ग) ।  
संकल्प - पु १ मकल्प, विचार,  
उद्देश्य । २ निश्चय, इरादा ।

- विकल्प - पु बहु उधेडवुन;  
अनिश्चय । [ अनुमानित ।  
संकल्पित - वि प्रस्तावित,  
संकष्टचतुर्थी, सकृष्टी - छी  
मकट-चतुर्थी, प्रत्येक मास की  
कृष्णा चतुर्थी ।  
सकीर्ण - वि १. प्रकीर्ण,  
फुटकर । २ सकीर्ण, मिश्रित ।  
संकुचित - वि १ मकीर्ण,  
क्षुद्र, तग । २ सकुचित, मिकुडा  
हुआ । ३ संकरा ।  
सकुल - वि सकुल, घना,  
भरा हुआ, प्रचंड । - युद्ध - न  
सर्वस्व युद्ध, 'टोटल वॉर' ।

सकेत - पु १ सकेत, इगित;  
इशाग । २ आपस का ठहराव ।  
३ निर्दिष्ट स्थान [ प्रेमी - प्रेमिका  
के मिलने का ] । ४ चिह्न । ५.  
प्रकल्पना । ६ विधान ।  
सकोच - पु १ सकोच,  
लज्जा, तकल्लुफ । २ मिकुडना,  
सक्षेप । मु० - करणे - १ क्षिप्त-  
कना, हिचकिचाना, झेंपना । २.  
तकल्लुफ करना ।  
सकोचर्णे - क्रि अ १ सिकु-  
डना, सिमटना; सकुचित होना ।  
२ झेंपना, शरमाना । ३. तकल्लुफ  
करना ।

सकोची वि सकोची, लजाने-  
वाला, शरमीला, झेंपू ।  
सक्रमण - न १ सक्रमण;  
गमन, भ्रमण । २ सक्राति ।  
- काळ - पु सक्रातिकाल ।  
सक्रांत - स्त्री १. सक्राति । २.  
बला, आपत्ति; आफत, कहर ।  
- वि सक्रात, गत, प्रविष्ट । मु०  
- यणें - आफत आना, कहर  
टूटना । [ घटाया हुआ ।  
सक्षिप्त - वि सक्षिप्त, छोटा;  
सक्षेप - पु सक्षेप, छोटा रूप ।  
२. घटाना ।  
सख्या - स्त्री १ सख्या, अक;  
आँकडा, अदद । २. गणना;  
गिनती; शुमार, तादाद । - विशे-  
षण - न सख्यावाचक विशेषण ।  
सग - पु १ सग, मैत्री,  
साथ । २ मिलन, योग, एका ।  
३. स्त्रीपुरुषसमागम, मैथुन ।  
- अव्य दे० 'सगें' । - दोष - पु  
सपर्क या सगत से आने वाला दोष ।  
संगजिरें - न [ फा 'सग-  
जराहत' ] सगजराहत, सिधा,  
सेलखरी ।  
सगत - स्त्री १ सगत, मेल,  
मिलन; सबध, मित्रता । २  
सुहवत, साथ । - वि १. सगत,  
युक्त, उपयुक्त, मौजूं; उचित ।  
२ सबद्ध । - चार - वि क्रमबद्ध;  
क्रमयुक्त, सिलसिलेवार, तरतीब-  
वार, सगत, सबद्ध ।  
सगति - स्त्री सगति, दे  
'सगत' । [ सहित ।  
सगती - अव्य सग, साथ,  
सगती - पु मित्र, साथी ।  
सगनमत - न १ मेल, सधि,  
समझौता । २ साजिश, साँठगाँठ ।  
३. मर्तक्य, ऐकमत्य, एक राय ।  
सगम - पु सगम, मिलन,

सयोग, एकता ।  
संगमरवर - पु [ फा 'सगे  
मर्मर' ] संगमरवर, सगमर्मर ।  
सगर - पु सगर, युद्ध;  
लडाई ।  
सगीत - न सगीत, गाना,  
मूसीकी । - वि सगीतयुक्त,  
जिसमे गाना हो ।  
संगीन - स्त्री [ उर्दू ] संगीन  
(हथियार); किरिच ।  
सगृहीत - वि सग्रहीत; सग्रह  
किया हुआ, जमा किया हुआ ।  
संगोपन - न पालनपोषण;  
परवरिश ।  
सग्रह - पु सग्रह, सकलन;  
चयन, जमा करना । मु० सग्रहीं  
असणे - पास होना, सग्रह मे  
होना ।  
संग्रहणी - स्त्री सग्रहणी,  
अतिसार, दस्त या आँव की  
बीमारी ।  
सग्रहालय - न सग्रहालय;  
अजायदघर; म्यूजियम ।  
संग्राम - पु संग्राम, युद्ध;  
लडाई । [ सकलनकर्ता ।  
संग्राहक - पु वि संग्राहक;  
सघ - पु सघ, समूह, झुड,  
दल, मडली, समाज, सघटन ।  
सघटक - वि सगठक, आयो-  
जक, सघटनकर्ता ।  
सघटण - न सघटन, सघट्टन,  
सयोग, मेल, घनिष्ठ सपर्क,  
गहरी दोस्ती ।  
संघटणा - स्त्री सघटन,  
सगठन; सघटित सस्था ।  
सघटन - न सघटन,  
सगठन । [ सगठन, सस्था ।  
सघटना - स्त्री सघटन,  
सघटित - वि सघटित, मग-  
ठित, व्यवस्थित ।

सघट्टण - न दे 'सघटण' ।  
सघर्ष - पु सघर्ष, स्पर्धा,  
झगडा ।  
सघर्षण - न. सघर्षण; रगड  
खाने या रगडने की क्रिया ।  
सघट्टण - दे 'सघटण' ।  
सच्च - पु १ साधन, सग्रह,  
सामग्री; उपकरण । १. समूह ।  
३ 'सेट' । ४ दल, 'टीम' ।  
सचय - पु सचय, राशि, ढेर,  
सकलन, सग्रह; जमा करना,  
जोडना । मु० - करणे - सेतना;  
सैतना, सहेजना; बटोरना ।  
सचरणें - क्रि अ. १ अदर  
जाना, प्रवेश पाना, घुसना ।  
२ चढना, आवेश होना (भूत),  
भूताविष्ट होना, प्रेतवाधा होना ।  
३ धूमना; सचार, भ्रमण करना ।  
४. भटकना । [ यद, 'परेड' ।  
सचलन - न सैनिकों की कवा-  
सचार - पु १ सचार,  
भ्रमण । २ आवेश, भूतावेश ।  
३ प्रवेश, पहुँच ।  
संचारणे - क्रि अ दे.  
'सचरणे' । - क्रि स प्रवेश  
कराना; घुसाना ।  
सचालक - वि पु सचालक,  
आयोजक, प्रवधक ।  
सचालन - न सचालन, प्रवध;  
आयोजन, नियंत्रण ।  
सचित - न सचित कर्म,  
माग्य, नसीब ।  
सजाफ-फ-व - पु [ फा 'सजाफ' ]  
१ सजाफ, हाशिया, गोट,  
झालर । २ चोटी के चारों ओर  
का घेरा ।  
सज्ञक - वि सज्ञक, नाम  
वाला, मुसम्मा ।  
सज्ञा - स्त्री १ सज्ञा, नाम ।  
२ अमिधान । ३ बोध, ज्ञान ।

४ सकेत, इगित, इशारा।- पत्र  
- न मुखपृष्ठ, आवरणपृष्ठ।  
सडणें\* - दे 'सोडणे'।  
सडास - पु. [हिं.] सडास;  
पाखाना।

सत - पु. सत, साधु, धर्मात्मा,  
दरवेश, जोगी। [सौम्य।  
संत\* - वि स्थिर, शात,  
सतत - अव्य सतत, हमेशा,  
सतत, लगातार, निरंतर। - वि  
स्थायी, हमेशा का। - ज्वर - पु.  
सततज्वर, विषमज्वर। - धार  
छी १ झडी, सततवर्षा। २  
शिर्वालिग आदि पर जलहरी से  
लगातार गिरने वाली पानी की  
धारा।

संतति - छी १ सतति,  
सतान, औलाद, वालवच्चे।  
२ नैरतर्य, अविच्छिन्नता। -  
नियमन - न सततिनिरोध,  
सततिनिग्रह।

सतती - दे० 'सतति'।

संतप्त - वि १ क्रुद्ध, गुस्से से  
भरा, कुपित, त्रिगडा हुआ,  
भडका हुआ। २ सतप्त, तप्त,  
जलता हुआ। ३ कष्टग्रस्त,  
पीडित। [औलाद, वालवच्चे।

सतान - न सतान, सतति;  
सताप - पु. १ क्रोध, गुस्सा। २.  
सताप, तेज गरमी। ३ कष्ट, पीडा।

संतापणें - क्रि अ क्रुद्ध,  
गुस्सा होना, झल्लाना, विगडना,  
भडकना।

संताळें - न १ दाडाजिनिक;  
कपटी, ढोगी साधु। २ सतो  
का मेला। [राज्जी, खुश।

सतुष्ट - वि सतुष्ट, प्रसन्न;  
सतोष - पु. मतोष, प्रसन्नता,  
खुशी, तृप्ति।

सतोषणें - क्रि अ सतुष्ट,

तृप्त होना; खुश होना।

सत्रा - पु. दे 'सत्रें'।

सत्री - पु. [अ 'सेंट्री']  
सतरी, प्रहरी, पहरेदार।

सत्रे - न [फा 'सगतर']

सतरा, सगतरा, मीठी नारगी।

सथ - वि १ मद, धीमा।

२ सुस्त, आलसी। [सवक।

सथा - छी सथा, पाठ,

सवर्भ - पु. सदर्भ, अनुपग,

सवध, सपर्क, अन्वय, निर्देश।

- ग्रथ - पु. सदर्भ - पुस्तक, उद्-

घरण-पुस्तक।

संदला - पु. [अ 'सदल']

महीन चूने का लेप, पलस्तर के

लिए बनाया हुआ मसाला।

सदिग्ध - वि सदिग्ध, अनि-

श्चिन्, मुव्हम, अस्पष्ट।

सदेश - पु. सदेश, संदेशा,

सवाद। [अनिश्चय; सशय।

सदेह - पु. सदेह, शक, शका,

सधला - दे 'सदला'।

सधान - न १ युक्ति, तर-

कीव, दाँव, निशाना। २ सवध,

मेल। ३ मार्ग, पद्धति, तरीका।

४ ध्यान, खयाल। ५. समय,

अवसर, मौका।

सधि - छी मौका, अवसर।

- साधू - वि अवसरवादी;

मौकापरस्त। मु० - साधणें - मौका

पाना।

सधि - पु. १. सधि, मेल,

जोड, योग। २ शरीर का जोड।

३ समझौता, सुलह। ४ युगात-

काल। ५ एक तरह का वर्ण-

विकार। - फाल - पु. सधिवेला,

सक्रातिकाल, सध्याकाल। - प्रकाश -

पु. सधिप्रकाश, सध्यालोक, झुट-

पुटा। - वात - पु. सधिवगत;

गठिया (वातरोग)।

सधी - दे 'सधि'।

सध्याकाळ - छी सध्या,

शाम, साँझ, सायकाल।

संनिध - अव्य सन्निध, पान;

निकट, नजदीक।

सन्यस्त - वि १. सन्यस्त,

छोडा हुआ, रखा हुआ। २

विरक्त।

सन्यास - पु. सन्यास, परि-

त्याग। मु० - घणें - सन्यास

लेना। [यति।

सन्यासी - पु. सन्यासी,

सप - पु. १ हडताल। २

एका, गुटवदी, सगठन, सध-

टन। मु० - करणें, मंपावर

जाणें - हडताल कर देना।

सपणे - क्रि अ १. समाप्त

होना, ज़त्म होना। १. चुकना;

पूरा होना, अत आना, मिट

जाना। ३. मर जाना।

सपत्ति, सपदा - छी

सपत्ति, सपदा, ऐश्वर्य, धन;

जायदाद, पैसा, दौलत।

संपन्न - वि १ धनी,

सपन्न, मालदार। २ से युक्त,

भरा-पूरा।

संपर्क - पु. १ सपर्क, सवध,

लगाव, तअल्लुक। २. मिश्रण,

सयोग, स्पर्श।

संपविणें - क्रि स १

समाप्त करना, खत्म करना। २.

पूरा करना, चुकाना, मिटाना।

सपात - पु. सपात, सगम,

मिलन। - बिबु - पु. विपुववृत्त

और क्रातिवृत्त का मिलन-स्थान।

सपादक - पु. सपादक;

'एडीटर'।

संपादणी - छी १. कमाई;

प्राप्ति, अर्जन। २ बहानेवाज्जी;

ढोग।

संपादणें - क्रि स १ प्राप्त करना, कमाना, अर्जन करना । २ सपादन करना ।

सपादन - न १ सपादन । २ प्राप्ति; उपलब्धि, कमाई, अर्जन । मु० - करणें - दे ' सपादणें ' ।

संपादित - वि १. सपादित, ग्रस्तुत; तैयार किया हुआ । २ प्राप्त, हासिल ।

संपुट - न सपुट, दोना, अजलि, कटोरे जैसी कोई वस्तु । २ ढक्कन वाली टोकरी, डिब्बा ।

संपुष्ट - न देवमूर्तियाँ रखने का डिब्बा या टोकरी । दे ' संपुट ' । मु०-सपुष्टात येणें - कम होना, खत्म होने को आना, चुक जाना ।

संपूर्ण - वि १ सपूर्ण, पूरा, कुल, तमाम; समस्त, सारा, भरा-पूरा । ३ समाप्त; खत्म ।

सप्रति - अव्य. सप्रति, इस समय; आजकल, फिलहाल ।

सप्रदाय - पु १ सप्रदाय, मत, पथ । २ रिवाज, प्रथा । ३ मुहावरा । ४ वाक्प्रचार ।

सप्रदायीक - वि सप्रदायी, साप्रदायिक ।

सबध - पु १ सबध, तअल्लुक । २ सरोकार, वास्ता, साथ, मेल । ३ रिश्ता, नाता, मैत्री । ४ विवाह ।

सबधित - वि सबध, सबधी, मृताल्लिका ।

सबधी- अव्य. सबध मे, विषय मे, वारे में, मृतअल्लिक ।

सबधिक - वि १. सबधी, सबध । २ भूताविष्ट ।

सबधी - पु सबधी, रिश्तेदार, नातेदार । - वि सबधी; ... .से

सबध, सबध रखने वाला । - सर्वनाम - न सबध-सूचक सर्वनाम ।

सबळ - पु छी १ दुक्कड ( बाजा ) । २. रभा, सब्बर ।

सबळ - छी सबळ, शबळ, पाथेय ।

सबळी - छी देवमूर्तियाँ और पूजा के उपकरण रखने का बेंत का छोटा पिटारा ।

सबोधणे - क्रि स १ बूलाना, पुकारना । २ सबोधित करना, मुखातिव करना ।

सबोधन - न १ सबोधन, पुकारना । २ आठवाँ कारक ( व्या ) ।

सभव - पु १ सभव; सभावना; इमकान । २. अदाजा; अनुमान । ३ जन्म, उत्पत्ति ।

सभवणे - क्रि अ १ सभव होना, हो सकना । २ पैदा होना ।

सभवनीय - वि सभवनीय; मुमकिन, सभाव्य, सभव ।

सभार - पु १ सभार, तैयारी, साजसामान, सामग्री, उपकरण । २ समह, अतिशयता, आधिक्य ।

सभावना - छी सभावना, इमकान, मुमकिन, सभव होना । २ सभावन, आदर-सत्कार, मान सम्मान, इनाम-इकराम ।

सभावित - वि १ सभावित, सभव, सभवनीय, मुमकिन । २ सम्मानित, शिष्ट, प्रतिष्ठित; भद्र, शरीफ ।

सभाषण - न सभाषण, बात-चीत, वार्तालाप, कथोपकथन ।

सभाळ - पु सँभाल, परवरिश, देखभाल, पालन-पोषण ।

सभाळणें - क्रि स १ सँभा-

लना, सम्हालना, परवरिश करना, रक्षा करना, पालन पोषण करना, भार उठाना । २ काबू में रखना, ३ सहेजना । ४ अपने को जप्त करना । ५ सयत करना । मु० सभाळून घेणें - चला लेना, निबाहना, बर्दाश्त करना, सह लेना ।

सभ्रम - १ सभ्रम, चक्कर खाना । २ भ्रम, भ्रांति, गलत-फहमी, धोखा, भूल, गलती । ३ उतावली, जल्दवाजी, हलचल । ४ घबडाहट, व्याकुलता ।

समति-ती - छी सम्मति, सहमति, स्वीकृति ।

समर्द - पु १ सम्मर्द, भीड, झुंड । २ दबाव, रौदना, रगडना, कुचलना, सघर्षण ।

समार्जन - न सम्मार्जन, झाडना - बूहारना, सफाई ।

समिश्र - सम्मिश्र, मिश्रित; मिलाजुला; मिला हुआ ।

समेलन - न १ सम्मेलन, सभा, जमावडा, मेला । २ सस्था, अजुमन । ३ मिश्रण, मेल । [करण, विमोहन ।

समोहन - न सम्मोह, वशी-सयत - वि सयत, रोका हुआ, दमित, सयमी, सीमित ।

सयम - पु १. सयम, रोक, निग्रह, दमन, । २ तपस्या ।

सयुक्त - वि सयुक्त, जुडा हुआ, मुत्तहदा । - कुटुंब - न सयुक्त कुटुंब, परिवार, सम्मिलित कुटुंब । - पद्धति - छी सयुक्त परिवार प्रथा । - राष्ट्र सघटना - छी सयुक्त राष्ट्रसघ ।

सयोग - पु १ सयोग, मिलन, मेल, घनिष्ठ सपर्क । २. मिश्रण । ३. एका । ४ जोड; योगफल । - भूमि - छी



जलडमरुमध्य ।

सयोजक - वि सयोजक, जोड़ने, मिलाने वाला । - पु सयोजक, सभा आदि का आयोजन करने वाला, आमत्रक, आयोजक, 'कन्वीनर' ।

सरक्षक - वि सरक्षक, सरक्षी, रक्षात्मक । - पु सरपरस्त, सरक्षक । - जकात - स्त्री सरक्षक तट-कर ।

सरक्षण - न रक्षा, हिफाजत, दिफाअ, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सरक्षण । - मत्री - पु रक्षामत्री, वज्जीरे दिफाअ ।

सलग्न - वि सलग्न, सटा हुआ, जुड़ा, चिपका हुआ, मवद्ध ।

सवड - दे 'सवड' ।

सवत् - पु १ सवत्, सन्, वर्ष । २ विक्रममवत् ।

सवत्सर - न पु सवत्सर, वर्ष, साल ।

सवय - स्त्री १ आदत, टेव । २ स्वभाव । ३. अम्याम; परिचय । ४ लत । मु० - लागणे - टेव पटना, आदत, लत लग जाना ।

सवयीचा - वि परिचित, परचाया हुआ, हिला - मिला ।

सवर्धन - न १. सवर्धन, सवर्द्धन वृद्धि, बढती, बढना । २ पालन - पोषण, परवरिश ।

सवाद - पु १ संवाद, वात-चीत, सभापण, कथोपकथन । २. मेल, सगति । [कथावस्तु ।

सविधानक - न सविधानक,

सशय - पु १ सशय, मदेह, शक, अदेशा, वहम, अनिश्चय । २ खतरा, खटका, आशका, सकट । - खोर - वि शकाशील, शक्की । [शक मे ।

सशयावरुन - अव्य सदेह मे,

सशयिन - वि सदिग्ध, मश-कूक, मुग्धवा । [सदेही ।

सशयी - वि शकाशील, शक्की, सशोधक - वि पु १ आविष्कारकर्ता; अनुमधानकर्ता, अन्वेषक, गवेषक, खोजी । २ सशोधक, मुधारने वाला, परिष्कार करने वाला ।

सशोधन - न १ अनुमधान, अन्वेषण, खोज, गवेषणा; तत्राग । २ मशोधन, मुधार, शुद्धीकरण ।

ससर्ग - पु १ मसर्ग, सवध, नपकं । २ मयोग, मेल । - जन्य - वि सत्रामक, छुतहा (रोग आदि) ।

ससार - पु १ गृहस्थी, घर-वार, कुटुब-परिवार, बाल-वच्चे । २ नसार, दुनिया, जगत् । ३ प्रपच, मायाजाल, जगत् का जजाल, झमेला । - चक्र - न १ मनारचक्र, भवचक्र, पारिवारिक सुख-दुख । २ परिवार का आयोजन, बोज । - सुख - न ससारसुख, भौतिक सुख, पति या पत्नी से मिलने वाला सुख । ससाराचा गाडा - पु दे 'ससार-चक्र' । ससाराचें जोखड - न. गृहस्थी का दायित्व । मु० - उभारणे - घर बसाना । - करणे - गृहस्थी चलाना, पति या पत्नी के नाते अपना कर्तव्य पूरा करना । - माडणे - घर बनाना, गृहस्थ - जीवन का प्रारंभ करना ।

ससारी - वि १ गृहस्थ, गृही, घर-वारवाला । २ दुनिया-दार, व्यवहार-कुशल । ३. लौकिक, भौतिक, सासारिक ।

ससृति - स्त्री १ सृष्टि, जगत् । २ ससृति, आवागमन, जन्ममरण

की परपरा, सातत्य ।

सस्कार - पु १ मस्कार, सुवारना, शुद्धि, मफाई, पवित्रीकरण । २. द्विजातियों के शान्त्र-विहित कृत्य । ३ मन पर पढी हुई छाप, भ्रानिमूलक विष्वाम, वारणा, प्रभाव, संस्कार ।

संस्कृत - वि मस्कृत, परिष्कृत किया हुआ, मुरचित; मुनिर्मित, उत्तम, भद्र । - स्त्री, न मस्कृत (भाषा) ।

सस्कृति - स्त्री सस्कृति, मस्कार, आचरणगत परपरा, मभ्यता, तहजीब ।

सस्था - स्त्री मस्था, सभा, मडली, अजुमन ।

सस्थान - न १ रियासत; राज, राज्य । २ देवस्त्र, देवता, नाचमंत आदि के नाम दी हुई माफी की जमीन-जायदाद ।

सस्थानिक - पु देशी नरेश, नवाब, वालीए रियासत ।

सहरणे - दे. 'मंहारणे' ।

सहार - पु १ सहार, नाश, वध, खात्मा । २ प्रलय ।

सहारक - वि सहारक, नाश-कारी, ध्वंसकारी ।

सहारणे - क्रि स सहार करना, नाश, वध करना; मार डालना ।

सई-ई - + स्त्री स्मृति, याद ।

सई - + स्त्री सखी, सहेली ।

सईस - दे 'साईस' ।

सकट - अव्य सहित, साथ;

सह, मिलाकर ।

सकरुण - वि सकरुण, दया-युक्त, कृपालु, रहमदिल ।

सकल - वि सकल; सब,

समस्त, सपूर्ण, समूचा ।

सकलात - द - स्त्री [ तु

‘सिकलात’] सिकलात, वनात, वानात (एक कीमती रगीन ऊनी कपडा) ।

सकस - वि पौष्टिक, शक्ति-वर्धक, पुष्टिकर, मुकव्वी ।

सकळ - दे ‘सकल’ ।

सकळिक, सकळीक\* - वि सव के सव, कुल, सारे ।

सकाम - वि सकाम, कामना-युक्त; फलाकाशा से किया हुआ (कार्य) ।

सकारण - वि अव्य सकारण, सहेतुक, सोद्देश्य; विलवजह, कारण से; सवव की विना पर ।

सकाळ - छी सुवह, सवेरा, सवेरा, प्रात काल, तडका । - सध्याकाळ - अव्य सुवह-शाम, साँझ-सवेरे, दोनो वक्त ।

सकाळीं - अव्य. १ सुवह, सवेरे, तडके, प्रात । २ कल सुवह (आगामी) ।

सकुटुंब - वि सपरिवार ।

सकृद्दर्शनीं - अव्य १ देखते ही, छूटते ही; शुरू मे । २ ऊपरी तौर पर, सरसरी निगाह से देखने पर, मोटे तौर पर, स्थूल रूप से ।

सकेशा - वि छी अमुडिता, विधवा, जिसका सिर न मूँडा गया हो ।

सकत - वि [फा. ‘सख्त’] सख्त, कडा, कठोर, दृढ, कठिन, प्रचड; दुष्कर, भारी, तीव्र । - मजुरी - छी कडी कैद, कठोर कारावास; कैदे सख्त, कैदे वामशकत ।

सकती - छी [फा ‘सख्ती’] १ सख्ती, कडाई, अनिवार्यता, कठोरता । २ जुल्म, ज़बर्दस्ती । - चा - वि १ अनिवार्य, लाजिमी । २ कडा, कठोर । - छी

लफ्करभरती - छी जवरी भर्ती, अनिवार्य भर्ती । मु० - करणें - सख्ती से पेश आना, कडाई करना ।

सक्रिय - वि सक्रिय, क्रिया-शील, अमली, कारगर ।

सखया - (सवोधन) - ऐ साजन, बलमा, बलमवा, ऐ प्यारे । [निचला ।

सखल - वि नीचा, गहरा, सखलात - द - दे ‘सकलात-द’ ।

सखा - पु, सखा, मित्र, साथी, मह्हर । - वि दे ‘सख्खा’ ।

सखी - छी सखी, सहेली, सहचरी ।

सखेद - अव्य खेद के साथ, अफसोस के साथ ।

सखोल - वि गहरा, गभीर, गाढा ।

सख्खा - वि सगा, सहोदर, हकीकी, नजदीकी ।

सख्य - न सख्य, सखापन, मित्रता, मेल, मैत्री, दोस्ती, सौहार्द ।

सगट - दे ‘सकट’ ।

सगळा - वि समूचा, सारा; पूरा, समस्त, सपूर्ण, कुल ।

सगळीकडे - अव्य चारो ओर, सव तरफ, हर तरफ ।

सगा - पु रिश्तेदार, नातेदार, सवधी । - सोयरा - पु सवधी, रिश्तेदार ।

सगोत्र - वि सगोत्र, एक ही गोत्र का । - पु एक ही गोत्र का व्यक्ति, सगोती ।

सघन - वि सघन, गाढा, घना, ठोस, गन्धिन; सुसह्य ।

सचकार - पु पेशगी, बयाना ।

सचित - वि सचित, चितित, फिक्रमद ।

सचिव - पु १ सचिव, मंत्री । २. अमात्य, वजीर ।

सचेतन - वि सचेतन, चेतना-युक्त, सजीव ।

सचेल, सचैल - वि सचेल, सचैल, वस्त्राच्छादित, वस्त्रयुक्त । - अव्य सव कपडो समेत (नहाना) ।

- न कपडो समेत किया जाने वाला स्नान । [ईमानदारी ।

सचौटी - छी सचाई, नेकी, सजगुरा - +पु [क ‘सज्जिगे’]

वाजरा । सजण-णा - पु १ साजन, प्रियतम; पति, प्रेमी, यार । २ रिश्तेदार ।

सजणी - छी १ सजनी, सखी, सहेली । २ प्रियतमा, प्रेमिका ।

सजणें - क्रि अ १ सजना, अलकृत होना । २ लँस होना, तैयार होना ।

सजविणें - क्रि स सजाना, सिगारना, संवारना, सुसज्जित करना । [सजाति, एक जैसा ।

सजातीय - वि सजातीय, सजावट - छी सजावट, सज्जा, सजघज, सिगार, शोभा; तैयारी । [जीवित, जिदा ।

सजीव - वि सजीव, सचेत, सजुगरा - दे ‘सजगुरा’ ।

सज्ज - वि सज्ज, तैयार, लँस । [दार, सशक्त ।

सज्जड - वि मज्जवूत, जोर-सज्जन - वि सज्जन, भला, शरीफ । - पु १ सज्जन, भला आदमी । २ समय रामदास ।

सज्जा - पु छज्जा, अट्टालिका, वारजा, अटारी, वीथिका, ‘गैलरी’ ।

सज्जीखार - पु सज्जीखार,

सज्जी (मिट्टी) ।

सज्ञान - वि १ सयाना, वालिग । २ सज्ञान, समझदार ।

सट - छी पण्ठी, छठी ।

सट - पु [अ. सेट'] १ सेट, जोडा, एक ही तरह की कई चीजों का समूह । २ गमले के आकार का कांच या चीनी मिट्टी का छोटा वर्तन ।

सटकणे - क्रि अ सटकना, खिसक जाना । [से, तडाक से ।

सटकन - अव्य झट से, सटाक सटका - पु १ झटका । २ धक्का । ३ सटकार, कश । ४ सटक्का, झपट, दौड ।

सटकावणे - क्रि स १ सटकाना, कम कर लगाना, सटकारना, झटकारना, छडी आदि से मारना । २. फटकारना, डाँटना ।

सटरफटर - वि सटरपटर, चुच्छ, फुटकर, मामूली । - न मामूली सामान, अदना चंज, कवाड, रद्दी चीजे ।

सटवा - वि वदमाश, गुडा । सटवाई, सटवी - छी १ छठी, पण्ठी देवी (छठी के दिन पूजी जाने वाली एक देवी) । २ डाइन, रांड (गाली) ।

सटासट - अव्य सट - सट, जल्द, फौरन, तेजी से ।

सटीक - वि सटीक; टीका, व्याख्या से युक्त ।

सटीप - वि टिप्पणी के साथ । सटीसामाशी - अव्य कभी - कभी; बहुत कम, कभी-कभार, भूले - चूके । [सट्टेवाज ।

सटोडिया - पु सटोरिया, सट्टा - पु १ सट्टा; सौदा, व्यवहार । २ जोखिम का सौदा ।

सठीसहामाशी - दे 'सटी-सामाशी' ।

सट - पु १ खुत्य, खुथी, खूँटी, झुंडी, हूँठी, । २ यन (चीपायो के) ।

सडक - छी सडक, मार्ग, रास्ता, राह । - वि लवा, सीधा । - अव्य मीधे, वेघडक ।

सडकणे - क्रि अ १ पिट जाना, जोर से टकराना, लगना । २ दे 'मटकणे' । - क्रि स सटकाना, पीटना । [गला ।

सडका - वि सडियल, सडा-सटकावणे - क्रि स १ सटकाना, सटकारना, पीटना । २. मोटे तौर पर तरागना । ३ पटकना ।

सडकून - अव्य सूव, बहुत ज्यादा, बेहद, जोर के साथ, कस कर, कडक कर । [सडाँव ।

सडयाण - छी सडयाँध, सटयाणळ - छी कुटाई, कूटने की मजदूरी । [काँडना ।

सडणे - क्रि स कूटना, सडणे - क्रि अ मडना; गलना, खराव होना ।

सडपातळ - वि पतला, छरहरा, इकहरे वदन का । [गलाना ।

सडविणे - क्रि स सडाना, सडसडीत - वि १ लवा और पतला, छरहरा, इकहरे वदन का । २ रूखा, सूखा । ३ अकेला ।

सडा - पु १ छिडकाव, पानी में गोबर, मिट्टी आदि धोल कर छिडकना । २ वर्षा, वीछार, वृष्टि, झडी ।

सडा - वि अकेला, खाली, छडा, तनहा । - फाँटग - वि अकेला, मस्त, फक्कड, तन - तनहा, अकेला दम, अकेली जान

(जिमके पत्नी या वालवच्चे न हो) ।

सडा - पु पठार ।

सडा-पु नाडा, डोरी, नीवी ।

सडी - वि छी अकेली, दे 'मडा' । - स्वारी - छी १ बिना दलबल के किया हुआ प्रस्थान । २ अकेला दम । [(धान, चावल) ।

सडीक - वि कूटा हुआ सटेतोड - वि १ मुँहतोड, खरा । २ मुँहफट । ३ दे 'मडा' ।

सडळ - वि उदार, दानी, मुक्क, खुला । - हाताने - अव्य. उदारता के साथ, खुले हाथो । मु० - असणे - खुली मुट्ठी होना, दान देने, खर्च करने में उदार होना । [वन्न ।

सणग - न कपडा, धान, सण - पु १ त्योहार, त्योहार, पर्व, उत्सव, खुशोका दिन । - चार - पु १ त्योहार का दिन, समारोह, पर्व - उत्सव । २ त्योहारी (त्योहार की भेंट) ।

सण - पु सन, पटसन । - काडी - छी पटसन का डठल जिमकी छाल निकाल ली गई हो । २ दियासलाई ।

सणक - छी १ कमक, टीस, हूक । २ सनक, खन्न, धुन ।

सणगर - पु कवल बुनने वाला, कोरी (हिंदू जुलाहा) ।

सणण, सणणण - अव्य. सत्ताटे के साथ, झन्नाहट के साथ ।

सणसणणे - क्रि अ. १. सनसनाना, झनझनाना, झन्नाना । २ चुनचुनाना ।

सणसणीत - वि १ जोरदार, जोशभरा । २ बहुत गर्म, उबलता हुआ । ३ मजबूत; पक्का;

घना, ठोस । ४ साफ, मुंहतोड ।  
- अव्य कस कर, झन्ना कर, जम  
कर, साफ - साफ ।

सणावारी - अव्य त्योहार के  
अवसर पर, औसर - मौसर ।

सतत - अव्य. सतत, हमेशा,  
सर्वदा, लगातार, निरन्तर ।

सत ना गत - स्त्री १ चारा,  
उपाय । २ दूसरा मार्ग ।

सतरजी - स्त्री [ फा  
' शत्रजी ' ] शतरजी, दरी ।

सतरा - वि सतरह, सत्रह;  
सतरह, १७ । -शैं साठ वि कई;  
अनेक । मु० - पधरा गोष्ठी  
सागणें-असगत वाते करना, बकना ।  
- फाटे फोडणें अनेक आपत्तियां  
उठाना, अनेक वाते निकालना ।

सताड - अव्य विलकुल,  
साफ, पूरी तरह । - वि सीधा;  
खडा ।

सतार - स्त्री [ फा 'सितार' ]  
सितार (बाजा) ।

सतारिया - पु [ हि 'सिता-  
रिया' ] सितारिया, सितार-  
वाज ।

सतावणे - क्रि स सताना,  
हैरान, परेशान करना, कष्ट देना,  
नाक मे दम करना, नाको चने  
चववाना ।

सती - स्त्री १ सती, साध्वी,  
पतिव्रता स्त्री । २ पति के शव के  
साथ जल जाने वाली स्त्री । - चें  
बाण - न दृढ प्रतिज्ञा, टेक,  
बाना, असिधारा व्रत । - चें  
बाण घेणें - दृढ प्रतिज्ञा करना,  
असिधारा व्रत लेना, सिर से  
कफन बाँधना, ओखली में सिर  
देना । - जाणे - सती होना,  
पति के शव के साथ जल मरना,  
सत पर चढना ।

सतेज - वि तेजस्वी, क्राति-  
युक्त, चमकदार ।

सतेलें - न चौड़े मुंह का गहरा  
और बडा बर्तन ।

सत्कार - पु १ सत्कार;  
आदर - सम्मान, आवभगत,  
आतिथ्य । २ आदर, इज्जत ।

सत्ता - पु. दे 'सत्या' ।

सत्ता - स्त्री १ सत्ता,  
अस्तित्व; हस्ती । २ अधिकार,  
प्रभुत्व, शासन । - धारी - वि  
सत्ताधारी; शासक, हाकिम ।

सत्तेचा - वि १ निजी, अपना ।  
२ जिसपर हक हो । सत्तेचें माणूस  
- न १ धर्मपत्नी । २ पति ।

सत्तावन्न - वि सत्तावन;  
५७ ।

सत्तावीस - वि सत्ताईस,  
सत्ताइस; २७ ।

सत्तेचा - दे 'सत्ता' में ।

सत्तेचाळीस - वि सैतालीस,  
४७ ।

सत्त्या - पु सत्ता (सात वृष्टियो  
वाला ताश का पत्ता) ।

सत्त्व - न १ सत्त्व, सत,  
मार, मूलतत्त्व । २ सत्त्वगुण ।  
३ अस्तित्व, हस्ती । ४. शक्ति,  
आत्मतत्त्व, चैतन्य । ५ कसौटी ।  
६ सत्य, यथार्थता । ७ दम ।  
- शील - वि सत्त्वशील, सत्त्व-  
गुणी, ईमानदार, सच्चा । -स्थ-  
वि सत्त्वस्थ । सत्त्वगुणविशिष्ट,  
सद्गुणयुक्त, सदाचारी, चरित्र-  
वान् । मु० - घेणें, - पाहाणे -  
परीक्षा करना, कसौटी पर कम्ना ।  
- सोडणें - गुण, बल आदि का  
घट जाना या नाश होना ।

सत्पात्र - वि सुयोग्य । - पु.  
सुयोग्य व्यक्ति ।

सत्पात्री वान - न सुयोग्य

व्यक्ति को दिया हुआ दान, भेंट  
आदि । [ सुपूत ।

सत्पुत्र - पु सत्पुत्र, सपूत,  
सत्य - न सत्य, सचाई,

हक । - वि १. सत्य, सच,  
यथार्थ, सच्चा । २ असली,  
खालिस । ३. ईमानदार ।

- नारायण - पु. सत्यनारायण,  
सत्यनारायण की कथा । - सकल्प -  
पु. सत्यसकल्प, दृढसकल्प, सत्य  
के मार्ग से चलने का निश्चय ।

सत्याशी - वि सतासी, ८७ ।  
सत्या - दे 'सत्या' ।

सत्याग्रह - पु सत्याग्रह ।

सत्याणव - वि सत्तानवे, ९७ ।

सत्यानाश - सत्यानास, सर्व-  
नाश, बरवादी ।

सत्यापलाप - पु. सत्य को  
छिपाना, सत्य का अभाव, सत्या-  
नृत, सच और झूठ ।

सत्यायशी, सत्यायशी - वि  
सतासी, ८७ । [ ७७ ।

सत्त्याहत्तर - वि सतहत्तर,  
सत्र - न १ सत्र, सत्र,

यज्ञ, होम, दानादि । २ लग्न ।  
३ दो बड़े अवकाशों के बीच किसी  
सस्थाका लगातार चलने वाला  
कार्यकाल, सत्र, 'टर्म' ।

सत्रप - पु. मडलाधिकारी;  
सूवेदार, राज्यपाल, 'गवर्नर' ।

सत्रा - वि सत्रह, सतरह,  
१७ । - चौकशा - स्त्री नाहक  
की पूछताछ ।

सत्त्व - दे 'सत्त्व' ।

सत्वर - अव्य सत्वर, शीघ्र,  
फौरन, तुरत, जल्द, झट । - वि  
सत्वर, तेज, फुर्तीला ।

सदतीस - वि सैंतीस, ३७ ।

सदय - वि सदय, दयालु,  
रहमदिल ।

सदर - न [अ 'सद्र']  
पेटा, खाना, विभाग, शीर्षक;  
वर्ग, पक्ति, स्तम्भ, श्रेणी। -  
स्त्री १ राजमभा, दरवार। २  
प्रधान कार्यालय। ३ सर्वोच्च  
न्यायालय। - अव्य. डम प्रकार,  
आम तौरपर, ऐजन, उमी तरह,  
पूरी तरह। - वि उल्लिखित।  
मजकूरा, वही, उपर्युक्त।

सदरहू, सदरहू प्रमाणे - दे  
'सदर' वि अव्य।

सदरा - पु [अ 'सद्री']  
कुर्ता, कमीज।

सदसद्विचार, सदसद्विवेक -  
पु, सदसद्विवेक - बुद्धि - स्त्री  
सदसद्विवेक, विवेक, भले -  
बुरे की पहचान, जमीर।

सदा - अव्य सदा, नित्य,  
हमेशा, निरतर। - न कदा -  
अव्य हरवक्त, हमेशा, सदैव।  
- फुली - स्त्री सदावहार। - वर्त -  
न सदावर्त, मदावरत, लगर,  
अन्नसत्र।

सदाचरण - न, सदाचार -  
पु सदाचरण, मदाचार, अच्छा  
चालचलन।

सदिच्छा - स्त्री सद्भाव,  
शुभकामना, खैरस्वाही, शुभेच्छा,  
खैरसिगाली।

सदुपदेश - पु सदुपदेश, नेक  
सलाह, अच्छी नमीहत।

सदुसष्ट - वि सडसठ; ६७।

सदृढ - वि मजबूत, दृढ,  
ठोस, तगड़ा, हट्टाकट्टा। [जैसा।

सदृश - वि सदृश, समान,  
सदेह - अव्य सदेह, शरीर के  
साथ। [सदैव, सर्वदा, हमेशा।

सदैव, सदोदित - अव्य  
सदोष - वि १ सदोष, दोष-  
युक्त। २ दोषी, अपराधी;

मुलजिम।

सद्गति - स्त्री १ सद्गति,  
मोक्षप्राप्ति। २ चारा, उपाय।  
३ दूमरा मार्ग।

सद्गदित - वि १ गद्गद,  
पुलकित, जिमका गला भर आया  
हो। २ शोकाकुल। [गुण, खूबी।

सद्गुण - पु सद्गुण, अच्छा  
सद्गृहस्थ - पु सज्जन, शरीफ  
आदमी, कोई व्यक्ति, भद्र पुरुष,  
माहव।

सद्दी - स्त्री [फा 'सदी',  
अ 'सअद'] चलती, जोर,  
मौभाग्य, अनुकूल समप्र, वैभव-  
काठ।

सद्धया - अव्य आजकल,  
फ्रिलहाल, इवर, इा नमय,  
इसी वक्त।

सद्बुद्धि - स्त्री अच्छी बुद्धि,  
नेक नीयती, भलमनसाहत, नेकी।

सद्भाव - पु, सद्भावना - स्त्री  
सद्भाव, सज्जनता, खैरसिगाली,  
शुभेच्छा, नेकनीयती।

सद्य स्थिति - स्त्री वर्तमान  
स्थिति, आज की हालत।

सद्वासना - स्त्री सद्भाव,  
नेकनीयती; भलमनसाहत।

सघन - वि सघन, घनी,  
मालदार, अमीर।

सघवा - स्त्री सघवा, सुहा-  
गिन, मौभाग्यवती।

सध्यां - अव्य आजकल,  
फ्रिलहाल, इवर। [मवत्, वर्ष।

सन - पु [अ] सन, साल,  
सनई - स्त्री [फा 'शहनाई']  
शहनाई, नफीरी (वाजा)।

सनकाडी - दे. 'सणकाडी'।  
सनद - स्त्री [अ] १ सनद,  
प्रमाणपत्र, 'सर्टिफिकेट'। २

अधिकारपत्र, शासनपत्र। - शीर -

वि वैध, कानूनी, उचित।

सनदी - वि [अ] १ सनदी,  
प्रामाणिक; सनदयापता। २ सर-  
कारी, राजपत्रित (नौकर)।

सनला - दे 'सदला'।

सनसनाटी - वि सनसनीखेज,  
खलवली मचानेवाली (खबर)।  
- स्त्री सनमनी, खलवली, हल-  
चल।

सनातन - वि सनातन, नित्य,  
शाश्वत, अनादि, प्राचीन। - वर्म -  
पु सनातन वर्म; प्राचीन वर्म;  
हिंदू वर्म।

सनातनी - वि १ सनातनी,  
सनातन वर्म का अनुयायी। २.  
कट्टर पथी, पुराणपथी, परंपरा-  
निष्ठ, रूढ़िवादी, दकियानूम।

सन्नद्ध - वि मन्नद्ध, लैस,  
तैयार। [निकट, नजदीक।

सन्निध - अव्य समीप,  
सन्मान - पु सम्मान, इज्जत,  
आदर।

सन्माननीय, सन्मान्य - वि  
१ सम्माननीय, सम्मान्य। २  
सम्मानसूचक, सम्मानार्थ, एजाजी  
(उपाधि)।

सन्मुख - वि अव्य सम्मुख,  
सामने, आगे, समक्ष।

सपक - वि [क 'सप्य']  
नीरस, फीका, सीठा।

सपका - पु छपाका (पानी पर  
किमी चीज के गिरने की आवाज)  
छिडकाव। [वाला, पखदार।

सपक्ष - वि सपक्ष, डैनी  
सपत्नीक - वि सपत्नीक,  
सजानि, पत्नी के साथ।

सपरिवार - वि सपरिवार,  
सदलबल।

सपशोल - अव्य १ पूरी तरह,  
विलकुल। २ तान कर, हाथ-पांव

फैला कर, आराम से ।

सपसप - अव्य १ छपछप ।  
२ दे. 'सपासप' ।

सपाट - वि सपाट, समयर,  
समतल, हमवार; वरावर,  
चौरस । २ नष्टभ्रष्ट, ध्वस्त,  
मटियामेट । मु० - करणे - १  
पाटना, समतल बनाना । २  
मटियामेट करना, धराशायी  
करना ।

सपाटा - पु. १ सपाटा,  
धडल्ला, तेजी, झोक, झपट,  
झपट्टा । २ चांटा, धौल । - वि  
जोरदार, बहुत बडा ।

सपाटी - स्त्री १ सतह, तल,  
वस्तु का ऊपरी भाग । २ पठार ।

सपाटून - अव्य जोरदार,  
कस कर, भरपूर ।

सपाता - स्त्री चट्टी, एडी की  
ओर खुली हुई जूती, 'स्लीपर' ।

सपासप - अव्य. सटासट, चका-  
चक, जोर से, कस कर ।

सपीठ - न मैदा (बहुत  
वारीक आटा) ।

सप्टेंबर - पु. [ अ ] सितंबर ।

सप्तपदी - स्त्री सप्तपदी,  
भांवर, सतफेरा । [ रगो वाला ।

सप्तरगी - वि सतरगा, सात  
सप्तक - न सप्तक, सगीत के  
सात स्वरो का समाहार ।

सप्तमी - स्त्री १ सप्तमी,  
पक्ष की सातवी तिथि । २ अधि-  
करण कारक की विभक्ति (व्या) ।

सप्तपि - पु. सप्तपि, सात  
ऋषियो का मंडल, सात ताराओ  
का एक मंडल ।

सप्ता, सप्ताह - पु. १ सप्ताह,  
हफता । २ सात दिन तक चलने  
वाला यज्ञादि ।

सप्रमाण - वि अ १. सप्रमाण,

प्रमाणयुक्त, प्रामाणिक, सबूत  
के साथ, अनुपातयुक्त । २  
सतुलित । [ - अव्य प्रेमपूर्वक ।

सप्रेम - वि प्रेमपूर्ण, सस्नेह ।  
सफई - अव्य [ अ 'सफा' ]

विलकुल, कतई, पूरी तरह ।  
सफर - स्त्री [ अ 'सफर' ]

१ सफर, यात्रा, दौरा । २  
विहार, पर्यटन । ३ खेप ।

सफरचद - न [ अ 'सफर-  
जल' ] सेव (एक प्रसिद्ध मेवा)

सफल - ल - वि १ सफल,  
कामयाव, सार्थक, कृतकार्य । २

लाभदायी, मुफीद ।  
सफा - वि [ अ 'सफा' ]

साफ, स्वच्छ, बढिया, सुदर ।  
- अव्य दे 'सफाई' । - चट -

वि सफाचट, विलकुल साफ,  
अच्छी तरह मुंडा हुआ ( सिर ) ।

सफाई - स्त्री [ अ 'सफाई' ]

१ सफाई, स्वच्छता । २ चमक ।  
३ चिकनाहट । ४ चालाकी । ५

हृदयशुद्धि, नेकनीयती । ५ सम-  
झौता । - अव्य. विलकुल, कतई,

पूरी तरह । - दार - वि १ साफ ।  
२ मुलायम, चिकना । - ० पणे -

अव्य होशियारी से, चालाकी से ।  
सफेद - वि [ फा 'सफेद' ]

सफेद, श्वेत, उजला, धौला ।  
सफेदी - स्त्री [ फा 'सफेदी' ]

१ सफेदी, श्वेतता । २ चूने की  
पुताई, सफेदी । [ 'सफाई' ]

सफं - अव्य दे 'सफई',  
सवगोलकार - पु छूत - छात

का कोई वधन न मानना ।  
सबध - वि पूरा, समूचा,

सब, साबुत ।  
सबजा - पु. [ फा 'सब्ज' ]

सब्जा, दीना, वनतुलसी ।  
सबब - स्त्री [ अ. ] १. सबब,

कारण, हेतु । २ वहाना । -  
अव्य इसलिए, अत, मो,  
चुनांचे ।

सबर - दे 'सबूर' ।  
सवळ - वि मवल, सशक्त,

मजबूत, जोरदार ।  
सबुरी, सबूर - स्त्री [ अ

'सब्र' ] सब्र, धीरज, धैर्य,  
सहन ।

सबूर - अव्य [ अ 'सब्र' ]

सब्र करो, धीरज रखो, ठहरो ।  
सभवतालीं, सभवतीं - दे

'सभोवती' ।  
सभा - स्त्री १ सभा, बैठक;

गोष्ठी, मजलिस, जल्सा । २  
मडली, समाज, सस्या । - गूह -

न १ सभागृह, सभामवन । २  
सदन, ऐवान । - घोट - वि

सभा मे निडरता के साथ बोलने  
वाला । - मडप - पु सभामडप;

सभागृह । - सद - दे क्रम मे ।  
मु० - जिंकरणे - वाद - विवाद में

जीत जाना, सभा को प्रभावित  
करना । - बोलाविणे, - भरविणे -

सभा बुलाना, करना, सभा आयो-  
जित करना । [ 'मेंबर' ]

सभासद - पु सदस्य, सभ्य;  
सभोवतीं, सभोवार - अव्य.

चारो ओर, आसपास, इर्दगिर्द ।  
सभ्य - वि सभ्य, शिष्ट,

सज्जन, भद्र, शरीफ । - पणा -  
पु. सभ्यता, भद्रता, सज्जनता,

शाराफत । [ शरीफ, सज्जन, भद्र ।  
समजस - वि समझदार,

समध - पु पिशाच, ब्राह्मण का  
पिशाच ।

सम - स्त्री सम (सगीत मे  
वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति

और ताल का आरम्भ होता है) ।  
- वि १ सम, समान, सदृश, एक-

ना, वरावर । २ हमवार; चौरस ।  
- तोल - वि समतोल, सतुलित;  
वरावर । -० पणा - पु. मतुलन,  
तवाजुन । - रस - पु. मेल, एका,  
एकरूपता । - वि समरस, एकरस,  
मिला हुआ; तल्लीन ।  
- वयस्क - वि समवयस्क,  
हमउम्र । - शीतोष्ण - वि  
समशीतोष्ण, शीतोष्ण । -० कटि-  
बंध - पु. समशीतोष्ण कटिवध;  
शीतोष्ण कटिवध । - समान - वि  
समान, वरावर का ।

समई - स्त्री [अ 'शम्भ']  
पीतल आदि का विशेष प्रकार का  
दीपक, दीवट, चिरागदान ।

समझ - अव्य समझ, सामने,  
देखते हुए ।

समग्र - वि समग्र, पूरा,  
सब, समूचा, कुल, सपूर्ण ।

समज - पु. १ नमझ, ज्ञान;  
बुद्धि, प्रज्ञा । २ विचार, खयाल ।  
३ चेतावनी, ताकीद । ४ डाँट,  
घमकी । - दार - वि समझदार,  
होशियार, बुद्धिमान्, चतुर ।

समज्ञणें - क्रि अ न १  
समझना, जानना, बूझना । २  
सीखना । मु० - समजू लागणें -  
होश सँभालना, उम्र में बड़ा होना,  
सयाना होना, वालिग होना ।

समजविणें - दे. 'समजविणें' ।  
समजावणी - स्त्री समझाना -  
बुझाना ।

समजाविणें - क्रि स १  
समझाना, बुझाना, बोध, ज्ञान  
कराना, जतलाना । २ गले  
उतारना ।

समजूत - स्त्री १ समझ,  
धारणा, कल्पना, जयाल । २  
समाधान, विश्वास, यकीन । ३.  
चेतावनी, ताकीद । - दार - वि

समझदार । मु० - काढणें -  
समझाना, मनाना; राजी करना ।  
- घालणें - समझाना, बुझाना ।  
- पडणें - समझ जाना, समझ में  
आना, ध्यान में आना । - होणें -  
१ धारणा होना, मानना । २.  
समझौता होना, मान जाना ।

समजून - अव्य समझ कर ।  
- उमजून - अव्य जान - बूझ कर,  
समझ - बूझ कर, इरादतन् । मु०  
- असणें - समझ रखना, याद  
रखना, जान लेना (चेतावनी) ।

समन्वय - पु. समन्वय,  
सामजस्य, सयोग, मेल, पटरी ।

समन्स - न [अं] समन,  
सम्मान, तलवनामा ।

समय - पु. १ समय, वक्त ।  
२ प्रसंग, अवसर, मौका ।  
- विशेषी - अव्य विशेष अवसर  
पर, मौका आने पर, जरूरत  
पडने पर । - सूचक - वि समयज्ञ,  
हाजिरजवाव । - सूचकता - स्त्री  
समयजता, - हाजिरजवावी । मु० -  
पडणे, घेणें - आफत में फँसना,  
बुरा वक्त आना ।

समयानुसार, समयोचित -  
वि समयोचित, अवसर के उप-  
युक्त ।

समरागण - न ममरागण;  
समरभूमि, मैदाने जग, युद्धभूमि ।

समर्थ - वि समर्थ, बलवान्,  
सशक्त, ताकतवर । - पु. समर्थ  
रामदास ।

समर्थक - वि समर्थक; सम-  
र्थन, ताईद करनेवाला ।

समर्थन - न समर्थन, पुष्टि,  
ताईद । [ समर्थन करने योग्य ।

समर्थनीय - वि समर्थनीय,  
समर्पक - वि उचित, ठीक,  
मोजू; युक्तियुक्त, समुचित,

समीचीन, सगत ।

समवेत - अव्य समेत, साथ ।  
समशेर - स्त्री [फा 'शम्शीर']  
शमशीर, नमशेर, तलवार ।

समस्त - वि समस्त, सब,  
कुल, समूचा; पूरा; समग्र,  
सपूर्ण ।

समस्या - समस्या, मसला,  
जटिल प्रश्न । - पूर्ति - स्त्री  
समस्यापूर्ति । [ मृतवाजी ।

समांतर - वि समानांतर,

समाईक - वि साझे का,  
मुश्तरका, सयुक्त । - कुटुंब -  
न सयुक्त परिवार ।

समागम - पु. १. समागम,  
भेंट; मिलन । २ मैथुन; समोग ।  
३. सती होना ।

समाचार - पु. १ समाचार,  
वृत्तांत, खबर । २. पूछ-ताछ,  
पूछ-परछ । मु०-घेणें १ पूछ-परछ  
करना । २ खबर लेना, पीटना,  
फटकना । समाचारास जाणे -  
मातमपुरसी करना, समवेदना-  
प्रकाश के लिए जाना । २ खोज-  
खबर लेने के लिए जाना ।

समाज - पु. समाज, जनता,  
अवाम । - कल्याण - न समाज-  
कल्याण, समाजी भलाई । - वाद -  
पु. समाजवाद इश्तराकियत ।  
- वादी - वि समाजवादी,  
इश्तराकी । - विकास - पु. सामु-  
दायिक विकास, इश्तमाई तरक्की ।  
- विघातक - वि समाजघाती,  
समाजविरोधी । - शास्त्र - न  
समाजशास्त्र, समाजविज्ञान ।  
- शास्त्रज्ञ - पु. समाजशास्त्री;  
समाजविज्ञानी । - शास्त्रीय - वि  
समाजशास्त्रीय । - सत्तावाद -  
पु. १ समाजवाद । २ साम्यवाद ।  
समाधान - न १ सतोप;

तसल्ली । २ समाधान, सदेह का निवारण, निराकरण ।

समाधानी - वि सतुष्ट, सतोपी, साविर ।

समाधि - स्त्री १ समाधि । २ तल्लीनता । मु० - घेणे - समाधि लेना । - लागणे - तल्लीन हो जाना । - लावणे - समाधि लगाना ।

समान - वि समान, तुल्य, सदृश, जैसा; एक - सा । - धर्मा वि समान धर्मा, समान स्वभाव का । [ पूरा, सपूर्ण ।

समाप्त - वि समाप्त, खत्म, समाप्ति - स्त्री समाप्ति, अत, पूर्ति, खात्मा । [ 'समाईक' ।

समाधिक, समाधिक - दे - समारंभ - पु० १ समारोह, उत्सव, जश्न । २ ठाटवाट, धूम-धाम, तहक - भडक ।

समाराधना - स्त्री १ धार्मिक उत्सव, व्रत आदि की समाप्ति पर दिया जाने वाला भोज, लगर । २ समाराधन, तुण्ट, प्रसन्न करना । [ सहार, अत ।

समारोप - पु० समापन, उप-समावणे - क्रि अ समाना, भीतर आना, अटना ।

समाविष्ट - वि १ समाविष्ट, पूर्णत प्रविष्ट; समाया हुआ, व्याप्त । २ अतर्गत, अतर्भूत ।

समावेश - पु० १ समावेश, अतर्भाव, समाई, शामिल होना । २ प्रवेश । ३ गुजाइश ।

समास - पु० १ समास (व्या) । २ हाशिया, गोट, किनारा, कोर, 'मार्जिन' ।

समिदर<sup>+</sup> - पु० समुद्र, सागर ।

समिति - स्त्री समिति, 'कमिटी' ।

समीकरण - न समीकरण, समीकार, समानीकरण । मु० - वसविणे - १ सामजस्य स्थापित करना । २ एकरूप या समानरूप मानना । [ समालोचना ।

समीक्षण - न समीक्षण; समीप - अव्य वि समीप, निकट, पास, नजदीक ।

समुदाय - पु० समुदाय, समूह, भीड, जमाव ।

समुद्र - पु० समुद्र, सागर, दरिया । - फळ - न समुद्रफल ।

- फन - पु० समुद्रफेन, समुद्र का ज्ञाग । - वलयाकित - वि समुद्र से घिरी हुई (पृथ्वी) । कहा समुद्रांत पडून कोरडा - अच्छा अवसर मिलने पर भी उससे लाभ न उठाने वाला अभाग ।

समूह - पु० समूह, समाज, समुदाय, झुड, जमाव । - गीत - न सहगान ।

समूळ - वि अव्य समूल, जड से, जडमूल से ।

समृद्ध - वि १ समृद्ध, सपन्न, भरा - पूरा । २ धनी, मालदार, खुशहाल ।

समृद्धि - स्त्री समृद्धि, बढ़ती, उत्तति, खुशहाली । [ सधि ।

समेत - पु० समझौता, मेल,

समेत - अव्य. समेत, साथ ।

समोर - अव्य सामने, आगे, समझ, सम्मुख । [ सामने ।

समोरासमोर - अव्य. आमने-समोरील - वि सामने का,

आगे का ।

समोरून - अव्य सामने से ।

सय - स्त्री याद, स्मृति,

स्मरण ।

सयाम - (देश) - पु० स्याम ।

सयुक्तिक - वि युक्तियुक्त,

समीचीन; युक्तिसंगत, ठीक, वाजिव ।

सरजाम - पु [ फा ] १ सर-जाम, उपकरण, औजार, सामान, माल-असबाब, सामग्री । २ जागीर, माफी (जमीन) । - वार - पु० सामत । - शाही - स्त्री सामतशाही ।

सरंजामी - वि [ फा 'सरजाम' ] जागीरदारी (पद्धति) । - पद्धति - स्त्री १ सेना के अधिकारियों को वेतन के वजाय जागीर देने की पद्धति । २ अंग्रेजों द्वारा यहाँ के देशी नरेशों से पैसा या प्रदेश लेकर उन्हें सेना की सहायता दिये जाने की प्रणाली ।

सर - पु १. माला, लड़ी, हार । २. पटाखों की लड़ी । ३. शहनीर, बल्ला । ४. रस्सी, सर ।

सर - स्त्री १ वीछार, झडी, भरमार । २ आवेग, प्रवल इच्छा, उमग । [ समानता ।

सर - स्त्री योग्यता, वरावरी,

सर - न सर, ताल, तालाव ।

सर - अव्य सा, सदृश, समान, जैसा । (काळसर = काला - सा)

सर - वि [ फा ] १ प्रधान, श्रेष्ठ । २ जीता हुआ । - कार-कून - पु० प्रधान लिपिक, मुख्य क्लर्क, वडा वावू । - खत - न

सरखत, सरकार को समय-समय पर अदा की गयी रकमों की सूची । - चिटणीस - पु० प्रधान सचिव । - तपासणी - स्त्री जिरह, गवाह

की जांच । - देशमुखी - स्त्री मुगलों के इलाके पर मराठों द्वारा लगाया गया एक कर जो राजस्व का दस या साढे बारह होता था । - न्यायाधीश - पु० मुख्य न्याया-



धिपति, 'चीफ जस्टिस'। - पञ्च - पु सरपञ्च, पञ्चो का मुखिया।  
- सेनापति - पु प्रधान सेनापति।  
मु० - करणें - सर करना,  
जीतना, फतह करना। - होणे -  
सर होना, फतह होना।

सर - अव्य तक, मीधे, लवाल-  
लव, भरपूर। - घोषट - वि  
सीधा, ठेठ। - मिसळ - वि  
खिल्लतमिल्लत, मिला हुआ, सरसरी।  
- वि मिश्रण। - रहा - अव्य  
खुल्लम खुल्ला। - सकट -  
अव्य वि १ कुल मिला कर,  
आम तौर पर सरसरी तौर पर।  
२ समान, एकसाँ। - सहा -  
अव्य कुल मिला कर, सरसरी  
तौर पर। - हद्द - स्त्री सरहद,  
सीमा। - ० प्रात - पु सीमाप्रात,  
सूबए सरहद। [ गाँठ।

सरकगाठ - स्त्री सरकीली  
सरकणे - क्रि अ १ सरकना,  
खिमकना, हट जाना। २ फिम-  
लना। ३ वढना।

सरकत - स्त्री [ अ  
'शिकत' ] शिकत, साझा,  
भागीदारी। - दार - पु साझे-  
दार, हिस्सेदार, भागीदार।

सरकती - त्या - दे 'सरकत-  
दार'।

सरकन - अव्य झट से,  
'सर' की ध्वनि के साथ।

सरकफांस - पु सरकफूंद, सर-  
फूंद। [ काना, खिमकाना, हटाना।

सरकविणे - क्रि स सर-  
सरकाडी - दे 'सणकाणी'।

सरकार - न [ फा ] १  
सरकार, राज्य, हुकूमत,  
शासन। २ राजा, शासक।  
- जमा - वि ज्वत्, कुर्क। -  
मु० - जमा करणें - सरकारी

वना लेना, राज्यसात् करना,  
ज्वत्, कुर्क करना।

सरकारी - वि [ फा ] सर-  
कारी, शासकीय, राजकीय।  
- पाहुणा - पु कैंदी, वदी।  
- वळू - पु सरकारी साँड।  
सरकावणें, सरकाविणें - दे-  
'सरकाविणे'।

सरकी - स्त्री विनीला।

सरजा - पु १ सरजा, सिंह।  
२ सरदार। ३ अच्छा, मुख्य  
वैल।

सरडा - पु गिरगिट। मु०  
सरड्याप्रमाणे रग बदलणें - गिर-  
गिट की तरह रग बदलना, मत,  
वृत्ति बदलते रहना। कहा०  
सरड्याची धाव कुपणापर्यंत -  
मुल्ला की दौड मस्जिद तक।

सरण - न १ चिता। २  
ईवन।

सरणि - णी - स्त्री १ सरणि,  
सरणी, प्रणाली, पद्धति,  
तरीका। २ मार्ग, रास्ता।

सरणे - क्रि अ १  
समाप्त होना, खत्म होना,  
खूटना। २ मरना, सरकना,  
हिलना। ३ काम चलना, पूरा  
पडना। ४ शोभा देना। ५  
आगे वढना।

सरता - वि १ अतिम,  
आखिरी। २ श्रेष्ठ, पूज्य।

सरतेशेवटों - अव्य अत्त मे,  
आखिरकार, निदान।

सरदणें - क्रि अ १ सर्द  
होना, नम, तर, गीला होना।  
२ ठिठुरना। ३ जम जाना।

सरदी - स्त्री [ फा 'सर्दी' ]  
१ सर्दी, ठढक, जाडा। २  
नमी, तरी।

सरदारकी - स्त्री [ फा ]

'सरदारी' ] सरदागी, सरदार  
का अधिकार, ओहदा, मम्मान।

सरपटणे - क्रि अ. १ रेंगना,  
पेट के वल चलना। २ फिस-  
लना।

सरपण - न ईधन।

सरफास - दे 'सरकफास'।

सरवत - न [ अ 'शर्वत' ]  
शर्वत, शरवत।

सरवती - वि [ अ 'शर्वती' ]  
गेहूँ की एक किस्म।

सरवत्ती - स्त्री वीछार;  
झडी, वाढ, (वहुत-सी तोपो,  
वदूको का एक साथ दगना)।

सरवराई - स्त्री [ फा 'सर-  
वराही' ] १ सरवराही; प्रवध;  
इतजाम। २ खातिरदारी; आव-  
भगत, मेहमानदारी।

सरवरीत - वि पतला, ढीला,  
कुछ पतला - सा।

सरमाड - न वाजरे का डठल,  
डाँठ, कडवी। [ वीछार।

सरवद - न बारिश की झडी,  
सरवा - पु १ वह खेत जिसकी

फसल अभी अभी कटी हो। २.  
फसल की कटाई के बाद उसके  
पीछे रहने वाला उसका अश। ३  
खेती के योग्य बनायी हुई परती  
जमीन। [ ही, पास।

सरशी - अव्य साथ, साथ-  
सरशी - स्त्री १ जीत, फतह।

२ सरसाई, सरसता, श्रेष्ठता;  
फौकियत। ३ प्रगति, उन्नति।

सरस - पु [ फा 'सरेश',  
'सिरेश' ] सरेश, सरेस।

सरस - वि १ सरस, रस-  
युक्त, रसीला। २ बढ़िया;  
उत्कृष्ट, उत्तम, अधिक अच्छा,  
बेहतर।

सरसर - अव्य. सर-सर,

तेजी के साथ, जल्दी से; झरझर, झराझर। [ झरझराना।

सरसरणें - क्रि अ सरसराना, सरसा - अव्य १ दे 'सरस', 'सरसी'। २ समान, जैसा। ३ पास, नजदीक। ४ साथ।

सरसावणें; सरसाविणे - क्रि अ १ आगे बढ़ना; पहल करना। २ धावा बोल देना। ३ तेजी से बढ़ाना, पनपना, हराभरा होना, सरसना, लहलहाना। ४ सरसना, भावाविष्ट होना, आमादा होना। - क्रि स १ खींचना, निकालना। २ उठाना।

सरहद्द - दे 'सर' मे।

सरळ - वि सरल, सीधा। २ ठीक, उचित,। ३ आसान, सुकर। ४. खरा, ईमानदार, निश्चल, सीधा-सादा, भोला-भाला। - अव्य १ सीधे, सीधे मे।

२ सीधी तरह। - पणा - पु सीधापन, सीधाई, भलमनसी, भोलापन। - व्याज - न सामान्य

व्याज, सूद। - सोट - वि सर-हरा, लवोतरा। [ वा मौसिम।

सराई - छी फसल की कटाई सराईत - वि १ निपुण, प्रवीण, मँजा हुआ, अभ्यस्त, अनुभवी, आदी। २ होशियार; चालाक, चट।

सराटा - पु. गोखरू।

सराफ - पु [ अ 'सराफ' ] सराफ, सराफ, रुपये, गहने आदि का लेन-देन करने वाला, महाजन, सोने-चाँदी के गहने बेचने वाला, भाज लेकर नोट रुपये आदि के बदले में छोटे सिक्के देने वाला। - कट्टा - पु सराफा, सराफो का वाजार।

सराव - पु १ आदत;

अभ्यास। २ मस्क, अनुशीलन।

सरावणें - क्रि अ अभ्यस्त होना, आदी वनना, आदत पडना।

सरसरी - छी [ फा 'सरसर' ] औसत, माध्य। - अव्य औसतन, लगभग, मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर।

सरी - छी १ हँसली, गर्दनी, माला। २ (शेतातील) कूंड, सीता।

सरोद - पु [ फा 'सुरोद', 'सुखद' ] सरोद (एक बाजा)।

सरोवर - न सरोवर, तालाव, ताल, शील।

सर्कत-ती, सर्जा - दे 'सरकत-ती', 'सरजा'।

सर्ग - पु १ सर्ग, ग्रथ का अध्याय। २ रचना, निर्माण, उद्गम, प्रजनन, सतान।

सर्द - वि [ फा ] १ सर्द, गिला। २ मौचक्का, हक्का-वक्का, हैरान।

सर्पण - न ईधन। [ व्यापी।

सर्वकष - वि सकुल, सर्व-सर्व - वि सर्व, समस्त,

सर्व, समग्र, कुल। - काळ - अव्य सर्वकाल, सर्वदा, हमेशा। - गामी - सर्वगामी, सर्वव्यापक। - गुण-सपन्न - वि सर्व गुणो से युक्त,

गुणी। - ज्ञ - वि सर्वज्ञ, सर्व-ज्ञाता। - तत्र स्वतंत्र - वि निर-

कुश, स्वैर, स्वेच्छाचारी। - त्र - , - था, - थैव, दा - दे क्रम मे।

- नाम - न सर्वनाम (व्या०)। - पित्री अमावास्या - छी भाद्र-

पद (उत्तर भारत मे आश्विन) की अमावास्या, पितृविसर्जनी

अमावस। - भावे - अव्य. सर्व-भावेन, तन, मन, धन से, पूरे

दिल से, तहे दिल से, पूर्णत।

- मान्य - वि सर्वसमत। - व्यापी - वि सर्वव्यापी, सर्वव्यापक।

- शक्तिमान - वि सर्व शक्ति-

मान्। - पु ईश्वर। - सत्ताधीश - वि पु अधिराट्, सर्वाधिकारी;

मर्वेसर्वा, सपूर्ण प्रभुत्वसपन्न। - साक्षी - वि सर्वसाक्षी; सब

कुछ देखने वाला। - पु. ईश्वर। - साधारण - वि सर्वसाधारण,

सामान्य, आम। - ०पणें - अव्य. आम तौर पर, सामान्यत,

सामान्यतया, प्राय, साधारण-तया। - ०सभा - छी साधारण

वैठक। - सामान्य - वि सर्व-सामान्य, साधारण, आम,

'कॉमन', 'पब्लिक'। - स्व - न सर्वस्व, सब कुछ, सारी

सपत्ति। - ०हरण - न सर्वहरण, सारी सपत्ति का हरण।

सर्वतोगामी - वि सर्वतोगामी, सभी दिशाओ मे जाने वाला।

सर्वतोपरि-री - अव्य सब प्रकार से। - वि सर्वश्रेष्ठ।

सर्वत्र - अव्य सर्वत्र, सब जगह, चारो ओर।

सर्वथा - अव्य. सर्वथा; पूर्णत हर तरह से, बिलकुल, कतई।

सर्वदा - अव्य. सर्वदा, हमेशा, सदा।

सर्वस्वी - अव्य. पूर्णत, पूरी तरह, सब प्रकार से, कतई।

सर्वांगीण - वि सर्वांगीण, पूर्ण, सब अंगो मे व्याप्त होने वाला। [ सभी तरह से।

सर्वांशो - अव्य पूर्णतया, सर्वाधिकारी - पु. सर्वाधि-

कारी, तानाशाह, 'डिक्टेटर'। सर्वानुमति - छी सर्वसम्मति। सर्वोत्कृष्ट - वि सर्वोत्तम,

सर्वश्रेष्ठ, सब से बढ़िया ।

सर्वास - अव्य [फा. 'सर' + 'रास'] १ कुल मिला कर, आम तीर पर। २ खुल्लम खुल्ला, वेधडक ।

सल - न पु १ शल्य, काँटा। २ कसक, टीस पीडा, चुभन। [का सोने का ठोस कडा। सलकडे - न पुसपो के हाथ सलग - वि सटा हुआ; सलग्न, धारावाहिक, लगा हुआ; पूरा, सावत ।

सलगी - छी १ हेलमेल, मेलजोल, लगाव, गाढी मित्रता। २ साँठगाठ ।

सलज्ज - वि १ सलज्ज, लज्जाशील, हयादार। २ विनम्र। सलणें - क्रि अ १ सलना, चुभना, मालना, कमकना, टीसना। २ खटकना, खलना, बुरा लगाना ।

सला - दे 'सल्ला' । सलामत - वि [अ] सलामत, सुरक्षित, महफूज, जीवित ।

सलामी - छी [अ] १ सलामी, हाथियारो को उठा कर सलाम करना, तोपो आदि की वाढ जो वडो के सम्मानार्थ दागी जाय। २ कुयती आदि का प्रारम्भिक भाग। मु०-घेणें - सलामी लेना। - देणे - सलामी देना, सलामी उतारना ।

सलून - पु [अ] रेल का खास डिब्बा, 'सैलून'। - न नाई की दुकान, 'सैलून' ।

सलोखा - पु [अ 'सुलूक'] १ मित्रता, दोस्ती। २ सुलह, सवि, समझौता; सुलह-सफाई ।

सल्ला - पु छी [अ

'सलाह'] सलाह, परामर्श, मशविरा। - मसलत - छी मत्रणा; सलाह - मशवरा ।

सल्ला - पु छल्ला, अँगूठी। सवग - वि सस्ता, घटिया दर्जेका, हलका ।

सवगडी - पु साथी, दोस्त, गुइयाँ (खेल का साथी) ।

सवकणे - क्रि अ परचना, ललचाना, लत पडना ।

सवड - छी १ फुरसत, अवकाश। २ गुजाइश, सभावना, समाई । [सौतिन, सौतन।

सवत - छी सौत; सपत्नी, सवता - वि अलग, जुदा। -

सुभा - पु अपनी खिचडी अलग पकाना, अलग गुट। [डाह।

सवतीमत्तर - पु सौतिया सवदा - दे 'सौदा' ।

सवय - छी आदत, लत, स्वभाव। २ मश्क, अभ्यास ।

सवरणें - क्रि अ स अन्य क्रियाओ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे मूल क्रिया का अर्थ अधिक स्पष्ट, पूर्ण या प्रभावशाली हो जाता है। [उदा० करणेसवरणें = कर देना, कर डालना। खाऊन सवरून = खापी कर भी] ।

सवलत-छी [अ 'सुहलत'] १ सहूलियत, सहूलत, आसानी, सुविधा। २ रियायत, मूल्य आदि मे कमी ।

सवा - दे 'सव्वा' । सवाई - वि १ सवैया, सवाया; सवागुना। २ वडाचढा, वढ कर, अधिक। - छी सवाई, सवैया । [का पहाडा] ।

सवाकी - छी सवैया (सवा सवागी - छी सवागी, सुहागा।

सवायकी - दे 'मवाकी' । सवारी - छी [फा 'सवार'] १ सवारी, सवार, मुसाफिर; 'मीट' । २ कुयती का एक पेच । सवाल - पु [अ 'सुआल'] सवाल, प्रश्न ।

सवाशीण, मवाण - छी सुहागिन, सौभाग्यवती स्त्री, मुवामिनी ।

सविकल्प - वि सविकल्प; सप्रज्ञात। - समाधि - छी सविकल्प समाधि, सप्रज्ञात समाधि ।

सविनय कायदेभंग - पु सविनय अवज्ञा; सिविल नाफरमानी ।

सविस्तर - वि अव्य सविस्तार, विस्तार के साथ, व्योरेवार, तफमीलवार ।

सवें - अव्य साथ, ममेत, मय। - च, -चि - अव्य अपने आप, तुरत, साथ ही ।

सव्य - वि १ सव्य, वायाँ, प्रतिकूल। २ दाहिना। - मु० - घालणें - दाहिने से परिक्रमा करना। [झमेल।

सव्यापसव्य - न झझट, सव्याज - वि १ व्याज के साथ, मय नूद के। २ मूल से अधिक। [से युक्त] ।

सव्वा - वि सवा (चतुर्थांश सव्वीस - वि छव्वीम, २६ ।

सशक्त - वि सशक्त, मजबूत, तगडा, ताकतवर, बलशाली ।

सशर्त - वि [स 'स' + अ 'शर्त'] शर्तिया, सप्रतिवध, प्रतिवधित। - मान्यता - छी सप्रतिवध स्वीकृति, विशेषित स्वीकृति, सप्रतिवध सकार, सशर्त स्वीकृति ।

सशस्त्र - वि सशस्त्र, हथियार-वध, शस्त्रधारी। शस्त्रो से सुसज्जित ।

ससा

ससा - पु खरगोश, खरहा;  
शश, शशक ।

ससाणा - पु वाज, श्येन  
(पक्षी) । [बला ।

ससेमिरा - पु झझट, पीछा;  
ससेहोलपट - स्त्री दुर्गंत, बुरी  
तरह चारो ओर से घिर जाना,  
दोडवूप, खीचातानी ।

सस्तन - वि सस्तन, स्तन-  
धारी, छातीदार, थन वाला,  
स्तनयुक्त, स्तनपायी (प्राणी) ।

सह - अव्य. सह, साथ,  
महित, युगपत, साथ-साथ ।  
- कार - पु, - कारिता - स्त्री  
सहकार, सहयोग, सहायता,  
मदद । - कारी - वि पु  
सहकारी, सहयोगी, साथी ।

-० पतपेढी - स्त्री उधार सहकारी  
समिति, 'क्रेडिट कोऑपरेटिव  
सोसाइटी' - । -० मडळी -

-० सस्था - स्त्री सहकारी  
समिति । - कार्य - न सहयोग,  
सहकार । - गमन - न सहगमन,  
सती होना । - चर - पु सहचर,  
साथी । - चरी, - चारिणी, -

धर्मचारिणी, - धर्मिणी - स्त्री  
१ सहचरी, सखी, सहेली । २  
सहचारिणी, सहधर्मचारिणी,  
सहधर्मिणी, पत्नी । - भोजन -

न सहभोजन, अछूतो के साथ  
भोजन करना । - मत - वि  
सहमत, मुत्तफिक, हमराय ।  
- वर्तमान - अव्य साथ, सहित,  
समेत, मय । - वास - पु सहवास;

साथ, सग, सगति, साहचर्य ।  
- सपादक - पु सहायक सपादक,  
उपसपादक, 'सब एडिटर' ।

सहज - वि १ सहज,  
आसान, सरल । २ स्वाभाविक,  
कुदरती । - अव्य आसानी से,  
म हि श. को . ४४

यूं ही, अनायास । - गत्या - अव्य  
सहज, यूं ही । - गुण - पु  
स्वाभाविक, प्राकृतिक गुण ।  
- प्रेरणा - स्त्री सहजप्रेरणा,  
अतःस्फूर्ति, सहजज्ञान; सहज-  
प्रवृत्ति ।

सहणें - क्रि स सहना, सहन  
करना, बर्दाश्त करना, उठाना,  
झेलना ।

सहन - न सहन, बर्दाश्त,  
सहनशीलता, सहिष्णुता । - शक्ति  
- स्त्री सहनशीलता, सहन करने  
की क्षमता, बर्दाश्त । - शील -  
वि सहनशील, सहिष्णु, गमखोर ।  
- शीलता - दे 'सहनशक्ति' ।  
मु० - करणे - सहना, बर्दाश्त  
करना, झेलना, उठाना । - होणें  
सहा जाना, बर्दाश्त होना ।

सहल - स्त्री [अ] १ सैर,  
सफर, पर्यटन । २ वनभोज;  
वनविहार ।

सहसा - अव्य १ बहुधा,  
बहुत करके, आम तौर पर । २  
आसानी से । ३ सहसा, अचानक,  
हठात् ।

सहस्र - वि सहस्र; हजार ।  
- दल - न १ कमल । २ हजारा  
(फूल) ।

सहस्रावधि - स्त्री - वि हजारा ।  
सहा - वि छ, ६ । - माही  
- वि छमाही ।

सहाण - (गध उगाळण्याची) -  
स्त्री चकली, होरसा ।

सहाण - (घार लावण्याची) -  
स्त्री सान, सिल्ली । [सहपाठी ।

सहाध्यायी - पु सहाध्यायी,  
सहानुभूति - स्त्री सहानुभूति,  
हमदर्दी ।

सहाय - व्य - न सहायता,  
मदद । - पु साथी, अनुयायी ।

सहाय्यक - वि सहायक;  
मददगार । [सठ, ६६ ।

सहासष्ट - वि छासठ; छिया-  
सहित - अव्य सहित; साथ;  
समेत ।

सहिष्णु - वि सहिष्णु, सहने  
वाला, सहनशील ।

सही - स्त्री [अ 'सहीह']  
दस्तखत, हस्ताक्षर, सही, सहीह ।

- वि सहीह, ठीक, पुस्त ।  
- सलामत - वि सहीसलामत,  
निरापद, सुरक्षित ।

सही - स्त्री १ गोलियां खेलने  
की गुच्ची । २ गुच्ची मे गोलिया  
फेंकना ।

सहृदय - वि सहृदय, समझ-  
दार, दयालु, रसिक ।

सहेतुक - वि सहेतुक, सका-  
रण, सोद्देश्य । - अव्य जानबूझ  
कर, इरादतन् । [छक्का ।

सह्या - (पत्यातील) - पु  
सळ - न स्त्री १ कसक,  
टीस, चुभन । २ दे 'सल',  
'सड', 'छळ' ।

सळ - पु १-हठ, आग्रह,  
जिद । २ अभिमान गर्व ।

सळ - पु स्त्री १ मल, सिल-  
वट, सिकुडन, तह । २ धारी ।

सळई - स्त्री मलाई, सलाख,  
छड ।

सळक - स्त्री दे 'सळ' - न ।

सळमिसळ - स्त्री मिश्रण,  
मिलावट, खिचडी । - अव्य  
एक साथ, मिल कर ।

सळसळ - स्त्री मर्मर, मर्मर-  
ध्वनि, सरसर, सरसराहट,  
खडखडाहट ।

सळसळणे - क्रि अ १ सर-  
सराना, खडखडाना, मनसताना ।  
२ खदखदाना, खदवदाना,

खीलना । ३ दे० 'गिवशिवर्णे' ।

सळी - दे० 'सळई' ।

सळो की पळो करणे - नाक मे दम करना, नाको चने चव-वाना, खूब परेशान करना ।

सांकडें - न सकट, अडचन, मुसीबत । मु० - घालणें - मजबूर करना, सकट मे दुहाई देना, रक्षा के लिए पुकारना ।

साकव - † पु. अस्थायी पुल ।

सांकळणे - क्रि अ जम जाना, गाढा बन जाना ।

साकेतिक - वि १ साकेतिक, सकेतसवधी । २ परपरागत, रुढिगत, कृत्रिम । ३. पारि-भाषिक । ४. सूचक, अभिव्यजक । - लेखन - न सकेतलिपि, आशु-लेखन, 'शॉर्टहैंड', 'स्टेनो-ग्राफी' ।

साखळ - स्त्री १ सांकल, जजीर । २ वेडी, बघन ।

-दड - पु. मोटी जजीर ।

सांखळणें - दे 'साकळणे' ।

साखळी - स्त्री १ सांकल, शृंखला, जजीर । २ सिकडी (जजीर जैसा गले का एक गहना) । ३ सांकडा (पैर का गहना) । ४ सिलसिला, क्रम ।

साग - स्त्री [ हिं ] सांग, सागी, वरछी । [ समग्र, मपूर्ण ]

सांग - वि साग, अगयुक्त,

साग - स्त्री कथन, कहना, वताना । - क्रि अ कहो, बताओ । - काम्या - वि वेगार टालने वाला, जितना बताया गया हो, उतना ही काम करने वाला, बुद्ध ।

सागड - स्त्री १ गठबघन, मेल, सवध । २ नावो का बेंडा । ३ तूँवो, नारियलो आदि को

जोड कर बनाया गया तैरने का साधन । मु० - घालणे - मेल विठाना, सगति स्थापित करना, जोड देना ।

सांगणे - क्रि स १ कहना, वताना, बोलना । २ सुनाना । ३ निमन्त्रित करना, दावत देना । ४ आदेश देना । ५ मिखाना, ममझाना, पट्टी पढाना । मु० सागून येणे - विवाह का प्रस्ताव पेश करना (लडकी की तरफ से), पैगाम आना ।

सागता - स्त्री प्रति, पूर्तता, परिपूर्ति; परिसमाप्ति ।

सागाढा - पु १ ढाँचा, खाका । २ ककाल, ठठरी, अस्थिपजर ।

सांगातीं - अव्य साथ ।

सागाती - पु सेंगाती, साथी, सगी, मित्र, दोस्त, हम-राही ।

सागावागी - स्त्री सुनी सुनायी वात, गप, अफवाह । - अव्य. सुन कर । [ में ]

सागून येणे - दे 'सांगणे'

सांगोपांग - वि सांगोपाग, सव अगो से युक्त, पूर्ण ।

सागोवागी - दे 'सागावागी' ।

सांचणे - क्रि अ जमा होना, इकट्ठा होना, ढेर लगना ।

साचविणे - क्रि स जमा करना, बटोरना, सचय करना, सग्रह करना ।

साचा - पु १ साँचा, ढाँचा । २ छोटा नमूना । ३ ठप्पा ।

सांज - स्त्री साँझ, शाम, सध्या; सायकाल । - वात - स्त्री सँझवाती; सध्यादीप ।

सांजा - पु १ हलुआ, हलवा । २. लपसी । ३ दलिया,

रवा, सूजी ।

साजोरी - स्त्री हलवा भरकर बनायी हुई पूरी या रोटी ।

साट - पु १ माँट; छडी, कोडा, साट, चावुक । २. छडी, कोडे आदि का आघात । - मारी; - मान्या - दे 'साठमारी'; 'साठ-मान्या' ।

साठ - पु गुजाइग, समाई ।

साठण - न जमा करने, रखने का पात्र । दे 'साठवण' ।

सांठणे - क्रि अ १. जमा होना, इकट्ठा होना । २ समाना; अटना, भीतर आना ।

साठवण - न स्त्री १ दे 'माठण' । २. सग्रह, सचय । ३ धान्यागार, खत्ती ।

साठविणे - क्रि स १ जमा करना; सग्रह करना । २ अटाना; रखना, भरना ।

साठा - पु सग्रह, भंडार, ढेर, जखीरा, सचय ।

साठेवाज - वि पु. जमाखोर, अपसचयकारी, जखीराअदोज ।

साठेवाजी - स्त्री अपसचय; जमाखोरी, गुप्तसचय, जखीरा-अदोजी ।

सांड - पु १ साँड । २. आवारा, मोटा-ताजा आदमी ।

सांड - स्त्री दे 'साडणी' ।

साड - स्त्री १ गिरना, लुड-यना । २ पानी की निकासी का मार्ग । ३ उपेक्षा, विन्मरण । ४ त्याग, छोडना । - पाणी - न घोवन जल, बेकार पानी, इस्ते-माल किया हुआ पानी । - लवड - स्त्री गिराना-चुडकाना, वरवाद करना ।

साडगा - पु. बडी, कुम्हडोरी ।

साडणी - स्त्री साँडनी,

ऊँटनी । - स्वार - पु साँडिया, साँडनी का सवार, ऊँटनी-सवार, हरकारा ।

साङ्गणे - क्रि अ १ गिरना, लुडकना । २ खो जाना, गुम होना । - क्रि स १ गिराना, लुडकाना । २ खोना, गँवाना । ३ छोड़ना, त्यागना ।

साङ्गवा - पु १ बाँध का दर-वाजा । २ पानी की निकासी का मार्ग, मोरी, नाली । ३ नहर । ४ बाँधपर का मार्ग । ५ वाँस आदि का बना कच्चा पुल ।

साङ्गशी - स्त्री सँडसी ।

साङ्गस - पु सँडसा ।

सातवन, सात्वन - न सात्वन; सात्वना, दिलासा, वीरज, आश्वासन; तसल्ली, ढाढस बँधाना ।

साथ - स्त्री महामारी, छूत की वीमारी, वदा; मरी, छुतही वीमारी ।

साँद - स्त्री १ कोना । २ तग गली । [ एक मीठा पकवान ।

सादण - णे - न चावल का साद्र - वि १ साद्र, घना, ठोस, गहरा । २ ठम, गफ, मोटा ।

साध - स्त्री १. सधि, जोड़ । २ दरार; चीर । ३ जोड़, गाँठ । ४ दे 'साद' । - मोड़ - स्त्री दीवार की रचाई में ईंट, पत्थर आदि की तहों के जोड़ों को एक सीध में न आने देना ।

साधणे - क्रि स जोड़ना, मिलाना, टाँकना । - क्रि अ जोड़ा जाना, मिल जाना ।

साधा - पु १ जोड़, दर्ज, सधि, ग्रथि । २ गाँठ, पोर । मु० - जोड़णे - ग्रथि बँधाना,

सधि जोड़ना; जोड़ मिलाना, जोड़ लगाना । - बदलणे - (रेल्वेचा) काँटा बदलना ।

साधे जोड़ - स्त्री ग्रथि, सधि, जोड़, मिलाव, गाँठ ।

सापडणे - क्रि अ १. मिलना, पाना; पाया जाना । २ पता लगना । ३ पकड़ा जाना, काबू पाना, फँसना ।

सापळा - पु १ पिंजड़ा । २ फदा, जाल । ३ चूहादान, चूहे-दानी । ४ ठठरी, ढाँचा, अजर-पजर । मु० सापळघात अडकणे, सापडणे - जाल, फदे में फँसना, झंझट में फँसना ।

साप्रत - अव्य साप्रत; सप्रति, अब, इस समय, आज-कल, फिलहाल । - काळों - अव्य दे 'साप्रत' ।

साप्रदाय - दे 'सप्रदाय' ।

साप्रदायिक - वि १ साप्र-दायिक, सप्रदाय-सबधी । २ पर-परागत, पारपरीय ।

साव - पु १ साव, शिव । २ भोला-भाला आदमी । ३ राघोवा दादा पेशवा । सावाचा अव-तार - वि भोला-भाला, सीघा-सादा । सावापुडचा - पु नदी । -वि बछिया के तारु, बुद्धू ।

साबर - न पु साँभर, वारह-सिंगा । - सिंगी - वि साँभर हिरन के सींग का बना हुआ ।

साबर - न साँभर, सभर (झील) । - मोठ - न साभर, सभर झील से प्राप्त नमक ।

सावारें - न पकी दाल, खट्टी दाल, साबार, छाछ में पकाया हुआ सालन ।

सामाळ - , साभाळणे - दे 'सभाळ', 'सभाळणे' ।

सावडणे - दे 'सावडणे' ।

सावर - दे 'सावरी' ।

सावरणे - क्रि अ १ सँभ-लना । २ रुकना; थमना । ३ स्वस्थ होना; सुधरना । ४. बचना । ५ सावधान होना; सचेत होना । - क्रि स १ सँभालना । २ रोकथाम करना, सहारा देना । ३ सहेजना, बटोरना । ४. अपने को ज्वलत करना, सयत करना ।

सावरी - स्त्री सेमल (वृक्ष) ।

सावळा - वि साँवला, श्याम रंग का । - पु साँवला, कृष्ण । - गोषळ - न अधेरखाता, भ्रष्टाचार, गडबडी, बाँधली, गडबडझाला ।

सावा - पु साँवा; सावा (चेना जैसा एक कदन्न) ।

सांसर्गिक - वि सक्कामक, छूत का, छुतहा, ववाई । - रोग्याचें इस्पितळ - न छुतहा अस्पताल ।

सासारिक - वि १ पारिवारिक, घरेलू । २ सासारिक, लौकिक; ऐहिक ।

सा - पु सा, पड्ज । - अव्य सा, जैसा, सदृश; समान ।

साई - दे 'साय' ।

साईस - पु [ अ 'साइस' ] साइस, साईस, सईस, घोड़े का रखवाला ।

साउली - दे 'सावली' ।

साकल्याने - अव्य कुल मिला कर, समष्टि रूप में ।

साकळणें, साकळी - दे 'साकळणे', 'साखळी' । [ छट ।

साका - पु १ टाँका । २ तल-साकार - वि साकार, मुज-स्सम, मूर्तिमान्, साक्षात् । मु० -

करणें, - होणें - साकार करना,

साकार होना ।

साकारणें - क्रि अ साकार वनना, प्रत्यक्ष वनना ।

साकी - स्त्री मराठी का एक वृत्त (मात्रिक छंद) जिसमें दो चरण और प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं ।

साक्ष - स्त्री १ साक्षी, गवाही साक्ष्य, साख । २ गवाह का वयान । ३. प्रमाण, सुवृत्त । - मु० - घालणें - साख भरना, गवाह के तौर पर दस्तखत करना । - देणे - साक्षी, गवाही देना ।

साक्षर - वि साक्षर, पढा - लिखा, शिक्षित, तालीमयाफ्त ।

साक्षरता - स्त्री साक्षरता, अक्षरज्ञान ।

साक्षात् - अव्य १ साक्षात्, आँखों के सामने, प्रत्यक्षत, स्पष्टत, वस्तुत । २. सीवे । ३ स्वयं, खुद । - वि मूर्तिमान्, साकार ।

साक्षात्कार - पु साक्षात्कार, प्रत्यक्ष दर्शन । [ साक्षी ।

साक्षी, साक्षीदार - पु गवाह, साक्षेप - पु १ लगन, अव्यवसाय, मेहनत, परिश्रम । २. आस्था । ३ निष्ठा, निश्चय ।

साक्षेपी - वि १ तन्मय, तल्लीन । २ अव्यवसायी । ३ उद्यमी, कर्मठ ।

साख - स्त्री साख, प्रतिष्ठा; हैसियत । - सुरत - वि १ अच्छा, बढ़िया, सुडौल । २. अनुपातयुक्त । - अव्य खुल्लम खुल्ला, खुले आम ।

साखर - स्त्री शकर, चीनी, बूरा, खाँड । - गोटी - स्त्री छोटा और मीठा आम । - क्षोप - स्त्री शकरस्वाव;

मीठी नींद, दिन निकलने में पहले आने वाली सवेरे की नींद । - निवू - पु मीठा नीवू; चकोतरा । - पाणी - न अतिथि को दिया जाने वाला शकर-पानी, जलपान, शरवत । - पुढा - पु १ टीका, तिलक, सगार्ड । २ सगार्ड के समय कन्या को दी जाने वाली मिठाई । - फुटाणा - पु लाची दाना । - नात - पु मीठा चावल, मीठा पुलाव । साखरेची सुरी - स्त्री मीठी छुरी । मु० - पेरणें - मीठी बातों से फुसलाना, फँसाना । साखरेची साल फाटणे - वाल की खाल खींचना या निकालना ।

साखसुरत - वि बढ़िया, सुंदर, सुडौल । - अव्य. खुल्लम खुल्ला ।

साखळ, साखळणें, साखळ-दंड, साखळी - दे ' साखळ, ' ' साकळणे ', ' साखळदंड ', ' साखळी ' ।

साग - पु सागौन (पेंड) ।

सागर - पु १ सागर, समुद्र । २ बहुत बड़ी राशि या पुज । [ करज, कजा ।

सागरगोटा - पु करजुवा, सागवान - पु सागौन (वृक्ष और उसकी लकड़ी) ।

सागुती - स्त्री [ हिं 'सगीती' ] सगीती, बकरे का, खाने का गोश्त, कलिया ।

साग्र - वि माग्र, ममग्र, समूचा, सपूर्ण; पूरा । - सगीत - वि पूरा, समग्र ।

साचणें, साचविणें, साचा - दे ' साचणे ', ' साचविणे ' ; ' साचा ' ।

साज - पु [ फा ' साज ' ]

१. साज; सामग्री; सामान; उपकरण । २ सजावट की सामग्री । ३ पोशाक, पहनावा । ४ ठाटवाट, सजावट । ५ गले का हार जैसा सोने का एक गहना । - करी - पु साजिदा, साज बजाने वाला ।

साजण - पु माजन, प्रेमी; पति । [ सखी; सहेली ।

साजणी - स्त्री सजनी, साजणें - क्रि अ फवना, शोभा देना ।

साजरा - वि सजीला, धजीला, सुंदर । - गोजरा - वि सुंदर, खूबसूरत । मु० - करणें - मनाना, मपन्न करना । - होणें - मनाया जाना, सपन्न होना ।

साजा - \* वि १ साजा, सुंदर । २ प्रसन्न, लहलहाता, ताजा । ३ परिपूर्ण, भरा हुआ । ४ तैयार ।

साजिरा - दे ' साजरा ' । साजुक, साजूक - वि १ ताजा । २ स्वादिष्ट, लजीज, बढ़िया ।

साट - न १ आम कटहल आदि के रस की रोटी । २ दे ' साट ' । साटमारी - दे. - ' साठमारी ' ।

साटा - पु १ ढाँचा, ठठरी । २ बदला, साटा ।

साटीण - न [ अ ' सैटिन ' ] साटन (एक बढ़िया रेगमी कपडा) ।

साटें - न १ विक्री का माल । २ थोक खरीद, सीदा । ३ दे ' साटा ' । - खत - न कच्चा बँनामा । - लोटें - न १ लेन-देन, विनिमय, वस्तु - विनिमय, आदान-प्रदान । २ कन्याओं का आदान-प्रदान । (अपने परिवार की कन्या जिस

परिवार में व्याही हो उसी परिवार की कन्या को अपने परिवार में व्याह कर लाना । )

साठोरी - स्त्री पूरनपूरी, सीठी कचोरी ।

साठ - वि साठ, ६० । - पु दे 'साठ' । - न दे 'साट' ।

साठण, साठणे - दे 'साठण', 'साठणें' । [हाथियों की लडाईं ।

साठमारी - स्त्री साटमारी, साठमान्या - पु साटमार, हाथियों को लडाने वाला, हाथी के साथ लडने वाला ।

साठवण, साठविणें; साठा - दे 'साठवण', 'साठविणें'; 'साठा' ।

साठों - अव्य १ (के) लिए, वास्ते । २ (के) कारण, (की) वजह से । ३ के बदले, की वजाय ।

साठी - स्त्री १ साठ वर्ष की अवस्था । २ साठ वस्तुओं का समूह । - मु० साठी बुद्धि नाठी (होणें) - अक्ल सठिथाना; बार्द्धक्य के कारण मानसिक शक्ति का ह्रास होना । [वाज - जी' ।

साठेबाज - जी - दे 'साठे-साबा - दे 'साडे' ।

साडी - स्त्री साडी, स्त्रियों की धोती । [पति ।

साडू - पु साडू, साली का साडे - पु बहु विवाह के पश्चात् चौथे दिन घर - कन्या को दिये जाने वाले वस्त्र, इमकी रस्म ।

साडे - वि साडे, आघे के साथ । - तीन - वि साडेतीन । -० मूर्हत - पु बहु चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा, दशहरा और कार्तिक की शुक्ला प्रतिपदा के तीन और अक्षय तृतीया का आधा, इस प्रकार के साडे तीन शुभ मूर्हत माने जाते हैं ।

-० शहाणे - पु बहु. पेशवाओं के कार्यालय में सखारामबापू वकील, विठ्ठल सुंदर और देवाजीपत चोर-घोडे पूरे तीन तथा नाना फडनवीस आघे, इस प्रकार साडे तीन सयाने माने जाते थे । - साती - स्त्री, -० चा फेरा - पु १ साडेसाती, साडेसाती, सनीचरी । २ मुसीबत, आफत । मु० - साडेसाती घेणें, लागणें - साडेसाती आना या लगना, विपत्तिप्रस्त होना ।

सात - वि सात, ७ । - ताड उच - वि बहुत लबा, ऊँचा, लबतडग । - पुती - वि स्त्री १ सातपूती, सातपुतिया (तरौई) । २ सात पुत्रों की माता । - वण - स्त्री छत्तिवन; सप्तपर्णी । - चळा - वि सतमासा, सतवाँसा ।

-- वीण - स्त्री दे 'सातवण' । साता जन्माचा वैरी - वि जानी दुश्मन, जनम - जनम का वैरी । साता नवसांचा - वि बहुत दिनों के बाद, बहुत मन्नत - मनीतियों के पश्चात् हुआ बालक, अत्यंत लाडला । साता समुद्राच्या पलीकडे - अव्य सात समुद्र पार, बहुत दूर ।

सातत्य - न सातत्य, नैरतर्य, अविच्छिन्नता ।

सातू - पु १ जी, यव । २ सतू । - चें पीठ - न सतू ।

सात्त्विक - वि १ सात्त्विक, सत्त्वगुणयुक्त । २ ईमानदार, नेक, भला ।

साथ - स्त्री १ साथ, सग, हेल-मेल । २ सगत (सगीत) । ३ दे 'साथ' ।

साथीदार - वि १ साथी, साझेदार, हिस्सेदार, सहयोगी । २ मार्जिदा, सगत करने वाला ।

साद - स्त्री पु १ आवाज, पुकार । २ जवाब; उत्तर । ३. प्रतिध्वनि । ४ ध्वनि, आवाज । ५ गुहार, दुहाई । मु० - घालणे - पुकारना, बुलाना, आवाज देना, टेरना, दुहाई देना ।

सादर - वि [अ. 'सादिर'] १ आया हुआ, आगत, प्रविष्ट । २ प्रस्तुत, पेश किया गया । ३ तैयार, तत्पर । ४. उत्सुक । - कर्ता - वि प्रस्तुतकर्ता । मु० - करणें - प्रस्तुत करना, पेश करना, हाजिर करना, आगे रखना । - होणें - हाजिर होना, उपस्थित होना ।

साबर - वि सादर, आदर-युक्त । - अव्य. सादर, आदर के (साथ) ।

सादिलवार - स्त्री पु [अ. 'सादिरवारिद'] गाँव का नैमित्तिक (उत्सव, घमांदा आदि का) खर्च, फुटकर खर्च । - वि नैमित्तिक, प्रासंगिक, आनुपंगिक ।

सादृश्य - न सादृश्य, समानता; तुल्यता, समरूपता ।

साद्यत - वि साद्यत, पूरा, सपूर्ण । - अव्य. सविस्तार, व्योरेवार, तफसील के साथ ।

साधक - वि १ साधक, सहायक, मदद गार । २ सिद्ध करने वाला, सपन्न, पूरा करने वाला । - पु साधक, आराधक; तपस्वी, योगी । - वाधक - वि उपकारक - अपकारक, अनुकूल-प्रतिकूल ।

साधणे - क्रि अ साधना, पूरा होना, सफल होना, बन जाना, सिद्ध होना, जमना, अभ्यस्त होना, आदी बनना । - क्रि स १ साधना, सिद्ध करना, पूरा करना । २.



निशाना लगाना । ३ अभ्यास करना; आदत डालना ।

साधन - न १ साधन, जरीया, जरिया, वसीला । २. सामग्री, उपकरण, औजार । ३ प्राप्ति । ४ साधना, कार्यसिद्धि, आराधना, उपासना ।

साधना - स्त्री साधना, आराधना, उपासना, तपस्या ।

साधा - वि [ फा 'साद' ]  
१ सादा; विना सजावट का, विना काम, विना गोटे, किनारी का । २ मामूली, साधारण । ३ भोला । ४ कोरा, विना लिखा हुआ (कागज़) । ५ सीधा, सरल ।  
- सुधा - वि १ मीठा - सादा । २ मामूली, साधारण । - सैपाक - पु हररोज की रसोई, सावारण खाना ।

साधार - वि साधार, प्रामाणिक । - अव्य प्रामाणिक रूप से, सुवृत्त के साथ ।

साधारण - वि १ साधारण, मामूली, सामान्य । २ आसान, सरल । - त, - पण - अव्य. साधारणत, सामान्यत, साधारणतया, आमतौर पर, प्राय ।

साधी कँद, साधी शिक्षा - स्त्री सादी कँद, साधारण कारावास ।

साधु - पु साधु, सत, सच्चा या नेक आदमी । - संत - पु बहु साधु-सत, साधुओ, सतो का समूह ।

साधेपणा - पु [ फा 'साद' ] सादगी; सादापन, भोलापन ।

साध्य - न साध्य, लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद । [ व्रता ।

साध्वी - स्त्री साध्वी, पति-सान - वि १ छोटा, नन्हा ।

२ थोड़ा, अल्प । ३ हल्का । - थोर - वि छोटा-वडा ।

सानुनासिक - वि सानुनासिक (जिस (अक्षर) के उच्चारण में नाक का योग हो) ।

सानुला - वि छोटा, नन्हा ।

सान्निध्य - न सान्निध्य, सामीप्य, सन्निकटता, समीपता, नजदीकी, कुर्वंत ।

साप-पु साँप; सर्प । - सुरळी - स्त्री साँप जैसा दिखाई देने वाला एक किस्म का गिरगिट । सापाचें पिलू - न सँपोला । मु० साप साप म्हणून भुई थोपटणें - ताहक दोप लगा कर सजा देना, साँप समझ कर रम्सी (लकीर) पीटना । सापाला दूध पाजणें - आस्तीन में साँप पालना, साँप को दूध पिलाना, दुष्ट आदमी की सहायता करना ।

सापट - स्त्री सूरख, दरार, शिगाफ ।

सापडणें - दे० 'सापडणे' ।

सापत्न - वि सापत्न, साँतेला । - भाव - पु सापत्न्य, डाह, ईर्ष्या, शत्रुता ।

सापळा - दे० 'सापळा' ।

सापेक्ष - वि सापेक्ष, आनु-पातिक, आपेक्षिक, तुलनात्मक ।

सापेक्षता - स्त्री आपेक्षिकता ।

साप्ताहिक - वि साप्ताहिक, हफ्तावाराना । - न साप्ताहिक, हफ्तावार साप्ताहिक पत्र, हफ्तावाराना ।

साफ - वि [ अ 'साफ' ] १ साफ, स्वच्छ, निर्मल । २ वेदांग, वेद, निर्दोष । ३ खालिस, शुद्ध, पवित्र । ४ स्पष्ट, चुला हुआ । ५ दोटूक, पक्का । ६ समतल, बराबर, चिकना । - अव्य साफ, खुले तौर पर, पूरे तौर पर, स्पष्ट रूप से, विल-कुल, स्पष्टत, कतई । - सुफी -

स्त्री सफाई, स्वच्छता । - सूफ - वि गाफ, स्वच्छ । मु० - फरणें - १ माफ करना, मफाई करना । २. माँजना, धोना । ३ मार डालना; खत्म कर देना । - नकार देणें - नाफ इनकार करना, दोटूक इनकार करना, अँगूठा दिखाना ।

साफल्य - न १. साफल्य, गफलना । २ उपयोगिता, लाभ ।

सावण - पु न [ अ 'सावृ- (वू) न' ] सावुन, सावून । - वार - पु सावुन का डडा ।

सावुदाणा, सावू - दे 'सावू- दाणा'; 'सावण' ।

सावुदाणा - पु [ मल 'सागू' ] सागू-दाना, सावुदाना ।

साम - पु न १ साम, साम-वेद, स्तुतिमंत्र । २ शात करना, मेल, समझौता, तुष्ट करना, मधुर वचन, नरमी, नरमीयत, मीठे शब्दों का प्रयोग ।

सामग्री - स्त्री. सामग्री, सामान, माल-असवाव, उपकरण, औजार, साधन ।

सामग्न्य - न सामग्न्य, सपूर्णता, समग्रता, अखंडता ।

सामग्न्यानें - अव्य कुल मिला कर, समग्र रूप से ।

सामता - पु वरमा (लकड़ी में छेद करने का औजार) ।

सामना - पु [ हिं ] १ सामना, मुकाबला, लडाई, भिडत, मुठभेड । २ (कुश्ती का) दगल । ३ खेल, 'मैच' ।

सामरस्य - न १ समरस, तल्लीन हो जाना । २ ब्रह्मानंद ।

सामर्थ्य - न १ सामर्थ्य, शक्ति, बल, ताकत । २ गुण, प्रभाव । ३ शब्द की अर्थशक्ति । - बान्, - शाली - वि समर्थ,

ताकतवर ।

सामसूत्र - स्त्री न खामोशी; शांति; सन्नाटा । - अव्य. चुपचाप ।

सामाईक - दे. 'समाईक' ।

सामाजिक - वि १ सामाजिक, समाज-सवधी, समाजी । २ सामूहिक । - चळवळ - स्त्री समाज-सुधार-आंदोलन । - दर्जा - पु. सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा ।

सामान - न [ फा ] १ सामान; असवाव, चीजवस्तु । २ सामग्री, उपकरण; किसी कार्य के लिए आवश्यक, साधनरूप वस्तुएँ । - सुमान - न मामान-असवाव, चीजवस्तु, सामग्री; वोरिया-विस्तर ।

सामान्य - वि १ सामान्य; मामूली, साधारण । २ समान, औसत दर्जे का । ३. तुच्छ, अदना, घटिया । - न १. सामान्य, सादृश्य, समानता । २ सब मे पाया जाने वाला गुण या चिह्न । - त - दे. क्रम मे । - नाम - न जातिवाचक सज्ञा (व्या०) । - रूप - न किसी शब्द में विभक्ति (कारक का चिह्न) या अव्यय लगने से पहले उसका बनने वाला अलग रूप । [ 'पुणें' का 'पुण्या' (ला, चा,) 'लीला' का 'लीले' (ने) आदि रूप ] - लिंग - न जिस सज्ञा का लिंग निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता उसे सामान्य लिंग का समझा जाता है । [ उदा० जनावर, मी, तू, तुम्ही, मूल ] - सर्वनाम - न किसी भी लिंग की सज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम (उदा० कुछ, कोई) ।

सामान्यत, सामान्यपणे - अव्य.

सामान्यतः; सामान्यतया, साधारणत, साधारणतया, आम तौर पर; मामूली तौर से, प्राय; बहुधा ।

सामावणे - क्रि अ १ अटना; समाना, भीतर आना । २ एकरूप होना ।

सामिलीकरण - न [ अ 'शामिल' ] अविमिलन, विलय, सविलयन, शमूलीयत ।

सामील - वि [ अ 'शामिल' ] १. शामिल, मिला हुआ; इकट्ठा । २ शरीक, सम्मिलित । ३ भागीदार, साझी, साथी, सहयोगी । ४ दुश्मन से जा मिला हुआ । - नामा - पु. अधिमिलन - पत्र, सविलयन - पत्र । मु० - होणे - १. शामिल होना, शरीक होना । २ हाथ बँटाना । ३. मिल जाना, सविलयन होना ।

सामग्री - दे 'सामग्री' ।

सामुदाईक, सामुदायिक - वि सामुदायिक, सामूहिक ।

सामुद्रधुनी - स्त्री जलडमरूमध्य ।

सामुद्रिक - न १. सामुद्रिक, सामुद्रिक, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त-रेखाविद्या, वह विद्या जिसके सहारे देह-चिह्नों के शुभाशुभ होने का विचार किया जाता है । २ ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति, भविष्यवादी, ज्योतिषी ।

सामोपचार - पु सामोपचार, सामोपाय (नरम उपाय काम मे लाना) । [ कर, समझा-बुझा कर ।

सामोपचारानें - अव्य कह-मुन सामोरा - री - रें - अव्य सामने, आगे, सम्मुख । मु० - जाणे - अगवानी करना, स्वागत

के लिए आगे जाना ।

साम्य - न साम्य; सादृश्य, समानता, एकसरीखापन, समरूपता । - वाद - पु. साम्यवाद, 'कम्यूनिज्म' । - वादी - वि साम्यवादी, 'कम्यूनिस्ट' ।

साम्राज्य - न साम्राज्य, सार्वभौम सत्ता, बादशाहत; आधिपत्य । - वाद - पु साम्राज्यवाद । - वादी - वि साम्राज्यवादी ।

सायंकाळ - स्त्री सायंकाल; सध्या, शाम । [ २ सार, सत ।

साय - स्त्री १. मलाई, साठी ।

सायकल - स्त्री [ अ 'वाइ-सिकिल' ] साइकिल; पैरगाडी ।

सायली - स्त्री चमेली या जूही जैसा एक सफेद फूल ।

सायास - पु बहु० कष्ट, प्रयास, तकलीफें; बहुत परिश्रम ।

सायाळ - स्त्री साही (पशु) ।

सायुज्य - न १ सायुज्य, एकत्व, अभेद । २ मुक्ति का एक भेद; एकरूपता । [ २ एक राग ।

सारग - पु. १ सारग, मृग ।

सारग - पु. १ मल्लाह, नाविक । २ मल्लाहों का नायक ।

सारंगी - स्त्री सारंगी (तत्र-वाद्य) । - वाला, सारंग्या - पु. सारंगिया ।

सार - न १ सार, मूल भाग, गूदा; सत्त । २ साराश; निचोड । ३ फल, नतीजा, निष्कर्ष । ४. रसा, घोल (इमली आदि का), रसम् । [ दस्तावर ।

सारक - वि सारक; विरेचक, सारखा - वि समान, सरीखा,

जैसा, मानिंद, तुल्य । २ समतल । - अव्य. १ लगातार, सन्त । २ बारबार ।

सारजा - स्त्री शारदा;  
सरस्वती।

सारण - न पूरन, कचौडी  
आदि में भरा जाने वाला मसाला।  
- स्त्री १ नाली, मोरी, सारणी;  
जलप्रणाली। २ नहर।

सारणी - स्त्री १ सारणी;  
तालिका, 'टेबुल'। २ दे.  
'सारण' - स्त्री।

सारणें - क्रि स. १. दूर  
करना, हटाना; धकेलना। २.  
घुसेडना, भोकना। ३ समाप्त,  
खत्म करना। ४ विताना।

सारथी - पु. १ सारथि, रथ  
चलाने वाला, मूत। २ कर्णधार,  
नेता। ३ महायक, माथी।

सारथ्य - न १. सारथ्य, रथ-  
चालन, सूत्रमचालन। २ साहाय्य,  
सहायता, सहयोग। [बडी वैलगाडी।

सारवट - स्त्री एक प्रकार की  
सारवण - न [क 'सारिसु']  
१ पोताई, लीपना, गोबर, मिट्टी  
आदि से पोतना। २ लीपापोती।  
मु० - घालणें - १ लीपना -  
पोतना। २ लीपा - पोती करना,  
कलई करना।

सारवणें - दे 'मारविणें'।  
सारवान - पु. ऊंटवान।  
सारवासारव - स्त्री लीपापोती,  
किसी बात को छिपाना, दवाना।  
सारविणें - क्रि स [क  
'सारिसु'] लीपना, पोतना।

सारस - पु. सारस, चक्रवाक,  
चकवा (पक्षी)। - न सारस,  
कमल।

सारस्वत - न १ साहित्य,  
अद्व। २ विद्या, इल्म। - वि  
१ सारस्वत, सरस्वतीमवधी।  
२ विद्वान्, वाग्मी। - पु सारस्वत  
(ब्राह्मणों की एक उपजाति)।

साराश - पु. साराश, तात्पर्य,  
मतलब, खुलासा, मतितार्थ,  
निचोटा, सार, नतीजा।

सारा - पु [अ 'साइर']  
१ लगान, महसूल, भूमिकर।  
२ किराया। - वही - स्त्री  
लगानवदी, करवदी।

सारा - पु आँव का जाला,  
जाला, बुध।

सारा - वि १. गारा, समूचा।  
२ \* जैसा, सरीसा।

सारासारविचार - पु विवेक,  
तमीज, तारतम्य, मोक्षविचार।

सारिपाट - दे 'नारीपाट'।

सारोगम - न सरगम।

सारोपाट - पु १ सारिफलक,  
नारिपट, विमात। २ सारीनीडा,  
चीपड, चौसर।

सारें - वि मारा, समूचा;  
सपूर्ण, समस्त। - अव्य. सब,  
सब कुछ।

सारोगम - न सरगम।

सार्यं - वि १ सार्थ, अर्थ-  
युक्त। २ अभिप्राययुक्त, उद्देश्य-  
मय। ३ ययार्थ, उचित।

सार्यक - न १ सार्यकता,  
कृतकृत्यता, कृतार्थता। २ सफल-  
ता। ३ समाप्ति, अंत। - वि  
सफल, कृतार्थ, कृतकार्य, सफल-  
मनोरथ। मु० - सार्यकों लागणे -  
उचित उपयोग होना, सार्यक  
होना।

सार्वकालिक - वि सार्व-  
कालिक; सब समयों के लिए  
उपयुक्त, शाश्वत।

सार्वजनिक - वि सार्वजनिक,  
सार्वजनीन, आम। - बाधकाम  
खाते - न लोक निर्माण विभाग,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
'पी डब्लू डी'।

सार्वत्रिक - वि सार्वत्रिक,  
व्यापक, सामान्य, माधारण,  
आम। - निवटणूक - स्त्री  
माधारण निर्वाचन, आम चुनाव।

सार्वभौम - वि सार्वभौम,  
विश्वविख्यात, व्यापक, सब का। -  
पु सार्वभौम, सम्राट्; गहनग्राह।

सार्वभौमत्व - न प्रभुमत्ता।

सार्वमत - न जनमतमग्रह,  
रायगुमारी। - आघाडी - स्त्री  
महाजे रायगुमारी, 'प्लेविमिट  
फ्रट'।

सार्वपरिला - पु. मालना  
(एक रक्नगोचक औषध)।

मालकृत कन्यादान - न कन्या  
के सब गहनों के साथ उसका द्राह  
कर देना, ब्याह में कन्या के पिता  
द्वारा कन्या का मालदार दान  
किया जाना।

माल - न [फा] १ माल,  
वर्ष, बरस। २ वार्षिक वेतन,  
मालियाना, वार्षिक वृत्ति या  
भृति, मालाना। - करी - पु  
१ जिसे वार्षिक वृत्ति मिलती हो,  
लहनेदार, पीनी। २ एक वर्ष के  
लिए नियुक्त व्यक्ति। - गुदस्त -  
न माले गुजस्ता, गतवर्ष, पिछला  
धीता हुआ वर्ष। - दार - दे  
'मालकरी'। - मजकुरी - अव्य  
इम वर्ष, इस माल।

साङ्ग - स्त्री १ (झाडाची)  
छाल। २. (फळाची) छिलका।  
२ (शरीराची) चमडी, साल।  
- न छिडका, भूसा।

सालटी - डी - स्त्री, सालटें -  
डे - न दे 'माल' - स्त्री।

सालपट - न छिलका, छाल,  
वकाल।

सालस - वि [अ. 'सलीस']  
भला; अच्छा, शरीफ, सम्म्य,

शिष्ट; तमीज़दार। - पण - न.; -पणा - पु. शराफत, भलमनसा-हृत।

साला - पु. १ साला, पत्नी का भाई। २. एक गाली। [- छी 'साली']

सालाबाद - अ [फा 'साल' + अ. 'बाद'] हरसाल; प्रति-वर्ष। - प्रमाणे - अव्य. प्रतिवर्ष की भांति, हरसाल की तरह।

सालीना - अव्य. [फा. 'मालानः'] मालाना; हरसाल, प्रतिवर्ष। - वि सालाना; वार्षिक।

सालोसाल - अव्य. [फा 'सालहासाल'] १ हरसाल, प्रति-वर्ष। २. वरसो, वरसो से, वरसो तक, सालहासाल।

साव - पु. १ साहु, साहू, सज्जन, भला आदमी। २. महा-जन; साहूकार। [जन।

सावकार - पु. साहूकार, महा-सावकारी - छी महाजनी; साहूकारा, रूपयो के लेन-देन का काम, साहूकारी।

सावकाश - अव्य. १. आहिस्ता; धीमे-धीमे, आराम से, धीरे धीरे। २. सावकाश; फुरसत से, मीके से। ३. बाद मे।

सावकाशी - छी आहिस्तागी, धीमापन; मंदता।

सावचित - स - वि सतर्क; सचेत; होशियार; सावधान, खबरदार।

सावज - न १ शिकार, माउज, सौजा, आखेट-योग्य पशु-पक्षी। २. स्वापद, हिंस्र पशु।

सावट - न १ छाँह, छाया। २. ऐसा स्थान जहाँ हमेशा छाँह रहती है, छायी हुई जगह।

सावडणे - क्रि स १ जमा करना, बटोरना; इकट्ठा करना; ढेर लगाना। २. अस्थिसचय करना (शवदाह के बाद हड्डियाँ या राख एकत्र करना)।

सावत्र - वि सीतेला।

सावध - वि १ सावधान, सजग; सतर्क; सचेत; होशियार। २. खबरदार, चौकन्ना। - गिरी - छी; - पणा - पु १ सावधानता, सावधानी, सतर्कता। २. होशियारी, खबरदारी। मु० - होणे - होश मे आना; सँभलना, चेतनायुक्त होना, आपे मे आना।

सावधान - वि दे 'सावध'। - न विवाह या यज्ञोपवीत - सस्कार के समय मगलाष्टक के माथ, घोला जाने वाला शब्द 'शुभमगल सावधान'। २. विवाह, शादी, व्याह।

सावयव - वि १ जिसमें अव-यव, अंग हो, अवयवी। २. साकार, मूर्तिमान्। ३. समग्र, अखंड, समूचा।

सावर, सावरणे; सावरी - दे 'सावर,' 'सावरणे,' 'सावरी'।

सावली - छी १ छाया, छाँह, साया, छाँव। २. परछाई, प्रतिच्छाया, प्रतिबिम्ब। ३. सकेत, पूर्वलक्षण, पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी। मु० - पडणें - १ सकेत, पूर्वसूचना मिलना। २. नज़दीक होना। ३. प्रभावित होना, अनुकरण करना। - पायाखाली येणे - मध्याह्न (दोपहर) होना। सावलीला - स उभें न राहाणें - कतराना, टालना, दूर भागना।

सावळा, सावा - दे 'सावळा', 'सावा'।

साशक - वि १ मशय्यात्मक,

सशयपूर्ण, शकाकुल; अनिश्चित, दोलायमान, सदेहशील, हिच-किचाने वाला। २. सशक, चौकन्ना, शक्ति, डरपोक।

साष्टाग - वि साष्टाग, आठ अंगो से युक्त। - नमस्कार - पु. साष्टाग प्रणाम; दंडवत्।

सासर - न ससुराल; सासुर। सासरा - पु. ससुर; श्वशुर (पति या पत्नी का पिता)।

सासुरवाडी - छी ससुराल (पत्नी के पिता का घर)।

सासुरवाशी - सी; सासुरवा-शीण - छी वि ससुराल मे रहनेवाली स्त्री, ससुरालवासिनी; सासुरवासिनी।

सासुरवास - पु १. ससुराल मे रहना। २. ससुराल के लोगो द्वारा बहू को दी जाने वाली यत्रणा। ३. तकलीफ, कष्ट, पराधीनता।

सासू - छी सास (पति या पत्नी की माता)। [गहरा सवव।

साहचर्य - न साथ, संगति, साहजिक - वि १ साहजिक, सहज, स्वाभाविक, कुदरती। २. सुलभ; सरल, आसान। - अव्य स्वभावत, प्रकृतित कुदरतन, स्वभावतया। - पणें - अव्य दे 'साहजिक' - अव्य।

साहणे - क्रि स सहना, वर्दाश्त करना, झेलना, उठाना।

साहणे + - न झरोखा, मोखा, रोशनदान।

साहस - न १ साहस, हिम्मत, जिगरा, जीवट, हियाव। २. दुसाहम, अविवेक, जल्द-वाज़ी, औद्धत्य, अनुचित, हानि-कर साहस, धृष्टता। मु० - करणे - हिम्मत करना; दुसाहस करना, घष्टता करना। - होणें - हिम्मत

पडना, हियाव पडना ।

साहसी - वि १ साहमिक, साहसी, हिम्मतवर, दिलेर, निर्भीक । २ अविवेकी, उद्धत, घृष्ट ।

साहाय्य - न १ साहाय्य, सहायता, मदद । २ मैत्री, मित्रता । - क्वारी - वि १ मददगार । २ सहकारी ।

साहित्य - न १ साहित्य, अदव, वाङ्मय । २ सामग्री, साजसामान; उपकरण । - शास्त्र - न साहित्यशास्त्र ।

साहेव - पु [अ 'साहव', 'साहिव'] १ साहव, साहिव, मालिक, स्वामी । २ हाकिम, मरदार, अफसर, वावू । ३ महाशय, महोदय, महाराज । ४ अग्रेज, गोरा, यूरोपियन ।

साहेबी - स्त्री [दे० 'साहेव'] १ साहबी, हुकूमत । २ साहवपन, अफसरी ।

साहेबीण - स्त्री [दे 'साहेव'] १ साहवा, साहिवा, मेम; अग्रेज या यूरोपीय स्त्री । २ अफसर की पत्नी, भद्र महिला ।

साहोत्रा - पु १ छ प्रतिशत व्याज की दर । २ छठा हिस्सा लेने का स्वामित्व ।

साहा - न सहायता, मदद । मु० - करणें - मदद करना, हाथ बँटाना ।

साळ - स्त्री धान ।

साळ - दे० 'शाळा', 'साळिदर', 'साळी' ।

साळकाया माळकाया - स्त्री फालतू, वेकार, उपद्रवी आरते ।

साळढाळ - वि १ मीवा-मादा, सरल, भोला-भाला । २ उदार, प्राजल, खुले दिल वाला ।

साळसूद - वि मीवा-मादा, भोला-भाला, मामूम, निष्कपट, निश्चल । - पणा - पु १ भोलापन, निश्चलता । २ दिखावटी भोलापन, ढोंग ।

साळिदर - स्त्री साही (पशु) । साळी - पु जुलाहा, वुनकर । - माळी - पु बहु समाज के निम्नस्तर के लोग, साधारण लोग, अवाग, जनता । [खील । साळीच्या लाह्या - स्त्री वह साळुंकी - स्त्री मैना (पक्षी) । साळू - दे० 'साळुंकी', 'साळिदर' ।

सिचणें - क्रि स सीचना, छिडकाव । [सीचना, छिडकाव ।

सिचन - न सिचन,

सिंधु - पु स्त्री १ सिंधु, सागर, समुद्र । २ सिंधु नदी । ३ सिंव । ४ मफेद सोहागा । - दुर्ग - पु १ समुद्र में बनाया हुआ किला । कोकण का एक किला जो समुद्र में है । - नद - पु सिंधु नदी; दरियाए सिंव । - सागर - पु अरव सागर ।

सिंह - पु १ सिंह, शेर, केसरी, शेरखवर । २ सिंह राशि । ३ अपने वर्ग का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति । - द्वार - न सिंहद्वार, प्रधान द्वार, सदर दरवाजा । - नाद - पु सिंहनाद, सिंह का गर्जन, ललकार । सिहाचा छावा - पु मिघेला, शेर का वच्चा ।

सिहावलोकन - न सिहावलोकन, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर दृष्टिपात करना । २ समालोचन, आलोचना ।

सिहासन - न सिहासन, तल्ल ।

सिही, सिहीण - स्त्री सिहिनी,

शेरनी, मिहनी ।

सिकदर, सिकरण, सिकलगार, सिकेकाई, सिग, सिजणें; सिडी, सिणगार - दे 'शिकदर', 'शिकरण', 'शिकलगार', 'शिकेकाई', 'शीग', 'शिजणे', 'शिडी', 'शिणगार' । [रेट ।

सिगारेट - स्त्री [अ] सिगसिगार - पु [अ] सिगार, चुस्ट । [शरीफ़ा ।

सिताफळ - न सीताफल, सिद्दी - पु हवशी ।

सिद्ध - वि १. सिद्ध, पूरा किया हुआ । २ प्रमाणित, मावित । ३ निर्णीत, चुकाया हुआ । ४ तैयार, तत्पर । ५ कुशल, प्रवीण, माहिर । - पु सिद्ध, सत या योगी जिसे सिद्धि प्राप्त हो गयी हो, मुक्त पुरुष । - साधक - पु बहु एक-दूसरे से मिले हुए, किमी पड्यत्र में शरीक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनमें मिली भगत हो ।

सिद्धता - स्त्री १ तैयारी, तत्परता । २ सिद्धता, सिद्धि, पूर्णता ।

सिद्धांत - पु १ सिद्धांत, उसूल, सिद्ध, निश्चित मत । २ प्रमेय (ग०) ।

सिद्धि - १ सिद्धि, अलौकिक शक्ति । २ मफलता, पूर्ति, निष्पत्ति, समाप्ति । ३ दक्षता, निपुणता । ४ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण । मु० सिद्धीस जाणें - पूरा होना, सफल होना । सिद्धीस नेणें - पूरा करना, मफल बनाना ।

सिधा - दे 'शिधा' ।

सिनेमा - पु [अ] सिनेमा,

फिल्म; चलचित्र; छायाचित्र ।  
- हाउस - न सिनेमा घर ।  
सिमेट; सिमेट - न [अं  
'सीमेट'] सीमेट ।

सिरजोर, सिरस्ता, सिलक;  
सिलगावणे - दे 'शिरजोर',  
'शिरस्ता', 'गिल्लक', 'शिल-  
गावणे' ।

सिवण, सिवाय, सिवी, सीग,  
सीण - दे. 'शिवण', 'शिवाय';  
'गिवी'; 'शीग', 'शीण' ।

सी आय डी. - पु. [अ] ]  
सी आई डी; गुप्तचर विभाग,  
खुफिया पुलिस ।

सीताफल - न सीताफल,  
गरीफा । [सिसकारी । २ सिसकी ।

सीत्कार - पु. १ सीत्कार;  
सीमत - पु. १ सीमत, मांग ।  
२. हद, सीमा । - पूजन - न. दे  
'सीमात पूजन' ।

सीमांत - पु. सीमात, हद;  
सीमा । - पूजन - न सीमात-  
पूजन (गांव की सीमा पर आने  
पर की जाने वाली वर की पूजा) ।

सीमा - स्त्री १. सीमा; हद;  
सीवाना । २ आचार की मर्यादा ।  
वाद - पु. सीमावाद, - सीमा-  
विवाद (सीमा सबधी झगडा) ।  
मु० - सांडणे, - सोडणें - १.  
सीमातिक्रमण करना । २ मर्यादा  
को लांघना ।

सीमोल्लघन - न सीमोल्लघन;  
सीमातिक्रमणोत्सव (जो दशहरे के  
दिन मनाया जाता है) ।

सुकले - न वच्चो के कान या  
नाक में पहले पहल डाला जाने  
वाला सोने का गोल तार ।

सुगणें - क्रि सूंघना, वास  
लेना ।

सुठ - स्त्री मोठ, शुठी ।

- वडा - पु सोठीरा । कहा० -  
सुठीवांचून खोकला गेला - १  
विना दवा के बीमारी चली गयी,  
अपने आप बला टल गयी । २.  
आंख फुटी पीर गयी ।

सुंता - स्त्री [अ 'सुसत']  
सुसत, खतना; मुसलमानी ।

सुंदर - वि १ सुंदर, खूब-  
सुरत; सलोना; सजीला । २.  
भला, अच्छा, बढ़िया । [स्त्री ।

सुदरा - स्त्री सुदरी, रूपवती  
सुवरी - स्त्री १ दे 'सुदरा' ।  
एक प्रकार की छोटी शहनाई । २  
मिट्टी के तेल की डिबरी ।

सुंव - दे 'सुभ' ।  
सुवाल्या - दे. 'सूबाल्या' ।

सुंभ - पु नारियल के रेशे की  
रस्सी, नारियल का रेशा, मोटी  
रस्सी । २ बुद्ध आदमी । कहा०  
सुंभ जळाला तरी पीळ गेला  
नाहीं - रस्सी जल गयी लेकिन  
एँठन नहीं गयी । [-टा' ।

सुंसाट - टा - दे 'सुसाट  
सुई - स्त्री सुई । मु०  
सुईत दौरा ओवणें - सुई पिरोना,  
सुईके छेद में वागा डालना ।

सुईण - स्त्री दाई, जनाई ।  
सुकट - स्त्री न सूखी मछली ।  
- वि सूखा, उकठा, सूख कर  
एँठा हुआ ।

सुकटलेला, सुकडा - वि दे  
'सुकट' ।

सुकणे - क्रि अ. १ सूखना ।  
२ कुम्हलाना । ३ बहुत दुबला  
होना । ४ कडा पड जाना, उक-  
ठना, सूख कर एँठ जाना ।

सुकती - स्त्री भाटा, सूख जाना ।  
- भरती - स्त्री ज्वारभाटा ।

सुकविणे - क्रि स सुखाना,  
सुख बनाना ।

सुका - वि १ सूखा, सुस्क ।  
२ निरा; केवल, विना भोजन का  
(बेतन) । ३ निरर्थक, व्यर्थ का,  
नाहक का । - चुप्काळ - पु.  
सूखा, अवर्षण, अकाल । - मेवा -  
पु सूखे फल ।

सुकाण - पू - न [अ  
'सुक्कान'] पतवार; कर्ण (नाव  
का) । - समिति - स्त्री कर्णधार  
- समिति ।

सुकाळ - पु १. सुकाल;  
सुभिक्ष, सुशाहली, समृद्धि । २  
विपुलता, बहुतायत, भरमार,  
इफरात ।

सुकाळघा<sup>+</sup> - वि [शा] १  
अत्यंत विषयासक्त, समोग नी  
बहुत अधिक इच्छा रखने वाला ।  
२. चुदवैया (पुरुष); चुदवासी  
(स्त्री), चुदकड ।

सुकुमार - वि सुकुमार,  
कोमल, बहुत नाजुक ।

सुकुळें - न छील कर, धी  
लगा कर घूप में सुखाया हुआ  
केला ।

सुक्तासूक्त - दे 'सूक्तासूक्त' ।

सुख - न सुख, आनंद,  
आराम, सतोप, प्रसन्नता, चैन,  
कल्याण, सुविधा । - कर, -  
कारक, - दायक - वि सुख कर,  
सुखदायक, सुखकारक, सुख-  
कारी, आरामदेह; सुनदायी ।  
- दुख - न सुखदुख, सुखदुःख,  
आनंद और शोक । - प्रसव - पु  
सुखप्रसव, गुप्तप्रसवन । - प्रसवा -  
वि स्त्री सुन-प्रसवा, आराम से,  
विना कष्ट के वन्चा जनने वाली  
(स्त्री, गाय इ) । - मय - वि  
सुखपूर्ण । - रूप - वि महफूज,  
सुरक्षित, नुती; वाधारहित ।  
- अव्य नगुमल, योगपूर्वक,

आराम से, बेखटके, सही-सलामत, निर्विघ्न रूप से। - वस्तु - वि खुशहाल, सपन्न, धनी। - शयन - न - शय्या; - शेज - स्त्री मुख - शय्या, आरामदेह पलंग आदि, आराम की नींद।

- समाधान - न सुख-सतोप, सुख-चैन। - सोहळा - पु विवाह, राज्याभिषेक आदि का समारोह ( जुलूस, खान-पान आदि )। सुखाची भाकर - री - स्त्री आराम से होने वाला गुजारा, विना तकलीफ की नौकरी। - सुखाचें माहेर - न १ सुख का स्थान। २ ननिहाल। - सुखाचें शरीर - न सुख-सुविधा के कारण बना स्वस्थ शरीर। मु० - मानणें - सुख मानना, किसी परिस्थिति में आराम मानना। कहा० सुखं च मे, शयनं च मे - आराम से ज़िदगी बसर करना।

सुखविणें - क्रि स १ सुख देना, प्रसन्न करना। २ दे 'मुक-विणे'।

सुखात - वि सुखात, जिसका अत सुखमय हो। - नाटक - न सुखात नाटक, 'कामेडी'।

सुखासुखी - अव्य. १ आसानी से, यूँ ही। २ खुशी से, स्वेच्छा से। ३ नाहक, व्यर्थ।

सुखावणें - क्रि अ. सुखी होना, आनंद पाना।

सुखावह - वि सुखावह, सुख-जनक, आरामदेह, सुखद।

सुखासीन - वि सुखासीन, आराम-तलब, ऐयाश, विलामी।

सुखी - वि सुखी, प्रसन्न, खुशहाल। [से।

सुखेनैव - अव्य सुखेन, मजे सुगंध - पु. मुगंध, सुवास,

खुशबू, सौरभ।

सुगधिक - त - वि सुगधिक, सुगधित, खुशबूदार।

सुगधी - पु. गधी, गधवणिक, अत्तार, इत्रफरोश। - वि दे 'सुगधित'।

सुगड - न छोटी मटकी। - वि १ सुघड, सुडौल। २ चतुर, कुशल।

सुगम - वि सुगम, सरल, आसान, सुबोध।

सुगरण, सुगरीण - स्त्री १ रसोई बनाने में कुशल स्त्री। २ बया (पक्षी)। - वि स्त्री कुशल, निपुण, चतुर। [टोह।

सुगावा - पु सुराग; पता, सुगी - स्त्री [क 'सुगि'] फसल काटने का वक्त, कटनी; मौसिम।

सुप्रास - पु मिष्टान्न, वढिया, स्वादिष्ट भोजन। - वि मिष्ट, लजीज, स्वादिष्ट; जायकेदार।

सुचणें - क्रि अ सूझना, दिमाग या व्यान में आना, ह्याल आना।

सुचविणें - क्रि स १ सुझाना, सूचना देना। २ बताना। ३ समझाना। ४ इशारा करना।

सुचिंत - वि गात, निश्चित, वेफिक्र।

सुजणें - क्रि अ सूझना, फूलना, वरम या शोथ होना।

सुजन - पु. सुजन, सज्जन, मला आदमी।

सुज्ञ - वि सुज्ञ, सुविद्य, पंडित, समझदार।

सुडका - स्त्री १ छुटकारा, रिहाई, मुक्ति। २. प्रसव, प्रसूति। मु० - सुडकेचा नि श्वास सोडणें - चैन की ताँस लेना।

सुटणें - क्रि अ १ छूटना। २ रिहा होना। ३ खुलना (गाँठ)। ४ दगना (तोप)। ५ निकलना, बहना (पसीना)। ६ उचटना, उचडना, उखडना, अलग होना। ७ मूटाना, मोटा होना (शरीर)। ८ होना (खुजली)। ९ लगना, रहना।

सुटसुटीत - वि छोटा और हलका, सुलभ, जो जटिल, उलझा हुआ न हो, दस्तकी, हाथ में लेने या जेब आदि में रखने के काबिल, चपल, चंचल।

सुटा - वि छुट्टा, जो वैधा न हो, अकेला; अलग, अलहदा। - रुपया - पु एक रुपये की रेजगी। [तातील। २ नागा।

सुटी - स्त्री - स्त्री १ छुट्टी, सुट्टयो - अव्य आँख मिचौनी के खेल में खोजने वाले के निकल-पडने की सूचना देने वाला शब्द।

सुडका - पु; सुडकें - न १ चीथडा। २ बुड्ढा आदमी।

सुडाळ - वि १ सुडौल, सुघड। २ चमकदार, पानीदार।

सुतक - न सूतक, मरणा-शीच।

सुतकी - वि १ सूतकी, जिसे मरणाशीच लगा हो। २ उदास, रजीदा, मनहूस।

सुतराम् - अव्य विलकुल, कतई, तनिक भी, कदापि।

सुतवणें, सुतविणें - क्रि स पिरोना, धागे में बाँधना।

सुतळी - स्त्री सुतली, रस्सी। - चाँ तोडा - पु १ सुतली का टुकडा। २ तुच्छ, क्षद्र वस्तु, हेच चीज। [मोटा वस्त्र।

सुताडा - पु गजी, गाढा, सुतार - पु १ बढई, सुतार।

सूती

२ कठफोडवा (पक्षी) । - की -  
 छी. बढईगीरी, सुतारी ।

सूती - वि सूती, सूत का,  
 सूत का बना हुआ । - कपडा - पु.  
 सूती कपडा । - माल - पु. सूती  
 माल ।

सूतीवाच - दे. 'सूतउवाच' ।  
 सुदर्शन - न १ सुदर्शन,  
 विष्णु का चक्र । २ झझट, बला,  
 क्षमेला । - वि सुदर्शन, प्रिय-  
 दर्शन, सुंदर, मनोहारी । - चूर्ण  
 - न. सुदर्शन चूर्ण (ज्वर की  
 प्रसिद्ध औषध) ।

सुदाम - मा - पु. सुदाम, कृष्ण का  
 एक भ्राता । - वि १ दुबलापतला,  
 मरियल । २ गरीब, कगाल । -  
 सुदाम्याचे पोहे - पु. वहू गरीब  
 की भेंट, तुच्छ उपहार, साग-सत्तू  
 (नम्रता से) ।

सुदिन - पु. सुदिन, अच्छा  
 दिन, सुख के दिन, सौभाग्यकाल ।  
 सुदृढ - वि सुदृढ, बहुत मज-  
 बूत; तगडा । [हवाम, चेत ।

सुदृढ - छी सुधवुव, होश-  
 सुद्धा - अव्य १ भी । २  
 माय; सहित, समेत ।

सुधा - छी १ सुधा; अमृत ।  
 २ दूध । ३ जल । ४ शहद । -  
 रस - पु. १ अमृत । २ चीनी  
 की चाशनी में नीबू का रस डाल  
 कर बनाया जाने वाला एक  
 पकवान, सिकजदीन । [ठीक ।

सुधा - वि सीधा, गरल,  
 सुधारक - पु. सुधारक, सुधार-  
 वादी, मुस्लेह, उच्चायक ।

सुधारणा - छी १ सुधार,  
 मशोधन, इसलाह । २ अच्छी  
 हालत । ३ प्रगति ।

सुधारणे - क्रि अ सुवरना,  
 ठीक होना, दुरस्त होना, दोष

दूर होना; स्वस्थ होना । - क्रि. स  
 सुधारना, ठीक करना; सँवारना,  
 दुरुस्त करना, मशोधन करना,  
 विगडे हुए को बनाना । सुधा-  
 रून बाढविलेली आवृत्ति - छी  
 सशोषित एव परिवर्धित सस्करण ।  
 सुधारलेला - वि सुवरा हुआ,  
 सम्य, परिमार्जित; दुरुस्त किया  
 हुआ ।

सुनमुख - दे 'सून' में ।  
 सुना - वि १ सूना, खाली,  
 शून्य, जनहीन, सुनसान । २  
 उचाट, उदास ।

सुनावणी - छी सुनवाई, पेशी  
 (मुकदमे या फरियाद का मुना  
 जाना) ।

सुनावणे - क्रि स सुनाना,  
 खरी-खरी सुनाना, खरी-खोटी  
 कहना; फटकारना ।

सुनी - पु [अ 'सुनी']  
 सुनी; मुसलमानो का एक फिरका ।  
 सुनीत - न [अ 'सानेट']  
 चतुर्दशपदी कविता, 'सानेट' ।

सुन्न - वि सुन्न, सन्न, जडवत्,  
 सवेदनरहित, मज्ञाशून्य, अव-  
 सन्न, चेतनाशून्य । मु० - पडणे,  
 होणे - १ सन्न हो जाना, बेहोश  
 होना । २ चकित हो जाना,  
 हक्का-बक्का रह जाना ।

सुपली - छी छोटा सूप ।

सुपारी - छी सुपारी, छालिया,  
 डली । २ गुवाक, चिकनी सुपारी ।  
 मु० - देणे - निमरण देना,  
 आमंत्रित करना । - लागणे -  
 सुपारी लगना ।

सुपीक - वि उपजाऊ, जर-  
 खोज, उर्वरा । [लायक वेटा ।

सुपुत्र - पु. सुपुत्र, सपूत,  
 सुपुदं, सुपुदं - अव्य वि  
 [फा 'सुपुदं'] सिपुदं, सुपुदं,

सौपा हुआ, हवाले, हवाले किया  
 हुआ ।

सुप्त - वि १ मुप्त, निद्रित,  
 सोया हुआ । २ अविकमित;  
 अप्रकट ।

सुप्रतिष्ठित - वि सुप्रतिष्ठित;  
 अच्छी तरह स्थापित किया हुआ;  
 जो अच्छी तरह जम गया हो ।

सुफराटा - वि सीधा, ठीक ।

सुफल - वि सुफल, सफल,  
 कामयाब ।

सुवक - वि [फा 'सुवुक']  
 १ सुंदर; बढ़िया, शानदार,  
 सुडील । २. दे 'सुसुटीत' ।

सुवत्ता - छी विपुलता,  
 समृद्धि, मस्ती, सस्तापन ।

सुबुद्ध - वि सुबुद्धि, बुद्धिमान्,  
 अकलमद, होशियार, ममझदार ।  
 सुबोध - वि सुबोध, आसान,  
 सरल ।

सुभा - पु [अ 'सूव'] १  
 सूवा, प्रदेश, प्रात । २ सूवेदार,  
 राज्यपाल, 'गवर्नर' ।

सुमिक्ष - न १ दे 'सुवत्ता' ।  
 २ सुमिक्ष, मुकाल ।

सुभेदार - पु [अ फा 'सूव -  
 दार'] १ सूवेदार, सूवे का  
 शासक, 'गवर्नर' । २ जमादार ।

सुमार - पु [फा 'सुमार']  
 १ शुमार, गिनती । २ सीमा,  
 हद । ३. अदाजा, अनुमान । ४  
 लगभग नमय । - वि माधारण,  
 घटिया, नराव ।

सुमारत - अव्य [दे  
 'सुमार'] लगभग उम नमय,  
 (के) आमपाम ।

सुमार - अव्य [दे  
 'सुमार'] लगभग, तरकीबन्,  
 करीब-करीब, कोई ।

सुयश - न सफलता,



कामयावी ।

सुरगी - स्त्री सुरगी; सुलताना चपा, सुरपुत्राग (फूल) ।

सुर - पु १ सुर, देवता । २ दे. 'सूर' । - तह - पु. सुर-तह, कल्पवृक्ष । - लोक - पु. सुरलोक, देवलोक, स्वर्ग । - सरी - स्त्री १ सुरसरि; आकाशगंगा । २ गंगा, भागीरथी ।

सुरई - स्त्री [ अ 'सुराही' ] सुराही, जल की कुभी ।

सुरकडी, सुरकांडी, सुरकुंडी - स्त्री तेजी के साथ मछली की तरह पानी में कूदना या गोता लगाना । (मारणे) ।

सुरकुतणे - क्रि अ सिकुडना, सुकुडना, शिकन पडना, सिमटना, बल पडना, झुरियाँ पडना ।

सुरकुती - स्त्री १ सिकुडन, शिकन, चुनट, सिलवट । २ झुरीं ।

सुरक्षित - वि सुरक्षित, मह-फूज; निरापद, भली भाँति रक्षित ।

सुरगाँठ - स्त्री सरकती गाँठ, सरक फदा, फिमलनी गाँठ, आसानी से खुलने वाली गाँठ, कच्ची गिरह ।

सुरण - पु. मूरन, सुरण, शूरण, जमीकद, ओल ।

सुरपारव्या - स्त्री लपकडडा, सिलोर-डडा (खेल) ।

सुरपेटी - दे 'सूर' में ।

सुरफाटा - वि नीवा, ठीक ।

सुरमा - पु. [ फा 'मुर्म' ]

१ सुरमा, सुर्मा, रसाजन, अजन । २ एक चर्मरोग ।

सुरमाड - पु. एक जाति का का ताड जिम से शराब निकालते हैं ।

सुरवट - पु. १ खजोहरा, कमला । २ शीगुर । ३ कोश-कीट, इल्ली, कोशी, कोशित कीट, (उड़ने वाले कीटों के वच्चों का अडे से निकलने के बाद का रूप) ।

सुरवात - दे 'मुल्वात' ।

सुरवार - स्त्री [ फा 'श्लवार' ] १ शलवार, मल-वार (एक प्रकार का ढीला पाजामा) । २ चुस्त पाजामा, चूडीदार पाजामा ।

सुरवारी हिरडा - पु. एक प्रकार का लवा और बड़ा हड, हर् । [ लजीज, रसीला, दिलचस्प ।

सुरस - वि सुरम, मजेदार,

सुरसुरणे - क्रि अ १ सुरसुराना, झुनझुनाना, खुजली होना । २ नाक से पानी बहना, उसकी आवाज निकलना । ३. झुनझुनी आना, चुनचुनाना ।

सुरसुरी - स्त्री झुनझुनी, चुन-चुनी, उत्तेजना, जोग ।

सुरळी - स्त्री गोला पोगा, चोगा, कागज आदि की नली ।

सुरळीत - वि सीधा; अवाव । - अव्य मुचारु रूप से, अच्छी तरह, ठीक ढग से, भली भाँति । [ गराव ।

सुरा - स्त्री सुरा, मय,

सुरा - पु. छुरा । - मारी - स्त्री छुरेवाजी, छुरा भोकने की वटना । [ अच्छा, प्रजारजक राज्य ।

सुराज्य - न सुराज्य,

सुरी - स्त्री छुरी ।

सुरग - पु. सुरग (जमीन के नीचे खोद कर बनायी हुई नाली जिम में बारूद विछा कर किले की दीवार, चट्टान आदि उडाते हैं) ।

सुरुवात - स्त्री [ अ 'शुरु-

आत' ] शुरुआत, प्रारभ, आरभ । - मु ० - होणे - १ शुरु होना, प्रारभ होना । २. खुलना । [ सरो (एक प्रसिद्ध वृक्ष) ।

सुरु - पु [ फा 'मर्व' ]

सुरु - वि [ अ 'शुरुअ' ]

गुरु; चालू, जिसकी इत्तदा, आरभ, उठान हुई हो । मु० - होणे - १ शुरु होना, चालू होना । २ खुलना । [ बढिया ।

सुरेख - वि सुदर, मनोहारी,

सुलक्षणी - वि सुलक्षण, सुल-च्छन, शुभ लक्षणों वाला, भाग्य-वान् ।

सुलट - टा - वि सीधा, अनुकूल, उचित, योग्य, सुविधा-जनक ।

सुलतानी - स्त्री [ अ 'सुल्तानी' ] १ सुलतानी, वाद-शाही । २ जुल्म, अन्याय, अत्या-चार । - वि सुलतानी, शाही, राजा, बादशाह का ।

सुलभ - वि १ सुलभ, आमानी से मिलने वाला । २ सरल, आसान ।

सुलाखणे - + क्रि स [ फा 'सूराख' ] १ सूराख, छेद करना । २ सोने-चाँदी को तपा कर और उसमें सूराख करके पर-खना ।

सुवर्ण - न १ सुवर्ण, स्वर्ण, सोना । २ अच्छा रग । - वि मुवर्ण, अच्छे रग का । - कार - पु. सुवर्णकार, सुनार । - चलन - न स्वर्णमुद्रा । - तुला - स्त्री अपने शरीर के वजन के बराबर मोना तोल कर दिया जाने वाला दान । - मध्य - पु. मध्य पथ, मध्यम मार्ग । - महोत्सव - पु. स्वर्ण जयती, पचासवे वर्ष का

महोत्सव; पचासवी वर्षगांठ ।  
-युग - न स्वर्णयुग, सुवर्ण-  
काल ।

सुवाच्य - वि सुवाच्य,  
सुपाठ्य, खुशखत, साफ (आसानी  
से पढ़े जाने योग्य) ।

सुवार्ता - स्त्री सुवार्ता, खुश-  
खबरी; शुभ सवाद । [खुशवू ।

सुवास - पु सुवास; सुगंध;  
सुवासिक - वि सुवासित,  
सुगंधित, सुगंधयुक्त, सुगंधी,  
खुशबूदार ।

सुवासिनी - स्त्री सुवासिनी,  
सुहासिन; सौभाग्यवती स्त्री ।

सुविद्य - वि सुविद्य; वडा  
विद्वान्, सुपंडित, जानकार ।

सुशिक्षित - वि सुशिक्षित;  
शिक्षित; पढा-लिखा ।

सुशील - वि सुशील; सच्च-  
रित्र, विनीत, सीधा ।

सुशोभित - वि सुशोभित;  
शोभायुक्त, सुसज्जित ।

सुश्राव्य - वि सुश्राव्य, श्रुति-  
मधुर, सुनने में बहुत मीठा ।

सुश्लोक - वि सुश्लोक, पुण्य-  
शील, सुप्रसिद्ध । - पु. अच्छा  
श्लोक ।

सुसगत - वि सुसगत, सगत,  
सबद्ध; ठीक, उचित; प्रसंगोचित ।

सुसगति - स्त्री सुसगति,  
अच्छा मेल, सामजस्य, ताल-  
मेल, समन्वय, सामरस्य,  
सहस्वरता ।

सुसबद्ध - दे 'सुसगत' ।

सुसवाद - पु दे. 'सुसगति' ।

सुसस्कृत - वि. सुसस्कृत,  
मन्य, मुहूर्जव, शिष्ट, तमीज-  
दार । [रा' ।

सुसकार - रा - दे 'सुस्कार -  
सुसज्ज - वि. सुसज्जित;

तैयार, लैस । [घडियाल ।

सुसर - स्त्री मगरमच्छ,  
सुसह्य - वि सुसह, सह्य;  
काविले वर्दाश्त ।

सुसाट - टा - पु. झपाटा;  
झपट्टा, तेजी, वेग । - अव्य. झपाटे  
से, तेजी से, वेग के साथ ।

सुसूत्र - वि १. दे. 'सुसवद्ध' ।  
२ सुव्यवस्थित । ३ सुदर,  
अच्छा । [पूर्व आयोजन ।

सुसूत्रता - स्त्री एकसूत्रता,  
सुस्कार - रा - पु. आह,  
ठडी सांस, निश्वास, निसास,  
लवी सांस । मु० - सोडणे - आह  
भरना, आह खीचना, ठडी सांस  
लेना; कल्पना ।

सुस्त - वि [फा ] सुस्त,  
ढीला, आलसी, धीमा ।

सुस्तावणें - क्रि अ [फा.  
'सुस्त'] १ सुस्ताना । २.  
सुस्त, ढीला बनना, अलसाना ।

सुस्थिति - स्त्री सुस्थिति,  
अच्छी हालत, खुशहाली,  
स्वास्थ्य ।

सुस्वभावी - वि मिलनसार;  
सुशील, विनीत, सीधा, खुश-  
मिजाज, खुशअल्लाक ।

सुस्वर - वि सुस्वर, सुरीला,  
मधुर, मीठा । [सूरत ।

सुस्वरूप - वि सुदर, खूब-  
सुहास्य - न मुहास, मुस्कान,  
सुदर, मृदु हास । - वि सुहास,  
मुस्कानयुक्त । [[फिसल कर ।

सुळकन् - अव्य झट से,  
सुळकर्णे - क्रि अ फिमलना,  
झट से निकल जाना ।

सुळकाडी - दे 'सुरकाडी' ।

सुळका - पु १. पहाड या  
चट्टान की शकवाकार चोटी;  
शिखर, नोक, चोटी । २ दे.

'सुळा' । [बुलाना, कुलबुलाना ।

सुळसुळणें - क्रि अ चुल-  
सुळसुळाट - पु १ भरमार,  
बहुतायत, भीड, ठठ । २

तकलीफ, कष्ट; परेशानी । मु० -  
होणें - १ बहुत बढ जाना, फट  
पडना । २ अधिकता के कारण

तग आना ।

सुळसुळीत - वि पिच्छिल,  
फिसलाऊ, फिमलने वाला, बहुत  
अधिक चिकना ।

सुळा - पु १ दीर्घ दंत । २  
खांग (सूवर का दांत) ।

सुळावरची पोळी - दे 'सूळ' में ।

सू - अव्य. दे 'सू सू' । मु० -  
वाल्या करणे - नी दो ग्यारह  
होना, सिर पर पांव रख कर  
भागना, चपत होना । [शायें शायें ।

सू सू - अव्य. मांय सांय,  
सूक्तासूक्त - वि भला-बुरा,  
उचित-अनुचित, जायज-नाजायज ।

सूक्ष्म - वि नूक्ष्म, बहुत  
वारीक, महीन । - पु सूक्ष्म, जणु ।

- न परमात्मा, ब्रह्म, सूक्ष्म ।

- दर्शक यत्र - न सूक्ष्म दर्शक  
यत्र, खुर्दवीन, अण्वीक्षण यत्र ।

सूचक - वि १ सूचक, ज्ञापक,  
सूचित करने वाला, बोधक,  
निर्देशक, व्यजक । २ प्रस्तावरु,

प्रस्तुतकर्ता, पेश करने वाला । -  
न चिह्न, लक्षण ।

सूचन - न सूचन, ज्ञापन,  
इंगित, संकेत, इशारा ।

सूचना - स्त्री १ सूचना,  
इत्तिला । २ मुज्ञाव, प्रस्ताव ।

३ संकेत, इशारा । मु० - देणें  
- सूचना देना, इत्तिना देना,  
खबर करना ।

सूचि, सूची - स्त्री १ सूचि,  
सूची, ताजिना, फेहरिस्त । २ सूचि ।

सूज - स्त्री सूजन, वरम, शोथ । [२ छुटकारा, रिहाई ।

सूट - स्त्री १. छूट, रिहायत ।

सूड - पु. बदला, प्रतिशोध; प्रत्यपकार । मु० - उगविणों, - घेणों - बदला लेना, प्रत्यपकार करना, प्रतिशोध लेना ।

सूत - न १ सूत, धागा, डोरा, तार । २ साँठ-गाँठ, लगाव । ३ सूत, तसू का १६ वाँ भाग (एक नाप) । मु० - जमणों - गाढी मिश्रता होना, गहरी घुँटना । - नाकाशीं धरणों - अव-तव होना, आमन्नमरण होना । - नसणों - अनवन होना, मनमुटाव होना । सुतानें स्वर्गास जाणों - १ माधारण प्रमाण के आधार पर बहुत बडा निष्कर्ष निकालना । २ तनिक-सी टोह पाने पर कल्पना के सहारे किमी बात की तह तक पहुँच जाना ।

सूत - पु. १ सूत, रथ हाँकने वाला, मारथि । २. एक वर्ण-सकर जाति । - उवाच - न प्रारभ, श्रीगणेश । [मे ।

सूतीवाच - न दे 'सूत' - पु. सूतिका - स्त्री सूतिका, नव-प्रसूता, जच्चा । - गृह - न सूतिकागृह, जच्चाखाना, मीरी ।

सूत्र - न १ सूत्र, सूत, धागा; तागा । २ जनेऊ । ३ कठपुतली नचाने की डोरी । ४ सूत्र (छोटा अर्थगर्भ वाक्य) । ५ जरिया । - धार - पु. सूत्रधार (नाटक की जानकारी देने वाला प्रधान नट) । - सचालक - वि सूत्र-सचालक, प्रधान सचालक ।

सून - स्त्री वह, पुत्रवधू । - मुख - न विवाह की एक रस्म जिसमें सास अपनी वधू का मुँह देख

कर उसके मुँह में शकर डालती है और उसे अपनी गोद में बिठा कर गहने पहनाती है ।

सूप - न सूप, छाज । मु० - वाजणे - १ विवाह आदि ममारोह का सपन्न हो जाना । २ किमी कार्यकी परिसमाप्ति होना । सुपा एवढे काळीज होणें - बहुत खुश होना, फूले न ममाना ।

सूपशास्त्र - न सूपशास्त्र, पाकशास्त्र ।

सुर - पु १. सुर, स्वर, आवाज । २ सगीत में सगत करने का सुर । ३ लपकडडा खेल में फेंकने का डडा । ४ झुकाव । ५ सिर नीचा करके पानी में सीधे कूद पडना । - पारवी - स्त्री लपकडडा (खेल) । मु० - काढणें - रोना । - धरणे - मुर मिलाना, सुर (स्वर) भरना ।

सूर्य - पु. सूर्य, सूरज, आफताव । - कमळ - न सूर्यकमल, मूरज-मुखी (फूल) । - कात - पु. सूर्य-कात, आतशी शीशा । - फूल - न दे 'सूर्यकमळ' । - माला - स्त्री सौरमडल । - स्नान - न सूर्यस्नान; नग्न हो कर घूप खाने की क्रिया । मु० - सूर्याचीं पिलें दाखविणे - बच्चे के कान पकड कर उसे ऊपर उठाना । सूर्यावर युक्णे - मूरज पर यूकना, सूरज पर धूल फकना । कहा० - सूर्या-पुढें काजवा - सूरज के आगे जुगनू । सूर्यापोटीं शनैश्चर - अच्छे पिता का बुरा लडका । [ का डूवना ।

सूर्यास्त - पु. सूर्यास्त, सूरज सूर्योदय - पु. सूर्योदय, मूरज का उगना, निकलना ।

सूळ - पु. सूली । सुळावरची पोळी - स्त्री बडा खतरा उठा कर

पाने का लाम, जान पर खेल कर करने का काम ।

सृजन - न मृजन, मर्जन, रचना, निर्माण, सृष्टि । - शील - वि सर्जक, मृजनशील, रचनात्मक ।

सृष्टि - स्त्री १ सृष्टि, जगत्, ममार । २ निर्माण, निर्मिति, रचना । - विज्ञान - न सृष्टि-विज्ञान ।

सेट - पु. [ अ ] खुशबू; सुगंधि-पूर्ण द्रव्य, इत्र, 'सेट' ।

सेंटर - पु [ अ ] १ केंद्रबिंदु । २ परिक्षा-केंद्र । ३ केंद्रीय सरकार ।

सेंद्रिय - वि सेंद्रिय, इंद्रिय - युक्त, सजीव ।

सेकद - पु. [ अ 'सेकट' ] सेकड (मिनिट का माठवाँ हिस्सा) ।

सेक्रेटरी - पु [ अ. ] मंत्री; सचिव; 'सेक्रेटरी' ।

सेक्रेटरीएट - न [ अं ] [ नचिवा-लय, 'सेक्रेटरियट' ।

सेतु - पु. मेतु, वाँव, पुल ।

सेना - स्त्री सेना, फौज । - पति - पु. मेनापति, निपह-सालार ।

सेपरेट - (तुरुगातील) स्त्री [ अ ] दे 'अधेरी' ।

सेपटीपिन - स्त्री [ अ ] वक-सुआ, वकमुआ, 'सेपटीपिन' ।

सेवक - पु १ नेवक, नीकर, आश्रित व्यक्ति । २ भक्त, आराधक ।

सेवन - १ मेवन, व्यवहार, प्रयोग । २. खाना । ३ मेवा; पूजन ।

सेवा - स्त्री सेवा, खिदमत, परिचर्या, आराधना । - निवृत्त-वि सेवानिवृत्त, 'रिटायर' ।

सेवेकरी - पु. १ नेवक, नीकर । २ पुजारी, उपासक ।

संघव - न पु संघव; सेंधा नमक, लाहौरी नमक।

संपाक - दे 'स्वयंपाक'।

संतान - पु [अ 'शैतान']  
१ शैतान, इबलिस। २. दुष्ट, बदमाश, खुराफाती आदमी।

सैनिक - पु सैनिक; सिपाही, योद्धा। - वि सैनिक; मेना-सवधी, फौजी।

सैन्य - न सैन्य, सेना, फौज।  
- भरती, - भर्ती - स्त्री रगरूट भर्ती, सेना में भर्ती। ['स्वैर']  
संर; संरभैर, संराट - दे.  
संरावंरा - अव्य. तितर-वितर, चाहे-जिघर। मु० - धावणें - भगदड भचना।

सैल - वि १. ढीला; शिथिल।  
२ स्वच्छद। ३ सुस्त, नरम।  
मु० - सोडणें - ढील देना; स्वच्छद होने देना।

सोंग - न १. स्वांग, भेस।  
२ ढोंग। ३ नकल। ४ वहाना।  
५ (अभिनय) भूमिका, 'पार्ट'।  
६. विचित्र व्यक्ति, अजीबो गरीब आदमी। - ढोंग - न वहानेवाजी। मु० - करणें - वहाना बनाना। - घणें - स्वांग बनाना, भरना; रूप धरना, भेस बनाना, नकल करना। कहा० - रात्र थोडी, सोंगें फार - जब थोडे समय में बहुत-से काम करने पड़ते हैं तब यह कहा जाता है - रात थोडी और स्वांग बहुत। सारी सोंगें आणता येतात, पंशाचे सोंग आणतां येत नाही - और सत्र वातां का स्वांग भरा जा सकता है, पर पैसे का स्वांग नहीं भरा जा सकता, अर्थात् गरीबी को छिपाया नहीं जा सकता।

सोगटी - स्त्री गोटी, नरद।  
म हि श को ...४५

सोगट्याचा खेळ किवा -पट-पु चौसर, चौपड।

सोंगाड्या - पु नक्काल, भांड।  
सोड - स्त्री १ सूंड, गुडा।  
२ मोट (चरस) का अगला भाग।  
सोडेचा किडा - पु सूंडी।

सोपणें, सोपविणें - क्रि स सोंपना, मिपुर्द करना, हवाले करना; सहेजना, (किसी के) जिम्मे करना।

सोपीव - वि १ सोंपा हुआ।  
२ प्रत्यायुक्त, अध्यपित।

सोवळा - वि १ पवित्र, अछूता, पाक। २ शुद्ध, निर्दोष, सच्चरित्र। ३ दूर, अलग रहने वाला।

सोंवळी - वि स्त्री १ दे 'सोवळा'। २ मुडिता स्त्री (विधवा)। मु० - होंगें - विधवा का मुडिता होना।

सोवळें - न १. पाटवर; मुटका, सनिया। २ धोया हुआ अछूता वस्त्र। - ओवळें - न छुआछूत, छूतछात। - करी - पु रसोइया। मु० - सोवळ्यात - असणे - पाक, पवित्र होना, रहना।

सोइस्कर - वि सुविधाजनक, सुभीते का, सुहलियत का, माकूल।

सोई - स्त्री दे 'सोय'। - ने, सोई सोईनें - अव्य १ धीरे-धीरे, सुविधा के साथ, आराम से। २ समझदारी से।

सोकणें - दे 'सोकावणें'।

सोकाजी - वि [अ 'शोक'] शोकीन, छैला, ब्रांका; रगीला।

सोकावणें - क्रि अ [अ 'शोक'] ललचाना, पीक लगना, लत पडना, परचना; चमका

लगना। [छोर।

सोगा - पु अचल, पल्ला, सोजाळणें - क्रि स गधे आदि के पुराने, सूखे पत्ते तराशना।

सोजी - स्त्री १ सूजी। २. चावल को घी में मेक कर बनाया भात।

सोजीर - पु [अ 'मोजर'] गोरा सिपाही, सैनिक।

सोजवळ - वि १ चमकदार।  
२ निर्मल, शुद्ध, पाक, पवित्र।

सोटा - पु १ वल्ली, लाट।  
२ पेड का तना। ३ दे 'सोटा'।  
४ लवतडग आदमी। ५ मुस्टटा, गुडा। - वि मीघा लवा।

सोटा - पु मोटा, उडा, लाठी, लट्ठ।

सोटेसाई - ही - स्त्री लट्ठ-वाजी, गुडागर्दी - स्त्री।

सोड - स्त्री १ छूट; छुट-कारा। २ इजाजत। ३ दे 'सोडचिट्ठी'। - चिट्ठी - स्त्री १ छूट, तलाक, त्याग। २ मुक्तिपत्र। - मुज - स्त्री १ समावर्तन - सस्कार। २ उपनयन - सम्कार के समय कमर में बांधी हुई भूज की रस्सी को छोड़ने की विधि। ३ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति का सस्कार।

सोडूक - दे 'मोडवणूक'।

सोडणें - क्रि न १ छोडना, जाने देना, मुक्त करना। २ रिहा करना। ३ गोल देना। ४ मृआफ करना। कहा० - सोडले तर पळतें, धरले तर चावतें - छोटे नों भाग जाता है, पकड़ें ता काटना है (बड़ी विपम स्थिति में फेंकने पर कहा जाता है)।

...सोडवणूक - स्त्री १ छुटवाना;

मुक्ति । २ रिहाई । ३ निकल जाने का बहाना ।

सोडवणे, सोडविणे - क्रि स १ छुडाना । २ खोलना, अलग करना । ३ हल करना, सुलझाना; सवाल का जवाब निकालना, पहेली वृक्षना ।

सोड्या - दे 'सोटा' ।

सोडत - छी [पुर्त. 'सोट' ] 'लाटरी' ।

सोडा - पु. [अं ] १. मोडा, सजिका क्षार । २ शोरा, खार । - वाटर - न 'सोडा वाटर' । सोदणे-ने-दे 'सोधणे-ने' । सोदा - वि [उर्दू, 'शुहदः'] शुहदा, लुच्चा, शोहदा; गुडा, बदमाश ।

सोदाहरण - वि सोदाहरण, मिसाल के साथ, तमसीली ।

सोदेगिरी - छी [दे 'सोदा'] शुहदापन, गुडई, बदमाशी ।

सोद्या - दे 'सोदा' ।

सोधणें - क्रि स छानना ।

सोधनें - न साफ़ी, रमोई मे हाथ पोछने का कपडा । २ पोछना । ३ छानने का कपडा ।

सोन - सोन, 'सोने' का समासगत रूप । - कावळा - पु. भारद्वाज (पक्षी) । - किडा - पु. जुगनू । - केळें - न सोनकेला, चपाकेला । - खत - न मनुष्य के मँले की खाद । - चाफा - पु. सोनचपा, कनक चपा । - टक्का - पु. पीले रंग का एक फूल और उस का पौधा । - सळा - ली - वि १ पीला । २. पीली धारियो वाला (रेगम का कपडा) ।

सोनामुखी - छी १ मोना-मखी, सोनामाखी । २ सनाय, सोनामुखी ।

सोनार - पु सुनार, स्वर्ण-कार । कहा० सोनार शिपी कुलकर्णी आप्पा याची संगत नको रे वाप्पा - ईश्वर करें और सुनार, दर्जी तथा पटवारी से वास्ता न पडे । [(सुनार का काम) ।

सोनारकी - छी मुनारी सोनारीण - छी मुनारी (मुनार की स्त्री) ।

सोनुला - वि प्यारा, लाडला, दुलारा ।

सोनें - न १ मोना; स्वर्ण; मुवर्ण, कचन । २ दशहरे के दिन बाँटे जाने वाले कचनार के पत्ते । - नाणे - न सोना-चाँदी; माल, धन, दौलत, सपत्ति । मु० - होणें - अच्छी मृत्यु पाना; मृत्यु के बाद अच्छी स्थिति पाना । सोन्याचा घूर निघणें; सोन्याचा पाऊस पडणे - कचन बरसना, बहुत धनी होना ।

सोनेरी - वि मुनहरा, सुनहला, सोने के रंग का ।

सोप, सोपट - न [क. 'सोपे'] केले के पेड की छाल ।

सोपणे, सोपविणे - दे 'सोपणे', 'मोपविणे' ।

सोपस्कार - पु १ सस्कार । २. उपचार, उपाय । ३ सजावट; ठाट - वाट । ४ सावधानी ।

सोपा - वि आसान, सरल, सहज, सह्य, सुगम ।

सोपा - पु [अ 'सुफ' ] पीरी, बरामदा, मायवान ।

सोपान - पु. सोपान, सीढी । सोवत - छी [अ 'सुहवत' ] १ सोहवत, सुहवत, साथ, सगत । २ मित्रता । - अव्य साथ ।

सोवती - पु. [दे. 'सोवत' ] सुहवती, साथी, सगी, दोस्त;

संगाती, मघाती ।

सोमट - वि कुनकुना, कुछ गरम ।

सोमल - पु सखिया ।

सोम्यागोम्या - पु ऐरागैरा नत्यू खैरा ।

सोय - छी १. सुविवा, सह-लियत; सुभीता, सहलत । २. प्रवच, व्यवस्था । ३ सावन; उपाय । ४ मरलना, मृगमता । मु० - करणे, - लावणे - प्रवच करना । - होणे - १. प्रवच होना । २. मुविवा होना ।

सोयरा - पु १. ममघी, विवाह सवध से बना रिश्तेदार । २ सत्रघी, नातेदार । ३ यार । - घायरा - पु १ रिश्तेदार; नातेदार । २ स्नेही, मित्र । [मंगनी, मगाई ।

सोयरीक - छी विवाह-सवध, सोयस्कर - दे 'सोइस्कर' ।

सोरा - पु [फा 'शोर' ] शोरा, श्वेत क्षार ।

सोरा - म्या - पु [क 'सोर'] वेमन के सेव बनाने का लकडी का उपकरण ।

सोल - पु १ मोटा और मज-वूत रस्ता । २ दे 'अमसूल' ।

सोलणें - क्रि स [क 'सुलि'] १ छीलना, छोलना । २ उबेडना ।

सोलाणा - पु [क 'सुलि'] होला; वूट ।

सोलीव - वि [क 'सुलि'] १ छीला हुआ, साफ, चिकना । २ चट, घूर्त ।

सोवळा; सोवळें, सोवळेकरी - दे 'सोवळा', 'सोवळें'; 'सोवळेकरी' ।

सोशीक - वि सहिष्णु, सहन-शील । - पण - पु. सहिष्णुता, सहनशीलता, तितिक्षा, तहम्मूल ।

सोस - पु १ हवस, लालच ।  
२ प्यास, गला सूख जाना । ३  
सहनशीलता, तितिक्षा । मु० -  
करणे - लालच करना । - पडणे -  
गला सूख जाना; बहुत प्यास  
लगना ।

सोसणे - क्रि स सहना,  
वर्दाश्त करना ।

सोसाटा - पु आँधी, तेज  
हवा । सोसाट्याचा वारा - पु  
तेज हवा; साँय साँय करती हवा ।

सोहाळा; सोहाळा - पु उत्सव,  
समारोह, मौज, ठाटवाट ।

सोळभोंक - वि १ आवारा,  
गुडा, वदमाथ । २ उजड्ड ।

सोळा - वि सोलह, १६ ।  
- आणे - अव्य. सोलहो आने,  
विलकुल, पूर्णत । - शृंगार -  
पु बहु सोलह सिंगार ।

सौगडी - पु सगी, साथी ।  
दे 'सवगडी' । [ खूबसूरती ।

सौंदर्य - न सौंदर्य; सुंदरता,  
सौ० - 'सौभाग्यवती' का

सक्षिप्त रूप [ रता, आसानी ।

सौकर्य - न सौकर्य, सुक-  
सौख्य - न सौख्य, सुख,

सतोप, आनंद, कल्याण, खुश-  
हाली, खुशी ।

सौजन्य - न १ सौजन्य,  
मुजनता, सज्जनता, शराफत,

मलमनसी, उदारशायता । २.  
विनय, नम्रता ।

सौदा - पु [ फा ] सौदा;  
खरीद-बेची, वाणिज्य; क्रय-

विक्रय, सौदा-सुलुफ; क्रय-विक्रय  
की वस्तु, माल । - गर, - गौर -  
पु सौदा गर, व्यापारी ।

सौभाग्य - न १ सौभाग्य,  
खुशकिस्मती । २ सुहाग, अहि-

वात, सिद्धर । - वती - स्त्री १

सौभाग्यवती, सधवा, सुहागिन ।  
२ पत्नी; घरवाली ।

सौम्य - वि सौम्य, मृदुल,  
कोमल, शांत, नरम ।

सौष्ठव - न सौष्ठव, सुद-  
रता, उत्तमता, सुडौलपन ।

सौहार्द - न सौहार्द, सद्-  
भाव, स्नेह, मैत्री । [ कश ।

स्कूड्रायव्हर - पु [ अ ] पेच-  
खलन - न १ खलन,

पतन । २ भूल, गलती । ३  
वीर्यपात, वीर्य का क्षरण, शुक-  
पात ।

स्तभ - पु १ स्तभ, खम्भा ।  
गतिहीनता, जडता । ३ रोक,

वाधा, दमन, नियंत्रण । ४  
'कालम', स्तभ ।

स्तभक - वि स्तभक, रोकने  
वाला, वीर्य को रोकने वाला ।

स्तभन - न १ स्तभन,  
रोकना, जडीकरण । २ रक्त, वीर्य

आदि का स्राव आदि रोकना । ३  
वीर्य को रोकने वाली दवा ।

स्तमित - वि १ स्तमित,  
जडीभूत, स्तब्ध । २ हक्कावक्का

हैरान, भौचक, भौचक्का । मु०  
- होणे - हैरान होना, भौचक्का

रह जाना, सकते मे आना ।

स्तन - न पु १ स्तन, कुच ।  
२. थन । ३ डेपनी, चूचुक,

स्तनाग्र, डेप । मु० - देणे - स्तन-  
पान कराना, स्तन का दूध पिलाना ।

रत्नव - वि १ स्तब्ध, जडी-  
भूत, स्थिर । २ वृद्ध, कडा ।

३ चकित, हक्कावक्का । ४ चुप ।

स्तब्धता - स्त्री १ स्तब्धता,  
जडता, स्थिरता, निश्चेष्टता ।

३ सत्राटा, सकता । [ सतह ।  
स्तर - पु स्तर, तह, परत,

स्तव - अव्य. (के) लिए,

(के) कारण; (के)वास्ते, (की)  
वजह से । - पु. स्तव, स्तुति,  
प्रशंसा, बखान ।

स्तवन - न स्तवन, स्तुति  
करना, प्रशंसा, स्तोत्र, बखान ।

स्तमित - वि १. स्तमित,  
स्थिर, निश्चेष्ट, शांत । २

चकित; चकराया हुआ, भौचक ।

स्तुति - स्त्री स्तुति, प्रशंसा;  
सराहना, तारीफ, बडाई,

गुणगान, चाटुकारिता । मु० -  
करणे - सराहना, प्रशंसा करना ।

स्तुत्य - वि स्तुत्य, प्रशंसनीय,  
श्लाघ्य, काविले तारीफ ।

स्तोम - न १ स्तोम, गुणगान ।  
२ डेर, समूह, बडी राशि ।

३ झूठी स्तुति, बडाई, चापलूसी ।  
मु० - माजविणे - आवश्यकता

से अधिक महत्त्व देना, अत्यधिक  
प्रशंसा करना, तारीफ के पुल  
वाँधना ।

स्त्री - स्त्री १ स्त्री, औरत,  
मादा(पशु) । २ पत्नी । ३ नारी,

महिला । - केसर - पु स्त्रीकेसर,  
गर्भकेश(स)र । - चरित्र - न

स्त्री चरित्र, तिरिया चरित्तर,  
स्त्री-की पुरुष को ठगने या बेवकूफ

वनाने की चतुराई । - दाक्षिण्य -  
न स्त्रियो के प्रति विशेष सम्यता

का बरताव । - घन - न स्त्री -  
घन, कन्यावन (वह घन या

सपत्ति जिस पर स्त्री का ही अधि-  
कार हो) । - धर्म - पु १ स्त्री-

धर्म, स्त्रियो का कर्तव्य । २ रज -  
स्त्राव, मासिक धर्म । - सग - पु

स्त्रीसग, सभोग, मैथुन ।

स्त्रैण - वि १ स्त्रैण, नारी-  
सुलभ । २ स्त्री द्वारा शासित,  
जनमुरीद ।

स्यङ्गिल - न स्यङ्गिल; यज्ञ के

लिए माफ और चौरस की हुई चौकोर ज़मीन, वेदी।

स्थल - न १ स्थल, जगह, ठिकाना, स्थान। २ धरती। ३ विवाह योग्य कन्या के लिए योग्य वर। - चर - वि स्थलचर, ज़मीन पर रहने वाला (प्राणी)। - मार्ग - पु. स्थलमार्ग, खुशकी रास्ता।

स्थलातर - न स्थलातर; स्थानातरण, विस्थापन, हिजरत। स्थलातरित - वि विस्थापित, मुहाजिर।

स्थल - दे 'स्थल'। स्थान - न १ स्थान, जगह, स्थल। २ पद, ओहदा। - बद्ध - वि नज़रबंद, निरुद्ध, राजबंदी। - बद्धता - स्त्री नज़रबंदी, कारानिरोध।

स्थानक - न १ स्थानक; मंदिर। २ अहडा, रेल्वेस्टेशन, वसस्टैंड।

स्थानिक - वि स्थानिक, स्थानीय, मुकामी। - स्वराज्य - न स्थानीय स्वशासन, स्थानिक स्वायत्त शासन। - संस्था - स्त्री स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय।

स्थापणें - क्रि स १ स्थापित करना, बुनियाद, नींव डालना, बनाना, (का) निर्माण करना, खड़ा करना। २ रखना, जमाना। ३ सिद्ध करना, मावित, प्रामाणित करना।

स्थापना - स्त्री १ स्थापना, नियुक्ति, निर्माण, स्थापित करना। २ नींव डालना। ३. प्राणप्रतिष्ठा (मूर्तिकी)।

स्थायिक, स्थायीक - वि स्थायिक, टिकनेवाला, स्थायी,

कायम रहने वाला, निवामी।

स्थावर - वि स्थावर, अचल, गैरमनकूला। - इस्टेट, - मिळकत, - संपत्ति - स्त्री अचल संपत्ति, जायदादे गैरमनकूला।

स्थितप्रज्ञ - वि स्थितप्रज्ञ, जो सयमी, आत्ममनुष्य, धीर, स्थिर-बुद्धि और निष्काम हो।

स्थिति, स्थिती - स्त्री स्थिति; अवस्था, हालत। - स्थापक - वि स्थितिस्थापक, लचीला, लचकदार। - स्थापकत्व - न स्थितिस्थापकत्व, लचीनापन।

स्थिर - वि १ स्थिर, अचल, स्थायी। २ शांत, धीर। ३ कृत-नकल्प। - स्थावर - न शांति, अमन। - वि ठीक; व्यवस्थित; शांत।

स्थिरावणे - क्रि अ १ स्थिर होना, रुक जाना। २ मंभलना, मुधरना। ३ आराम करना।

स्थूल - वि स्थूल, मोटा, पीन, बड़ा, घना। २. मदबुद्धि, सुस्त। - मानार्थ - अव्य. स्थूल रूप में, मोटे तौर पर, साधारण रूप से।

स्थैर्य - न १ स्थैर्य, स्थिरता, स्थायित्व। २ दृढ़ता, मजबूती।

स्नातक - पु स्नानक, उपाधि-धारी।

स्नान - न स्नान, नहाना, गुस्ल। - गृह - न स्नानगृह, स्नानघर, स्नानागार; गुस्लखाना। - सध्या - स्त्री पूजापाठ। मु० - करणें स्नान करना, नहाना। - घालणें - स्नान कराना, नहलाना।

स्नायु - पु स्नायु, पट्टा। स्निग्ध - वि १. स्निग्ध; चिकना, लसदार। २ स्नेहयुक्त, मृदुल। [पुत्रवधू। स्नुपा - स्त्री स्नुपा, वहू;

स्नेह - पु १ स्नेह, मित्रता, दोस्ती। २ प्रेम, मुहुव्वत। ३. तेल, मलाई आदि चिकने पदार्थ। ४ स्निग्धता, चिकनाहट, चिकनापन। - सम्मेलन - स. स्नेह-सम्मेलन; प्रीतिनम्मेलन।

स्नेहाकित - वि स्नेही, मित्र (पत्र के अंत में लिखा जाने वाला शब्द)।

स्नेही - पु स्नेही, मित्र, दोस्त। [पर मलने का रोगन]।

स्नो - पु [अ] 'स्नो' (मुंह-स्पज - पु [अ] स्पज, डम्पज, मुरदावादल।

स्पर्धा - स्त्री १. स्पर्धा, स्पर्द्धा, होट, प्रतियोगिता, चडा-ऊपरी। २ ईर्ष्या, मत्सह, डाह।

स्पर्श - पु १. स्पर्श; छूना। २ सपर्क, लगाव। ३ छूत। - मणि - स्पर्शमणि, पारस-पत्थर। [छूना, हाथ लगाना।

स्पर्शणें - क्रि स स्पर्श करना, स्पर्शास्पर्श - पु स्पर्शस्पर्श, छूतछात, छुमाछूत।

स्पष्ट - वि १ स्पष्ट, साफ, प्रत्यक्ष, बोधगम्य। २ सरल, सीधा। - अव्य साफ़-माफ।

- नकार - पु साफ़ इनकार, कोरा जवाब। - वक्ता - वि स्पष्टवक्ता, स्पष्टवादी, साफ़-गो। - वक्तेपणा - पु स्पष्ट-वादिता, साफगोई, दो टूक बात करना। [विवरण, सफाई]।

स्पष्टीकरण - न स्पष्टीकरण, स्पिरिट - न. [अ] स्पिरिट, स्प्रिट, सुरामार।

स्पृश्य - वि. स्पृश्य, छूने-लायक। - पु सवर्ण, त्रैवर्णिक। स्पृहणीय - वि स्पृहणीय, श्लाघ्य, अभिलषणीय।

स्पेशालिस्ट - पु [अ] विशेषज्ञ, 'स्पेशलिस्ट'।

स्प्रिंग - स्त्री [अ] बालकमानी, स्प्रिंग; कमानी।

स्फटिक - पु १. स्फटिक, विल्लौर। २. सूर्यकातमणि।

स्फुटणें - क्रि अ. सिसकना; सिसकी भरना।

स्फुदन - न सिसकी।

स्फुट - वि १ स्फुट, खिला हुआ। २ व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट। ३ फुटकर। - रचना - स्त्री मुक्तक।

स्फुरण - न १ स्फुरण, कांपना; फडकना। २ मन में एकाएक आना, अचानक याद आना। ३ जोश; आवेश।

स्फुरणें - क्रि अ स्फुरण होना, स्फुरित होना, भान होना, सूझना। दे 'स्फुरण'।

स्फुल्लिग; स्फुल्लिग - पु स्फुल्लिग, चिनगारी; अग्निकण।

स्फूर्ति - स्त्री १ स्फूर्ति; काव्य की प्रेरणा। २ मानसिक आवेश, उत्तेजना, जोश। दे 'स्फुरण'।

स्फोट - पु १ स्फोट, फूटकर निकलना, किसी बात का प्रकट हो जाना। २ विस्फोट, धमाका। ३ फोडा।

स्फोटक - वि स्फोटक; फट पड़ने वाला, विस्फोटक; उत्स्फोटक, शीघ्र दाह्य।

स्मरण - न स्मरण, स्मृति; स्मृतिशक्ति, याद। - पत्र - न स्मरणपत्र, याददास्त। - वही - स्त्री स्मरणवही। - शक्ति - स्त्री स्मरणशक्ति।

स्मरणी - स्त्री स्मरणी, सुमिरनी (जप करने की माला)।

स्मरणें - क्रि स १ स्मरण करना; रखना; याद करना, रखना; न भूलना। २ रटना। ३ कृतज्ञता रखना।

स्मशान - न श्मशान, मरघट, प्रेतभूमि, मसान; कब्रिस्तान। - यात्रा - स्त्री जनाजा। - वैराग्य - न श्मशान-वैराग्य; क्षणिक, अस्थायी वैराग्य। - शातता - स्त्री सन्नाटा, गहरी खामोशी। [गार।

स्मारक - न स्मारक, यादस्मित - न स्मित; मद हास्य; मुसकान। मु० - करणें - मुसकाना, मुस्कराना।

स्मृति - स्त्री १ स्मृति, धर्मशास्त्र। २ दे 'स्मरण'। - भ्रश - पु स्मृतिभ्रश, याद न रहने की बीमारी।

स्त्रणें - क्रि अ बहना; चूना, टपकना, रसना, रिसना।

स्त्राव - पु १ स्त्राव, बहाव, रिसना। २ गर्भपात।

स्रोत - पु स्रोत, धारा; सोता। स्लीपर, स्लीपड - पु [अ] १ स्लीपर, चट्टी; एडी की ओर खुली हुई जोती। २ लकड़ी का चौकोर लंबा टुकड़ा (जो रेल की पटरियों के नीचे विछता है)।

स्वकपोलकल्पित - वि मनगढ़त, मनघडत, कल्पित, खयाली।

स्वकप्टार्जित - वि १ स्वोपार्जित, स्वप्राप्त, स्वार्जित अपने परिश्रम से प्राप्त किया हुआ। २ गाढे की, गाढे पसीने की (कमाई)।

स्वगत - वि स्वगत, अपने प्रति कथित। - न स्वगत कथन। - अव्य. स्वगत, आप ही आप, अपने से (कहना)।

स्वच्छदी - वि स्वच्छद, मन-

मौजी, अनियंत्रित; स्वेच्छाचारी, लहरी, तरंगी।

स्वच्छ - वि स्वच्छ; साफ, निश्च्छल; स्पष्ट, निर्मल। - अव्य. साफ-साफ। - पणा - पु स्वच्छता, सफाई, निर्मलता।

स्वतंत्र - वि १ स्वतंत्र, स्वाधीन, आजाद। २ अलग; पृथक्। ३ दे 'स्वच्छदी'।

स्वतंत्रता - स्त्री स्वतंत्रता; स्वाधीनता, आजादी।

स्वतः, स्वता - अव्य. स्वतः, स्वय, खुद, आप, अपने आप; अपने तई, अकेले। - पु. पति (स्त्रि०)।

स्वदस्तूर - न [स. 'स्व' + फा 'दस्तूर'] १. (अपने) दस्तखत, हस्ताक्षर। २ अपने हाथ से लिखा हुआ मजमून।

स्वदेश - पु. स्वदेश, मातृभूमि, वतन।

स्वनातीत - वि आवाज से तेजरफतार (विमान)।

स्वप्न - न स्वप्न, सपना; ख्वाव। मु० - पडणें - सपना आना, सपना, ख्वाव देखना।

स्वप्नावस्था - स्त्री १ स्वप्नदोष (स्वप्नावस्था में होने वाला शुक्रपात)। २. स्वप्नावस्था।

स्वभाव - पु. १ स्वभाव, आदत। २ प्रकृति। - त. - अव्य. स्वभावतः, स्वभाव से ही; प्रकृतितः; स्वाभाविक रूप से।

स्वय - अव्य. स्वय; स्वयम्, खुद, आप, स्वतः, अकेले, अपने आप। - निर्णय - पु आत्मनिर्णय। - पाक - पु. १ अपना भोजन स्वयं बनाना। २ रसोई, भोजन, खाना, (मु० - ० करणें - रांधना, खाना



पकाना, रसोई बनाना) ।  
 - ०घर - न रसोईघर;  
 चौका । - पाकी - पु. १ रसो-  
 ड्या । २ स्वयंपाकी, अपना  
 भोजन स्वयं बनाने वाला । - भू -  
 वि स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ  
 हो । - वर - न पु. स्वयंवर ।  
 - सेवक - स्वयंसेवक, वालं-  
 टियर, रजाकार । [ अपने आप ।  
 स्वयं - ४ अव्यय स्वयं, खुद,  
 स्वर - पु. १. स्वर, आवाज;  
 मुर, कठप्पनि । २. स्वर-वर्ण  
 (व्या) । मु० - देणें - स्वर  
 भरना, स्वर मिलावना ।

स्वराज्य - न स्वराज्य;  
 म्बराज, आजादी, स्वाधीनता ।  
 स्वरूप - न १ स्वरूप,  
 अपनी आकृति । २ रूप, नूरत,  
 टाँचा, प्रकार । ३ दे 'सौंदर्य' ।  
 - वान - वि स्वरूपवान्,  
 सुंदर ।  
 स्वर्ग - पु. स्वर्ग, देवलोक,  
 वहिष्ठ । - वासी - वि स्वर्ग-  
 वासी, मृत, मर्हूम । ( मु० -  
 ० हौणें - परलोक सिवारना;  
 मरना) । मु० - दोन वोटें  
 उरणें - घमड से फूलना; आँखों  
 में चरवी छाना, धरती पर पाँव  
 न रखना । कहा० स्वत. मेल्या-  
 वाचून स्वर्ग दिसत नाहीं -  
 अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीखता ।  
 स्वर्गान हात पोंचणे - बहुत बडा  
 लक्ष्य सिद्ध होना ।

स्वर्ण - दे 'सुवर्ण' ।  
 स्वल्प - वि स्वल्प, बहुत  
 थोडा; अत्यल्प; तनिक । - विराम  
 - पु. अल्पविराम, लघुविराम,  
 'कामा' ।  
 स्वस्त - वि १ सस्ता । २  
 मामत्री, घटिया । ३ आमानी से

मिलने वाला । मु० स्वस्तात  
 पडणे - १ सस्ते छूटना । २ सस्ता  
 मिलना । [पन, मदी ।  
 स्वस्ताई - छी सस्ती; सस्ता-  
 स्वस्तिक - न स्वस्तिक (एक  
 मंगलचिह्न), सथिया ।  
 स्वस्थ - वि १ चुपचाप;  
 वेकार । २ स्वस्थ, सतुष्ट,  
 सुखी । [सुख ।  
 स्वस्थता - छी शांति, अमन;  
 स्वाक्षरी - छी स्वाक्षर;  
 हस्ताक्षर; दस्तखत, सही ।  
 स्वागत - न स्वागत, अग-  
 वानी, इस्तिक्रवाल । - समिति -  
 छी स्वागतसमिति, स्वागत-  
 कारिणी समिति ।  
 स्वातंत्र्य - न स्वातंत्र्य;  
 स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आजादी ।  
 - दिन - पु. स्वाधीनता दिवस,  
 योमे आजादी । - संग्राम - पु.  
 स्वातंत्र्य-संग्राम, जगे आजादी ।  
 स्वाद - पु. स्वाद; जायका;  
 लज्जत, मजा ।  
 स्वादिष्ट - वि स्वादिष्ट;  
 लजीज, जायकेदार ।  
 स्वाधीन - वि १ अधीन;  
 तावेदार, बशवर्ती । २ स्वाधीन,  
 स्वतंत्र, आजाद । - अव्यय हवाले ।  
 स्वाभाविक - वि स्वाभाविक,  
 प्राकृतिक, कुदरती ।  
 स्वाभिमान - पु. स्वाभिमान;  
 गर्व; आत्मसम्मान, खुदारी ।  
 स्वाभिमानी - वि मानी,  
 खुददार, आत्मसम्मानी ।  
 स्वामित्व - न १ स्वामित्व;  
 प्रभुत्व, मालिकी । २ अविकार-  
 शुल्क, 'रायल्टी' ।  
 स्वामिनिष्ठ, स्वामिभक्त -  
 वि स्वामिभक्त, वफादार ।  
 स्वामी - पु. १ स्वामी,

मालिक, प्रभु । २ पति; गाँहर ।  
 ३ पुरोहित । ४ आचार्य,  
 सन्यासी ।  
 स्वायत्त - वि स्वायत्त, जो  
 अपने ही अधीन हो; स्वाधीन ।  
 सवार - पु. [फा. 'सवार']  
 सवार, अग्वारोही । - वि सवार,  
 आरुड ।  
 सवारस्य - न सवारस्य, मजा,  
 मिठास, दिलचस्पी, खूबी ।  
 सवारी - छी [फा. 'सवार']  
 १ नवारी, सवार । २ आक्र-  
 मण, धावा; हमला । ३ वाहन ।  
 ४. जुलूस । ५. कुश्तीका एक पेत्र ।  
 ६ बडा आदमी । ७ हम, अपने  
 राम । ८ पति (स्त्रि०) । ९  
 फेरी; चक्कर । १२ गाडी का  
 छत; टप । मु० - करणे -  
 धावा बोलना, हमला करना । -  
 भरणे - सवारी कमना, गाँठना ।  
 स्वार्थ - पु. स्वार्थ; अपना  
 मतलब, खुदगर्जनी, गरज,  
 प्रयोजन, लाभ । - त्याग - पु.  
 स्वार्थत्याग, ईसार । - त्यागी -  
 वि स्वार्थत्यागी । - परायण -  
 वि स्वार्थपरायण, स्वार्थी,  
 खुदगर्ज । मु० - साधणें - अपना  
 मतलब निकालना, स्वार्थसाधन  
 करना, अपनी गरज पूरी करना ।  
 स्वार्थी - वि स्वार्थी, खुद-  
 गरज ।  
 स्वावलंबन - न. स्वावलंबन,  
 स्वाश्रय, खुदकफ़ालत; आत्म-  
 निर्भरता ।  
 स्वास्थ्य - न स्वस्थता,  
 शांति, खुशहाली, सुविधा ।  
 स्वाहा - अव्यय. स्वाहा (हवि-  
 दान के समय उच्चारण किया जाने  
 वाला एक शब्द) । मु० - करणें -  
 १ स्वाहा करना, फूँक डालना,

नष्ट कर देना । २ खा जाना; हृष्य करना ।

स्वीकार - पु. १ स्वीकार, अगीकार । २. मानना; कबूल करना ।

स्वीकारणें - क्रि स १ स्वीकार करना; ग्रहण, अगीकार करना । २. मानना, कबूल करना । ३ सकारना (हृडी) ।

स्वीकृत - वि स्वीकृत; माना हुआ; स्वीकार किया हुआ; वादा

किया हुआ; मजूर ।

स्वीकृति - स्त्री स्वीकृति; मजुरी; स्वीकार ।

स्वेच्छा - स्त्री स्वेच्छा, अपनी इच्छा; मरजी ।

स्वेच्छाचार - पु स्वेच्छाचार; मनमाना आचरण, मनमानी, निरकुशता ।

स्वेच्छाचारी - वि स्वेच्छाचारी; यथेच्छाचारी; निरकुश ।

स्वैपाक; स्वैपाकघर, स्वैपाकी - दे. 'स्वयपाक',

'स्वयपाकघर'; 'स्वयपाकी' ।

स्वैर - वि स्वैर, मनमाना आचरण करने वाला, आवारा, निरकुश, मुक्त ।

स्वैराचार - पु स्वैराचार; स्वेच्छाचार; स्वच्छदता; मनमानी, आवारगी; बदचलनी ।

स्वैराचारी - वि स्वैराचारी; स्वेच्छाचारी, निरकुश; आवारा; बदचलन ।

स्वैरिणी - स्त्री स्वैरिणी, कुलटा, बदचाल औरत ।

## ह

ह - मराठी वर्णमाला का तैतीसवाँ वर्ण ।

ह - अव्य. हाँ, जी हाँ; जी, फिर, ऐं, न, ना ।

हगाम - पु. [फा] १. हगाम; मौसिम; ऋतु । २ फसल काटने का समय । ३. उपयुक्त समय ।

हगामा - पु. [फा 'हगाम'] हगामा; हल्लड; हल्लागुल्ला; मारपीट, हलचल, उपद्रव ।

हगामो - वि [फा.] १. अस्थायी, आरिजी; सामयिक । २ अतरिम (इटेरिम) ।

हजी - अव्य. स्त्री हाँ जी; चापलूसी, खुशामद । मु० - हंजी करणें - हाँ जी हाँ जी करना; चापलूसी करना, खुशामद करना ।

हटर - पु. [अ] हटर, कोडा; चाबुक । मु० - लगावणें - हटर जमाना, लगाना, मारना । [रहनेवाला । २ हिजडा ।

हडगा - पु. वि १ औरतो से हँडविल - न [अ.] हँडविल, पर्चा; नोटिस; छोटा इस्तहार ।

हडा - पु. हडा; बडी हडी ।

हडी - स्त्री १ हँडी, हँडिया, हाँडी । २ लटकने वाला दीया ।

- झुवर - न झाडफानूस । - मडकीं; हडीं मडकीं - न. बहु. छोटे-मोटे वर्तन, रसोई के वर्तन ।

हडीवाग - पु. १. मदारी; जादूगर आदि का महयोगी छोकरा, लौंडा । २. चालाक, होशियार लडका । ३ परान्नभोजी आदमी, मुफ्तखोर ।

हडें - न हडी, हँडिया । - भांडें; - मडकें - न दे 'हडी-मडकी ।' [ 'अथरूण' ।

हतरणें, हतरूण - दे 'अथरणें'; हबरडा - पु. १ रँभाना, हवा, हभा; राँभना, वँवाना । २ दहाड, चीख ।

हबरणे - क्रि अ रँभाना, राँभना; वँवाना, बोलना, चिल्लाना (गाय; वैल, भँस आदि का) ।

हबीर - पु. [अ 'अमीर'] सरदार, बडा अमीर ।

हशा - पु. हँसी; कहकहा, ठहाका, अट्टहास । मु० - पिकर्णें

कहकहा लगना; हँसी छूटना, सब का खिलखिला कर हँस पडना ।

हशी - स्त्री १. हँसी; कहकहा । २ मजाक; दिल्लगी । - खुशी - स्त्री खुशी, प्रसन्नता ।

हशील - न [अ. 'हासिल'] १ हासिल; लाभ, फायदा । २. डाकखर्च, डाकव्यय; प्रेषशुल्क । ३ मूल्य, दाम । २ किराया । - वि प्राप्त ।

हस - पु. १. हस (जलपक्षी) । २ जीवात्मा । - क्षीरन्याय, विवेक पु हस-क्षीरन्याय; दूध का दूध पानी का पानी करना । - गामिनी स्त्री हसगामिनी, हस की - सी गति वाली स्त्री । - पद - न काकपद ।

हसडणे - क्रि स. १ झटके से खीचना, झटका देना २ फटकारना, डाँटना । ३ लूटना, हडपना । [ २. डाँट, फटकार ।

हसडा - पु. १. झटका, घचका ।

हसर्णें - क्रि अ. स १ हँसना, मुसकराना, प्रसन्न होना, खिलखिलाना । २ हँसी उडाना,

मजाक करना, उपहाम करना ।  
मु०—हंमप्यावारीं नेणे—हंमी मे उडा देना, हंस कर वान उडाना, हंमी में टालना । हसतां हंसतां, हंसून हंसून मुरकुडी वळणें—हंसते हंसते पेट मे बल पड जाना; हंसते हंसते लोट जाना, लोटपोट होना । क्हा०—हसतील त्याचे दांत दिसतील—जो हंसेगे उनके दांत दिखाई देंगे (अर्थात् हमें उमकी परवाह नहीं है) ।

हसतमुख—वि हंसमुख, प्रफुल्लवदन, खुशमिजाज ।

हंसरा—वि हंसमुख, खिला हुआ (मुख), हंसोड ।

हंसविणे—क्रि स हंसाना, खुश करना ।

हंसळी—स्त्री ? हमली, हसुली (गले का एक गहना) । २ हंसली; गले के नीचे की एक हड्डी । ३. कँठला । ४ गरदनी ।

हंसी—स्त्री हंमी, मादा हम ।

हंसू—न ? हंसी, हम, मुस्कराहट । २ मजाक, दिल्लगी, उपहाम, बदनामी । मु०—येणें—हंमी बाना, हंमी छूटना ।

हंसें—न ? हंमी, मुस्कराहट २ हंसाई, ठट्ठा, बदनामी, उपहास, मजाक, मजहका । मु०—होणें—हंसी उडना ।

हकनाक—अव्य. [ अ फा. 'हक'—'नाहक' ] हकनाहक, नाहक, बेकार, व्यर्थ; जवदंस्ती ।  
हकलणें, हकाटी—दे 'हाकलणे', 'हंकाटी' ।

हकारणें—क्रि स ? प्रस्थान करना, यात्रा आरंभ करना । २. पाल खटा करना; पाल फहराना । ३ नौका आदि चलाना शुरू करना । ४ दीडाना; भगाना । ५ पुका-

रना, हांकना, हांक लगाना ।

हकालणे—क्रि स. निकाल वाहर करना, भगा देना ।

हकालपट्टी—स्त्री निकाला, निर्वािनन । मु०—करणे—निकाल देना, निकाल वाहर करना ।

हकिकत, हकीकत, हकीगत—स्त्री [ अ 'हकीकत' ] १ खबर; बात, समाचार, हाल । २ घटना; विवरण ।

हक्क—पु [ अ 'हक' ] ? हक, अधिकार, स्वत्व, दावा । २ स्वामित्व का अधिकार, फसल में हिस्सा ।—दार—वि हकदार, अधिकारी ।—भग—पु मर्यादा-भग, विशेषाधिकार—भंग ।—भगाचा ठराव—पु मर्यादा-प्रस्ताव । हक्काचें घर—न पति का घर । हक्काचें माणूस—न ? धर्मपत्नी । २ पति ।

हगंदारी—स्त्री वंपुलिन, हगन-हटी, वह स्थान जहाँ गाँव के लोक टूट्टी फिरने जाते हैं ।

हगणें—क्रि अ ? हगना, टूट्टी फिरना, शौच करना । २ धमकी, डर, दवावके कारण विवय हो कर किमीको कोई चीज दे देना । ३ हग भरना, मारना, बहुत डर जाना । ४ वस्तु बहुत गदी कर देना । हगलें—मुतलें—न विलकुल मामूली बात; छोटी-मोटी बात ।

हगरा—वि. १ हगोटा, हगू, हगन । २ गदा । ३ डरपीक, कायर ।

हगवण—स्त्री वस्तु की चोरी, अतिसार ।

हगवणें, हगविणें—क्रि स ? हगाना, पाजाना फिराना । २ हगा लेना, जवरदंस्ती वसूल करना ।

हगूट—पु. १. हगाम, शौच जाने की इच्छा, पाखाने की हाजत । २ मल; विष्ठा ।—बद करणे—हगा मारना, बहुत परेशान करना ।

हजर—स्त्री [ अ 'हाजिर' ] १ हाजिर, उपस्थित, विद्यमान, मौजूद । २ दाखिल; प्रविष्ट ।—जवाव—पु हाजिरजवाबी, ममयकी मूझ ।—जवाबी—वि हाजिरजवाव, प्रत्युत्तरमति । मु०—करणें—हाजिर करना; पेश करना ।—होणें—हाजिर होना, आ पहुँचना ।

हजरी—स्त्री [ अ. 'हाजिर' ] १ हाजिरी, उपस्थिति, मौजूदगी । २ दे 'हजरी पत्रक' । पट—पु,—पत्रक—न उपस्थितिपत्री; हाजिरी रजिस्टर । मु०—घेणें—१. हाजिरी, उपस्थिति लेना । २ डाँटना, फटकारना, खरी-खरी सुनाना । [ हज्जाम; नाई, नापित ।

हजाम—पु [ अ 'हज्जाम' ]  
हजामत—स्त्री [ अ ] १ हजामत, वाज बनाना; बाल बनवाना, सिर मूँडना । २. दुर्दशा, डाँट-फटकार । मु०—करणें—१. हजामत बनाना, सिर मूँडना; बाल बनाना । २ डाँटना, फटकारना, आड़े हाथों लेना । ३ ठगना, लूटना ।

हजार—वि [ फा 'हजार' ] १. 'हजार' सहस्र । २ अनेक; अनगिनत ।

हजारा—पु [ फा 'हजार' ] १. हजारा, फव्वारा, फौवारा । २. हजारा (फूल) ।

हजारी—वि [ फा. 'हजारी' ] हजारी; हजारावाला, हजार मे मवय रखनेवाला ।—स्त्री ? हजारी, हजार आदमियों की

पलटन। ३ गाही जमाने का एक ओहदा। ४ हजार सूराखो वाला फव्वारा।

हजारो - वि [फा 'हजाराहा'] हजारो, सहस्रो, अनेक, बेहद, अनगिनत।

हजीर - वि दे 'हजर'।  
कहा० - हजीर तो वजीर - जो समय पर उपस्थित, मौजूद होगा उसी को लाम मिलेगा।

हजेरी - दे. 'हजरी'।

हट - दे 'हट्ट'।

हटकणें - क्रि स १. हट-कना, टोकना, वरजना, रोकना, मना करना। २ पुकारना, वुलाना।

हटकून - अव्य. १ जरूर, अवश्य ही। २ जानबूझ कर।

हटणे - क्रि अ १ हटना, खिसकना, सरकना, टलना, पीछे हटना। २ पदत्याग करना। ३ जी चुराना।

हटवादी - वि हठी, जिद्दी।

हटविणें - क्रि स १. हटाना, खिसकाना, सरकाना। २. खदेडना। ३ हराना। ४. पद, नौकरी से अलग करना। [साथ, हठ कर के।

हटातटाने - अव्य. जिद के हट्ट - पु हठ, जिद, वल

प्रयोग, इसरार, दुरायह, हठ-धर्मी, जबरदस्ती। मु० - करणें, - धरणें - हठ पकडना; हठ से पडना, जिद करना। हट्टास पेटणें - जिद पकडना, अड जाना।

हट्टानें - अव्य. हठपूर्वक, जव-दस्ती, जिद के साथ।

हट्टी - वि हठी, हठीला, जिद्दी, अडियल।

हट्ट - अव्य घत्, हट्ट।

हट्टकणें - क्रि अ १ विलकुल

सूख जाना। २ दुवराना, दुर्वल, कृश होना।

हडकुळा; हडक्या - वि दुबला-पतला, लकलक, मरियल, हडडियो-सा, सुखट्टा, सूखा हुआ।

हडप - + न १ गिरवी, रेहन, वधक। २ पानदान। - वि हडप, गायव; हजम।

हडसणें - क्रि स १ छीनना, झपटना, खीचना। २ जताना।

हडसून खडसून - अव्य ठोक-वजा कर, साफ-साफ। [भूतनी।

हडळ - स्त्री चुडैल, डायन, हडूक - न हड्डी, छोटी और सूखी हड्डी।

हड्डी - स्त्री हड्डी। मु० - नरम करणें - हड्डी-गुड्डी तोडना, बुरी तरह पीटना; कचू-मर निकालना, अजर-पजर ढीला करना।

हडघावणें, हडघान्नण - पु हड्डी तक पहुँचा हुआ जरम, नासूर।

हणगोवा - पु १ सुस्त, काहिल, बुद्ध, अनाडी आदमी, लठमार। २ दूसरो की सलाह पर चलने वाला व्यक्ति।

हणणें - दे 'हाणणें'।

हणमंत - पु हनुमान्।

हत - वि हत, मार डाला हुआ, धायल किया हुआ, पीटा हुआ। - बुद्ध - वि हतबुद्धि, धवडाया हुआ। (मु० - ०होणें - हक्का-वक्का हो जाना, चकरा जाना)। - भागो - वि हतभाग्य, अभाग्या, वदकिस्मत। - वीर्य - वि हतवीर्य, दुर्वल, कमजोर, नामर्द।

हतगा - दे 'हदगा'।

हताश - वि हताश, निराश,

मायूस।

हतोडा - पु हथोडा।

हतोडी - स्त्री हथोडी।

हतोत्साह - वि हतोत्साह, थका-माँदा, मायूस, निराश। मु० - होणे - हाथ-पाँव ढीले पडना, हाथ-पाँव फूलना।

हत् - अव्य घत्, छि.।

हत्ता - पु १ हत्या (दड करते समय हाथ के नीचे रखने का पत्थर या ईंट)। २ हाथ के पजे का चिह्न।

हत्ती - पु १ हाथी, फील, गज। २ शतरज का एक मोहरा, हाथी। - खाना - पु हाथी-खाना, हस्तिशाला, फीलखाना।

- चा चीत्कार - पु चिघाड।

- चा पाय - पु १ बहुत घनी एव उदार व्यक्ति। २ एक खेल।

- ची झूल - स्त्री गजगाह, पाखर। - चें मडे - न बडा

भारी और तकलीफदेह काम। - वरील तोफ - स्त्री गजनाल।

मु० - दारात झुलणें - हाथी बाँधना, बहुत सपत्तिशाली होना।

हत्तीण - स्त्री हथनी, हथिनी।

हत्त्या, हत्या - स्त्री १ हत्या, खून, वध। २ पाप, वखेडा, झगडा। ३ बहुत दुबला-पतला या बीमार व्यक्ति।

हत्त्या, हत्या - पु हत्या, हत्थी, दस्ता। २ चाभी, कुजी।

हत्याण<sup>+</sup> - न मस्ती (सभो-गेच्छा की प्रवलता-मादा पशु की) मु० - करणें, हत्याणास येणे - मस्ती पर आना।

हत्यार - न १ हथियार, अस्त्र-शस्त्र। २ औजार, उपकरण। - वद - वि हथियारवद,

सशस्त्र । मु० - उचलणें - हथियार उठाना, युद्ध के लिए प्रस्तुत होना ।  
- खाली ठेवणें - हथियार डालना, लडाई वद करना ।

हत्यारा - वि हत्यारा, खूनी ।  
हत्यारी - वि पु हथियारवद व्यक्ति, सशस्त्र सैनिक ।

हद - दे 'हद्' । [ (पुष्पवृक्ष) ।  
हदगा - पु अगस्त, वक  
हदगा - पु हस्त नक्षत्र मे खेला जाने वाला लडकियो का एक धार्मिक खेल ।

हदरणे - क्रि अ १ कांपना, थराना; लरजना । २ लडखडाना, डगमगाना, डांवाडोल होना ।

हदरा - पु घक्का, प्रकप; झटका, थरथराहट, वचका, झोका ।

हद् - छी [अ] १ हद, सीमा, किनारा, अत । २ औचित्य की सीमा, मर्यादा । ३ पराकाष्ठा; चरम सीमा, अंतिम सीमा ।  
- पार - वि निर्वासित, जलावतन । - पारी - छी निर्वासिन, जलावतनी, देसनिकाला ।

हनुवटी - छी हनु, ठुड्डी, ठोडी, ठोढी, चिबुक ।

हपका - दे 'हक्का' ।  
हपशी, हपसाण - दे 'हवशी', 'हवसाण' ।

हपाप - पु १ कोसाकाटी; गाप के रूप मे गाली । २ लालच । ३ जुल्म । कहा० हपापाचा माल गपापा - बुरे मार्ग से हासिल किया हुआ धन उसी प्रकार चला जाता है ।

हपापणें - क्रि अ १ ललचाना । २ उतावला होना ।

हपापलेला - वि लालची, ललचाया हुआ ।

हपटणें - दे 'आपटणे' ।

हपीस - न [अ 'ऑफिस']  
दफ्तर, कार्यालय ।

हपूस - पु. [पुर्त 'अल्फान्सो']  
एक बढिया कलमी आम ।

हप्ता - पु. [फा 'हप्त']  
किस्त, अश, भाग ।

हप्तेवदी - छी [दे 'हप्ता']  
किस्तवंदी, किस्त वांधना । - ने - अव्य किस्तवार ।

हक्कणे - क्रि अ १ वम से गिरना, घमकना । २ चिल्लाना । ३ डरना, सिटपिटाना, घबडाना ।  
- क्रि स १ झँझोडना । २ लूटना, हडपना ।

हक्का - पु. १ धक्का, झटका, घक्का । २ छपका, छपाका, छीटा । ३ नुकसान, घाटा ।

हवशी - पु [अ] हवशी, हवश का निवासी, नीग्रो ।

हवसाण - न [अ 'हवश']  
१ हवश, ईथियोपिया, अवीसी-निया । २ महाराष्ट्र मे दक्षिणी कोकण का एक भाग जिसपर हवशी राजा का अधिकार था ।

हवेलडी - छी [हिं 'अवे लौडी']  
घबडाहट, सिटपिटाना, दुगंत ।  
मु० - उडणे - सिट्टीगुम हो जाना, सिट्टी भूल जाना, सिटपिटा जाना ।

हम - वि [फा 'हम'; अ 'आम']  
सब, सर्व, समूचा, पूरा । - खास - अव्य यकीनन, निश्चित रूप से, निश्चय ही । - वि निश्चित, पक्का, यकीनी । - चौरस - वि वर्गाकार, चौकोर । - रस्ता - पु. राजमार्ग, आम रास्ता ।

हमरीतुमरी - छी [हिं]  
तू-तू मैं-मैं, बोल-ठोल, गाली-गलौज । मु० - वर येणे - तू-तू मैं-मैं करना, कहा-सुनी करना ।

हमामखाना - पु. [अ 'हम्माम' + फा 'खान']  
हम्माम, गुम्ल-खाना, स्नानागार ।

हमामा - पु. १ चरवाहो का एक खेल । २ धीगा-धीगी, ऊवम ।

हमाल - पु. [अ 'हम्माल']  
हम्माल, कुली, मजदूर, मोटिया ।

हमाली - छी [अ 'हम्माली']  
१ हम्माली, मजदूरी । २ कुली का काम । ३. केवल शरीरश्रम का काम जिसमे बुद्धि की आवश्यकता न हो ।

हमी - छी [अ 'हामी']  
१ हामी, जिम्मा, प्रतिभूति, प्रत्याभूति । २ विश्वास, यकीन ।  
मु० - घेणें १. जिम्मा लेना । २ विश्वास दिलाना । - देणें - हामी भरना, स्वीकार करना ।

हयगय - छी १ झुटि, लापरवाही, ढिलाई; उपेक्षा, आनाकानी । २ देर, विलव ।

हयात - छी [अ] १. हयात, जिदगी, जीवन । २ उम्र, आयु, वय । - वि जीवित; जिदा ।

हर - पु. हर, शिव । - वि हर, हरण करने वाला, दूर करने वाला ।

हर - वि [फा] हर; प्रत्येक, हरेक, हर कोई । - उपाधाने - अव्य. सभी प्रकार से, हर तरह से । - एक - वि हर-एक, हरेक, प्रत्येक । - काम्या - वि हरकारा, सभी प्रकार का काम करने वाला । - घडी - अव्य हरदम, हर वक्त, हमेशा । - हुन्नरी - वि हरफनमौला, हर एक फन जानने वाला, सभी कलाओ मे निपुण ।

हरक - न [अ ?] एक

प्रकार का सफेद कपडा, लट्ठा, मारकीन ।

हरकत - स्त्री [ अ ] १ हर्ज; उज्र, एतराज, आपत्ति । २ अडंगा, रोक; रुकावट । ३ विशिष्ट स्वरों की तान (सगीत) । मु० - घेणें - आपत्ति उठाना, एतराज करना ।

हरखणें - क्रि अ हरखना, प्रसन्न होना, खुश होना ।

हरण - पु न हरिण, हिरन, मृग । हरणाचें पिलू - न हरनौटा; मृगछोना ।

हरण - न १ हरण, छीन लेना, चुरा लेना, भगा ले जाना । २ नष्ट करना, नाश करना ।

हरणें - क्रि स १ हरना, हरण कर लेना, छीन लेना । २ दूर करना । - क्रि अ १ हारना । २ चूकना ।

हरताळ - पु १ हरताल (एक पीला खनिज द्रव्य) । २. हडताल । मु० - पडणें - हडताल होना । - पाडणें - हडताल करना । - फासणें - हरताल फेरना, लगाना, बिगाड देना, नष्ट करना ।

हरताळका - स्त्री हरतालिका, तीज, भाद्रपद शुक्ला तृतीया जिस दिन स्त्रियाँ तीज का पर्व मनाती हैं ।

हरदास - पु हरिदास, कथा-वाचक । हरदासी तट्टू - पु मरियल टट्टू ।

हरपणे - क्रि अ १ नष्ट होना, खो जाना, गुम होना । २ चल बसना । - क्रि अ गंवाना; खोना ।

हरबरा, हरभरा - पु चना । मु० हरभन्याच्या झाडा-

वर चढविणे - १ वांस पर चढाना । २ काँटो में घसीटना ।

हरवणें, हरविणें - क्रि अ गुम होना, खो जाना । - क्रि स खोना, गंवाना, गुम करना ।

हरवणे, हरविणे क्रि स हारना; शिकस्त देना ।

हर हर - अव्य हरे ! हरे ! राम ! राम ! कैसी बात करते हैं आप ! - महावेव - पु १ मुसलमानों के ' अल्ला हो अकबर ' जैसा मराठी का युद्ध-नारा । २ भोजन शुरू करने से पहले बोला जाने वाला शब्द । ३ सत्यानाश ।

हरळ, हरळी - स्त्री. दूब; हरियाली । हरळीची मुळी - स्त्री दूब की जड़, अनेकानेक आपत्तियों को सह कर जीवित रहने वाली जाति, दवाओं के बावजूद बनी रहने वाली बीमारी ।

हरळी<sup>+</sup> - स्त्री हाँक, पुकार । हराम - वि [ अ ] हराम, निषिद्ध, अविहित, त्याज्य, अपवित्र, हरामी । - खोर - वेईमान; हरामखोर, नमक-हराम; बेवफा । - खोरी - स्त्री हरामखोरी, नमक-हरामी, बेईमानी । हरामाचा - वि हराम का, बेईमानी से कमाया हुआ ।

हरास<sup>+</sup> - पु १ नीलाम । २ विक्री ।

हरि - पु १ हरि, विष्णु । २ सिंह । - चदन - पु हरि-चदन, पीला चदन । - जन - पु हरिजन, अच्छूत । - दास - पु दे ' हरदास ' । - भक्तिपरायण, ह. भ प. - वि हरिदासों की एक उपाधि । - विठ्ठल - अव्य मजन में नाम घोष । - न सत्यानाश, खात्मा । हरीचा लाल -

पु वि १ माई का लाल; हिम्मत वाला । २ रंगीला; बाँका ।

हरिण - न हरिण, हिरन । हरिणी - स्त्री हरिणी, हिरनी । [ ताळका ' ।

हरितालिका - दे ' हर-हरीक - पु कोदो, कोदो (एक मोटा अन्न) ।

हरीचा लाल - दे ' हरि ' में । [ अगाकडी ।

हरोळी - स्त्री बाटी, लिट्टी; हर्ष - पु हर्ष, प्रसन्नता; आनंद, खुशी । - वायु - पु अत्यधिक हर्ष के कारण होने वाला एक वातविकार, आनदातिरेक से होने वाला उन्माद । मु० - ध्वनि करणें - किलकारियाँ भरना ।

हलकट - वि १ नीच, ओछा, बदतमीज, बदमाश, अशिष्ट, कमीना । २ दे ' हलका ' । - पणा - पु ओछापन, कमीनापन ।

हलकडी - स्त्री [ अ ' हल्क ' ] १ हलका, तुकमा, घेरा, मडल । २ लोहे का गोल कुडा ।

हलकल्लोळ - पु होहल्ला, शोरगुल, हल्ला-गुल्ला, कुहराम ।

हलका - वि १. हलका, कम वजन वाला । २ घटिया, मामूली, कम मूल्य वाला । ३. आसान, सहल । ४ अनुपजाऊ, हलका । ५ दे ' हलकट ' । कानाचा हलका, हलक्या कानाचा - कान का कच्चा । - फुलका, - फूल वि बहुत हलका । - हलक्या हातानें - अव्य धीरे से, हलके से, हीले हीले ।

हलका - पु [ ' हल्क ' ] ?

हलका, घेरा; मडल; लोहे का गोल कुड़ा। २ अँकडी, कंटिया।

हलकारत-ती - स्त्री आरती।

हलकारा - पु [फा 'हर-कार'] हरकारा, दूत, डाकिया।

हलकावणे - क्रि अ हलका होना। - क्रि स हलका करना।

हलकी - दे 'हलगी'।

हलके - अव्य हलके-हलके, धीरे-धीरे, आहिस्ता। - पणा - पु १ हलकापन। २ ओछापन।

हलगरजी, हलगर्जी - वि [अ फा 'अहले गरज'] लापर-वाह, सुस्त। - पणा - पु लापर-वाही, टालमटूल, उपेक्षा।

हलगी - स्त्री [अ 'हल्क'] डफ, डफली।

हलणें - क्रि अ १ हिलना, डवर-उधर होना, हटना, खिम-कना। २ डोलना, कांपना।

हलवणें - दे. 'हलविणें'।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

हलवाई - पु [अ] हलवाई; मिठाई बनाने बेचने वाला। कहाँ हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

हलवाई - पु [अ] हलवाई; मिठाई बनाने बेचने वाला। कहाँ हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

हलवाई - पु [अ] हलवाई; मिठाई बनाने बेचने वाला। कहाँ हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

हलवाई - पु [अ] हलवाई; मिठाई बनाने बेचने वाला। कहाँ हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

हलवाई - पु [अ] हलवाई; मिठाई बनाने बेचने वाला। कहाँ हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - हलवाई की दूकान और दादाजी की फातिहा।

हलवा - पु दे 'तिळगुळ'।

१ थका-माँदा, भूखा-प्यामा, निडाल; कमजोर। २ कगाल।

हल्ला - पु [अ 'हल्म'] हमला, हल्ला, घावा, आक्रमण, चढाई।

हल्लीं - अव्य [अ 'हाली'] आजकल, इधर, हाल में, इम ममय।

हवरा - वि लालची, लोभी।

हवशा - शी - दे 'हौशा - शी'।

हवळा - पु. होला, होलक।

हवा - स्त्री [अ] १ हवा, वायु, पवन, समीर। २ दे 'हवा-पाणी'। - पाणी - न हवा-पानी, जलवायु, आवोहवा, आवहवा। - पालट, - फेर - पु. हवावदली। - मान - न मौसिम, जलवायु, आवोहवा।

- शीर - वि हवादार। मु० - खणें - १ हवा खाना, खुली जगह में टहलना। २ असफल रहना, नाकामयाव होना। ३ हवा पी कर या फाँक कर रहना, निराहार रहना। - खेळणें - मकान आदि में हवा का खुल कर चलना, हवादार होना।

हवा - क्रि अ चाहिए।

हवालदार - पु [अ 'हवाल' + फा 'दार'] हवल-दार, हवालदार, सिपाहियों का सरदार।

हवालदिल - वि [अ 'हौल' + फा 'दिल'] हौल-दिल, परेशान, डरा हुआ, व्यग्र, व्याकुल, घबड़ाया हुआ।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

हवाला - पु [अ 'हवाल'] १. हवाला, जिम्मा, सिपुर्दगी, हस्तांतरण। २ प्रमाण, अवतरण, नज़ीर। ३ कब्ज़ा, अविकार।

मु० - देणें - १ हवाला देना, प्रमाण के लिए उल्लेख करना। २ जमानत देना। ३. हामी भरना।

हवालों - अव्य [अ 'हवाल'] हवाले, सिपुर्द।

मु० - करणें - हवाले करना, ऋज्जे में देना, माँपना। - होणें - हवाले होना, आत्ममर्गण करना।

हव - अव्य १ चाहिए, दृग्कार है, ज़रूरत है, उचित है, वाजिब है, अपेक्षित है। २ चाहे। - तितके - वि चाहे जितना, मनमाना।

हवेली - स्त्री [फा] १. हवेली, प्रामाद, बडा और पक्का मकान, महल। २ ज़िले का मदर मुकाम। ३ वैष्णव-मंदिर।

हवेशीर - दे 'हवाशीर'।

हव्यकव्य - न १ हव्यकव्य। २ धार्मिक कृत्य।

हव्यास - पु [अ 'हवम'] १ हवस, शौक, लालच, लोभ। २ उत्साह, उमग।

हशा, हशी-खुशी, हशील, हसडणें, हसडा, हसणें, हसतमुख, हसरा, हसविणें, हसळी, हसू, हसें - दे 'हशा', 'हशी-खुशी', 'हशील', 'हसडणें', 'हसडा', 'हसणें', 'हसतमुख', 'हसरा', 'हसविणें', 'हसळी', 'हसू', 'हसे'।

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

हस्त - पु. १ हस्त, हाथ। २ हाथी की मूँड। ३ हस्त-नक्षत्र। - क - दे क्रम में। - कौशल्य - न हस्तकौशल, कारीगरी, दस्तकारी। - क्षेप - पु हस्तक्षेप, दस्तदाजी, दखल देना, - गत - वि हस्तगत, हाथ में आया हुआ, अविकृत, प्राप्त, काबिज। (मु०

-० होणें - हाथ मे आना; कब्जे मे आना, कब्जा होना) ।  
- चापत्य - न दे 'हातचलाखी' ।  
- दोष - पु. १ हस्तदोष; हाथ से होने वाली भूल, लिखन में होने वाली गलती । २ नाप या तौल मे चोरी करने का दोष । - परीक्षा -  
- छाी हस्तरेखाविद्या । - पत्रक -  
- पर्चा, विज्ञापन; 'हैंडविल' ।  
- लाघव - न दे 'हस्त-  
- कौशल्य', 'हस्तचापत्य' ।  
- लिखित - न हस्तलेख, हस्त-  
- लिपि, मसविदा, तहरीर । - वि  
- हस्तलिखित; हाथ का लिखा  
हुआ ।

हस्तक - पु. १. हस्तक, हाथ ।  
२. निम्न श्रेणी का सेवक । ३  
दलाल, सहायक, पिट्टू ।

हस्ताक्षर - न हस्ताक्षर;  
दस्तखत, सही । [ दांत ।  
हस्तिदंत - पु हस्तिदंत, हाथी-  
हस्तिदंती - वि हाथी दांत  
का वना । - छाी हँस कर किया  
स्वागत ।

हस्तें - अव्य १ हाथो,  
करकमलो द्वारा । २ हस्ते, द्वारा,  
हत्ये, मार्फत । - परहस्तें -  
अव्य स्वय अथवा औरो से,  
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ।

हळकुड - न हल्दी की गांठ ।  
कहा०-हळकुडासाठी लगन मोडणें-  
मामूली-सी बात पर अड कर बडा  
लाभ खो देना । अर्ध्या हळकुडानें  
पिवळें होणें - थोडी- सी सफलता  
या यश से इतराना ।

हळद - छाी हल्दी, हल्दी,  
हरिद्रा, (पौधा और जड) ।  
कहा०-पी हळद हो गोरी - उता-  
वली करना, किसी काम का  
असर, परिणाम तुरत पाने की इच्छा

करना । मु० - उतरणें - हल्दी  
उतारना, विवाह मे वर-कन्या को  
लगाई हुई हल्दी उन्हे समारोह के  
साथ नहला कर धो डालना ।  
- लागणें - १ हल्दी उठना,  
चढना, माँझा बैठना, हल्दी- तेल  
उठना । २ विवाह होना । ३  
अच्छे दिन आना ।

हळदी - छाी बहु १ हल्दी  
(बहु०) । २ हल्दी की गांठें । - कुफू  
- न सुहागिनो को हल्दी- कुकुम  
देने की विधि । मु० - उतरणें , -  
लागणें - दे 'हळद' मे ।

हळवा - वि कोमल हृदय का,  
मुलायम, सवेदनशील, भावुक,  
नाजुकमिजाज, छुई - मुई ।

हळवें - वि न १ जल्दी  
तैयार होने वाला (धान) । ३  
दे 'हळवा', 'हळुवार' ।

हळस - पु हरिस ।  
हळहळ - छाी खेद, दुख,  
पछतावा, अफसोस, हसरत ।

हळहळणें - क्रि अ पछताना;  
अफसोस करना, छटपटाना ।

हळुवार - वि हलका, नाजुक,  
नरमदिल, कोमल । - पणा - पु  
नजाकत, सुकुमारता, कोमलता,  
नरमदिली ।

हळुहळु - दे 'हळू' मे ।  
हळू - अव्य धीरे, आहिस्ता ।  
- च अव्य चुपके से । - हळू -  
अव्य वीरे-वीरे; आहिस्ता-  
आहिस्ता, क्रमश ।

हा - अव्य हाँ, देखो ! लो !  
- हा म्हणता - अव्य देखते-देखते,  
बहुत थोडी देर में ।

हाक - छाी १ हाँक, पुकार,  
दुलावा, आवाज । २ वह दूरी  
जहाँ तक पुकार सुनाई दे । मु० -  
देणें, - मारणे - हाँक देना, मारना,

लगाना; पुकारना; बुलाना,  
टेरना, आवाज देना ।

हाकणारा - वि हँकवैया ।  
हाकणें - क्रि स १ हाँकना;  
(पशुओ को) चलाना, हटाना ।  
२ किसी तरह चलाना, ठेलना ।  
हाकलणे - क्रि स १ भगाना,  
निकाल बाहर करना । २ दे  
'हाकणे' । मु०-हांकलून देणें,  
लावणे - निकाल बाहर करना,  
खदेडना ।

हाका - पु हँकवा, खेदा ।  
मु०- घालणे - हँकवा करना,  
हँकवाना ।

हाका - छाी बहु० पुकारें;  
हांकि । मु०-मारणें - १ पुकारना,  
बुलाना । २ पछताना, सिर धुनना ।  
३ फरियाद करना, चिल्लाना ।

हाकाटी - छाी १ शोरगुल,  
हो हल्ला । २ शिकायत । ३ जोर  
की सामूहिक माँग । ४ किसी  
वस्तु की किल्लत, अभाव ।

हाकारणें - क्रि स १ जहाज  
आदि चलाना शुरू कर देना । २  
दौडाना, भगाना, भेजना । ३ पुका-  
रना, आवाज देना, जोर से  
बुलाना ।

हाक्या - पु १ दे 'हाका' ।  
२ खेदा, हँकवा करने वाला  
व्यक्ति ।

हाजी-हांजी, हांडा - डी - दे  
'हजी हजी', 'हडा-डी' ।

हातरणें, हातरूण, हाथरूण-दे  
'अथरणे', 'अथरूण' ।

हाव - छाी [अ 'हवस']  
१ हवस, लालच । २ हिम्मत ।  
दे 'हव्यास' । मु०-करणे, घरणें-  
लालच करना, हवस रखना ।  
- सुटणे - लार टपकना, जी  
ललचाना, बहुत लालायित होना ।



हावरा - वि लालची, लोभी, लालायित ।

हाशील - दे 'हशील' ।

हासळी - दे 'हसळी' ।

हा - सर्व पु. यह । - अव्य. १ स्वय, खुद । २ अभी, तुरत । ३ हा, हाय ।

हाक, हाकणारा, हाकलणें, हाका, हाकाटी, हाकारणें, हाक्या, हाजर, हाजरी, हाजिरी, हाजीर - दे 'हाक', 'हाकणारा', 'हाकलणें', 'हाका', 'हाकाटी', 'हाकारणें', 'हाक्या', 'हजर', 'हजरी' ।

हाट - पु. हाट; वाजार ।

हाटेल - न [अ] १ हाटेल, विश्राम-गृह, (बडी सराय) । २ भोजनालय (ढावा) ।

हाड - न १ हड्डी, हाड । २ कुल, खानदान, कुलीनता, मूल जाति । ३ काठी, शरीर की गठन । - कुळा - दे 'हडकुळा' । - पेर - न अगलेट, काठी, देह की गठन । - चर - न जानी दुश्मनी, घोर शत्रुता । हाडाचा चांगला - वि स्वभाव से अच्छा, गरीफ । हाडांचा सापळा - पु ठटरी, शरीर का ढांचा । हाडीचवर - पु काला बुखार । मु० हाडाचों काडे करणें - बहुत परिश्रम करना, किसी के लिए बहुत कष्ट उठाना । हाडीं मासों खिळणें - आदत बन जाना, लत पडना । हाडें खिळखिळीं करणें; हाडें घुसळणें - १ अजर पजर ढीला करना, बुरी तरह पीटना, कचूर-निकालना, हड्डी-गुड्डी तोडना । २ हड्डी चूसना । हाडें दिसू लागणें, हाडें निघणें - हड्डियाँ दिखाई पडना या निकल आना ।

हाडळ - दे 'हडळ' ।

हाडूक - न छोटी हड्डी ।

हाडघावर्ण - दे 'हडघावर्ण' ।

हाणणें - क्रि स. १ पीटना; ठोकना, लगाना । २ मार डालना । मु० हाणून पाडणे - १ विफल, नाकाम बनाना । २ वात काटना । ३ पसपा कर देना; हराना । ४ तोड देना ।

हाणामारी - स्त्री मारपीट; लडाई ।

हात - पु १ हाथ, हस्त; कर, भुजा, बाहु; बांह । २ (फन्यातील) दाँव; हाथ । ३. अधिकार, कब्जा । ४. तरफ, बाजू, ओर । ५. खेल । ६. कौशल । ७. दे 'भिडू' । ८. दे 'हस्तक' । ९. कर्मचारी, मजदूर । १०. हत्या । ११. हिस्सा, भाग । १२. हथेली । - उचल - स्त्री बैक आदि मे अपनी ही रकम मे मे थोडी-थोडी निकाल लेना । - उसनें - न हथचवार, हथफेर । - कडी - स्त्री हथकडी । - काम - न दस्तकारी । - कुन्हाड - स्त्री हस्तकुठार, छोटी कुल्हाडी । - खंडा - पु १ कौशल, प्रवीणता, महारत । २ हथकडा, हस्तलाघव, हाथ की सफाई । - वि माहिर, कुशल, प्रवीण, मँजा हुआ । - खर्च - पु फुटकर खर्च, जेव-खर्च । - गाडी - स्त्री ठेला, सगड । - गुण - पु १ भाग्य, किस्मत । २ (बीमार को ठीक करने की वैद्य की) सामर्थ्य । - घाई - स्त्री जोश, आवेश, उतावली । (मु० - ० वर यें - १ वेताव हो जाना । २ मारपीट तक नौबत आना ।

३ मारपीट करने पर उताह होना) । - चरक - पु हाथ से चलाने का कोल्हू । - चलाख - वि हथफेर, हथलपक । - चलाखी - स्त्री हथकटा, चालाकी, हस्तचापल्य, हाथ की सफाई, हस्तलाघव, हथफेर । - चा - वि हाथ मे, हासिल (ग०) । - चा मळ - पु. वायें हाथ का खेल, हाथ का मैल । - चाळा - पु. हाथों की अस्विरता; हाथ से कुछ न कुछ करते रहने की आदत । - चें - वि वश का, वस का; हाथ का । (मु० - ० घालविणें - हाथ मे आया हुआ खो देना । - ० सोडून पळत्याच्या पाठीस लागणें - अपना लाल गँवाय के दरदर मांगे मोख ।) - पेटी - स्त्री हाथ मे वजाने का हारमोनियम (वाजा) । - भट्टी - स्त्री भट्टी, आमवनी, आवकारी, मद्यगाला । - भार - पु मदद, सहायता (मु० - ० लावणें - हाथ वँटाना, महायता देना, सहयोग करना) । - माग - पु करघा । - मिळवणी - स्त्री १ मवि, मित्रता, सहयोग । २ साजिग, साँठगाँठ । - मोजा - पु दस्ताना । - रहाट - पु हाथ से पानी खींचने का छोटा रूँट । - राखून - अव्य किफायत के साथ । - रुमाल - पु दस्ती, छोटा रुमाल, दस्तमाल । - वारे - पु बहु हाथों से किये गये हावभाव, इशारे । (मु० - ० करणे - हाथ चमकाना, हाथ को हिलाना, हाथ मे इशारे करना, उंगलियाँ नचाना, हाथ मटकाना) । हाता-खालचा - वि मातहत, अधीन ।

हाताजोगता - वि हाथ मे आने लायक; जहाँ तक हाथ पहुँच सके ऐसा । हातात हात धालून - अव्य हाथ मे हाथ मिलाये, सौहार्द भाव से; साथ - साथ । हातातोडाशीं आलेला - वि १ सयाना, वालिग । २ कमामुत । ३ जिससे फल मिलने का विश्वास हो गया हो । हाताला येईल तें - वि न जो भी हाथ लगे । हाता-वरचें पोट - न मेहनत, परिश्रम कर के रोटी कमाना । हाता-वेगळा - वि पूरा, समाप्त, खत्म । - अव्य, अलग । हातासरशीं, हातासरसा - अव्य. लगे हाथ; लगे हाथो, साथ ही, इसी सिलसिले मे । मु० - आंखडणें - हाथ खीचना, द्रव्य देना बंद करना, किसी काम मे सहयोग न करना । - आटोपणें, - आवरणे-हाथ -रोकना, किसीको मारते - मारते रुकना; काम करना बंद करना । - उगारणें, - उचलणे - (किसीपर) हाथ उठाना, मारने को प्रवृत्त होना । - ओला करणे - रिश्वत देना । - ओवाळणे - तुच्छता दिखाने के लिए किसी के मुँह के आगे हाथ घुमाना हाथ चमकाना । - करणें - १ लाठी आदि घुमाना मारना । २ हाथ करना (ताश आदि खेल मे वाजी जीतना) । - कापून देणें - हाथ कटा देना, लेना, हाथ कटाना । - घालणे-हाथ डालना, हाथ लगाना, दखल देना, कोई काम उठाना, आरम्भ करना । - घेणे - हाथ करना (ताशमें वाजी जीतना) । चालणें-१ हाथ चलना, (किसी काम का अच्छी तरह किया जाना) । २ हाथ में सामर्थ्य,

सपत्ति आदि का होना, गुजाइश होना । - चालविणें - हाथ चलाना, मारना । - चोळणें - हाथ मलना, पछताना, बहुत क्रुद्ध होना । - चोळीत स्वस्थ बसणे - हाथ मलते रह जाना । - जोडणें- १ हाथ जोडना, हाथ जोड देना, नमस्कार, प्रणाम करना । २ वाज आना, सबध विच्छेद करना (व्यग्य) । ३. हार मान लेना, क्षमा याचना करना । - झाडणे - हाथ झाडना, हाथ झाड कर खडा हो जाना । - टाकणे - हाथ उठाना, मारना । - टेकणें - वाज आना, हार जाना, घुटने टेकना । - दाखविणें - १ हाथ दिखाना (हस्तरेखाविद् या वैद्य को) । २ मारपीट करना, अपनी सामर्थ्य की झलक दिखाना । ३ झाँसा देना, वृत्ता देना, ठगना । - दावणें - मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, बाँह पकडना । - घरणे - १ हाथ घरना, पकडना, रोकना, मना करना । २ मुकाबला करना, बराबरी करना । - धरून जाणे - स्त्री का किसी पुरुष के साथ भाग जाना, किसीके घर बैठना (किसी की रखेली बनना) । - धुऊन पाठीस लागणे - हाथ धो कर पीछे पडना, (किसीका अनिष्ट करने में) जुट जाना । - पसरणें - हाथ पसारना, हाथ फैलाना, याचना करना । - पाय गळणें - हाथ पाँव का जवाब देना, हाथ-पाँव का हारना, कलेजा मुँह को आना । - पाय गाळणें - हाथ-पाँव फूलना, विपत्ति से घबडाना, हाथ-पाँव हारना, हिम्मत हारना । - पाय चालणे - हाथ-पाँव

चलना, गरीरमें शक्ति का रहना । - पाय झाडणे - हाथ-पाँव पटकना, मारना । - पाय ताणणें - हाथ-पाँव सीधे करना, आराम से लेटना । - पाय थकणें - हाथ-पाँव फूलना, विपत्ति से घबडाना; हाथ-पाँव हारना । - पाय पसरणें - हाथ - पाँव फैलाना, कार्यक्षेत्र बढ़ाना । - पाय पाखडणे - हाथ-पाँव पटकना, तडफडाना, छटपटाना । - पाय पाघरून बसणे - हाथ पर हाथ धरे बैठना या बैठे रहना । - पाय फूटणें - १ पैसे आदि के खर्च का बढ जाना । २ विवाई फटना । ३ चला जाना, फैल जाना । - पाय फोडणे - बढाना, फैलाना । - पाय मोफळे करणें - चहल-कदमी करना; टहलने जाना । - पाय हलविणें, हालविणे - हाथ पाँव हिलाना, हाथ-पाँव मारना, खूब कोशिश करना । - पोचणे - (दुगणाला हात पोचणें) - कृतार्थ, कृतकृत्य होना (व्यग्य) । - फिरणें ध्यान दिया जाना, मफाई होना । - फिरविणें - १ हाथ फेरना, सहलाना । २ फिर से देख जाना । ३ पोछना, माँजना । - बसणे - हाथ बैठना, हाथ जमना, हाथका अभ्यस्त होना, हाथ मँजना । - बाघणें - रोकना, मना करना - भरून घेणे - हाथ थकना, हाथ भरना । - भिजणे - १ दक्षिणा मिलना । २ रिश्वत पाना । - भिजविणें - १ दक्षिणा देना । २ रिश्वत देना । - मारणे - हाथ मारना, हडपना, खूब खाना । २ हाथ साफ करना, माल उठाना । - मोडणे - अमहाय बनना, हाथ टूट जाना । - राखणें - हाथ खीचना, पीछे हटना ।

- राखून खर्च करणे - मिनव्यायिता से खर्च करना, आय के अदर व्यय करना । - राखून जेवणे - भोजन में कुछ कम खाना । - लावणे - हाथ लगाना, सहयोग देना, मदद करना । - शिवशिवणे - हाथ खुजलाना, किसी को पीटने की इच्छा होना । - सल सोटणे - हाथ खोलना, खूब खर्च करना । - सोडणे - सहयोग देना वद करना, मित्रता छोड देना । - हातात देणे - हाथ में हाथ देना, पाणिग्रहण करना । - हालवीत येणे - हाथ हिलाते आना, खाली हाथ आना, नाकाम हो कर लौटना । हातात ककण वाघणे - हाथ में लेना, बीडा उठाना, प्रतिज्ञा करना । हातात नारळाची आई देणे - हाथ में ठीकरा देना, भिखारी बनाना । हातात वागड्या भरणे - डर कर बैठ जाना, पीछे हटना । हातात हात घालणे - १ हाथ में हाथ देना; पाणि - ग्रहण कराना । २ सहयोग देना, मित्रता करना । हातातोडाशीं गांठ पडणे । १ भोजन का प्रारभ होना, करना । २ किसी कार्य का जल्दी में प्रारभ करना । ३ दे 'बोव मारणे' । ४ अपनी आय के भीतर मुश्किल में निर्वाह होना । हातातोडाशीं येणे - मयाना होना, जवान लडके का कमाना प्रारभ करना । हातापाया - यों पडणे - पाँव पकडना; गिडगिडाना, खुशामद, मिन्नत करना । हाताला लागणे - हाथ लगना, मिलना । हाताला हात लावणे - हाँ में हाँ मिलाना, सहयोग देना । हातावर काढणे - घेणे - विना रेहन के कर्जा लेना, उधार लेना । हातावर तुरी देणे -

ज्ञाना देना, वुत्ता देना, भाग जाना । हातावर दिवस काढणे - बडी मुश्किल से जीविका चलाना । हातावर पाणी पडणे - भोजन पूरा होना, अँचवना, भोजनोपरात कुत्ली आदि करना । हातावर पोट भरणे - मेहनत-मजदूरी से जीविका चलाना । हातावर शीर घेणे - हथेली पर मर रखना या लेना । हातावर हात मारणे । १ हाथ पर हाथ मारना, वागवद होना, प्रतिज्ञा करना । २ वाजी ले जाना, वड जाना । हातीं घरणे - १ हाथ धरना, सहारा लेना । २ हाथ लेना, उठाना, अपने ऊपर लेना । हातीं पायीं पटणे - दे 'हातापाया पटणे' । हातीं पायीं सुटणे - विना कष्ट के, आमानी में प्रनूत होना । हातीं भोपळा देणे - हाथ में ठीकरा देना, भिखारी बनाना । या हाताचें त्या हातास कळू न देणे - विल्कुल चुपचाप करना । कहा० - हातच्या काकणाला आरसा कशाला - हाथ कगन को आरसी क्या ?

हाता पद्धति - श्री दलालद्वारा ग्राहक की हथेली पर कपडा डाल कर उंगलियों के इशारे से मौदे किये जाने का तरीका ।

हाताळ - वि हथलपक, उचक्का ।

हाताळणे - क्रि स १ हाथ लगाना, खराब करना । २ हाथ में लेना, उठाना, हल करना । ३ उठाना, चुराना ।

हातोटी - श्री हथौटी, हस्त-कौशल । मु० - साघणे - हथौटी जमना, मघना, हाथ खूब सघ जाना ।

हातोडा - डी-दे 'हतोडा-डी' ।

हातोहात - अव्य हायो हाय, तुरत, शीघ्र; देखते - देखते, चालाकी में । [ 'हदरा' ]

हादरणे, हादरा - दे. 'हदरणे', हानि-नी - श्री हानि, नुकसान, घाटा; अति । - कारक - वि हानिकारक, हानिकर, नुकमानदेह । [ 'आपटणे', 'आपटी' ]

हापटणे, हापटी - दे हाप - अव्य. हाय, हा । - श्री १ हाय, व्यया, कष्ट । २ तीव्रा, जलाने वाला पदार्थ (बच्चो की बोली) । मु० - खाणे - हिम्मत हारना, हाय हाय पडना; घबडा जाना । - से वाटणे, - होणे - जी में जी आना, खटका दूर होना । - हाय करणे - हाय हाय करना, हाय मारना ।

हायकोर्ट - न [ अ ] हाई-कोर्ट, उच्च न्यायालय; बडी अदालत ।

हायस्कूल - न [ अ. ] हाई-स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय ।

हार - श्री ? हार, पराजय, शिकस्त । २ लूट; अपहरण । ३ हानि, घाटा । मु० - खाणे, - जाणे - हार, शिकस्त खाना; पराजित होना, हार जाना, हार मानना ।

हार - पु. हार, माला । - श्री कतार, पक्ति ।

हारणे - क्रि अ. हारना, शिकस्त खाना, पराजित होना ।

हारा - पु. टोकरा, आवा ।

हारी - श्री कतार, पक्ति । - ने - अव्य कतार वाँव कर, तरतीव में । [ रिक, दिली ।

हादिक - वि हादिक; आत-हाल - पु. बड्ड [ अ ] तकलीफें, कष्ट, यत्रणाएँ । २ दुर्गत, दुर्दशा । - अपेष्टा - श्री दे

'हाल' । - चाल - दे क्रम में ।  
 - हवाल - स्त्री १, हाल, हाल-  
 चाल, खबर । २ दे 'हाल' ।  
 मु० - काढणे, - भोगणे - कष्ट  
 उठाना, झेलना, तकलीफें उठाना;  
 विपत्तियों का सामना करना ।  
 हाँल - पु [अ] हाँल,  
 बहुत बड़ा कमरा, दालान ।  
 हालचाल - स्त्री हिलचाल;  
 हालचल, गतिविवि, हरकत ।  
 हालणे, हालविणे - दे 'हलणे',  
 'हलविणे' ।  
 हाली - पु [अ] हाली,  
 चलनसार सिक्का जो (हैदराबाद  
 दकिन में) प्रचलित था ।  
 हाल्या - पु भैसा ।  
 हाव - दे 'हाव' ।  
 हाव - पु हाव, हावभाव ।  
 - भाव - पु हावभाव, नाज़-  
 नखरा, चोचला, शृंगारचेष्टा ।  
 हावरा, हाशील, हासणे -  
 'हावरा', 'हशील', 'हसणे' ।  
 हाँस्पिटल - न [अ] अस्प-  
 ताल, चिकित्सालय ।  
 हास्य - न १ हास्य, हास,  
 हँसी; तवस्सुम । २ मज़ाक, उप-  
 हास, दिल्लगी । - कारक - वि  
 १ हास्यजनक, हास्योत्पादक,  
 मज़ाहिया । २ दे 'हास्यास्पद' ।  
 हास्यास्पद - वि हास्यास्पद,  
 वेहूदा, उपहास्य, बेढगा, मज़हका-  
 खेज़, वेतुका, परिहासयोग्य,  
 बेसिरपैर का ।  
 हाहाकार, हाहाकार - पु.  
 हाहाकार; हाय तोबा; वावैला ।  
 हाळी - स्त्री हाँक, पुकार ।  
 हाळीव - पु न चनमुर ।  
 हिग - पु हीग, हिग, हिगु ।  
 मु० - न लावणे, - लावून न  
 विचारणे - अनादर करना, न  
 म हि श को ४६

पूछना, परवाह न करना । - हगणे -  
 बीमारी से बहुत सूख जाना ।

हिगणवेट - न, हिगणा - पु,  
 हिगणी - स्त्री हिगनवेर, इंगुदी,  
 हिगोट ।

हिगण्टक - न हीग, सोठ,  
 काली मिर्च आदि आठ पदार्थों से  
 बनाया गया पाचक चूर्ण ।

हिगूळ - पु शजरफ, इंगूर,  
 शगरफ ।

हिडणे - क्रि अ १ घूमना,  
 टहलना, फिरना । २. भटकना,  
 चक्कर लगाना ।

हिद - पु [फा] हिद,  
 भारतवर्ष, हिंदुस्तान । [हिलना ।

हिदकळणे - क्रि अ छलकना,  
 हिदवी - वि [फा 'हिद']

१ हिदुओ का । २ हिदुस्तान  
 का, भारतीय । ३ हिदी ।

हिदळणे - दे 'हिदकळणे' ।

हिदी - स्त्री हिदी (भाषा) ।

- वि हिद का; भारतीय,  
 हिदुस्तानी ।

हिदु - पु [फा 'हिदु']

हिदु । - त्व - न हिदुत्व,  
 हिदुपन ।

हिदोळा - पु १ हिडोला,  
 झूला । २ पालना । ३. पेंग ।

हिपुटा - टी - \* वि खिन्न;  
 उदास, नाराज़ ।

हिमत - दे 'हिम्मत' ।

हिंव - न १ सर्दी, ठढक,  
 जाड़ा । २ हिम, पाला । ३

सिहरन, सिहरी, जूड़ी । - ताप -  
 पु जूड़ी बुखार, जडैया बुखार ।

हिवाळा - पु जाड़ा, शीत-  
 काल, सर्दी का मौसिम ।

हिसक - वि १ हिसक,  
 घातक, हिंसा करने वाला । २

हिंसात्मक; हिंसायुक्त ।

हिंसा - स्त्री हिंसा; घात,  
 मरण, नाश, तशद्दुद ।

हिल्ल - वि हिल्ल, निष्ठुर;  
 निर्दय, घातक, जगली, खूंखार  
 खूंखार ।

हि - अव्य भी ।

हिकडचा, हिकडे, - दे 'इक-  
 डचा', 'इकडे' ।

हिकमत - स्त्री [अ 'हिकमत']

१ हिकमत, बुद्धिमानी, चतुराई ।

२ चाल, युक्ति, चालाकी ।

हिकमती - त्या - वि [अ

'हिकमत'] हिकमती, चालाक,

चतुर; होशियार, जोड़-तोड़

लगाने वाला ।

हिजडा - पु १ हिजडा; नपु-

सक; खोजा । २ नामदं, कायर

आदमी । [मनमोजी । २ आवारा ।

हिडगा - + पु १ सनकी,

हिडिबा - स्त्री १. हिडिबा

(राक्षसी) । २ भद्दी और मोटी

औरत ।

हिडिस, हिडोस - वि

घिनौना, गदा, बीभत्स । मु० -

फिडिस, फिडोस करणे - दुत-

कारना, धिक्कारना; तिरस्कार

करना ।

हिण - दे 'हीण' ।

हिणकस - वि मिलावटी;

हलका, मिश्र, खोट मिला हुआ ।

हिणविणे - क्रि स लजाना,

लज्जित, शमिदा करना, नाक -

भौ सिकोडना, घृणा करना,

हिकारत की नज़रसे देखना ।

हित - न १ हित, लाभ,

भलाई । २ कल्याण, मंगल ।

- कर, - कारक - वि हितकर,

हितकारक, लाभप्रद, आरामदेह,

स्वास्थ्यवर्धक । - गुज; - गुज - न

१ हित, कल्याण की 'वात' । २

प्रेम की बात । ३ कानावाती ।  
- चितक - वि हितचितक,  
शुभचितक, हितेच्छु, खैरखवाह ।  
- शत्रु - वि शत्रु, दुश्मन, बुरा  
चाहने वाला । - सबध - पु १.  
हित, मित्रता । २ स्वार्थ -  
सवधी । - वि निहितस्वार्थ ।

हितेच्छु, हितैषी - वि हितेच्छु,  
हितैषी, दे ' हित चितक ' ।

हितोपदेश - पु १ हितोपदेश,  
नेक सलाह । २ हितोपदेश (ग्रथ) ।

हिम - न १ हिम, बर्फ । २  
पाला । ३ शीत, ठंडक, जाडा;  
सर्दी । - पु १ हिम, चंद्रमा । २  
चदन । - ज्वर - पु हिमज्वर,  
जूडी बुखार । - युग - न हिमयुग,  
हिमानी युग । [ सूम ।

हिमटा - ट्या - वि कजूस,  
हिमटी - छी हिचकी । मु०  
- काढून रडणे - हिचकिया लेना ।

हिम्मत - छी [ अ ] १.  
हिम्मत, साहस, जुअंत । २.  
उत्साह, हौसला । ३ वृष्टता;  
ढीठपन । - बहादुर, - बहादुर - वि  
वीर, बहादुर, पराक्रमी, पुरुषार्थी ।  
मु० - हरणें - हिम्मत हारना;  
पस्त हो जाना । [ तकी ।

हिरडा - पु हड, हरं; हरी-  
हिय्या - पु हिम्मत, साहस;  
दृढता ।

हिरकणी - वि हीरे की कनी,  
छोटा हीरा । मु० - खाणें - हीरा  
खाना, चाटना, हीरे की कनी  
खाना, चाटना ।

हिरडी - छी मसूडा; मसूडा ।  
हिरमुष्टी - वि निराश;  
उदास ।

हिरमुसणें - क्रि अ उदास  
होना, निराश, नाउम्मीद होना ।

हिरमोड - पु निराशा;

उदासी ।

हिरवट - वि १ हरा, कच्चा ।  
२ हलका हरा । ३ अशिष्ट,  
उजड्ड, अनाडी । ४ चिडचिडा ।

हिरवळ - छी हरियाली ।

हिरवा - पु १ हरा । २  
कच्चा । ३ दे ' हिरवट ' । -

गार, - चार - वि १ गहरा हरा ।  
२ हराभरा, प्रफुल्ल, तरोताजा ।

हिरवें - न हरी घास, हरि-  
याली । - पणा - पु हरापन । -  
वि दे ' हिरवा ' ।

हिरा - पु हीरा । - कस - पु  
हीराकसीम ।

हिरावणें - क्रि स छीनना ।  
- क्रि अ छिनना ।

हिरिरी, हिरिरी - छी १  
जोश, झपट्टा, आवेश । २  
जोरदार हमला ।

हिलाल - पु [ अ ] १ मशाल,  
फलीता । २ हिलाल; चंद्र ।

हिव, हिवाळा - दे ' हिव',  
' हिवाळा ' ।

हिशेब - पु [ अ ' हिमाव ' ]

१ हिसाव, गिनती, गणना । २  
लेखा, आयव्यय, लेनदेन, खरीद-  
बेची आदि का व्योरा, आर्थिक  
व्यवहार का विवरण, विवरण,  
मूल्य । ३ परवाह । ४ भाव; निर्व ।  
५ नियम, रीति, हाल, ढग ।

६ सीधापन, न्याय, इन्साफ ।  
- ठिशेब - पु हिसाव-किताब,  
वही-खाता । - तपासणी - छी  
लेखा परीक्षा, अकेक्षा, लेखेक्षण ।

- तपासनीस - वि आयव्यय  
निरीक्षक, लेखा परीक्षक, अके-  
क्षक । मु० - तपासणें - लेखा  
परीक्षा करना, अकेक्षा करना,  
हिसाव-किताब की जांच करना ।  
- पुरा करणें - हिसाव चुकता

करना, हिसाव वेवाक, साफ  
करना । - मागणे, - विचारणे -  
हिसाव तलव करना, हिमाव  
मांगना, हिमाव पूछना ।

हिशेवों - अव्य. लेखे ।

हिशेवी - वि [ अ ' हिसाव ' ]

१ हिसावी, हिसाव से चलने  
वाला । २ हिसावसवधी । ३  
उचित, न्याय्य; माफ, जायज ।  
- पणा - पु १ हिसाव से चलना ।  
२ किरफायतगिआरी; मित-  
व्ययिता । [ ' हिशेव', ' हिशेवी ' ]

हिशेब, हिशेवी - दे  
हिसकणें - क्रि स छीनना;  
खसोटना; उडा लेना, नोचना ।  
३ हडपना ।

हिसका - पु १ झटका,  
झोका, घक्का । २ व्यर्थ का चक्कर ।  
मु० - देणें - झंसोडना, झक-  
झोरना । २ चक्कर लगवाना ।

हिसकावणें - दे ' हिसकणे ' ।  
हिसकाहिसकी - छी छीना-  
झपटी, नोचखसोट ।

हिसडा - दे ' हिसका ' ।

हिसळणे - क्रि अ १ छल-  
कना, उमडना । २ तेजी से  
दौडना, सरपट भागना (घोडे,  
वैल आदि का) ।

हिस्सा - पु [ अ ' हिस्स.' ]  
१ हिस्सा; भाग, अंश, खंड ।  
३ वांट, बखरा, भाजा ।

हिस्सेदार - वि [ अ. फा  
' हिस्स दार ' ] हिस्सेदार, अंश का  
अधिकारी, साझी ।

हिस्सेराशी, हिस्सेराशी - छी  
[ अ ' हिस्सए रसदी ' ] हिस्सार-  
सदी, ययाश ।

होंव - दे ' हिव ' ।

ही - अव्य. भी ।

ही - सर्व. यह (स्त्री) ।

हीण - न खोट, मिलावट; मिश्रघातु, घातुमिश्रण, भरन, मेल। - कस, - वट - दे 'हिण-कस'। मु० - मिसळणें - खोट मिलाना, भरन करना।

हीन - वि १ हीन, अधम, नीचा, कमीना, ओछा। २ रहित, वर्जित। ३ हीन, कमजोर। ४ भ्रष्ट, सदोष, अधूरा। - मनो-गड - पु. हीन भावना, हीन-भाव-ग्रथि, आत्महीनता, हीनम्न्यता।

हीर - पु. १ नारियल के पत्ते में से निकमलने वाली तीली, सीख। २ कमची। ३ पके चावल में से कच्चा चावल, कनी। ४ दे 'कुसळ'।

हु - अव्य हूँ, हाँ, हुंकारी। मु० - म्हणणें - १ हुंकारी भरना। २ स्वीकृति देना।

हुकार - पु. १ हुंकारी, 'हाँ' कहना, स्वीकृति। २ हुंकार, गर्जना, ललकार।

हुगणें - क्रि स १ सूंघना, वास लेना। २ टोह लेना, पता लगाना। ३ तुच्छता के माथ पूछना। [ लगाने वाला, भेदिया।

हुग्या - वि पु सूंघा, टोह हुडणावळ - स्त्री बट्टा, हुडा-वन, हुडी की दस्तूरी, हुडी की दर, मुद्रा - विनिमय, विदेशी मुद्रा।

हुडा - पु. दहेज, जहेज, दायजा। - पाडा - पु. दहेज आदि।

हुडारणें - क्रि स पशु का सिर से धक्का देना; टक्कर लगाना। दे 'उडारणे'।

हुडी - स्त्री १ हुडी, महाजनी 'चेक'। २ कुर्बारी कन्या। ३ दूसरी जगह लगाने के लिए

उखाडा हुआ पौधा।

हुडेकरी - पु. माल लाने ले जाने का प्रबध करने वाला ठेके-दार, 'कार्टिंग एजट'।

हुंदका - पु. सिसकी, हिचकी। हुदडणें - क्रि अ १ नाचना, कूदना, फुदकना। २ सींग मारना, सिर से टक्कर मारना। ३ ऊधम मचाना।

हुवडा, हुवाडा - पु. धक्का, टक्कर, धक्का।

हुव - वि अनाडी, गँवार। २. मोटा - ताजा, लट्ठवाज, लठमार। [रडा', 'हवरणे'। हुवरडा, हुंवरणे - दे 'हव-हुवा - व्या - वि १ रोने वाला। २ वहानेवाज। ३ दे 'हुव'।

हुकणे - क्रि अ १ हुकना, वार खाली जाना, निशाना चूकना। २ चूकना, न मिलना।

हुकमत - स्त्री [अ 'हुकू-मत'] हुकूमत, शासन, राज्य, अधिकार, प्रभुत्व।

हुकमी - वि [अ 'हुकमी'] १ हुकमी, निश्चित, यकीनी, पक्का, पूरा, अमोघ, अवूक। २ आज्ञाकारी।

हुक्की - दे 'हुक्की'।

हुकूम - पु [अ. 'हुकूम'] १ हुकूम, आज्ञा आदेश। २ तुरूप (ताश में), 'ट्रप'। - नामा - पु १ हुकूमनामा, डिगरी, 'डिक्री'। २. आज्ञापत्र। - शहा - पु. ताना-शाह, आमिर, अधिनायक। - शाही - स्त्री अधिनायकता, तानाशाही, आमिरीयत।

हुक्का - पु [अ 'हुक्क'] हुक्का; गुडगुडी।

हुक्की - स्त्री १ हुक्की,

गीदडो के बोलने की आवाज। २ हवा का झोका। ३ सनक, तीव्र इच्छा।

हुच्च - च्चा - वि [क 'हुच्चु'] १ हुहु, बेशऊर। २ अदना, कमीना, आवारा, बेफिक्रा, ऊधमी।

हुज्या - वि पु [अ. 'हुजूरी'] हुजूरी, खिदमतगार, सेवक (राजा आदि का), खास नौकर।

हुजूर - पु [अ 'हुजूर'] १ हुजूर। २ राजा, बादशाह, सर-कार। ३ दरवार, इजलास। - अव्य १ हुजूर में, सामने; सेवा में। २ दरवार में। - पागा - स्त्री राजा की अवशाला।

हुज्जत - स्त्री [अ] हुज्जत; तकरार, तर्क, वहस, दलील; क्षगडा, तू-तू मै-मै। मु० - करणे - घालणे - हुज्जत करना; तू-तू मै-मै करना।

हुडकणे - क्रि स [क 'हुडकु'] हुंढना, खोजना, टटोलना।

हुडवा - पु कडो, उपलो का ढेर।

हुडहुडी - स्त्री कँपकँपी, सिहरी, सिहरन, हहर। मु० - भरणें - कँपकँपाना, सिहरना, हहरना, शीत से काँपना।

हुडुत् - अव्य घत्।

हुतात्मा - पु हुतात्मा, शहीद।

हुताशनी - स्त्री हुताशनी, होली, फाल्गुनी पूर्णिमा।

हुतुतु-तू - पु कवड्डी (खेल)।

हुव्दा - पु [अ 'ओहद'] ओहदा, पद, दर्जा, पदवी, अधिकार, मर्तवा, पदाधिकार।

हुनर, हुन्नर - पु स्त्री [फा 'हुनर'] १ हुनर, कला, फन, शिल्प, कारीगरी, दस्तकारी।

२. कौशल, निपुणता; खूबी।

हुन्नरी - वि [फा 'हुन्नर']  
हुन्नरमद, गुणी, निपुण, कारी-  
गर, फनकार, कलाकार।

हुप - अव्य वदर की आवाज।

हुप्पा - पु १ बडा वदर। २  
आवारा, लुच्चा आदमी।

हुवेह्व - अव्य वि [फा 'हू-  
व-हू'] ह्वह्व, ज्यो का त्यो,  
वैसा ही।

हुरडा - पु होला, ज्वार, मक्का  
आदि के हरे भूटो के भुने हुए दाने।

हुरमुजो - वि [फा 'हुर्मुज']  
लाल, सुर्ख।

हुरमूज-जी - श्री [फा 'हुर्मुज']  
एक प्रकार की गेरू (मिट्टी)।

हुररेवडी - श्री थुक्का फञ्जीहत;  
छीछालेदर, दुर्गत।

हुरहुर - श्री १ चिता;  
वेचैनी, खटका। २ अफमोस;

पछतावा। मु० - लागणें - १  
खटका लगा रहना, फिक्र होना।

२. तडपना; छटपटाना।

हुरहुरणें - दे. 'हुरहुर लागणें'।

हुरळणें - क्रि अ [क 'हुरि']  
(किसी के पीछे) पागल होना;  
फिदा होना, अभिभूत होना।

हुरूप - पु उमग, उत्साह;  
जोश, हौसला।

हुर्यां - पु [अ 'हुरी'] १  
हुरी। २ दे 'हुररेवडी'।

हुर्रेंवडी - दे 'हुररेवडी'।

हुलकावणी - श्री चकमा,  
भुलावा, बोखा, झांभा, बुत्ता।  
मु० - दाखविणें, - देणें -  
चकमा देना, बोखा देना।

हुलकावणें - दे 'हुलकावणी  
देणें'।

हुलगा - पु कुलयी (अनाज)।

हुल्लड - श्री हुल्लड, शोर-

गुल, उत्पात, ऊधम, गडवड।

हुन्न - दे 'हुन्न'।

हुशार - वि [फा 'होशयार']

१ होशियार, होशयार, बुद्धिमान्,

चतुर। २ चालाक। ३ सचेत;

सजग, मावधान; खबरदार।

४ दक्ष, कुशल; माहिर। ५

तारोताजा। मु० - होणें - १

होय में आना। २ सावधान, सजग

होना।

हुशारी - श्री [फा 'होश-

यारी'] १ होशयारी, होशियारी

बुद्धिमान्। २ चालाकी। ३

मावधानी। ४ ताजगी।

हुसकणें, हुसकावणें - क्रि

स भगा देना, निकाल देना, टर-

काना, घत्ता बनाना।

हुळहुळणें - क्रि अ चुन-

चुनाना। २ गुदगुदी होना,

मुरसुराना।

हुळहुळा - वि १ नाजूक,

कोमल। २ मुरसुराने वाला, चुन-

चुनाने वाला, गुदगुदी पैदा करने

वाला।

हुळा - पु होला, होलक।

हू - अव्य हूँ; हाँ, जी हाँ।

-का चूँ - न ची - चपड, चूँ व

चरा। मु० - का चूँ न करणें - चूँ

न करता, ची चपड न करना।

हूक - श्री [हिँ] हूक, साल,

कसक, टीस।

हूक - पु [अ 'हूक']

हूक, अँकडी, अँकुमी, कँटिया।

हूड - वि नटखट, शरारती,

चुलचुला, शैतान। - पणा -

शरारत, शैतानी।

हून - अव्य. से, अपेक्षा, वनि-

स्वत। २ अपादान कारक का

चिह्न।

हूल - दे 'हुलकावणी'।

हृदयंगम - वि. हृदयंगम;  
मर्मस्पर्शी; प्रिय, सुदर, मनोहर।

हृदय - न १ हृदय; दिल;

मन, उर, अत करण। २ छानी;

सीना। ३ भीतरी भाग; सार-

वस्तु, भीतरी रहस्य। ४ मर्म।

- परिवर्तन - न हृदयपरिवर्तन।

- विकार - पु हृद्रोग, दिल का

दौग (पडना)। - स्य - वि

हृदयस्य, दिल में रहने वाला।

मु० - क्रिया वद पडणें - हृदयकी

गति वद होना, दिल की हरकत

वद होना। - दाटणें, - भरन

येणें - दिल भर आना, गदगद

होना। - फुटणें - दिल फट जाना।

- हृदयाला घरें पडणें - दिल में

फफोले पडना। हृदयाला टोंचणी

लागणें - जी में धुन लगना, दिल

में चुमन होना। हृदयाशी घरणें -

छानी से लगाना, गले लगाना।

हृद्गत - न हृद्गत; अभि-

प्राय, दिल की बात।

हृद्य - वि हृद्य, दे 'हृदयंगम'।

हृद्रोग - पु. १, हृद्रोग, दे

'हृदयविकार'। २ लगातार लगी

चिंता।

हृष्टपुष्ट - वि हृष्टपुष्ट,

तगडा, मोटा-ताजा, हट्टा-कट्टा।

हूँ - अव्य न यह। - च - सर्व

यही। - मु० चते - यही तो लो।

हूँगाडा - वि [क 'हूँगाट-

पेंगाट'] १. वदमूरत, वेढव। २

वेशऊर, गँवार; अशिष्ट, हेकड,

उजड्ड। ३ जिद्दी।

हूँडा - पु बडा ढेला।

है - सर्व पु. वहु ये, यह।

- अव्य है।

हेकट - वि हेकड, जिद्दी,

हठी; अडियल, सनकी।

हेका - पु हठ, जिद, हेकडी।

## हेकेखोर

मु० - चालविणें, - धरणें - अपनी वात पर अड जाना; हेकडी चलाना।

हेकेखोर - दे 'हेकट'।

हेटकरी - पु० १ दक्षिण कोकण का निवासी। २ सैनिक।

हेटाळणी - स्त्री १ हेठी, मानहानि, तुच्छता, अप्रतिष्ठा। २ उपहास; ताना, व्यंग।

हेडबा - दे 'हिंडिवा'।

हेत - दे 'हेतु'।

हेतु - पु० १ हेतु, लक्ष्य, मकसद। २ कारण, सबब। ३ मतलब, प्रयोजन, अभिप्राय। - गर्भ - वि सारगर्भित, हेतु-युक्त। - पुरस्सर - अव्य जान-वृक्ष कर, इरादतन। - पूर्वक - अव्य सकल्पपूर्वक।

हेत्वाभास - पु० हेत्वाभास; कुतर्क, हेतुदोष।

हेलणे - क्रि स [ग्रा०] १ समोग करना। २ बहुत खा जाना।

हेम - न हेम, सोना। - गर्भ पु० हेमगर्भ, एक औषधी वटी जिसमे सोना पडा होता है।

हेमाडपती - वि हेमाडपत द्वारा चलायी (लिपि, भवन-निर्माण-पद्धति आदि)। [जासूस।

हेर - पु० गुप्तचर, भेदिया, हेरणें - क्रि स १ ताकना, देखना, निहारना। २ घात में रहना। ३ भांपना; ताडना।

हेरेफेर - पु० १ हेरेफेर, परिवर्तन, अदल-बदल, अदला-बदली। २ टहल।

हेल - पु० बोलने, गाने आदि में सुर को खीचना। मु० - काठणें - शब्द या सुर को खीच कर, लवा कर बोलना।

हेल - पु० स्त्री बोझ (ढोने का),

भार (उठाने का)। - करी - पु० बोझ ढोने वाला मजदूर, मोटिया, कुली। - करीण - स्त्री बोझ ढोने वाली, मजदूरिन, मोटिया की स्त्री।

हेलकावणें - क्रि अ हिलना, डोलना, झोका खाना। - क्रि स हिलाना, डुलाना, डोलाना, झोका देना।

हेलकावा - पु० झोका, हल-कोरा, हिलोरा। मु० खाणे - दे 'हेलकावणे'।

हेलपाटा - पु० व्यर्थ का चक्कर, फेरा, दूर का चक्कर। मु० - देणे - चक्कर देना, लगवाना, फेरा देना। - पढणे - घक्का खाना।

हेला - स्त्री १ हेला, तिरस्कार, अवज्ञा। २. क्रीडा, केलि।

हेला - पु० भैंसा।

हेला - पु० क्षण। - मात्रें - अव्य. सहज ही, आसानी से, लीलया।

हेलावणे - क्रि अ हिलना, पसीजना, दया से आर्द्र होना।

हेवा - पु० [का 'हेव'] १ ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन; हसद। २ लालच, लोभ। - दावा - अदावत, दुश्मनी। मु० - वागणे - ईर्ष्या होना, जलन होना।

हेळसांड - स्त्री लापरवाही, असावधानी, ढिलाई, उपेक्षा।

हेळा - दे 'हेला'। [का शब्द। हैक - अव्य. पशुओ को हाँकने हैदोस - पु० [हिं 'हाय' + फा 'दोस्त'] हुल्लड, शोरगुल, हो हल्ला, हुडदग, ऊधम। - घुल्ला - पु० दे 'हैदोस'।

हैराण - वि [अ 'हैरान'] १ हैरान, परेशान, हक्कावक्का। २ अस्वस्थ, बीमार।

हैवान - पु० [अ] १ हैवान, जानवर। २ उजड्ड, जगली,

नृशस व्यक्ति।

हो - अव्य १ हाँ, जी हाँ। २ रुक जाओ, धीरे से, आहिस्ता।

३ ठीक है, स्वीकार है। ४ अजी। - का - अव्य ऐसी बात है? - कार - पु० अनुमति, स्वीकृति, मजूरी। (मु० - देणें - हुकारी भरना, हाँ कहना, स्वीकृति देना।) - ना अव्य है ना, है न। २ जी हाँ। (मु० - करणें - हिचकिचाना)। - ना करिता करिता - अव्य बडी बहस के बाद, बहुत हीले हवाले के बाद। मु० - स हो देणें, म्हणणे - हाँ में हाँ मिलाना।

होईल - क्रि अ होगा।

होऊन - अव्य १ हो कर। २ अपने आप, स्वयं। मु० - जाणे - हो जाना, निवटना, हो चुकना। [दिग्दर्शक यत्र।

होकायत्र - न कुतुबनुमा, होडकें - गे, होडी - स्त्री नौका, किश्ती, डोगी।

होणार - क्रि अ होगा।

होणारें - न १ होनी, भवितव्यता, होनहार।

होणे - क्रि स होना, हो जाना। २ बनना, निर्मित होना, तैयार होना। ३ वीतना, व्यतीत होना। ४ घटित होना।

होत - क्रि अ बहु है।

होतकरू - वि होनहार, भविष्य के विकास, उत्कर्ष आदि का आभास देने वाला।

होता - पु० होता, यज्ञकर्ता, यज्ञ कराने वाला पुरोहित।

होता - क्रि अ था। मु० - कीं नव्हता करणे - नामोनिशां मिटाना, जडमूल से उखाडना

होतें - क्रि अ था।



होते - क्रि अ बहु थे ।  
 होतो - क्रि अ होता है ।  
 होतसाता - अव्य. १ हो कर ।  
 २ होते हुए, रहते हुए ।  
 होन - पु [ क ' होन ' ] एक  
 स्वर्णमुद्रा जिसका मूल्य लगभग  
 ३॥ रुपये था, अशरफी । [ यज्ञ ।  
 होम - पु होम, हवन,  
 होय - अव्य. हाँ, जी हाँ ।  
 दे ' हो ' । - क्रि अ है ।  
 - वा - धि खुशामदी, चापलूस,  
 हाँ में हाँ मिलानेवाला ।  
 होरणे+ - क्रि अ मिट्टी आदि  
 से भर जाना ।  
 होरपळणे - क्रि अ १  
 जलना, झुलमना । २ हानि  
 उठाना ।  
 होरा - पु [ यू ] १. होरा;

ज्योतिष, शास्त्रोक्त लग्न; ढाई  
 अनुघडी, आधी राशि । २ अदाजा,  
 मान । ३ सरोवा, भविष्यकथन ।  
 होलगा, होला - पु पडुक,  
 तीतर (पक्षी) ।  
 होलार - पु अस्पृश्य वज्रघ्नी ।  
 होलिका - स्त्री १ होलिका  
 (राक्षसी) । २ होली । - दहन -  
 न होली जलाना । [ समारोह ।  
 होलिकोत्सव - पु होली का  
 होवो - क्रि अ हो; हो जाय ।  
 होष - पु [ फा ' होय ' ] १  
 होश, चेतना, सुधबुध । २ उमग,  
 जोश, उत्साह ।  
 होळी - स्त्री १ होली । २  
 अग्निकांड, वरदादी, विनाश ।  
 - चे होळकर - पु बहु तमागाई,  
 उजड्ड, आवारा लोगो का झुड ।

- शिपणें - न होली के दिनों में  
 होने वाली हलकी बारिश । मु०  
 - करणें - जला डालना ।  
 होद - पु [ पु. ' होज ' ] १  
 हीज, चहवच्चा; कुड, नाँद ।  
 होदा - पु [ अ ' होज ' ]  
 १ हौदा, हीजा, हाथी की अम्मारी ।  
 २ कुश्ती का अखाड़ा ।  
 होशा - शी - वि [ अ  
 ' हवम ' ] १ शौकीन, उत्साही,  
 रमिक । २ शौकिया, कलाप्रेमी ।  
 होस - स्त्री [ अ ' हवस ' ]  
 १. चाह, उमग, शौक । २ हवस,  
 उत्कठा, प्रबल इच्छा, होस ।  
 ह्याचा - सर्व० इनका ।  
 ह्याचा - सर्व० पु इसका ।  
 ह्याना - सर्व० इन्हें, इनको ।  
 ह्याला - सर्व० पु इमे; इसको ।

## ळ

ळ - मराठी वर्णमाला का चौंती-

सवाँ वर्ण । इस अक्षर से प्रारंभ होने

वाला कोई शब्द मराठी में नहीं है ।

## क्ष

क्ष - मराठी वर्णमाला का  
 पैंतीसवाँ वर्ण । इस अक्षर से प्रारंभ

होने वाले शब्द ' क ' अक्षर  
 के अतर्गत (क् + प्) दिये

गये हैं ।

## ज्ञ

ज्ञ - मराठी वर्णमाला का  
 छत्तीसवाँ वर्ण । इस अक्षर से

प्रारंभ होने वाले शब्द ' ज ' अक्षर  
 के अतर्गत (ज् + ञ्) दिये

गये हैं ।



